

PUBLISHER

CHHOTELAL JAIN

Secy., ŚRĪ VĪRA ŚĀSANA SANGHA

29, INDRA BISWAS ROAD

CALCUTTA 37

प्राप्ति-स्थान

(१) वीर सेवा मन्दिर

२१ दरियागंज, देहली

(२) वीर शासन संघ

२९, इन्द्र विश्वास रोड

कलकत्ता ३७.

PRINTED BY

OM PRAKASH KAPOOR

JNANAMANDAL YANTRALAYA BANARAS 4615-11

ŚRĪ VĪRA ŚĀSANA SANGHA SERIES



KASĀYA PĀHUDA SUTTA

BY

GUNADHARĀCHĀRYA

WITH


THE CHŪRNĪ SŪTRA OF YATIVRSABHĀCHĀRYA

TRANSLATED AND EDITED

BY

PANDIT HIRALAL JAIN


Sidhāntasāstri, Nyāyatīrtha



Published by

ŚRĪ VĪRA ŚĀSANA SANGHA

CALCUTTA, 1955



Vikram Samvat 2012—Bhādrapād Vira Nirvāna Samvat 2481

किया है ❁ । जयधवलाकारने लिखा है—

गाथासूत्राणि सूत्राणि चूर्णिसूत्रं तु वार्तिकम् ।

टीका श्रीवीरसेनीया शेषाः पद्धति-पंजिकाः ॥२६॥ (जयधवलाप्रदीप)

अर्थात् कसायपाहुडके गाथासूत्र तो मूलरूप हैं और उनके चूर्णिसूत्र वार्तिकरूप हैं । श्रीवीरसेनाचार्य-रचित जयधवला टीका है । इसके अतिरिक्त गाथासूत्रोंपर विद्वन्नी व्याख्याएँ उपलब्ध हैं, वे या तो पद्धतिरूप हैं या पंजिकारूप हैं ।

स्वयं जयधवलाकार प्रस्तुत ग्रन्थके गाथासूत्रों और चूर्णिसूत्रोंको किस श्रद्धा और भक्तिसे देखते हैं, यह उन्हींके शब्दोंमें देखिए । एक स्थल पर शिष्यके द्वारा यह शंका किये जाने पर ही यह कैसे जाना ? इसके उत्तरमें वीरसेनाचार्य कहते हैं—

“एदम्हादो विउलगिरिमत्थयत्थवड्डुमाणदिवायरदो विगिग्गमिय गोदम-
लोहज्ज-जंचुसामियादि-आइरियपरंपराए आगंतूण गुणधराइरियं पाविय गाहागम्पेण
परिणमिय अज्जमंखु-णागहत्थीहितो जयियमहम्महगियचुएिणमुत्तायारेण परिणद-
दिव्वज्जुणिकिरणादो णव्वदे ।
(जयध० आ० पृ ३१३)

अर्थान् “विपुलाचलके † शिखर पर विराजमान वर्धमान दिवाकरसे प्रगट होकर गौतम-
लोहार्य और जम्बूस्वामी आदिकी आचार्य-परम्परामे आकर और गुणधराचार्यको प्राप्त होकर
गाथास्वरूपसे परिणत हो पुनः आर्यमज्जु और नागहस्तीके द्वारा यतिवृषभको प्राप्त होकर और
उनके मुख-कमलसे चूर्णिसूत्रके आकारसे परिणत दिव्य-यतिरूप किरणसे जानते हैं ।”

पाठक स्वयं अनुभव करेंगे कि जो दिव्यध्वनि भ० महावीरसे प्रगट हुई, वही गौत-
मादिके द्वारा प्रसारित होती हुई गुणधराचार्यको प्राप्त हुई और फिर वह उनके द्वारा गाथान्पमे
परिणत होकर आचार्यपरम्पराद्वारा आर्यमज्जु और नागहस्तीको प्राप्त होकर उनके द्वारा यति-
वृषभको प्राप्त हुई और फिर वही दिव्यध्वनि चूर्णिसूत्रोंके रूपमें प्रगट हुई, इसलिए चूर्णिसूत्रोंमें
निर्दिष्ट प्रत्येक वात दिव्यध्वनिरूप ही है, इसमें किसी प्रकारके मन्देह या गूढ़की कुछ भी
गुंजायश नहीं है । प्रस्तुत कसायपाहुड और उसके चूर्णिसूत्रोंमें जिस ढंगसे यन्तुतत्त्वका निरूपण
किया गया है उसीसे ‘वह सर्वज्ञ-कथित है’ यह सिद्ध होता है ।

जैनोंके अतिरिक्त अन्य भारतीय साहित्यमें चूर्णि नामसे रचे गये किसी साहित्यका
पता नहीं लगता । जैनोंकी दि० श्वे० दोनों परम्पराओंमें चूर्णिनामसे कई रचनाएँ उपलब्ध हैं,
किन्तु दोनों ही परम्पराओंमें अभी तक दिगम्बर आ० यतिवृषभसे प्राचीन किसी अन्य चूर्णि-
कारका पता नहीं लगा है ।

प्रस्तुत कसायपाहुडपर आ० यतिवृषभकी चूर्णि पाठकोंके समक्ष उपस्थित है । इसके
अतिरिक्त कम्मपयडी, सतक और सिचरी नामक कर्म-विषयक तीन अन्य ग्रन्थों पर उपलब्ध
चूर्णियाँ भी आ० यतिवृषभ-रचित हैं, यह इस ग्रन्थकी प्रस्तावनामें सप्रमाण सिद्ध किया गया
है । उक्त चूर्णिवाले चारों ग्रन्थोंका सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—

१. कसायपाहुडचूर्णि—आ० गुणधर-प्रणीत २३३ गाथात्मक कसायपाहुड-ग्रन्थमें

❁ ‘वोच्छामि सुत्तगाहा जयिगाहा जम्मि अत्यम्मि ॥ २ ॥

पन्नेव सुत्तगाहा दसणमोहस्स खवणाए ॥ ५ ॥

एदाओ सुत्तगाहाओ सुण अण्णा भासगाहाओ ॥ १० ॥ कसायपाहुड

† यह विहारप्रान्तके राजगिरिके समीपस्थ पर्वतका नाम है ।

कषायोकी विविध दशात्रोका वर्णन करके उनके दूर करनेका मार्ग बतलाया गया है और यह प्रगट किया गया है कि किस कषायके दूर होनेसे कौन-सा आत्मिक गुण प्रगट होता है। इस पर आ० यतिवृषभने छह हजार श्लोक-प्रमाण चूर्णिसूत्र रचे है।

२. कम्मपयडीचूर्णि—आ० शिवशर्मने कर्मोंके बन्धन, सक्रमण, उद्वर्तना, अपवर्तना, उदीरणा, उपशामना, निधन्ति और निकाचित इन आठ करणोंका तथा कर्मोंके उदय और सत्त्वका ४७५ गाथाओंमें बहुत सुन्दर वर्णन किया है, यह ग्रन्थ कम्मपयडी या कर्मप्रकृति नामसे प्रसिद्ध है। इस पर आ० यतिवृषभने लगभग सात हजार श्लोक-प्रमाण-चूर्णिकी रचना की है।

३. सतकचूर्णि—आठों कर्मोंके भेद-प्रभेद बताकर किस-किस प्रकारके कार्य करनेसे किस-किस जातिके कर्मका बन्ध होता है, इस बातका वर्णन मात्र १०० गाथाओंमें आ० शिवशर्मने किया है, अतएव यह रचना 'सतक' या 'बन्ध-शतक' नामसे प्रसिद्ध है। इसपर दो चूर्णियोंके रचे जानेके उल्लेख ग्रन्थोंमें पाये जाते हैं—लघुशतकचूर्णि और बृहच्छतकचूर्णि। बृहच्छतकचूर्णि अभी तक उपलब्ध नहीं है, अतएव वह किसकी कृति है, इस बारेमें अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। शतककी लघुचूर्णि मुद्रित हो चुकी है और वह तुलना करनेपर आ० यतिवृषभकी कृति सिद्ध होती है। इसका प्रमाण तीन हजार श्लोकके लगभग है।

४. सित्तरीचूर्णि—इसमें आठों मूल कर्मोंके तथा उनके उत्तर भेदोंके बन्धस्थान, उदयस्थान और सत्त्वस्थानोंका स्वतंत्र रूपसे और जीवसमास-गुणस्थानोंके आश्रयसे विवेचन किया गया है और अन्तमें मोहकर्मकी उपशमविधि और क्षणविधि बतलाई गई है। उक्त सर्व वर्णन मात्र ७० गाथाओंमें किये जानेसे यह सित्तरी या सप्ततिका नामसे प्रसिद्ध है। इसके रचयिताका नाम अभी तक अज्ञात है। इसकी जो चूर्णि प्रकाशमें आई है, उसके रचयिताका नाम भी अभी तक अज्ञात ही है। किन्तु छान-बीन करने पर वह भी आ० यतिवृषभकी रचना सिद्ध होती है। सित्तरीचूर्णिका भी प्रमाण लगभग ढाई हजार श्लोकके है।

उक्त चारों चूर्णियां गद्यमें रची गई हैं, और उनकी भाषा प्राकृत ही है। सतक और सित्तरीचूर्णिमें जहाँ कहीं संस्कृतमें भी कुछ वाक्य पाये जाते हैं, पर वे या तो प्रक्षिप्त हैं, या फिर भाषान्तरित। यद्यपि ये चारों ही चूर्णियां अन्य आचार्य-प्रणीत ग्रन्थों पर रची जानेसे व्याख्यारूप हैं, तथापि उनमें यतिवृषभका व्यक्तित्व स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है और मूलके अतिरिक्त कई विषयोंका प्रकरणवशात् स्वतंत्रतापूर्वक विशिष्ट वर्णन किये जानेसे उनकी मौलिक आगमिकताकी छाप भी पाठकके हृदयपर अंकित हुए बिना नहीं रहती। चूर्णिसूत्रोंकी रचना-शैलीसे ही उनकी अति-प्राचीनता प्रमाणित होती है।

श्वेताम्बर भण्डारोंमें ऐसे कई प्राचीन दि० जैन ग्रन्थ सुरक्षित रहे हैं, जो कि अभी तकके अन्वेषित दि० भण्डारोंमें उपलब्ध नहीं हुए। जैसे सिधी ग्रन्थमाला कलकत्तासे प्रकाशित अकलकदेवका सभाष्य प्रमाणसंग्रह, सिद्धिविनिश्चयटीका, इत्यादि।

इस प्रकारके ग्रन्थोंमेंसे अनेक ग्रन्थोंपर श्वे० आचार्योंने टीकाएँ रच करके उन्हें अपनाया और पठन-पाठनके द्वारा सर्व-साधारणमें उनका प्रचार सुलभ रखा, इसके लिए दि० सम्प्रदाय उनका आभारी है। किन्तु दि० भण्डारोंमें उन ग्रन्थोंके न पाये जानेसे कई ग्रन्थोंके मूल रचयिताओंके या तो नाम ही विलुप्त हो गए, या कई ग्रन्थ-प्रणेतारोंके नाम सदिग्ध कोटिमें आगये, और कईयोंके नाम भी नामान्तरित हो गये।

ऐसे विलुप्त कई ग्रन्थकारोंकी कीर्तिको पुनरुज्जीवित करनेके लिए प्रस्तुत ग्रन्थ बढ़ा उपयोगी सिद्ध होगा।

आ० यतिवृषभकी स्वतंत्र कृतिके रूपसे तिलोयपण्णत्ती प्रसिद्ध है। इसमें तीनों लोकोंकी रचना, उसका विस्तार, स्वर्ग नरक, क्षेत्र, नदी, पर्वत और तीर्थकरादि-सम्बन्धी कुछ विशिष्ट बातों आदिका विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है। तिलोयपण्णत्तीके अध्ययन करनेसे पता चलता है, कि उसके रचयिताने अपने समयमें प्राप्त होने वाले तत्तद्विषयक सर्व उपदेशोंका उसमें सग्रह कर दिया है। तिलोयपण्णत्तीकी रचना प्रायः गाथाओंमें की गई है और स्थान-स्थानपर क्षेत्रादिके आयाम, विस्तार आदिको अंकोंमें भी दिखाया गया है। इसका परिमाण आठ हजार श्लोक है। ग्यारहवीं शताब्दीके प्रसिद्ध मैद्वान्तिक आ० नेमिचन्द्रने इसीका सार खींच करके एक हजार गाथाओंमें त्रिलोकसार नामक ग्रन्थ रचा है जो कि अपनी संस्कृत और हिन्दी टीकाओंके साथ प्रगट हो चुका है।

चूर्ण क्या वस्तु है, इस बातपर प्रस्तावनामें बहुत कुछ प्रकाश डाला गया है और यह बतलाया गया है कि श्रमण भ० महावीरके बीजपदरूप उपदेशके विश्लेषणात्मक विवरण की चूर्ण कहते हैं। इसीका दूसरा नाम वृत्ति भी है। यतिवृषभकी कसायपाहुडचूर्ण उक्त सर्व चूर्णियोंमें प्रौढ़ कृति है, वह टीका या व्याख्या रूप न होकर विवरणात्मक है, अतएव वह वृत्तिसूत्र या चूर्णिसूत्र नामसे प्रसिद्ध हुई है। वृत्तिसूत्रको आधार बना करके जो विशेष विवरण किया जाता है, उसे वार्त्तिक कहते हैं। वृत्तिसूत्रके प्रत्येक पदको लेकर जो व्याख्या की जाती है उसे टीका कहते हैं। वृत्तिसूत्रोंके केवल विषय पदोंकी निरुक्ति करके अर्थके व्याख्यान करनेको पञ्जिका कहते हैं। मूलसूत्र और उसकी वृत्ति इन दोनोंके विवरणको पद्धति कहते हैं। आ० इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारसे ज्ञात होता है कि कसायपाहुड पर आ० यतिवृषभ ने छह हजार श्लोक-प्रमाण चूर्णिसूत्र, उच्चारणाचार्यने बारह हजार उच्चारणावृत्ति, शामकुडाचार्यने ४८ हजार श्लोकप्रमाण पद्धति, तुम्बुलराचार्यने चौरासी हजार चूडामणि और आ० वीरसेन जिनसेन ने साठ हजार जयवला टीका रची है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपलब्ध समस्त जैनवाङ्मयमेंसे कसायपाहुडपर हा सबसे अधिक व्याख्याएँ और टीकाएँ रची गई हैं। यदि उक्त समस्त टीकाओंके परिमाणका सामन रखकर मात्र २३३ गाथाओं वाले कसायपाहुडको देखा जाय, तो वह द्वा लाख श्लोक प्रमाणसे भी ऊपर सिद्ध होता है।

प्रस्तुत ग्रन्थ अपनी जयवला नामक विशाल टीका और उसके अनुवादके साथ वर्षोंसे प्रकाशित हो रहा है तथा अभी उसका पूर्ण प्रकाशित होनेमें अनेक वर्ष और लगेंगे। इधर स्वराज्य-प्राप्तिके बाद २-३ वर्षोंसे प्राचीन प्राकृत और अपभ्रंश साहित्यकी दिन पर दिन बढ़ती हुई मागको देखकर कसायपाहुडके पूर्ण चूर्णिसूत्रोंको उनके हिन्दी अनुवादके साथ तुरन्त प्रगट करना उचित समझा गया।

श्री० प० हारालालजी शास्त्री इन सिद्धान्तग्रन्थोंके अनुवाद, सम्पादन, अनुसन्धान और परिशीलन में लगभग २५ वर्षोंसे लगे हुए हैं। उन्होंने कई वर्षोंके कठिन परिश्रमके पश्चात् कसायपाहुडके चूर्णिसूत्रोंका उद्धार करके उनका सकलन और हिन्दी अनुवाद तैयार किया है। कसायपाहुड जिस प्राचीन ग्रन्थपर आ० यतिवृषभके महत्वपूर्ण चूर्णिसूत्रोंको देखकर और उनकी महत्ताका अनुभव कर मन श्रावारशासन-संघ कलकत्तासे इसका प्रकाशन करना उचित समझा, और तदनुसार कसायपाहुड अपने चूर्णिसूत्र और हिन्दी अनुवादके साथ पाठकोंके कर-क्रमलोंमें उपस्थित है। प० हारालालजीने इसके अनुवाद और सम्पादनमें जो श्रम किया है, उसका अनुभव तो पाठक करेंगे, मैं तो यहाँ केवल इतना ही कहूँगा कि उन्होंने प्रूफ-सशोधन-म भा अत्यन्त सावधानी रखी है और यही कारण है कि कहीं पर भी कोई प्रूफ-सशोधन-सम्बन्धी अशुद्ध दृष्टिगोचर नहीं होती है।

आभार प्रदर्शन—

अब (अन्तमें) मैं सबसे पहले मेरी भावनाके अमर-सृष्टा, अनेक ग्रन्थोंके सम्पादक, प्राच्य-विद्या-महार्णव, सुप्रसिद्ध जैन विद्वान्, वीरसेवामन्दिरके संस्थापक, वयोवृद्ध ब्र० जुगल-किशोरजी मुख्तारका आभार मानता हूँ, कि जिन्होंने सर्वप्रथम इन ग्रन्थोंका आरामे ६ मास बैठकर स्वाध्याय किया, एक हजार पेजके नोट्स लिए और तीनों सिद्धान्त ग्रन्थोंमें प्रस्तुत ग्रन्थको सर्वाधिक प्राचीन समझ कर प्रकाशित करनेका विचार कर श्री० प० हीरालालजीसे अपना अभि-प्राय व्यक्त किया, उनसे चूर्णिसूत्रोंका संग्रह कराकर उन्हें मूल ताडपत्रीय प्रतिसे मिलान करनेके लिए मूढविद्वी भेजा और उसका अनुवाद करनेको कहा। उन्होंने ही आजसे कई वर्ष पूर्व इस ग्रन्थको प्रकाशित करनेके लिए मुझे प्रेरित किया था। ग्रन्थके टाइप आदिका निर्णय भी उन्होंने ही किया और प्रस्तावना लिखनेके लिए आवश्यक परामश एव सूचनाएं भी उन्होंने ही दीं। तथा अस्वस्थ दशामें भी मेरे साथ बैठकर प्रस्तावनाको आद्योपान्त सुना और यथास्थान सशोधनार्थ सुझाव प्रस्तुत किये। यही क्या, जैन समाज एवं जैन साहित्य और इतिहासके निर्माणके लिए की गई उनकी सेवाएँ सुवर्णाक्षरोमें लिखी जानेके योग्य हैं। उन्हें मैं किन शब्दोंमें धन्यवाद दूँ? मैं ही क्या, सारा जैनसमाज उनका सदा चिर-ऋणी रहेगा।

ग्रन्थको बनारसमें छपाने, टाइपोंका निर्णय करने और समय-समय पर मुझे और प० हीरालालजीको आवश्यक परामर्श देनेका कार्य काशी विश्वविद्यालयके बौद्धदर्शनाध्यापक श्री० प० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यने किया। भा० व० दि० जैन सघके प्रकाशन विभागके मंत्री श्री० प० कैलाशचन्द्रजी शास्त्रीने चूर्णिसूत्रोंके निर्णयार्थ जयधवलकी संशोधित प्रेसकापी देनेकी उदारता प्रकट की। श्रीगणेशवर्णी जैन ग्रन्थमालाके मन्त्री श्री० प० फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीने सदिग्ध चूर्णिसूत्रोंके निर्णयार्थ समय-समयपर अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया और ग्रन्थ-सम्पादकको यथावश्यक सहयोग प्रदान किया। भारतीय ज्ञानपीठ काशीके व्यवस्थापक श्री० पं० वावूलालजी फागुल्लने बनारसमें पं० हीरालालजीके ठहरनेकी तथा प्रेस और कागज आदिकी व्यवस्था की। उक्त कार्योंके लिए मैं बनारसकी उक्त विद्वच्चतुष्टयीका आभारी हूँ।

डॉ० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय, एम.ए. डी.लिट्, प्रोफेसर राजाराम कालेज कोल्हा-पुरने समय-समय पर आवश्यक सुझाव दिये और मुद्रित फार्मोंको देखकर उन्हें प्रकाशित करनेके लिए मुझे प्रोत्साहित किया, तथा अंग्रेजीमें विषय-परिचय लिखनेकी कृपा की। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ।

श्रीमान् रा० सा० लाला प्रद्युम्नकुमारजी जैन रइस (तीर्थभक्तशिरोमणि स्व० ला० जम्बूप्रसादजीके सुयोग्य सुपुत्र) ने अपने पिताजीके द्वारा मंगाये हुए सिद्धान्तग्रन्थोंकी कनड़ी प्रतिलिपियोंकी नागरी कराई, जिससे कि उत्तरभारतमें इन सिद्धान्त ग्रन्थोंका प्रचार सम्भव हो सका। उन्होंने पंडितजीको समय-समयपर धवल और जयधवलके प्रति-मिलान और अनुवाद करनेके लिए प्रति-प्रदान करनेकी सुविधा देकर अपनी सच्ची जिनवाणीकी भक्ति और उदारता प्रकट की। इस गर्माके मौसममें—जब कि प्रस्तावनाका लिखना पण्डितजीके लिये सम्भव नहीं था, अपने पास मसूरीमें ठहरा कर उनके लिये सभी प्रकारकी आवश्यक सुविधा प्रदान की इस सबके लिए लालाजीको जितना धन्यवाद दिया जाय, थोड़ा है। विद्वत्परिषद्के शंका-समा-धान विभागके मन्त्री श्री० ब्र० रतनचन्द्रजी मुख्तार (सहारनपुर) धर्मशास्त्रके मर्मज्ञ और सिद्धान्त-ग्रन्थोंके विशिष्ट अभ्यासी हैं। प्रस्तुत ग्रन्थके बहुभागका आपने उसके अनुवाद-कालमें ही स्वाध्याय किया है और यथावश्यक सशोधन भी अपने हाथसे प्रेसकापीपर किये हैं। ग्रन्थका

प्रत्येक फार्म मुद्रित होनेके साथ ही आपके पास पहुँचता रहा है और प्रायः पूरा शुद्धिपत्र भी आपने ही बनाकर भेजा है, इसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं।

जब ग्रन्थ प्रेसमें दे दिया गया और ग्रन्थ-सम्पादकको अपने अनुवादके संशोधनार्थ मूल जयधवलके मुद्रित स्फुरणकी आवश्यकता प्रतीत हुई, तब श्री १०८ आ० शान्तिसागर जिनवाणी जीर्णोद्धारक सस्थाके मंत्री श्रीमान् सेठ बालचन्द्र देवचन्द्र शाह वी० ए० बम्बईमें स्वीकृति देकर और श्री० पं० सुमेरुचन्द्रजी दिवाकर सिवनी, सम्पादक-महावन्दन उमकी प्रति प्रदान करके चूर्णिसूत्रोंके निर्णय और अनुवादके संशोधनमें सहायता दी है। इसके लिये हम आपके भी आभारी हैं।


सिद्धान्त-ग्रन्थोंके फोटो लेनेके लिये जब मैं २ वर्ष पूर्व मूडविट्री गया, तब वहाँके धर्मसस्थानके स्वामी श्री १०८ भट्टारक चारुकीर्तिजी महाराजने, तथा सिद्धान्त-वसन्ति-मन्दिरके ट्रस्टी श्री० धर्मस्थल जी हैगडे, श्री० एम० धर्मसाम्राज्यजी मगलोर, श्री० कं० वी० जिनराजजी हैगडे, श्री० डी० पुट्टस्वामी सम्पादक-कनडो पत्र विवेकाभ्युदय मैसूर, श्री० देव-राजजी एम० ए० एल् एल् वी० चकील, श्री० धर्मपालजी सेट्टी मूडविट्री और श्री० पद्मराज सेट्टीने फोटो लेनेकी केवल स्वीकृति ही नहीं प्रदान की, बल्कि सर्व प्रकारकी रहन-सहनकी सुविधा और व्यवस्था भी की ‡। श्री० पं० भुजवलीजी शास्त्री, श्री० एस् चन्द्रराजेन्द्रजी शास्त्री और श्री० पं० नागराज शास्त्रीने पर्याप्त सहयोग प्रदान किया। प्रस्तुत ग्रन्थके मुद्रित होजाने पर जब कुछ सदिग्ध चूर्णिसूत्रोंके निर्णयार्थ जयधवलकी ताडपत्रीय प्रतिसे मिलानकी आवश्यकता अनुभव की गई, तब ग्रन्थके मुद्रित फार्म श्री चन्द्रराजेन्द्रजी शास्त्रीके पास मूडविट्री भेजे गये और उन्होंने बड़ी तत्परता और सावधानीके साथ सभी सदिग्ध स्थलों पर ताडपत्रीय प्रतिके पाठ लिखकर भेजे। साथ ही मूलप्रतिकी सूत्रारम्भके एवं सूत्र-समाप्तिके सूचक विराम चिह्न आदिकी कुछ विशिष्ट सूचनाएं भी भेजीं। शास्त्रीजीकी इस अमूल्य सेवाके लिये हम उन्हें खास तौरसे धन्यावद देते हैं।

अन्तमें इतना और स्पष्ट कर देना मैं आवश्यक समझता हूँ कि श्री वीरशासन-सचके प्रकाशन प्रचारकी दृष्टिसे ही किये जाते हैं और इस कारण न्योछावरमें किञ्चिन्मात्र भी लाभ नहीं रखा जाता है।

श्रावणकृष्णा प्रतिपदा वि० स० २०१२ }
वीरशासनजयन्तीका २५१२ वा वर्ष }

छोटेलाल जैन

मन्त्री—श्रीवीरशासनसच कलकत्ता



‡ तीनों सिद्धान्त ग्रन्थोंकी एकमात्र उपलब्ध प्राचीन ताडपत्रीय प्रतियोंके जीर्णोद्धारके लिये इन्हे नेशनल आरकाइव्ज, नई दिल्लीमें भेजकर उनकी रक्षा करनेके प्रस्तावको स्वीकार कर उनका जीर्णोद्धार पूर्ण रूपसे करानेमें भी आप लोग ही सहायक हुए हैं।

सम्पादकीय वक्तव्य

मेरे स्वप्न साक्षात् हुए—

सन् १९२३ के दिसम्बरकी बात है, जब मैं दि० जैन शिक्षा-मन्दिर जवलपुरमें न्याय-तीर्थ और शास्त्र-परीक्षा पास करके जैन सिद्धान्तके उच्च ग्रन्थोंके अध्ययनके साथ बोर्डिंगके अंग्रेजी विभागके छात्रोंको धर्मशास्त्रके अध्यापनका भी कार्य कर रहा था, तब एक दिन रात्रिके अन्तिम प्रहरमें स्वप्न देखा कि मैं श्रीधवल-जयधवल सिद्धान्त ग्रन्थोंका स्वाध्याय कर रहा हूँ। इतनेमें ही छात्रावासके नियमानुसार ४ बजे सोकर उठनेकी घंटी बजी। मैं चौक कर उठा, हाथ मुँह धोकर प्रार्थनामें सम्मिलित हुआ और उसके समाप्त होने पर जैसे ही वापिस कमरेमें पैर रखे कि एक छात्रने कहा 'शास्त्री जी, आज कमरा झाड़नेकी आपकी बारी है।' मैंने बुहारी उठाई और एक ओरसे कमरा झाड़ना प्रारम्भ किया। अन्तमें जब मैं अपने पलंगके नीचे झाड़ रहा था, तो एक मोटा छोटासा दाँहरा हस्तलिखित शास्त्र-पत्र दिखाई दिया ❀। मैंने उसे उठाकर प्रकाशमें पढ़ा तो यह देखकर मेरे आनन्दका पारावार न रहा कि उसमें एक ओर काली स्याहीसे मोटे अक्षरोंमें श्रीधवलकी और दूसरी ओर श्री जयधवलकी मंगल-गाथाएं लिखी हुई हैं। मैंने उन्हें अपने मस्तकपर रख अपनेको धन्य समझा और सन्दूकमें सुरक्षित रखकर सोचने लगा—यह कैसा स्वप्न है कि देखनेके साथ ही वह साक्षात् सफल हो रहा है।

इसके पश्चात् सन् २४के अक्टूबरकी बात है, जब मैं बनारसके स्याद्वादमहाविद्यालयमें धर्मोपध्यापक था और विद्यालयमें ही सोया करता था; एक दिन फिर रात्रिके अन्तिम याममें स्वप्न देखा कि मैं पुनः धवल-जयधवलका स्वाध्याय कर रहा हूँ। इतनेमें ही विद्यालयके छात्रोंके सोकर उठनेकी घंटी बजी, मेरी भी नींद खुली, और मैं तत्काल देखे हुए स्वप्न पर विचार करने लगा। सन्दूकमेंसे मंगलगाथाओंवाले उस पत्रको उठाया, मस्तक पर रखा और एक वार उनका भक्ति और श्रद्धापूर्वक पाठकर प्राभातिक कार्योंमें लग गया। दिनको सहारनपुरसे विद्यालयके मंत्री वा० सुमतिप्रसादजी—जो कि उन दिनों वहीं सर्विसमें थे—का तार विद्यालयके सुपरिन्टेन्डेन्टके नामसे आया, 'प० हीरालालजी को यहाँके वार्षिक उत्सवमें शास्त्र-प्रवचनके लिये भेजो।' मैं बनारससे रवाना होकर यथासमय सहारनपुर पहुँचा। मुझे वहाँके सुप्रसिद्ध तीर्थभक्तशिरोमणि, धर्मवीर (स्व०) लाला जम्बूप्रसाद जी जैन रईसकी कोठी पर ठहराया गया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब मैं स्नानादिसे निवृत्त हो कर उनके निजी मन्दिरमें दर्शनार्थ गया, तब क्या देखता हूँ कि एक दक्षिणी सज्जन प्राकृत भाषामें कोई ग्रन्थ बाँचकर सुना रहे हैं और दूसरा एक लेखक तीव्र गतिसे उन्हें लिखता जा रहा है। मैं पासमें बैठ गया और ध्यानसे सुनने लगा कि क्या विषय चल रहा है? 'ये कौनसे ग्रन्थ है, इस प्रश्नके उत्तरमें मुझे बतलाया गया कि मूडविद्वी के भण्डारसे सिद्धान्तग्रन्थों की प्रतिलिपि यहाँ आई है और अब उनकी नागरी प्रतिलिपि की जा रही है। मुझे अभी ३ दिन पूर्व बनारसमें देखे हुए स्वप्नकी बात याद आई और मैंने इन सिद्धान्त ग्रन्थोंके साक्षात् दर्शन करके अपनेको भाग्यशाली माना, तथा जितने दिन वहाँ रहा—प्रतिदिन प्रातःकाल २ घंटे उनका स्वाध्याय करता रहा। अन्तिम दिन जब वहाँसे वापिस आने लगा तो मन्दिरमें जाकर सिद्धान्तग्रन्थोंकी वन्दना की और मनमें प्रतिज्ञा की कि जीवनमें एक वार इन ग्रन्थोंका अवश्य स्वाध्याय करूँगा।

❀ वे दोनों पत्र अब विलकुल जीर्ण-शीर्ण हो गये हैं, फिर भी वे आज मेरे पास सुरक्षित हैं।

सन् ३२ की बात है, जब मैं भा० व० दि० जैन महासभाके महाविद्यालय व्यावरमें धर्माव्यापक था, स्वप्नमें देखा, कोई कह रहा है--'तेरे निवासस्थानके पास ही किसी दूसरे नगर में सिद्धान्त ग्रन्थ हैं, जा, और उनका स्वाध्याय करके जीवन सफल कर'। जागनेपर मैंने व्यावर और अपने देशके समीपस्थ सभी ग्राम-नगरोंपर दृष्टि दौड़ाई कि क्या किसी स्थानके शान्त्र-भण्डारमें उक्त सिद्धान्त ग्रन्थोंका होना संभव है? कहीं कुछ पता न चला और अपने पाम सुरजित रखे उन मंगल-पद्योंका पाठ करके अपनी नोटबुकके प्रारम्भ में एक संकल्प लिखा कि जीवन में यदि अवसर मिला-तो मैं इन सिद्धान्तग्रन्थोंका केवल स्वाध्याय ही नहीं करूँगा-बल्कि उनका हिन्दीमें अनुवाद भी करूँगा।

उन दिनों उज्जैनके प्रसिद्ध उद्योगपति रा० व० जैनरत्न सेठ लालचन्द्रजी सेठीसे पत्र-व्यवहार चल रहा था, अन्तमें मैं सन् ३३ के प्रारम्भमें उनके पास उज्जैन पहुँचा। कुछ ही दिनोंके पश्चात् वे भालरापाटन गये, साथमें मुझे भी ले गये। उन दिनों वहाके ऐलक पन्नालाल दि० जैन सरस्वती भवनमें श्री धवलमिद्वान्त-ग्रन्थोंकी प्रतिलिपि श्रीमान् पं० पन्नालालजी सोनीकी देख-रेखमें हो रही थी। लगभग ४ मास वहां ठहरा और प्रतिदिन ४ घंटे उन सिद्धान्त ग्रन्थोंमेंसे धवल-मिद्वान्तका स्वाध्याय कर उनके मूलसूत्रोंका संकलन करता रहा, जो कि आज भी मेरे पाम सुरजित हैं। भालरापाटनमें रहते और सिद्धान्त-ग्रन्थोंका स्वाध्याय करते हुए मैं इस निष्कर्षपर पहुँचा कि पहले धवल-सिद्धान्तका स्वाध्याय करना चाहिए--क्योंकि उसके बिना जय-धवलको समझना असंभव है। भालरापाटनमें रहते हुए मैंने पटखंडागम (धवलसिद्धान्त)के प्रथम खंड जीवस्थानका स्वाध्यायकर उसके पूरे सूत्रोंका संकलन कर लिया। उज्जैन वापिस आनेपर मैंने अनुभव किया कि तत्त्वार्थसूत्रकी पूज्यपाद-विरचित सर्वार्थसिद्धिके प्रथम अध्यायके आठवें सूत्र पर जो विस्तृत टीका है, वह प्रायः जीवस्थानके सूत्रोंका सस्कृत रूपान्तर ज्ञात होता है। और तभी मैंने दोनोंका तुलनात्मक अध्ययनकर एक लेख लिखा, जो कि सन् ३८ के जैनसिद्धान्तभास्करके भाग ४ किरण ४में प्रकाशित हुआ है। उज्जैनमें रहते हुए अनेकों वार मेरा भालरापाटन जाना हुआ और मैंने वहा महीनों रह करके उक्त सिद्धान्तग्रन्थोंका स्वाध्याय किया। साथ ही श्रीधवलसिद्धान्तका अनुवाद भी मैंने प्रारम्भ कर दिया।

उसी बीच मुझेनेमें आया कि भेलना-निवासी श्रीमन्त सेठ लक्ष्मीचन्द्रजी जैन-साहित्यके उत्तार और प्रकाशनार्थ १० हजारका दान दिया है। सन् ३४ के अन्तमें प्रा० हीरालालजी द्वारा सम्पादित जयधवलका एक फार्मवाला नमूना भी देखनेको मिला और उसपर अनेकों विद्वानों-द्वारा की गई समालोचनाएँ और टीका-टिप्पणियाँ भी समाचार-पत्रोंमें देखने और पढ़नेको मिलीं। सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ प० जुगलकिशोरजी मुख्तार सरसावा, प्रसिद्ध दार्शनिक प्रज्ञाचञ्चु प० सुगलालजी मधनी और प्रा० आ० ने० उपाध्याय कोल्हापुर आदिने जयधवलके उस एक फार्मके अनुवाद और सम्पादनमें शब्द और अर्थगत अनेकों अशुद्धियोंका बतला करके यह प्रष्ट किया था कि इन सिद्धान्त-ग्रन्थोंका सम्पादन और अनुवाद प्रा० हीरालालजीके वशका नहीं है।

उसी समय प्रा० हीरालालजीके साथ मेरा पत्र-व्यवहार प्रारम्भ हुआ और यह निश्चय हुआ कि मैं उज्जैनमें रहते हुए ही धवलमिद्वान्तका अनुवाद करता रहूँ और जब एक भागका अनुवाद समाप्त हो जाय, तब उसे प्रेषमें दे दिया जाय। मेरे पास प्रा० हीरालालजीने अमरावती में प्रकाशी प्रतियोंके प्रारम्भके १००-१०० पत्र भी भिजवा दिये। भालरापाटनकी प्रा० की मुझे पढ़ने से ही मुनम थी, तीनोंका मिलान करते हुए मुझे अनुभव हुआ कि सभी पत्रोंका अनुवाद है और उनमें स्थान-स्थान पर लक्ष्य-लक्ष्य पाठ दृष्टे हुए हैं--खासकर अमरा-

वतीकी प्रति तो बहुत ही अशुद्ध निकली, क्योंकि वह सीताराम शास्त्रीके हाथकी लिखी हुई नहीं थी। तीनों प्रतिथोंमें केवल आरावाली प्रति ही उनके हाथकी लिखी हुई थी। इस बातसे मैंने प्रो० हीरालालजीको भी अवगत कराया। वे अनुवाद और मूलकी प्रेसकापीको भेजनेके लिए आग्रह कर रहे थे, उनकी इच्छा थी कि ग्रन्थ जल्दी-से-जल्दी प्रेसमें दे दिया जाय। पर मैंने उन्हें स्पष्ट लिख दिया कि जब तक सहारनपुरकी प्रतिसे मिलान नहीं हो जाता, तब तक मैं ग्रन्थको प्रेसमें नहीं देना चाहता। लेकिन सहारनपुरकी प्रतिसे मिलान करना भी आसान काम नहीं था, क्योंकि ऐसा सुना जाता था कि सहारनपुर वाले छापेके प्रबल विरोधी हैं, फिर दिग्-म्बरोंके परम मान्य आद्य सिद्धान्त-ग्रन्थोंको छपानेके लिए प्रति-मिलानकी सुविधा या आज्ञा कैसे प्रदान करेंगे? चूंकि मैं सन् २४ में सहारनपुर जा चुका था और स्व० लाला जम्बूप्रसादजीके सुयोग्य पुत्र रा० सा० ला० प्रद्युम्नकुमारजीसे परिचय भी प्राप्त कर चुका था, अतएव मैंने यही उचित समझा कि सहारनपुर जाकर लालाजीसे मिलकर और उनकी आज्ञा लेकर वहांकी प्रतिसे अपनी (अमरावतीवाली) प्रतिका मिलान कर रिक्त पाठोंको पूरा और अशुद्ध पाठोंको शुद्ध किया जाय। तदनुसार सन् ३७ की गर्मियोंमें सहारनपुर गया। वहां पहुँचनेपर ज्ञात हुआ कि लालाजी तो मसूरी गये हुए हैं। मैं उनके पास मसूरी पहुँचा, सारी स्थिति उन्हें सुनाई और मिलानके लिए प्रति देनेकी आज्ञा मांगी। उन्होंने कहा—यद्यपि हमारा घराना और हमारे यहांकी समाज छापेकी विरोधी है, क्योंकि ग्रन्थके छपने आदिमें समुचित विनय नहीं होती, सरेसके बेलनोंसे ग्रन्थ छपते हैं, आदि। तथापि जब उक्त सिद्धान्त-ग्रन्थ छपने ही जा रहे हैं, तो उनका अशुद्ध छपना तो और भी अनिष्ट-कारक होगा, ऐसा विचार कर और 'जिनवाणी शुद्धरूपमें प्रकट हो' इस श्रुत-वात्सल्यसे प्रेरित होकर प्रति-मिलानकी सहर्ष अनुमति दे दी। मैंने सहारनपुर जाकर वहाँकी प्रतिसे अमरावतीकी प्रतिका मिलान-कार्य प्रारम्भ कर दिया। पर गर्मीके दिन तो थे ही, और सहारनपुरकी गर्मी तो प्रसिद्ध ही है, वहाँ १५ दिन तक मिलान-कार्य करनेपर भी बहुत कम कार्य हो सका। मैं मसूरीके ठंडे मौसमकी बहार हालमें ही ले चुका था, अतः सोचा, क्यों न लालाजीसे सिद्धान्त-ग्रन्थकी प्रति मसूरी लानेकी आज्ञा प्राप्त करूँ? और दुवारा मसूरी जाकर अपनी भावना व्यक्त की। लालाजीने कुछ शर्तोंके साथ * मसूरीमें ग्रन्थराजको लाने, प्रति-मिलान करने और अपने पास ठहरनेकी स्वीकृति दे दी और मैं सहारनपुरसे धवल-सिद्धान्तकी प्रति लेकर मसूरी पहुँचा। गर्मी भर लालाजीके पास रहा और श्री जिनमन्दिरमें बैठकर प्रति-मिलानका कार्य करता रहा †। जब धवलसिद्धान्तके प्रथम खंड जीवस्थानका मिलान पूरा हो गया, तो मसूरीसे लौटते हुए सरसावा जाकर श्रद्धेय पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारसे मिला, सर्व वृत्तान्त सुनाया और अब तकके किये हुए अनुवाद और प्रतिमिलानके कार्यका भी दिखाया। वे सर्व कार्य देखकर बहुत प्रसन्न हुए, कुछ सशोधन सुझाए और जरूरी सूचनाएं दीं। मैंने उन सबको स्वीकार किया और वापिस उज्जैन आगया।

उज्जैन आकर सशोधित पाठोंके अनुसार अनुवादको प्रारम्भसे देखा, यथास्थान सशोधन किये, टिप्पणियां दीं और इस सबकी सूचना प्रो० हीरालालजीको दे दी।

प्रो० हीरालालजी मुझे उज्जैनकी नौकरी छोड़कर अमरावती आनेका आग्रह करने

* ग्रन्थराज लकड़ीकी पेट्टीमें रखकर लावें, जूते पहने न लाये जावें और शूद्र कुलीके ऊपर बोझ उठवा कर न लाये जायें। तदनुसार मैं राजपुरसे कुलीके ऊपर अपना सामान रखाकर और ग्रन्थराजकी प्रति अपने मस्तकपर रख करके पैदल ही पगडंडीके रास्तेसे मसूरी पहुँचा था।

† सहारनपुरकी प्रतिसे मिलान करके जो पाठ लिये थे, उनमेंसे एक पृष्ठका चित्र धवलाके प्रथम भागमें मुद्रित है, जिसमें कि मेरे हस्ताक्षर स्पष्ट दिखाई देते हैं।

लगे। पर मेरी भीतरी इच्छा यही थी कि उज्जैनमें रहते हुए ही सिद्धान्त-ग्रन्थोंके अनुवादका कार्य करता रहूँ। अतः लगभग एक वर्ष इगो दुविधामें निकल गया। सन् ३८ के अन्तमें श्री० नाथूरामजी प्रेमीका पत्र मिला, जिसमें उन्होंने लिखा था—‘आप दो घोड़ोंकी सवारी करना चाहते हैं, पर यह सम्भव नहीं। या तो आप उज्जैनकी नौकरी छोड़कर अमरावती चले जाइए, या फिर जो कुछ भी अनुवादादि आपने किया हो उसे प्रो० हीरालालजीको भेजकर अपना पारिश्रमिक ले लीजिए और इस कामको छोड़ दीजिए। जहां तक मैं जानता हूँ आप उज्जैनकी नौकरी छोड़ नहीं सकेंगे, इत्यादि। पत्र बहुत लम्बा था और नौकरी छोड़नेकी बात मेरे लिए चुनौती थी। मैंने कई दिन तक ऊहापोहके बाद उज्जैन छोड़नेका निश्चय किया।

आखिर मैं सन् ३८ के दिसम्बरमें उज्जैनकी नौकरी छोड़कर अमरावती पहुँच गया। प्रो० सा०के परामर्शके अनुसार १ जनवरी सन् ३९से वहाँ आफिस व्यवस्था करली गई। आफिस-व्यवस्थाके कुछ दिन बाद ही श्री० प० फूलचन्द्रजी शास्त्री भी बुला लिये गये थे और हम दोनों मिलकर कार्य करने लगे। इसी वर्षके अन्तमें धवलाका प्रथम भाग प्रकाशित हुआ। जब इनर टाइटिल पेज प्रेस में दिया गया और उसके ऊपर अपना अनुवादके रूपमें नाम न देना, तो मैंने उसका विरोध किया और आगे काम न करने के लिये त्यागपत्र भी प्रस्तुत कर दिया। मुझे इस बातसे बहुत बकला लगा कि प्रो० सा० हमारा नाम अनुवादके रूपमें क्यों नहीं दे रहे हैं, जब कि अनुवाद हमारा किया हुआ है और जिसे कि मैं अमरावती पहुँचनेके ३ वर्ष पूर्वसे करता आ रहा हूँ। (पीछे इस बातको उन्होंने धवलाके प्रथम भागके प्राक्कथनमें स्वयं स्वीकार किया है।) धवलाके प्रथम भागका प्रकाशन-समारम्भ श्री० प्रेमीजीके द्वारा अमरावतीमें ही सम्पन्न हुआ था। समारोह में स्व० श्रीमान् पं० देवकीनन्दनजी वाराणसी और मेरे श्वसुर स्व० दयाचन्द्रजी वजाज रहली (सागर) भी पधारे थे। प्रेमीजी के साथ उन सब लोगोंने मुझपर भारी दबाव डाला, अपने नामके मोह छोड़नेकी बात कही, पर जब मैं किसी प्रकारसे भी त्यागपत्र वापिस लेनेको तैयार नहीं हुआ तब अन्त में सह-सम्पादकके रूपमें हम लोगोका नाम दे दिया गया। यद्यपि मैंने त्यागपत्र वापिस ले लिया, तथापि मेरे चित्तको बड़ी चोट लगी कि केंसी विलक्षण बात है, काम हम करें और नाम दूसरोंका हो। जब बहुत प्रयत्न करने पर भी चित्त शान्त नहीं हुआ, तब मैंने यह स्थिर किया कि जयधवलाका अनुवाद मैं स्वतन्त्रता-पूर्वक करूँगा। इसके लिये पहले उसके मूलकी प्रेमकापी तैयार करनेका सकल्प किया और सन् ३९ के दिसम्बरसे ही अपने घर पर जयधवलाकी प्रेसकापी करना प्रारम्भ कर दिया। मन ही मन स्थिर किया कि जिस दिन भी जयधवलाकी प्रेसकापी तैयार हो जायगी उसी दिन धवला-आफिससे सम्बन्ध-विच्छेद कर लूँगा। दो वर्षके भीतर धवलाके तीन भाग प्रकाशित हुए और इधर ठीक दो वर्षके कठिन परिश्रमके बाद ६० हजार श्लोकोंके प्रमाणवाली जयधवलाकी प्रेसकापी भी मैंने तैयार कर ली, जिसके कि फुलस्केप पृष्ठोंकी संख्या साढ़े सात हजारसे ऊपर थी। इसी समय एक दैवी घटना घटी, श्री० प० फूलचन्द्रजीके पुत्रकी संस्त वीमारीका तार घरसे आया और वे देश चले गये। दुर्भाग्यवश उनके पुत्रका देहान्त हो गया और उन्होंने अमरावती न आनेका निश्चय प्रो० सा० को लिख भेजा। जिस दिन मैं त्यागपत्र लेकर प्रो० सा० को देनेके लिये उनके पास पहुँचा, तो उन्होंने उक्त समाचार सुनाया और पूछा कि क्या अबले आप आगेके अनुवादादिका कार्य संभाल लेंगे? मैं बड़ी दुविधामें पड़ा कि यह क्या हो रहा है? जिस दिन मैं धवला-आफिससे सम्बन्ध-विच्छेद करना चाहता था, उस दिन प० फूलचन्द्रजीने सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया। अन्तमें मैंने अपना त्यागपत्र अपनी जेबमें ही रहने दिया और धवला-आफिसमें यथापूर्व कार्य करता रहा।

इसी बीच सन ४० में मैं सहारनपुर जैनयुवक समाजकी ओरसे पर्युपण पर्वमें शास्त्र-प्रवचनके लिए आमंत्रित किया गया। वहाँसे श्रीमुख्तार सा० से मिलनेके लिये सरसावा भी गया और उस वर्ष घटित हुई घटनाओंको सुनाया। जयधवलके प्रेसकापी कर लेनेकी बात सुनकर श्री० मुख्तार सा०ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि यदि आप जयधवलामेंसे कसायपाहुड मूल और उसकी चूर्णिका उद्धार करके और अनुवाद करके हमें दे सकें, तो हम वीर सेवा-मन्दिरकी ओरसे उसे प्रकाशित कर देंगे। मैंने उनको इसकी स्वीकृति दे दी। अनुवाद, टिप्पणी आदिके विषयमें विचार-विनियम भी हुआ और एक रूप-रेखा लिखकर मुझे दे दी गई कि इस रूपमें कार्य होना चाहिए। मैं उस रूप-रेखा को लेकर वापिस अमरावती आगया। दिनमें धवला-आफिस जाकर धवलाके अनुवाद और सम्पादनका कार्य करता और रातमें घर पर कसायपाहुडके चूर्णिसूत्रोंका संकलन करता। चूर्णिसूत्रोंके संकलन करते हुए यह अनुभव हुआ कि उनका ६० हजार प्रमाणवाली विशाल जयधवला टीकामेंसे छोटकर निकालना सागरमें गोता लगाकर मोती बटोरने जैसा कठिन कार्य है। यद्यपि सन् ४१ के भाद्रपद शुक्ला १३ को मैंने चूर्णिसूत्रोंका संकलन पूरा कर लिया, तथापि सैकड़ों स्थान सदिग्ध रहे कि वे चूर्णिसूत्र हैं, या कि नहीं? मैंने इसकी सूचना श्री० मुख्तार सा० को दी, उन्होंने मुझे सरसावा बुलाया। मैंने वहाँ जाकर चूर्णिसूत्रोंकी कापी दिखाई और साथमें सदिग्ध स्थल। अन्तमें यह तय हुआ कि मूडविद्री जाकर ताड़पत्रीय प्रतिसे चूर्णिसूत्रोंका मिलान कर लिया जाय और वहाँ जाने-आनेके व्ययका भार वीरसेवा-मन्दिर वहन करे। सन् ४२ की फरवरीमें मैं अमरावतीसे मूडविद्री गया और वहाँ १५ दिन ठहरकर स्व० श्री० पं० लोकरनाथजी शास्त्री और नागराजजी शास्त्रीके साथ बैठकर ताड़पत्रीय प्रतिसे चूर्णिसूत्रोंका मिलान करके वापिस आगया और घरपर धवलाके प्रूफ-रीडिंग आदिसे जो समय बचता, उसमें चूर्णिसूत्रोंका अनुवाद करने लगा। जब कुछ अंशका अनुवाद तैयार हो गया, तो मैंने उसे श्री मुख्तार सा० के पास भेज दिया। साथ ही उनके द्वारा बतलाये गये टाइपोंमें एक नमूना-पत्र भी मुद्रित कराया और उसे देखने के लिये उनके पास भेज दिया। जब ग्रन्थको प्रेसमें देनेकी बात श्री० मुख्तार सा० ने पत्रमें लिखी, तो मैंने उनसे यह पूछना उचित समझा कि ग्रन्थके ऊपर मेरा नाम किस रूपमें रहेगा। उनका उत्तर आया कि ग्रन्थके ऊपर तो 'सम्पादक' के रूपमें मेरा नाम रहेगा। हा, भीतर अनुवादादि जो कार्य आप करेंगे उस रूपमें आपका नाम रहेगा। मुझे तो इस 'सम्पादक' नामसे पहलेसे ही चिढ़ थी, कि आखिर यह क्या बला है? तब मैंने 'सम्पादक और प्रकाशक' शीर्षक एक छोटा सा लेख लिख करके अनेकान्तमें प्रकाशनार्थ श्री मुख्तार सा० को भेजा। उन्होंने न तो उसे अनेकान्तमें प्रकाशित ही किया, न मुझे कोई उत्तर दिया। प्रत्युत प्रो० हीरालालजी को एक वन्द पत्र लिखकर उस लेखकी सूचना उन्हें दी और लिखा कि ऐसा ज्ञात होता है कि आपका और उनका कोई मत-भेद सम्पादकके नामको लेकर हो गया है। और न जाने क्या-क्या लिखा? भाग्यकी बात है कि जिस समय यह पत्र आया उस समय मैं और प्रो० सा० आमने-सामने बैठे हुए प्रति-मिलान कर रहे थे। श्री मुख्तार सा०के अक्षर पहिचान करके उन्होंने उसे तत्काल खोलकर पढ़ना प्रारम्भ किया और ज्यों ज्यों वे उसे पढ़ते गये, उनके बदनमें हुए भावोंकी छाया मुखपर अंकित होती गई। मैं यह सब पूरे ध्यान से देख रहा था। पत्र पढ़ चुकने पर उन्होंने पूछा — क्या आपने कोई लेख इस प्रकारका पत्रोंमें प्रकाशनार्थ भेजा है? मैंने सब बातें यथार्थ रूपमें कहीं। सुनकर बोले आप उस लेखको वापिस मंगा लीजिये। मैंने कह दिया, यह तो संभव नहीं है। मेरा उत्तर सुनकर वे कुछ अप्रतिभसे होकर बोले-तब ऐसी अवस्थामें यहाँ कार्य करना संभव नहीं! बात बढ़ चली और मेरा धवला

आफिस से सम्बन्ध-विच्छेद हो गया। कुछ दिनोंके बाद ता० १८-५-४२ का लिखा एक लम्बे पत्र श्री० मुख्तार सा० का आया, जिसमें सम्पादक-पक्षमें बहुत सी दलीलें देकर यह दिखानेका यत्न किया गया था, कि मुझे सम्पादक न माननेका क्या कारण है? × × × मालूम होता है कि आप किसी लोभ-मोहादिके प्रलोभनमें फंस गये हैं, अतः यह बखेड़ा उठाया है, आदि। अन्तमें आपने लिखा था 'कि मूडविट्टी जाने आनेमें आपने सस्थाकी एक ... रकम खर्च कराई और अब यह अडगा लगा रहे हैं, आदि। मैंने सम्पादक-सम्बन्धी बातोंके बारे में तो यह लिख दिया कि पहले आप मेरे उस लेखको अनेकान्तमें प्रकाशित कीजिये पीछे जो भी आप उसपर सम्पादकीय टिप्पणीमें लिखना चाहे-लिखिए। साथ ही यह भी लिख दिया कि यदि आप उस लेखको प्रकाशित नहीं करना चाहते हैं, तो मुझे तुरन्त वैरग वापिस कर देवे, जिससे कि मैं अन्य पत्रोंमें प्रकाशित करा सकूँ? और जब तक मुझे मेरे लेखका समुचित समाधान नहीं मिल जाता, तब तक मैं आपको या किसीको सम्पादक माननेके लिये तैयार नहीं हूँ। भले ही मेरा यह ग्रन्थ अप्रकाशित पड़ा रहे? रह गई मूडविट्टी जाने-आनेमें खर्च हुए रुपयों की बात, सो ग्रन्थका जितना अंश आपके पास पहुँच चुका है उसकी उतने रुपयोंकी वी० पी० करके अपना रुपया मेरे से वमूल कर लीजिये और मेरी प्रेसकापी मुझे वापिस कर दीजिए। अन्तमें ८०) रुपये उन्हें भंज दिये गये और मैंने अपनी प्रेसकापी अपने पास वापिस मंगा ली।

इसी बीच मथुरा संघसे जयधवलाके प्रकाशनकी योजना बनी और मैंने जयधवलाकी पूरी प्रेसकापी उन्हें दे दी। इस प्रकार मेरा धवला और जयधवलासे तो सम्बन्ध-विच्छेद हुआ ही, श्रीमुख्तार सा०से भी कसायपाहुडके प्रकाशन-सम्बन्धी सब बातें समाप्त हो गईं और मैं अमरावती छोड़ कर वापिस उज्जैन आ गया। अप्रासंगिक होते हुए भी यहाँ इतना लिखना अनुचित न होगा कि अमरावतीमें ही रहकर सिद्धान्त-ग्रंथोंके अनुवाददि करनेके विचारसे मैंने अमरावतीमें एक मकान भी खरीद लिया था और अपने पठन-पाठनकी सुविधाके अनुकूल बनवा भी लिया था। मगर जब सिद्धान्त-ग्रंथोंके अनुवाद और सम्पादनादिसे एक प्रकारसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद-सा हो गया, तो दिलको बड़ी चोट लगी और उज्जैन आनेके एक वर्ष बाद अमरावती जाकर वहाका मकान भी बेच आया। इस प्रकार मध्यलोकके मध्यभारतकी मध्यभूमि उज्जैनसे मैं सकुडुम्ब सदेह अमरावती (स्वर्ग) भी पहुँच गया, और पूरे ५ वर्ष वहा रह कर अन्तमें अपने सर्व कुडुम्बके साथ पुनः सदेह ही वापिस मध्यलोकमें आगया।

उक्त घटनाओंका मन पर जो असर हुआ, वह प्रयत्न करने पर भी लम्बे समय तक दूर नहीं हो सका और सन् ४४ में पुनः उज्जैन आनेके बादसे ही बराबर इस अवसरकी प्रतीक्षा करता रहा कि चित्त कुछ शान्त हो और मैं मूल पट्खण्डागम और कसायपाहुडके चूर्णिसूत्रोंका अनुवाद पूरा कर सकूँ। चूर्णिसूत्रोंके ऊपर जयधवलाके आधारसे मैंने विस्तृत टिप्पणियाँ ले रखी थीं, अतएव जब कभी समय मिलता और चित्त शान्त होता, मैं अनुवाद करता रहा। पर इस दिशामें कुछ प्रगतिशील कार्य नहीं हो सका। अबकी बार उज्जैन आने पर नौकरी करनेमें चित्त नहीं लगा और हर समय ऐसा प्रतीत हो कि यहा रहकर तू अपने जीवनके इन कीमती क्षणोंको व्यर्थ खो रहा है? फलस्वरूप मैंने सन् ४६ के अन्तमें उज्जैनकी नौकरी छोड़ दी।

भा० व० दि० जैन संघके उस समयके प्रधानमंत्री पं० राजेन्द्रकुमारजीको जैसे ही मेरे उज्जैनकी नौकरी छोड़नेकी बात ज्ञात हुई उन्होंने मेरे द्वारा तैयार किये हुए चूर्णिसूत्रादिको प्रकाशित करनेका वचन देकर मुझे मथुरा बुला लिया और सरस्वती-भवनकी व्यवस्था मुझे सौंप दी। वहा रहते हुए मैंने छहदाला, द्रव्यसंग्रह और रत्नकरणदश्रावकाचारके स्वाध्यायोपयोगी नये

भाष्य लिखे, जिनमें आदिके दोनो ग्रन्थ सघसे मुद्रित हो चुके हैं। संघमें रहते हुए अचानक ललितपुरसे तार-द्वारा एक संकटकी सूचना मिली और मैं अवकाश लेकर घर चला आया।

इस संकटमें पूरे तीन वर्ष व्यतीत हुए और हजारों रुपये बर्बाद। दुकानका सारा कारोवार ठप्प होगया और हम सब भाई पुनः नौकरी करनेके लिए विवश हुए। इस प्रकार सन् ४३ से ४६ तकके ६ वर्षके भीतर वरु भूमटोंके कारण इन सिद्धान्त-ग्रन्थोंका मैं कुछ भी कार्य न कर सका। इस समय मैं नौकरीकी चिन्तामें था, कि सहारनपुरसे मेरे चिरपरिचित और अति-स्नेही ला० जिनेश्वरदासजीका पत्र पहुंचा कि आप यहां चले आइए और गुरुकुलके आचार्यका भार संभालिए। पत्र पाते ही मैं सन् ४६ की जुलाईमें सहारनपुर आगया। पहले दिन तो गुरुकुलका चार्ज संभाला और दूसरे दिन श्रीमान् ला० प्रद्युम्नकुमारजीके मन्दिरमे जाकर सिद्धान्त ग्रन्थोंको संभाला और वेदक अधिकारसे चूर्णिसूत्रोंका अनुवाद करना प्रारम्भ कर दिया। वर्षोंकी प्रतीक्षाके बाद यहां रहते हुए प्रतिदिन प्रातः काल ७। से ६।। बजे तक लालाजीकी कोठीके एक बड़े एकान्त शान्त कमरेमे बैठकर मैं अनुवादका कार्य करता रहा। जब गुरुकुल वहांसे हस्तिनापुर पहुंचा, तो सहारनपुरकी प्रतिको वहां भी लेगया और अनुवादका कार्य बराबर जारी रखा। इसी बीच गुरुकुलमें रहते हुए खातौली जाना हुआ और ला० त्रिलोकचन्द्रकी आदिकी कृपासे वहाके मन्दिर-जीकी धवल-जयधवलकी पूरी दोनो प्रतिया लेता आया। सन् ५० के अप्रैलके अन्तमे गुरुकुल छोड़ दिया और सस्ती ग्रन्थमालामें जुल्लक चिदानन्दजी महाराजने मुझे दिल्ली बुला लिया। यहांपर धर्मपुरा पंचायती मन्दिरकी जयधवल-प्रति भी मुझे सुलभ हो गई और कसायपाहुडके अनुवादका काम जारी रहा। यहाँ आनेपर दिल्लीकी गर्मीको सहन न कर सका और चकरौता चला गया—जोकि शिमला और मसूरीके समकक्ष ही ठंडा स्थान है। वहां रहकर काफी बड़े अंशका अनुवाद किया। घटनाचक्रसे विभिन्न नौकरियोंको करते हुए मैंने ३ वर्ष दिल्लीमे व्यतीत किये और दोनों सिद्धान्त-ग्रन्थोंके मूल सूत्रोंका अनुवाद अवकाशके अनुसार करता रहा। अन्तमे सन् ५१के सितम्बरमें षट्खण्डागमके मूलसूत्रोंका सङ्कलन और अनुवाद पूरा किया और सन् ५३ के मार्चमे कसायपाहुडके अनुवादको भी पूरा कर लिया।

जब मैं धवल और जयधवल दोनोसे ही तथा सचूर्ण कसायपाहुडके प्रकाशनसे हाथ धो बैठा, तो मैंने महाधवल (महाबन्ध) को हाथमे लेनेका विचार किया। सन् ४२ मे जब चूर्णिसूत्रोंके मिलानके लिए मूडविद्री गया था, तब महाबन्धके भी एक वार आद्योपान्त पत्रे उलट आया था और चारो अधिकारोंके अनुयोगद्वार-सम्बन्धी कुछ नोट्स भी ले आया था, तभीसे यह भावना हृदयमें धर कर गई थी। पर तब तक महाबन्धकी प्रति मूडविद्रीसे बाहिर कहीं नहीं आई थी। समय आनेपर पं० सुमेरुचन्द्रजी दिवाकर सिवनीके प्रयत्नसे महाबन्धकी प्रतिलिपि भी बाहिर आई और उन्होंने अपने साथियोंके साथ उसका अनुवाद भी प्रारम्भ किया। मुझे भी दिखाकर परामर्श लिया गया और कुछ दिनों बाद महाबन्धका एक भाग भारतीय ज्ञानपीठ काशीसे प्रकाशित भी होगया। सम्पादकके नामको लेकर वहां भी विवाद उठा था और उनके दोनों साथियोंका सम्बन्ध टूट गया था। अतः जब आगेके अनुवादादिकी बात चली और मुझसे उसमें सहयोग देनेके लिए कहा गया, तो मैंने उसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि सम्पादनके नामको लेकर ही मेरा धवला और कसायपाहुडसे सम्बन्ध-विच्छेद हुआ और उसीके निमित्तसे दिवाकरजीके दोनो साथी अलग हुए थे। कुछ कारणोंसे जब महाबन्धके आगेके भागोंका प्रकाशन रुक गया और जब मैं श्री १०५ जु० पूर्णसागरजीके पास दिल्लीमें काम कर रहा था, तब ज्ञानपीठ काशीके मन्त्री श्री गोयलीयजी अपने किसी कामसे दिल्ली आये। मेरी उनसे भेंट हुई और उन्होंने महाबन्धके आगेके भागोंका सम्पादन करनेके लिए कहा। मैंने उनसे कहा कि जो

प्रति बाहिर आई है, प्रथम तो उसका मिलना ही कठिन है और यदि मिल भी जाय, तो उमक ऊपर पूर्ण शुद्ध होनेका विश्वास नहीं किया जा सकता है। अतएव उसका ताड़पत्रीय प्रतिसे मिलान करानेकी सुविधा यदि आप देवे, या मेरे मूडविद्वी जाकर मिलान करनेका भार ज्ञानपीठ वहन करे, तो मैं आपके प्रस्तावको स्वीकार कर सकता हूँ। उन्होंने मूडविद्वी जाने-आनेके भारको उठानेसे इनकार करते हुए कहा कि आप उस भारको स्वयं वहन कीजिए और सम्पादन-पारिश्रमिकमें जोड़कर उसे वमूल कर लीजिए। अन्तमें पारिश्रमिकका एक अनुमानिक विवरण लिखकर उन्हें दे दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं कमेटीसे विचार-विनिमय करके लिखूंगा। करीब ६ मासके पश्चात् गोयलीयजीका पत्र आया कि यदि आप स्वयम्भू कविके अपभ्रंश-रामायणके अनुवादका कार्य कर सके, तो ज्ञानपीठ वह काम आपसे करानेके लिए तैयार है। मैंने उनके इस पत्रका उत्तर दिया कि लगभग एक वर्षसे जिस महाबन्धका सम्पादन मुझसे करानेकी चर्चा चल रही थी, उसका तो आपने कोई उत्तर नहीं दिया, फिर यह नया प्रस्ताव कैसा। उत्तर आया कि आपके पारिश्रमिककी मांग कुछ अधिक थी, अतः उसका सम्पादन तो ५० फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीको सौंप दिया गया है। चूँकि आप घर पर इस समय अवकाश-में है, इसलिए उक्त प्रस्ताव आपके सामने रखा गया है, आप इसे स्वीकार कर उसके एक अशका अनुवाद डा० हीरालालजीके पास स्वीकृतिके लिए नागपुर भेज दीजिये। मैंने उनके इस पत्रका कोई उत्तर नहीं दिया और अपने अतीत जीवनपर विहंगावलोकन करने लगा—कि कहाँ-तो एक वार मेरे स्वप्न साक्षात् हो रहे थे, और कहां अब हाथमें आए हुए ये सिद्धान्तग्रन्थ क्रम-क्रमसे मेरे हाथसे निकलते जा रहे हैं ?

इस बीच सन् ५२ के भादोमें अकस्मान् मेरे पच्चीस वर्षीय विवाहित ज्येष्ठ पुत्रका देहान्त हो गया। यह मेरे लिए वज्रप्रहार था, इससे मैं इतना अधिक आहत हुआ कि पूरे दो वर्ष तक घरसे बाहिर नहीं जा सका और अपने चित्तको सम्भालनेके लिए कुछ ग्रन्थोंका अनुवाद-दावे करता रहा। जिसके फल-स्वरूप वसुनन्दिश्रावकाचर और जिनसहस्रनाम ये दो ग्रन्थ तैयार किये, जो बादमें ज्ञानपीठ काशीसे प्रकाशित हुए।

पटखडागममूलसूत्रों और कसायपाहुडचूर्णिसूत्रोंके आद्योपान्त अनुवाद मेरे पास तैयार थे ही, अतः जनवरी सन् १९५४ में जिनसहस्रनामके प्रकाशित होते ही उक्त दोनों ग्रन्थोंको भी प्रकाशित करनेके लिए गोयलीयजीसे कहा। उन्होंने उत्तर दिया—हमारे यहाकी व्यवस्था आपका ज्ञात है। आप नागपुर चले जाइए और प्राकृत विभागके प्रधान सम्पादक डा० हीरालालजीसे स्वीकृति ले आइए, हम तुरन्त ही दोनों ग्रन्थोंको ज्ञानपीठसे प्रकाशित कर देंगे। मैं फरवरी सन् ५४ में उक्त दोनों ग्रन्थोंको भारतीयज्ञानपीठ काशीसे प्रकाशनार्थ स्वीकृति लेनेके लिए डॉ० हीरालालजीके पास नागपुर गया और उनके यहा ही तीन दिन ठहरा। अनुवाद और मूलकी प्रेसकापी आदि सब कुछ उन्हें दिखाया और भारतीय ज्ञानपीठ काशीसे प्रकाशनार्थ स्वीकृति देनेके लिए निवेदन किया। पर डॉ० हीरालालजीने यह कहकर स्वीकृति देनेसे इनकार कर दिया कि यदि ये दोनों मूलग्रन्थ छप जावेगे, तो धवला-जयधवलाका प्रकाशन रुक जावेगा क्योंकि फिर इन टीकाग्रन्थोंको कौन खरीदेगा? मुझे उनकी यह दलील समझमें नहीं आई कि मूलग्रन्थके प्रकाशमें आनेसे टीकाओंका प्रकाशन क्यों रुक जावेगा? अन्तमें हताश होकर देश लौट आया। हा, चलते समय डा० सा० ने यह अवश्य कहा, कि यदि धवलाके पूरे भाग प्रकाशित होने तक आप रुके रहेंगे, तो आपके पटखडागमके मूल और अनुवादको हम प्रकाशित कर देंगे।

गतवर्ष मार्च सन् ५४ में मैं वीरसेवामन्दिरमें बुला लिया गया और उसके नूतन भवनके शिलान्यासके अवसरपर श्रीमान् वा० छोटेलालजी जैन कलकत्तासे दिल्ली पवारे और वीरसेवामन्दिरमें ही ठहरे। करीब एक मास साथमें रात-दिन उठना-बैठना हुआ और मैंने उनकी

प्राचीन जैन वाङ्मयके प्रकाशनमें अभिरुचि देखी । अवसर पाकर एक दिन मैंने उन्हें उक्त दोनों ग्रन्थोंकी प्रेसकापियां दिखाकर ऊपर लिखा सर्व वृत्तान्त सुनाया और कहा कि भारतीय-ज्ञानपीठके आप भी टूटती हैं क्या बैठकके समय डा० हीरालालजी और डा० उपाध्यायसे आप पूछनेकी कृपा करेंगे कि वे लोग इनके प्रकाशनकी क्यों स्वीकृति नहीं देते ? उन्होंने सर्व वाते ध्यानसे सुनकर पूछा कि इन दोनों ग्रन्थोंके प्रकाशनमें क्या व्यय होगा और मैंने एक आनुमानिक व्ययका हिसाब लिखकर उन्हें दे दिया । कुछ दिन बाद श्रीमान् वा० छोटेलालजीका कलकत्ता पहुँचनेपर पत्र मिला कि साहू श्रीशान्तिप्रसादजी तो इस समय रसिया गये हैं, वहाँसे दिवाली तक लौटेंगे । यदि आप चाहे, तो अन्य संस्थासे प्रकाशनकी योजना की जा सकती है । मैंने उत्तरमें स्वीकृति दे दी । पशुपणपर्वमें श्रीमुख्तार सा० ने मुझे कलकत्ता भेजा और कहा कि उक्त ग्रन्थोंकी प्रेसकापी साथमें ले जाइए, तथा जहाँ वावूजी उचित समझे, पहले कसायपाहुडको छपनेके लिए देदीजिए ।

मैं यथासमय दशलाक्षणी पर्वपर कलकत्ता पहुँचा और श्री वर्णाजीकी जयन्तीपर वावूजीके ही साथ ईसरी भी आया । इसी समय दिल्लीसे श्री० मुख्तारसा० भी ईसरी पधारे । दोनों महाशयोने प्रेस आदिके वावत श्री० पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यसे परामर्श किया और बनारसमें ग्रन्थ छपनेका निश्चय कर मुझे बनारस जानेकी व्यवस्था कर दी । आसोज वदी ६ ता० २१ सितम्बर सन् ५४ को मैं बनारस पहुँच गया और ज्ञानमण्डल चन्द्रालयसे वात-चीत पकी करके ग्रन्थ प्रेसमें दे दिया । लगभग ८ मासमें ग्रन्थ छपकर तैयार हो गया । पर प्रस्तावना तो लिखना तो शेष था । इसी बीच विवाहित पुत्रीकी सृत्युके समाचार पाकर मैं देश चला गया ।

देशमें ठीक श्रुतपंचमीके दिन वावूजीका पत्र मिला, कि हमारी इच्छा तो इसी श्रुत-पंचमीपर ही ग्रन्थको प्रकाशित करनेकी थी, मगर वह पूरी न हो सकी । अब वीरशासन जयन्ती (श्रावणकृष्णा ?) के दिन तो इसे प्रकाशित कर ही देना चाहिए । आपने प्रस्तावना लिखना प्रारम्भ कर दिया होगा । उसके लिए पूज्य मुख्तार सा० से परामर्श करना आवश्यक है, इत्यादि । मैं पत्र पाते ही उसी दिन घरसे दिल्ली चला आया और वावूजीके साथ बैठकर पू० मुख्तार सा० से प्रस्तावनाके मुद्दोंपर विचार-विनिमय किया, तथा प्रस्तावना-सम्बन्धी अपने सब नोट्स उन्हें दिखाए । अन्तमें एक रूप-रेखा तैयार की गई और मैंने प्रस्तावना लिखना प्रारम्भ कर दिया । पर गर्मीकी अधिकतासे प्रयत्न करनेपर भी दिन भरमें एक पेज लिखना कठिन हो गया । प्रस्तावनाको जल्दीसे प्रेसमें देना जरूरी था । अतः मैं मसूरी चला गया और श्रीमान् रा० सा० लाला प्रद्युम्नकुमारजी रईस सहारनपुरवालोंके पास जाकर ठहर गया ।

मैं अपनी आध्यात्मिक शान्तिके लिए जीवनमें जिस एकान्त, शान्त वातावरणकी कल्पना किया करता हूँ, वह मुझे मसूरीमें रा० सा० ला० प्रद्युम्नकुमारजीके पास आकर मिला । उन्होंने मेरे अनुकूल सर्व व्यवस्था कर दी और मैं भी २-१ अपवादोंको छोड़कर अखण्ड मौन लेकर प्रस्तावना लिखनेमें लग गया और प्रस्तावनाका बहुभाग लिखकर वापिस दिल्ली आगया । श्री मुख्तार सा० के साथ वा० छोटेलालजी और प० परमानन्दजी शास्त्रीने प्रस्तावनाको सुना, आवश्यक सुझाव दिये और तदनुसार यह प्रस्तावना विज्ञ पाठकोंके सम्मुख उपस्थित है ।

कसायपाहुड जैसे महान् ग्रन्थके ऊपर प्रस्तावना लिखनेके लिए और समस्त जैन वाङ्मयके भीतर उपलब्ध कर्म-साहित्यके साथ उसकी तुलना करनेके लिए कम-से-कम एक वर्षका समय अपेक्षित था, लेकिन वीर-शासन-सघके मंत्रीजीकी इच्छा इसे जल्दीसे जल्दी स्वाध्याय-प्रेमी जिज्ञासु पाठकोंके सम्मुख उपस्थित करनेकी थी, अतएव इस अल्प समयमें मेरेसे जो कुछ भी बन सका, वह पाठकोंके सम्मुख उपस्थित है ।

सम्पादनके विषयमें दो एक बातें कहना आवश्यक है । श्री० मुख्तार सा० के परामर्शानुसार प्रायः समग्र चूर्णिसूत्रोंके विशेष अर्थकी बोधक टिप्पणियां प्रारम्भसे अन्त तक तैयार की

गई थीं। किन्तु सन् ४२ में इसका प्रकाशन रुक गया और अब तक जब कि यह ग्रन्थ प्रेसमें दिया गया, जयधवल्लाके सानुवाद दो भाग प्रगट हो चुके थे और तीसरा-चौथा भाग प्रेसमें था, अतएव यह उचित समझा गया कि प्रारम्भकी टिप्पणियाँ न दी जावे। तदनुसार संक्रम-अधिकारमें टिप्पणियाँ देना प्रारम्भ किया गया। परन्तु जब ग्रन्थका कलेवर बढ़ता हुआ दिखा, तब वा० छोटेलालजीके लिखनेसे आगे टिप्पणियाँ देना बन्द कर दिया गया।

कसायपाहुडके अनुवादका प्रारम्भ सन् ४१ में किया और उसकी समाप्ति सन् ५३ में हुई। इस १२ वर्षके लम्बे समयमें मुझे अनेक विकट परिस्थितियोंसे गुजरना पड़ा, शारीरिक, मानसिक आधि-व्याधियोंके अतिरिक्त कौटुम्बिक विडम्बनाओं, आर्थिक सकटों एव इष्ट-वियोग और अनिष्ट सयोगोंका भी सामना करना पड़ा, अतएव अनुवादमें आदिसे अत तक एक रूपताको मैं कायम न रख सका। प्रतियोंके सर्वत्र सुलभ न रहने और मानसिक शान्तिके दुर्लभ रहनेसे अनुवादको प्रारम्भसे अन्ततक दुवारा संशोधन भी न कर सका। जब ग्रन्थ प्रेसमें दे दिया गया, तब स्थितिबिभक्तिवाले अंशकी जयधवल्लाकी प्रति प्रयत्न करने पर भी कहींसे नहीं मिल सकी। इसलिए इस स्थलका सम्पादन विलकुल अंधेरेमें हुआ। यही कारण है कि इस अंशमें अशुद्धियाँ कुछ अधिक रह गईं और एक सूत्र भी मुद्रित होनेसे रह गया, जिसकी ओर मेरा ध्यान मेरे सहाध्यायी ज्येष्ठवन्धु श्रीमान् पं० फूलचन्दजी सिद्धान्तशास्त्रीने खींचा। संक्रम प्रकरणके प्रायः सभी विशेषार्थ उन्हींके सहयोगसे लिखे गये। तथा इससे आगेके समस्त चूर्णिसूत्रोंके निर्णयमें उनका भरपूर सहयोग रहा, इसके लिए मैं उनका अत्यधिक आभारी हूँ।

श्रेष्ठेय, वयोवृद्ध, त्र० श्रीमान् पं० जुगलकिशोरजी मुख्तार सा० का मैं आदिसे अन्त तक आभारी हूँ। उन्होंने ही मुझे इस कार्यके लिए प्रेरित किया और उनके ही सौजन्यसे यह ग्रन्थ निर्विघ्नतासे प्रकाशित हो सका है।

श्रीमान् वा० छोटेलालजी सा० फलकत्ताका आभार मैं किन शब्दोंमें व्यक्त करूँ ? जिन्होंने कि इस ग्रन्थके प्रेसमें दिये जानेके पश्चात् प्रकाशित न करनेके लिए उठाये गये विरोधके वावजूद भी प्रकाशन बन्द नहीं किया। यह उनकी दृढ़ता और दूरदर्शिताका ही फल है कि ग्रन्थ अपने वर्तमानरूपमें पाठकोंके सामने उपस्थित है। जन्म-जात श्रीमान् होते हुए भी आप श्रीमत्ताके अहंकारसे कोशों दूर हैं। स्वभावके अत्यन्त सरल, निरभिमानी और विचारक है। दि० मन्मथायके पुरातन साहित्यके प्रकाशमें लानेकी आपकी प्रबल अभिलाषा है। आप वीरसेवामन्दिर के अध्यक्ष और वीरशासन सचके मन्त्री हैं। वरू कारोवारको छोड़कर आप आजकल उक्त दोनों संस्थाओंके ही अभ्युत्थानके लिए स्वास्थ्यकी भी चिन्ता न करके अहर्निश संलग्न हैं। आपके द्वारा पं० मुख्तार सा० के सहयोगसे जैन-साहित्यके अनेक अलभ्य और अनुपम ग्रन्थोंके प्रकाशमें आनेकी बहुत कुछ आशा है। आप दोनों स्वस्थ रहते हुए दीर्घायु हों, ऐसी मङ्गल कामना है।

परिशिष्टान्त मूलग्रन्थ बनारसके ज्ञानमण्डल यन्त्रालयसे मुद्रित हुआ और प्रकाशकीय वक्तव्यसे लेकर शुद्धिपत्र तकका अंश सन्मतिप्रेस किनारी बाजार, दिल्लीमें छपा। मुद्रणकालमें दोनों ही प्रेमके सचालक और व्यवस्थापक महोदयोंका बहुत ही सौजन्यपूर्ण व्यवहार रहा है— अतएव मैं आप लोगोंका आभारी हूँ।

ग्रन्थ अगाध और दुर्गम है, इसलिए पर्याप्त सावधानी रखनेपर भी जहां कहीं जो कुछ मूल या अर्थमें भूल रह गई हो, उसे विशेष ज्ञानी जन संशोधन करके पढ़ें, क्योंकि 'जे न विमुपनि शान्त्रनमुद्रे' की उक्तिके अनुसार चूक होना बहुत सम्भव है।

दि० नादपर मुक्ता २ म० २०१२ }
१८-६-४४ }

जिनवाणी-सुधारस-पिपासु—

हीरालाल

प्रस्तावना

ग्रन्थकी पूर्व पीठिका और ग्रन्थ-नाम

प्रस्तुत ग्रन्थका सीधा सम्बन्ध अन्तिम तीर्थकर भगवान् महावीरसे उपदिष्ट और उनके प्रधान शिष्य गौतम गणधर-द्वारा ग्रथित द्वादशाङ्ग श्रुतसे है। द्वादशाङ्ग श्रुतका वारहवा अंग दृष्टिवाद है। इसके पांच भेद हैं—१ परिकर्म, २ सूत्र, ३ प्रथमानुयोग, ४ पूर्वगत और ५ चूलिका। इनमेंसे पूर्वगत श्रुत के भी चौदह भेद हैं—१ उत्पादपूर्व, २ अप्राचणीय, ३ वीर्यप्रवाद, ४ अस्ति-नास्तिप्रवाद, ५ ज्ञानप्रवाद, ६ सत्यप्रवाद, ७ आत्मप्रवाद, ८ कर्मप्रवाद, ९ प्रत्याख्यानप्रवाद १० विद्यानुवाद, ११ कल्याणप्रवाद, १२ प्राणावाय, १३ क्रियाविशाल और १४ लोकविन्दुसार। ये चौदह पूर्व इतने विस्तृत और महत्वपूर्ण थे कि इनके द्वारा पूरे दृष्टिवाद अंगका उल्लेख किया जाता था, तथा ग्यारह अंग और चौदह पूर्वसे समस्त द्वादशाङ्ग श्रुतका ग्रहण किया जाता था।

प्रस्तुत ग्रन्थकी उत्पत्ति पाचवे ज्ञानप्रवादपूर्वकी दशवीं वस्तुके तीसरे पेञ्जदोसपाहुडसे हुई है। पेञ्ज नाम प्रेयस् या रागका है और दोस नाम द्वेषका। यतः क्रोधादि चारों कषायों और हास्यादि नव नो कषायोंका विभाजन राग और द्वेषके रूपमें किया गया है, अतः प्रस्तुत ग्रन्थका मूल नाम पेञ्जदोसपाहुड है और उत्तर नाम कसायपाहुड है। चूर्णिकारने इन दोनो नामोका उल्लेख और उनकी सार्थकताका निर्देश पेञ्जदोसविहत्ती नामक प्रथम अधिकारके इक्कीसवे और वार्दिसवे सूत्रमें स्वयं ही किया है।

कषायोकी विभिन्न अवस्थाओके वर्णन करने वाले पदोंसे युक्त होनेके कारण प्रस्तुत ग्रन्थका नाम कसायपाहुड रखा गया है, जिसका कि संस्कृत रूपान्तर कषायप्राभृत होता है।

ग्रन्थका संक्षिप्त परिचय और महत्व

प्रस्तुत ग्रन्थमें क्रोधादि कषायोकी राग-द्वेष रूप परिणतिका उनके प्रकृति, स्थिति, अनु-भाग और प्रदेश-गत वैशिष्ट्यका, कषायोके बन्ध और संक्रमणका, उदय और उदीरणाका वर्णन करके उनके उपयोगका, पर्यायवाची नामोका, काल और भावकी अपेक्षा उनके चार-चार प्रकारके स्थानोंका निरूपण किया गया है। तदनन्तर किस कषायके अभावसे सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति होती है, किस कषायके क्षयोपशमादिसे देशसंयम और सकलसंयमकी प्राप्ति होती है, यह बतला करके कषायोकी उपशमना और क्षपणाका विधान किया गया है। यदि एक ही वाक्यमें कहना चाहे तो इसी बातको इस प्रकार कह सकते हैं कि इस ग्रन्थमें कषायोकी विविध जातियां बतला करके उनके दूर करनेका मार्ग बतलाया गया है।

कसायपाहुडकी रचना गाथासूत्रोमें की गई है। ये गाथासूत्र अत्यन्त ही संक्षिप्त और गूढ़ अर्थको लिये हुए है। अनेक गाथाएँ तो केवल प्रश्नात्मक हैं जिनके द्वारा वर्णनीय विषयके

† जीवादि द्रव्योके उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक त्रिपदी स्वरूप पूर्ववर्ती या सर्व प्रथम होने वाले उपदेशोको पूर्वगत कहते हैं और आचारादिसे सम्बन्ध रखने वाले तथा दूसरोके द्वारा पूछे गये प्रश्नोके समाधानात्मक उपदेशोको अंग कहते हैं। यतः तीर्थकरोका उपदेश गणधरोके द्वारा सुनकर आचारांग आदि १२ अंगोके रूपमें निबद्ध किया जाता है, अतः उसे द्वादशांग श्रुत कहते हैं।

बारेमें प्रश्न मात्र ही किया गया है। कुछ गाथाएँ ऐसी भी हैं कि जिनमें प्रतिपाद्य विषयकी सूचना भी की गई है। कुछ प्रश्नात्मक गाथासूत्र ऐसे भी हैं कि जिनको दुरूह समझकर ग्रन्थकारने स्वयं ही उनका उत्तर भाष्य-गाथाएँ रच करके दिया है। यदि इन भाष्य-गाथाओंकी रचना ग्रन्थकारने स्वयं न की होती, तो आज उनके प्रतिपाद्य अर्थका जानना कठिन ही नहीं, असम्भव होता। यही कारण है कि जयधवलाकारने इन गाथाओंको 'अनन्त अर्थसे गर्भित' कहा है †। गाथाओंका महत्व इससे ही सिद्ध है कि गणधर-ग्रथित जिस पेञ्जदोसपाहुडमें सोलह हजार मध्यम पद थे अर्थात् जिनके अक्षरोंका परिमाण दो कोडाकोडी, इकठ लाख सत्तावन हजार दो सौ दानवे करोड, बासठ लाख, आठ हजार था, इतने महान् विस्तृत ग्रन्थ का मार या निचोड़ मात्र २३३ गाथाओंमें खींच करके निबद्ध कर दिया है। इससे प्रस्तुत ग्रन्थके महत्वका और ग्रन्थकारके अनुपम पाण्डित्यका अनुमान पाठक स्वयं लगा सकेंगे।

कसायपाहुड की अन्य ग्रन्थोंसे तुलना

जिस प्रकार ज्ञानपवादपूर्व-गत विस्तृत पेञ्जदोसपाहुडका उपसंहार करके सत्तिप्र रूपसे गाथाओंके द्वारा कसायपाहुडकी रचना की गई, उसी प्रकार उस समय दिन पर दिन लुप्त होते हुए श्रुतके विभिन्न अङ्ग और पूर्वोंका उपसंहार करके भिन्न भिन्न रूप से अनेक प्रकरणोंकी गाथा-बद्ध रचना तत्तद्विषयके पारगामी आचार्योंने की है। शतकप्रकरणका उपसंहार करते हुए उसके रचयिता लिखते हैं—

एसो बंधसमासो विंदुक्खेवेण वन्निओ कोइ ।

कम्मप्पवायसुयसागरस्स णिस्संदमेत्ताओ ॥ १०४ ॥

अर्थात् यह प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशबन्ध-विषयक कुछ थोड़ा सा कथन अनेक कर्मप्रवादरूप श्रुतसागरके विन्दु-ग्रहणरूपसे निष्यन्दमात्र-अत्यन्त सत्तिप्ररूपमें किया है।

इस उद्धरणसे स्पष्ट है कि शतकप्रकरणका उद्गमस्थान कर्मप्रवाद नामका आठवां पूर्व है और यह प्रकरण उसीका सत्तिप्र संस्करण है।

कर्मोंके बन्ध, उदय और सत्त्वसम्बन्धी स्थानोंके भगोंका प्रतिपादन करने वाला एक सित्तरी नामक सत्तर गाथात्मक प्रकरण है। उसका प्रारम्भ करते हुए ग्रन्थकार लिखते हैं—

सिद्धपएहि महत्थं बंधोदयसंतपगइठाणाणं ।

वोच्छं सुण संखेवं नीसंदं दिट्ठिवायस्स ॥ १ ॥

अर्थात्—कर्मोंके बन्ध, उदय और सत्त्वप्रकृतियोंके स्थानोंका मैं सिद्धपदों के द्वारा संक्षेपरूपसे कथन करता हूँ, सो हे शिष्य तुम सुनो। यह कथन संक्षेपरूप होते हुए भी महार्थक है और दृष्टिवाद अगका निष्यन्दरूप है, अर्थात् निचोड़ है।

इस गाथाके चतुर्थ चरणकी व्याख्या करते हुए चूर्णिकार कहते हैं—

'निस्संदं दिट्ठिवायस्स' चि परिकम्म १ सुत्त २ पढमाणुओग ३ पुव्वगय ४ चूलियामय ५ पंचविहमूलभेयस्स दिट्ठिवायस्स, तत्थ चोदसएहं पुव्वणां वीयाओ

अग्नेयीयपुन्वाओ, तस्स वि पंचमवत्थूउ, तस्स वि वीसपाहुडपरिमाणस्स कम्मपग-
डिणामधेज्जं चउत्थं पाहुडं, तओ नीणियं, चउवीसाणुओगदारमइयमहरणवस्सेव
एगो विंदू । (सित्तरी चुण्णी पृ० २)

अर्थात् वारहवे दृष्टिवाद अगके दूसरे अत्रायणीय पूर्वकी पंचमवस्तुके अन्तर्गत जो चौथा कर्मप्रकृतिप्राभृत है, और जिसमें कि चौबीस अनुयोगद्वार हैं, उनका यह प्रकरण एक विन्दुमात्र है ।

इसी प्रकार दिन पर दिन विलुप्त या विच्छिन्न होते हुए महाकम्मपयडिपाहुडका आश्रय लेकर छक्खंडागम और कम्मपयडीकी रचना की गई है । इन दोनोंमें अन्तर यह है कि कम्मपयडीकी रचना गाथाओंमें हुई है, जबकि छक्खंडागमकी रचना गद्यसूत्रोंमें हुई है । कम्मपयडीके चूर्णिकार ग्रन्थके प्रारम्भमें लिखते है—

दुस्समावलेण खीयमाणमेहाउसद्धासंवेग-उज्जमारंभं अज्जकालियं साहुजणं
अणुण्णेतुक्कामेण विच्छिन्नकम्मपयडिमहागंथत्थसंवोहणत्थं आरद्धं आयरिएणं तग्गुण-
णामगं कम्मपयडीसंगहणी णाम पगरणं । (कम्मपयडी पत्र १)

अर्थात् इस दु.पमा कालके बलसे दिन पर दिन क्षीण हो रही है बुद्धि, आयु, श्रद्धादिक जिनको ऐसे ऐदयुगीन साधुजनोंके अनुग्रहकी इच्छासे विच्छिन्न होते हुए कम्मपयडिनामक महाग्रन्थके अर्थ-संवोधनार्थ प्रस्तुत ग्रन्थके रचयिता आचार्यने यथार्थ गुणवाला यह कम्मपयडी संग्रहणी नामक प्रकरण रचा है ।

पट्खंडागमकी रचनाका कारण बतलाते हुए धवलाटीकामें लिखा है कि—

× × × महाकम्मपयडिपाहुडस्स वोच्छेदो होहदि त्ति समुप्पण्णवुद्धिणा पुणो
दव्वपमाणाणुगममादिं काउण गंथरचणा कदा । (धवला पु० १ पृ० ७१)

इस प्रकार हम देखते हैं कि दिन पर दिन होते हुए श्रुतविच्छेदको देखकर ही श्रुतरक्षाकी दृष्टिसे उक्त ग्रन्थोंकी रचना की गई है ।

पट्खंडागम, कम्मपयडी, सतक और सित्तरी, इन चारों ग्रन्थोंकी रचनाके साथ जब हम कसायपाहुडकी रचनाका मिलान करते हैं, तो इसमें हमें अनेक विशेषतएँ दृष्टिगोचर होती हैं—

पहली विशेषता यह है कि जब पट्खंडागम आदि ग्रन्थोंके प्रणेताओंको उक्त ग्रन्थोंकी उत्पत्तिके आधारभूत महाकम्मपयडिपाहुडका आंशिक ही ज्ञान प्राप्त था, तब कसायपाहुडकारको पांचवें पूर्वकी दशवीं वस्तुके तीसरे पेजजदोसपाहुडका परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त था ।

दूसरी विशेषता यह है कि कसायपाहुडकी रचना अति संक्षिप्त होते हुए भी एक सुसम्बद्ध क्रमको लिए है और ग्रन्थके प्रारम्भमें ही ग्रन्थ-गत अधिकारोके निर्देशके साथ प्रत्येक अधिकार-गत गाथाओंका भी उल्लेख किया गया है । पर यह बात हमें पट्खंडागमादि किसी भी अन्य ग्रन्थमें दृष्टिगोचर नहीं होती है ।

ग्रन्थके प्रारम्भमें मंगलाचरणका और अन्तमें उपसंहारात्मक वाक्योंका अभाव भी कसायपाहुडकी एक विशेषता है । जबकि कम्मपयडी, सतक और सित्तरीकार आचार्य अपने अपने ग्रन्थोंके आदिमें मंगलाचरण कर अन्तमें यह स्पष्ट उल्लेख करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं

कि सेरे द्वारा प्रयत्नपूर्वक सावधानी रखने पर भी जो कुछ भूल रह गई हो, उसे दृष्टिवादके ज्ञाता आचार्य शुद्ध करे † ।

कसायपाहुडका पट्खंडागमसे पूर्ववर्तित्व

आ० धरसेनसे महाकम्मपयडिपाहुडका ज्ञान प्राप्त करके पुष्पदन्त और भूतवल्लिने जो ग्रन्थ-रचना की, वह पट्खंडागम नामसे प्रसिद्ध है। यह रचना किसी एक पूर्व या उसके किसी एक पाहुड पर अवलम्बित न होकर उसके विभिन्न अनुयोगद्वारोंके आधार पर रची गई है, इसलिए वह खंड-आगम कहलाती है। पर कसायपाहुडकी रचना ज्ञानप्रवादपूर्वके पेज-दोसपाहुडकी उपसंहारात्मक होने पर भी मौलिक, अखंड, अविकल एवं सर्वाङ्ग है। ऐसा प्रतीत होता है कि कसायपाहुडकी गाथा-निबद्ध यह रचना आगमाभ्यासियोंको कण्ठस्थ करनेके लिए की गई थी। इस रचनामें कितनी ही गाथाएँ बीजपद-स्वरूप हैं, जिनके कि अर्थका व्याख्यान वाचकाचार्य, व्याख्यानाचार्य या उच्चारणाचार्य करते थे ‡। यही कारण है कि कसायपाहुडकी रचना होनेके बाद कितनी ही पीढ़ियों तक उसका पठन-पाठन मौखिक ही चलता रहा और उसके लिपिवद्ध या पुस्तकारूढ होनेका अवसर ही नहीं आया। इस बातकी पुष्टि जय-धवलाकारके निम्न-लिखित वाक्योंसे भी होती है—

“पुणो ताओ चैव सुत्तगाहाओ आइरियपरंपराए आगच्छमाणीओ अज्जमंसु-
णागहत्थीणं पत्ताओ । पुणो तेसिं दोएहं पि पादमूले असीदिसदगाहाण गुणहरसुह-
कमलविणिग्गयाणमत्थं सम्मं सोऊण जयिवसहभडारएण पवयणवच्छलेण चुण्णिणसुत्तं
कयं ।” (जयध० भा० १ पृ० ८८)

अर्थात् गुणधराचार्यके द्वारा १८० गाथाओंमें कसायपाहुडका उपसंहार कर दिये जाने पर वे ही सूत्र-गाथाएँ आचार्यपरम्परासे आती हुई आर्यमंलु और नागहस्तीको प्राप्त हुईं। पुनः उन दोनों ही आचार्योंके पादमूलमे बैठकर उनके द्वारा गुणधराचार्यके मुखकमलसे निम्ली हुई उन एक सौ अस्सी गाथाओंके अर्थको भले प्रकारसे श्रवण करके प्रवचनके वात्सलसे प्रेरित होकर यतिवृषभ भट्टारकने उनपर चूर्णिसूत्रोंकी रचना की।

इस उद्धरणमें ‘आइरियपरंपराए आगच्छमाणीओ’ और ‘सोऊण’ ये दो पद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उनसे दो बातें फलित होती हैं—एक तो यह है कि उक्त गाथाएँ आर्यमंलु और नागहस्तीको प्राप्त होनेके समय तक लिपिवद्ध नहीं हुई थीं, उन्हें मौखिक परम्परासे ही प्राप्त हुई थीं। दूसरी यह है कि गुणधरका समय आर्यमंलु और नागहस्तीसे इतना अधिक पूर्वकालिक है कि बीचमे आचार्यों की अनेक पीढ़ियाँ बीत चुकी थीं।

† इय कम्मप्पगडीओ जहा सुय नीयमप्पमइया वि ।

सोहियणाभोगकय कहतु वरदिट्ठिवायन्तु ॥ (कम्मपयडी)

वधविहाणसमासो रडओ अप्पसुयमदमइया उ ।

त वंभमोक्खणिउणा पूरेऊण परिकहेति ॥ १०५ ॥ (सत्तक)

जो जत्य अप्पडिपुत्तो अत्थो अप्पागमेण वद्धो त्ति ।

त खमिऊण बहुसुया पूरेऊण परिकहितु ॥ ७१ ॥ (सित्तरी)

‡ पूर्वकालमें पठन-पाठनकी यह पद्धति थी कि पहले मूल सूत्रोंका उच्चारण कराया जाता था और पीछे उनके अर्थका व्याख्यान किया जाता था। वेदोंके भी पठन-पाठनकी यही पद्धति रही है।

कसायपाहुडके १५ अधिकारोंमेंसे प्रारम्भके ६ अधिकारोंमें कर्मोंके प्रकृति, स्थिति, अनु-भाग और प्रदेश-सम्बन्धी बन्ध, उदय, उदीरणा, सत्त्व और सक्रमणका जो वर्णन किया गया है, उस सबका आधार महाकम्मपयडिपाहुड हे और यतः गुणधराचार्यके समयमें महाकम्मपयडिपाहुडका पठन-पाठन बहुत अच्छी तरह प्रचलित था, अतः उन्होंने प्रारम्भके ५ अधिकारों पर कुछ भी न कहकर उक्त अधिकारोंके विषयसे सम्बन्ध रखनेवाले विषयोंके पृच्छारूप तीन ही गाथासूत्रोंको कहा । यह एक ऐसा सबल प्रमाण है, कि जिससे कसायपाहुडका पट्खंडागमसे पूर्ववर्तित्व स्वतः सिद्ध होता है । आगे चूणिसूत्रोंके ऊपर विचार करते समय इस विषय पर विशद प्रकाश डाला जायगा ।

गुणधर और धरसेन

दि० परम्परामें जो आचार्य श्रुत-प्रतिष्ठापकके रूपमें ख्याति-प्राप्त है उनमें आचार्य गुणधर और आ० धरसेन प्रधान है । आ० धरसेनको द्वितीय पूर्व-गत पेज्जदोसपाहुडका ज्ञान प्राप्त था, और आ० गुणधरको पचम पूर्व-गत पेज्जदोसपाहुडका ज्ञान प्राप्त था । इस दृष्टिसे निम्न अर्थ फलित होते हैं—

१—आ० धरसेनकी अपेक्षा आ० गुणधर विशिष्ट ज्ञानी थे । उन्हें पेज्जदोसपाहुडके अतिरिक्त महाकम्मपयडिपाहुडका भी ज्ञान प्राप्त था, जिसका साक्षी प्रस्तुत कसायपाहुड ही है, जिसमें कि महाकम्मपयडिपाहुडसे सम्बन्ध रखने वाले विभक्ति, बन्ध, सक्रमण और उदय, उदीरणा जैसे पृथक् अधिकार दिये गये हैं । ये अधिकार महाकम्मपयडिपाहुडके २४ अनुयोगद्वारोंमेंसे क्रमशः छठे, बारहवें और दशवे अनुयोगद्वारोंसे सम्बद्ध है । महाकम्मपयडिपाहुडका चौबीसवाँ अल्पबहुत्वनामक अनुयोगद्वार भी कसायपाहुडके सभी अर्थाधिकारोंमें व्याप्त है । इससे सिद्ध होता है कि आ० गुणधर महाकम्मपयडिपाहुडके ज्ञाता होनेके साथ पेज्जदोसपाहुडके ज्ञाता और कसायपाहुडके रूपमें उसके उपसंहारकर्ता भी थे । इसके विपरीत ऐसा कोई भी सूत्र उपलब्ध नहीं है, जिससे कि यह सिद्ध हो सके कि आ० धरसेन पेज्जदोसपाहुडके भी ज्ञाता थे ।

२—आ० धरसेनने स्वयं किसी ग्रन्थका उपसंहार या निर्माण नहीं किया है, जबकि आ० गुणधरने प्रस्तुत ग्रन्थमें पेज्जदोसपाहुडका उपसंहार किया है । अतएव आ० धरसेन जब वाचकप्रवर सिद्ध होते हैं, तब आ० गुणधर सूत्रकारके रूपमें सामने आते हैं ।

३—आ० गुणधरकी प्रस्तुत रचनाका जब हम पट्खंडागम, कम्मपयडी, सतक और सित्थरी आदि कर्म-विषयक प्राचीन ग्रन्थोंसे तुलना करते हैं, तब आ० गुणधरकी रचना अतिसक्षिप्त, असदिग्ध, वीजपद-युक्त, गहन और सारवान् पदोंसे निर्मित पाते हैं, जिससे कि उनके सूत्रकार होनेमें कोई सन्देह नहीं रहता । यही कारण है कि जयधवलाकारने उनकी प्रत्येक गाथा को सूत्रगाथा और उसे अनन्त अर्थसे गर्भित बतलाया है । कर्मोंके संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षणादि-विषयक अतिगहन तत्त्वका इतना सुगम प्रतिपादन अन्य किसी ग्रन्थमें देखनेको नहीं मिलता । इस प्रकार आ० गुणधर आ० धरसेनकी अपेक्षा पूर्ववर्ती और ज्ञानी सिद्ध होते हैं ।

पुष्पदन्त और भूतबलि

आ० धरसेन-उपदिष्ट महाकम्मपयडिपाहुडका आश्रय लेकर उसपर पट्खंडागम सूत्रोंके रचयिता भगवन्त पुष्पदन्त और भूतबलि हुए हैं । यद्यपि कसायपाहुडकी रचनाके अत्यन्त संक्षिप्त और गाथासूत्ररूप होनेसे गद्यसूत्रोंमें रचित और विरचित परिमाणवाले पट्खंडागमके साथ उसकी तुलना करना संभव नहीं है, तथापि सूक्ष्मदृष्टिसे दोनों ग्रन्थोंके अवलोकन करने पर

ऐसा अवश्य प्रतीत होता है कि पट्खडागमकी रचना पर कसायपाहुडका प्रभाव अवश्य रहा है। यहां पर उस प्रभावकी कुछ चर्चा करना अनावश्यक न होगा।

कसायपाहुडमे सम्यक्त्वनामक अर्थाधिकारके भीतर दर्शनमोह-उपशामना और दर्शनमोह-क्षपणा नामक दो अनुयोगद्वार हैं। उनके प्रारम्भमे इस वातका विचार किया गया है कि कर्मोंकी कैसी स्थिति आदिके होनेपर जीव दर्शनमोहका उपशम, क्षय या क्षयोपशम करनेके लिए प्रस्तुत होता है। इस प्रकरणकी गाथा नं० ६२ के द्वितीय चरण 'क्रे वा अंसे निबंधदि' द्वारा यह पृच्छा की गई है कि दर्शनमोहके उपशमनको करनेवाला जीव कौन-कौन कर्म-प्रकृतियोंका वन्ध करता है? आ० गुणधरकी इस पृच्छाका प्रभाव हम पट्खडागमकी जीवस्थानचूलिकाके अन्तर्गत तीन महादंडक चूलिकासूत्रोंमे पाते हैं, जहां पर कि स्पष्ट रूपसे कहा गया है—

“इदाणि पढमसम्मत्ताहिमुहो जाओ पयडीओ वंधदि, ताओ पयडीओ किच्चइस्साओ ।”
(पट्खं० पु० ६ प्रथम महादंडकचूलिका सूत्र १)

अर्थात् प्रथमोपशमसम्यक्त्वके अभिमुख हुआ जीव जिन प्रकृतियोंको बांधता है, उन प्रकृतियोंको कहते हैं। इस प्रकारसे प्रतिज्ञा करनेके अनन्तर आगेके तीन महादंडकसूत्रोंके द्वारा उन प्रकृतियोंका नाम-निर्देश किया गया है।

इससे आगे कसायपाहुडकी गाथा नं० ६४ के 'ओवट्टेदूण सेसाणि कं ठाणं पडिवज्जदि' इस पृच्छाका प्रभाव सम्यक्त्वोत्पत्तिचूलिकाके निम्न सूत्र पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, जिसमें कि उक्त पृच्छाका उत्तर दिया गया है—

“ओहट्टेदूण मिच्छत्तं तिणिण भागं करेदि सम्मतं मिच्छत्तं सम्मामिच्छत्तं ।”
(पट्खं० पु० ६ सम्य० सूत्र ७)

अब इससे आगेकी गाथा नं० ६४ का मिलान उसी सम्यक्त्वचूलिकाके सूत्र नं० ६ से कीजिए—

दंसखमोहस्सुवसामगो दु
चदुसु वि गदीसु वोद्वव्वो ।
पंचिदिओ य सएणी
णियमा सो होइ पज्जत्तो ॥
(कसाय० गा० ६४)

उवसामेतो कम्हि उवसामेदि ? चदुसु
वि गदीसु उवसामेदि । चदुसु वि गदीसु
उवसामेतो पंचिदिएसु उवसामेदि, णो
एइदिय-विगलिंदिएसु । पंचिदिएसु उव-
सामेतो सएणीसु उवसामेदि, णो असएणी-
सु । सएणीसु उवसामेतो गवभोवक्कं-
तिएसु उवसामेदि, णो सम्मुच्छिमेसु ।
गवभोवक्कंतिएसु उवसामेतो पज्जत्तएसु
उवसामेदि, णो अपज्जत्तएसु । पज्जत्तएसु
उवसामेतो संखेज्जवस्साउगेसु वि उवसा-
मेदि, असंखेज्जवस्साउगेसु वि ।

(पट्खं० पु० ६ सम्म० चू० सू० ६)

उसी प्रकार दर्शनमोहक्षपणा-सम्बन्धी गाथा नं० ११० का भी मिलान इसी चूलिकाके सूत्र नं० १२ और १३ से कीजिए—

दंशणमोहकखवणा—

पट्टवगो कम्मभूमिजादो दु ।

णियमा मणुसगदीए

णिट्टवगो चावि सव्वत्थ ॥

(कसाय० गा० ११०)

दंशणमोहणीय कम्मं खवेदुमाठवेतो
कम्हि आठवेदि ? अड्ढाइज्जेसु दीव-
समुद्देसु पण्णारसकम्मभूमीसु जम्हि
जिणा केवली तित्थयरा तम्हि आठवेदि
॥ १२ ॥ णिट्टवओ पुण चदुसु वि गदीसु
णिट्टवेदि ॥ १३ ॥

(पट्खंडा० पु० ६ सम्य० चू०)

पाठक इस तुलनासे स्वयं ही यह अनुभव करेंगे कि कसायपाहुडकी गाथासूत्रोंके वीज-
पदोंकी पट्खंडागम-सूत्रमें भाष्यरूप विभाषा की गई है ।

उक्त तुलनासे यह स्पष्ट है कि पुण्डदन्त और भूतवलिरचित पट्खंडागमसूत्रोंकी
रचना कसायपाहुडसे पीछेकी है और उसपर कसायपाहुडका स्पष्ट प्रभाव है इसीसे इन दोनोंका
तथा उनके गुरु धरसेनाचार्यका आ० गुणधरसे उत्तरकालवर्ती होना सिद्ध है ।

गुणधर और शिवशर्म

आ० शिवशर्मके कम्मपयडी और सतक नामक दो ग्रन्थ आज उपलब्ध हैं । इन
दोनों ही ग्रन्थोंका उद्गमस्थान महाकम्मपयडिपाहुड है, इससे वे द्वितीय पूर्वके एकदेश ज्ञाता
सिद्ध होते हैं । कम्मपयडीके साथ जब हम कसायपाहुडकी तुलना करते हैं तब दोनोंमे हमें एक
मौलिक अन्तर दृष्टिगोचर होता है और वह यह कि कम्मपयडीमें महाकम्मपयडिपाहुडके २४
अनुयोगद्वारोंका नहीं, किन्तु बन्धन, उदय, संक्रमणादि कुछ अनुयोगद्वारोंसे सम्बन्ध रखने वाले
विषयोंका प्रतिपादन किया गया है, जबकि कसायपाहुडमें पूरे पेज्जदोसपाहुडका उपसंहार किया
गया है । इस प्रकार कम्मपयडीके रचयिता उस समय हुए सिद्ध होते हैं—जबकि महाकम्मपयडि-
पाहुडका बहुत कुछ अंश विच्छिन्न हो चुका था । और यही कारण है कि कम्मपयडी और
सतक, इन दोनों ही ग्रन्थोंके अन्तमें अपनी अल्पज्ञता प्रकट करते हुए उन्होंने दृष्टिवादके ज्ञाता
आचार्योंसे उसे शुद्ध करनेकी प्रार्थना की है । पर कसायपाहुडके अन्तमें ऐसी कोई बात नहीं पाई
जाती जिससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि उसके कर्ता उस विषयके पूर्ण ज्ञानी थे ।

दूसरी बात जो तुलनासे हृदय पर अंकित होती है, वह यह है कि कम्मपयडी एक संग्रह
ग्रन्थ है । क्योंकि उसमें अनेकों प्राचीन गाथाएं यथास्थान दृष्टिगोचर होती हैं, जिससे कि
उसके संग्रह-ग्रन्थ होनेकी पुष्टि होती है । स्वयं कम्मपयडीकी चूर्णमें उसके कर्त्ताने उसे
कम्मपयडी-संग्रहणी नाम दिया है और सतकचूर्णमें भी इसी नामसे अनेक उल्लेख देखनेको
मिलते हैं जोकि उसके संग्रहत्वके सूचक हैं । पर कसायपाहुडकी रचना मौलिक है यह बात उसके
किसी भी अभ्यासीसे छिपी नहीं रह सकती । और उसका कम्मपयडी आदिसे पूर्वमे रचा जाना
तो असंदिग्धरूपसे सिद्ध है । यही कारण है कि कम्मपयडीके संक्रमकरणमें कसायपाहुडके संक्रम-
अर्थाधिकारकी १३ गाथाएं साधारणसे पाठ-भेदके साथ अनुक्रमसे ज्यों की त्यों पाई जाती हैं ।
कसायपाहुडमें उनका क्रमाङ्क २७ से ३६ तक है और कम्मपयडीके संक्रम अधिकारमें
उनका क्रमाङ्क १० लेकर २२ तक है । इसके अतिरिक्त कम्मपयडीके उपशमनाकरणमें कसाय-
पाहुडके दर्शनमोहोपशमना अर्थाधिकारकी चार गाथाएं कुछ पाठभेदके साथ पाई जाती हैं ।
कसायपाहुडमें उनका क्रमाङ्क १००, १०३, १०४ और १०५ है और कम्मपयडीके उपशमनाकरणमें
उनका क्रमाङ्क २३ से २६ तक है । इससे भी कसायपाहुडकी प्राचीनता और कम्मपयडीकी
संग्रहणीयता सिद्ध होती है ।

आर्यमंजु और नागहस्ती

आर्यमंजु और नागहस्ती कर्मसिद्धान्तके महान् वेत्ता और आगमके पारगामी आचार्य हो गये हैं । अभी तक इन दोनों आचार्योंका परिचय और उल्लेख श्वे० परम्पराके आधार पर किया जाता रहा है, किन्तु अब दि० परम्पराके प्रसिद्ध सिद्धान्त ग्रन्थोकी धवला-जयधवला टीका-ओके प्रकाशमें आनेसे इन दोनों आचार्य-पुद्गवोंके विषयमें बहुत कुछ गलतफहमी दूर हुई है और उनके समय-विषयक बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हुई है । जयधवलाकार आ० वीरसेनने अपनी टीकाके प्रारम्भमें दोनों आचार्योंको इस प्रकारसे स्मरण किया है—

गुणहर-वयण-विशिण्णय-गाहाण्णत्थो ऽवहारियो सब्बो ।

जेणज्जमंखुणा सो सणागहत्थी वरं देऊ ॥ ७ ॥

जो अज्जमंखुसीसो अन्तेवासी वि णागहत्थिस्स ।

सो वित्तिसुत्तकत्ता जइवसहो मे वरं देऊ ॥ ८ ॥

अर्थात् जिन आर्यमंजु और नागहस्तीने गुणधराचार्यके मुख्यकमलसे विनिर्गत (कसायपाहुडकी) गाथाओके सर्व अर्थको सम्यक् प्रकारसे अवधारण किया, वे हमें वर प्रदान करें । जो आर्यमंजुके शिष्य है और नागहस्तीके अन्तेवासी है, वृत्तिसूत्रके कर्त्ता वे यतिवृषभ मुझे वर प्रदान करें ।

इस उल्लेखसे तीन बातें फलित होती हैं—

१ आर्यमंजु और नागहस्ती समकालीन थे ।

२ दोनों कसायपाहुडके महान् वेत्ता थे ।

३ यतिवृषभ दोनोंके शिष्य थे और उन्होंने दोनोंके पास कसायपाहुडका ज्ञान प्राप्त किया था ॥

यद्यपि आ० यतिवृषभने अपनी प्रस्तुत चूर्णिमें या अन्य किसी ग्रन्थमें अपनेको आर्यमंजु और नागहस्तीके शिष्य रूपमें उल्लेखित नहीं किया है और न अन्य किसी आचार्यका ही अपनेको शिष्य बतलाया है, तथापि जिस प्रकारसे कुछ सैद्धान्तिक विशिष्ट स्थलों पर उन्होंने 'एथ वे उवएसा' कहकर जिन दो उपदेशोकी सूचना की है, उनसे इतना अवश्य स्पष्ट ज्ञात होता है कि उन्होंने अपने समयके दो महान् ज्ञानी गुरुओसे विशिष्ट उपदेश अवश्य प्राप्त किया था । और इसलिए जयधवलाकार वीरसेनने जो उन्हें आर्यमंजुका शिष्य और नागहस्तीके अन्तेवासी होनेका उल्लेख किया है, उसमें सन्देहके लिए कोई स्थान नहीं रहता ।

नन्दिसूत्रकी पट्टावलीमें आर्यमंजुका परिचय इस प्रकार दिया गया है—

भरणं करणं भरणं पभावणं णाण-दसणगुणाणं ।

वदामि अज्जमगुं सुयसागरपारणं धीरं ॥ २८ ॥

अर्थात् जो कालिक आदि सूत्रोंके अर्थ-व्याख्याता है, साधुपदोचित क्रिया कलापके कराने वाले हैं, धर्मध्यानके ध्याता या विशिष्ट अभ्यासी है, ज्ञान और दर्शन गुणके महान् प्रभावक हैं, धीर-वीर हैं अर्थात् परीपह और उपसर्गोंके सहन करनेवाले हैं और श्रुतसागरके पारगामी हैं, ऐसे आर्यमगु या आर्यमंजु आचार्यकी मैं वन्दना करता हूँ । श्वे० पट्टावलीमें इन्हें आर्यसमुद्रका शिष्य बतलाया गया है ।

उक्त पट्टावलीमें आर्यनागहस्तीका परिचय इस प्रकार पाया जाता है—

ॐ पुणो तेत्ति दोण्ह पि पादमूने असोदिसदगाहाण गुणहरमुहकमलविण्णियाणमत्थ सम्म सोऊण्ण उदिवसहनजारण पवयणनच्छलेण चुण्णिमुत्त कय । जयध० भा० १ पृ० ८८ ।

वड्डउ वायगवंसो जसवंसो अज्जणागहत्थीणं ।

वागरण-करणभंगिय-कम्मपयडीपहाणाणं ॥३०॥

अर्थात् जो संस्कृत और प्राकृत भाषाके व्याकरणोके वेत्ता है, करण-भंगी अर्थात् पिंडशुद्धि, समिति, गुप्ति, भावना, प्रतिमा, इन्द्रियनिरोध, प्रतिलेखन और अभिग्रहकी नाना विधियोंके ज्ञाता है और कर्मप्रकृतियोंके प्रधानरूपसे व्याख्याता है, ऐसे आर्यनागहस्तीका यशस्वी वाचकवंश वृद्धि को प्राप्त हो। श्वे० पट्टावलीमें इन्हे आर्यनन्दिलक्ष्णकका शिष्य वतलाया गया है।

दोनों आचार्योंकी प्रशंसामें प्रयुक्त उक्त दोनों पदोंके विशेषण-पदोंसे यह भलीभांति सिद्ध है कि ये दोनों ही आचार्य श्रुतसागरके पारगामी सिद्धान्त ग्रन्थोंके महान् वेत्ता, प्रभावक, कर्मशास्त्रके व्याख्याता और वाचकवंश-शिरोमणि थे। इसलिए आ० वीरसेनके उल्लेखानुसार यह सुनिश्चित है कि ये दोनों आचार्य कसायपाहुडकी गाथाओंके मर्मज्ञ थे और उन दोनोंके पासमें आ० यतिवृषभने उनका पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया था।

आ० वीरसेनने यतिवृषभको आर्यमंजुका शिष्य और नागहस्तीका अन्तेवासी प्रगट किया है। यद्यपि शिष्य और अन्तेवासी ये दोनों शब्द एकार्थक माने जाते हैं, तथापि शब्द-शास्त्रकी दृष्टिसे दोनों शब्द अपना पृथक्-पृथक् महत्व रखते हैं। गुरुसे ज्ञान और चारित्र-विषयक शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करनेवालेको शिष्य कहते हैं। किन्तु जो गुरुसे ज्ञान और चारित्रकी शिक्षा प्राप्त करनेके अनन्तर भी गुरुके जीवन-पर्यन्त उनकी सेवा-सुश्रूषा करते हुए उनके चरण-सान्निध्यमें रहकर अनवरत ज्ञानकी आराधना करता रहे, उसे अन्तेवासी कहा जाता है।

शब्द-व्युत्पत्तिसे फलित उक्त अर्थको यदि यथार्थ माना जाय, तो मानना पड़ेगा कि आ० वीरसेन-द्वारा प्रयुक्त दोनों पद अन्वर्थ और अत्यन्त महत्व-पूर्ण हैं।

यहां यह प्रश्न स्वतः उठता है कि जब यतिवृषभने आर्यमंजु और नागहस्ती, इन दोनों ही आचार्योंसे ज्ञान प्राप्त किया, तब क्या कारण है कि वे एकके उपदेशको पवाइज्जमान और दूसरेके उपदेशको अपवाइज्जमान कहे? यतिवृषभ-द्वारा प्रयुक्त इन दोनों पदोंके अन्तस्तलमें अवश्य कोई रहस्य अन्तर्निहित है?

दि० परम्परामें तो जयधवला टीकाके अतिरिक्त आर्यमंजु और नागहस्तीका उल्लेख अन्यत्र मेरे देखनेमें नहीं आया, किन्तु श्वे० परम्परामें उनके जीवन-परिचयका कुछ उल्लेख मिलता है। आ० आर्यमंजुके विषयमें वतलाया गया है कि एक वार वे विहार करते हुए मथुरापुरी पहुँचे। वहां पर श्रद्धालु, भक्त और निरन्तर सेवा-सुश्रूषा-रत शिष्योंके व्यामोहसे, तथा रस-गारव आदिके वशीभूत होकर वे विहार छोड़ करके वहीं रहने लगे। धीरे-धीरे उनका श्रामण्य शिथिल हो गया और वे वहीं मरणको प्राप्त हुए ॐ।

यदि यह उल्लेख सत्य है तो इससे यह भी सिद्ध है कि आर्यमंजुके साधु-आचारसे शिथिल हो जानेके कारण उनकी शिष्य-परम्परा आगे नहीं चल सकी। और यह सब यतः यतिवृषभके जीवन-कालमें ही घटित हो गया, अतः उन्होंने उनके उपदेशको अपवाइज्जमान कहा और नागहस्तीकी शिष्य-परम्परा आगे चलती रही, इसलिए उनके उपदेशको पवा-इज्जमान कहा।

इस प्रकार आर्यमंजु और नागहस्ती समकालिक सिद्ध होते हैं और इसलिए श्वे० पट्टावलियोंमें जो दोनोंके बीच लगभग १५० वर्षोंका अन्तर वतलाया गया है, वह बहुत कुछ आपत्तिके योग्य जान पड़ता है।

कसायपाहुड पर एक दृष्टि

१. नामकी सार्थकता—प्रस्तुत मूलग्रन्थका नाम यद्यपि श्री गुणधराचार्यने प्रथम गाथामें उद्गमस्थानकी अपेक्षा 'पेज्जदोसपाहुड' का संकेत करते हुए 'कसायपाहुड' ही दिया है, तथापि चूर्णिकार यतिवृषभने उसके दो नाम स्पष्ट रूपसे कहे हैं। यथा—

तस्स पाहुडस्स दुवे नामधेज्जाणि । तं जहा—पेज्जदोसपाहुडेत्ति वि, कसाय-
पाहुडेत्ति वि । (पेज्जदो० सू० २१)

अर्थात् ज्ञानप्रवादपूर्वकी दशवीं वस्तुके उस तीसरे पाहुडके दो नाम हैं—पेज्जदोस-
पाहुड और कसायपाहुड । इनमेंसे प्रथम नामको चूर्णिकारने अभिव्याकरणनिष्पन्न और दूसरे
नामको नयनिष्पन्न कहा है । किन्तु आगे चलकर सम्यक्त्व नामक अधिकारका प्रारम्भ करते
हुए स्वयं चूर्णिकारने कसायपाहुड नामका ही निर्देश किया है । यथा—

कसायपाहुडे सम्मत्ते त्ति अणिओगदारे अधापवत्तकरणे इमाओ चत्तारि
सुत्तगाहाओ परूवेयव्वाओ । (सम्यक्त्व० सू० १)

तथा जयधवलाकारने प्रत्येक अधिकारके प्रारम्भमें और अन्तमें इसी नामका प्रयोग
किया है । यहां तक कि पन्द्रहवे अधिकारकी चूलिका-समाप्ति पर 'एवं कसायपाहुडं समत्तं' लिख-
कर प्रस्तुत ग्रन्थके कसायपाहुड नाम पर अपनी मुद्रा अंकित कर दी है । परवर्ती आचार्यों और
ग्रन्थकारोंने भी अविकतर इसी नामका उल्लेख किया है । ऐसी स्थितिमें यह प्रश्न किया जा
सकता है कि फिर हमने इसका 'कसायपाहुडसुत्त' ऐसा नामकरण क्यों किया ? इस प्रश्नका
उत्तर यह है कि यद्यपि १८० या २३३ गाथात्मक-ग्रन्थका नाम कसायपाहुड ही है, किन्तु प्रस्तुत
संस्करणमें यह कसायपाहुड अपने ६ हजार श्लोक-प्रमित चूर्णिसूत्रोंके साथ मुद्रित है, अतएव
उसके परिज्ञानार्थ 'कसायपाहुडसुत्त' ऐसा नाम दिया गया है । आ० वीरसेनने धवला और
जयधवलाटीकामें नामै रुदेशरूपसे 'पाहुडसुत्त' का पचासों वार उल्लेख किया है, तथा जिनसेनने
जयधवलाकी प्रशस्तिमें 'पाहुडसुत्ताणमिमा' जयधवला सणिया टीका' कहकर 'पाहुडसुत्त'
नामकी पुष्टि की है ।

२. मूलग्रन्थका प्रमाण—कसायपाहुडकी गाथा-संख्या वस्तुतः कितनी है, यह
प्रश्न आज भी विचारणीय बना हुआ है । इसका कारण यह है कि प्रस्तुत ग्रन्थकी दूसरी गाथा
'गाहासदे असीदे' में स्पष्ट रूपसे १८० गाथाओंके १५ अर्थाधिकारोंमें विभक्त होनेका उल्लेख
है । यह प्रश्न जयधवलाकार वीरसेनस्वामीके भी, सामने था और उनके सामने भी कितने ही
आचार्य इस बातके कहनेवाले थे कि एकसौ अस्सी गाथाओंको छोड़कर शेष ५३ गाथाएं नाग-
हस्ती आचार्य-द्वारा रची हुई हैं † । किन्तु वीरसेनस्वामीने इस मतके खंडनमें जो युक्ति दी है,
वह कुछ अधिक बलवती मालूम नहीं होती । वे कहते हैं कि यदि 'सम्बन्ध-गाथाओं, अद्वा-

‡ ततो सम्मत्ताणुभागो अणतणुणहीणो त्ति पाहुडसुत्ते णिद्धित्तादो । धवला जीव० चू०

† असीदिसदगाहाओ मोत्तूण अवसेससबंधद्वारिमाणणिद्देस-सकमणगाहाओ जेण णागहत्थि-
आयरियंकेयाओ, तेण 'गाहासदे असीदे' त्ति भणिएण णागहत्थिआयरिएण पइज्जा कदा, इदि केवि
वक्खाणाइरिया भणति । जयध० भा० १ पृ० १८३.

परिमाणनिर्देश करनेवाली गाथाओं और संक्रम-विषयक गाथाओंके विना एकसौ अस्सी गाथाएं ही गुणधरभट्टारकने कही है, ऐसा माना जाय, तो उनके अज्ञाननाका प्रसंग प्राप्त होता है, इसलिए पूर्वोक्त अर्थ ही ग्रहण करना चाहिए, अर्थात् २३३ ही गाथाओंको गुणधर-रचित मानना चाहिए ।'

पाठक स्वयं अनुभव करेंगे कि वीरसेनस्वामीका यह उत्तर चित्तको कुछ समाधानकारक नहीं है, खासकर उस दशामें—जवकि 'गाहासदे असीदे' की प्रतिज्ञा पाई जाती है और जवकि वीरसेनस्वामीके सामने भी उस प्रतिज्ञाके समर्थक अनेक व्याख्यानाचार्य पाये जाते थे । दूसरी बात यह है कि प्रारम्भकी १२ सम्बन्ध-गाथाओं और अद्धापरिमाण-निर्देश करनेवाली ६ गाथाओं पर एक भी चूर्णिसूत्र नहीं पाया जाता है । तीसरी बात यह है कि उक्त अठारह गाथाओंके अधिकार-निर्देश करनेवाली दोनों गाथाओंके वाद चूर्णिकार कहते हैं कि 'एत्तो सुत्तसमोदारो' अर्थात् अब इससे आगे कसायपाहुडसूत्रका समवतार होता है । संक्रम-अधिकार वाली ३५ गाथाओंमेसे ५ को छोड़कर शेष ३१ पर भी एक भी चूर्णिसूत्र नहीं पाया जाता । तथा उनमेंकी अनेक गाथाओंके कम्मपयडीके संक्रमणाधिकारमें पाये जानेसे भी इस बातकी पुष्टि होती है कि वे गाथाएं कसायपाहुडकी नहीं हैं । इन सब बातोंसे यही निष्कर्ष निकलता है कि उक्त ५३ गाथाएं गुणधर-रचित नहीं हैं और इसलिए वे कसायपाहुडकी भी अंग नहीं हैं । इस बातका पोषक सबसे प्रबल प्रमाण 'तिरणोदा गाहाओ पंचसु अत्थेसु णादव्वा' यह गाथांश है, जिसमें स्पष्ट रूपसे कहा गया है कि प्रारम्भके पाच अर्थाधिकारोंमें 'पेज्जं वा दोसो वा' इत्यादि तीन गाथाएं जानना चाहिए । अतएव उक्त ५३ गाथाओंको आचार्य नागहस्तीके द्वारा प्रणीत या उपदिष्ट मानना चाहिए । अथवा यह भी संभव है कि १८० गाथाओंमें पेज्जदोसपाहुडका उपसंहार कर चुकने के बाद प्रस्तावना, विषयसूची और परिशिष्टके रूपमें उक्त ५३ गाथाओंकी गुणधराचार्यने पीछेसे रचना की हां ।

३. अधिकारोंके विषयमें मतभेद—कसायपाहुडके १५ अर्थाधिकारोंके वारेमें मतभेद पाया जाता है । कसायपाहुडकी मूलगाथा १ और २ में स्पष्ट रूपसे १५ अधिकारोंका निर्देश होनेपर भी चूर्णिकारने 'अत्थाहियारो पयणारसविहो अरणेण पयारेण' कहकर उनसे भिन्न ही १५ अर्थाधिकार बतलाये हैं । यद्यपि जयधवलाकारने बहुत कुछ ऊहापोहके पश्चात् यह बतलाया है कि दोनों प्रकारोंमें कोई विरोध नहीं है, चूर्णिकारने 'अन्य प्रकारसे भी १५ अर्थाधिकार संभव हैं, कहकर उनकी एक रूपरेखा दिखाई है, सो उनके अनुसार और भी प्रकारसे १५ अर्थाधिकार संभव हो सकते हैं कहकर जयधवलाकारने एक और भी तीसरे प्रकारसे अर्थाधिकारोंका निरूपण किया है । पर अधिकारोंके निर्देश करनेवाली दोनों गाथाओंपर गहराईसे विचार करनेपर ऐसा प्रतीत होता है कि गुणधराचार्यके मतानुसार १५ अर्थाधिकार इस प्रकारसे होना चाहिए—

‡ तण्णं घडदे, सबधगाहाहि अद्धापरिमाणणिद्देसगाहाहि सकमगाहाहि य विणा असीदि-सदगाहाओ चव भणत्तस्स गुणहरभट्टारयस्स अयाणत्तप्पसगादो । तम्हा पुव्वुत्तत्थो चव धेत्तव्वो ।

जयध० भा० १ पृ० १८३.

‡ देखो पृ० १३ । † देखो पृ० १४ और १५, तथा जयधवला भा० १ पृ० १६२ से १६६ तक ।

- | | |
|--|------------------------------|
| १. पेज या प्रेय-अधिकार | ७. चतुःस्थान-अधिकार |
| २. दोस या द्वेष-अधिकार | ८. व्यंजन-अधिकार |
| ३. विभक्ति-अधिकार (जिससे कि प्रकृति,
स्थिति, अनुभाग और प्रदेशविभक्ति,
तथा क्षीणाक्षीण और स्थित्यन्तिक भी
सम्मिलित है) | ९. दर्शनमोहोपशामना-अधिकार |
| ४. बन्धक-अधिकार | १०. दर्शनमोह-क्षपणा-अधिकार |
| ५. वेदक-अधिकार | ११. संयमासंयम-अधिकार |
| ६. उपयोग-अधिकार | १२. सयम-अधिकार |
| | १३. चारित्रमोहोपशामना-अधिकार |
| | १४. चारित्रमोहक्षपणा-अधिकार |
| | १५. अद्धापरिमाण निर्देश |

किन्तु चूर्णिकारको जिस प्रकारसे विषयका प्रतिपादन करना अभीष्ट था, उसी प्रकारसे उन्होंने अधिकारोका विभाजन किया है, ऐसा चूर्णिसूत्रोके अध्ययनसे ज्ञात होता है।

४. गाथाओंका विभाजन—उपर्युक्त १५ अधिकारोंमें १८० गाथाओंका विभाजन इस प्रकारसे किया गया है—

प्रारम्भके ५ अधिकारोंमें ३, वेदकमें ४, उपयोगमें ७, चतुःस्थानमें १६, व्यंजनमें ५, दर्शनमोहोपशामनामें १५, दर्शनमोहक्षपणामें ५, संयमासंयम और संयम अधिकारमें १, चारित्र-मोहोपशामनामें ८ और चारित्रमोहक्षपणामें ११४ गाथाएँ निबद्ध हैं। इन सबका योग (३+४+७+१६+५+१५+५+१+८+११४=१७८) एकसौ अठहत्तर होता है। इनमें अधिकारोंका निर्देश करनेवाली प्रारम्भकी २ गाथाओंको मिला देने पर कसायपाहुडकी सर्व-गाथाओंका योग १८० हो जाता है। यदि ऊपर बतलाई गई ५३ गाथाओंको भी गुणधर-रचित माना जाय, तो सर्व गाथाओंका योग (१८०+५३=२३३) दो सौ तेतीस होता है।

५. गाथाओंका वर्गीकरण—चूर्णिसूत्रोके अनुसार कसायपाहुडकी मूल १८० गाथाओंका तीन प्रकारसे वर्गीकरण किया जा सकता है—१ सूचनासूत्रात्मक, २ पृच्छासूत्रात्मक और ३ व्याकरणसूत्रात्मक।

१. सूचनासूत्रात्मक-गाथाएँ—जिन गाथाओंके द्वारा प्रतिपाद्य विषयकी सूचना-मात्र की गई है, किन्तु उसका कुछ भी वर्णन नहीं किया गया है, उन्हें सूचनासूत्रात्मक गाथाएँ जानना चाहिए। ऐसी गाथाओंको चूर्णिकारने 'ऐसा गाथा सूचनासुत्तं' कहकर स्पष्टरूपसे सूचनासूत्र कहा है। वर्गीकरणकी दृष्टिसे मूल-गाथाङ्क ४, ५, १४, ६२, ७०, ११५, १७६ और १८० को सूचनासूत्र जानना चाहिए।

२. पृच्छासूत्रात्मक गाथाएँ—जिन गाथाओंके द्वारा प्रतिपाद्य विषयके विवेचन करनेके लिए प्रश्न उठाये गये हैं, उन्हें चूर्णिकारने पृच्छासूत्र कहा है। चारित्रमोहक्षपणानामक पन्द्रहवें अधिकारकी प्रायः सभी मूल-गाथाएँ पृच्छासूत्रात्मक हैं। शेष अधिकारोंमें भी इस प्रकारके गाथासूत्र हैं, मूलगाथाओंमें उनका विवरण इस प्रकार है—३, ६ से १३, १५-१६, २१, २८, ३१, ३८ से ४१, ६३से ६७, ७१, ७७, ८६, ९४, ९८, १०२, १०४, १०६, ११३, ११६, १२६, १३३, १३८, १४१, १४६, १५१, १५४, १६०, १६१, १६३, १६५ से १६६ और १७६।

३. व्याकरणसूत्रात्मक गाथाएँ—जिन गाथाओंमें पृच्छासूत्रोके द्वारा उठाए गये प्रश्नोंका उत्तर दिया गया है, अथवा प्रतिपाद्य विषयका प्रतिपादन या अव्याख्यात अर्थका

व्याख्यान किया गया है, ऐसी गाथाओंको चूर्णिकारने 'एदं सव्वं वागरणसुत्तं^१' कहकर उन्हें व्याकरणगाथासूत्र संज्ञा दी है। चारित्रमोहक्षपणाकी दो एक गाथाओंको छोड़कर सभी भाष्यगाथाओंको व्याकरणसूत्र जानना चाहिए। शेष अधिकारोमें भी इस प्रकारके विषयका वर्णन करनेवाले व्याकरणसूत्र पाये जाते हैं। मूल गाथाओंमें उनकी संख्या इस प्रकार है—१७ से २०, २२ से २७, २६, ३०, ३२ से ३७, ४२ से ६१, ६८, ६६, ७२, ७६ से ८८ से ८८, ९० से ९३, ९५ से ९७, ९९ से १०१, १०३, १०५ से १०८, ११० से ११२, ११४, ११५, ११७ से १२८, १३० से १३२, १३४ से १३७, १३६, १४०, १४२ से १४५, १४७ से १५०, १५२, १५३, १५५ से १५६, १६२, १६४, १७० से १७५, १७७ और १७८।

उक्त विभाजन १८० मूलगाथाओंका है। शेष रही ५३ गाथाओंका वर्गीकरण इस प्रकार है—सम्बन्ध-गाथाएं, अद्धापरिमाण-गाथाएं और संक्रमवृत्ति-गाथाएं।

सम्बन्ध गाथाओंमें प्रस्तुत ग्रन्थके १५ अधिकारोंकी गाथाओंका निर्देश किया गया है, अतएव इनको विषयानुक्रमणी या विषयसूचीरूप होनेसे सूचनासूत्र कहा जा सकता है। अद्धापरिमाणकी १२ गाथाओंमें कालके अल्पवहुत्वका तथा संक्रमवृत्तिकी ३५ गाथाओंमें संक्रमणका विवेचन होनेसे उन्हें व्याकरणसूत्र मानना चाहिए।

६. व्यवस्थाभेद—गाथासूत्रकारने चारित्रमोहनीयकर्मके प्रस्थापक (क्षय करनेवाले)जीवके विषयमें 'संक्रामयपट्टवयरस परिणामो केरिसो हवे' इससे लेकर 'किंठिट्टियाणि कम्माणि' इस गाथा तककी चार गाथाओंको चारित्रमोहक्षपणाधिकारके अन्तर्गत कहा है^२, फिर भी चूर्णिकारने उन्हें दर्शनमोहके उपशमको प्रारम्भ करनेवाले जीवकी प्ररूपणाके समय सम्यक्त्व-अधिकारके प्रारम्भमें कहा है और उनपर वही चूर्णिसूत्र भी रचे है। पर इसमें कोई विरोध नहीं समझना चाहिए, क्योंकि गाथासूत्रकारने उन्हें अन्तदीपकरूपसे चारित्रमोहक्षपणाधिकारमें कहा है, किन्तु चूर्णिकारने आदिदीपकरूपसे उनका प्रतिपादन दर्शनमोहोपशमनाप्रस्थापकके विषयमें किया है। उन चारों गाथाओंका प्रतिपादन दर्शनमोहोपशम-प्रस्थापकके समान दर्शनमोहक्षपणा-प्रस्थापक^३, संयमासंयम-प्रस्थापक^४, सयमप्रस्थापक^५, चारित्रमोहोपशमना-प्रस्थापक^६, और चारित्रमोहक्षपणा-प्रस्थापक^७ लिए भी आवश्यक हैं। यही कारण है कि दर्शनमोहोपशमना-प्रस्थापकका आश्रय लेकर प्रारम्भमें ही चूर्णिकारने उन चारों ही गाथाओंकी विभाषा (व्याख्या) की है और आगे उक्त चारों अधिकारोंके प्रारम्भमें समर्पण-सूत्रोंके द्वारा उन चारों ही गाथाओंकी विभाषा करनेके लिए उच्चारणाचार्यों और व्याख्यानाचार्योंको सूचना कर दी है। यदि चूर्णिकार ऐसा न करते, तो अभ्यासीको यह पता भी न लगता, कि उन गाथाओंके व्याख्यानकी आवश्यकता इसके पूर्व भी उक्त स्थलों पर है।

७. गाथाओंकी गम्भीरता और अनन्तार्थगर्भिता—कसायपाहुडकी किसी-किसी गाथाके एक-एक पदको लेकर एक-एक अधिकारका रचा जाना तथा तीन गाथाओंका पांच अधिकारोंमें निबद्ध होना ही गाथासूत्रोंकी गम्भीरता और अनन्त-अर्थ-गर्भिताको सूचित करता है। वेदक अधिकारकी 'जो जं संक्रामेदि य' (गाथाङ्क ६२) गाथाके द्वारा चारों प्रकारके बन्ध, चारों प्रकारके संक्रमण, चारों प्रकारके उदय, चारों प्रकारकी उदीरणा और चारों प्रकारके सन्वसम्बन्धी अल्पवहुत्वकी सूचना निश्चयतः उसके गाम्भीर्य और अनन्तार्थगर्भित्वकी साक्षी है।

१ देखो पृ० ८८३, सू० १४३१। २ 'चत्तारि य पट्टवए गाहा' गा० ७। ३ देखो पृ० ६४२। ४ देखो पृ० ६६१। ५ देखो पृ० ६६६। ६ देखो पृ० ६८१। ७ देखो पृ० ७३८।

यदि इन गाथासूत्रोंमें अन्तर्निहित अनन्त अर्थको चूर्णिकार व्यक्त न करने, तो आज उनका अर्थ-बोध होना असंभव था।

८. एक प्रश्न—जबकि कसायपाहुडको पन्द्रह अधिकारोंमें विभक्त किया गया है और सभी अधिकारोंकी गाथाएं भी पृथक्-पृथक् निरूपण की गई हैं, तब क्या कारण है कि प्रारम्भके ५ अधिकारोंमें केवल ३ गाथाएं ही बतलाई गई हैं? क्या वेदक, उपयोग, व्यजन आदि शेष अधिकारोंके समान प्रारम्भके ५ अधिकारोंमें भी थोड़ी बहुत गाथाओंको नहीं रचा जा सकता था? यदि हां, तो फिर क्यों नहीं वैसा किया गया, और क्यों ३ गाथाओंके द्वारा ही ५ अधिकारोंके प्रतिपाद्य विषयका निर्देश कर दिया गया? यह एक प्रश्न ग्रन्थके प्रत्येक ग्रन्थासीके हृदयमें उठे बिना नहीं रह सकता? यद्यपि इस प्रश्नका उत्तर सहज नहीं है, तथापि गुणधराचार्यके समयकी स्थितिका अध्ययन करनेसे उक्त प्रश्नका बहुत कुछ समाधान हो जाता है।

प्रारम्भके ५ अध्यायों पर रचे गये चूर्णिसूत्रोंके अध्ययनसे पता चलता है कि इन अधिकारोंका प्रतिपाद्य विषय वही है, जोकि महाकम्मपयडिपाहुडमें वर्णन किया गया है। कसायपाहुडका उद्गमस्थान पांचवे पूर्वकी दशवीं वस्तुका तीसरा पेज्जदोसपाहुड है, जबकि महाकम्मपयडिपाहुड दूसरे पूर्वकी पंचम वस्तुका चौथा पाहुड है। गुणधराचार्य पांचवें पूर्वके पूर्ण पाठी भले ही न हों, पर उसके एक देशपाठी तो निश्चयतः थे ही। अतः यह अर्थापत्तिसे सिद्ध है कि वे महाकम्मपयडिपाहुडके भी पारंगत थे। उनके द्वारा कसायपाहुडका रचा जाना यह सिद्ध करता है कि उनके समयमें उक्त पंचम पूर्वगत पाहुडोंके ज्ञानका भी हास होने लगा था। साथ ही कसायपाहुडके प्रारम्भिक ५ अधिकारोंपर गाथासूत्रोंका न रचा जाना और मात्र ३ गाथाओंके द्वारा उनके प्रतिपाद्य विषयकी सूचनामात्र करना यह सिद्ध करता है कि यतः उनके समयमें महाकम्मपयडिपाहुडका पठन-पाठन अच्छी तरहसे प्रचलित था, अतः उन्होंने उन अधिकारोंपर गाथाओंकी रचना करना अनावश्यक समझा और मात्र ३ गाथाओंके द्वारा उसकी सूचना कर दी। किन्तु कसायपाहुडकी गाथाओंको यतिवृषभके पास तक पहुंचते-पहुंचते मध्यवर्ती कालमें महाकम्मपयडिपाहुडके ज्ञानका बहुत कुछ अंशमें विच्छेद हो गया था, और जो कुछ उसका आशिक ज्ञान बचा था, वह पट्खंडागम, कम्मपयडी, आदि प्रकीर्णक ग्रन्थोंमें निबद्ध हो चुका था, अतः उन्होंने प्रारम्भके ५ अधिकारोंका विशद व्याख्यान करना उचित समझा। यही कारण है कि जब गुणधराचार्यने प्रारम्भके ५ अधिकारोंपर केवल ३ गाथाएं रचीं, तब यतिवृषभने उनपर ३२४१ चूर्णिसूत्र रचे, जो कि समस्त चूर्णिसूत्रोंकी संख्याके आधेके लगभग है, क्योंकि कसायपाहुडके समस्त चूर्णिसूत्रोंकी संख्या ७००६ है।

यहां एक बात और भी ज्ञातव्य है कि प्रारम्भके पांच अधिकारोंके चूर्णिसूत्रोंकी उक्त संख्या वास्तवमें पाचकी नहीं, अपि तु चारकी ही है, क्योंकि बन्धनामक चौथे अधिकारपर तो यतिवृषभने मात्र ११ सूत्रोंके द्वारा प्रतिपाद्य विषयकी सूचना भर की है और उनमें स्पष्टरूपसे यह कहा है कि बन्धके चारों भेदोंका अन्यत्र बहुत विस्तारसे वर्णन किया गया है (अतः हक उनका वर्णन यहा नहीं करते हैं)। जयधवलकाकार इस स्थलपर लिखते हैं कि यहाँ पर समस्त महाबन्धके—जिसका कि प्रमाण ३० हजार श्लोकपरिमाण हैं—प्ररूपण करने पर बन्धनामक चौथा अधिकार पूर्ण होता है। यदि यतिवृषभ सक्रमण अधिकारके समान अति सक्षेपसे भी चारों प्रकारके बन्धोंका निरूपण करते, तो भी उक्त अधिकारके चूर्णिसूत्रोंकी संख्या लगभग दो हजारके अवश्य होती, क्योंकि अकेले संक्रमण अधिकारके चूर्णिसूत्रोंकी संख्या १८५३ है, जबकि बहुतसे अनुयोगद्वारोंके विवेचनका भार चूर्णिकारने उच्चारणाचार्यों पर छोड़ा है। यदि संक्रमणके समान बन्ध अधिकारके चूर्णिसूत्रोंकी काल्पनिक संख्या दो हजार ही मानी जावे, तो प्रारम्भके ५ अधिकारोंके चूर्णिसूत्रोंकी संख्या कम-से-कम ५ हजार अवश्य होती।

इस विवेचनसे जहां उक्त प्रश्नका भलीभाँति समाधान होता है, वहां यह एक विशिष्ट बात भी अभिज्ञात होती है कि गुणधराचार्य महाकम्मपयडिपाहुडके पूर्ण वेत्ता थे। तथा जिस प्रकार गुणधराचार्यने अपने समयमें पंचम पूर्वगत पेज्जदोसपाहुडका ज्ञान विलुप्त होते हुए देखकर उसका कसायपाहुडके रूपमें उपसहार करना उचित समझा, ठीक उसी प्रकारसे धरसेनाचार्यने अपने समयमें दिन-पर-दिन महाकम्मपयडिपाहुडके ज्ञानको विलुप्त होते हुए देखकर तथा अपनी अल्पायुपर ध्यान देकर श्रुतरक्षाके विचारसे भूतवलि और पुष्पदन्तको बुलाकर उसे समर्पण करना उचित समझा। इससे गुणधराचार्यका धरसेनाचार्यसे पूर्ववर्ती होना और भी असंदिग्धरूपसे स्वतः सिद्ध हो जाता है।

६. गाथासूत्रोंके पठन-पाठनके अधिकारी—गाथासूत्रोंकी रचना-शैलीको देखते हुए यह सहजमें ही ज्ञात हो जाता है कि इनकी रचना उच्चारणचार्यों, व्याख्यानाचार्यों या वाचकाचार्योंको लक्ष्यमें रखकर की गई है, जो कि उस समय प्रचुरतासे पाये जाते थे। ये लोग एक प्रकारसे उपाध्यायपरमेष्ठी हैं। यदि ये व्याख्यान करनेवाले आचार्य गाथाओंके अन्तर्निहित अर्थका शिष्योंको व्याख्यान न करते, उन्हें स्पष्ट प्रकट करके न बतलाते, तो उनका अर्थ-परिज्ञान असंभव-सा था। इसका कारण यह है कि अनेक गाथासूत्र केवल प्रश्नात्मक हैं और उनमें प्रतिपाद्य विषयका कुछ भी प्रतिपादन नहीं करके उसके प्रतिपादनका संकेतमात्र किया गया है। गुरु-परम्परासे प्राप्त अर्थका अवधारण करनेवाले आचार्योंके बतलाये बिना उनके अर्थका ज्ञान हो नहीं सकता है। जो प्रश्नात्मक या पृच्छासूत्रात्मक गाथाएँ हैं, उन्हें एक प्रकारके नोट्स, यादी-विषयको स्मरण करानेवाली सूची-या तालिका कहना चाहिए। गाथासूत्रोंमें आये हुए 'एव सव्वथ कायव्वं' जैसे पदोंके द्वारा भी इसी बातकी पुष्टि होती है। यही कारण है कि गुणधर-प्रथित उक्त गाथाएं आचार्य-परम्परासे व्याख्यात होती हुई आर्यमंजु और नागहस्ती जैसे महा-वाचकोंको प्राप्त हुईं, जोकि अपने समयके सर्व-वाचकों या व्याख्यानाचार्योंमें शिरोमणि, अग्रणी, या सर्वश्रेष्ठ थे और यही कारण है कि उन दोनोंसे यतिवृषभने गाथासूत्रोंके अर्थका सम्यक् प्रकारसे अवधारण किया।

कसायपाहुडके चूर्णिसूत्रोंपर एक दृष्टि

जयधवलाकारके उल्लेखानुसार आ० यतिवृषभने आर्यमंजु और नागहस्ती के पास कसायपाहुडकी गाथाओंका सम्यक् प्रकार अर्थ अवधारण करके सर्व प्रथम उन पर चूर्णिसूत्रोंकी रचना की। आ० इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारसे भी इसकी पुष्टि होती है †। दोनोंने ही उनके इन चूर्णिसूत्रोंको वृत्तिसूत्र कहा है ‡। धवला और जयधवला टीकाओंमें चूर्णिसूत्रोंका सहस्रों वार उल्लेख होने पर भी चूर्णिसूत्रका कोई लक्षण दृष्टिगोचर नहीं हुआ। हां, वृत्तिसूत्रका लक्षण जयधवलामें अवश्य उपलब्ध है, जो कि इस प्रकार है—

सुत्तस्सेव विवरणाए सखित्तसहरयणाए संगहियसुत्तासेसत्थाए वित्तिसुत्तवव-
एसादो । (जयध० अ० प० ५२)

❧ पृ० ६०५, गा० ८५ ।

* पुराणे तेसि दोण्ह पि पादमूले असीदिसदगाहारा गुणहरमुहकमलविणिंगयाणमत्थ सम्म सोऊण जयिवसहभडारणा पवयणावच्छलेण चुण्णिणसुत्त कय । जयध० भा० १ पृ० ८८.

‡ तेन ततो यतिपतिना तद्गाथावृत्तिसूत्ररूपेण । रचितानि पट्सहस्रग्रन्थान्यथ चूर्णि-
सूत्राणि ॥ इन्द्र० श्रु० श्लो० १५६.

† सो वित्तिसुत्तकत्ता जइवसहो मे वरं देऊ ॥ जयध० भा० १ पृ० ४.

अर्थात् जिसकी शब्द-रचना संचिप्त हो, और जिसमें सूत्रगत अशेष अर्थोंका संग्रह किया गया हो, सूत्रोंके ऐसे विवरणको वृत्तिसूत्र कहते हैं।

वृत्तिसूत्रका उक्त लक्षण यतिवृषभके चूर्णिसूत्रों पर पूर्णरूपसे घटित होता है। उनकी शब्द-रचना संचिप्त है, और सूत्र-सूचित समस्त अर्थोंका उनमें विवरण पाया जाता है।^१ पर इतना होनेपर भी यह बात तो अन्वेषणीय बनी ही रहती है कि आखिर इस 'चूर्णि' पदका अर्थ क्या है और क्यों यतिवृषभके इन वृत्तिसूत्रोंको 'चूर्णिसूत्र' कहा जाता है। श्वे० आगमों पर भी चूर्णिया रची गई हैं, पर उन्हे या उनमेंसे किसीको भी 'चूर्णिसूत्र' नाम दिया गया हो, ऐसा हमारे देखनेमें नहीं आया। श्वे० ग्रन्थोंमें एक स्थान पर 'चूर्णिपद' का लक्षण इस प्रकार दिया गया है—

अर्थवहुलं महत्त्वं हेउ-निवाओवसग्गंभीरं ।

बहुपायमवोच्छिन्नं गम-णयसुद्धं तु चुण्णपयं ॥

अर्थात् जो अर्थ-बहुल हो, महान् अर्थका धारक या प्रतिपादक हो, हेतु, निपात और उपसर्गसे युक्त हो, गम्भीर हो, अनेक पाद-समन्वित हो, अव्यवच्छिन्न हो, अर्थात् जिसमें वस्तुका स्वरूप धारा-प्रवाहसे कहा गया हो, तथा जो अनेक प्रकारके गम—जाननेके उपाय और नयोंसे शुद्ध हो, उसे चूर्ण अर्थात् चूर्णिसम्बन्धी पद कहते हैं।

चूर्णिपदकी यह व्याख्या यतिवृषभचार्यके चूर्णिसूत्रोंपर अक्षरशः घटित होती है। चूर्णिपदका इतना स्पष्ट अर्थ जान लेनेके पश्चात् भी यह शका तो फिर भी उठती है कि 'वृत्ति'के स्थान पर 'चूर्णि' पदका प्रयोग क्यों किया गया और जैनसाहित्यमें ही क्यों यह पद अविक्रतासे व्यवहृत हुआ ? जब कि जैनैतर साहित्य में वृत्ति, विवृति आदि नाम ही व्यवहृत एव प्रचलित दृष्टिगोचर होते हैं ?

'चूर्णि' पदकी निरुक्ति पर ध्यान देनेसे हमें उक्त शंकाका समाधान मिल जाता है। सस्कृतमें चूर्ण धातु पेपण या विश्लेषणके अर्थमें प्रयुक्त होती है। किसी गेहूँ चना आदि बीज-के पिसे हुए अशको चूर्ण कहते हैं और अनेक प्रकारके चूर्णोंके समुदायको चूर्ण कहते हैं। तीर्थंकर भगवान्की दिव्यध्वनिको अनन्त अर्थसे गर्भित × बीजपद रूप कहा गया है और बीजपदका लक्षण धवलामें इस प्रकार दिया गया है—

संखित्तसदरयणमणंतत्थावगमहेदुभूदाणंगलिंगसंगयं बीजपदं णाम ॥

(धवला आ० प० ५३६)

अर्थात् जिसकी शब्द रचना संचिप्त शब्दोंसे हुई हो, जो अनन्त अर्थोंके ज्ञानके कारण-भूत हो, अनेक प्रकारके लिंग या चिन्होंसे संगत हो, ऐसे पदको बीजपद कहते हैं। कसायपाहुडकी गाथासूत्रोंमें ऐसे बीजपद प्रचुरतासे पाये जाते हैं। उन बीजपदोंका आ० यतिवृषभने अपनी प्रस्तुत वृत्तिमें बहुत उत्तम प्रकारसे विप्लेशण-पूर्वक विवरण किया है, अतः उनकी यह वृत्ति चूर्णिके नामसे प्रसिद्ध हुई है।

कसायपाहुडकी गाथाओंमें किस प्रकारके या कौनसे बीज पद प्रयुक्त हुए हैं और वे किस प्रकार अनन्त अर्थसे गर्भित हैं, तथा उनका प्रस्तुत चूर्णि सूत्रोंमें किस प्रकारसे विश्लेषण

१ देखो अभिधानराजेन्द्र 'चुण्णपद' ।

× अणतत्वगग्म-बीजपद-पडिय-सरीरा । जयध० भा० १ पृ० १२६

करके उनके अन्तर्निहित अर्थके रहस्यका उद्घाटन चूर्णिकारने किया है, इस बातके परिज्ञानार्थ कुछ वीजपद उदाहरणके रूपमें उपस्थित किये जाते हैं।

कर्मविभक्ति का वर्णन करते हुए कसायपाहुडकी चौथी मूलगाथाका अवतार किया गया है, जो कि इस प्रकार है—

पयडीए मोहणिज्जा विहत्ती तह ट्टिदीए अणुभागे ।

उकस्समणुक्कस्सं भीणमभीणं च ठिदियं वा ॥

इसमें बतलाया गया है कि कर्मविभक्तिके विषयमें मोहनीय कर्मकी प्रकृतिविभक्ति, स्थितिविभक्ति, अनुभागविभक्ति, उत्कृष्ट-अनुकृष्ट प्रदेशविभक्ति, क्षीणाक्षीण और स्थित्यन्तिककी प्ररूपणा करना चाहिए।

गाथासूत्रकारने कर्मविभक्तिके वर्णन करनेके लिए इतनी मात्र सूचना करनेके अतिरिक्त और कुछ भी वर्णन नहीं किया है। चूर्णिकारने गाथाके प्रत्येक पदको वीज पद मान करके प्रकृति-विभक्तिका १२६ सूत्रोंमें, स्थितिविभक्तिका ४०७ सूत्रोंमें, अनुभागविभक्तिका १८६ सूत्रोंमें प्रदेशविभक्तिका २६२ सूत्रोंमें, क्षीणाक्षीणका १४२ सूत्रोंमें और स्थित्यन्तिकका १०६ सूत्रोंमें वर्णन करके उसी वीजपदके नामसे पृथक् पृथक् अधिकारकी रचना की है। उक्त वीज पदोंके व्याख्यारूप उक्त अधिकारोंमें भी तद्गत विषयोंका कुछ प्रारम्भिक वर्णन करके शेष कथनके वर्णनका भार व्याख्यानाचार्यों या उच्चारणाचार्यों पर छोड़ दिया गया है। यदि प्रत्येक वीजपदके अन्तर्निहित पूर्ण रहस्यका वर्णन चूर्णिकार करते, तो चूर्णिसूत्रोंकी संख्या कई हजार होती। जिन बातोंके प्ररूपण करनेका भार चूर्णिकारने उच्चारणाचार्यों पर छोड़ा है, उच्चारणाचार्यने उसका वर्णन किया है और उस उच्चारणावृत्तिका प्रमाण १२ हजार श्लोकपरिमाण हो गया है। पर चूर्णिकारने 'वृत्तिसूत्र' इस नामके अनुरूप अपनी रचना संक्षिप्त, पर अर्थ-बहुल पदोंके द्वारा ही की है, इसलिए पर्याप्त प्रमेयका प्रतिपादन करने पर भी उनके चूर्णिसूत्रोंकी ग्रन्थ-संख्या ६ हजार श्लोक-प्रमाण ही रही है।

चूर्णिकारने वीजपदोंका स्वयं भी अपनी चूर्णिसूत्रोंमें उल्लेख किया है। यथा—

सेसाणं पि कम्माणमेदेण वीजपदेण शेदव्वं । (स्थिति० सू० ३४२)

सेसाणं कम्माणमेदेण वीजपदेण अणुमग्गिदव्वं । (स्थिति० सू० ३५२)

जयधवलाकारने कसायपाहुडचूर्णिके अनेक सूत्रोंको विभिन्न नामोंसे उल्लेख किया है, जिन्हे इस प्रकार विभक्त किया जा सकता है—१ उत्थानिकासूत्र, २ अधिकारसूत्र, ३ आशकासूत्र ४ पृच्छासूत्र, ५ विवरणसूत्र, ६ समर्पणसूत्र और ७ उपसंहारसूत्र।

१ उत्थानिकासूत्र—जिनके द्वारा आगे वर्णन किये जाने वाले विषयकी सूचना की गई, उन्हें उत्थानिकासूत्र कहा गया है। जैसे—एत्तो सुत्तसमोदारो (पेज्जदो० सू० ८७) इमा अण्णा परूवणा (प्रदेशवि० सू० ६६) कालो (प्रदेशवि० सू० ६७) अंतरं (प्रदेशवि० सू० १०८) इत्यादि।

२ अधिकारसूत्र—अधिकार या अनुयोगद्वारके प्रारम्भमें दिये गये सूत्रोंको अधिकार सूत्र कहा गया है। जैसे—एत्तो अणुभागविहत्ती (अनुभा० सू० १) एत्तो पदणिक्खेवो (स्थिति० सू० ३१५) एत्तो वड्ढी (स्थिति० सू० ३२७) आदि।

३ आशंकासूत्र—किसी विषयका वर्णन करते हुये तद्गत विशेष वक्तव्यके लिए शंका उठाने वाले वाक्यको आशंकारूत्र कहा गया है। जैसे—अट्टावीरां केण कारणेण ण संभवइ ? (संक्रम० सू० १३४) कथं ताव णोजीवो ? (पेज्जदो० सू० ५५) आदि।

४ पृच्छासूत्र—वक्तव्य विषयकी जिज्ञासा प्रकट करनेवाले सूत्रोको पृच्छासूत्र कहा गया है। जैसे—छव्वीससंक्रामया केवचिरं कालादो होंति ? (संक्रम० १६४) तथा तं जहा, जहा, जधा आदि।

५ विवरणसूत्र—प्रकृत विषयके विवरण या व्याख्यान करनेवाले सूत्रोको विवरणसूत्र कहा गया है। जैसे—णामं छव्विहं, पमाणं सत्तविहं, वत्तव्वदा ति विहा (पेज्जदो० सू० ३, ४, ५,) आदि।

६ समर्पणसूत्र—किसी वक्तव्य वस्तुके आंशिक विवरणके पश्चात् तत्समान शेष वक्तव्यके भी जान लेनेकी, अथवा उच्चारणाचार्योको उनके प्ररूपण करनेकी सूचना करनेवाले सूत्रोको अर्पण या समर्पणसूत्र कहा गया है। जैसे—गदीसु अणुमग्गिदव्वं (स्थिति० सू० २३) जहा मिच्छत्तस्स तहा सेसाणं कम्मणं (स्थिति सू० ३८२) एत्तो मूलपयडिअणु-भागविहत्तो भाणिदव्वा । (अनुभा० २) इत्यादि।

७ उपसंहारसूत्र—प्रकृत विषयका उपसंहार करनेवाले सूत्रोको उपसंहारसूत्र कहा गया है। जैसे— एसा ताव एका परूवणा (प्रदेश० सू० ६८) तदो तदियाए गाहाए विहासा समत्ता (उपयो० सू० १८२) तदो छट्ठी गाहा समत्ता भवदि । (उपयो० सू० २७३) इत्यादि।

चूर्णिसूत्रोंकी रचना किसके लिए ?

जिस प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थके गाथासूत्रोंकी रचना उच्चारणाचार्यो या व्याख्यानाचार्योको लक्ष्यमें रखकर की गई है, उसी प्रकारसे चूर्णिसूत्रोंकी रचना भी उन्हींको लक्ष्यमें रख करके की गई है, यह बात भी चूर्णिसूत्रोंके अव्ययनसे स्पष्ट ज्ञात हो जाती है। चूर्णिसूत्रोंमें आये हुए, 'भाणियव्वा, शेदव्वा, कायव्वा, परूवेयव्वा आदि पदोंका प्रचुरतासे प्रयोग इस बातका साक्षी है। जयधवलाकारने इन पदोंका अर्थ करते हुए स्पष्ट शब्दोंमें लिखा है कि उच्चारणाचार्य इसके अर्थका प्रतिबोध शिष्योको करावे। परिशिष्ट न० ६ में दिये गये स्थलोंके निर्देशसे उक्त कथनके स्वीकार करनेमें कोई सन्देह नहीं रह जाता है। चूर्णिकारने जिस अर्थका व्याख्यान नहीं किया है, उनके व्याख्यानका भार या उत्तरदायित्व उन्होंने उच्चारणाचार्यो और व्याख्यानाचार्योके ऊपर छोड़ा है। चूर्णिसूत्रोंमें उच्चारणाचार्योके लिए इस प्रकारकी सूचना दो सौसे भी अधिक बार की गई है और उक्त सूचनाके लिए कुछ विशिष्ट पदोंका प्रयोग किया गया है।

उच्चारणाचार्योको जिन पदोंके प्रयोग-द्वारा यह भार सौंपा गया है, जरा उनपर भी दृष्टिपात कीजिए—

ॐ एदस्स दव्वस्स ओवट्टणं ठविय मिस्साणमेत्थ अत्थपडिवोहो कायव्वो । जयध०

पृष्ठ	प्रयुक्त पद	अर्थ
६७२	अणुगतव्व, ४१ अणुगतव्वाणि ।	(जानना चाहिए)
४६५	अणुचिंतिऊण रोदव्व ।	(चिन्तवन करके ले जाना चाहिए)
६६	अणुमग्गिदव्व, १२० अणुमग्गियव्वो ।	(अनुमार्गण करना चाहिए)
६५७	अणुसवरणोदव्वाओ, ७३७ अणुभासिदव्वाओ ।	(वर्णन करना चाहिए)
४४०	एदाणुमाणिय रोदव्व ।	(इसके द्वारा अनुमान करके बतलाना चाहिए)
६४२	ओट्टिदव्वाओ ।	(स्थापित करना चाहिए)
१०१	कायव्वं, ३४ कायव्वा, २०० कायव्वो, १७५ कायव्वाओ, ६१ कादव्वाणि ।	(प्ररूपण करना चाहिए)
३६३	काऊण ।	(करके)
६६३	गेहिहयव्व ।	(ग्रहण करना चाहिए)
११६	जाणिदव्वो, ११६ जाणियव्वो, ४११ जाणिदूण रोदव्वं ।	(जानना चाहिए)
१८	ठवणिञ्ज, ४६७ ठवणीयं, ४५ थप्पा ।	(स्थापित करना चाहिए)
७११	दट्टव्व ।	(जानना चाहिए)
१६, २८,	णिक्खिवियव्वं, १६ णिक्खिवियव्वो, ४५ णिक्खिवियव्वा ।	(निक्षेप करना चाहिए)
४४०	रोदव्व, ५६ रोदव्वा, १११ रोदव्वाणि, ६२ रोदव्वो ।	(ले जाना चाहिए)
१६४	परुवेदव्वाणि ६७८ परुवेयव्वाणि, ६१४ परुवेयव्वाओ ।	(प्ररूपण करना चाहिए)
४३७,	वधावेयव्वो, वधावेयव्वाओ, ४५३ वधावेदूण वधावेयव्वो ।	(वन्व कराना चाहिए)
६४२	भाणियव्व, १४७ भाणिदव्वा, ३४८ भाणिदव्वो, ५०० भाणियव्वा, ५२६ भाणिदव्वाणि	
३६४	भाणिदव्व ।	(कहलाना चाहिए)
४६७	मग्गिदूण मग्गियव्वा, ६१६ मग्गियव्व, ६१६ मग्गियव्वो ।	(अन्वेषण करना चाहिए)
४६७	मग्गियूण कायव्वा ।	(अन्वेषण करके प्ररूपण करना चाहिए)
५७६	वत्तव्व ।	(कहना चाहिए)
६६६	विहासियूण, ७१३ विहासियव्वाणि, ७३८ विहासियव्वाओ, ४३२ विहासेयव्वं ।	(विशेष व्याख्यान करना चाहिए)
४१२	साधेदूण रोदव्वो ।	(साध करके बतलाना चाहिए)
४१२	साहेयव्व, ५२४ साहेयव्वो ।	(साधन करना चाहिए)

ऊपर दिये गये पदोंके प्रयोगसे यह बात अच्छी तरह सिद्ध हो जाती है कि चूर्णिसूत्रोंकी रचना उच्चारणाचार्यों या व्याख्यानाचार्योंके लिए की गई है और उन्हें उपर्युक्त पदोंके प्रयोग-द्वारा यह भार सौंपा गया है कि वे चूर्णिसूत्रोंमें नहीं कहे गये तत्त्वका प्रतिपादन शिष्योंको अच्छी तरहसे प्ररूपण करें और उन्हें उसका बोध करावे ।

चूर्णिसूत्रोंकी रचनाशैली

चूर्णिसूत्रोंकी रचना संक्षिप्त होते हुए भी बहुत स्पष्ट, प्राञ्जल और प्रौढ है, कहीं एक शब्दका भी निरर्थक प्रयोग नहीं हुआ है । कहीं-कहीं सख्यावाचक पदके स्थान पर गणनाङ्कोंका भी प्रयोग किया गया है, नो जयवलाकारने उसको भी महत्ता और सार्थकता प्रकट की है ।

चूर्णिसूत्रोंके अध्ययनसे ज्ञात होता है कि चूर्णिकारके सामने जो आगमसूत्र उपस्थित थे और उनमें जिन विषयोंका वर्णन उपलब्ध था, उन विषयोंका प्रायः यतिवृषभने छात्र दिया है। किन्तु जिन विषयोंका वर्णन उनके सामने उपस्थित आगमिक साहित्यमें नहीं था और उन्हें जिनका विशेष ज्ञान गुरु-परम्परासे प्राप्त हुआ था, उनका उन्होंने प्रस्तुत चूर्णिसूत्रोंमें विस्तारके साथ वर्णन किया है। इसके सान्नी बन्ध और संक्रम आदि अविचार हैं। यतः महाबन्धमें चारों प्रकारोंके बन्धोंका अति विस्तृत विवेचन उपलब्ध था, अतः उमें एक सूत्रमें ही कह दिया कि 'बहु चारो प्रकारका बन्ध बहुशः प्रस्तुत है' । किन्तु संक्रमण मत्तय उदय और उदीरणाका विस्तृत विवेचन उनके समय तक किसी ग्रन्थमें निबद्ध नहीं हुआ था, अतएव उनका प्रस्तुत चूर्णिसूत्रोंमें बहुत विशद एवं विस्तृत वर्णन किया है। इसीसे यह भी ज्ञात होता है कि यतिवृषभका आगमिक ज्ञान कितना अगाध, गंभीर और विशाल था।

प्रस्तुत चूर्णिसूत्रोंमें पटखंडागमसूत्रोंका प्रतिविम्ब और शैलीका अनुसरण दृष्टिगोचर होता है। पटखंडागमके द्रव्यानुगम, क्षेत्र, स्पर्शन, काल और अन्तरादि प्रहृषणाओंमें जिन प्रकार 'केवडिया, केवडि खेत्ते, केवचिर कालादो होंति' आदि पृच्छाओंका उद्घाटन करके प्रकृत विषयका निरूपण किया गया है, ठीक उसी प्रकारसे प्रस्तुत चूर्णिसूत्रोंमें भी वही शैली और क्रम दृष्टिगोचर होता है। पटखंडागमके छठे खंड महाबन्धमें चारों बन्धोंका जिन २४ अनुयोग-द्वारोंमें निरूपण किया गया है, प्रस्तुत चूर्णिसूत्रोंमें भी चारों विभक्तियों और चारों प्रकारके संक्रमणोंका उन्हीं अनुयोग-द्वारोंसे वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा पाते हैं। भेद केवल इतना है कि महाबन्धमें प्रत्येक बन्धका चौबीस अनुयोगद्वारोंसे ओच (१४ गुणस्थानों) और आदेश (१४ मार्गणाओं) की अपेक्षा प्रकृत विषयका पृथक् पृथक् स्पष्ट विवेचन किया गया है, तो प्रस्तुत चूर्णिसूत्रोंमें दो-चार मुख्य अनुयोगद्वारोंसे ओघकी अपेक्षा प्रकृत विषयका वर्णन कर आदेशकी अपेक्षा गति आदि एकाध मार्गणाका वर्णन किया गया है और शेष मार्गणाओं और अनुयोगद्वारोंकी अपेक्षा प्रकृत विषयके वर्णन करनेका भार उच्चारणाचार्योंके ऊपर छोड़ दिया है। यही कारण है कि यतिवृषभ-द्वारा सौंपे गये उत्तरदायित्वका निर्वाह करनेके लिए उच्चारणाचार्योंने उन-उन अव्याख्यात स्थलोंका व्याख्यान किया और किसी विशिष्ट आचार्यने उसे लिपि-बद्ध करके पुस्तकारूढ कर दिया, जो कि उच्चारणावृत्ति नामसे प्रसिद्ध है। स्थिति, अनुभाग और प्रदेशविभक्तिके प्रारम्भमें महाबन्ध और उच्चारणावृत्तिसे दिये गये विस्तृत टिप्पणोंसे उक्त कथनकी सचाईमें कोई संदेह नहीं रहा जाता है।

चूर्णिसूत्रोंकी संख्या और परिमाण—इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारके अनुसार चूर्णिसूत्रोंका परिमाण ६ हजार श्लोक-प्रमाण है, ऐसा स्पष्ट उल्लेख मिलता है, किन्तु उनकी संख्या कितनी रही है, इसका कहींसे कुछ पता नहीं चलता। हाँ, जयधवला टीकासे इतना अवश्य ज्ञात होता है कि प्रस्तुत चूर्णिका प्रत्येक वाक्य उन्हे सूत्ररूपसे अभीष्ट रहा है, इसलिये स्थान-स्थान पर उन्होंने 'उवरिमसुत्तमाह, सुत्तद्वयमाह' इत्यादि पदोंका प्रयोग किया है। जयधवला टीकाके अनुसार ऐसे पृथक्-पृथक् सूत्ररूपसे प्रतीत होने वाले सूत्रोंके प्रारम्भमें संख्या-वाचक अंक दिये गये हैं, जिससे कि किये गये अनुवादके साथ मूलसूत्रोंके अर्थका मिलान भी किया जा सके और कसाय-पाहुड-चूर्णिके समस्त सूत्रोंकी संख्या भी जानी जा सके। इस प्रकार कसायपाहुडके विभिन्न प्रकारोंके चूर्णिसूत्रोंकी संख्या इस प्रकार है—

अधिकार-नाम	सूत्र-संख्या	अधिकार-नाम	सूत्र-संख्या
प्रेयोद्वेषविभक्ति	११२	वेदक	६६८
प्रकृतिविभक्ति	१२६	उपयोग	३२१
स्थितिविभक्ति	४०७	चतुःस्थान	२५
अनुभागविभक्ति	१८६	व्यंजन	२
प्रदेशविभक्ति	२६२	दर्शनमोहोपशामना	१४०
क्षीणाक्षीणाधिकार	१४२	दर्शनमोहक्षपणा	१२८
स्थित्यन्तिक	१०६	संयमासयमलब्धि	६०
बन्धक	११	संयमलब्धि	६६
प्रकृतिसंक्रमण	२६५	चारित्रमोहोपशामना	७०६
स्थितिसंक्रमण	३०८	चारित्रमोहक्षपणा	१५७०
अनुभागसंक्रमण	५४०	पश्चिमस्कन्ध	५२
प्रदेशसंक्रमण	७४०	समस्त योग	७८०६

जयधवला टीकाके आद्योपान्त आलोड़नसे चूर्णिसूत्रोंके विषयमे कुछ नवीन बातों पर भी प्रकाश पड़ता है। जैसे—

(१) पूर्व सूत्र-द्वारा किसी विषयका प्रतिपादन कर चुकनेके बाद तद्गत विशेषताको बतलानेके लिए 'णवरि' कह कर कहीं पृथक् सूत्ररूपसे उसे अंकित किया गया है, तो कहीं उसे पूर्व सूत्रमे ही सम्मिलित कर दिया गया है। अपृथक्त्वताके उदाहरण—

१. पृ० ६२, सू० ११. एवं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताण । णवरि अतोमुहुत्तूणाओ ।
२. पृ० ३२६, सू० १५४. एवं सेसाणं पयडीणं । णवरि अवत्तव्वया अत्थि ।
३. पृ० ३६२, सू० १६४. एव सम्मामिच्छत्तस्स वि । णवरि सम्मत्तं विज्जमाणेहि भणियव्वं ।
४. पृ० ३८१, सू० ३८६. एवं सेसाणं कम्माणं । णवरि अवत्तव्वसंकामयाणमुक्कस्सेण संखेज्जा समयया । इत्यादि

जयधवला टीकामें इन सभी सूत्रोंके 'णवरि' पदसे आगेके अशकी टीका एक साथ ही की गई है, इसलिए इन्हे विभिन्न सूत्र न मानकर एक ही सूत्र माना गया और तदनुसार ही उन पर एक नम्बर दिया गया है।

(२) अब कुछ ऐसे उद्धरण दिये जाते हैं, जहाँपर 'णवरि' पदसे आगेके अशको भिन्न सूत्र मानकर जयधवलाकारने उत्थानिका-पूर्वक पृथक् ही टीका लिखी है—

१. पृ० ११६, सू० १८३. एवं णवुंसयवेदस्स । १८४. णवरि णियमा अणुकस्सा ।
२. पृ० १३१, सू० २८४. सेसाणं कम्माणं विहत्तिया सव्वे सव्वद्धा । २८५. णवरि अणंताणुवंधीणमवत्तव्वट्टिदिविहत्तियाणं जहणणेण एगसमओ ।
३. पृ० १३६, सू० ३२६. एवं सव्वकम्माणं । ३३०. णवरि अणंताणुवंधीणमवत्तव्वं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमसंखेज्जगुणवड्ढी अवत्तव्वं च अत्थि ।
४. पृ० ३३३, सू० १६६. सेसाणं मिच्छत्तभंगो । १६७. णवरि अवत्तव्वसंकामया भणियव्वा । इत्यादि

(३) चूर्णिसूत्रोमे कुछ सूत्र ऐसे भी है, जो वस्तुतः एक थे, किन्तु टीकाकारने व्याख्याकी सुविधाके लिए उन्हें दो सूत्रोमे विभाजित कर दिया है। जैसे—

१. पृ० १७७, सू० २. तत्थ मूलपयडिपदेसविहत्तीए गदाए । (पृ० १८४) ३. उत्तर-पयडिपदेसविहत्तीए एगजीवेण सामित्तं ।
२. पृ० ४६७, सू० ६. एदाणि वेवि पत्तेगं चउवीसमणियोगदारंहिं मग्गियूण । १०. तदो पयडिङ्गाण-उदीरणा कायव्वा ।
३. पृ० ५१६ सू० ३८४. मूलपयडिपदेसुदीरणं मग्गियूण । ३८५. तदो उत्तरपयडि-पदेसुदीरणा च समुक्कित्तादि-अप्पावहुअंतेहिं अणिओगदारंहि मग्गियव्वा । इत्यादि

ऊपर दिये गये इन तीनों ही उद्धरणोंमे अंकित सूत्र वस्तुतः दो-दो नहीं, किन्तु एक-एक ही है, किन्तु जयध्वलाकारको उक्त तीनों ही स्थलोंपर उच्चारणावृत्तिके आश्रयसे कुछ वक्तव्य-विशेष कहना अभीष्ट था, इसलिए उपर्युक्त तीनों सूत्रोके 'गदाए' और 'मग्गियूण' पदोंसे उन्हें विभाजित कर पूर्वार्थ और उत्तरार्थकी पृथक् पृथक् टीका की है।

इसी प्रकार प्रायः सभी स्थलों पर 'त जहा' को पृथक् सूत्र माना है, तो कहीं कहीं उसे पूर्व या उत्तर सूत्रके साथ सम्मिलित कर दिया गया है। यथा—

१. पृ० ४६, सू० २६. पदच्छेदो । तं जहा—पयडोए मोहणिज्जा विहत्ति त्ति एसा पयडिविहत्ती ।
२. पृ० ६१, सू० ७. तं जहा । तत्थ अहुपदं—एया ङ्घिदी ङ्घिदिविहत्ती, अणोयाओ ङ्घिदीओ ङ्घिदिविहत्ती ।

हमने दो-एक अपवादोंको छोड़कर प्रायः उक्त प्रकारके सर्व स्थलों पर जयध्वलाटीकाका अनुसरण किया है, अतएव जहाँ पर जितने अंशकी पृथक् टीका की गई है, वहाँ पर हमने उतने अंश पर पृथक् सूत्राङ्क दिया है।

चूर्णिकारकी गाथा-व्याख्यानपद्धति—कसायपाहुंडके चूर्णिसूत्रोपर आद्योपान्त दृष्टि डालने पर पाठकको उनकी गाथा-व्याख्यानपद्धतिका सहजमे ही बोध हो जाता है। वे सर्व-प्रथम वक्ष्यमाण गाथाका अवतार करनेके लिए उसकी उत्थानिका लिखते हैं, पुनः उसकी समुत्कीर्तना और तत्पश्चात् उसकी विभाषा करते हैं। गाथासूत्रोके उच्चारणको समुत्कीर्तना कहते हैं और गाथासूत्रसे सूचित अर्थके विषय-विवरण करनेको विभाषा+ कहते हैं। विभाषा भी दो प्रकारकी होती है एक प्ररूपणाविभाषा और दूसरी सूत्रविभाषा। जिसमें सूत्रके पदोंका उच्चारण न करके सूत्र-द्वारा सूचित किये गये समस्त अर्थकी विस्तारसे प्ररूपणा की जाती है, उसे प्ररूपणाविभाषा कहते हैं और जिसमे गाथासूत्रके अवयवभूत पदोंके अर्थका परामर्श करते हुए सूत्र-स्पर्श किया जाता है उसे सूत्रविभाषा कहते हैं*।

* समुक्कित्ताणाम उच्चारणविहासणणाम विवरण । जयध०

+ मुत्तेण सूचिदत्थस्स विसेसियूण भासा विहासा विवरण ति वुत्त होदि । जयध०

* विहासा द्दुविहा होदि—पररूपणाविहासा सुत्तविहासा चेदि । तत्थ पररूपणाविहासा णाम सुत्तपदाणि अणुच्चारिय सुत्तमूचिदासेसत्थस्स वित्थस्पररूपणा । सुत्तविहासा णाम गाहामुत्ताणमवयवत्थ-परामरसमुहेण सुत्तफासो । जयध०

प्रस्तुत चूर्णमें कसायपाहुडके गाथासूत्रोंकी समुत्कीर्तना तो यथास्थान सर्वत्र की गई है, पर विभापाके प्रकारमें अन्तर दृष्टिगोचर होता है। कहीं पर प्ररूपणाविभापा की गई है, तो कहीं पर सूत्रविभापा। सूत्रविभापाके उदाहरणके लिए पृ० ४६ पर 'पयडीए मोहणिज्जा' इस २२ वीं गाथाकी और पृ० २५३ पर 'संकम-उवकमविही' इत्यादि २४, २५ और २६ वीं गाथाकी व्याख्या देखना चाहिए, जहांपर कि 'पदच्छेदो' कहकर गाथासूत्रके एक-एक पदका उच्चारण करते हुए उनसे सूचित अर्थको प्रकट किया गया है। पर इस प्रकारकी सूत्रविभापा समग्र ग्रन्थमें बहुत कम गाथाओंकी दृष्टिगोचर होती है। चूर्णिकारने अधिकांशमें गाथासूत्रोंकी प्ररूपणाविभापा ही की है। अनेक गाथासूत्र ऐसे भी हैं, जिनकी दोनों ही प्रकार की विभापा उनके सुगम होनेसे नहीं की गई है और समुत्कीर्तनामात्र करके लिख दिया है कि इसकी समुत्कीर्तना ही विभापा है॥

यदि आ० गुणधर-प्रणीत गाथासूत्रोंकी संख्या २३३ ही मानी जाय, तो ५३ गाथासूत्र ऐसे हैं, जिनपर कि एक भी चूर्णिसूत्र नहीं लिखा गया है। ऐसे गाथासूत्रोंके क्रमाङ्क इस प्रकार हैं—२, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८ तथा ८६, ८७, ८८, ८९ और ९०।

गाथाङ्क १ पर जो चूर्णिसूत्र है, वे प्रथम गाथाके प्ररूपणाविभापात्मक न होकर उपक्रम-परिभापात्मक हैं। गाथाङ्क १३-१४ पर वस्तुतः व्याख्यात्मक एक भी चूर्णिसूत्र नहीं है, अपितु चूर्णिकारने अपनी दृष्टिसे एक नये प्रकारसे कसायपाहुडके १५ अधिकारोंका प्रतिपादन किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कसायपाहुडकी १८० गाथाओंसे बाह्य जो ५३ गाथाएं हैं और जिनके कि गुणधर-प्रणीत होनेके विषयमें मतभेद है, उनमेंसे २४, २५ और २६ इन तीन नम्बर वाली गाथाओं पर ही चूर्णिसूत्र उपलब्ध है, शेष ५० गाथाओंकी चूर्णिकारने कुछ भी व्याख्या नहीं की है। इस प्रकार केवल १८३ गाथाओं पर ही चूर्णिसूत्र उपलब्ध होते हैं। इनमें भी २० गाथाएं ऐसी हैं, जिन पर कि नाममात्रको चूर्णिसूत्र मिलते हैं। गाथाङ्क १५५ पर पृ० ७७८ में कहा गया है—

४०३. एदिस्से एका भासगाहा । ४०४ तिस्से समुक्कित्थणा च विहासा च कायव्वा । ४०५. तं जहा ।

ये चूर्णिसूत्र भी विभापात्मक न होकर पूर्वापर सम्बन्ध-द्योतक या उत्थानिकात्मक हैं। उक्त प्रकारके गाथासूत्रोंकी क्रमसंख्या इस प्रकार है—१३६, १५५, १५७, १६२, १६८, १८४, १८६, १९१, १९४, १९७, १९८, १९९, २०४, २०७, २१४, २१६, २१८, २२६, २३२ और २३३।

कुछ गाथाएं ऐसी भी हैं, जिनकी पृथक्-पृथक् विभापा नहीं की गई है, किन्तु एक प्रकरण या अधिकारसम्बन्धी गाथाओंकी एक साथ समुत्कीर्तना करके पीछेसे उनकी प्ररूपणा-विभापा कर दी गई है। जैसे वेदक अधिकारमें ५६ से ६२ तककी ४ गाथाओंकी, उपयोग अधिकारमें ६३ से लेकर ६६ तक ७ गाथाओंकी, चतु स्थान अधिकारमें ७० से लेकर ८५ तक १६ गाथाओंकी, व्यंजन अधिकारमें ८६ से लेकर ९० तक ५ गाथाओंकी, सम्यक्त्वअधिकारमें ९१ से ९४ तक ४ गाथाओंकी तथा ९५ से लेकर १०६ तक १५ गाथाओंकी, दर्शनमोहचरणामें ११० से लेकर ११४ तक ५ गाथाओंकी, और चारित्रमोहोपशामना-अधिकारमें ११६ से लेकर १२३ तक

आठ गाथाओंकी एक साथ समुत्कीर्तना करके पीछे उनमें यथावश्यक कुछ गाथाओंकी प्ररूपणा-विभाषा करके शेषकी प्ररूपणाका भार उच्चारणाचार्योंपर छोड़ दिया गया है। केवल एक चारित्रमोहक्षपणा नामक पन्द्रहवां अधिकार ही ऐसा है कि जिसके ११० गाथाओंकी चूर्णिकारने पृथक्-पृथक् उत्थानिका, समुत्कीर्तना और विभाषा की है। जहा यह पन्द्रहवां अधिकार गाथा-सूत्रोंकी अपेक्षा सबसे बड़ा है, वहां इसके चूर्णिसूत्रोंकी संख्या भी सबसे अधिक अर्थात् १५७२ है।

यहां एक बात ध्यान देने जैसी है कि चूर्णिकारने सुगम होनेसे व्यंजन नामक अधिकारकी ५ गाथाओंमें से किसी पर भी एक चूर्णिसूत्र नहीं लिखा है। केवल उत्थानिकारूपसे अधिकारका आरम्भ करते हुए '१. वंजणे त्ति अणियोगदारस्स सुत्तं । २. तं जहा ।' ये दो सूत्र ही लिखे हैं। कहनेका सारांश यह है कि चूर्णिकारने जिन गाथासूत्रोंको सुगम समझा, उनकी विभाषा नहीं की है और जिन गाथासूत्रों पर जहां जो विशेष बात कहना जरूरी समझा है, वहां उसे कहा है।

चूर्णिकारके व्याख्यानकी एक विशेषता यह है कि जहां कहीं उन्हें कुछ विशेष बात कहना होती है, वहां वे स्वयं ही 'कथ' केण कारणेण, कथ सत्थाणपदाणि भवन्ति, आदि कहकर पहले शकाका उद्भावन करते हैं और पीछे उसका सयुक्तिक समाधान करते हैं। इसके लिए देखिए पृ० २२, २३, २६, १८६, १६३, २०६, २१४, ३१६, ३१७, ४६३, ५८६, ५६१, ६१६, ६६२, ७१५, ७८६, ८३३, ८५७, ८६२, ८७४, ८८१, ८८४, ८८७, ८८८, ८८०, ८६२ इत्यादि।

क्षीणाक्षीण और स्थित्यन्तिक अधिकारोंका वर्णन तो आशंकाको उठाकर ही किया गया है। चारों विभक्तियोंका, सक्रम और उदीरणा अधिकारमें स्वामित्व, काल और अन्तरादिक अनुयोगद्वारोंका वर्णन पृच्छापूर्वक ही किया गया है।

दो प्रकारके उपदेशोंका उल्लेख

चूर्णिकारने कुछ विशिष्ट स्थलों पर दो प्रकारके उपदेशोंका उल्लेख किया है। उनमेंसे उन्होंने एकको 'पवाइज्जंत उपदेश' कहा है और दूसरेको 'अन्य उपदेश' कहकर सूचित किया है। जिसका अर्थ जयधवलाकारने 'अपवाइज्जंत उपदेश' किया है। जहाँ जहाँ ऐसे मत-भेदोंका उल्लेख चूर्णिकारने किया है वहाँ वहाँ जयधवलाकारने उनके अर्थका भी कुछ न कुछ स्पष्टीकरण किया है। जयधवलाकारने पवाइज्जंत या पवाइज्जमान (प्रवाह्यमान) उपदेशको आर्य न्नागहस्तीका और अपवाइज्जंत या अपवाइज्जमान (अप्रवाह्यमान) उपदेशको आर्यमज्जुका बतलाया है। प्रायः सर्व स्पष्टीकरणोंमें उक्त समता होते हुए भी दो एक स्थलों पर कुछ विषमता या विभिन्नता भी दृष्टि-गोचर होती है। यथा—

(१) पृ० ५६२ पर कषायोंके उपयोग-कालका अल्पबहुत्व बतलाते हुए सर्व प्रथम चूर्णिकारने इस मत-भेदका उल्लेख किया है। जो इस प्रकार है—

१६. पवाइज्जंतेण उवदेसेण अद्धानं विसेसो अंतोमुहुत्तं ।

अर्थात् प्रवाह्यमान उपदेशकी अपेक्षा क्रोधादि कषायोंके उपयोगकालगत विशेषताका प्रमाण अन्तर्मुहूर्त है।

इस पर टीका करते हुए जयधवलाकार लिखते हैं—

“को वुण पवाइज्जंतोवएसो णाम वुत्तमेदं ? सच्चाइरियसम्मदो चिरकालम-

वोच्छ्रयणसंपदायक्रमेणागच्छमाणो जो सिस्सपरंपराए पवाइज्जदे पएणविज्जदे, सो पवाइज्जतोवएसो त्ति भएणदे । अथवा अज्जमखुभयवंताणमुवएसो एत्थापवाइज्ज-माणो णाम । णागहत्थिखवणाणमुवएसो पवाइज्जंतओ त्ति वेत्तव्वं ।”

अर्थात् जो उपदेश सर्व आचार्योंसे सम्मत है, चिरकालसे अविच्छिन्न सम्प्रदायक्रमसे आ रहा है और शिष्य-परम्पराके द्वारा प्रवाहित किया जा रहा है—जिज्ञासु जनोंको प्रज्ञापित किया जा रहा है—उसे पवाइज्जंत उपदेश कहते हैं। (इससे विपरीत उपदेशको अपवाइज्जंत उपदेश जानना चाहिए।) अथवा भगवन्त आर्यमंजुका उपदेश अपवाइज्जंत और नागहस्तिक्षपणकका उपदेश पवाइज्जंत जानना चाहिए।

यद्यपि इस अवतरणमें स्पष्टरूपसे आर्यमंजुके उपदेशको अप्रवाह्यमान और नागहस्तीके उपदेशको प्रवाह्यमान बतलाया गया है, तथापि आगे चलकर जो उन्होंने उक्त शब्दोंका अर्थ किया है, वह उनकी स्थितिको सन्देहकी कोटिमें डाल देता है। यथा—

(२) उक्त स्थलसे आगे चूर्णिकार कहते हैं—

४५. तेसि चेव उवदेसेण चोद्दसजीवसमासेहिं दंडगो भणिहिदि ।

(पृ० ५६४ सू० ४५)

इस सूत्रका अर्थ करते हुए जयधवलाकार कहते हैं—

“तेसि चेव भयवंताणमज्जमंखु-णागहत्थीणं पवाइज्जंतेणुवएसेण चोद्दस-जीवसमासेसु जहएणुक्कस्सपदविसेसिदो अप्पावहुअदंडओ एत्तो भणिहिदि भणिप्यत इत्यर्थः ।”

अर्थात् उन्हीं भगवन्त आर्यमंजु और नागहस्तीके प्रवाह्यमान उपदेशके अनुसार चौदह जीवसमासोंकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट कपायोंके काल-सम्बन्धी अल्पबहुत्व-दंडकको कहेंगे।

पाठकगण यहा स्वयं अनुभव करेंगे कि जयधवलाकारका यह पूर्वापर-विरुद्ध कथन कैसा ? इसके पूर्व इसी प्रकरणके १६ वें चूर्णिसूत्रकी व्याख्या करते हुए जब वे आर्यमंजुके उपदेशको अप्रवाह्यमान और नागहस्तीके उपदेशको प्रवाह्यमान बतला आये हैं, तब यहां पर ४५ वे सूत्रकी व्याख्यासे उन दोनों ही आचार्योंके उपदेशको प्रवाह्यमान कैसे कह रहे हैं ? निश्चयतः जयधवलाकारका यह कथन पाठकको सन्देहकी कोटिमें डाल देता है।

धवलाकारने पट्खडागमकी व्याख्यामें अनेक स्थानों पर उत्तरप्रतिपत्ति और दक्षिण प्रतिपत्तिका उल्लेख किया है। ज्ञात होता है कि नागहस्तीकी प्रवाह्यमान उपदेश-परम्परा आगे चलकर दक्षिण प्रतिपत्तिके नामसे और आर्यमंजुकी अप्रवाह्यमान उपदेश-परम्परा उत्तर प्रतिपत्तिके नामसे प्रसिद्धिको प्राप्त हुई है।

उक्त दो स्थलोके अतिरिक्त अन्य स्थलों पर भी चूर्णिकारने उक्त दोनों प्रकारके उपदेशोंका अनेक वार उल्लेख किया है, जिसे परिशिष्ट नं० ७ से जानना चाहिए।

यतः आचार्य यतिवृषभने आर्यमंजु और नागहस्ती दोनोंसे ही आगम-विषयक ज्ञान प्राप्त किया था और जयधवलाकारने उन्हें दोनोंका शिष्य बतलाया है, अतः इतना तो सुनिश्चित है कि चूर्णिकारने दोनों उपदेशोंके द्वारा अपने दोनों गुरुओंके मत-भेदोंका निर्देश किया है।

चूर्णिकारकी स्पष्टवादिता—कसायपाहुडचूर्णिके अध्ययनसे जहां चूर्णिकारके अगाध पांडित्य और विशाल आगम-ज्ञानका पता लगता है, वहां प्रस्तुत चूर्णिमें एक उल्लेख ऐसा भी है, जिससे कि उनकी स्पष्टवादिताका भी पता चलता है।

चारित्रमोहक्षपणा-अधिकारमें क्षपककी प्ररूपणा करते हुए, यवमध्यकी प्ररूपणा करना आवश्यक था। उस स्थल पर चूर्णिकार उसे न कर सके। आगे चलकर प्रकरणकी समाप्ति पर चूर्णिकार लिखते हैं—

“जवमज्झं कायव्वं, विस्सरिदं लिहिदुं ।” —(पृ० ८४०, सू० ६७६)

अर्थात् यहां पर यवमध्यकी प्ररूपणा करना चाहिए। पहले क्षपक-प्रायोग्य प्ररूपणाके अवसरमें हम लिखना भूल गये।

इतने महान् आचार्यकी यह स्पष्टवादिता देखकर कौन उनकी वीतरागता पर मुग्ध हुए बिना न रहेगा? इस उल्लेखसे जहाँ चूर्णिकारके हृदयकी सरलता और निरहंकारिताका पता लगता है, वहां एक नई बातका और भी पता लगता है कि कसायपाहुडकी चूर्णि उन्होंने अपने हाथसे लिखी थी, यही कारण है कि वे ‘लिहिदुं’ पदका प्रयोग कर रहे हैं। यदि उन्होंने यह चूर्णि बोल करके किसी औरके द्वारा लिखाई होती, तो ‘लिहिदुं’ प्रयोग न करते और उसके स्थान पर ‘भण्णिदुं’ या ‘परुवेदुं’ जैसे किसी अन्य पदका प्रयोग करते।

यहां यह पूछा जासकता है कि जब उन्होंने प्रस्तुत चूर्णिको अपने ही करकमलोंसे लिखा है, तब वह यवमध्यरचना जहाँ आवश्यक थी, वहीं पीछे उसे क्यों नहीं लिख दिया? इसका उत्तर जयधवल्लाकारने यह दिया है कि वीतरागी और आगमके वेत्ता यतिवृषभ जैसे आचार्यसे ऐसी भूल होना संभव नहीं है। शिष्योंको प्रकृत अर्थ संभलवानेके लिए उन्होंने वस्तुतः अन्त दीपक-रूपसे उसका यहां उल्लेख किया है।

जो कुछ भी हो, पर चूर्णिकारकी उक्त स्पष्टवादितासे उनकी वीतरागता, निरहंकारिता सरलता और महत्ताका अवश्य आभास मिलता है।

उच्चारणावृत्ति

उच्चारणावृत्ति क्या है?—चूर्णिकारने प्रस्तुत ग्रन्थकी व्याख्यामें जिन-जिन विषयोंकी प्ररूपणा अत्यन्त आवश्यक समझी, उनकी प्ररूपणा ओष (सामान्य) से करके आदेश (विशेष) से या तो प्ररूपणा ही नहीं की, अथवा गति, इन्द्रिय आदि एकाध मार्गणासे करके, शेष मार्गणाओंकी प्ररूपणा करनेका भार समर्पण-सूत्रोंके द्वारा उच्चारणाचार्यों या व्याख्यानाचार्योंको सौंपा है, जिसका अनुमान पाठकगण परिशिष्ट न० ६ से लगा सकेंगे।

भ० महावीरके निर्वाणके पश्चात् उनका उपदेश श्रुतकेवलियोंके समय तक तो मौखिक ही चलता रहा। किन्तु उनके पश्चात् विविध अंगों और पूर्वोंके विषयोंको कुछ विशिष्ट आचार्योंने उपसंहार करके गाथा-सूत्रोंमें निबद्ध किया। गाथा शब्दका अर्थ है—गाये जाने वाले गीत। और सूत्र शब्दका अर्थ है—महान् और विशाल अर्थके प्रतिपादक शब्दोंकी संक्षिप्त रचना, जिसमें कि साकेतिक बीज पदोंके द्वारा विवक्षित विषयका पूर्ण समावेश रहता है। इस प्रकारके गाथासूत्रोंकी रचना करके उनके रचयिता आचार्य अपने सुयोग्य शिष्योंको गाथासूत्रोंके द्वारा सूचित अर्थके उच्चारण करनेकी विधि और व्याख्यान करनेका प्रकार बतला देते थे और वे

लग जिज्ञासु जनोको गुरु-प्रतिपादित विधिसे उन गाथासूत्रोका उच्चारण और व्याख्यान किया करते थे । इस प्रकारके गाथासूत्रोंके उच्चारण या व्याख्यान करनेवाले आचार्योंको उच्चारणाचार्य, व्याख्यानाचार्य या वाचक कहा जाता था ।

गुणधराचार्य-द्वारा कसायपाहुडके गाथासूत्रोंके रचे जाने पर उन्होंने उनका अर्थ अपने सुयोग्य शिष्योंको पढ़ाया और वह शिष्य-परम्परासे आ० आर्यमंजु और नागहस्तीको प्राप्त हुआ । उन दोनोंसे आ० यतिवृषभने गाथासूत्रोंके अर्थका सम्यक अवधारण करके प्रस्तुत चूर्णिको रचा । किन्तु कसायपाहुडके गाथासूत्रोंके अनन्त अर्थगर्भित होनेसे सर्व अर्थका चूर्णमें निबद्ध करना असंभव देख प्रारम्भिक कुछ संक्षिप्त वर्णन करके विशेष वर्णन करनेके दृष्टिसे समर्पण-सूत्र रचकर उच्चारणाचार्योंको सूचना कर दी । किन्तु जब कुछ समयके पश्चात् इस प्रकारसे समर्पित अर्थके हृदयंगम करनेकी ग्रहण और धारणाशक्ति भी लोगोंकी क्षीण होने लगी, तो समर्पण-सूत्रोंसे सूचित और गुरुपरम्परासे उच्चारणपूर्वक प्राप्त उक्त अर्थको किसी विशिष्ट आचार्यने लिपिवद्ध कर दिया । यतः वह लिपिवद्ध उच्चारणा किसी आचार्यकी मौलिक या स्वतंत्र कृति नहीं थी, किन्तु गुरुपरम्परासे प्राप्त वस्तु थी अतः उसपर किसी आचार्यका नाम अंकित नहीं किया गया और पूर्व कालीन उच्चारणाचार्योंसे प्राप्त होने तथा उत्तरकालीन उच्चारणाचार्योंसे प्रवाहित किये जानेके कारण उसका नाम उच्चारणावृत्ति प्रसिद्ध हुआ ।

जयधवलकारने उच्चारणा, मूल-उच्चारणा, लिखित-उच्चारणा, वृषदेवाचार्य-लिखित उच्चारणा और स्व-लिखित उच्चारणाका उल्लेख किया है । इन विविध संज्ञाओंवाली उच्चारणाओंके नामों पर विचार करनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि चूर्णिसूत्रों पर सबसे प्रथम जो उच्चारणा की गई, वह मूल-उच्चारणा कहलाई । गुरु-शिष्य-परम्परासे कुछ दिनों तक उस मूल-उच्चारणाके उच्चारित होनेके अनन्तर जब वह समष्टिरूपसे लिखी गई, तो उसीका नाम लिखित-उच्चारणा हो गया । इस प्रकार उच्चारणाके लिखित हो जाने पर भी उच्चारणाचार्योंकी परम्परा तो चालू ही थी, अतएव मौखिकरूपसे भी वह प्रवाहित होती हुई प्रवर्तमान रही । तदनन्तर कुछ विशिष्ट व्यक्तियोंने अपने विशिष्ट गुरुओंसे विशिष्ट उपदेशके साथ उस उच्चारणाको पाकर व्यक्त्तिरूपसे भी लिपिवद्ध किया और वह 'वृषदेवाचार्य-लिखित उच्चारणा, वीरसेन-लिखित उच्चारणा आदि नामोंसे प्रसिद्ध हुई ।

विभिन्न, विशिष्ट आचार्योंसे उच्चारित होते रहनेके कारण कुछ सूक्ष्म विषयो पर मत-भेदका होना स्वाभाविक है । यही कारण है कि कितने ही स्थलो पर उच्चारणाओंके मत-भेदके उल्लेख जयधवलामे दृष्टिगोचर होते हैं । यथा—

“चूर्णिसुत्तमि वृषदेवाइरियलिहिदुच्चारणाए च अंतोमुहुत्तमिदि भण्णिदो ।
अम्हेहि लिहिदुच्चारणाए पुण जहण्णोण एगसनओ, उक्कस्सेण संखेज्जा समया, इदि परुविदो ।” जयध० ।

अर्थात् प्रकृत विषयका जघन्य और उत्कृष्टकाल चूर्णिसूत्रमें और वृषदेवाचार्य-लिखित उच्चारणामे तो अन्तर्मुहूर्त बतलाया गया है, किन्तु हमारे (वीरसेन) द्वारा लिखित उच्चारणामें जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल सख्यात समय बतलाया गया है ।

कसायपाहुडके प्रस्तुत चूर्णिसूत्रों पर रची गई उक्त उच्चारणावृत्तिका प्रमाण बारह हजार श्लोक-परिमाण था । यह स्वतंत्ररूपसे आज अनुपलब्ध है, पर उद्धरणरूपसे उसका बहु भाग आज भी जयधवला में उपलब्ध है ।

कसायपाहुडकी अन्य टीकाएँ

इन्द्रनन्दि श्रुतावतारके अनुसार कसायपाहुडके गाथासूत्रों पर चूर्णिसूत्र और उच्चारणावृत्तिके पश्चात् 'पद्धति' नामक टीका रची गई। इसका परिमाण १२ हजार श्लोक था और इसके रचयिता शामकुंडाचार्य थे। जयधवलकारके अनुसार जिसमें मूल सूत्र और उसकी वृत्तिका विवरण किया गया हो, उसे 'पद्धति' कहते हैं ❁। यह पद्धति संस्कृत, प्राकृत और कर्णाटकी भाषामें रची गई †।

उक्त पद्धतिके रचे जानेके कितने ही समयके पश्चात् तुम्बलूराचार्यने पट्खंडागमके प्रारम्भिक ५ खंडोंपर तथा कसायपाहुड पर कर्णाटकी भाषामें ८४ हजार श्लोकप्रमाण चूडामणि नामकी एक बहुत विस्तृत व्याख्या लिखी +। इसके पश्चात् इन्द्रनन्दिने वप्पदेवाचार्यके द्वारा भी कसायपाहुड पर किसी टीकाके लिखे जानेका उल्लेख किया है, पर उसके नाम और प्रमाणका उन्होंने कुछ स्पष्ट निर्देश नहीं किया है ×।

वर्तमानमें शामकुंडाचार्य-रचित पद्धति, तुम्बलूराचार्य-रचित चूडामणि और वप्पदेवाचार्य-रचित टीका ये तीनों ही अनुपलब्ध हैं। इन सबके पश्चात् कसायपाहुड और उसके चूर्णिसूत्रों पर जयधवला टीका रची गई जिसके २० हजार श्लोक-प्रमित प्रारम्भिक भागको वीरसेनाचार्यने रचा और उनके स्वर्गवास होजाने पर शेष भागको जिनसेनाचार्यने पूरा किया। जयधवल ६० हजार श्लोक-प्रमाण है और आज सर्वत्र लिखित और मुद्रित होकर उपलब्ध है।

चूर्णिकारके सम्मुख उपस्थित आगम-साहित्य

यह तो निश्चित है कि आ० यतिवृषभने कसायपाहुडकी मात्र २३३ गाथाओं पर जो विस्तृत चूर्णिसूत्र रचे है, वह उनके अगाध ज्ञानके द्योतक है। यद्यपि यतिवृषभका आर्यमनु और नागहस्ती जैसे अपने समयके महान् आगम-वेत्ता और कसायपाहुडके व्याख्याता आचार्योंसे प्रकृत विषयका विशिष्ट उद्देश प्राप्त था, तथापि उनके सामने और भी कर्म-विषयक आगम-साहित्य अवश्य रहा है, जिसके कि आधार पर वे अपनी प्रौढ़ और विस्तृत चूर्णिको सम्पन्न कर सके हैं और कसायपाहुडकी गाथाओंके एक-एक पदके आधार पर एक-एक स्वतन्त्र अधिकारकी रचना करनेमें समर्थ हो सके हैं।

उपलब्ध समस्त जैनवाङ्मयका अवगाहन करने पर ज्ञात होता है कि चूर्णिकारके सामने कर्म-साहित्यके कमसे कम पट्खंडागम, कम्मपयडो, सतक और सित्तरी ये चार ग्रन्थ अवश्य विद्यमान थे। पट्खंडागमके उनके सम्मुख उपस्थित होनेका सकेत हमें उनकी सूत्र-रचना-शैलीके अतिरिक्त समर्पण-सूत्रोंसे मिलता है, जिनमें कि अनेको वार सत्, सख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भागाभाग और अल्पवहुत्व इन आठ अनुयोगद्वारोंसे विविध विषयोंके प्ररूपण करनेकी सूचना उन्होंने उच्चारणाचार्योंके लिए की है §।

❁ सुत्तवित्तिविवरणए पद्ध ईववएसादो । जयध०

† प्राकृतसंस्कृतकर्णाटभाषया पद्धति परा रचिता ॥ इन्द्र० श्रु० श्लो० १६४,

+ चतुरधिकशीतिसहस्रग्रन्थरचनया युक्ताम् ।

कर्णाटभाषयाऽकृत महती चूडामणि व्याख्याम् ॥ १६६ ॥ इन्द्र० श्रु०

× देखो इन्द्र० श्रुता० श्लोक ८७३-१७६ । § देखो कसाय०पृ० ६५७, ६६५, ६७२ आदि ।

चूंकि पट्खंडागमके प्रथम खंड जीवद्वाराणमें उक्त आठों प्ररूपणाओं या अनुयोगद्वारोका विवृत विवेचन किया जा चुका था, अतएव उन्होंने अपनी रचनामें उनपर कुछ लिखना निरर्थक या अनावश्यक समझा । इसी प्रकार पट्खंडागमके छठे खंड महाबन्धमें बन्धके चारो प्रकारोंका चौबीस अनुयोगद्वारोंसे अति विस्तृत विवेचन उपलब्ध होनेसे उन्होंने प्रस्तुत ग्रन्थके चौथे अर्थाधिकारमें बन्धका कुछ भी वर्णन न करके लिख दिया कि वह चारो प्रकारका बन्ध बहुशः प्ररूपित है ॐ अतएव हम उस पर कुछ भी नहीं लिख रहे हैं । चूर्णिकार-द्वारा प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश विभक्तियोंके स्वामित्व आदि अनुयोगद्वारोके वर्णन पट्खंडागमके बन्धस्वामित्वनामक दूसरे और वेदना नामक चौथे खंडके आभारी है, यह दोनोंके तुलनात्मक अध्ययनसे स्पष्ट ज्ञात हो जाता है । उदाहरणके रूपमें यहाँ दोनों ग्रन्थोंका एक-एक उद्धरण दिया जाता है ।

कसायपाहुड-चूर्णि

सुहुमणिगोदेसु कम्मट्टिदिमच्छि-
दाउओ । तत्थ सव्ववहुआणि अपज्जत्त-
भवग्गहणाणि दीहाओ अपज्जत्तद्वाओ
तप्पाओग्ग-जहणयाणि जोगट्ठाणाणि
अभिकखं गदो । तदो तप्पाओग्गजह-
णियाए वड्ढीए वड्ढिदो । जदा जदा
आउअं बंधदि, तदा तदा तप्पाओग्गउक्-
स्सएसु जोगट्ठाणेसु बंधदि । हेट्टिल्लीणं
ट्टिदीणं णिसेयस्स उक्कस्सपदेसं तप्पाओग्गं
उक्कस्सविसोहिमभिकखं गदो, जाथे अभव-
सिद्धियपाओग्गं जहणणं कम्मं कदं
तदो तसेसु आगदो संजमासंजमं संजमं
सम्मत्तं च बहुसो लद्धो । चत्तारि वारे
कसाए उवसामित्ता तदो वे छावट्टिसाग-
रोवमाणि सम्मत्तमणुपालेदूण तदो दंसण-
मोहणीयं खवेदि । अपच्छिम-ट्टिदिखंडय-
मवणिज्जमाणयमवणिदमुदयावलियाए जं
तं गलमाण तं गलिद, जाथे एकस्से ट्टि-
दीए दुसमयकालट्टिदिग सेस ताथे मिच्छ-
त्तस्स जहणणय पदेससत्तकम्म ।

(प्रदेशवि० सू० २१)

पट्खंडागम-सूत्र

जो जीवो सुहुमणिगोद-जीवेसु प-
लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण उणियं
कम्मट्टिदिमच्छिदो । तत्थ य संसरमाणस्स
बहुआ अपज्जत्तभवा, थोवा पज्जत्तभवा ।
दीहाओ अपज्जत्तद्वाओ रहस्साओ पज्ज-
त्तद्वाओ । जदा जदा आउअं बंधदि, तदा
तदा तप्पाओग्गुक्कस्सएण जोगेण बंधदि ।
उवरिल्लीण ट्टिदीणं णिसेयस्स जहणणपदे
हेट्टिल्लीणं ट्टिदीणं णिसेयस्स उक्कस्सपदे
बहुसो बहुसो जहणणाणि जोगट्ठाणाणि
गच्छदि । बहुसो बहुसो मंदसंकिलेसपरि-
णामो भवदि । ××× एवं णाणाभव-
ग्गहणेहि अट्ठसंजमकंडयाणि अणुपाल-
इत्ता चटुक्खुत्तो कसाए उवसामइत्ता पलि-
दोवमस्सासखेज्जदिभागमेत्ताणि संजमा-
संजमकंडयाणि सम्मत्तकंडयाणि च अणु-
पालइत्ता ××× खवणाए अब्भुट्ठिदो
चरिमसमयछदुमत्थो जादो । तस्स चरिम-
समयछदुमत्थस्स णाणावरणीयवेदणा
दव्वदो जहणणा ।

(वेदणाखंड, वेयणदव्वविहाण)

उपर्युक्त दोनो उद्धरणोंके अन्तिम भागमें जो भेद दृष्टिगोचर होना है, उसका कारण यह है कि एकमें मिथ्यात्वके जघन्य प्रदेश-सत्कर्मका स्वामित्व बतलाया गया है, तो दूसरमें ज्ञानावरणीय कर्मकी जघन्यवेदनाका स्वामित्व बतलाया गया है। वेदनास्वप्नमें आठों मूल कर्मोंके वेदना-स्वामित्वका ही वर्णन किया गया है, उत्तर प्रकृतियोंका नहीं। किन्तु कसायपाहुडमें तो केवल एक मोहकर्मके उत्तर प्रकृतियोंका ही स्वामित्व बतलाया गया है, अतएव जहाँ जितने अंशमें उनके स्वामित्वमें भेद होना चाहिए, उसे चूर्णिकारने तदनु रूप बतलाया है। वेदनाखण्डका उक्त सूत्र बहुत लम्बा है, अतएव जो अश जहाँ पर छोड़ दिया है, उस स्थल पर X X X यह चिह्न दिया गया है। छोड़े गये अशमें जो बात कही गई है, वह चूर्णिकारने 'अभवसिद्धियपा-ओगं जहणणं कम्मं कद' इस एक वाक्यमें ही कहदी है। इसी प्रकार और भी जो थोडा बहुत शब्द-भेद दृष्टिगोचर होता है, उसे भी चूर्णिकारने संक्षिप्त करके अपने शब्दोंमें कह दिया है, वस्तुतः कोई अर्थ-भेद नहीं है।

ऊपर बतलाये गये चूर्णिसूत्र और पट्खण्डागमसूत्रकी समतासे जयधवलाकार भी भलीभांति परिचित थे और यही कारण है कि दोनो सूत्रोंमें जो एक नाम अन्तर दिखाई देता है, उसका उन्होंने अपनी टीकामें शंका उठाकर निम्न प्रकारसे समाधान भी किया है। जयधवलाका वह अश इस प्रकार है—

वेयणाए पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेणुणियं कम्मट्ठिदिं सुहुमेइंदिएसु
हिंडाविय तसकाइएसु उपाइदो । एत्थ पुण कम्मट्ठिदिं संपुएणं भमाडिय तसत्तं णीदो ।
तदो दोएहं सुत्ताणं जहाऽविरोहो तथा वत्तव्वमिदि । जइवसहाइरिओवएसेण खविद-
कम्मंसियकालो कम्मट्ठिदिमेत्तो, 'सुहुमणिगोदेसु कम्मट्ठिदिमच्छिदाउओ' ति सुत्त-
णिदेसएणहाणुववत्तीदो । भूदवलिआइरिओवएसेण पुण खविदकम्मंसियकालो कम्म-
ट्ठिदिमेत्तो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेणुणं । एदेसिं दोएहमुवदेसाणं मज्जे
सच्चेणेककेणेव होदव्वं । तत्थ सच्चत्तणेगदरणिणएणओ णत्थि ति दोएहं पि संगहो
कायव्वो । जयध०

अर्थात् पट्खण्डागमके वेदनानामक चौथे खंडमें पल्योपमके असंख्यातवें भागसे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण काल तक सूक्ष्मएकेन्द्रियोंमें घुमाकरके त्रसकायिकोमें उत्पन्न कराया गया है। किन्तु यहां पर प्रकृत चूर्णिसूत्रमें, तो उसे सम्पूर्ण कर्मस्थितिप्रमाण सूक्ष्मएकेन्द्रियोंमें घुमाकरके त्रसपनेको प्राप्त करा गया है ? (इसका क्या कारण है ? ऐसा पृच्छने पर जयधवलाकार कहते हैं कि) यद्यपि यह दोनो सूत्रों (आगमों) में विरोध है, तथापि जिस प्रकारसे अविरोध संभव हो, उस प्रकारसे इसका समाधान करना चाहिए। यतिवृषभाचार्यके उपदेशसे क्षपित-कर्माशिकका काल पूरी कर्मस्थितिमात्र है, अन्यथा प्रकृत सूत्रमें 'सूक्ष्मनिगोदियोंमें कर्मस्थिति तक रहा' इस प्रकारका निर्देश नहीं हो सकता था। किन्तु भूतवलि आचार्यके उपदेशसे क्षपितकर्माशिकका काल पल्योपमके असंख्यातवें भागसे न्यून कर्मस्थितिमात्र है। इन दोनो परस्पर-विरोधी उपदेशोंमेंसे सत्य तो एक ही होना चाहिए। किन्तु किसी एककी सत्यताका निर्णय (आज केवली या श्रुतकेवलीके न होने से) संभव नहीं है, अतएव दोनोंका ही सग्रह करना चाहिए।

उक्त शंका-समाधानमें, जिस सैद्धान्तिक भेदका उल्लेख किया गया है, वह उपर्युक्त दोनों उद्धरणोंके प्रारम्भमें ही दृष्टिगोचर हो रहा है। जयधवलाकारके इस शंका-समाधानसे भी

यही सिद्ध होता है कि भूतबलिप्रणीत पट्खंडागममूत्रका यतिवृषभ पर प्रभाव होते हुए भी कुछ सैद्धान्तिक मान्यताओंके विषयमें दोनोंका मतभेद रहा है। पर मत-भेद भले ही हो, किन्तु यति-वृषभके सामने पट्खंडागमका उपस्थित होना तो इससे सिद्ध ही है।

यतिवृषभके सम्मुख पट्खंडागमके अतिरिक्त जो दूसरा आगम उपस्थित था वह है कर्म-माहित्यका महान् ग्रन्थ कम्मपयडी। इसके सग्रहकर्त्ता या रचयिता शिवशर्म नामके आचार्य हैं और इस ग्रन्थ पर श्वेताम्बराचार्योंकी टीकाओंके उपलब्ध होनेसे अभी तक यह श्वेताम्बर सम्प्रदायका ग्रन्थ समझा जाता है। किन्तु हालमें ही उसकी चूर्णिके प्रकाशमें आनेसे तथा प्रस्तुत कसायपाहुडकी चूर्णिका उसके साथ तुलनात्मक अध्ययन करनेसे इस बातमें कोई सन्देह नहीं रह जाता है कि कम्मपयडी एक दिग्म्बर-परम्पराका ग्रन्थ है और अज्ञात आचार्यके नामसे मुद्रित और प्रकाशित उसकी चूर्णि भी एक दिग्म्बराचार्य इन्हीं यतिवृषभकी ही कृति है। कम्मपयडी-चूर्णिकी तुलना कसायपाहुडकी चूर्णिके साथ आगे की जायगी। अभी पहले यह दिखाना अभीष्ट है कि यतिवृषभके सम्मुख कम्मपयडी थी और वे उससे अच्छी तरह परिचित थे, तथा उसका उन्होंने कसायपाहुडकी चूर्णिके भरपूर उपयोग किया है।

(१) कसायपाहुडके 'पयडीण मोहणिज्जा' इतने मात्र बीज पदको आधार बनाकर चूर्णिकारने प्रकृतिविभक्ति नामक एक स्वतंत्र अधिकारका निर्माण किया है। उसमें मोहकर्मके १५ प्रकृतिस्थान इस प्रकार बतलाए गये हैं—

पृ० ५७ सू० ४०० पयडिङ्गाणविहत्तीए पुव्वं गमणिज्जा ट्ठाणसमुक्कित्तणा ।
४१. अत्थि अट्ठावीसाए सत्तावीसाए छव्वीसाए चउवीसाए तेवीसाए वावीसाए एकवी-
साए तेरसएहं वारसएहं एकारसएहं पंचएहं चदुएहं तिणहं दोएहं एकस्से च (१५) ।

अर्थात् मोहकर्मके २८, २७, २६, २४, २३, २२, २१, १३, १२, ११, ५, ४, ३, २ और १ प्रकृतिरूप पन्द्रह प्रकृतिसत्त्वस्थान होते हैं।

उक्त प्रकृतिसत्त्वस्थानोंका आधार कम्मपयडीके सत्ताधिकारकी यह निम्न गाथा है—

एगाइ जाव पंचगमेकारस वार तेरसिगवीसा ।

विय तिय चउरो छस्सत्त अट्ठवीसा य मोहस्स ॥१॥

कम्मपयडीमें इसकी चूर्णि इस प्रकार है—

१, २, ३, ४, ५, ११, १२, १३, २१, २२, २३, २४, २६, २७, २८
एयाणि मोहणिज्जस्स संतकम्मट्ठाणाणि ।

यतः गाथामें मोहके सत्त्वस्थान शब्द-सख्यामें बतलाए गये हैं, अतः चूर्णिकारने लाघवके लिए उन्हें उसकी चूर्णिके अक्ष-सख्यामें गिना दिये हैं। पर कसायपाहुडकी चूर्णिके तो उक्त प्रकरण चूर्णिकार अपना स्वतंत्र ही लिख रहे हैं, अतः उन्होंने वहां पर उन्हें शब्दोंमें पृथक्-पृथक् गिनाना ही उचित समझा।

इसी प्रकार स्थिति, अनुभाग और प्रदेशविभक्तिके चूर्णिसूत्रोंका आधार कम्मपयडीके सत्ताधिकारकी गाथाएँ हैं, यह बात दोनोंकी तुलनासे भलीभांति ज्ञात हो जाती है।

(२) स्थितिविभक्तिमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी आदि बारह कषायोंकी जघन्य स्थितिविभक्ति इस प्रकार बतलाई गई है—

पृ० ६४, सू० १६. मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्त-वारसकमायाणां जहएणाट्ठिदि-
विहत्ती एगा ट्ठिदी दुसमयकालट्ठिदिया ।'

यही वात सूत्ररूपसे कम्मपयडीमे इस प्रकार कही है—

सेसाण ट्ठिई एगा दुसमयकाला अणुदयाणां ॥ १६ ॥ (कम्मप० सत्ताधि०)

पाठक दोनोंकी समताके साथ सहज ही समझ सकेंगे कि उक्त चूर्णिका आधार कम्म-
पयडीकी यह गाथा है ।

(३) अनुभागविभक्तिमे मोहकर्मके तीन प्रकारके सत्कर्मस्थान इस प्रकार वतलाये
गये है—

पृ० १७५, सू० १८६. संतकम्मट्ठाणाणि तिविहाणि-बंधसमुत्पत्तियाणि हद-
समुत्पत्तियाणि हदहदसमुत्पत्तियाणि । १८७. सव्वत्थोवाणि बंधसमुत्पत्तियाणि ।
१८८. हदसमुत्पत्तियाणि असंखेज्जगुणाणि । १८९. हदहदममुत्पत्तियाणि असंखेज्ज-
गुणाणि ।

अर्थात् सत्कर्मस्थान तीन प्रकारके है—बन्धसमुत्पत्तिकस्थान, हतसमुत्पत्तिकस्थान और
हतहतसमुत्पत्तिकस्थान । इनमे बन्धसमुत्पत्तिकस्थान सबसे कम हैं, उनसे हतसमुत्पत्तिकस्थान
असख्यातगुणित है और उनसे हतहतसमुत्पत्तिकस्थान असख्यातगुणित है ।

अब देखिए कि ऊपर जो वात कसायपाहुड-चूर्णिके ४ सूत्रोंके द्वारा कही गई है, वही
कम्मपयडीमे सूत्ररूपसे कितने सक्षेपमे कही गई है—

‘बंधहयहयहउत्पत्तिगाणि कमसो असंखगुणियाणि ।’ (कम्मप० सत्तावि०)

(४) प्रदेशविभक्तिमे प्रदेशसत्कर्मके जघन्य और उत्कृष्ट स्वामित्वसम्बन्धी जो चूर्णिसूत्र
हैं, उन सबका आधार कम्मपयडीके सत्ताधिकारान्तर्गत प्रदेशसत्कर्मस्वामित्व-प्रतिपादक गाथाएं
हैं, यह वात प्रदेशविभक्तिके पृ० १८५ से लेकर १९७ पृष्ठ तक दी गई टिप्पणियोंसे भलीभांति
जानी जा सकती है । यहां केवल उनमें से एक उदाहरण दिया जाता है । कसायपाहुड-चूर्णिके
पृच्छापूर्वक जो नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशस्वामित्व वतलाया गया है, वह इस प्रकार है—

पृ० १८६, सू० १०. णवुंसयवेदस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं कस्स ? ११.
गुणिककम्मंसिओ ईसाणां गदो तस्स चरिमसमयदेवस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्म ।

अब इसका मिलान कम्मपयडीकी निम्न गाथासे कीजिए—

वरिसवरस्स उ ईसाणागस्स चरिमम्मिसमयम्मि ॥ २८ ॥

गाथा-पठित 'वरिसवरस्स' का अर्थ नपुंसकवेद है ।

(५) कसायपाहुडकी सक्रमप्रकरण-सम्बन्धी न० २७ से ३६ तक की १३ गाथाए कुछ
शब्दगत पाठ-भेदके साथ कम्मपयडीके सक्रमप्रकरणमे न० १० से २२ तक ज्यो-की-त्यो पाई जाती
हैं, यह वात पहले बताई जा चुकी है । दोनों ग्रन्थोंकी गाथाओंकी तुलनाके लिए कम्मपयडीकी
इन गाथाओंको टिप्पणियोंमे दिया गया है, सो जिज्ञासुओंको पृ० २६० से २७१ तककी कसायपाहुड
की गाथाओंको और उनके नीचे टिप्पणीमे दी हुई कम्मपयडीकी गाथाओंको देखना चाहिए ।

(६) स्थिति सक्रमाधिकारमे स्थितिसक्रमका अर्थपद इस प्रकार दिया है—

पृ० ३१०, सू० २. तत्थ अट्टपद—जा ङ्ङिदी ओकङ्ङिज्जदि वा उकङ्ङिज्जदि वा अणपयडिं संकामिज्जइ वा मो ट्ठदिसकमो ।

अत्र उक्त चूर्णिसूत्रकी तुलना कम्मपयडीके स्थितिसक्रमाधिकारकी निम्न गाथासे कीजिए—

ठिइसकमो त्ति वुच्चइ मूलुत्तरपगइतो उ जा हि ठिई ।

उव्वट्टिया व ओवट्टिया व पगइ णिया वऽएणां ॥ २८ ॥

विषयके जानकार सहजमें ही समझ सकेंगे कि जो अर्थ 'ओकङ्ङिज्जदि' आदि पदोंके द्वारा प्रगट किया गया है, वही 'उव्वट्टिया' आदि पदोंका है ।

(७) अनुभाग-संक्रमाधिकारमें अनुभागसक्रमका अर्थपद इस प्रकार दिया है—

पृ० ३४५, सू० २. तत्थ अट्टपदं । ३ अणुभागो ओकङ्ङिदो वि संकमो, उक्कङ्ङिदो वि संकमो, अणपयडिं णीदो वि संकमो ।

अत्र उक्त चूर्णिसूत्रकी तुलना कम्मपयडीकी निम्न गाथासे कीजिए—

तत्थट्टपयं उव्वट्टिया व ओवट्टिया व अविभागा ।

अणुभागसंकमो एस अणपगइं णिया वा वि ॥ ४६ ॥ (सक्रमावि०)

पाठक स्वयं देखेंगे कि दोनोंमें कितनी अधिक शब्द और अर्थगत समता है ।

(८) प्रदेश-संक्रमाधिकारमें प्रदेशसंक्रमका स्वरूप और उसके भेद इस प्रकार बतलाये गये हैं—

पृ० ३६७, सू० ६. जं पदेसगमणपयडिं णिज्जदे, जत्तो पयडीदो तं पदेसगं णिज्जदि तिस्से पयडीए सो पदेससंकमो । ६. एदंण अट्टपदेण तत्थ पंचविहो संकमो । १०. तं जहा । ११. उव्वेलणसंकमो विज्झादसंकमो अधापवत्तसंकमो गुणसंकमो सव्वसंकमो च ।

अत्र इन चूर्णिसूत्रोंका मिलान कम्मपयडीकी निम्न गाथासे कीजिए—

जं दल्लियमणपगइं णिज्जइ सो संकमो पएसस्स ।

उव्वल्लणो विज्झाओ अहापवत्तो गुणो सव्वो ॥ ६० ॥

पाठक स्वयं अनुभव करेंगे कि एक गाथामें कहे हुए तत्त्वको चूर्णिकारने किस प्रकारसे ४ सूत्रोंमें कहा है । इसके अतिरिक्त प्रदेश-सक्रमाधिकारके स्वामित्व-सम्बन्धी सभी चूर्णिसूत्रोंका आधार कम्मपयडीके प्रदेश-सक्रमकी स्वामित्व-प्ररूपक गाथाएँ हैं, यह बात प्रस्तुत ग्रन्थके उक्त प्रकरणमें टिप्पणियों द्वारा स्पष्ट दिखाई गई है, जो कि पाठकगण पृष्ठ ४०१ से ४०७ तककी टिप्पणियोंमें दी गई कम्मपयडीकी गाथाओंके साथ वहाँके चूर्णिसूत्रोंको मिलान करके भली भाँतिसे जान सकते हैं ।

(९) स्थितिसंक्रम-अधिकारके अन्तर्गत संक्रमण किये जाने वाले कर्म-प्रदेशोंकी अति-स्थापना और निक्षेपका वर्णन आया है, वह सम्पूर्ण वर्णन कम्मपयडीके उद्धर्तनापवर्तन-करणकी गाथाओंका आभारी है । उदाहरणके तौर पर एक उद्धरण दोनोंका प्रस्तुत किया जाता है—

पृ० ३१६, सू० २६. उक्कस्सओ पुण णिक्खेवो केत्तिओ ? २७. जत्तिया उक्कस्सिया कम्मट्ठिदी उक्कस्सियाए आवाहाए समयुत्तरावलियाए च उणा तत्तिओ उक्कस्सओ णिक्खेवो ।

उत्कृष्ट निक्षेपके उक्त प्रमाणको कम्मपयडीकी निम्न गाथासे मिलान कीजिए—

आवलि-असखभागाइ जाव कम्मट्ठिइ त्ति णिक्खेवो ।

समउत्तरालियाए सावाहाए भवे उणे ॥ २ ॥ (उद्धर्तनापवर्तनाकरण)

(१०) वेदक अधिकारमें प्रकृति-उदीरणाके स्थान इस प्रकार वतलाये गये हैं—

पृ० ४६८, सू० १२. अत्थि एक्किस्से पयडीए पवेसगो । १३. दोएहं पयडीणं पवेसगो । १४. तिएहं पयडीणं पवेसगो णत्थि । १५, चउएहं पयडीणं पवेसगो । १६. एत्तो पाए णिरंतरमत्थि जाव दसएहं पयडीणं पवेसगो ।

अर्थात् मोहकर्मके प्रकृतिउदीरणा-स्थान १, २, ४, ५, ६, ७, ८, ९ और १० प्रकृतिरूप ६ होते हैं। इन्हीं स्थानोंको कम्मपयडीमें इस प्रकार कहा गया है—

पंचएहं च चउएहं विइए एककाइ जा दसएहं तु ।

तिगहीणाइ मोहे मिच्छे सत्ताइ जाव दस ॥ २२ ॥ (उदीरणाकरण)

(११) वेदक अधिकारमें मोहकी अनुभाग-उदीरणाके स्वामित्वका वर्णन कम्मपयडीके अनुभाग उदीरणाके स्वामित्वसे ज्योंका त्यों मिलता है। यहाँ दोनोंकी समता-परिज्ञानार्थ एक उदाहरण प्रस्तुत है—

पृ० ५०५, सू० २६२. हस्स-रदीणमुक्कस्साणुभागउदीरणा कस्स ? २६३. सदार-सहस्सारदेवस्स सव्वसंक्किलिडुस्स ।

इसका मिलान कम्मपयडीकी गाथासे कीजिए—

हास-रईणं सहस्सारगस्स पञ्जत्तदेवस्स ॥ ६१ ॥ (अनुभागउदी०)

(१२) कसायपाहुडके अनुभागसक्रमका एक अल्पवहुत्व इस प्रकार है—

पृ० ३४६, सू० ११. एत्थ अप्पावहुअं । १२. सव्वत्थोवाणि पदेसगुणहा-णिट्ठाणंतरफद्दयाणि । १३. जहएणओ णिक्खेवो अणंतगुणो । १४ जहएणया अइच्छावणा अणंतगुणा । १५. उक्कस्सयमणुभागकंडयमणंतगुणं । १६. उक्कस्सिया अइच्छावणा एगाए वगणाए ऊणिया । १७. उक्कस्सओ णिक्खेवो विसेसाहियो । १८, उक्कस्सओ वंधो विसेसाहियो ।

उक्त चूर्णिसूत्रोंका मिलान कम्मपयडीकी निम्न गाथाओंसे कीजिए—

थोवं पएसगुणहाणि-अंतर दुसु जहन्ननिक्खेवो ।

कमसो अणंतगुणिओ दुसु वि अइत्थावणा तुल्ला ॥ २ ॥

वाघाएणुभागकंडगमेक्काइवगणाऊणं ।

उक्कस्सो णिक्खेवो ससंतबंधो य सविसेसो ॥ ६ ॥ (उद्धर्तनापवर्तनाकरण)

(१८) कसायपाहुडके सम्यक्त्व अविकारकी १०४, १०७, १०८ और १०९ नम्बर-वाली ४ गाथाएँ थोड़ेसे पाठ-भेदके साथ कम्मपयडीके उपशमनाकरणमे क्रमशः गाथा नं० २३, २४, २५ और २६ पर पाई जाती हैं। यहाँ एक विशेष बात यह ज्ञातव्य है कि कम्मपयडीमे तो उक्त गाथाओं पर चूर्णि पाई जाती है, पर कसायपाहुडमे अन्य अनेक गाथाओंके समान सरल होनेसे इन गाथाओं पर चूर्णि नहीं लिखी गई है।

(१४) दर्शनमोह-उपशामकके परिणाम, योग, उपयोग और लेश्यादिका वर्णन कसाय-पाहुडचूर्णिमें इस प्रकार किया गया है—

पृ० ६१५, सू० ७. परिणामो विसुद्धो । ८. पुवं पि अंतोमुहुत्तप्पहुडि
अणंतगुणाए विसोहीए विसुद्धमाणो आगदो । ९. जोगे त्ति विहासा । १०. अण्ण-
दरमणजोगो वा अण्णदरवचिजोगो वा ओरालियकायजोगो वा वेउव्वियकायजोगो
वा । १४. उवजोगे त्ति विहासा । १५. णियमा सागारुवजोगो । १६. लैस्सा त्ति
विहासा । १७. तेउ-पयम-सुकलैस्साणं णियमा वड्ढमाणलैस्सा ।

इन सब सूत्रोंकी तुलना कम्मपयडीकी निम्न गाथासे कीजिये और देखिए कि किस सूत्रीके साथ सर्व सूत्रोंके अर्थका एक ही गाथामे समावेश किया गया है—

पुवं पि विसुद्धंतो गंठियसत्ताणइक्कमिय सोहिं ।

अन्नयरे सागारे जोगे य विसुद्धलैसासु ॥ ४ ॥

(१५) संयमासंयमलब्धिको प्राप्त करके यदि कोई नीचे गिर कर फिर ऊपर चढ़ता है तो उसका वर्णन कसायपाहुडचूर्णिमें इस प्रकार किया गया है—

पृ० ६६२, सू० २६. जदि संजमासंजमादो परिणामपच्चएण णिग्गदो
पुणोवि परिणामपच्चएण अंतोमुहुत्तेण आणीदो संजमासंजमं पडिवज्जइ, तस्स वि णत्थि
ट्टिदिघादो वा अणुभागघादो वा । ३० जाव संजदासंजदो ताव गुणसेहिं समए समए
करेदि । विसुद्धंतो असंखेज्जगुणं वा संखेज्जगुणं वा संखेज्जभागुत्तरं वा असंखेज्जभागु-
त्तरं वा करेदि । संकिलिस्संतो एवं चेव गुणहीणं वा विसेसहीणं वा करेदि ।

उक्त सन्दर्भका मिलान कम्मपयडीकी इस गाथासे कीजिए—

परिणामपच्चयाओ णाभोगगया गया अकरणाउ ।

गुणसेठी सिं निच्चं परिणामा हाणिवुड्ढिज्जुया ॥ ३० ॥ (उपशमनाक०)

(१६) चारित्रमोह-उपशामनाधिकारमे अनिवृत्तिकरण गुणस्थानके अन्तर्गत होनेवाले कार्य-विशेषोंका वर्णन करते हुए चूर्णिकार कहते हैं—

पृ० ६८८, सू० ११५. तदो असंखेज्जाणं समयपवद्धान्णमुदीरणा च ।
११६. तदो संखेज्जेसु ठिदिवंधसहस्सेसु मणपच्चवणाणावरणीय-दाणंतराइयाणमणु-
भागो वंधेण देसघादी होइ । ११७. तदो संखेज्जेसु ट्टिदिवंधेसु गदेसु ओहिणाणावर-
णीयं ओहिदंसणावरणीयं लाभंतराइयं च वंधेण देसघादिं करेदि । ११८. तदो संखे-

ज्जेसु द्विदिवंधेसु गदेसु सुदणाणावरणीयं अचक्खुदंसणावरणीयं भोगंतराइयं च वंधेण देसघादिं करेदि । ११६. तदो संखेज्जेसु द्विदिवंधेसु गदेसु चक्खुदंसणावरणीयं वंधेण देसघादिं करेदि । १२०. तदो संखेज्जेसु द्विदिवंधेसु गदेसु आभिणित्रोहिय-णाणावरणीयं परिभोगंतराइयं च वंधेण देसघादिं करेदि । १२१. संखेज्जेसु द्विदिवंधेसु गदेसु वीरियंतराइयं वंधेण देसघादिं करेदि । १२२. एदेसिं कम्माणमखवगो अणुवसामगो सव्वो सव्वघादिं वंधदि ।

अत्र उक्त सर्व चूर्णिसूत्रोंके आधारभूत कम्मपयडीकी गाथाओंको देखिए—

अहुदीरणा असंखेज्जसमयपवद्वाण देसघाइत्थ ।

दाणंतरायमणपज्जवं च तो ओहिदुगलाभो ॥ ४० ॥

सुयभोगाचक्खुओ चक्खू य ततो मई सपरिभोगा ।

विरियं च असेट्टिगया वंधंति ऊ सव्वघाईणि ॥ ४१ ॥ (उपश०)

पाठक स्वयं ही अनुभव करेंगे कि इन दोनों गाथाओंमें प्रतिपादित अर्थको किस सुन्दरताके साथ चूर्णिसूत्रोंमें स्पष्ट किया गया है ।

कसायपाहुडचूर्णिमें उपर्युक्त स्थलसे अर्थात् पृ० ६८८ से लेकर पृ० ७२१ तकके सर्व-चूर्णिसूत्रोंका आधार कम्मपयडीके इसी उपशमनाकरणकी न० ४२ से लेकर ६५ तक की गाथाएँ हैं यह किसी भी तुलना करने वाले व्यक्तिसे अव्यक्त न रहेगा । विस्तारके भयसे यहाँ आगेके उद्धरण नहीं दिये जा रहे हैं । उक्त तुलनात्मक अवतरणोंसे स्पष्ट है कि चूर्णिकारके सम्मुख कम्मपयडी अवश्य रही है । फिर भी उक्त सर्व प्रमाणोंसे जोरदार और प्रबल प्रमाण स्वयं यतिवृषभाचार्यके द्वारा किया गया वह उल्लेख है, जिसमें कि उन्होंने स्वयं ही कम्म-पयडीका उल्लेख किया है ।

इसी उपशमनाधिकारमें देशकरणोपशमनाके भेद बतलाते हुए कहा है—

पृ० ७०८, सू० ३०३. देसकरणोवसामणाए दुवे णामाणि देसकरणोवसा-मणा त्ति वि अप्पसत्थ-उवसामणा त्ति वि । ३०४. एसा कम्मपयडीसु ।

अर्थात् देशकरणोपशमनाके दो नाम हैं—देशकरणोपशमना और अप्रशस्तोपशमना । इस देशकरणोपशमनाका वर्णन कम्मपयडी में किया गया है ।

यहाँ पर आ० यतिवृषभने जिस कम्मपयडीका उल्लेख किया है, वह निश्चयतः यही उपलब्ध कम्मपयडी है, क्योंकि, इसमें उपशमना प्रकरणके भीतर गाथाङ्क ६६ से लेकर ७१ वीं गाथा तक देशोपशमनाका वर्णन किया गया है । कम्मपयडीके चूर्णिकार देशोपशमनाके वर्णन करनेके लिए गाथाका अवतार करते हुए कहते हैं—

सव्वुवसामणा सम्मता । इयाणिं देसोपसमणा । तीसे इमे भेया—

पगइ-ठिई-अणुभागप्पएसमूलुत्तराहि पविभत्ता ।

देसकरणोवसमणा तीए समियस्स अट्टपयं ॥ ६६ ॥ (उपशमना०)

अर्थात् देशकरणोपशमनाके चार भेद हैं—प्रकृतिदेशोपशमना, स्थितिदेशोपशमना, अनुभागदेशोपशमना और प्रदेशदेशोपशमना । इन चारों ही प्रकार वाली देशोपशमनाओंके भी मूलप्रकृतिदेशोपशमना और उत्तरप्रकृतिदेशोपशमनाकी अपेक्षा दो दो भेद हैं । उस देशकरणोपशमनाका यह अर्थपद है । अर्थात् अब आगे उसका लक्षण कहते हैं ।

इस प्रकार देशकरणोपशमनाका निरूपण कम्मपयडीमे ६ गाथाओंके द्वारा किया गया है । यतिवृषभके द्वारा इस प्रकार कम्मपयडीका स्पष्ट उल्लेख होने पर तथा कम्मपयडीमें देशकरणोपशमनाका वर्णन पाये जाने पर कोई कारण नहीं है कि कम्मपयडीका उनके सम्मुख अस्तित्व न माना जाय ।

प्रश्न—कम्मपयडीमें देशकरणोपशमनाका वर्णन क्यों किया, कसायपाहुडमे क्यों नहीं किया ?

उत्तर—मोहकर्मकी सर्वोपशमना ही होती है, देशोपशमना नहीं । तथा शेष सात कर्मोंकी देशोपशमना ही होती है, सर्वोपशमना नहीं । चूँकि, कपाय मोहकर्मका ही भेद है, अतः कसायपाहुडमे उसकी सर्वोपशमनाका वर्णन किया गया । किन्तु शेष कर्मोंका वर्णन कसायपाहुडमे नहीं है, अतः देशोपशमनाका वर्णन उसमें नहीं किया गया । पर कम्मपयडीमे तो आठों ही कर्मोंका वर्णन किया गया है, अतएव उसमे देशोपशमनाका वर्णन किया जाना सर्वथा उचित है ।

इसके अतिरिक्त आ०यतिवृषभको जिन आर्यनागहस्तीका शिष्य या अन्तेवासी बताया जाता है, और जिनके उपदेशको पवाइज्जंत उपदेश कह करके आ० यतिवृषभने प्रकृत विषयके प्रतिपादन करनेमे अनुसरण करके महत्ता प्रदान की है, उनके लिए पट्टावलीकी पूर्वोद्धृत गाथामे 'कम्मपयडीपहाणाणं' विशेषण दिया गया है । जब यतिवृषभके गुरु कम्मपयडीके प्रधान व्याख्याताओंमें थे, तो यतिवृषभके सामने तो उसका होना स्वतः सिद्ध है ।

एक खास बात और भी ध्यान देनेके योग्य है कि दि० परम्परामे आ० भूतबलि और यतिवृषभका एक मत-भेद नवें गुणस्थानमे सत्त्वसे व्युच्छिन्न होने वाली प्रकृतियोंके विषयमे है । आ० भूतबलिके उपदेशानुसार नवे गुणस्थानमें पहले १६ प्रकृतियोंकी सत्त्व-व्युच्छित्ति होती है, पीछे आठ मध्यम कपायोंकी । किन्तु यतिवृषभ पहले आठ मध्यम कपायोंकी सत्त्वव्युच्छित्ति कहते हैं और पीछे १६ प्रकृतियोंकी । यतिवृषभ इस विषयमें स्पष्टरूपसे कम्मपयडीका अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि उसमें पहले आठ मध्यम कपायोंकी और पीछे १६ प्रकृतियोंकी सत्त्वव्युच्छित्ति बतलाई गई है । यथा—

खवगाणियट्टि-अद्धा संखिज्जा होंति अट्ट वि कसाया ।

गिरय-तिरिय तेरसगं गिहाणिदातिगेणुवरिं ॥ ६ ॥ (सत्ताधि०)

अर्थात् क्षपक अनिवृत्तिकरण गुणस्थानके सख्यात भाग व्यतीत होने पर पहले आठों ही मध्यम कपायोंकी सत्त्वव्युच्छित्ति होती है । तत्पश्चात् नरक और तिर्यग्गति-प्रायोग्य तेरह तथा निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला और स्त्यानगृद्धि ये तीन, इस प्रकार सोलह प्रकृतियोंकी सत्त्वव्युच्छित्ति होती है ।

कम्मपयडीके उक्त प्रमाणसे स्पष्ट है कि यतः आ० यतिवृषभ प्रायः सभी सैद्धान्तिक मत-भेदोंके स्थलों पर कम्मपयडीका अनुसरण करते हैं, अतः कम्मपयडी उनके सम्मुख अवश्य रही है ।

यतः आ० यतिवृषभने सतक और मित्तरी पर चूर्णि रची है,—ऐसा कि आगे मिय किया गया है—अतः इन दोनोंका उनके सम्मुख उपस्थित होना स्वाभाविक ही है ।

उपसहार—ऊपरके इस समग्र विवेचनका फलितार्थ यह है कि कसायपाहुड-चूर्णिकारके सम्मुख पट्खडागमसूत्र, कम्मपयडी सतक और मित्तरी अवश्य रहे हैं ।

चूर्णिकार यतिवृषभकी अन्य रचनाएं

आ० यतिवृषभकी दूसरी कृतिके रूपमें तिलोचपण्याची प्रसिद्ध है और यह मानुवाद मुद्रित होकर प्रकाशमें भी आ चुकी है । हालांकि, उसके वर्तमानरूपमें अनेक प्रतिभ्रम भूल ऐसे पाये जाते हैं, जिनके कि यतिवृषभ-द्वारा रचे जाने में सन्देह है ।

आ० यतिवृषभने प्रस्तुत कसायपाहुड-चूर्णि और तिलोचपण्याचीमें अतिरिक्त अन्य कौन-कौन-सी रचनाएँ कीं, यह विषय अद्यावधि अन्वेषणीय बना हुआ है ।

चूर्णिसाहित्यका अनुसन्धान करने पर कुछ और रचनाएँ भी आ० यतिवृषभके द्वारा रचित ज्ञात होती हैं, अतएव यहाँ उनपर कुछ प्रकाश डालना आवश्यक है ।

कम्मपयडीका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है और यह बतलाया जा चुका है कि यह आ० यतिवृषभके सामने उपस्थित ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने प्रस्तुत चूर्णिमें उमका भर-पूर उपयोग भी किया है । उस कम्मपयडीकी एक चूर्णि अभी कुछ दिन पूर्व श्री गुक्तावाट ज्ञानमन्दिर डभोई (गुजरात) से प्रकाशित हुई है जिसपर किसी कर्ता-विशेषका नाम नहीं दिया गया है किन्तु 'चिरन्तनाचार्य-विरचित-चूर्णियाँ समलकृता' ऐसा वाक्य मुद्रित है, जिसका कि अर्थ है—किसी प्राचीन आचार्यसे विरचित चूर्णिसे युक्त यह कर्मप्रकृति है । अर्थात् उसके कर्ता अभीतक अज्ञात है । उस चूर्णिका जब हम कसायपाहुड-चूर्णिके साथ तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो उसके आ० यतिवृषभ-रचित होनेमें सन्देहकी कोई गुंजायश नहीं रह जाती है । यहाँ पर दोनों चूर्णियोंके कुछ समान अवतरण प्रस्तुत किये जाते हैं ।

ऊपर कम्मपयडीकी जिन गाथाओंको कसायपाहुड-चूर्णिका आधार बताया गया है, उन सबकी चूर्णि कसायपाहुडके उक्त स्थलवाले चूर्णिसूत्रोंके साथ प्रायः शब्दशः समान हैं, अर्थात् तो पूर्ण साम्य है ही । फिर भी दोनोंके कुछ अन्य समान अवतरण देना इसलिए आवश्यक प्रतीत होता है कि जिससे पाठकगण भी उनपर स्वयं विचार कर सकें ।

(१) मोहकर्मके १, २, ३, ४, ५, ११, १२, १३, २१, २२, २३, २४, २६, २७, और २८ प्रकृतिरूप १५ प्रकृतिसत्त्वस्थान होते हैं, इनकी प्रकृतियोंका वर्णन कसायपाहुडचूर्णि और कम्मपयडीचूर्णिमें समान होते हुए भी अनुलोम प्रतिलोमक्रमसे किया गया है । नीचे दिये जाने वाले दोनोंके अवतरणोंसे दोनों चूर्णियोंके एक-वर्तक होनेकी पुष्टि बहुत कुछ अशमें होती है ।

कसायपा० पृ० ५८, सू० ४२. एकस्से विहत्तियो को होदि ? लोहसंजलणो ४३. दोएहं विहत्तियो को होदि ? लोहो माया च । ४४. तिहहं विहत्ती लोहसंजलण-मायासंजलण-माणसजलणाओ । ४५. चउएह विहत्ती चत्तारि संजलणाओ । ४६. पंचएहं विहत्ती चत्तारि संजलणाओ पुरिसवेदो च । ४७. एकारसएहं विहत्ती एदाणि चैव पंच छण्णोकसाया च । ४८. वारसएहं विहत्ती एदाणि चैव इत्थिवेदो च । ४९. तेरसएहं विहत्ती एदाणि चैव णवुंसयवेदो च । ५०. एकवीसाए विहत्ती

एदे चेव अट्ट कसाया च । ५१. सम्मत्तेण वावीसाए विहत्ती । ५२. सम्मामिच्छत्तेण तेवीसाए विहत्ती । ५३. मिच्छत्तेण चदुवीसाए विहत्ती । ५४. अट्टावीसादो सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तेसु अवण्णिदेसु छव्वीसाए विहत्ती । ५५. तत्थ सम्मामिच्छत्ते पक्खित्ते सत्तावीसाए विहत्ती । ५६. सव्वाओ पयडीओ अट्टावीसाओ विहत्ती ।

कसायपाहुडचूर्णिमे उसकी स्वीकृत वर्णन-शैलीसे मोहके उक्त १५ सत्त्वस्थानोकी प्रकृतियोंका वर्णन अनुलोम क्रमसे किया गया है । पर इन्हीं सत्त्वस्थानोका वर्णन कम्मपयडीमे प्रतिलोमक्रमसे किया गया है, जिसका निर्देश स्वय ही चूर्णिकार कर रहे हैं । यथा—

(चू०) १, २, ३, ४, ५, ११, १२, १३, २१, २२, २३, २४, २६, २७, २८ एयाणि मोहणिज्जस्स संतकम्मट्ठाणाणि । सुहगहणणिमित्तं विवरीयाणि वक्खाणिज्जंति । तत्थ अट्टावीसा सव्वमोहसमुदतो । ततो सम्मत्ते उव्वलिए सत्ता-वीसा । ततो सम्मामिच्छत्ते छव्वीसा, अणादिमिच्छदिट्ठिस्स वा छव्वीसा । अट्टावीसातो अणंताणुबंधिविसंजोजिए चउवीसा । ततो मिच्छत्ते खविते तेवीसा । ततो सम्मामिच्छत्ते खविते वावीसा । ततो सम्मत्ते खविते एककवीसा । ततो अट्टकसाते खविते तेरस । ततो नपुंसगवेदे खविते वारस । ततो इत्थिवेए खविए एककारस । ततो छन्नोकसाते खविते पंच । ततो पुरिसवेए खविए चचारि । ततो कोहसंजलणे खविते तिन्नि । ततो माणसंज-लणे खविते दोन्नि । ततो मायासंजलणाते खविते एको लोभो । (कम्मप० सत्ता० पृ० ३४)

पाठक देखेंगे कि कसायपाहुडचूर्णिमे अनुलोम या पूर्वानुपूर्वीसे वर्णन किया गया है और कम्मपयडीचूर्णिमे वही प्रतिलोम या पश्चादानुपूर्वीसे किया गया है । इस प्रतिलोम क्रमसे कहनेका कारण उसके प्रारम्भ मे ही चूर्णिकारने वतला दिया है कि कथनकी सुविधाके लिए वे ऐसा कर रहे हैं ।

(२) सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिके उत्कृष्टप्रदेशसत्कर्मका स्वामित्व कसाय-पाहुडचूर्णिमे इस प्रकार वतलाया गया है—

पृ० १८५-८६, सू० ८. गुण्णिदकम्मंसिओ दंसणमोहणीयक्खवओ जम्मि मिच्छत्तं सम्मामिच्छत्ते पक्खित्तं तम्मि सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेसविहत्तिओ । ६. सम्मत्तस्स वि तेणेव जम्मि सम्मामिच्छत्तं सम्मत्ते पक्खित्तं तस्स सम्मत्तस्स उक्कस्सपदेससंतकम्मं ।

अब इसका मिलान कम्मपयडीकी चूर्णिसे कीजिए—

ततो लहुमेव खवणाए अब्भुट्ठिओ जम्मि समये मिच्छत्तं सम्मामिच्छत्ते सव्वसंक्रमेण संकंतं भवति, तम्मि समये सम्मामिच्छत्तस्स उक्कोसपदेससंतं भवति । जम्मि समये सम्मामिच्छत्तं सम्मत्ते सव्वसंक्रमेण संकंतं भवइ, तम्मि समये सम्मत्तस्स उक्कोसपदेससंतं भवति । (कम्मप० सत्ता० पृ० ५७)

(३) कसायपाहुडचूर्णिमे नपुंसकवेदके उत्कृष्ट प्रदेशसत्त्वका स्वामित्व इस प्रकार वतलाया गया है—

पृ० १८६, सू० १०. श्वुंसयवेदस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं कस्स ? ११.
गुणिदकम्मंसिओ ईसाणं गदो तस्स चरिमसमयदेवस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं ।

उक्त चूर्णिका मिलान कम्मपयडीचूर्णिसे कीजिए—

सो चेव गुणियकम्मंसिगो सव्वावासगाणि काउं ईसाणे उप्पन्नो । तत्थ संकिलेसेणं भूयो नपुंसगवेयमेव वंधति । तत्थ बहुगो पदेसणिचयो भवति, तस्स चरिमसमये वट्टमाणस्स उक्कोसपदेससंतं । (कम्मप० सत्ता० पृ० ५७)

कम्मपयडीचूर्णिमे जो वात जरा स्पष्टीकरणके साथ कही गई है, वही कसायपाहुड-चूर्णिमे उसकी शैलीके अनुसार संचितरूपसे कही है ।

(४) स्त्रीवेदके उत्कृष्ट प्रदेशसत्त्वके स्वामित्वका वर्णन कसायपाहुडचूर्णिमें इस प्रकार किया गया है—

पृ० १८६, सू० १२. इत्थिवेदस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं कस्स ? १३.
गुणिदकम्मंसिओ असंखेज्जवस्साउए गदो, तम्मि पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण जम्हि पूरिदो तस्स इत्थिवेदस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं ।

अब उक्त चूर्णिसूत्रोका मिलान कम्मपयडीचूर्णिसे कीजिए—

ईसाणे नपुंसगवेयं पुव्वपउगेण पूरित्ता ततो उव्वट्टित्तु लहुमेव 'असंखवासीसु' त्ति-भोगभूमिगेसु उप्पन्नो । तत्थ 'पल्लसंखियभागेण पूरिए इत्थिवेयस्स' त्ति-तत्थ संकिलेसेण पल्लिओवमस्स असंखेज्जेणं कालेणं इत्थिवेउ पूरितो भवति, तमि समते इत्थिवेयस्स उक्कोसपदेससंतं । (कम्मप० सत्ता० पृ० ५८)

इस उद्धरणमे जो उद्धृत वाक्यांश है, वह कम्मपयडीके उस गाथाके है, जिसपर कि उक्त चूर्णि लिखी गई है । दोनोके मिलानसे पाठक इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगे कि दोनो चूर्णियोंकी रचना समान होते हुए भी और दोनोंमें अपनी-अपनी रचनाकी विशिष्टता होते हुए भी एक कर्तृकताकी छाप स्पष्ट है ।

(५) कसायपाहुडचूर्णिमे सञ्चलन क्रोध, मान, माया और लोभके उत्कृष्ट प्रदेश-सत्त्वका स्वामित्व इस प्रकार वतलाया गया है—

पृ० १८७, सू० १६. तेणेव जाधे पुरिसवेद-छएणोकसायाणं पदेसग्ग कोधसंजलणे पक्खित्तं ताधे कोधसंजलणस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं । १७. एसेव कोधो जाधे माणे पक्खित्तो ताधे माणस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं । १८. एसेवमाणो जाधे मायाए पक्खित्तो ताधे मायासजलणस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं । १९. एसेव माया जाधे लोभसंजलणे पक्खित्ता ताधे लोभसंजलणस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं ।

अब उक्त चूर्णिसूत्रोका मिलान कम्मपयडी-चूर्णिसे कीजिए—

जंमि समते पुरिसवेतो सव्वसंकमेण कोहसंजलणाए संकंतो भवति तंमि समते कोहसंजलणाते उक्कोसपदेससंतं भवति । तस्सेव जंमि समते कोहसंजलणा माणसंजलणाए सव्वसंकमेण संकंता तंमि समते माणराजलणा उक्कोसं पदेससंतं भवति । तस्सेव जंमि समए माणसंजलणा मायासंजलणाए] सव्वसंकमेण संकंता भवति तंमि समते मायासंजलणाए उक्कोसं पदेससंतं । तस्सेव जंमि समते मायासंजलणा लोभसंजलणाए सव्वसंकमेण संकंता भवति तंमि समते लोभसंजलणाए से उक्कोसं पदेससंतं ।

(कम्मप० सत्ता० पृ० ५६)

चूंकि कम्मपयडीकी चूर्णि उसकी गाथाओकी व्याख्यात्मक है, अतः उसमें 'जंमि समते,' सव्वसंकमेण आदि पदोका प्रयोग विषयके स्पष्टीकरणार्थ किया गया है, पर वस्तुतः दोनोंमें निरूपित तत्त्व एक ही है और दोनोंकी रचना शैली भी एक है ।

(६) कसायपाहुडचूर्णिमें सम्यग्मिथ्यात्वके जघन्य प्रदेशसत्कर्मका स्वामित्व इस प्रकार बतलाया गया है—

पृ० १८६, सू० ३१. सम्मामिच्छत्तस्स जहणणयं पदेससंतकम्मं कस्स ?
३२. तथा चेव सुहुमणिगोदेसु कम्मड्ढिमिच्छदूण तदो तसेसु संजमासंजमं संजमं सम्मत्तं च बहुसो लद्धूण चत्तारि वारे कसाए उवसामेदूण वे छावड्ढिसागरोवमाणि सम्मत्तमणुपालेदूण मिच्छत्तं गदो दीहाए उव्वेल्लणाद्वाए उव्वेलिद तस्स जाधे सव्वं उव्वेलिदं, उदयावलिया गलिदा, जाधे दुसमयकालड्ढिदियं एकम्मि ड्ढिदिविसेसे सेसं, ताधे सम्मामिच्छत्तस्स जहणणं पदेससंतकम्मं । × × × एवं चेव सम्मत्तस्स वि ।

अब उक्त चूर्णिसूत्रका मिलान कम्मपयडीकी चूर्णिसे कीजिए—

× × × सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं वे छावड्ढीतो सागरोवमाणं सम्मत्तं अणुपालेत्तु पच्छा मिच्छत्तं गतो चिरउव्वलणाए अप्पणो उव्वलणाते आवलिगाते उवरिमं ड्ढितिखंडगं संकममाणं संकंतं, उदयावलिया खिज्जति जाव एगड्ढितिसेसे दुसमयकाल-ड्ढितिगे जहन्नं पदेससंतं ।

पाठक देखेंगे कि दोनों चूर्णियोंमें कितना अधिक साम्य है । भेद केवल इतना ही है कि कसायपाहुडचूर्णिमें सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशसत्कर्म-स्वामित्व बतानेके पीछेसे तदनुसार ही सम्यक्त्वप्रकृतिके स्वामित्वका वर्णन जाननेको कहा गया है, जबकि कम्मपयडीचूर्णिमें दोनों प्रकृतियोंके स्वामित्वका निरूपण एक साथ किया गया है और इसका कारण यह है कि उसकी मूलगाथामें भी दोनोंका स्वामित्व एक साथ प्रतिपादन किया गया है ।

(७) आठ मध्यमकपायोंके जघन्य प्रदेशसत्कर्म-स्वामित्वको बतलाते हुए कसायपाहुडचूर्णिमें कहा गया है—

पृ० १६०, ३६ अभवसिद्धियपाओग्गजहणणयं काऊण तसेसु आगदो संजमासंजमं संजमं सम्मत्तं च बहुसो लद्धूण चत्तारि वारे कसाए उवसामिदूण एड्ढियं

गदो । तत्थ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमच्छिदूण कम्मं हृदयमुत्पत्तियं कादूण कालं गदो तसेसु आगदो कसाए खवेदि, अपच्छिमे द्विदिग्गुडए अवगते अधद्विदिग्गलगाए उदयावलियाए गलंतीए एकस्से द्विदीए सेसाए तम्मि जहणणयं पदं । ४०. तदो-पदेसुत्तरं । ४१. गिरंतराणि द्वाणाणि जाव एगद्विदिविसेसस्स उक्करसपदं । ४२. एद-मेगं फदयं । ४३. एदेण कमेण अट्टएहं पि कसायाणं समयूणावलियमेचाणि फद-याणि उदयावलिपादो । ४४, अपच्छिमद्विदिग्गुडयस्स चरिमसमय-जहणणपदमादिं कादूण जावुकस्सपदेससत्तकम्मं ति एदमेग फदय ।

अव उक्त चूर्णिसन्दर्भका कम्मपयडीकी निम्नलिखित चूर्णिमे मिलान कीजिए—

अभवसिद्धियपातोगं जहन्नगं पदेससंतकम्मं काऊण तसेसु उववन्नो । तत्थ देसविरति विरतिं च बहुयातो वारातो लद्धूण चत्तारि वारे कसाते उवसामेऊण ततो पुणो एगिदियाएसु उप्पन्नो, तत्थ पलिओवमस्स असंखेज्जतिभागं अत्थिऊणं पुणो तसेसु उप्पन्नो । तत्थ खवणाए अब्भुद्धितो तस्स चरिमे द्वितिखंडगे अवगते उदया-वलियाए गलंतीए एगद्वितीसेसाए आवलियाए दुसमय-कालद्वितीय तहिं जहन्नगं पदेससंतं भवति । एयं सब्वजहन्नयं पदेससंतं । सब्वजहन्नतो पदेससंतं एगे कम्म-खंडपोगले पक्खित्ते अन्नं पदेससंतं तम्मि ठितिविसेसे लब्धति । एवं एककेक्क पक्खवमाणस्स अणंताणि तम्मि द्वितिविसेसे लब्धंति जाव गुणियकम्मंसिगस्स तम्मि द्वितिविसेसे उक्कोसं पदेससंतं । एत्तो उक्कोसतरं तम्मि द्वितिविसेसे अन्नं पदेससंतं नत्थि । एयं एककं फड्डगं । दोसु द्वितिविसेसेसु एएणव उवाएण वितियं फड्डगं । तिसु द्वितिविसेसेसु ततियं फड्डगं । एवं जाव आवलियाए समऊणाते जत्तिया समया तत्तिगाणि फड्डगाणि, चरिमस्स द्वितिखंडस्स चरिमसंछोभसमयं आदिं काउं जाव अप्पणो उक्कोसगं पदेससंतं ताव एयं पि एगफड्डगं सब्वद्वितिगयं जहासंभवेण ।

(कम्म० सत्ता० पृ० ६७)

पाठक देखेंगे कि इस उद्धरणमें ऊपरका आधा भाग तो शब्दशः समान है ही । साथ ही पीछेका आधा भाग भी अर्थकी दृष्टिसे बिल्कुल समान है । कम्मपयडीके इस पीछेके भागके विस्तृत अशको सक्षिप्त करके कसायपाहुडकी चूर्णिमे उसे प्राय उन्हीं शब्दोंमें कह दिया गया है ।

(८) कसायपाहुडकी संक्रमणअधिकारवाली 'अट्ठावीस चउवीस' इत्यादि २७ नं० की गाथा पर जो विस्तृत चूर्णिसूत्र है, वे सब कम्मपयडीके संक्रमण-प्रकरणकी 'अट्ठ-चउरहियवीस' इस १० वीं गाथाकी चूर्णिसे शब्द और अर्थकी अपेक्षा पूर्ण समान है । इसके अतिरिक्त एक समता दोनोमें यह भी है कि उससे आगेकी गाथाओं पर—जो कि दोनोमें समानरूपसे पाई जाती है—चूर्णि न तो कसायपाहुडमें ही मिलती है और न कम्मपयडीमें भी । क्या यह समता भी आकस्मिक ही है ? अवश्य ही उक्त समता दोनोचूर्णियोंके एक कर्तृत्वकी द्योतक है ।

(६) संयमासंयमलब्धिमें संयमासयमसे गिरनेवाले देशसंयतका वर्णन इस प्रकारसे किया गया है—

पृ० ६६३, सू० ३२. जदि संजमासंजमादो पडिवदिदूण आगुंजाए मिच्छत्तं गंतूण तदो संजमासंजमं पडिवज्जइ अंतोमुहुत्तेण वा विप्पकट्ठेण वा कालेण, तस्स वि संजमासंजमं पडिवज्जमाणस्स एदाणि चैव करणाणि कादव्वाणि ।

इन चूर्णिसूत्रोंका मिलान कम्मपयडीचूर्णसे कीजिए—

अह पुण आभोएणं देसविरतितो विरतीतो वा वि पडिओ आभोएणं मिच्छत्तं गंतु पुणो देसविरतिं वा विरतिं वा पडिवज्जेति अंतोमुहुत्तेणं वा विगिट्ठेण वा कालेण तस्स पडिवज्जमाणस्स एयाणि चैव करणाणि शियमा काऊण पडिवज्जियव्वं ।

(उपशमनाकरण, पृ० २२)

पाठकगण दोनोकी समताका स्वय अनुभव करेंगे। जो थोड़ासा भेद 'विरति' पदका है, उसका कारण यह है कि कम्मपयडीमे देशविरति और सर्वविरतिका एक साथ वर्णन किया गया है, जब कि कसायपाहुडचूर्णमें ये दोनो अधिकार भिन्न-भिन्न है।

(१०) चारित्रमोहकी उपशमना करनेके लिए वेदकसम्यग्दृष्टिको पहले अनन्तानुबन्धी-कपायकी विसंयोजना करना आवश्यक है। इसका वर्णन कसायपाहुडचूर्णमें इस प्रकार किया गया है—

पृ० ६७८, सू० ४. वेदयसम्माइद्धी अणंताणुवंधी अविंसंजोएदूण कसाए उवसामेहुं णो उवडादि । ५. सो ताव पुव्वमेव अणंताणुवंधी विसंजोएदि । ६. तदो अणंताणुवंधी विसंजोएतस्स जाणि करणाणि ताणि सव्वाणि परूवेयव्वाणि ।

अब इसी बातको कम्मपयडीचूर्णमें किस प्रकार कहा गया है सो उसे भी देखिए—

चरित्तुवसमणं काउंकामो जति वेयगसम्मदिद्धी तो पुव्वं अणंताणुवंधिणो नियमा विसंजोएति । एएण कारणेण विरयाणं अणंताणुवंधिविसंजोयणा भन्नति ।

(कम्मप० उपश० पृ० २३)

यहां यह बात ध्यानमे रखनेके योग्य है कि श्वे० आचार्य चारित्रमोहकी उपशमना करने-वालेके लिए अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना आवश्यक नहीं समझते हैं, तब कम्मपयडीचूर्ण और कसायपाहुडचूर्णकार दोनो इस विषयमे एक मत है और उनकी यह मान्यता दि० मान्यताके सर्वथा अनुरूप ही है।

(११) दर्शनमोहक्षपणाके प्रस्थापक जीवके अनिवृत्तिकरणमे प्रवेश करनेके प्रथम समय-की क्रियाओंका वर्णन कसायपाहुडचूर्णमे इस प्रकार किया गया है—

पृ० ६४६, सू० ४०. पढमसमय-अणियट्टिकरणपविट्टस्स अपुव्वं ट्टिदिखंड-यमपुव्वमणुभागखंडयमपुव्वो ट्टिदिबधो, तहा चैव गुणसेढी । ४१. अणियट्टिकरणस्स

पढमसमये दंसणमोहणीयमप्पसत्थमुवगामणाए अणुवसंतं, सेसाणि कम्मणि उवसंताणि च अणुवसंताणि च ।

अब इसी वर्णनको कम्मपयडीचूर्णिसे मिलान कीजिए—

पढमसमयअणियट्ठि पविट्ठस्स अपुव्वं ट्ठित्तिखडग अपुव्वं अणुभागखंडगं अपुव्वो ट्ठित्तिबंधो, अपुव्वा गुणसेढी । अणियट्ठिस्स पढमसमते दंसणमोहणीयंअप्पमत्थुवगामणा-
णिहत्तणिकाचरोहिं अनुपसंतं, सेसाणि कम्मणि उवसंताणि अणुवसंताणि य ।

(कम्मप० उपश० पृ० २५)

पाठक स्वयं अनुभव करेंगे कि दोनों उद्धरणोंमें शब्दशः समता है ।

(१२) उक्त दर्शनमोहक्षपकके अनिवृत्तिकरणाकालके संख्यात भाग व्यतीत होनेपर जो कार्य-विशेष होते हैं, उनका वर्णन कसायपाहुडमें इस प्रकार किया गया है—

पृ० ६४७, सू० ४३. तदो ट्ठिद्विखंडयमहस्सेहि अणियट्ठिअट्ठाणं संखेज्जेसु भागेषु गदेसु असण्णिट्ठिद्विधेण दंसणमोहणीयस्स ट्ठिद्विसंतकम्म समगं । ४४. तदो ट्ठिद्विखंडयपुधत्तेण चउरिंदियवधेण ट्ठिद्विसंतकम्म समगं । ४५. तदो ट्ठिद्वि-
खंडयपुधत्तेण तीइ दियवधेण ट्ठिद्विसंतकम्म समगं । ४६. तदो ट्ठिद्विखंडयपुधत्तेण वीइ दियवधेण ट्ठिद्विसंतकम्म समगं । ४७. तदो ट्ठिद्विखंडयपुधत्तेण एइदियवधेण ट्ठिद्विसंतकम्म समगं । ४८. तदो ट्ठिद्विखंडयपुधत्तेण पल्लिदोवमट्ठिद्विगं जादं दंसणमोहणीयट्ठिद्विसंतकम्मं ।

अब उक्त उद्धरणका कम्मपयडीचूर्णिसे मिलान कीजिए—

अणियट्ठिपढमसमते दंसणमोहणीयस्स ट्ठित्तिद्विसंतकम्मं खंडिज्जमाणं खंडिज्ज-
माणं असन्निपंचिंदियसंतकम्मट्ठित्तिद्विसमगं होति । ततो ट्ठित्तिखंडगपुहुत्ते गते चउरिं-
दियसंतकम्मट्ठित्तिद्विसमगं होति । ततो तत्तिएहिं चैव ट्ठित्तिखंडगेहिं गएहिं तेइंदियसंत
समगं, ततो तत्तिएहिं चैव ट्ठित्तिखंडगेहिं गएहि वेइंदियसंतसमगं, एवं एगिदियसत्त-
समगं ट्ठिद्विसंतकम्मं होइ । ततो ट्ठित्तिखंडगपुहुत्तेणं जायं पल्लिओवमट्ठिद्वित्तिं दंसणमोह-
णिज्जट्ठित्तिद्विसंतकम्मं । (कम्मप० उपश० पृ० ३६)

पाठकगण दोनों चूर्णियोंकी समताका स्वयं ही अनुभव करेंगे ।

(१३) चारित्रमोहोपशामनाधिकारमें सर्वघाती प्रकृतियोंको देशघाती करनेके पश्चात् अन्तरकरणकी क्रियाका वर्णन इस प्रकार किया गया है—

पृ० ६८६, सू० १२७. तदो देसधादिकरणादो संखेज्जेसु ठिद्विबंधसहस्सेसु गदेसु अंतरकरणं करेदि । १२८. वारसएहं कसायाणं णवएहं णोकसायवेदणीयाणं च । णत्थि अरणस्स कम्मस्स अंतरकरणं । १२९. जं संजलणं वेदयदि, जं च वेदं वेदयदि एदेसिं दोएहं कम्माणं पढमट्ठिदीओ अंतोमुहुत्तिगाओ ठवेदूण अंतरकरणं करेदि ।

अथ उक्त सन्दर्भका मिलान कम्मपयडीचूर्णिसे कीजिए—

ततो देसघातीकरणातो संखेज्जेसु द्वितिवंधसहस्सेसु गतेसु 'संजमघातीणं' ति चरित्तमोहाणं अणंताणुबंधिवज्जाणं । वारसण्हं कसायाणं णवण्हं णोकसायाणं एएसिं एककवीसाए कम्माणं अंतरं करेति । 'पढमद्विइ य अन्नयरे संजलणवेयाणं वेइज्जंतीण कालसमा' त्ति चउण्हं संजलणाणं तिण्हं वेयाणं अन्नयरस्स वेतिज्जमा-
णस्स अप्पणो वेयणाकालतुल्लं पढमं द्वितिं करेति । (कम्मप० उपश० पृ० ४८ A)

पाठक दोनोंकी समताका स्वय अनुभव करेंगे । इस अवतरणके बीचमें जो उद्धृत अंश है, वह कम्मपयडीकी मूलगाथाका है, जिसकी कि यह चूर्णि है ।

(१४) इसी प्रकरणमें दोनों ग्रन्थोंकी चूर्णियोंके समता वाले कुछ अन्य सन्दर्भ इस प्रकार हैं—

कसायपा० पृ० ६७०, सू० १३५. अंतरं करेमाणस्स जे कम्मंसा वज्झंति, वेदिज्जंति तेसिं कम्माणमंतरद्विदीओ उक्केरेंतो तासिं द्विदीणं पदेसग्गं वंधपयडीणं पढमद्विदीए च देदि, विदियद्विदीए च देदि । १३६ जे कम्मंसा वज्झंति, वेदिज्जंति, तेसिमुक्कीरमाणं पदेसग्गं सत्थाणे ण देदि ; वज्झमाणीणं पयडीणमणुक्कीरमाणीसु द्विदीसु देदि । १३७ जे कम्मंसा ण वज्झंति, वेदिज्जंति च ; तेसिमुक्कीरमाणं पदे-
सग्गं अप्पणो पढमद्विदीए च देदि, वज्झमाणीणं पयडीणमणुक्कीरमाणीसु च द्विदीसु देदि । १३८. जे कम्मंसा ण वज्झंति, ण वेदिज्जंति, तेसिमुक्कीरमाणं पदेसग्गं वज्झमाणीणं पयडीणमणुक्कीरमाणीसु द्विदीसु देदि । १३९. एदेण कमेण अंतरमु-
क्कीरमाणमुक्किरणं ।

अथ उक्त सूत्रप्रबन्धका मिलान कम्मपयडीचूर्णिसे कीजिए—

अंतरं करेंतो जे कम्मसे वंधति वेदेति तेसिंउ क्किरिज्जमाणं दलियं पढमे विइए च द्विइए देति । जे कम्मंसा ण वज्झंति वेतिज्जंति तेसि उक्किरिज्जमाणा पोग्गले पढमद्वितीसु अणुक्किरिज्जमाणीसु देति । जे कम्मंसा वज्झंति, न वेयिज्जंति तेसिं उक्कि-
रिज्जमाणं दलियं अणुक्किरिज्जमाणीसु वितियट्ठतीसु देति । जे कम्मंसा ण वज्झंति, ण वेतिज्जंति तेसिं उक्किरिज्जमाणं पदेसग्गं सत्थाणे ण दिज्जति परट्ठाणे दिज्जति । एएण विहिणा अंतरं उच्छिन्नं भवति । (कम्मप० उपशमना० पृ० ४८)

दोनों अवतरणों मे कितना अधिक साम्य है, यह दर्शनीय है ।

(१५) कसायपा० पृ० ६६४ सू० १५८. णवुंसयवेदस्स पढमसमयउवसामगस्स जस्स वा तस्स वा कम्मस्स पदेसग्गस्स उदीरणा थोवा । १५९ उदयो असखेज्जगुणो । १६० णवुंसयवेदस्स पदेसग्गमणपयडिसंकाभिज्जमाणयमसंखेज्जुगुणं । १६१. उव-

सामिज्जमाणयमसंखेज्जगुणं । × × १६५ एवं संखेज्जेसु द्विदिवंधसहस्सेसु गदेसु
णवु सयवेदो उवसामिज्जमाणो उवसंतो ।

अव उक्त अवतरणका मिलान कम्मपयडीचूर्णिसे कीजिए—

तस्स उवसामणपढमसमथपभिति जस्स व तस्स व कम्मस्स उदीरणा थोवा ।
उदओ असंखेज्जगुणो । उवसामिज्जमाणणपुंसगवेयस्स पदेसग्गं असंखेज्जगुणं ।
नपुंसगवेयस्स अन्नपगति संकामिज्जमाणग पदेसग्गं अमंखेज्जगुणं । × × × एवं
संखेज्जेसु टिट्ठिवंधसहस्सेसु गएसु नपुंसगवेओ उवसंतो भवति ।

(कम्मप० उपश० पृ० ६६ A)

(१६) कसायपा० पृ० ६६६, सू० १७६. इत्थिवेदे उवसंतं (से) काले
सत्तएहं णोकसायाणं उवसामगो । १८०. ताथे चेव अएणं द्विदिखंडयमएणमणुभाग-
खंडयं च आगाइदं । अएणो च द्विदिवंधो पवट्ठो । १८१. एवं संखेज्जेसु द्विदिवंध-
सहस्सेसु गदेसु सत्तएहं णोकसायाणमुवसामणद्वाए संखेज्जदिभागे गदे तदो णाम-गोद-
वेदणीयाण कम्माणं संखेज्जवस्सद्विदिगो वंधो । × × × १८६. एदेण कमेण द्विदिवंध-
सहस्सेसु गदेसु सत्त णोकसाया उवसंता ।

उक्त सूत्रोंका मिलान कम्मपयडीकी निम्न लिखित चूर्णिसे कीजिए—

ततो इत्थिवेए उवसंते से काले नपुंसगवेय-इत्थिवेयवज्जा सत्त णोकसाते
उवसामेउं आढवेति । ताहे चेव अन्नं द्वित्तिखडगं अन्नं अणुभागखंडगं अएणं च
द्वितिवंधं पवट्ठई । एवं संखेज्जेसु द्वितिवंधसहस्सेसु गदेसु 'संखतमे संखवासितो दोएहं'
ति सत्तएहं नोकसायाणं उवसामणद्वाए संखेज्जतिभागे गए तो 'दोएहं' ति-णामगोयाणं
एएसि तंमि काले संखेज्जवासिगो चेव द्वितिवंधो । × × × एएण विहिणा संखेज्जेसु
द्वितिवंधसहस्सेसु गतेसु सत्त वि णोकसाया उवसंता भवति ।

(कम्मपयडी, उपश० पृ० ५५ A)

पाठक दोनों उद्धरणोंकी समताका स्वय अनुभव करेंगे । बीचमें जो उद्धृत अश है,
वह कम्मपयडीकी गाथाका है, जिसके कि आधार पर उक्त चूर्णि रची गई है ।

(१७) कसायपा० पृ० ६६८, सू० २०६. एदेण कमेण जाथे आवलि-
पडिआवलियाओ सेसाओ कोहसंजलणस्स ताथे विदियद्विदीदो पढमद्विदीदो आगाल-
पडिआगालो वोच्छिण्णो । २०७ पडिआवलियादो चेव उदीरणा कोहसंजलणस्स ।
२०८. पडिआवलियाए एकम्हि समए सेसे कोहसंजलणस्स जहणिया ठिदि-उदीरणा ।
२०९. चदुएहं संजलणाणं ठिदिवंधो चत्तारि मासा । २१०. सेसाणं कम्माणं
द्विदिवंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि ।

(कम्मप० उपश० पृ० ५७ A)

अव उक्त सूत्रोंका मिलान कम्मपयडीचूर्णिसे कीजिए—

जाव आवलिय-पडिआवलिगसेसा कोहसंजलणाए ताहे वितियट्टितितो आगा-
लो वोच्छिन्नो, पडिआवलिगातो उदीरणा एति, कोहसंजलणाए पडिआवलिगाते
एगंमि समते सेसे कोहसंजलणाए जहन्निगा ट्टितिउदीरणा, तंमि समते चत्तारि मासा
ट्ठिदिवंधो संजलणाणं, सेसकम्माणं संखेज्जाणि वरिससहस्साणि ट्ठितिवंधो ।

(कम्मप० उपश० पृ० ५७ A)

(१८) कसायपाहुड पृ० ७०५, सू० २८१. विदियसमए उदिण्णाण किट्ठीण-
मग्गगादो असंखेज्जदिभागं सुंचदि हेट्ठदो अपुव्वमसंखेज्जदिपडिभागमाफुंददि ।
एवं जाव चरिमसमयसुहुमसांपराइयो त्ति । २८२. चरिमसमयसुहुमसांपराइयस्स
णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणमंतोमुहुत्तिओ ट्ठिदिवंधो । २८३. णामा-गोदाणं
ट्ठिदिवंधो सोलस सुहुत्ता । २८४. वेदणीयस्स ट्ठिदिवंधो चउवीस सुहुत्ता । २८५. से
काले सव्वं मोहणीयमुवसंतं ।

उक्त सूत्रोंका मिलान कम्मपयडीचूर्णिसे कीजिए—

वितियसमते उदिन्नाणं असंखेज्जदिभागं मुयंति, हेट्ठतो अपुव्वं असंखेज्जति-
भागं गेएहति, एवं जाव सुहुमरागचरिमसमतो । × × × जाव सुहुमरागचरिमसमय
त्ति । (चरिमसमय-) सुहुमरागस्स नाणावरण-दंसणावरण-अंतरातियाणं अंतोमुहु-
त्तिगो ट्ठितिवंधो नामगोयाणं सोलसमुहुत्तिगो ट्ठितिवंधो । वेयणिज्जस्स चउवीस-
मुहुत्तितो ट्ठितिवंधो । से काले सव्वं मोहं उवसंतं भवति । (कम्मप० उपश० पृ० ६६-६७)

(१६) उपशमश्रेणीसे जीव किन कारणोंसे गिरता है, इस विषयका जो वर्णन दोनो
ग्रन्थोंकी चूर्णियोंमें उपलब्ध है, उसका नमूना देखिए—

कसायपा० पृ० ७१४, सू० ३७६. दुविहो पडिवादो भवक्खएण च उव-
सामणद्धाक्खएण च । ३८०. भवक्खएण पदिदस्स सव्वाणि करणाणि एगसमएण
उग्घादिदाणि । ३८१. पढमसमएचेव जाणि जाणि उदीरिज्जंति कम्मणि ताणि
उदयावलियं पवेसिदाणि, जाणि ण उदीरिज्जंति ताणि वि ओकड्डियूण आवलिय-
वाहिरे गोवुच्छाए सेठीए णिक्खिताणि । ३८२. जो उवसामणद्धाक्खएण पडिवदि
तस्स विहासा ।

अब उक्त चूर्णिसूत्रोंका मिलान कम्मपयडीचूर्णिसे कीजिए—

इयाणि पडिवातो सो दुविहो-भवक्खएण उवसमद्धक्खएण य । जो भव-
क्खएण पडिवडइ तस्स सव्वाणि करणाणि एगसमतेण उग्घाडियाणि भवंति ।
पढमसमते जाणि उदीरिज्जंति कम्माणि ताणि उदयावलिगं पवेसियाणि, जाणि ण
उदीरिज्जंति ताणि उक्कड्डियूण उदयावलियवहिरतो उवरिं गोवुच्छागितीते सेठीते रतेति ।
जो उवसमद्धाक्खएणं परिपडति तस्स विभासा । (कम्मप० उपशा० पृ० ५२ A)

पाठक स्वयं अनुभव करेंगे, कि दोनो पाठोंमें कितना अधिक साम्य है।

(२०) उपशमश्रेणीसे गिरनेवाले जीवका पतन किन-किन गुणस्थानोंमें होता है, इसका वर्णन कसायपाहुडचूर्णमें इस प्रकार किया गया है—

पृ० ७२६, सू० ५४२. एदिस्से उवसमसम्मत्तद्वाए अठमंतरदो असजम पि गच्छेज्ज, संजमासंजमं पि गच्छेज्ज, दो वि गच्छेज्ज । ५४४. छसु आवलियासु सेसासु आसाणं पि गच्छेज्ज । ५४४. आसाणं पुण गदो जदि मरदि, ए सक्को गिरयगदिं तिरिक्खगदि मणुसगदिं वा गंतुं । शियमा देवगदिं गच्छदि । ५४५. हदि तिसु आउ-एसु एककेण वि वद्वेण आउगेण ए सक्को कसाए उवसामेदुं ।

अब उक्त कसायपाहुडचूर्णिका कम्मपयडीकी निम्न चूर्णसे मिलान कीजिए—

पमत्तापमत्तसजयद्वाणोसु अणोगाओ परिवत्तीत्तो काउं 'हेट्टिल्लाणंतरदुगं आसाणं वा वि गच्छेज्ज' ति—हिट्टिल्लाणंतरदुगं ति देसविरओ असंजयसम्महिट्ठी वा होज्जा, ततो परिवडमाणो आसाणं वा वि गच्छेज्ज ति—कोति सासायणत्तणं गच्छेज्जा । (पृ० ७४) उवसमसम्मत्तद्वाए वट्टमाणो जति कालं करेइ धुवं देवो भवति । जई सासायणो कालं करेति सो वि नियमा देवो भवति । किं कारणं ? भवति—'तिसु आउगेसु वद्वेसु जेण सेटिं न आरुहइ' ति—देवाउगवज्जेसु आउगेसु वद्वेसु जम्हा उवसामगो सेटीते अणुरुहो भवति तम्हा सासायणो वि देवलोगं जाति ।

(कम्मप० उप० पृ० ७३)

यद्यपि कसायपाहुडचूर्णिका कम्मपयडीचूर्णिके साथ मिलान करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि दोनोंके रचयिता आ० यतिवृषभ ही हैं, तथापि इससे भी अधिक पुष्ट और सबल प्रमाण हमें तिलोयपणत्तीके अन्तमें पाई जानेवाली उस गाथासे भी उपलब्ध होता है, जिसमें कि स्पष्टरूपसे कम्मपयडीकी चूर्णिका उल्लेख किया गया है। वह गाथा इस प्रकार है—

चुण्णिणसरूवट्टकरणसरूवपमाण होइ किं जत्तं ।

अट्टसहस्सपमाणं तिलोयपणत्तिणामाए ॥७७॥

इसमें बतलाया गया है कि आठ करणोंके स्वरूपका प्रतिपादन करनेवाली कम्मपयडीका और उसकी चूर्णिका जितना प्रमाण है, उतने ही आठ हजार श्लोक-प्रमाण इस तिलोयपणत्तीका परिमाण है।

इसका अभिप्राय यह है कि कम्मपयडीकी गाथाएँ लगभग ६०० श्लोक प्रमाण है, क्योंकि एक गाथाका प्रमाण सामान्यतः सवा-श्लोक-प्रमाण माना जाता है और कम्मपयडीकी चूर्णिका प्रमाण लगभग साढ़े सात हजार श्लोक प्रमाण है, इस प्रकार दोनों का मिल करके जो प्रमाण होता है, वही आठ हजार श्लोक-प्रमाण तिलोयपणत्तीका प्रमाण बतलाया गया है।

यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि कम्मपयडीसे बन्धन आदि आठ करणोंका स्वरूप प्रतिपादन किया गया है जैसा कि उसकी पहली और दूसरी गाथासे स्पष्ट है। वे दोनों गाथाएँ इस प्रकार हैं—

सिद्धं सिद्धस्वसुयं वंदिय सिद्धोयसव्वकम्ममलं ।

कम्मद्वगस्स करणद्वगुदयसंताणि वोच्छामि ॥१॥

बंधण-संकमणुव्वट्टणा य अव्वट्टणा उदीरणया ।

उवसामणा सिधत्ती णिकायणा च त्ति करणाइं ॥२॥

प्रथम गाथामे सिद्धस्वरूप सिद्धार्थसुत महावीरस्वामीको नमस्कार करके आठ कर्म सम्बन्धी आठ करणोंके तथा उनके साथ उद्य और सत्त्वके कहनेकी प्रतिज्ञा की गई है और दूसरी गाथामें आठ करणोंके नाम गिनाये गये हैं, जिनका कि वर्णन कम्मपयडीमें किया गया है । आठ करण इस प्रकार हैं—१. बन्धनकरण, २. संक्रमणकरण, ३. उद्वर्तनाकरण, ४. अपवर्तनाकरण, ५. उदीरणकरण, ६. उपशामनाकरण, ७. निधत्तीकरण, और ८. निकाचनाकरण ।

इन आठों ही करणोंके स्वरूपादिका कम्मपयडीमें विस्तृत निरूपण किया गया है और चूर्णिकारने अपनी चूर्णिमें उनके स्वरूपका बहुत सुन्दर विवेचन किया है, इसलिए तिलोय-पणत्तीके अन्तमें उन्होंने अपनी पूर्व रचनाके परिमाणका उल्लेख करते हुए उसके साथ तिलोय-पणत्तीके भी परिमाणका उक्त गाथामे निर्देश कर दिया है । तथा निकाचनाकरणके अन्तमें चूर्णिकारने 'ध्वं अट्ट वि करणाणि समत्ताणि' इस प्रकारका वाक्य भी दिया है । जिससे सिद्ध है कि कम्मपयडीकी चूर्णि भी आ० यतिवृषभकी ही कृति है । यहां यह बात ध्यानमें रखना चाहिए कि उद्य और सत्त्वको करणोंके अन्तर्गत नहीं गिना गया है और यही कारण है कि जहाँ पर आठ करणोंका स्वरूप समाप्त हुआ है, वहां चूर्णिकारने स्पष्टरूपसे लिखा है कि 'इस प्रकार आठों ही करणोंका स्वरूप समाप्त हुआ ।

कम्मपयडी, सतक और सित्तरीकी चूर्णियोंके रचयिता एक हैं

कम्मपयडीचूर्णिके कर्त्ता रूपसे अभी तक किसी आचार्यके नामका कहीं कोई निर्देश नहीं मिलता है, तथापि कम्मपयडीके सम्पादकोंने उक्त ग्रन्थकी प्रस्तावनामें उसे अनुश्रुतिके अनुसार जिनदासमहत्तर-प्रणीत होनेकी सभावना व्यक्त की है, जो कि सभावना मात्र ही है, वास्तविक नहीं, क्योंकि उसकी पुष्टिमें कोई भी प्रमाण उपस्थित नहीं किया गया है ।

सित्तरीचूर्णिको कुछ लोग चन्द्रर्षिमहत्तर-द्वारा रचित होनेका अनुमान करते हैं, पर सित्तरीचूर्णिकी प्रस्तावनामें उसके सम्पादकोंने यह स्पष्टरूपसे लिखा है कि चन्द्रर्षिमहत्तर न तो सित्तरीके रचयिता है और न उसकी चूर्णि ही उनकी रची हुई है । उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि चन्द्रर्षिमहत्तरने अपने पंचसंग्रहके प्रारम्भमें सतक, सित्तरी आदि प्राचीन ग्रन्थोंका उल्लेख किया है और यह भी लिखा है कि एक स्थल पर सित्तरीचूर्णिकारका मत चन्द्रर्षिमहत्तरके विरुद्ध जाता है । इससे यह सिद्ध है कि चन्द्रर्षिमहत्तर सित्तरीचूर्णिके प्रणेता नहीं है ।

मुद्रित सतकचूर्णिपर कोई सम्पादकीय वक्तव्य या प्रस्तावना आदि नहीं है और न उसके आदि या अन्तमें कहीं चूर्णिकारके रूपमें किसी आचार्यके नामका उल्लेख है, तथापि मुद्रित सित्तरीचूर्णिमें श्री शान्तिनाथजी भंडार खभातने प्राप्त सतकचूर्णिके अन्तिमपत्रके उत्तरार्धका फोटो दिया है, जिसमें अन्तिम पंक्ति इस प्रकार है—

“कृतिराचार्यश्रीचन्द्रमहत्तरशितावरस्य । शतकस्य ग्रन्थस्य । प्रशस्तच्... ।
दि ३ शनौ लिखितेति ।”

परन्तु यह सतकचूर्णिके अन्तमें पाई जानेवाली पुष्पिका किसी लेखक-द्वारा लिखी गई है, यह बात उक्त पत्तिकी रचनासे ही स्पष्ट है और श्रीचन्द्रमहत्तरके नामके साथ 'शिताम्बर' पद-का प्रयोग तो उसकी अवास्तविकताका और भी अधिक परिचायक है, क्योंकि, प्रथम तो उसके देनेके कोई आवश्यकता ही नहीं थी, दूसरे दि० परम्परामें श्रीचन्द्रमहत्तर नामके कोई भी व्यक्ति नहीं हुए है। फिर भी यहां पर 'शिताम्बर' पद संस्कृत या प्राकृत दोनों भाषाओंके अनुसार अशुद्ध है। ज्ञात होता है कि सित्तरीचूर्णिकी दिगम्बराभ्यायताके अपलापके लिए उक्त वाक्य पीछेसे जोड़ा गया है।

सतकचूर्ण और सित्तरीचूर्ण भी आ० यतिवृषभ-रचित हैं

सतक और सित्तरी नामक दो ग्रन्थोंका परिचय पहले दिया जा चुका है। इन दोनों ही प्रकरणों पर चूर्णियां पाई जाती हैं और वे मुद्रित होकर प्रकाशमें भी आ चुकी हैं। सतक या शतकप्रकरणकी चूर्णि राजनगरस्थ श्रीवीरसमाजकी ओरसे वि० सं० १६७६ में प्रकाशित हुई है और सित्तरी या सप्ततिकाकी चूर्णि श्री मुत्तावाई ज्ञानमन्दिर डभोई (गुजरात) से वि० सं० १६६६ में प्रकाशित हुई हैं। दोनों ही प्रकरणों पर जो चूर्णियां प्रकाशित हुई हैं, उनपर किसी आचार्यका रचयितारूपसे नाम नहीं दिया गया है। शतकप्रकरणकी चूर्णिके ऊपर 'पूर्वाचार्यकृत-चूर्णिसमलकृत श्री शतकप्रकरणम्' ऐसा वाक्य मुद्रित है। इसी प्रकार सित्तरीचूर्णिके आरम्भमें भी 'पाईणायरियक्यचूर्णिसमेया' ऐसा वाक्य मुद्रित है, जिसका अर्थ होता है—'प्राचीन आचार्यकृत चूर्णिसमेत'। अर्थात् इसके रचयिताका नाम भी अभी तक अज्ञात ही है। इन दोनों चूर्णियोंका अन्तर-आलोडन करके जब हम कम्मपयडीचूर्णिके साथ मिलान करते हैं, तब इस निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि कम्मपयडीचूर्णिके तथा इन दोनों चूर्णियोंके रचयिता भी एक ही आचार्य है। और ये दोनों चूर्णियां भी उनकी ही कृतियां हैं, जिन्होंने कि कम्मपयडीचूर्ण और कसाय-पाहुडचूर्णिको रचा है।

पाठकोंके निश्चयार्थ उक्त चूर्णियोंमेंसे कुछ ऐसे अवतरण दिये जाते हैं, जिनसे कि उक्त चारों ही चूर्णियोंकी एक-कृतकता सिद्ध होती है—

(१) कम्मपयडीके बन्धनकरणमें बन्धके चारो भेदोंका लक्षण कह करके लिखा है—

मूलपगति-उत्तरपगतीणं विगप्पसामित्तभेदेण य जहा बंधमयगे भण्णिता, तहा चव इहावि भाणियव्वा ।

अर्थात् मूलप्रकृति और उत्तरप्रकृतियोंके विकल्प और स्वामित्वका जैसा वर्णन बन्धशतकमें किया गया है, वैसा ही वर्णन यहां पर भी करना चाहिए।

इस उद्धरणसे यह सिद्ध है कि कम्मपयडीचूर्णिकार शतकप्रकरणसे जिसे कि बन्धशतक भी कहते हैं, भलीभांति परिचित थे। अब देखिए कि शतकचूर्णिकार वर्गणाओंके भेदोंका वर्णन करते हुए क्या लिखते हैं—

'एतासि अर्थो जहा मपगडिरंगहणीण ।' (सतकचूर्णि पत्र ४३)

अर्थात् उक्त वर्गणाओंका अर्थ जैसा कम्मपयडिसग्रहणीमें कहा, वैसा ही यहां पर जानना चाहिए।

यहाँ यह जानने योग्य बात है कि वर्गणाओका अर्थ कम्मपयडीकी गाथाओंमें नहीं, किन्तु कम्मपयडीकी चूर्णोंमें किया गया है। मूलगाथाओंमें तो वर्गणाओके नाममात्र ही कहे गये हैं। इसके विशेष परिज्ञानार्थ कम्मपयडीके बन्धनकरणके १८, १६ और २० वीं गाथाओं पर लिखी हुई विस्तृत चूर्णोंको देखना चाहिए।

इस उद्धरणसे दो बातें सिद्ध होती हैं—पहली यह कि सतकचूर्ण और कम्मपयडी-चूर्णोंके रचयिता एक ही आचार्य हैं। दूसरी यह कि सतकचूर्णोंसे पहले कम्मपयडीचूर्णोंकी रचना हुई है।

(०) अब सित्तरीचूर्णोंसे कुछ ऐसे उद्धरण दिये जाते हैं जिनसे कि सित्तरीचूर्ण और कम्मपयडीचूर्णोंके रचयिता एक सिद्ध होते हैं—

(अ) उव्वट्टणाविही जहा कम्मपगडीसंगहणीए उव्वत्तणसंकमे तथा भाणियव्वं ।
(सित्तरी, पत्र ६१।२)

(ब) तत्थ मिच्छदिट्ठिस्स मिच्छत्त-उव्वसामणे विही जहा कम्मपगडीसंगहणीए पढमसम्मत्तं उप्पाएंतस्स सा चेव भाणियव्वा ।

(स) अंतरकरणविही जहा कम्मपगडीसंगहणीए । (सित्तरी, पत्र ६४/१)

(ह) पढमट्ठितिकरणं जहा कम्मपगडिसंगहणीए । (सित्तरी, पत्र ६५/१)

उक्त चारों उद्धरणोंमें जिन बातोंके विशेष-वर्णन देखनेके लिए कम्मपयडिसंगहणीका उल्लेख किया गया है, उन सबका वर्णन मूलकम्मपयडीमें नहीं, अपितु कम्मपयडीकी चूर्णोंमें किया गया है, जोकि कम्मपयडीचूर्णोंमें निर्दिष्ट स्थानों पर पाया जाता है।

इन उद्धरणोंसे भी दो बातें सिद्ध होती हैं—पहली यह कि सित्तरीचूर्ण और कम्मपयडीचूर्णोंके रचयिता एक ही आचार्य हैं। दूसरी यह कि सित्तरीचूर्णोंसे पहले कम्मपयडी-चूर्णोंकी रचना हो चुकी थी।

(३) अब सित्तरीचूर्णोंमें से ही कुछ ऐसे उद्धरण दिये जाते हैं, जिनमें कि स्पष्ट रूपसे कसायपाहुडचूर्णोंका उल्लेख किया गया है—

(अ) तं वेयंतो वितियकिट्ठीओ तइयकिट्ठीओ य दलियं घेत्तूणं सुहुमसांपराइय-किट्ठीओ करेइ । तेसिं लक्खणं जहा कसायपाहुडे ।

(ब) एत्थ अपुव्वकरण-अणियट्ठिअद्वासु अणेगाइ वत्तव्वगाइं जहा कसायपाहुडे कम्मपगडिसंगहणीए वा तथा वत्तव्वं । (सित्तरी, पत्र ६२/२)

(स) चउविहवंधमस्स वेदोदए पुरिसवेदवंधे य जुगवं फिट्ठे एकमेव उदयट्ठाणं लव्वमति । तं जहा—चउएहं संजलणाण एगयरं । एत्थ चत्तारि ङंगा । × × × तं च कसायपाहुडादिसु विहडति त्ति काउं परिसेसियं ।। (सित्तरी, पत्र १२/२)

इन उपर्युक्त उद्धरणोंसे तीन बातें सिद्ध होती हैं—पहली यह कि सित्तरीचूर्ण और कसायपाहुडचूर्णोंके रचयिता एक ही आचार्य हैं। दूसरी यह कि कसायपाहुडचूर्णोंकी रचनाके पश्चात् सित्तरीचूर्णोंकी रचना की गई है। और तीसरे उद्धरणसे तीसरी बात यह सिद्ध होती है कि उक्त तीनों ही चूर्णोंके रचयिता एक ही आचार्य हैं।

इस प्रकार समुच्चयरूपसे समीक्षण करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि सतकचूर्णि, सित्तरीचूर्णि, कसायपाहुडचूर्णि और कम्मपयडीचूर्णि इन चारों ही चूर्णियोंके रचयिता एक ही आचार्य हैं। यतः कसायपाहुडचूर्णिके रचयिता आ० यतिवृषभ प्रसिद्ध ही हैं और शेष तीन चूर्णियोंके रचयिता वे उपर्युक्त उल्लेखोंसे सिद्ध होते हैं, अतः उक्त चारों चूर्णियोंकी रचनाएँ आ० यतिवृषभकी ही कृतियाँ हैं, यह बात असंदिग्धरूपसे निर्विवाद सिद्ध हो जाती है।

उक्त चारों चूर्णियोंके रचे जानेका क्रम इस प्रकार सिद्ध होता है—

१. कम्मपयडीचूर्णि—क्योंकि, इसमें किसी अन्य चूर्णिका उल्लेख नहीं है।
२. सतकचूर्णि—क्योंकि, इसमें कम्मपयडीसगहर्गीका उल्लेख है।
३. कसायपाहुडचूर्णि, क्योंकि सित्तरीचूर्णिमें इसका उल्लेख किया गया है।
४. सित्तरीचूर्णि, क्योंकि, सित्तरीचूर्णिका उल्लेख उपर्युक्त तीनों ही चूर्णियोंमें नहीं किया गया है।

तिलोयपण्णत्तीके अंतमें पाई जानेवाली 'चुण्णिसरुवट्टकरण' इत्यादि गाथाके उल्लेखसे यह भी सिद्ध है कि तिलोयपण्णत्तीकी रचनाके पूर्व कम्मपयडीचूर्णिकी रचना हो चुकी थी। इस प्रकार आज हमें आ० यतिवृषभकी पांच रचनाएँ उपलब्ध हैं, इनमें से अभी तक कसायपाहुडचूर्णिके अतिरिक्त शेष सभी रचनाएँ मुद्रित होकर प्रकाश में आ चुकी थीं। हर्ष है कि कसायपाहुडचूर्णि सर्व-प्रथम उसकी ६० हजार श्लोक-प्रमाण जयवचलाटीकामें से उद्धार होकर हिन्दी अनुवादके साथ पाठकोंके सम्मुख उपस्थित है।

यहां यह बात उल्लेखनीय है कि अभी तक आ० यतिवृषभकी उक्त पांच रचनाओंमें से तिलोयपण्णत्ती और कसायपाहुडचूर्णि दि० भंडारों और दि० सस्थाओंसे तथा शेष तीन रचनाएँ श्वे० भंडारों और श्वे० सस्थाओंसे प्रकाशमें आई हैं।

एककर्तृकताके कुछ अन्य भी प्रमाण

उपर्युक्त विवेचनसे यह अच्छी तरह सिद्ध हो जाता है कि कम्मपयडी आदि चारों ही ग्रन्थोंकी चूर्णियोंके प्रणेता एक ही आचार्य हैं और वे यतिवृषभ हैं, यह भी उक्त ग्रन्थोंके ऊपर दिये गये उद्धरणोंसे भलीभांति सिद्ध है। फिर भी पाठक शका कर सकते हैं और कह सकते हैं कि एक आचार्य अपनी रचनाके भीतर अन्य आचार्यकी रचनाका उल्लेख भी तो इन्हीं शब्दोंमें कर सकता है? अतएव ऐसी शका करनेवालोंके पूर्ण समाधानके लिए उक्त चूर्णियोंमें से कुछ ऐसे समान शब्दों, पदों और अर्थवाली वाक्य-रचनाओंके यहाँ कुछ अवतरण दिये जाते हैं, जिनसे कि उन सबके एक-कर्तृक होनेमें कोई भी सन्देह नहीं रह जायगा।

(१) सर्व-प्रथम तीनों चूर्णियोंके मङ्गलपद्यों पर दृष्टिपात कीजिए। सतकचूर्णिके मङ्गलपद्य इस प्रकार हैं—

सिद्धो णिद्धूयकम्मो सद्धम्मपणायगो तिजगणाहो ।

सव्वजगुञ्जायकरो अमोहवयणो जयइ वीरो ॥१॥

सव्वेवि गणहरिंदा सव्वजगीसेण लद्धसक्कारा ।

सव्वजगमज्झयारे सुयकेवल्लिणो जयंति सया ॥२॥

जिणहरमुहसंभूया गणहर-विरइयसरीरपविभागा ।

भवियजणहिदयदइया सुयमयदेवी सया जयइ ॥३॥

उक्त पद्योमेसे प्रथम पद्यमे वीर भगवान्को दूसरेमे गणधरो और श्रुतकेवलियोंको और तीसरेमें श्रुतमयदेवी जिनवाणीको नमस्कार किया गया है ।

अब सित्तरीके मङ्गलपद्योंको देखिए—

सिद्धिविवंधणवंधुदय-संतखवणविहिदेसिओ सिद्धो ।

भगव भन्वजणगुरु विकखायजसो जयइ वीरो ॥१॥

एकारस वि गणहरा सव्वे वइगोयरस्स पारगया ।

सव्वसुयाणं पभवा सुयकेवल्लिणो जयंति सया ॥२॥

उक्त पद्योमेसे प्रथम पद्यमे वीर भगवान्को और दूसरे पद्यमे गणधर और श्रुत-केवलियोंको नमस्कार किया गया है । यद्यपि यहाँ पर श्रुतदेवीको पृथक् स्मरण नहीं किया, तथापि 'सव्वसुयाणं पभवा' पदके द्वारा प्रकारान्तरसे श्रुतदेवीका स्मरण कर ही लिया गया है ।

दोनों मंगलपद्योंमे रेखाङ्कित-पद्य तो एकसे हैं ही, किंतु अन्य भी विशेषणपदोमे अर्थकी दृष्टिसे साम्य है, इस बातको पाठक स्वयं ही अनुभव करेगे ।

अब कम्मपयडी के मंगल पद्यको दृष्टिगोचर कीजिये—

जयइ जगहितदमवितहममियगभीरत्थमणुपमं शिउणं ।

जिणवयणमजियममियं सव्वजणसुहावहं जयइ ॥१॥

यद्यपि इस पद्यमें प्रकटरूपसे जिन-प्रवचन अर्थात् जिनवाणीका जयनाद किया गया है तथापि, 'जिन-वचन' के लिए जिन विशेषणों का प्रयोग किया गया है, वे उपर्युक्त दोनों चूर्णियों के मंगल-पद्योंमे वीर जिन और गणधरोंके लिए प्रयुक्त पदोंका आशय रखते हैं, और इस प्रकार अप्रकटरूपसे इस एक ही पद्य द्वारा जिन-वचनके साथ ही उन प्रवचनोंके जन्मदाता वीर भगवान्का और व्याख्याता गणधर और श्रुतकेवलियोंका भी स्मरण किया गया है, ऐसा समझना चाहिए ।

(२)अब उक्त तीनों चूर्णियोंके ग्रन्थावतार करने वाले उत्थानिका वाक्योंको देखिए । सतकचूर्णिमें ग्रन्थावतार इस प्रकार किया गया है—

“सम्मदंसणणाणचरणातवमएहि सत्थेहिं अट्टविहकम्मगंठिं जाइ-जरा-मरणरोग-अन्नाणदुक्खवीयभूयं छिंदित्ता अजरममरमरुजमक्खयमव्वावाह परमणिव्वुइसुहं क्हं नाम भव्वसत्ता पावज्ज त्ति आयपरहितेसीणं साहूणं पव्वित्ति । अओ अज्जकालियाण साहूणं दुस्समाणुभावेणं आयुपलमेहाकम्णाइगुणेहि परिहीयमाणं अणुग्गहत्थं आयरिण्ण कयं सयपरिमाणणिप्फन्नणासग सतगं ति पगरणं ।”

अब कम्मपयडीचूर्णिकी उत्थानिका देखिये—

“सम्मदंसणणाणचरित्तलक्खणेणं पंडियवीरिय-परिणामेणं परिणता परम-केवलाइसयजुत्ता अणंतपरिणति-णिव्वुइसुहसंपत्तिभागिणो क्हं णु णाम भव्वजीवा होहित्ति एस अहिगारो आय-परहिण्णीण साहूणं तन्निस्सेयससाहण-विहाणपरे य

इमंमि जिणसासणे दुस्समावलेण खीयमाणमेहाउसद्धा-संवेगउज्जमारंमं अज्जकालियं
साहुजणं अणुग्घेत्तुकामेण विच्छिन्नकम्मपयडिमहागंथत्थसंवेहणत्थं आरद्धं आइरिएणं
तग्गुणणामगं कम्मपयडीसगहणी णाम पगरणं ।

अथ सित्तरीचूर्णिकी उत्थानिका देखिये—

सुह-दुक्ख-तत्कारणसरूवपरिणणाणाओ सव्वजीवाणं सोक्खकारणाऽऽयाण-
दुक्खकारणपरिच्चागनिमित्तो सव्वदुक्खविमोक्खलक्खणो परमसुहलंभो त्ति सुह-
दुक्ख-तत्कारणनिद्देशो कायव्वो । दोसोवसामणाओ उत्तरकालं आरोगगसुहलंभ इव सो
सुहो सभाविओ त्ति पढमममेव दुक्ख-तत्कारणपरूवणं परयरिसअं करेति त्ति पच्छा
सुहकारण-सुहाणं परूवणं त्ति । ताइं च कम्मपगयातिमहागंथेसु भणियाइं । ते य
गंथा दुरवगाह त्ति काउं कालदोसोपहयमेहाऽऽउ-वत्ताणं अज्जकालियाणं साहुणं
अणुग्गहत्थं आयरिएण कयं पमाणणिप्पणणामयं सत्तरि त्ति पगरणं ।

पाठक तीनों उत्थानिकाओंकी समता और एकताका स्वयं ही अनुभव करेंगे । प्रथम
और द्वितीय उत्थानिकामे तो आदिसे अन्ततक कितना अधिक शब्द-साम्य है, यह बतलानेकी
आवश्यकता नहीं है, तीसरी उत्थानिकाके प्रारम्भिक भागका भी वही आशय है, जो कि प्रथम
और द्वितीय उत्थानिकाओंके प्रारम्भिक भागोका है । अन्तिम भाग तो शब्दशः और अर्थशः
समान है ही ।

इस प्रकार उक्त तीनों ग्रन्थोके मंगल-पद्योकी तथा उत्थानिकाओंकी रचना-शैली और
शब्द-विन्याससे स्पष्ट है कि तीनों चूर्णियोंके रचयिता एक ही आचार्य हैं ।

यह शका की जा सकती है कि उपर्युक्त समता और तुलनासे भले ही तीनों ग्रन्थोकी
चूर्णिके कर्ता एक सिद्ध हो जावे, परन्तु कसायपाहुडचूर्णिके प्रारम्भमें न तो मंगलाचरण ही
किया गया है और न कोई उत्थानिका ही दी गई है, फिर उसकी उक्त तीनों चूर्णियोंके
साथ समता तुलना या एकता कैसे सम्भव है, और कैसे इन तीनोंके साथ उसके भी
रचयिताके एकत्वकी संभावना की जा सकती है ? इस शकाका समाधान यह है कि
यत कम्मपयडी, सतक और सित्तरीके रचयिताओंने अपने-अपने ग्रन्थके आरम्भमे मंगलाचरण
किया है और साथ ही अपने-अपने प्रतिपाद्य विषयके सम्बन्धादिको भी प्रवट किया है, अतः
उनमे उसी सरणीका अनुसरण चूर्णिकारने किया है । किन्तु कसायपाहुडकी रचना अतिसक्षिप्त
होनेसे यतः ग्रन्थकारने ही जब आरम्भमें न मंगलाचरण ही किया और न सम्बन्ध,
अभिधेयादिका भी कहा, तब चूर्णिकारने भी ग्रन्थकारका अनुसरण कर न मंगलचरण ही
किया और न कोई उत्थानिका ही लिखी, और इस प्रकार मूलग्रन्थकी सूत्रात्मक साक्षिप्त रचनाके
समान अपनी चूर्णिको भी अतिसक्षिप्त, असदिग्ध एव सारवान् पदोसे रचा । यही कारण है कि
कसायपाहुडचूर्णिके प्रत्येक वाक्यको उसके टीकाकारोंने सूत्रसज्ञा दी है और इसलिए उसका
प्रत्येक वाक्य 'चूर्णिसूत्र' नामसे ही प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ है ।

१—तीनों ग्रन्थोके मंगलपद्योका अवतार उसके सम्बन्ध-अभिधेयको बतलाते हुए इस
प्रकार किया गया है—

‘तस्साइमा गाहा तित्थकरगुणत्थुइपणा।मपरा पगरणपिंडत्थनिद्देसत्था’—

(कम्मपयडी, पत्र १)

‘तस्म पगरणस्स इमा आइमा गाहा मगलाभिधेयाधारसत्थसंबंधत्था’ (सतक, पत्र १)

‘तस्स मंगलाऽभिधेयणिद्देस-संबंधत्था पढमगाहा,— (सित्तरी, पत्र १)

अब उपर्युक्त चारो चूर्णियोंसे कुछ ऐसे उद्धरण दिये जाते हैं, जिनकी शब्द-विन्यास-पदावली एक-सी है, तथा भावभंगी और कथन-शैली भी समान है—

- (१) सेसाणि जधा सम्मादिट्ठीए वंधे तथा रोदव्वाणि । (कसा० पृ० १७४, सू० १८४)
 × × × पगइ-ठिति-अणुभागप्पएमपगारेण नेयव्वाणि । (सित्तरी, पृ० ५४/२)
- (२) एवमणुमाणिय सामित्तं रोदव्वं । (कसा० पृ० ४६१, सू० १६३)
 एत्थ सामित्तं शेयव्वं । (सतकचू० पृ० २७/१)
- (३) आदेसकसाएण जहा चित्तकम्मे लिहिदो कोहो रूसिदो तिवलिदणिडालो
 भिउडिं काऊण । (कसा० पृ० २४, सू० ५६)
 कोहोदए जीवो तपज्जायपरिणत्थो होइ सगीरमवि तिवलियणिडालं पसिन्नमुहं
 भिउडीमभिवंजइ । (सतकचू०, पृ० ४)
- (४) एदेण अट्टपदेण । (कसा० पृ० ६२, सू० ८, पृ० १२३, सू० २३६)
 एएण अट्टपदेण । (सतकचू०, पृ० २८/२)
- (५) सेसाणं पि कम्माणमेदेण वीजपदेण रोदव्वं (कसा०, पृ० १३६, सू० ३५२)
 सेसाणं कम्माणमेदेण वीजपदेण अणुमग्गिदव्वं (कसा० पृ० १३६, सू० ३५२)
 एतेण वीजेण वच्चयमाणं (?) जहन्नगं शेत्तव्वं जहासंभवं । (सतकचू० पृ० ४८/१)
- (६) एदाणुमाणिय सेसाणं पि कसायाणं कायव्वं । (कसा० पृ० ६१०, सू० २४)
 तेणऽणुमाणेणं कायादिगेषु वि मग्गणट्ठाणेषु भाणियव्वं । (सित्तरी पृ० ५४।२)
- (७) णाणाजीवेहिं भंगविचयो भागाभागो परिमाणं खेत्तं पोसणं कालो अंतरं च
 एदाणि भाणिदव्वाणि । (कसा० ५२६, सू० ४५६)
 पंचिदियाणं सव्वाणि वंधट्ठाणाणि सविगप्पाणि भाणियव्वाणि ।
 (सित्तरी, पृ० ५३।२)
- (८) सेसेसु पदेसु जधा पुरिसवेदेण उवट्ठिदस्स अहीणमदिरित्तं तव्थ णाणत्तं ।
 (कसा०, पृ० ८६४, सू० १५५६)
 एवं जा वितीयफड्डगस्स परूवणा भणिया, सा ततियफड्डगस्स वि अहीण-
 मणत्तिरित्ता भाणियव्वा । (कम्मप० पृ० २६।१)
- (९) णवरि सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणं संकामगा-पुव्वं ति भाणिदव्वं ।
 (कसा० पृ० ३६४, सू० १७४)
 नवरं वावीस-एगवीससंताणं परभवो न भाणियव्वो । (सित्तरी पृ० १५।२)

(१०) कम्हा ? जेण एगिंदियादयो जाव पंचिदिया सव्वे तिरिय च्चि काउं ।

(सतकचू० पृ० ५)

किंकारणं ? भएणति-अतिचिरकालट्ठातिणि ठाणा थोवा भवंति ति काउं ।

(कम्मप० पृ० ३३।२)

ऊपर दिये गये अवतरणोसे पाठक स्वयं ही अनुभव करेगे कि उपर्युक्त चारों चूर्णियों एक ही आचार्यकी कृतियां है ।

कम्मपयडीचूर्णिकी भाषाके विषयमें यह बात ध्यान देनेके योग्य है कि मुद्रित कम्मपयडी-चूर्णिमें जिस प्रकारकी भाषा आज उपलब्ध है, वैसी पहले नहीं थी, किन्तु कसायपाहुडचूर्णिकी भाषाके ही समान थी । कम्मपयडीके संस्कृतटीकाकार आ० मलयगिरिने अपनी टीकामें—जोकि चूर्णिके आधार पर ही रची गई है—जहाँ कहीं अपने कथनकी पुष्टिके लिए चूर्णिके कुछ वाक्यों-को उद्धृत किया है, उन वाक्योंकी भाषा मुद्रित चूर्णिकी भाषासे भिन्न है और कसायपाहुडचूर्णिकी भाषाके समान है । आ० मलयगिरिके ५०० वर्ष पश्चात् सत्तरहवीं शताब्दीमें उ० यशोविजय-जीने कम्मपयडीपर जो विस्तृत संस्कृतटीका रची है, उसमें भी चार-छह स्थलोंपर चूर्णिके उद्धरण दिये हैं, उनकी भी भाषा मुद्रित चूर्णिसे भिन्न है । इससे ज्ञात होता है कि आजसे ढाई-तीनसौ वर्षके पहले तक कम्मपयडीचूर्णिकी भाषा विभिन्न रही है । किन्तु इन ढाई-तीनसौ वर्षोंके भीतर ही किसी समय जानबूझकर उक्त चूर्णिकी भाषा परिवर्तित की गई है, ऐसा निश्चय मुद्रित कम्मपयडीचूर्णिके आलोडनसे होता है । भाषामें किस प्रकारका परिवर्तन किया गया है, इसके लिए एक नमूना उपस्थित किया जाता है—

‘ताओ किट्ठीओ पढमसमए केवडियाओ णिव्वत्तेदि’ ?

इस वाक्यका भाषापरिवर्तन इस प्रकार किया गया है—

तातो किट्ठीतो पढमसमते केवडियातो णिव्वत्तेति ?

मुद्रित सम्पूर्णकी भाषा इसी प्रकारकी है । यहां पर कम्मपयडीकी दोनो संस्कृतटीकाओं से ऐसे कुछ अवतरण दिये जाते हैं, जिनसे कि भाषा-परिवर्तनका निश्चय पाठकोंको भलीभांति से हो सके—

(१) मुद्रित पाठ—‘पिएडपगडीतो नामपगडीतो’ । (कम्मप० बन्ध० प० ७२ पृ० १)

संस्कृत टीकागतपाठ—‘पिडपगईओ णामपगईओ’ । (कम्मप० बन्ध० प० ७२ पृ० २)

(२) मुद्रितपाठ—‘पुहुत्तसदो बहुत्तवाची’ । (कम्मप० बन्ध० प० १६३ पृ० २)

सं० टीकागत पाठ—‘पुहुत्तसदो बहुत्तवाइ च्चि’ । (कम्मप० बन्ध० प० १६४ पृ० १)

(३) मुद्रित पाठ—‘बन्धट्ठितीतो सतकम्मट्ठिती संखेज्जगुणा’ । (कम्मप० संक० प० ५६ पृ० १)

सं० टीकागत पाठ—‘बंधट्ठिईओ संतकम्मट्ठिई संखिज्जगुणा’ । (कम्मप० संक० प० ५६)

(४) मुद्रितपाठ—‘एत्थ वाघात इति ट्ठितिघातो’ । (कम्मप० संक० प० १४६ पृ० १)

सं० टीकागतपाठ—‘ठिइघाओ एत्थ होइ वाघाओ’ । (कम्मप० संक० प० १४७ पृ० २)

(५) मुद्रितपाठ—‘तं आरिसे न मिलति च्चि ण इच्छिज्जति’ । (कम्मप० सत्ता० प० ३७)

सं० टीकागत पाठ—‘तं आरिसे न मिलइ तेण ण इच्छिज्जइ’ । (कम्मप० संत्ता० प० ३७)

क्या पट्खंडागमसूत्र भी चूर्णिसूत्र हैं ?

यद्यपि अन्य किसी भी आचार्यने पट्खंडागमके सूत्रोंका चूर्णिसूत्रोंके रूपसे उल्लेख किया हो, यह हमारे देखनेमें नहीं आया, तथापि उसकी धवला टीकामें उसके रचयिता स्वयं आ० वीरसेनने एक स्थल पर पट्खंडागमसूत्रका चूर्णिसूत्ररूपसे उल्लेख किया है। पट्खंडागमके चौथे वेदनाखंडमें कुछ वीजपदरूप गाथासूत्र आये हैं, और उन गाथासूत्रोंके व्याख्यात्मक अनेक सूत्रोंकी रचना आ० भूतवलिनै की है। उन्हीं गाथासूत्रोंकी टीका करते हुए धवलाकार लिखते हैं—

‘तिय’ इदि वुत्ते ओहिणाणावरणीय--ओहिदंसणावरणीय-लाहंतराइयाणं अणु-
भासं पेक्खिदूण अणोणोण समाणाणं गहरां । कथं समाणात्तं णव्वदे ? उवरि भएणा-
माणचुणिसुत्तादो ।
(धवला० ताम्र० पृ० ४७३र)

अर्थात् गाथा-पठित ‘तिय’ पदसे अवधिज्ञानावरण, अवधिदर्शनावरण और लाभान्त-
रायके अनुभागकी समानताका ज्ञान कैसे होता है ? इस प्रश्नके उत्तरमें कहा गया है कि आगे
कहे जानेवाले चूर्णिसूत्रसे उक्त समानताका ज्ञान होता है ।

जिस प्रकार कसायपाहुडके वीजपदरूप गाथासूत्रों पर आ० यतिवृपभने प्रस्तुत चूर्णि-
सूत्र रचे हैं, ज्ञात होता है उसी प्रकारसे महाकम्मपयडिपाहुडके भी वीजपदरूप गाथासूत्र रहे हैं
और उनका अधिकांश भाग धरसेनाचार्यसे भूतवलिको प्राप्त हुआ था और उनका ही आश्रय
लेकर पट्खंडागमसूत्रोंकी रचना की गई है। यही कारण है कि वीरसेनाचार्यने उन्हे ‘चूर्णिसूत्र’
रूपसे उल्लेख किया है ।

ये वीजपदरूप गाथासूत्र किस प्रकारके रहे हैं, यहां उनका एक उद्धरण दिया जाता है—

सादं जसुच्च-दे कं ते-आ-वे-मणु-अणंतगुणहीणा ।

मिच्छं के-यं सादं वीरिय-अणंताणु-संजलणा ॥

इस गाथामें विवक्षित कर्म-प्रकृतियोंका एक-एक या दो-दो अक्षररूप पदोंके द्वारा संकेत
किया गया है। यथा—‘दे’ से देवगति, ‘क’ से कर्मणशरीर और ‘ते’ से तैजसशरीरका। ऐसी
तीन गाथाओंके आधार पर आ० भूतवलिनै चौसठ सूत्रोंकी रचना की है।

इस प्रकारके वीजपदात्मक कुछ गाथासूत्र केवल वेदना और वर्गणाखंडमें ही पाये
जाते हैं ।

गुणधर और यतिवृपभका समय

जयधवलाके सम्पादकोंने उसके प्रथम भागकी प्रस्तावनामें आ० गुणधर और यति-
वृपभके समयका निर्णय करनेके लिए बहुत कुछ विचार किया है, जिसे यहां दुहरानेकी आवश्य-
कता नहीं है। उस सबको ध्यान में रखते हुए मेरे विचारसे—जैसा कि प्रस्तावनाके प्रारम्भमें
वतलाया गया है—आ० गुणधर धरसेनाचार्यसे बहुत पहले उस समय हुए हैं, जब कि महा-
कम्मपयडिपाहुडका पठन-पाठन अविच्छिन्न धारा-प्रवाहसे चल रहा था। और इस कारणसे
उनका समय वी० नि० ६८३ से पीछे न होकर लगभग दो सौ वर्ष पूर्व होना चाहिए।

गुणधराचार्यके समयका ठीक-ठीक निश्चय करनेके लिए यद्यपि हमारे पास अभी
समुचित साधन नहीं हैं, तथापि आ० अर्हद्वलि-द्वारा स्थापित संघोंमेंसे एकका नाम ‘गुणधर

संघ' रखा जानेसे इतना तो सुनिश्चित है कि वे अर्हद्वलिसे पहले हो चुके हैं। यतः अर्हद्वलिका समय प्राकृत पट्टावलीके अनुसार वी० नि० ५६५ या वि० स० ६५ सिद्ध है, अतः गुणधराचार्य-का समय उनसे पूर्व सिद्ध होता है। गुणधरकी परम्पराको ख्याति-प्राप्त करनेमें लगभग सौ वर्ष लगना स्वाभाविक है, अतएव पट्टखडागमकार श्री धरसेनाचार्यसे कसायपाहुडके प्रणेता श्री गुणधराचार्य लगभग दो सौ वर्ष पूर्ववर्ती सिद्ध होते हैं और इस प्रकार उनका समय विक्रमपूर्व एक शताब्दी सिद्ध होता है।

आ० यतिवृषभने अपनी तिलोत्पण्णत्तिमें भ० महावीरके निर्वाणसे लेकर एक हजार वर्ष तक होनेवाले राजाओंके कालका उल्लेख किया है, अतः उसके पूर्व तो उनका होना सम्भव नहीं है। और यत विशेषावश्यकभाष्यकार श्वेताम्बराचार्य श्री जिनभद्रगणित्ताश्रमणने अपने विशेषावश्यकभाष्यमें चूर्णिकार यतिवृषभके आदेशकपाय-विषयक मतका उल्लेख किया है और विशेषावश्यकभाष्यकी रचनाके शक स० ५३१ (वि० स० ६६६) में होनेका उल्लेख मिलता है, अतः वे वि० स० ६६६ के बादके भी विद्वान नहीं हो सकते।

आ० यतिवृषभ पूज्यपादसे पूर्वमें हुए है। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपनी सर्वार्थसिद्धिमें उनके एक मत-विशेषका उल्लेख किया है—

‘अथवा येषां मते सासादन एकेन्द्रियेषु नोत्पद्यते तन्मतापेक्षया द्वादश भागा न दत्ता ।’

अर्थात् जिन आचार्योंके मतसे सासादन गुणस्थानवर्ती जीव एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न नहीं होता है, उनके मतकी अपेक्षा बारह बटे चौदह भाग स्पर्शन-क्षेत्र नहीं कहा गया है।

यहां यह बात ज्ञातव्य है कि सासादनगुणस्थानवाला यदि मरे तो नियमसे देवोंमें उत्पन्न होता है, यह आ० यतिवृषभका ही मत है ऐसा लब्धिसार-क्षपणासारके कर्ता आ० नेमि-चन्द्रने स्पष्ट शब्दोंमें कहा है—

जदि मरदि सासणो सो शिरय-तिरिक्खं णरं ण गच्छेदि ।

शियमा देवं गच्छदि जइवसहसुणिदवयणेणं ॥ ३४६ ॥

ॐ आदेशकसाएण जहा चित्तकम्मे लिहिदो कोहो रूसिदो तिचलिदणिडालो भिउडि काऊण' यह कसायपाहुडके पेज्जदोसविहत्ती नामक प्रथम अधिकारका ५६ वां सूत्र है। इसका अर्थ है कि क्रोधके कारण जिसकी भृकुटि चढी हुई है और ललाटपर तीन बली पडी हुई हैं, ऐसे क्रोधी मनुष्यका चित्रमें लिखित आकार आदेशकपाय है। किन्तु विशेषावश्यकभाष्यकार कहते हैं कि अन्तरगमें कपायका उदय नहीं होने पर भी नाटक आदि में केवल अभिनयके लिए जो कृत्रिम क्रोध प्रकट करते हुए क्रोधी पुरुषका स्वाग धारण किया जाता है, वह आदेशकपाय है। इस प्रकारसे आदेशकपायका स्वरूप बतला करके भाष्यकार कसायपाहुडचूर्णमें निर्दिष्ट स्वरूपका 'केइ' कह करके इस प्रकारसे उल्लेख करते हैं—

आएसओ कसाओ कइयवकयभिउडिभंगुराकारो ।

केइ चित्ताइगओ ठवणाणत्थतरो सोऽयं ॥२६८१॥

अर्थात् कितने ही आचार्य क्रोधीके चित्रादिगत आकारको आदेशकपाय कहते हैं, परन्तु वह स्थापनाकपायसे भिन्न नहीं है, इसलिए नाटकादिके नकली क्रोधीके स्वागको ही आदेशकपाय मानना चाहिए।

अर्थात् यतिवृषभाचार्यके वचनानुसार यदि सासादनगुणस्थानवर्ती मरता है, तो नियमसे देव होना है।

आ० यतिवृषभने कसायपाहुडकी चूर्णिमे अपने इस मतको इस प्रकारसे व्यक्त किया है—

आसागं पुण गदो जदि मरदि, ण सको गिरयगदि तिरिक्खगदि मणुसगदि वा गंतुं । गियमा देवगदिं गच्छदि । (कसा० अधि० १४, सू० ५४४)

इस सूत्रका अर्थ स्पष्ट है। इन उल्लेखोंसे स्पष्ट रूपसे यह सिद्ध है कि आ० यतिवृषभ आ० पूज्यपादसे पहले हुए हैं। यतः पूज्यपादके शिष्य वज्रनन्दिने वि० सं० ५२६ में द्रविडसघको स्थापना की है और यतिवृषभके मतका पूज्यपादने उल्लेख किया है, अतः उनका वि० सं० ५२६ के पूर्व होना निश्चित है। इससे यह स्पष्ट फलित होता है—कि यतिवृषभका समय विक्रमकी छठी शताब्दिका प्रथम चरण है।

कसायपाहुडका अन्य ग्रन्थकारों पर प्रभाव

कसायपाहुडकी रचनाके पश्चात् रचे गये ग्रन्थोंका आलोचन करनेसे ज्ञात होता है कि वह अपने विषयका इतना सुसम्बद्ध, गहन होते हुये भी सुगम एवं अनुपम ग्रन्थ है कि परवर्ती ग्रन्थकारोंने उसके कई विषयोंका स्पर्श भी नहीं किया है। हा, गाथा-सूत्रांसे सूचित बन्धका भूतबलिने अपने महाबन्धमें; बन्ध-संक्रमण और उदय-उदीरणाका शिवशर्नने अपनी कम्मपयडीमें और सम्यक्त्व, देशसयम-सयमलन्धि तथा क्षपणाका नेमिचन्द्रने क्रमशः अपने लन्धिसार-क्षपणासार ग्रन्थमें अवश्य ही विभाषात्मक विवेचन किया है। किन्तु उसके प्रेयोद्वेष-विभक्ति, उपयोग, चतुःस्थान और व्यजन नामक अधिकारोंपर किसी परवर्ती ग्रन्थकारने कुछ अधिक प्रकाश डालकर विवेचन किया हो, यह हमारे देखनेमें नहीं आया। इसका कारण यही प्रतीत होता है कि गुणधराचार्यके पश्चात् पेञ्जदोसपाहुड-विषयक उक्त अधिकारोंका ज्ञान अधिकांशमें विलुप्त ही हो गया। जो कुछ भी तद्विषयक थोड़ा-बहुत ज्ञान अवशिष्ट रहा था, उसे पीछे होने वाले आचार्योंने कसायपाहुडका टीकाकार बन करके अपनी-अपनी रचनाओंमें निबद्ध कर दिया। यही कारण है कि इस ग्रन्थ पर विभिन्न आचार्योंने चूर्णि उच्चारणावृत्ति, पद्धति, चूडामणि और जयधवला नामसे प्रसिद्ध अनेक भाष्य और टीका-ग्रन्थ रचे, जिनका कि प्रमाण दो लाख श्लोकोंके लगभग है।

कसायपाहुडके जिन विषयों पर परवर्ती ग्रन्थकारोंने अपनी रचनाओंमें कुछ अधिक प्रकाश डाला है, उनमें भी इसकी अनेक गाथाएँ ज्यों की त्यों या साधारणसे पाठ-भेदके साथ पाई जाती है, जिनकी संख्या कम्मपयडीमें १७ और लन्धिसार-क्षपणासारमें १५ है। जिनका विवरण इस प्रकार है—कसायपाहुडकी गाथाङ्क २७ से लेकर ३६ तककी १३ गाथाएँ तथा १०४, १०७, १०८, १०९ ये चार गाथाएँ कम्मपयडीमें गाथाङ्क ११२ से लेकर १२४ तक, तथा ३३३ से लेकर ३३६ तक क्रमशः पाई जाती है। इसी प्रकार कसायपाहुडकी ६७, ६८, १०३, १०८, ११०, १३८, १३९, १४३, १४४, १४६, १४८, १५२, १५३, १५४ और १५६ नम्बर वाली १५ गाथाएँ क्रमशः लन्धिसार-क्षपणासारमें ६६, १०१, १०२, १०६, ११०, ४३५, ४३६, ४५०, ४३८, ४५१, ४५२, ३६८, ३६९, ४०० और ४०१ नम्बर पर पाई जाती हैं।

आ० नेमिचन्द्रने अपने लन्धिसार-क्षपणासारमें कसायपाहुडकी उक्त गाथाओंको ज्योंकी त्यों अपनातेके अतिरिक्त अनेक गाथाओंका आशय लेकर भी अनेक गाथाएँ रची हैं।

इसके अतिरिक्त उक्त अधिकारों पर रचे हुए यतिवृषभके चूर्णिसूत्रोंके आधार पर प्रायः शेष सर्व ही गाथाओकी रचना की है। यदि सीधे शब्दोंमें कहा जाय तो यह कह सकते हैं कि मन्चूर्णि कसायपाहुडके सम्यक्त्व, संयमासंयम और संयमलब्धि नामक तीन अधिकारोंका लक्ष्यसारमें तथा क्षपणाधिकारका क्षपणासारमें सार खींच करके रख दिया है और इस प्रकार उनका उक्त ग्रन्थ अपने नामको ही सार्थक कर रहा है।

इसी प्रकार कसायपाहुडके क्षपणाधिकारके गाथासूत्रों और चूर्णिसूत्रोंके आधार पर माधवचन्द्र त्रैविद्यने अपने संस्कृत क्षपणासारकी रचना की है। यह ग्रन्थ प्रायः चूर्णिसूत्रोंके छायात्मक संस्कृत गद्यमें यथासंभव और यथावश्यक पल्लवित एव परिवर्तित करते हुए लिखा गया है। अभी कुछ दिनों पूर्व ही इसकी प्रतियां जयपुरके तेरहपथी बड़ा मन्दिरके शास्त्रमंडारसे उपलब्ध हुई है। ग्रन्थके सामने न होनेसे इच्छा होते हुए भी हम उसके यहां पर तुलनात्मक उद्धरण देनेसे वंचित है।

कसायपाहुडकी मूल गाथाओ और उसके चूर्णिसूत्रोंका श्रीचन्द्रपि महत्तरने अपने पंचसंग्रहमें यथास्थान भरपूर उपयोग किया है, इसे उन्होंने स्वयं ही स्वीकार किया है। पंचसंग्रहका प्रारम्भ करते हुए उन्होंने स्वयं ही लिखा है—

‘सयगादि पंच गंधा जहारिहं जेण एत्थ संखित्ता ।’

इसकी टीका करते हुए आ० मलयगिरिने ही लिखा है—

‘पञ्चानां शतक-सप्ततिका-रूपायप्राभृत-सत्कर्म-कर्मप्रकृतिलक्षणानां ग्रन्थानां’

अर्थात् मैने अपने इस पंचसंग्रहमें शतक-सप्ततिका-रूपायप्राभृत सत्कर्मप्राभृत और कर्मप्रकृति नामक पांच ग्रन्थोंका सक्षेपसे यथायोग्य वर्णन किया है।

इस उल्लेखसे कसायपाहुडका महत्त्व और प्राचीनत्व दोनों ही स्पष्टरूपसे सिद्ध है।

विषय-परिचय

संसार-परिभ्रमणका कारण—

यह तो सभी आस्तिक मतवाले मानते हैं कि यह जीव अनादिकालसे संसारमें भटक रहा है और जन्म-मरणके चक्कर लगाते हुए नाना प्रकारके शारीरिक और मानसिक कष्टोंको भोग रहा है। परन्तु प्रश्न यह है कि जीवके इस संसार-परिभ्रमणका कारण क्या है? सभी आस्तिकवादियोंने इस प्रश्नके उत्तर देनेके प्रयास किया है। कोई संसार-परिभ्रमणका कारण अदृष्टको मानता है, तो कोई अपूर्व, दैव, वासना, योग्यता आदिको बतलाता है। कोई इसका कारण पुरातन कर्मोंको कहता है, तो कोई यह सब ईश्वर-कृत मानकर उक्त प्रश्नका समाधान करता है। पर विचारकोने काफी ऊहापोहके बाद यह स्थिर किया कि जब ईश्वर जगत्का कर्ता ही सिद्ध नहीं होता तब उसे संसार-परिभ्रमणका कारण भी नहीं माना जा सकता, और न उसे सुख-दुःखका दाता ही मान सकते हैं। तब फिर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये अदृष्ट, दैव, कर्म आदि क्या वस्तु है? सक्षेपमें यहां पर उनका कुछ विचार किया जाता है।

नैयायिक-वैशेषिक लोग अदृष्टको आत्माका गुण मानते हैं। उनका कहना है कि हमारे किसी भी भले या बुरे कार्यका सस्कार हमारी आत्मा पर पड़ता है और उससे आत्मामें

अदृष्ट नामक गुण उत्पन्न होता है। यह तब तक आत्मामें बना रहता है जब तक कि हमारे भले या बुरे कार्यका फल हमें नहीं मिल जाता है।

सांख्य लोगोका कहना है कि हमारे भले-बुरे कार्योका संस्कार प्रकृति पर पड़ता है और इस प्रकृति-गत संस्कारसे सुख-दुःख मिला करते हैं।

बौद्धोंका कहना है कि हमारे भले-बुरे कार्योसे चित्तमें वासनारूप एक संस्कार पड़ता है जो कि आगामी कालमें सुख-दुःखका कारण होता है।

इस प्रकार विभिन्न दार्शनिकोंका इस विषयमें प्रायः एक मत है कि हमारे भले-बुरे कार्योसे आत्मामें एक संस्कार उत्पन्न होता है और यही हमारे सुख-दुःख, जीवन-मरण और संसार-परिभ्रमणका कारण है। परन्तु जैन दर्शनकी यह विशेषता है कि जहां वह भले-बुरे कार्योके प्रेरक विचारोंसे आत्मामें संस्कार मानता है, वहां वह उस संस्कारके साथ ही एक विशेष जातिके सूक्ष्म पुद्गलोंका आत्मासे सम्बन्ध होना भी मानता है।

इसी बातको श्रीकुन्दकुन्दाचार्यने अपने प्रवचनसारमें इस प्रकार कहा है—

परिणमदि जदा अप्पा सुहम्मि असुहम्मि रागदोसजुदो ।

तं पविसदि कम्मरयं णाणावरणादिभावेहिं ॥६५॥

जब राग-द्वेषसे युक्त आत्मा शुभ या अशुभ कार्यमें परिणत होता है, तब कर्मरूपी रज ब्रानावरणादि रूपसे परिणत होकर आत्मामें प्रवेश करती है।

कहनेका सारांश यह है कि किसी भी भले या बुरे कार्यको करनेके लिए आत्माके जो अच्छे या बुरे भाव होते हैं, उनका निमित्त पाकर सूक्ष्म पुद्गल कर्मरूपसे परिणत होकर आत्मासे बंध जाते हैं और कालान्तरमें वे सुख या दुःखरूप फल देते हैं।

कर्मबन्धसे जीव संसार-चक्रमें किस प्रकार परिभ्रमण करता है, इसका विवेचन श्री कुन्दकुन्दाचार्यने अपने पंचास्तिकायमें इस प्रकार किया है—

जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो दु होदि परिणामो ।

परिणामादो कम्मं कम्मादो होदि गदिसु गदी ॥१२८॥

गदिमधिगस्स देहो देहादो इंदियाणि जायंते ।

तेहिं दु विसयग्गहणं तत्तो रागो व दोसो वा ॥ १२९ ॥

जो जीव संसारमें स्थित है, उसके राग-द्वेषरूप परिणाम उत्पन्न होते हैं। उन राग-द्वेषरूप परिणामोंके निमित्तसे नये कर्म बंधते हैं। कर्मोंके उदयसे देव-मनुष्यादि गतियोंमें जन्म लेना पड़ता है। गतियोंमें जन्म लेने पर देह प्राप्त होता है। देहकी प्राप्तिसे इन्द्रियों उत्पन्न होती हैं। इन्द्रियोंसे विषयोका ग्रहण होता है। विषयोंके ग्रहणसे राग और द्वेषरूप परिणाम होते हैं। इस प्रकार संसार-चक्रमें परिभ्रमण करते हुए जीवके राग-द्वेषरूप भावोंसे कर्म-बन्ध और कर्म-बन्धसे राग-द्वेषरूप भाव होते रहते हैं।

उक्त विवेचनसे यह स्पष्ट है कि संसारके परिभ्रमणका कारण कर्म-बन्ध है और कर्म-बन्धका कारण राग-द्वेष है। राग-द्वेषका ही दूसरा नाम कपाय है। राग-द्वेषका भी मूल कारण मोह या अज्ञान है। आत्माके वास्तविक स्वरूपकी अज्ञानकारी या विपरीत ज्ञानकारीका नाम मोह है। इस प्रकार राग-द्वेष और मोह ही संसार-परिभ्रमणके कारण हैं और इनके कारण ही जीव नाना प्रकारके कष्टोंको भागा करता है।

कर्मका स्वरूप और कर्मबन्धके कारण—

कर्म शब्दका अर्थ क्रिया है, अर्थात् जीव (प्राणी)के द्वारा की जानेवाली क्रियाको कर्म कहते हैं। कर्म शब्दका ऐसा व्युत्पत्ति-फलित अर्थ होनेपर भी जैन-मान्यताके अनुसार श्रवण विशेष जानना आवश्यक है कि ससारी जीवके प्रति समय जो मन, वचन और कायकी परिमण्ड (हलन-चलन) रूप क्रिया होती है, उसे योग कहते हैं और योगके निमित्तसे वे सूक्ष्म पुद्गल जिन्हे कि कर्म-परमाणु कहते हैं आत्माकी ओर आकृष्ट होते हैं और आत्माके राग-द्वेषरूप कपायका निमित्त पाकर आत्मासे संबद्ध हो जाते हैं। उस प्रकार कर्म-परमाणुओंको आत्माके भीतर लानेका कार्य योग करता है और उसका आत्म-प्रदेशोंके साथ बन्ध करानेका कार्य कपाय अर्थात् आत्माके राग-द्वेषरूप भाव करते हैं। जैन-परिभाषाके अनुसार मन-वचन-कायकी चंचलतासे कर्मरूप सूक्ष्म परमाणुओंका आत्माके भीतर आना आन्वय कहलाता है और राग-द्वेषरूप कपायके द्वारा उनका आत्म-प्रदेशोंके साथ संबद्ध होना बन्ध कहलाता है। उपर्युक्त विवेचनका सार यह है कि आत्माकी योगशक्ति और कपाय ये दोनों ही कर्म-बन्धके कारण हैं।

यदि आत्मासे कपाय दूर हो जाय, तो योगके रहने तक कर्म-परमाणुओंका आगमन तो अवश्य होगा, किन्तु कपायके न होनेके कारण वे आत्माके भीतर ठहर नहीं सकेंगे। दृष्टान्तके तौर पर योगको वायुकी, कपायको गोंदकी, आत्माको दीवारकी और कर्म-परमाणुओंको धूलिकी उपमा दी जा सकती है। यदि दीवार पर गोंदका लेप लगा हो, तो वायुके द्वारा उड़नेवाली धूलि दीवार पर आकर चिपक जाती है। यदि दीवार निर्लेप और मूखी हो, तो वायुके द्वारा उड़ कर आनेवाली धूलि दीवारपर न चिपक कर तुरन्त झड़ जाती है। यहाँ धूलिका हीनाधिक परिमाणमें उड़कर आना वायुके वेग पर निर्भर है। यदि वायुका वेग तीव्र होगा, तो धूलि भी अधिक भारी परिमाणमें उड़ती है और यदि वायुका वेग मन्द होगा, तो धूलि भी कम परिमाणमें उड़ती है। इसी प्रकार दीवार पर धूलिका कम या अधिक दिनों तक चिपके रहना उस पर लगे गोंदके लेप आदिकी चिपकानेवाली शक्तिकी हीनाधिकता पर निर्भर है। यदि दीवार केवल पानीसे गीली है, तो उसपर लगी धूलि जल्दी झड़ जाती है और यदि तेल या गोंदका लेप दीवारपर लगा हो, तो बहुत दिनोंमें झड़ती है। यही बात योग और कपायके बारेमें जानना चाहिए। योगशक्तिकी तीव्रता और मन्दताके अनुसार आकृष्ट होनेवाले कर्म-परमाणुओंका परिमाण भी हीनाधिक होता है। यदि योगशक्ति उत्कृष्ट होती है तो कर्मपरमाणु भी अधिक संख्यामें आत्माकी ओर आकृष्ट होते हैं और यदि योगशक्ति मध्यम या जघन्य होती है तो कर्मपरमाणु भी तदनुसार उत्तरोत्तर अल्प परिमाणमें आत्माकी ओर आकृष्ट होते हैं। इसी प्रकार कपाय यदि तीव्र होती है तो कर्म-परमाणु आत्माके साथ अधिक दिनों तक बंधे रहते हैं और फल भी तीव्र देते हैं। और यदि कपाय मन्द होती है, तो परमाणु कम समय तक आत्मामे बंधे रहते हैं और फल भी कम देते हैं। यद्यपि इसमें कुछ अपवाद हैं, तथापि यह एक साधारण नियम है।

कर्मबन्धके भेद—

इस प्रकार योग और कपायके निमित्तसे आत्माके साथ कर्म-परमाणुओंका जो बन्ध होता है वह चार प्रकारका होता है—प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्ध। प्रकृतिनाम स्वभावका है। आनेवाले कर्मपरमाणुओंके भीतर जो आत्माके ज्ञान-दर्शनादिक गुणोंके घातनेका स्वभाव पड़ता है, उसे प्रकृतिबन्ध कहते हैं। स्थिति नाम कालकी मर्यादाका है। कर्म-परमाणुओंके आनेके साथ ही उनकी स्थिति भी बन्ध जाती है, कि ये अमुक समय तक

आत्माके साथ बंधे रहेंगे। कर्मोंके फल देनेकी शक्तिको अनुभाग कहते हैं। कर्म-परमाणुओंमें आनेके साथ ही तीव्र या मन्द फल देनेकी शक्ति भी पड़ जाती है, इसीको अनुभागबन्ध कहते हैं। आनेवाले कर्म-परमाणुओंके नियत परिमाणमें आत्मासे संबद्ध होनेको प्रवेशबन्ध कहते हैं। इन चारों प्रकारोंके बन्धोंमेंसे प्रकृतिबन्ध और प्रवेशबन्धका कारण योग है और स्थितिबन्ध तथा अनुभागबन्धका कारण कपाय है। अर्थात् आत्माके भीतर आनेवाले कर्म-परमाणुओंमें अनेक प्रकारका स्वभाव पड़ना और उनका हीनाधिक सख्यामें बन्ध होना ये दो काम योग पर निर्भर हैं। तथा उन्हीं कर्म-परमाणुओंका आत्माके साथ कम या अधिक काल तक ठहरे रहना और तीव्र या मन्द फल देनेकी शक्तिका पड़ना ये दो काम कपायके आश्रित हैं।

प्रकृतिबन्ध—उपर्युक्त चारों प्रकारके बन्धोंमेंसे प्रकृतिबन्धके आठ भेद हैं—१ ज्ञानावरण, २ दर्शनावरण, ३ वेदनीय, ४ मोहनीय, ५ आयु, ६ नाम, ७ गोत्र और ८ अन्तराय। ज्ञानावरणकर्म आत्माके ज्ञानगुणका आवरण करता है, अर्थात् उसके ज्ञानगुणको ढक देता है, या प्रगट नहीं होने देता। इस कर्मके निमित्तसे ही कोई अल्प-ज्ञानी और कोई विशेष-ज्ञानी देखा जाता है। दर्शनावरणकर्म दर्शनगुणका अर्थात् देखनेकी शक्तिका आवरण करता है। वेदनीयकर्म आत्माको सुख या दुःख का वेदन कराता है। आत्मामें राग, द्वेष और मोह को उत्पन्न करनेवाले कर्मको मोहनीय कहते हैं। इस कर्मके उदयसे प्रथम तो आत्माको यथार्थ सुखके मार्गका भान ही नहीं होता। दूसरे यदि सत्यार्थ मार्गका भान भी हो जाय, तो उसपर वह चलने नहीं देता। मनुष्य, पशु और जीव-जन्तु आदि प्राणियोंके शरीरमें नियत काल तक रोक कर रखने वाले कर्मको आयुर्कर्म कहते हैं। आयुर्कर्मके उदयको जन्म और उसके विच्छेदको मरण कहते हैं। नाना प्रकारके भले-बुरे शरीर, उनके विविध अंग और उपांगों आदिकी रचना करनेवाले कर्मको नामकर्म कहते हैं। अच्छे या बुरे सकारों वाले कुल, वंश आदिमें उत्पन्न करनेवाले कर्मको गोत्रकर्म कहते हैं। इच्छित या मनोऽभिलषित वस्तुकी प्राप्तिमें विघ्न करने वाले कर्मको अन्तराय कहते हैं। इन आठ कर्मोंमेंसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण मोहनीय और अन्तराय ये चार घातिया कर्म कहलाते हैं, क्योंकि ये चारों ही आत्माके ज्ञान-दर्शनादि अनुजीवी गुणोंका घात करते हैं। शेष चार अघातिया कर्म कहलाते हैं, क्योंकि वे आत्माके गुणोंका घात करनेमें असमर्थ हैं। घातिया कर्मोंमें भी दो विभाग हैं—देशघाती और सर्वघाती। जो कर्म आत्माके गुणका एक देश घात करता है, वह देशघाती कहलाता है और जो आत्म-गुणका पूर्णरूपसे घात करता है, वह सर्वघाती कहलाता है। अघातिया कर्मोंमें भी दो भेद हैं—पुण्यकर्म और पापकर्म। चारों घातियाकर्म पापरूप ही होते हैं। अघातिया कर्मोंमें साता वेदनीय, शुभ आयु, नामकर्मकी शुभ प्रकृतियां और उच्चगोत्र पुण्यकर्म है, और शेष प्रकृतियां पापकर्म हैं।

उपर्युक्त आठ कर्मोंमें जो मोहनीय कर्म है, वह राग, द्वेष और मोहका जनक होनेसे सर्व कर्मोंका नायक माना गया है, इसलिए सबसे पहले उसके दूर करनेका ही महर्षियोंने उपदेश दिया है। मोहनीय कर्मके दो भेद हैं—एक दर्शन मोहनीय और दूसरा चारित्र मोहनीय। दर्शन-मोहनीय कर्म जीवको आत्मस्वरूपका यथार्थ दर्शन नहीं होने देता, उसे संसारकी मायामें मोहित करके रखता है, इसलिए उसे राग, द्वेष और मोहकी त्रिपुटीमें 'मोह' नामसे पुकारते हैं। दूसरा भेद जो चारित्रमोहनीयकर्म है, उसके उदयसे जीव सासारिक वस्तुओंमेंसे किसीको भला जान कर उसमें राग करता है और किसीको बुरा जानकर उससे द्वेष करता है। क्रोध, मान, माया और लोभ रूप जो चारों कपाय लोकमें प्रसिद्ध हैं, वे इसी कर्मके उदयसे होती हैं। इन चारों कपायोंको राग और द्वेषमें विभाजित किया गया है। चूर्णिकारने विभिन्न नयोंकी अपेक्षा कपा-

याँका विभाजन राग और द्वेषमें किया है। मोटे तौर पर क्रोध और मानको द्वेषरूप माना गया है, क्योंकि, इनके करनेसे दूसरोंको दुःख होता है। तथा माया और लोभको रागरूप माना गया है, क्योंकि इन्हे करके मनुष्य अपने भीतर सुख, आनन्द या हर्षका अनुभव करता है।

प्रस्तुत ग्रन्थ पन्द्रह अधिकारोंमें विभक्त है और उनमें राग-द्वेष-मोहका तथा कपायोंकी बन्ध, उदय और सत्त्व आदि विविध दशाओंका विस्तृत व्याख्यान किया गया है। उनका सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—

१ **पेज्जदोसविभक्ति**—इस अधिकारमें कपायोंका अनेक दृष्टियोंसे राग-द्वेषमें विभाग कर यह बतलाया गया है कि राग-द्वेष और कपाय क्या वस्तु हैं, इनके कितने भेद हैं, वे किसके होते हैं, कब होते हैं और होने पर वे कितनी देर तक रहते हैं। इनका अन्तरकाल क्या है और इनके धारण करनेवाले जीव किस प्रकारके हीनाधिक परिमाणमें पाये जाते हैं।

विभक्ति महाधिकार—इस अधिकारमें वस्तुतः प्रकृतिविभक्ति, स्थितिविभक्ति, अनुभागविभक्ति, प्रदेशविभक्ति, क्षीणाक्षीण और स्थित्यन्तिक ये छह अवान्तर अधिकार हैं।

प्रकृतिविभक्ति—योगके निमित्तसे आत्माके भीतर आनेवाले पुद्गल कर्मोंमें जो ज्ञान-दर्शनादि गुणोंके रोकने या आवरण करनेका स्वभाव पड़ता है, उसे प्रकृति कहते हैं। विभक्ति शब्दका अर्थ विभाग है। आठ कर्मोंमेंसे प्रस्तुत ग्रन्थमें केवल एक मोहनीय कर्मका ही वर्णन किया गया है। मोहनीय कर्मके मूल भेद दं और उत्तरभेद अट्टाईस बतलाये गये हैं †, उनका एक-एक रूपसे तथा अट्टाईस, सत्ताईस आदि प्रकृतिरूप सत्त्वस्थानोंकी अपेक्षा इस अधिकारमें विस्तृत विवेचन किया गया है।

२ **स्थितिविभक्ति**—आने वाले कर्म आत्माके भीतर जितने समय तक विद्यमान रहते हैं, उनकी काल-मर्यादाको स्थिति कहते हैं। प्रस्तुत अधिकारमें मोहनीय कर्मके अट्टाईस भेदोंकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिका वर्णन अनेक अनुयोगद्वारासे किया गया है।

३ **अनुभागविभक्ति**—कर्मोंके फल देनेकी शक्तिको अनुभाग कहते हैं। फल देनेकी तीव्रता और मन्दताकी अपेक्षा अनुभाग लता, दारु (काष्ठ) अस्थि (हड्डी) और शैलके रूपसे चार प्रकारका होता है। लता नाम वेल का है। जिस प्रकार लता बहुत कोमल होती है, उससे काष्ठ अधिक कठोर होता है, काष्ठसे हड्डी और भी कठोर होती है और पत्थरकी शिला सबसे

† मोहकर्मके मूलमें दो भेद हैं—दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय। दर्शनमोहनीयके तीन भेद हैं—मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृति। चारित्रमोहनीयकर्मके भी दो भेद हैं—कपायवेदनीय और नोकपायवेदनीय। कपायवेदनीयके १६ भेद हैं—अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ और संज्वलनक्रोध, मान, माया, लोभ। नोकपायवेदनीयके ९ भेद हैं—हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपु सकवेद। इस प्रकार सर्व मिलाकर चारित्रमोहनीयकर्मके २५ भेद होते हैं और दोनों के भेद मिलाकर मोहकर्मके २८ भेद हो जाते हैं। इनमेंसे अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ ये चार प्रकृतियाँ और दर्शनमोहकी तीन प्रकृतियाँ, ये सात प्रकृतियाँ आत्माके सम्यग्दर्शन गुणका घात करती हैं और इन सातोंके अभाव होनेपर आत्माका उक्त गुण प्रकट होता है। इसी प्रकार अप्रत्याख्यानावरणकपाय देशसयमकी, प्रत्याख्यानावरणकपाय नकलसयमकी और संज्वलनकपाय यथाख्यातसयमकी घातक हैं। नवो नोकपाय उत्पन्न हुए चारित्रके भीतर अतीचार, मल या दोष उत्पन्न करते रहते हैं। जब आत्माके भीतरमें कपाय और नोकपायका अभाव हो जाता है, तब आत्मामें वीतरागत्वरूप शान्त दशा प्रकट हो जाती है।

अधिक कठोर होती है, उसी प्रकारसे कर्मोंके भीतर भी हीनाधिकरूपसे चार प्रकारके फल देनेकी शक्ति पाई जाती है। अनुभागविभक्तिमें मोहकर्मके अनुभागका उक्त चारों प्रकारोंसे वर्णन किया गया है।

प्रदेशविभक्ति— एक समयमें आत्माके भीतर आनेवाले कर्म-परमाणुओंका तत्काल सर्व कर्मोंमें विभाजन हो जाता है। उसमेंसे जितने कर्म-प्रदेश मोहनीयकर्मके हिस्सेमें आते हैं, उनका भी विभाग उसके उत्तर भेद-प्रभेदोंमें होता है। मोहकर्मके इस प्रकारके प्रदेश-सत्त्वका वर्णन इस प्रदेशविभक्तिनामक अधिकारमें अनेक अनुयोगद्वारोंकी अपेक्षा किया गया है।

क्षीणाक्षीणाधिकार— किस स्थितिमें अवस्थित कर्म-प्रदेश उत्कर्षण, अपकर्षण, सक्रमण और उदयके योग्य एवं अयोग्य होते हैं, इस बातका विवेचन क्षीणाक्षीण अधिकारमें किया गया है। कर्मोंकी स्थिति और अनुभागके बढ़नेको उत्कर्षण, घटनेको अपकर्षण और अन्य प्रकृतिरूपसे परिवर्तित होनेको संक्रमण कहते हैं। सत्तामें अवस्थित कर्मका समय पाकर फल-प्रदान करनेको उदय कहते हैं। जो कर्म-प्रदेश उत्कर्षण, अपकर्षण, सक्रमण और उदयके योग्य होते हैं, उन्हें क्षीणस्थितिक कहते हैं, तथा जो कर्म-प्रदेश उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण और उदयके योग्य नहीं होते हैं उन्हें अक्षीणस्थितिक कहते हैं। प्रस्तुत अधिकारमें इन दोनों प्रकारके कर्मोंका वर्णन किया गया है।

स्थित्यन्तिक— अनेक प्रकारकी स्थितियोंको प्राप्त होनेवाले कर्म-परमाणुओंको स्थितिक या स्थित्यन्तिक कहते हैं। ये स्थिति-प्राप्त कर्म-प्रदेश उत्कृष्टस्थिति, निपेकस्थिति, यथानिपेकस्थिति और उदयस्थितिके भेदसे चार प्रकारके होते हैं। जो कर्म वधनेके समयसे लेकर उस कर्मकी जितनी स्थिति है, उतने समय तक सत्तामें रहकर अपनी स्थितिके अन्तिम समयमें उदयको प्राप्त होता है, उसे उत्कृष्टस्थितिप्राप्त कर्म कहते हैं। जो कर्मप्रदेश बन्धके समय जिस स्थितिमें निक्षिप्त किया गया है, तदनन्तर उसका उत्कर्षण या अपकर्षण होनेपर भी उसी स्थितिको प्राप्त होकर जो उदय-कालमें दिखाई देता है, उसे निपेकस्थितिप्राप्त-कर्म कहते हैं। बन्धके समय जो कर्म जिस स्थितिमें निक्षिप्त हुआ है यदि वह उत्कर्षण और अपकर्षण न होकर उसी स्थितिके रहते हुए उदयमें आता है, तो उसे यथानिपेकस्थिति-प्राप्त कर्म कहते हैं। जो कर्म जिस किसी स्थितिको प्राप्त होकर उदयमें आता है, उसे उदयस्थिति-प्राप्त कर्म कहते हैं। प्रकृत अधिकारमें इन चारों ही प्रकारोंके कर्मोंका वर्णन किया गया है।

उपर्युक्त छह अधिकारोंमेंसे प्रारम्भके दो अधिकारोंका वर्णन स्थिति-विभक्ति नामक दूसरे अधिकारमें किया गया है और शेष चारों अधिकारोंका अन्तर्भाव अनुभागविभक्तिमें किया गया है। अतएव दूसरे अधिकारका नाम स्थिति-विभक्ति और तीसरे अधिकारका नाम अनुभागविभक्ति जानना चाहिए।

४ बन्ध-अधिकार— जीवके मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योगके निमित्तसे पुद्गल-परमाणुओंका कर्मरूपसे परिणत होकर जीवके प्रदेशोंके साथ एक क्षेत्ररूपमें बधनेको बन्ध कहते हैं। बन्ध के चार भेद पहले बतलाये जा चुके हैं। प्रकृत अधिकारमें उनका वर्णन किया गया है।

५ संक्रम-अधिकार— बंधे हुए कर्मोंका यथासंभव अपने अवान्तर भेदोंमें सक्रान्त या परिवर्तित होनेको संक्रम कहते हैं। बन्धके समान संक्रम के भी चार भेद हैं—१ प्रकृतिसंक्रम २ स्थितिसंक्रम, ३ अनुभागसंक्रम और प्रदेशसंक्रम। एक कर्म-प्रकृतिके दूसरी प्रकृतिरूप हो

जानेको प्रकृतिसंक्रम कहते हैं। जैसे सातावेदनीयका असातावेदनीयरूपमें परिणत हो जाना। विवक्षित कर्मकी जितनी स्थिति पड़ी थी, परिणामोंके वशसे उसके हीनाधिक होनेको या अन्य प्रकृतिकी स्थितिरूपसे परिणत हो जानेको स्थितिसंक्रम कहते हैं। सातावेदनीय आदि जिन प्रकृतियोंमें जिस जातिके सुखादि देनेकी शक्ति थी, उसके हीनाधिक होने या अन्य प्रकृतिके अनुभागरूपसे परिणत होनेको अनुभागसंक्रम कहते हैं। विवक्षित समयमें आये हुए कर्म-परमाणुओंमेंसे विभाजनके अनुसार जिस कर्म-प्रकृतिको जितने प्रदेश मिले थे, उनके अन्य प्रकृति-गत प्रदेशोंके रूपसे संक्रान्त होनेको प्रदेशसंक्रमण कहते हैं। इस अधिकारमें मोहकर्मके उक्त चारों प्रकारके संक्रमका अनेक अनुयोगद्वारासे बहुत विस्तृत विवेचन किया गया है।

६ वेदक-अधिकार—इस अधिकारमें मोहनीय कर्मके वेदन अर्थात् फलानुभवनका वर्णन किया गया है। कर्म अपना फल उदयसे भी देते हैं और उदीरणासे भी देते हैं। स्थितिके अनुसार निश्चित समय पर कर्मके फल देनेको उदय कहते हैं। तथा उपाय-विशेषसे असमयमें ही निश्चित समयके पूर्व फलके देनेको उदीरणा कहते हैं। जैसे डालमें लगे हुए आमका समय पर पक कर स्वयं गिरना उदय है। तथा पकनेके पूर्व ही उसे तोड़कर पाल आदिमें रखकर समयके भी बहुत पहले उसका पका लेना उदीरणा है। ये दोनों ही प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशके भेद से चार-चार प्रकारके होते हैं। इन सबका प्रकृत अधिकारमें अनेक अनुयोगद्वारासे बहुत विस्तार-पूर्वक वर्णन किया गया है।

७ उपयोग-अधिकार—जीवके क्रोध, मान, मायादि रूप परिणामोंके होनेको उपयोग कहते हैं। इस अधिकारमें क्रोधादि चारों कपायोंके उपयोगका वर्णन किया गया है और बतलाया गया है कि एक जीवके एक कपायका उदय कितने काल तक रहता है, किस गतिके जीवके कौनसी कपाय बार-बार उदयमें आती है, एक भवमें एक कपायका उदय कितने बार होता है और एक कपायका उदय कितने भवों तक रहता है? जितने जीव वर्तमान समयमें जिस कपायसे उपयुक्त है, क्या वे उतने ही पहले उसी कपायसे उपयुक्त थे और क्या आगे भी उपयुक्त रहेंगे? इत्यादि रूपसे कपाय-विषयक अनेक ज्ञातव्य बातोंका बहुत ही वैज्ञानिक विवेचन इस उपयोग-अधिकारमें किया गया है।

८ चतुःस्थान-अधिकार—घातिया कर्मोंमें फल देनेकी शक्तिकी अपेक्षा लता, वारु, अस्थि और शैलरूप चार स्थानोंका विभाग किया जाता है। उन्हें क्रमशः एकस्थान द्विस्थान, त्रिस्थान और चतुःस्थान कहते हैं। इस अधिकारमें क्रोधादि चारों कपायोंके उक्त चारों स्थानोंका वर्णन किया गया है, इसलिए इस अधिकारका नाम चतुःस्थान है। इसमें बतलाया गया है कि क्रोध चार प्रकारका होता है—पापाण-रेखाके समान, पृथ्वी-रेखाके समान, बालु-रेखाके समान और जल-रेखाके समान। जैसे—जलमें खींची हुई रेखा तुरन्त मिट जाती है और बालु, पृथ्वी और पापाणमें खींची गई रेखाएँ उत्तरोत्तर अधिक-अधिक समयमें मिटती हैं, इसी प्रकारसे क्रोधके भी चार प्रकारके स्थान हैं, जो हीनाधिक कालके द्वारा उपशमको प्राप्त होते हैं। इसी प्रकारसे मान, माया और लोभके भी चार-चार स्थानोंका वर्णन इस अधिकारमें किया गया है। इसके अतिरिक्त चारों कपायोंके सोलह स्थानोंमेंसे कौन सा स्थान किस स्थानसे अधिक होता है, और कौन किससे हीन होता है, कौन स्थान सर्व-घाती है और कौन स्थान देशघाती है? क्या सभी गतियोंमें सभी स्थान होते हैं, या कहीं कुछ अन्तर है? किस स्थानका अनुभवन करते हुए किस स्थानका बन्ध होता है, और किस किस स्थानका बन्ध नहीं करते हुए किस स्थानका बन्ध नहीं होता, इत्यादि अनेक सैद्धान्तिक गहन बातोंका निरूपण इस अधिकारमें किया गया है।

६ व्यंजन-अधिकार—व्यंजन नाम पर्यायवाची शब्दका है। इस अधिकारमें क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चारों ही कपायोंके पर्यायवाचक शब्दोंका निरूपण किया गया है। जैसे—क्रोधके क्रोध, रोष, अक्षमा, कलह, विवाद आदि। मानके मान, मद, दर्प, स्तम्भ, परिभव आदि। मायाके माया, निन्दित, वचना, सातियोग और अनृजुता आदि। लोभके लोभ, राग, निदान, प्रेयस्, मूर्च्छा आदि। कपायोंके इन विविध नामोंके द्वारा कपाय-विषयक अनेक ज्ञातव्य बातों पर नया प्रकाश पड़ता है।

१० दर्शनमोहोपशमना-अधिकार—जिस कर्मके उदयसे जीवको अपने स्वरूपका दर्शन, साक्षात्कार और यथार्थ प्रतीति या श्रद्धान नहीं होने पाता, उसे दर्शनमोहकर्म कहते हैं। इस कर्मके परमाणुओंका एक अन्तमुहूर्तके लिए अन्तर रूप अभावके करने या उपशान्त रूप अवस्थाके करनेको उपशम कहते हैं। इस दर्शनमोहके उपशमनकी अवस्थामें जीवको अपने असली स्वरूपका एक अन्तमुहूर्तके लिए साक्षात्कार हो जाता है। उस समय वह जिस परम आनन्दका अनुभव करता है, वह वचनोंके अगोचर है। इस अधिकारमें इसी दर्शनमोहके उपशमन करनेवाले जीवके परिणाम कैसे होते हैं, उसके कौनसा योग, कौनसा उपयोग, कौनसी कपाय, कौनसी लेश्या और कौनसा वंश होता है, इन सर्व बातोंका विवेचन करते हुए उन परिणाम-विशेषोंका विस्तारमें वर्णन किया गया है जिनके कि द्वारा यह जीव इस अलब्ध-पूर्व सम्यक्त्व-रत्नको प्राप्त करता है। दर्शनमोहके उपशमनको चारों ही गतियोंके जीव कर सकते हैं, किन्तु उसे सजी पचेन्द्रिय और पर्याप्तक नियममें होना चाहिए। अन्तमें इस प्रथमोपशम-सम्यक्त्वी अर्थात् प्रथम बार उपशमसम्यग्दर्शनको प्राप्त करने वाले जीवके कुछ विशिष्ट कार्यों और अवस्थाओंका वर्णन किया गया है।

११. दर्शनमोहक्षपणा-अधिकार—ऊपर दर्शनमोहकी जिस उपशम-अवस्थाका वर्णन किया गया है, वह एक अन्तमुहूर्तके पश्चात् ही समाप्त हो जाती है और फिर वह जीव पहले जैसा ही आत्म-दर्शनसे वंचित हो जाता है। आत्म-साक्षात्कार सदा बना रहे, इसके लिए आवश्यक है कि उस दर्शनमोह कर्मका सदाके लिए क्षय (खातमा) कर दिया जाय। और इसके लिए जिन खास बातोंकी आवश्यकता होती है, उन सबका विवेचन इस अधिकारमें किया गया है। इसमें बतलाया गया है कि दर्शनमोहकी क्षपणाका प्रारम्भ कर्मभूमिका उत्पन्न हुआ मनुष्य ही कर सकता है। हाँ, उसकी पूर्णता चारों गतियोंमें की जा सकती है। दर्शनमोहकी क्षपणाका प्रारम्भ करने वाले मनुष्यके कमसे कम तेजोलेश्या अवश्य होना चाहिए। दर्शनमोहकी क्षपणाका काल अन्तमुहूर्त है। इस क्षपण-क्रियाके समाप्त होनेके पूर्व ही यदि उस मनुष्यकी मृत्यु हो जाय, तो वह अपनी आयु-वन्धके अनुसार यथासंभव चारों ही गतियोंमें उत्पन्न हो सकता है। मनुष्य जिस भवमें दर्शनमोहकी क्षपणाका प्रारम्भ करता है, उसके अतिरिक्त अधिकसे अधिक तीन भव और धारण करके ससारसे मुक्त हो जाता है, और सदाके लिए शाश्वत आनन्दको प्राप्त कर लेता है।

१२ संयमासंयमलब्धि-अधिकार—जब आत्माको अपने स्वरूपका साक्षात्कार हो जाता है और वह मिथ्यात्वरूप कर्दम (कीचड़) ले निकल कर और निर्मल सरोवरमें स्नान कर सरोवरके तट पर स्थित शिला तलपर अवस्थित हो जाता है, तब उसके आनन्दका पारावार नहीं रहता है और फिर वह इस बातका प्रयत्न करता है कि अब इस निन्द्य, अलंध्य कर्दममें पुनः मेरा पतन न होवे। इस प्रकारसे विचार कर सांसारिक विषय-वासनारूपी कीचड़से जितने अशमं संभव होता है, उतने अंशमें वह वचनेका प्रयत्न करता है, इसीको संयमासंयम-लब्धि कहते हैं।

शास्त्रीय परिभाषाके अनुसार अप्रत्याख्यानावरण कृपायके उदयके अभावसे देशमयमको प्राप्त करने वाले जीवके जो विशुद्ध परिणाम होते हैं, उसे संयमासंयमलब्धि कहते हैं। इसके निमित्तसे जीव श्रावकके व्रतोको धारण करनेमें समर्थ होता है। प्रकृत अधिकारमें संयमासंयमलब्धिके लिए आवश्यक सर्व कार्य-विशेषोका विस्तारसे वर्णन किया गया है।

१३ संयमलब्धि-अधिकार—प्रत्याख्यानावरण कृपायके अभाव होने पर आत्मा-में संयमलब्धि प्रकट होती है, जिसके द्वारा आत्माकी प्रवृत्ति हिंसादि पाँचों पापोंसे दूर होकर अहिंसादि महाव्रतोके धारण और पालनकी होती है। संयमके प्राप्त कर लेने पर भी कृपायके उदयानुसार परिणामोका कैसा उतार-चढ़ाव होता है, इस बातका प्रकृत अधिकारमें विस्तृत विवेचन करते हुए संयमलब्धि-स्थानोके भेद बतला करके अन्तमें उनके अल्पबहुत्वका वर्णन किया गया है।

१४ चारित्रमोहोपशामना-अधिकार—इस अधिकारमें चारित्रमोहनीय कर्मके उपशमका विधान करते हुए बतलाया गया है कि उपशम कितने प्रकारका होता है, किस किस कर्मका उपशम होता है, विवक्षित चारित्रमोह-प्रकृतिकी स्थितिके कितने भागका उपशम करता है, कितने भागका सक्रमण करता है और कितने भागकी उद्दीरणा करता है? विवक्षित चारित्रमोहनीय प्रकृतिका उपशम कितने कालमें करता है, उपशम करने पर सक्रमण और उद्दीरणा कब करता है? उपशामकके आठ करणोंमेंसे कब किस करणकी व्युच्छृति होती है, इत्यादि प्रश्नोका उद्भावन करके विस्तारके साथ उन सबका समाधान किया गया है। अन्तमें बतलाया गया है कि उपशामक जीव एक बार वीतराग दशाको प्राप्त करनेके बाद भी किस कारणसे नीचे-के गुणस्थानोमें गिरता है और उस समय उसके कौन-कौनसे कार्य-विशेष किस क्रमसे प्रारम्भ होते हैं?

१५ चारित्रमोहक्षपणा-अधिकार—चारित्रमोहनीय कर्मकी प्रकृतियोंका क्षय किस किस क्रमसे होता है, किस किस प्रकृतिके क्षय होने पर कहा पर कितना स्थितिवन्ध और स्थितिसत्त्व रहता है, इत्यादि कार्य-विशेषोका इस अधिकारमें बहुत विस्तारसे वर्णन किया गया है। अन्तमें बतलाया गया है कि जब तक यह जीव कृपायोका क्षय होजाने पर और वीतराग दशाके प्राप्त कर लेने पर भी छद्मस्थ पर्यायसे नहीं निकलता है, तब तक ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय कर्मका नियमसे वेदन करता है। तत्पश्चात् द्वितीय शुक्लध्यानसे इन तीनों घातिया कर्मोंका भी समूल नाश करके सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हाकर वे धर्मोपदेश करते हुए आर्यक्षेत्रमें विहार करते हैं।

पश्चिमस्कन्ध अधिकार—सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होजानेके पश्चात् भी सयोगिजिनके चार अघातिया कर्म शेष रह जाते हैं, और उनके क्षय हुए विना सिद्ध अवस्था प्राप्त होती नहीं है, अतएव उनके क्षयका विधान चूर्णिकारने पश्चिमस्कन्धनामक अधिकारके द्वारा किया है। इसमें बतलाया गया है कि सयोगिजिन किस प्रकारसे केवलिसमुद्धातकरते हुए अघातिया कर्मोंका क्षय करके मुक्तिको प्राप्त करते हैं और सदाके लिए अजर, अमर बन करके अनन्त सुखके भागी बन जाते हैं।

उपसंहार

इस प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थमें जीवोंको ससार-परिभ्रमण कराने वाले कृपायोके राग-द्वेषात्मक स्वरूपका विविध प्रकारोंसे वर्णन करके उनसे विमुक्त होनेका मार्ग बतलाया गया है।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
ग्रन्थकारके द्वारा कसायपाहुडकी उत्पत्ति-स्थानका निर्देश	१	प्रकृति-स्थानोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय निरूपण	७३
चूर्णिकारके द्वारा कसायपाहुडके उपक्रमका निरूपण	२	प्रकृति-स्थानोंका अल्पवहुत्व	७५
ग्रन्थकार-द्वारा कसायपाहुडके पन्द्रह अधि-कारोंमें विभक्त गाथाओंका निर्देश	४	भुजाकार, अल्पतर और अवस्थित-विभक्तिके निरूपणकी सूचना	७६
अट्टाईस मूल गाथाओंकी भाष्य गाथाओंका निरूपण	१०	भुजाकारादि विभक्तियोंका एक जीवकी अपेक्षा काल-निरूपण	७७
ग्रन्थकार-द्वारा कसायपाहुडके पन्द्रह अधिकारोंका निरूपण	१३	प्रकृतिविभक्तिमें पदनिक्षेप और वृद्धिके अनुमार्गणकी सूचना	७६
चूर्णिकार-द्वारा अन्य प्रकारसे पन्द्रह अधिकारोंका वर्णन	१४	स्थिति-विभक्ति	८०-१४६
कसायपाहुडके दूसरे नामका निर्देश	१६	स्थितिविभक्तिके उत्तरभेदोंका निरूपण	८०
पेज्ज पदकी निक्षेपोंमें योजना और नयोंमें विभाजन	"	स्थितिविभक्तिका तेईस अनुयाग-द्वारा-से निरूपण	८१
दोस पदकी निक्षेपोंमें योजना और नयोंमें विभाजन	१६	उत्तरप्रकृति स्थितिविभक्तिका अर्थपद	६१
पाहुड शब्दका निक्षेप और उसकी निरुक्ति	२८	मिथ्यात्व आदि कर्मोंकी उत्कृष्टस्थिति-विभक्तिका निरूपण	६२
ग्रन्थकार-द्वारा अनाकार-उपयोग आदि पदोंके कालका निरूपण	२६	मिथ्यात्व आदि कर्मोंकी जघन्य स्थिति-विभक्तिका निरूपण	६४
नयोंकी अपेक्षा पेज्ज और दोसका स्वामित्वादि अनुयोगोंसे निरूपण	३४	मिथ्यात्व आदि कर्मोंके उत्कृष्ट और जघन्य स्वामित्वका निरूपण	६७
प्रकृति-विभक्ति	४५-७६	मिथ्यात्व आदि कर्मोंकी उत्कृष्ट और जघन्य स्थितिविभक्तिके कालका निरूपण	१०२
विभक्ति पदका निक्षेपों की अपेक्षा भेद-निरूपण	४५	मिथ्यात्व आदि कर्मोंकी उत्कृष्ट और जघन्य स्थितिविभक्तिके अन्तरका निरूपण	१०४
कर्म-विभक्तिका ग्रन्थकारके द्वारा निरूपण	४८	नाना जीवोंकी अपेक्षा स्थितिविभक्ति-का भग-विचय	१०६
प्रकृतिविभक्तिके उत्तरभेदोंका स्वामित्व आदि अनुयोगाके द्वारा निरूपण	५०	नाना जीवोंकी अपेक्षा स्थितिविभक्तिका अन्तर-निरूपण	११०
प्रकृति-स्थान-विभक्तिकी स्थान समु-त्कीर्तना	५७	स्थिति-विभक्तिके सन्निकर्षका निरूपण	१११
प्रकृति-स्थानोंके स्वामित्वका निरूपण	५८	स्थितिविभक्तिका अल्पवहुत्व	१२१
प्रकृति-स्थानोंके कालका	"		
प्रकृति-स्थानोंके अन्तरका	"		

भुजाकार अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्यविभक्तिके अर्थपदका वर्णन	१२३	मिथ्यात्व आदि प्रकृतियोंकी अनुभाग- विभक्तिके उत्कृष्ट और जघन्य अन्तरका निरूपण	१६५
भुजाकार स्थिति-विभक्तिके कालका एक जीवकी अपेक्षा निरूपण	१२५	नाना जीवोंकी अपेक्षा अनुभाग- विभक्तिका भंग-विचय	१६६
भुजाकारस्थिति-विभक्तिका नाना जीवोंकी अपेक्षा भगविचय	१३०	नाना जीवोंकी अपेक्षा अनुभाग- विभक्तिक काल	१६८
भुजाकार स्थिति विभक्तिका नाना जीवोंकी अपेक्षा काल	"	नाना जीवोंकी अपेक्षा अनुभाग- विभक्तिका अन्तर	१६६
भुजाकार स्थितिविभक्तिका नाना जीवों- की अपेक्षा अन्तर	१३१	अनुभागविभक्तिका अल्पबहुत्व सत्कर्मस्थानोंके भेद और उनके अल्प- बहुत्वका निरूपण	१७१
भुजाकार स्थितिविभक्तिके सन्निकर्षका निरूपण	१३२	प्रदेश-विभक्ति	१७७-२१२
भुजाकार स्थितिविभक्तिका अल्पबहुत्व	१३४	प्रदेशविभक्तिके उत्तर भेदोंका निरूपण	१७७
भुजाकार स्थितिविभक्तिके पदनिक्षेप- का वर्णन	१३५	मूलप्रकृति-प्रदेशविभक्तिका वाईस अनुयागद्वारासे निरूपण	"
स्थितिविभक्तिके वृद्धिका निरूपण	१३६	उत्तरप्रकृति-प्रदेशविभक्तिके स्वामित्वका निरूपण	१८४
वृद्धिकी अपेक्षा स्थितिविभक्तिके काल- का निरूपण	१३७	उत्तरप्रकृति-प्रदेशविभक्तिका काल	१६८
वृद्धिकी अपेक्षा अन्तरका निरूपण	१३६	उत्तरप्रकृति-प्रदेशविभक्तिका अन्तर	१६६
वृद्धिकी अपेक्षा स्थितिविभक्तिका अल्प- बहुत्व	१४०	नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्तरप्रकृति- प्रदेशविभक्तिका भगविचय	"
स्थितिसत्कर्मस्थानोंका निरूपण	१४१	नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्तरप्रकृति- प्रदेशविभक्तिका काल और अन्तर	२००
अनिवृत्तिकरण आदि पदोंका काल सम्बन्धी अल्पबहुत्व	१४४	उत्तरप्रकृति-प्रदेशविभक्तिके उत्कृष्ट प्रदेश- सत्कर्मका अल्पबहुत्व	२०१
स्थितिसत्कर्मस्थानोंका अल्पबहुत्व	१४५	उत्तरप्रकृति-प्रदेशविभक्तिके जघन्य प्रदेश- सत्कर्म-अल्पबहुत्वका सकारण निरूपण	२०६
अनुभाग-विभक्ति	१४७-१७६	नरकगतिमे जघन्य प्रदेशसत्कर्मके अल्प- बहुत्वका निरूपण	२०८
अनुभागविभक्तिके उत्तर-भेदोंका निरूपण	१४७	एकेन्द्रियोमे जघन्य प्रदेशसत्कर्मके अल्प- बहुत्वका निरूपण	२१०
मूल अनुभागविभक्तिका तेईस अनु- योगद्वारोंसे निरूपण	१४८	क्षीणाक्षीणाधिकार	२२३-२३४
माहनीयकर्मकी उत्तर प्रकृतियोंके देश- घाती सर्वघाती अशोका विभाजन	१५७	उत्कर्षण, अपकर्षण, सक्रमण और उदय- की अपेक्षा कर्मोंके क्षीणस्थितिक और क्षीणस्थितिकका निरूपण	२१३
घातिसज्ञा और स्थानसंज्ञाके द्वारा मोह- कर्मके उत्तरभेदोंका निरूपण	१५८	उत्कर्षणादि चारो पदोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट क्षीणस्थितिकका स्वामित्व	२२०
मिथ्यात्व आदि प्रकृतियोंकी अनुभाग- विभक्तिका स्वामित्व-निरूपण	१६०		
मिथ्यात्व आदि प्रकृतियोंकी अनुभाग- विभक्तिके उत्कृष्ट और जघन्य कालका निरूपण	१६३		

उत्कर्षणादि चारों पदोंकी अपेक्षा जघन्य		मोहनीयकर्मके बंधस्थानों में संक्रम	
क्षीणस्थितिक स्वामित्वका निरूपण	२२६	स्थानोंका चित्र	२८६
क्षीणस्थितिक प्रकृतियोंका अल्पबहुत्व	२३१	संक्रमस्थानोंकी प्रकृतियोंका निरूपण	२८६
स्थितिक-अधिकार	२३५-२४७	संक्रमस्थानोंके कालका	२६५
उत्कृष्टस्थितिप्राप्तक, निपेकस्थितिप्राप्तक,		संक्रमस्थानोंके अन्तरका	३०१
यथानिपेकस्थितिप्राप्तक और उदय-		संक्रमस्थानोंके अल्पबहुत्वका	३०७
स्थितिप्राप्तक कर्मोंकी समुत्कीर्तना			
और उनका अर्थपद	२३५	स्थिति-संक्रमाधिकार	३१०-३४४
मिथ्यात्व आदि कर्मोंके उत्कृष्ट स्थिति-		स्थितिसंक्रमके भेद और अर्थपद	३१०
प्राप्तक आदिका स्वामित्व	२३६	स्थितिके निक्षेप और अतिस्थापनाका	
उत्कृष्टस्थितिप्राप्तक आदि कर्मोंके अल्प-		वर्णन	३११
बहुत्वका निरूपण	२४५	निर्व्याघातकी अपेक्षा निक्षेप और	
बंध-अर्थाधिकार	२४८-२४९	अतिस्थापनाका वर्णन	३१५
ग्रन्थकार-द्वारा बंध और संक्रमणकी		व्याघातकी अपेक्षा निक्षेप और अति-	
सूचना	२४८	स्थापनाका वर्णन	३१६
संक्रम-अर्थाधिकार	२५०-४६४	स्थितिसंक्रमसम्बन्धी अद्वाच्छेदका	
संक्रमणका उपक्रम-निरूपण	२५०	वर्णन	३१८
प्रकृतिसंक्रमणका ग्रन्थकारद्वारा निर्देश	२५२	उत्कृष्ट और जघन्य स्थितिसंक्रमके	
प्रकृतिसंक्रमणके स्वामित्वका निरूपण	२५५	स्वामित्वका वर्णन	३१६
प्रकृतिसंक्रमके कालका	२५६	एक जीवकी अपेक्षा स्थितिसंक्रमके	
प्रकृतिसंक्रमके अन्तरका	२५७	काल और अन्तरका वर्णन	३२२
नाना जीवोंकी अपेक्षा प्रकृतिसंक्रमका		नाना जीवोंकी अपेक्षा स्थितिसंक्रमका	
भंग-विचय	२५७	भंगविचय	३२३
प्रकृतिसंक्रमके सन्निकर्षका निरूपण	२५८	नाना जीवोंकी अपेक्षा स्थितिसंक्रमके	
प्रकृतिसंक्रमका अल्पबहुत्व	२५९	कालका वर्णन	३२४
प्रकृतिस्थानसंक्रमकी समुत्कीर्तना	२६०	स्थितिसंक्रमका ओघकी अपेक्षा अल्प-	
प्रकृति-प्रतिग्रहस्थानोंका वर्णन	२६१	बहुत्व	३२४
प्रतिग्रहस्थानोंमें संक्रमस्थान	२६३	नरकगतिकी अपेक्षा स्थितिसंक्रमका	
संक्रमस्थानोंके प्रतिग्रहस्थानोंका चित्र	२७०	अल्पबहुत्व	३२६
सत्त्व स्थानोंमें संक्रमस्थानोंका वर्णन	२७१	भुजाकारस्थितिसंक्रमका स्वामित्व	३२८
गुणस्थानोंमें संक्रमस्थान और प्रतिग्रह-		भुजाकार स्थितिसंक्रमका काल	३२६
स्थानोंका चित्र	२७२	भुजाकार स्थिति संक्रमका अंतर	३३१
मार्गस्थानोंमें संक्रमस्थान	२७३	नाना जीवोंकी अपेक्षा भुजाकार स्थिति	
मार्गस्थानोंमें संक्रमस्थानों और प्रतिग्रह-		संक्रमका भंगविचय	३३३
स्थानोंका विवरण	२७६	नाना जीवोंकी अपेक्षा भुजाकार स्थिति-	
मोहनीय कर्मके सत्त्वस्थानोंमें संक्रम-		संक्रमका काल	३३३
स्थानोंका चित्र	२८३	नाना जीवोंकी अपेक्षा भुजाकार स्थिति-	
		संक्रमका अन्तर	३३४
		भुजाकारस्थितिसंक्रमकोका अल्पबहुत्व	३३५

पदनिक्षेपकी अपेक्षा स्थितिसंक्रमका स्वामित्व	३३७	भुजाकार-अनुभानसंक्रमका अर्थपद	३७३
पदनिक्षेपकी अपेक्षा स्थितिसंक्रमका अल्पवहुत्व	३४०	भुजाकार-अनुभागसंक्रमका स्वामित्व	३७४
वृद्धिकी अपेक्षा स्थितिसंक्रमकी समुत्कीर्तना	३४१	एक जीवकी अपेक्षा भुजाकार-अनुभागसंक्रमका काल	३७५
वृद्धिकी अपेक्षा स्थितिसंक्रमका अल्प-वहुत्व	३४२	एक जीवकी अपेक्षा भुजाकार-अनुभागसंक्रमका अन्तर	३७७
अनुभाग संक्रम	३४५-३६६	नाना जीवोंकी अपेक्षा भुजाकार-अनुभागसंक्रमका भगविचय	३७६
अनुभागसंक्रमके भेद और उनका अर्थपद	३४५	नाना जीवोंकी अपेक्षा भुजाकार-अनुभागका काल	३८०
अपकर्षणकी अपेक्षा निक्षेप और अति स्थापनाका निरूपण	३४६	नाना जीवोंकी अपेक्षा भुजाकार-अनुभागसंक्रमका अन्तर	३८१
अपकर्षणकी अपेक्षा जघन्य निक्षेप आदि पदोंका अल्पवहुत्व	"	भुजाकार-अनुभागसंक्रमका अल्पवहुत्व	३८२
उत्कर्षणकी अपेक्षा निक्षेप और अति-स्थापनाका निरूपण	३४७	पदनिक्षेपकी अपेक्षा अनुभागसंक्रमकी प्ररूपणा	"
उत्कर्षणकी अपेक्षा जघन्य निक्षेप आदि-पदोंका अल्पवहुत्व	३४८	पदनिक्षेपकी अपेक्षा अनुभागसंक्रमका स्वामित्व	३८३
अनुभागसंक्रमकी घानिसज्ञा और स्थान-सज्ञाका निरूपण	३४९	पदनिक्षेपकी अपेक्षा अनुभागसंक्रमका अल्पवहुत्व	३८८
अनुभागसंक्रमका स्वामित्व	३५१	वृद्धिकी अपेक्षा अनुभागसंक्रमकी समुत्कीर्तना	३८६
एक जीवकी अपेक्षा अनुभागसंक्रमका काल	३५४	वृद्धिकी अपेक्षा अनुभागसंक्रमका स्वामित्व	"
एक जीवकी अपेक्षा अनुभागसंक्रमका अन्तर	३५७	वृद्धिकी अपेक्षा अनुभागसंक्रमका अल्प-वहुत्व	३९०
अनुभागसंक्रमके सन्तिकर्षका निरूपण	३६	अनुभागसंक्रमस्थानोंकी प्ररूपणा	३९२
नाना जीवोंकी अपेक्षा अनुभागसंक्रमका भगविचय	३६३	अनुभागसंक्रमस्थानोंका अल्पवहुत्व	३९४
नाना जीवोंकी अपेक्षा अनुभागसंक्रमका काल	३६४	प्रदेश-संक्रम	३९७-४६४
नाना जीवोंकी अपेक्षा अनुभागसंक्रमका अन्तर	३६६	प्रदेशसंक्रमका अर्थपद	३९७
ओघकी अपेक्षा अनुभागसंक्रमका अल्प-वहुत्व	३६८	प्रदेशसंक्रमके भेद और उनका स्वरूप	"
नरकगतिकी अपेक्षा अनुभागसंक्रमका अल्पवहुत्व	३७१	प्रदेशसंक्रमका उत्कृष्ट स्वामित्व	४०१
एकेन्द्रियोंमे अनुभागसंक्रमका अल्प-वहुत्व	३७३	प्रदेशसंक्रमका जघन्य स्वामित्व	४०५
		एक जीवकी अपेक्षा प्रदेशसंक्रमका काल	४१०
		एक जीवकी अपेक्षा प्रदेशसंक्रमका अन्तर	४१०
		प्रदेशसंक्रमका सन्तिकर्ष	४११
		आघकी अपेक्षा उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका अल्पवहुत्व	४१२

नरकगतिकी अपेक्षा उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम- का अल्पवहुत्व	४१४	वेदक-अर्थाधिकार	४६५-५५५
एकेन्द्रियोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम- का अल्पवहुत्व	४१५	ग्रन्थकारके द्वारा उदय और उदीरणा- सम्बन्धी प्रश्नोंका उद्भावन	४६५
ओघकी अपेक्षा जघन्य प्रदेशसंक्रमका अल्पवहुत्व	४१७	एकैकप्रकृति-उदीरणाके भेद और उनका चौबीस अनुयोग-द्वारोंसे वर्णनकी सूचना	४६७
नरकगतिकी अपेक्षा जघन्य प्रदेशसंक्रम का अल्पवहुत्व	४१६	प्रकृतिस्थान-उदीरणाकी समुत्कीर्तना उदीरणास्थानोंकी प्रकृतियोंका निर्देश और उनके भग	४६८
एकेन्द्रियोंकी अपेक्षा जघन्य प्रदेश- संक्रमका अल्पवहुत्व	४२१	एक जीवकी अपेक्षा उदीरणास्थानोंका काल और अन्तर	४७४
भुजाकार प्रदेशसंक्रमका अर्थपद	४२२	नाना जीवोंकी अपेक्षा उदीरणास्थानों- का भगविचय, काल और अन्तर	"
भुजाकार प्रदेशसंक्रमकी समुत्कीर्तना	४२३	उदीरणा स्थानोंकासन्निकर्ष	४७५
भुजाकार प्रदेशसंक्रमका स्वामित्व	४२४	उदीरणास्थानोंका अल्पवहुत्व	४७६
एक जीवकी अपेक्षा भुजाकार प्रदेश- संक्रमका काल	४२७	भुजाकार-प्रकृति उदीरणाका स्वामित्व	४७८
एक जीवकी अपेक्षा भुजाकार प्रदेश- संक्रमका अन्तर	४३३	एक जीवकी अपेक्षा भुजाकार-प्रकृति- उदीरणाका काल	४७८
नाना जीवोंकी अपेक्षा भुजाकार प्रदेश- संक्रमका भगविचय	४३६	एकजीवकी अपेक्षा भुजाकार-प्रकृति- उदीरणाका अन्तर	४८०
नाना जीवोंकी अपेक्षा भुजाकार प्रदेश- संक्रमका अन्तर	४४०	भुजाकारप्रकृति-उदीरणाका अल्पवहुत्व	४८२
भुजाकार प्रदेशसंक्रमका अल्पवहुत्व	४४२	उदीरणास्थानोंका वर्णन	४८३
पदनिक्षेपकी अपेक्षा प्रदेशसंक्रमकी प्ररूपणा	४४४	एक जीवकी अपेक्षा उदीरणास्थानोंका काल	४८२
पदनिक्षेपकी अपेक्षा उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम- का स्वामित्व	४४५	उदीरणास्थानोंका अल्पवहुत्व	४८६
पदनिक्षेपकी अपेक्षा जघन्यप्रदेशसंक्रमका स्वामित्व	४५०	स्थिति-उदीरणाके उत्तर-भेदोंका स्वामित्व आदि अनुयोगद्वारोंसे वर्णनकी सूचना	४८६
पदनिक्षेपकी अपेक्षा प्रदेशसंक्रमका अल्पवहुत्व	४५४	अनुभागउदीरणाका अर्थपद	"
वृद्धिकी अपेक्षा प्रदेशसंक्रमकी समुत्की- र्तना, स्वामित्व और अल्पवहुत्व	४५६	अनुभागउदीरणाके उत्तरभेदोंका वर्णन	५००
प्रदेशसंक्रमस्थानोंकी प्ररूपणा	"	मिथ्यात्व आदि कर्मोंकी घातिसज्ञा और स्थानसज्ञाका वर्णन	५०१
ओघकी अपेक्षा प्रदेश-संक्रम-स्थानोंका अल्पवहुत्व	४५८	उ कृष्टअनुभाग-उदीरणाका स्वामित्व	५०३
नरकगतिकी अपेक्षा प्रदेशसंक्रमस्थानों- का अल्पवहुत्व	४५६	जघन्य अनुभागउदीरणाका स्वामित्व	५०५
एकेन्द्रियोंकी अपेक्षा प्रदेशसंक्रमस्थानों- का अल्पवहुत्व	४६२	एक जीवकी अपेक्षा अनुभागउदीरणा- का काल	५०८
		एक जीवकी अपेक्षा अनुभागउदीरणा- का अन्तर	५१०

ओघकी अपेक्षा उत्कृष्ट अनुभाग- उदीरणाका अल्पबहुत्व	५१२	चारों गतियोंकी अपेक्षा कपायोंके उपयोग- परिवर्तनवारोंका वर्णन	५७०
ओघकी अपेक्षा जघन्य अनुभाग उदीरणाका अल्पबहुत्व	५१५	कपायोंके उपयोगपरिवर्तनवारोंका अल्प०	५७२
नरकगतिकी अपेक्षा जघन्य अनुभाग- उदीरणाका अल्पबहुत्व	५१७	कपाय-सम्बन्धी उपयोगवर्गणाओंका ओघ और आदेशकी अपेक्षा वर्णन	५७८
प्रदेशउदीरणाके उत्तर भेदोंका निरूपण	५१८	प्रवाह्यमान और अप्रवाह्यमान उपदेशकी अपेक्षा कपाय और उनके	
उत्कृष्ट प्रदेशउदीरणाका स्वामित्व	५१९	अनुभागका वर्णन	५८०
जघन्य प्रदेशउदीरणाका ”	५२२	नौ पदोंकी अपेक्षा कपायोंके उदयस्थानों में कपायोंके उपयोगकाल-सम्बन्धी	
एक जीवकी अपेक्षा प्रदेशउदीरणाका काल	५२३	अल्पबहुत्वका वर्णन	५८०
एक जीवकी अपेक्षा प्रदेशउदीरणाका अन्तर	५२५	सदृश कपायोपयोग-वर्गणाओंमें उपयुक्त जीवोंका वर्णन	५८५
प्रदेशउदीरणाका सन्निकर्ष	५२६	वर्तमानकालमें मानकपायसे उपयुक्त जीवोंका अतीतकालमें मान, नोमान	
ओघकी अपेक्षा प्रदेशउदीरणाका अल्प- बहुत्व	५२७	और मिश्रकालका वर्णन	५८७
नरकगतिकी अपेक्षा प्रदेशउदीरणाका अल्पबहुत्व	५२८	मानके समान शेष कपायोंके त्रिविधकाल- का निरूपण	”
प्रकृतिकी अपेक्षा अल्पबहुत्व	५३३	चारों कपायोंके उपयुक्त चारह पदोंका अल्पबहुत्व	५९०
स्थितिकी अपेक्षा बन्धादि पाँच पदोंका अल्पबहुत्व	५३४	कपायोदयस्थान और कपायोपयोग-काल- स्थानरूप उपयोगवर्गणाओंका वर्णन	५९१
अनुभागकी अपेक्षा बन्धादि पाँच पदों- का अल्पबहुत्व	५४४	प्रवाह्यमान और अप्रवाह्यमान उपदेशों- की अपेक्षा त्रस जीवोंके कपायोदय- स्थानोंका वर्णन	५९३
प्रदेशोंकी अपेक्षा बन्धादि पाँच पदोंका अल्पबहुत्व	५४९	कपायोंकी प्रथमादिक तीन प्रकारकी अल्पबहुत्व-श्रेणियोंका निरूपण	५९५
उपयोग-अर्थाधिकार ५५६-५७६		चतुःस्थान-अर्थाधिकार ५९७-६१०	
ग्रन्थकार-द्वारा कपायोंके उपयोग-सम्बन्धी पृच्छाओंका उद्भावन	५५६	क्रोधादि चारों कपायोंके चार-चार स्थानोंका वर्णन	५९७
चूणिकार-द्वारा उक्त पृच्छाओंके उपयोग- कालका अल्पबहुत्व	५६०	चारों कपायोंके सोलहों स्थानोंके स्थिति, अनुभाग और प्रदेशकी अपेक्षा	
ओघकी अपेक्षा कपायोंके उपयोगकाल- का अल्पबहुत्व	५६१	अल्पबहुत्वका वर्णन	६००
प्रवाह्यमान उपदेशकी अपेक्षा चतुर्गतिके उपयोगकालका अल्पबहुत्व	५६२	कपायोंके स्थानोंका मार्गणास्थानोंमें वर्णन	६०४
चौदह जीवसमासोंकी अपेक्षा कपायोंके उपयोगकालका अल्पबहुत्व	५६४	कपायोंके लतासमान आदि स्थानोंके बन्धक-अबन्धक आदिका विचार	६०५
कौन जीव किस कपायमें लगातार कितनी देर तक उपयुक्त रहता है, इस शकाका समाधान	५६८	कपायोंके स्थानोंका निक्षेप-निरूपण	६०७

क्रोधके चारों स्थानोंके कालकी अपेक्षा और शेष कपायोंके स्थानोंका भावकी अपेक्षा निदर्शन-निरूपण	६०८	प्रवाह्यमान उपदेशकी अपेक्षा अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणमें होने वाले क्रियाविशेषोंका वर्णन	६५०
व्यंजन-अर्थाधिकार	६११-६१३	कृतकृत्यवेदक-अवस्थाका और उसमें मरण आदिका वर्णन	६५३
क्रोध, मान, माया और लोभके पर्यायवाची नामोंका निरूपण	६११	दर्शनमोहक्षपक के अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर प्रथम समयवर्ती कृतकृत्य वेदक होने तक मध्यवर्ती कालमें होने वाले स्थितिकाण्डकघात आदि पदोंका अल्पबहुत्व	६५५
सम्यक्त्व-अर्थाधिकार	६१४-६३८	संयमासंयमलब्धि अधिकार	६५८-६६८
दर्शनमोहके उपशमन करनेवाले जीवके परिणाम, योग, कपाय, उपयोग लेश्यादि-सम्बन्धी प्रश्नोंका ग्रन्थकार-द्वारा उद्गाहन और चूणिकार-द्वारा उनका समाधान	६१४	संयमासयमको प्राप्त करनेवाले जीवके परिणामोंकी उत्तरोत्तर वृद्धि और पूर्ववद्ध कर्मोंकी स्थिति आदिका वर्णन	६५८
दर्शनमोह—उपशामकके बन्ध और उदय-सम्बन्धी प्रकृतियोंका निरूपण	६१७	प्रथम समयवर्ती संयतासंयतके स्थितिकाण्डक, गुणश्रेणी आदिका वर्णन	६६२
अधःप्रवृत्त आदि तीनों करणोंके स्वरूपका निरूपण	६२२	अधःप्रवृत्तसंयतासयतकी विशेष क्रियाओंका वर्णन	"
चरमसमयवर्ती मिथ्यादृष्टिके तदनन्तर समयमें प्रथमोपशमसम्यक्त्वकी उत्पत्तिका वर्णन	६२८	संयमासयमको प्राप्त करनेवाले जीवके अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर संयमासयमको प्राप्त कर एकातानुवृद्धिसे बढ़नेके काल तक संभव पदोंका अल्पबहुत्व	६६४
दर्शनमोह-उपशामक-सम्बन्धी पञ्चीस पदवाले अल्पबहुत्वका वर्णन	६२६	संयमासयम लब्धिस्थानोंका वर्णन	६६६
दर्शनमोहका उपशमन करने योग्य गति आदिका वर्णन	६३०	संयमासयम लब्धिस्थानोंकी तीव्रमन्दताका अल्पबहुत्व	"
दर्शनमोह-उपशामककी निर्व्याघातताका निरूपण	६३१	संयमलब्धि-अर्थाधिकार	६६६-६७५
उपशामक-सम्बन्धी कुछ विशेषताओंका निरूपण	६३२	संयमको प्राप्त करनेवाले जीवके संभव क्रियाओंका वर्णन	६६६
दर्शनमोहक्षपणा-अर्थाधिकार	६३६-६५७	संयमको प्राप्त करनेवाले जीवके अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर अधःप्रवृत्तसंयत होने तकके मध्यवर्ती कालमें संभव पदोंका अल्पबहुत्व	६७०
दर्शनमोहक्षपणा-प्रस्थापकका स्वरूप और तत्संबन्धी कुछ अन्य विशेषताओंका वर्णन	६३६	संयमलब्धिस्थानोंके भेदोंका वर्णन	६७२
दर्शनमोहक्षपकके अपूर्वकरणमें होनेवाली क्रियाओंका वर्णन	६४४	संयमलब्धिस्थानोंका अल्पबहुत्व	६७३
दर्शनमोहक्षपकके अनिवृत्तिकरणमें होने वाले स्थितिघात आदिका वर्णन	६४७		
सम्यक्त्वप्रकृतिकी स्थितिसत्त्वके विषयमें प्रवाह्यमान और अप्रवाह्यमान उपदेशोंका उल्लेख	६५६		

चारित्रमोहोपशामना अधिकार ६७६-७३७	उपशान्तकपायगुणस्थानसे गिरनेका	
उपशामना कितने प्रकारकी होती है,	सकारण निरूपण	७१४
किस-किस कर्मका उपशाम होता है,	गिरनेवाले सूक्ष्मसाम्परायिकसंयतकी	
और कौन-कौन कर्म उपशान्त या	विशेष क्रियाओंका वर्णन	७१५
अनुपशान्त रहता है, इत्यादि प्रश्नों-	गिरनेवाले वादरसाम्परायिक संयतकी	
का ग्रन्थकारद्वारा उद्घावन और	विशेष क्रियाओंका विधान	७१६
समाधान	६७६ उक्त जीवके सम्भव स्थितिवन्धोंके अल्प	
चारित्रमोह-उपशामक वेदकसम्यग्दृष्टि-	वहुत्वोंका निरूपण	७१७
की विशेष क्रियाओंका वर्णन	६७८ गिरनेवाले वादर साम्परायिकसंयतके	
ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि-उपशामककी विशेष	मोहनीय कर्मका अनानुपूर्वीसंक्रम,	
क्रियाओंका वर्णन	तथा ज्ञानावरणादि-कर्मोंकी प्रकृ-	
चारित्रमोहोपशामकके अपूर्वकरण	तियोंके सर्ववाती होनेका विधान	७२२
और अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें	गिरनेवाले अपूर्वकरणसंयतके प्रगट होने-	
होनेवाले स्थितिवन्ध आदिका वर्णन	वाले करणोंका, सम्भव प्रकृतियोंकी	
अन्तरकरणके घनन्तर प्रथम समयमें	उद्दीरणा और बन्धका विधान	७२५
एक साथ प्रारम्भ होनेवाले सात	गिरनेवाले अधःप्रवृत्तसंयतकी विशेष-	
क्रियाविशेषोंका वर्णन	क्रियाओंका वर्णन	७२६
छह आवलियोंके व्यतीत होने पर ही	पुरुषवेद और मानके उदयके साथ श्रेणी	
क्यों उद्दीरणा होती है इस	चढ़नेवाले जीवकी विभिन्नताओंका	
प्रश्नका सकारण निरूपण	वर्णन	७२७
स्त्रीवेदके उपशामनका विधान	६६१ पुरुषवेद और मायाके साथ श्रेणी चढ़ने-	
सात नोकपायोंके उपशामनका "	वाले जीवकी विभिन्नताओंका वर्णन	७२६
प्रथमसमयवर्ती अवेदी उपशामकके	६६६ पुरुषवेद और लोभके साथ श्रेणी चढ़ने-	
स्थितिवन्ध आदिका निरूपण	वाले जीवकी विभिन्नताओंका	
अनुभागकृष्टियोंका "	वर्णन	७३०
कृष्टियोंकी तीव्रमन्दताका अल्पबहुत्व	७०३ नपु सकवेदके उदयके साथ श्रेणी चढ़ने-	
कृष्टिकरणकालका निरूपण	"	
प्रथम समयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिक उप-	वाले उपशामककी विभिन्नताओंका	
शामककी विशेष क्रियाओंका वर्णन	वर्णन	७३१
उपशान्तकपाय वीतरागसंयतकी विशेष	७०४ पुरुषवेद और क्रोधके साथ श्रेणी चढ़ने-	
क्रियाओंका वर्णन	वाले प्रथमसमयवर्ती अपूर्वकरण-	
उपशामनाके भेद-प्रभेदोंका निरूपण	संयतसे लेकर गिरनेवाले चरम-	
उपशामन-योग्य कर्मोंका निरूपण	समयवर्ती अपूर्वकरणसंयतके सम्भव	
स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोंकी अपेक्षा	मध्यवर्ती पदोंका अल्पबहुत्व	७३१-७३७
उपशामकके उदय-उद्दीरणा आदि	७०६	
पदोंका अल्पबहुत्व	७१०	
आठ प्रकारके करणोंका निर्देश और	चारित्रमोहक्षपणा-अर्थाधिकार ७३८-८६६	
कौन करण कहाँ विच्छिन्न होजाता	चारित्रमोह-क्षपकके परिणाम, योग,	
है इस बातका निरूपण	उपयोग, लेश्या आदिका वर्णन	७३८
	७१२	
	चारित्रमोहका क्षपण करनेके पूर्व ही बन्ध	
	और उदयसे व्युच्छिन्न होनेवाली	
	प्रकृतियोंका वर्णन	७३६

अपूर्वकरण-प्रविष्ट चारित्रमोहक्षपणा- प्रस्थापकके स्थितिघात आदि क्रिया- विशेषोंका निरूपण	७४१	उत्कर्षित या अपकर्षित स्थितिका वध्य- मान स्थितिके साथ हीनाधिकताका निरूपण	७८२
अनिवृत्तिकरणप्रविष्ट चारित्रमोहक्षपक- के आवश्यकोंका निरूपण	७४३	वृद्धि, हानि और अवस्थान मंजाओंका स्वरूप और उनका अल्पवहुत्व	७८५
अनिवृत्तिकरण क्षपकके बंधनेवाले कर्मों- के स्थितिवन्ध-सम्बन्धी अल्पवहुत्वों- का निरूपण	७४४	अश्वकर्णकरणका विधान अपूर्वस्पर्धक करनेका "	७८७ ७८६
अनिवृत्तिकरण क्षपकके सम्भव सत्कर्मों- के स्थितिसत्त्वोंका अल्पवहुत्व	७४८	अपूर्वस्पर्धकोंका अल्पवहुत्व द्वितीयादिसमयवर्ती। अश्वकर्णकरण-	७९०
आठ मध्यम कषायोंके और निद्रानिद्रादि मोहह प्रकृतियोंके क्षपणका विधान	७५१	कारककी विशेष क्रियाओंका निरूपण	७९४
चार संखलन और नव नोःकषाय इन तेरह कर्मोंके अन्तरकरणका विधान	७५२	अश्वकर्णकरणकारकके अन्तिमसमयमें स्थितिवध और स्थितिसत्त्वका अल्पवहुत्व	७९७ "
नपुंसकवेद और स्त्रीवेदके क्षपणका विधान	७५३	कृष्टिकरणकालका निरूपण प्रथम समयमें की गई कृष्टियोंकी	"
सात नोःकषायोंके क्षपकके स्थितिवन्धका अल्पवहुत्व	७५४	तीव्र-मन्दताका अल्पवहुत्व	७९८
ग्रन्थकारद्वारा संक्रमण-प्रस्थापककी विशेष क्रियाओंका निरूपण	७५६	कृष्टि-अन्तरोका अल्पवहुत्व	७९६
अपवर्तनाका अर्थ	७६१	कृष्टिकरणकालके अन्तिम समयमें स्थितिवन्ध और स्थितिसत्त्वका अल्पवहुत्व	८०३
आनुपूर्वीसंक्रमणका स्वरूप	७६४	ग्रन्थकारद्वारा कृष्टियों-सम्बन्धी पृच्छा- ओंका उद्भावन और उनका समाधान	८०५
संक्रमण-प्रस्थापकके वन्ध, उदय और संक्रमणके समानता और असमा- नताका वर्णन	७६८	अनुभाग और प्रदेशोंकी अपेक्षा कृष्टियोंकी हीनाधिकताका वर्णन	८११
अनुभाग और प्रदेश-सम्बन्धी वन्ध, उदय और संक्रमण-विषयक स्व- स्थान-अल्पवहुत्वका निरूपण	७७१	प्रथम समयवर्ती कृष्टियोंके स्थिति- सत्त्वका निरूपण	८१६
अन्तरकरण करनेवाले क्षपकके स्थिति और अनुभागके उत्कर्षण और अपकर्षणका विधान	७७३	कृष्टिवेदकके उदयस्थिति-सम्बन्धी प्रदेशाग्रोंके यवमध्य-रचनाका निरूपण	८१७
अपवर्तित द्रव्यके निक्षेप, अतिस्थापना आदिका निरूपण	७७४	कृष्टिवेदकके उदयस्थितिसम्बन्धी प्रदेशाग्रोंका अल्पवहुत्व	८१८
अपकर्षित, उत्कर्षित और संक्रमित द्रव्यके उत्तरकालमें, वृद्धि हानि और अवस्थानका वर्णन	७७७	कृष्टिवेदकके पूर्वभवोंमें बाँधे हुए कर्मों- का गति आदि मार्गणाओंमें भजनीय-अभजनीयताका वर्णन	८२०
जघन्य-उत्कृष्ट निक्षेप और अतिस्था- पनाके प्रमाणका वर्णन	७७६	कृष्टिवेदकके एक समयवद्ध और भववद्ध कर्मोंका वर्णन	८२६

कृष्टिवेदकके वध्यमान कर्मप्रदेशाप्रोका कृष्टियोंमें सक्रमणकी सम्भवताका वर्णन	८३१	मानकी प्रथम कृष्टिके और शेष कृष्टियोंके वेदकके सम्भव कार्य-विशेषोंका वर्णन	८५६
विवक्षित स्थितिविशेष और अनुभाग-विशेषोंमें भववद्धशेष और समय-प्रवद्धशेष प्रदेशाप्रोका वर्णन	८३३	मायाकी प्रथम कृष्टि और शेष कृष्टियोंके वेदकके सम्भव कार्य-विशेषोंका निरूपण	८६०
एक स्थितिविशेषमें सामान्यस्थिति और असामान्यस्थितिका निरूपण	८३४	लोभ की प्रथम कृष्टि और शेष कृष्टियोंके वेदकके सम्भव कार्य-विशेषोंका निरूपण	८६१
प्रवाह्यमान और अप्रवाह्यमान उपदेशकी अपेक्षा निर्लेपनस्थानोंका वर्णन	८३८	सूक्ष्मसाम्प्रायिक कृष्टिवेदककी अतर-कृष्टियोंका अल्पवहुत्व	८६२
समयप्रवद्धशेषोंका एक स्थिति आदिमें सम्भव-असम्भवताका वर्णन	८४१	सूक्ष्मसाम्प्रायिक कृष्टियोंमें प्रथमादि समयमें दिये जानेवाले प्रदेशाप्रकी श्रेणिप्ररूपणा	८६५
सामान्य-असामान्य स्थितियोंकी सान्तर-निरन्तरताका निर्देश	८४२	सूक्ष्मसाम्प्रायिक कृष्टिकारकके कृष्टियोंमें दृश्यमान प्रदेशाप्रकी श्रेणि-प्ररूपणा	८६६
समयप्रवद्ध और भववद्ध प्रदेशाप्रोके निर्लेपनस्थानोंके यवमध्यका वर्णन	८४५	प्रथम समयवर्ती सूक्ष्मसाम्प्रायिकके उत्कर्षण किये जानेवाले प्रदेशाप्रकी श्रेणिप्ररूपणा	८७०
निर्लेपनस्थानोंके अल्पवहुत्वका वर्णन	८४७	मोहकर्मके कृष्टिकरण हो जानेपर होने-वाले बन्ध, उदयादि-विषयक शकाओंका उद्भावन और उनका समाधान	८७३
प्रथमसमयवर्ती कृष्टिवेदकके स्थितिमत्त्व और स्थितिवन्धका अल्पवहुत्व	८४६	ग्रन्थकार-द्वारा चरमसमयवर्ती वादर-साम्प्रायिक और सूक्ष्मसाम्प्रायिकके बधने वाले कर्मोंका अल्प-वहुत्व	८७४
कृष्टिवेदकके मोहनीयके अनुभागकी प्रति समय अपवर्तनाका निरूपण	८५०	सूक्ष्मसाम्प्रायिकके वेदन किये जाने-वाले देशघाती और सर्वघाती मति-श्रुतज्ञानावरणका निरूपण	८७५
क्रोधादिकपायोंके मंग्रहकृष्टियोंकी वध्य-मान-अवध्यमानताका निरूपण	८५१	कृष्टिवेदक क्षपकके शेष कर्मोंके वेदक-अवेदकताका निरूपण	८७७
अपूर्वकृष्टियोंके निर्वृत्ति-विषयक शंकाओंका समाधान	८५२	कृष्टिकरण कर देनेपर संभव विचारोंका निरूपण	८७८
क्रोधकी प्रथम कृष्टिवेदकके प्रथम-स्थिति में समयाधिक आवलीकाल शेष रहने तक सम्भव कार्य-विशेषोंका वर्णन	८५५	क्षपकके कृष्टियोंके वेदन-अवेदन-सम्बन्धी शकाओंका ग्रन्थकारके द्वारा उद्भावन और समाधान	८७६
कृष्टिवेदकके सक्रमण किये जानेवाले प्रदेशाप्रकी विशेष विधिका निरूपण	८५६		
क्रोधकी द्वितीय कृष्टिवेदकके प्रथम समयमें शेष ग्यारह मंग्रहकृष्टियोंकी अन्तर-कृष्टियोंके अल्पवहुत्वका निरूपण	८५७		
समग्रकृष्टियोंके क्रं धकी द्वितीय कृष्टिवेदकके चरम समयमें होनेवाले स्थितिवन्ध और स्थितिसत्त्वका अल्पवहुत्व	८५८		

कृष्टियोंके वेदन या क्षपणकालमें उनके बन्धक या अवन्यक रहनेका निरूपण	८८१	ग्रन्थकार-द्वारा कपायोंके क्षीण हो जाने पर संभव वीचारोंके जाननेकी सूचना	८६५
कृष्टि-क्षपण-कालमें उनके स्थिति और अनुभागके उदीरणा-सक्रमणादि-विषयक शकाओंका उद्भावन और समाधान	८८२	क्षपणा-सम्बन्धी अन्तिम संग्रहणी मूल-गाथा-द्वारा प्रकृत अर्थका उपसंहार कपायोंके क्षय हो जानेके पश्चात् शेष तीन घातिया कर्मोंके क्षय हो जाने पर सर्वज्ञ, सर्वदर्शी होकर तीर्थ-प्रवर्तनके लिए केवलीके विहारका निरूपण	८६६
एक कृष्टिसे दूसरी कृष्टिका वेदन करता हुआ क्षपक पूर्व-वेदित कृष्टिके शेष अशको क्या उदयसे संक्रान्त करता है, या उदीरणामे ? इस शकाका समाधान	८८६	क्षपणाधिकार-चूलिका	८६७-८६६
क्रोधादि विभिन्न कपायोंके उदयसे श्रेणी चढ़नेवाले पुरुषवेदी क्षपकके होने वाली विभिन्नताओंका निरूपण	८६०	बारह सूत्रगाथओंके द्वारा मोहनीय कर्मके क्षपणका उपसंहारात्मक निरूपण	८६७
स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके उदयमे श्रेणी चढ़ने वाले क्षपककी विभिन्नताओंका निरूपण	८६३	पश्चिमस्कन्ध-अर्थाधिकार	६००-६०६
चरम समयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिक क्षपकके होनेवाले स्थितिबन्ध और स्थितिसत्त्वका निरूपण	८६४	केवलिसमुद्घातका निरूपण	६००
क्षीणकपाय-वीतराग-छद्मस्थके कार्य-विशेषोंका निरूपण	८६४	केवलिसमुद्घातके चौथे समयके पश्चात् होने वाले कार्य-विशेषोंका निरूपण	६०२
		योगनिरोधका वर्णन	६०४
		कृष्टिकरणका वर्णन	६०५
		शैलेशी अवस्थाका वर्णन	८६४

परिशिष्ट

१ कसायपाहुड-सुत्तगाहा	६०७	५ विशिष्ट-प्रकरण-उल्लेख	६२६
२ गाथानुक्रमणिका	६२६	६ विशिष्ट-समर्पण-सूत्र-सूची	६२०
३ चूर्णि-उद्धृत-गाथा-सूची	६२६	७ पवाइज्जत-अपवाइज्जत-उपदेशोल्लेख	६३२
४ ग्रन्थनामोल्लेख	६२६		




शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
३३	८	मानकपायका उत्कृष्टकाल विशेष अधिक है	मानकपायका उत्कृष्ट काल दुगुणा है
३७	२४	एक अजीव	एक जीव
५१	६	सामायिक छेदोपस्थापना	नव्यपर्याप्त मनुष्य
५२	२०	विभक्तिका	अभिभक्तिका
५२	२६	अनाहा-	आटा-
५३	१४	उत्कृष्ट काल	×
५३	१६	उत्कृष्टकाल	मभीरा उत्कृष्ट काल
५४	१८	श्रीदारिकमिश्रकाययोगी, कामंशकाययोगी	श्रीदारिकमिश्रकाययोगी, वैश्रियिकमिश्रकाय योगी प्रा- हृत्क-आहात्स-मिश्र काययोगी, कामंशकाययोगी
५४	२२	श्रीर सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य	मग्गमिथ्यात्व श्रीर अनन्तानुपस्थितकृष्णका जघन्य
५७	२४	छव्वीस, तेईस	छव्वीस, चौबीस, तेईस
६८	१८	पुद्गलपरिवर्तन	अर्धपुद्गलपरिवर्तन
८४	६	कभी कभी होने वाले भव्योके बन्धको	भव्योके क्षयको प्राप्त होने वाले बन्धको
८४	१२	स्थितिवन्ध	स्थितिविभक्ति
८६	४	है। मोहनीय	है। अनुत्कृष्टता अन्तर नहीं है। माहनीय
९४	२२	सख्यात भाग	सम्यात बहु भाग
९६	२६	क्षपण	×
१०३	१०	उत्कृष्ट काल और अन्तमुहूर्त	उत्कृष्टकाल अन्तमुहूर्त
११०	११	आवलीके	अशुलके
१११	७	एगा द्विविक्ति	एगा द्विविक्ति। एवरि चरिमुद्वेल्नणकंडयचरिम- फालीए ऊगा।
११	३१	होता है ॥१४४॥	प्रमाण वाला होता है। किन्तु चरमउद्वेल्नणकाडककी अतिम फालीमे न्यून है, इतना विशेष जानना चाहिये ॥१४४॥
११२	२२	उत्कृष्ट	अनुत्कृष्ट
११६	१६	प्रकृतिवन्धका	प्रकृतिका
१४५	२४	क्रोधसज्वलन	मायासज्वलन
१४५	२५	है। लोभ	है। मायासज्वलनके स्थितिसत्कर्मस्थानमे लोभ- सज्वलनके स्थितिसत्कर्मस्थान विशेष अधिक हैं। लोभ दो
१४७	६	वह दो	है। अनुत्कृष्ट अनुभागविभक्तिवाले जीवोने सर्व लोक स्पृष्ट किया है। जघन्य
१५४	११	है। जघन्य	उतने
१५५	६	उसने	अनेक उत्कृष्ट विभक्ति
१६७	२०	अनेक विभक्ति	अनेक उत्कृष्ट विभक्ति
१६७	२१	अनेक विभक्ति.....जीव विभक्ति	अनेक उत्कृष्ट विभक्ति.....जीव उत्कृष्ट विभक्ति-
१७७	३	पदेसविहत्तीए	पदेसविहत्तीए
१८०	१	सादि, अनादि	अनादि
२००	४	होते हैं	नहीं होते हैं

२००	५	विभक्तिवाले.....जीव अविभक्तिवाला ... विभक्ति	अविभक्तिवाला...जीव विभक्तिवाला...अविभक्ति
२५८	११	असक्रामक	संक्रामक
२५८	१२	जीव संक्रामक होता है	जीव असक्रामक होता है
२६४	१५	सतरह	सात
२६५	६	सम्यग्मिथ्यात्व	सम्यक्त्व
२६५	२७	सत्ताकी	उपशमसम्यक्त्वकी
२६६	५	जाता है। सासादन	जाता है। सतरह-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान असयत- क्षायिक सम्यग्दृष्टिके होता है। सासादन
२७०	२६	१६, १७, १५	१६, ७, १५
२७१	१७	१८, १२	१८, १३, १२
२७१	२७	अपेक्षा ३	अपेक्षा २, ३
२७२	३२	१० सूक्ष्मसाम्पराय ।२। ...	१० सूक्ष्मसाम्पराय ।१। ...
२७५	७	प्रकृतिक संक्रम	प्रकृतिक तथा ११ प्रकृतिक संक्रम
२७५	८	दो प्रकारके क्रोध, दो प्रकारके मान और दो प्रकारके माया	दो प्रकारके क्रोध, सज्वलन क्रोध, दो प्रकारके मान, सज्वलन मान, दो प्रकारके माया और संज्वलन माया
२७५	६	नौ, छह और तीन प्रकृतिक	नौ, आठ, छः, पाँच, तीन और दो प्रकृतिक
२७५	१७	उन्नीस	इक्कीस
२८४	६	स्त्री वेदका उपशमन कर देनेके अनन्तर	×
२८४	१२	छह	सात
२६५	१०	और सम्यग्मिथ्यादृष्टिके	सम्यग्मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टिके
३०५	१०	इक्कीस	उन्नीस
३१३	४	की जा सकती हैं	की जा सकती हैं, (किन्तु स्तिबुकसंक्रमण हो सकता है)
३२५	१७-१८	इस में .. सत्यात्पुणित है।	×
३२३	२	द्विद्विउत्तीरणा	द्विद्विउत्तीरणा
३३०	८	लिए मिथ्यात्वमें जाकर	लिए सम्यग्मिथ्यात्व में जाकर
३५५	१२	कर्मोंके अनुभाग अपेक्षा जघन्यकाल	कर्मोंके जघन्य अनुभाग... अपेक्षा काल
३५६	२०	जघन्य	अजघन्य
३५६	८	एयसमग्रो ।	एयसमग्रो अतोमुहुतो ।
३६०	६	समय और	समय व अन्तर्मुहूर्त और
३६२	२१	उन्नीस	इक्कीस
४१०	२०	जघन्य काल	जघन्य अन्तरकाल
४२४	२२	चरमसमयवर्ती	×
५०१	१८	उत्कृष्ट	अनुत्कृष्ट
५०१	१६	त्रिस्थानीय भेद	त्रिस्थानीय-चतु स्थानीय भेद
५०२	७	सर्वघाती है।	देशघाती है। उत्कृष्ट अनुभागकी अपेक्षा सर्वघाती है।
५०२	८	उत्कृष्ट	अनुत्कृष्ट
५१६	१६	हीन	×
५१६	१८	हीन	×
५५२	७	अव प्रदेशोकी	अव जघन्य प्रदेशोकी

पृष्ठ २१५ पर दिये गये विशेषार्थके स्थानपर निम्न विशेषार्थ पढ़िये—

विशेषार्थ—किसी भी विवक्षित कर्मके बंधनेके पश्चात् सर्व कर्मस्थिति व्यतीत हो चुकी हो, केवल एक समय अधिक उदयावली प्रमाण कर्मस्थिति शेष रह गई हो, उस कर्मके अवशेष प्रदेशाग्र उत्कर्षणके योग्य नहीं हैं, क्योंकि किसी भी कर्मका कर्मस्थिति प्रमाण तक ही उत्कर्षण हो सकता है उसके आगे उत्कर्षण होना असंभव है। इसी प्रकार जिस कर्मकी केवल दो समय अधिक उदयावली प्रमाण कर्मस्थिति शेष रह गई, उस कर्मके प्रदेशाग्र उत्कर्षणके योग्य नहीं है। इस प्रकार एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते हुए जिस कर्म बन्धकी केवल जघन्य अवाधामात्र कर्मस्थिति शेष रह गई है उसके प्रदेशाग्र भी उत्कर्षणके योग्य नहीं हैं। क्योंकि उत्कर्षणके लिए यह नियम है कि जो नवीन कर्मबन्ध रहा है उसकी अवाधाको छोड़कर जो निपेक-रचना हुई है उन नवीन निपेकोंमें उत्कर्षण किया हुआ द्रव्य निक्षिप्त किया जाता है, नवीन बन्धे हुए कर्मकी अवाधामें निपेक रचना नहीं है अतः अवाधामें उत्कर्षण किया जाने वाला द्रव्य नहीं दिया जाता। किंतु पूर्व कर्मकी केवल जघन्य अवाधामात्र कर्मस्थिति शेष रह गई थी और वह जघन्य अवाधासे आगे अर्थात् अपनी कर्मस्थितिसे आगे उत्कर्षण नहीं हो सकता है अतः वह कर्म जिसकी कर्मस्थिति जघन्य अवाधामात्र शेष रह गई है उस कर्मके प्रदेशाग्र भी उत्कर्षणके योग्य नहीं हैं। जिस कर्मकी सर्व कर्मस्थिति व्यतीत हो चुकी है। केवल एक समय अधिक जघन्य अवाधाप्रमाण कर्मस्थिति शेष रह गई है तो उस कर्मके अन्तिम निपेकको छोड़कर शेष अवाधा निपेकोंका द्रव्य उत्कर्षण होकर, नवीनकी जघन्य अवाधाके ऊपर रचे गए, प्रथम निपेकमें दिया जा सकता है। इसीप्रकार एक एक समय बढ़ते बढ़ते जिस कर्मकी वर्ष, वर्ष पृथक्त्व प्रमाण, सागर या सागरपृथक्त्वप्रमाण कर्मस्थिति शेष रह गई है, उस कर्मकी शेष रही हुई स्थितिके सर्व प्रदेशाग्र उत्कर्षणके योग्य है। किन्तु उदयावलीमें प्रविष्ट प्रदेशाग्र उत्कर्षण-योग्य नहीं है। उदाहरणके लिए मान लीजिए—किसी कर्मकी कर्मस्थिति ७० समय (७० कोडाकेडी सागर) है। ४ समय आवलीका प्रमाण है। १० समय जघन्य अवाधाका प्रमाण है। कर्मबन्धके समयसे यदि उसके ६५ समय व्यतीत हो गये, केवल एक समय अधिक आवली (४+१=५) शेष रह गई है, (अथवा जिस कर्मकी एक समय अधिक उदयावली कम कर्मस्थिति व्यतीत हो गई है) उस कर्मकी शेष रही हुई स्थिति (५ समयों) के निपेकोंका द्रव्य उत्कर्षण योग्य नहीं है। क्योंकि जो उस समय नवीन कर्म बन्ध रहा है उसकी जघन्य अवाधा १० समय है। किन्तु जिस कर्मकी स्थिति १० समयसे अधिक शेष रह गई है उस शेष स्थितिके प्रदेशाग्र उत्कर्षण-योग्य है, क्योंकि उसका द्रव्य जघन्य अवाधा १० समयसे ऊपर नवीन बन्धे हुए कर्मके प्रथम निपेकमें दिया जा सकता है।



भाषाकारका मंगलाचरण

सकल कर्म रज दूर कर, सर्व पूज्य पद पाय ।
सिद्धि-योग्य अरहंतको, वंदूं शीस नवाय ॥१॥

अष्ट कर्मको नष्ट कर, पा अष्टम क्षितिराज ।
अक्षय अगणित गुण-धनी, जयवंतो शिवराज ॥२॥

जो शिव-मग-पर नित्य ही चलें चलावें आप ।
ये गणधर आचार्य मम, हरे सकल संताप ॥३॥

उपदेशें शिवमार्गको, पाठक वन सुखदाय ।
ध्यान धरें निजरूपका, यशोमूर्ति उवभाय ॥४॥

साधें आतम रूपको, धुनें पाप दुखदाय ।
वे असहाय-सहाय-कर, मेरी कर्हि सहाय ॥५॥

वीरवदन-निर्गत-अमल-ज्ञान-सलिल-मय-धार ।
वहा वहा जगदम्ब ! तू, करे जगत उपकार ॥६॥

नय-कर-रवि, श्रुत-धर तथा, त्रिनिहत मदन प्रसार ।
श्रीगुणधरकी वन्दना, करता वारंवार ॥७॥

बहु-नय-गर्भित, गहन अति, अमित अर्थ-संयुक्त ।
जिन कसायपाहुड रचा, अनुपम गाथा युक्त ॥८॥

यतियोंमें वर वृषभ हैं, श्री यत्तिवृषभ महन्त ।
चूणिसूत्रके रचयिता, वन्दूं सदा नमन्त ॥९॥





श्रीयतिवृषभाचार्य-विरचित-चूर्णिसूत्र-समन्वित

श्रीगुणधराचार्य-प्रणीत

कसाय पाहुड सूत्र

पुव्वम्मि पंचमम्मि दु दसमे वत्थुम्मि पाहुडे तदिण ।
पेज्जं ति पाहुडम्मि दु हवदि कसायाण पाहुडं णाम ॥१॥

राग द्वेष जग-मूल हैं, उनका मूल कषाय ।
वीतराग जिनदेवको, वन्दूं शीस नवाय ॥

जिन राग और द्वेषके वशीभूत होकर ये सर्व जीव दुखी हो रहे हैं, अपने आप का स्वरूप भूल रहे हैं और एक दूसरेको सुख-दुःखका दाता मान रहे हैं, उन्हीं राग और द्वेषके बोध कराने और उनसे मुक्ति पानेका मार्ग बतलानेके लिए भव्यजीवोके हितार्थ श्री गुणधरा-चार्यने इस पेज्जदोसपाहुड अथवा कसायपाहुडका निर्माण किया है । पेज्ज नाम प्रिय या रागका है, और दोस नाम अप्रिय या द्वेषका है । ये राग और द्वेष ही संसारके मूल कारण हैं । राग और द्वेष की उत्पत्ति कषायोसे होती है, अतएव कषायोकी विभिन्न अवस्थाओका बोध कराकर उनसे मुक्ति पानेका मार्ग बतलानेके लिए इस ग्रन्थका अवतार हुआ है ।

श्रीगुणधराचार्य इस ग्रन्थके सम्बन्ध आदि बतलानेके लिए गाथासूत्र कहते हैं—

पाँचवें पूर्वकी दसवीं वस्तुमें पेज्जपाहुड नामक तीसरा अधिकार है, उससे यह 'कसायपाहुड' उत्पन्न हुआ है ॥१॥

विशेषार्थ—इस गाथाके द्वारा कसायपाहुडके नाम-उपक्रमका निरूपण किया गया है । जिसके द्वारा श्रोताजन विवक्षित प्राभृतके समीपवर्ती किये जाते हैं, अर्थात् जिससे श्रोता-

१. णाणप्पवादस्स पुव्वस्स दसमस्स वत्थुस्स तदियस्स पाहुडस्स पंचविहो उवक्कमो । तं जहा—आणुपुव्वी णामं पमाणं वत्तव्वदा अत्थाहियारो चेदि । २. आणु-पुव्वी तिविहा ।

ओको विवक्षित प्राभृतके नाम, विषय आदिका बोध होता है उसे उपक्रम कहते हैं । इस उप-क्रमका निरूपण विवक्षित शास्त्रके सम्बन्ध, प्रयोजन आदिको बतलानेके लिए किया जाता है । पूर्वशब्द दिशा आदि अनेक अर्थोंका वाचक है, तथापि यहाँ पर प्रकरणवश वारहवे दृष्टिवाद अंगके अवयवभूत पूर्वगत अधिकारका ग्रहण किया गया है । वस्तु शब्द भी यद्यपि अनेकों अर्थोंमें रहता है, तो भी प्रकरणके वशसे पूर्वगतके अन्तर्गत अधिकारोंका वाचक लिया गया है । वस्तुके अवान्तर अधिकारको पाहुड कहते हैं । इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि पूर्वगतके चौदह अधिकारोंमेंसे पाँचवाँ भेद ज्ञानप्रवाद पूर्व है । इसके भी वस्तु नामक वारह अवान्तर अधिकार है, उनमेंसे प्रकृतमें दशवाँ वस्तु अधिकार अभीष्ट है । इसके भी अन्तर्गत बीस पाहुड नामके अर्थाधिकार हैं, उनमेंसे तीसरे पाहुडका नाम पेजपाहुड है । इसीसे इस कसायपाहुडकी उत्पत्ति हुई है । इस सम्बन्धके बतलानेके लिए ही इस गाथाका अवतार हुआ है । गाथामें आये हुए 'तु' शब्दसे शेष उपक्रम भी सूचित कर दिये गये हैं ।

अब यतिवृषभाचार्य उक्त गाथासे सूचित उपक्रमोंका निरूपण करते हैं—

चूर्णिसू०—ज्ञानप्रवाद नामक पाँचवें पूर्वके अन्तर्गत दशवाँ वस्तुके तृतीय प्राभृतका उपक्रम पाँच प्रकारका है । वह इस प्रकार है—आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार ॥ १ ॥

विशेषार्थ—प्रतिपादन किये जानेवाले ग्रन्थकी क्रम-परम्पराको बतलाना आनुपूर्वी-उपक्रम कहलाता है । प्रतिपाद्य ग्रन्थके सार्थक या असार्थक नामको कहना नाम-उपक्रम है । श्लोक आदिके द्वारा उसके प्रमाणको कहना प्रमाण-उपक्रम है । ग्रन्थमें कहे जानेवाले विषयको बतलाना वक्तव्यता-उपक्रम है । ग्रन्थके अधिकार, अध्याय या प्रकरणोंकी संख्याको बतलाना अर्थाधिकार उपक्रम कहलाता है । इन पाँच उपक्रमोंके द्वारा विवक्षित वस्तुका सम्यक् प्रकार बोध होता है, इसलिए ग्रन्थके आदिमें इनका वर्णन किया जाता है ।

अब चूर्णिकार, उक्त पाँचों उपक्रमोंके संख्या-प्ररूपणपूर्वक उनका विशेष निरूपण करते हैं—

चूर्णिसू०—आनुपूर्वी तीन प्रकारकी है ॥ २ ॥

विशेषार्थ—पूर्वानुपूर्वी, पश्चादानुपूर्वी और यथातथानुपूर्वीके भेदसे आनुपूर्वीउपक्रमके तीन भेद हैं । जो वस्तु जिस क्रमसे विद्यमान है, अथवा जिस प्रकार सूत्रकारोंने उपदिष्ट की है, उसे उसी क्रमसे गिनना पूर्वानुपूर्वी है । जैसे—चौबीस तीर्थंकरोंको वृषभ, अजित आदिके क्रमसे गिनना । इससे प्रतिकूल क्रमद्वारा गिनती करना पश्चादानुपूर्वी है । जैसे उन्ही तीर्थंकरोंको वर्तमान, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ आदिके विपरीत क्रमसे गिनना । इन दोनों क्रमोंको छोड़-

३. णामं छत्विहं । ४. पमाणं सत्तविहं ।

कर जिस किसी भी क्रम से गिनती करनेको यथातथानुपूर्वी कहते हैं । जैसे—वासुपूज्य, सुपार्श्वनाथ, शान्तिनाथ इत्यादि यद्वा-तद्वा क्रम से उन्हीं तीर्थकरोकी गिनती करना । प्रकृतमें यह कसायपाहुड पाँच ज्ञानोमसे पूर्वानुपूर्वीकी अपेक्षा दूसरे से, पञ्चादानुपूर्वीकी अपेक्षा चौथेसे, और यथातथानुपूर्वीकी अपेक्षा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचम स्थानीय श्रुतज्ञानसे निकला है । इसी प्रकार अंगवाह्य और अंग-प्रविष्टके भेद-प्रभेदोंसे भी तीनों आनुपूर्वी लगाकर कसायपाहुडकी उत्पत्तिको समझ लेना चाहिए ।

चूर्णिसू०—नाम-उपक्रमके छह भेद होते हैं ॥३॥

विशेषार्थ—गौण्यपद, नोगौण्यपद, आदानपद, प्रतिपक्षपद, उपचयपद और अपचयपदके भेदसे नाम-उपक्रमके छह भेद हैं । गुणोंसे निष्पन्न हुए सार्थक नामोंको गौण्यपद कहते हैं । जैसे—समस्त तत्त्वके ज्ञाताको सर्वज्ञ कहना, राग-द्वेषादिसे रहित पुरुषको वीतराग कहना, इत्यादि । जो नाम गुणोंसे उत्पन्न नहीं होते हैं—अर्थगून्य होते हैं—उन्हे नोगौण्यपद कहते हैं । जैसे—दरिद्र पुरुषको भूपाल, निर्बलको सहस्रमल्ल और आँखोंके अन्धेको नयनमुख आदि कहना । किसी वस्तुके संयोगसे जो नाम होते हैं, उन्हे आदानपद कहते हैं । जैसे—दंडेवालेको दंडी, छत्रधारीको छत्री आदि कहना । प्रतिपक्षके निमित्तसे होनेवाले नामोंको प्रतिपक्षपद कहते हैं । जैसे—विधवा, रंडुआ आदि । किसी अंगविशेषके बढ़ जानेसे रखे गए नामोंको उपचयपद कहते हैं । जैसे—मोटे पैरवालेको गजपद, लम्बे कानवालेको लम्बकर्ण, इत्यादि कहना । किसी अंगविशेषके छिन्न हो जाने से कहे जानेवाले नामोंको अपचयपद कहते हैं । जैसे—कटे हुए कानवालेको छिन्नकर्ण और कटी हुई नाकवालेको नकटा कहना । प्रकृतमें कसायपाहुड और पेज्जदोसपाहुड ये नाम गौण्यपदनाम हैं, क्योंकि, द्वेषरूप क्रोधादि कपायोंका और प्रेयस्वरूप लोभादि कपायोंका, तथा उनके बन्ध, उदय, उदीरणा, सत्ता आदि भेदोंका नाना अधिकारोंसे इस ग्रन्थमें वर्णन किया गया है ।

चूर्णिसू०—प्रमाण-उपक्रम सात प्रकारका है ॥४॥

विशेषार्थ—जिसके द्वारा पदार्थोंका निर्णय किया जावे, उसे प्रमाण कहते हैं । नाम, स्थापना, संख्या, द्रव्य, क्षेत्र, काल और ज्ञान-प्रमाणके भेदसे प्रमाण उपक्रमके सात भेद होते हैं । 'प्रमाण' यह शब्द नामप्रमाण है । काष्ठ, शिला आदिमें विवक्षित वस्तुके न्यासको स्थापनाप्रमाण कहते हैं । अथवा मति, श्रुत आदि ज्ञानोंका तदाकार या अतदाकार रूपसे निक्षेप करना स्थापनाप्रमाण है । द्रव्य या गुणों की शत, सहस्र, लक्ष आदि संख्याको संख्याप्रमाण कहते हैं । पल, तुला, कुडव आदि को द्रव्यप्रमाण कहते हैं । अंगुल, हस्त, धनुष, योजन आदिको क्षेत्रप्रमाण कहते हैं । समय, आवली, मुहूर्त, पक्ष, मास आदिको कालप्रमाण कहते हैं । मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवलज्ञानके भेदसे ज्ञानप्रमाण पाँच प्रकारका है । प्रकृतमें नाम, संख्या और श्रुतज्ञान, ये तीन प्रमाण ही विवक्षित हैं, क्योंकि, यहाँ पर अन्य

५. वत्तव्वदा ति विहा । ६. अत्थाहियारो पण्णारसविहो ।

गाहासदे असीदे अत्थे पण्णारसधा विहत्तम्मि ।

वोच्छामि सुत्तगाहा जयि गाहा जम्मि अत्थम्मि ॥२॥

की विवक्षा नहीं है । 'कसायपाहुड' इस नामकी अपेक्षा नामप्रमाण, अपने अवान्तर अधिकारोकी या ग्रन्थके पदोकी अपेक्षा संख्याप्रमाण और ज्ञानप्रवाद नामक पंचम पूर्वसे उत्पन्न होनेके कारण श्रुतज्ञानप्रमाणकी प्रकृतमे विवक्षा की गई है ।

चूर्णिसू०—वक्तव्यता-उपक्रम तीन प्रकारका है ॥५॥

विशेषार्थ—स्वसमयवक्तव्यता, परसमयवक्तव्यता और तदुभयवक्तव्यताके भेदसे वक्तव्यता-उपक्रमके तीन भेद होते हैं । जिसमे स्वसमयका-अपने सिद्धान्तका-विवेचन किया जाय, उसे स्वसमयवक्तव्यता कहते हैं । जिसमे परसमयका—अन्य मतमतान्तरोंका—प्रतिपादन किया जाय, उसे परसमयवक्तव्यता कहते हैं । जिसमे स्व और पर, इन दोनों प्रकारके समयोंका (सिद्धान्तोंका) निरूपण किया जाय, उसे तदुभयवक्तव्यता कहते हैं । इनमेसे इस कसायपाहुडमे स्वसमयवक्तव्यताका ही ग्रहण है । क्योंकि, इसमे केवल स्वसमयप्रतिपादित राग-द्वेष या कषायों का ही वर्णन किया गया है ।

चूर्णिसू०—अर्थाधिकार पन्द्रह प्रकारका है ॥६॥

विशेषार्थ—ज्ञानके पाँच अर्थाधिकार हैं । उनमेसे श्रुतज्ञानके दो अर्थाधिकार हैं—अंगवाह्य और अंगप्रविष्ट । अंगवाह्यके सामयिक, चतुर्विंशतिस्तव आदि चौदह अर्थाधिकार हैं । अंगप्रविष्ट के आचारांग, सूत्रकृतांग आदि वारह अर्थाधिकार हैं । इनमेसे दृष्टिवाद नामक वारहवें अर्थाधिकारके भी परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूल्का, ये पाँच अर्थाधिकार हैं । इनमेसे पूर्वगतके चौदह अर्थाधिकार हैं—१ उत्पादपूर्व, २ आग्रायणीपूर्व, ३ वीर्यानुप्रवाद, ४ अस्तिनास्तिप्रवाद, ५ ज्ञानप्रवाद, ६ सत्यप्रवाद, ७ आत्मप्रवाद, ८ कर्मप्रवाद, ९ प्रत्याख्यानप्रवाद, १० विद्यानुवाद, ११ कल्याणवाद, १२ प्राणावायुप्रवाद, १३ क्रियाविगाल और १४ लोकविन्दुसार । इनमेसे ज्ञानप्रवाद नामक पाँचवें अर्थाधिकारके वस्तु नामक वारह अर्थाधिकार हैं । जिनमेसे दसवें वस्तु अधिकारके अन्तर्गत तृतीय प्राभृतसे इस ग्रन्थकी उत्पत्ति हुई है । प्रकृत ग्रन्थके पन्द्रह अर्थाधिकार हैं, जो कि आगे कहे जानेवाले हैं, यह बतलानेके लिए इस चूर्णिसूत्रका अवतार हुआ है ।

अब इन पन्द्रह अर्थाधिकारोंके नामनिर्देशके साथ एक-एक अर्थाधिकारमे कितनी कितनी गाथाएँ निबद्ध हैं, इस बातको बतलाते हुए गुणधराचार्य प्रतिज्ञासूत्र कहते हैं—

इस कसायपाहुडमें एक सौ अस्सी गाथासूत्र हैं । वे गाथासूत्र पन्द्रह अर्थाधिकारोंमें विभक्त हैं । उनमेसे जिस अर्थाधिकारमे जितनी-जितनी सूत्रगाथाएँ प्रतिबद्ध हैं, उन्हे मैं (गुणधराचार्य) कहूँगा ॥२॥

पेज्ज-दोसविहत्ती द्विदि अणुभागे च वंधगे चेव । तिण्णेदा गाहाओ पंचसु अत्थेसु णादव्वा ॥३॥

विशेषार्थ—इस गाथाके द्वारा गुणधराचार्यने तीन प्रतिज्ञाओकी सूचना की है । जो कसायपाहुड गौतम गणवर ने सोलह हजार पदोके द्वारा कहा है, उसे मैं एक सौ अस्सी गाथाओके द्वारा ही कहता हूँ, यह प्रथम प्रतिज्ञा है । गौतम गणधरसे रचित कसायपाहुडमे अनेक अर्थाधिकार हैं, उन्हें मैं पन्द्रह अर्थाधिकारोसे ही निरूपण करता हूँ, यह द्वितीय प्रतिज्ञा है । तथा, एक एक अर्थाधिकारमे इतनी इतनी गाथाएँ हैं, यह तृतीय प्रतिज्ञा है । इसीके अनुसार आगे विभिन्न अधिकारोमे गाथाओकी संख्या बतलाई गई है ।

प्रयोद्वेपविभक्ति, स्थितिविभक्ति, अनुभागविभक्ति, बन्धक अर्थात् बन्ध और संक्रम, इन पाँच अर्थाधिकारोंमे 'पेज्जं वा दोसं वा' इत्यादि प्रथम गाथा, 'पयडी य मोहणिज्जा' इत्यादि द्वितीय गाथा, 'कदि पयडीओ वंधदि' इत्यादि तृतीय गाथा, ये तीन गाथाएँ निवद्ध हैं, ऐसा जानना चाहिए ॥३॥

विशेषार्थ—गाथा-पठित 'पेज्ज दोस' इस पदके निर्देशसे 'पेज्जं वा दोसं वा' इत्यादि प्रथम गाथाकी सूचना की गई है । 'विहत्ती द्विदि अणुभागे च' इस पदके द्वारा 'पयडी य मोहणिज्जा' इत्यादि द्वितीय गाथा सूचित की गई है । 'बंधगे चेव' इस पदके द्वारा 'कदि पयडीओ वंधदि' इत्यादि तृतीय गाथाका निर्देश किया गया है । उक्त तीनों गाथाएँ जिन पाँच अर्थाधिकारोंमे निवद्ध हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं—१ प्रयोद्वेपविभक्ति २ स्थितिविभक्ति ३ अनुभागविभक्ति ४ अकर्मबंधक (बंध) और ५ कर्मबंधक (संक्रम) । इन पाँच अधिकारोंमे प्रकृतिविभक्ति और प्रदेशविभक्तिको पृथक् नहीं कहा गया है, इसका कारण यह है कि ये दोनों विभक्तियाँ स्थितिविभक्ति और अनुभागविभक्ति, इन दोनोंमे ही प्रविष्ट हैं, क्योंकि, प्रकृति और प्रदेशविभक्तिके बिना स्थिति और अनुभागविभक्ति हो ही नहीं सकती है । इसी प्रकार क्षीणाक्षीणप्रदेश और स्थित्यन्तिकप्रदेश, ये दोनों अधिकार भी उनमे ही प्रविष्ट समझना चाहिए, क्योंकि, स्थितिविभक्ति और अनुभागविभक्ति इन दोनोंके बिना क्षीणाक्षीणप्रदेश और स्थित्यन्तिक बन नहीं सकते हैं । अथवा, प्रयोद्वेपविभक्तिमे प्रकृतिविभक्ति प्रविष्ट है, क्योंकि, द्रव्य और भावस्वरूप प्रयोद्वेपके अतिरिक्त प्रकृतिविभक्तिका अभाव है । प्रदेशविभक्ति, क्षीणाक्षीण और स्थित्यन्तिक, ये तीनों अधिकार प्रयोद्वेप, स्थिति और अनुभागविभक्तियोंमे प्रविष्ट हैं, क्योंकि, ये तीनों विभक्तियाँ प्रदेश-विभक्ति आदिकी अविनाभावी हैं । अथवा, 'अणुभागे चेदि' इस चरणमे पठित 'च' शब्दसे सूचित प्रदेशविभक्ति, स्थित्यन्तिक और क्षीणाक्षीण इन तीनोंको मिलाकर एक चौथा अधिकार हो जाता है । बंध और संक्रम, इन दोनोंको लेकरके पाँचवाँ अर्थाधिकार होता है । इन पाँच अर्थाधिकारोमे पूर्वोक्त तीन गाथाएँ निवद्ध हैं ।

विभक्ति नाम विभागका है । कर्मोंके स्वभाव-सम्बन्धी विभागको प्रकृतिविभक्ति कहते

दंसणमोहस्सुवसामणाए पणारस होंति गाहाओ । पंचेव सुत्तगाहा दंसणमोहस्स खवणाए ॥५॥

विशेषार्थ— राग-द्वेषके उत्पादक कपाय है और कपायोका मूल आधार मोहकर्म है । राग-द्वेष या कपायोके वेदनको—उदयको—प्रतिपादन करनेवाला वेदक नामका अर्थाधिकार है । इसमें 'कदि आवलियं पवेसेइ' इस गाथाको आदि लेकर 'जो जं संकामेदि य' इस गाथा तक चार सूत्रगाथाएँ हैं । इस अर्थाधिकार तक सूत्र गाथाओंकी संख्या सात (३+४=७) होती है । कपायोका उपयोग कितने काल तक रहता है, किस गतिके जीव किस कपायमें कितनी देर तक उपयुक्त रहते हैं, इत्यादिरूपसे कपायोमें उपयुक्त दशाका वर्णन करनेवाला सातवाँ अर्थाधिकार है । इसमें 'केवचिरं उवजोगो' इस गाथासे लेकर 'उवजोग-वग्गणाहि य अवि-रहिदं' इस गाथा तक सात सूत्रगाथाएँ हैं । इस अर्थाधिकार तक सूत्रगाथाओंकी संख्याका योग चौदह (३+४+७=१४) होता है । अनन्तानुबन्धी आदि कपायोके शैलरेखा, पृथिवी-रेखा, धूलिरेखा और जलरेखा, इन चार स्थानोंसे वर्णन करनेवाले अर्थाधिकारको 'चतुः-स्थान' अर्थाधिकार कहते हैं । इस अर्थाधिकारमें 'कोहो चउव्विहो वुत्तो' इस गाथासे लेकर 'असण्णी खलु वंधइ' इस गाथा तक सोलह गाथाएँ निबद्ध हैं । यहाँ तक समस्त सूत्रगा-थाओं की संख्या तीस (३+४+७+१६=३०) होती है । क्रोधादि कपायोके एकार्थक-पर्यायवाची नामोंको प्रतिपादन करने वाला 'व्यंजन' नामका अर्थाधिकार है । इस अधिकारमें 'कोहो य कोप रोसो य' इस गाथासे लेकर 'सासद पत्थण लालस' इस गाथा तक पाँच सूत्र-गाथाएँ सम्बद्ध हैं । यहाँ तक सर्व सूत्रगाथाओंकी संख्या पैंतीस (३+४+७+१६+५=३५) होती है ।

दर्शनमोह-उपशामना नामका दशवाँ अर्थाधिकार है, उसमें पन्द्रह सूत्र-गाथाएँ निबद्ध हैं । दर्शनमोह-क्षपणा नामका ग्यारहवाँ अर्थाधिकार है, उसमें पाँच ही सूत्रगाथाएँ निबद्ध हैं ॥५॥

विशेषार्थ— दर्शनमोहनीयकर्मके उपशमन करनेवाले जीवके परिणाम कैसे होते हैं, उसके कौन कौनसे योग, कौन कौनसी लेश्याएँ, कपाय, वेद आदि होते हैं, इत्यादि वर्णन करनेवाला दर्शनमोह-उपशामना नामका दशवाँ अर्थाधिकार है । इसमें 'दंसणमोहस्सुवसा-मगो' इस गाथासे लेकर 'सम्मामिच्छाइही सागारो वा' इस गाथा तक पन्द्रह सूत्रगाथाएँ सम्बद्ध हैं । इस अधिकार तक समस्त गाथाओंकी संख्या पचास (३+४+७+१६+५+१५=५०) होती है । दर्शनमोहनीयकर्मका क्षय कौन जीव करता है, किन किन कर्म-प्रकृतियोंके क्षय होनेपर क्षायिकसम्यक्त्व होता है, किस किस गतिमें और कितने काल तक दर्शनमोहकी क्षपणा होती है, इत्यादि वर्णन दर्शनमोह-क्षपणा नामके ग्यारहवें अर्थाधिकारमें किया गया है । इस अधिकारमें 'दंसणमोहक्खवणापट्टवगो' इस गाथासे लेकर 'संखेज्जा च

लद्धी य संजमासंजमस्स लद्धी तथा चरित्तस्स ।
 दोसु वि एका गाहा अट्टेवुवसामणद्धम्मि ॥६॥
 चत्तारि य पट्टवए गाहा संकामए वि चत्तारि ।
 ओवट्टणाए तिण्णि ढु एकारस होंति किट्ठीए ॥७॥

मणुस्सेसु' इस गाथा तक पाँच सूत्रगाथाएँ निबद्ध हैं । यहाँ तक समस्त गाथाओका जोड़ पचवन (३ + ४ + ७ + १६ + ५ + १५ + ५ = ५५) होता है ।

कितने ही आचार्य, दर्जनमोहकी उपशामना और दर्जनमोह-क्षपणा, इन दोनों ही अधिकारों को एक सम्यक्त्व अधिकारके अन्तर्गत कहते हैं । उनकी उक्त पद्योंके समर्थन में युक्ति यह है कि यदि इन दोनों अधिकारोंको एक न माना जाय, तो 'अद्धापरिमाण' नामके अर्थाधिकार के साथ सोलह अधिकार हो जाते हैं । इसपर जयधवलकारने यह समाधान किया है कि गुणधराचार्यने जिन एक सौ अस्सी गाथाओके द्वारा कसायपाहुड के कहनेकी प्रतिज्ञा की है, उनमें अद्धापरिमाण-अर्थाधिकारसे प्रतिबद्ध गाथाएँ नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इसे पृथक् अधिकार न मानकर सभी अर्थाधिकारोंमें साधारणरूपसे व्याप्त अधिकार मानना चाहिए । गुणधराचार्यने यही बात 'अद्धापरिमाण-णिहेसो' इस अन्तर्दीपक पदके द्वारा सूचित की है ।

संयमासंयम-लव्धि नामका वारहवाँ अर्थाधिकार है और चारित्र-लव्धि नामका तेरहवाँ अर्थाधिकार है । इन दोनों ही अर्थाधिकारोंमें एक गाथा निबद्ध है । चारित्रमोह-उपशामना नामका चौदहवाँ अर्थाधिकार है । इसमें आठ सूत्रगाथाएँ सम्बद्ध हैं ॥६॥

विशेषार्थ—देशचारित्रकी प्राप्ति किस प्रकार होती है, इस बातका वर्णन संयमा-संयमलव्धि नामक अर्थाधिकारमें किया गया है । सकलचारित्रकी प्राप्ति कैसे होती है, चारित्र-मोहनीय कर्मका क्षयोपशम आदि किस प्रकार होता है, इत्यादि वर्णन चारित्रलव्धि नामके तेरहवें अर्थाधिकारमें किया गया है । संयमासंयमलव्धि और चारित्रलव्धि, इन दोनों अर्थाधिकारोंमें 'लद्धी य संजमासंजमस्स' यह एक ही गाथा निबद्ध है । यहाँ तक समस्त गाथाओका जोड़ छप्पन (५६) होता है । चारित्रमोहकर्मका उपशम किस प्रकार होता है, उपशम-श्रेणीमें कहाँपर क्या क्या आवश्यक कार्य होते हैं, इत्यादि वर्णन चारित्रमोह-उपशामना नामक चौदहवें अर्थाधिकारमें किया गया है । इस अधिकारमें 'उवसामणा कदिविधा' इस गाथासे लेकर 'उवसामणाखण ढु अंसे वंधदि' इस गाथा तक आठ गाथाएँ निबद्ध हैं । इस अधिकार तक सब गाथाओका जोड़ चौसठ (३ + ४ + ७ + १६ + ५ + १५ + ५ + १ + ८ = ६४) होता है ।

चारित्रमोहकी क्षपणाका जो जीव प्रस्थापक होता है, उसके विषयमें चार

चत्वारि य खवणाए एका पुण होदि खीणमोहस्स । एका संगहणीए अट्ठावीसं समासेण ॥८॥

गाथाएँ हैं । संक्रमणमें चार गाथाएँ प्रतिबद्ध हैं । अपवर्तनामें तीन गाथाएँ और कृष्टीकरणमें ग्यारह गाथाएँ निबद्ध हैं ॥७॥

विशेषार्थ— चारित्रमोहनीय कर्मके क्षयका प्रारम्भ करनेवाला जीव 'प्रस्थापक' कहलाता है । उसके विषयमें 'संक्रामयपट्टवयस्स परिणामो केरिसो हवे' इस गाथासे लेकर 'किंदिदियाणि कम्मणि' इस गाथा तक चार गाथाएँ निबद्ध हैं । चारित्रमोहनीयके क्षपण करनेवाले जीवकी नवे गुणस्थानमें अन्तरकरणके पश्चात् 'संक्रामक' यह संज्ञा दी जाती है । उसके विषयमें 'संक्रामणपट्टव०' इस गाथासे लेकर 'बंधो व संकमो वा उदयो वा' इस गाथा तक चार गाथाएँ निबद्ध हैं । चारित्रमोहकी स्थितिके हास करनेको अपवर्तना कहते हैं । इसके विषयमें 'कि अंतरं करेतो' इस गाथासे लेकर 'द्विदि अणुभागे अंसे' इस गाथा तक तीन गाथाएँ निबद्ध हैं । कषायोके खण्ड करनेको कृष्टीकरण कहते हैं । इसके विषयमें 'केवडिया किट्ठीओ' इस गाथासे लेकर 'किट्ठीकदम्मि कम्मे के वीचारा दु मोहणीयस्स' इस गाथा तक ग्यारह गाथाएँ निबद्ध हैं ।

कृष्टियोंकी क्षपणामें चार गाथाएँ निबद्ध हैं । क्षीणमोह-वीतराग-छद्मस्थके विषयमें एक गाथा है । संग्रहणीके विषयमें एक गाथा सम्बद्ध है । इस प्रकार सब मिलाकर चारित्रमोह-क्षपणा नामके पन्द्रहवें अर्थाधिकारमें अट्ठाईस गाथाएँ प्रतिबद्ध हैं ॥८॥

विशेषार्थ— चारो संज्वलन कषायोकी जो बारह कृष्टियों की जाती हैं उनके क्षपणाका प्रतिपादन करनेवाली 'किं वेदेतो किट्ठिं खवेदि' इस गाथासे लेकर 'किट्ठीगे किट्ठिं पुण' इस गाथा तक चार गाथाएँ हैं । मोहकर्मकी समस्त प्रकृतियोंके क्षीण हो जानेपर क्षीणमोह संज्ञा प्राप्त होती है । उसके विषयमें 'खीणेषु कसाणसु य सेसाणं' यह एक गाथा है । समस्त अधिकारके उपसंहार करनेवाली गाथाको संग्रहणी कहते हैं । ऐसी 'संक्रामणमोवट्टण०' यह एक गाथा है । इस प्रकार इन सब गाथाओका योग (४ + ४ + ३ + ११ + ४ + १ + १ = २८) अट्ठाईस होता है । चारित्रमोहकी क्षपणा-सम्बन्धी इन अट्ठाईस गाथाओको पूर्वोक्त चौंसठ गाथाओमें मिला देनेपर समस्त गाथाओका जोड़ (६४ + २८ = ९२) वानवै होता है ।

चारित्रमोहक्षपणा नामके पन्द्रहवें अर्थाधिकारमें जो अट्ठाईस गाथाएँ बतलाई गई हैं, उनमें सूत्रगाथाएँ कितनी हैं और असूत्रगाथाएँ कितनी हैं, यह बतलानेके लिए आचार्य दो गाथासूत्र कहते हैं—

किट्टीकयवीचारे संगहणी शीणसोहपट्टवए ।
 सत्तेदा गाहाओ अण्णाओ सभासगाहाओ ॥१॥
 संकायण ओवट्टण किट्टीखवणाए एकवीसं तु ।
 एदाओ सुत्तगाहाओ सुण अण्णा भासगाहाओ ॥१०॥
 पंच य तिण्णि य दो छक्क चउक्क तिण्णि तिण्णि एक्का य ।
 चत्तारि य तिण्णि उभे पंच य एकं तह य छक्कं ॥११॥
 तिण्णि य चउरो तह दुग चत्तारि य होति तह चउक्कं च ।
 दो पंचेव य एक्का अण्णा एक्का य दस दो य ॥१२॥

कृष्टि-सम्बन्धी ग्यारह गाथाओंमेंसे ग्यारहवीं वीचार-सम्बन्धी एक गाथा, संग्र-
 हणी-सम्बन्धी एक गाथा, शीणमोह-सम्बन्धी एक गाथा और प्रस्थापक-सम्बन्धी चार
 गाथाएँ; इस प्रकार ये सात गाथाएँ सूत्रगाथाएँ नहीं हैं। इनके सिवाय शेष अन्य
 सभाष्य गाथाएँ हैं। संक्रामण-सम्बन्धी चार गाथाएँ, अपवर्तना सम्बन्धी तीन गाथाएँ,
 कृष्टि-सम्बन्धी दश गाथाएँ और कृष्टि-क्षपणा-सम्बन्धी चार गाथाएँ; ये सब मिलाकर
 इक्कीस सूत्र-गाथाएँ हैं। अब इन इक्कीस सूत्र-गाथाओंकी जो अन्य भाष्य-गाथाएँ हैं,
 उन्हें सुनो ॥९-१०॥

विशेषार्थ—पृच्छारूपसे अनेक अर्थोंकी सूचना करनेवाली गाथाओंको सूत्रगाथा
 कहते हैं और उन पृच्छाओंका अर्थ-व्याख्यान करनेवाली गाथाओंको भाष्यगाथा अथवा
 असूत्रगाथा कहते हैं। प्रकृतमें उक्त इक्कीस मूल गाथाओंके अर्थके व्याख्यान करनेवाली
 छियासी अन्य भी गाथाएँ पाई जाती हैं, जिन्हें भाष्यगाथा गाथा कहते हैं।

वे भाष्य-गाथाएँ कौन-कौन हैं, और किस-किस अर्थमें कितनी-कितनी भाष्य-
 गाथाएँ हैं, यह बतलाते हुए भाष्य-गाथाओंके प्ररूपण करनेके लिए आगे की दो सूत्र-गाथाएँ
 कहते हैं—

चारित्रमोहक्षपणा-सम्बन्धी इक्कीस सूत्र-गाथाओंकी भाष्य-गाथा-संख्या
 क्रमशः पाँच, 'तीन, दो और छह', चार, तीन, तीन, एक, चार, तीन, दो, 'पाँच,
 एक और छह', तीन, चार, दो, चार, चार, दो, पाँच, एक, एक, दश और
 दो हैं ॥११-१२॥

विशेषार्थ—नवे गुणस्थानमें अन्तरकरण करनेपर जीव संक्रामक कहलाता है,

१ तदर्थ मूलगाहाओ णाम सुत्तगाहाओ, पुच्छामेत्तेण सूचिदाणेगत्थाओ। भासगाहा सव्वपेक्खाओ।
 भासगाहाओ त्ति वा वक्खाणगाहाओ त्ति वा विवरणगाहाओ त्ति वा एवढो। जयध०

उसके वर्णनमें चार मूल गाथाएँ हैं। उनमेंसे 'संक्रामणपट्टवगस किट्टिदियाणि पुव्ववद्वाणि' यह प्रथम मूल सूत्र-गाथा है। इसके अर्थका व्याख्यान करनेवाली पाँच भाष्य-गाथाएँ हैं। जो कि 'संक्रामणपट्टवगस्स' इस गाथासे लेकर 'संकंतम्मि य णियमा' इस गाथा तक जानना चाहिए। 'संक्रामणपट्टवगो' इस संक्रमण-सम्बन्धी दूसरी गाथाके तीन अर्थ हैं। उनमेंसे 'संक्रामणपट्टवओ के वंधदि' इस प्रथम अर्थमें तीन भाष्य-गाथाएँ हैं। जो कि 'वस्ससदसहस्साइ' इस गाथासे लेकर 'सव्वावरणीयाणं जेसि' इस गाथा तक जानना चाहिए। 'के च वेदयदि अंसे' इस दूसरे अर्थमें दो भाष्य-गाथाएँ प्रतिबद्ध हैं। जिनमें पहली 'णिहा य णीचगोदं' और दूसरी 'वेदे च वेदणीए' इत्यादि गाथा है। 'संक्रामेदि य के के' इस तीसरे अर्थमें छह भाष्य गाथाएँ हैं। जो कि 'सव्वस्स मोहणीयस्स' इस गाथासे लेकर 'संक्रामयपट्टवगो माणकसायस्स' इस गाथा तक जानना चाहिए। 'बंधो व संकमो वा' इस तीसरी मूलगाथाकी चार भाष्य-गाथाएँ हैं। जो कि 'बंधेण होदि उदओ अहिओ' इस गाथासे लेकर 'गुणसेदि अणंतगुणेणूणाए' इस गाथा तक जानना चाहिए। 'बंधो व संकमो वा उदओ वा' इस चौथी मूलगाथाकी तीन भाष्य गाथाएँ हैं। जो कि 'बंधोदएहि णियमा' इस गाथासे लेकर 'गुणदो अणंतहीणं वेदयदि' इस गाथा तक होती हैं। इस प्रकार 'संक्रामए वि चत्तारि' इस गाथाखंडकी २३ भाष्य-गाथाएँ कही गईं। अपवर्तना-सम्बन्धी तीन मूलगाथाएँ हैं। उनमेंसे 'कि अंतरं करेतो' इस पहली मूलगाथाकी तीन भाष्य गाथाएँ हैं। जो कि 'ओवट्टणा जहण्णा आवलिया ऊणिया तिभागेण' इस गाथासे लेकर 'ओक्कट्टदि जे अंसे' इस गाथा तक है। 'एक्कं च ट्ठिदिविसेसं' इस दूसरी मूलगाथाकी 'एक्कं च ट्ठिदिविसेसं तु असंखेज्जेसु' यह एक भाष्यगाथा है। 'ट्ठिदिअणुभागे अंसे' इस तीसरी मूलगाथाकी चार भाष्य-गाथाएँ हैं। जो कि 'ओवट्टेदि ट्ठिदि पुण' इस गाथासे लेकर 'ओवट्टणमुव्वट्टण किट्टीवज्जेसु' इस गाथा तक जानना चाहिए। इस प्रकार अपवर्तनासम्बन्धी तीनों मूलगाथाओकी भाष्यगाथाएँ कही गईं। कृष्टि-सम्बन्धी ग्यारह मूलगाथाएँ हैं। उनमें 'केवडिया किट्टीओ' यह पहली मूलगाथा है। इसके अर्थका व्याख्यान करनेवाली तीन भाष्यगाथाएँ हैं, जो कि 'वारह णव छ तिण्णि य किट्टीओ होति' इस गाथासे लेकर 'गुणसेदी अणंतगुणा लोभादी' इस गाथा तक जानना चाहिए। 'कदिसु च अणुभागेसु च' इस दूसरी मूलगाथाकी दो भाष्यगाथाएँ हैं, जो कि 'किट्टी च ट्ठिदिविसेसेसु' इस गाथासे लेकर 'सव्वाओ किट्टीओ विदियट्ठिदीए' इस गाथा तक जानना चाहिए। 'किट्टी च पदेसग्गेणाणुभागगेण' इस तीसरी मूलगाथाके तीन अर्थ हैं। उनमेंसे 'किट्टी च पदेसग्गेण' इस प्रथम अर्थमें पाँच भाष्यगाथाएँ हैं। जो कि 'विदियादो पुण पढमा' इस गाथासे लेकर 'एसो कमो च कोहे' इस गाथा तक जानना चाहिए। 'अणु-भागग्गेण' इस दूसरे अर्थमें 'पढमा च अणंतगुणा विदियादो' यह एक ही भाष्यगाथा है। 'का च कालेण' इस तीसरे अर्थमें छह भाष्यगाथाएँ हैं, जो कि 'पढमसमय-किट्टीणं कालो'

इस गाथासे लेकर 'वेदगकालो किट्टी व' इस गाथा तक जानना चाहिए। 'कदिमु गदीसु भवेसु अ' इस चौथी मूलगाथाकी तीन भाष्यगाथाएँ हैं। वे 'दोसु गदीसु अभज्जाणि' इस गाथासे लेकर 'उक्कस्से अणुभागे टिट्ठि उक्कस्साणि' इस गाथा तक जानना चाहिए। 'पज्जत्तापज्जत्ते तथा' इस पाँचवी मूलगाथाकी चार भाष्यगाथाएँ हैं। वे 'पज्जत्तापज्जत्ते मिच्छत्ते' इस गाथासे लेकर 'कम्माणि अभज्जाणि दु' इस गाथा तक जानना। 'किंलेस्साए वद्धाणि' इस छठी मूलगाथाकी दो भाष्यगाथाएँ हैं। वे 'लेस्सा साट्ठ असादे च' इस गाथासे लेकर 'एदाणि पुव्ववद्धाणि' इस गाथा तक जानना। 'एगसमयपवद्धा पुण अच्छुद्धा' इस सातवी मूलगाथाकी चार भाष्यगाथाएँ हैं। वे 'छण्हं आवलियाणं अच्छुद्धा' इस गाथासे लेकर 'एदे समयपवद्धा' इस गाथा तक जानना। 'एगसमयपवद्धाणं सेसाणि' इस आठवी मूलगाथाकी चार भाष्यगाथाएँ हैं। वे 'एक्कम्मि टिट्ठिविसेमे' इस गाथासे लेकर 'एदेण अंतरेण दु' इस गाथा तक जानना। 'किट्टीकदम्मि कम्मे' इस नवी मूलगाथाकी दो भाष्यगाथाएँ हैं। वे 'किट्टीकदम्मि कम्मे णामागोदाणि' इस गाथासे लेकर 'किट्टीकदम्मि कम्मे सादं सुहणाममुच्चगोदं च' इस गाथा तक जानना। 'किट्टीकदम्मि कम्मे के वंधदि' इस दशवी मूलगाथाकी पाँच भाष्यगाथाएँ हैं। वे 'दससु च वस्सस्संतो वंधदि' इस गाथासे लेकर 'जसणाममुच्चगोदं वेदयदे' इस गाथा तक जानना। 'किट्टीकदम्मि कम्मे के वीचारा दु मोहणीयस्स' इस ग्यारहवी मूलगाथाकी कोई भाष्यगाथा नहीं है, क्योंकि, वह सुगम है। इस प्रकार कृष्टि-सम्बन्धी ग्यारह मूलगाथाओंकी भाष्यगाथाएँ कही गईं। कृष्टियोंकी क्षपणामे चार मूलगाथाएँ प्रतिबद्ध हैं। उनमेंसे 'किं वेदेतो किट्ठि खवेदि' यह पहली मूलगाथा है। इसकी 'पढमं विदियं तदियं वेदेतो' यह एक भाष्यगाथा है। 'जं वेदेतो किट्ठि खवेदि' इस दूसरी मूलगाथाकी 'जं चावि संछुहंतो खवेदि किट्ठि' यह एक भाष्यगाथा है। 'जं जं खवेदि किट्ठि' इस तीसरी मूलगाथाकी दश भाष्यगाथाएँ हैं। वे 'बंधो व संकमो वा णियमा सव्वेसु टिट्ठिविसेसेसु' इस गाथासे लेकर 'पच्छिमआवलियाए समयूणाए' इस गाथा तक जानना। 'किट्टीदो किट्ठि पुण संकमदि' इस चौथी मूलगाथाकी दो भाष्यगाथाएँ हैं। वे 'किट्टीदो किट्ठि पुण संकमदे णियमसा' इस गाथासे लेकर 'समयूणा च पविट्ठा आवलिया' इस गाथा तक जानना। इस प्रकार कृष्टियोंकी क्षपणा-सम्बन्धी चारों मूलगाथाओंकी भाष्यगाथाएँ कही गईं।

उक्त दो गाथाओंसे कही गई समस्त भाष्यगाथाओंकी संख्याका योग छयासी (५ + '३ + २ + ६' + ४ + ३ + ३ + १ + ४ + ३ + २ + '५ + १ + ६' + ३ + ४ + २ + ४ + ४ + २ + ५ + १ + १ + १० + २ = ८६) होता है। इन छयासी गाथाओंमें पूर्वोक्त अट्ठाईस मूलगाथाओंके मिला देनेपर चारित्रमोहनीयके क्षपणा नामक पन्द्रहवें अर्थाधिकारमें निबद्ध गाथाओंकी संख्या एक सौ चौदह होती है। इनमें प्रारम्भिक चौदह - अर्थाधिकारोंकी चौसठ गाथाओंके मिला देनेपर समस्त गाथाओंकी संख्या एक सौ अठहत्तर हो जाती है।

(१) पेज-दोसविहती द्विदि अणुभागे च बंधगे चैय ।

वेदग उवजोगे वि य चउट्टाण वियंजणे चैय ॥१३॥

(२) सम्भत्त देसविरयी संजम उवसामणा च खवणा च ।

दंसण-चरित्तमोहे अद्धापरिमाणणिहेसो ॥१४॥

७. अत्थाहियारो पण्णारसविहो अण्णेण पयारेण ।

अब कसायपाहुडके पन्द्रह अर्थाधिकारोंके निरूपण करनेके लिए गुणधराचार्य दो सूत्रगाथाएँ कहते हैं—

कसायपाहुडमें वर्णन किये जानेवाले पन्द्रह अर्थाधिकारोंके नाम इस प्रकार हैं—१ त्रेयोद्वेषविभक्ति, २ स्थितिविभक्ति, ३ अनुभागविभक्ति, ४ अकर्मबन्धकी अपेक्षा बन्धक, ५ कर्मबन्धकी अपेक्षा बन्धक अर्थात् संक्रामक, ६ वेदक, ७ उपयोग, ८ चतुःस्थान, ९ व्यञ्जन, १० दर्शनमोह-उपशामना, ११ दर्शनमोह-क्षपणा, १२ देश-विरति, १३ सकलसंयम, १४ चारित्रमोह-उपशामना, और १५ चारित्रमोह-क्षपणा । ये पन्द्रहों अर्थाधिकार दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय इन दोनों मोहकर्म-प्रकृतियोंसे ही सम्बन्ध रखते हैं । (शेष सात कर्मोंका इस कसायपाहुडमें कोई प्रयोजन नहीं है ।) अद्धापरिमाण नामका कालप्रतिपादक अर्थाधिकार उक्त पन्द्रहों अर्थाधिकारोंमें प्रतिबद्ध समझना चाहिए ॥१३-१४॥

विशेषार्थ—ये दोनों सम्बन्ध-गाथाएँ कही जाती हैं । इनको उपर्युक्त एक सौ अठहत्तर गाथाओमें मिला देनेपर (१७८ + २ = १८०) कसायपाहुडकी एक सौ अस्सी गाथाएँ हो जाती हैं, जिनकी कि सूचना गुणधराचार्यने 'गाहासदे असीदे' इस प्रथम प्रतिज्ञा द्वारा की थी । इन एक सौ अस्सी गाथाओंके अतिरिक्त वारह अन्य भी सम्बन्ध गाथाएँ हैं । अद्धापरिमाणके निर्देश करनेवाली छह गाथाएँ हैं । तथा, 'संकमउवकमविही' इस गाथासे लेकर पैंतीस संक्रमवृत्ति—अर्थात् प्रकृतियोंका संक्रमण बतानेवाली गाथाएँ कहलाती हैं । इन सबको पूर्वोक्त एक सौ अस्सी गाथाओमें मिला देनेपर (१२ + ६ + ३५ + १८० = २३३) दो सौ तेतीस समस्त गाथाओंका जोड़ हो जाता है । ये सभी गाथाएँ गुणधराचार्यके मुख-कमलसे विनिर्गत हैं ।

गुणधराचार्यके उपदेशानुसार पन्द्रह अर्थाधिकारोंका निरूपण करके अब यतिवृषभाचार्य अन्य प्रकारसे पन्द्रह अर्थाधिकारोंको कहते हैं—

चूर्णिसू०—अन्य प्रकारसे अर्थाधिकारके पन्द्रह भेद हैं ॥७॥

विशेषार्थ—गुणधराचार्यके द्वारा पन्द्रह अर्थाधिकारोंके निरूपण कर दिये जानेपर यतिवृषभाचार्य अन्य प्रकारसे पन्द्रह अर्थाधिकारोंको बतलाते हुए क्यो न गुणधराचार्यके विराधक समझे जायं ? इस शंकाका समाधान यह है कि यतिवृषभाचार्य, अन्य प्रकारसे

८. तं जहा-पेजदोसे (१) । ९. विहत्ती द्विदि अणुभागे च (२) । १०. वंधगेत्ति, वंधो च (३), संक्रमो च (४) । ११. वेदए त्ति उदथो च (५), उदीरणा च (६) । १२. उवजोगे च (७) । १३. चउट्टाणे च (८) । १४. वंजणे च (९) । १५. सम्मत्तेत्ति दंसणमोहणीयस्स उवसामणा च (१०), दंसणमोहणीयस्सखणा च (११) । १६. देसविरदी च (१२) । १७. संजमं उवसामणा च खवणा च चरित्तमोहणीयस्स उवसामणा च (१३), खवणा च (१४) । १८. दंसणचरित्तमोहेत्ति पदपरिवरणं । १९. अद्वापरिमाणणिद्वेसो त्ति (१५) । २०. एसो अत्थाहियारो पण्णारसविहो ।

पन्द्रह अर्थाधिकारोको वतलाते हुण भी गुणधराचार्यके विराधक नहीं हैं, क्योंकि, वे उनके वतलाए हुए अर्थाधिकारोका निषेध नहीं कर रहे हैं । किन्तु, अभिप्रायान्तरकी अपेक्षा पन्द्रह अर्थाधिकारोकी एक नवीन दिशा दिखला रहे हैं ।

चूर्णिसू०—वे पन्द्रह अर्थाधिकार इस प्रकार हैं—१ प्रयोद्वेप अर्थाधिकार, २ स्थिति-अनुभागविभक्ति अर्थाधिकार, ३ वंधक अर्थाधिकार, ४ संक्रम अर्थाधिकार, ५ वेदक या उदय-अर्थाधिकार, ६ उदीरणा अर्थाधिकार, ७ उपयोग अर्थाधिकार, ८ चतुःस्थान अर्थाधिकार, ९ व्यंजन अर्थाधिकार, १० सम्यक्त्व अधिकारके अन्तर्गत दर्शनमोहनीय-उपशामना अर्थाधिकार, ११ दर्शनमोहनीय-अपणा अर्थाधिकार, १२ देशविरति अर्थाधिकार, १३ संयम अर्थाधिकारके अन्तर्गत चारित्रमोहनीय-उपशामना अधिकार, १४ चारित्रमोहनीय-क्षपणा अर्थाधिकार और १५ अद्वापरिमाण अर्थाधिकार । यह पन्द्रह प्रकारका अर्थाधिकार है । गाथामे 'दंसणचरित्तमोहे' यह पद पादकी पूतिके लिए दिया गया है ॥८-२०॥

विशेषार्थ—स्थिति-अनुभागविभक्ति नामक दूसरे अर्थाधिकारमे प्रकृतिविभक्ति, क्षीणा-क्षीण-प्रदेश और स्थित्यन्तिक-प्रदेश अर्थाधिकारोका भी ग्रहण किया गया है, क्योंकि प्रकृति-विभक्ति आदिके बिना स्थिति और अनुभागविभक्ति नहीं बन सकती है । यहां यह आशंका की जा सकती है कि यह कैसे जाना कि यतिवृषभाचार्यने ये उपर्युक्त ही पन्द्रह अर्थाधिकार माने हैं ? इसका समाधान यह है कि इन प्रत्येक अर्थाधिकारोके नाम-निर्देशके पश्चात् यतिवृषभाचार्य-द्वारा स्थापित १, २ आदिसं लेकर १५ तकके अंक पाये जाते हैं । दूसरे, आगे चलकर इसी क्रमसे चूर्णि-सूत्रोके द्वारा उक्त अर्थाधिकारोका प्रतिपादन किया गया है, इससे जाना जाता है कि यतिवृषभाचार्यने ये उपर्युक्त ही पन्द्रह अर्थाधिकार माने हैं । जयवलाकारने अन्य प्रकारसे भी कसायपाण्डुके पन्द्रह अर्थाधिकार कहे हैं—१ प्रयोद्वेप अर्थाधिकार, २ प्रकृतिविभक्ति अर्थाधिकार, ३ स्थितिविभक्ति अर्थाधिकार, ४ अनुभाग-विभक्ति अर्थाधिकार, ५ प्रदेशविभक्ति, क्षीणाक्षीण और स्थित्यन्तिक अर्थाधिकार, ६ वन्धक अर्थाधिकार, ७ वेदक अर्थाधिकार, ८ उपयोग अर्थाधिकार, ९ चतुःस्थान अर्थाधिकार, १० व्यञ्जन अर्थाधिकार, ११ सम्यक्त्व अर्थाधिकार, १२ देश-विरति अर्थाधिकार, १३ संयम अर्थाधिकार, १४ चारित्रमोह-उपशामना अर्थाधिकार, और १५ चारित्रमोह-

क्षपणा अर्थाधिकार । अद्वापरिमाण निर्देश नामक कोई स्वतन्त्र अर्थाधिकार नहीं है, क्योंकि, वह सभी अर्थाधिकारोंमें सम्बद्ध है, यही कारण है कि गुणधराचार्यने अन्तदीपक रूपसे सब अधिकारोंके अन्तमें कहते हुए भी तत्सम्बन्धी गाथाओंको सब अर्थाधिकारोंसे पूर्वमें कहा है । इसी प्रकारसे मूल दृष्टिकोणको ध्यानमें रखते हुए भिन्न-भिन्न दिशाओंसे भी कसाय-पाहुडके पन्द्रह अर्थाधिकार जानना चाहिए ।

उपरि-दर्शित तीनों प्रकारके अर्थाधिकारोंका चित्र इस प्रकार है—

गाथासूत्रकार-सम्मत	चूर्णिकार-सम्मत	जयधवलाकार-सम्मत
१ पेजदोसविभक्ति	पेजदोसविभक्ति	पेजदोसविभक्ति
२ स्थितिविभक्ति	स्थिति-अनुभागविभक्ति (प्रकृति-प्रदेशविभक्तिक्षीणाक्षीण और स्थित्यन्तिक)	प्रकृतिविभक्ति
३ अनुभागविभक्ति	बन्ध	स्थितिविभक्ति
४ वन्ध (प्रदेशविभक्ति क्षीणाक्षीण और स्थित्यन्तिक)	संक्रम	अनुभागविभक्ति
५ संक्रम	उदय	प्रदेश-क्षीणाक्षीण और स्थित्यन्तिक विभक्ति
६ वेदक	उदीरणा	बन्धक
७ उपयोग	उपयोग	वेदक
८ चतुःस्थान	चतुःस्थान	उपयोग
९ व्यंजन	व्यंजन	चतुःस्थान
१० दर्शनमोहोपशामना	दर्शनमोहोपशामना	व्यंजन
११ दर्शनमोहक्षपणा	दर्शनमोहक्षपणा	सम्यक्त्व
१२ संयमासंयमलब्धि	देशविरति	देशविरति
१३ चारित्रलब्धि	चारित्रमोहोपशामना	संयमलब्धि
१४ चारित्रमोहोपशामना	चारित्रमोहक्षपणा	चारित्रमोहोपशामना
१५ चारित्रमोहक्षपणा	अद्वापरिमाणनिर्देश	चारित्रमोहक्षपणा

गुणधराचार्यने प्रथम गाथासूत्रमें इस ग्रन्थके पेजदोसपाहुड और कसायपाहुड ये दो

२१ तस्स पाहुडस्स दुवे णामधेज्जाणि । तं जहा—पेजदोसपाहुडेत्ति वि, कमा-
यपाहुडेत्ति वि । तत्थ अभिवाहरण-णिप्पण्णं पेजदोसपाहुडं । २२. णयदां णिप्पण्णं कसा-
यपाहुडं । २३. तत्थ पेज्जं णिक्खिवियव्वं-णामपेज्जं ठव्वणपेज्जं दव्वपेज्जं भावपेज्जं चेदि ।

नाम किस अभिप्रायसे कहे हैं इस बातको बतलाते हुए यतिवृषभाचार्य चूर्णिसूत्र कहते हैं—

चूर्णिसू०—उस पाहुडके दो नाम हैं । वे इस प्रकार हैं—पेजदोसपाहुड (प्रेयो-
द्वेषप्राभृत) और कसायपाहुड (कपायप्राभृत) । इनमेसे पेजदोसपाहुड यह अभिव्याहरणसे
निष्पन्न हुआ अर्थानुसारी नाम है ॥२१॥

विशेषार्थ—अपनेमे प्रतिबद्ध अर्थके व्याहरण अर्थान् कथनको अभिव्याहरण कहते
हैं । पेजदोसपाहुड यह अभिव्याहरण-निष्पन्न नाम है; क्योंकि पेज रागभावको कहते हैं और
दोस नाम द्वेषभावका है । ये राग और द्वेषरूप अर्थ न केवल पेज शब्दके द्वारा कहे जा
सकते हैं और न केवल दोस शब्दके द्वारा ही । यदि इन दोनों अर्थोंका कथन केवल पेज
या दोस शब्दके द्वारा माना जाय, तो राग और द्वेषमे पर्यायभेद नहीं बनेगा । यतः राग
और द्वेषमे पर्याय-भेद पाया जाता है, अतः इनके वाचक शब्द भी स्वतंत्र ही होना चाहिए ।
इस प्रकार राग और द्वेष—जो कि संसार-परिभ्रमणके कारण हैं—उनके बंध और मोक्षका
इस पाहुड—प्राभृत या शास्त्रमे वर्णन किया गया है । इसलिए पेजदोसपाहुड यह अभि-
व्याहरण-निष्पन्न अर्थानुसारी नाम है । पेजदोसपाहुड यह नाम समभिरुद्धनयकी अपेक्षा
जानना चाहिए, क्योंकि समभिरुद्धनय अविवक्षित अनेक अर्थोंको छोड़कर विवक्षित एक
अर्थको ही ग्रहण करता है ।

चूर्णिसू०—कसायपाहुड यह नाम नयसे निष्पन्न है ॥२२॥

विशेषार्थ—जीवके उत्तमक्षमा आदि स्वाभाविक भावोंके या चारित्ररूप धर्मके विनाश
करनेसे क्रोध आदि कपाय कहे जाते हैं । कपाय सामान्य है तथा राग और द्वेष विशेष हैं ।
कपायका पेज और दोस दोनोंमे अन्वय पाया जाता है, अतएव कसायपाहुड यह नाम
द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षा जानना चाहिए । तथा राग और द्वेष कपायोंसे उत्पन्न होते हैं ।
इस ग्रन्थमे कपायोंकी इन्हीं रागद्वेषरूप पर्यायोंका वर्णन किया गया है इस अपेक्षा पेजदोस-
पाहुड यह नाम पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षासे निष्पन्न हुआ है, तथापि उसकी यहाँ विवक्षा
नहीं की है । क्योंकि, चूर्णिकारको उसका अभिव्याहरण-निष्पन्न अर्थ बताना अभीष्ट है ।

पेज, दोस, कसाय और पाहुड, ये सब शब्द अनेक अर्थोंमे वर्तमान हैं,
इसलिए प्रयोजनभूत अर्थके निरूपण करनेके लिए यतिवृषभाचार्य निक्षेपसूत्र कहते हैं—

चूर्णिसू०—उनमेसे पहले पेज अर्थात् प्रेय का निक्षेप करना चाहिए—नामप्रेय,
स्थापनाप्रेय, द्रव्यप्रेय और भावप्रेय ॥२३॥

१ अहिमुहस्स अप्पाणम्मि पडिबद्धस्स अत्थस्स वाहरण कहण, अभिवाहरण । तेण णिप्पण्ण अभिवा-
हरणणिप्पण्णं ।

२४. णेगम-संगह-व्यवहारा सव्वे इच्छंति । २५. उजुसुदो ठवणवज्जे ।
२६. (सहणयस्स) णामं भावो च ।

विशेषार्थ—प्रेय यह शब्द प्रेयनामनिक्षेप है । किसी चेतन या अचेतन पदार्थमें 'यह वही है' इस प्रकारसे प्रेयभावकी स्थापना करनेको प्रेयस्थापनानिक्षेप कहते हैं । अतीत या अनागत कालमें रागरूप होनेवाले या वर्तमानमें रागविषयक ज्ञानसे रहित पुरुषको प्रेयद्रव्यनिक्षेप कहते हैं । वर्तमानकालमें रागभावसे परिणत या रागशास्त्रके ज्ञायक पुरुषको प्रेयभावनिक्षेप कहते हैं ।

अब चूर्णिकार उक्त निक्षेपोंके स्वामिस्वरूप नयोंका निरूपण करते हैं—

चूर्णिसू०—नैगमनय, संग्रहनय और व्यवहारनय, ये तीनों द्रव्यार्थिकनय उपर्युक्त सभी निक्षेपोंको स्वीकार करते हैं ॥२४॥

विशेषार्थ—यतः नामनिक्षेप तद्भव-सामान्य और सादृश्यसामान्यको अवलम्बन करके प्रवृत्त होता है, स्थापनानिक्षेप भी सादृश्य-सामान्यको अवलम्बन करता है और द्रव्यनिक्षेप भी दोनों प्रकारके सामान्योंके निमित्तसे होता है, अतएव इन तीनों निक्षेपोंके स्वामी नैगम-नय, संग्रहनय और व्यवहारनय होते हैं, क्योंकि, ये तीनों द्रव्यार्थिकनय हैं और सामान्य-को विषय करना ही द्रव्यार्थिकनयका काम है । वर्तमान पर्यायसे उपलक्षित द्रव्यको भाव कहते हैं, इसलिए, अथवा द्रव्यको छोड़कर पर्याय पाई नहीं जाती है, इसलिए भावनिक्षेपके भी स्वामी उक्त तीनों द्रव्यार्थिकनय बन जाते हैं ।

चूर्णिसू०—ऋजुसूत्रनय स्थापनानिक्षेपको छोड़कर शेष तीन निक्षेपोंको ग्रहण करता है ॥२५॥

विशेषार्थ—ऋजुसूत्रनय स्थापनानिक्षेपको विषय नहीं करता है, इसका कारण यह है कि इस नयमें सादृश्यलक्षण सामान्यका अभाव है । और, सादृश्य अथवा एकत्वके बिना स्थापनानिक्षेप संभव नहीं है । इसलिए ऋजुसूत्रनय स्थापनानिक्षेपको छोड़कर शेष तीन निक्षेपोंको ही ग्रहण करता है ।

चूर्णिसू०—नामनिक्षेप और भावनिक्षेप शब्दनयके विषय हैं ॥२६॥

विशेषार्थ—व्यंजननय, पर्यायनय और शब्दनय, ये तीनों एकार्थक नाम हैं । शब्दनयके शब्द, समभिरूढ और एवंभूत, ये तीन भेद हैं । ये तीनों ही नय नामनिक्षेप और भावनिक्षेपको विषय करते हैं, क्योंकि, शब्दनयोमें स्थापनानिक्षेप और द्रव्यनिक्षेपका व्यवहार नहीं हो सकता है ।

पहले बतलाये गये चार निक्षेपोंमेंसे आदिके दो निक्षेपोंका अर्थ सुगम है, अतएव उन्हें न कहकर द्रव्यनिक्षेपके भेदरूप नोआगम द्रव्यप्रेयका स्वरूप-निरूपण करनेके लिए उत्तर-सूत्र कहते हैं—

२७. नोआगमद्रव्यपेज्जं त्रिविहं—हितं पेज्जं, मुहं पेज्जं, प्रियं पेज्जं । गच्छमा च सत्त भंगा । २८. एदं पेगमएए । २९. संगह-ववहागणं उज्जुमुदम्म च मव्वं दव्वं पेज्जं । ३०. भावपेज्जं ठवणिज्जं ।

चूर्णिसू०—नोकर्मतद्रव्यतिरिक्त-नोआगमद्रव्यप्रैय तीन प्रकारका है—हितप्रैय, सुखप्रैय और प्रियप्रैय । इन तीनोंके गच्छसम्बन्धी सात भंग होते हैं ॥२७॥

विशेषार्थ—रोगादिके उपजमन करनेवाले द्रव्यको हितप्रैय कहते हैं । जैसे—पित्त-ज्वरादिके उपजमनका कारणस्वरूप कड़वी गिलोय आदि । जीवके आल्हादके कारणभूत द्रव्यको सुखप्रैय कहते हैं । जैसे—भृशे पुरुषको मिष्टान्न और प्यास पुरुषको शीतल जल । अपनी रुचिके विषयभूत द्रव्यको प्रियप्रैय कहते हैं । जैसे—माँ, पुत्र, मित्रादि । इस प्रकार नोआगमद्रव्यप्रैयके ये तीन एक-संयोगी स्वतन्त्र भंग हुए । अब द्विसंयोगी भंग कहने कहते हैं—द्राक्षाफल हितरूप भी है और सुखरूप भी है, क्योंकि, पित्तज्वरवाले पुरुषके स्वास्थ्य और आल्हादका कारण है (१) । निम्ब हितरूप भी है और प्रिय भी है, क्योंकि, तित्तप्रिय पित्तज्वराभिभूत पुरुषके स्वास्थ्य और अनुरागका कारण है (२) । दुग्ध सुखकर भी है और प्रिय भी है, क्योंकि, आमव्याधिसे पीड़ित एवं मधुर-प्रिय पुरुषके आल्हाद और अनुरागका कारण है । किन्तु, उक्त पुरुषके लिए दुग्ध हितकारक नहीं है, क्योंकि, वह आमका वर्धक होता है (३) । इस प्रकार ये द्विसंयोगी तीन भंग हुए । मिश्री-मिश्रित दुग्ध हित, सुख और प्रिय है, क्योंकि स्वस्थ पुरुषके आल्हाद, सुख और अनुरागका कारण होता है । यह त्रिसंयोगी एक भंग है । उक्त सब भंग मिलाकर नोकर्मतद्रव्यतिरिक्त-नोआगम-द्रव्यप्रैयके सात भंग हो जाते हैं ।

चूर्णिसू०—यह नोआगम-द्रव्यप्रैयनिक्षेप नैगमनयका विषय है ॥२८॥

विशेषार्थ—इस निक्षेपको नैगमनयका विषय बतलानेका कारण यह है कि एक ही वस्तुमें युगपत् और क्रमशः हित, सुख और प्रियभाव माना गया है, तथा हित, सुख और प्रियस्वरूप पृथग्भूत भी द्रव्योके प्रैयभावकी अपेक्षा एकत्व देखा जाता है ।

चूर्णिसू०—संग्रहनय, व्यवहारनय और ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षा सर्व द्रव्य प्रैय है ॥२९॥

विशेषार्थ—प्रत्येक द्रव्य किसी न किसी जीवके, किसी न किसी कालमें प्रिय देखा जाता है । यहाँतक कि मरणका कारणभूत विष भी जीवनसे निराश हुए जीवोके प्रिय देखा जाता है । इसलिए उक्त तीनों नयोकी दृष्टिमें सभी द्रव्य प्रैय है ।

चूर्णिसू०—भावप्रैयनिक्षेपको स्थापित करना चाहिए ॥३०॥

विशेषार्थ—भावप्रैयनिक्षेपका वर्णन करना क्रमप्राप्त था, किन्तु वह बहुवर्णनीय है, और इस ग्रन्थका प्रधान विषय है, इस कारण चूर्णिसूत्रकार उसे स्थापित कर रहे हैं; क्योंकि, आगे यथावसर अनेक अनुयोगद्वारासे विस्तारपूर्वक उसका वर्णन किया जायगा ।

३१. दोसो णिक्खिवियव्वो—णामदोसो ठवणदोसो दव्वदोसो भावदोसो चेदि ।
 ३२. णेमम-संगह-ववहारा सव्वे णिक्खेवे ह्छंति । ३३. उज्जुसुदो ठवणवज्जे ।
 ३४. सद्दणयस्स णामं भावो च । ३५. णोआगमदव्वदोसो णाम जंदव्वं जेण उवघा-
 देण उवभोगं ण एदि तस्स दव्वस्स सो उवघादो दोसो णाम । ३६ तं जहा ।
 ३७. साड्डियाए अग्गिदद्धं वा मूसयभक्खियं वा एवमादि ।

अब द्वेषका निक्षेप करनेके लिए उत्तरसूत्र कहते हैं—

चृणिं०—द्वेषका निक्षेप करना चाहिए— नामद्वेष, स्थापनाद्वेष, द्रव्यद्वेष और भावद्वेष ॥ ३१ ॥

विशेषार्थ—‘द्वेष’ इस प्रकारके नामको नामद्वेष कहते हैं । किसी चेतन या अचेतन पदार्थमें द्वेषभावके न्यासको स्थापनाद्वेष कहते हैं । अतीत या अनागतकालमें द्वेषरूप होनेवाले जीवको द्रव्यद्वेष कहते हैं । वर्तमानकालमें द्वेषभावसे परिणत पुरुषको भावद्वेष कहते हैं ।

अब उक्त चारों प्रकारके द्वेषनिक्षेपोंके स्वामिस्वरूप नयोके प्रतिपादन करनेके लिए उत्तरसूत्र कहते हैं—

चृणिं०—नैगम, संग्रह और व्यवहारनय सर्व द्वेषनिक्षेपोंको स्वीकार करते हैं । इसका कारण यह है कि द्वेषका आधार द्रव्य ही होता है और द्रव्यको विषय करना द्रव्यार्थिकनयोका कार्य है । ऋजुसूत्रनय स्थापनानिक्षेपको छोड़कर शेष तीन निक्षेपोंको— नामद्वेष, द्रव्यद्वेष और भावद्वेषको—विषय करता है क्योंकि, इस नयम स्थापनाद्वेषको विषय करना संभव नहीं है । इसका कारण यह है कि ऋजुसूत्रनय द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके भेदसे पदार्थोंको भेदरूप ग्रहण करता है, इसलिए उनमें एकत्व नहीं हो सकता है और इसीलिए बुद्धिके द्वारा अन्य पदार्थमें अन्य पदार्थकी स्थापना नहीं की जा सकती है । शब्दनयके नामद्वेष और भावद्वेष विषय है इसका कारण यह है कि शब्दनयोमें स्थापना और द्रव्यनिक्षेपका व्यवहार संभव नहीं है ॥ ३२-३४ ॥

अब, नामद्वेष, स्थापनाद्वेष, और आगमद्रव्यद्वेषनिक्षेप तथा नोआगमद्रव्यद्वेषके भेदस्वरूप ज्ञायकशरीर और भव्यद्रव्यनिक्षेप सुगम है, इसलिए उनका स्वरूप नहीं कहकर तद्व्यतिरिक्तनोआगमद्रव्यद्वेषके स्वरूपनिरूपणके लिए उत्तरसूत्र कहते हैं—

चृणिं०—जो द्रव्य जिस उपादानके निमित्तसे उपभोगको नहीं प्राप्त होता है, वह उपादान उस द्रव्यका द्वेष कहलाता है, इसीका नाम तद्व्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यद्वेष-निक्षेप है । जैसे—साड़ीका अग्निसे दग्ध होना, मूषकोंसे खाया जाना, इत्यादि ॥ ३५-३७ ॥

विशेषार्थ—शरीर-संस्कारके कारणभूत साड़ी आदि उपभोग्य वस्तुओंको यदि अचानक अग्नि लग जाय, अथवा चूहे काट खाएँ, या इसी प्रकारका अन्य भी कोई उपद्रव हो जाय, तो निमित्तशास्त्रके अनुसार उनका फल दुर्भाग्यकी प्राप्ति, सन्तति और सम्पत्तिका

३८. भावदोसो ठवणिज्जो । ३९. कसाओ ताव णिक्खिवियव्वो-णामकसाओ ठवणकसाओ द्वक्कसाओ पच्चयकसाओ समुत्पत्तियकसाओ आदेसकसाओ रसकसाओ भावकसाओ चेदि । ४०. णेगमो सव्वे कमाए इच्छदि । ४१. संगह-ववहारा समुत्पत्तियकसायमादेसकसायं च अवणंति ।

विनाश, इत्यादि होता है । अतएव अग्निदाह, मूषकभक्षण, टिड्डीपात, छत्रभंग आदिको तद्व्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यरूप उपवातद्वेष कहा है ।

चूर्णिसू०—भावद्वेषको स्थापन करना चाहिए । क्योंकि, उसका वक्तव्य विषय अधिक है । अतएव पहले अल्प वक्तव्योका निरूपण करके पीछे भावद्वेषका प्रतिपादन किया जायगा ॥३८॥

उक्त प्रकारसे प्रेय और द्वेष, इन दोनोंका निक्षेप करके अब कषायके भी निक्षेपके लिए उत्तरसूत्र कहते हैं—

चूर्णिसू०—अब कषायोका निक्षेप करना चाहिए—(वह कषायनिक्षेप आठ प्रकारका होता है—) नामकषाय, स्थापनाकषाय, द्रव्यकषाय, प्रत्ययकषाय, समुत्पत्तिकषाय, आदेशकषाय, रसकषाय और भावकषायनिक्षेप ॥३९॥

यतः कषायोके स्वामिभूत-नयोको वतलाये विना कषायनिक्षेपोका अर्थ भलीभाँति समझने नहीं आ सकता, अतएव अब चूर्णिसूत्रकार उक्त कषायनिक्षेपोके अर्थको छोड़ करके कषायनिक्षेपोके स्वामिस्वरूप नयोके निरूपण करनेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं—

चूर्णिसू०—नैगमनय ऊपर वतलाये गये सभी-आठो प्रकारके-कषायनिक्षेपोको स्वीकार करता है । इसका कारण यह है कि नैगमनय भेद और अभेद, अथवा संग्रहके द्वारा सर्व-लोकवर्ती पदार्थोको विषय करता है, अर्थात् समस्त लोकव्यवहार नैगमनयके आश्रित ही चलता है, इसलिए उसमे सभी कषायनिक्षेपोका विषय होना संभव है ॥४०॥

चूर्णिसू०—संग्रहनय और व्यवहारनय समुत्पत्तिककषाय और आदेशकषायको विषय नहीं करते हैं ॥४१॥

विशेषार्थ—संग्रहनय और व्यवहारनय, समुत्पत्तिककषाय और आदेशकषायको विषय नहीं करते हैं, किन्तु शेष छह प्रकारके कषायनिक्षेपोको विषय करते हैं । इसका कारण यह है कि समुत्पत्तिककषायका प्रत्ययकषायमे अन्तर्भाव हो जाता है । क्योंकि, प्रत्यय दो प्रकारका होता है—आभ्यन्तर और बाह्य । अनन्तानन्त कर्मपरमाणुओके समागमसे समुत्पन्न, जीवप्रदेशोके साथ एकताको प्राप्त, प्रकृति, स्थिति और अनुभागके भेदस्वरूप क्रोधादि द्रव्यकर्मस्कन्धको आभ्यन्तर प्रत्यय कहते हैं । क्रोधादिभाव कषायोकी उत्पत्तिके कारणभूत जीवाजीवादि बाहरी द्रव्योको बाह्य प्रत्यय कहते हैं । इसलिए कषायोत्पत्तिके कारणकी अपेक्षा कोई भेद न होनेसे समुत्पत्तिककषायका प्रत्ययकषायमे अन्तर्भाव हो जाता है । इसी प्रकार आदेशकषायभी स्थापनाकषायमे प्रविष्ट हो जाती है, क्योंकि, आदेशकषाय

४२. उजुसुदो एदे च ठवणं च अवणेदि । ४३. तिण्हं सद्दणयाणं णाम-
कसाओ भावकसाओ च । ४४. णोआगमद्व्यकसाओ जहा सज्जकसाओ सिरिसकसाओ
एवमादि । ४५. पच्चयकसाओ णाम कोहवेयणीयस्स कम्मस्स उदएण जीवो कोहो
होदि, तम्हा तं कम्मं पच्चयकसाएण कोहो ।

सद्भावस्थापनात्मक है, अतएव सद्भाव और असद्भावरूप स्थापनाकपायमें उसका अन्तर्भाव
होना स्वाभाविक है ।

चूर्णिसू०—ऋजुसूत्रनय, इन उपर्युक्त समुत्पत्तिककपाय और आदेशकपायको
तथा स्थापनाकपायको विषय नहीं करता है, क्योंकि, ऋजुसूत्रनयका विषय एक समयवर्ती
पदार्थ है, इसलिए उसमें उक्त निक्षेप संभव नहीं है । शब्द, समभिरुद्ध और एवम्भूत, इन
तीनों शब्दनयोंके नामकपाय और भावकपाय विषय है, शेष छह कपाय नहीं ॥४२-४३॥

नामकपाय, स्थापनाकपाय, आगमद्रव्यकपाय, नोआगमजायकशरीरकपाय और
भव्यकपाय, इनका अर्थ सुगम है, इसलिए चूर्णिकार उन्हें नहीं कहकर नोआगमतद्व्यति-
रिक्तद्रव्यकपायके अर्थका निरूपण करते हैं—

चूर्णिसू०—सर्जकपाय, गिरीपकपाय, इत्यादि नोआगमतद्व्यतिरिक्त द्रव्यकपाय
हैं ॥४४॥

विशेषार्थ—सर्ज और गिरीप नामके वृक्ष होते हैं, उनके कपड़े रसको क्रमशः
सर्जकपाय और गिरीपकपाय कहते हैं । नैगमनयकी अपेक्षा कभी द्रव्य भी कपाय रसका
विशेषण होता है और कभी कपायरस भी द्रव्यका विशेषण होता है, इसलिए द्रव्यके कपाय-
को भी द्रव्य-कपाय कहते हैं, और कपायरूप द्रव्यको भी द्रव्य-कपाय कहते हैं । इस अपेक्षा
सर्जकपाय, गिरीपकपाय, अमलककपाय इत्यादिको नोआगमतद्व्यतिरिक्त द्रव्यकपाय जानना
चाहिए ।

अत्र प्रत्ययकपायका स्वरूप कहते हैं—

चूर्णिसू०—क्रोधवेदनीयकर्मके उदयमे जीव क्रोधकपायरूप होता है, इसलिए प्रत्यय-
कपायकी अपेक्षा वह क्रोधकर्म क्रोध कहलाता है ॥४५॥

विशेषार्थ—यहाँपर क्रोधवेदनीय नामक द्रव्यकर्मको प्रत्ययकपाय कहा गया है,
इसका कारण यह है कि द्रव्यकर्मके उदयसे ही क्रोधादि कपाय उत्पन्न होते हैं । यही बात
मान, माया और लोभप्रत्ययकपायके विषयमें भी जानना चाहिए । प्रत्ययकपाय, समुत्पत्तिक-
कपायसे भिन्न है, इसका कारण यह है कि जो जीवसे अभिन्न होकर कपायको उत्पन्न
करता है, उसे प्रत्ययकपाय कहते हैं । तथा, जो जीवद्रव्यसे भिन्न होकरके भी कपायको
उत्पन्न करता है, उसे समुत्पत्तिककपाय कहते हैं । इस प्रकारसे दोनों कपायोंमें भेद
पाया जाता है ।

४६. एवं माणवेयणीयरस कम्मस्स उदएण जीवो माणो होदि, तम्हा तं कम्मं पच्चयकसाएण माणो । ४७. मायावेयणीयस्स कम्मरस उदएण जीवो माया होदि, तम्हा तं कम्मं पच्चयकसाएण माया । ४८. लोहवेयणीयस्स कम्मस्स उदएण जीवो लोहो होदि तम्हा तं कम्मं पच्चयकसाएण लोहो । ४९. एवं पोगम-संगद-ववहारणं । ५०. उजुसुदस्स कोहोदयं पडुच्च जीवो कोहकसाओ । ५१. एवं माणादीणं वत्तव्वं । ५२. समुप्पत्तियकसाओ णाम कोहो सिया जीवो सिया णो जीवो । एवमट्ट भंगा । ५३. कथं ताव जीवो ? ५४. मणुस्सं पडुच्च कोहो समुप्पण्णो सो मणुस्सो कोहो ।

चूर्णिसू०—इसी प्रकार मानवेदनीयकर्मके उदयसे जीव मानस्वरूप होता है, इसलिए वह कर्म मानप्रत्ययकपाय है । मायावेदनीयकर्मके उदयसे जीव मायास्वरूप होता है, इसलिए वह कर्म मायाप्रत्ययकपाय है । लोभवेदनीयकर्मके उदयसे जीव लोभस्वरूप होता है, इसलिए वह कर्म लोभप्रत्ययकपाय कहलाता है ॥४६-४८॥

चूर्णिसू०—यह प्रत्ययकणय नैगम, संग्रह और व्यवहार, इन तीनों द्रव्यार्थिक-नयोका विषय है । क्योंकि, कार्यसे अभिन्न कारणके ही प्रत्ययपना माना गया है । क्रोधकपायके उदयकी अपेक्षा जीव क्रोधकपाय कहलाता है, इसलिए ऋजुसूत्र नयकी दृष्टिसे जीव ही क्रोधकपाय है । इसी प्रकार मान, माया आदि कपायोका भी नय-विषयक व्यवहार करना चाहिए ॥४९-५१॥

अत्र समुत्पत्तिककपायका स्वरूप कहते हैं—

चूर्णिसू०—समुत्पत्तिककपायकी अपेक्षा क्वचित् जीव क्रोध है, क्वचित् नोजीव (अजीव) क्रोध है । इस प्रकार आठ भंग होते हैं ॥५२॥

विशेषार्थ—जिस चेतन या अचेतन पदार्थके निमित्तसे क्रोधादि कपाय उत्पन्न होते हैं, वह पदार्थ समुत्पत्तिककपाय कहलाता है । किसी समय एक चेतन या अचेतन पदार्थके निमित्तसे क्रोधादिक उत्पन्न होते हैं और कभी अनेक चेतन और अचेतन पदार्थोंके निमित्तसे क्रोधादिक उत्पन्न होते हुए देखे जाते हैं, इसलिए इन चारोंकी अपेक्षा समुत्पत्तिक-कपायके आठ भंग हो जाते हैं । जो कि इस प्रकार है—१ एक जीवकपाय, २ एक नोजीवकपाय, ३ अनेक जीवकपाय, ४ अनेक नोजीवकपाय, ५ एक जीव, एक नोजीव-कपाय, ६ एक जीव, अनेक नोजीवकपाय, ७ अनेक जीव, एक नोजीवकपाय, और ८ अनेक जीव, अनेक नोजीव कपाय । इनका अर्थ चूर्णिसूत्रकार आगे स्वयं कहेंगे ।

अब आठों भंगोंके उदाहरण प्ररूपण करनेके लिए उत्तरसूत्र कहते हैं—

शंकाचू०—समुत्पत्तिककपायकी अपेक्षानोजीव क्रोध कैसे है ? ॥५३॥

समाधानचू०—जिस मनुष्यके निमित्तसे क्रोध उत्पन्न होता है, वह मनुष्य समुत्पत्तिककपायकी अपेक्षा क्रोध है ॥५४॥

विशेषार्थ—किसी मनुष्यके आक्रोश—गालीगलौज—के सुननेसे कर्म-कलंकित

५५. कथं ताव णोजीवो ? ५६. कट्टं वा लेंडुं वा पडुच्च कोहो समुप्पण्णो तं कट्टं वा लेंडुं वा कोहो । ५७. एवं जं पडुच्च कोहो समुप्पज्जदि जीवं वा णोजीवं वा जीवे वा णोजीवे वा मिस्सए वा सो समुप्पत्तियकसाएण कोहो ।

जीवके क्रोधकपाय उत्पन्न होती हुई देखी जाती है, इसलिए नैगमनयकी अपेक्षा वह मनुष्य क्रोध कह दिया जाता है । यहाँ यह आशंका नहीं करना चाहिए कि अन्य पुरुषके निमित्तसे अन्य पुरुषमें क्रोध कैसे उत्पन्न हो जाता है ? क्योंकि, जिस पुरुषमें क्रोध उत्पन्न हुआ है, उसमें शक्तिरूपसे या कपायोदयसामान्यकी अपेक्षा तो क्रोध विद्यमान ही था, केवल विशेषरूपसे व्यक्त नहीं था, उस व्यक्तिका निमित्तकारण आक्रोशवचन बोलनेवाला अन्य पुरुष हो जाता है इसलिए उसे ही क्रोध कहा है । यही बात मान, माया और लोभकपायोके विषयमें भी जानना ।

शंकाचू०—समुत्पत्तिककपायकी अपेक्षा अजीव क्रोध कैसे है ? ॥५५॥

समाधानचू०—जिस काठ, अथवा ईंट, पत्थर आदिके टुकड़ेके निमित्तसे क्रोध उत्पन्न होता है समुत्पत्तिककपायकी अपेक्षा वह काठ अथवा ईंट, पत्थर आदि क्रोध कहे जाते हैं ॥५६॥

विशेषार्थ—एक जीव तो दूसरे जीवके ताडन, मारण, बध-बंधनादिके निमित्तसे क्रोध उत्पन्न कर देता है, यह बात युक्ति-संगत है, किन्तु जो अजीव सर्व प्रकारकी चेष्टा, क्रिया आदि करनेसे रहित है, वह कैसे जीवके क्रोध उत्पन्न कर देता है ? ऐसी आशंकाका चूर्णिकारने यह समाधान किया है कि किसीके पैरमें काटा आदिके लग जानेसे क्रोध उत्पन्न होता हुआ देखा जाता है । तथा अपने अंगमें पत्थर आदिके निमित्तसे चोट पहुँचनेपर रोष द्वारा दांत किटकिटाते हुए बन्दर आदि देखे जाते हैं । इसलिए अजीव पदार्थ भी क्रोधोत्पत्तिमें निमित्त होता है, यह सिद्ध है ।

चूर्णिसू०—इस प्रकारसे जिस चेतन वा अचेतन पदार्थकी अपेक्षा क्रोध उत्पन्न होता है, वह एक जीव, अथवा एक अजीव, अथवा अनेक जीव, अथवा अनेक अजीव, अथवा मिश्र-जीव-अजीव भी समुत्पत्तिककपायकी अपेक्षा क्रोधकपाय कहे जाते हैं ॥५७॥

विशेषार्थ—समुत्पत्तिककपायके पूर्वोक्त आठ भंगोमेंसे आदिके दो भंगोका अर्थ चूर्णिकारने स्वयं कह दिया है । शेष भंगोका अर्थ इस प्रकार जानना चाहिए—अनेक जीव भी क्रोधोत्पत्तिके कारण होते हैं, जैसे—शत्रुकी सेनाको देखकर क्रोधकी उत्पत्ति देखी जाती है (३) । अनेक अजीव पदार्थ भी क्रोधकी उत्पत्तिके कारण होते हैं, जैसे—अपने लिए अनिष्टभूत शत्रुओके चित्र, मूर्तियाँ और उनके भवनादिके देखनेसे क्रोधकी उत्पत्ति देखी जाती है । (४) । एक जीव और एक अजीव पदार्थ भी क्रोधकी उत्पत्तिके कारण होते हैं, जैसे—तलवार हाथमें लिए हुए शत्रुको आता देखकर क्रोध उत्पन्न होता हुआ देखा जाता है (५) । एक जीव और अनेक अजीव भी क्रोधोत्पत्तिके कारण होते हैं, जैसे—

५८. एवं माणमाया-लोभानं । ५९. आदेशकसाएण जहा चित्तकम्मे लिहिदो
 क्रोहां रूसिदो तिवलिदणिडालो भिउडिं काऊण । ६०. माणो थद्धो लिक्खदे ।
 ६१. मायाणिगूहमाणो लिक्खदे । ६२. लोहो णिव्वाइदेण पंपागहिदो लिक्खदे ।
 ६३. एवमेदे कडुकम्मे वा पोत्तकम्मे वा, एस आदेशकसाओ णाम ।

गस्त्राखोसे सुसज्जित शत्रुको देखकर क्रोध उत्पन्न होता है (६) अनेक जीव और एक
 अजीव भी क्रोधोत्पत्तिके कारण होते हैं, जैसे—एक रथपर सवार, अथवा एक तोपको
 उठाये हुए अनेक शत्रुपक्षीय योद्धाओंको देखकर क्रोध उत्पन्न होता है । (७) अनेक जीव
 और अनेक अजीव भी क्रोधोत्पत्तिके कारण होते हैं, जैसे—नाना प्रकारके गस्त्राखोसे सुस-
 ज्जित शत्रु-सेनाको देखकर क्रोध उत्पन्न होता है (८) ।

चूर्णिसू०—जिस प्रकार समुत्पत्तिककषायकी अपेक्षा क्रोधके आठ भंग कहे हैं,
 उसी प्रकार मान, माया—और लोभके भी आठ आठ भंग जानना चाहिए ॥५८॥

विशेषार्थ—यहाँ यह आशंका नहीं करना चाहिए कि अजीव पदार्थ मानकषाय
 आदिकी उत्पत्तिके कारण कैसे होते हैं ? क्योंकि अपने रूप, यौवन, धनादिके गर्वसे गर्वित
 पुरुषके शृंगारके बल, अलंकार, सवारीकी मोटर, वगैरी और रहनेके मकान आदि मानकषाय-
 की उत्पत्तिके कारण देखे जाते हैं । इसी प्रकार माया और लोभकषायके भी दृष्टान्त जान
 लेना चाहिए ।

अब आदेशकषायके स्वरूपनिरूपणके लिए उत्तरसूत्र कहते हैं—

चूर्णिसू०—चित्रमे लिखे हुए कषायोके आकारको आदेशकषाय कहते हैं । जैसे—
 चित्र-लिखित रोप-युक्त, मस्तकपर त्रिवली पाड़े हुए और भृकुटि चढ़ाए हुए पुरुषका आकार
 आदेश क्रोवकषाय है । चित्र-लिखित रत्न-देव, गुरु, शास्त्र, माता, पिता, स्वामी आदिकी
 विनय नहीं करनेवाला—अभिमानी पुरुषका आकार आदेशमानकषाय है । चित्र-लिखित
 निगूह्यमान—छल, प्रपंच करता हुआ—पुरुषका आकार आदेशमायाकषाय है । णिव्वाइद
 अर्थात् संसार भरकी सम्पदाके संचय करनेकी अभिलाषासे युक्त, और पंपागृहीत अर्थात्
 कृपण, लम्पटी या कंजूस—पुरुषका चित्र-लिखित आकार आदेशलोभकषाय है ॥५९—६२॥

विशेषार्थ—आदेशकषाय और स्थापनाकषायमें परस्पर क्या भेद है, ऐसी आशंका
 नहीं करना चाहिए । क्योंकि सद्भावस्थापनारूप कषायकी प्ररूपणा और कषायबुद्धिको आदेश-
 कषाय कहते हैं । तथा कषाय-विषयक तदाकार और -अतदाकार स्थापनाको स्थापनाकषाय
 कहते हैं । इस प्रकार दोनों कषायोका भेद स्पष्ट है ।

चूर्णिसू०—इस प्रकार काष्ठकर्ममें, अथवा पोत्थकर्ममें अथवा शैलकर्म आदिमें
 उत्कीर्ण या निर्मित कषायोके ये आकार आदेशकषाय कहलाते हैं ॥६३॥

विशेषार्थ—लकड़ीकी पुतली आदि बनानेको काष्ठकर्म कहते हैं । पापाणमें मूर्तिके
 उत्कीर्ण करनेको शैलकर्म कहते हैं । पोथी, कागज आदिपर चित्र लिखनेको पोत्थकर्म कहते

६४. एदं णेगमस्स । ६५. रसकसाओ णाम कसायरसं दव्वं, दव्वाणि वा कसाओ । ६६. तव्वदिरित्तं दव्वं, दव्वाणि वा णोकसाओ । ६७. एदं णेगम-संगहाणं । ६८. ववहारणयस्स कसायरसं दव्वं कसाओ, तव्वदिरित्तं दव्वं णोकसाओ । कसायरसाणि दव्वाणि कसाया, तव्वदिरित्ताणि दव्वाणि णोकसाया ।

है । भिन्ती-दीवाल-आदिपर चित्राम करनेको लेप्यकर्म कहते हैं । इनमें अथवा इस प्रकारके अन्य भी कर्मोंमें क्रोधादि कपायोके जो आकार उकरे, खोदे, बनाये या लिखे जाते हैं, वे सब आदेशकपाय कहलाते हैं ।

अब इन कपायोके स्वामिभूत नयोका प्रतिपादन करते हैं—

चूणिंस्सू०—यह समुत्पत्तिककपाय और आदेशकपाय नैगमनयके विषय होते हैं । इसका कारण यह है कि शेष नयोंके विषयभूत प्रत्ययकपाय और स्थापनाकपायमें यथाक्रमसे समुत्पत्तिककपाय और आदेशकपायका अन्तर्भाव हो जाता है ॥६४॥

अब रसकपायके स्वरूपका प्रतिपादन करते हैं—

चूणिंस्सू०—कसेले-रसवाला एक द्रव्य अथवा अनेक द्रव्य रसकपाय कहलाते हैं ॥६५॥

अब नोकपायका स्वरूप कहते हैं—

चूणिंस्सू०—रसकपायसे व्यतिरिक्त एक द्रव्य, अथवा अनेक द्रव्य नोकपाय कहलाते हैं । यह नोकपाय नैगमनय और संग्रहनयका विषय है । क्योंकि, इस नोकपायमें कपायसे भिन्न समस्त द्रव्योंका संग्रहस्वरूप व्यवहार देखा जाता है ॥६६-६७॥

चूणिंस्सू०—व्यवहारनयकी अपेक्षा कपायरसवाला एक द्रव्य कपाय है, और उससे व्यतिरिक्तद्रव्य नोकपाय है । तथा कपायरसवाले अनेक द्रव्यकपाय कहलाते हैं और कपायरसवाले द्रव्योंसे भिन्न द्रव्य नोकपाय कहलाते हैं ॥६८॥

विशेषार्थ—नैगमनय भेद और अभेदको प्रधानता और अप्रधानतासे विषय करता है, तथा संग्रहनय एक या अनेकको एक रूपसे ग्रहण करता है, इसलिए इन दोनों नयोकी अपेक्षा कपाय-रसवाले एक या अनेक द्रव्योंको एकवचन कपायशब्दके द्वारा कहनेमें कोई आपत्ति नहीं आती । परन्तु व्यवहारनय एकको एकवचनके द्वारा और बहुतको बहुवचनके द्वारा ही कथन करता है, क्योंकि वह भेदकी प्रधानतासे वस्तुको विषय करता है । यदि व्यवहारनयकी अपेक्षा एक वस्तुको बहुवचनके द्वारा कहा जायगा, तो श्रोताको संदेह होगा कि वस्तु तो एक है और यह उसे बहुवचनके द्वारा क्यों कह रहा है । यही संदेह बहुत वस्तुओंको एकवचनके द्वारा कहनेमें भी होगा । अतएव नैगम और संग्रहनयके द्वारा एक द्रव्य या अनेक द्रव्योंको एकवचनसे कहे जानेपर भी असंदिग्ध प्रतीतिके लिए व्यवहारनय एक द्रव्यको एक वचनके द्वारा और अनेक द्रव्योंको बहुवचनके द्वारा ही कथन करता है, यही तीनों नयोके विषयोंमें अन्तर है ।

६९. उजुमुदस्स कसायरसं दव्वं कसाओ, तव्वदिरित्तं दव्वं णोकसाओ, णाणाजीवेहि परिणामियं दव्वमवत्तव्वयं । ७० णोआगमदो भावकसाओ कोहवेयओ जीवो वा जीवा वा कोहकसाओ । ७१. एवं माण-माया-लोभाणं । ७२. एत्थ छ अणियोगद्वाराणि । ७३. किं कसाओ ? ७४. कस्स कसाओ ? ७५. क्कण कमाओ ? ७६. कग्गिह कसाओ ? ७७. केवचिरं कसाओ ? ७८. कइविहो कसाओ ? ७९ एत्तिए ।

चूर्णिसू०—ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षा कपायरसवाला द्रव्य कपाय है, और उससे व्यतिरिक्त द्रव्य नोकपाय है । तथा नानाजीवोंसे परिणमित द्रव्य अवक्तव्य है ॥६९॥

विशेषार्थ—ऋजुसूत्रनय द्रव्यकी एक क्षणवर्ती पर्यायको ही ग्रहण करना है और एक समयमें एक ही पर्याय होती है, अतएव इस ऋजुसूत्रकी दृष्टिसे कपायरसवाला एक द्रव्य कपाय और उससे भिन्न एक द्रव्य नोकपाय है । तथा नाना जीवोंके द्वारा ग्रहण किये गये अनेक द्रव्य अवक्तव्य है, क्योंकि ऋजुसूत्रनय एक समयमें अनेक पर्यायोंको विषय नहीं करता है । इसका कारण यह है कि इस-नयकी अपेक्षा एक समयमें एक ही उपयोग होता है और एक उपयोग अनेक विषयोंको ग्रहण नहीं कर सकता ।

आगमभावकपायनिक्षेपका अर्थ सुगम है, इसलिए उसका वर्णन न करके अब नोआगमभावकपायका स्वरूप कहते हैं—

चूर्णिसू०—क्रोधकपायका वेदक-अनुभवन-करनेवाला एक जीव, तथा क्रोधकपायके वेदक अनेक जीव नोआगमभाव क्रोधकपाय कहलाते हैं । इसी प्रकार मान, माया और लोभ, इन तीनोंका स्वरूप जानना चाहिए ॥७०-७१॥

विशेषार्थ—जिस प्रकार क्रोधके वेदक एक और अनेक जीव नोआगमभाव क्रोधकपाय कहे जाते हैं, उसी प्रकार मानकपायके वेदक एक और अनेक जीव नोआगम-भावमानकपाय, मायाकपायके वेदक एक और अनेक जीव नोआगमभावमायाकपाय, तथा लोभकपायके वेदक एक और अनेक जीव नोआगमभावलोभकपाय कहलाते हैं ।

इस प्रकार निक्षेपोंके द्वारा कपायोंका स्वरूप निरूपण करके अब चूर्णिकार निर्देश, स्वामित्व, साधन अधिकरण, स्थिति और विधान, इन छह अनुयोगद्वारोंसे कपायोंका व्याख्यान करते हैं—

चूर्णिसू०—यहाँपर छह अनुयोगद्वार होते हैं । वे इस प्रकार हैं—कपाय क्या वस्तु है ? कपाय किसके होता है ? कपाय किससे होता है ? कपाय किसमें होता है ? कपाय कितने काल तक होता है ? और कपाय कितने प्रकारका होता है ? ये छह अनुयोगद्वार होते हैं । इतने ही अनुयोगद्वार कपायोंके समान प्रेय और द्वेषमें भी निरूपण करना चाहिए ॥७२-७९॥

विशेषार्थ—भावकपायोंके विशद स्वरूप-वर्णनके लिए यहाँपर निर्देश, स्वामित्व आदि प्रसिद्ध छह अनुयोगद्वारोंका व्याख्यान किया जा रहा है । नाम, स्थापना आदि शेष

सात प्रकारके कपायोका इन अनुयोगद्वारोसे वर्णन नहीं करनेका कारण यह है कि प्रकृत ग्रन्थमें उनका कोई प्रयोजन नहीं है। अब उन छहो अनुयोगद्वारोसे कपायोका व्याख्यान किया जाता है। (१) कपाय क्या वस्तु है ? नैगम, संग्रह, व्यवहार और ऋजुसूत्र, इन चारो अर्थनयोकी अपेक्षा क्रोधादि चारो कपायोका वेदन या अनुभवन करनेवाला जीव ही कपाय है, क्योंकि, जीवद्रव्यको छोड़कर अन्यत्र कपाय पाये नहीं जाते हैं; शब्द, सम्भिरुद्ध और एवंभूत, इन तीनों शब्दनयोंकी अपेक्षा द्रव्यकर्म और जीवद्रव्यसे भिन्न क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चारो कपाय कहलाते हैं, क्योंकि, शब्दनय द्रव्यको विषय नहीं करते हैं। इस प्रकारका वर्णन करना निर्देश अनुयोगद्वार है (२) कपाय किसके होता है ? नैगमादि चारो अर्थनयोकी अपेक्षा कपाय जीवके होता है, अर्थात् कपायका स्वामी जीव है; क्योंकि, अर्थनयोकी अपेक्षा जीव और कपायोंके भेदका अभाव है। तीनों शब्दनयोकी अपेक्षा कपाय किसीके भी नहीं होता है, अर्थात् कपायका स्वामी कोई नहीं है, क्योंकि, भावकपायोंके अतिरिक्त जीवद्रव्य और कर्मद्रव्यका अभाव है। इस प्रकार कपायोंके स्वामीका प्रतिपादन करना स्वामित्व अनुयोगद्वार है। (३) कपाय किसके द्वारा उत्पन्न होता है ? नैगमादि चारो अर्थनयोकी अपेक्षा कपाय अपने उपादान और निमित्तकारणोसे उत्पन्न होता है। किन्तु तीनों शब्दनयोकी अपेक्षा कपाय किसीके द्वारा नहीं उत्पन्न होता है। अथवा, अर्थनयोकी अपेक्षा कपाय औद्यिकभावसे और शब्दनयोकी अपेक्षा परिणामिकभावसे उत्पन्न होता है, क्योंकि इन नयोकी दृष्टिमें कारणके बिना कार्यकी उत्पत्ति होती है। इस प्रकारका वर्णन करना साधन अनुयोगद्वार है। (४) कपाय किसमें उत्पन्न होता है ? चारो अर्थनयोकी अपेक्षा राग-द्वेषके साधनभूत वाहरी वस्त्र, अलंकार आदि पदार्थोंमें उत्पन्न होता है। तीनों शब्दनयोकी अपेक्षा कपाय अपने आपमें ही स्थित है, अर्थात् कपायका अधिकरण कपाय ही है, अन्य पदार्थ नहीं, क्योंकि, कपायसे भिन्न पदार्थ कपायका आधार हो नहीं सकता है। इस प्रकारके वर्णन करनेको अधिकरण अनुयोगद्वार कहते हैं। (५) कपाय कितने काल तक होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा कपाय सर्वकाल होता है। एक जीवकी अपेक्षा सामान्य कपायका काल अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त है। कपाय-विशेषकी अपेक्षा प्रत्येक कपायका जघन्य और उत्कृष्ट-काल अन्तर्मुहूर्त है। किन्तु, मरण और व्यावातकी अपेक्षा कपायका जघन्य-काल एक समय है। इस प्रकारके वर्णन करनेको स्थिति अथवा काल नामक अनुयोगद्वार कहते हैं। (६) कपाय कितने प्रकारका होता है ? कपाय और नोकपायके भेदसे कपाय दो प्रकारका है, अनन्तानुबन्धी आदिके भेदसे चार प्रकारका है और उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा पच्चीस प्रकारका है। इस प्रकारसे कपायोंके भेद-वर्णन करनेको विधान-नामक अनुयोगद्वार कहते हैं। जैसे इन छह अनुयोग-द्वारोसे कपायका प्रतिपादन किया है, उसी प्रकार प्रेय और द्वेषका भी व्याख्यान करना चाहिए, क्योंकि, उनके बिना प्रेय और द्वेषका यथार्थ निर्णय हो नहीं हो सकता।

८०. पाहुडं णिक्खिवियव्वं—णामपाहुडं ठवणपाहुडं दव्वपाहुडं भावपाहुडं चेदि, एवं चत्तारि णिक्खेवा एत्थ होंति । ८१. णोआगमदो दव्वपाहुडं तिविहं—सच्चित्तं अचित्तं मिस्सयं च । ८२. णोआगमदो भावपाहुडं दुविहं—पमत्थमप्पसत्थं च । ८३. पसत्थं जहा—दोगंधियं पाहुडं । ८४. अप्पसत्थं जहा—कलहपाहुडं ।

चूर्णिसू०—पाहुड या प्राभृत इस पदका निक्षेप करना चाहिए। नामप्राभृत, स्थापना प्राभृत, द्रव्यप्राभृत और भावप्राभृत, इस प्रकार प्राभृतके विषयमें चार निक्षेप होते हैं ॥८०॥

नाम, स्थापना, आगमद्रव्य, नोआगमद्रव्य, ज्ञायकशरीर, और भव्यद्रव्य, इन निक्षेपोका अर्थ सुगम होनेसे उन्हें न कहकर चूर्णिकार तद्व्यतिरिक्तनोआगमद्रव्यनिक्षेपका स्वरूप कहते हैं—

चूर्णिसू०—तद्व्यतिरिक्तनोआगमद्रव्यप्राभृत सच्चित्त, अचित्त और मिश्रके भेदसे तीन प्रकार का है ॥८१॥

विशेषार्थ—प्राभृत अर्थात् भेट-स्वरूप भेजे गये हाथी, घोड़े आदि सच्चित्तनो-आगमद्रव्यप्राभृत कहलाते हैं। सोना, चाँदी, माणिक, मोती, हीरा, पन्ना आदि उपहाररूप द्रव्यको अचित्तनोआगमद्रव्यप्राभृत कहते हैं। भेट स्वरूप भेजे जानेवाले सोने, चाँदी और जवाहरात आदिसे लदे हुए हाथी, घोड़े आदि मिश्रनोआगमद्रव्यप्राभृत हैं। चूँकि, भेट या उपहारमे दिये जानेवाले द्रव्य व्यवहारमे प्राभृत कहलाते हैं, इस अपेक्षा यहाँ प्राभृतका अर्थ किया गया है, और वे द्रव्य तीन प्रकारके होते हैं, इसलिए नोकर्म-तद्व्यतिरिक्त-नोआगमद्रव्यप्राभृतके तीन भेद किये गये हैं, ऐसा अभिप्राय समझना चाहिए।

आगमभावप्राभृतका अर्थ सुगम है, इसलिए उसे न कहकर नोआगमभावप्राभृत-निक्षेपका स्वरूप कहते हैं —

चूर्णिसू०—नोआगमभावप्राभृत प्रशस्त और अप्रशस्तके भेदसे दो प्रकारका होता है ॥८२॥

विशेषार्थ—आनन्दके कारणस्वरूप शास्त्रादि द्रव्यके समर्पणको प्रशस्तनोआगमभाव-प्राभृत कहते हैं। वैर, कलह आदिके कारणभूत द्रव्यके प्रस्थापनको अप्रशस्तनोआगमभाव-प्राभृत कहते हैं। इन दोनोंकी अपेक्षा नोआगमभावप्राभृतके दो भेद हो जाते हैं।

अब प्रशस्त और अप्रशस्तनोआगमभावप्राभृतका स्वरूप कहते हैं—

चूर्णिसू०—दोगन्थरूप पाहुडका समागम प्रशस्तनोआगमभावप्राभृत है। कलह-जनक द्रव्यका समर्पण अप्रशस्तनोआगमभावप्राभृत है ॥८३-८४॥

विशेषार्थ—परमानन्द और आनन्दमात्रको 'दोगन्थिक' कहते हैं। किन्तु केवल परमानन्द और आनन्द रूप भावोका आदान-प्रदान संभव नहीं, अतः उपचारसे उनके कारणभूत द्रव्योके भेजनेको दोगन्थिक-प्राभृत कहा जाता है। इसके दो भेद हैं, परमानन्द-प्राभृत और आनन्दमात्रप्राभृत। इनमे, केवलज्ञान और केवलदर्शनके द्वारा समस्त विषयके

८५. संपहि गिरुत्ती उच्चदे । ८६. पाहुडेत्ति का गिरुत्ती ? जम्हा पदेहि पुदं
(फुडं) तम्हा पाहुडं ।

आवलिय अणायारे चक्खिदिय-सोद-घाण-जिम्भाए ।

मण-वयण-काय-पासे अवाय-ईहा-सुदुस्सासे ॥१५॥

दर्शक, वीतराग तीर्थकरोके द्वारा उपदिष्ट, और भव्यजीवोके हितार्थ निर्दोष आचार्य-परम्परासे प्रवाहित; द्वादशांग वाणीके वचनसमूहको, अथवा उसके एक देशको परमानन्ददोग्रन्थिकप्राभृत कहते हैं । इसके अतिरिक्त सांसारिक सुख-सामग्रीके साधक पदार्थोके समर्पणको आनन्दमात्र-प्राभृत कहते हैं । सर्प, गर्दभ, जीर्ण वस्तु और विष आदि द्रव्य कलहके कारण होते हैं । ऐसे द्रव्योका किसीको भेंट-स्वरूप भेजना कलहपाहुड कहलाता है । इसे ही अप्रशस्त-नोआगमभावप्राभृत कहते हैं । यहाँ प्राकृतमें इन उपर्युक्त अनेक प्रकारके प्राभृतोमेंसे स्वर्ग और मोक्ष-सम्बन्धी आनन्द और परम सुखके कारणभूत दोग्रन्थिकप्राभृतसे प्रयोजन है ।

उत्थानिकाचू०—अव 'प्राभृत' इस पदकी निरुक्ति कहते हैं ॥८५॥

शंकाचू०—प्राभृत—इस पदकी निरुक्ति क्या है ?

समाधान चू०—जो अर्थपदोसे स्फुट, संपृक्त या आभृत अर्थात् भरपूर हो, उसे प्राभृत कहते हैं ॥८६॥

विशेषार्थ—प्रकृष्टरूप तीर्थकरोके द्वारा आभृत अथवा प्रस्थापित शास्त्रको प्राभृत कहते हैं । अथवा, प्रकृष्ट-श्रेष्ठ विद्या-वित्तशील आचार्योके द्वारा अवधारित, व्याख्यात अथवा, आगत शास्त्रको प्राभृत कहते हैं । कपाय-विषयक श्रुतको-शास्त्रको-कपायप्राभृत कहते हैं । अथवा, कपाय-सम्बन्धी अर्थपदोसे परिपूर्ण शास्त्रको कपायप्राभृत कहते हैं । इसी प्रकार, राग और द्वेषके प्रतिपादन करनेवाले शास्त्रको पेजदोसपाहुड या प्रयोद्वेषप्राभृत कहते हैं, जो कि कपायप्राभृतका ही दूसरा नाम है । इस प्रकार कपायप्राभृतका उपक्रम समाप्त हुआ ।

अब, जिसके जाने विना प्रस्तुत ग्रन्थके अर्थाधिकारोका ठीक ज्ञान नहीं हो सकता, और जो पन्द्रहो अधिकारोमे साधारणरूपसे व्याप्त है, उस अद्धा-परिमाणका गाथासूत्रकार सबसे पहले निर्देश करते हैं—

अनाकार दर्शनोपयोग, चक्षु, श्रोत्र, घ्राण और जिह्वा इन्द्रिय-सम्बन्धी अवग्रहज्ञान, मनोयोग, वचनयोग, काययोग, स्पर्शनेन्द्रिय-सम्बन्धी अवग्रहज्ञान, अवायज्ञान, ईहाज्ञान, श्रुतज्ञान और उच्छ्वास, इन सब पदोंका जघन्यकाल क्रमशः उत्तरोत्तर विशेष-विशेष अधिक है, तथापि वह संख्यात आवलीप्रमाण है ॥१५॥

विशेषार्थ—अनाकार अर्थात् दर्शनोपयोगका जघन्यकाल आगे कहे जानेवाले सर्वपदोकी अपेक्षा सबसे कम है, तथापि वह अनेक आवलीप्रमाण है । इस अनाकार उपयोगसे चक्षुरिन्द्रिय-सम्बन्धी अवग्रहज्ञानका जघन्य काल विशेष अधिक है । चक्षुरिन्द्रिय-सम्बन्धी अवग्रहज्ञानके जघन्यकालसे श्रोत्रेन्द्रियसम्बन्धी अवग्रहज्ञानका जघन्य काल विशेष

माणद्धा कोहद्धा मायद्धा तहय चैव लोहद्धा ।

खुद्भवग्रहणं पुण कट्टीकरणं च वोद्धव्वा ॥१७॥

संक्रामण-ओवट्टण-उवसंतकसाय-खीणमोहद्धा ।

उवसामेंतय-अद्धा ख्वेंत-अद्धा य वोद्धव्वा ॥१८॥

जो घोरातिघोर दुस्सह उपसर्ग सहन करते हुए केवलज्ञान प्राप्तकर शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष चले जाते हैं, उन्हींके केवलदर्शन और केवलज्ञानका यह जघन्य काल सम्भव है, अन्यके नहीं ।

मानकपाय, क्रोधकपाय, मायाकपाय और लोभकपाय, तथा क्षुद्रभवग्रहण और कट्टीकरण, इनका जघन्य काल उत्तरोत्तर विशेष विशेष अधिक है ऐसा जानना चाहिए ॥१७॥

विशेषार्थ—क्षपक सूक्ष्मसाम्परायसंयतके जघन्यकालसे मानकपायका जघन्य काल विशेष अधिक है । मानकपायके जघन्यकालसे क्रोधकपायका जघन्य काल विशेष अधिक है । क्रोधकपायके जघन्यकालसे मायाकपायका जघन्य काल विशेष अधिक है । मायाकपायके जघन्यकालसे लोभकपायका जघन्य काल विशेष अधिक है । लोभकपायके जघन्यकालसे लब्ध्यपर्याप्त जीवके क्षुद्रभवग्रहणका काल विशेष अधिक है । लब्ध्यपर्याप्त जीवके क्षुद्रभवग्रहणके कालसे कट्टीकरणका काल विशेष अधिक है । यह कट्टीकरण-सम्बन्धी जघन्य काल लोभकपायके उदयके साथ क्षपक श्रेणीपर चढ़नेवाले जीवके होता है और कट्टीकरण-क्रिया भी क्षपकश्रेणीके अनिवृत्तिकरण गुणस्थानके अन्तमे होती है ।

संक्रामण, अपवर्तन, उपशान्तकपाय, क्षीणमोह, उपशामक और क्षपक, इनके जघन्य काल क्रमशः उत्तरोत्तर विशेष विशेष अधिक जानना चाहिए ॥१८॥

विशेषार्थ—अन्तरकरण करनेपर नपुंसकवेदके क्षपण करनेको संक्रामण कहते हैं । नपुंसकवेदके क्षय कर देनेपर शेष नोकपायोके क्षपण करनेको अपवर्तन कहते हैं । ग्यारहवे गुणस्थानवर्ती जीवको उपशान्तकपाय और वारहवे गुणस्थानवर्ती जीवको क्षीणमोह कहते हैं । उपशमश्रेणीपर चढ़नेवाला जीव जब मोहनीय कर्मका अन्तरकरण कर देता है, तब उसकी उपशामक संज्ञा हो जाती है । इसी प्रकार जब क्षपकश्रेणीपर चढ़नेवाला जीव मोहकर्मका अन्तरकरण कर देता है, तब उसकी क्षपक संज्ञा हो जाती है । इनका काल इस प्रकार है—कट्टीकरणके जघन्यकालसे संक्रामणका जघन्य काल विशेष अधिक है । संक्रामणके जघन्य कालसे अपवर्तनका जघन्य काल विशेष अधिक है । अपवर्तनके जघन्य कालसे उपशान्तकपायका जघन्य काल विशेष अधिक है । उपशान्तकपायके जघन्य कालसे क्षीणमोह गुणस्थानका जघन्य काल विशेष अधिक है । क्षीणमोहके जघन्य कालसे उपशामकका जघन्य काल विशेष अधिक है । तथा उपशामकके जघन्य कालसे क्षपकका जघन्य काल विशेष अधिक है ।

णिव्वाधादेणेदा होंति जहण्णाओ आणुपुव्वीए ।

एत्तो अणाणुपुव्वी उक्कस्सा होंति भजियव्वा ॥१९॥

चक्खू सुदं पुधत्तं माणोवाओ तहेव उवसंते ।

उवसामेंतथ-अद्धा दुगुणा सेसा हु सविसेसा ॥२०॥

ये ऊपर वतलाये गये सर्व जघन्य काल निर्व्याघात अर्थात् मरण आदि व्याघात-के विना होते हैं । (क्योंकि, व्याघातकी अपेक्षा तो उक्त पदोंका जघन्य काल क्वचित् कदाचित् एक समय भी पाया जाता है ।) ये उपर्युक्त जघन्य काल-सम्बन्धी पद आनुपूर्वीसे कहे गए हैं । अब इससे आगे जो उत्कृष्ट काल-सम्बन्धी पद कहे जानेवाले हैं, उन्हें अनानुपूर्वीसे अर्थात् परिपाटीक्रमके विना जानना चाहिए ॥१९॥

विशेषार्थ—उपर्युक्त चार गाथाओके द्वारा अनाकार उपयोगसे लेकर क्षपक जीव तकके स्थानोमे जो जघन्य काल वतलाया गया है, वह अपने पूर्ववर्ती स्थानकी अपेक्षा उत्तरवर्ती स्थानमे क्रमशः विशेष विशेष अधिक है, इस प्रकारकी आनुपूर्वी अर्थात् एक क्रम-वद्ध परम्परासे कहा गया है । किन्तु अब इससे आगे उन्ही स्थानोका जो उत्कृष्ट काल कहा जायगा, वह आनुपूर्वीके विना ही कहा जायगा । इसका कारण यह है कि उपर्युक्त स्थानोमेसे कुछ स्थानोका उत्कृष्ट काल अपने पूर्ववर्ती स्थानोके उत्कृष्ट कालसे दुगुना है और कुछ स्थानोका कुछ विशेष अधिक है, अतएव उनमे आनुपूर्वी सम्भव नहीं है । यह बात आगे कहे जानेवाले उक्त स्थानोके उत्कृष्ट कालसे स्पष्ट हो जायगी ।

अब उपर्युक्त पदोका उत्कृष्ट काल कहते हैं—

चक्षुरिन्द्रियसम्बन्धी मतिज्ञानोपयोग, श्रुतज्ञानोपयोग, पृथक्त्ववितर्कवीचार-शुक्लध्यान, मानकपाय, अवायमतिज्ञान, उपशान्तकपाय और उपशामक, इनके उत्कृष्ट कालोका परिमाण अपने पूर्ववर्ती पदके कालसे दुगुना दुगुना है । उक्त पदोंके अतिरिक्त अवशिष्ट पदोंके उत्कृष्ट कालोंका परिमाण स्वपूर्व पदसे विशेष अधिक है ॥२०॥

विशेषार्थ—इस गाथासूत्रसे सूचित उत्कृष्ट अद्धापरिमाणसम्बन्धी अल्पवहुत्व इस प्रकार जानना चाहिए—मोहनीयकर्मके जघन्य क्षपण-कालसे चक्षुदर्शनोपयोगका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । इससे चक्षुरिन्द्रियसम्बन्धी मतिज्ञानोपयोगका उत्कृष्ट काल दुगुना है । इससे श्रोत्रेन्द्रियज्ञानोपयोगका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । इससे घ्राणेन्द्रियज्ञानोपयोगका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । इससे जिह्वेन्द्रियज्ञानोपयोगका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । इससे मनोयोगका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । इससे वचनयोगका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । इससे काययोगका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । इससे स्पर्शनेन्द्रिय-जनितज्ञानोपयोगका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । इससे अवायज्ञानोपयोगका उत्कृष्ट काल दुगुना है । इससे ईहाज्ञानोपयोगका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । इससे श्रुतज्ञानो-

८७. एतो सुत्तसमोदारो ।

पयोगका उत्कृष्ट काल दुगुना है । इससे उच्छ्वासका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । इससे तद्भवस्थकेवलीके केवलज्ञान, केवलदर्शन और सकपायी जीवकी शुक्लेश्याका उत्कृष्ट काल स्वस्थानमे परस्पर सद्ग होकर विशेष अधिक है । इससे एकत्ववितर्क-अवीचारशुक्लध्यानका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । इसमे पृथक्त्ववितर्कवीचारशुक्लध्यानका उत्कृष्ट काल दुगुना है । इससे प्रतिपाती सूक्ष्मसाम्परायका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । इससे आरोहक सूक्ष्मसाम्पराय उपशामकका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । इससे सूक्ष्मसाम्पराय क्षपकका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । इसमे मानकपायका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । इससे क्रोयकपायका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । इससे मायाकपायका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । इसमे लोभकपायका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । इससे क्षुद्रभवग्रहणका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । इससे कृष्टीकरणका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । इससे संक्रामणका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । इससे अपवर्तनका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । इससे उपशान्तकपायका उत्कृष्ट काल दुगुना है । इससे क्षीणकपायवीतरागछद्मस्थका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । इससे चारित्रमोहनीय उपशामकका उत्कृष्ट काल दुगुना है । इससे चारित्रमोहनीय क्षपकका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है ।

इस प्रकार अद्वापरिमाणका निर्देश करनेवाला अर्थाधिकार समाप्त हुआ ।

अब कसायपाहुडके पन्द्रह अर्थाधिकारोमेसे प्रथम अर्थाधिकार कहनेके लिए चूर्णिकार प्रतिज्ञासूत्र कहते हैं—

चूर्णिसू०—इस उपयुक्त अद्वापरिमाण अर्थाधिकारके अनन्तर गाथासूत्रका समवतार होता है ॥८७॥

विशेषार्थ—इससे पहले कहीं गईं वारह सम्बन्ध-गाथाएँ अद्वापरिमाण और अधिकार-निर्देश करनेवाली गाथाएँ भी तो गुणधराचार्यके मुख-कमलसे विनिर्गत होनेके कारण 'सूत्र' ही है ? फिर उनकी सूत्रसंज्ञा न करके अब आगे कहीं जानेवाली गाथाओंकी सूत्रसंज्ञा क्यों की जा रही है ? इस शंकाका समाधान यह है कि इस अल्प-बहुत्वसे आगेकी सूत्र-गाथाएँ कसायपाहुडके पन्द्रह अर्थाधिकारोमे प्रतिबद्ध हैं । किन्तु पूर्वोक्त वारह सम्बन्ध-गाथाएँ और छह अद्वापरिमाण निर्देश करनेवाली गाथाएँ, तथा अधिकार-निर्देश करनेवाली दो गाथाएँ, किसी एक अर्थाधिकारसे सम्बन्धित नहीं हैं, अपि तु सभी-पन्द्रहो-अर्थाधिकारोमे साधारणरूपसे सम्बद्ध हैं, इस बातके बतलानेके लिए 'एतो सुत्तसमोदारो' ऐसा प्रतिज्ञा-सूत्र यतिवृषभाचार्यने कहा है । अतएव उक्त गाथाओके गुणधराचार्य-प्रणीत होनेपर भी चूर्णिकारने आगे आनेवाली गाथाओकी ही सूत्रसंज्ञा की है ।

अब पेजदोसविहत्ती नामक प्रथम अर्थाधिकारमे प्रतिबद्ध गाथासूत्रको कहते हैं—

(३) पेज्जं वा दोसो वा कम्मि कसायम्मि कस्स व णयस्स ।

दुट्ठो व कम्मि द्व्वे पियायदे को कहिं वा वि ॥२१॥

८८ एदिस्से गाहाए पुरिमद्वरस विहासा' कायव्वा । तं जहा-णमम-संगहाणं
कोहो दोसो, माणो दोसां । माया पेज्जं, लोहो पेज्जं ।

(३) किस-किस कपायमें किस-किस नयकी अपेक्षा प्रेय या द्वेषका व्यवहार होता है ? अथवा कौन नय किस द्रव्यमें द्वेषको प्राप्त होता है और कौन नय किस द्रव्यमें प्रियके समान आचरण करता है ? ॥२१॥

विशेषार्थ—इस आशंका-मूत्रका यह अभिप्राय है कि प्रेय और द्वेष किस-किस कहते हैं, उनका कपायोसे क्या सम्बन्ध है, वे प्रेय और द्वेष किस-किस नयके विषय होते हैं और यह राग-द्वेषसे भरा हुआ जीव किस द्रव्यको द्वेषकर या अपना अहितकारी समझकर उनमें द्वेषका व्यवहार करता है और किस द्रव्यको प्रियकर या हितकारी समझकर उसमें राग करता है ? इस प्रकारके प्रश्नको उठाकर उनके समाधान करनेकी सूचना ग्रन्थकारने की है ।

इस प्रकार आशंका-सूत्र कहकर गुणधराचार्यने उसका उत्तर-स्वरूप सूत्र नहीं कहा, अतएव आगे व्याख्यान किये जानेवाला अर्थ निर्निवन्धन-सम्बन्ध, अभिवेय आदि रहित-और दुरवहार-छिष्ट या दुरुह-न हो जाय, इसलिये यतिवृषभाचार्य उक्त आशंका-मूत्रसे सूचित अर्थका प्रतिपादन आगेके सूत्र-सन्दर्भ द्वारा करते हैं—

चूर्णिसू०—इस गाथाके पूर्वार्धकी विभाषा-विशेष व्याख्या—करना चाहिए । वह इस प्रकार है—नैगमनय और संग्रहनयकी अपेक्षा क्रोधकपाय द्वेष है, मानकपाय द्वेष है । मायाकपाय प्रेय है और लोभकपाय प्रेय है ॥८८॥

विशेषार्थ—नैगम और संग्रहनयकी अपेक्षा क्रोधकपायको द्वेष कहनेका कारण यह है कि क्रोध करनेवाले पुरुषके क्रोधके निमित्तसे अङ्गमें सन्ताप उत्पन्न होता है, शरीर काँपने लगता है, मुखकी कान्ति फीकी पड़ जाती है । इसी प्रकार क्रोधकी अधिकतासे मनुष्य अन्धा, बहिरा और गूंगा भी हो जाता है । क्रोधी पुरुषकी स्मरणशक्तिका लोप हो जाता है । क्रोधान्ध पुरुष अपने माता, पिता, भाई, बहिन आदि स्ववन्धु-जनको भी मार डालता है । इस प्रकार क्रोधकपाय सकल अनर्थोंका मूल है और इसीलिए उसे द्वेषरूप कहा है । क्रोधके समान ही उक्त दोनों नयोंकी अपेक्षा मानकपायको भी द्वेष कहा गया है । इसका कारण यह है कि मानकपाय क्रोधकपायका अविनाभावी है, अर्थात् क्रोधके पश्चात् नियमसे उत्पन्न होता है । मानकपाय करनेवाला मानी पुरुष यद्यपि दूसरोको नीचा दिखाकर स्वयं उच्च बननेका प्रयत्न करता है, किन्तु प्रथम तो ऐसा करनेके लिए उसे

१ सुत्तेण सूचिदत्थस्स विसेसिऊण भासा विभासा, विवरण ति वुत्त होइ । जयध०

अनेक असत्-उपायोका-कुमारगोका-आश्रय लेना पड़ता है। दूसरे, जिसके लिए या जिसके ऊपर अभिमान किया जाता है, वह व्यक्ति भी प्रतिस्पर्धाके कारण सदा बढ़ला लेनेकी चेष्टा किया करता है, और अवसर पाने ही अभिमानकी नीचा दिखाए बिना नहीं रहता। इस प्रकार क्रोधके समान ही मानकपाय भी उपर्युक्त अत्रोप दोषोका कारण होनेसे द्वेषरूप ही है। नैगम और संग्रहनयकी अपेक्षा मायाकपायको प्रेयरूप कहा गया है। इसका कारण यह है कि मायाका आधार सदा ही कोई प्रिय पदार्थ हुआ करता है। मनुष्य किसी प्रिय वस्तुके छिपानेके लिए ही मायाचारी करता है। क्रोध और मानकपायके समान मायाचारीका अभिप्राय साधारणतः दूसरेके दिलको दुखानेका नहीं हुआ करता है, किन्तु अपनी गोप्य वस्तुको गुप्त रखनेका ही हुआ करता है। दूसरी बात यह है कि मायाचारी पुरुष अपनी मायाचारीकी सफलतापर सन्तोषका अनुभव करता है। किन्तु क्रोधी और मानीकी ऐसी बात नहीं है, उसे तो सदा ही पीछे पछताना पड़ता है। क्वचित् कदाचित् मायाका प्रयोग क्रोध और मानकपायकी पृष्टिमें भी देखा जाता है, सो वहाँपर क्रोध और मानमूलक मायाकपाय जानना चाहिए, केवल मायाकपाय नहीं। यही बात क्रोध, मान और लोभके विषयमें भी जानना चाहिए। इस प्रकार उक्त दोनों नयोकी अपेक्षा मायाकपायको प्रेयरूप कहना युक्ति-युक्त ही है। लोभकपाय भी उक्त दोनों नयोकी अपेक्षा प्रेयरूप है। इसका कारण यह है कि लोभ धनोपार्जन, परिग्रह-संरक्षण, ऐश्वर्य-वृद्धि आदिके लिए किया जाता है। इन सभी बातोंके मूलमें लोभीको अपने वर्तमान और आगामी सुखकी कामना हुआ करती है। मनुष्य अपने आपको, अपने कुटुम्बी जनको, अपने सजातीय और स्वदेशीय वन्धुओंको सुखी बनानेकी इच्छासे ही धन-संग्रह किया करता है। इस प्रकार लोभ करनेवालेकी दृष्टि वर्तमान और आगामी कालमें सुख-प्राप्तिकी ही रहती है। इसलिए नैगम और संग्रहनयकी दृष्टिसे लोभको प्रेयरूप कहना उचित ही है। अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, ये चारो नोकपाय नैगम और संग्रहनयकी अपेक्षा द्वेषरूप है, क्योंकि, क्रोधकपायके समान ही ये भी अज्ञान्ति और दुःखके कारण हैं। हास्य, रति, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद, ये पाँच नोकपाय प्रेयरूप हैं, क्योंकि, लोभकपायके समान ये सभी नोकपाय प्रेयके कारण हैं। चूर्णिसूत्रमें नोकपायका पृथक् उल्लेख नहीं होनेपर भी सूत्रके देशामर्शक होनेसे उक्त सूत्रमें इन नोकपायोका अन्तर्भाव समझना चाहिए। यहाँ एक आशंका की जा सकती है कि क्रोधादिकपायो और अरति, शोकादि नोकपायोको द्वेषरूप ही मानना चाहिए, क्योंकि, ये सभी कर्मास्त्रवके कारण हैं। फिर माया, लोभ और हास्य आदिको प्रेयरूप कैसे कहा ? इसका समाधान यह है कि यद्यपि यह सत्य है कि सभी कपाय और नोकपाय कर्मास्त्रवके कारण होते हैं। किन्तु यहाँपर वर्तमानकालिक या भविष्यकालिक प्रसन्नता मात्रकी ही विवक्षासे माया, लोभ और हास्यादिकको प्रेयरूप कहा है।

८९. व्यवहारणयस्स कोहो दोसो, माणो दोसो, माया दोसो; लोहो पेज्जं ।
 ९०. उज्जुसुदस्स कोहो दोसो, माणो णो दोसो णो पेज्जं, माया णो दोसो णो पेज्जं,
 लोहो पेज्जं ।

चूर्णिसू०—व्यवहारनयकी अपेक्षा क्रोधकपाय द्वेष है, मानकपाय द्वेष है, माया-
 कपाय द्वेष है । किन्तु लोभकपाय प्रेय है ॥८९॥

विशेषार्थ—क्रोध और मानकपायको द्वेष कहना तो उचित है, क्योंकि, लोकमें उन
 दोनोके भीतर द्वेष-व्यवहार देखा जाता है । किन्तु मायाकपायमें तो द्वेषका व्यवहार नहीं
 पाया जाता है, अतः उसे द्वेष नहीं कहना चाहिए ? इस शंकाका समाधान यह है कि
 माया में भी द्वेषका व्यवहार देखा जाता है । इसका कारण यह है कि माया करनेसे संसार-
 में अविश्वास उत्पन्न होता है, जिससे कोई उसका विश्वास नहीं करता । माया करनेसे
 लोक-निन्दा भी उत्पन्न होती है और लोक-निन्दित वस्तु प्रिय हो नहीं सकती है, क्योंकि,
 लोक-निन्दासे सदा ही दुःख और अज्ञान्ति उत्पन्न हुआ करती है । अतएव व्यवहारनयकी
 अपेक्षा मायाकपायको द्वेष कहना न्यायोचित है । इसी नयकी अपेक्षा लोभको प्रेय कहना
 भी उचित ही है, क्योंकि, लोभसे संचित और रक्षित द्रव्यके द्वारा व्यवहारिक जगत्में
 जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होता हुआ देखा जाता है । इसी प्रकार व्यवहारनयकी दृष्टिसे
 स्त्रीवेद और पुरुषवेद भी प्रेयरूप है, क्योंकि, इनके निमित्तसे राग-भावकी उत्पत्ति देखी
 जाती है । किन्तु शेष सात नोकपाय इस नयकी अपेक्षा द्वेषरूप है, क्योंकि, व्यवहारमें
 शोक, अरति आदिसे द्वेषभाव उत्पन्न होता हुआ देखा जाता है ।

चूर्णिसू०—ऋजुसूत्रनयकी दृष्टिसे क्रोधकपाय द्वेष है, मानकपाय नोद्वेष और नोप्रेय
 है, मायाकपाय नोद्वेष और नोप्रेय है, तथा लोभकपाय प्रेय है ॥९०॥

विशेषार्थ—ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षा क्रोधकपायको द्वेष कहना उचित है, क्योंकि, वह
 सकल अनर्थोका मूल कारण है । लोभको प्रेय कहना उचित है, क्योंकि, उससे हृदय
 आल्हादित होता है । किन्तु मान और मायाकपायको नोद्वेष और नोप्रेय कैसे कहा, क्योंकि,
 राग और द्वेषसे रहित तो कोई कपाय पाया नहीं जाता ? इस शंकाका समाधान यह है—
 मान और मायाकपायको नोद्वेष कहनेका तो कारण यह है कि इनके करते हुए वर्तमानमें
 अंग-संताप, चित्त-वैकल्य आदि नहीं उत्पन्न होते हैं । यदि कभी कही होते भी हैं, तो
 वहाँपर वह शुद्ध मानकपाय न समझकर क्रोध-मिश्रित मानकपाय समझना चाहिए । इसी
 प्रकार मान और मायाकपायको नोप्रेय कहना भी युक्ति-संगत है, क्योंकि, ऋजुसूत्रनयकी
 अपेक्षा वर्तमानमें गर्व और छल-प्रपंच करते हुए आल्हादकी उत्पत्ति नहीं देखी जाती । उक्त
 कथनसे यह सिद्ध हुआ कि मानकपाय और मायाकपाय न पूर्णरूपसे प्रेयरूप ही है और
 न द्वेषस्वरूप ही । अतएव इन्हे नोप्रेय और नोद्वेष कहना सर्वप्रकारसे न्याय-संगत है ।

११. सदस्स कोहो दोसो, माणो दोसो, माया दोसो, लोहो दोसो । कोहो माणो माया णो पेज्जं, लोहो सिया पेज्जं । १२. *दुट्ठो व कम्हि दव्वे'त्ति । १३. णेगमस्स । १४. दुट्ठो सिया जीवे, सिया णो जीवे । एवमट्ठ भंगेसु ।

चूर्णिसू०—शब्दनयकी अपेक्षा क्रोधकपाय द्वेष है, मानकपाय द्वेष है, मायाकपाय द्वेष है और लोभकपाय भी द्वेष है । तथा, क्रोधकपाय, मानकपाय और मायाकपाय नोप्रेय है, लोभकपाय कथंचित् प्रेय है ॥ ११ ॥

विशेषार्थ—क्रोधादिक सभी कपाय कर्मास्रवके कारण है, इस लोक और परलोकका विनाश करनेवाली है, इसलिए उन्हें द्वेषरूप कहना उचित ही है । क्रोध, मान और माया-कपायको नोप्रेय कहनेका कारण यह है कि इनसे तत्काल जीवके न तो संतोष ही पाया जाता है, और न परम आनन्द ही । लोभकपायके कथंचित् प्रेयरूप कहनेका अभिप्राय यह है कि रत्नत्रयके साधन-सम्बन्धी लोभसे आगे जाकर स्वर्ग और मोक्षकी प्राप्ति भी देखी जाती है । इनके अतिरिक्त सांसारिक वस्तु-विषयक लोभ नोप्रेय ही है, क्योंकि, उससे पापकी उत्पत्ति देखी जाती है ।

इस प्रकार उक्त गाथामूत्रके पूर्वार्धकी व्याख्याकर अब उसके तीसरे चरणका अर्थ कहनेके लिये यतिवृषभाचार्य उसका उपन्यास करते हैं—

चूर्णिसू०—‘कौन नय किस द्रव्यमे द्वेषको प्राप्त होता है’ ? नैगमनयकी अपेक्षा जीव किसी विशिष्ट क्षेत्र और किसी विशिष्ट कालमे एक जीवमे द्वेषको प्राप्त होता है, तथा क्वचित् कदाचित् एक अजीवमे द्वेषको प्राप्त होता है । इस प्रकार आठ भंगोमे द्वेष-व्यवहार जान लेना चाहिए ॥ १२-१४ ॥

विशेषार्थ—वे आठ भंग इस प्रकार हैं—(१) जीव कभी कही एक जीवमे द्वेष करता है, (२) कभी कही अनेक जीवोमे द्वेष करता है, (३) कभी कही एक अजीवपर द्वेष करता है, (४) कभी कही अनेक अजीवोपर द्वेष करता है, (५) कभी एक जीव और एक अजीवपर, (६) कही अनेक जीव और एक अजीवपर, (७) कभी अनेक अजीव और एक अजीवपर और (८) कही अनेक जीव और अनेक अजीवोमे द्वेष करता है । इन आठो ही भेदोमे क्रोधकी उत्पत्ति अप्रसिद्ध भी नहीं है, क्योंकि, प्रत्यक्षमे ही कभी किसी जीवके दुर्व्यवहारके कारण क्रोध उत्पन्न होता है, तो कभी पैर आदिमे काँटा आदिके लग जानेसे अजीव पदार्थके द्वारा भी क्रोधकी उत्पत्ति होती हुई देखी जाती है । इस प्रकार नैगमनयकी अपेक्षा ‘कौन किस द्रव्यमे द्वेषभावको प्राप्त होता है’ इस चरणसे संबंधित आठ भंगोका निरूपण जानना चाहिए ।

जयधवला-सपादकोंने इमे चूर्णिसूत्र नहीं माना, पर यह चूर्णिसूत्र है, जैसा कि इसी सूत्रकी जयधवलाटीकासे ही स्पष्ट है :-दुट्ठो व कम्हि दव्वे'त्ति । एयस्स गाहावयवस्स अत्थो वुच्चदि'त्ति जाणाविदमेदेण सुत्तेण । णेद परुवेदव्व, सुगमत्तादो ? ण एस दोसो, मदमेहजणाणुग्गहट्ठ परुविदत्तादो ।

९५. 'पियायदे को कहि वा वि' त्ति एत्थ वि णंगमस्स अट्ट भंगा । ९६. एवं व्यवहारणयस्स । ९७. संगहस्स दुट्ठो सव्वदव्वेसु । ९८. पियायदे सव्वदव्वेसु । ९९. एवमुजुसुअस्स १००. सदस्स णो सव्वदव्वेहि दुट्ठो, अत्ताणे चव, अत्ताणस्मि पियायदे ।

अव चूर्णिकार उक्त गाथाके चतुर्थ चरणका अर्थ कहते हैं—

चूर्णिसू०—'कौन नय किस द्रव्यमें प्रियरूप आचरण करता है', यहाँ पर भी नैगमनयकी अपेक्षा आठ भंग होते हैं ॥९५॥

जिस प्रकार ऊपर द्वेषको आश्रय करके एक और अनेक जीव तथा अजीव-मन्त्रन्धी आठ भंग बतलाए गये हैं। उसी प्रकार यहाँ प्रेयको आश्रय करके आठ भंग जान लेना चाहिए। क्योंकि, जैसे जीव, कभी किसी समय एक जीव और अनेक जीवोंमें प्रेयभावका आचरण करता हुआ देखा जाता है, उसी प्रकार कभी एक अजीव भवनादिसे और अनेक अजीवरूप भोगोपभोगके साधनभूत हिरण्य, सुवर्ण, शय्या, आसन और स्नान-पानकी वस्तुओंमें प्रिय आचरण करता हुआ देखा जाता है। इसी प्रकार श्रेय भंगोंको भी लगा लेना चाहिए। नैगमनयकी अपेक्षा आठ भंग कहनेका कारण यह है कि यह नय संग्रह और असंग्रह-स्वरूप सभी पदार्थोंको विषय करता है। जिसमें एक-अनेक, भेद-अभेद आदिके आश्रयसे उत्पन्न होनेवाले भंगोंका इस नयमें समावेश हो जाता है।

चूर्णिसू०—इसी प्रकार व्यवहारनयकी अपेक्षासे द्वेष और प्रेयसम्वन्धी आठ भंग जानना चाहिए। क्योंकि, इन उक्त आठों प्रकारके भंगोंमें प्रिय और अप्रियरूपसे लोकसंव्यवहार देखा जाता है। संग्रहनयकी अपेक्षा कभी यह जीव सर्व चेतन और अचेतन द्रव्योंमें निमित्तविशेषादिके वशसे द्वेषरूप व्यवहार करने लगता है। यहाँ तक कि क्वचित् कदाचित् प्रिय पदार्थोंमें भी अप्रियपना देखा जाता है। कभी सभी वस्तुओंमें प्रिय आचरण करता है। यहाँ तक कि निमित्तविशेष मिलनेपर विषादिक अप्रिय एवं वातक वस्तुओंमें भी प्रिय आचरण करता हुआ देखा जाता है। संग्रहनयके समान ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षा भी यह जीव कभी सर्व द्रव्योंमें द्वेषरूप आचरण करता है ॥९६-९९॥

चूर्णिसू०—शब्दनयकी अपेक्षा जीव सर्वद्रव्योंके साथ न तो द्वेष-व्यवहार करता है और न प्रिय-व्यवहार ही। किन्तु अपने आपमें ही द्वेष-व्यवहार करता है और अपने आपमें ही प्रिय आचरण करता है ॥१००॥

विशेषार्थ—किसी अन्य चेतन या अचेतन पदार्थमें द्वेषभाव रखनेपर उसका फल अन्यको नहीं भोगना पड़ता है किन्तु अपने आपको ही भोगना पड़ता है, क्योंकि, किसी पर क्रोध, द्वेष आदि करनेपर तत्काल उत्पन्न होनेवाले अंग-संताप, चिन्त-वैकल्य आदि कुफल, और परभवमें उत्पन्न होनेवाले नरकादिकके दुःख जीवको ही भोगना पड़ते हैं। इसी प्रकार अन्यपर किया गया प्रिय आचरण भी अन्यको सुख पहुँचानेकी अपेक्षा अपने आपको ही सुख और शान्ति पहुँचाता है। इसलिए शब्दनयकी अपेक्षा जीव न किसी पर द्वेष करता है

१०१. णेगमासंगहियस्स वत्तव्वएण वारस अणियोगद्वाराणि पेज्जेहि दोसेहि ।
 १०२. एगजीवेण सामित्तं कालो अंतरं णाणाजीवेहि भंगविचओ संतपरूवणा दव्व-
 पमाणाणुगमो खेत्ताणुगमो पोसणाणुगमो कालाणुगमो अंतराणुगमो भागाभागाणुगमो
 अप्पावहुगाणुगमो त्ति । १०३. कालजोणी सामित्तं ।

और न किसीपर राग करता है । किन्तु अपने आपमे ही राग और द्वेषरूप आचरण करता है, यह बात सिद्ध हुई ।

चूर्णिसू०—असंग्राहिक नैगमनयके वक्तव्यसे प्रेय और द्वेषकी अपेक्षा वारह अनु-
 योगद्वार होते हैं ॥१०१॥

विशेषार्थ—नैगमनयके दो भेद हैं—संग्राहिकनैगम और असंग्राहिकनैगम नय । उनमेसे
 असंग्राहिकनैगमनयकी अपेक्षा प्रेय और द्वेषके अर्थका प्रतिपादन करनेवाले वारह अनुयोगद्वार
 होते हैं, जिनके कि नाम आगेके सूत्रमे वतलाये गये हैं । तथा, संग्राहिकनैगमनय और शेष
 समस्त नयोकी अपेक्षा पन्द्रह अनुयोगद्वार भी होते हैं, इससे अधिक भी होते हैं और कम
 भी होते हैं, क्योंकि, उक्त नयोकी अपेक्षा अनुयोगद्वारोंकी संख्याका कोई नियम नहीं है ।
 जयधवलकारने अथवा कहकर इस सूत्रका एक और प्रकारसे भी अर्थ किया है—असंग्राहिक
 नैगमनयके वक्तव्यसे जो प्रेय और द्वेष चारो कषायोके विषयमे समानरूपसे विभक्त है,
 अर्थात् क्रोध और मान द्वेषरूप है, तथा माया और लोभ प्रेयरूप है, उनकी अपेक्षा वक्ष्यमाण
 वारह अनुयोगद्वार होते हैं ।

वे वारह अनुयोगद्वार इस प्रकार हैं—

चूर्णिसू०—एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल, अन्तर, नानाजीवोंकी अपेक्षा
 भंगविचय, सत्प्ररूपणा, द्रव्यप्रमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शनानुगम, कालानुगम, अन्तरानुगम,
 भागाभागानुगम और अल्पवहुत्वानुगम ॥१०२॥

विशेषार्थ—सत्प्ररूपणाको आदिमे न कहकर अनुयोग—द्वारोके मध्यमे क्यों कहा ?
 इस शंकाका समाधान—यह है कि यदि सत्प्ररूपणाको मध्यमे न कहकर उसे अनुयोगद्वारोंके
 आदिमें कहते, तो वह एक-जीवविषयक ही रहती, क्योंकि, आदिमे एक जीव-सम्बन्धी
 अनुयोगद्वारोका ही नाम-निर्देश किया गया है । किन्तु मध्यमे उल्लेख करनेसे उनका विषय
 साधारणतः एक और अनेक जीव-सम्बन्धी सत्ताका प्रतिपादन करना बन जाता है । इसलिए
 उसका अनुयोगद्वारोके मध्यमे नाम-निर्देश किया है ।

चूर्णिसू०—स्वामित्व अनुयोगद्वार कालानुयोगद्वारकी योनि है ॥१०३॥

विशेषार्थ—स्वामित्वके निरूपण किये बिना कालकी प्ररूपणा नहीं हो सकती है ।
 अतएव स्वामित्वानुयोगद्वारको कालानुयोगद्वारकी योनि कहा है ।

स्वामित्वानुयोगद्वारकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आवेश-
 निर्देश । इनमेसे पहले ओघनिर्देशकी अपेक्षा द्वेषके स्वामित्वका प्रतिपादन करते हैं—

१०४. दोसो को होइ ? १०५. अण्णदरो णेरइयो वा तिरिक्खो वा मणुम्सो वा देवो वा । १०६. एवं पेज्जं । १०७. कालाणुग्गमेण दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य । १०८. दोसो केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णक्कस्सेण अंतोमृद्दुत्तं । १०९. एवं पेज्जमणुगंतव्वं । ११०. आदेमेण गदियाणुवादेण णिरयमदीए णेरइएसु पेज्जदोसं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एगसमओ ।

शंकाचू०—द्वेषरूप कौन होता है ? ॥१०४॥

समाधानचू०—कोई एक नारकी, अथवा तिर्यच, अथवा मनुष्य, अथवा देव द्वेषरूप होता है, अर्थात् चारों गतिके जीव द्वेषके स्वामी है ॥१०५॥

अब ओवनिर्देशकी अपेक्षा प्रेयके स्वामित्वका निरूपण करने हैं—

चूर्णिसू०—इसी प्रकार प्रेयके भी स्वामी जानना चाहिए । अर्थात् कोई एक नारकी, तिर्यच, मनुष्य और देव प्रेयका स्वामी है ॥१०६॥

अब कालानुयोगद्वारके निरूपण करनेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं—

चूर्णिसू०—कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओवनिर्देश और आदेश निर्देश ॥१०७॥

उनमेसे पहले ओवनिर्देशकी अपेक्षा कालका निरूपण करते हैं—

चूर्णिसू०—द्वेष कितने काल तक होता है ? द्वेष जघन्य और उत्कृष्ट कालकी अपेक्षा अन्तर्मुहूर्त तक होता है । अर्थात् द्वेषका जघन्य काल और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त-प्रमाण है ॥१०८॥

अब ओवनिर्देशकी अपेक्षा प्रेयके कालका निरूपण करते हैं—

चूर्णिसू०—इसी प्रकार प्रेयका भी काल जानना चाहिए । अर्थात् प्रेयका भी जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त-प्रमाण है ॥१०९॥

विशेषार्थ—यहाँपर प्रेय और द्वेषका जघन्य वा उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त ही बतलाया गया है, जिसका अभिप्राय यह है कि प्रेय अथवा द्वेषसे परिणत जीवके मरण अथवा व्याघात होनेपर भी अन्तर्मुहूर्त कालको छोड़कर एक या दो आदि समय-प्रमाण काल नहीं पाया जाता है । जीवद्वारा काल-प्ररूपणाके भीतर यद्यपि क्रोधादिकपायोके एक समय-प्रमाण जघन्य कालकी प्ररूपणा की गई है, तथापि उसकी यहाँपर विवक्षा नहीं की गई है, क्योंकि, वह इससे भिन्न आचार्य-परम्पराका उपदेश है ।

अब आदेशनिर्देशकी अपेक्षा प्रेय और द्वेषका जघन्य काल कहते हैं—

चूर्णिसू०—आदेशनिर्देशकी अपेक्षा गतिमार्गणाके अनुवादसे नरकगतिये नारकियोमे प्रेय और द्वेष कितने काल तक होता है ? जघन्य कालकी अपेक्षा एक समय होता है । अर्थात् नरकगतिये नारकियोके प्रेय और द्वेषका जघन्य काल एक समय है ॥११०॥

विशेषार्थ—नारकियोमे द्वेषके एक समयप्रमाण जघन्य काल होनेका कारण यह है

१११. *उकस्सेण अंतोमुहुत्तं । ११२. एवं सव्वाणियोगद्वाराणि अणुगं-
तव्वाणि ।

कि कोई तिर्यच या मनुष्य जीव द्वेषके उत्कृष्टकालमें अन्तमुहूर्त तक रहा । जब उस अन्त-
मुहूर्तकालमें एक समय शेष रह गया, तब वह मरकर नरकगतिमें उत्पन्न हुआ । इस
प्रकार नरकगतिमें नारकियोंके द्वेषका जघन्यकाल एक समयप्रमाण प्राप्त होता है । इसी
प्रकार रागके भी जघन्यकालको जान लेना चाहिए ।

अब नारकियोंके राग और द्वेषका उत्कृष्टकाल कहते हैं—

चूर्णिसू०—नरकगतिमें नारकियोंके राग और द्वेषका उत्कृष्टकाल अन्तमुहूर्त-
प्रमाण है ॥१११॥

विशेषार्थ—यद्यपि नारकियोंको द्वेष-बहुल बताया गया है, तथापि—छेदन, भेदन,
मारण, ताडन आदि करते हुए भी—वे जिन क्रियाओं या व्यापारोंमें आनन्दका अनुभव
करते हैं, उनकी अपेक्षा उनमें रागभावकी भी संभावना पाई जाती है । इस प्रकारके रागभावमें
अन्तमुहूर्तकाल रह करके पीछे द्वेषमें जानेवाले नारकीके रागका उत्कृष्टकाल अन्तमुहूर्तप्रमाण
सिद्ध हो जाता है । यही क्रम द्वेषके उत्कृष्ट कालमें भी लगा लेना चाहिए । जिस प्रकार
नरकगतिमें राग और द्वेषके जघन्य तथा उत्कृष्ट कालका निरूपण किया है, उसी प्रकारसे
शेष गतियों और मार्गणाओंमें भी राग-द्वेषके जघन्य और उत्कृष्ट कालोंको जानना चाहिए ।
विशेष बात यह कि कपायमार्गणामें राग और द्वेषका जघन्य तथा उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त
प्रमाण ही होता है क्योंकि अन्तमुहूर्त के बिना कपायका परिवर्तन नहीं होता । कर्मणकाय-
योगी जीवोंमें राग और द्वेषका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय होता
है । इसी प्रकार अनाहारक जीवोंमें भी राग और द्वेषका जघन्य काल एक समय और
उत्कृष्ट काल तीन समयप्रमाण जानना चाहिए ।

अब शेष अनुयोगद्वारोंके वतलानेके लिए अर्पणसूत्र कहते हैं—

चूर्णिसू०—जिस प्रकार स्वामित्वानुयोगद्वार और कालानुयोगद्वारका निरूपण किया,
उसी प्रकारसे शेष अनुयोगद्वारोंको भी जानना चाहिए ॥११२॥

विशेषार्थ—चूर्णिसूत्रकारने शेष अनुयोगद्वारोंके अर्थको सुगम समझकर उनका
व्याख्यान नहीं किया है । किन्तु विशेष जिज्ञासुओंके लिए यहाँपर जयधवला टीकाके अनु-
सार उनका कुछ व्याख्यान किया जाता है (३) अन्तरानुगमकी अपेक्षा दो प्रकारका निर्देश
है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । इनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा रागका जघन्य अन्तर एक

⊗ जयधवलाके सम्पादकोंने इसे भी चूर्णिसूत्र नहीं माना है, पर यह स्पष्टतः चूर्णिसूत्र है, क्योंकि
इसके पूर्व नारकियोंके पेज-दोसका केवल जघन्य काल ही कहा है, उत्कृष्ट काल नहीं । अतएव उसका
प्रतिपादन होना ही चाहिए । स्वयं जयधवला टीकासे भी इसकी सूत्रता सिद्ध है । यथा—उकस्सेण
अंतोमुहुत्तं । कुदो, साभावियादो । (देखो—जयध० भा० १, पृ० ३८८)

समय है। जैसे—कोई उपजमश्रेणीवाला सूक्ष्मसाम्परायसंयत-गुणस्थानवर्ती जीव सर्व जघन्य एक समयमात्र उपजान्तकपाय गुणस्थानमें रहा और मरकर लोभकपायके उदयसे युक्त देव हुआ। इस प्रकार रागका एक समयप्रमाण जघन्य अन्तर सिद्ध हो गया। रागका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त प्रमाण है। जैसे कोई एक जीव लोभकपायके तीव्र उदयसे रागभावका सर्वोत्कृष्ट अन्तमुहूर्त कालप्रमाण अनुभव करता रहा। पुनः अन्तमुहूर्त कालके पूरा होनेपर क्रोधकपायका तीव्र उदय हो गया और वह रागभावसे अन्तरको प्राप्त होकर द्वेषभावका वेदक हो गया। सर्वोत्कृष्ट अन्तमुहूर्तकाल तक द्वेषका अनुभव कर लोभकपायके उदयसे पुनः रागभावका वेदक हो गया। इस प्रकार उत्कृष्ट अन्तर सिद्ध हो गया। इसी प्रकार अन्य मार्गणाओमें भी रागके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरको जान लेना चाहिए। विशेष बात यह है कि रागका एक समयप्रमाण जघन्य अन्तर सर्वत्र संभव नहीं है, किन्तु आगम-के अविरोधसे उसका यथासंभव निर्णय करना चाहिए। ओघनिर्देशकी अपेक्षा द्वेषका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्तप्रमाण है। जैसे—कोई क्रोधकपायके उदयसे द्वेषभावका वेदक जीव अपने कपायका काल समाप्त हो जाने पर अन्तर को प्राप्त हो लोभकपायके उदय-से रागभावका वेदक हो गया। और सर्व-जघन्य अन्तमुहूर्तकाल तक रागका अनुभव कर पुनः क्रोधकपायी हो गया। इस प्रकार जघन्य अन्तर लब्ध हुआ। इसी प्रकार उत्कृष्ट अन्तर भी जानना चाहिए। भेद केवल इतना ही है कि द्वेषसे अन्तरको प्राप्त होकर और सर्वोत्कृष्ट अन्तमुहूर्तकाल तक रागभावका अनुभवकर पुनः द्वेषको प्राप्त हुए जीवके उत्कृष्ट अन्तर होता है। ओघके समान आदेशमें भी द्वेषका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त प्रमाण होता है, सो यथानिर्दिष्ट रीतिसे सबमें लगा लेना चाहिए। (४) नाना जीवोंकी अपेक्षा राग और द्वेषके संभव भंगोंका निरूपण करनेवाले अनुयोगद्वारको 'नानाजीवोहि भंगविचयानुगम' कहते हैं। इस अनुयोगद्वारका भी ओघ और आदेशकी अपेक्षा निर्देश किया गया है। ओघनिर्देशकी अपेक्षा कोई भंग नहीं है, क्योंकि, राग नियमसे दशवे गुणस्थान तक पाया जाता है और द्वेष भी नवे गुणस्थान तक पाया जाता है। इसी प्रकार मार्गणाओमें भी नानाजीवोंकी अपेक्षा भंगविचयानुगम जानना चाहिए। केवल लब्धपर्याप्त मनुष्य, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी आदि कुछ मार्गणाओमें राग और द्वेष-सम्बन्धी आठ आठ भंग होते हैं। वे आठ भंग ये हैं—(१) स्यात् राग, (२) स्यात् नोराग, (३) स्यात् अनेक राग, (४) स्यात् अनेक नोराग, (५) स्यात् एक राग और एक नोराग, (६) स्यात् एक राग और अनेक नोराग, (७) स्यात् एक नोराग और अनेक राग, तथा (८) स्यात् अनेक राग और अनेक नोराग। इसी प्रकार स्यात् द्वेष, स्यात् नोद्वेष इत्यादि क्रमसे द्वेषसम्बन्धी आठ भंग जानना चाहिए। (५) जीवोंके अस्तित्वको निरूपण करनेवाली प्ररूपणा सत्प्ररूपणा कहलाती है। इसका भी ओघ और आदेशकी अपेक्षा दो प्रकारसे निर्देश किया गया है ओघकी अपेक्षा मिथ्या-

दृष्टि आदि नौ गुणस्थानोमे रागी और द्वेषी जीवोका सर्वकाल अस्तित्व पाया जाता है । दशवे गुणस्थानमे केवल रागी जीवोका अस्तित्व पाया जाता है । आगेके गुणस्थानोमे राग और द्वेषके धारक जीवोका अस्तित्व नहीं हैं, किन्तु राग-द्वेषसे रहित वीतरागी जीवोका अस्तित्व पाया जाता है । इसी प्रकार चौदह मार्गणाओमें भी रागी-द्वेषी जीवोके सत्त्व अस्त्वका निर्णय करना चाहिए । (६) रागी-द्वेषी जीवोके प्रमाणका निर्णय करनेवाला अनुयोगद्वार द्रव्यप्रमाणानुगम कहलाता है । इसके भी ओघ और आदेशकी अपेक्षा दो प्रकारका निर्देश है । ओघनिर्देशकी अपेक्षा रागभावके धारक मिथ्यादृष्टि जीव अनन्त है और द्वेषभावके धारक भी मिथ्यादृष्टि जीव अनन्त है सासादनादिगुणस्थानवर्ती असंख्यात है । आदेशनिर्देशकी अपेक्षा तिर्यगतिमे राग-द्वेषके धारक अनन्त जीव है और शेष गतियोंमे असंख्यात है । इन्द्रियमार्गणामे एकेन्द्रियोमे अनन्त और विकलेन्द्रिय तथा सकलेन्द्रिय जीवोंमे असंख्यात है । इस क्रमसे सभी मार्गणाओमे रागी द्वेषी जीवोका द्रव्यप्रमाण जान लेना चाहिए । (७) रागी द्वेषी जीवोके वर्तमानकालिक निवासके प्रतिपादन करनेवाले अनुयोगद्वारको क्षेत्रानुगम कहते हैं । इसका भी ओघ और आदेशकी अपेक्षा दो प्रकारका निर्देश है । ओघनिर्देशकी अपेक्षा रागी और द्वेषी मिथ्यादृष्टि जीव सर्वलोकमे रहते हैं । सासादनादिगुणस्थानवर्ती रागी द्वेषी जीव लोकके असंख्यातवे भागमे रहते हैं । राग-द्वेष-रहित सयोगिकेवली लोकके असंख्यातवे भागमे, असंख्यात बहुभागोमे और सर्वलोकमे रहते हैं । आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नारकी, मनुष्य और देव लोकके असंख्यातवे भागमे रहते हैं । तिर्यगतिके जीव सर्वलोकमे रहते हैं । इन्द्रियमार्गणाकी अपेक्षा एकेन्द्रिय जीव सर्वलोकमे और विकलेन्द्रिय जीव लोकके असंख्यातवे भागमे रहते हैं । सकलेन्द्रिय जीव लोकके असंख्यातवे भागमे, असंख्यात बहुभागमे और सर्वलोकमे रहते हैं । इस प्रकारसे शेष मार्गणाओके क्षेत्रको जान लेना चाहिए । (८) रागी द्वेषी जीवोके त्रिकालवर्ती निवासरूप क्षेत्रके प्रतिपादन करनेवाले अनुयोगद्वारको स्पर्शानुगम कहते हैं । इसके भी ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश ये दो भेद हैं । ओघनिर्देशकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टि रागी द्वेषी जीवोने सर्व लोकका स्पर्श किया है । सासादनगुणस्थानवर्ती रागी द्वेषी जीवोने स्वस्थानकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवाँ भाग, विहारवत्स्वस्थानकी अपेक्षा लोकनालीके चौदह भागोमेसे आठ भाग, मारणान्तिकसमुद्घातकी अपेक्षा चौदह भागोमेसे वारह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । इसी प्रकार शेष गुणस्थानोके रागी द्वेषी जीवोके यथासंभव त्रिकालगोचर स्पर्शनक्षेत्रको जान लेना चाहिए । (९) नाना जीवोकी अपेक्षा कालानुगमका भी दो प्रकारका निर्देश है । ओघनिर्देशकी अपेक्षा रागी द्वेषी जीव सर्व काल होते हैं, क्योंकि, ऐसा कोई भी समय नहीं है, जब कि संसारमे रागी द्वेषी जीव न पाये जावे । आदेशनिर्देशकी अपेक्षा भी रागी द्वेषी जीव सर्वकाल है, केवल सान्तर-मार्गणाओको छोड़कर । उनमेसे उपशमसम्यग्दृष्टि, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, लब्धपर्याप्त मनुष्य आदिका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्योपमका असंख्यातवाँ भाग है ।

इसी प्रकारसे श्रेय मार्गणाओंका यथार्थभवन काल जान लेना चाहिए । (१०) नानार्गदर्शी अपेक्षा अन्तरानुगमका भी निर्देश दो प्रकारका है । ओवनिर्देशकी अपेक्षा रागी द्वेषी जीवोंका अन्तर नहीं है, क्योंकि, सर्वेव रागी द्वेषी जीवोंका अन्तर ही पाया जाता है । इसी प्रकार सान्तरमार्गणाओंको श्लोडकर श्रेय मार्गणाओंका भी अन्तर नहीं है । सान्तरमार्गणाओंके लक्ष्यपर्याप्त मनुष्योंका जवन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर मनुष्यपमरा अन्तरगतवर्गका भाग है । वैकृतिकमिश्रका जवन्य एक समय, उत्कृष्ट वाक्य सुखी आत्मनिष्ठाका जवन्य एक समय, उत्कृष्ट वर्षाप्रवाह, अपमानवैरी तथा सन्तमग्नवर्गविकर्षी जीवोंका जवन्य एक समय और उत्कृष्ट छत्र मान, तथा प्रशमनवर्गवर्धनी जीवोंका जवन्य एक समय और उत्कृष्ट चापीस अंतोगत्रप्रमाण अन्तर जानना चाहिए । (११) रागभावके धारक जीव सर्व जीवोंके विनम्र भाग हैं और द्वेषभावके धारक जीव सर्वजीवोंके विनम्र भाग हैं । इस प्रकारके विभागके निर्णय करनेवाले अनुयोगद्वारा भागाभागानुगम कहते हैं । इस अनुयोगद्वाराका भी ओप ओर आदेशकी अपेक्षा दो प्रकारका निर्देश है । उनमेंसे ओवनिर्देशकी अपेक्षा रागभावके धारक जीव सर्वजीवोंके संख्याके (विनम्र कि वीतराग मिद्व सम्मिलित नहीं है) नाधिक विभाग है अर्थात् यदि रागी द्वेषी जीवोंकी संख्याके समान चार भाग किये जायें तो उनमेंसे दो भाग तो पूरे और कुछ अधिक रागी जीव हैं । तथा द्वेषभावके धारक जीव दो भागोंमेंसे कुछ कम संख्याप्रमाण हैं । उन्का कारण यह है कि द्वेषभावके धारक जीवोंकी अपेक्षा रागभावके धारक जीव कुछ अधिक हैं, क्योंकि, समस्त देवराशिके लोभकपाय अधिक मात्रामें पाई जाती हैं । इसी प्रकार मार्गणाओंमें भी भागाभागको जान लेना चाहिए । (१२) रागी द्वेषी जीवोंके हीनाधिकताके प्रतिपादन करनेवाले अनुयोगद्वाराको अल्पबहुत्यानुगम कहते हैं । इसका भी दो प्रकारका निर्देश है—ओवनिर्देश और आदेशनिर्देश । ओवनिर्देशकी अपेक्षा द्वेषभावके धारक जीव अल्प है और रागभावके धारक जीव उनसे विशेष अधिक हैं । आदेशकी अपेक्षा नरत्नगतिमें रागभावके धारक जीव कम हैं और द्वेषभावके धारक जीव उनमें संख्यातगुणित अधिक है । देवगतिमें द्वेषभावके धारक जीव अल्प हैं और रागभावके धारक जीव संख्यातगुणित है । तिर्यच और मनुष्योंमें द्वेषभावके धारक जीव अल्प हैं । इसी क्रममें यथार्थभवन श्रेय मार्गणाओंमें भी रागी द्वेषी जीवोंका अल्पबहुत्व जान लेना चाहिए ।

इस प्रकार प्रेयोद्वेषविभक्ति समाप्त हुई ।

पयडिविहत्ती

१. 'विहत्ति द्विदि अणुभागे च' त्ति अणियोगद्वारे विहत्ती णिक्खियवियव्वा-
णामविहत्ती ठवणविहत्ती दव्वविहत्ती खेत्तविहत्ती कालविहत्ती गणणविहत्ती संठाण-
विहत्ती भावविहत्ती चेदि । २. णोआगमदो दव्वविहत्ती दुविहा कम्मविहत्ती चेव
णोकम्मविहत्ती चेव । ३. कम्मविहत्ती थप्पा । ४. तुल्लपदेसियं दव्वं, तुल्लपदेसियस्स
दव्वस्स अविहत्ती । ५. वेमादपदेसियस्स विहत्ती । ६. तदुभएण अवत्तव्वं ।

प्रकृतिविभक्ति

अत्र यतिवृषभाचार्य विभक्तिके प्ररूपण करनेके लिए उत्तरसूत्र कहते हैं—

चूर्णिसू०—'विहत्ति द्विदि अणुभागे च' इस गाथांशसे सूचित अनुयोगद्वारमे
'विभक्ति' इस पदका निक्षेप करना चाहिए—नामविभक्ति, स्थापनाविभक्ति, द्रव्यविभक्ति,
क्षेत्रविभक्ति, कालविभक्ति, गणनाविभक्ति, संस्थानविभक्ति, और भावविभक्ति ॥१॥

अपने स्वरूपमें प्रवृत्त और बाह्य अर्थकी अपेक्षासे रहित 'विभक्ति' यह शब्द नाम-
विभक्ति है । तद्राकार और अतद्राकारसे स्थापितकी गई विभक्तिको स्थापनाविभक्ति कहते
हैं । आगम और नोआगमके भेदसे द्रव्यविभक्ति दो प्रकारकी है । विभक्ति-विषयक प्राभृतका
व्यायक किन्तु वर्तमानमें अनुपयुक्त जीवको आगमद्रव्यविभक्ति कहते हैं । इस प्रकार इन तीन
निक्षेपोका स्वरूप सुगम होनेसे उन्हें न कहकर अब नोआगमद्रव्यविभक्तिका स्वरूप कहनेके
लिए यतिवृषभाचार्य उत्तर सूत्र कहते हैं—

चूर्णिसू०—नोआगमद्रव्यविभक्ति दो प्रकारकी है—कर्मद्रव्यविभक्ति और नोकर्मद्रव्य-
विभक्ति । कर्मद्रव्यविभक्तिको स्थापित करना चाहिए, क्योंकि, वह बहुवर्णनीय है, तथा
उसीसे प्रकृतमें प्रयोजन है ॥२-३॥

अब चूर्णिकार नोकर्मद्रव्यविभक्तिका वर्णन करते हैं—

चूर्णिसू०—तुल्य-प्रदेशवाला एक द्रव्य तुल्य-प्रदेशवाले अन्य द्रव्यके साथ अविभक्ति
अर्थान् समान है । वही द्रव्य विसदृश प्रदेशवाले द्रव्यके साथ विभक्ति अर्थान् असमान है ।
तथा तदुभय अर्थान् विभक्ति और अविभक्तिरूपमें युगपद् विवक्षित द्रव्य अवक्तव्य
है ॥४-६॥

विशेषार्थ—विभक्ति, असमान, असदृश, भेद और विभाग एकार्थवाची शब्द है,
तथा अविभक्ति, समान, सदृश, अभेद और अविभाग ये सब एकार्थवाची शब्द हैं । समान
प्रदेशवाला द्रव्य समान प्रदेशवाले अन्य द्रव्यके सदृश होता है, किन्तु उनमेंसे यदि एक
द्रव्य एकादि प्रदेशोंसे अधिक हो जाय तो वह पूर्व विवक्षित द्रव्यसे विसदृश कहलायगा ।
यह विसदृशता केवल प्रदेशोंकी अपेक्षा ही जानना चाहिए, न कि सत्त्व, प्रमेयत्व आदि
गुणोंकी अपेक्षा, क्योंकि उनकी अपेक्षा तो उन दोनोंमें प्रदेशकृत असमानता होते हुए भी

७. खेत्तविहत्ती तुल्यपदेसोगाढं तुल्यपदेसोगाढस्स अविहत्ती । ८. कालविहत्ती तुल्यसमयं तुल्यसमयस्स अविहत्ती । ९. गणणविहत्तीए एको एकस्स विहत्ती । १०. संठाणविहत्ती दुविहा संठाणदो च संठाणवियप्पदो च । ११. संठाणदो वडुं वडुस्स अविहत्ती । १२. वडुं तंसस्स वा चउरंसस्स वा आयदपरिमंडलस्स वा विहत्ती ।

सदृशता पाई जाती है । इसी प्रकार जब विभक्ति-अविभक्तिरूप द्रव्योंके युगपत् कहनेकी विवक्षा की जाती है, तो वह द्रव्य अवक्तव्य हो जाता है । क्योंकि समान-असमान प्रदेशवाले दो द्रव्य एक साथ किसी एक शब्दके द्वारा नहीं कहे जा सकते हैं । इन तीनों भेदरूप द्रव्यविभक्तिको नोकर्मद्रव्यविभक्ति कहते हैं ।

चूर्णिसू०—तुल्य-प्रदेशोंसे अवगाढ क्षेत्र तुल्य-प्रदेशोंसे अवगाढ क्षेत्रके साथ समान है, यह क्षेत्रविभक्ति है ॥७॥

विशेषार्थ—तुल्य-प्रदेशोंसे अवगाढ (व्याप्त) क्षेत्र, अन्य तुल्य-प्रदेशोंसे व्याप्त क्षेत्रके समान है । दो प्रदेश अधिक क्षेत्रके साथ असमान है समान और असमान प्रदेशवाले क्षेत्रको युगपत् कहनेकी अपेक्षा अवक्तव्य है । इस प्रकार इन तीनों भंगोंकी अपेक्षा क्षेत्र-सम्बन्धी विभक्ति या अविभक्तिको कहना क्षेत्रविभक्ति है ।

चूर्णिसू०—तुल्य-समयवाला द्रव्य अन्य तुल्य-समयवाले द्रव्यके साथ अविभक्ति है, यह कालविभक्ति है ॥८॥

विशेषार्थ—समान-समयवाला द्रव्य दूसरे समान-समयवाले द्रव्यके समान है । दो समय अधिक द्रव्य असमान है । समान और असमान समयवाले द्रव्योंको एक साथ कहनेकी अपेक्षा अवक्तव्य है । इस प्रकार इन तीनों भंगोंकी अपेक्षा विभक्ति-अविभक्तिको कहना कालविभक्ति कहलाती है ।

चूर्णिसू०—एक संख्या एक संख्याके साथ समान है, यह गणनाविभक्ति है ॥९॥

विशेषार्थ—एक संख्याकी एक संख्याके साथ अविभक्ति है, अर्थात् विवक्षित एक संख्यावाला द्रव्य अन्य एक संख्यावाले द्रव्यके साथ समान है, विसदृश संख्याके साथ असमान है । तथा समान और असमान संख्याओंकी युगपत् विवक्षा होने पर अवक्तव्य है । यह गणनाविभक्ति है ।

चूर्णिसू०—संस्थान और संस्थानविकल्पके भेदसे संस्थानविभक्ति दो प्रकार है ॥१०॥

विशेषार्थ—त्रिकोण, चतुष्कोण, वृत्त आदि अनेक प्रकारके आकारोंको संस्थान कहते हैं । तथा उन्हीं त्रिकोण, चतुष्कोण, वृत्त आदिके भेद-प्रभेदोंको संस्थान-विकल्प कहते हैं ।

चूर्णिसू०—वृत्त द्रव्य वृत्त द्रव्य के साथ सदृश है । विवक्षित वृत्त द्रव्य त्रिकोण, चतुष्कोण, अथवा आयत-परिमंडल आकारवाले अन्य द्रव्यके साथ असदृश है । (वृत्त और अवृत्त आकारवाले दो द्रव्य युगपत् कहनेकी अपेक्षा अवक्तव्य है ।) यह संस्थानविभक्ति है ॥११-१२॥

१३. वियप्पेण वट्टसंठाणाणि असंखेज्जा लोगा । १४. एवं तंस-चउरंस-आयद-परिमंडलाणं । १५ सरिसवट्टं सरिसवट्टस्स अविहत्ती । १६. एवं सव्वत्थ । १७. जा सा भावविहत्ती सा दुविहा आगमदो य णोआगमदो य । १८. आगमदो उवजुत्तो पाहुडजाणओ । १९. णो आगमदो भावविहत्ती ओदइओ ओदइयस्स अविहत्ती । २०. ओदइओ उवसमिएण भावेण विहत्ती । २१. तट्टुभएण अवत्तव्वं । २२. एवं सेसेसु वि ।

चूर्णिसू०—उत्तर विकल्पोकी अपेक्षा वृत्तसंस्थान असंख्यातलोकप्रमाण है । इसी प्रकार त्रिकोण, चतुष्कोण और आयत-परिमंडल संस्थानोके भी उत्तर विकल्प असंख्यात-लोकप्रमाण जानना चाहिए । सदृश-वृत्त आकार, अन्य सदृश-वृत्त आकारके सदृश होता है । इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिए । यह संस्थानविकल्पविभक्ति है ॥ १३-१६ ॥

विशेषार्थ—जिस प्रकार वृत्तके तीन भंग कहे हैं, उसी प्रकारसे चतुष्कोण, पंचकोण, आदिके भी तीन-तीन भंग जानना चाहिए । तथा इसी प्रकारसे वृत्त, चतुष्कोण आदिके भेद-प्रभेदोंके भी तीन-तीन भंग जानना चाहिए । इस प्रकार यह सब मिलाकर संस्थान-विभक्ति कहलाती है ।

चूर्णिसू०—जो भावविभक्ति है, वह आगम और नोआगमके भेदसे दो प्रकार है ॥ १७ ॥

विशेषार्थ—श्रुतज्ञानको आगमभाव कहते हैं और श्रुतज्ञानव्यतिरिक्त औदयिक आदि भावोंको नोआगमभाव कहते हैं । इन दोनोंके भेदसे भावविभक्तिके दो भेद होते हैं ।

चूर्णिसू०—भावविभक्ति-विषयक प्राभृतका ज्ञायक और वर्तमानमें उपयुक्त जीवको आगमभावविभक्ति कहते हैं । औदयिकभाव औदयिकभावके समान है । औदयिकभाव औप-शमिकभावके साथ असमान है । तट्टुभयकी अपेक्षा अवक्तव्य है । यह नोआगमभावविभक्ति है ॥ १८-२१ ॥

विशेषार्थ—नोआगमभावके पांच भेद होते हैं—औदयिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक क्षायिक और पारिणामिकभाव । इनमें गति औदयिकभाव कपाय औदयिकभावके समान है, क्योंकि, औदयिकभावकी अपेक्षा दोनोंमें कोई भेद नहीं है । कपाय औदयिकभाव सम्यक्त्व-औपशमिकभावके साथ असमान है, क्योंकि, उदय-जनितभावके साथ उपशम-जनितभावकी समानताका विरोध है । तट्टुभय अर्थात् औदयिकभाव औदयिक और औपशमिकभावके साथ युगपत् कहनेपर अवक्तव्य होता है, क्योंकि, विभक्ति और अविभक्ति इन दोनों शब्दोंके एक साथ कहनेका कोई उपाय नहीं है । यह नोआगमभावविभक्ति है ।

चूर्णिसू०—इसी प्रकारसे शेष भावोंमें भी जानना चाहिए ॥ २२ ॥

विशेषार्थ—जिस प्रकार औदयिकभावके औपशमिकभावके साथ विभक्ति और अवक्तव्य रूप दो भंग कहे हैं, उसी प्रकारसे क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिकभावके साथ भी दो दो भंग होते हैं । जैसे—औदयिकभाव क्षायिकभावके साथ विभक्ति है, तथा

२३. एवं सव्वत्थ (२) । २४ जा सा दव्वविहत्तीए कम्मविहत्ती तीए पयदं ।

२५. तत्थ सुत्तगाहा ।

(४) पयडीए मोहणिजा विहत्ती तह द्विदीए अणुभागे ।

उक्कस्समणुक्कस्सं झीणमझीणं च ठिदियं वा ॥२२॥

औद्यिक और क्षायिक, इन दोनों भावोंकी युगपद् विवक्षामे अवक्तव्य है । औद्यिकभाव क्षायोपगमिकभावके साथ विभक्ति है, तथा औद्यिक और क्षायोपगमिक, इन दोनों भावोंकी युगपद् विवक्षामे अवक्तव्य है । औद्यिकभाव पारिणामिकभावके साथ विभक्ति है, तथा औद्यिक और पारिणामिक, इन दोनों भावोंकी युगपद् विवक्षामे अवक्तव्य है ।

चूर्णिसू०—इसी प्रकार सर्वत्र जानना (२) ॥२३॥

विशेषार्थ—जिस प्रकारसे औद्यिकभावके स्व और परके संयोगसे तीन भंग कहे हैं, उसी प्रकारसे औपगमिक, क्षायोपगमिक, क्षायिक और पारिणामिक, इन चारों भावोंके भी स्व-परके संयोगसे पृथक्-पृथक् तीन तीन भंग जानना चाहिए । सूत्रके अन्तमे यतिवृषभाचार्यने (२) इस प्रकार दोका अंक लिखा है, जिसका अभिप्राय यह है कि द्रव्यविभक्ति, क्षेत्रविभक्ति, कालविभक्ति, भावविभक्ति और संस्थानविभक्तिके जो तीन तीन भंग बतलाये हैं, उनमेंसे प्रकृतमे दो दो भंग ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि, विभक्तिका निक्षेप करते समय विभक्तिसे विरुद्ध अर्थवाली अविभक्तिका ग्रहण करना नहीं बन सकता है । यहाँ यह शंकाकी जा सकती है कि यदि ऐसा है, तो फिर सूत्रकारको 'अवक्तव्यभंग' भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि, उसमें भी विभक्तिके अर्थका अभाव है ? पर इसका समाधान यह है कि विभक्तिके बिना विभक्ति और अविभक्ति, इन दोनोंका संयोग संभव नहीं, और उसके बिना अवक्तव्य भंग संभव नहीं, अतएव विभक्तिके साथ अवक्तव्य भंगका ग्रहण किया गया है । यहाँ यह भी शंका की जा सकती है कि उक्त दोनों भंगोंकी वात चूर्णिकारने अक्षरोके द्वारा क्यों नहीं कही और (२) ऐसा दोका अंक ही क्यों लिखा ? इसका समाधान यह है कि यदि वे दो का अंक न लिखकर अपने अभिप्रायको अक्षरोके द्वारा व्यक्त करते, तो फिर उनकी इस चूर्णिकी 'वृत्तिसूत्र' संज्ञा न रहती, फिर उसे टीका, पद्धतिका आदि नामोंसे पुकारा जाता । अतएव यहाँपर और आगे-पीछे जहाँ कहीं भी ऐसी बातोंके व्यक्त करनेके लिए यतिवृषभाचार्यने अंक स्थापित किये हैं, वह उन्होंने अपनी चूर्णिकी 'वृत्तिसूत्र' संज्ञा सार्थक करनेके लिए किये हैं । आचार्य यतिवृषभको वीरसेनाचार्यने 'सो वित्तिसुत्तकत्ता जइवसहो मे वरं देऊ' इस मंगल-गाथामे 'वृत्तिसूत्र-कर्ता' के रूपमे ही स्मरण किया है ।

चूर्णिसू०—इन उपर्युक्त विभक्तियोंमेंसे यहाँपर द्रव्यविभक्तिके अन्तर्गत जो कर्म-विभक्ति है, उससे प्रयोजन है । उसके लक्ष्यमे यह (वक्ष्यमाण) सूत्र-गाथा है ॥२४-२५॥

(४) मोहनीय कर्मकी प्रकृतिविभक्ति, स्थितिविभक्ति, अनुभागविभक्ति, उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति, क्षीणाक्षीण और स्थित्यन्तिककी प्ररूपणा करना चाहिए ॥२२॥

२६. पदच्छेदो । तं जहा-पयडीए मोहणिजा विहत्ति त्ति एसा पयडि-
विहत्ती (१) । २७. तह ड्ढिदी चेदि एसा ठिदिविहत्ती (२) । २८. अणुभागे
त्ति अणुभागविहत्ती (३) । २९. उक्कस्समणुक्कस्सं त्ति पदेसविहत्ती (४) । ३०.
झीणमझीणं त्ति (५) । ३१. ठिदियं वा त्ति (६) । ३२ तत्थ पयडिविहत्ति
वण्णहस्सामो । ३३. पयडिविहत्ती दुविहा मूलपयडिविहत्ती च उत्तरपयडिविहत्ती च ।

चूर्णिसू०—अब इस गाथासूत्रका पदच्छेद-पदोका विभाग—उसके अर्थ-रूपप्रकरणके
लिए करते हैं । वह इस प्रकार है—‘पयडीए मोहणिजा विहत्ती’ इन पदसे यह प्रकृतिविभक्ति
नामक प्रथम अर्थाधिकार सूचित किया गया है (१) ॥२६॥

विशेषार्थ—पद चार प्रकारके होते हैं—अर्थपद, प्रमाणपद, मध्यमपद और व्यवस्था-
पद । जितने अक्षरोंसे अर्थका ज्ञान हो, उसे अर्थपद कहते हैं । वाक्य भी इसीका दूसरा
नाम है । आठ अक्षरोंके समूहको प्रमाणपद कहते हैं । सोलह गों चौतीस कोटि, तेरासी
लाख, अष्टत्तर सौ अट्ठामी (१६३४८३०७८८८) अक्षरोंका मध्यमपद होता है । इसका
उपयोग अंग और पूर्वोक्त प्रमाणसे होता है । जितने वाक्यसमूहसे एक अधिकार समाप्त हो,
उसे व्यवस्थापद कहते हैं । अथवा सुवन्त और तिडन्त पदोंको भी व्यवस्थापद कहते हैं ।
प्रकृतमें यहाँपर व्यवस्थापदमे प्रयोजन है; क्योंकि, उससे प्रकृत गाथाका अर्थ किया जा
रहा है ।

चूर्णिसू०—गाथा-पठित ‘तह ड्ढिदी चेदि’ इस पदसे स्थितिविभक्ति नामक द्वितीय
अर्थाधिकार सूचित किया गया है (२) । ‘अणुभागे त्ति’ इस पदसे अनुभागविभक्ति
नामक तृतीय अर्थाधिकार सूचित किया गया है (३) । ‘उक्कस्समणुक्कस्सं त्ति’ इस पदसे
प्रदेशविभक्ति नामक चतुर्थ अर्थाधिकार सूचित किया गया है (४) । ‘झीणमझीणं त्ति’ इस
पदसे क्षीणाक्षीण नामक पंचम अर्थाधिकार सूचित किया गया है (५) । ‘ठिदियं वा त्ति’
इस पदसे ‘स्थित्यन्तिक’ नामक छठा अर्थाधिकार सूचित किया गया है (६) ॥२७-३१॥

विशेषार्थ—इस प्रकार यतिवृषभाचार्यके अभिप्रायसे इन गाथाके द्वारा उक्त छह
अर्थाधिकार सूचित किये गये हैं । किन्तु गुणधराचार्यके अभिप्रायसे स्थितिविभक्ति और
अनुभागविभक्ति नामक दो अर्थाधिकार ही कहे गये हैं । उक्त दोनों आचार्योंके अभिप्रायसे
कोई मत-भेद नहीं समझना चाहिए, क्योंकि, गुणधराचार्य सूत्रकार हैं, अतएव उनका अभिप्राय
संक्षेपसे कहने का है । किन्तु यतिवृषभाचार्य वृत्तिकार हैं, अतएव वे उसी बातको विस्तारके
साथ कह रहे हैं ।

चूर्णिसू०—अब इन उपर्युक्त छह अर्थाधिकारोंसे पहले प्रकृतिविभक्तिको वर्णन
करेंगे । प्रकृतिविभक्ति दो प्रकारकी है—मूलप्रकृतिविभक्ति और उत्तरप्रकृतिविभक्ति ॥ ३२-३३ ॥

३४. मूलपयडिविहत्तीए इमाणि अट्ट अणियांगदाराणि । तं जहा-सामित्तं कालो अंतरं णाणाजीवेहि भंगविचओ कालो अंतरं भागाभागो अप्पावहुमे त्ति ।
३५. एदेसु अणियोगदारेसु परुविदेसु मूलपयडिविहत्ती समत्ता होदि ।

चूर्णिसू०—इनमेसे मूलप्रकृतिविभक्तिमे ये आठ अनुयोगद्वार हैं । वे इस प्रकार है—एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल और अन्तर, तथा नानाजीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, काल, अन्तर, भागाभाग और अल्पबहुत्व । इन उपर्युक्त आठो अनुयोगद्वारोंके प्ररूपण करनेपर मूलप्रकृतिविभक्ति समाप्त होती है ॥ ३४—३५ ॥

विशेषार्थ—यतिवृषभाचार्यने उक्त आठो अनुयोगद्वारोंकी प्ररूपणा सुगम होनेसे नहीं की है । उनका संक्षेपसे वर्णन इस प्रकार जानना चाहिए—(१) गुणस्थानकी अपेक्षा मूल-प्रकृतिविभक्तिका स्वामी कौन है ? मोहकर्मकी सत्ता रखनेवाला किसी भी गुणस्थानमें स्थित कोई भी जीव मोहनीयकर्मविभक्तिका स्वामी है । मार्गणाओकी अपेक्षा नारक, तिर्यच और देवोंमें मोहकी अट्टावीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले होनेसे सभी जीव स्वामी है, मनुष्यगतिमें यथासंभव प्रकृतियोंकी सत्तावाले तदनुसार यथासंभव गुणस्थानवर्ती जीव स्वामी है । इसी प्रकारसे शेष इन्द्रिय आदि सभी मार्गणाओमें स्वामित्वका निर्णय कर लेना चाहिए । (२) गुणस्थानकी अपेक्षा मूलप्रकृतिविभक्तिका काल यथासंभव अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त है । मार्गणाओकी अपेक्षा नरकगतिमें मोहविभक्तिका जवन्यकाल दश हजार वर्ष और उत्कृष्टकाल तेतीस सागर है । तिर्यग्गतिमें मोहविभक्तिका जवन्यकाल क्षुद्र-भवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्टकाल अनन्तकाल या असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । मनुष्योंमें मोहविभक्तिका जवन्यकाल क्षुद्रभवप्रमाण और उत्कृष्टकाल पूर्वकोटि-वर्षपृथक्त्वसे अधिक तीन पत्यप्रमाण है । देवगतिमें मोहविभक्तिका जवन्यकाल दश हजार वर्ष और उत्कृष्टकाल तेतीस सागरोपम है । इसी वीजपदके अनुसार इन्द्रिय आदि शेषमार्गणाओमें कालका निर्णय कर लेना चाहिए । (३) गुणस्थानकी अपेक्षा मूलप्रकृतिविभक्तिका अन्तर नहीं होता है । मार्गणाओमें भी मूलप्रकृतिविभक्तिका अन्तर नहीं है । हाँ, उत्तरप्रकृतियोंकी अपेक्षा यथासंभव पदोंमें यथासंभव अन्तर, काल और स्वामित्व अनुयोगद्वारोंके अनुसार जान लेना चाहिए । (४) गुणस्थानकी अपेक्षा मूलप्रकृतिविभक्तिका नानाजीवसम्बन्धी भंगविचय इस प्रकार है—मूलप्रकृतिकी विभक्ति नियमसे होती है और अविभक्ति भी नियमसे होती है । इसी प्रकारसे मनुष्यपर्याप्त, त्रसकाय, संयत, शुक्लेश्या, भव्यसिद्धिक, सम्यग्दृष्टि आदि मार्गणाओमें मूल-प्रकृतिकी विभक्ति और अविभक्ति नियमसे होती है । लब्ध्यपर्याप्त मनुष्य, वैक्रियिकमिश्र-काययोग, उपगमसम्यग्दृष्टि आदिमें स्यात् विभक्ति होती है । औदारिकमिश्र, चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, संज्ञी आदि मार्गणाओमें स्यात् अविभक्ति होती है स्यात् नहीं भी होती है, इत्यादि प्रकारसे शेष मार्गणाओमें विभक्तिसम्बन्धी भंगविचय जान लेना चाहिए । (५) ओघसे नानाजीवोंकी अपेक्षा मूलप्रकृतिविभक्तिका सर्वकाल है । आदेशकी अपेक्षा

३६. तदो उत्तरपयडिविहत्ती दुविहा—एगेगउत्तरपयडिविहत्ती चेव पयडिड्डाण-
उत्तरपयडिविहत्ती चेव । ३७. तत्थ एगेगउत्तरपयडिविहत्तीए इमाणि अणियोगद्वाराणि ।
तं जहा—एगजीवेण सायित्तं कालो अंतरं णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमो परिमाणानुगमो
खेत्ताणुगमो पोसणानुगमो कालानुगमो अंतरानुगमो सणियासो अप्पावहुए त्ति ।
३८. एदेसु अणियोगद्वारेसु परुविदेसु तदो एगेगउत्तरपयडिविहत्ती समत्ता ।

यथासम्भव सर्वकाल, क्षुद्रभव, अन्तर्मुहूर्त, पल्योपसका असंख्यातवाँ भाग आदि काल
जानना चाहिए । (६) ओषसे नानाजीवोंकी अपेक्षा मूलप्रकृतिविभक्तिका अन्तर नहीं
है । मार्गणाओमें यथासम्भव पदोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर
यथासम्भव जानना चाहिये । जैसे—सामायिक, छेदोपस्थाना आदिमें पल्यका असंख्यातवाँ
भाग, सूक्ष्मराम्परायचारित्रका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट छह मास आदि । (७) ओषकी
अपेक्षा मूलप्रकृतिका भागाभागानुगम कहते हैं—मोहकी विभक्तिवाले जीव सर्वजीवराशिके
अनन्त बहुभाग-प्रमाण है, किन्तु अविभक्तिवाले जीव अनन्तवे भाग है । इसी प्रकारसे
नरकगति आदिमें अपनी-अपनी जीवराशिके प्रमाणसे सभी मार्गणाओमें भागाभाग जान लेना
चाहिए । ध्यान रखनेकी बात यह है कि जिन राशियोंका प्रमाण अनन्त है, वहाँपर
अनन्तके बहुभाग और एक भागके रूपसे भागाभागका निर्णय करना । और जहाँपर राशिका
प्रमाण असंख्यात है, वहाँपर असंख्यातके बहुभाग और एक भागरूपसे यथासंभव भागाभाग-
का निर्णय करना चाहिए । (७) अब मूलप्रकृति-सम्बन्धी अल्पवहुत्वका निर्णय करते हैं ।
ओषकी अपेक्षा मूलप्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव सबसे कम है और विभक्तिवाले जीव
उनसे अनन्तगुणित है । इसी वीज पदके अनुसार मार्गणाओमें भी अल्पवहुत्वका निर्णय
कर लेना चाहिए ।

चूर्णिसू०—अब उत्तरप्रकृतिविभक्तिका व्याख्यान करते हैं । वह दो प्रकारकी होती
है—एकैकउत्तरप्रकृतिविभक्ति और प्रकृतिस्थानउत्तरप्रकृतिविभक्ति ॥ ३६ ॥

विशेषार्थ—मोहनीयकर्म-सम्बन्धी अट्टाईस प्रकृतियोंकी जहाँपर पृथक्-पृथक् प्ररूपणा
की जाती है, उसे एकैकउत्तरप्रकृतिविभक्ति कहते हैं । तथा, जहाँपर अट्टाईस, सत्ताईस,
छत्वीस आदि सत्त्वस्थानोंके द्वारा मोहकर्मके उत्तरप्रकृतियोंकी प्ररूपणा की जाती है, उसे
प्रकृतिस्थानउत्तरप्रकृतिविभक्ति कहते हैं ।

चूर्णिसू०—उनमेंसे एकैकउत्तरप्रकृतिविभक्तिमें ये (ग्यारह) अनुयोगद्वार होते हैं ।
वे इस प्रकार हैं—एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल, अन्तर, नानाजीवोंकी अपेक्षा भंग-
विचयानुगम, परिमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शनानुगम, कालानुगम, अन्तरानुगम, सन्निकर्ष
और अल्पवहुत्व । इन ग्यारह अनुयोगद्वारोंके प्ररूपण किये जानेपर एकैकउत्तरप्रकृतिविभक्ति
नामका उत्तरप्रकृतिविभक्तिका प्रथम भेद समाप्त होता है ॥ ३७—३८ ॥

विशेषार्थ—एकैकउत्तरप्रकृतिविभक्तिके उपर्युक्त ग्यारह अनुयोगद्वारोंको सुगम

ससझकर चूर्णिकारने उनका व्याख्यान नहीं किया है। किन्तु आज तो उनका ज्ञान दुर्गम है, अतः संक्षेपसे उन अनुयोगद्वारोंका यहाँ व्याख्यान किया जाता है। मोहनीयकर्मकी एक एक करके सभी-अट्टाईस-उत्तरप्रकृतियोंके पृथक्-पृथक् स्वामियोंके वर्णन करनेवाले अनुयोगद्वारको स्वामित्वानुगम कहते हैं। इस स्वामित्वका निर्णय ओष और आदेश इन दोनोंके द्वारा किया जाता है। ओषकी अपेक्षा किये जानेवाले विचारको सामान्यनिर्णय कहते हैं। आचार्योंने जिज्ञासुजनोंकी संक्षेपरुचिको देखकर उनके अनुग्रहार्थ ओषका निर्देश किया है। किन्तु जो जिज्ञासुजन विस्तारसे तत्त्वको जानना चाहते हैं, उनके अनुग्रहार्थ आदेशका निर्देश किया। इसी बातको दूसरे शब्दोंमें इस प्रकार भी कह सकते हैं कि तीव्रबुद्धिवाले भव्यजनोंके लिए ओषसे वस्तु-निर्णय किया गया है और मन्दबुद्धि भव्योंके उपकारार्थ आदेशसे वस्तु-निर्णय किया गया है। यही अर्थ आगे सर्वत्र प्रत्येक अनुयोगद्वारमें किये गये दोनों प्रकारके निर्देशोंके विषयसे जानना चाहिए।

ओषप्ररूपणाके अनुसार मिथ्यात्वप्रकृतिकी विभक्तिका स्वामी कोई भी सम्यग्दृष्टि अथवा मिथ्यादृष्टि जीव है। अर्थात् मिथ्यादृष्टि जीवके और जिस सम्यग्दृष्टि जीवने मिथ्यात्वका क्षय नहीं किया है, उसके मिथ्यात्वविभक्ति होती है। मिथ्यात्वप्रकृतिकी अविभक्तिका स्वामी मिथ्यात्वका क्षय करनेवाला सम्यग्दृष्टि जीव है। सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिका स्वामी कोई एक मिथ्यादृष्टि अथवा सम्यग्दृष्टि जीव है। इन्हीं दोनों प्रकृतियोंकी अविभक्तिके स्वामी क्रमशः सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका उद्वेलन या क्षय करनेवाले मिथ्यादृष्टि अथवा सम्यग्दृष्टि जीव है। अनन्तानुबन्धीकपाय-चतुष्ककी विभक्तिका स्वामी मिथ्यादृष्टि, अथवा वह सम्यग्दृष्टि जीव है जिसने कि उसका विसंयोजन नहीं किया है। अनन्तानुबन्धीकपायकी विभक्तिका स्वामी अनन्तानुबन्धी-चतुष्कका विसंयोजन करनेवाला कोई एक सम्यग्दृष्टि जीव होता है। अप्रत्याख्यानावरणादि शेष वारह कपाय और हास्यादि नव नोकपायोंकी विभक्तियोंका स्वामी कोई एक सम्यग्दृष्टि अथवा मिथ्यादृष्टि जीव होता है। इन्हीं प्रकृतियोंकी अविभक्तिका स्वामी उस उस विवक्षित प्रकृतिकी सत्ताका क्षय करनेवाला कोई एक सम्यग्दृष्टि जीव होता है। यह ओषसे स्वामित्वका निर्णय किया। इसी प्रकार मनुष्य-त्रिक, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त पांचो मनोयोगी, पांचो वचनयोगी, काय-योगी, औदारिककाययोगी चक्षुदर्शनी अचक्षुदर्शनी, शुक्ललेत्रियक, भव्यसिद्धिक और अनाहारकजीवोंके मोहकर्मकी विभक्ति-अविभक्तिका स्वामित्व जानना चाहिए। इसी प्रकार आदेशके शेष भेदोंकी अपेक्षा भी प्रत्येक प्रकृतिके विभक्ति और अविभक्तिके स्वामित्वका निर्णय कर लेना चाहिए। (२) मोहनीयकर्मकी एक एक उत्तरप्रकृतिके विभक्ति-अविभक्तिसम्बन्धी कालके प्रतिपादक अनुयोगद्वारको कालानुगम कहते हैं। ओषसे मिथ्यात्व, अप्रत्याख्यानावरणादि वारह कपाय और नव नोकपायोंकी विभक्तिका काल अभव्योंकी अपेक्षा अनादि-अनन्त है, तथा भव्य जीवोंकी अपेक्षा अनादि-मान्त है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व इन दोनों प्रकृतियोंकी

विभक्तिका जघन्यकाल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्टकाल पल्यके तीन असंख्यातवे भागसे अधिक एक सौ वत्तीस सागर है । अनन्तानुबन्धी-चतुष्ककी विभक्तिका काल अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त, ऐसे तीन प्रकारका है । उनमेसे अनन्तानुबन्धीचतुष्कका सादि-सान्त जघन्यकाल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्टकाल कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तन है । इसी प्रकार आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमे मिथ्यात्व, वारह कपाय और नव नोकपायविभक्तिका जघन्यकाल दश हजार वर्ष और उत्कृष्टकाल तेनीस सागर है । इसी प्रकार सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी-चतुष्कका भी काल जानना चाहिए । विशेषता केवल यह है कि इनका जघन्यकाल एक समय है । उत्कृष्टकाल सातो नरकोमें अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति-प्रमाण है । केवल सातवे नरकमे अनन्तानुबन्धी-चतुष्कका जघन्यकाल अन्तमुहूर्त है । तिर्यग्गतिमे चाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिका जघन्यकाल क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट अनन्त काल है । अनन्तानुबन्धी-चतुष्कका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट अनन्तकाल है । सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल कुछ अधिक तीन पल्य है । पंचेन्द्रियतिर्यच, पंचेन्द्रियतिर्यच पर्याप्त और पंचेन्द्रियतिर्यच योनिमतियोंमे चाईस प्रकृतियोंका जघन्यकाल क्षुद्रभवग्रहण और उत्कृष्टकाल अन्तमुहूर्त है । इन्हीं जीवोके सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल पूर्वकोटि-पृथक्त्वसे अधिक तीन पल्य है । इसी प्रकार सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनीके अद्याईस प्रकृतियोंका काल जानना चाहिए । पंचेन्द्रियतिर्यच लब्ध्य-पर्याप्तोके छव्वीस प्रकृतियोंकी विभक्तिका जघन्यकाल क्षुद्रभवग्रहण और उत्कृष्टकाल अन्त-मुहूर्त है । सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तमुहूर्त है । इसी प्रकार लब्ध्यपर्याप्त मनुष्योका भी जानना चाहिए । देवगतिमे देवोके अद्याईस प्रकृतियोंकी विभक्तिका काल नारकियोंके समान है । विशेषकी अपेक्षा भवनवासियोंसे लेकर उपरिभ्रमैवेयक तक चाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिका जघन्य और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति-प्रमाण जानना चाहिए । इन्हीं देवोके सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । नव अनुदिश और पंच अनुत्तरोमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, वारह कपाय और नव नोकपायका जघन्य और उत्कृष्टकाल क्रमशः अपनी अपनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । सम्यक्त्वप्रकृति और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका जघन्यकाल क्रमशः एक समय और अन्तमुहूर्त है । तथा उत्कृष्टकाल अपनी अपनी स्थिति-प्रमाण है । इसी प्रकारमे इन्द्रियादि श्रेय मार्गणाओमे प्रत्येक प्रकृतिके विभक्ति-कालको जान लेना चाहिए ।

(३) विवक्षित प्रकृति-विभक्तिकालके समाप्त हो जाने पश्चात् दुवारा उसी प्रकृतिसम्बन्धी विभक्तिकालके प्रारम्भ होनेसे पूर्व तकके मध्यवर्ती विरह या अभावको अन्तरकाल कहते हैं और इसका अनुगम करनेवाले अनुयोगद्वारको अन्तरानुगम कहते हैं । ओघसे मिथ्यात्व, अप्रत्या-

ख्यानावरणादि वारह कपाय और नव नोकपायोकी विभक्तिका अन्तरकाल नहीं होता है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्व इन दोनों प्रकृतियोंकी विभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है। तथा उन्हींका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तन है। अनन्तानुबन्धीकपाय-चतुष्ककी विभक्तिका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम एकसाँ बत्तीस सागर है। इसी प्रकार आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंके वाईस प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है। जेप छह प्रकृतियोंमेंसे सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य अन्तरकाल एक समय तथा अनन्तानुबन्धीचतुष्कका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है। तथा इन्हीं छह प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल तेतीस सागर है। तिर्यग्गतिमें तिर्यचोंके सम्यक्त्व-प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका अन्तरकाल ओघके समान है। अनन्तानुबन्धी-चतुष्कका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तीन पत्य है। जेप वाईस प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है। पंचेन्द्रियतिर्यच, पंचेन्द्रिय तिर्यचपर्याप्त और पंचेन्द्रियतिर्यच योनिमती जीवोंके वाईस प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है। सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल पूर्वकोटि-पृथक्त्वसे अधिक तीन पत्य है। अनन्तानुबन्धीचतुष्कका अन्तरकाल तिर्यचसामान्यके समान है। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंका अन्तरकाल जानना चाहिए। पंचेन्द्रिय-तिर्यच लब्धपर्याप्तोंके सभी प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है। इसी प्रकार लब्धपर्याप्त मनुष्य, नव अनुदिग, पंच अनुत्तरवासी, देव, सर्व एकेन्द्रिय, सर्व विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रियलब्ध-पर्याप्त, त्रसलब्धपर्याप्त, पाँचों स्थावरकाय, औदारिकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी, अपगत-वेदी, अकपायी, मलज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनः-पर्ययज्ञानी, सर्व संयत, संयतासंयत, अवधिदर्शनी, अभव्य, सर्व सम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिध्यादृष्टि, मिध्यादृष्टि असंज्ञी और अनाहारक जीवोंका अन्तरकाल जानना चाहिए। देवोंमें सम्यक्त्वप्रकृति, और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य अन्तरकाल क्रमशः एक समय और अन्तर्मुहूर्त है। उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम इकतीस सागर है। इसी प्रकार शेष मार्गणाओमें भी प्रत्येक प्रकृतिकी विभक्तिके अन्तरकालको जानकर हृदयंगम करना चाहिए।

(४) नानाजीवोंकी अपेक्षा मोहनीयकर्मकी उत्तरप्रकृतियोंके विभक्ति-अविभक्तिसम्बन्धी भंगो अर्थात् विकल्पोंके अनुगम करनेवाले अनुयोगद्वारको नानाजीवभंगविचयानुगम अनुयोगद्वार कहते हैं। ओवसे मोहकर्मकी सभी प्रकृतियोंके विभक्ति और अविभक्ति करनेवाले जीव नियमसे होते हैं। इस लिए ओघकी अपेक्षा विभक्ति-अविभक्ति सम्बन्धी भंग नहीं होते हैं। किन्तु आदेशकी अपेक्षा (१) कदाचित् विवक्षित प्रकृतिकी विभक्तिवाला एक जीव होता है। (२) कदाचित् विवक्षित प्रकृतिकी अविभक्तिवाला एक जीव होता है। (३) कदाचित् विवक्षित प्रकृतिकी विभक्तिवाले अनेक जीव होते हैं। (४) कदाचित् विवक्षित प्रकृतिकी अविभक्ति-वाले अनेक जीव होते हैं। (५) कदाचित् विवक्षित प्रकृतिकी विभक्तिवाला एक जीव और

अविभक्तिवाला एक जीव होता है । (६) कदाचिन् विवक्षित प्रकृतिकी विभक्तिवाला एक जीव और अविभक्तिवाले अनेक जीव होते हैं । (७) कदाचिन् विवक्षित प्रकृतिकी विभक्तिवाले अनेक जीव और अविभक्तिवाला एक जीव होता है । (८) कदाचिन् विवक्षित प्रकृतिकी विभक्ति और अविभक्तिवाले अनेक जीव होते हैं । इस प्रकार आठ आठ भंग तक होते हैं, जिन्हें जयधवला टीकासे जानना चाहिए । विस्तारके भयसे यहाँ नहीं लिखा है । (५) मोहकर्मकी उत्तरप्रकृतियोंकी विभक्ति और अविभक्ति करनेवाले जीवोंके संख्याप्रमाणके निर्णय करनेवाले अनुयोगद्वारको परिमाणानुगम कहते हैं । ओघसे सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्व इन दो प्रकृतियोंके सिवाय शेष छव्वीस प्रकृतियोंकी विभक्ति करनेवाले जीवोंका परिमाण अनन्त है, और अविभक्तिवाले जीवोंका भी परिमाण अनन्त है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्व इन दोनों प्रकृतियोंकी विभक्ति करनेवाले जीवोंका परिमाण असंख्यात है, किन्तु उन्हींकी अविभक्ति-करनेवाले जीवोंका परिमाण अनन्त है । इसी प्रकार आदेशकी अपेक्षा भी विभक्ति और अविभक्ति करनेवाले जीवोंका परिमाण यथासंभव अनन्त, असंख्यात और संख्यात जान लेना चाहिए । (६) मोहकर्मसम्बन्धी उत्तरप्रकृतियोंकी विभक्ति और अविभक्ति करनेवाले जीवोंके वर्तमान निवासरूप क्षेत्रके निर्णय करनेवाले अनुयोगद्वारको क्षेत्रानुगम कहते हैं । ओघसे सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्व इन दो प्रकृतियोंके अतिरिक्त शेष छव्वीस प्रकृतियोंकी विभक्ति करनेवाले जीवोंका क्षेत्र सर्वलोक है, किन्तु अविभक्ति करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकका असंख्यातवाँ भाग, असंख्यात बहुभाग और सर्व लोक है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्व इन दोनों प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका क्षेत्र लोकका असंख्यातवाँ भाग है । इन्हीं दोनों प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीवोंका क्षेत्र सर्व लोक है । इसी प्रकार आदेशकी अपेक्षा भी विभक्ति-अविभक्ति करनेवाले जीवोंके क्षेत्रका निर्णय कर लेना चाहिए । (७) मोहकर्मसम्बन्धी उत्तरप्रकृतियोंकी विभक्ति और अविभक्ति करनेवाले जीवोंके त्रिकाल निवास-सम्बन्धी क्षेत्रके निर्णय करनेवाले अनुयोगद्वारको स्पर्शनानुगम कहते हैं । ओघसे सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्व इन दो प्रकृतियोंके अतिरिक्त शेष छव्वीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शन-क्षेत्र सर्व लोक है । इन्हीं छव्वीस प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र लोकका असंख्यातवाँ भाग, असंख्यात बहुभाग और सर्वलोक है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्व इन दोनों प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र लोकका असंख्यातवाँ भाग, त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग, अथवा सर्व लोक है । इन्हीं दोनों प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शनक्षेत्र सर्व लोक है । इसी क्रमसे आदेशकी अपेक्षा भी स्पर्शनक्षेत्रका निर्णय कर लेना चाहिए । (८) पहले जो कालका निर्णय किया गया है वह एक जीवकी अपेक्षा किया गया है, अब उसी कालका निर्णय नाना जीवोंकी अपेक्षा करते हैं । ओघसे मोहकी अट्ठाईस प्रकृतियोंकी विभक्ति-योंका काल सर्व काल है, अर्थात् नानाजीवोंकी अपेक्षा अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाले

जीव सर्वकाल पाये जाते हैं। आदेशकी अपेक्षा भी कालका निर्णय ओघके ही समान है। केवल कुछ पदोंमें खास विशेषता है, जैसे—आहारककाययोगी जीवोंके अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तमुहूर्त है। आहारकमिश्रयोगी जीवोंके अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तमुहूर्त है। उपगमसम्यग्दृष्टिके अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिका जघन्यकाल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्टकाल पल्योपमका असंख्यातवाँ भाग है। इस प्रकार अन्यपदोंके कालसम्बन्धी विशेषताको भी जान लेना चाहिए। (९) पहले एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका निर्णय किया गया है, अब नानाजीवोंकी अपेक्षा अन्तरका निर्णय करते हैं। ओघसे अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिका अन्तर नहीं है, क्योंकि नानाजीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल विभक्ति करनेवाले जीव पाये जाते हैं। इसी प्रकार आदेशकी अपेक्षा भी अन्तर जानना चाहिए। केवल कुछ पदोंके अन्तरकालोंमें विशेषता है, जैसे—लब्धपर्याप्त मनुष्यके अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्योपमका असंख्यातवाँ भाग है। वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके छत्र्वास प्रकृतियोंकी विभक्तिका अन्तर जघन्य एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वारह मुहूर्त है, इत्यादि। (१०) मोहकी विवक्षित प्रकृतिकी विभक्ति करनेवाला जीव अन्य अविवक्षित प्रकृतियोंकी विभक्ति करनेवाला है, अथवा अविभक्ति करनेवाला ? इस प्रकारके विचार करनेवाले अनुयोगद्वारको सन्निकर्ष अनुयोगद्वार कहते हैं। ओघसे जो जीव मिथ्यात्वकी विभक्ति करनेवाला है, वह सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबंधीकपायचतुष्ककी कदाचित् विभक्ति करनेवाला भी होता है और कदाचित् अविभक्ति करनेवाला भी होता है, किन्तु इनके अतिरिक्त शेष प्रकृतियोंकी नियमसे विभक्ति करनेवाला होता है। सम्यक्त्वप्रकृतिकी विभक्ति करनेवाला जीव मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबंधीचतुष्ककी कदाचित् विभक्ति करनेवाला भी होता है और कदाचित् अविभक्ति करनेवाला भी होता है। किन्तु इनके अतिरिक्त शेष प्रकृतियोंकी नियमसे विभक्ति करनेवाला होता है। इसी प्रकार ओघसे अवशिष्ट प्रकृतियोंका तथा आदेशसे सर्वपदोंमें समस्त प्रकृतियोंका यथासंभव सन्निकर्ष करना चाहिए। (११) मोहकर्मकी किस प्रकृतिकी विभक्ति करनेवाले जीव किस प्रकृतिकी विभक्ति करनेवाले जीवोंसे अल्प होते हैं या अधिक ? इस प्रकारके निर्णय करनेवाले द्वारको अल्पबहुत्व अनुयोगद्वार कहते हैं। ओघकी अपेक्षा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके बिना शेष छत्र्वास प्रकृतियोंकी अविभक्ति करनेवाले जीव सबसे कम हैं। उन्हींकी विभक्ति करनेवाले जीव अनन्तगुणित हैं। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्ति करनेवाले जीव सबसे कम हैं। उन्हींकी अविभक्ति करनेवाले जीव अनन्तगुणित हैं। आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व इन दो प्रकृतियोंकी विभक्ति करनेवाले जीव सबसे कम हैं। उन्हींकी अविभक्ति करनेवाले जीव उनसे असंख्यातगुणित हैं। इस प्रकारमें सभी मार्गणाओंमें अल्पबहुत्वका निर्णय यथासंभव जीवराशिके अनुगार कर लेना

३९. पयडिड्ढाणविहत्तीए इमाणि अणियोगदाराणि । तं जहा—एगजीवेण सामित्तं कालो अंतरं णाणाजीवेहि भंगविचओ परिमाणं खेत्तं फोसणं कालो अंतरं अप्पावहुअं भुजगारो पदणिकखेवो वड्ढि त्ति । ४०. पयडिड्ढाणविहत्तीए पुव्वं गमणिज्जा द्ढाणस-मुक्कित्तणा । ४१. अत्थि अट्ठावीसाए सत्तावीसाए छव्वीसाए चउवीसाए तेवीसाए वावीसाए एकवीसाए तेरसण्हं वारसण्हं एक्कारसण्हं पंचण्हं चट्ठण्हं तिण्हं दोण्हं एक्किस्से च (१५) । एदे ओवेण ।

चाहिए । इन अनुयोगद्वारोका विस्तृत वर्णन जयधवला टीकासे जानना चाहिए । यहाँ केवल इन अनुयोगद्वारोका दिशा-परिज्ञानार्थ संक्षिप्त स्वरूप दिखाया गया है । इस प्रकार इन ग्यारह अनुयोगद्वारोके वर्णन समाप्त होनेपर एकैकउत्तरप्रकृतिविभक्तिनामक प्रकृतिविभक्तिका प्रथम भेद समाप्त हुआ ।

चूर्णिसू०—प्रकृतिस्थानविभक्तिमे ये अनुयोगद्वार है । जैसे—एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल और अन्तर, नानाजीवोकी अपेक्षा भंगविचय, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, अल्पवहुत्व, भुजाकार, पदनिक्षेप और वृद्धि ॥३९॥

विशेषार्थ—प्रकृतिस्थान तीन प्रकारके होते है—बंधस्थान, उदयस्थान और सत्त्वस्थान । इनमेसे बंधस्थानोका वर्णन आगे कहे जानेवाले बंधक नामके अर्थाधिकारमे किया जायगा । उदयस्थानोका वर्णन आगे कहे जानेवाले वेदक नामके अर्थाधिकारमे किया जायगा । अतएव पारिशेषन्यायसे यहाँपर प्रकृतमे प्रकृतिसत्त्वस्थान विवक्षित है जिनका वर्णन उक्त तेरह अनुयोग द्वारोसे किया जायगा ।

चूर्णिसू०—प्रकृतिस्थानविभक्तिमे सत्त्वस्थानोकी समुत्कीर्तना सर्व-प्रथम जानना चाहिए ॥४०॥

विशेषार्थ—मोहकर्मके अट्ठाईस, सत्ताईस आदि सत्त्वस्थानोके कथन करनेको स्थान-समुत्कीर्तना कहते है । इसके परिज्ञान हुए विना शेष अनुयोगद्वारोका ज्ञान भी भली-भाँति नहीं हो सकता है । अतएव सबसे पहले उसीका वर्णन करते है ।

चूर्णिसू०—मोहनीयकर्मके अट्ठाईस, सत्ताईस, छव्वीस, तेईस, वाईस, इक्कीस, तेरह, वारह, ग्यारह, पाँच, चार, तीन, दो और एक प्रकृतिरूप (१५) पन्द्रह सत्त्वस्थान ओवकी अपेक्षा होते है ॥४१॥

विशेषार्थ—मोहनीयकर्मके मूलमे दो भेद है :-दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय । दर्शनमोहनीयके तीन भेद है :-मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृति । चारित्रमोहनीयके भी दो भेद है :-कपायवेदनीय और नोकपायवेदनीय । कपायवेदनीयके १६ भेद है:-अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, और संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ । नोकपायवेदनीयके ९ भेद है :-हास्य, रति, अरति, शोक, मयं, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद,

४२. एकस्मिन् विहत्तियो को होदि ? लोहसंजलणो । ४३. दोण्हं विहत्तियो को होदि ? लोहो माया च । ४४. तिण्हं विहत्ती लोहसंजलण-मायासंजलण-माणमंजलणाओ । ४५. चउण्हं विहत्ती चत्तारि संजलणाओ । ४६. पंचण्हं विहत्ती चत्तारि संजलणाओ पुरिमवेदो च । ४७. एकारसण्हं विहत्ती एदाणि चैव पंच छण्णोकसाया च । ४८. वारमण्हं विहत्ती एदाणि चैव इत्थिवेदो च । ४९. तेरसण्हं विहत्ती एदाणि चैव णवुंसयवेदो च । ५०. एकवीसाए विहत्ती एदं चैव अड्ड कसाया च । ५१. सम्मत्तेण वावीसाए विहत्ती । ५२. सम्मामिच्छत्तेण तेवीसाए विहत्ती ।

नपुंसकवेद । इन सभी उत्तरप्रकृतियोंके समूहमे अट्ठाईस प्रकृतियोंका सत्त्वस्थान होता है । सम्यक्त्वप्रकृतिके कम करनेसे सत्ताईसका, उसमेसे भी सन्यग्मिथ्यात्वके कम करनेसे छत्र्वांसका, अट्ठाईसमेसे अनन्तानुबंधीचतुष्कके कम करनेसे चौबीसका, इसमेंसे मिथ्यात्वके कम करनेसे तेईसका, सन्यग्मिथ्यात्वके कम करनेसे बाईसका और सम्यक्त्वप्रकृतिके कम करनेसे इक्कीसका सत्त्वस्थान होता है । इस इक्कीसमेसे अप्रत्याख्यानावरणादि आठ कपायोंके कम करनेसे तेरहका, इसमेसे नपुंसकवेद कम करनेसे वारहका, स्त्रीवेद कम करनेसे ग्यारहका, इसमेसे भी हास्यादि छह नोकपाय कम करनेसे पांचका, उसमेसे भी एक पुरुषवेद कम करनेसे चारका सत्त्वस्थान हो जाता है । इसमेसे भी क्रोधसंज्वलनके कम करनेसे तीनका, मानसंज्वलनके कम करनेसे दोका और मायासंज्वलनके कम करनेसे एक प्रकृतिरूप सत्त्वस्थान होता है ।

चूर्णिसू०—एक प्रकृतिकी विभक्ति करनेवाला कौन है ? केवल एक लोभसंज्वलनकी सत्तावाला जीव एक प्रकृतिरूप सत्त्वस्थानकी विभक्ति करनेवाला होता है । दो प्रकृतियोंकी विभक्ति करनेवाला कौन है ? लोभसंज्वलन और मायासंज्वलन, इन दो प्रकृतियोंकी सत्तावाला जीव दो प्रकृतिरूप सत्त्वस्थानकी विभक्ति करनेवाला होता है । लोभसंज्वलन, मायासंज्वलन और मानसंज्वलन, इन तीन प्रकृतियोंकी सत्तावाला जीव तीन प्रकृतिरूप सत्त्वस्थानकी विभक्ति करनेवाला होता है । चारो संज्वलन-कपायोंकी सत्तावाला जीव चार प्रकृतिरूप सत्त्वस्थानकी विभक्ति करता है । चार संज्वलन और पुरुषवेदकी सत्तावाला जीव पाँच प्रकृतिरूप सत्त्वस्थानकी विभक्ति करता है । चार संज्वलन, पुरुषवेद और हास्यादि छह नोकपाय इनकी सत्तावाला जीव ग्यारह प्रकृतिरूप सत्त्वस्थानकी विभक्ति करता है । स्त्रीवेद-सहित उक्त प्रकृतिवाला अर्थात् चार संज्वलन, और नपुंसकवेदके विना शेष आठ नोकपाय, इनकी सत्तावाला जीव वारह प्रकृतिरूप सत्त्वस्थानकी विभक्ति करता है । नपुंसकवेद और उक्त वारह प्रकृतियों अर्थात् चारो संज्वलन और नवों नोकपायोंकी सत्तावाला जीव तेरह प्रकृतिरूप सत्त्वस्थानकी विभक्ति करता है । उक्त तेरह प्रकृतियों और अप्रत्याख्यानावरण आदि आठ कपायोंकी सत्तावाला जीव इक्कीस प्रकृतिरूप सत्त्वस्थानकी विभक्ति करता है । सम्यक्त्वप्रकृति-सहित उक्त इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जीव बाईस प्रकृतिरूप सत्त्व-

५३. मिच्छुत्तेण चट्ठीसाए विहत्ती । ५४. अट्टावीसादो सम्मत्त-सम्मामिच्छुत्तेसु अवणित्तेसु छट्ठीसाए विहत्ती । ५५. तत्थ सम्मामिच्छुत्ते पक्खित्ते सत्तावीसाए विहत्ती । ५६. सव्वाओ पयडीओ अट्टावीसाए विहत्ती । ५७. संपहि एसा । ५८. (संदिट्ठी) २८ २७ २६ २४ २३ २२ २१ १३ १२ ११ ५ ४ ३ २ १ । ५९. एवं गदियादिसु णेदव्वा । ६०. सामित्तं ति जं पदं तस्स विहासा पढमाहियारो । ६१. तं जहा-एक्किस्से विहत्तिओ को होदि ? ६२. णियमा मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा खवओ एक्किस्से विहत्तीए सामिओ ।

स्थानकी विभक्ति करता है । सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृति-सहित उक्त वाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जीव तेईस प्रकृतिरूप सत्त्वस्थानकी विभक्ति करता है । मिथ्यात्वप्रकृति-सहित उक्त तेईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जीव चौबीस प्रकृतिरूप सत्त्वस्थानकी विभक्ति करता है । अट्टाईस प्रकृतियोंसे सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दो प्रकृतियोंके अपनीत अर्थात् कम कर देनेपर ओप छट्ठीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जीव छट्ठीस प्रकृतिरूप सत्त्वस्थानकी विभक्ति करता है । उक्त छट्ठीस प्रकृतिरूप सत्त्वस्थानमे सम्यग्मिथ्यात्वके प्रक्षेप करनेपर सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जीव सत्ताईस प्रकृतिरूप सत्त्वस्थानकी विभक्ति करता है । मोहकी सभी प्रकृतियोंकी सत्तावाला जीव अट्टाईस प्रकृतिरूप सत्त्वस्थानकी विभक्ति करता है ॥४२-५६॥

चूर्णिसू०-ओघकी अपेक्षा कहे गये इन पन्द्रह प्रकृतिस्थानोंकी अव यह अंक-संघट्टि है-२८, २७, २६, २४, २३, २२, २१, १३, १२, ११, ५, ४, ३, २, १ ॥५७-५८॥

चूर्णिसू०-इसी प्रकारसे गति आदि मार्गणाओमे मोहनीयकर्मके उक्त सत्त्वस्थान यथासंभव जानकर लगाना चाहिए ॥५९॥

विशेषार्थ-सुगम समझकर चूर्णिकारने आदेशकी अपेक्षा उपर्युक्त सत्त्वस्थानोंका वर्णन नहीं किया है । अतः विशेष-जिज्ञासुजनको जयधवला टीका देखना चाहिए । ग्रन्थ-विस्तारके भयसे हम भी नहीं लिख रहे हैं ।

चूर्णिसू०-'स्वामित्व' इस पदरूप जो प्रथम अनुयोगनामक अधिकार है, उसकी विभाषा करते हैं । वह इस प्रकार है-लोभसंज्वलनप्रकृतिरूप एक प्रकृतिक स्थानकी विभक्ति करनेवाला कौन जीव है ? नियमसे क्षपक मनुष्य अथवा मनुष्यनी एक प्रकृतिरूप स्थानकी विभक्तिका स्वामी है ॥६०-६२॥

विशेषार्थ-यतः नरक, तिर्यच और देवगतिमे मोहकर्मकी क्षपणाका अभाव है, अतः चूर्णिकारने सूत्रमे 'नियमसे' यह पद कहा । 'मनुष्य' इस पदसे भावपुरुषवेदी और भावनपुंसकवेदी मनुष्योंका ग्रहण किया गया है; क्योंकि भावस्त्रीवेदियोंके लिए 'मनुष्यनी' यह स्वतंत्र पद दिया गया है । 'क्षपक' पदसे उपशामक जीवोंका प्रतिषेध किया गया है, क्योंकि उपशमश्रेणीमे मोहकर्मकी एक भी प्रकृतिकी क्षय नहीं होता है ।

६३. एवं दोष्हं तिष्हं चउष्हं पंचष्हं एकारसण्हं वारसण्हं तेरहसण्हं विह-
त्तिओ । ६४. एकावीसाए विहत्तिओ को होदि ? खीणढंसणमोहणिओ । ६५.
वावीसाए विहत्तिओ को होदि ? मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा मिच्छत्ते मम्मामिच्छत्ते
च खविदे समत्ते सेसे ।

चूर्णिसू०—इसी प्रकार दो, तीन, चार, पाँच, ग्यारह, बारह और तेरह प्रकृतिरूप
सत्त्वस्थानोंकी विभक्तिके स्वामी जानना चाहिए ॥६३॥

विशेषार्थ—जिस प्रकारसे एक विभक्तिके स्वामीका निरूपण किया गया है, उर्मा
प्रकारसे दो से लेकर तेरह प्रकृतिरूप सत्त्वस्थानोंकी विभक्ति करनेवाले भी नियमसे श्रपक
मनुष्य अथवा मनुष्यनी होते हैं, क्योंकि, मनुष्यगतिको छोड़कर अन्य गतियोंमें कर्म-श्रपणके
योग्य परिणामोका होना असम्भव है । इसलिए एक प्रकृति सत्त्वस्थानमें एक विभक्तिके
स्वामित्वके समान दो, तीन आदि सूत्रोक्त विभक्तियोंके भी स्वामी जानना चाहिए ।
विशेषता केवल इतनी है कि पाँच प्रकृतिरूप सत्त्वस्थानकी विभक्ति केवल मनुष्योंमें ही होती
है, मनुष्यनियोगमें नहीं, क्योंकि, उसके नात नोकपायोका एक साथ ही श्रय पाया जाता है ।

चूर्णिसू०—इसीस प्रकृतिरूप सत्त्वस्थानकी विभक्ति करनेवाला कौन है ? दर्शन
मोहनीयकर्मका क्षय करनेवाला क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव है ॥६४॥

चूर्णिसू०—कौन जीव वाईस प्रकृतिरूप सत्त्वस्थानकी विभक्ति करनेवाला होता है ?
मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वके क्षपित हो जानेपर तथा सम्यक्त्वप्रकृतिके शेष रहनेपर
मनुष्य अथवा मनुष्यनी कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि जीव, वाईस प्रकृतिरूप सत्त्वस्थानकी विभक्ति
करनेवाला होता है ॥६५॥

विशेषार्थ—यहाँपर 'मनुष्य' पदसे पुरुषवेदी और नपुंसकवेदी तथा 'मनुष्यनी'
पदसे स्त्रीवेदी मनुष्योंका अर्थ लिया गया है, सो यहाँपर तथा आगे भी जहाँ इन पदोंका
प्रयोग हो, वहाँपर भावनपुंसकवेदी और भावस्त्रीवेदी मनुष्योंको ही ग्रहण करना चाहिए,
क्योंकि द्रव्यवेदी नपुंसक अथवा स्त्रीके क्षपकश्रेणीका आरोहण, तथा दर्शनमोहनीयका क्षपण
आदि कुछ निश्चित कार्योंका प्रतिषेध किया गया है । यहाँ यह आशंका की जा सकती है कि
कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि तो मरण कर चारों गतियोंमें उत्पन्न हो सकता है, फिर यहाँपर
मनुष्य अथवा मनुष्यनीको ही वाईस प्रकृतिकी विभक्तिका स्वामी कैसे कहा ? इसका समा-
धान दो प्रकारसे किया गया है । एक तो यह कि कुछ आचार्योंके उपदेशानुसार कृतकृत्य-
वेदक सम्यग्दृष्टि जीवका मरण होता ही नहीं है, इसलिए सूत्रमें मनुष्य पद दिया गया है ।
कुछ आचार्योंका यह मत है कि कृतकृत्यवेदकका मरण होता है और वह चारों गतियों
उत्पन्न हो सकता है, उनके मतानुसार सूत्रमें दिये गये 'मनुष्य' पदका यह अर्थ लेना चाहिए
कि दर्शनमोहके क्षपणका प्रारंभ मनुष्यके ही होता है । हाँ, निष्ठापन चारों गतियोंमें हो सकता
है । यतिवृषभाचार्यने आगे इन दोनों उपदेशोंका उल्लेख किया है ।

६६. तेवीसाए विहत्तिओ को होदि ? मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा मिच्छते खविदे सम्मत्त-सम्मामिच्छते सेसे । ६७. चउवीसाए विहत्तिओ को होदि ? अणं-ताणुवंधिविसंजोइदे सम्मादिट्ठी वा सम्मामिच्छादिट्ठी वा अण्णयरो । ६८. छुव्वीसाए विहत्तिओ को होदि ? मिच्छाइट्ठी णियमा । ६९. सत्तावीसाए विहत्तिओ को होदि ? मिच्छाइट्ठी । ७०. अट्ठावीसाए विहत्तिओ को होदि ? सम्माइट्ठी सम्मामिच्छाइट्ठी मिच्छाइट्ठी वा । ७१. कालो । ७२. *एक्किस्से विहत्तिओ केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णुकस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

चूर्णिसू०—कौन जीव तेईस प्रकृतिरूप सत्त्वस्थानकी विभक्ति करनेवाला होता है ? मिथ्यात्वके क्षपित हो जानेपर और सम्यक्त्वप्रकृति तथा सम्यग्मिथ्यात्वके शेष रहनेपर मनुष्य अथवा मनुष्यनी सम्यग्दृष्टि जीव तेईस प्रकृतियोंकी विभक्ति करनेवाला होता है । यहाँपर इतना विशेष जानना चाहिए कि मिथ्यात्वका क्षय कर सम्यग्मिथ्यात्वको क्षयण करते हुए जीवका मरण नहीं होता है, ऐसा एकान्त नियम है ॥६६॥

चूर्णिसू०—कौन जीव चौवीस प्रकृतियोंकी विभक्ति करनेवाला होता है ? अनन्तानुवन्धीकषायचतुष्कके विसंयोजन कर देनेपर किसी भी गतिका सम्यग्दृष्टि अथवा सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव चौवीस प्रकृतियोंकी विभक्ति करता है ॥६७॥

विशेषार्थ—अनन्तानुवन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चारों प्रकृतियोंके कर्मस्कन्धोका अप्रत्याख्यानानावरणादि अन्य प्रकृतिस्वरूपसे परिणमन करनेको विसंयोजन कहते हैं । इस विसंयोजनका करनेवाला नियमसे सम्यग्दृष्टि जीव ही होता है, क्योंकि, उसके बिना अन्य जीवके विसंयोजनके योग्य परिणामोका होना असम्भव है ।

चूर्णिसू०—कौन जीव छुव्वीस प्रकृतियोंकी विभक्ति करनेवाला होता है ? नियमसे मिथ्यादृष्टि जीव होता है । कौन जीव सत्ताईस प्रकृतियोंकी विभक्ति करनेवाला होता है ? सम्यक्त्वप्रकृतिकी उद्वेलना करनेवाला मिथ्यादृष्टि जीव होता है । कौन जीव अट्ठाईस प्रकृतियोंकी विभक्ति करनेवाला होता है ? सम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि अथवा मिथ्यादृष्टि जीव अट्ठाईस प्रकृतियोंकी विभक्ति करता है ॥६८-७०॥

चूर्णिसू०—अब उत्तर प्रकृतिसत्त्वस्थानकी विभक्तिका काल कहते हैं । एक प्रकृतिकी विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ॥७१-७२॥

विशेषार्थ—एक प्रकृतिकी विभक्तिका काल अन्तर्मुहूर्त है, ऐसा कहनेका अभि-प्राय यह है कि जब मोहकर्मकी संज्वलन लोभकषायनामक एक प्रकृति सत्तामे रह जाती है, तब उसके विभक्त अर्थात् विच्छिन्न या विभाजन करनेमे जो जघन्य या उत्कृष्ट समय लगता

* जयधवला—सम्पादकोने इसे भी चूर्णिसूत्र नहीं माना है । पर यह अवश्य होना चाहिए, अन्यथा आगे ७३ न० के सूत्रमे 'इसी प्रकार दो, तीन और चार प्रकृतिक सत्त्वस्थानोका काल है' ऐसा कथन कैसे किया जाता ? (देखो जयधवला, भा० २ पृ० २३३ और २३७)

है, उसे एक प्रकृतिविभक्तिकाल कहते हैं। इस एक प्रकृतिकी विभक्ति तथा आगे कही जाने-वाली दो, तीन, चार, पांच, ग्यारह, बारह और तेरह प्रकृतियोंकी विभक्ति क्षपकश्रेणीमें ही होती है। क्षपकश्रेणीका उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्तप्रमाण ही हैं, अतएव इन सब विभक्तियोंका भी उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्तप्रमाण ही सिद्ध होता है। तथापि उनके कालमें जो अपेक्षाकृत भेद है, उसका जान लेना आवश्यक है, तभी उन विभक्तियोंका आगे कहे जानेवाला जघन्य और उत्कृष्ट काल समझमें आसकेगा। अतएव यहाँपर क्षपकश्रेणीका कुछ वर्णन किया जाता है। मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृति तथा अनन्तानुबन्धीकपायचतुष्क इन सात मोहनीय-प्रकृतियोंकी सत्तासे रहित, अथवा अवशिष्ट इक्षीस प्रकृतियोंकी मत्तावाला क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव ही चारित्रमोहकी क्षपणाके लिए उद्यत होता है, इसका कारण यह है कि शुद्ध (निर्मल) दृढ़ श्रद्धानके विना चारित्रमोहका क्षय नहीं किया जा सकता है। अतएव क्षायिकसम्यग्दृष्टि संयत क्षपकश्रेणीपर चढ़नेके पूर्व अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण नामसे प्रसिद्ध तीन करणोंको करता है। इन तीनों करणोंका पृथक्-पृथक् और समुदित काल अन्तर्मुहूर्तप्रमाण ही है। अधःप्रवृत्तकरणकालके समाप्त होने तक वह सातिशय अप्रमत्तसंयतकी अवस्थामें रहता है और प्रतिसमय अधिकाधिक विशुद्धि एवं आनन्द-उल्लाससे परिपूरित होता रहता है। अधःप्रवृत्तकरणका काल समाप्त होते ही वह अपूर्वकरण परिणामोंको धारण कर आठवें गुणस्थानको प्राप्त होता है। इस गुणस्थानमें प्रतिसमय अनन्त-गुणी विशुद्धिसे विशुद्ध होता हुआ उन अपूर्व परिणामोंको प्राप्त करता है, जिन्हें कि इस समयके पूर्व कभी नहीं पाया था। उक्त दोनों परिणामोंके कालमें मोह-क्षयके लिए समुद्यत होता हुआ भी यह जीव किसी भी मोहप्रकृतिका क्षय नहीं करता है, किन्तु उनके क्षय करनेके योग्य अपने आपको तैयार करता है। अतएव इसकी उपमा उस सुभटसे दी जा सकती है, जिसने अभी किसी शत्रुका वात नहीं किया है, किन्तु शस्त्रास्त्रोंसे सुसज्जित एवं वीर-रससे परिपूरित हो रणाङ्गणमें प्रवेश किया है। शस्त्रास्त्रोंसे सुसज्जित होते समय भी वीर-रस प्रवाहित होने लगता है, किन्तु रणाङ्गणमें प्रवेश करनेका वीर-रस अपूर्व ही होता है। शस्त्रास्त्रोंसे सुसज्जित होनेके समान अधःप्रवृत्तकरणको करनेवाला सातिशय-अप्रमत्तसंयत गुणस्थान है और वीर-रससे ओत-प्रोत हो रणाङ्गणमें प्रवेश करनेके समान अपूर्वकरण गुणस्थान है। अपूर्वकरणका काल समाप्त होते ही अनिवृत्तिकरण परिणामोंको धारण करता हुआ नवे अनिवृत्तिकरण गुणस्थानको प्राप्त होता है और एक साथ स्थितिखंडन, अनुभाग-खंडन आदि आवश्यकोंको करना प्रारम्भ कर देता है। जिस प्रकार रण-प्रारम्भ होनेकी प्रतिक्षण प्रतीक्षा करनेवाला सुभट रण-भेरी बजनेके साथ ही शत्रु-सैन्यपर धावा बोलकर मार-काट प्रारंभ कर देता है। इस अनिवृत्तिकरणगुणस्थानसम्बन्धी कालके संख्यात भाग जानेपर सर्वप्रथम अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क और प्रत्याख्यानावरणचतुष्क इन आठ कपायोंका क्षय करता है और तेरह प्रकृतिरूप सत्त्वस्थानविभक्तिका स्वामी होता है। पुनः अन्तर्मुहूर्तके

पश्चात् स्यान्गृद्धि, निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, नरकगति, तिर्यग्गति, नरकगत्यानुपूर्वी, तिर्यग्गत्यानुपूर्वी, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, और चतुरिन्द्रियजाति; आताप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म, साधारणशरीर, इन सोलह प्रकृतियोंका क्षय करता है। यद्यपि ये प्रकृतियाँ मोहकर्मकी नहीं हैं, किन्तु स्यान्गृद्धि आदि तीन दर्शनावरणकी और शेष तेरह नामकर्मकी हैं। तो भी इनका क्षय इसी स्थलपर होता है। इनका क्षय करनेपर भी मोहकर्मके तेरह प्रकृतियोंकी विभक्तिका ही स्वामी है। इसके पश्चात् एक अन्तर्मुहूर्त जाकर मनःपर्ययज्ञानावरणीय और दानान्तराय इन दोनों प्रकृतियोंके सर्वघाति बंधको देशघातिरूप करता है। इसके अन्तर्मुहूर्त पश्चात् अवधिज्ञानावरणीय, अवधिदर्शनावरणाय और लाभान्तराय, इन तीन प्रकृतियोंके सर्वघातिबंधको देशघातिरूप करता है। इसके अन्तर्मुहूर्त पश्चात् श्रुतज्ञानावरणीय, अचक्षुदर्शनावरणाय और भोगान्तराय, इन तीन प्रकृतियोंके सर्वघातिबंधको देशघातिरूप करता है। इसके अन्तर्मुहूर्त पश्चात् चक्षुदर्शनावरणायकर्मके सर्वघातिबंधको देशघातिरूप करता है। इसके अन्तर्मुहूर्त पश्चात् मतिज्ञानावरणीय और परिभोगान्तराय, इन दो प्रकृतियोंके सर्वघातिबंधको देशघातिरूप करता है। इसके अन्तर्मुहूर्त पश्चात् वीर्यान्तरायकर्मके सर्वघातिबंधको देशघातिरूप करता है। इसके अन्तर्मुहूर्त पश्चात् चार संज्वलनकपाय और नव नोकपाय, इन तेरह चारित्रमोहप्रकृतियोंका अन्तरकरण करता है। इसी समय आगे क्षपणाधिकारमें बतलाए जाने वाले सात आवश्यक करणोंका एक साथ प्रारम्भ करता है। अन्तरकरणके द्वितीय समयसे लेकर एक अन्तर्मुहूर्त तक नपुंसकवेदका क्षय करता है और वारह प्रकृतिरूप सत्त्वस्थान-विभक्तिका स्वामी होता है। इसके पश्चात् ही द्वितीय समयसे लेकर अन्तर्मुहूर्त तक स्त्रीवेदका क्षय करता है, और ग्यारह प्रकृतिरूप सत्त्वस्थान-विभक्तिका स्वामी होता है। तत्पश्चात् हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा इन छह नोकपायोंका क्षय करनेके लिए सर्वसंक्रमणके द्वारा उन्हें क्रोधसंज्वलनमें संक्रमाता है। इस क्रियामें भी एक अन्तर्मुहूर्तकाल व्यतीत होता है और इसी समय वह पांच प्रकृतिरूप सत्त्वस्थानविभक्तिका स्वामी होता है। तत्पश्चात् एक समय कम दो आवलीकालमें अश्वकर्णकरण करता हुआ पुरुषवेदका क्षय करता है और तभी वह चार प्रकृतिरूप सत्त्वस्थानविभक्तिका स्वामी होता है। तत्पश्चात् एक अन्तर्मुहूर्तसे अश्वकर्णकरणको समाप्त कर चारों संज्वलनकपायोंमेंसे एक एक कषायकी तीन तीन वादरकृष्टियाँ अन्तर्मुहूर्तकालसे करता है। पुनः कृष्टिकरणके पश्चात् क्रोधसंज्वलनकी तीनों कृष्टियाँ क्रमशः अन्तर्मुहूर्तकालसे क्षय करता है और तीन प्रकृतिरूप सत्त्वस्थान-विभक्तिका स्वामी होता है। तत्पश्चात् अन्तर्मुहूर्तकाल-द्वारा क्रमशः मानसंज्वलनकी तीनों कृष्टियोंका क्षय करता है और दो प्रकृतिरूप सत्त्वस्थानविभक्तिका स्वामी होता है। पुनः अन्तर्मुहूर्तकाल-द्वारा मायासंज्वलनकी तीनों कृष्टियोंका क्षय करता हुआ लोभसंज्वलनकी प्रथम कृष्टिके भीतर दो समय कम दो आवलीप्रमाणकाल जाकर उनका क्षय करता है और एक प्रकृतिरूप सत्त्वस्थानविभक्तिका स्वामी होता है। तत्पश्चात् यथाक्रमसे दो समय

७३. एवं दोषहं तिष्ठं चतुष्टयं विहनियाणं । ७४. पंचम विदन्तिशो केवचिं कालादो होदि ? जहण्णुदग्गेण दो आवलियाओ नमयुणाओ । ७५. एणम्मण्हं वारसण्हं तेरसण्हं विहत्ती केवचिं कालादो होदि ? जहण्णुदग्गेण अंतोमुहत्तं । ७६. गवरि वारसण्हं विहत्ती केवचिं कालादो ? जहण्णेण एणम्मण्हो ।

कम दो आवली प्रमाणकालमे कम, नोसंनपडनी प्रथम, निर्माय वाग्मर्त्तिय और सूक्ष्मलोभकृष्टिके क्षयण कलमेता जो तात है, उनी एउ प्रमाणकालमेता विभक्ति-काल जघन्यकाल है । इस प्रकार एक प्रकृतिकी विभक्ति-कालमेता अन्तर्मुहूर्त होता है । इसका उत्कृष्टकाल भी अन्तर्मुहूर्तप्रमाण ही होता है, तथापि वह जघन्यकालमे सरयातगुणा होता है । एक प्रकृतिकी विभक्ति-कालमेता प्रथम दो क्रोधकपायके साथ क्षयकश्रेणीपर चढ़नेवाले जीवके होता है, किन्तु उत्कृष्टकाल प्रथम दो और लोभसंज्वलनकपायके साथ क्षयकश्रेणीपर चढ़नेवाले जीवके होता है । इसका कारण यह है कि क्रोधसंज्वलनके उदयके साथ क्षयकश्रेणीपर चढ़नेवाले जीवके जिन समय मानसोपशान्त-सम्बन्धी तीन कृष्टियोंका क्षय होता है उस समय लोभसंज्वलनके उदयके साथ क्षयकश्रेणीपर चढ़नेवाला जीव एक प्रकृतिकी सत्तावाला ही जाता है, इसलिए प्रथमके उदयमे क्षयकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके मान, माया और लोभसंज्वलनसम्बन्धी कृष्टियोंके वेदनका जो काल है, वह सब लोभके उदयमे चढ़े हुए उस जीवके एक विभक्ति-कालके भीतर आजाता है, अतएव उसका काल जघन्यकालमे सरयातगुणा हो जाता है ।

ऊपर पूरी क्षयकश्रेणीका काल भी अन्तर्मुहूर्त प्रमाण बनलाया गया है, और उसके भीतर होनेवाली इन अनंको विभक्तियोंका काल भी प्रथम प्रथम अन्तर्मुहूर्त बनलाया गया है, फिर भी कोई विरोध नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक अन्तर्मुहूर्तके भी संख्यात भेद होते हैं, अतएव उन सब विभक्तियोंके कालमे अपेक्षाकृत कालभेद निश्चय हो जाता है ।

विभक्ति क्या वस्तु है, किस विभक्तिके छलरा प्राग्ग्रन्थ कहाँमे होता है, और समाप्ति कहाँपर होती है, इत्यादिका निर्णय ऊपरके विवेचनमे भली-भाँति हो जाता है । हाँ, अन्तरकरण, अश्वकर्णकरण, वादरकृष्टि आदि जो पारिभाषिक संज्ञाएँ आई हैं, तो उनका स्वरूप आगेके अधिकारोमें यथास्थान स्वयं चूर्णिकारने कहा ही है ।

चूर्णिसू०—इसी प्रकारसे दो, तीन और चार प्रकृतिरूप सत्त्वस्थानकी विभक्तियोंका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है । पांच प्रकृतिरूप सत्त्वस्थानकी विभक्तिका कितना-काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कम दो आवलीप्रमाण है । ग्यारह, बारह, और तेरह प्रकृतिरूप सत्त्वस्थानकी विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है । विशेष बात यह है कि बारह प्रकृतिरूप सत्त्वस्थानकी विभक्तिका कितना काल है ? जघन्यकाल एक समय है ॥७३-७६॥

विशेषार्थ—बारह प्रकृतिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय उस प्रकार संभव है—

७७. एकावीसाए विहत्ती केवचिरं कालादो ? जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । ७८. उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि ।

कोई जीव नपुंसकवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणी पर चढ़ा और अप्रत्याख्यानावरणादि आठ मध्यमकपायोका क्षयकर तेरह प्रकृतियोंकी विभक्ति करनेवाला हुआ । तत्पश्चात् नपुंसकवेदकी क्षपणाके आरम्भकालमें ही नपुंसकवेदका क्षय करता हुआ नपुंसकवेदको अपने क्षपणकालमें क्षय न करके स्त्रीवेदका क्षपण प्रारम्भ कर देता है । पुनः स्त्रीवेदके साथ नपुंसकवेदका क्षय करता हुआ तबतक जाता है जबतक कि स्त्रीवेदके पुरातन निपेकोके क्षपणकालका त्रिचरिमसमय प्राप्त होता है । पुनः सवेदकालके द्विचरमसमयमें नपुंसकवेदकी प्रथम स्थितिके दो समयमात्र शेष रहनेपर स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके सत्तामें स्थित समस्त निपेकोको पुरुषवेदमें संक्रमित हो जानेपर तदनन्तर समयमें बारह प्रकृतियोंकी विभक्ति करनेवाला होता है; क्योंकि अभी नपुंसकवेदकी उदयस्थितिका विनाश नहीं हुआ है । इसके पश्चात् द्वितीय समयमें ही ग्यारह प्रकृतियोंकी विभक्ति प्रारम्भ हो जाती है, क्योंकि, उस समय पूर्वली स्थितिके निपेक फल देकर अकर्मस्वरूपसे परिणत हो जाते हैं । इस प्रकार बारह प्रकृतिरूप सत्त्वस्थानकी विभक्तिका जघन्यकाल एक समय सिद्ध हो जाता है ।

चूणिसू०—इक्कीस प्रकृतियोंकी विभक्तिका कितना काल है ? जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है ॥७७॥

विशेषार्थ—इक्कीस प्रकृतिकी विभक्तिका जघन्यकाल इस प्रकार संभव है—मोहकर्मकी चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले किसी मनुष्यने तीनों करणोंको करके दर्शनमोहनीयकी तीनों प्रकृतियोंका क्षय किया और इक्कीस प्रकृतियोंका सत्त्वस्थान पाया । पुनः सर्वलघु अन्तर्मुहूर्तकालमें ही क्षपकश्रेणीपर चढ़कर आठ मध्यमकपायोका क्षय कर दिया । इस प्रकार इक्कीस प्रकृतियोंकी विभक्तिका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त सिद्ध हो जाता है ।

चूणिसू०—इक्कीस प्रकृतियोंकी विभक्तिका उत्कृष्टकाल साधिक तेतीस सागरोपम है ॥७८॥

विशेषार्थ—उक्त काल इस प्रकार संभव है—मोहकर्मकी चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई देव अथवा नारकी सम्यग्दृष्टि जीव पूर्वकोटिवर्षकी आयुवाले मनुष्यमें उत्पन्न हुआ । वहाँ गर्भसे लेकर आठ वर्षके पश्चात् दर्शनमोहनीयका क्षयकर इक्कीस प्रकृतिवाले सत्त्वस्थानकी विभक्तिका प्रारम्भ किया । पुनः दीक्षित होकर आठ वर्ष कम पूर्वकोटिवर्षप्रमाण संयम पालन कर मरा और तेतीस सागरोपमकी आयुवाले अनुत्तरविमानवासी देवोंमें उत्पन्न हुआ । वहाँपर तेतीस सागरकाल वितकर आयुके अन्तमें मरा और पूर्वकोटिवर्षकी आयुवाले मनुष्यमें उत्पन्न हुआ । वहाँपर जब अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आयुकर्म या संसार अवशिष्ट रहा तब अप्रत्याख्यानावरणादि आठ कपायोका क्षयकर तेरह प्रकृतियोंकी विभक्ति करनेवाला हुआ । इस प्रकार आठवर्ष और अन्तर्मुहूर्त कम दो पूर्वकोटिवर्षोंसे अधिक तेतीस सागरोपम इक्कीस

७९. वावीसाए तेवीसाए विहत्तिओ केवचिरं कालादो ? जहण्णुद्धरसणंतां-
मुहुत्तं । ८०. चउवीस-विहत्ती केवचिरं कालादो ? जहण्णण अंतांगुहुत्तं । ८१.
उक्कस्सेण वे छावट्ठि-मागरोवयाणि नादिरेयाणि ।

प्रकृतियोंकी विभक्तिका उत्कृष्टकाल पाया जाता है ।

चूणिंसू०—वाइस और तेईस प्रकृतियोंकी विभक्तिका कितना काल है ? दोनों
विभक्तियोंका जवन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ॥ ७९ ॥

विशेषार्थ—तेईस प्रकृतिकी विभक्ति करनेवाले जीवके द्वारा सम्यग्मिथ्यात्वके क्षय
कर देनेपर वाइस प्रकृतिकी विभक्तिका प्रारम्भ होता है और जब तक सम्यक्त्वप्रकृतिके क्षीण
होनेका अन्तिम समय नहीं आता है, तब तक वह वाइस प्रकृतिकी विभक्तियाला रहता है ।
इस प्रकार वाइस प्रकृतिका जवन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है । उत्कृष्टकाल भी इतना ही हो सकता
है, क्योंकि, एक समयमें वर्तमान जीवके अनिवृत्तिकरण परिणामोंकी अपेक्षा कोई भेद नहीं
होता है । तथा अनिवृत्तिकरणका जवन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्तप्रमाण ही है । तेईस
प्रकृतिकी विभक्तिका काल इस प्रकार है—चौवीस प्रकृतिकी सत्तावाले जीवके द्वारा मिथ्यात्वके
क्षय कर देनेपर तेईस प्रकृतिकी विभक्तिका प्रारम्भ होता है । पुनः जब तक सत्तामें स्थित
समस्त सम्यग्मिथ्यात्वकर्म सम्यक्त्वप्रकृतिमें संक्रमित नहीं हो जाता, तब तक तेईस प्रकृतिकी
विभक्तियाला रहता है । इसका भी जवन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त ही है, क्योंकि, अनि-
वृत्तिकरणका काल अन्तर्मुहूर्त ही माना गया है ।

चूणिंसू०—चौवीस प्रकृतिकी विभक्तिका कितना काल है ? जवन्यकाल अन्त-
र्मुहूर्त है ॥ ८० ॥

विशेषार्थ—मोहकी अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला सम्यग्दृष्टि जीव जब अनन्तानु-
बन्धीचतुष्कका विसंयोजनकर चौवीस प्रकृतियोंकी विभक्तिका प्रारम्भ करता है और सर्वजवन्य
अन्तर्मुहूर्तकाल रह कर मिथ्यात्वप्रकृतिका क्षय करता है, तब उस जीवके चौवीस प्रकृतिकी
विभक्तिका जवन्यकाल पाया जाता है ।

चूणिंसू०—चौवीस प्रकृतियोंकी विभक्तिका उत्कृष्टकाल कुछ अधिक दो छयासठ
सागरोपम है ॥ ८१ ॥

विशेषार्थ—यह साधिक दोवार छयासठ अर्थात् एकसौ बत्तीस सागरोपमकाल इस
प्रकार संभव है—चौदह सागरकी स्थितिवाले, और मोहकी छवीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले
लान्तव-कापिष्ठकल्पवासी देवके प्रथम सागरमें जब अन्तर्मुहूर्तकाल शेष रहा, तब वह उप-
शम सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ, और अतिगीघ्र अनन्तानुबन्धी चतुष्कका विसंयोजनकर, चौवीस
प्रकृतियोंकी विभक्तिका प्रारम्भ किया । पुनः सर्वोत्कृष्ट उपशमसम्यक्त्वकालको वितारकर द्वितीय
सागरके प्रथम समयमें वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त होकर वहाँपर कुछ अधिक तेरह सागरोपम तक
वेदकसम्यक्त्वको पालनकर मरा और पूर्वकोटिवर्षकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । इस

८२. छव्वासविहत्ती केवचिरं कालादो ? अणादि-अपञ्जवसिदो । ८३. अणादि-सपञ्जवमिदो । ८४. सादि-सपञ्जवसिदो । ८५. तन्थ जो सादिओ सपञ्जवसिदो जहण्णेण एगसमओ ।

पूरे मनुष्यभवको सम्यक्त्वके साथ ही विताकर पुनः इस मनुष्यभवसम्बन्धी आयुसे कम वाईस सागरोपमकी आयुवाले आरण-अच्युतकल्पके देवोमें उत्पन्न हुआ । वहाँपर पूरी आयु-प्रमाण सम्यक्त्वके साथ रहकर पुनः पूर्वकोटिवर्षकी आयुवाले मनुष्योमें उत्पन्न हुआ । पुनः अपनी पूरी आयुप्रमाण सम्यक्त्वको परिपालन कर मरा और मनुष्यभवकी आयुसे कम इक-तीस सागरोपमकी स्थितिवाले देवोमें उत्पन्न हुआ । जब अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आयुकर्म शेष रहा, तब सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानमें जाकर और वहाँपर अन्तर्मुहूर्त तक रहकर पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । पञ्चात् मरणकर पूर्वकोटिवर्षकी आयुवाले मनुष्योमें, पुनः उस मनुष्यायुसे कम बीस सागरोपमकी आयुवाले देवोमें उत्पन्न हुआ । पुनः वहाँसे च्युत होकर पूर्वकोटिके मनुष्योमें उत्पन्न हुआ और पुनः मनुष्यायुसे कम वाईस सागरोपमकी आयुवाले देवोमें उत्पन्न हुआ । पुनः पूर्वकोटिके मनुष्योमें जन्म लेकर फिर भी आठ वर्ष और एक अन्तर्मुहूर्त अधिक मनुष्यायुसे कम चौबीस सागरोपमकी आयुवाले देवोमें उत्पन्न हुआ । पुनः मरणकर पूर्वकोटिकी आयुवाले मनुष्योमें उत्पन्न हुआ । वहाँपर गर्भसे आठ वर्ष और अन्तर्मुहूर्तके वीतनेपर मिथ्यात्वप्रकृतिका क्षयकर तेईस प्रकृतिकी विभक्ति करनेवाला हो गया । इस प्रकार उक्त जीवके साधिक दोवार छ-यासठ सागरोपम चौबीस विभक्तिका उत्कृष्ट काल होता है । उक्त कालमें सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिके क्षयणसम्बन्धी कालके जोड़ देनेपर साधिकताका प्रमाण आ जाता है ।

चूर्णिसू०—छव्वास प्रकृतिका विभक्तिको कितना काल है ? अभव्य और अभव्यके समान दूरान्दूर भव्यकी अपेक्षा अनादि-अनन्तकाल है, क्योंकि ऐसे जीवोके मोहकी छव्वास प्रकृतियोंका न आदि है और न अन्त है । भव्यकी अपेक्षा छव्वास प्रकृतिकी विभक्तिका काल अनादि-सान्त है, क्योंकि अनादिकालसे आई हुई छव्वास प्रकृतियोंका सम्यक्त्वके प्राप्त करने-पर छव्वास प्रकृतियोंकी विभक्तिका अन्त देखा जाता है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना कर छव्वास प्रकृतिकी विभक्तिको प्राप्त होनेवाले जीवकी अपेक्षा छव्वास प्रकृतिकी विभक्तिका काल सादि-सान्त है । इन तीनों प्रकारोके कालोमेंसे सादि-सान्त जघन्यकाल एक समय है ॥८२-८५॥

विज्ञेपार्थ—वह एक समय इस प्रकार सभव है—सम्यक्त्वप्रकृतिके विना मोहकर्मकी सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई मिथ्यादृष्टि जीव पत्योपमके असंख्यातवे भाग-प्रमाण कालके द्वारा सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना करते हुए उद्वेलनाकालमें अन्तर्मुहूर्तकाल अव-शेष रहनेपर उपशमसम्यक्त्व ग्रहण करनेके अभिमुख हुआ और अन्तरकरणको करके मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिमें सर्व गोपुच्छाओंको गलाकर जिसके दो गोपुच्छाएँ शेष रह गई

८६. उक्त्सेण उवडूपोग्गलपरियट्टं* । ८७. सत्तावीसविहत्ती केवचिरं कालादो ? जहण्णेण एगसमओ ।

है, तथा जो द्वितीय स्थितिमें स्थित सम्यग्मिथ्यात्वकी चरम फालिको सर्वसंक्रमणके द्वारा मिथ्यात्वके ऊपर प्रक्षिप्त कर मिथ्यात्वकी प्रथम स्थिति-सम्बन्धी अन्तिम गोपुच्छाका वेदन कर रहा है वह मिथ्यादृष्टि जीव एक समयमात्र छव्वीस प्रकृतिकी विभक्तिका प्राप्त करके उसके उपरिम समयमें सम्यक्त्वको प्राप्त होकर अट्टाईस प्रकृतिकी सत्तावाला हो जाता है, तब उसके छव्वीस प्रकृतियोंकी विभक्तिका एक समयप्रमाण जघन्यकाल पाया जाता है ।

चूर्णिसू०—छव्वीस प्रकृतियोंकी विभक्तिका उत्कृष्ट काल देशोन अर्धपुद्गलपरिवर्तन है ॥८६॥

विशेषार्थ—कोई अनादि मिथ्यादृष्टि जीव तीनों ही करणोंको करके उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ और इस प्रकार उसने अनन्त संसारको छेदकर संसारमें रहनेके कालको अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण किया । पुनः उपशमसम्यक्त्वका काल समाप्त होनेपर मिथ्यात्वको प्राप्त हो, सबसे जघन्य पत्योपमके असंख्यातवे भागमात्र उद्वेलनाकालके द्वारा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व इन दोनों प्रकृतियोंकी उद्वेलनाकर छव्वीस विभक्तिका प्रारम्भ किया । तत्पश्चात् कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनकाल तक संसारमें परिभ्रमण कर जब अर्धपुद्गलपरिवर्तनमें सर्वजघन्य अन्तर्मुहूर्तकाल शेष रहा, तब उपशमसम्यक्त्वको ग्रहण किया, और अट्टाईस प्रकृतिकी विभक्तिको प्राप्त हो, अन्तर्मुहूर्तकालमें ही क्षपकश्रेण्यारोहण, केवलज्ञानोत्पत्ति और समुद्घात आदि करता हुआ निर्वाणको प्राप्त हुआ । इस प्रकारसे छव्वीस प्रकृतियोंकी विभक्तिका देशोन पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण उत्कृष्टकाल पाया जाता है । यहाँपर देशोनका अर्थ अर्धपुद्गलपरिवर्तनके कालमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिके पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण उद्वेलनाकालको कम करना है ।

चूर्णिसू०—सत्ताईस प्रकृतियोंकी विभक्तिका कितना काल है ? जघन्यकाल एक समय है ॥८७॥

विशेषार्थ—मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतिकी सत्तावाले मिथ्यादृष्टि जीवने सम्यक्त्व-प्रकृतिके उद्वेलनाकालमें अन्तर्मुहूर्तकाल अवशेष रहनेपर तीनों करणोंको करके और अन्तरकरण कर मिथ्यात्वकी प्रथमस्थितिके द्विचरम समयमें सम्यक्त्वप्रकृतिकी चरमफालिको सर्वसंक्रमणके द्वारा मिथ्यात्वमें प्रक्षेप किया, तब प्रथमस्थितिके चरमसमयमें सत्ताईस प्रकृतियोंकी विभक्ति प्रारंभ होती है । तदनन्तर द्वितीय समयमें उपशमसम्यक्त्वको ग्रहणकर यतः यह अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्ति करनेवाला हो जाता है, अतः सत्ताईस प्रकृतियोंकी विभक्तिका जघन्यकाल एक समयप्रमाण कहा गया है ।

* ऊणमदूपोग्गलपरियट्टं उवडूपोग्गलपरियट्टमिदि णयारलोव काऊण णिदिट्टत्तादो । ऊणस्स अद्वरोग्गलपरियट्टस्स उवडूपोग्गलपरियट्टमिदि सण्णा । अथवा उपशब्दस्य हीनार्थवाचिनो ग्रहणात् । जघ०

८८. उक्त्सेण पलिदोवप्रस्त असंखेज्जदिभागो । ८९. अट्टावीसविहत्ती केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । ९०. उक्त्सेण वेछावट्ठि-सागरो-वमाणि सादिरेयाणि ।

चूर्णिसू०—सत्ताईस प्रकृतियोंकी विभक्तिका उत्कृष्टकाल पल्योपमका असंख्यातवाँ भाग है ॥८८॥

विशेषार्थ—अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाले मिथ्यादृष्टिजीवके द्वारा पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण कालसे सम्यक्त्वप्रकृतिकी उद्वेलना किये जानेपर सत्ताईस प्रकृतियोंकी विभक्ति होती है । तत्पश्चात् सर्वोत्कृष्ट पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाणकालके द्वारा जबतक सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिकी उद्वेलना करता है, तबतक वह सत्ताईस प्रकृतियोंकी विभक्तिका स्वामी रहता है, अतः सत्ताईस प्रकृतियोंकी विभक्तिका उत्कृष्टकाल पल्योपमका असंख्यातवाँ भाग कहा है ।

चूर्णिसू०—अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल अन्त-मुहूर्त है ॥८९॥

विशेषार्थ—मोहकी छन्वीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले किसी एक मिथ्यादृष्टि जीवने उपशमसम्यक्त्वको ग्रहणकर अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता स्थापित की, तथा सर्व-जघन्य अन्त-मुहूर्तकाल तक उन अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ताके साथ रहकर तत्पश्चात् अनन्तानुबन्धी-कपायचतुष्कका विसंयोजन किया और चौवीस प्रकृतियोंकी सत्ता प्राप्त की, तब उसके अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिका अन्तमुहूर्तप्रमाण जघन्यकाल पाया जाता है ।

चूर्णिसू०—अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिका उत्कृष्टकाल सातिरेक दो छयासठ सागरोपम है ॥९०॥

विशेषार्थ—उक्त काल इस प्रकार संभव है—कोई एक मिथ्यादृष्टि जीव उपशम-सम्यक्त्वको ग्रहण कर अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्ति करनेवाला हुआ । पीछे मिथ्यात्वको प्राप्त होकर सम्यक्त्वप्रकृतिके पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण सर्वोत्कृष्ट उद्वेलनाकालमे अन्तमुहूर्त अवशिष्ट रहनेपर सत्ताईस प्रकृतियोंकी विभक्ति करनेवाला होना चाहिए था, परवह न होकर उद्वेलनाकालके द्विचरम समयमे मिथ्यात्वप्रकृतिकी प्रथम स्थितिके चरमनिपेक-का अन्त करके उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । तत्पश्चात् पूर्व निरूपित क्रमसे वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त कर और प्रथम वार छयासठ सागरोपमकालको सम्यक्त्वके साथ विताकर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ । पुनः पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण सर्वोत्कृष्ट सम्यक्त्वप्रकृतिके उद्वेलना-कालके चरमसमयमे उपशमसम्यक्त्वको ग्रहण कर तदनन्तर वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हो और पूर्वकी भाँति ही द्वितीय वार छयासठ सागरोपमकाल सम्यक्त्वके साथ विताकर पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण सर्वोत्कृष्ट सम्यक्त्वप्रकृतिके उद्वेलनाकालके द्वारा सत्ताईस प्रकृतियोंकी विभक्ति करनेवाला हुआ । इस प्रकारसे पल्योपमके उक्त तीन असंख्यातवे भागोसे अधिक दो

११. अंतराणुगमेण एकस्से विहत्तीए णत्थि अंतरं । १२. एवं दोण्हं तिण्हं चउण्हं पंचण्हं एकारसण्हं वारसण्हं तेरसण्हं एकवीसाए वावीसाए तेवीसाए विहत्तियारं । १३. चउवीसाए विहत्तियस्स केवडियमंतरं ? जहणणेण अंतोमुहूर्तं । १४. उक्कस्सेण उवड्डुपोगलपरियड्डु* ।

वार छयासठ सागरोपम अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिका उत्कृष्टकाल होता है ।

चूर्णिसू०—अन्तरानुगमकी अपेक्षा एक प्रकृतिकी विभक्तिका अन्तर नहीं है ॥११॥

विशेषार्थ—एक प्रकृतिकी विभक्तिके अन्तर न होनेका कारण यह है कि एक प्रकृतिकी विभक्ति क्षपकश्रेणीमें होती है और क्षपित हुण कर्माशोंकी पुनः उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि, मिथ्यात्व, असंयमादि जो संसारके कारण है, उनका क्षपकश्रेणीमें अभाव हो जाता है । अतः एक प्रकृतिकी विभक्तिका अन्तर नहीं होता है ।

चूर्णिसू०—एक प्रकृतिकी विभक्तिके समान दो, तीन, चार, पाँच, ग्यारह, बारह, तेरह, इक्कीस, बाईस और तेईस प्रकृतिसम्बन्धी विभक्तियोंका भी अन्तर नहीं होता है, क्योंकि, ये सभी विभक्तियाँ क्षपकश्रेणीमें ही उत्पन्न होती हैं ॥१२॥

चूर्णिसू०—चौबीस प्रकृतियोंकी विभक्तिका कितना अन्तरकाल है ? जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है ॥१३॥

विशेषार्थ—किसी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाले सम्यग्दृष्टिने अनन्तानुबन्धी कषायचतुष्कका विसंयोजनकर चौबीस प्रकृतियोंकी विभक्तिका आरम्भ किया और अन्तर्मुहूर्तके पश्चात् मिथ्यात्वको प्राप्त हो अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिका करनेवाला हो गया । अन्तर्मुहूर्त अन्तरालके पश्चात् पुनः सम्यक्त्वको ग्रहण कर और अनन्तानुबन्धी-चतुष्कका विसंयोजन कर चौबीस प्रकृतियोंकी विभक्ति करनेवाला हो गया । इस प्रकारसे चौबीस प्रकृतियोंकी विभक्तिका अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिके साथ अन्तर्मुहूर्तप्रमाण अन्तरकाल उपलब्ध हो गया ।

चूर्णिसू०—चौबीस प्रकृतियोंकी विभक्तिका उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्धपुद्गलपरिवर्तन-प्रमाण है ॥१४॥

विशेषार्थ—किसी अनादिमिथ्यादृष्टि जीवने अर्धपुद्गलपरिवर्तन-कालप्रमाण संसारके शेष रहनेपर प्रथम समयमें ही उपशमसम्यक्त्वको ग्रहण किया और अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला होकर तथा उस अवस्थामें अन्तर्मुहूर्तकाल रहकर अनन्तानुबन्धी कषायका विसंयोजन किया । इस प्रकार चौबीस विभक्तिका प्रारम्भ कर और मिथ्यात्वमें जाकर अन्तर-

* जघधवला-सम्पादकोने इस सूत्रको इस प्रकार माना है—‘उक्कस्सेण उवड्डुपोगलपरियड्डुं देसूण-मदुपोगलपरियड्डुं’ । पर ‘देसूणमदुपोगलपरियड्डुं’ यह तो ‘उवड्डुपोगलपरियड्डुं’ पदका अर्थ है, उसे भी सूत्रका अग मानना भूल है । इसके आगे-पीछे जहाँ कहीं भी ऐसा प्रयोग आया है, वहाँ सर्वत्र ‘उवड्डु-पोगलपरियड्डुं’ इतना ही सूत्र कहा है ।

९५. छव्वीसविहत्तीए केवडियमंतरं ? जहणणेण पलिदोवमस्स असंखे-
ज्जदिभागो । ९६. उक्खस्सेण वेछावड्ढि-सागरोवमाणि सादिरेयाणि । ९७. सत्तावीस-
विहत्तीए केवडियमंतरं ? जहणणेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।

को प्राप्त हुआ । तत्पश्चात् उपार्धपुद्गलपरिवर्तनकाल तक संसारम परिभ्रमण कर संसारके अन्तर्मुहूर्तप्रमाण शेष रह जाने पर उपशमसम्यक्त्वको ग्रहण कर अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्ति-वाला हो, अनन्तानुबन्धीचतुष्कका विसंयोजनकर चौबीस विभक्तिवाला हुआ । इस प्रकार दो अन्तर्मुहूर्तोंसे कम अर्धपुद्गलपरिवर्तन-प्रमाण चौबीस विभक्तिका उत्कृष्ट अन्तरकाल पाया जाता है । यद्यपि प्रमत्त-अप्रमत्तादिमन्वन्धी और भी कुछ अन्तर्मुहूर्त होते हैं, किन्तु उन सबका समूह भी अन्तर्मुहूर्तप्रमाण ही होता है, इसलिए दो अन्तर्मुहूर्तोंसे कम ही अर्ध-पुद्गलपरिवर्तन-प्रमाण चौबीस विभक्तिका उत्कृष्ट अन्तरकाल कहा गया है ।

चूर्णिसू०—छव्वीस प्रकृतियोंकी विभक्तिका कितना अन्तरकाल है ? जघन्य अन्तर-काल पल्योपमका असंख्यातवो भाग है ॥९५॥

विशेषार्थ—छव्वीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला कोई मिथ्यादृष्टि जीव उपशमसम्य-क्त्वको ग्रहण करके अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला होकर, छव्वीस प्रकृतियोंकी विभक्तिके अन्तरको प्राप्त हो, मिथ्यात्वसे जाकर सर्वजघन्य पल्योपमके असंख्यातवे भागमात्र उद्वेलना-कालके द्वारा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिकी उद्वेलना करके पुनः छव्वीस प्रकृतिकी विभक्ति करनेवाला हो गया । इस प्रकार इस जीवके छव्वीस प्रकृतियोंकी विभक्तिका पल्यो-पमके असंख्यातवे भागप्रमाण जघन्य अन्तरकाल पाया जाता है ।

चूर्णिसू०—छव्वीस प्रकृतियोंकी विभक्तिका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक दो छ्यासठ सागरोपम है ॥९६॥

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि अट्टाईस और सत्ताईस प्रकृतियोंकी विभक्तियों-का जो उत्कृष्ट काल पहले बतलाया गया है, वही छव्वीस प्रकृतियोंकी विभक्तिका उत्कृष्ट अन्तरकाल माना गया है । अतः छव्वीस प्रकृतियोंकी विभक्तिका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक दो बार छ्यामठ अर्थात् एकसौ बत्तीस सागरसे कुछ अधिक होता है ।

चूर्णिसू०—सत्ताईस प्रकृतियोंकी विभक्तिका कितना अन्तरकाल है ? जघन्य अन्तर-काल पल्योपमका असंख्यातवो भाग है ॥९७॥

विशेषार्थ—सत्ताईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला कोई मिथ्यादृष्टि जीव उपशम-सम्यक्त्वको ग्रहणकर और अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला होकर अन्तरको प्राप्त हुआ । पुनः मिथ्यात्वसे जाकर सर्वजघन्य उद्वेलनाकालके द्वारा सम्यक्त्वप्रकृतिकी उद्वेलना करके सत्ताईस प्रकृतियोंकी विभक्ति करनेवाला हो गया । इस प्रकार इस जीवके पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण जघन्य अन्तरकाल पाया जाता है ।

९८. उक्त्सेण उवडुपोग्गलपरियट्टं । ९९. अट्ठावीसविहत्तियस्स जहण्णेण एगसमओ । १००. उक्त्सेण उवडुपोग्गलपरियट्टं ।

चूर्णिसू०—सत्ताईस प्रकृतियोंकी विभक्तिका उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्ध पुद्गल-परिवर्तन है ॥९८॥

विशेषार्थ—कोई अनादि मिथ्यादृष्टि जीव अर्धपुद्गलपरिवर्तनकालके प्रथम समयमें सम्यक्त्वको ग्रहणकर यथाक्रमसे सत्ताईस प्रकृतियोंकी विभक्ति करनेवाला हुआ । तत्पश्चात् सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिकी भी उद्वेलनाकर अन्तरको प्राप्त हुआ । जब उपार्धपुद्गलपरिवर्तनकालमें सर्वजघन्य पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण काल शेष रहा, तब उपशमसम्यक्त्वको ग्रहण कर और उसके साथ अन्तर्मुहूर्त काल विताकर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ । तत्पश्चात् सम्यक्त्व-प्रकृतिके उद्वेलनाकालमें सर्वजघन्य अन्तर्मुहूर्तकाल शेष रहा, तब सम्यक्त्वके सन्मुख हो, अन्तरकरण करके और मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिके द्विचरम समयमें सम्यक्त्वप्रकृतिकी उद्वेलनाकर अन्तिम समयमें सत्ताईस प्रकृतियोंकी विभक्ति करनेवाला होकर क्रमसे सिद्धिको प्राप्त हुआ । ऐसे जीवके पहलेके पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण कालसे तथा अन्तिम अन्तर्मुहूर्तकालसे कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकाल सत्ताईस प्रकृतियोंकी विभक्तिका पाया जाता है ।

चूर्णिसू०—अट्ठाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिका जघन्य अन्तरकाल एक समय है ॥९९॥

विशेषार्थ—अट्ठाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला कोई मिथ्यादृष्टि जीव, सम्यक्त्व-प्रकृतिके उद्वेलनाकालमें अन्तर्मुहूर्त शेष रह जानेपर उपशमसम्यक्त्वके अभिमुख हो अन्तर-करण करके और मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिके द्विचरम समयमें सम्यक्त्वप्रकृतिकी उद्वेलना कर अन्तिम समयमें सत्ताईस प्रकृतियोंकी विभक्ति करनेवाला हुआ । तदनन्तर समयमें उसने उपशमसम्यक्त्वको ग्रहणकर अट्ठाईस प्रकृतियोंका सत्त्व उत्पन्न किया, तब उस जीवके अट्ठाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिका एक समयप्रमाण जघन्य अन्तरकाल उपलब्ध हुआ ।

चूर्णिसू०—अट्ठाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिका उत्कृष्टकाल उपार्धपुद्गल परिवर्तन है ॥१००॥

विशेषार्थ—किसी अनादि मिथ्यादृष्टि जीवने अर्धपुद्गल परिवर्तनके आदि समयमें उपशमसम्यक्त्वको ग्रहण किया और अट्ठाईस प्रकृतियोंकी विभक्ति करनेवाला हुआ । इस प्रकार अट्ठाईस विभक्तिका आरम्भ कर और सर्वजघन्य पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण कालके द्वारा सम्यक्त्वप्रकृतिकी उद्वेलना कर सत्ताईस प्रकृतियोंकी विभक्ति करनेवाला हुआ और अन्तरको प्राप्त हो अर्धपुद्गलपरिवर्तनकाल तक संसारमें परिभ्रमण कर अन्तमें सर्वजघन्य अन्तर्मुहूर्तप्रमाण संसारके अवशेष रह जाने पर उपशमसम्यक्त्वको ग्रहण कर अट्ठाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला होकर क्रमशः अन्तर्मुहूर्तकालसे सिद्ध हो गया । इस प्रकार पूर्वके पल्योपमके असंख्यातवे भागसे और अन्तके अन्तर्मुहूर्तकालसे कम अर्धपुद्गलपरिवर्तन-प्रमाण अट्ठाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर काल पाया जाता है ।

१०१. णाणाजीवेहि भंगविचओ । जेसिं मोहणीय-पयडीओ अत्थि, तेसु पयदं ।
 १०२. सव्वे जीवा अट्ठावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउवीस-एक्कवीससंतकम्पविहत्तिया
 णियमा अत्थि । १०३. सेसविहत्तिया भजियव्वा । १०४. सेसाणिओगदाराणि
 णेदव्वाणि । १०५ अप्पावहुअं ।

चूर्णिसू०—अब नाना जीवोंकी अपेक्षा जिन जीवोंके मोहनीयकर्मकी प्रकृतियाँ पाई जाती हैं, उन जीवोंमें सम्भव भंगोंका विचय अर्थात् विचार यहाँपर किया जाता है । जो जीव अट्ठाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले हैं, सत्ताईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले हैं, छव्वीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले हैं, चौवीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले हैं और इक्कीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले हैं, वे सब नियमसे हैं । अर्थात् इन स्थानोंकी विभक्ति और अविभक्तिवाले जीव नियमसे होते हैं । किन्तु उक्त स्थानोंसे अवशिष्ट प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव भजितव्य हैं । अर्थात् तेईस, चाईस, तेरह, बारह, ग्यारह, पाँच, चार, तीन, दो और एक प्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव कभी होते भी हैं और कभी नहीं भी होते हैं ॥१०१-१०३॥

चूर्णिसू०—इसी प्रकार शेष अनुयोगद्वारोंको जानना चाहिए ॥१०४॥

विशेषार्थ—उपर्युक्त अनुयोगद्वारोंके अतिरिक्त जो परिमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शनानुगम, नानाजीवोंकी अपेक्षा कालानुगम और अन्तरानुगम अनुयोगद्वार हैं, उनकी प्ररूपणा भी कहे गये अनुयोगद्वारोंके अनुसार करना चाहिए । चूर्णिसूत्रकारने सुगम होनेके कारण उनकी प्ररूपणा नहीं की है, किन्तु इस सूत्र-द्वारा उनकी सूचनामात्र कर दी है । अतएव विशेष जिज्ञासु जन इन अनुयोगद्वारोंके व्याख्यानको जयधवला टीकामें देखे । ग्रन्थ-विस्तारके भयसे यहाँ उनका वर्णन करना सम्भव नहीं है ।

चूर्णिसू०—अब प्रकृतिविभक्तिके स्थानोंका अल्पवहुत्व कहते हैं ॥१०५॥

विशेषार्थ—अल्पवहुत्व दो प्रकारका है—काल-सम्बन्धी अल्पवहुत्व और जीव-सम्बन्धी अल्पवहुत्व । इनमेंसे पहले काल-सम्बन्धी अल्पवहुत्वको जानना आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना जीव-सम्बन्धी अल्पवहुत्वका यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता है । ओघ और आदेशकी अपेक्षा कालसम्बन्धी अल्पवहुत्वके दो भेद हैं॥ उनमेंसे ओघकी अपेक्षा पाँच प्रकृतियोंकी विभक्तिका काल सबसे कम है । इससे लोभसंज्वलनकपायसम्बन्धी सूक्ष्म संग्रहकृष्टिके वेदनका काल संख्यातगुणा है । इसका कारण यह है कि पाँच विभक्तिके एक समय कम दो आवलीप्रमाण कालसे संख्यात आवलीप्रमाण सूक्ष्मकृष्टिके वेदनकालमें भाग देनेपर संख्यात रूप पाये जाते हैं । लोभसंज्वलनकी सूक्ष्म संग्रहकृष्टिके वेदनकालसे लोभ-संज्वलनकी दूसरी वादरकृष्टिका वेदनकाल विशेष अधिक है । यहाँपर विशेष अधिकका प्रमाण

• काल-अप्पावहुआणुगमेण दुविहो णिद्देशो ओवेण आदेशेण य । तत्थ ओघेण सव्वत्योवो पच-विहत्तियकालो । लोभसुहुमसगहकिट्ठीवेदयकालो सखेज्जगुणो । लोभविदियवादरकिट्ठीवेदयकालो विसेसाहिओ ।

संख्यात आवली है । तथा आगे भी जिन पदोमे कालका प्रमाण विशेष अधिक कहा जायगा, वहाँ वहाँ सर्वत्र संख्यात आवलीप्रमाण ही विशेष अधिक काल जानना चाहिए । लोभसंज्वलनकी दूसरी वादरकृष्टिके वेदनकालसे लोभसंज्वलनकी पहली वादरकृष्टिका वेदनकाल विशेष अधिक है । लोभसंज्वलनकी प्रथम वादरकृष्टिके वेदनकालसे मायासंज्वलनकी तृतीय संग्रहकृष्टिका वेदनकाल विशेष अधिक है । मायासंज्वलनकी तृतीय संग्रहकृष्टिके वेदनकालसे उसी मायासंज्वलनकी ही द्वितीय संग्रहकृष्टिका वेदनकाल विशेष अधिक है । मायासंज्वलनकी द्वितीय संग्रहकृष्टिके वेदनकालसे उसीकी प्रथम संग्रहकृष्टिका वेदनकाल विशेष अधिक है । मायासंज्वलनकी प्रथम संग्रहकृष्टिके वेदनकालसे मानसंज्वलनकी तृतीय संग्रहकृष्टिका वेदनकाल विशेष अधिक है । मानसंज्वलनकी तृतीय संग्रहकृष्टिके वेदनकालसे उसीकी द्वितीय संग्रहकृष्टिका वेदनकाल विशेष अधिक है । मानसंज्वलनकी द्वितीय संग्रहकृष्टिके वेदनकालसे उसीकी प्रथम संग्रहकृष्टिका वेदनकाल विशेष अधिक है । मानसंज्वलनकी प्रथम संग्रहकृष्टिके वेदनकालसे क्रोधसंज्वलनकी तृतीय संग्रहकृष्टिका वेदनकाल विशेष अधिक है । क्रोधसंज्वलनकी तृतीय संग्रहकृष्टिके वेदनकालसे उसीकी द्वितीय संग्रहकृष्टिका वेदनकाल विशेष अधिक है । क्रोधसंज्वलनकी द्वितीय संग्रहकृष्टिके वेदनकालसे उसीकी प्रथम संग्रहकृष्टिका वेदनकाल विशेष अधिक है । क्रोधसंज्वलनकी प्रथम संग्रहकृष्टिके वेदनकालसे चारो संज्वलनकपायोके कृष्टिकरणका काल संख्यातगुणा है । चारो संज्वलनकपायोके कृष्टिकरणकालसे अश्वकर्णकरणका काल विशेष अधिक है । अश्वकर्णकरणके कालसे हास्यादि छह नोकपायोके क्षपणका काल विशेष अधिक है । हास्यादि छह नाकपायोके क्षपणकालसे स्त्रीवेदके क्षपणका काल विशेष अधिक है । स्त्रीवेदके क्षपणकालसे नपुंसकवेदके क्षपणका काल विशेष अधिक है । नपुंसकवेदके क्षपणकालसे तेरह प्रकृतियोंकी विभक्तिका काल संख्यातगुणा है । तेरह प्रकृतियोंकी विभक्तिके कालसे वाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिका काल संख्यातगुणा है । वाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिके कालसे तेईस प्रकृतियोंकी विभक्तिका काल विशेष अधिक है । तेईस प्रकृतियोंकी विभक्तिके कालसे सत्ताईस प्रकृतियोंकी विभक्तिका काल असंख्यातगुणा है । यहाँ गुणकार पर्योपमका असंख्यातवर्ग भाग है । सत्ताईस प्रकृतियोंकी विभक्तिके कालसे इक्कीस प्रकृतियोंकी

लोभस पटमसगहकिष्टीवेदकालो विसेसाहिओ । मायाए तदियसगहकिष्टीवेदकालो विसेसाहिओ । तिस्से चैव विदियसगहकिष्टीवेदकालो विसेसाहिओ । पटमसंगहकिष्टीवेदकालो विसेसाहिओ । माणत्तदियसगहकिष्टीवेदकालो विसेसाहिओ । विदियसगहकिष्टीवेदकालो विसेसाहिओ । पटमसगहकिष्टीवेदकालो विसेसाहिओ । कोहतदियसंगहकिष्टीवेदकालो विसेसाहिओ । विदियसगहकिष्टीवेदकालो विसेसाहिओ । पटमसगहकिष्टीवेदकालो विसेसाहिओ । चतुर्हं सजलणाणं किष्टीकरणद्वा सखेजगुणा । अस्सकण्णकरणद्वा विसेसाहिया । छण्णोकसायखवणद्वा विसेसाहिया । इत्थिवेदखवणद्वा विसेसाहिया । गणुसयवेदखवणद्वा विसेसाहिया । तेरसविहत्तियकालो सखेजगुणो । वावीसविहत्तियकालो सखेजगुणो । तेवीसविहत्तियकालो विसेसाहिओ । सत्तावीसविहत्तियकालो असखेजगुणो । एकवीसविहत्तियकालो असखेजगुणो । चउवीसविहत्तियकालो सखेजगुणो । अत्रावीसविहत्तियकालो विसेसाहिओ । छवीसविहत्तियकालो अणतगुणो ।

१०६. सव्वत्थोवा पंचसंतकम्मविहत्तिया । १०७. एकसंतकम्मविहत्तिया संखेज्जगुणा । १०८. दोण्हं संतकम्मविहत्तिया विसेसाहिया । १०९. तिण्हं संतकम्मविहत्तिया विसेसाहिया । ११०. एकारसण्हं संतकम्मविहत्तिया विसेसाहिया । १११. वारसण्हं संतकम्मविहत्तिया विसेसाहिया । ११२. चट्ठण्हं संतकम्मविहत्तिया संखेज्जगुणा । ११३. तेरसण्हं संतकम्मविहत्तिया संखेज्जगुणा । ११४. वाधीससंतकम्म-

विभक्तिका काल असंख्यातगुणा है । इक्कीस प्रकृतियोंकी विभक्तिके कालसे चौबीस प्रकृतियोंकी विभक्तिका काल संख्यातगुणा है । चौबीस प्रकृतियोंकी विभक्तिके कालसे अट्ठाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिका काल विशेष अधिक है । यह विशेष अधिक काल पर्योपमके तीन असंख्यातवे भाग-प्रमाण है । अट्ठाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिके कालसे छव्वीस प्रकृतियोंकी विभक्तिका काल अनन्तगुणा है । क्योंकि, छव्वीस प्रकृतिकी विभक्तिका काल अनादि-अनन्त भी वतलाया गया है, तथा सादि-सान्त भी । सादि-सान्त उत्कृष्ट काल भी उपार्थ पुद्गलपरिवर्तन कहा गया है, इसलिए इसका काल अनन्तगुणा कहा है । चार, तीन, दो और एक प्रकृतिकी विभक्तिका काल जघन्य भी होता है और उत्कृष्ट भी होता है । उनमेसे अन्य कपायके उदयसे क्षपकश्रेणी पर चढ़े हुए जीवके जघन्य काल और स्वोदयसे चढ़े हुए जीवके उत्कृष्ट काल होता है । तथा, पाँच प्रकृतिकी विभक्तिमे लेकर तेईस प्रकृतियोंकी विभक्ति तकका जघन्य और उत्कृष्ट काल मद्दज होता है, केवल तेरह और वारह विभक्तिका जघन्य काल भी होता है, इतना विशेष जानना चाहिए ।

अब चूर्णिकार इसी काल-सम्बन्धी अल्पवहुत्वका आश्रय लेकर जीव-सम्बन्धी अल्पवहुत्वका प्ररूपण करते हैं—

चूर्णिसू०—मोहनीयकर्मके पाँच प्रकृतिरूप सत्त्वस्थानकी विभक्तिवाले जीव सबसे कम हैं; क्योंकि, अन्य विभक्तियोंकी अपेक्षा इसका काल केवल एक समय कम दो आवलीमात्र है ॥१०६॥ पाँच प्रकृतिरूप सत्त्वस्थानकी विभक्तिवाले जीवोंसे एक प्रकृतिरूप सत्त्वस्थानकी विभक्ति करनेवाले जीव संख्यातगुणित हैं, क्योंकि इस विभक्तिका काल संख्यात आवलीप्रमाण है ॥१०७॥ एक प्रकृतिरूप सत्त्वस्थानकी विभक्तिवाले जीवोंसे दो प्रकृतियोंके सत्त्वस्थानकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक है ॥१०८॥ दो प्रकृतियोंके सत्त्वस्थानकी विभक्तिवाले जीवोंसे तीन प्रकृतियोंके सत्त्वस्थानकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक है ॥१०९॥ तीन प्रकृतियोंके सत्त्वस्थानकी विभक्तिवाले जीवोंसे ग्यारह प्रकृतियोंके सत्त्वस्थानकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक है ॥११०॥ ग्यारह प्रकृतियोंके सत्त्वस्थानकी विभक्तिवाले जीवोंसे वारह प्रकृतियोंके सत्त्वस्थानकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक है ॥१११॥ वारह प्रकृतियोंके सत्त्वस्थानकी विभक्तिवाले जीवोंसे चार प्रकृतियोंके सत्त्वस्थानकी विभक्तिवाले जीव संख्यातगुणित है ॥११२॥ चार प्रकृतियोंके सत्त्वस्थानकी विभक्तिवाले जीवोंसे तेरह प्रकृतियोंके सत्त्वस्थानकी विभक्तिवाले जीव संख्यात-

विहत्तिया संखेज्जगुणा । ११५. तेवीसाए संतकम्मविहत्तिया विसेसाहिया । ११६.
सत्तावीसाए संतकम्मविहत्तिया अमंखेज्जगुणा । ११७. एकवीसाए संतकम्म-
विहत्तिया असंखेज्जगुणा । ११८. चउवीसाए संतकम्मिया असंखेज्जगुणा । ११९.
अट्ठावीससंतकम्मिया असंखेज्जगुणा । १२०. छुव्वीसविहत्तिया अणंतगुणा । १२१.
भुजगारो अप्पदरो अवट्ठिदो कायव्वो* ।

गुणित है ॥११३॥ तेरह प्रकृतियोंके सत्त्वस्थानकी विभक्तिवाले जीवोंसे वाईस प्रकृतियोंके सत्त्वस्थानकी विभक्तिवाले जीव संख्यातगुणित है ॥११४॥ वाईस प्रकृतियोंके सत्त्वस्थानकी विभक्तिवाले जीवोंसे तेईस प्रकृतियोंकी सत्त्वविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक है ॥११५॥ तेईस प्रकृतियोंके सत्त्वस्थानकी विभक्तिवाले जीवोंसे सत्ताईस प्रकृतियोंके सत्त्वस्थानवाले जीव असंख्यातगुणित है ॥११६॥ सत्ताईस प्रकृतियोंके सत्त्वस्थानवाले जीवोंसे इक्कीस प्रकृतियोंके सत्त्वस्थानवाले जीव असंख्यातगुणित है ॥११७॥ इक्कीस प्रकृतियोंके सत्त्वस्थानवाले जीवोंसे चौबीस प्रकृतियोंके सत्त्वस्थानकी विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणित है ॥११८॥ चौबीस प्रकृतियोंके सत्त्वस्थानकी विभक्तिवाले जीवोंसे अट्ठाईस प्रकृतियोंके सत्त्वस्थानकी विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणित है ॥११९॥ अट्ठाईस प्रकृतियोंके सत्त्वस्थानकी विभक्तिवाले जीवोंसे छुव्वीस प्रकृतियोंके सत्त्वस्थानकी विभक्तिवाले जीव अनन्तगुणित है ॥१२०॥

चूर्णिसू०—इस प्रकृतिविभक्तिके चूलिकारूपसे स्थित भुजाकार, अल्पतर और अवस्थितस्वरूप स्थानोंका निरूपण करना चाहिए ॥१२१॥

विशेषार्थ—भुजाकार, अल्पतर और अवस्थित इन तीनों प्रकारकी विभक्तिको भुजाकारविभक्ति कहते हैं । इस भुजाकारविभक्तिमें सत्तरह अनुयोगद्वार होते हैं । वे इस प्रकार हैं—समुत्कीर्तना, सादिविभक्ति, अनादिविभक्ति, ध्रुवविभक्ति, अध्रुवविभक्ति, एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल और अन्तर, नानाजीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, भागाभागानुगम, परिमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शनानुगम, कालानुगम, अन्तरानुगम, भावानुगम और अल्पबहुत्व । चूर्णिकारने यहाँपर समुत्कीर्तना आदि शेष सोलह अनुयोगद्वारोंको सुगम समझ कर या महाबन्ध आदि अन्य ग्रन्थोंमें विस्तृत निरूपण होनेसे उनका वर्णन नहीं किया है । केवल एक जीवकी अपेक्षा कालानुयोगद्वारका ही निरूपण किया है । क्योंकि, शेष सभी अनुयोगद्वारोंका मूल आधार कालानुयोगद्वार ही है । कालानुयोगद्वारके जान लेनेपर शेष अनुयोगद्वारोंको बुद्धिमान् स्वयं जान सकते हैं ।

* तस्य भुजगारविहत्तीए इमाणि सत्तारस अणियोगद्वाराणि णाटव्वाणि भवन्ति । त जहा—
ममुञ्जिणा सादियविहत्ती अणादियविहत्ती ध्रुवविहत्ती अध्रुवविहत्ती एगजीवेण सामित्त कालो अतरं
णाणाजीवेहि भगविचयो भागाभागो परिमाण खेतं पोषणं कालो अतर भावो अप्पावहुअ चेदि । जयध०

१२२. एत्थ एगजीवेण कालो । १२३. भुजगारसंतकम्मविहत्तिओ केवचिरं कालादो होदि ? जहणुक्कस्सेण एगसमओ । १२४. अप्पदरसंतकम्मविहत्तिओ केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एगसमओ । १२५. उक्कस्सेण वे समया । १२६. अवट्ठिद-संतकम्मविहत्तियाणं तिणिण भंगा ।

चूर्णिसू०—उनमेसे यहाँपर एक जीवकी अपेक्षा काल कहते हैं। भुजाकारस्वरूप सत्त्व-प्रकृतियोंकी विभक्तिका कितना काल है? जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ॥ १२२-१२३ ॥

विशेषार्थ—अल्प कर्म-प्रकृतियोंकी सत्तासे बहुत कर्मप्रकृतियोंकी सत्ताको प्राप्त होना भुजाकारविभक्ति कहलाती है। इस प्रकारकी भुजाकारविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल छत्तीस या सत्ताईस प्रकृतियोंकी विभक्ति करनेवाले जीवके उपजमसम्यक्त्वको ग्रहण कर अट्ठाईस प्रकृतियोंका सत्त्व स्थापित करने पर एक समयप्रमाण पाया जाता है। इसी प्रकारसे चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले सम्यग्दृष्टि जीवके मिथ्यात्वको प्राप्त हो अट्ठाईस प्रकृतियोंके सत्त्वको स्थापित करने पर भी भुजाकारविभक्तिका काल एक समयप्रमाण देखा जाता है।

चूर्णिसू०—अल्पतरस्वरूप सत्त्वप्रकृतियोंकी विभक्तिका कितना काल है? जघन्य काल एक समय है ॥ १२४ ॥

विशेषार्थ—बहुत कर्म-प्रकृतियोंकी सत्तासे अल्प कर्म-प्रकृतियोंकी सत्ताको प्राप्त होना अल्पतरविभक्ति कहलाती है। अट्ठाईस सत्त्वप्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवके अनन्तानुबन्धीचतुष्कके विसंयोजन कर चौबीस प्रकृतियोंका सत्त्व स्थापित करने पर अल्पतर-विभक्तिका काल एक समयप्रमाण पाया जाता है। इसी प्रकार सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतियोंका उद्वेलन कर चुकने पर प्रथम समयमें, मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व-प्रकृतिके क्षपण कर चुकने पर प्रथम समयमें, तथा क्षपकश्रेणीमें क्षपणयोग्य प्रकृतियोंके क्षपण कर चुकने पर प्रथम समयमें भी अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय पाया जाता है।

चूर्णिसू०—अल्पतरविभक्तिका उत्कृष्टकाल दो समय है ॥ १२५ ॥

विशेषार्थ—नपुंसकवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके सवेद भागके द्विचरम समयमें स्त्रीवेदके पर-प्रकृति रूपसे संक्रमण होकर तेरह प्रकृतियोंकी सत्तासे वारह प्रकृतियोंकी सत्ताको प्राप्त होनेपर, और तदनन्तर समयमें नपुंसकवेदकी उदयस्थितिको गलाकर वारह प्रकृतियोंकी सत्तासे ग्यारह प्रकृतियोंकी सत्ताको प्राप्त होनेपर लगातार अल्पतरविभक्तिका उत्कृष्ट काल दो समयप्रमाण पाया जाता है।

चूर्णिसू०—अवस्थित कर्म-प्रकृतियोंकी सत्त्व-विभक्तिवाले जीवके कालके तीन भंग होते हैं ॥ १२६ ॥

विशेषार्थ—जब भुजाकार और अल्पतर विभक्ति न हो, किन्तु एक सदृश ही

१ त जहा—केसि पि अणादिओ अपजवसिदो । केसि पि अणादिओ सपजवसिदो । केसि पि मादिओ सपजवमिदो । जयध०

१२७. तत्थ जो सो सादिओ सपज्जवसिदो तस्स जहण्णण एगसमओ ।

१२८ उक्कस्सेण उवड्ढुपोग्गलपरियट्ठ ।

कर्मप्रकृतियोंका सत्त्व बना रहे, तब अवस्थितविभक्ति कहलाती है। अवस्थितविभक्ति करनेवाले जीवोंके तीन भंग होते हैं अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और आदि-सान्त। उन तीन प्रकारकी अवस्थित विभक्तियोंमेंसे कितने ही जीवोंमें अर्थात् अभव्य और नित्यनिगोदको प्राप्त हुए दूरान्दूर भव्योंमें अनादि-अनन्तकालस्वरूप अवस्थितविभक्ति होती है, क्योंकि उनमें भुजाकार और अल्पतरविभक्ति संभव ही नहीं है। कितने ही जीवोंके अनादि-सान्तकालात्मक अवस्थितविभक्ति होती है। जैसे—जो जीव अनादिकालसे अभी तक छठ्ठीस प्रकृतियोंकी सत्तारूपसे अवस्थित थे, उनके सम्यक्त्वको प्राप्त करनेपर अवस्थित-विभक्तिका काल अनादि-सान्त देखा जाता है। कितने ही जीवोंके अवस्थितविभक्तिका काल सादि-सान्त देखा जाता है, जिन्होंने कि पहले कभी उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त कर पुनः लगातार मिथ्यात्व-अवस्थाको धारण किया है। प्रकृतमें यह तीसरा भंग ही विवक्षित है। चूर्णिकारने इसीके जघन्य और उत्कृष्ट कालका आगे वर्णन किया है।

चूर्णिसू०—इनमें जो सादि-सान्त अवस्थितविभक्ति है, उसका जघन्य काल एक समय है ॥१२७॥

विशेषार्थ—अन्तरकरणको करके मिथ्यात्वप्रकृतिकी प्रथम स्थितिके द्विचरम समयमें सम्यक्त्वप्रकृतिकी उद्वेलना करके अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिसे सत्ताईस प्रकृतियोंकी विभक्तिको प्राप्त होनेपर एक समय अल्पतरविभक्तिको करके तत्पश्चात् मिथ्यादृष्टि गुणस्थानके चरम समयमें सत्ताईस प्रकृतियोंकी विभक्तिरूपसे एक समयमात्र अवस्थित रह कर, तदनन्तर समयमें ही सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले जीवके अल्पतर और भुजाकार विभक्तिके मध्यमें सादि-सान्त अवस्थितविभक्तिका एक समय-प्रमाण जघन्य काल पाया जाता है। कहनेका अभिप्राय यह है कि अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय बतलानेके लिए मिथ्यात्व गुणस्थानके अन्तिम दो समय और उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त करनेका प्रथम समय, इस प्रकार इन तीन समयोंको ग्रहण करे। इनमेंसे प्रथम समयमें सम्यक्त्वप्रकृतिकी उद्वेलना कर सत्ताईस प्रकृतियोंकी विभक्तिको प्राप्त होकर अल्पतरविभक्ति करता है। दूसरे समयमें अवस्थितविभक्ति करता है और तीसरे समयमें उपशमसम्यक्त्वको ग्रहण कर अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिको प्राप्त होकर भुजाकारविभक्ति करता है। इस प्रकार अल्पतर और भुजाकार विभक्तिके मध्यमें अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलनाकी अपेक्षा भी अवस्थितविभक्तिका जघन्यकाल एक समय प्राप्त होता है।

चूर्णिसू०—सादि-सान्त अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट काल उपार्थ पुद्गलपरिवर्तन-प्रमाण है ॥१२८॥

विशेषार्थ—किसी एक अनादिमिथ्यादृष्टि जीवने तीनों करणोंको करके प्रथमोपशम-

१२९. एवं सञ्वाणि अणिओगद्वाराणि णेदञ्वाणि । १३०.* पदणिकखेवे
वड्डीए च अणुमग्गिदाए समत्ता पयडिविहत्ती ।

सम्यक्त्वको प्राप्त कर और अनन्त संसारको छेदकर उसे अर्धपुद्गलपरिवर्तनमात्र किया । पुनः सम्यक्त्वका काल समाप्त होते ही मिथ्यात्वमे जाकर और सर्वजघन्य उद्वेलनकालके द्वारा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिकी उद्वेलनाकर अट्टाईस विभक्ति-स्थानसे सत्ताईस और सत्ताईससे छव्वीस, इस प्रकार अल्पतरविभक्ति करता हुआ छव्वीस प्रकृतिरूप अवस्थित-विभक्तिको प्राप्त हुआ । पुनः उद्वेलनकालसम्बन्धी पत्योपमके असंख्यातवे भागसे कम अर्धपुद्गलपरिवर्तन तक उसी अवस्थित छव्वीस विभक्तिके साथ परिभ्रमणकर संसारके अन्त-मुहूर्तमात्र शेष रहनेपर सम्यक्त्वको ग्रहणकर छव्वीस विभक्ति-स्थानसे अट्टाईस विभक्ति-स्थानको प्राप्तकर भुजाकारविभक्तिको करनेवाला हो गया । इस प्रकार पत्यके असंख्यातवे भाग से कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण सादि-सान्त अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट काल सिद्ध होता है ।

चूर्णिसू०—इसी प्रकार कालानुयोगद्वारके समान ही शेष समस्त अनुयोगद्वारोकी प्ररूपणा कर लेना चाहिए ॥१२९॥

विशेषार्थ—चूर्णिकारने सुगम समझकर शेष अनुयोगद्वारोका निरूपण नहीं किया । विशेष जिज्ञासुओको जयधवला टीकाके अन्तर्गत उच्चारणावृत्ति देखना चाहिए ।

चूर्णिसू०—पदनिक्षेप और वृद्धि नामक अनुयोगद्वारोके यहाँ अनुमार्गण अर्थात् अन्वेषण करनेपर प्रकृतिविभक्ति नामक अर्थाधिकार समाप्त होता है ॥१३०॥

विशेषार्थ—ऊपर वर्णन किये गये अनुयोगद्वारोका जघन्य और उत्कृष्ट पदोके द्वारा निक्षेप अर्थात् निश्चय करनेको पदनिक्षेप कहते हैं । इस पदनिक्षेप अधिकारका समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पवहुत्व, इन तीन अनुयोगोंद्वारा वर्णन किया गया है । वृद्धि, हानि और अवस्थान, इन तीनोंके वर्णन करनेवाले अधिकारको वृद्धिनामक अर्थाधिकार कहते हैं । इसका वर्णन समुत्कीर्तना, स्वामित्व, एक जीवकी अपेक्षा काल, अन्तर, नानाजीवांकी अपेक्षा भंगविचयानुगम, भागाभागानुगम, परिमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शानुगम, कालानुगम, अन्तरानुगम, भावानुगम और अल्पवहुत्वानुगम, इन तेरह अनुयोगद्वारोसे किया गया है । इन अनुयोगद्वारोसे दोनो अधिकारोके वर्णन करनेपर प्रकृतिविभक्तिनामक अर्थाधिकार समाप्त होता है । यतिवृपभाचार्यने उक्त अनुयोगद्वारोकी सूचना इस सूत्रसे की है । विशेष जिज्ञासुओको जयधवला टीका देखना चाहिए ।

इस प्रकार प्रकृतिविभक्ति समाप्त हुई ।

* को पदणिकखेवो णाम ? जहण्णुक्कस्सपदविसयणिच्छए खिवदि पादेदि त्ति पदणिकखेवो णाम । भुजगारविसेसो पदणिकखेवो, जहण्णुक्कस्सवद्वि-हाणिपरुवणादो । पदणिकखेवविसेसो चड्डी. वद्वि-हाणीण भेदपरुवणादो । जयध०

ठिदिविहत्ती

१. ठिदिविहत्ती दुविहा मूलपयडिद्विदिविहत्ती चैव उत्तरपयडिद्विदिविहत्ती^१ चैव । २. तत्थ अट्टपद^२—एगा ठिदी^३ ठिदिविहत्ती, अणेगाओ ठिदीओ ठिदिविहत्ती ।

स्थितिविभक्ति

पूर्व-वर्णित प्रकृति विभक्ति-द्वारा अट्टाईस मोहप्रकृतियोंके स्वभावसे परिचित शिष्यके लिए, प्रवाहरूपसे आदि-रहित, किन्तु एक एक समयमें बंधनेवाले समयप्रवद्धविशेषकी अपेक्षा सादि-सान्त उन्हीं अट्टाईस मोह-प्रकृतियोंकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिको चौदह मार्गणा-स्थानोंका आश्रय लेकर प्ररूपण करनेके लिए इस स्थितिविभक्ति नामक अर्थाधिकारका अवतार हुआ है ।

चूर्णिसू०—स्थितिविभक्ति दो प्रकारकी है, मूलप्रकृतिस्थितिविभक्ति और उत्तर-प्रकृतिस्थितिविभक्ति ॥१॥

विशेषार्थ—एक समयमें वधे हुए समस्त मोहकर्म-स्कन्धके प्रकृतिसमूहको मूलप्रकृति कहते हैं । कर्म-बंध होनेके अनन्तर उसके आत्माके साथ बने रहनेके कालको स्थिति कहते हैं । विभक्तिनाम भेद या पृथग्भावका है । अतएव मूलप्रकृतिकी स्थितिके विभागको मूल-प्रकृति-स्थितिविभक्ति कहते हैं । मोहकर्मकी पृथक्-पृथक् अट्टाईस उत्तरप्रकृतियोंके स्थिति-विभागको उत्तरप्रकृति-स्थितिविभक्ति कहते हैं ।

चूर्णिसू०—उक्त दोनों प्रकारकी स्थितिविभक्तियोंका यह अर्थपद हैं—एक स्थिति स्थितिविभक्ति है और अनेक स्थितियाँ स्थितिविभक्ति है ॥२॥

विशेषार्थ—प्रकृत अधिकारके अर्थ-बोधक पदको अर्थपद कहते हैं । मोहसामान्यरूप मूलप्रकृतिकी स्थितिको एक स्थिति कहते हैं । उत्तरप्रकृतिस्वरूप मोहकर्मकी स्थितियोंको अनेक स्थिति कहते हैं । इस प्रकार एक स्थितिकी विभक्तिको भी स्थितिविभक्ति कहते हैं और अनेक स्थितियोंकी विभक्तियोंको भी स्थितिविभक्ति कहते हैं । यह स्थितिविभक्तिका अर्थपद है ।

१ एगसमयम्मि वद्धासेसमोहकम्मक्खधाण पयडिसमूहो मूलपयडी णाम । तिस्से द्विदी मूलपयडिद्विदी । पुध-पुव अट्टावीसमोहपयडीण द्विदीओ उत्तरपयडिद्विदी णाम । विहत्ती भेदो पुवभावो न्ति एयट्ठो । द्विदीए विहत्ती द्विदिविहत्ती । जयध०

२ किमट्टपद णाम ? भणिस्समाण-अहियारस्स जोणिभावेण अवद्विद-अत्थो अत्थपठ णाम । जयध०

३ का द्विदी णाम ? कम्मसरूवेण परिणदाण कम्मइयपोगलक्खंधाण कम्मभावमच्छडिय अच्छणकालो द्विदी णाम । जयध०

३. तत्थ अणियोगद्वाराणि^१ । ४. सव्वविहत्ती णोसव्वविहत्ती उक्कस्सविहत्ती अणुक्कस्सविहत्ती जहण्णविहत्ती अजहण्णविहत्ती सादियविहत्ती अणादियविहत्ती धुवविहत्ती अद्धुवविहत्ती एयजीवेण सामित्तं कालो अंतरं; णाणाजीवेहि भंगविचओ परिमाणं खेत्तं पोसणं कालो अंतरं सण्णियासो अप्पावहुअं च । सुजगारो पद-णिक्खेवो वड्डी च^२ ।

चूर्णिसू०—उस मूलप्रकृति-स्थितिविभक्तिके प्ररूपण करनेवाले ये अनुयोगद्वार है—सर्वविभक्ति, नोसर्वविभक्ति, उत्कृष्टविभक्ति, अनुत्कृष्टविभक्ति, जघन्यविभक्ति, अजघन्यविभक्ति, सादिविभक्ति, अनादिविभक्ति, ध्रुवविभक्ति, अध्रुवविभक्ति, एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल, अन्तर, नानाजीवकी अपेक्षा भंगविचय, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, सन्निकर्ष और अल्पवहुत्व । तथा भुजाकार, पदनिक्षेप और वृद्धि ॥३-४॥

विशेषार्थ—चूर्णिकारने यद्यपि अल्पवहुत्व तक केवल इक्कीस ही अनुयोगद्वार स्थितिविभक्तिके निरूपण करनेके लिए कहे हैं, तथापि जयधवलाकारने अल्पवहुत्वके अन्तमे पठित च-शब्दको अनुक्त अर्थका समुच्चय करनेवाला मानकर उसके द्वारा सूत्रमे नहीं कहे गये अद्धाच्छेद, भागाभाग और भावानुगम, इन तीन अनुयोगद्वारोका और भी ग्रहण किया है । इसका कारण यह है कि स्थितिविभक्तिका मूल आधार स्थितिवन्ध है । और उसका महाबन्धमे उपर्युक्त चौबीस अनुयोगद्वारोसे ही विस्तृत वर्णन किया गया है । इन चौबीस अनुयोगद्वारोसे मूलप्रकृति और उत्तरप्रकृति-सम्बन्धी स्थितिवन्धका यतः महाबन्धमे अतिविस्तृत वर्णन किया गया है, अतः चूर्णिकारने उनका कुछ भी वर्णन न करके इनके द्वारा स्थितिविभक्तिके जानने या उच्चारणाचार्योको वर्णन करनेकी सूचनामात्र कर दी है । अतएव उच्चारणाचार्य और जयधवलाकारने महाबन्धके अनुसार उक्त चौबीसो अनुयोगद्वारोसे स्थितिविभक्तिका निरूपण किया है । भेद केवल इतना है कि महाबन्धमे इन अनुयोगद्वारोसे आठो ही कर्मोके स्थितिवन्धका निरूपण किया गया है । परन्तु प्रभुत ग्रन्थमे तो केवल मोहनीय कर्म ही विवक्षित है, अतः उनके द्वारा यहाँपर केवल मोहनीयकर्मके स्थितिवन्धका विचार किया गया है । महाबन्धमे इन चौबीसो अनुयोगद्वारोका क्रम इस प्रकार है १ अद्धाच्छेद, २ सर्ववन्ध, ३ नोसर्ववन्ध, ४ उत्कृष्टवन्ध, ५ अनुत्कृष्टवन्ध, ६ जघन्यवन्ध, ७ अजघन्यवन्ध, ८ सादिवन्ध, ९ अनादिवन्ध, १० ध्रुववन्ध, ११ अध्रुववन्ध, १२ एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व १३ काल और १४ अन्तर, १५ तथा नानाजीवकी अपेक्षा भंगविचय, १६ भागाभाग १७ परिमाण, १८ क्षेत्र, १९ स्पर्शन, २० काल, २१ अन्तर, २२ सन्निकर्ष, २३ भाव और २४ अल्पवहुत्व । उच्चारणाचार्य और जयधवलाकारने इन्ही चौबीस अनुयोगद्वारोसे स्थितिविभक्तिकी प्ररूपणा

^१ किमणियोगद्वार णाम ? अहियारो भण्णमाणत्थस्स अवगमोवाओ । जयध०

^२ एत्थ अतिल्लो च-सदो उत्तसमुच्चयट्ठो । अप्पावहुअ अंते टिट्ठो च-सदो अउत्तसमुच्चयट्ठो । तेण एदेसु अणियोगद्वारेसु अवुत्तस्स अद्धाच्छेदाणिओगद्वारस्स भागाभाग-भावाणिओगद्वाराण च ग्रहण कर्दं । जयध०

की है। प्रत्येक अनुयोगद्वाराका वर्णन ओष और आदेशसे किया गया है, किन्तु यहाँपर ओषकी अपेक्षा मूलप्रकृति-स्थितिबिभक्तिका कुछ वर्णन किया जाता है :—

अद्वाच्छेदप्ररूपणा—अद्वा अर्थात् कर्म-स्थितिरूप कालका अवाधा-सहित और अवाधा-रहित कर्म-निपेकरूपसे छेद अर्थात् विभागरूप वर्णन जिससे किया जाय, उसे अद्वाच्छेद प्ररूपणा कहते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि एक समयमें बंधनेवाले कर्म-पिण्डकी जितनी स्थिति होती है, उसमें एक निश्चित नियमके अनुसार अवाधाकाल पडता है। अवाधाकालका अर्थ है कि बंधा हुआ कर्म उतने काल तक बाधा नहीं देगा, अर्थात् उदयमें नहीं आवेगा। अवाधाकालसे न्यून जो शेष काल रहता है, उसे कर्म-निपेककाल कहते हैं। उसके भीतर विवक्षित समयसे बंधे हुए कर्मपिण्डमें जितने कर्म-परमाणु हैं, उनका एक निश्चित व्यवस्थाके अनुसार विभाजन हो जाता है और तदनुसार ही वे कर्म-परमाणु अपने-अपने उदयकालके प्राप्त होनेपर फल देते हुए निर्जर्ण हो जाते हैं। निपेकशब्दका अर्थ है—एक समयमें निपिक्त या निक्षिप्त किया गया कर्मपिण्ड। जितने समयके द्वारा वह बंधा हुआ कर्म निर्जर्ण होता है, वह कर्म-निपेककाल कहलाता है। अवाधाकालका निश्चित नियम यह है कि एक कोड़ाकोड़ी सागर-प्रमाण स्थितिवाले कर्मका अवाधाकाल सौ वर्ष-प्रमाण होता है। प्रकृतमें मोहनीयकर्म विवक्षित है। उसकी उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर-प्रमाण है, अतएव उसका अवाधाकाल सात हजार वर्ष-प्रमाण होता है। इन सात हजार वर्षोंसे न्यून जो सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर-प्रमाणकाल शेष रहता है, उसे निपेककाल कहते हैं। अन्तर्मुहूर्तसे लेकर अन्तःकोड़ाकोड़ी सागर तककी स्थितिवाले कर्मका अवाधाकाल अन्तर्मुहूर्त-प्रमाण होता है। यह मूलप्रकृतिकी अपेक्षा अद्वाच्छेदकी प्ररूपणा है। उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर होती है। सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्मुहूर्त कम सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर है। अनन्तानुबन्धी आदि सोलह कपायोंकी उत्कृष्ट स्थिति चालीस कोड़ाकोड़ी सागर है। नव नोकपायोंकी उत्कृष्ट स्थिति एक आवली कम चालीस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है। इनमेंसे दर्शनमोहकी तीनों प्रकृतियोंका अवाधाकाल

१ **अद्वाच्छेदप्ररूपणा**—अद्वाच्छेदो दुविधो-जहणओ उक्कस्सओ च । उक्कस्सगे पगद । दुविधो णिद्दो-ओषेण आदेसेण य । तत्थ ओषेण × × × मोहणीयस्स उक्कस्सओ त्तिद्विधो सत्तरि सागरोवम-कोडाकोडीओ । सत्तवस्ससहस्साणि आवाधा । आवाधूणिया कम्मट्ठिदी कम्मणिसेगो । जहणगे पगद । दुविधो णिद्दो-ओषेण आदेसेण य । तत्थ ओषेण × × × मोहणीयस्स जहणओ त्तिद्विधो अतोमुहुत्त । अतोमुहुत्त आवाधा । आवाधूणिया कम्मट्ठिदी कम्मणिसेगो । (महाव०) अद्वाच्छेदो दुविधो-जहणओ उक्कस्सओ च । ××× उक्कस्से पयद । दुविधो णिद्दो-ओषेण आदेसेण य । तत्थ ओषेण मोहणीयस्स उक्कस्सत्तिद्विधो क्त्तिया ? सत्तरिसागरोवमकोडाकोटीओ पडिबुण्णाओ । कुदो ? अकम्मसरूवेण द्विदा कम्मइयवगणक्खधा मिच्छत्तादिपच्चएण मिच्छत्तकम्मसरूवेण परिणदसमए चैव जीवेण सह वधमागदा सत्तवाससहस्सावाध मोत्तूण सत्तरिसागरोवमकोडाकोडीसु जहाकमेण णिसित्ता सत्तरिसागरोवमकोडाकोडि-मेत्तकाल कम्मभावेणच्छिय पुणो तेषिककम्मभावेण गमणुवलभादो । जहण-अद्वाच्छेदाणुगमेण दुविधो णिद्दो-ओषेण आदेसेण य । तत्थ ओषेण मोहणीयस्स जहणिया अद्वा क्त्तिया ? एगा द्विदी एगसमइया । जयध०

सात हजार वर्ष होता है और चारित्रमोहकी सर्व प्रकृतियोंका अवाधाकाल चार हजार वर्ष होता है । इस अवाधाकालसे न्यून जो जेप काल है उसे निपेककाल जानना चाहिए । इस प्रकारसे प्रत्येक कर्मके सम्पूर्ण स्थितिवन्धकाल, अवाधाकाल और निपेककालका विचार उत्कृष्ट स्थितिवन्ध और जघन्य स्थितिवन्धकी अपेक्षा इस अट्टाच्छेद अनुयोगद्वारमें किया गया है ।

^१सर्वविभक्ति-नोसर्वविभक्ति प्ररूपणा—जिस कर्मकी जितनी सर्वोत्कृष्ट स्थिति बतलाई गई है, उस सर्वके बाँधनेको सर्ववन्धविभक्ति कहते हैं और उसमें एक समय कमसे लगाकर नीचली स्थितियोंके बन्धको नोसर्ववन्ध-विभक्ति कहते हैं । जैसे—मोहकर्मकी पूरी सत्तर कोड़ा-कोड़ी सागरप्रमाण स्थितियोंका बन्ध करना सर्ववन्ध है और उसमें एक समय कमसे लगाकर सर्व-जघन्य अन्तर्मुहूर्तप्रमाण स्थितियों तकका बन्ध करना नोसर्ववन्ध है । इस प्रकारसे सर्व-मूल कर्मोंके और उनकी उत्तरप्रकृतियोंके सर्ववन्ध और नोसर्ववन्धका विचार सर्वविभक्ति और नोसर्वविभक्ति नामक अनुयोगद्वारमें किया गया है ।

^२उत्कृष्ट-अनुत्कृष्टवन्धप्ररूपणा—जिस कर्मकी जितनी सर्वोत्कृष्ट स्थिति है, उसके बन्धकी उत्कृष्टवन्ध संज्ञा है । जैसे मोहनीयकर्मका सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर-प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होनेपर अन्तिम निपेकको उत्कृष्ट स्थितिवन्ध कहा जायगा । उत्कृष्ट स्थितिवन्धमेंसे एक समय कम आदि जितने भी स्थितिविकल्प हैं उन्हें अनुत्कृष्ट स्थितिवन्ध कहा जायगा । इस प्रकारसे सर्व मूलकर्मोंके और उनकी उत्तर प्रकृतियोंके उत्कृष्टवन्ध और अनुत्कृष्टवन्धका विचार उत्कृष्टविभक्ति और अनुत्कृष्टविभक्ति नामक अनुयोगद्वारमें किया गया है ।

^३जघन्य-अजघन्यवन्धप्ररूपणा—मोहकर्मकी सबसे जघन्य स्थितिको बाँधना जघन्यवन्ध है और उससे अधिक स्थितिको बाँधना अजघन्यवन्ध है । इस प्रकारसे सर्व कर्मोंके और

१ सव्व-णोसव्वबंधपरूवणा—यो सो सव्ववधो णोसव्ववधो णाम, तस्स इमो णिद्देशो—ओवेण आदेसेण य । तत्थ ओवेण मोहणीयस्स द्विदिवधो कि सव्ववधो, णोसव्ववधो ? सव्ववधो वा णोसव्ववधो वा । सव्वाओ द्विदीओ वधदि त्ति सव्ववधो । तदो ऊणिय द्विदि वधदि त्ति णोसव्ववधो (महाव०) । सव्वविहत्ति-णोसव्वविहत्ति-अणुगमेण दुविहो णिद्देशो—ओवेण आदेसेण य । तत्थ ओवेण सव्वाओ द्विदीओ सव्वविहत्ती । तदूण णोसव्वविहत्ती । जयध०

२ उक्कस्स-अणुक्कस्सबंधपरूवणा—यो सो उक्कस्सवधो अणुक्कस्सवधो णाम, तस्स इमो णिद्देशो—ओवेण आदेसेण य । तत्थ ओवेण मोहणीयस्स द्विदिवधो कि उक्कस्सवधो, अणुक्कस्सवधो ? उक्कस्सवधो वा, अणुक्कस्सवधो वा । सव्वुक्कस्सिय ठिदि वधदि त्ति उक्कस्सवधो । तदो ऊणिय वधदि त्ति अणुक्कस्सवधो । (महाव०) । उक्कस्स-अणुक्कस्सविहत्ति-अणुगमेण दुविहो णिद्देशो—ओवेण आदेसेण य । तत्थ ओवेण सव्वुक्कस्सिया ठिदी उक्कस्सविहत्ती । तदूणा अणुक्कस्सविहत्ती । जयध०

३ जहण्ण-अजहण्णबंधपरूवणा—यो सो जहण्णवधो अजहण्णवधो णाम, तस्स इमो णिद्देशो—ओवेण आदेसेण य । तत्थ ओवेण मोहणीयस्स द्विदिवधो जहण्णवधो, अजहण्णवधो ? जहण्णवधो वा, अजहण्णवधो वा । सव्वजहण्णिय ठिदि वधमाणस्स जहण्णवधो । तदो उवरि ववमाणस्स अजहण्णबंधो । (महाव०) । जहण्णाजहण्णाणुगमेण दुविहो णिद्देशो—ओवेण आदेसेण य । तत्थ ओवेण सव्वजहण्णट्ठिदी जहण्णट्ठिदिविहत्ती । तदुवरिमाओ अजहण्णट्ठिदिविहत्ती । जयध०

उनके उत्तर प्रकृतियोंके जघन्यबन्ध और अजघन्यबन्धका विचार जघन्यबिभक्ति और अजघन्य-बिभक्तिनामक अनुयोगद्वारामें किया गया है ।

^१सादि-अनादि तथा ध्रुव-अध्रुव बन्धग्ररूपणा—कर्मका जो बंध एक बार होकर और फिर रुककर पुनः होता है वह सादिवन्ध कहलाता है और बन्ध-व्युच्छित्तिके पूर्वतक अनादि-कालसे जिसका बन्ध होता चला आरहा है वह अनादिवन्ध कहलाता है । अभव्योंके निरन्तर होनेवाले बन्धको ध्रुवबन्ध कहते हैं और कभी कभी होनेवाले भव्योंके बन्धको अध्रुवबन्ध कहते हैं । इन चारों ही प्रकारके बन्धोंका विचार क्रमशः सादिविभक्ति, अनादिविभक्ति, ध्रुव-विभक्ति और अध्रुवविभक्ति नामके अनुयोगद्वारामें किया गया है ।

^२स्वामित्वग्ररूपणा—स्वामित्व-अनुयोगद्वारामें मोहकर्मका उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य बन्ध किस-किस जीवके होता है इस बातका विचार किया गया है । जैसे—मोह-कर्मकी उत्कृष्टस्थितिका बन्ध सर्व पर्याप्तियोंसे पर्याप्त, साकार और जाग्रत उपयोगसे उप-युक्त, उत्कृष्ट संकलेश परिणामोंसे या ईप्सन्मध्यम परिणामोंसे परिणत, किसी भी मंत्री पंचेन्द्रिय मिथ्यादृष्टि जीवके होता है । इस प्रकारसे सर्व कर्मोंके और उनकी एक-एक प्रकृतिके स्थितिवन्धका स्वामी तत्प्रायोग्य संकलेश परिणाम या विशुद्ध परिणामवाला जीव होता है । इस सबका विवेचन स्वामित्व अनुयोगद्वारामें किया गया है ।

^३बन्ध-कालग्ररूपणा—कालानुयोगद्वारामें एक जीव की अपेक्षा प्रत्येक कर्मका उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य, अजघन्यरूप बन्ध लगातार कितनी देर तक होता है इस बातका विचार

१ सादि-अणादि-ध्रुव-अध्रुवबंधग्ररूपणा—यो सो मादियवधो अणादियवधो ध्रुववधो अध्रुव-वधो णाम, तस्स इमो णिहेसो-ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सत्तह कम्माण उक्कस्स० अणुक्कस्स० जहण्णवधो किं सादि० अणादिय० ध्रुव० अध्रुव० ? सादिय अध्रुववधो । अजहण्णवधो । किं सादि० ४ ? सादियवधो वा अणादियवधो वा ध्रुवबंधो वा अध्रुवबंधो वा । (महाव०) । सादि० ४ दुविहो णिहेसो-ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मोह० उक्क० अणुक्क० जह० किं सादि० ४ ? सादि० अध्रुव० । अजह० किं सादि० ४ ? अणादिय० ध्रुवो वा अध्रुवो वा । जयध०

२ स्वामित्वग्ररूपणा—सामित्तं दुविध-जहण्णय उक्कस्सग च । उक्कस्सेण पगद । दुविधो णिहेसो-ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सत्तह कम्माण उक्कस्सट्ठिदिवधो कस्स होदि ? अण्णदरस्स पच्चिदियस्स सण्णस्स मिच्छादिट्ठिस्स सव्वाहि पजत्तीहि पजत्तगस्स सागार-जागारुवजोगजुत्तस्स उक्कस्सियाए ठिदीए उक्कस्सट्ठिदिमक्किलेसेण वट्टमाणयस्स अथवा ईसिमज्जिमपरिणामस्स वा । X X X जहण्णगे पगद । दुविधो णिहेसो-ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मोहस्स जहण्णओ ठिदिवधो कस्स होदि ? अण्णदरस्स खवगअणियट्ठिस्स चरिमे समए वट्टमाणस्स । (महाव०) । सामित्तं दुविध-जहण्ण उक्करसं च । तत्थ उक्कस्से पयद । दुविहो णिहेसो-ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण (मोहणीयस्स) उक्कस्सट्ठिदी कस्स ? अण्णदरस्स, जो चउट्ठाणियजवसज्जस्स उवरि अतोकोडाकोडि वधतो अच्छिदो उक्कस्ससकिलेस गदो । तदो उक्कस्स-ट्ठिदी पवद्दा, तस्स उक्कस्सय होदि । X X X जहण्णए पयद । दुविहो णिहेसो-ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मोहणीयस्स जहण्णट्ठिदी कस्स ? अण्णदरस्स खवगस्स चरिमसमयसकसायस्स जहण्णट्ठिदी । जयध०

३ बंधकालग्ररूपणा—बंधकाल दुविध-जहण्णय उक्कस्सय च । उक्कस्सेए पगद । दुविधो णिहेसो-ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सत्तह कम्माण उक्कस्सओ ठिदिवधो केवचिर कालादो होदि ? जहण्णेण

किया गया है। जैसे मोहनीयकर्मके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्यकाल एक समय है और लगातार बंधनेका उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। अनुत्कृष्ट बन्धका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण अनन्त काल है। जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्यबन्धका अनादि-अनन्त और अनादि-सान्त काल है।

^१अन्तर-प्ररूपणा—अन्तर अनुयोगद्वारमे विवक्षित कर्मबन्ध होनेके अनन्तर पुनः कितने कालके पश्चात् फिर उसी विवक्षित प्रकृतिका बन्ध होता है इस मध्यवर्ती बन्धाभावरूप कालका विचार एक जीवकी अपेक्षा किया गया है। मोहकर्मके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण अनन्त काल है। जघन्य स्थितिवन्धका अन्तर नहीं है, क्योंकि मोहनीयकर्मकी जघन्य स्थिति क्षपक जीवके दशवें गुणस्थानके अन्तिम समयमे होती है। अजघन्यबन्धका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है। यह कथन महाबन्धकी अपेक्षा है। जयधवलाकारने तो मोहकर्मकी जघन्य और अजघन्य स्थितिवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है।

^२नानाजीवोंकी अपेक्षा भंगविचय—इस अनुयोगद्वारमे उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंके उनके बन्ध नहीं करनेवाले जीवोंके साथ कितने भंग होते हैं

एगसमओ, उक्कस्सेण अतोमुहुत्त । अणुक्कस्सओ ठिट्ठिवधो जहण्णेण अतोमुहुत्त । उक्कस्सेण अणतकालमसखेजा पोग्गलपरियट्ठा । × × × जहण्णए पगद । दुविधो णिद्दोसो-ओवेण आदेसेण य । तत्थ ओवेण सत्तण्ह कम्मण जहण्णट्ठिट्ठिवधकालो केवचिर कालादो होदि ? जह० उक्क० अतोमु० । अजहण्ण० केवचिर कालादो० ? अणादियो अपज्जवसिदो त्ति भगो । यो सो सादि० जह० अतो०, उक्क० अद्धपोग्गलपरियट्ठ । (महाव०) । तत्थ उक्कस्सए पयद । दुविधो णिद्दोसो-ओवेण आदेसेण य । तत्थ ओवेण मोहणीयस्स उक्कस्सट्ठिदी केवचिर कालादो होदि ? जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण अतोमुहुत्त । अणुक्क० केवचिर० ? जह० अतोमुहुत्त । उक्क० अणतकालमसखेजा पोग्गलपरियट्ठा । जहण्णए पयद । दुविधो णिद्दोसो-ओवेण आदेसेण य । तत्थ ओवेण मोहणीयस्स जहण्णट्ठिदी केवचिर कालादो होदि ? जहण्णुक्कस्सेण एगसमओ । अजहण्ण० अणादियो अपज्जवसिदो, अणादियो सपज्जवसिदो वा । जयध०

१ अन्तरप्ररूपणा—बधतर दुविध-जहण्णय उक्कस्सय च । उक्कस्सए पगद । दुविधो णिद्दोसो-ओवेण आदेसेण य । तत्थ ओवेण सत्तण्ह कम्मण उक्कस्सट्ठिट्ठिवधतर जहण्णेण अतोमुहुत्त । उक्कस्सेण अणतकालमसखेजा पोग्गलपरियट्ठा । अणुक्कस्सट्ठिट्ठिवधतर जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण अतोमुहुत्त । × × × जहण्णए पगद । दुविधो णिद्दोसो-ओवेण आदेसेण य । तत्थ ओवेण सत्तण्ह कम्मण जह० णत्थि अतर । अज० जह० एगसमओ । उक्कस्सेण अतोमुहुत्त । (महाव०) । अतराणुगमो दुविधो-जहण्णमुक्कस्स चेदि । उक्कस्से पयद । दुविधो णिद्दोसो-ओवेण आदेसेण य । तत्थ ओवेण उक्कस्सट्ठिदि अतर केवचिर कालादो होदि ? जहण्णेण अतोमुहुत्त । उक्कस्सेण अणतकालमसखेजा पोग्गलपरियट्ठा । अणुक्कस्सट्ठिदि-अतर केवचिर कालादो होदि ? जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण अतोमुहुत्त । × × × जहण्णए पयद । दुविधो णिद्दोसो-ओवेण आदेसेण य । तत्थ ओवेण मोहणीयस्स जहण्णाजहण्णट्ठिदीण णत्थि अतर । जयध०

२ णाणाजीवेहि भंगविचयं दुविधं-जहण्णय उक्कस्सय च । उक्कस्सए पगद । तत्थ इम अट्ठपदं-णाणावरणीयस्स उक्कस्सियाए ठिदीए बधगा जीवा ते अणुक्कस्सियाए अबधगा । ये अणुक्कस्सियाए ठिदीए

इस बातका विचार किया गया है। जैसे कदाचित् सर्व जीव मोहकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिमें रहित है। कदाचित् बहुतसे जीव मोहकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिमें रहित हैं और एक जीव मोहकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिवाला है। कदाचित् बहुतसे जीव मोहकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिसे रहित है और बहुतसे जीव मोहकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिवाले हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिकी अपेक्षा तीन भंग होते हैं। अनुत्कृष्ट स्थितिविभक्तिकी अपेक्षा कदाचित् सर्व जीव अनुत्कृष्ट स्थितिविभक्तिवाले हैं। कदाचित् बहुतसे जीव अनुत्कृष्ट स्थितिविभक्तिवाले हैं और एक जीव अनुत्कृष्ट स्थितिविभक्तिसे रहित हैं। कदाचित् बहुतसे जीव अनुत्कृष्ट स्थितिविभक्तिवाले हैं और बहुतसे जीव अनुत्कृष्ट स्थितिविभक्तिसे रहित है, ये तीन भंग होते हैं। इसी प्रकारसे नानाजीवोंकी अपेक्षा जघन्य और अजघन्य स्थितिविभक्तिवाले जीवोंके तीन-तीन भंग होते हैं। इस प्रकारसे प्रत्येक कर्मके बंधके साथ अन्य कर्मोंके भंगोंका विचय इस अनुयोगद्वारमें किया गया है।

^१भागाभागप्ररूपणा—कर्मोंकी उत्कृष्टस्थितिके बन्ध करनेवाले जीव सर्व जीवराशि-के कितने भागप्रमाण है? अनन्तवे भागप्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिवन्ध करनेवाले जीव कितने भागप्रमाण है? सर्व जीवोंके अनन्त बहुभागप्रमाण है। इसी प्रकार जघन्य स्थितिके बन्ध करनेवाले जीव अनन्तवे भाग है और अजघन्य स्थितिके बन्धक जीव अनन्त बहुभाग-प्रमाण है, इस प्रकारसे इस अनुयोगद्वारमें सर्व मूलकर्म और उनकी उत्तरप्रकृतियोंके भागाभाग-का विचार किया गया है। प्रकृतमें मोहकर्मकी उत्कृष्ट और जघन्य स्थितियोंकी विभक्ति करने-

बधगा जीवा, ते उक्कस्सियाए ठिदीए अबधगा । × × × एदेण अट्ठपदेण दुविधो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण अट्ठण्ह कम्माण उक्कस्सियाए ठिदीए सिया सव्वे अबधगा, सिया अबधगा य बधगो य, सिया अबधगा य बधगा य । एव अणुक्कस्से वि, णवरि पडिल्लोम भाणिट्ठव्व । × × × जहण्णगे पगद । त चेव अट्ठपद कादव्व । तस्स दुविधो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सत्तण्ह कम्माण उक्कस्स-भगो । (महाव०) । णाणाजीवेहि भगविचयाणुगमेण भण्णमाणे तत्थ णाणाजीवेहि उक्कस्सभगविचए इदमट्ठपद—जे उक्कस्सस्स-विहत्तिया ते अणुक्कस्सस्स अविहत्तिया, जे अणुक्कस्सस्स विहत्तिया ते उक्कस्सस्स अविहत्तिया । एदेण अट्ठपदेण दुविधो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मोहणीयस्स उक्कस्सट्ठिदीए सिया सव्वे जीवा अविहत्तिया, सिया अविहत्तिया च विहत्तिओ च, सिया अविहत्तिया च विहत्तिया च । एव तिण्णि भगा ३ । अणुक्कस्सट्ठिदीए सिया सव्वे विहत्तिया, सिया विहत्तिया च अविहत्तिओ च, सिया विहत्तिया च अविहत्तिया च । × × × जहण्णयम्मि अट्ठपद । त जहा—जे जहण्णस्स विहत्तिया ते अजहण्णस्स अविहत्तिया, जे अजहण्णस्स विहत्तिया ते जहण्णस्स अविहत्तिया । एदेण अट्ठपदेण दुविधो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मोहणीयस्स जहण्णट्ठिदीए सिया सव्वे जीवा अविहत्तिया, सिया अविहत्तिया च विहत्तिओ च, सिया अविहत्तिया च विहत्तिया च, एव तिण्णि भगा । एवमजह० । णवरि विहत्तिया पुव्व भाणियव्व । जयध०

^२भागाभागप्ररूपणा—भागाभाग दुविध-जहण्णय उक्कस्सस्स च । उक्कस्सए पगद । दुविधो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण अट्ठण्ह पि कम्माण उक्कस्सट्ठिदिवधगा सव्वजीवाण केवडियो भागो ? अणतभागो । अणुक्कस्सट्ठिदिवधगा जोवा सव्वजीवाण केवडियो भागो ? अणता भागा । × × × जहण्णगे पगद । दुविधो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सत्तण्ह कम्माण जह० अजह० उक्कस्स-

वाले जीव सर्व जीवोंके अनन्तवे भाग है और अनुत्कृष्ट तथा अजघन्य स्थितिके बन्धक जीव अनन्तबहुभाग है, ऐसा जानना चाहिए ।

परिमाणप्ररूपणा—इस अनुयोगद्वारमे एक समयके भीतर कर्मोंकी उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्ध करनेवाले जीवोंके परिमाणका विचार किया गया है । जैसे—एक समयमे मोहकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिके विभक्तिवाले जीव असंख्यात है । अनुत्कृष्ट स्थितिके विभक्तिवाले जीव अनन्त है । जघन्य स्थितिकी विभक्तिवाले जीव संख्यात है और अजघन्य स्थितिकी विभक्तिवाले जीव अनन्त है । इस प्रकारसे सर्व मूलकर्म और उनकी उत्तरप्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंके परिमाणका वर्णन इस परिमाणअनुयोगद्वारमे किया गया है ।

क्षेत्रप्ररूपणा—इस अनुयोगद्वारमे उत्कृष्ट स्थितिवन्धके बन्धक जीव कितने क्षेत्रमे रहते हैं, अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने क्षेत्रमे रहते हैं और जघन्य-अजघन्य स्थितिके बन्धक जीव कितने क्षेत्रमे रहते हैं, इस बातका विचार किया गया है । प्रकृतमे मोहनीयकर्म विवक्षित है, अतः उसकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिवाले जीव लोकके असंख्यातवे भागमे रहते हैं और अनुत्कृष्ट स्थितिविभक्तिवाले जीव सर्वलोकमे रहते हैं । इसी प्रकारसे जघन्य और अजघन्य स्थितिविभक्तिवाले जीवोंका क्षेत्र जानना चाहिए । इस प्रकारसे सर्व मूल कर्मों और उनकी उत्तरप्रकृतियोंके वर्तमानकालिक क्षेत्रका वर्णन इस अनुयोगद्वारमे किया गया है ।

भागो । (महाव०) । भागाभागाणुगमो दुविहो-जहणओ उक्कस्सओ चेदि । तत्थ उक्कस्से पयद । दुविहो णिहोसो-ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मोहणीयस्स उक्कस्सट्ठिदिविहत्तिया जीवा सव्वजीवाण केवडिओ भागो ? अणतिमभागो । अणुक्कस्सट्ठिदिविहत्तिया जीवा सव्वजीवाण केवडिओ भागो ? अणता भागा । ××× जहणए पयद । दुविहो णिहोसो-ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मोहणीयस्स जहणट्ठिदिविहत्तिया जीवा सव्वजीवाण केवडिओ भागो ? अणतिमभागो । अजहणट्ठिदिविहत्तिया जीवा सव्वजीवाण केवडिओ भागो ? अणता भागा । जयव०

१ परिमाणपरूवणा—परिमाण दुविध-जहणय उक्कस्सय च । उक्कस्सगे पगद । दुविधो णिहोसो-ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण अट्ठण्ह कम्माण उक्कस्सट्ठिदिवधगा केवडिया ? असखेजा । अणुक्कस्सट्ठिदिवधगा केवडिया ? अणता । ××× जहणए पगद । दुविधो णिहोसो-ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सत्तण्ह कम्माण जहणट्ठिदिवधगा केत्तिया ? संखेजा । अजहणट्ठिदिवधगा केत्तिया ? अणता । (महाव०) परिमाणाणुगमो दुविहो जहणओ उक्कस्सओ चेदि । उक्कस्से पयद । दुविहो णिहोसो-ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मोहणीयस्स उक्कस्सट्ठिदिविहत्तिया जीवा केत्तिया ? असखेजा । अणुक्कस्सट्ठिदिविहत्तिया जीवा केत्तिया ? अणता ××× । जहणए पयद । दुविहो णिहोसो-ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मोहणीयस्स जहणट्ठिदिविहत्तिया जीवा केत्तिया ? सखेजा । अजहणट्ठिदिविहत्तिया जीवा केत्तिया ? अणता । जयध०

२ खेत्तपरूवणा—खेत्त दुविध-जहणय उक्कस्सय च । उक्कस्सए पगद । दुविधो णिहोसो-ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण अट्ठण्ह कम्माण उक्कस्सट्ठिदिवधगा जीवा केवडि खेत्ते ? लोगस्स असखेजदिभागे । अणुक्कस्सट्ठिदिवधगा जीवा केवडि खेत्ते ? सव्वलोगे । ××× जहणणे पगद । दुविधो णिहोसो-ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सत्तण्ह कम्माण जहणट्ठिदिवधगा जीवा केवडि खेत्ते ? लोगस्स असखेजदिभागे । अजहणट्ठिदिवधगा जीवा केवडि खेत्ते ? सव्वलोगे । (महाव०) खेत्ताणुगमो दुविहो-जहणओ उक्कस्सओ चेदि । उक्कस्से पगद । दुविहो णिहोसो-ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मोहणीयस्स

^१स्पर्शनप्ररूपणा—इस अनुयोगद्वारमें कर्मोंकी उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य स्थितिवन्ध करनेवाले जीवोंके त्रिकाल-गोचर स्पृष्ट क्षेत्रका प्ररूपण किया गया है। जैसे—मोहकर्मकी उत्कृष्टस्थितिकी बिभक्तिवाले जीवोंने कितना क्षेत्र स्पृष्ट किया है ? वर्तमानकालकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवाँ भाग और अतीत-अनागत कालकी अपेक्षा देशोंन आठ घट चौदह, अथवा तेरह घटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्र स्पृष्ट किया है। अनुत्कृष्टस्थिति-बिभक्तिवाले जीवोंने सर्वलोक स्पृष्ट किया है। जघन्यस्थिति-बिभक्तिवाले जीवोंने लोकका असंख्यातवाँ भाग और अजघन्यस्थिति-बिभक्तिवाले जीवोंने सर्वलोक स्पृष्ट किया है। इस प्रकारसे शेष सात मूल कर्मों और उनकी उत्तरप्रकृतियोंकी उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट, तथा जघन्य-अजघन्य स्थितिकी बिभक्ति-वाले जीवोंके त्रिकाल-विषयक स्पृष्ट क्षेत्रका वर्णन किया गया है।

^२कालप्ररूपणा—इस अनुयोगद्वारमें नाना जीवों की अपेक्षा कर्मोंकी उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट और जघन्य-अजघन्य स्थितिका बन्ध कितने काल तक होता है, इस बातका विचार किया गया है। जैसे—मोहनीयकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्यकाल एक समय है। और उत्कृष्ट-काल पर्योपमका असंख्यातवाँ भाग है। अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका सर्वकाल है। मोहकर्मके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल संख्यात समय है। अजघन्यस्थितिके बंधनेका सर्वकाल है। इस प्रकारसे सर्व मूलकर्मों और उत्तरप्रकृतियोंके उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट तथा जघन्य-अजघन्य स्थितिके जघन्य-उत्कृष्ट बन्धकालका निरूपण किया गया है।

उक्कस्सट्ठिद्विहत्तिया केवडि खेत्ते ? लोगस्स असखेज्जदिभागो । अणुक्कस्सट्ठिद्विहत्तिया केवडि खेत्ते ? सव्वलोए । × × × जहण्णए पयद । दुविहो णिहोसो-ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण जहण्ण० अजहण्ण० उक्कस्समगो । जयव०

१ फोसणपरूवणा—फोसण दुविध-जहण्णय उक्कस्सय च । उक्कस्सए पगद । दुविधो णिहोसो-ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सत्तण्ह कम्माण उक्कस्सट्ठिद्विधगेहि केवडिय खेत्त फोसिद ? लोगस्स असखेज्जदिभागो, अट्ठ-तेरह-चोदसभागा वा देसुणा । अणुक्कस्सट्ठिद्विधगेहि केवडियं खेत्त फोसिद ? सव्वलोगो । × × × जहण्णगे पगद । दुविधो णिहोसो-ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण अट्ठण्ह कम्माण जहण्ण-अजहण्णट्ठिद्विधगण खेत्तमगो । (महाव०) । पोसणाणुगमो दुविहो—जहण्णओ उक्कस्सओ च । उक्कस्से पयद । दुविहो णिहोसो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मोहणीयस्स उक्कस्सट्ठिद्विहत्तिएहि केवडिय खेत्त पोसिद ? लोगस्स असखेज्जदिभागो, अट्ठ तेरह चोदसभागा वा देसुणा । अणुक्कस्सट्ठिद्विहत्तियाण खेत्तमगो । × × × जहण्णए पयद । दुविहो णिहोसो-ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मोहणीयस्स जहण्णट्ठिद्विहत्तिएहि केवडिय खेत्त पोसिद ? लोगस्स असखेज्जदिभागो । अजहण्णट्ठिद्विहत्तियाण सव्वलोगो । जयध०

२ कालपरूवणा—काल दुविध-जहण्णय उक्कस्सय च । उक्कस्सए पगद । दुविधो णिहोसो-ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सत्तण्ह कम्माण उक्कस्सट्ठिद्विधगा केवचिर कालादो होति ? जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण पल्लिदोवमस्स असखेज्जदिभागो । अणुक्कस्सट्ठिद्विधगा केवचिर कालादो होति ? सव्वद्धा × × × जहण्णगे पगद । दुविधो णिहोसो-ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सत्तण्ह कम्माण जहण्ण ट्ठिद्विधगा केवचिर कालादो होति ? जहण्णुक्कस्सेण अंतोमुहुत्त । अज० सव्वद्धा । (महाव०) । काला-णुगमो दुविहो जहण्णओ उक्कस्सओ चेदि । तत्थ उक्कस्सए पयद । दुविहो णिहोसो-ओघेण आदेसेण य ।

^१अन्तरप्ररूपणा—इस अनुयोगद्वारमे नाना जीवों की अपेक्षा कर्मबन्धके अन्तर-कालका निरूपण किया गया है। जैसे—मोहकर्मकी उत्कृष्टस्थिति-विभक्तिवाले जीवोंके अन्तरका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अंगुलके असंख्यातवे भागमात्र असंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालके समय-प्रमाण है। मोहनीयकी जघन्यस्थिति-विभक्तिके अन्तरका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल छह मास है। मोहकर्मकी अजघन्यस्थितिविभक्तिका अन्तर नहीं होता है।

^२सन्निकर्षप्ररूपणा—मोहकर्मकी विवक्षित प्रकृतिके उत्कृष्टबन्धका करनेवाला जीव अन्यप्रकृतियोंका क्या उत्कृष्टबन्ध करता है, अथवा क्या अनुत्कृष्टबन्ध करता है, इस प्रकारसे एक प्रकृतिकी उत्कृष्टस्थितिके बन्धकके साथ दूसरी प्रकृतिकी उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट आदि स्थितिके बन्धकका विचार किया गया है। जैसे—मिथ्यात्वकी उत्कृष्टस्थितिका बन्ध करनेवाला जीव सोलह कपाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करनेवाला होता है। किन्तु वह उनका उत्कृष्टबन्ध भी करता है, और अनुत्कृष्टबन्ध भी करता है। यदि उत्कृष्ट-बन्ध करता है, तो उसे उत्कृष्टस्थितिवन्धमेसे एक समय कमसे लेकर पत्यके असंख्यातवे भाग कम तक बाँधता है। इस प्रकारसे मोहकर्मकी शेष प्रकृतियोंके साथ भी मिथ्यात्वके उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका विचार किया गया है। मोहकर्मकी प्रकृतियोंके समान ही शेष कर्मोंकी

तत्थ ओघेण मोहणीयस्स उक्कस्सट्ठिविहत्तिया केवचिर कालादो ? जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण पल्लिदोवमस्स असखेज्जदिभागो । अणुक्क० के० ? सव्वद्धा । × × × जहण्णए पयद । दुविहो णिद्देसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोहणीयस्स जहण्णट्ठिविहत्तिया केवचिर कालादो ? जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण सखेजा समया । अज० सव्वद्धा । जयध०

१ अंतरपरूवणा—अतर दुविध-जहण्णय उक्कस्सय च । उक्कस्सए पयद । दुविधो णिद्देसो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण अट्ठण्ह कम्माण उक्कस्सट्ठिविधतर जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण अगुलस्स असखे० असखेज्जाओ ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीओ । अणुक्कस्सट्ठिविधतर णत्थि । × × × जहण्णए पयद । दुविधो णिद्देसो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सत्तण्ह कम्माण जहण्णट्ठिविधतरं जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण छम्मास । अज० णत्थि अतर (महाव०) अतराणुगमो दुविहो-जहण्णओ उक्कस्सओ चेदि । उक्कस्सए पयद । दुविहो णिद्देसो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मोहणीयस्स उक्कस्सट्ठिविहत्तियाणमतर केवचिर कालादो होदि ? जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण अगुलस्स असखेज्जदिभागो । अणुक्क० णत्थि अतर । × × × जहण्णए पयद । दुविहो णिद्देसो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मोहणीयस्स जहण्णट्ठिविहत्तियाणमतर जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण छम्मासा । अज० णत्थि अतर । जयध०

२ बंधसण्णियासपरूवणा—बंधसण्णियास दुविध-जहण्णय उक्कस्सय च । उक्कस्सए पयद । दुविधो णिद्देसो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण णाणावरणीयस्स उक्कस्सट्ठिविधतो छण्ह कम्माण णियमा बधगो । त तु उक्कस्सा वा, अणुक्कस्सा वा । उक्कस्सादो अणुक्कस्सा समयूणमादिं कादूण पल्लिदोवमस्स असखेज्जदिभागूण बधदि । आयुगस्स सिया बधगो, सिया अबधगो । जइ बधगो, णियमा उक्कस्सा । आवाधा पुण भयणिन्ना । एव छण्ह कम्माण । आयुगस्स उक्कस्सट्ठिविधतो सत्तण्ह कम्माण णियमा बधगा । त तु उक्कस्सा वा अणुक्कस्सा वा । उक्कस्सादो अणुक्कस्सा तिट्ठाणपदिद बधदि—असखेज्जदिभागहीण वा,

उत्तरप्रकृतियोंमें भी इसी प्रकारसे सन्निकर्षका विचार इस अनुयोगद्वारसे किया गया है। यहाँ इतनी बात ध्यान रखनेके योग्य है कि मूल मोहनीयकर्मसे सन्निकर्ष संभव नहीं है।

^१भावप्ररूपणा—भावानुगमकी अपेक्षा किसी भी मूलकर्म या उनकी उत्तरप्रकृतियोंकी उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट और जवन्य-अजवन्य स्थितिविभक्तिवाले सर्वजीवोंके एकमात्र औद्यिकभाव पाया जाता है।

^२अल्पवहुत्वप्ररूपणा—इस अनुयोगद्वारसे सर्व कर्मोंकी उत्कृष्ट-अनुत्कृष्टादि स्थितिवन्ध करनेवाले जीवोंके अल्पवहुत्वका विचार किया गया है। जैसे—मोहनीयकर्मकी उत्कृष्टस्थितिके विभक्तिवाले जीव सबसे कम है। इनसे अनुत्कृष्टस्थितिके विभक्तिवाले जीव अनन्तगुणित है। जवन्यस्थिति-वन्धक जीव सबसे कम है। उनसे अजवन्यस्थिति-वन्धक जीव अनन्तगुणित हैं। इस प्रकारसे सर्व मूलकर्मोंकी और उनकी उत्तरप्रकृतियोंकी उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट और जवन्य-अजवन्य स्थितिवन्धकी विभक्तिवालोंका अल्पवहुत्व जानना चाहिए।

^३भुजाकार—अनुयोगद्वारसे भुजाकार, अल्पतर और अवस्थित इन तीनोंका विचार किया जाता है। जो जीव कम स्थितिसे अधिक स्थितिको प्राप्त हो, उसे भुजाकार स्थिति-विभक्तिवाला कहते हैं। जो अधिक स्थितिसे कम स्थितिको प्राप्त हो, उसे अल्पतर स्थिति-विभक्तिवाला कहते हैं और जिसकी पहले समयके समान दूसरे समयमें स्थिति रहे, उसे अवस्थित-स्थितिविभक्तिवाला कहते हैं। इस प्रकार मोहनीयकर्मकी तीनों प्रकारकी स्थितिवाले

सखेजदिभागहीण वा, सखेजगुणहीण वा। (महाव०)। एत्थ मूलपयडिट्ठदिविहत्तीए जदिवि सण्णियासो ण सभवद्, तो वि उत्तो, उत्तरपयडीसु तस्स सभवट्ठसणादो। जयध०

१ भावप्ररूपणा—भावाणुगमेण दुविध—जहण्ण उक्कस्स च। उक्कस्सए पगद। दुविधो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण अट्ठण्ह कम्माण उक्कस्साणुक्कस्सट्ठदिवधगा त्ति को भावो ? ओदइओ भावो। X X X जहण्णए पगद। दुविधो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण अट्ठण्ह कम्माण जहण्ण-अजहण्णट्ठदिवधगा त्ति को भावो ? ओदइओ भावो। (महाव०) भावाणुगमेण सव्वत्थ ओदइओ भावो। जयध०

२ अप्पावहुगप्ररूपणा—अप्पावहुग दुविध—जीव-अप्पावहुग च एव ट्ठिदि-अप्पावहुग च एव। जीव-अप्पावहुग तिविध-जहण्ण उक्कस्स जहण्णुक्कस्सय च। उक्कस्सए पगद। दुविधो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण सव्वत्थोवा अट्ठण्ह कम्माण उक्कस्सगट्ठदिवधगा जीवा। अणुक्कस्सगट्ठदिवधगा जीवा अणतरुणा। X X X जहण्णए पगद। दुविधो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य। ओघेण सत्तण्ह कम्माण सव्वत्थोवा जहण्णट्ठदिवधगा जीवा। अजहण्णट्ठदिवधगा जीवा अणतरुणा। (महाव०)। अप्पावहुगाणुगमो दुविधो—जहण्णओ उक्कस्सओ चेदि। उक्कस्से पयद। दुविधो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण सव्वत्थोवा मोहणीयस्स उक्कस्सट्ठदिविहत्तिया जीवा। अणुक्कस्सट्ठदिविहत्तिया जीवा अणतरुणा। X X X जहण्णए पयद। दुविधो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण जह० अजह० उक्कस्समगो। जयध०

३ भुजगारवंधो—भुजगारवधेत्ति तत्थ इम अट्ठपद—जाओ एण्हि ट्ठिदीओ वधदि अणतरादि-सक्काविदविदिककते समए अप्पदरादो बहुदर वधदि त्ति एसो भुजगारवधो णाम। अप्पदरवधे त्ति तत्थ इम अट्ठपद—जाओ एण्हि ट्ठिदीओ वधदि अणतर ओस्सक्काविदविदिककते समए बहुदरादो अप्पदर वधदि

५. एदाणि चैव उत्तरपयडिडिदिविहत्तीए कादव्वाणि । ६. उत्तरपयडिडिदि-
विहत्तिमणुमग्गइस्सामो । ७. तं जहा । तत्थ अट्ठपदं-एया द्विदी द्विदिविहत्ती,
अणेयाओ द्विदीओ द्विदिविहत्ती ।

जीवोंका पाया जाना संभव है । विवक्षितकर्मके बन्धका अभाव होकर पुनः उस कर्मका बन्ध करनेवालेको अवक्तव्यस्थिति-विभक्तिवाला कहते हैं । भुजाकारविभक्तिमें इनका विचार तेरह अनुयोगद्वारोंसे किया गया है । उनके नाम इस प्रकार हैं—समुत्कीर्तना, स्वामित्व, काल, अन्तर, नानाजीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व ।

पदनिक्षेप—भुजाकारबन्धका जघन्य और उत्कृष्टपदोंके द्वारा विशेष वर्णन करनेको पदनिक्षेप कहते हैं । इस अधिकारमें 'पद' शब्दसे वृद्धि, हानि और अवस्थान इन तीन पदोंका ग्रहण किया गया है । ये तीनों पद उत्कृष्ट भी होते हैं और जघन्य भी । इसे अनुयोगद्वारमें यह बतलाया गया है कि कोई एक जीव यदि प्रथम समयमें अपने योग्य जघन्य स्थितिवन्ध करता है और दूसरे समयमें वह स्थितिको बढ़ाकर बन्ध करता है, तो उसके बन्धमें अधिकसे अधिक कितनी वृद्धि हो सकती है और कमसे कम कितनी वृद्धि हो सकती है । इसी प्रकार यदि कोई जीव उत्कृष्ट स्थितिवन्ध कर रहा है और अनन्तर समयमें वह स्थितिको घटाकर बन्ध करता है, तो उस जीवके बन्धमें अधिकसे अधिक कितनी हानि हो सकती है और कमसे कम कितनी हानि हो सकती है । वृद्धि या हानिके न होनेपर जो ज्योका लो पूर्व प्रमाण-वाला ही बन्ध होता है, वह अवस्थितबन्ध कहलाता है । इस प्रकार पदनिक्षेप अधिकारमें वृद्धि, हानि और अवस्थान, इन तीनोंका विचार किया जाता है ।

वृद्धि—इस अनुयोगद्वारमें पङ्गुणी हानि और वृद्धिके द्वारा स्थितिवन्धका विचार किया गया है ।

चूर्णिसू०—मूलप्रकृतिस्थितिविभक्तिमें बतलाये गये इन ही अनुयोगद्वारोंको उत्तर-प्रकृतिस्थितिविभक्तिमें भी प्ररूपण करना चाहिए ॥ ५ ॥

चूर्णिसू०—अब उत्तरप्रकृतिस्थितिविभक्तिका अनुसर्गण करते हैं । वह इस प्रकार है । उसमें यह अर्थपद है—एक स्थिति भी स्थितिविभक्ति है, और अनेक स्थितियाँ भी स्थिति-विभक्ति है ॥ ६-७ ॥

विशेषार्थ—कर्मस्वरूपसे परिणत हुए कर्मण पुद्गलस्कन्धोंके कर्मपना न छोड़कर रहनेके कालको स्थिति कहते हैं । कर्मकी ऐसी एक स्थितिको एकस्थिति कहते हैं । इस एक स्थितिकी विभक्ति होती है, क्योंकि, एक समय कम, दो समय कम आदि स्थितियोंसे उसमें भेद पाया जाता है । अथवा, सूक्ष्मसाम्परायिक संयतके मोहकर्मके अन्तिम समयसम्बन्धी कर्मस्कन्धके

त्ति एसो अप्पद्वधो णाम । अवट्ठद्वधे त्ति तत्थ इम अट्ठपदं-जाओ एण्हि ट्ठिदीओ वधदि अणतर-ओसव्वाविद-उस्सक्काविदविदिकक्ते समए तत्तियाओ चैव वधादि त्ति एसो अवट्ठद्वधो णाम । एदेण अट्ठपदेण तत्थ इमाणि तेस अणियोगद्वाराणि-समुक्कित्तणा सामित्त जाव अप्पावहुगे त्ति । महाव०

८. एदेण अट्टपदेण । ९. पमाणाणुगमो । १०. मिच्छत्तस्स उक्कस्सट्ठिदि-
विहत्ती सत्तरि-सागरोवम-कोडाकोडीओ पडिबुण्णाओ । ११. एवं सम्मत्त-सम्माभि-
च्छत्ताणं । णवरि अंतोमुहुत्तूणाओ ।

कालको एकस्थिति कहते हैं, क्योंकि, वह स्थिति एकसमय-मात्रनिष्पन्न है । यह स्थिति भी स्थितिबिभक्ति है, क्योंकि वह द्विसमयादि स्थितियोंसे भिन्न है । उत्कृष्ट, दो समय कम उत्कृष्ट आदि क्रमसे अनेक प्रकारकी स्थितियाँ होती हैं, उन्हें अनेकस्थिति कहते हैं । अथवा, मोह-कर्मकी उत्तरप्रकृतियोंकी स्थितिको अनेक स्थिति कहते हैं, और उन स्थितियोंकी विभक्तिको उत्तरप्रकृतिस्थितिबिभक्ति कहते हैं ।

चूर्णिसू०—इस अर्थपदके द्वारा उत्तरप्रकृतिस्थितिबिभक्तिका प्रमाणानुगम करते हैं । अर्थात् उन चौबीस अनुयोगद्वारोंसे पहले उत्तरप्रकृतियोंके अट्टाछेदको कहते हैं । मिथ्यात्व-प्रकृतिकी उत्कृष्टस्थितिबिभक्ति पूरे सत्तर कोडाकोडी सागरोपम कालप्रमाण है ॥ ८-१० ॥

विशेषार्थ—मिथ्यात्वकर्मकी यह उत्कृष्टस्थिति एक समयसे बंधनेवाले समयप्रवृत्तकी अपेक्षा कही है, क्योंकि, जो कर्मण-वर्गणाओका स्कन्ध जीवके मिथ्यादर्शन आदि बन्ध-कारणोंसे मिथ्यात्वकर्मरूप परिणत होकर बन्धको प्राप्त होता है, उसकी उत्कृष्टस्थिति समयाधिक सात हजार वर्षप्रमाण अवाधाकालको आदि लेकर निरन्तर एक-एक समयकी अधिकताके क्रमसे पूरे सत्तर कोडाकोडी सागरोपमकाल तक देखी जाती है ।

अब सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिकी उत्कृष्टस्थितिबिभक्ति कहते हैं—

चूर्णिसू०—इसी प्रकार सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्टस्थितिबिभक्ति जानना चाहिए । विशेष बात यह है कि ये दोनों अन्तर्मुहूर्त कम होती हैं ॥ ११ ॥

विशेषार्थ—ऊपर मोहकर्मके मिथ्यात्वप्रकृतिकी उत्कृष्टस्थितिबिभक्तिका प्रमाण पूरे सत्तर कोडाकोडी सागरोपम बताया गया है, उसमें एक अन्तर्मुहूर्त कम करनेपर सम्यक्त्व-प्रकृतिकी उत्कृष्टस्थिति हो जाती है । तथा यही प्रमाण सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिकी उत्कृष्टस्थिति-बिभक्तिका है । इसका कारण यह है कि सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनोंको बन्धप्रकृतियोंमें नहीं गिनाया गया है, क्योंकि, अनादिमिथ्यादृष्टि जीवके प्रथमोपशमसम्यक्त्वकी उत्पत्तिके पूर्व इनका अस्तित्व नहीं पाया जाता है । यहाँ यह शंका की जासकती है, कि जब ये दोनों बन्ध-प्रकृतियाँ नहीं हैं, तब इनका यह उपर्युक्त स्थितिकाल कैसे संभव हो सकता है ? इसका उत्तर यह है कि जब अनादि मिथ्यादृष्टि जीव प्रथम वार सम्यक्त्वको उत्पन्न करता है, तब वह सम्यक्त्वप्राप्तिके प्रथम समयमें मिथ्यात्वद्रव्यके तीन विभाग कर देता है । जैसे कोदोको जॉतेसे दलनेपर तीन विभाग हो जाते हैं कुछ तो तुप-रहित शुद्ध चावल बन जाते हैं, कुछ आवे तुप-रहित हो जानेपर भी अर्ध-तुप-संयुक्त बने रहते हैं, और कुछ ज्योंके त्यों अपने पूर्णरूपमें ही निकलते हैं । इसी प्रकार प्रथमोपशमसम्यक्त्वके उत्पन्न करनेवाले भावरूप यंत्रके द्वारा मिथ्यात्वरूप कोदोके दले जानेपर मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृति, ये

१२. सोलसण्हं कसायाणमुकस्सट्टिदिविहत्ती चत्तालीससागरोपमकोडाकोडीओ पडिवुण्णाओ । १३. एवं णवणोकसायाणं, णवरि आवलिउणाओ । १४. एवं सव्वासु गदीसु णेयव्वो ।

तीन भाग हो जाते हैं । इस प्रकार मिथ्यात्वप्रकृतिके तीन भाग हो जानेपर अट्ठाईस मोहप्रकृतियोंकी सत्तावाला मिथ्यात्वको प्राप्त हो मिथ्यात्वकर्मकी उत्कृष्टस्थितिका बन्ध कर अन्तर्मुहूर्त पञ्चात् वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हो और अवशिष्ट अर्थात् अन्तर्मुहूर्त कम सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपम स्थितिको सम्यक्त्व ग्रहण करनेके प्रथम समयमें ही सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिमें संक्रमाता है । इस प्रकार इन दोनों प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिका प्रमाण अन्तर्मुहूर्त कम सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपम बन जाता है ।

इस प्रकार दर्शनमोहकी तीनों प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिका प्रमाण बताकर अब चारित्रमोह-सम्बन्धी सोलह कपायोंकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिका काल बतलानेके लिए उत्तरसूत्र कहते हैं—

चूर्णिसू०—अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, इन चारोंके क्रोध, मान, माया और लोभरूप सोलह कपायोंका उत्कृष्ट स्थिति-विभक्तिकाल पूरा चालीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम है ॥१२॥

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि उत्कृष्ट संकलेशवालं मिथ्यादृष्टि जीवके द्वारा बाँधे हुये कर्मणवर्गणास्कन्धोका सोलह कपायरूपसे परिणमन होकर सकल जीवप्रदेशोपर समयाधिक चार हजार वर्ष-प्रमित आवाधाकालको आदि लेकर चालीस कोडाकोड़ीसागरोपम-काल तक निरन्तर कर्मस्वरूपसे अवस्थान पाया जाता है ।

अब नव नोकपायोंका उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिकाल कहनेके लिए उत्तरसूत्र कहते हैं—

चूर्णिसू०—इसी प्रकार नव नोकपायोंकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिका काल जानना चाहिए । विशेषता केवल इतनी है कि यह आवलिप्रमाण कम है ॥१३॥

विशेषार्थ—नव नोकपायोंकी स्थितिविभक्तिका उत्कृष्टकाल एक आवली कम चालीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम होता है । इसका कारण यह है कि सोलह कपायोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेके अनन्तर और बंधावलीकालको बताकर एक आवली कम चालीस कोड़ाकोड़ी सागर-प्रमाण उक्त कपायकी स्थितिको नव नोकपायोंमें संक्रमणकर देनेपर नव नोकपायोंकी स्थिति-विभक्तिका सूत्रोक्त उत्कृष्टकाल सिद्ध हो जाता है ।

चूर्णिसू०—जिस प्रकार ऊपर ओषकी अपेक्षा स्थितिविभक्तिका उत्कृष्टकाल बतलाया गया है, उसी प्रकार सभी गतियोंमें जानना चाहिए ॥१४॥

विशेषार्थ—चूर्णिकारने इस सूत्रके द्वारा सर्वगतियोंसे और शेष सर्वमार्गणाओंमें अट्ठाच्छेदके जाननेकी सूचना की है, सो विशेष जिज्ञासु जन इसके लिए जयधवला टीका को देखे ।

१५. एत्तो जहणयं । १६. मिच्छत्त-सग्गामिच्छत्त-शरममयायाणं जहण-
द्विदिविहत्ती एगा द्विदी दुसमयकालद्विदिया ।

चूर्णिसू०—अब इससे आगे स्थितिविभक्तिके जघन्य अट्टान्छेद का काल है । मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी आदि वारह कपायोंकी स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल दो समयप्रमाण कालस्थितिवाली एक स्थिति है ॥ १५-१६ ॥

विशेषार्थ—मिथ्यात्व आदि सूत्रोक्त चौदह मोहप्रकृतियोंकी स्थितिविभक्तिके उपर्युक्त जघन्यकाल बतलानेका कारण यह है कि अनन्यतमस्यरदृष्टि गुणस्थानमें लेकर अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तकके जीव दर्शनमोहनीयकर्मकी क्षपणाके योग्य होते हैं, अतएव उन चारों गुणस्थानों-मेंसे कोई एक गुणस्थानवर्ती जीव—जिसने कि पहले ही अनन्तानुबन्धीचतुष्टयका अभाव कर दिया है—दर्शनमोहनीयकर्मकी क्षपणाके लिए उद्यत हुआ । तब अधःप्रवृत्तिकरणके कालमें अनन्तगुणी विद्युद्विसे वृद्धिको प्राप्त हो, अप्रमत्तकर्मोंके अपने पूर्ववर्ती अनुभागबंधकी अपेक्षा अनन्तगुणित-हीन अनुभागबंधको बाँधकर, तथा प्रमत्तकर्मोंके अपने पूर्ववर्ती अनुभागबन्धमें अनन्तगुणित अधिक अनुभागबन्धको बाँधकर भी वह स्थितिकांडकघात, अनुभागकांडकघात और गुणश्रेणी-रूप कर्म-प्रवेश-निर्जरासे उन्मुक्त ही रहता है । पुनः अपूर्वकरणके कालमें प्रवेशकर प्रथम समयमें ही स्थितिकांडकघात, अनुभागकांडकघात, गुणश्रेणीनिर्जरा और नहीं बाँधनेवाली मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व इन दोनों अप्रमत्त कर्मप्रकृतियोंके गुणसंक्रमणको प्रारम्भ करता है । इन क्रियाविशेषोंके द्वारा वह अपूर्वकरणके कालमें संख्यात हजार स्थितिकांडकोंको, और स्थितिकांड-कोंसे संख्यातगुणित अनुभागकांडकोंके अपसरणोंको करके तथा संख्यात हजार स्थितिवंधापसर-णोंके द्वारा उत्पन्न हुई गुणश्रेणीनिर्जरासे कर्मस्कन्धोंको गलाता हुआ वह अनिवृत्तिकरणमें प्रवेश करता है । अनिवृत्तिकरणके कालमें भी हजारों स्थितिकांडकघातों और अनुभागकांडकघातोंको करके और प्रतिसमय असंख्यातगुणी गुणश्रेणीके द्वारा कर्मस्कन्धोंको गलाकर अनिवृत्तिकरण-कालके संख्यात भाग व्यतीत होनेपर उद्यावलीसे बाहर स्थित पल्योपमके असंख्यातवें भाग-प्रमाण स्थितिवाली मिथ्यात्वकी चरमफालीको लेकर सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनोंमें संक्रमाता हुआ, तथा उपरि—स्थित एक समय कम उद्यावलीप्रमाण स्थितियोंको स्तिवुक-संक्रमणके द्वारा संक्रमण करता है, उसके अन्तिम समयमें मिथ्यात्वके एक निपेककी निपेक-स्थिति दो समय-कालप्रमाण पाई जाती है । इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी आदि वारह कपायोंके जघन्य स्थितिविभक्तिकालको जानना चाहिए । विशेष बात यह है कि उनकी अपनी अपनी चरमफालियोंको परस्वरूपसे संक्रमणकर और उद्यावली-प्रविष्ट निपेक-स्थितियोंको स्तिवुकसंक्रमणके द्वारा संक्रामित करनेपर जब एक निपेक-स्थितिके कालमें दो समय अवशिष्ट रह जाते हैं, तब उन-उन प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिविभक्ति होती है । इन सब कर्मोंकी चरमफालियाँ अपने-अपने अनिवृत्तिकरणकालोंके संख्यात भाग व्यतीत होनेपर पतित होती हैं । किन्तु, अनन्तानुबन्धी-कपायचतुष्टयकी चरमफाली अनिवृत्तिकरणकालके

१७ सम्पत्त-लोहसंजलण-इत्थि-गजुंसयवेदाणं जहण्णट्टिदिविहत्ती एगा ट्टिदी
एगसमयकालट्टिदिया । १८. कोहसंजलणस्स जहण्णट्टिदिविहत्ती वे मासा अंतोमुहुत्तूणा ।

अन्तिम समयमें पतित होती है, ऐसा विशेष जानना चाहिए । सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेगना होनेपर भी जघन्य स्थितिविभक्ति होती है, क्योंकि, वहाँपर भी दो समयकालवाली एक निपेक-स्थिति पाई जाती है ।

चूर्णिसू०—सम्यक्त्वप्रकृति, लोभसंज्वलन, स्त्रीवेद और नपुंसकवेद, इन कर्मप्रकृतियोंकी स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय-प्रमाण कालस्थितिवाली एक स्थिति है ॥१७॥

विशेषार्थ—सूत्रोक्त अर्थके स्पष्टीकरणके लिए यहाँपर सम्यक्त्वप्रकृतिकी जघन्य स्थितिविभक्तिके कालको कहते हैं—सम्यग्मिध्यात्वकी चरमफालीको सम्यक्त्वप्रकृतिमें संक्रमण-कर देनेपर उस समय उसका स्थिति-सत्त्व आठ वर्षप्रमाण होता है । पुनः इस आठ वर्ष-प्रमाण स्थिति-सत्त्वका अन्तमुर्हूर्तमात्र स्थितिकांडकोके प्रमाणसे घात करता हुआ और सम्यक्त्वप्रकृतिका प्रतिसमय अपवर्तन करना हुआ वह संख्यात हजार स्थितिकांडकोके होने तक चला जाता है । तत्पश्चात् उनके व्यतीत होनेपर सम्यक्त्वप्रकृतिकी चरम-फालीको नष्ट करनेके लिए ग्रहण करता हुआ कृतकृत्यवेदककालप्रमाण स्थितियोंको छोड़-कर शेषका ग्रहण करता है । पुनः उसे ग्रहणकर और गुणश्रेणीनिक्षेपके द्वारा निक्षिप्त कर अन्ति-वृत्तिकरणके कालको समाप्त करता है । इस प्रकार प्रतिसमय अपवर्तन करता हुआ एकसमय-कालप्रमाण एक स्थितिके उदयमें स्थित रहने तक उदयावली-प्रविष्ट स्थितियोंको गलाता जाता है । उस समय सम्यक्त्वप्रकृतिकी जघन्य स्थितिविभक्ति होती है । इसी प्रकार लोभसंज्वलन आदि शेष प्रकृतियोंकी स्थितिविभक्तिका जघन्य काल जयधवला टीकासे जान लेना चाहिए । पूर्वसूत्रमें कहीं गई मिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व आदि प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिविभक्ति एक समय कालप्रमाण नहीं कहनेका कारण यह है कि उनका सम्यक्त्वप्रकृतिके समान स्वोदयसे क्षयण नहीं होता है ।

चूर्णिसू०—क्रोधसंज्वलनकपायकी जघन्य स्थितिविभक्तिका काल अन्तमुर्हूर्त कम दो मासप्रमाण है ॥१८॥

विशेषार्थ—चरित्रमाहका क्षयण करनेवाला जीव जब क्रोधसंज्वलनकी दो कृष्टियोंका क्षय करके तीसरी कृष्टिका क्षय करता हुआ उसकी प्रथम स्थितिमें एक समय अधिक एक आवली-प्रमाण कालके शेष रहने पर क्रोधसंज्वलनके पूरे दो मासप्रमाण जघन्यबन्धको बाँधता है, तब एक समय कम दो आवलीप्रमाण क्रोधसंज्वलनके शुद्ध समयप्रवद्ध रहते हैं । क्योंकि, उस समय उत्पादानुच्छेदके द्वारा क्रोधके पुरातन सत्त्वकी चरिमफालीका निःशेष विनाश पाया जाता है । तत्पश्चात् बाँधावलीके अतिक्रान्त होनेपर, एक समय कम आवलीप्रमाण फालियोंके पर-प्रकृतिरूपसे संक्रामित होनेपर, तथा दो समय कम दो आवली प्रमाण समयप्रवद्धोंके सम्पूर्णतः परस्वरूपसे चले जानेपर उस समय एक समय कम दो आवलीसे न्यून दो मास-

१९. माणसंजलणस्स जहणणट्टिदिविहत्ती मासो अंतोमुहुत्तूणो । २०. मायासंजलणस्स जहणणट्टिदिविहत्ती अट्टमासो अंतोमुहुत्तूणो । २१. पुरिसवेदस्स जहणणट्टिदिविहत्ती अट्ट वस्साणि अंतोमुहुत्तूणाणि । २२. छण्णोकसायाणं जहणणट्टिदिविहत्ती संखे-
ज्जाणि वस्साणि ।

प्रमाण क्रोधसंज्वलनकपायके चरम समयप्रवृद्धकी स्थिति रहती है । यही क्रोधसंज्वलनकपायकी स्थितिविभक्तिका जघन्य काल है ।

चूर्णिसू०—मानसज्वलनकपायकी जघन्य स्थितिविभक्तिका काल अन्तर्मुहूर्त कम एक मास है ॥१९॥

विशेषार्थ—चारित्रमोहका क्षपण करनेवाला जीव जब मानसज्वलनकपायकी दो कृष्टि-
योका क्षय करके तीसरी कृष्टिका वेदन करता है, तब उस तीसरी कृष्टिकी प्रथमस्थितिके एक
समय अधिक आवलीप्रमाण श्रेय रहनेपर मानकपायका चरमस्थितिवंध सम्पूर्ण एक मास रहता
है । इससे ऊपर एक समय कम दो आवलीमात्र काल व्यतीत होनेपर चरमसमयप्रवृद्धकी
स्थितिमें अन्तर्मुहूर्त कम एक मासप्रमाण कालवाले निपेक पाये जाते हैं । यही मानसज्वलन-
कपायकी स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल है ।

चूर्णिसू०—मायासंज्वलनकपायकी जघन्य स्थितिविभक्तिका काल अन्तर्मुहूर्त कम अर्ध
मास है ॥२०॥

विशेषार्थ—यतः मायासंज्वलनकपायके चरमस्थितिवंधके निपेक अन्तर्मुहूर्त कम अर्ध
मासप्रमाण होते हैं, इसलिए, एक समय कम दो आवलीप्रमाण नवीन समयप्रवृद्धोके गला
देनेपर अन्तर्मुहूर्त कम अर्धमासमात्र निपेक-स्थितियाँ पाई जाती हैं, इस कारण यहाँपर जघन्य
स्थितिविभक्ति होती है ।

चूर्णिसू०—पुरुषवेदकी जघन्यस्थितिविभक्तिका काल अन्तर्मुहूर्त कम आठ वर्ष है ॥२१॥

विशेषार्थ—इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—चरिमसमयवर्ती सवेदी क्षपकके द्वारा
पुरुषवेदका बाँधा हुआ जघन्य स्थितिवंध आठ वर्षप्रमाण होता है । किन्तु निपेकस्थितियाँ अन्त-
र्मुहूर्त कम आठ वर्षप्रमाण होती हैं, क्योंकि, अन्तर्मुहूर्तप्रमाण अवाधाकालमें निपेकोकी रचना
नहीं होती है । पुनः एक समय कम दो आवली कालप्रमाण ऊपर जाकर अन्तर्मुहूर्त कम
आठ वर्षप्रमाण पुरुषवेदकी निपेकस्थिति पाई जाती है ।

चूर्णिसू०—हास्य आदि छहो नोकपायोकी जघन्य स्थितिविभक्तिका काल संख्यात
वर्ष है ॥२२॥

विशेषार्थ—तीन वेदोंमेंसे किसी एक वेद और चारो संज्वलनकपायोमेंसे किसी एक
कपायके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़कर और यथाक्रमसे नपुंसकवेद तथा स्त्रीवेदका क्षपणकर
तत्पश्चात् छहो नोकपायोके क्षपणकालके चरम समयमें अन्तिम स्थितिकांडकी चरमफालीके

२३. गदीसु अणुमग्निदृच्चं । २४. एयजीवेण सामित्तं । २५. मिच्छत्तस्स उक्कस्सट्ठिदिविहत्ती कस्स ? २६. उक्कस्सट्ठिदिं वंधमाणस्स । २७. एवं सोलसकसायाणं । २८. सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमुक्कस्सट्ठिदिविहत्ती कस्स ? २९. मिच्छत्तस्स उक्कस्सट्ठिदिं वंधिदूण अंतोमुहुत्तद्धं पडिभग्गो' जो ट्ठिदिघादमकादूण सव्वलहु सम्मत्तं पडिवण्णो तस्स पढमसमयवेदयसम्मदिट्ठिस्स ।

संख्यात वर्षप्रमाणकी स्थिति शेष रहनेपर छह नोकपायोकी जघन्य स्थितिविभक्ति होती है । अतएव उनकी जघन्य स्थितिविभक्तिका काल संख्यात वर्ष उपलब्ध हो जाता है ।

ओषके समान ही आदेशमें भी जघन्य स्थितिविभक्तिका काल जानना चाहिए, यह बतलानेके लिए यतिवृषभाचार्य समर्पणसूत्र कहते हैं—

चूर्णिसू०—गतियोमे (तथा इन्द्रिय आदि शेष समस्त मार्गणाओमे) जघन्य स्थिति-विभक्तिके कालका उक्त प्रकारसे अनुमार्गण करना चाहिए ॥२३॥

सर्वविभक्ति, नोसर्वविभक्ति आदि अनुयोगद्वारोंके सुगम होनेसे उन्हें न कहकर एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्वानुयोगद्वारके कहनेके लिए यतिवृषभाचार्य प्रतिज्ञासूत्र कहते हैं—

चूर्णिसू०—अव एक जीवकी अपेक्षा स्थितिविभक्तिके स्वामित्वको कहते हैं ॥२४॥
स्वामित्व दो प्रकारका है, जघन्य और उत्कृष्ट । इनमेंसे ओषकी अपेक्षा पृच्छापर्वक उत्तर देने हुए उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिके स्वामित्वका निरूपण करते हैं—

चूर्णिसू०—मिथ्यात्वप्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति किसके होती है ? मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवके उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति होती है ॥२५—२६॥

चूर्णिसू०—जिस प्रकार मिथ्यात्वके उत्कृष्ट स्वामित्वका निरूपण किया, उसी प्रकारसे अनन्तानुबन्धी आदि सोलह कपायोकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिका स्वामित्व जानना चाहिए, क्योंकि, तीव्र संक्लेशसे उत्कृष्टस्थितिको बाँधनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवमें ही इन सोलह कपायोकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिका पाया जाना संभव है, अन्यत्र नहीं ॥२७॥

चूर्णिसू०—सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति किसके होती है ? मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिको बाँधकर पुनः अन्तर्मुहूर्त कालतक प्रतिभग्न हुआ अर्थात् उत्कृष्ट स्थितिवन्धके योग्य उत्कृष्ट संक्लेशसे प्रतिनिवृत्त एवं तत्प्रायोग्य विशुद्धिसे अवस्थित जो जीव स्थितिघातको नहीं करके सर्वलघुकालसे सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ है, ऐसे प्रथम समय-वर्ती वेदकसम्यग्दृष्टि जीवके सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति होती है ॥२८—२९॥

विशेषार्थ—मोहकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला, तीव्र संक्लेशपरिणामी, साकार और जागृत उपयोगसे उपयुक्त जो मिथ्यादृष्टि जीव मिथ्यात्वके उत्कृष्ट स्थितिसत्त्वसे गिरकर

१. पडिभग्गो उक्कस्सट्ठिदिवुक्कस्ससकिलेसेहि पडिणियत्तो होदूण विसोहीए पडिदो त्ति भणिदं होदि । जयध०

३०. णवणोक्सायाणमुक्खस्सट्ठिदिविहत्ती कस्स ? ३१. कसायाणमुक्खस्सट्ठिदिं वंधिदूण आवलियादीदस्स । ३२. एत्तो जहण्णयं । ३३. मिच्छत्तस्स जहण्णट्ठिदिविहत्ती कस्स ? ३४. मणुसस्स वा मणुसिणीए वा खविज्जमाणयमावलियपविट्ठं जाधे दुसमयकालट्ठिदिगं सेसं ताधे । ३५ सम्पत्तस्स जहण्णट्ठिदिविहत्ती कस्स ? ३६. चरिमसमय-अक्खीण-दंसणमोहणीयस्स । ३७. सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णट्ठिदिविहत्ती कस्स ? ३८. सम्मामिच्छत्तं खविज्जमाणं वा उव्वेच्छिज्जमाणं वा जस्स दुसमयकालट्ठिदियं सेसं तस्स खवेंतस्स

अन्तर्मुहूर्तकाल तक तत्प्रायोग्य विशुद्धिसे अवस्थित हो स्थितिवातको न करके सर्वजघन्य अन्तर्मुहूर्तकालसे वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त होता है, उसके प्रथम समयमें मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति-के सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वमें संक्रामित होनेपर सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति होती है, ऐसा जानना चाहिए ।

चूर्णिसू०—हास्य आदि नव नोकपायोकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति किसके होती है ? सोलह कपायोकी उत्कृष्ट स्थितिको बाँधकर एक आवलीप्रमाण काल व्यतीत करनेवाले जीवके नव नोकपायोकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति होती है । इसका कारण यह है कि अचलावलीमात्र कालतक बाँधी हुई सोलह कपायोकी उत्कृष्ट स्थितिका नोकपायोमें संक्रम नहीं होता है ॥ ३०-३१ ॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे जघन्य स्थितिविभक्तिके स्वामित्वका निरूपण करते हैं—मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिविभक्ति किसके होती है ? उद्यावलीमें प्रविष्ट एवं क्षपण किया जानेवाला मिथ्यात्व जब दो समय-प्रमाणकालकी स्थितिवाला होकर शेष रहे, तब दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाले मनुष्य अथवा मनुष्यनीके मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिविभक्ति होती है ॥ ३२-३४ ॥

विशेषार्थ—यहाँ मनुष्यपद सामान्यरूपसे कहा गया है, अतएव उससे भावपुरुष-वेदी और भावनपुंसकवेदी मनुष्योका ग्रहण करना चाहिए । इसी प्रकार मनुष्यनीपदसे भी भावस्त्रीवेदी मनुष्यका ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि, द्रव्यसे पुरुषवेदी जीवके ही दर्शनमोहनीयकर्मका क्षपण माना गया है । सूत्रमें जो 'आवलीप्रविष्ट' पद दिया है, उसका आशय यह है कि मिथ्यात्वकी अन्तिम फालिके पररूपसे संक्रान्त हो जानेपर उद्यावलीमें प्रविष्ट निपेक ही पाये जाते हैं । उनके अद्यःस्थितिगलनसे गलते हुए जब दो समयको कालस्थितिवाला मिथ्यात्वका निपेक शेष रहता है, तब मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिविभक्ति होती है ।

चूर्णिसू०—सम्यक्त्वप्रकृतिकी जघन्य स्थितिविभक्ति किसके होती है ? मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनों प्रकृतियोंका क्षय करके जो सम्यक्त्वप्रकृतिके क्षय करनेके लिए तैयार है और जिसके दर्शनमोहके क्षय होनेमें एक समयमात्र शेष है, ऐसे चरम-समयवर्ती अक्षीण दर्शनमोहनीयकर्मवाले जीवके सम्यक्त्वप्रकृतिकी जघन्य स्थितिविभक्ति होती है । सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिकी जघन्य स्थितिविभक्ति किसके होती है ? क्षपण किया जानेवाला, अथवा उद्वेलना किया जानेवाला सम्यग्मिथ्यात्वकर्म जब दो समयमात्र काल-स्थितिवाला

वा उव्वेल्लंतस्स वा ३९. अणंताणुवंधीणं जहण्णट्टिदिविहत्ती कस्स ? ४०. अणंताणुवंधी
जेण विसंजोइदं आवलियं पविट्ठं दुसमयकालट्टिदिगं सेसं तस्स । ४१. अट्टुण्हं कसायाणं
जहण्णट्टिदिविहत्ती कस्स ? ४२. अट्टकसायक्खवयस्स दुसमयकालट्टिदियस्स तस्स ।
४३. क्रोधसंजलणस्स जहण्णट्टिदिविहत्ती कस्स ? ४४. खवयस्स चरिमसमय-अणि-
ल्लेविदे क्रोहसंजलणे । ४५. एवं माण-मायासंजलणाणं ।

हांकर शेष रहे, तब सम्यग्मिध्यात्वकी क्षपणा करनेवाले अथवा उद्वेलना करनेवाले जीवके सम्यग्मिध्यात्वप्रकृतिकी जघन्य स्थितिविभक्ति होती है । अनन्तानुबन्धी-कपायचतुष्टयकी जघन्य स्थितिविभक्ति किसके होती है ? जिसने अनन्तानुबन्धी-कपायचतुष्टयकी विसंयोजना की है और उदयावलीमें प्रविष्ट हुआ अनन्तानुबन्धीचतुष्कका सत्त्व जब दो समयमात्र कालस्थितिवाला होकर शेष रहा है, उस समय उस जीवके अनन्तानुबन्धीकपायचतुष्टयकी जघन्य स्थितिविभक्ति होती है । अप्रत्याख्यानावरण आदि आठ मध्यम कपायोंकी जघन्य स्थितिविभक्ति किसके होती है ? अप्रत्याख्यानावरणादि आठ कपायोंके क्षपण करनेवाले जीवके जब दो समयप्रमाण कालस्थितिवाले आठ कपाय शेष रहे, तब उसके उक्त आठों कपायोंकी जघन्य स्थितिविभक्ति होती है ॥३५-४२॥

विशेषार्थ—जब कोई संयत चरित्रमोहनीयकर्मकी क्षपणाके लिए उद्यत होकर अधः-प्रवृत्तकरण और अपूर्वकरणको यथाविधि करके अनिवृत्तिकरणमें प्रवेशकर स्थिति तथा अनु-भागसम्बन्धी बहुप्रदेशोंका घात करके अनिवृत्तिकरणकालके संख्यात भाग व्यतीत हो जानेपर आठ मध्यम कपायोंका क्षपण प्रारंभकर असंख्यातगुणित श्रेणीके द्वारा कर्मप्रदेशम्बंधोंको गलाता हुआ संख्यात हजार अनुभागकांडकोका पतन करता है और उसी समय आठों कपा-योंके चरम स्थितिकांडको और अनुभागकांडकोको घात करनेके लिए ग्रहण करता है । पुनः उनकी चरमफालियोंके निपतित हो जानेपर उदयावलीके भीतर एक समय कम आवलीप्रमाण निपेक पाये जाते हैं । उन निपेकोके यथाक्रमसे अधःस्थितिके द्वारा गलते हुए आठ कपायोंमें-से जब जिस कर्मप्रकृतिकी दो समय-कालवाली एक स्थिति अवशिष्ट रहती है, तब उस प्रकृ-तिकी जघन्य स्थितिविभक्ति होती है, ऐसा अभिप्राय जानना चाहिए ।

चूर्णिसू०—संज्वलन क्रोधकपायकी जघन्य स्थितिविभक्ति किसके होती है ? क्रोध-संज्वलनके चरमसमयमें निर्लेपन अर्थात् क्षपण नहीं करते हुए उस अवस्थामें वर्तमान क्षपकके संज्वलन क्रोधकपायकी जघन्य स्थितिविभक्ति होती है । इसी प्रकार मानसंज्वलन और मायासंज्वलनकी जघन्य स्थितिविभक्ति जानना चाहिए ॥४३-४५॥

विशेषार्थ—जिस प्रकार क्रोधसंज्वलनकी जघन्य स्थितिविभक्तिके स्वामित्वका निरू-पण किया है, उसी प्रकार मानसंज्वलन और मायासंज्वलनकी भी जघन्य स्थितिविभक्तिके स्वामित्वको जानना चाहिए । अर्थात् अनिलेपित मानसंज्वलनके चरमसमयमें वर्तमान क्षपकके मानसंज्वलनकी और अनिलेपित मायासंज्वलनके चरमसमयमें वर्तमान क्षपकके मायासंज्वलन-

४६. लोहसंजलणस्स जहण्णट्टिदिविहत्ती कस्स ? ४७. खवयस्स चरिमसमयस-
कसायस्स । ४८. इत्थिवेदस्स जहण्णट्टिदिविहत्ती कस्स ? ४९. चरिमसमयइत्थिवेदो-
दयखवयस्स । ५०. पुरिसवेदस्स जहण्णट्टिदिविहत्ती कस्स ? ५१. पुरिसवेदखवयस्स
चरिमसमयअणिल्लेविदपुरिसवेदस्स । ५२. णवुंसयवेदस्स जहण्णट्टिदिविहत्ती कस्स ?
५३. चरिमसमयणवुंसयवेदोदयखवयस्स । ५४. छण्णोकसायाणं जहण्णट्टिदिविहत्ती
कस्स ? ५५. खवयस्स चरिमे ट्टिदिखंडए वट्टमाणस्स । ५६. णिरयगईए णेरइएसु
सम्पत्तस्स जहण्णट्टिदिविहत्ती कस्स ? ५७. चरिमसमयअक्खीणदंसणमोहणीयस्स ।

की जघन्यस्थिति विभक्ति होती है ।

चूर्णिसू०—लोभसंज्वलनकी जघन्य स्थितिविभक्ति किसके होती है ? चरम-समयवर्ती
क्षपकके लोभसंज्वलनकपायकी जघन्य स्थितिविभक्ति होती है ॥४६-४७॥

विशेषार्थ—अधःस्थितिगलनाके द्वारा द्विचरमादि निपेकोके गलानेवाले, स्थितिकांडक-
वातके द्वारा समस्त उपरितन स्थितिनिपेकोके वात करनेवाले, तथा उदयागत एक निपेकमें
वर्तमान ऐसे चरमसमयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिक क्षपक संयतके लोभसंज्वलनकी जघन्य स्थिति-
विभक्ति होती है ।

चूर्णिसू०—स्त्रीवेदकी जघन्य स्थितिविभक्ति किसके होती है ? स्त्रीवेदके चरम समय-
वर्ती उदयागत एक निपेक-स्थितिमे वर्तमान स्त्रीवेदी वादरसाम्परायिक संयत क्षपकके स्त्रीवेद-
की जघन्य स्थितिविभक्ति होती है । पुरुषवेदकी जघन्य स्थितिविभक्ति किसके होती है ?
चरमसमयवर्ती और पुरुषवेदका जिसने अभी क्षपण नहीं किया है, ऐसे पुरुषवेदी वादर-
साम्परायिक क्षपकके पुरुषवेदकी जघन्य स्थितिविभक्ति होती है । नपुंसकवेदकी जघन्य-
स्थितिविभक्ति किसके होती है ? नपुंसकवेदके चरमसमयवर्ती उदयागत एक निपेकस्थितिमे
वर्तमान नपुंसकवेदके उदयवाले वादरसाम्परायिकसंयत क्षपकके नपुंसकवेदकी जघन्य-
स्थितिविभक्ति होती है । हास्य आदि छह नोकपायोकी जघन्य स्थितिविभक्ति किसके होती
है ? हास्यादि छह नोकपायोके अन्तिम स्थितिखंडमे वर्तमान क्षपकके छहो नोकपायोकी
जघन्य स्थितिविभक्ति होती है । नरकगतिमे नारकियोमे सम्यक्त्वप्रकृतिकी जघन्य स्थिति-
विभक्ति किसके होती है ? जिसके दर्शनमोहनीयकर्मके क्षय करनेमे एक समय शेष है
ऐसे नारकीके सम्यक्त्वप्रकृतिकी जघन्य स्थितिविभक्ति होती है ॥४८-५७॥

विशेषार्थ—जो मिथ्यादृष्टि मनुष्य तीव्र आरंभ-परिणामोके द्वारा नरकायुका वंश कर
चुका है, और पीछे तीर्थकरके पादमूलको प्राप्त होकर और सम्यक्त्वको ग्रहण करके आयुके
अन्तर्मुहूर्तप्रमाण अवशिष्ट रहनेपर तीनो करणोको करके मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन
दोनो प्रकृतियोंको अनिवृत्तिकरणके कालमे क्षपणकर, सम्यक्त्वप्रकृतिके चरम स्थितिकांडककी
चरमफालीको ग्रहण करके तथा उदयादि गुणश्रेणीरूपसे वात करके स्थित है, ऐसे जीवको
कृतकृत्यवेदक कहते हैं । उसी अवस्थामे जीवनके समाप्त होनेके साथ ही कापोतलेइयासे

५८. सम्मामिच्छत्तस्म जहण्णट्टिदिविहत्ती कस्स ? ५९. चरिमसमय-उव्वेह्णमाणस्स । ६०. अणंताणुवंधीणं जहण्णट्टिदिविहत्ती कस्स ? ६१. जस्स विसंजोइदे दुसमयकालट्टिदियं सेसं तस्स । ६२. सेसं जहा उदीरण्णए तहा कायव्वं ।

परिणत हो प्रथम पृथिवीमे उत्पन्न हुए, तथा चरमगोपुच्छाकां छोड़कर शेष सर्व गोपुच्छाके गलानेवाले और एक समयकालवाली सम्यक्त्वप्रकृतिकी एक स्थितिमे वर्तमान ऐसे नारकी श्रायिकसम्यग्दृष्टि जीवके सम्यक्त्वप्रकृतिकी जघन्य स्थितिविभक्ति होती है ।

चूर्णिसू०—नारकियोंमे सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिकी जघन्य स्थितिविभक्ति किसके होती है ? सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिकी उद्वेलना करनेवाले चरमसमयवर्ती मिथ्यादृष्टि नारकीके सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिकी जघन्य स्थितिविभक्ति होती है ॥५८-५९॥

विशेषार्थ—जब कोई नारकी सम्यग्दृष्टि जीव मिथ्यात्वको प्राप्त होकर और उसमे अन्तर्मुहूर्त रह करके सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनोंकी उद्वेलना प्रारम्भ कर सर्व प्रथम पल्योपमके असंख्यातवं भागमात्र स्थितिखंडोको यथाक्रमसे गिराकर सम्यक्त्व-प्रकृतिकी उद्वेलना करता है और पुनः सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिके पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण स्थितिखंडोको गिरा कर अन्तिम उद्वेलनाकांडककी अन्तिमफालीको गलाता है, तब एक समय कम आवलीप्रमाण गोपुच्छाएं अवशिष्ट रहती है । पुनः उन्हे भी अधः-स्थितिगलनाके द्वारा गला देनेपर दो समयकालवाली एक निपेकस्थिति देखी जाती है, उसी समय सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिकी जघन्य स्थितिविभक्ति होती है ।

चूर्णिसू०—अनन्तानुवन्धी क्रोध, मान, माया और लोभकषायकी जघन्य स्थिति-विभक्ति किसके होती है ? अनन्तानुवन्धीकषायके विसंयोजन करनेपर जिस जीवके उसकी दो समयकालप्रमाण स्थिति शेष रहती है, उसके अनन्तानुवन्धी कषायकी जघन्य स्थिति-विभक्ति होती है ॥६०-६१॥

चूर्णिसू०—शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिविभक्तिका स्वामित्व-निरूपण जैसा उदीर-णामे कहा है, उस प्रकारसे करना चाहिए ॥६२॥

विशेषार्थ—अप्रत्याख्यानावरणादि वारह कषाय, भय और जुगुप्सा, इन शेष प्रकृतियोंमेसे पहले मिथ्यात्वप्रकृतिकी जघन्य स्थितिका स्वामित्व कहते हैं—जो असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यच अपने मिथ्यात्वके सागरोपमसहस्रप्रमाण उत्कृष्ट स्थितिवन्धमेसे पल्योपमके संख्यातवे भागमात्र स्थितिसत्त्वको घातकर अपने योग्य जघन्य स्थितिसत्त्वको करके पुनः अन्तर्मुहूर्तकाल तक जघन्य स्थितिसत्त्ववाले मिथ्यात्वको बाँधता हुआ अवस्थित रहता है कि इतनेमे ही जीवनके समाप्त हो जानेसे मरा और दो समयवाले एक विग्रहको करके नरकगतिमे नारकियोंमे उत्पन्न हुआ । वहाँ वह विग्रहगतिसम्बन्धी उन दोनों ही समयोंमे असंज्ञी पंचेन्द्रियके योग्य मिथ्यात्वकी स्थितिको बाँधता है, क्योंकि, असंज्ञी पंचेन्द्रियोंसे आये हुए और संज्ञी पंचेन्द्रिय-पर्याप्तकोंमे उत्पन्न होकर जब तक शरीरको ग्रहण नहीं किया है, तब तक उस जीवके अन्तः-

६३. एवं सेसासु गदीसु अणुमग्गिदब्बं ।

[६४. कालो ।] ६५ मिच्छत्तस्स उक्कस्सट्ठिदिसंतकम्मिओ केवचिरं कालादो होदि ? ६६. जहण्णेण एगसमओ । ६७. उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण स्थितिवन्ध करनेकी शक्तिका अभाव रहता है । इस प्रकार विग्रहगति-के दोनो समयोमे वर्तमान जीवके मिथ्यात्वप्रकृतिकी जघन्य स्थितिविभक्ति होती है । इस ही जीवके अप्रत्याख्यानावरणादि वारह कपाय तथा भय और जुगुप्सा इन दो नोकपायोकी भी जघन्य स्थितिविभक्ति होती है । विशेषता केवल इतनी है कि जहाँ उसके मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिका बन्ध पल्योपमके संख्यातवे भागसे हीन सहस्र सागरोपम होता था, वहाँ उसी जीवके इन चौदह प्रकृतियोंका स्थितिवन्ध सागरोपमसहस्रके पल्योपमके संख्यातभागसे कम सात भागोमेसे चार भाग-प्रमाण होता है । भय और जुगुप्साको छोड़कर शेष सात नोकपायोकी जघन्य स्थितिविभक्तिका स्वामित्व भी इसी प्रकार जानना चाहिए । भेद केवल यह है कि हास्यादि जिन प्रकृतियोंका बन्ध नरकगतिमे नहीं होता है, उनकी बन्ध-व्युच्छित्ति असंज्ञी पंचेन्द्रिय-भवके अन्तिम समयमे ही हो जाती है और उनकी प्रतिपक्षी अरति आदि प्रकृतियाँ नरकगतिमे उत्पन्न होनेके प्रथम समयसे बंधने लगती हैं । अतएव अपनी-अपनी प्रतिपक्षी प्रकृतियोंके बन्धकालके अन्तिम समयमे, उन प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिविभक्तिका स्वामित्व जानना चाहिए ।

चूर्णिसू०—इसी प्रकार शेष गतियोंमे स्वामित्वका अनुसर्गण करना चाहिए ॥ ६३ ॥

विशेषार्थ—जिस प्रकार ऊपर नरकगतिमे सर्व प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिविभक्तिके स्वामित्वका निरूपण किया है, उसी प्रकारसे शेष तीनों गतियोंमे मोहकर्मकी सर्वप्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिविभक्तिके स्वामित्वका अन्वेषण करना चाहिए । तथा इस सूत्रके देशामर्शक होनेसे इन्द्रिय आदि शेष मार्गणाओमे भी उसी प्रकारसे जघन्य स्थितिविभक्तिका निर्णय करना चाहिए । ऐसी सूचना चूर्णिकारने की है, अतएव विशेष जिज्ञासु जन महाबन्धके स्थितिवन्ध-प्रकरणमे और इस सूत्रपर उच्चारणाचार्य-द्वारा की गई विस्तृत व्याख्याको जयधवला टीकामे देखे ।

चूर्णिसू०—[अव स्थितिविभक्तिके कालका निर्णय करते हैं—] मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिका सत्कर्मिक—बंध करके सत्त्व स्थापित करनेवाला - जीव कितने काल तक होता है ? अर्थात् मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिका कितना काल है ? जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है ॥ ६४-६७ ॥

विशेषार्थ—जब कोई जीव एक समयकालमात्र मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिका बंध करके दूसरे समयमे उत्कृष्ट स्थितिका बंध नहीं करता है, उस समय उस जीवके मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिका काल एक समयप्रमाण पाया जाता है । मिथ्यात्वप्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिके बंधनेका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त-प्रमाण है । इसका कारण यह है कि उत्कृष्ट दाह या संक्षेपको प्राप्त जीव ही मिथ्यात्वप्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध करता है और उत्कृष्ट

६८. एवं सोलसकसायाणं । ६९. णवुंसयवेद-अरदि-सोग-भयदुगुंछाणमेवं
 चैव । ७०. सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमुक्कस्सट्ठिदिविहत्तिओ केवचिरं कालादो होदि ?
 ७१. जहण्णुक्कस्सेण एगसमओ । ७२. इत्थिवेद-पुरिसवेद-हस्स-रदीणमुक्कस्सट्ठिदि-
 विहत्तिओ केवचिरं कालादो होदि ? ७३. जहण्णेण एगसमओ । ७४. उक्कस्सेण
 आवलिया । ७५. एवं सव्वासु गदीसु ।

७६. जहण्णट्ठिदिसंतकम्मियकालो । ७७. मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-

संकलेशका काल अन्तर्मुहूर्त-प्रमाण माना गया है, अतएव कारणके अनुरूप कार्यका होना
 स्वाभाविक है ।

चूर्णिसू०—इसी प्रकारसे सोलह कपायोकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक
 समय और उत्कृष्टकाल और अन्तर्मुहूर्त-प्रमाण है । इस ही प्रकार नपुंसकवेद, अरति, शोक,
 भय और जुगुप्सा, इन प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल और उत्कृष्टकाल
 जानना चाहिए ॥६८-६९॥

चूर्णिसू०—सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनोंकी उत्कृष्ट स्थिति-
 विभक्तिका कितना काल है ? इन दोनों प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिका जघन्य और
 उत्कृष्ट काल एक समय है ॥७०-७१॥

विशेषार्थ—सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनों प्रकृतियोंके उत्कृष्ट बन्ध करने-
 के एक समयमात्र जघन्य और उत्कृष्ट काल कहनेका कारण यह है कि मोहकर्मकी अट्टाईस
 प्रकृतियोंकी सत्तावाला मिथ्यादृष्टि जीव जब तीव्र संकलेशसे मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध
 करके अन्तर्मुहूर्त पञ्चात् ही वेदकसम्यक्त्वको ग्रहण करता है, तब वेदकसम्यक्त्वके ग्रहण
 करनेके प्रथम समयमे ही सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनों प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थिति
 पाई जाती है ।

चूर्णिसू०—स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य और रति इन चार नोकपायोकी उत्कृष्ट स्थिति-
 विभक्तिका कितना काल है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल एक आवली-प्रमाण
 है ॥७२-७४॥

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि कपायोका कमसे कम एक समय या अधिकसे
 अधिक आवली-प्रमाण काल तक उत्कृष्ट स्थितिवन्ध करके एक समय या एक आवलीकालके
 अनन्तर इच्छित नोकपायका बन्ध करके कपायोकी गलित शेष उत्कृष्ट स्थितिके उसमे संक्रमण
 कर देनेपर उनके बंधनेका नियम है ।

चूर्णिसू०—इसी प्रकार ओघके समान सभी गतियोंमे भी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिके
 कालकी प्ररूपणा जानना चाहिए ॥७५॥

चूर्णिसू०—अब जघन्य स्थितिसत्कर्मिक जीवोंके कालको कहते हैं—मिथ्यात्व, सम्य-
 ग्मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति, अनन्तानुबन्धी आदि सोलह कपाय, स्त्रीवेद पुरुषवेद और नपुं-

सोलसकसाय-तिवेदाणं जहण्णुकस्सेण एगसमओ । ७८. छण्णोकसायाणं जहण्णट्टिदि-
संतकम्मियकालो जहण्णुकस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

७९. अंतरं । ८०. मिच्छत्त-सोलसकसायाणमुक्कस्सट्टिदिसंतकम्मिगं अंतरं
जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । ८१. उक्कस्समसंखेज्जा पोग्गलपरियट्ठा । ८२. एवं णवणोकसा-
याणं, णवरि जहण्णेण एगसमओ । ८३. सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमुक्कस्सट्टिदिसंतक-

सकवेद, इन प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है ।
क्योंकि जघन्य स्थितिसत्त्वके उत्पन्न होनेके दूसरे ही समयमे इन प्रकृतियोंका विनाश पाया
जाता है । हास्य आदि छह नोकपायोकी जघन्य स्थितिविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्टकाल
अन्तर्मुहूर्त है । ॥७६-७८॥

चूर्णिसू०—अब मोहप्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिका अन्तरकाल कहते हैं—
मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी आदि सोलह कषायोके उत्कृष्ट स्थितिसत्त्ववाले जीवोका जघन्य
अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्तप्रमाण है ॥७९-८०॥

विशेषार्थ—सूत्रोक्त सत्तरह मोहप्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धको बाँधनेवाले जीवके उत्कृष्ट
स्थितिवन्धको छोड़कर अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धको अन्तर्मुहूर्तकाल तक बाँधकर पुनः उक्त प्रकृति-
योके उत्कृष्ट स्थितिवन्ध करनेपर जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्तप्रमाण पाया जाता है । इसका
अभिप्राय यह हुआ कि दोनो उत्कृष्ट स्थितिवन्धोका मध्यवर्ती अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धकाल उक्त-
प्रकृतियोंका अन्तरकाल कहलाता है । यहाँ यह शंका की जा सकती है कि मिथ्यात्वप्रकृति
और सोलह कषायोका जघन्य अन्तर एक समयप्रमाण क्यों नहीं होता है ? इसका समाधान
यह है कि उत्कृष्टस्थिति बाँधकर प्रतिनिवृत्त हुए जीवके अन्तर्मुहूर्तकालके विना उत्कृष्ट स्थिति-
वन्ध होना असंभव है ।

चूर्णिसू०—मिथ्यात्व और सोलह कषाय, इन सत्तरह मोहप्रकृतियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल
असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है ॥८१॥

विशेषार्थ—उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धको बाँधकर निवृत्त हुआ संज्ञी पंचेन्द्रिय
जीव अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धको उसके उत्कृष्ट वन्धकालके अन्तिम समय तक बाँधता हुआ समय
व्यतीत करता है । तत्पश्चात् एकेन्द्रिय जीवोम उत्पन्न होकर असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनकाल
तक उनमे परिभ्रमण कर पुनः त्रस पंचेन्द्रियपर्याप्तक जीवोमे उत्पन्न होकर पर्याप्त हो, उत्कृष्ट
संक्लेगको प्राप्त हो, पुनः उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धको करनेवाले जीवके आवलीके
असंख्यातवे भाग-प्रमाण असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनप्रमित उत्कृष्ट अन्तरकाल पाया जाता है ।

चूर्णिसू०—इसी प्रकार हास्य आदि नव नोकपायोका अन्तरकाल जानना चाहिए ।
विशेष बात यह है कि इनका जघन्य अन्तरकाल एक समयमात्र है । सम्यक्त्व और सम्य-
ग्मिथ्यात्व, इन दोनो प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त-
प्रमाण है ॥८१-८३॥

स्मियंतरं जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । ८४. उक्कस्समुवड्डुपोरगलपरियट्ठं ८५. एत्तो जहण्ण-
यंतरं । ८६. मिच्छत्त-सम्पत्त-वारसकसाय-णवणोकसायाणं जहण्णट्ठिदिविहत्तियस्स
णत्थि अंतरं । ८७. सम्मामिच्छत्त-अणंताणुवंधीणं जहण्णट्ठिदिविहत्तियस्स अंतरं
जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ।

विशेषार्थ—मिथ्यात्वकर्मके उत्कृष्ट स्थितिसत्त्ववाले किसी जीवने वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त होनेके प्रथम समयमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिसत्त्व स्थापित क्रिया और दूसरे ही समयमें अनुत्कृष्ट स्थितिसत्त्वको प्राप्त होकर सर्व जघन्य अन्तर्मुहूर्तकाल सम्यक्त्वके साथ रह कर मिथ्यात्वसे परिणत हो, पुनः उत्कृष्ट स्थिति-को बांधकर, अन्तर्मुहूर्त तक रह कर, वेदकसम्यक्त्वके योग्य मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिसत्त्वके साथ वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त होनेपर सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थिति-सत्त्वको प्राप्त हुए जीवके इन दोनों प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिका अन्तर्मुहूर्तप्रमाण जघन्य अन्तरकाल पाया जाता है ।

चूर्णिसू०—सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनों प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थिति-विभक्तिका उत्कृष्ट अन्तरकाल देगोन अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है ॥८४॥

विशेषार्थ—मोहकर्मकी छत्र्वास प्रकृतियोंका सत्त्व रखनेवाला कोई एक अनादि मिथ्या-दृष्टि जीव उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ और उसके साथ अन्तर्मुहूर्त रह कर मिथ्यात्वको प्राप्त हो उत्कृष्ट स्थितिको बांध कर प्रतिनिवृत्त हुआ स्थितिवात न करके और वेदकसम्य-क्त्वको ग्रहण करके उक्त दोनों प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिसत्त्वको करके तथा सम्यक्त्वके साथ अन्तर्मुहूर्तकाल तक रहकर मिथ्यात्वको प्राप्त हो कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तन तक परि-भ्रमण करके पुनः तीनों करणोंको करके उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त कर और मिथ्यात्वमें जाकर पुनः उत्कृष्ट स्थिति बांध कर अन्तर्मुहूर्तसे वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुए जीवके प्रथम समयमें मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिको सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वमें संक्रमणकर देनेपर इन दोनों प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तरकाल पाया जाता है ।

चूर्णिसू०—अब इससे आगे जघन्य स्थितिविभक्तिका अन्तर कहते हैं—मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति, अप्रत्याख्यानावरण आदि वारह कपाय और हास्य आदि नव नोकपाय, इन तेईस प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिविभक्तिका अन्तर नहीं होता है । क्योंकि, क्षयकर दिये गये कर्मोंकी पुनः उत्पत्ति नहीं होती है । ॥८५-८६॥

चूर्णिसू०—सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धी चतुष्टय, इन पांच प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिविभक्ति का जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है ॥८७॥

विशेषार्थ—उद्वेलनाके द्वारा सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिके जघन्य स्थितिसत्त्वको करता हुआ कोई जीव सम्यक्त्वके अभिमुख होकर अन्तर-सम्बन्धी चरमफालीको भी अपनीत करके तत्पश्चान्न मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिमें एक समय कम आवलीमात्र प्रवेश करके वहाँपर सम्य-

८८. उक्कस्सेण उवड्डुपोग्गलपरियट्टं । ८९. णाणाजीवेहि भंगविचओ । ९०. तत्थ अट्टपदं । तं जहा । जो उक्कस्सियाए ट्टिदीए विहत्तिओ सो अणुक्कस्सियाए दिट्ठीए ण होदि विहत्तिओ । ९१. जो अणुक्कस्सियाए ट्टिदीए विहत्तिओ सो उक्कस्सियाए ट्टिदीए ण होदि विहत्तिओ । ९२. जस्स मोहणीयपयडी अत्थि तम्मि पयदं । अक्कम्मे ववहारो णत्थि । ९३. एदेण अट्टपदेण मिच्छत्तस्स सव्वे जीवा उक्कस्सियाए ट्टिदीए सिया अविहत्तिया । ९४. सिया अविहत्तिया च

गिमिध्यात्वकर्मकी जघन्य स्थितिसन्त्वको प्राप्त करके अन्तरको प्राप्त हो क्रमसे मिध्यात्वकी प्रथमस्थितिको गलाकर, उपसमसम्यक्त्वको प्राप्त हो, अन्तर्मुहूर्त रहकर, वेदकसम्यक्त्वको प्राप्तकर पुनः अन्तर्मुहूर्तकालसे अनन्तानुवन्धी कपायचतुष्कका विसंयोजनकर, पुनः अधः-प्रवृत्त और अपूर्वकरणको करके अनिवृत्तिकरणके कालके संख्यात भाग व्यतीत हो जानेपर मिध्यात्वका क्षपणकर पुनः अन्तर्मुहूर्तके द्वारा सम्यग्मिध्यात्वकी चरमफालीको पर-स्वरूपसे संक्रमण करके यथाक्रमसे अधःस्थितिगलनाके द्वारा उदयावलीके निपेकोके गलनेपर, दो समय कालवाली एक निपेकस्थितिके अवशेष रहने पर अन्तर्मुहूर्तकालप्रमाण सम्यग्मिध्यात्वप्रकृतिका जघन्य अन्तरकाल प्राप्त होता है । इसी प्रकार अनन्तानुवन्धी कपायचतुष्टयका भी जघन्य अन्तर जानना चाहिए । विशेषता केवल यह है कि अन्तर्मुहूर्तके भीतर दो बार अनन्तानुवन्धी कपायका विसंयोजन करनेपर उनका जघन्य अन्तर प्राप्त होता है ।

चूर्णिसू०—उक्त पांचों मोह-प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है ॥८८॥

चूर्णिसू०—अब नाना जीवोंकी अपेक्षा भंग-विचय अर्थात् स्थितिविभक्तिके संभव भंगोंका निर्णय किया जाता है । उसके विषयसे यह अर्थपद है । वह इस प्रकार है—जो जीव उत्कृष्ट स्थितिकी विभक्तिवाला है, वह अनुत्कृष्ट स्थितिकी विभक्तिवाला नहीं है । इसका कारण यह है कि उत्कृष्टस्थितिमें एक समय कम, दो समय कम आदि कालविशेषोंका अभाव है । जो जीव अनुत्कृष्ट स्थितिकी विभक्तिवाला है, वह उत्कृष्टस्थितिकी विभक्तिवाला नहीं होता है । क्योंकि, परस्परके परिहारद्वारा ही उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितियोंका अवस्थान पाया जाता है । जिस जीवके मोहनीयकर्मकी प्रकृतियोंका अस्तित्व है, उससे ही प्रकृतसे प्रयोजन है । क्योंकि, कर्म-रहित जीवसे व्यवहार नहीं होता है ॥८९-९२॥

चूर्णिसू०—इस अर्थपदके द्वारा अब नाना जीव-सम्बन्धी भंगोंका निर्णय किया जाता है—कदाचित् कदाचित् सर्व जीव मिध्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिके विभक्तिवाले नहीं होते हैं, क्योंकि, तीव्र संकुशवाले जीवोंका होना प्रायः संभव नहीं है । कदाचित् अनेक जीव मिध्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति नहीं करनेवाले होते हैं और एक जीव उत्कृष्ट विभक्ति करनेवाला होता है, क्योंकि किसी कालमें कदाचित् त्रिभुवनवर्ती अशेष जीवोंके अनुत्कृष्ट स्थितिविभक्तिक होते हुए उनमेंसे किसी एक जीवके उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति देखी जाती है । कदाचित् अनेक

विहत्तिओ च । ९५. सिया अविहत्तिया च विहत्तिया च (३) । ९६. अणुक्कस्सियाए
 द्विदीए सिया सव्वे जीवा विहत्तिया । ९७ सिया विहत्तिया च अविहत्तिओ च ।
 ९८. सिया विहत्तिया च अविहत्तिया च । ९९. एवं सेसाणं पि पयडीणं कायव्वो ।
 १००. जहण्णए भंगविचए पयदं । १०१. तं चेव्व अट्ठपदं । १०२. एदेण अट्ठपदेण
 मिच्छत्तस्स सव्वे जीवा जहण्णियाए द्विदीए सिया अविहत्तिया । १०३. सिया

जीव मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति नहीं करनेवाले और अनेक जीव उत्कृष्ट विभक्ति करनेवाले होते हैं । क्योंकि, अनन्त जीवोंके उत्कृष्ट विभक्ति नहीं करते हुए भी उनमें संख्यात अथवा असंख्यात जीवोंके उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिकी संभावना पाई जाती है । इस प्रकारसे ये उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति-अविभक्तिसम्बन्धी उपयुक्त (३) तीन भंग होते हैं ॥९३-९५॥

चूर्णिसू०-कदाचित् सर्व जीव मिथ्यात्वकी अनुत्कृष्टस्थितिकी विभक्ति करनेवाले होते हैं, क्योंकि, किसी कालमें उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिके विना त्रिभुवनवर्ती अशेष जीव अनुत्कृष्ट स्थितिमें ही अवस्थित पाये जाते हैं । कदाचित् अनेक जीव मिथ्यात्वकी अनुत्कृष्टस्थितिकी विभक्ति करनेवाले होते हैं और कोई एक जीव अनुत्कृष्टस्थितिकी विभक्ति नहीं करनेवाला होता है । इसका कारण यह है कि कभी किसी कालमें एक अनुत्कृष्ट स्थितिकी विभक्ति नहीं करनेवाले जीवके साथ शेष सकल जीव अनुत्कृष्टस्थितिकी विभक्ति करनेवाले पाये जाते हैं । क्वचिन् कदाचित् अनेक जीव मिथ्यात्वकी अनुत्कृष्ट स्थितिकी विभक्ति करनेवाले और अनेक जीव विभक्ति नहीं करनेवाले होते हैं । इसका कारण यह है कि कभी किसी कालमें अनुत्कृष्टस्थिति विभक्ति करनेवाले अनन्त जीवोंके साथ संख्यात अथवा असंख्यात उत्कृष्ट-स्थिति विभक्ति करनेवाले भी जीव पाये जाते हैं ॥९६-९८॥

चूर्णिसू०-इसी प्रकार मिथ्यात्वप्रकृतिकी नाना जीवोंके साथ भंगविचय-प्ररूपणाके समान शेष सम्यग्मिथ्यात्व आदि मोह-प्रकृतियोंकी भी भंगविचय-प्ररूपणा करना चाहिए ॥९९॥

चूर्णिसू०-अत्र नानाजीवोंकी अपेक्षा मिथ्यात्व आदि प्रकृतियोंकी जघन्य स्थिति-विभक्ति-सम्बन्धी भंगविचय-प्ररूपणा की जाती है । यहाँपर भी वही अर्थपद है जो कि उत्कृष्टस्थिति विभक्तिमें ऊपर कह आये हैं । केवल यहाँ भंग कहते समय उत्कृष्ट-अनुत्कृष्टके स्थानपर क्रमशः जघन्य और अजघन्य स्थितिविभक्ति कहना चाहिए । इस अर्थपदकी अपेक्षा सर्व जीव मिथ्यात्वप्रकृतिकी जघन्य स्थितिकी कदाचित् विभक्ति करनेवाले नहीं होते हैं । क्योंकि, कदाचित् सर्वजीवोंका मिथ्यात्वकी अजघन्य स्थितिमें ही अवस्थान देखा जाता है । कदाचित् अनेक जीव मिथ्यात्वकी जघन्य स्थिति-विभक्ति करनेवाले नहीं होते हैं और कोई एक जीव विभक्ति करनेवाला होता है । क्योंकि, किसी समय मिथ्यात्वकी अजघन्य स्थिति-धारकोंके साथ कोई एक जीव जघन्य स्थितिका धारक भी पाया जाता है । कदाचित् अनेक जीव मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिकी विभक्ति नहीं करनेवाले और अनेक विभक्ति करनेवाले होते हैं, क्योंकि, किसी कालमें अजघन्य स्थितिविभक्ति करनेवाले अनन्त जीवोंके साथ संख्यात

अविहत्तिया च विहत्तिओ च । १०४. सिया अग्रहत्तिया च विहत्तिया च । १०५
 एवमेत्थ तिण्णि भंगा । १०६. अजहणियाए द्विदीए सिया सव्वे जीवा विहत्तिया ।
 १०७. सिया विहत्तिया च अविहत्तिओ च । १०८. सिया विहत्तिया च अविहत्तिया
 च । १०९. एवं तिण्णि भंगा । ११०. एवं सेसाणं पयडीणं कायव्वो । १११. जथा
 उक्कस्सद्विदिवंधे णाणाजीवेहि कालो तथा उक्कस्सद्विदिसंतकम्भेण कायव्वो । ११२.
 णवरि सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणमुक्कस्सद्विदी जहण्णेण एगसमओ । ११३ उक्कस्सेण
 आवलियाए असंखेज्जदिभागो ।

जघन्य स्थितिविभक्तिके करनेवाले भी जीव पाये जाते हैं । इस प्रकार यहाँ जघन्य स्थिति-
 विभक्तिमे ये उपयुक्त तीन भंग होते हैं ॥१००-१०५॥

चूर्णिसू०—मिथ्यात्वकी अजघन्य स्थितिकी विभक्ति करनेवाले कदाचित् सर्व जीव
 होते हैं । कदाचित् अनेक जीव विभक्ति करनेवाले होते हैं और कोई एक जीव विभक्ति नहीं
 करनेवाला होता है । कदाचित् अनेक जीव विभक्ति करनेवाले और अनेक जीव विभक्ति नहीं
 करनेवाले होते हैं । इस प्रकार मिथ्यात्वकी अजघन्य स्थितिविभक्तिसम्बन्धी नानाजीवोकी
 अपेक्षा तीन भंग होते हैं । इस प्रकार शेष प्रकृतियोंकी भी नानाजीवसम्बन्धी भंगविचय-
 प्ररूपणा करना चाहिए ॥१०६-११०॥

अब नानाजीवोकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्थितिसत्त्वके कालका निरूपण करनेके लिए उत्तर
 सूत्र कहते हैं—

चूर्णिसू०—जिस प्रकारसे मोहकर्मप्रकृतियोंके उत्कृष्टस्थितिवन्धमे नानाजीवोकी अपेक्षा
 कालका निरूपण किया है, उसी प्रकारसे यहाँपर भी मोहप्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थिति-सत्त्वका
 कालप्ररूपण करना चाहिए । अर्थात् सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दो प्रकृतियोंको
 छोड़कर शेष छत्तीस प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिसत्त्वका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल
 पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण है । किन्तु सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दो
 प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिसत्त्वका जघन्यकाल एक समयमात्र है ॥१११-११२॥

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला
 और उत्कृष्ट स्थितिवाला मिथ्यादृष्टि जीव जब वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त होता है, तब उसके
 प्रथम समयमे ही मिथ्यात्वकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिको सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनो-
 मे संक्रमण करता है, सो संक्रमण होनेके प्रथम समयमे ही इन दोनो प्रकृतियोंका उत्कृष्ट
 स्थिति-सत्त्व कमसे कम एक समयमात्र पाया जाता है ।

चूर्णिसू०—सम्यक्त्व प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनो प्रकृतियोंके उत्कृष्ट
 स्थितिसत्त्वका उत्कृष्टकाल आवलीके असंख्यातवे भागप्रमाण है । इसका कारण यह है कि
 मोहकर्मके उत्कृष्ट स्थितिसत्त्ववाले मिथ्यादृष्टि जीव निरन्तर आवलीके असंख्यातवे भागमात्र
 काल तक ही वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त होते हुए देखे जाते हैं ॥११३॥

११४. जहण्णए पयदं । ११५. मिच्छत्त-सम्मत्त-वारसकसाय-तिवेदाणं जहण्णट्ठिदिविहत्तिएहि णाणाजीवेहि कालो केवडिओ ? ११६. जहण्णेण एगसमओ । ११७. उक्कस्सेण संखेज्जा समया । ११८. सम्मामिच्छत्त-अणंताणुवंधीणं च उक्कस्स-जहण्ण-ट्ठिदिविहत्तिएहि णाणाजीवेहि कालो केवडिओ ? ११९. जहण्णेण एगसमओ । १२०. उक्कस्सेण आवलियाए असंखेज्जदिभागो । १२१. छण्णोकसायाणं जहण्णट्ठिदिविहत्तिएहि णाणाजीवेहि कालो केवडिओ ? १२२. जहण्णुक्कस्सेण अंतोमुहूत्तं ।*

अब नानाजीवोंकी अपेक्षा जघन्य स्थितिविभक्तिका काल कहते हैं—

चूर्णिसू०—जघन्य स्थितिविभक्ति प्रकृत है । मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, अप्रत्याख्याना-वरणादि वारह कपाय और तीनों वेद, इन प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिविभक्तिका काल नाना-जीवोंकी अपेक्षा कितना है ? जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल संख्यात समय है ॥ ११४-११७ ॥

विशेषार्थ—इसका स्पष्टीकरण यह है कि इनकी द्विसमयकालवाली जघन्य निपेक स्थितिमेंसे एक समयप्रमाणकाल ही प्रकृत है और इसका भी कारण यह है कि द्वितीय समय-में ही इन विवक्षित प्रकृतियोंका निर्मूल विनाश पाया जाता है । इन्हीं उक्त प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिविभक्तिका उत्कृष्ट काल संख्यात समय है, क्योंकि, मनुष्यपर्याप्तरागिसे विभिन्न समयोंमें जघन्य स्थितिको प्राप्त होनेवाले नाना जीव संख्यात पाये जाते हैं ।

चूर्णिसू०—सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धी चारों कपाय, इन प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिविभक्तिका काल नानाजीवोंकी अपेक्षा कितना है ? जघन्यकाल एक समय है । क्योंकि, दोसमय-कालवाली एक निपेकस्थितिका द्वितीय समयमें परस्वरूपसे परिणमन पाया जाता है । इन्हीं पांचों प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिविभक्तिका उत्कृष्टकाल आवलीका असंख्यातवाँ भाग है ॥ ११८-१२० ॥

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना करनेवाले और अन-न्तानुवन्धी-कपायचतुष्ककी विसंयोजना करनेवाले पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण जीवोंके आवलीके असंख्यातवे भागमात्र उपक्रमणकांडकोसे यहाँपर एक कांडकके उत्कृष्ट कालका ग्रहण किया गया है ।

चूर्णिसू०—हास्य आदि छह नोकपायोंकी जघन्य स्थितिविभक्तिका काल नानाजीवोंकी अपेक्षा कितना है ? इनका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है । क्योंकि, यहाँपर चरम स्थितिकाण्डकसम्बन्धी उत्कीरणाकालका ग्रहण किया गया है ॥ १२१-१२२ ॥

* ओघम्मि छण्णोकसायाण जहण्णट्ठिदिकालो जहण्णुक्कस्सेण चुण्णिसुत्तम्मि वप्पदेवाइरियलिहिदुच्चा-
रणाए च अतोमुहूत्तमिदि भणिदो । अग्हेहि लिहिदुच्चारणाए पुण जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण सखेजा
समया त्ति पलुविदा, कालपहाणत्ते विवक्खिए तहोवलभादो । तेण छण्णोकसायाणमोघत्त ण विरज्जदो ।

१२३. णाणाजीवेहि अंतरं । १२४. मच्चपनर्डीणमुत्तम्याद्विदिविहिनियाणमंतरं
केवचिरं कालादां होदि ? १२५. जहण्णेण एगसमथो । १२६. उअस्सेण अंगुलस्य
असंखेज्जदिभागो । १२७. एत्तो जहण्णयंतरं । १२८. भिच्छन-सम्पत्त-अट्टकपाय-
छण्णोकसायाणं जहण्णद्विदिविहत्तिअंतरं जहण्णेण एगसमथो । १२९. उअस्सेण छम्पामा
१३०. सम्पामिच्छत्त-अणंताणुवंधीणं जहण्णद्विदिविहत्तिअंतरं जहण्णेण एगसमथो ।
१३१. उअस्सेण चउवीममहोरत्त मादिरेसो । १३२. निणं संज्वलण-पुग्गिनेदाणं जहण्णेण
एगसमथो । १३३. उअस्सेण वसं मादिरेसं । १३४. लोभसंज्वलणस्य जहण्णद्विदिवि-
अंतरं जहण्णेण एगसमथो । १३५. उअस्सेण छम्पामा । १३६. उअस्सेण-अणुवंधीणं

चूर्णिसू०—अत्र नानार्जावोकी अपेक्ष्य स्थितिविभक्तिरा अन्तर कालं है । सर्वसो-
प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिकालोका अन्तरकाल स्थितता है ? जघन्यकाल एक समय है
और उत्कृष्टकाल आवर्तीके असंख्यातवे भाग प्रमाण है ॥१२३-१२६॥

विशेषार्थ—उत्कृष्ट स्थितिविभक्तियुक्त विद्यमान सर्वजीवोंके अनुकृष्ट स्थितिविभक्तिके साथ
एक समय रहकर तृतीय समयमें उत्कृष्ट स्थितिविभक्तियुक्त परिणत होनेपर उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिरा
एक समय-प्रमाण अन्तर पाया जाता है । मोलकर्मकी सर्वा प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति-
विभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवे भाग काल-प्रमाण है । इसका कारण यह है
कि जब एक स्थितिका उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिकाल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण पाया जाता है, तो संग्रहण
कोडाकोडी सागरोपम-प्रमित स्थितियोंका कितना काल होगा, उस प्रकार वैराजिक करनेपर
अंगुलके असंख्यातवे भाग-प्रमाण अन्तरकाल उपलब्ध होता है ।

चूर्णिसू०—अत्र जघन्य स्थितिसत्त्वविभक्तिका अन्तर कहते हैं । भिव्यात्व, मन्यस्त्व,
अप्रत्याख्यानावरणादि आठ कपाय और हान्यादि छह नोकपाय, इन प्रकृतियोंकी जघन्य
स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तरकाल एक समय है । क्योंकि, विवक्षित समयमें जघन्य स्थितिको
करके तदनन्तर द्वितीय समयमें अन्तरको प्राप्त होकर पुनः तृतीय समयमें अन्य जीवोंके
जघन्य स्थितिको प्राप्त होनेपर एक समय-प्रमाण अन्तर पाया जाता है । उक्त प्रकृतियोंका
उत्कृष्ट अन्तर छह मास है, क्योंकि, क्षपक जीवोंका इसमें अधिक अन्तर पाया नहीं
जाता है ॥१२७-१२९॥

चूर्णिसू०—सम्यगिभध्यात्व और अनन्तानुबन्धी-रूपायचतुष्क, इन प्रकृतियोंकी जघन्य
स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ अधिक चौबीस
दिन-रात्रि है । क्रोध, मान और माया ये तीन संज्वलनकपाय तथा पुरुषवेद, इन प्रकृतियोंकी
जघन्य स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ अधिक
वर्ष-प्रमाण है । लोभसंज्वलनकपायकी जघन्य स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तरकाल एक समय
और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह मास है । लोभवेद और नपुंसकवेद, इन दोनोंकी जघन्य स्थिति-
विभक्तिका जघन्य अन्तरकाल एक समय, तथा उत्कृष्ट अन्तरकाल संख्यात वर्ष है । इसका

जहण्णट्टिदिअंतरं जहण्णेण एगसमओ । १३७. उक्कस्सेण संखेज्जाणि वस्साणि । १३८. णिरयगईए सम्माभिच्छत्त-अणंताणुबंधीणं जहण्णट्टिदिअंतरं जहण्णेण एगसमओ । १३९. उक्कस्सं चउवीसमहोरत्ते सादिरेगे । १४०. सेसाणि जहा उदीरणा तथा णेदच्चाणि । १४१. सण्णियासो । १४२. मिच्छत्तस्स उक्कस्सियाए ट्टिदीए जो विहत्तिओ सो सम्पत्त-सम्माभिच्छत्ताणं सिया कम्मंसियो सिया अक्कम्मंसियो । १४३. जदि कम्मंसियो णियमा अणुक्कस्सा । १४४. उक्कस्सादो अणुक्कस्सा अंतोमुहत्तूणमादिं कादूण जाव एगा ट्टिदि त्ति ।

कारण यह है कि अप्रगस्तवेदके उदयसे क्षपक श्रेणी पर चढ़नेवाले जीवोंका बहुलतासे पाया जाना संभव नहीं है ॥ १३०-१३७ ॥

चूर्णिसू०—नरकगतिमे सम्यग्मिध्यात्व और चारो अनन्तानुबन्धी कपायोकी जघन्य स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर काल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ अधिक चौबीस दिन-रात्रि है । जेप प्रकृतियोंका अन्तरकाल जैसा उदीरणामे कहा है, उस प्रकारसे जानना चाहिए ॥ १३८-१४० ॥

चूर्णिसू०—अब स्थितिविभक्तिसम्बन्धी सन्निकर्ष कहते हैं । जो जीव मिध्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिकी विभक्तिवाला है वह सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्व, इन दोनों प्रकृतियोंका कदाचिन् सत्त्ववाला होता है और कदाचिन् असत्त्ववाला होता है ॥ १४१-१४२ ॥

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि यदि अनादिमिध्यादृष्टि अथवा सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेलना किया हुआ सादिमिध्यादृष्टि जीव मिध्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिको बाँधता है, तो वह सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्व, इन दोनों प्रकृतियोंकी सत्तासे रहित होता है । किन्तु जो सादिमिध्यादृष्टि है और जिसने इन दोनों प्रकृतियोंके सत्त्वकी उद्वेलना नहीं की है, वह यदि मिध्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिको बाँधता है, तो वह सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्व, इन दोनों प्रकृतियोंकी सत्तावाला होता है ।

चूर्णिसू०—यदि उपर्युक्त जीव उक्त दोनों प्रकृतियोंकी सत्तावाला होता है, तो नियमसे अनुत्कृष्ट स्थितिकी सत्तावाला होता है ॥ १४३ ॥

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति वेदकसम्यग्दृष्टि जीवके वेदकसम्यक्त्व उत्पन्न करनेके प्रथम समयमे ही पाई जाती है, इससे उसका मिध्यादृष्टि जीवके पाया जाना असंभव है । अतएव मिध्यात्वप्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धकालमे सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी स्थितिसत्ता नियमसे अनुत्कृष्ट ही होती है ।

चूर्णिसू०—वह अनुत्कृष्ट स्थिति-सत्त्व उत्कृष्ट स्थितिमेसे एक अन्तर्मुहूर्त कमको आदि करके एक स्थिति तकके प्रमाणवाला होता है ॥ १४४ ॥

१४५. सोलसकसायाणं किमुकस्सा अणुकस्सा ? १४६. उवस्सा वा अणुकस्सा वा । १४७. उकस्सादो अणुकस्सा समयुणमादिं कादूण पण्णित्थमस्स असंखेज्जदिभागेणूणा त्ति । १४८ इन्धि-पुग्गिन्वेद-हम्म-ग्दीणं णिवमा अणुकस्सा । १४९, उकस्सादो अणुकस्सा अंतोमुहुत्तणमादिं कादूण जाय अंतोकोडाकोटि त्ति । १५०. णवुंसयवेद-अरदि-सोग-मय दुगुंठाणं विहत्ती किमुकस्सा किमणुकस्सा ? १५१. उकस्सा वा अणुकरसा वा ।

चूर्णिसू०—मिथ्यात्वकर्मका उत्कृष्ट स्थितिवन्धवाले जीवके अनन्तानुबन्धी आदि सोलह कपायोका स्थितिसत्त्व क्या उत्कृष्ट होता है अथवा क्या अनुत्कृष्ट होता है ? उत्कृष्ट भी होता है और अनुत्कृष्ट भी होता है ॥१४५-१४६॥

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि यदि मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिके बाधने समय सोलह कपायोका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध हो, तो स्थितिसत्त्व उत्कृष्ट होगा । और यदि उत्कृष्ट स्थितिवन्ध न हो तो स्थितिसत्त्व अनुत्कृष्ट होगा ।

चूर्णिसू०—वह अनुत्कृष्ट स्थितिसत्त्व उत्कृष्ट स्थितिमें एक समय कमको आदि करके पर्योपमके असंख्यातवें भागमें कम स्थिति तकके प्रमाणवाला होता है ॥१४७॥

विशेषार्थ—मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिके बाधनेवाले जीवके सोलह कपायोका अनुत्कृष्ट स्थितिवन्ध अधिकसे अधिक एकसमय कम चालीस कोडाकोडी सागरोपम होता है । पुनः इससे नीचे दोसमय कम, तीन समय कम, चार समय कम, इस प्रकारसे घटता हुआ एक समय-हीन अत्राधाकांडकसे कम चालीस कोडाकोडी सागरोपम तकका क्रममें कम अनुत्कृष्ट स्थितिवन्ध होता है । एक अत्राधाकांडका प्रमाण पर्योपमका असंख्यातवों भाग होता है । इससे नीचे उक्त मिथ्यादृष्टि जीवके सोलह कपायोका अनुत्कृष्ट स्थितिवन्ध संभव नहीं है ।

चूर्णिसू०—मिथ्यात्वकर्मका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध करनेवाले जीवके स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य और रति, इन चार प्रकृतियोंका स्थितिसत्त्व नियमसे उत्कृष्ट होता है ॥१४८॥

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि मिथ्यात्व वा अनन्तानुबन्धी आदि सोलह कपायोका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होते समय इन चारों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध नहीं होता है, क्योंकि, ये प्रशस्तरूप है ।

चूर्णिसू०—वह अनुत्कृष्ट स्थितिसत्त्व उत्कृष्टस्थितियोंसे एक अन्तर्मुहूर्त कमको आदि करके अन्तःकोडाकोडी सागरोपम तकके प्रमाणवाला होता है ॥१४९॥

चूर्णिसू०—मिथ्यात्वकर्मका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध करनेवाले जीवके नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा इन पांच प्रकृतियोंकी स्थितिसत्त्वविभक्ति क्या उत्कृष्ट होती है, अथवा क्या अनुत्कृष्ट होती है ? उत्कृष्ट भी होती है और अनुत्कृष्ट भी होती है ॥१५०-१५१॥

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिके बाधते समय यदि सोलह कपायोका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध नहीं होता है, तो इन नपुंसकवेदादि पांचों नोकपायोका

१५२. उक्कस्सादो अणुक्कस्सा समऊणमादिं कादूण जाव वीससागरोवमकोडा-
कोडीओ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण ऊणाओ त्ति । १५३. सम्पत्तस्स उक्कस्स-
ट्टिदिविहत्तियस्स मिच्छत्तस्स ट्टिदिविहत्ती किमुक्कस्सा किमणुक्कस्सा ? १५४.
णियमा अणुक्कस्सा । १५५. उक्कस्सादो अणुक्कस्सा अंतोमुहुत्तूणा । १५६ णत्थि
अण्णो विग्रग्गो । १५७. सम्मामिच्छत्तट्टिदिविहत्ती किमुक्कस्सा किमणुक्कस्सा ?

भी उत्कृष्ट स्थितिसत्त्व नहीं होता है, क्योंकि, सोलह कपायोसे ही इन पांचो नोकपायोके उत्कृष्ट स्थितिसत्त्वकी उत्पत्ति होती है। तथा मिथ्यात्व और सोलह कपायोके उत्कृष्ट स्थितिसत्त्व होने पर इन नपुंसकवेदादि पांचो नोकपायोका उत्कृष्ट स्थितिसत्त्व कदाचित् होता है और कदाचित् नहीं भी होता है। इसका कारण यह है कि वंधावलीके भीतर बंधनेवाली कपायोकी उत्कृष्ट स्थितिका संक्रमण नहीं होता है, किन्तु वंधावलीके अतिक्रान्त होने पर कपायोकी बंधी हुई उत्कृष्ट स्थितिका नपुंसकवेदादिरूपसे संक्रमण होता है। उस अवस्थामे मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिके साथ इन प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति होती है।

चूर्णिसू०—उन नपुंसकवेदादि पांचो नोकपायोकी अनुत्कृष्ट स्थितिविभक्ति उत्कृष्ट स्थितिमेंसे एक समय कमसे लगाकर पल्योपमके असंख्यातवे भागसे कम वीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम तकके प्रमाणवाली होती है ॥१५२॥

चूर्णिसू०—सम्यक्त्वप्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति करनेवाले जीवके मिथ्यात्वकी स्थितिविभक्ति क्या उत्कृष्ट होती है, अथवा अनुत्कृष्ट होती है ? नियमसे अनुत्कृष्ट होती है ॥१५३-१५४॥

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि सम्यग्दृष्टि जीवके मिथ्यात्वका बन्ध नहीं होता है अतएव उसके उत्कृष्ट स्थितिसत्त्वका पाया जाना असंभव है। और प्रथम समयवर्ती वेदक-सम्यग्दृष्टिको छोड़कर अन्य सम्यग्दृष्टि जीवमें सम्यक्त्वप्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति होती नहीं है, क्योंकि, अप्रतिग्रहरूप सम्यक्त्वकर्मवाले मिथ्यादृष्टि जीवमें मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिका सम्यक्त्वप्रकृतिमें संक्रमण हो नहीं सकता।

चूर्णिसू०—वह मिथ्यात्वकी अनुत्कृष्ट स्थितिविभक्ति उत्कृष्ट स्थितिमेंसे एक अन्तर्मुहूर्तसे कम अपनी स्थितिप्रमाण होती है। इसमें अन्य कोई विकल्प नहीं है ॥१५५-१५६॥

विशेषार्थ—इसका अभिप्राय यह है कि सम्यक्त्वप्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितिसत्त्व होने पर जैसे अन्य कर्मोंकी स्थितिविभक्तिके अनेक विकल्प या भेद पाये जाते हैं, उस प्रकारसे मिथ्यात्वकी अनुत्कृष्ट स्थितिविभक्तिके अनेक भेद नहीं पाये जाते हैं। यदि ऐसा न माना जाय, तो सम्यक्त्वप्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिके एक-विकल्पता बन नहीं सकती है।

चूर्णिसू०—सम्यक्त्वप्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति करनेवाले जीवके सम्यग्मिथ्यात्वकी स्थितिविभक्ति क्या उत्कृष्ट होती है, अथवा क्या अनुत्कृष्ट होती है ? नियमसे उत्कृष्ट होती है ॥१५७-१५८॥

१५८. णियमा उक्करसा । १५९ सोलसकसाय-णवणोक्कसायाणं द्विदिविहत्ती किमुक्कसा अणुक्कसा ? १६०. णियमा अणुक्कसा । १६१ उक्कसादो अणुक्कसा अंतोमुहुत्तूणमादिं कादूण जाव पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेणूणा त्ति । १६२. एवं सम्मामिच्छत्तस्स वि । १६३. जहा मिच्छत्तस्स, तथा सोलसकसायाणं । १६४. इत्थिवेदस्स उक्कस्स-द्विदिविहत्तियस्स मिच्छत्तस्स द्विदिविहत्ती किमुक्कसा, अणुक्कसा ? १६५. णियमा अणुक्कसा । १६६. उक्कसादो अणुक्कसा समज्जणमादिं कादूण जाव पलिदोवमस्स

विशेषार्थ- इसका कारण यह है कि अन्तर्मुहूर्तसे कम सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपम-प्रमाण मिथ्यात्वकी स्थितिका प्रथमसमयवर्ती वेदकसम्यग्दृष्टि जीवमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वरूपसे एक साथ सक्रमण देखा जाता है ।

चूर्णिसू०-सम्यक्त्वप्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति करनेवाले जीवके सोलह कपायों और नव नोकपायोंकी स्थितिविभक्ति क्या उत्कृष्ट होती है, अथवा क्या अनुत्कृष्ट होती है ? नियमसे अनुत्कृष्ट होती है ॥ १५९-१६० ॥

विशेषार्थ- इसका कारण यह है कि सम्यक्त्वप्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति करनेवाले प्रथमसमयवर्ती वेदकसम्यग्दृष्टि जीवमें सोलह कपायों और नव नोकपायोंके उत्कृष्ट स्थितिवंधके योग्य तीव्रसंक्लेशसे सहित मिथ्यात्वप्रकृतिका उदय नहीं पाया जाता ।

चूर्णिसू०-वह अनुत्कृष्ट स्थितिसत्त्व उत्कृष्ट स्थितिसे एक अन्तर्मुहूर्त कमसे लगाकर पल्योपमके असंख्यातवे भागसे कम अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाणवाला होता है ॥ १६१ ॥

विशेषार्थ- इसका कारण यह है कि एक समय-हीन एक अवाधाकांडकसे कम चालीस कोड़ाकोड़ी सागरोपमसे नीचे उक्त जीवके सोलह कपाय और नव नोकपायोंका स्थितिसत्त्व पाया नहीं जाता ।

चूर्णिसू०-जिस प्रकार सम्यक्त्वप्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका आश्रय लेकर उसके साथ शेष प्रकृतियोंकी स्थितिविभक्तियोंका सन्निकर्ष किया गया है, उसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिको निरुद्ध कर शेष कर्म-प्रकृतियोंकी स्थितियोंका सन्निकर्ष करना चाहिए । क्योंकि, दोनोंके सन्निकर्षमें कोई भेद नहीं है । तथा जिस प्रकार मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिको निरुद्ध कर मोहकी शेष प्रकृतियोंकी स्थितिविभक्तिका सन्निकर्ष किया है, उसी प्रकार पृथक् पृथक् सोलह कपायोंकी उत्कृष्ट स्थितिको निरुद्ध कर शेष मोह-प्रकृतियोंकी स्थितियोंका सन्निकर्ष करना चाहिए ॥ १६२-१६३ ॥

चूर्णिसू०-स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति करनेवाले जीवके मिथ्यात्वकी स्थितिविभक्ति क्या उत्कृष्ट होती है, अथवा अनुत्कृष्ट होती है ? नियमसे अनुत्कृष्ट होती है । क्योंकि स्त्रीवेदके बंधकालमें मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिका बंध नहीं होता है । वह अनुत्कृष्ट स्थिति सत्त्व उत्कृष्ट स्थितिवंधसे एक समय कमको आदि करके पल्योपमके असंख्यातवे भागसे कम अपने उत्कृष्ट स्थिति-प्रमाणवाला होता है । इसका कारण यह है कि एक आवाधा-

असंखेज्जदिभागेणूणा त्ति । १६७. सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं द्विदिविहत्ती किमुक्कस्सा, अणुक्कस्सा ? १६८. णियमा अणुक्कस्सा । १६९. उक्कस्सादो अणुक्कस्सा अंतोमुहुत्तूणमादिं कादूण जाव एसा द्विदि त्ति । १७०. णवरि चरिमुव्वेह्णणकंडयचरिमफालीए उणा त्ति । १७१. सोलसकसायाणं द्विदिविहत्ती किमुक्कस्सा, अणुक्कस्सा ? १७२. णियमा अणुक्कस्सा । १७३. उक्कस्सादो अणुक्कस्सा समउणमादिं कादूण जाव आवलिउणा त्ति । १७४. पुरिसवेदस्स द्विदिविहत्ती किमुक्कस्सा अणुक्कस्सा ? १७५. णियमा अणुक्कस्सा । १७६. उक्कस्सादो अणुक्कस्सा अंतोमुहुत्तूणमादिं कादूण जाव अंतोकोडाकोडि त्ति । १७७. हस्स-रदीणं द्विदिविहत्ती किमुक्कस्सा अणुक्कस्सा ? १७८. उक्कस्सा वा अणुक्कस्सा

कांडकसे नीचे उक्त जीवके मिथ्यात्वकी अनुत्कृष्ट स्थिति संभव नहीं है ॥ १६४-१६६ ॥

चूर्णिसू०—स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति करनेवाले जीवके सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दो प्रकृतियोंकी स्थितिविभक्ति क्या उत्कृष्ट होती है, अथवा अनुत्कृष्ट होती है ? नियमसे अनुत्कृष्ट होती है ॥ १६७-१६८ ॥

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि मिथ्यादृष्टि जीवमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिका अभाव होता है और मिथ्यादृष्टि जीवको छोड़कर सम्यग्दृष्टि जीवमें स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति होती नहीं है, क्योंकि, वहांपर उसके वंधका अभाव है ।

चूर्णिसू०—वह अनुत्कृष्ट स्थितिविभक्ति उत्कृष्ट स्थितिसे एक अन्तर्मुहूर्त कमसे लगाकर एक स्थिति तकके प्रमाणवाली होती है । वह केवल चरम उद्वेलनाकांडककी चरम फालीसे कम होती है, ऐसा विशेष जानना चाहिए । स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति करनेवाले जीवके अनन्तानुबन्धी आदि सोलह कपायोंकी स्थितिविभक्ति क्या उत्कृष्ट होती है, अथवा अनुत्कृष्ट होती है ? नियमसे अनुत्कृष्ट होती है । क्योंकि, कपायोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धकालमें स्त्रीवेदके वन्धका अभाव है । वह अनुत्कृष्ट स्थितिविभक्ति उत्कृष्ट स्थितिसे एक समय कमसे लगाकर एक आवली कम तकके प्रमाणवाली होती है । क्योंकि, इसके ऊपर स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका होना असम्भव है ॥ १६९-१७३ ॥

चूर्णिसू०—स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति करनेवाले जीवके पुरुषवेदकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति क्या उत्कृष्ट होती है, अथवा अनुत्कृष्ट होती है ? नियमसे अनुत्कृष्ट होती है । इसका कारण यह है कि स्त्रीवेदके वन्धकालमें शेष वेदोंके वन्धका अभाव है । वह अनुत्कृष्ट स्थितिविभक्ति उत्कृष्ट स्थितिसे एक अन्तर्मुहूर्त कमसे लगाकर अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरूपम तकके प्रमाणवाली होती है ॥ १७४-१७६ ॥

चूर्णिसू०—स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति करनेवाले जीवके हास्य और रति, इन दो प्रकृतियोंकी स्थितिविभक्ति क्या उत्कृष्ट होती है, अथवा अनुत्कृष्ट होती है ? उत्कृष्ट भी होती है और अनुत्कृष्ट भी होती है ॥ १७७-१७८ ॥

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि यदि स्त्रीवेदके वन्धकालमें हास्य और रति

वा । १७९. उक्कस्सादो अणुक्कस्सा समउणमादिं कादूण जाव अंतोकोडाकोडि ति ।
 १८०. अरदि-सोगाणं द्विदिविहत्ती किमुक्कस्सा, अणुक्कस्सा ? १८१. उक्कस्सा वा
 अणुक्कस्सा वा । १८२. उक्कस्सादो अणुक्कस्सा समउणमादिं कादूण जाव वीसं
 सागरोपमकोडाकोडीओ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेणूणाओ ति । १८३. एवं
 णवुंसयवेदस्स । १८४. णवरि णियमा अणुक्कस्सा । १८५. भय-दुगुंछाणं द्विदिविहत्ती
 किमुक्कस्सा, अणुक्कस्सा ? १८६. णियमा उक्कस्सा । १८७. जहा इत्थिवेदेण, तथा
 सेसेहि कम्मोहि । १८८. णवरि विसेसो जाणिद्वो ।

प्रकृतिका बन्ध होता है, तो इन दोनों प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति होती है और यदि
 बन्ध नहीं होता है, तो अनुकृष्ट स्थितिविभक्ति होती है ।

चूर्णिसू०—अनुकृष्ट स्थितिविभक्ति उत्कृष्ट स्थितिमेसे एक समय कमसे लगाकर
 अन्तःकोडाकोड़ी सागरोपम तकके प्रमाणवाली होती है । स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति
 करनेवाले जीवके अरति और शोक, इन दो प्रकृतियोंकी स्थितिविभक्ति क्या उत्कृष्ट होती है,
 अथवा अनुकृष्ट होती है ? उत्कृष्ट भी होती है, और अनुकृष्ट भी होती है ॥ १७९-१८१ ॥

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि यदि स्त्रीवेदके बन्धकालमे अरति और शोक
 प्रकृतिका बन्ध हो, तो उनकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति होगी, अन्यथा अनुकृष्ट स्थितिविभक्ति होगी ।

चूर्णिसू०—अरति और शोक, इनकी अनुकृष्ट स्थितिविभक्ति उत्कृष्ट स्थितिमेसे
 एक समय कमसे लगाकर पल्योपमके असंख्यातवे भागसे कम वीस कोडाकोड़ी सागरोपम
 तकके प्रमाणवाली होती है ॥ १८२ ॥

चूर्णिसू०—जिस प्रकार स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिसे निरुद्ध अरति और शोक,
 इन दो प्रकृतियोंकी स्थितिविभक्तिकी प्ररूपणा की है, उसी प्रकार नपुंसकवेदकी भी प्ररूपणा
 जानना चाहिए । केवल विशेषता यह है कि नपुंसकवेदकी स्थितिविभक्ति नियमसे अनुकृष्ट
 होती है । इसका कारण यह है कि स्त्रीवेदके साथ नपुंसकवेदका बन्ध नहीं होता
 है ॥ १८३-१८४ ॥

चूर्णिसू०—स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति करनेवाले जीवके भय और जुगुप्सा, इन
 दो प्रकृतियोंकी स्थितिविभक्ति क्या उत्कृष्ट होती है, अथवा अनुकृष्ट होती है ? नियमसे
 उत्कृष्ट होती है । इसका कारण यह है कि जिस कालमे स्त्रीवेदका बन्ध होता है, उस कालमे
 भय और जुगुप्सा प्रकृतिका बन्ध नियमसे होता है ॥ १८५-१८६ ॥

चूर्णिसू०—जिस प्रकार स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट स्थितिको निरुद्ध करके उसके साथ शेष
 कर्मोंकी स्थितिविभक्तिसम्बन्धी सन्निकर्षकी प्ररूपणा की है, उसी प्रकार हास्य, रति और
 पुरुषवेद, इन तीनकी शेष कर्मप्रकृतियोंके साथ भी सन्निकर्षकी प्ररूपणा जानना चाहिए ।
 किन्तु तद्गत विशेष ज्ञातव्य है ॥ १८७-१८८ ॥

विशेषार्थ—उक्त समर्पणसूत्रसे जिस अर्थ और तद्गत विशेषताकी सूचना की गई है,

१८९. णवुंसयवेदस्स उक्कस्सट्ठिदिविहत्तियस्स मिच्छत्तस्स ट्ठिदिविहत्ती किमु-
कस्सा अणुकस्सा ? १९०. उक्कस्सा वा अणुकस्सा वा । १९१. उक्कस्सादो अणुकस्सा

वह इस प्रकार है—पुरुषवेदको निरुद्ध करके शेष कर्मप्रकृतियोंके साथ सन्निकर्ष-प्ररूपणामे कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि, वह समस्त प्ररूपणा स्त्रीवेदकी सन्निकर्ष-प्ररूपणाके समान है । हास्य और रति, इन दो प्रकृतियोंको निरुद्ध करके सन्निकर्ष-प्ररूपणा करनेपर मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्सा, इन प्रकृतियोंके सन्निकर्ष-प्ररूपणाओमे भी स्त्रीवेदकी सन्निकर्ष-प्ररूपणासे कोई विशेषता नहीं है । किन्तु स्त्रीवेद और पुरुषवेदके सन्निकर्षमे कुछ विशेषता है, जो कि इस प्रकार है—हास्य और रति, इन दो प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके होनेपर स्त्री और पुरुषवेदकी स्थिति उत्कृष्ट भी होती है और अनुत्कृष्ट भी होती है । उत्कृष्ट स्थिति होनेका कारण तो यह है कि कपायोंकी उत्कृष्ट स्थितिके संक्रमित होनेपर हास्य, रति, स्त्रीवेद और पुरुषवेद, इन चारों ही कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थिति पाई जाती है । अनुत्कृष्ट स्थिति होनेका कारण यह है कि उत्कृष्ट स्थिति बन्धकर प्रतिनिवृत्त होनेके समयमे हास्य और रति, इन दोनोंके बँधते हुए भी स्त्रीवेद और पुरुषवेद, इन दोनोंके बन्धका अभाव हो जानेसे उनकी उत्कृष्ट स्थिति नहीं पाई जाती है । उक्त प्रकृतियोंकी यदि अनुत्कृष्ट स्थिति होती है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिमेसे एक अन्तर्मुहूर्त कमसे लगाकर अन्तःकोड़ाकोडी सागरोपम तकके प्रमाणवाली होती है । स्त्रीवेदके निरुद्ध करनेपर नपुंसकवेदकी नियमसे अनुत्कृष्ट स्थितिविभक्ति होती है, क्योंकि, स्त्रीवेदके बन्धकालमे नपुंसकवेदके बन्धका अभाव है । किन्तु हास्य और रति प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके निरुद्ध करनेपर नपुंसकवेदकी स्थिति कदाचित् उत्कृष्ट होती है, क्योंकि, हास्य और रतिके बन्धकालमे भी नपुंसकवेदका बन्ध पाया जाता है । कदाचित् अनुत्कृष्ट होती है, क्योंकि, कभी बन्धका अभाव होनेसे उसके एक समय कम आदिके रूपसे अनुत्कृष्ट स्थिति-सम्बन्धी विकल्प पाये जाते हैं । स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट स्थितिके साथ अरति और शोक, इन दोनों प्रकृतियोंकी कदाचित् उत्कृष्ट स्थिति होती है, क्योंकि स्त्रीवेदके साथ इन दोनों प्रकृतियोंके बँधनेके प्रति कोई विरोध नहीं है । कदाचित् अनुत्कृष्ट होती है, क्योंकि उत्कृष्ट बन्धके अनन्तर प्रतिनिवृत्त होनेके समयमे जब हास्य और रति, इन दोनोंका बन्ध होने लगता है, तब अरति और शोक प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिवन्ध न होनेसे अनुत्कृष्ट स्थिति-सम्बन्धी विकल्प पाये जाते हैं । किन्तु हास्य और रतिप्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिके निरुद्ध करनेपर अरति और शोक प्रकृतिकी स्थिति नियमसे अनुत्कृष्ट होती है, क्योंकि प्रतिनिवृत्त होनेके समयमे हास्य और रतिके बन्ध होने पर उनकी प्रतिपक्षी अरति और शोक प्रकृतिका बन्ध नहीं होता है । इस प्रकारकी यह विशेषता जानना चाहिए ।

चूर्णिसू०—नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट स्थिति-विभक्ति करनेवाले जीवके मिथ्यात्वकी स्थिति-विभक्ति क्या उत्कृष्ट होती है, अथवा अनुत्कृष्ट होती है ? उत्कृष्ट भी होती है और अनुत्कृष्ट भी होती है । इसका कारण यह है कि नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिके होनेपर यदि

समऊणमादिं कादूण जाव पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण ऊणा त्ति । १९२. सम्पत्त-
सम्पामिच्छत्ताणं च द्विदिविहत्ती किमुक्कस्सा अणुक्कस्सा ? १९३. णियमा अणुक्कस्सा ।
१९४. उक्कस्सादो अणुक्कस्सा अंतोमुहुत्तूणमादिं कादूण जाव एणा द्विदि त्ति । १९५.
णवरि चरिमुव्वेलणकंडयचरिमफालीए ऊणा । १९६. सोलसकसायाणं द्विदिविहत्ती
किमुक्कस्सा अणुक्कस्सा ? १९७. उक्कस्सा वा अणुक्कस्सा वा । १९८. उक्कस्सादो
अणुक्कस्सा समऊणमादिं कादूण जाव आवलिऊणा त्ति । १९९. इत्थि-पुगिसवेदाणं
द्विदिविहत्ती किमुक्कस्सा, अणुक्कस्सा ? २००. णियमा अणुक्कस्सा । २०१.
उक्कस्सादो अणुक्कस्सा अंतोमुहुत्तूणमादिं कादूण जाव अंतोकोडाकोडि त्ति । २०२.
हस्स-रदीणं द्विदिविहत्ती किमुक्कस्सा, अणुक्कस्सा ? २०३. उक्कस्सा वा अणुक्कस्सा

मिध्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध हो तो उत्कृष्ट होती है, अन्यथा अनुत्कृष्ट होती है । वह
अनुत्कृष्ट स्थिति उत्कृष्ट स्थितिमेसे एक समय कमको आदि करके पल्योपमके असंख्यातवें
भागसे कम तकके प्रमाणवाली होती है ॥ १८९-१९१ ॥

चूर्णिसू०-नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति करनेवाले जीवके सम्यक्त्व और
सम्यग्मिध्यात्व, इन दोनो प्रकृतियोंकी स्थितिविभक्ति क्या उत्कृष्ट होती है, अथवा अनुत्कृष्ट
होती है ? नियमसे अनुत्कृष्ट होती है । इसका कारण यह है कि नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट
स्थितिविभक्ति मिध्यादृष्टि जीवमे होती है और सम्यक्त्व तथा सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति-
विभक्ति प्रथमसमयवर्ती वेदकसम्यग्दृष्टि जीवके होती है । वह अनुत्कृष्ट स्थिति उत्कृष्ट
स्थितिमेसे एक अन्तुर्मुहूर्त कमसे लगाकर एक स्थिति तकके प्रमाणवाली होती है । किन्तु
वह चरम उद्वेलेनाकांडककी चरम फालीसे हीन होती है ॥ १९२-१९५ ॥

चूर्णिसू०-नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति करनेवाले जीवके अनन्तानुबन्धी
आदि सोलह कपायोंकी स्थितिविभक्ति क्या उत्कृष्ट होती है, अथवा अनुत्कृष्ट होती है ?
उत्कृष्ट भी होती है और अनुत्कृष्ट भी होती है । इसका कारण यह है कि यदि नपुंसकवेदकी
उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिके समय विवक्षित कपायोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध हो तो उत्कृष्ट होती है,
अन्यथा अनुत्कृष्ट होती है । वह अनुत्कृष्ट स्थिति उत्कृष्ट स्थितिमेसे एक समय कमसे लगाकर
एक आवली कम तकके प्रमाणवाली होती है । एक आवलीसे अधिक कम न होनेका कारण
यह है कि इससे ऊपर नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका होना असम्भव है ॥ १९६-१९८ ॥

चूर्णिसू०-नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति करनेवाले जीवके स्त्रीवेद और पुरुषवेद,
इन दोनोकी स्थितिविभक्ति क्या उत्कृष्ट होती है, अथवा अनुत्कृष्ट होती है ? नियमसे अनु-
त्कृष्ट होती है । क्योंकि, नपुंसकवेदके बन्धकालमे नियमसे स्त्रीवेद और पुरुषवेदका बन्ध नहीं
होता है । वह अनुत्कृष्ट स्थिति उत्कृष्ट स्थितिमेसे एक अन्तुर्मुहूर्त कमसे लगाकर अन्तःकोडा-
कोड़ी सागरोपम तकके प्रमाणवाली होती है ॥ १९९-२०१ ॥

चूर्णिसू०-नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति करनेवाले जीवके हास्य और रति, इन

वा । २०४. उक्कस्सादो अणुक्कस्सा समऊणमादिं कादूण जाव अंतोकोडाकोडि ति ।
 २०५. अरदि-सोगाणं द्विदिविहत्ती किमुक्कस्सा, अणुक्कस्सा ? २०६. उक्कस्सा वा
 अणुक्कस्सा वा । २०७. उक्कस्सादो अणुक्कस्सा समऊणमादिं कादूण जाव वीसं साग-
 रोवमकोडाकोडीओ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण ऊणाओ । २०८. भय-दुगुंछाणं
 द्विदिविहत्ती किमुक्कस्सा अणुक्कस्सा ? २०९. णियमा उक्कस्सा । २१०. एवमरदि-सोग-
 भय-दुगुंछाणं पि । २११. णवरि विसेसो जाणियव्वो

दो प्रकृतियोंकी स्थितिविभक्ति क्या उत्कृष्ट होती है, अथवा अनुत्कृष्ट होती है ? उत्कृष्ट भी होती है और अनुत्कृष्ट भी होती है । इसका कारण यह है कि नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट स्थिति-विभक्तिके होनेपर यदि हास्य और रतिप्रकृतिका बन्ध हो, तो उत्कृष्ट स्थिति पाई जाती है, और यदि उनका बन्ध नहीं हो, तो अनुत्कृष्ट स्थिति पाई जाती है । क्योंकि बन्धके नहीं होने पर हास्य और रतिप्रकृतिमें कपायस्थितिका संक्रमण नहीं होता है । वह अनुत्कृष्ट स्थिति उत्कृष्ट स्थितिमेंसे एक समय कमसे लगाकर अन्तःकोडाकोडी सागरोपम तक होती है ॥ २०२-२०४ ॥

चूर्णिसू०—नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति करनेवाले जीवके अरति और शोक, इन दो प्रकृतियोंकी स्थितिविभक्ति क्या उत्कृष्ट होती है, अथवा अनुत्कृष्ट होती है ? उत्कृष्ट भी होती है और अनुत्कृष्ट भी होती है । इसका कारण यह है कि नपुंसकवेदके बन्धकालमें अरति और शोक प्रकृति बन्धका बन्ध हो, तो उत्कृष्ट होती है, अन्यथा अनुत्कृष्ट स्थितिविभक्ति होती है । वह अनुत्कृष्ट स्थितिविभक्ति उत्कृष्ट स्थितिमेंसे एक समय कमसे लगाकर पल्योपमके असंख्यातवे भागसे कम वीस कोडाकोडी सागरोपम तक होती है ॥ २०५-२०७ ॥

चूर्णिसू०—नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति करनेवाले जीवके भय और जुगुप्सा, इन दो प्रकृतियोंकी स्थितिविभक्ति क्या उत्कृष्ट होती है, अथवा अनुत्कृष्ट होती है ? नियमसे उत्कृष्ट होती है, क्योंकि, ये प्रकृतियां ध्रुवबन्धी हैं ॥ २०८-२०९ ॥

चूर्णिसू०—जिस प्रकार नपुंसकवेदकी स्थितिविभक्तिका शेष सर्व मोह-प्रकृतियोंकी स्थितिविभक्तिके साथ सन्निकर्ष किया गया है, उसी प्रकार अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, इन चार प्रकृतियोंका भी स्थितिविभक्ति-सम्बन्धी सन्निकर्ष करना चाहिए । किन्तु उनमें जो थोड़ी सी विशेषता है, वह जानना चाहिए ॥ २१०-२११ ॥

त्रिशेषार्थ—इस समर्पणसूत्रसे जिस विशेषताकी सूचना की गई है, वह इस प्रकार है—अरति और शोकप्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिको निरुद्ध करके सन्निकर्षके कहनेपर मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति और सोलह कपायोंकी सन्निकर्षप्ररूपणा नपुंसकवेदके समान है, कोई विशेषता नहीं है । किन्तु स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट स्थिति भी होती है और अनुत्कृष्ट स्थिति भी होती है । वह अनुत्कृष्ट अपनी उत्कृष्ट स्थितिमेंसे एक समय कमसे लगाकर और कुछ आचार्योंके मतसे अन्तर्मुहूर्त कमसे लगाकर अन्तःकोडाकोडी सागरोपम तकके प्रमाणवाली होती है । इसी प्रकार पुरुषवेदकी स्थितिविभक्तिका सन्निकर्ष जानना चाहिए । नपुंसकवेदकी

२१२. जहण्णट्टिदिसण्णियासो । २१३. मिच्छत्तजहण्णट्टिदिसंतक्म्मियस्स अणंताणुवंधीणं णत्थि । २१४. सेसाणं कम्मणं विहत्ती किंजहण्णा अजहण्णा ? २१५. णियमा अजहण्णा २१६. जहण्णादो अजहण्णा [अ-] संखेज्जगुणव्वभहिया । २१७. मिच्छत्तेण णीदो सेसेहि वि अणुमग्गियव्वो ।

स्थितिविभक्तिका सन्निकर्ष भी इसी प्रकार है, केवल उसकी अनुत्कृष्ट स्थिति एक समय कमसे लगाकर पर्योपमके असंख्यातवे भागसे कम बीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम तकके प्रमाणवाली होती है । हास्य और रति, इन दो प्रकृतियोंकी स्थितिविभक्ति नियमसे अनुत्कृष्ट होती है । वह अपनी उत्कृष्ट स्थितिसे एक समय कमसे लगाकर अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरोपम तक होती है । भय और जुगुप्सा प्रकृतिकी स्थितिविभक्ति ध्रुववन्धी होनेके कारण नियमसे उत्कृष्ट होती है । भय और जुगुप्सा प्रकृतियोंकी स्थितिविभक्तिको निरुद्धकर सन्निकर्ष कहनेपर मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति, सोलह कपाय और तीनों वेदोंकी सन्निकर्ष-प्ररूपणा अरति-शोकके समान है । हास्य, रति, अरति और शोक इन चार प्रकृतियोंकी स्थितिविभक्ति-सम्बन्धी सन्निकर्ष प्ररूपणा नपुंसकवेदकी सन्निकर्षप्ररूपणाके समान है । इनकी मात्र ही विशेषता जानना चाहिए ।

चूर्णिसू०—अव जघन्य स्थितिविभक्ति-सम्बन्धी सन्निकर्ष कहते हैं—मिथ्यात्वप्रकृतिकी जघन्य स्थितिविभक्तिवाले जीवके अनन्तानुवन्धी चारो कपायोका सन्निकर्ष नहीं है, क्योंकि, मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिसत्त्व करनेके पूर्व ही अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना कर दी जानेसे उनके स्थितिसत्त्व पाये जानेका अभाव है ॥२१२—२१३॥

चूर्णिसू०—मिथ्यात्वप्रकृतिकी जघन्य स्थितिविभक्तिवाले जीवके अप्रत्याख्यानावरण आदि शेष समस्त मोहकर्मप्रकृतियोंकी स्थितिविभक्ति क्या जघन्य होती है, अथवा अजघन्य होती है ? नियमसे अजघन्य होती है । क्योंकि, ऊपर जाकर जघन्यस्थितिको प्राप्त होनेवाले जीवोंके यहाँपर जघन्य स्थितिके पाये जानेका विरोध है । वह अजघन्य स्थिति अपनी जघन्य स्थितिसे असख्यातगुणी अधिक प्रमाणवाली होती है ॥२१४—२१६॥

विशेषार्थ—इसका कारण यह है मिथ्यात्वकी दो समय-कालप्रमाण जघन्य स्थिति-के अवशेष रह जानेपर सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी पर्योपमके असंख्यातवे भाग-प्रमाण, तथा बारह कपाय और नव नोकपायोकी अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण अवशिष्ट स्थिति पाई जाती है ॥

चूर्णिसू०—जिस प्रकार मिथ्यात्वप्रकृतिकी जघन्य स्थितिके साथ शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिका सन्निकर्ष निरूपण किया है, उसी प्रकार शेष कर्मप्रकृतियोंके साथ भी जघन्यसन्निकर्ष अन्वेषण करना चाहिये, क्योंकि, उसमें कोई विशेषता नहीं है ॥२१७॥

अव चूर्णिकार इससे आगे स्थितिविभक्ति-सम्बन्धी अल्पबहुत्व अनुयोगद्वार कहनेके लिए प्रतिज्ञासूत्र कहते हैं—

[२१८. अप्पावहुअं] २१९. सव्वत्थोवा णवणोकसायाणमुक्कस्सट्ठिदिविहत्ती ।
 २२०. सोलसकसायाणमुक्कस्सट्ठिदिविहत्ती विसेसाहिया । २२१ सम्मामिच्छत्तस्स
 उक्कस्सट्ठिदिविहत्ती विसेसाहिया । २२२. सम्मत्तस्स उक्कस्सट्ठिदिविहत्ती विसेसाहिया ।
 २२३ मिच्छत्तस्स उक्कस्सट्ठिदिविहत्ती विसेसाहिया ।

२२४. णिरयगदीए सव्वत्थोवा इत्थिवेद-पुरिसवेदाणमुक्कस्सट्ठिदिविहत्ती ।
 २२५. सेसाणं णोकसायाणमुक्कस्सट्ठिदिविहत्ती विसेसाहिया । २२६. सोलसण्हं
 कसायाणमुक्कस्सट्ठिदिविहत्ती विसेसाहिया । २२७. सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्सट्ठिदि-

चूर्णिसू०—अव स्थितिविभक्ति-सम्बन्धी अल्पवहुत्व कहते हैं ॥२१८॥

विशेषार्थ—अल्पवहुत्व दो प्रकारका है—स्थिति—अल्पवहुत्व और जीव-अल्पवहुत्व ।
 जिसमें विवक्षित प्रकृतियोंकी स्थितिकाल-सम्बन्धी अल्प और बहुत्व का निरूपण किया जाता
 है, उसे स्थिति-अल्पवहुत्वानुगम कहते हैं और जिसमें विवक्षित प्रकृतियोंके सत्त्व आदिके
 धारक जीवोंकी संख्या-सम्बन्धी हीनाधिकताका निरूपण किया जाता है, उसे जीव-अल्प-
 वहुत्वानुगम कहते हैं । इन दोनोंमेंसे यहाँपर यतिवृषभाचार्य स्थिति-अल्पवहुत्व कहते हैं ।

चूर्णिसू०—हास्यादि नव नोकपायोंकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति आगे कहे जानेवाले
 सर्वपदोंकी अपेक्षा सबसे कम होती है । क्योंकि, उसका प्रमाण वन्धावलीसे कम चालीस
 कोड़ाकोड़ी सागरोपम है । वन्धावलीसे कम कहनेका यह कारण है कि वन्धकालमें कपायोंकी
 उत्कृष्ट स्थितिका नोकपायोंमें संक्रमण नहीं होता है । अनन्तानुबन्धी आदि सोलह कपायों
 की उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति नव नोकपायोंकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिसे विशेष अधिक है । विशेष
 अधिकताका प्रमाण वन्धावलीकाल मात्र है । सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति सोलह
 कपायोंकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिसे विशेष अधिक है । यहाँ विशेष अधिकताका प्रमाण अन्त-
 मुहूर्त कम तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम है । सम्यक्त्वप्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति सम्य-
 ग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिसे विशेष अधिक है । विशेष अधिकताका प्रमाण एक उदय-
 निपेकस्थितिमात्र है । मिध्यात्वकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति सम्यक्त्वप्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थिति-
 विभक्तिसे विशेष अधिक है । विशेष अधिकताका प्रमाण एक अन्तमुहूर्त है ॥२१९-२२३॥

चूर्णिसू०—नरकगतिमें स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति आगे कहे
 जानेवाले सर्वपदोंकी अपेक्षा सबसे कम है । इसका कारण यह है कि नरकगतिमें इन दोनों
 वेदोंके उदयका अभाव है, अतएव इनके उदयनिपेकोंका स्तिवुकसंक्रमणद्वारा नपुंसकवेदस्व-
 रूपसे परिणमन हो जाता है । जेप सात नोकपायोंकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति स्त्री और पुरुष-
 वेद की उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिसे विशेष अधिक है । विशेष अधिकताका प्रमाण एक उदय-
 निपेकमात्र है । सोलह कपायोंकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति सात नोकपायोंकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति-
 से विशेष अधिक है । विशेष अधिकताका प्रमाण वन्धावलीमात्र है । सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट
 स्थितिविभक्ति सोलह कपायोंकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिसे विशेष अधिक है । विशेष अधिकता

विहत्ती विसेसाहिया । २२८. सम्पत्तस्स उक्कस्सट्ठिदिविहत्ती विसेसाहिया । २२९.
मिच्छत्तस्स उक्कस्सट्ठिदिविहत्ती विसेसाहिया । २३० मेसासु गदीसु णेद्व्वो ।

का प्रमाण एक अन्तर्मुहूर्तसे कम तीस कौड़ाकौड़ी सागरोपम है । सम्यक्त्वप्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिसे विशेष अधिक है । विशेष अधिकता का प्रमाण एक उदयनिपेकमात्र है । मिथ्यात्वकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति सम्यक्त्वप्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिसे विशेष अधिक है । विशेष अधिकताका प्रमाण एक अन्तर्मुहूर्त है । जिस प्रकार नरकगतिमें मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिका अल्पबहुत्वानुगम क्रिया गया है, उसी प्रकार आर्षके अविरोधसे श्रेय गतियोंमें भी अल्पबहुत्वानुगम करना चाहिए ॥ २१९-२३० ॥

विशेषार्थ—चूर्णिसूत्रोंमें केवल उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति-सम्बन्धी अल्पबहुत्वका निरूपण किया गया है । जघन्य स्थितिविभक्ति-सम्बन्धी अल्पबहुत्वका नहीं । वह उच्चारणावृत्तिके अनुसार इस प्रकार है—सम्यक्त्वप्रकृति, र्त्सवेद, नपुंसकवेद, और लोभसंज्वलनकी जघन्य स्थितिविभक्ति सबसे कम होती है । इससे पुरुषवेदकी जघन्य स्थितिविभक्ति संख्यातगुणित है । मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, और अनन्तानुबन्धी आदि वारह कपायोंकी जघन्य स्थितिविभक्ति उपर्युक्तपदसे संख्यातगुणित है । इससे मायासंज्वलनकी जघन्य स्थितिविभक्ति संख्यातगुणित है । इससे मानसंज्वलनकी जघन्य स्थितिविभक्ति संख्यातगुणित है । इससे क्रोधसंज्वलनकी जघन्य स्थितिविभक्ति संख्यातगुणित है । इससे हास्य आदि छह नोकपायोंकी जघन्य स्थितिविभक्ति संख्यातगुणित होती है । किन्तु चिरन्तन व्याख्यानाचार्योंके मतसे इसमें कुछ भेद है । जो कि इस प्रकार है—सम्यक्त्वप्रकृतिकी जघन्य स्थितिविभक्ति सबसे कम है । इससे सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य स्थितिविभक्ति संख्यातगुणित है । इससे पुरुषवेदकी जघन्य स्थितिविभक्ति असंख्यातगुणित है । इससे र्त्सवेदकी जघन्य स्थितिविभक्ति विशेष अधिक है । इससे हास्य और रतिकी जघन्य स्थितिविभक्ति विशेष अधिक है । इससे नपुंसकवेदकी जघन्य स्थितिविभक्ति विशेष अधिक है । इससे अरति और शोककी जघन्य स्थितिविभक्ति विशेष अधिक है । इससे भय और जुगुप्साकी जघन्य स्थितिविभक्ति विशेष अधिक है । इससे अपत्याख्यानावरणादि वारह कपायोंकी जघन्य स्थितिविभक्ति विशेष अधिक है । इससे मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिविभक्ति अधिक है ।

इसी प्रकार चूर्णिसूत्रोंमें जीवअल्पबहुत्वानुगमका भी निरूपण नहीं किया गया है । जो कि जयधवला टीकाके अनुसार इस प्रकार है । उनमें पहले उत्कृष्ट जीव-अल्पबहुत्वको कहते हैं—सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दो प्रकृतियोंको छोड़कर शेष छद्मवीस मोहप्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति करनेवाले जीव सबसे कम होते हैं । इनसे इन्हीं प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट स्थितिविभक्ति करनेवाले जीव अनन्तगुणित होते हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनोंकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति करनेवाले जीव सबसे कम हैं । इनसे इन्हींकी अनुत्कृष्ट स्थितिविभक्ति

२३१. जे भुजगार-अप्पदर-अवड्ढिद-अवत्तव्वया तेसिमड्डपदं । २३२. जत्तियाओ अस्सि समए ढ्ढिदिविहत्तीओ उस्सकस्साविदे अणंतरविदिकं तेसमए अप्पदराओ बहुदर-विहत्तियो, एसो भुजगारविहत्तियो । २३३. ओसक्काविदे बहुदराओ विहत्तियो, एसो अप्पदरविहत्तियो । २३४. ओसक्काविदे तत्तियाओ चेष विहत्तियो, एसो अवड्ढिदविहत्तियो । २३५. अविहत्तियादो विहत्तियाओ एसो अवत्तव्वविहत्तियो । २३६. एदेण अड्डपदेण । २३७. सामिच्चं । २३८. मिच्छत्तस्स भुजगार-अप्पदर-अवड्ढिदविहत्तियो को करनेवाले जीव अमन्य्यातगुणित है । जवन्य जीव-अल्पवहुत्व की अपेक्षा सर्व मोहप्रकृतियोंकी जवन्य स्थितिविभक्तिवाले जीव सबसे कम है । इनमेसे छव्वीसप्रकृतियोंकी अजवन्य स्थितिविभक्ति करनेवाले जीव जवन्यविभक्तिवालोसे अनन्तगुणित है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी जवन्य स्थितिविभक्ति करनेवाले असंख्यातगुणित है । यह ओघकी अपेक्षा वर्णन किया गया है । आदेशकी अपेक्षा अल्पवहुत्वके लिए विशेष जिज्ञासुओको जयधवला टीका देखना चाहिये ।

चृणिंस्सु०—जो जीव भुजाकार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्यविभक्ति करनेवाले हैं, उनका यह अर्थपद है । अर्थात् अब इन चारों प्रकारकी विभक्तियोंका स्वरूप कहते हैं । इस वर्तमान समयमें जितनी स्थितिविभक्तियाँ अर्थात् स्थितिसम्बन्धी विकल्प है, उनके उत्कर्षण करनेपर अनन्तर-न्यतिक्रान्त अर्थात् तदन्तरवर्ती द्वितीय समयमें यदि वे अल्पतर स्थितिविकल्प बहुतरविभक्तिवाले हो जाते हैं, तो यह भुजाकारविभक्ति करनेवाला जीव है । अर्थात्, जो जीव वर्तमान समयमें जितने स्थिति-भेदोंका बन्ध कर रहा है, वही जीव यदि आगामी द्वितीय समयमें उन्हें बढ़ाकर बहुतसे स्थिति-भेदोंका बन्ध करने लगता है, तो वह जीव भुजाकार-विभक्ति करनेवाला कहलाता है । बहुत स्थितिविकल्पोंके अपकर्षण करनेपर जो अल्पतर स्थितियाँ बाँधने लगता है वह अल्पतरस्थितिविभक्तिक जीव है । अर्थात्, जो जीव अतीत समयमें जितनी स्थितियोंका बन्ध कर रहा था, वही जीव यदि उनका स्थितिकांडकवात अथवा अधःस्थितिगलनके द्वारा अपकर्षणकर वर्तमान समयमें कम स्थितियोंको बाँधने लगता है, तो वह अल्पतरविभक्ति करनेवाला कहलाता है । अपकर्षण अथवा उत्कर्षण करनेपर भी यदि उतनी अर्थात् पूर्व समयके जितनी ही स्थितियोंको बाँधता है, तो यह अवस्थित विभक्तिवाला कहलाता है । अविभक्तिकसे यदि विभक्तिक होता है तो यह अवक्तव्यविभक्तिक है । अर्थात् जो जीव पूर्वसमयमें विवक्षित प्रकृतिके बन्ध और सन्वसे रहित था, वह यदि वर्तमान समयमें उसका बन्धकर उसके सन्ववाला हो जाता है, तो वह जीव अवक्तव्यविभक्ति करनेवाला कहलाता है । इस अर्थपदके द्वारा अब स्वामित्व अनुयोगद्वारको कहने हैं—मिथ्यात्वकी भुजाकार, अल्पतर और अवस्थित विभक्तिको करनेवाला कौन जीव होता है ? कोई एक नारकी तिर्यच, मनुष्य अथवा देव होता है । यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि भुजाकार और अवस्थितविभक्ति मिथ्यादृष्टि जीवके ही होती है । किन्तु अल्पतर विभक्ति मिथ्यादृष्टिके

होदि ? २३९. अण्णदरो णेरइयो तिरिक्खो मणुस्सो देवो वा । २४०. अवत्तव्वो णत्थिः ॥
 २४१. सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणं भुजगार-अप्पदरविहत्तिओ को होदि ? २४२. अण्णदरो
 णेरइओ तिरिक्खो मणुस्सो देवो । २४३. अवट्ठिदविहत्तिओ को होदि ? २४४.
 पुव्वुप्पणादो सम्मत्तादो समयुत्तरमिच्छत्तेण से काले सम्मत्तं पडिवण्णो सो अवट्ठिद-
 विहत्तिओ । २४५. अवत्तव्वविहत्तिओ अण्णदरो । २४६. एवं सेसाणं कम्माणं णेदव्वं ।

भी होती है और सम्यग्दृष्टिके भी^१ । मिथ्यात्वकी अवक्तव्यविभक्ति नहीं होती है । इसका कारण यह है कि मिथ्यात्वकर्मके निःसत्त्व हो जानेपर पुनः उसके सत्त्व होनेका अभाव है ॥२३१-२४०॥

चूर्णिसू०-सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दो प्रकृतियोंकी भुजाकार और अल्पतर विभक्तिको करनेवाला कौन जीव होता है ? कोई एक नारकी, तिर्यच, मनुष्य अथवा देव होता है । यहाँ इतना विशेष है कि इन प्रकृतियोंकी भुजाकारविभक्ति सम्यग्दृष्टि जीवोंके ही होती है । किन्तु अल्पतरविभक्ति सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि जीवके होती हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दो प्रकृतियोंकी अवस्थितविभक्ति करनेवाला कौन जीव होता है ? पूर्वमे उत्पन्न सम्यक्त्वप्रकृतिसे एक समय अधिक मिथ्यात्वकी स्थितिके साथ जो जीव अनन्तर समयमे सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ है, वह अवस्थित विभक्तिवाला होता है ॥२४१-२४४॥

विशेषार्थ-जिस जीवने पहले कभी सम्यक्त्वको उत्पन्न किया है और परिणामोके निमित्तसे गिरकर मिथ्यात्वमे आ गया है उसके विवक्षित समयमे सम्यक्त्वप्रकृतिका जितना स्थितिसत्त्व है, उससे उसीकी मिथ्यात्वप्रकृतिका स्थितिसत्त्व यदि एक समय अधिक हो और वह जीव पुनः तदनन्तरवर्ती द्वितीय समयमे ही सम्यक्त्वको प्राप्त हो, तो उसके सम्यक्त्व ग्रहण करनेके प्रथम समयमे सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनों प्रकृतियोंकी अवस्थित-विभक्ति होती है, क्योंकि, चरम समयवर्ती मिथ्यादृष्टिके स्थितिसत्त्वसे प्रथम समयवर्ती सम्यग्दृष्टिके सम्यक्त्वप्रकृतिका स्थितिसत्त्व समान पाया जाता है ।

चूर्णिसू०-सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनों प्रकृतियोंकी अवक्तव्यविभक्ति-करनेवाला कोई एक जीव होता है ॥ २४५ ॥

विशेषार्थ-इसका कारण यह है कि किसी भी गतिवाले, किसी भी कषायके उदय-वाले, किसी भी अवगाहनाको धारण करनेवाले, किसी एक लेश्यासे संयुक्त तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनों प्रकृतियोंकी सत्तासे रहित ऐसे मिथ्यादृष्टि जीवके प्रथमसम्यक्त्वके ग्रहण करनेपर अवक्तव्यभाव पाया जाता है ।

चूर्णिसू०-इसी प्रकार शेष सोलह कषाय और नव नोकषाय, इन पच्चीस कर्मोंकी

✧ ताम्रपत्रवाली मुद्रित प्रतिमें इसे चूर्णिसूत्र न मानकर जयधवला टीकाका अंग बना दिया है ।

(देखो पृष्ठ ३९६ पंक्ति १७)

१ भुजगार-अवट्ठिदविहत्ती मिच्छाद्विस्सेव । अप्पदरविहत्ती सम्माद्विस्स मिच्छाद्विस्स वा । जयध०

२ भुजगारं सम्माद्विटीणं चैव । अप्पदरं पुण सम्माद्विस्स मिच्छाद्विस्स वा । जयध०

२४७. एतो एगजीवेण कालो । २४८. मिच्छत्तस्स भुजगारकम्मंसिओ केवचिरं कालादो होदि ? २४९. जहण्णेण एगसमओ । २५०. उक्कस्सेण चत्तारि समया (४) । २५१. अप्पदरकम्मंसिओ केवचिरं कालादो होदि ? २५२.

भुजाकार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्य स्थितिविभक्तियोंके स्वामित्वको जानना चाहिए ॥ २४६ ॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे एक जीवकी अपेक्षा भुजाकार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्य, इन चारो विभक्तियोंके, कालका वर्णन किया जाता है। मिथ्यात्व कर्मकी भुजाकार विभक्तिवाले जीवका कितना काल है ? जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार (४) समय है ॥ २४७-२५० ॥

विशेषार्थ—मिथ्यात्वकी भुजाकारविभक्तिका जघन्य काल एक समय है, क्योंकि, मिथ्यात्वकी विवक्षित स्थितिको एक समय आगे बढ़ाकर बाँधनेपर मिथ्यात्वकर्मकी भुजाकार-स्थितिविभक्तिका एक समयप्रमाण जघन्य काल पाया जाता है। मिथ्यात्वकर्मकी भुजाकार-विभक्तिका उत्कृष्टकाल चार समय है। वे चार समय इस प्रकार सम्भव हैं—अद्धाक्षयसे अर्थात् स्थितिवन्धके कालका क्षय हो जानेसे स्थितिवन्धके बढ़नेपर भुजाकारविभक्तिका प्रथम समय प्राप्त होता है। पुनः चरम समयमे संक्लेश-क्षयसे अर्थात् स्थितिवन्धके योग्य विवक्षित अध्यवसायस्थानके अवस्थानका काल समाप्त हो जानेसे उस समय एक समय अधिक, दो समय अधिक आदिके क्रमसे लगाकर बढ़ते हुए संख्यात सागरोपम तक की स्थितिके बाँधने योग्य परिणाम उत्पन्न होते हैं, उनसे यथायोग्य स्थितिको बाँधनेपर भुजाकारविभक्तिका द्वितीय समय उपलब्ध होता है। तृतीय समयमे मरण करके विग्रहगतिके द्वारा पंचेन्द्रियोमे उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे असंज्ञी जीवोंकी सहस्र सागरोपम स्थितिको बाँधनेपर उसी जीवके भुजाकारविभक्तिका तृतीय समय होता है। पुनः चतुर्थ समयमे शरीर-ग्रहण करके अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण संज्ञी जीवोंकी स्थितिको बाँधनेपर उसी जीवके भुजाकारविभक्तिका चतुर्थ समय होता है। कहनेका अभिप्राय यह है कि जब कोई एक एकेन्द्रिय जीव पहले समयमे अद्धाक्षयसे स्थितिको बढ़ाकर बाँधता है, दूसरे समयमे संक्लेश-क्षयसे स्थितिको बढ़ाकर बाँधता है, तीसरे समयमे मरणकर और एक विग्रहसे संज्ञी जीवोमे उत्पन्न होकर असंज्ञी जीवोके योग्य स्थितिको बढ़ाकर बाँधता है और चौथे समयमे शरीरको ग्रहण करके संज्ञी जीवोके योग्य स्थिति बढ़ाकर बाँधता है, तब उस जीवके भुजाकार-विभक्तिका उत्कृष्टकाल चार समयप्रमाण प्राप्त होता है। इस प्रकार मिथ्यात्वकर्मकी भुजाकारविभक्तिका उत्कृष्टकाल चार समय ही है। आगे जहाँ भी भुजाकारवन्ध कहा जावे, वहाँ सर्वत्र यही अर्थ जानना चाहिए।

चूर्णिसू०—मिथ्यात्वकर्मकी अल्पतरविभक्तिका कितना काल है ? जघन्यकाल एक

जहणणेण एगसमओ । २५३. उक्कस्सेण तेवद्विसागरोवममदं सादिरेयं । २५४. अवद्विदकम्मंसिओ केवचिरं कालादो होदि ? २५५. जहणणेण एगसमओ । २५६. उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । २५७ एवं सोलसकसायाणं णवणोकसायाणं । २५८.

समय है और उत्कृष्टकाल साधिक एकसौ तिरैसठ सागरोपम हैं ॥२५२-२५३॥

विशेषार्थ—भुजाकार अथवा अवस्थितविभक्तिको करनेवाले जीवके विद्यमान मन्वसे एक समय नीचे उतरकर स्थितिवन्ध करके पुनः द्वितीय समयमें भुजाकार या अवस्थित विभक्तिको करनेपर अल्पतरविभक्तिका एक समयप्रमाण जवन्यकाल पाया जाता है । मिथ्यात्व-कर्मकी अल्पतरविभक्तिका उत्कृष्टकाल कुछ अधिक एक सौ तिरैसठ सागरोपमप्रमाण है । इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—कोई एक तिर्यच अथवा मनुष्य मिथ्यादृष्टि जीव एक स्थितिको बाधता हुआ विद्यमान था । उस स्थितिके नीचे अल्प स्थितिको बाधने हुए उसने अल्पतरविभक्तिका तत्प्रायोग्य सर्वोत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तकाल व्यतीत किया । पुनः तदनन्तरवर्ती समयमें उस स्थितिसत्त्वका उल्लंघन करके स्थितिवन्ध करनेवाला था कि आयुके क्षय हो जानेसे मरण करके तीन पल्योपमकी स्थितिवाले उत्तम भोगभूमियों जीवोमें उत्पन्न हुआ । पुनः वहाँ जीवनके अन्तर्मुहूर्त अवशिष्ट रहनेपर सम्यक्त्वको ग्रहण किया और उसके साथ ही यथायोग्य प्रथम या द्वितीय स्वर्गमें उत्पन्न हुआ । वहाँसे च्युत हो मनुष्य हुआ, फिर मरकर यथायोग्य आनत-प्राणत आदि कल्पोंमें उत्पन्न हुआ । इस प्रकार उसने सम्यक्त्वके साथ पूरे छयासठ सागरोपम व्यतीत किये और अन्तमें सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ । पुनः अन्तर्मुहूर्तके पश्चान् ही सम्यक्त्वको ग्रहण किया और उसके साथ फिर पूरे छयासठ सागरोपमकाल तक भ्रमण कर अन्तमें तत्प्रायोग्य परिणामोंके द्वारा मिथ्यात्वको जाकर इकतीस सागरोपमकी आयुस्थितिवाले त्रैवेयकदेवोंमें उत्पन्न हुआ । पुनः वहाँसे च्युत हो मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । वहाँ जहाँतक सम्भव है, वहाँतक अन्तर्मुहूर्तकाल स्थितिसत्त्वसे नीचे स्थितिवन्ध कर पुनः संक्लेगको पूरित कर भुजाकारविभक्ति करनेवाला हो गया । इस प्रकार दो अन्तर्मुहूर्त और तीन पल्योसे अधिक एक सौ तिरैसठ सागर अल्पतरविभक्तिका उत्कृष्ट काल जानना चाहिए ।

चूर्णिसू०—मिथ्यात्वकर्मकी अवस्थितविभक्तिका कितना काल है ? जवन्यकाल एक समय है । क्योंकि, भुजाकार अथवा अल्पतरविभक्तिको करनेवाले जीवके एक समय स्थितिसत्त्वके समान स्थितिके बाधनेपर अवस्थितविभक्तिका एक समय पाया जाता है । मिथ्यात्वकर्मकी अवस्थित विभक्तिका उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है । क्योंकि, भुजाकार अथवा अल्पतर विभक्तिको करके सत्त्वके समान स्थितिवन्ध करनेका उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्तप्रमाण पाया जाता है ॥२५४-२५६॥

चूर्णिसू०—जिस प्रकार मिथ्यात्वकर्मकी भुजाकार, अल्पतर और अवस्थित विभक्तियोंके कालकी प्ररूपणकी है, उसी प्रकार सोलह कपायो और नव नोकपायोकी भुजाकार अल्पतर और अवस्थितविभक्तिसम्बन्धी प्ररूपणा करना चाहिए । विशेषता केवल यह है कि

णवरि भुजाकारकर्मसिद्धौ उक्त्स्तेण एगूणवीससमया ।

सोलह कपाय और नवनोकपायोंकी भुजाकार विभक्तिका उत्कृष्टकाल उन्नीस समय-प्रमाण है ॥२५७-२५८ ॥

विशेषार्थ—उक्त उन्नीस समयोंका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—किसी एक ऐसे एकेन्द्रिय या विकलेन्द्रिय जीवने जिसकी आयु सत्तरह समयसे अधिक एक आवली-प्रमाण शेष रही है, अनन्तानुबन्धी क्रोधको छोड़कर शेष अनन्तानुबन्धी मान, मायादि पन्द्रह प्रकृतियोंका क्रमशः अद्धाक्षय हो जानसे पन्द्रह समयोंके द्वारा उनकी स्थितिको उत्तरोत्तर बढ़ाकर बन्ध करते हुए संक्रमणके योग्य किया । पुनः बन्धावलीकालके व्यतीत होनेपर और सत्तरह समय-प्रमाण आयुके शेष रहनेपर पूर्वोक्त आवलीकालमें प्रथम समयसे लेकर पन्द्रह समयोंमें वृद्धि करके बांधी हुई उक्त पन्द्रह कपायोंकी स्थितिको बन्ध-परिपाटीके अनुसार अनन्तानुबन्धी क्रोधमें संक्रमण करनेपर अनन्तानुबन्धी क्रोध-सम्बन्धी भुजाकारविभक्तिके पन्द्रह समय प्राप्त होते हैं । पुनः सोलहवें समयमें अद्धाक्षयसे अनन्तानुबन्धी क्रोधके साथ स्थितिको बढ़ाकर बाँधनेपर भुजाकारविभक्तिका सोलहवाँ समय प्राप्त होता है । पुनः सत्तरहवें समयमें संक्लेशक्षय होनेसे अनन्तानुबन्धी क्रोधके साथ सर्व कपायोंकी स्थितिको बढ़ाकर बाँधनेपर भुजाकारविभक्तिका सत्तरहवाँ समय प्राप्त होता है । पुनः उसके एक विग्रह करके संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें असंज्ञी जीवोंके योग्य सहस्र सागरोपमके सात भागोंमेंसे यथायोग्य चार भागप्रमाण बाँधनेपर भुजाकारविभक्तिका अष्टारहवाँ समय प्राप्त हुआ । पुनः शरीरको ग्रहण करके संज्ञी पंचेन्द्रियोंके योग्य अन्तःकोड़ाकोडी सागरोपम स्थितिका बन्ध करनेपर भुजाकार-विभक्तिका उन्नीसवाँ समय प्राप्त होता है । इस प्रकार भुजाकारस्थितिविभक्तिके सूत्रोक्त उन्नीस समय सिद्ध हो जाते हैं । ऊपर जिस प्रकारसे अनन्तानुबन्धी क्रोधकी भुजाकारविभक्तिके उन्नीस समयोंकी प्ररूपणा की है, उसी प्रकार मान, मायादि शेष पन्द्रह प्रकृतियोंमेंसे हर एक की इसी परिपाटीसे भुजाकारस्थितिविभक्तिके उन्नीस समयोंकी प्ररूपणा जानना चाहिए । इसी प्रकार नवों नोकपायोंकी भी भुजाकारविभक्ति-सम्बन्धी उन्नीस समयोंकी प्ररूपणा जानना चाहिए । केवल इतनी विशेषता है कि उक्त सत्तरह समयसे अधिक आवलीकालप्रमित आयुके शेष रह जानेपर उस एकेन्द्रिय या विकलेन्द्रिय जीवके आवलीके प्रथम समयसे लेकर क्रोधादि कपायोंकी परिपाटीसे अद्धाक्षय होनेके साथ सोलह समयमात्र कालको बढ़ाकर उनका बन्ध कराके, पुनः सत्तरहवें समयमें संक्लेश-क्षय होनेसे सभी—सोलहों प्रकृतियोंका भुजाकारस्थिति-बन्ध कराके पुनः एक आवलीकाल बिताकर कपायोंकी स्थितिको नव नोकपायोंकी स्थितिमें परिपाटीसे संक्रमण करानेपर नव-नोकपायसम्बन्धी भुजाकारविभक्तियोंका सत्तरहवाँ समय प्राप्त होता है । पुनः मरणकर एक विग्रहके साथ संज्ञी पंचेन्द्रियोंके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें असंज्ञी पंचेन्द्रियोंके योग्य स्थितिको बढ़ाकर बन्ध करनेपर अष्टारहवाँ समय और शरीर-पर्याप्तिको प्रारम्भ कर संज्ञी पंचेन्द्रियोंके योग्य स्थितिको बढ़ाकर बन्ध करनेपर उसके भुजाकारविभक्तिका

२५९. अणंताणुवंधिचउक्कस्स अवत्तव्वं जहण्णुक्कस्सेण एगसमओ । २६०.
सम्पत्त-सम्पामिच्छत्ताणं भुजगार-अवट्ठिद-अवत्तव्वकम्मंसिओ केवचिरं कालादो होदि ?
२६१. जहण्णुक्कस्सेण एगसमओ ।

उन्नीसवाँ समय प्राप्त होता है । इस प्रकार सोलह कपाय और नव नोकपाय-सम्बन्धी भुजा-कारस्थितिविभक्तिके उन्नीस समयोंकी प्ररूपणा जानना चाहिए । ऊपर जाँ अद्वाक्षय्य' पद प्रत्युक्त हुआ है उसका अर्थ है—अद्वा अर्थात् स्थितिवन्धके कालका क्षय । स्थिति बन्धका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है । विवक्षित स्थितिवन्धके कालका क्षय हाँ जानेपर तदनन्तर जीव उससे हीन या अधिक स्थितिका बन्ध करता है । क्रोधादि कपायरूप परिणामों के होनेको संक्लेश कहते हैं ।^१ जवतक एक-जातीय संक्लेश परिणाम रहेगे, तवतक एकसा स्थितिवन्ध होगा, और एकजातीय संक्लेशक्षय होनेपर स्थितिवन्ध भी हीनाधिक होने लगेगा । यहाँ यह बात ध्यानमे रखनेकी है कि अद्वाक्षयके होनेपर संक्लेशक्षय होनेका नियम नहीं है । किसी जीवके अद्वाक्षयके साथ संक्लेशक्षय हो जाता है और किसी जीवके अद्वाक्षयके पश्चात् भी संक्लेशक्षय होता है ।

चूर्णिसू०—अनन्तानुबन्धी कपायचतुष्ककी अवत्तव्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ॥ २५९ ॥

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि अनन्तानुबन्धी कपायकी सत्तासे रहित सम्यग्दृष्टि जीवके मिथ्यात्व अथवा सासादन गुणस्थानको प्राप्त होनेपर उसके प्रथम समयमें ही अनन्तानुबन्धी कपायके स्थितिसत्त्वकी उत्पत्ति हो जाती है ।

चूर्णिसू०—सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजाकार, अवस्थित और अवत्तव्यविभक्तिका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है ॥ २६०-२६१ ॥

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि सम्यक्त्वप्रकृतिकी सत्तावाले मिथ्यादृष्टि जीवके सम्यक्त्वप्रकृतिके सत्त्वके ऊपर दो समय अधिक आदिके रूपसे मिथ्यात्वकी स्थितिको बाँधकर पुनः सम्यक्त्वके ग्रहण करनेपर प्रथम समयमे उक्त प्रकृतियोंकी भुजाकारविभक्ति होती है । इसी प्रकार एक समय अधिक मिथ्यात्वकी स्थितिको बाँधकर सम्यक्त्व-ग्रहणके प्रथम समयमे अवस्थितविभक्तिका एक समयमात्र काल पाया जाता है, क्योंकि, दूसरे समयमे अल्पतरविभक्तिकी उत्पत्ति हो जाती है । तथा सम्यक्त्वप्रकृतिकी सत्तासे रहित मिथ्या-दृष्टि जीवके सम्यक्त्वके ग्रहण करनेपर एक समयमात्र अवत्तव्यविभक्ति होती है, अधिक समय नहीं, क्योंकि दूसरे समयमे तो अल्पतरविभक्ति आ जाती है । इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजाकारादि विभक्तियोंके कालको जानना चाहिए ।

१ का अद्वा णाम १ ट्ठिदिवधकालो । कि तस्स पमाण १ जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण अतोमुहुत्त । एदिस्से अद्वाए खओ विणासो अद्वाक्खओ णाम । जयध०

२ को सकिलेसो णाम १ कोहमाणमायालोहपरिणामविशेषो । जयध०

२६२. अप्पदरक्कम्मंसिओ केवचिरं कालादो होदि ? २६३. जहणणेण अंतो-मुहुत्तं । २६४. उक्कस्सेण वे छावट्टि-सागरोवमाणि सादिरेयाणि ।

२६५. अंतरं । २६६. मिच्छत्तस्स भुजगार-अवट्टिदक्कम्मंसियस्स अंतरं जहणणेण एगसमओ । २६७. उक्कस्सेण तेवट्टिसागरोवमसदं सादिरेयं । २६८. अप्पदरक्कम्मंसियस्स अंतरं केवचिरं कालादो होदि ? २६९. जहणणेण एगसमओ । २७०. उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । २७१. सेसाणं पि णेद्वं ।

चूर्णिसू०—सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दो प्रकृतियोंकी अल्पतरविभक्तिका कितना काल है ? जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्टकाल सानिरेक एक सौ वत्तीस सागरोपम है ॥ २६२-२६४ ॥

विशेषार्थ—उक्त दोनों प्रकृतियोंके सत्त्वसे रहित मिथ्यादृष्टि जीवके प्रथमसम्यक्त्व-को ग्रहण करनेपर प्रथम समयमे अवक्तव्यविभक्ति होती है और दूसरे समयसे लगाकर सर्वजघन्य अन्तर्मुहूर्तकाल-द्वारा दर्शनमोहनीयका क्षय करने तक अल्पतरविभक्तिका जघन्य-काल पाया जाता है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनों प्रकृतियोंकी अल्पतरवि-भक्तिका उत्कृष्ट काल कुछ अधिक एक सौ वत्तीस सागरोपमकी प्ररूपणा पूर्वके समान जानना चाहिए ।

चूर्णिसू०—अव भुजाकारविभक्ति आदिके अन्तरको कहते हैं—मिथ्यात्वकी भुजा-कार और अवस्थित विभक्तिवाले जीवका जघन्य अन्तरकाल एक समय है ॥ २६५-२६६ ॥

विशेषार्थ—भुजाकार और अवस्थितविभक्तिको एक समय करके द्वितीय समयमे अल्पतरविभक्ति कर तृतीय समय मे भुजाकार और अवस्थित विभक्तिके करनेपर एक समय-प्रमाण अन्तर पाया जाता है ।

चूर्णिसू०—मिथ्यात्वकर्मकी भुजाकार और अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ अधिक एक सौ तिरेसठ सागरोपम है ॥ २६७ ॥

विशेषार्थ—तिर्यचोमे अथवा ननुष्योमे कोई जीव मिथ्यात्वकी भुजाकार और अव-स्थितविभक्तिको आदि करके पुनः वहीपर अन्तर्मुहूर्तकालसे अल्पतरविभक्तिके द्वारा अन्तरको प्राप्त हो तीन पल्योपमवाले देवकुरु या उत्तरकुरुके जीवोमें उत्पन्न हो वहाँसे मरकर देवादिको-में एक सौ तिरेसठ सागरोपमकाल तक परिभ्रमण करके अन्तमे मनुष्योमे उत्पन्न हुआ और अन्तर्मुहूर्त व्यतीत होनेपर संक्लेशको पूरित करके भुजाकार और अवस्थित विभक्तिको किया । इस प्रकार सूत्रोक्त अन्तर उपलब्ध हो जाता है ।

चूर्णिसू०—मिथ्यात्वकर्मकी अल्पतरविभक्तिका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार शेष कर्मोंका भी अन्तर जानना चाहिए ॥ २६८-२७१ ॥

विशेषार्थ—यतः मिथ्यात्वकर्मकी अल्पतरविभक्तिवाले जीवके भुजाकार अथवा अवस्थित विभक्तिको एक समय करके पुनः तृतीय समयमे अल्पतरविभक्ति संभव है, अतः

२७२. णाणाजीवेहि भंगविचओ । २७३. संतकम्मिएसु पयदं । २७४. सच्च्वे जीवा मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणोकसायाणं भुजगारद्धिदिविहत्तिया च अप्पदरद्धिदिविहत्तिया च अवद्धिदिविहत्तिया च । २७५. अणंताणुवंधीणमवत्तच्चं भजिदच्चं । २७६. सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं भुजगार-अवद्धिदवत्तच्चद्धिदिविहत्तिया भजिदच्चं । २७७. अप्पदरविहत्तिया णियमा अत्थि ।

२७८. णाणाजीवेहि कालो । २७९. सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं भुजगार-अवद्धिद-अवत्तच्चद्धिदिविहत्तिया केवचिरं कालादो हांति ? २८०. जहण्णेण एगसमओ । २८१.

एक समयमात्र जघन्य अन्तर काल कहा है । मिथ्यात्वकी अल्पतरविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर-काल अन्तर्मुहूर्त है । क्योंकि, अल्पतरविभक्तिको करनेवाले जीवके द्वारा भुजाकार अथवा अवस्थितविभक्तिके अन्तर्मुहूर्त तक करके पुनः अल्पतरविभक्तिके करनेपर अन्तर्मुहूर्तप्रमाण अन्तर पाया जाता है । जिस प्रकार मिथ्यात्वकर्मकी भुजाकार, अवस्थित और अल्पतर विभक्तियोंका अन्तर कहा है, उसी प्रकार मोहकर्मकी शेष प्रकृतियोंका भी अन्तर जानना चाहिए । क्योंकि उससे शेष प्रकृतियोंकी अन्तर-प्ररूपणामे कोई विशेष अन्तर नहीं है ।

चूर्णिसू०—अव नाना जीवोंकी अपेक्षा भुजाकार आदि विभक्तियोंके भंगोंका निर्णय किया जाता है । जिन जीवोंके विवक्षित मोह-प्रकृतियोंकी सत्ता पाई जाती है, ऐसे सत्कर्मिक जीवोंमें यह अधिकार प्रकृत है । क्योंकि असत्कर्मिक जीवोंमें भुजाकार आदि विभक्तियों का पाया जाना असम्भव है । मोहकर्मकी सत्तावाले सर्व जीव नियमसे मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नव नोकपाय, इन प्रकृतियोंकी भुजाकार स्थितिविभक्ति करनेवाले होते हैं, अल्पतर स्थितिविभक्ति करनेवाले होते हैं और अवस्थित स्थितिविभक्ति करनेवाले होते हैं । किन्तु अनन्तानुबन्धी चारों कपायोंकी अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव भजितव्य है । अर्थात् कुछ जीव विभक्ति करनेवाले होते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं । क्योंकि, किसी कालमें अनन्तानुबन्धी कपाय-चतुष्ककी विसंयोजना करनेवाले सम्यग्दृष्टि जीवोंका निरन्तर मिथ्यात्वरूपसे परिणमन नहीं होता । इसी प्रकार सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व इन दो प्रकृतियोंकी भुजाकार, अवस्थित और अवक्तव्य स्थितिविभक्ति करनेवाले जीव भजितव्य है । क्योंकि, निरन्तर सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले जीवोंका अभाव है । किन्तु इन दोनों प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिविभक्ति करनेवाले जीव नियमसे होते हैं । क्योंकि, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिकी सत्तावाले जीवोंका त्रिकालमें भी कभी विरह नहीं होता है ॥ २७२-२७७ ॥

चूर्णिसू०—अव नाना जीवोंकी अपेक्षा भुजाकार आदि विभक्तियोंके कालका निरू-करते हैं—सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनों प्रकृतियोंके भुजाकार, अवस्थित और अवक्तव्य स्थितिविभक्ति करनेवाले जीवोंका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है । क्योंकि, इन दोनों प्रकृतियोंकी भुजाकार, अवस्थित और अवक्तव्य स्थितिविभक्तिको एक समय करके द्वितीय समयमें सभी जीवोंके अल्पतरविभक्तिरूपसे परिणमन देखा जाता है ।

उक्त्सेण आवलियाए असंखेज्जदिभागो । २८२, अप्पदरट्ठिदिविहत्तिया केवचिरं कालादो होंति ? २८३, सव्वद्धा । २८४, सेसाणं कम्माणं विहत्तिया सव्वे सव्वद्धा । २८५, णवरि अणंताणुवंधीणमवत्तव्वट्ठिदिविहत्तियाणं जहण्णेण एगसमओ । २८६, उक्त्सेण आवलियाए असंखेज्जदिभागो ।

२८७, अंतरं । २८८, सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणं भुजकार-अवत्तव्वट्ठिदिविहत्ति-अंतरं केवचिरं कालादो होदि ? २८९, जहण्णेण एगसमओ । २९०, उक्त्सेण चउवीस अहोरत्ते सादिरेगे । २९१, अवट्ठिदट्ठिदिविहत्ति-अंतरं केवचिरं होदि ? २९२, जहण्णेण एगसमओ । २९३, उक्त्सेण अंगुलस्स असंखेज्जदिभागो । २९४, अप्पदर-ट्ठिदिविहत्तिमंतरं केवचिरं ? २९५, णत्थि अंतरं । २९६, सेसाणं कम्माणं सव्वेसि

उक्तदोनो प्रकृतियोंकी भुजाकार आदि तीनों विभक्तियोंका उत्कृष्ट काल आवलीके असंख्यातवे भागके जितने समय होते हैं, तत्प्रमाण है । क्योंकि अपने-अपने अन्तरकालके व्यतीत होने पर भुजाकार, अवस्थित और अवक्तव्य विभक्तियोंको करनेवाले जीव निरन्तर आवलीके असंख्यातवे भाग-प्रमाण काल तक पाये जाते हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनों प्रकृतियोंकी अल्पतरविभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है ? सर्वकाल है । क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा इन दोनों प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीवोंका त्रिकालमे कभी भी विरह नहीं होता है । उक्त दोनों प्रकृतियोंके अतिरिक्त शेष कर्मोंकी विभक्ति करनेवाले सर्व जीव सर्वकाल होते हैं, क्योंकि अनन्त जीवराशिके भीतर भुजाकार, अवस्थित और अल्पतर विभक्तिवालोंके विरहका अभाव है । किन्तु अनन्तानुवन्धी चारो कपायोंकी अवक्तव्य स्थिति-विभक्तिवाले जीवोंका जघन्यकाल एक समय है । क्योंकि अनन्तानुवन्धीकी अवक्तव्यस्थिति-विभक्तिवाले जीव अनन्त नहीं होते हैं । अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी अवक्तव्यस्थितिविभक्तिवाले जीवोंका उत्कृष्टकाल आवलीके असंख्यातवे भाग-प्रमाण है ॥ २७८-२८६ ॥

चूर्णिसू०—अब नाना जीवोंकी अपेक्षा भुजाकार आदि विभक्तियोंके अन्तरका निरूपण करते हैं—सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनों प्रकृतियोंकी भुजाकार और अवक्तव्य स्थितिविभक्तिका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय है । क्योंकि, इन दोनों प्रकृतियोंकी भुजाकार और अवक्तव्य विभक्तिको करके सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समयमात्र पाया जाता है । तथा उन्हींका उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस अहोरात्र है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनों प्रकृतियोंकी अवस्थितविभक्तिका कितना अन्तरकाल है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय है । तथा उत्कृष्ट अन्तरकाल अंगुलके असंख्यातवे भाग-प्रमाण है । इन्हीं दोनों प्रकृतियोंकी अल्पतरविभक्तिका अन्तर-काल कितना है ? इनका अन्तर नहीं है, क्योंकि, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर-विभक्ति करनेवाले जीवोंका कभी विरह नहीं होता है । मिथ्यात्व आदि शेष छव्वीस कर्मोंकी भुजाकार विभक्ति आदि सभी पदोंका अन्तर नहीं है । क्योंकि, अनन्त एकेन्द्रियोंमे भुजा-

पदाणं णत्थि अंतरं । २९७. णवरि अणंताणुवंधीणं अवत्तव्वट्टिदिविहत्तियंतरं जहणणेण एगसमओ । २९८. उक्खसेण चउवीसमहोरत्ते सादिरेगे ।

२९९. सण्णियासो । ३००. मिच्छत्तस्स जो भुजगारकम्मंसिओ सो सम्मत्तस्स सिया अप्पदरकम्मंसिओ सिया अकम्मंसिओ । ३०१. एवं सम्मामिच्छत्तस्स वि । ३०२. सेसाणं णेदव्वो* ।

कार, अल्पतर और अवस्थित स्थितिविभक्तिवाले जीवोंका सर्वकाल अस्तित्व सम्भव है । केवल अनन्तानुबन्धी चारो कपायोकी अवक्तव्यस्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ अधिक चौबीस अहोरात्र है । क्योंकि, सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले जीवोंके अन्तर-कालके साथ मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाले जीवोंके अन्तर-कालकी समानता है ॥२८७-२९८॥

चूर्णिसू०-अब भुजाकार आदि विभक्तियोंके सन्निकर्षका निरूपण करते हैं-जो जीव मिथ्यात्वकर्मकी भुजाकार विभक्तिवाला होता है, वह सम्यक्त्वप्रकृतिकी कदाचित् अल्पतर-विभक्तिवाला होता है और कदाचित् अकर्माशिक अर्थात् सत्ता-रहित होता है । इसका कारण यह है कि यदि सम्यक्त्वप्रकृतिकी सत्ता हो, तो मिथ्यात्वकी भुजाकारविभक्तिवाले जीवमें सम्यक्त्वप्रकृतिकी नियमसे अल्पतरस्थितिविभक्ति होती है, अन्यथा नहीं होती है । इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिका भी सन्निकर्ष जानना चाहिए । अर्थात् मिथ्यात्वकी भुजाकार-विभक्तिवाले जीवके यदि सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्ता है तो नियमसे अल्पतरविभक्ति होगी, अन्यथा नहीं । इसी प्रकार शेष कर्मोंका भी सन्निकर्ष जान लेना चाहिए ॥२९९-३०२॥

विशेषार्थ-चूर्णिसूत्रमें शेष कर्मोंके जिस सन्निकर्षको जान लेनेकी सूचना की गई है, वह इस प्रकार है-जो जीव मिथ्यात्वकी भुजाकारविभक्तिवाला है, वह सोलहो कपायो और नवो नोकपायोकी कदाचित् भुजाकारविभक्तिवाला है, कदाचित् अल्पतरविभक्तिवाला है और कदाचित् अवस्थितविभक्तिवाला है । इसी प्रकार मिथ्यात्वकी अवस्थितविभक्तिका भी सन्निकर्ष जानना चाहिए । जो मिथ्यात्वकी अल्पतरविभक्तिवाला है, उसके सम्यक्त्वप्रकृतिका स्थितिसत्त्व कदाचित् होता है और कदाचित् नहीं भी होता है । यदि होता है तो कदाचित् अल्पतरविभक्तिवाला, कदाचित् भुजाकारविभक्तिवाला, कदाचित् अवस्थितविभक्तिवाला और कदाचित् अवक्तव्यविभक्तिवाला होता है । इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वका भी सन्निकर्ष जानना चाहिए । वह अप्रत्याख्यानावरणदि वारह कपाय और नव नोकपायोकी कदाचित् भुजाकारविभक्तिवाला होता है, कदाचित् अल्पतरविभक्तिवाला होता है और कदाचित् अवस्थित विभक्तिवाला होता है । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धीकपाय-चतुष्कका भी सन्निकर्ष जानना चाहिए । केवल विशेषता यह है कि वह कदाचित् अवक्तव्यविभक्तिवाला होता है

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमें यह चूर्णिसूत्र सुदृष्ट नहीं है, किन्तु इसकी टीकाको सूत्र बना दिया गया है । जो कि इस प्रकार है-‘सेसाण कम्माण सण्णियासो जाणिवूण णेदव्वो’ । (देखो पृष्ठ ४२३ पंक्ति ६)

और कदाचित् अविभक्तिवाला भी होता है । जो जीव सम्यक्त्वप्रकृतिकी भुजाकारविभक्ति करनेवाला है, वह मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नव नोकपायोकी नियमसे अल्पतरविभक्ति करनेवाला है । तथा सम्यग्मिथ्यात्वकी नियमसे भुजाकारविभक्ति करनेवाला है । इसी प्रकार सम्यक्त्वप्रकृतिकी अवस्थित और अवक्तव्य विभक्तिका भी सन्निकर्ष करना चाहिए । किन्तु जो जीव सम्यक्त्वप्रकृतिकी अवस्थितविभक्ति करनेवाला होता है, वह सम्यग्मिथ्यात्वकी भी नियमसे अवस्थितविभक्ति करनेवाला होता है । जो जीव सम्यक्त्वप्रकृतिकी अवक्तव्यविभक्ति करनेवाला होता है, वह सम्यग्मिथ्यात्वकी कदाचित् भुजाकारविभक्ति करनेवाला होता है, कदाचित् अवक्तव्यविभक्ति करनेवाला होता है । सम्यक्त्वप्रकृतिकी जो अल्पतरविभक्ति करनेवाला होता है, वह मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नव नोकपायोकी कदाचित् भुजाकार विभक्ति, कदाचित् अल्पतरविभक्ति और कदाचित् अवस्थितविभक्ति करनेवाला होता है । अनन्तानुवन्धी-चतुष्ककी कदाचित् अवक्तव्यविभक्तिवाला भी होता है । पर सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर-विभक्तिवाला नियमसे होता है । किन्तु मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी कदाचित् अविभक्तिवाला भी होता है । इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वसम्बन्धी विभक्तियोंका सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु केवल विशेषता यह है कि जो सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतरविभक्तिवाला है, वह सम्यक्त्वप्रकृतिका स्यात् सत्कर्मिक है, अतः अविभक्तिवाला भी होता है । परन्तु जो सम्यग्मिथ्यात्वकी अवक्तव्यविभक्तिवाला है वह नियमसे सम्यक्त्व-प्रकृतिकी अवक्तव्यविभक्तिवाला होता है ।

अनन्तानुवन्धी क्रोधकी जो भुजाकारविभक्ति करनेवाला जीव है, वह मिथ्यात्व, अवशिष्ट पन्द्रह कपाय और नव नोकपायोकी कदाचित् भुजाकारविभक्ति करनेवाला, कदाचित् अल्पतरविभक्ति करनेवाला और कदाचित् अवस्थितविभक्ति करनेवाला होता है । उस जीवके सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्व ये दो कर्म कदाचित् होते हैं और कदाचित् नहीं होते हैं । यदि होते हैं, तो नियमसे उनकी अल्पतरविभक्ति करनेवाला होता है । इसी प्रकारसे अवस्थितविभक्तिके विषयमें भी कहना चाहिए । अनन्तानुवन्धी क्रोधकी जो अवक्तव्यविभक्ति करनेवाला है, वह मिथ्यात्व, अप्रत्याख्यानावरण आदि वारह कपाय और नव नोकपायोकी नियमसे अल्पतरविभक्ति करनेवाला होता है । अनन्तानुवन्धी मान आदि तीन कपायोकी नियमसे अवक्तव्यविभक्ति करनेवाला होता है । सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी नियमसे अल्पतर विभक्ति करनेवाला होता है । अनन्तानुवन्धी क्रोधकी जो अल्पतरविभक्ति करनेवाला होता है, वह मिथ्यात्व, शेष पन्द्रह कपाय और नव नोकपायोकी कदाचित् भुजाकार-विभक्ति, अल्पतरविभक्ति और अवस्थितविभक्ति करनेवाला होता है । सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी कदाचित् विभक्ति करनेवाला और कदाचित् विभक्ति नहीं करनेवाला होता है । यदि विभक्ति करनेवाला होता है, तो कदाचित् भुजाकार, कदाचित् अल्पतर, कदाचित् अवस्थित और कदाचित् अवक्तव्यविभक्ति करनेवाला होता है । इसी प्रकारसे अनन्तानुवन्धी

३०३. अप्पावहुअं । मिच्छत्तस्स सव्वत्थोवा भुजगारट्टिदिविहत्तिया । ३०४. अवट्टिदट्टिदिविहत्तिया असंखेज्जगुणा । ३०५. अप्पदरट्टिदिविहत्तिया संखेज्जगुणा । ३०६. एवं वारसकसाय-णवणोकसायाणं । ३०७ सम्मत्त-सम्पामिच्छत्ताणं सव्वत्थोवा अवट्टिदट्टिदिविहत्तिया । ३०८. भुजगारट्टिदिविहत्तिया असंखेज्जगुणा । ३०९. अवत्तव्वट्टिदिविहत्तिया असंखेज्जगुणा । ३१०. अप्पदरट्टिदिविहत्तिया असंखेज्जगुणा । ३११. अणंताणुवंधीणं सव्वत्थोवा अवत्तव्वट्टिदिविहत्तिया । ३१२. भुजगारट्टिदिविहत्तिया अणंतगुणा । ३१३. अवट्टिदट्टिदिविहत्तिया असंखेज्जगुणा । ३१४. अप्पदरट्टिदिविहत्तिया संखेज्जगुणा ।

मान, माया और लोभ कपायोका भी विभक्तिसम्बन्धी सन्निकर्ष जानना चाहिए । इसी प्रकार अप्रत्याख्यानावरण आदि वारह कपाय और नव नोकपायोकी विभक्तिसम्बन्धी सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु इन कर्मोंकी अल्पतरविभक्तिवाला जीव मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अविभक्तिवाला भी होता है । इनके अर्थान् वारह कपाय और नव नोकपायोकी अल्पतरविभक्तिवाले जीवके अनन्तानुबन्धी-चतुष्ककी अवक्तव्यविभक्तिका सन्निकर्ष मिथ्यात्वके समान जानना चाहिए । यह उपयुक्त सन्निकर्ष उपशम और क्षपकश्रेणीकी विवक्षा नहीं करके कहा गया है, क्योंकि उनकी विवक्षा करनेपर कुछ और भी विशेषता है, सो उसे आगमके अनुसार जानना चाहिए ।

चूर्णिसू०—अव उक्त भुजाकार आदि विभक्तिवाले जीवोंकी संख्या-निर्णयके लिए अल्पवहुत्व अनुयोगद्वारा कहते हैं । मिथ्यात्वप्रकृतिकी भुजाकारस्थितिविभक्तिवाले जीव आगे कहे जानेवाले सर्वपदोंकी अपेक्षा सबसे कम है । मिथ्यात्वकी भुजाकार स्थितिविभक्तिवालोसे मिथ्यात्वकी अवस्थितस्थितिविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणित है । मिथ्यात्वकी अवस्थितस्थितिविभक्तिवालोसे मिथ्यात्वकी अल्पतरस्थितिविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणित है । इसी प्रकार अप्रत्याख्यानावरण आदि वारह कपाय और नव नोकपायोके भुजाकार आदि विभक्तिवाले जीवोंका अल्पवहुत्व जानना चाहिए ॥ ३०३-३०६ ॥

सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दो प्रकृतियोंकी अवस्थितस्थितिविभक्तिवाले जीव आगे कहे जानेवाले सर्वपदोंकी अपेक्षा सबसे कम है । इनसे इन्हीं दोनों प्रकृतियोंके भुजाकारस्थितिविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणित है । इनसे इन्हीं दोनों प्रकृतियोंकी अवक्तव्यस्थितिविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणित है । इनसे इन्हीं दोनों प्रकृतियोंकी अल्पतरस्थितिविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३०७-३१० ॥

अनन्तानुबन्धी चारों कपायोकी अवक्तव्यस्थितिविभक्तिवाले जीव आगे कहे जानेवाले सर्वपदोंकी अपेक्षा सबसे कम है । अनन्तानुबन्धीकी अवक्तव्यस्थितिविभक्तिवालोसे भुजाकारस्थितिविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणित हैं । अनन्तानुबन्धीकी भुजाकार स्थितिविभक्तिवालोसे अवस्थितस्थितिविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणित है । अनन्तानुबन्धीकी अवस्थित स्थितिविभक्तिवालोसे अल्पतरस्थितिविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणित है ॥ ३११-३१४ ॥

३१५. एत्तो पदणिकखेवो । ३१६. पदणिकखेवे परूवणा सामित्तमप्पावहुअं च । ३१७. अप्पावहुए पयदं । ३१८. मिच्छत्तस्स सव्वत्थोवा उक्कस्सिया हाणी । ३१९. उक्कस्सिया वड्डी अवट्ठाणं च सरिसा विसेसाहिया । ३२०. एवं सव्वकम्माणं सम्मत्त-सम्पामिच्छत्तवज्जाणं । ३२१. णवरि णवुंसयवेद-अरदि-सोग-भय-दुगुंछाणमुक्क-स्सिया वड्डी अवट्ठाणं थोवा । ३२२. उक्कस्सिया हाणी विसेसाहिया । ३२३. सम्मत्त-सम्पामिच्छत्ताणं सव्वत्थोवमुक्कस्समवट्ठाणं । ३२४. उक्कस्सिया हाणी असंखेज्जगुणा । ३२५. उक्कस्सिया वड्डी विसेसाहिया । ३२६. जहणिया वड्डी जहणिया हाणी जहणमवट्ठाणं च सरिसाणि ।

चूर्णिसू०—अव इससे आगे पदनिक्षेप कहते हैं ॥ ३१५ ॥

विशेषार्थ—भुजाकारके विशेष निरूपण करनेको पदनिक्षेप कहते हैं, क्योंकि, यहाँपर भुजाकार आदि पदोंकी वृद्धि, हानि और अवस्थानसंज्ञा करके जघन्य और उत्कृष्ट विशेषणों द्वारा उनका विशेष निर्णय किया गया है ।

चूर्णिसू०—पदनिक्षेप अधिकारमें प्ररूपणा, स्वामित्व और अल्पवहुत्व, ये तीन अनुयोगद्वार हैं ॥ ३१६ ॥

विशेषार्थ—किन-किन प्रकृतियोंमें वृद्धि हानि, और अवस्थान होते हैं और किन-किनमें नहीं, इस बातका निरूपण प्ररूपणा-अनुयोगद्वारमें किया गया है । मिथ्यात्व आदि प्रकृतियोंकी वृद्धि, हानि आदि किस जीवके होते हैं, इस प्रकारसे उनके स्वामियोंका वर्णन स्वामित्व अनुयोगद्वारमें किया गया है । इन दोनों अनुयोगद्वारोंके सुगम होनेसे यतिवृषभाचार्यने उनका व्याख्यान नहीं किया है ।

चूर्णिसू०—अल्पवहुत्व अनुयोगद्वार प्रकृत है । अर्थात् अव पदनिक्षेपसम्बन्धी अल्प-वहुत्वको कहते हैं । मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि आगे कहे जानेवाले पदोंकी अपेक्षा सबसे कम होती है । इससे मिथ्यात्वकी वृद्धि और अवस्थान ये दोनों परम्पर सदृश हो करके भी विशेष अधिक होते हैं । इसी प्रकार सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनों प्रकृतियोंको छोड़ करके शेष सर्वकर्मोंकी वृद्धि हानि और अवस्थान जानना चाहिए । किन्तु नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, इन प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थान सबसे कम होते हैं । इससे इन्हीं प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट हानि विशेष अधिक होती है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अवस्थान सबसे कम है । इससे इन्हीं दोनों प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणित होती है । इससे इन्हीं दोनों प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि विशेष अधिक होती है ॥ ३१७-३२५ ॥

चूर्णिसू०—मोहकर्मकी सभी प्रकृतियोंकी जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान सदृश होते हैं, क्योंकि, इन सबके कालका प्रमाण एक समय है । इसलिए उनमें अल्पवहुत्व नहीं है ॥ ३२६ ॥

३२७. एत्तो वड्डी^१ । ३२८. मिच्छत्तस्स अत्थि असंखेज्जभागवड्डी हाणी, संखेज्जभागवड्डी हाणी, संखेज्जगुणवड्डी हाणी, असंखेज्जगुणहाणी अवट्ठाणं^२ । ३२९. एवं सव्वकम्मणं । ३३०. णवरि अणंताणुवंधीणमवत्तव्वं^३ सम्मत्तसम्मामिच्छत्ताणमसंखेज्जगुणवड्डी अवत्तव्वं च अत्थि ।

चूर्णिसू०—अब इससे आगे वृद्धि नामक अनुयोगद्वारको कहते हैं ॥ ३२७॥

विशेषार्थ—पहले पदनिक्षेप नामक जो अनुयोगद्वार कह आये है, उसीके वृद्धि, हानि और अवस्थानके द्वारा विशेष वर्णन करनेका वृद्धिकहते हैं । इसके समुत्कीर्तना, स्वामित्व आदि तेरह अनुयोगद्वार है । उनमेंसे चूर्णिकारने यहाँपर समुत्कीर्तना, काल, अन्तर और अल्पवहुत्वका ही आगे प्रतिपादन किया है और शेष अनुयोगद्वारोको सुगम समझकर उनका वर्णन नहीं किया है ।

चूर्णिसू०—मिथ्यात्वकर्मकी असंख्यातभागवृद्धि होती है, असंख्यातभागहानि होती है, संख्यातभागवृद्धि होती है, संख्यातभागहानि होती है; संख्यातगुणवृद्धि होती है, संख्यातगुणहानि होती है, असंख्यातगुणहानि होती है और अवस्थान भी होता है । जिस प्रकार मिथ्यात्वकर्मकी तीन प्रकारकी वृद्धि, चार प्रकारकी हानि और अवस्थान होता है, उसी प्रकार शेष सर्व कर्मोंकी वृद्धि हानि और अवस्थान होते हैं । किन्तु इतनी विशेषता है कि अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी अवक्तव्यस्थिति, तथा सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणवृद्धि और अवक्तव्यस्थिति होती है ॥ ३२८-३३०॥

विशेषार्थ—अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी अवक्तव्यस्थिति कहनेका कारण यह है कि अनन्तानुवन्धी कपायचतुष्ककी विसंयोजना किए हुए सम्यग्दृष्टि जीवके मिथ्यात्व ग्रहण करनेपर जो अनन्तानुवन्धीका नवीन बन्ध एवं सत्त्व होता है, उसका यहाँ सद्भाव पाया जाता है । इस प्रकारके स्थितिसत्त्वको अवक्तव्य कहनेका कारण यह है कि इसकी गणना भुजाकार, अल्पतर और अवस्थित भंगोमे नहीं की जा सकती है । तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दो प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि और अवक्तव्य स्थिति भी होती है । क्योंकि, सर्वजघन्यस्थितिके चरमउद्वेलनाकांडकप्रमाण स्थितिसत्त्ववाले मिथ्यादृष्टि जीवके उपशमसम्यक्त्व ग्रहण करनेपर असंख्यातगुणवृद्धि, तथा दोनो प्रकृतियोंकी सत्तासे रहित सादिमिथ्यादृष्टि अथवा अनादिमिथ्यादृष्टि जीवके प्रथमोपशमसम्यक्त्वके ग्रहण करनेपर उनकी अवक्तव्यस्थिति पाई जाती है ।

१ का वड्डी णाम १ पदणिकखेवविसेसो वड्डी । त जहा—पदणिकखेवे उक्कस्सिया वड्डी उक्कस्सिया हाणी उक्कस्समवट्ठाण च परुविद, ताणि वड्ढि-हाणि-अवट्ठाणाणि एगरूवाणि ण होति, अणेगरूवाणि त्ति जेण जाणावेदि तेण पदणिकखेवविसेसो वड्ढि त्ति वेत्तव्व । २ किमवट्ठाण १ पुव्विच्छट्ठिदिसतसमाणट्ठिदीणं वधणमवट्ठाण णाम । ३ अणताणुवधिचउक्क विसजोइदसम्मादिट्ठणा मिच्छत्ते गहिदे अवत्तव्व होदि ? पुव्वमविज्जमाणट्ठिदिसतसमुप्पत्तीदो । ××× वड्ढि-हाणि अवट्ठाणाणमभावेण भुजगार-अप्पदर-अवट्ठिद-सद्देहि ण वुच्चदि त्ति अवत्तव्वम्भुवगमादो । जयघ०

३३१. एगजीवेण कालो । ३३२. मिच्छत्तस्स तिविहाए वड्डीए जहणणेण एगसमओ । ३३३. उक्कस्सेण वे समया । ३३४. असंखेज्जभागहाणीए जहणणेण एगसमओ । ३३५ उक्कस्सेण तेवद्धिसागरोवमसदं सादिरेयं ।

चूणिं सू०—अब एक जीव-सम्बन्धी उक्त वृद्धि, हानि आदिके कालको कहते हैं—मिथ्यात्वकर्मकी असंख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणवृद्धि, इन तीनों प्रकारकी वृद्धिका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल दो समय है ॥ ३३१-३३३ ॥

विशेषार्थ—अद्याक्षयसे अथवा संक्लेशक्षयसे किसी भी जीवके अपने विद्यमान स्थितिसत्त्वके ऊपर एक समय बढ़ाकर स्थितिवन्ध करके द्वितीय समयमें अल्पतर अथवा अवस्थितविभक्तिके करनेपर उक्त तीनों वृद्धियोंके होनेका जघन्यकाल एक समय पाया जाता है । मिथ्यात्वकर्मकी उक्त तीनों प्रकारकी वृद्धिका उत्कृष्टकाल दो समय कहा है । उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—कोई एक एकेन्द्रिय जीव एक स्थितिको बांधता हुआ विद्यमान था । उस स्थितिके कालक्षयसे एक समय असंख्यातभागवृद्धिप्रमाण स्थितिको बांधकर फिर भी उसके द्वितीय समयमें संक्लेशक्षयसे असंख्यातभागवृद्धिप्रमाण स्थितिवन्धकर तृतीय समयमें अल्पतर अथवा अवस्थित स्थितिवन्धके करनेपर असंख्यातभागवृद्धिका दो समय-प्रमाण उत्कृष्टकाल लब्ध हो जाता है । इसी प्रकार द्वीन्द्रियादि जीवोंके भी दो समयोंकी प्ररूपणा जानना चाहिए ।

चूणिं सू०—मिथ्यात्वकर्मकी असंख्यातभागहानिका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल साधिक एक सौ तिरेसठ सागरोपम है ॥ ३३४-३३५ ॥

विशेषार्थ—सम-स्थितिको बांधनेवाले किसी जीवके पुनः विद्यमान स्थितिसत्त्वसे नीचे एक समय उतर करके स्थितिवन्ध कर तदनन्तर उपरिम समयमें विद्यमान स्थितिसत्त्वके समान स्थितिवन्धके करनेपर असंख्यातभागहानिका जघन्यकाल एक समयमात्र पाया जाता है । मिथ्यात्वकर्मकी असंख्यातभागहानिका उत्कृष्टकाल सातिरेक एकसौ तिरेसठ सागरोपम है । उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—वृद्धि अथवा अवस्थित स्थितिविभक्तिमें विद्यमान कोई एक जीव सर्वोत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तकाल तक अल्पतरस्थितिविभक्तिको करके वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । पुनः पूर्वमें वतलाये गये क्रमसे दो बार छयासठ सागरोपमकाल तक परिभ्रमण कर तत्पश्चात् इकतीस सागरोपमकी स्थितिवाले प्रैवेयक देवोंमें उत्पन्न हो मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ और वहाँ अपनी आयुको पूरी करके मरकर पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । वहाँ अन्तर्मुहूर्तके पश्चात् ही संक्लेशसे पूरित हो भुजाकारस्थितिवन्धको प्राप्त हुआ । इस प्रकार एक अन्तर्मुहूर्तसे अधिक एकसौ तिरेसठ सागरोपमप्रमाण उत्कृष्टकाल होता है । उपर्युक्त प्रकारसे मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका उत्कृष्टकाल वतलानेके पश्चात् जयधवलाकार कहते हैं कि एक सौ तिरेसठ सागरोपमकालको जो अन्तर्मुहूर्तसे अधिक कहा गया है, वह कम है, अतः उसे न ग्रहणकर पत्योपमके असंख्यातवे भागसे अधिक कालको ग्रहण करना चाहिए । उसके लानेके लिए वे कहते हैं कि दो बार छयासठ सागरोपम परिभ्रमण करनेके पूर्व विवक्षित

३३६. संखेज्जभागहाणीए जहण्णेण 'एगसमओ' । ३३७. उक्कस्सेण जहण्णम-
संखेज्जयं तिरूवूणयमेत्तिए समए । ३३८. संखेज्जगुणहाणि-असंखेज्जगुणहाणीणं
जहण्णुक्कस्सेण एगसमओ । ३३९. अवट्ठिदट्ठिदिविहत्तिया कंठचिरं कालादां हंति ?
३४०. जहण्णेण एगसमओ । ३४१. उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

जीव भोगभूमिमें उत्पन्न हुआ और वहाँपर वेदक-प्रायोग्य दीर्घ-उद्देलनकालप्रमित आयुके शेष
रहनेपर प्रथमसम्यक्त्वको ग्रहणकर और अन्तर्मुहूर्तके पश्चात् मिथ्यात्वका प्राप्त होकर
वहाँपर पल्योपमके असंख्यातत्रे भागमात्र कालको धिताकर अपनी आयुके अन्तमें वेदक-
सम्यक्त्वको ग्रहण करके देवोंमें उत्पन्न हुआ और फिर पूर्वके समान एक नों तिरसठ
सागरकाल तक देव और मनुष्योंमें परिभ्रमण करके अन्तमें मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ और
वहाँपर भुजाकारबन्ध किया । इस प्रकारसे पल्योपमके असंख्यातत्रे भागसे अधिक एकसाँ
तिरेसठ सागरोपम मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका उत्कृष्टकाल सिद्ध हो जाता है ।

चूर्णिसू०—मिथ्यात्वकर्मकी संख्यातभागहानिका जघन्यकाल एक समय है और
उत्कृष्टकाल तीन रूपसे कम जघन्यपरीतासंख्यातके समयप्रमाण है ॥ ३३६-३३७ ॥

विशेषार्थ—दर्शनमोहके क्षपणकालमें अथवा अन्य समय पल्योपमके संख्यातत्रे भाग-
प्रमाण स्थितिखंडके घात करनेपर संख्यातभागहानिका एक समयमात्र जघन्यकाल पाया जाता
है । संख्यातभागहानिका उत्कृष्टकाल तीनरूपसे कम जघन्य परीतासंख्यातके जितने समय
होते हैं, तत्प्रमाण है । इसका कारण यह है कि दर्शनमोहके क्षपणकालमें मिथ्यात्वकर्मके
चरम स्थितिखंडके घात कर दिये जानेपर तथा उदयावलीमें उत्कृष्ट संख्यातमात्र निपेकस्थितियोंके
अवशिष्ट रह जानेपर संख्यातभागहानिका प्रारम्भ होता है । वहाँसे लगाकर तबतक संख्यात-
भागहानि होती हुई चली जाती है, जबतक कि उदयावलीमें तीन समयकालवाली दो निपेक-
स्थितियाँ अवस्थित रहती हैं । इस प्रकार सूत्रोक्त उत्कृष्टकाल सिद्ध होता है ।

चूर्णिसू०—मिथ्यात्वकर्मकी संख्यातगुणहानि और असंख्यातगुणहानि, इन दोनोंका
जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समयमात्र है ॥ ३३८ ॥

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि दर्शनमोहके क्षपणकालमें पल्योपमप्रमित स्थिति-
सत्त्वसे लगाकर दूरापकृष्टिप्रमित स्थितिसत्त्वके अवशिष्ट रहने तक मध्यवर्ती अन्तरकालमें पत-
मान स्थितिखंडके पतित होनेपर संख्यातगुणहानि होती है और उसका काल एक समय ही
होता है, क्योंकि चरमफालीको छोड़कर अन्यत्र मिथ्यात्वकी संख्यातगुणहानि नहीं होती है ।
तथा दूरापकृष्टिसे लेकर चरम स्थितिखंडकी चरमफाली तक मध्यवर्ती अन्तरालमें स्थितिखंडो
के पतित होनेपर मिथ्यात्वकर्मकी असंख्यातगुणहानि होती है । इसका भी काल एक समय
ही है, क्योंकि, स्थितिखंडोकी चरमफालीमें ही मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणहानि पाई जाती है ।

चूर्णिसू०—मिथ्यात्वकर्मकी अवस्थित स्थितिविभक्तिका कितना काल है ? जघन्य
काल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है ॥ ३३९-३४१ ॥

३४२. सेसाणं पि कम्माणमेदेण वीजपदेण णेद्व्वं ।

३४३. एगजीवेण अंतरं । ३४४. मिच्छत्तस्स असंखेज्जभागवद्धि-अवट्ठाण-
ट्ठिदिविहत्तियंतरं केवचिरं । ३४५. जहण्णेण एगसमयं । ३४६. उक्कस्सेण तेवट्ठिसा-
गरोवमसदं तीहि पल्लिदोवमेहि सादिरेयं । ३४७. संखेज्जभागवद्धि-हाणि-संखेज्ज-
गुणवद्धि-हाणिट्ठिदिविहत्तियंतरं जहण्णेण एगसमओ । हाणी अंतोमुहुत्तं । ३४८. उक्कस्सेण
असंखेज्जा पोग्गलपरियट्ठा । ३४९. असंखेज्जगुणहाणिट्ठिदिविहत्ति-अंतरं जहण्णुक्कस्सेण
अंतोमुहुत्तं । ३५०. असंखेज्जभागहाणिट्ठिदिविहत्तियंतरं जहण्णेण एगसमओ ।
३५१. उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । ३५२. सेसाणं कम्माणमेदेण वीजपदेण अणुमग्गिद्व्वं ।

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि भुजाकार अथवा अल्पतर स्थितिविभक्तिको करके जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त तक अवस्थितविभक्ति करनेपर सूत्रोक्त जघन्य और उत्कृष्टकाल पाया जाता है ।

चूर्णिसू०—जिस प्रकारसे मिथ्यात्वकर्मकी असंख्यातभागहानि-वृद्धि आदिके जघन्य और उत्कृष्टकालोकी प्ररूपणा की है उसी प्रकारसे शेष कर्मोंकी भी हानि और वृद्धियोंके जघन्य तथा उत्कृष्ट कालोंको इसी उपर्युक्त वीजपदके द्वारा जान लेना चाहिए ॥ ३४२ ॥

चूर्णिसू०—अब उक्त वृद्धि, हानि आदि-सम्बन्धी अन्तरका एक जीवकी अपेक्षा निरूपण किया जाता है—मिथ्यात्वकर्मकी असंख्यातभागवृद्धि और अवस्थानस्थितिविभक्तिका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय है ॥ ३४३-३४५ ॥

विशेषार्थ—क्योंकि, असंख्यातभागवृद्धि और अवस्थानको पृथक्-पृथक् करनेवाले दो जीवोंके द्वितीय समयमें विवक्षित पदके विरुद्ध पदमें जाकर अन्तरको प्राप्त हो तृतीय समयमें पुनः विवक्षित पदसे परिणत होनेपर एक समयप्रमाण अन्तर पाया जाता है ।

चूर्णिसू०—उत्कृष्ट अन्तर तीन पत्यसे अधिक एकसौ तिरेसठ सागर है ॥ ३४६ ॥

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि उक्त पद-परिणत जीवोंके असंख्यातभागहानि और संख्यातभागहानियोंके उत्कृष्टकालके साथ अन्तरको प्राप्त होकर पुनः विवक्षित पदसे परिणत होनेपर सूत्रोक्त उत्कृष्ट अन्तरकाल पाया जाता है ।

चूर्णिसू०—मिथ्यात्वकर्मकी संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणवृद्धि, इन स्थिति-विभक्तियोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है । संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानि, इन स्थितिविभक्तियोंका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है । इन सब स्थितिविभक्तियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है ॥ ३४७-३४८ ॥

चूर्णिसू०—मिथ्यात्वकर्मकी असंख्यातगुणहानिस्थितिविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यातभागहानिस्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार शेष कर्मोंकी वृद्धि और हानि-सम्बन्धी अन्तरकालका भी इसी उपर्युक्त वीजपदसे अनुमार्गण करना चाहिए ॥ ३४९-३५२ ॥

३५३. अप्पावहुअं । ३५४. मिच्छत्तस्स सव्वत्थोवा असंखेज्जगुणहाणिकम्मंसिया । ३५५. संखेज्जगुणहाणिकम्मंसिया असंखेज्जगुणा । ३५६. संखेज्जभागहाणिकम्मंसिया संखेज्जगुणा । ३५७. संखेज्जगुणवड्ढिकम्मंसिया असंखेज्जगुणा । ३५८. संखेज्जभागवड्ढिकम्मंसिया संखेज्जगुणा । ३५९. असंखेज्जभागवड्ढिकम्मंसिया अणंतगुणा । ३६०. अवड्ढिदकम्मंसिया असंखेज्जगुणा । ३६१. असंखेज्जभागहाणिकम्मंसिया संखेज्जगुणा । ३६२. एवं वारसकसाय-णवणोकसायाणं । ३६३. सम्मत्त-सम्पामिच्छत्ताणं सव्वत्थोवा असंखेज्जगुणहाणिकम्मंसिया । ३६४. अवड्ढिदकम्म-

चूर्णिसू०—अव मोहप्रकृतियोंकी वृद्धि-हानिरूप स्थितिविभक्तिका अल्पवहुत्व कहते हैं—मिथ्यात्वकर्मकी स्थितिविभक्तिके असंख्यातगुणहानि करनेवाले जीव आगे कहे जानेवाले पदोंकी अपेक्षा सबसे कम है । क्योंकि, दर्शनमोहकी श्रपणा करनेवाले जीव संख्यात ही होते हैं । असंख्यातगुणहानि करनेवाले जीवोंसे संख्यातगुणहानि करनेवाले जीव असंख्यातगुणित हैं । क्योंकि, मिथ्यात्वकी संख्यातगुणहानि करनेवाले जीव जगत्प्रतरके असंख्यातवें भागप्रमित संज्ञी पर्याप्तक और अपर्याप्तक जीवोंके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । संख्यातगुणहानि करनेवाले जीवोंसे संख्यातभागहानि करनेवाले जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ३५३-३५६ ॥

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि तीव्र विशुद्धिसे परिणत जीवोंकी अपेक्षा मध्यम विशुद्धिसे परिणत जीव संख्यातगुणित होते हैं । दूसरी बात यह है कि मिथ्यात्वकर्मकी स्थितिविभक्ति-सम्बन्धी संख्यातगुणहानिको संज्ञी पंचेन्द्रिय जीव ही करते हैं, किन्तु संख्यात-भागहानिको तो संज्ञी पंचेन्द्रिय, असंज्ञी पंचेन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और द्वीन्द्रिय जीव भी करते हैं, इसलिए संख्यातगुणहानिविभक्ति करनेवाले जीवोंसे संख्यातभागहानिविभक्ति करनेवाले जीव संख्यातगुणित सिद्ध होते हैं ।

चूर्णिसू०—मिथ्यात्वकर्मकी संख्यातभागहानि करनेवाले जीवोंसे संख्यातगुणवृद्धि करनेवाले जीव असंख्यातगुणित हैं । मिथ्यात्वकी संख्यातगुणवृद्धि करनेवाले जीवोंसे संख्यात-भागवृद्धि करनेवाले जीव संख्यातगुणित हैं । मिथ्यात्वकी संख्यातभागवृद्धिवाले जीवोंसे असंख्यातभागवृद्धि करनेवाले जीव अनन्तगुणित हैं । मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धिवाले जीवोंसे अवस्थित स्थितिविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणित हैं । मिथ्यात्वकी अवस्थित-विभक्तिवाले जीवोंसे मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानि करनेवाले जीव संख्यातगुणित हैं । जिस प्रकारसे मिथ्यात्वकर्मकी वृद्धि, हानि और अवस्थित स्थितिविभक्तिका अल्पवहुत्व कहा गया है, उसी प्रकार अप्रत्याख्यानावरण आदि वारह कपाय और नव नोकपायोंका वृद्धि, हानि और अवस्थानसम्बन्धी अल्पवहुत्व जानना चाहिए ॥ ३५७-३६२ ॥

अव सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिकी वृद्धि-हानिका अल्पवहुत्व कहते हैं—

चूर्णिसू०—सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दो प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणहानि-वाले जीव आगे कहे जानेवाले सर्व पदोंकी अपेक्षा सबसे कम है । असंख्यातगुणहानिवाले

सिया असंखेज्जगुणा । ३६५. असंखेज्जभागवड्ढिकम्मंसिया असंखेज्जगुणा । ३६६. असंखेज्जगुणवड्ढिकम्मंसिया असंखेज्जगुणा । ३६७. संखेज्जगुणवड्ढिकम्मंसिया असंखेज्जगुणा । ३६८. संखेज्जभागवड्ढिकम्मंसिया संखेज्जगुणा । ३६९. संखेज्जगुणहाणिकम्मंसिया संखेज्जगुणा । ३७०. संखेज्जभागहाणिकम्मंसिया संखेज्जगुणा । ३७१. अवत्तव्वकम्मंसिया असंखेज्जगुणा । ३७२. असंखेज्जभागहाणिकम्मंसिया असंखेज्जगुणा । ३७३. अणंताणुवंधीणं सव्वत्थोवा अवत्तव्वकम्मंसिया । ३७४. असंखेज्जगुणहाणिकम्मंसिया संखेज्जगुणा । ३७५. सेसाणि पदाणि मिच्छत्तभंगो ।

३७६. द्विदिसंतकम्मट्टाणाणं परूवणा अप्पावहुत्त्रं च । ३७७. परूवणा । ३७८. मिच्छत्तस्स द्विदिसंतकम्मट्टाणाणि उक्कस्सियं द्विदिमादिं कादूण जाव एइंदियपाओग्गकम्मं जहण्यं ताव गिरंतराणि अत्थि ।

जीवोंसे अवस्थित स्थितिविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणित है । अवस्थितस्थितिविभक्तिवाले जीवोंसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव असंख्यातगुणित है । असंख्यातभागवृद्धिवाले जीवोंसे असंख्यातगुणवृद्धिवाले जीव असंख्यातगुणित हैं । असंख्यातगुणवृद्धिवाले जीवोंसे संख्यातगुणवृद्धिवाले जीव असंख्यातगुणित है । संख्यातगुणवृद्धिवाले जीवोंसे संख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणित है । संख्यात भागवृद्धिवालोंसे संख्यातगुणहानिवाले जीव संख्यातगुणित है । संख्यातगुणहानिवालोंसे संख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातगुणित है । संख्यातभागहानिवालोंसे अवक्तव्यस्थितिविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणित हैं । अवक्तव्यस्थितिविभक्तिवालोंसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणित है ॥ ३६३-३७२ ॥

अत्र अनन्तानुवन्धी कपायचतुष्कका वृद्धि-हानि-सम्बन्धी अल्पबहुत्व कहते हैं—

चूर्णिसू०—अनन्तानुवन्धी चारो कपायोकी अवक्तव्यस्थितिविभक्ति करनेवाले जीव आगे कहे जानेवाले सर्वपदोंकी अपेक्षा सघसे कम है । अवक्तव्यस्थितिविभक्तिवाले जीवोंसे असंख्यातगुणहानि करनेवाले जीव संख्यातगुणित है । शेष पदोंका अल्पबहुत्व मिथ्यात्वके समान जानना चाहिए ॥ ३७३-३७५ ॥

विशेषार्थ—इस सूत्रसे सूचित पदोंका अल्पबहुत्व इस प्रकार है—अनन्तानुवन्धीकी असंख्यातगुणहानि करनेवालोंसे संख्यातगुणहानि करनेवाले असंख्यातगुणित है । इनसे संख्यातभागहानि करनेवाले संख्यातगुणित है । इनसे संख्यात गुणवृद्धि करनेवाले असंख्यातगुणित है । इससे संख्यातभागवृद्धि करनेवाले संख्यातगुणित है । इनसे असंख्यातभागवृद्धि करनेवाले अनंतगुणित है । इनसे अवस्थितविभक्ति करनेवाले असंख्यातगुणित है । इनसे असंख्यातभागहानि करनेवाले जीव संख्यातगुणित है ।

चूर्णिसू०—अव मोहकर्मके स्थितिसत्कर्मस्थानोंकी प्ररूपणा और अल्पबहुत्व कहते हैं । प्ररूपणा इस प्रकार है—मिथ्यात्वकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिको आदि करके एकेन्द्रिय-प्रायोग्य जघन्य कर्मका स्थितिसत्त्व प्राप्त होने तक निरन्तर मिथ्यात्वके स्थितिसत्कर्मस्थान होते हैं ॥ ३७६-३७८ ॥

३७९. अण्णाणि पुण दंसणमोहक्खवयस्स अणियट्ठिपविट्ठस्स जम्हि ट्ठिदि-
संतकम्ममेइंदियकम्मस्स हेड्ढदो जादं तत्तो पाए अंतोमुहुत्तमेत्ताणि ट्ठिदिसंतकम्मट्ठा-
णाणि लब्भंति । ३८०. सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणं ट्ठिदिसंतकम्मट्ठाणाणि सत्तरि-
सागरोपमकोडाकोडीओ अंतोमुहुत्तूणाओ । ३८१. अपच्छिमेण उव्वेलणकंडएण च
ऊणाओ एत्तियाणि ट्ठाणाणि ।

विशेषार्थ—मिथ्यात्वकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कांडाकोडी सागरोपम-प्रमाण होती
है और इसका सत्त्व तीव्र संक्लेश-परिणामोसे मिथ्यात्वकर्मका उत्कृष्ट वन्ध करनेवाले मंत्री
पंचेन्द्रिय मिथ्यादृष्टि जीवके प्रथम समयमें पाया जाता है । यह मिथ्यात्वका सर्वोत्कृष्ट प्रथम
स्थितिसत्कर्मस्थान है । एक समय कम सत्तर कोडाकोडी सागरोपम-प्रमाण वन्ध करनेवाले
मिथ्यादृष्टिके दूसरा स्थितिसत्कर्मस्थान होता है । दो समय कम सत्तर कोडाकोडी सागरोपम-
प्रमाण वन्ध करनेवाले मिथ्यादृष्टिके तीसरा स्थितिसत्कर्मस्थान होता है । इस प्रकार एक-एक
समय कम करनेपर चौथा, पाँचवाँ आदि स्थान होते जाते हैं । यह क्रम तब तक निरन्तर
जारी रखना चाहिए जबतक कि मिथ्यात्वका सर्वजघन्य स्थितिवन्ध प्राप्त न हो जाय ।
मिथ्यात्वकर्मके सर्वजघन्य स्थितिवन्धका प्रमाण पल्योपमके असंख्यातवे भागसे कम एक
सागरोपम है और वह अतिहीन संक्लेश-परिणामवाले एकेन्द्रिय जीवके पाया जाता है ।
कहनेका अभिप्राय यह है कि मिथ्यात्वके उत्कृष्ट स्थितिवन्धसे लगाकर सर्वजघन्य स्थितिवन्ध
तक एक-एक समय कम करनेपर जितने स्थितिके भेद होते हैं, उतने ही मिथ्यात्वके स्थिति-
सत्कर्मस्थान होते हैं । इनका प्रमाण पल्योपमके असंख्यातवे भागसे कम एक सागरोपमसे
हीन सत्तर सागरोपमके जितने समय होते हैं, उतना है ।

ये उपर्युक्त स्थितिसत्कर्मस्थान मिथ्यात्वकर्मका वन्ध करनेवाले जीवोंके पाये जाते
हैं । इनके अतिरिक्त ऐसे और भी मिथ्यात्वके स्थितिसत्कर्मस्थान हैं, जो कि मिथ्यात्वकर्मके
वन्धसे रहित, किन्तु मिथ्यात्वकी सत्ता रखनेवाले सम्यग्दृष्टि जीवके पाये जाते हैं । उनका
निरूपण करनेके लिए यतिवृषभाचार्य उत्तरसूत्र कहते हैं —

चूर्णिसू०—इनके अतिरिक्त मिथ्यात्वकर्मके अन्य भी स्थितिसत्कर्मस्थान होते हैं,
जो कि अनिवृत्तिकरणमे प्रविष्ट हुए दर्शनमोह-क्षपकके जिस समयमे मिथ्यात्वका स्थिति-
सत्कर्म एकेन्द्रिय जीवके वन्ध-प्रायोग्य स्थितिसत्कर्मके नीचे हो जाता है, उस समय पाये
जाते हैं । वे अन्तर्मुहूर्तके जितने समय हैं, उतने प्रमाण होते हैं ॥३७९॥

अव सम्यग्मिथ्यात्व तथा सम्यक्त्वप्रकृतिके स्थितिसत्कर्म स्थान कहते हैं—

चूर्णिसू०—सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनों कर्मोंके स्थितिसत्कर्म-
स्थान अन्तर्मुहूर्तसे कम सत्तरकोडाकोडी सागरोपमप्रमाण होते हैं । तथा अन्तिम उद्वेलना-
कांडकसे भी न्यून होते हैं ॥३८०-३८१॥

विशेषार्थ—सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकर्मके स्थितिसत्त्वस्थान केवल अन्तर्मुहूर्त-

३८२. जहा मिच्छत्तस्स तथा सेसाणं कम्माणं ।

३८३. अभवसिद्धियपाओग्गे जेसिं कम्मंसाणमग्गट्ठिदिसंतकम्मं तुल्लं जहण्णगं
*ट्ठिदिसंतकम्मं थोवं तेसिं कम्मंसाणं ठाणाणि बहुआणि ।

से ही कम नहीं होते हैं—किन्तु चरम उद्वेलनाकांडकसे भी कम होते हैं । क्योंकि, चरम उद्वेलनाकांडककी चरम फालीप्रमित स्थितियोंका युगपत् पतन होनेसे उनके स्थान-सम्बन्धी विकल्प नहीं पाये जाते हैं । अतएव एक अन्तर्मुहूर्त और चरम उद्वेलनाकांडकका जितना प्रमाण है उससे कम सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपम कालके जितने समय होते हैं, उतने सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वके स्थितिसत्कर्मस्थान होते हैं, ऐसा जानना चाहिए ।

चूर्णिसू०—जिस प्रकारसे मिथ्यात्वकर्मके स्थितिसत्कर्मस्थानोंकी प्ररूपणा की है उसी प्रकारसे शंभ्र कर्मोंके अर्थात् सोलह कपाय और नव नोकपायोंके स्थितिसत्कर्मस्थानोंकी प्ररूपणा करना चाहिए ॥३८२॥

अब उपर्युक्त विधानसे उत्पन्न हुए स्थितिसत्कर्मस्थानोंके अल्पवहुत्व साधन करने के लिए उत्तरसूत्र कहते हैं—

चूर्णिसू०—अभव्यसिद्धिक जीवके प्रायोग्य कर्मोंके उत्कृष्ट स्थिति और अनुभागको बाँधनेवाले जिस मिथ्यादृष्टि जीवमें जिन कर्माणो (कर्म-प्रकृतियों)का अग्र (उत्कृष्ट) स्थिति-सत्कर्म समान है और जघन्य स्थितिसत्कर्म समान नहीं है, किन्तु अल्प है, उन कर्माणोके स्थान बहुत होने हैं ॥३८३॥

विशेषार्थ—अभव्योंके बाँधने योग्य कर्मोंकी स्थितिसत्त्ववाले जिस मिथ्यादृष्टि जीवमें उत्कृष्टस्थिति सत्कर्मके समान होने हुए भी जघन्य स्थितिसत्कर्म समान नहीं होते हैं, उन कर्मोंके सत्कर्मस्थान बहुत होनेका कारण यह है कि उपरकी अपेक्षा नीचे सत्कर्मस्थान अधिक पाये जाते हैं । इसका उदाहरण इस प्रकार है—कोई एक एकेन्द्रिय जीव पल्योपमके असंख्यातवे भागसे हीन चार बटे सात (४) सागर-प्रमाण कपायोंकी उत्कृष्टस्थितिको बाँधता हुआ विद्यमान था, उसने बन्धावलीकालको विताकर कपायोंकी उक्त उत्कृष्ट स्थितिको नवों नोकपायोंके ऊपर संक्रमित कर दिया, तब उसके कपाय और नोकपाय दोनोंके ही उत्कृष्ट स्थितिसत्कर्मस्थान सदृश ही पाये जाते हैं । अब जघन्य स्थितिसत्कर्मस्थानोंकी विसदृशताका स्पष्टीकरण करते हैं—किसी एकेन्द्रिय जीवमें कपायोंके जघन्य स्थितिसत्कर्मके होनेपर उसने पुरुषवेद, हास्य और रति इन तीन नोकपायोंका एक साथ बन्ध प्रारम्भ किया । बन्ध प्रारम्भ करनेके प्रथम समयसे लेकर हास्य और रतिके बन्ध-कालका संख्यातवां भाग व्यतीत होनेपर पुरुषवेदका बन्ध-काल समाप्त हो गया और तदनन्तर समयमें ही उसने हास्य और रतिके साथ स्त्रीवेदका बन्ध प्रारम्भ कर दिया । इस प्रकार बन्ध प्रारम्भ कर पुरुषवेदके बन्धकाल

ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'जहण्णगट्ठिदिसंतकम्म' ऐसा पाठ मुद्रित है । पर जयध्वला टीकासे उसकी पुष्टि नहीं होती । अतः 'जहण्णग' ऐसा ही पाठ होना चाहिए । (देखो पृ० ५११ प० १९)

३८४. इमाणि अण्णाणि अप्पावहुअस्स साहणाणि कायव्वाणि । ३८५. तं जहा । सव्वत्थोवा चरित्तमोहणीयक्खवयस्स अणियट्ठिअट्ठा । ३८६. अपुव्वकरणट्ठा संखेज्जगुणा । ३८७. चारित्तमोहणीयउवसामयस्स अणियट्ठिअट्ठा संखेज्जगुणा ३८८. अपुव्वकरणट्ठा संखेज्जगुणा । ३८९. दंसणमोहणीयक्खवयस्स अणियट्ठिअट्ठा संखेज्जगुणा । ३९०. अपुव्वकरणट्ठा संखेज्जगुणा । ३९१. अणंताणुवंधीणं विसंजोएंतस्स अणियट्ठिअट्ठा संखेज्जगुणा । ३९२. अपुव्वकरणट्ठा संखेज्जगुणा । ३९३. दंसणमोह-

से संख्यातगुणित काल तक उनका बन्ध करते हुए स्त्रीवेदका बन्धकाल समाप्त हो गया और तब उसने अनन्तर समयमें नपुंसकवेदका बन्ध प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार उसके नपुंसकवेदके साथ हास्य और रतिको बाँधते हुए पूर्व बन्धकालसे संख्यातगुणित काल तक बन्ध करनेके अनन्तर हास्य-रतिका बन्धकाल समाप्त हो गया। तब उसने नपुंसकवेदके साथ अरति और शोकका बन्ध प्रारम्भ किया। इस प्रकार नपुंसकवेदके साथ अरति-शोकका बन्ध करते हुए उसके पूर्व बन्धकालसे संख्यातगुणित काल व्यतीत होनेपर नपुंसकवेदका बन्धकाल और अरति-शोकका बन्धकाल, ये दोनों ही एक साथ समाप्त हो गये। उक्त जीवके नोकपायोके बन्धकालका अल्प-बहुत्व अंकोकी अपेक्षा इस प्रकार होगा—पुरुषवेदका बन्धकाल सबसे कम २, स्त्रीवेदका बन्धकाल संख्यातगुणित ८, हास्य-रतिका बन्धकाल संख्यातगुणित ३२, अरति-शोकका बन्धकाल संख्यातगुणित १२८, और नपुंसकवेदका बन्धकाल विशेष अधिक १५० होगा। चूँकि, सातों नोकपायोके स्थितिवन्धकाल विसदृश हैं, इसलिए उनके स्थितिसत्त्वस्थान भी सदृश नहीं होते हैं। अतएव यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि मिथ्यादृष्टि जीवमें उत्कृष्ट स्थितिसत्कर्मस्थान समान होते हुए भी जघन्य स्थितिवन्धस्थानोंके विसदृश होनेसे जघन्य स्थितिसत्कर्मस्थान भी विसदृश और अधिक होते हैं।

उपर्युक्त एक प्रकारसे मोहनीयकर्मके स्थितिसत्कर्मस्थानोंका अल्पबहुत्व साधन करके अब अन्य प्रकारसे अल्पबहुत्व साधन करनेके लिए उत्तरसूत्र कहते हैं—

चूर्णिसू०—मोहनीयकर्मके स्थितिसत्कर्मस्थानसम्बन्धी अल्पबहुत्वके ये अन्य भी साधन निरूपण करना चाहिए। वे साधन इस प्रकार हैं—चारित्रमोहनीयकर्मके क्षपण करनेवाले जीवके अनिवृत्तिकरणका काल आगे कहे जानेवाले सभी पदोंकी अपेक्षा सबसे कम है। चारित्रमोहनीय-क्षपकके अनिवृत्तिकरण-कालसे उसीके अपूर्वकरणका काल संख्यातगुणित है। चारित्रमोहनीय-क्षपकके अपूर्वकरणकालसे चारित्रमोहनीयकर्मके उपशमन करनेवाले जीवके अनिवृत्तिकरणका काल संख्यातगुणित है। चारित्रमोहनीयउपशामकके अनिवृत्तिकरण-कालसे उसीके अपूर्वकरणका काल संख्यातगुणित है। चारित्रमोहनीय-उपशामकके अपूर्वकरणकालसे दर्शनमोहनीयकर्मके क्षपण करनेवाले जीवके अनिवृत्तिकरणका काल संख्यातगुणित है। दर्शनमोहनीय-क्षपकके अनिवृत्तिकरण-कालसे उसीके अपूर्वकरणका काल संख्यातगुणित है। दर्शनमोहनीय-क्षपकके अपूर्वकरण-कालसे अनन्तानुबन्धी चारों कपायोकी विसंयोजना करनेवाले जीवके अनिवृत्तिकरणका

णीयउवसामयस्स अणियट्टिअट्ठा संखेज्जगुणा । ३९४. अपुव्वकरणट्ठा संखेज्जगुणा ।
 ३९५. एत्तो ट्टिदिसंतकम्मट्ठाणाणमप्पावहुअं । ३९६. सव्वत्थोवा अट्ठण्हं
 कसायाणं ट्टिदिसंतकम्मट्ठाणाणि । ३९७. इत्थि-णवुंसयवेदाणं ट्टिदिसंतकम्मट्ठाणाणि
 तुल्लाणि विसेसाहियाणि । ३९८. छण्णोकसायाणं ट्टिदिसंतकम्मट्ठाणाणि विसेसा-
 हियाणि । ३९९. पुरिसवेदस्स ट्टिदिसंतकम्मट्ठाणाणि विसेसाहियाणि । ४००.
 क्रोधसंजलणस्स ट्टिदिसंतकम्मट्ठाणाणि विसेसाहियाणि । ४०१. माणसंजलणस्स ट्टिदि-
 संतकम्मट्ठाणाणि विसंसाहियाणि । ४०२. मायासंजलणस्स ट्टिदिसंतकम्मट्ठाणाणि
 विसेसाहियाणि । ४०३. लोभसंजलणस्स ट्टिदिसंतकम्मट्ठाणाणि विसेसाहियाणि ।
 ४०४. अणंताणुर्वंधीणं चट्ठण्हं ट्टिदिसंतकम्मट्ठाणाणि विसेसाहियाणि । ४०५. मिच्छ-
 त्तस्स ट्टिदिसंतकम्मट्ठाणाणि विसेसाहियाणि । ४०६. सम्मत्तस्स ट्टिदिसंतकम्मट्ठाणाणि
 विसेसाहियाणि । ४०७. सम्मामिच्छत्तस्स ट्टिदिसंतकम्मट्ठाणाणि विसेसाहियाणि ।

काल संख्यातगुणित हैं । अनन्तानुबन्धी-विसंयोजकके अनिवृत्तिकरणकालसे उसीके अपूर्व-
 करणका काल संख्यातगुणित हैं । अनन्तानुबन्धी-विसंयोजकके अपूर्वकरणकालसे दर्शनमोहनीय-
 कर्मके उपशमन करनेवाले जीवके अनिवृत्तिकरणका काल संख्यातगुणित है । दर्शनमोहनीय-
 उपशमनके अनिवृत्तिकरण-कालसे उसीके अपूर्वकरणका काल संख्यातगुणित है ॥ ३८४-३९४ ॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे मोहनीयकर्मसम्बन्धी स्थितिसत्कर्मस्थानोंके अल्पबहुत्व-
 का कहते हैं—अप्रत्याख्यानावरण आदि आठ मध्यम कपायोंके स्थितिसत्कर्मस्थान आगे कहे
 जानेवाले सर्वपदोंकी अपेक्षा सबसे कम है । आठो मध्यम कपायोंके स्थितिसत्कर्मस्थानोंसे
 स्त्री और नपुंसक, इन दोनों वेदोंके स्थितिसत्कर्मस्थान परस्पर तुल्य होते हुए भी विशेष
 अधिक है । स्त्री और नपुंसकवेदके स्थितिसत्कर्मस्थानोंसे हास्यादि छह नोकपायोंके स्थिति-
 सत्कर्मस्थान विशेष अधिक है । छह नोकपायोंके स्थितिसत्कर्मस्थानोंसे पुरुषवेदके स्थिति-
 सत्कर्मस्थान विशेष अधिक है । पुरुषवेदके स्थितिसत्कर्मस्थानोंसे क्रोधसंज्वलनकपायके स्थिति-
 सत्कर्मस्थान विशेष अधिक है । क्रोधसंज्वलनके स्थितिसत्कर्मस्थानोंसे मानसंज्वलनके स्थिति-
 सत्कर्मस्थान विशेष अधिक है । मानसंज्वलनके स्थितिसत्कर्मस्थानोंसे क्रोधसंज्वलनके स्थिति-
 सत्कर्मस्थान विशेष अधिक है । लोभसंज्वलनके स्थितिसत्कर्मस्थानोंसे अनन्तानुबन्धी चारो
 कपायोंके स्थितिसत्कर्मस्थान विशेष अधिक है । अनन्तानुबन्धी चारो कपायोंके स्थितिसत्कर्म-
 स्थानोंसे मिथ्यात्वकर्मके स्थितिसत्कर्मस्थान विशेष अधिक है । मिथ्यात्वके स्थितिसत्कर्म-
 स्थानोंसे सम्यक्त्वप्रकृतिके स्थितिसत्कर्मस्थान विशेष अधिक है । सम्यक्त्वप्रकृतिके स्थिति-
 सत्कर्मस्थानोंसे सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिके स्थितिसत्कर्मस्थान विशेष अधिक है ॥ ३९५-४०७ ॥

विशेषार्थ—यहाँ प्रकरणमे उपयोगी समझकर जयधवला टीकाके अनुसार प्रतिपक्ष-
 बन्धककालको आश्रय करके अभव्यसिद्धिकोके प्रायोग्य स्थितिसत्कर्मस्थानोंका अल्पबहुत्व

एवं 'तह द्विदीए' त्ति जं पदं तस्स अत्थपरूवणा कदा ।

ठिदिविहत्ती समत्ता ।

कहते हैं^१ । वह इस प्रकार है—अनन्तानुवन्धी आदि सोलह कपाय, भय और जुगुप्सा, इन प्रकृतियोंके स्थितिसत्कर्मस्थान आगे कहे जानेवाले सर्वस्थानोकी अपेक्षा सबसे कम है । सोलह कपाय और भय-जुगुप्साके स्थितिसत्कर्मस्थानोसे नपुंसकवेदके स्थितिसत्कर्मस्थान विशेष अधिक है । नपुंसकवेदके स्थितिसत्कर्मस्थानोसे अरति और शोक प्रकृतिके स्थिति-सत्कर्मस्थान विशेष अधिक है । अरति-शोकके स्थितिसत्कर्मस्थानोसे हास्य और रति प्रकृति-के स्थितिसत्कर्मस्थान विशेष अधिक है । हास्य-रतिके स्थितिसत्कर्मस्थानोसे स्त्रीवेदके स्थिति-सत्कर्मस्थान विशेष अधिक है । स्त्रीवेदके स्थितिसत्कर्मस्थानोसे पुरुषवेदके स्थितिसत्कर्मस्थान विशेष अधिक है । इसी प्रकार सर्व मार्गणाओमें आगमके अनुसार अल्पवहुत्व जान लेना चाहिए ।

इस प्रकार चौथी मूलगाथाके 'तह द्विदीए' इस पदके अर्थकी प्ररूपणा की गई ।

इस प्रकार स्थितिविभक्ति समाप्त हुई ।

१ सपहि पडिवक्खव धगद्धाओ अस्सिदूण भम्व्वसिद्वियपाओगट्ठाणाणमप्पावहुअ वत्तइस्सामो । त जहा—सव्वत्थोवाणि सोलसकसाय-भय-दुगुल्लाण ट्ठिदिसत्कम्मट्ठाणाणि । णवुसयवेदट्ठिदिसत्कम्मट्ठाणाणि विसेसाहियाणि । अरदि-सोगट्ठिदिसत्कम्मट्ठाणाणि विसेसाहियाणि । हरस रदीण ट्ठिदिसत्कम्मट्ठाणाणि विसेसाहियाणि । इत्थिवेदसत्कम्मट्ठाणाणि विसेसाहियाणि । पुरिसवेदसत्कम्मट्ठाणाणि विसेसाहियाणि । एदमप्पावहुअ सव्वमग्गणासु जाणिदूण जोजेयव्व । जयध०

अणुभागविहत्ती

१. एत्तो अणुभागविहत्ती' दुविहा-मूलपयडिअणुभागविहत्ती चेव उत्तरपयडि-अणुभागविहत्ती चेव । २ एत्तो मूलपयडिअणुभागविहत्ती भाणिदव्वा ।

अनुभागविभक्ति

अव स्थितिविभक्तिकी प्ररूपणाके पश्चात् अनुभागविभक्ति कही जाती है । आत्माके साथ सम्बन्धको प्राप्त हुए कर्मोंके स्वकार्य करनेकी अर्थात् फल देनेकी शक्तिको अनुभाग कहते हैं । इस प्रकारके अनुभागका भेद या विस्तार जिस अधिकारमे प्ररूपण किया गया है, उसे अनुभागविभक्ति कहते हैं । उसके भेद बतलाते हुए चूर्णिकार अनुभागविभक्तिका अवतार करते हैं—

चूर्णिसू०—वह अनुभागविभक्ति वह दो प्रकारकी है—मूलप्रकृतिअनुभागविभक्ति और उत्तरप्रकृतिअनुभागविभक्ति ॥ १ ॥

विशेषार्थ—मूल कर्मोंका अनुभाग जिस अधिकारमे कहा जाय, उसे मूलप्रकृति-अनुभागविभक्ति कहते हैं और जिसमे कर्मोंकी उत्तरप्रकृतियोंके अनुभागका निरूपण किया जाय, उसे उत्तरप्रकृतिअनुभागविभक्ति कहते हैं ।

मूलप्रकृतिअनुभागविभक्तिकी प्ररूपणा सुगम है, इसलिए उसका वर्णन न कर केवल सूचना करते हुए यतिवृषभाचार्य उत्तरसूत्र कहते हैं—

चूर्णिसू०—इन दोनोंमेंसे पहले मूलप्रकृतिअनुभागविभक्ति कहलाना चाहिए ॥ २ ॥

विशेषार्थ—जिन अनुयोगद्वारोंसे महाबन्धमे अनुभागबन्धका विस्तृत विवेचन किया गया है, तथा प्रस्तुत ग्रन्थमे आगे उत्तरप्रकृतिअनुभागविभक्तिका विशद वर्णन किया जायगा, उनके द्वारा मूलप्रकृतिअनुभागविभक्तिका वर्णन करना चाहिए, ऐसी जो सूचना चूर्णिकारने की है, उसका कुछ स्पष्टीकरण यहाँ किया जाता है । अनुभाग क्या वस्तु है, इस बातके जाननेके लिए सबसे पहले निपेकप्ररूपणा और स्पर्धकप्ररूपणाका जानना आवश्यक है^१ । कर्मोंमें फल

१ को अणुभागो ? कम्माणं सगकज्जकरणसत्ती अणुभागो णाम । तस्स विहत्ती भेदे पवचो जम्हि अहियारे परुविज्जदि, सा अणुभागविहत्ती णाम । जयध०

२ एत्तो अणुभागवधो दुविधो—मूलपगदिअणुभागवधो चेव उत्तरपगदिअणुभागवधो चेव । एत्तो मूलपगदिअणुभागवधो पुव्व गमणिज्ज । तस्य इमाणि दुवे अणियोगद्वाराणि णादव्वाणि भवति । त जहा—णिसेगपरुवणा फहयपरुवणा य । णिसेगपरुवणादाए अट्ठह कम्माण देसघादिफहयाण आदिवग्गणाए आदिं काटूण णिसेगो । उवरि अप्पडिसिद्ध । × × × फहयपरुवणादाए अणताणताण अविभागपडिच्छेदाण समुदयसमागमेण एगो वग्गो भवदि । अणताणताण वग्गाण समुदयसमागमेण एगा वग्गणा भवदि ।

देनेकी मुख्यता या हीनाधिक तारतम्यतामे निपेक दो प्रकारके होते हैं—सर्वघाती और देश-घाती । यद्यपि सर्वघाती और देशघातीका भेद घातिया कर्ममे ही संभव है, तथापि अघातिया कर्मके अनुभागको घातिया कर्मसे प्रतिवद्ध मानकर उक्त दो भेद किये गये हैं; क्योंकि अघातिया कर्म भी जीवके ऊर्ध्वगमनत्व आदि प्रतिजीवी गुणोंके घातक होनेसे घातिकर्म-प्रतिवद्ध ही है । अघातिया कर्मको 'अघाती' संज्ञा देनेका कारण केवल इतना ही है कि वे जीवके अनुजीवी गुणोंका अंगमात्र भी घात करनेमें असमर्थ है । निपेकप्ररूपणामे इस प्रकारमे कर्मके देशघाती और सर्वघाती निपेकोंका विचार किया गया है । स्पर्धकप्ररूपणामें अनुभागकी मुख्यतासे कर्मके स्पर्धकोका विचार किया गया है । कर्मके अनुभागसम्बन्धी सर्व-जघन्य शक्त्यंगको अविभागप्रतिच्छेद कहते हैं । अनन्तानन्त अविभागप्रतिच्छेदोंके समुदायको वर्ग कहते हैं । अनन्तानन्त वर्गोंके समुदायको वर्गणा कहते हैं और अनन्तानन्त वर्गणाओंके समुदायको स्पर्धक कहते हैं । अनुभागविभक्तिके जाननेके लिए निपेकप्ररूपणा और स्पर्धकप्ररूपणाको अर्थपद माना गया है । इस अर्थपदके द्वारा महावन्धके रचयिता भगवन्त भूतवल्लिने जिन चौबीस अनुयोगद्वारोंसे कर्मके अनुभागवन्धका विस्तृत विवेचन किया है, उन्हीं अनुयोगद्वारोंसे वन्धके स्थानपर 'विभक्ति' पद जोड़कर उच्चारणाचार्यने अनुभागविभक्ति-का व्याख्यान किया है । प्रस्तुत ग्रन्थमे केवल एक मोहकर्म ही विवक्षित है, अतः एकमें सन्निकर्ष संभव न होनेसे उन्होंने उसे छोड़कर जेप तेईस अनुयोगद्वारोंसे अनुभागविभक्तिका निरूपण किया है । यतः महावन्धमे अनुभागका विचार बहुत विस्तारसे किया गया है, अतः पिष्ट-पेपण न हो, इस विचारसे चूर्णिकारने उन्हे न लिखकर व्याख्यानाचार्य या उच्चारणाचार्यको इस सूत्रके द्वारा केवल सूचना-मात्र कर दी है कि वे तदनुसार उच्चारण कराकर जिज्ञासु शिष्योंको उनका बोध करावे ।

मूलप्रकृतिअनुभागविभक्तिके विषयमे जां तेईस अनुयोगद्वार जानने योग्य है, उनके नाम इस प्रकार है—१ संज्ञा, २ सर्वानुभागविभक्ति ३ नोसर्वानुभागविभक्ति, ४ उत्कृष्ट-अनुभागविभक्ति, ५ अनुत्कृष्ट-अनुभागविभक्ति, ६ जघन्य-अनुभागविभक्ति, ७ अजघन्य-अनुभागविभक्ति, ८ सादि-अनुभागविभक्ति, ९ अनादि-अनुभागविभक्ति, १० ध्रुव-अनुभागविभक्ति, ११ अध्रुव-अनुभागविभक्ति, १२ एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, १३ काल,

अणताणताण वग्गणाण समुदयसमागमेण एगो फढयो भवति । × × × एदेण अट्टपदेण तत्थ इमाणि चट्ठवीस अणियोगद्वाराणि णाट्ठवाणि भवति । त जहा-सण्णा सव्ववधो णोसव्ववधो उक्कत्सवधो अणुक्कत्सवधो जहणवधो अजहणवधो साट्ठिवधो अणादिवधो उव्ववधो अद्दुव्ववधो एव याव अप्पावहुने त्ति । सुजगारवधो पदणिवखेवो वड्ढिवधो अज्जवसाणसमुदाहारो जीवसमुदाहारो त्ति । (महाव०)

१ सपिह एदस्स सुत्तस्स उच्चारणाहरियकयक्खणाण वत्तइत्सामो । तत्थ इमाणि तेवीस अणियोगद्वाराणि णाट्ठवाणि भवति । त जहा-सण्णा सव्वानुभागविहत्ती णोसव्वानुभागविहत्ती उक्कत्साणुभागविहत्ती अणुक्कत्साणुभागविहत्ती जह्णानुभागविहत्ती अजहणानुभागविहत्ती सादियअणुभागविहत्ती अणादियअणुभागविहत्ती धुवाणुभागविहत्ती अधुवाणुभागविहत्ती एगजीवेण सामित्त कालो अतरं णाणाजीवेहि

१४ अन्तर, १५ नाना जीवोकी अपेक्षा भंगविचय, १६ भागाभाग, १७ परिमाण, १८ क्षेत्र, १९ स्पर्शन, २० काल, २१, अन्तर, २२ भाव और २३ अल्पबहुत्व । इनके अतिरिक्त भुजाकार, पदनिक्षेप, वृद्धि और स्थान ये चार अर्थाधिकार भी अनुभागविभक्तिमे जानने योग्य बतलाये गये है । उक्त अनुयोगद्वारोसे यहाँपर मोहकर्मकी अनुभागविभक्तिका संक्षेपसे कुछ विचार किया जाता है—

^१(१) संज्ञाप्ररूपणा—इस अनुयोगद्वारमे कर्मोके स्वभाव, शक्ति या गुणके अनुसार विशिष्ट नाम रखकर उनके अनुभागका विचार किया गया है । संज्ञाके दो भेद है—घातिसंज्ञा और स्थानसंज्ञा । घातिसंज्ञामे कर्मोके अनुभागका सर्वघाती और देशघातीके रूपसे विचार किया गया है । जैसे—मोहकर्मका उत्कृष्ट अनुभाग सर्वघाती होता है । अनुत्कृष्ट अनुभाग सर्वघाती होता है और देशघाती भी होता है । जघन्य अनुभाग देशघाती होता है । अजघन्य अनुभाग देशघाती भी होता है और सर्वघाती भी होता है । स्थानसंज्ञामे कर्मोके अनुभागका लता, दारु, अस्थि और शैल, इन चार प्रकारके स्थानोसे विचार किया गया है । जैसे—मोहकर्मका उत्कृष्ट अनुभाग चतुःस्थानीय होता है । अनुत्कृष्ट अनुभाग चतुःस्थानीय होता है, त्रिस्थानीय होता है, द्विस्थानीय होता है और एकस्थानीय होता है । जघन्य अनुभाग एकस्थानीय होता है । अजघन्य अनुभाग एकस्थानीय भी होता है, द्विस्थानीय भी होता है, त्रिस्थानीय भी होता है और चतुःस्थानीय भी होता है ।

^२(२-३) सर्वानुभागविभक्ति-नोसर्वानुभागविभक्ति—इन अनुयोगद्वारोसे कर्मोके

भगविचओ भागाभागो परिमाण खेत्तं पोसण कालो अतर भावो अप्पावहुअ चेदि । सण्णियासो णत्थि, एक्किस्से पयडीए तदसभवादो । भुजगार पदणिकखेव वड्ढिविहत्तिट्ठाणाणि चेदि अण्णे चत्तारि अत्थाहियारा होति । जयध०

१(१) सण्णापरूवणा—सण्णापरूवणादाए तत्थ सण्णा दुविहा—घादिसण्णा ठाणसण्णा य । घादिसण्णा चटुण्ह घादीण उक्कस्सअणुभागवधो सव्वघादी । अणुक्कस्सअणुभागवधो सव्वघादी वा देसघादी वा । जहण्णअणुभागवधो देसघादी । अजहण्णओ अणुभागवधो देसघादी वा सव्वघादी वा । × × × ठाणसण्णा य चटुण्ह घादीण उक्कस्सअणुभागवधो चटुट्ठाणियो । अणुक्कस्सअणुभागवधो चटुट्ठाणियो वा तिट्ठाणियो वा विट्ठाणियो वा एयट्ठाणियो वा । जहण्णअणुभागवधो एयट्ठाणियो । अजहण्णअणुभागवधो एयट्ठाणियो वा विट्ठाणियो वा तिट्ठाणियो वा चटुट्ठाणियो वा (महाव०) । सण्णा दुविहा घादिसण्णा ट्ठाणसण्णा चेदि । घादिसण्णा दुविहा—जहण्णा उक्कस्सा चेदि । उक्कस्से पयद । दुविहो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मोहणीयस्स उक्कस्सअणुभागविहत्ती सव्वघादी । × × × अणुक्कस्सअणुभागविहत्ती सव्वघादी देसघादी वा । × × × जहण्णाणुभागविहत्ती देसघादी । अजहण्णाणुभागविहत्ती देसघादी सव्वघादी वा । × × × ठाणसण्णा दुविहा—जहण्णिया उक्कस्सिया चेदि । उक्कस्सियाए पयद । दुविहो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मोहणीयस्स उक्कस्साणुभागट्ठाण चटुट्ठाणिय । अणुक्कस्साणुभागट्ठाण चटुट्ठाणिय तिट्ठाणिय विट्ठाणिय एगट्ठाणिय वा । × × × जहण्णियाए पयद । दुविहो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोहणीयस्स जहण्णाणुभागविहत्ती एगट्ठाणिय । अजहण्णाणुभागविहत्ती एगट्ठाणिया विट्ठाणिया तिट्ठाणिया चटुट्ठाणिया वा । जयध०

२ (२-३) सव्व-णोसव्ववंधपरूवणा—यो सव्ववधो णोसव्ववधो णाम, तस्स इमो णिहेसो—

सर्व अनुभाग और नोसर्व अर्थात् सर्वसे कम अनुभागका विचार किया गया है । जिस कर्ममें अनुभाग-सम्बन्धी सर्व स्पर्धक पाये जाते हैं, वह सर्वानुभागविभक्ति है और जिसमें उससे कम स्पर्धक पाये जावे, उसे नोसर्वानुभागविभक्ति कहते हैं । मोहनीयकर्ममें सर्वानुभाग और नोसर्वानुभाग दोनों प्रकारका अनुभाग पाया जाता है ।

^१(४-५) उत्कृष्टअनुभागविभक्ति-अनुत्कृष्टअनुभागविभक्ति—इन अनुयोग-द्वारोमे कर्मोके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागका विचार किया गया है । जिस कर्ममें सर्वो-त्कृष्ट अनुभाग पाया जावे, उसे उत्कृष्टअनुभागविभक्ति कहते हैं और जिसमें उससे कम अनुभाग पाया जावे, उसे अनुत्कृष्टअनुभागविभक्ति कहते हैं । मोहनीयकर्ममें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट दोनों प्रकारका अनुभाग पाया जाता है ।

^२(६-७) जघन्यानुभागविभक्ति-अजघन्यानुभागविभक्ति—इन अनुयोगद्वारोमे कर्मोके जघन्य और अजघन्य अनुभागका विचार किया गया है । जिस कर्ममें सबसे जघन्य अनुभाग पाया जावे, वह जघन्यानुभागविभक्ति है और जिसमें जघन्यमे उपरिवर्ती अनुभाग पाया जावे, उसे अजघन्यानुभागविभक्ति कहते हैं । मोहनीयकर्ममें जघन्य और अजघन्य दोनों प्रकारका अनुभाग पाया जाता है ।

^३(७-१९) सादि-अनादि-ध्रुव-अध्रुवअनुभागविभक्ति—इन अनुयोगद्वारोमे कर्मोके उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य अनुभागोका सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव रूपसे

ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण णाणावरणीयस्स अणुभागवधो किं सव्ववधो णोसव्ववधो ? सव्ववधो वा णोसव्ववधो वा । सव्वे अणुभागो वधदि त्ति सव्ववधो । तदो ऊणिय अणुभाग वधदि त्ति णोसव्ववधो । एव सत्तह कम्माण (महाव०) । सव्वविहत्ति-णोसव्वविहत्तियाणुगमेण दुविहो णिद्देसो-ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोहणीयस्स सव्वफहयाणि सव्वविहत्ती । तदूण णोसव्वविहत्ती । जयध०

१ (४-५) उक्कस्स-अणुक्कस्सबंधपरूवणा—यो सो उक्कस्सवधो णाम, तस्स इमो णिद्देसो-ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण णाणावरणीयस्स अणुभागवधो किं उक्कस्सवधो अणुक्कस्सवधो ? उक्कस्सवधो वा अणुक्कस्सवधो वा । सव्वुक्कस्सिय अणुभाग वधदि त्ति उक्कस्सवधो । तदो ऊणिय वधदि त्ति अणुक्कस्सवधो । एव सत्तह कम्माण (महाव०) । उक्कस्साणुक्कस्साणुगमेण दुविहो णिद्देसो-ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोहणीयस्स सव्वुक्कस्सओ अणुभागो उक्कस्सविहत्ती । तदूणमणुक्कस्सविहत्ती । जयध०

२ (६-७) जहण्ण-अजहण्णबंधपरूवणा—यो सो जहण्णवधो अजहण्णवधो णाम, तस्स इमो णिद्देसो-ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण णाणावरणीयस्स अणुभागवधो किं जहण्णवधो अजहण्णवधो ? जहण्णवधो वा अजहण्णबंधो वा । सव्वजहण्णय अणुभाग वधमाणस्स जहण्णवधो । तदो उवरि वधमाणस्स अजहण्णवधो । एव सत्तह कम्माण (महाव०) । जहण्णाजहण्णविहत्तियाणुगमेण दुविहो णिद्देसो-ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोहणीयस्स सव्वजहण्णओ अणुभागो जहण्णविहत्ती । तदुवरिमा अजहण्णविहत्ती । (जयध०)

३ (८-११) सादि-अणादि-ध्रुव-अद्धुवबंधपरूवणा—यो सो सादिवधो अणादिवंधो ध्रुववधो अद्धुववधो णाम, तस्स इमो णिद्देसो-ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण चदुह घादीण उक्कस्सवधो अणुक्कस्सवधो जहण्णवधो किं सादिवधो अणादिवधो ध्रुववधो अद्धुववधो वा ? सादिय-अद्धुववधो । अजहण्णवधो किं सादि० ४ ? सादियवधो वा अणादियवधो वा ध्रुववधो वा अद्धुववधो वा (महाव०) । सादि-अणादि-

विचार किया गया है। प्रकृतमे मोहनीयकर्मकी उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट और जघन्य अनुभागविभक्ति सादि और अध्रुव हैं। अजघन्यअनुभागविभक्ति सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव चारो प्रकारकी है।

^१(१२) एकजीवापेक्षया स्वामित्व—इस अनुयोगद्वारमे कर्मोके उत्कृष्ट और जघन्य अनुभागके स्वामियोका एकजीवकी अपेक्षासे विचार किया गया है। जैसे—मोहनीयकर्मके उत्कृष्ट अनुभागका स्वामी कौन है ? संज्ञी, पंचेन्द्रिय, सर्व पर्याप्तियोसे पर्याप्त, साकार और जागृत उपयोगी, उत्कृष्ट संक्लेशपरिणामवाला ऐसा किसी भी गतिका मिथ्यादृष्टि जीव उत्कृष्ट अनुभागका बन्धकर जबतक उसका घात नहीं करता है, तब तक वह उसका स्वामी है। फिर चाहे वह एकेन्द्रिय हो, या द्वीन्द्रिय हो, या त्रीन्द्रिय हो, या चतुरिन्द्रिय हो, या असंज्ञिपंचेन्द्रिय हो, या संज्ञिपंचेन्द्रिय देव, नारकी, मनुष्य और तिर्यच, हो। हाँ, उसे असंख्यातवर्षायुष्क भोगभूमियाँ मनुष्य-तिर्यच, और मरकर मनुष्योमे ही उत्पन्न होनेवाला आनतादि उपरिम-कल्पवासी देव नहीं होना चाहिए। मोहनीयकर्मके जघन्य अनुभागका स्वामी कौन है ? चरमसमयवर्ती सकपायी क्षपक मनुष्य है।

^२(१३) काल—इस अनुयोगद्वारमे सर्व कर्मोकी उत्कृष्ट और जघन्य अनुभाग-

ध्रुव-अध्रुवाणुगमेण दुविहो णिद्दो-ओवेण आदेसेण य। ओवेण मोहणीयस्स उक्कस्स-अणुक्कस्स जहण्णअणु-भागविहत्ती कि सादिया किमणादिया कि ध्रुवा किमद्दुवा ? सादि-अध्रुवा। अजहण्णअणुभागविहत्ती किं सादिया किमणादिया कि ध्रुवा किमद्दुवा ? (सादिया) अणादिया ध्रुवा अध्रुवा वा।

१ (१२) सामित्तपरुवणा—एत्तो सामित्तस्स कदे तत्थ इमाणि तिण्णि अणुयोगद्वाराणि—पच्चया-णुगमो विवागदेसो पसत्थापसत्थपरुवणा चेदि। पच्चयाणुगमेण छ्ह कम्माण मिच्छत्तपच्चय असजमपच्चय कसायपच्चय × × ×। वेदणीयस्स मिच्छत्तपच्चय असजमपच्चय कसायपच्चय जोगपच्चय। विवागदेसेण छ्ह कम्माण जीवविवागपच्चय। आयुग० भवविवाग०। णामस्स जीवविवाग० पोग्गलविवाग० खेत्त-विवाग०। पसत्थापसत्थपरुवणादाए चत्तारि वादीओ अप्पसत्थाओ। वेदणीय आयुग णाम-गोदपयडीओ पसत्थाओ अप्पसत्थाओ य। × × × एदेण अट्टपदेण सामित्त दुविध-जहण्णय उक्कस्सय च। उक्कस्सए पगदं। दुविहो णिद्दो-ओवेण आदेसेण य। ओवेण णाणावरण-दसणावरण-मोहणीय-अतराइगाण उक्कस्सअणुभागवधो कस्स ? अण्णदरस्स चट्टुगदियस्स पच्चिदियस्स सण्णिमिच्छादिट्ठिस्स सव्वाहि पज्ज-त्तीहि पज्जत्तगटस्स सागार-जागारुवजोगजुत्तस्स णियमा उक्कस्ससकिलिट्ठस्स उक्कस्सगे अणुभागवधे वट्टमाणस्स। × × × जहण्णए पगदं। दुविहो णिद्दो-ओवेण आदेसेण य। ओवेण × × × मोह-णीयस्स उक्कस्साणुभागवधो कस्स ? अण्णदरस्स खवगस्स अणियट्ठिवादरसापरायस्स चरिमे जहण्णअणुभाग-वधे वट्टमाणस्स (महात्र०)। सामित्त दुविह-जहण्णमुक्कस्स च। उक्कस्सए पयदं। दुविहो णिद्दो-ओवेण आदेसेण य। ओवेण मोहणीयस्स उक्कस्साणुभागो कस्स ? अण्णदरस्स उक्कस्साणुभाग वधिट्ठण जाव ण हणदि, ताव सो एइदियो वा वेइदियो वा तेइदियो वा चउरिदियो वा असण्णपच्चिदियो वा (सण्ण-पच्चिदियो वा) अण्णदरस्स जीवस्स अण्णदरगदीए वट्टमाणस्स। असखेज्वस्साउअतिरिक्ख-मणुस्सेसु मणुसोववादियदेवेसु च णत्थि। अणुक्कस्साणुभागो कस्स ? अण्णदरस्स। × × × जहण्णए पयदं। दुविहो णिद्दो-ओवेण आदेसेण य। ओवेण मोहणीयस्स जहण्णाणुभागो कस्स ? अण्णदरस्स खवगस्स चरिमसमय-सकसायस्स। जयध०

२ (१३) कालपरुवणा—काल दुविध-जहण्णय उक्कस्सय च। उक्कस्सए पगदं। दुविहो

विभक्ति कितने समय तक होती है, इस बातका एक जीवकी अपेक्षासे विचार किया गया है। प्रकृतमे मोहनीयकर्मकी उत्कृष्ट अनुभागविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। अनुत्कृष्ट अनुभागविभक्तिका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्टकाल असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनप्रमित अनन्तकाल है। मोहनीयकर्मकी जघन्य अनुभागविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागविभक्तिका काल अनादि-अनन्त और अनादि-सान्त है।

^१(१४) अन्तर—इस अनुयोगद्वारमे एक जीवकी अपेक्षासे कर्मके उत्कृष्ट और जघन्य अनुभागविभक्तिके अन्तरकालका विचार किया गया है। प्रकृतमे मोहनीयकर्म विवक्षित है, उसके उत्कृष्ट अनुभागविभक्तिका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनप्रमित अनन्तकाल है। जघन्यानुभागविभक्तिवालोंका अन्तर नहीं होता है।

^२(१५) नानाजीवापेक्षया भंग-विचय—इस अनुयोगद्वारमे नाना जीवोंकी अपेक्षा कर्मके उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट और जघन्य-अजघन्य अनुभागकी विभक्ति-अविभक्ति करनेवाले जीवोंका

गिद्देसो-ओघेण आदेसेण य । ओघेण घादिचउक्काण उक्कस्साणुभागवधो केवचिर कालादो होदि ? जहण्णेण एगसमय । उक्कस्सेण वेसमय । अणुक्कस्साणुभागवधो जहण्णेण एगसमय । उक्कस्सेण अणतकालमसखेज्जा पोगलपरियट्ठा । × × × जहण्णए पगद । दुविहो गिद्देसो-ओघेण आदेसेण य । ओघेण घादिचउक्काण गोदस्स च जहण्णाणुभागवधो जहण्णुक्कस्सेण एगसमय । अजहण्णाणुभागवधो तिभगो (महाव०) कालो दुविहो-जहण्णओ उक्कस्सओ चेदि । उक्कस्से पयद । दुविहो गिद्देसो-ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोहणीयस्स उक्कस्साणुभागविहत्ती केवचिर कालादो होदि ? जहण्णुक्कस्सेण अतोमुहुत्त । अणुक्कस्साणुभागविहत्ती जहण्णेण अतोमुहुत्त । उक्कस्सेण अणतकालमसखेज्जा पोगलपरियट्ठा । × × × जहण्णए पयद । दुविहो गिद्देसो-ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मोहणीयस्स जहण्णाणुभागविहत्तिया केवचिर कालादो होति ? जहण्णुक्कस्सेण एगसमओ । अजहण्णाणुभागविहत्ती अणादि-अपज्जवसिदो अणादि-सपज्जवसिदो सादि सपज्जवसिदो वा । जयध०

१ (१४) अंतरपरूचना—अतर दुविध-जहण्णय उक्कस्सय च । उक्कस्सए पगद । दुविहो गिद्देसो-ओघेण आदेसेण य । ओघेण घादिचउक्काण उक्कस्साणुभागमतर केवचिर कालादो होदि ? जहण्णेण एगसमय । उक्कस्सेण अणतकालमसखेज्जा पोगलपरियट्ठा । अणुक्कस्समणुभागमतर जहण्णेण एगसमय । उक्कस्सेण अतोमुहुत्त । × × × जहण्णए पगद । दुविधो गिद्देसो-ओघेण आदेसेण य । ओघेण घादिचउक्काण जहण्णाणुभागवधस्स णत्थि अतर । अजहण्णाणुभागवधो जहण्णेण एगसमय । उक्कस्सेण अतोमुहुत्त (महाव०) । अतराणुगमेण दुविहमतर-जहण्णमुक्कस्स च । उक्कस्से पयद । दुविहो गिद्देसो-ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोहणीयस्स उक्कस्साणुभागमतर केवचिर कालादो होदि ? जहण्णेण अतोमुहुत्त । उक्कस्सेण अणतकालमसखेज्जा पोगलपरियट्ठा । अणुक्कस्साणुभागविहत्ती जहण्णुक्कस्सेण अतोमुहुत्त । जहण्णए पयद । दुविहो गिद्देसो-ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोहणीयस्स जहण्णाणुभागविहत्तियाण णत्थि अतर । जयध०

२ (१५) णाणाजीवेहि भंगविचयपरूचना—णाणाजीवेहि भंगविचय दुविध-जहण्णय उक्कस्सय च । उक्कस्सए पगद तत्थ इम अट्ठपदे-जे उक्कस्साणुभागवधगा ते अणुक्कस्सअणुभागस्स अवधगा । जे अणुक्कस्साणुभागवधगा ते उक्कस्साणुभागस्स अवधगा । एव पगदी वधदि, तेसु पगद, अवधगेसु धव्ववहारो । एदेण अट्ठपदेण अट्ठण्ह कम्माण उक्कस्सअणुभागस्स सिया सव्वे अवधगा, सिया अवधगा

विचार किया गया है । जैसे—मोहनीयकर्मकी उत्कृष्ट अनुभागविभक्तिके कदाचित् सर्व जीव अविभक्तिक है १ । कदाचित् अनेक जीव अविभक्तिक होते हैं और कोई एक जीव विभक्तिक होता है २ । कदाचित् अनेक जीव अविभक्तिक और अनेक जीव विभक्तिक होते हैं ३ । इस प्रकार उत्कृष्ट अनुभागविभक्ति-सम्बन्धी तीन भंग पाये जाते हैं । इसी प्रकार अनुत्कृष्ट अनुभागविभक्तिके भी तीन भंग होते हैं । केवल इतना भेद है कि उनके भंग कहते समय विभक्ति पद पहले कहना चाहिए । इसी प्रकारसे मोहनीयकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभाग-विभक्ति-सम्बन्धी भी तीन-तीन भंग होते हैं ।

^१(१६) भागाभागानुगम—इस अनुयोगद्वारमें कर्मोंकी उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट और जघन्य-अजघन्य अनुभागविभक्तिवाले जीवोंके भाग और अभागका विचार किया गया है । जैसे—मोहनीयकर्मकी उत्कृष्ट अनुभागविभक्तिवाले जीव सर्व जीवोंके कितनेवे भाग हैं ? अनन्तवे भाग हैं । अनुत्कृष्ट अनुभागविभक्तिवाले जीव सर्व जीवोंके कितनेवे भाग हैं ? अनन्त बहुभाग हैं । जघन्य अनुभागविभक्तिवाले जीव सर्व जीवोंके अनन्तवे भाग हैं और अजघन्यानुभागविभक्तिवाले सर्व जीवोंके अनन्त बहुभाग हैं ।

^२(१७) परिमाणानुगम—इस अनुयोगद्वारमें विवक्षित कर्मके उत्कृष्ट अनुभागविभक्ति-वाले जीव एक साथ कितने पाये जाते हैं, अनुत्कृष्ट अनुभागविभक्तिवाले कितने पाये जाते हैं, इस प्रकारसे उनके परिमाणका विचार किया गया है । जैसे—मोहकर्मके उत्कृष्ट अनुभाग-विभक्तिवाले जीव द्रव्यप्रमाणसे कितने हैं ? असंख्यात हैं । अनुत्कृष्ट अनुभागविभक्तिवाले

य अवधगो य, सिया अवधगा य अवधगा य । अणुक्कस्सअणुभागस्स सिया सव्वे वधगा य, सिया वधगा य अवधगो य, सिया वधगा य अवधगा य । × × × जहण्णए पयद । दुविहो णिद्देसो-ओघेण आदेसेण य । ओघेण तत्थ इम अट्ठपद उक्कस्सभंगो । वादिचउक्काण गोदस्स च जहण्ण-अजहण्णाणुभागस्स भग-विचयो उक्कस्सभंगो (सहाव ०) । णाणाजीवेहि भगविचओ दुविहो-जहण्णओ उक्कस्सओ चेदि । उक्कस्से पयद । दुविहो णिद्देसो-ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मोहणीयस्स उक्कस्साणुभागविहत्तीए सिया सव्वे जीवा अविहत्तिया १, सिया अविहत्तिया च विहत्तियो च २, सिया अविहत्तिया च विहत्तिया च ३ । एवमणुक्कस्स पि, णवरि विहत्ती पुव्व भाणिदव्वा । × × × जहण्णए पयद । दुविहो णिद्देसो-ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मोहणीयस्स जहण्णाणुभागस्स सिया सव्वे जीवा अविहत्तिया १, सिया अविहत्तिया च विहत्तियो च २, सिया अविहत्तिया च विहत्तिया ३ । अजहण्णस्स सिया सव्व जीवा विहत्तिया १, सिया विहत्तिया च अविहत्तियो च २, सिया विहत्तिया च अविहत्तिया च ३ । जयध०

१ (१६) भागाभागपरूवणा-भागाभागानुगमो दुविहो-जहण्णओ उक्कस्सओ चेदि । तत्थ उक्कस्सए पयद । दुविहो णिद्देसो-ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोहणीयस्स उक्कस्साणुभागविहत्तिया सव्व-जीवाण केवडिओ भागो ? अणतिमभागो । अणुक्कस्साणुभागविहत्तिया सव्वजीवाण केवडिओ भागो ? अणता भागा । × × × जहण्णए पयद । दुविहो णिद्देसो-ओघेण आदेसेण य । ओघेण जहण्णाणुभागविहत्तिया सव्वजीवाण केवडिओ भागो ? अणतिमभागो । अजहण्णाणुभागविहत्तिया सव्वजीवाण केवडिओ भागो ? अणता भागा । जयध०

२ (१७) परिमाणपरूवणा-परिमाणानुगमो दुविहो-जहण्णओ उक्कस्सओ चेदि । उक्कस्सए पयद । दुविहो णिद्देसो ओघेण आदेसेण य । ओघेण उक्कस्साणुभागविहत्तिया केवडिया ? असखेजा ।

कितने है ? अनन्त है । जघन्य अनुभागविभक्तिवाले कितने है ? संख्यात है । अजघन्य अनुभागविभक्तिवाले कितने है ? अनन्त है ।

^१(१८) क्षेत्रानुगम—इस अनुयोगद्वारमे अनुभागविभक्तिवाले जीवोंके वर्तमान-कालिक क्षेत्रका विचार किया गया है । जैसे—मोहनीयकर्मके उत्कृष्ट अनुभागविभक्तिवाले जीव कितने क्षेत्रमे रहते है ? लोकके असंख्यातवे भागमे रहते है । अनुत्कृष्ट अनुभागविभक्तिवाले जीव कितने क्षेत्रमे रहते है ? सर्वलोकमे रहते है । इसी प्रकार जघन्य अनुभागविभक्तिवाले जीव लोकके असंख्यातवे भागमे और अजघन्यानुभागविभक्तिवाले जीव सर्वलोकमे रहते है ।

^२(१९) स्पर्शानुगम—इस अनुयोगद्वारमे अनुभागविभक्तिवाले जीवोंके त्रैकालिक क्षेत्रका विचार किया गया है । जैसे—मोहनीयकर्मकी उत्कृष्ट अनुभागविभक्तिवाले जीवोंने कितना क्षेत्र स्पृष्ट किया है ? लोकका असंख्यातवाँ भाग, देशोन आठ वटे चौदह (१४) भाग, अथवा सर्वलोक स्पृष्ट किया है । जघन्य अनुभागविभक्तिवाले जीवोंने लोकका असंख्यातवाँ भाग स्पृष्ट किया है और अजघन्यानुभागविभक्तिवालोंने सर्वलोक स्पृष्ट किया है ।

^३(२०) कालानुगम—इस अनुयोगद्वारमे नाना जीवोंकी अपेक्षा कर्मोंके उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट और जघन्य-अजघन्य अनुभागविभक्तिवाले जीवोंके कालका अनुगम किया गया है । जैसे—मोहनीयकर्मकी उत्कृष्ट अनुभागविभक्तिवाले जीवोंका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्टकाल पल्योपमके असंख्यातमे भागप्रमाण है । अनुत्कृष्ट-अनुभागविभक्तिवाले जीव सर्व

अणुकस्साणुभागविहत्तिया केवडिया ? अणता । × × × जहण्णए पयद । दुविहो णिहोसो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मोहणीयस्स जहण्णाणुभागविहत्तिया केत्तिया ? सखेजा । अजहण्णाणुभागविहत्तिया दव्व-पमाणाणुगमेण केवडिया ? अणता । जयध०

१ (१८) खेत्तपरुवणा—खेत्ताणुगमो दुविहो—जहण्णओ उक्कस्सओ चेदि । उक्कस्सए पयद । दुविहो णिहोसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोहणीयस्स उक्कस्साणुभागविहत्तिया केवडि खेत्ते ? लोगस्स असखेज्जदिभागो । अणुकस्साणुभागविहत्तिया केवडि खेत्ते ? सव्वलोगो । × × × जहण्णए पयद । दुविहो णिहोसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोहणीयस्स जहण्णाणुभागविहत्तिया केवडि खेत्ते ? लोगस्स असखेज्जदिभागो । अजहण्णाणुभागविहत्तिया केवडि खेत्ते ? सव्वलोगो । जयध०

२ (१९) पोसणपरुवणा—पोसणाणुगमो दुविहो—जहण्णओ उक्कस्सओ चेदि । उक्कस्से पयद । दुविहो णिहोसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोहणीयस्स उक्कस्साणुभागविहत्तिएहि केवडिय खेत्त पोसिद ? लोगस्स असखेज्जदिभागो, अट्टचोदसभागा वा देसूणा, सव्वलोगो वा । अणुकस्साणुभागविहत्तिएहि केवडिय खेत्त पोसिद ? सव्वलोगो । × × × जहण्णए पयद । दुविहो णिहोसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोहणीयस्स जहण्णाणुभागविहत्तिएहि केवडिय खेत्त पोसिद ? लोगस्स असखेज्जदिभागो । अजहण्णाणुभागविहत्तिएहि केवडिय खेत्त पोसिद ? सव्वलोगो । जयध०

३ (२०) कालपरुवणा—कालाणुगमो दुविहो—जहण्णओ उक्कस्सओ चेदि । उक्कस्सए पयद । दुविहो णिहोसो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मोहणीयस्स उक्कस्साणुभागविहत्तिया केवचिर कालादो होति ? जहण्णेण अतोमुहुत्त । उक्कस्सेण पल्लिदोवमस्स असखेज्जदिभागो । अणुकस्साणुभागविहत्तिया केवचिर कालादो होति ? सव्वद्धा । × × × जहण्णए पयद । दुविहो णिहोसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोहणीयस्स जहण्णाणुभागविहत्तिया केवचिर कालादो होति ? जहण्णेण एगममओ । उक्कस्सेण सखेजा

काल पाये जाते हैं । जघन्य अनुभागविभक्तिवाले जीवोंका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल संख्यात समय है । अजघन्य अनुभागविभक्तिवाले जीव सर्व काल पाये जाते हैं ।

^१ (२१) अन्तरानुगम—इस अनुयोगद्वारमें नाना जीवोंकी अपेक्षा कर्मोंके उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट और जघन्य-अजघन्य अनुभागविभक्तिवाले जीवोंके अन्तरकालका अनुमार्गण किया गया है । जैसे-मोहनीयकर्मकी उत्कृष्ट अनुभागविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात लोकके जितने प्रदेश हैं, उसने समयप्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागविभक्तिवाले जीवोंका कभी अन्तर नहीं होता । जघन्य अनुभागविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह मास है । अजघन्य अनुभागविभक्तिवाले जीवोंका कभी अन्तर नहीं होता ।

^२ (२२) भावानुगम—इस अनुयोगद्वारमें अनुभागविभक्तिवाले जीवोंके भावोंका विचार किया है । मोहनीयकर्मके सभी अनुभागविभक्तिवाले जीवोंके औद्यिकभाव होता है ।

^३ (२३) अल्पबहुत्वानुगम—इस अनुयोगद्वारमें कर्मोंके उत्कृष्ट-अनुत्कृष्टादि अनुभागविभक्तिवाले जीवोंकी अल्पता और अधिकताका विचार किया गया है । जैसे-मोहनीय-कर्मकी उत्कृष्ट अनुभागविभक्तिवाले जीव सबसे कम हैं और इनसे अनुत्कृष्ट अनुभागविभक्ति-वाले जीव अनन्तगुणित हैं । मोहनीयकर्मकी जघन्य अनुभागविभक्तिवाले जीव सबसे कम हैं और उनसे अजघन्यअनुभागविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणित हैं ।

इनके अनिरिक्त निम्नलिखित चार अनुयोगद्वारोंसे भी अनुभागविभक्तिका विचार किया गया है—

(१) भुजाकारविभक्ति—इस अनुयोगद्वारमें भुजाकार, अल्पतर और अवस्थित अनुभागविभक्तिवाले जीवोंका समुत्कीर्तना, स्वामित्व आदि स्थितिविभक्तिमें वतलाये गये तेरह अनुयोगद्वारोंसे विचार किया गया है ।

(२) पदनिक्षेप—इस अनुयोगद्वारमें समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पबहुत्वके द्वारा भुजाकार अनुभागविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अवस्थानके द्वारा विशेष विचार किया गया है ।

समया । अजहण्णाणुभागविहत्तिया केवचिर कालादो होति ? सव्वद्धा । जयध०

१ (२१) अंतरपरूवणा—अतराणुगमो दुविहो—जहण्णओ उक्कस्सओ चेदि । उक्कस्सए पयद । दुविहो णिह्से—ओवेण आदेसेण य । ओवेण मोहणीयस्स उक्कस्साणुभागतर केवचिर कालादो होदि ? जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण असखेजा लोगा । अणुक्कस्साणुभागतर णत्थि । × × × जहण्णए पयद । दुविहो णिह्से—ओवेण आदेसेण य । तत्थ ओवेण मोहणीयस्स जहण्णाणुभागस्स अतर केवचिर कालादो होदि ? जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण छम्भासा । अजहण्णाणुभागतर णत्थि । जयध०

२ (२२) भावपरूवणा—भावानुगमेण सव्वत्थ ओदइयो भावो ।

३ (२३) अप्पावहुअपरूवणा—अप्पावहुअ दुविहो—जहण्णमुक्कस्स च । उक्कस्सए पयद । दुविहो णिह्से—ओवेण आदेसेण य । ओवेण सव्वत्थोवा मोहणीयस्स उक्कस्साणुभागविहत्तिया । अणु-स्साणुभागविहत्तिया अणतगुणा । × × × जहण्णए पयद । दुविहो णिह्से—ओवेण आदेसेण य । ओवेण सव्वत्थोवा मोहणीयस्स जहण्णाणुभागविहत्तिया जीवा । अजहण्णाणुभागविहत्तिया अणतगुणा । जयध०

३. उत्तरपयडिअणुभागविहत्तिं वत्तइस्सामो । ४. पुव्वं गणणिज्जा इमा परुवणा ।

(३) वृद्धि—इस अनुयोगद्वारमे समुत्कीर्तनादि तेरह अनुयोगद्वारगेमे कर्मके अनु-
भागकी पडगुणी वृद्धि, हानि और अवस्थानका विचार किया गया है ।

(४) स्थानप्ररूपणा—इस अनुयोगद्वारमे अनुभागविभक्तिके बन्धसमुत्पत्तिक, हत-
समुत्पत्तिक और हतहतसमुत्पत्तिक अनुभागस्थानोका प्ररूपणा, प्रमाण और अल्पबहुत्वके
द्वारा विचार किया गया है ।

उपर्युक्त सर्व अनुयोगद्वारोका आदेशकी अपेक्षा विशेष विवेचन जिज्ञामुजनोंको
जयधवला टीकासे जानना चाहिए ।

वर्णिसू०—अब उत्तरप्रकृति-अनुभागविभक्तिको कहेंगे । उसमें यह आगे कही जाने-
वाली स्पर्धकप्ररूपणा प्रथम ही जानने योग्य है । क्योंकि उसके बिना सर्वघाती और देशघाती-
का भेद तथा अनुभागके स्थानोका परिज्ञान नहीं हो सकता है ॥ ३-४ ॥

विशेषार्थ—जीवके सम्यक्त्व आदि गुणोके एक भाग घात करनेवाले कर्मको देश-
घाती कहते हैं । उन्हीं सम्यक्त्व आदि गुणोके सम्पूर्ण रूपसे घात करनेवाले कर्मको सर्व-
घाती कहते हैं । इन दोनोका नाम घातिसंज्ञा है । लता, दारु, अस्थि और शैलसमान अनु-
भागकी शक्तिको अनुभागस्थान कहते हैं । इन चारो दृष्टान्तोंमे जैसे लता (बेल) सबसे कोमल
होती है, उसी प्रकार जिस कर्मस्कन्धके अनुभागमें फल देनेकी शक्ति सबसे कोमल, कम या
मन्द होती है उसे लतासमान एकस्थानीय अनुभाग कहते हैं । दारु-काष्ठ या लकड़ीको कहते
हैं । जैसे लतासे दारु कठोर होता है, उसी प्रकार जिस कर्मस्कन्धमे फल देनेकी शक्ति लता-
स्थानीय अनुभागसे तीव्र या अधिक कठिन होती है, उसे दारुसमान द्विस्थानीय अनुभाग
कहते हैं । अस्थि नाम हड्डीका है । जैसे दारुसे अस्थि अधिक कठिन होती है, उसी प्रकार
जिस कर्मस्कन्धमे अनुभागशक्ति दारुस्थानीय अनुभागसे भी अधिक तीव्र होती है उसे अस्थि-
समान त्रिस्थानीय अनुभाग कहते हैं । शैल नाम शिलासमूह या पापाणका है । जैसे अस्थिसे
शैल अत्यन्त कठोर होता है, उसी प्रकार जिस कर्मपिण्डमे फल देनेकी शक्ति अस्थिस्थानीय अनु-
भागसे भी अत्यधिक तीव्र होती है, उसे शैलसमना चतुःस्थानीय अनुभाग कहते हैं । इन चारो
अनुभागस्थानोका नाम स्थानसंज्ञा है । मोहकर्मके अर्द्धाईस भेदोंमेंसे किसी कर्मकी अनुभाग-
शक्ति एकस्थानीय होती है, किसीकी द्विस्थानीय, किसीकी एकस्थानीय और द्विस्थानीय, किसी
कर्मकी त्रिस्थानीय, किसीकी एकस्थानीय द्विस्थानीय और त्रिस्थानीय होती है । किसी कर्मकी
चतुःस्थानीय और किसीकी एकस्थानीय द्विस्थानीय, त्रिस्थानीय और चतुःस्थानीय होती
है । इसका विशद विवेचन आगे सूत्रकार स्वयं करेंगे । इन चारो अनुभागस्थानोंमेंसे लता-
स्थानीय अनुभागकी सम्पूर्ण और दारुस्थानीय अनुभागकी अनन्त बहुभाग शक्ति देशघाती
कहलाती है । उससे ऊपर अर्थात् दारुस्थानीय अनुभागका अनन्तवाँ भाग और अस्थिस्थानीय
तथा शैलस्थानीय अनुभागशक्ति सर्वघाती कहलाती है ।

५. सम्मत्तस्स पहमं देसघादिफद्दयमादिं कादूण जाव चरिमदेसघादिफद्दगं ति एदाणि फद्दयाणि । ६. सम्मामिच्छत्तस्स अणुभागसंतकम्मं सव्वघादि आदिफद्दयमादिं कादूण दारुअसमाणस्स अणंतभागे णिट्ठिदं । ७. मिच्छत्तअणुभागसंतकम्मं जम्मि सम्मामिच्छत्तस्स अणुभागसंतकम्मं णिट्ठिदं तदो अणंतरफद्दयमाहत्ता उवरि अप्पडिसिद्धं । ८. वारसकसायाणमणुभागसंतकम्मं सव्वघादीणं दुट्ठाणियमादिफद्दयमादिं कादूण उवरिमप्पडिसिद्धं ।

चूर्णिसू०—सम्यक्त्वप्रकृतिके प्रथम लतास्थानीय सर्व जघन्य देशघाती स्पर्धकको आदि लेकर दारुके अनन्त बहुभागस्थानीय अन्तिम देशघाती सर्वोत्कृष्ट स्पर्धक तक इतने स्पर्धक होते हैं ॥५॥

विशेषार्थ—सम्यक्त्वप्रकृति देशघाती है, अतएव उसकी अनुभागशक्तिके स्पर्धक लतास्थानीय सर्व मन्दशक्तिवाले प्रथम स्पर्धकसे लगाकर दारुस्थानीय अनुभागशक्तिके अनन्त बहुभाग तक स्पर्धकोंका जितना प्रमाण है, वे सब सम्यक्त्वप्रकृतिके स्पर्धक कहलाते हैं ।

चूर्णिसू०—सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिका अनुभागसत्कर्म सर्वघाती है और वह अपने आदि स्पर्धकको आदि करके दारुसमान अनुभागके अनन्तवे भाग जाकर उत्कृष्ट अवस्थाको प्राप्त होता है ॥६॥

विशेषार्थ—सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृति द्विस्थानीय सर्वघाती है, अतएव जहाँपर देशघाती सम्यक्त्वप्रकृतिका सर्वोत्कृष्ट अन्तिम स्पर्धक समाप्त होता है, उसके एक स्पर्धक ऊपरसे अनुभागकी सर्वघाती शक्ति प्रारम्भ होती है और यही सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिका सर्व जघन्य सर्वघाती स्पर्धक कहलाता है । इसे आदि लेकर ऊपर जो दारुस्थानीय अनुभागशक्तिका अनन्तवाँ भाग बचा था, उसके उपरितन एक भागको छोड़कर अधस्तन बहुभागके अन्तिम स्पर्धक तक सम्यग्मिथ्यात्वकी अनुभागशक्तिका सर्वोत्कृष्ट स्थान है । उसके एक स्पर्धक ऊपर जानेपर मिथ्यात्व प्रकृतिका सर्वजघन्य सर्वघाती अनुभाग प्रारम्भ होता है और वहाँसे एक एक स्पर्धक ऊपर बढ़ता हुआ दारुके अवशिष्ट अनन्तवे भागको, तथा अस्थिसमान और शैलसमान स्थानोंके समस्त स्पर्धकोंको उल्लंघनकर अपने उत्कृष्ट स्थानको प्राप्त होता है ।

इसी उपर्युक्त कथनको स्पष्ट करते हुए चूर्णिकार उत्तर सूत्र कहते हैं—

चूर्णिसू०—जिस स्थानपर सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिका उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्मस्थान निष्पन्न हुआ है, उसके अनन्तरवर्ती स्पर्धकसे आरंभकर ऊपर शैलस्थानीय अनुभागशक्तिके अन्तिम स्पर्धक प्राप्त होने तक मिथ्यात्वप्रकृतिके अनुभागसत्कर्म अप्रतिपिद्ध अवस्थित है, अर्थात् बराबर चले जाते हैं । अनन्तानुबन्धी आदि वारह कपायोका अनुभागसत्कर्म सर्वघातियोंके द्विस्थानीय आदि स्पर्धकको आदि करके ऊपर अप्रतिपिद्ध है ॥७-८॥

विशेषार्थ—देशघाती अनुभागके ऊपर जहाँसे सर्वघाती अनुभाग प्रारंभ होता है, वह अनन्तानुबन्धी आदि वारह कपायोके अनुभागका सर्वजघन्य स्थान है । उससे एक एक स्पर्धक

९. चतुसंजलण-णवणोकसायाणमणुभागसंतकर्मं देवघातीणमादिकदयमादि
कादृण उवरि सञ्चवादि त्ति अप्पट्टिमिद्धं ।

१०. तत्थ दुविधा मण्णा-वादिमण्णा द्वाणमण्णा च । ११. ताथो दो वि
एकदो णिज्जंति । १२. पिच्छत्तस्म अणुभागसंतकर्मं जहणयं सञ्चवादी दृष्टाणियं ।
१३. उक्कस्मयमणुभागसंतकर्मं सञ्चवादी चदृष्टाणियं । १४. एवं चान्सकसाय-उण्णा-
कसायाणं । १५. मम्मत्तस्म अणुभागसंतकर्मं देवघाती एणदृष्टाणियं वा दृष्टाणियं वा ।

ऊपर बढते हुए शैल-समान चतुःस्थानीय स्पर्धक तत्र उनके अनुभाग-सम्बन्धी स्पर्धक गगन
चले जाते हैं । सूत्रमें 'मिथ्यात्वके द्विस्थानीय आदि स्पर्धक' न रहकर 'सर्वगतियोंके
द्विस्थानीय आदि स्पर्धक' ऐसा कहनेका कारण यह है कि मिथ्यात्वके जघन्य अनुभागमें
नीचे भी उक्त वारह कपायोंके अनुभागस्थान पाये जाते हैं । इस प्रकार यह फलितार्थ
निकलता है कि जहाँ सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य अनुभागस्थान है, तत्रमन्त्र स्थानमें ही
अनन्तानुबन्धी आदि वारह कपायोंके जघन्य अनुभागस्थानका प्रारम्भ होना है ।

चूर्णिसू०-चागे नञ्जलन आर तवो नोकपायोका अनुभागसत्कर्म देशानानियोंके आदि
स्पर्धक सञ्च स्पर्धकको आदि करके ऊपर सर्वघाती स्पर्धक तत्र अप्रतिपिद्य है । अर्थात्
लतासमान जघन्य स्पर्धकसे लगाकर ऊपर शैलसमान सर्वघाती स्पर्धक तत्र उन तैस्त प्रह-
तियोंके अनुभागसत्कर्मसम्बन्धी स्पर्धक होते हैं ॥९॥

इस प्रकार अनुभागविभक्तिके अर्थपदरूप स्पर्धक-प्रस्तुपणा करके अब उक्त तैस्त
अनुयोगद्वारोंमेंसे प्रथम सजानामक अनुयोगद्वारका अवतार करते हैं—

चूर्णिसू०-उन उपर्युक्त अनुभागसम्बन्धी स्पर्धकोंमें दो प्रकारकी संज्ञाका व्यवहार
है—वातिसंज्ञा और स्थानसंज्ञा । अब इन दोनोंको एक साथ कहते हैं ॥१०-११॥

विशेषार्थ-संज्ञा, नाम और अभिधान, ये एकार्थक हैं । संज्ञाके दो भेद हैं—वाति-
संज्ञा और स्थानसंज्ञा । जीवके सम्यक्त्व आदि गुणोंको वातनेके कारण वातिसंज्ञा सार्थक है ।
सर्वघाती और देवघातीके भेदमें इसके दो भेद हैं । अनुभागवक्तिके लता आदिके मम-स्थानीय
स्थानोंकी स्थानसंज्ञा है । लता, दारु, अस्थि और शैलके भेदमें स्थानसंज्ञाके चार भेद हैं ।
इन उपर्युक्त दोनों ही संज्ञाओंको चूर्णिकार आगे एक साथ वर्णन कर रहे हैं ।

चूर्णिसू०-मिथ्यात्वप्रकृतिका जघन्य अनुभागसत्कर्म सर्वघाती और द्विस्थानीय-
दारुस्थानीय है, तथा उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्म सर्वघाती और चतुःस्थानीय शैलस्थानीय है ।
इसी प्रकार मिथ्यात्वके समान अनन्तानुबन्धी आदि वारह कपायों और हास्यादि छह नोक-
कपायोंकी वातिसंज्ञा तथा जघन्य और उत्कृष्ट स्थानसंज्ञा जानना चाहिए । सम्यक्त्वप्रकृतिका
अनुभागसत्कर्म देवघाती तथा एकस्थानीय (लतास्थानीय) और द्विस्थानीय (दारुस्थानीय) है ।

१ एदेसि मोहाणुभागफहयाण वादि त्ति मण्णा, जीवगुणघायणसीलत्तादो । एदेसि चैव फहयाणं
द्वाणमिदि मण्णा, लदा-दारु-अट्टि-सेलाण सहावमि अवट्टाणादो । जयध०

१६. सम्प्रापिच्छत्तस्स अणुभागसंतकम्मं सव्वघादी दुट्ठाणियं । १७. एकं चैव ट्ठाणं । १८. चटुसंजलणामणुभागसंतकम्मं सव्वघादी वा देसघादी वा, एगट्ठाणियं वा दुट्ठाणियं वा तिट्ठाणियं वा चउट्ठाणियं वा । १९. इत्थिवेदस्स अणुभागसंतकम्मं सव्वघादी दुट्ठाणियं वा तिट्ठाणियं वा चउट्ठाणियं वा । २०. षोत्तूण खवगचरिमसमयइत्थिवेदयं । २१. तस्स देसघादी एगट्ठाणियं । २२. पुरिसवेदस्स अणुभागसंतकम्मं जहण्णयं देसघादी एगट्ठाणियं । २३. उक्कस्साणुभागसंतकम्मं सव्वघादी चटुट्ठाणियं । २४. णवुंसयवेदयस्स अणुभागसंतकम्मं जहण्णयं सव्वघादी दुट्ठाणियं । २५. उक्कस्सयमणुभागसंतकम्मं सव्वघादी चउट्ठाणियं । २६. णवरि खवगस्स चरिमसमयणवुंसयवेदयस्स अणुभागसंतकम्मं देसघादी एगट्ठाणियं ।

सम्यग्मिथ्यात्वका अनुभागसत्कर्म सर्वघाती और द्विस्थानीय है । सम्यग्मिथ्यात्वके अनुभागका एक ही दारुस्थानीय स्थान है । चारो संज्वलन कपायोका अनुभागसत्कर्म सर्वघाती भी है और देशघाती भी है । तथा एकस्थानीय भी है, द्विस्थानीय भी है, त्रिस्थानीय भी है और चतुःस्थानीय भी है । अर्थान् संज्वलनकपायका अनुभाग लता, दारु, अस्थि और शैल, इन चारो स्थानोके समान होता है, क्योंकि, संज्वलनकपाय देशघाती और सर्वघाती दोनों रूप है । स्त्रीवेदका अनुभागसत्कर्म सर्वघाती है । तथा वह द्विस्थानीय भी है, त्रिस्थानीय भी है और चतुःस्थानीय भी है । अर्थान् स्त्रीवेदके फल देनेकी शक्ति दारुके अनन्तवे भागसे लेकर शैलसमान तक होती है । केवल चरमसमयवर्ती स्त्रीवेदक क्षपकको छोड़ करके । क्योंकि उसके स्त्रीवेदका अनुभागसत्कर्म देशघाती और एकस्थानीय होता है ॥१२-२१॥

विशेषार्थ—उदयमे आए हुए निपेकको छोड़कर जेप समस्त स्त्रीवेद-सम्वन्धी प्रदेश-सत्कर्मको पर-प्रकृतिरूपसे संक्रमणकर अवस्थित क्षपकको चरमसमयवर्ती स्त्रीवेदक क्षपक कहते हैं । उसे छोड़कर नीचे सर्व गुणस्थानोमे स्त्रीवेदका अनुभागसत्कर्म सर्वघाती तथा द्विस्थानीय या त्रिस्थानीय या चतुःस्थानीय ही होता है । किन्तु चरमसमयवर्ती स्त्रीवेदक क्षपकके वह देशघाती और एकस्थानीय होता है और यही स्त्रीवेदके अनुभागसत्कर्मका सर्व-जघन्य स्थान है, ऐसा अभिप्राय जानना चाहिए ।

चूर्णिसू०—पुरुषवेदका जघन्य अनुभागसत्कर्म देशघाती और एकस्थानीय है । क्योंकि पुरुषवेदके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए और चरमसमयवर्ती सवेदी जीवके द्वारा बाँधे हुए अनुभागसत्कर्मको पुरुषवेदका जघन्य अनुभाग माना गया है, अतएव वह देशघाती और एकस्थानीय ही होता है । पुरुषवेदका उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्म सर्वघाती और चतुःस्थानीय है । नपुंसकवेदका जघन्य अनुभागसत्कर्म सर्वघाती और द्विस्थानीय है । उसीका उत्कृष्ट अनुभाग-सत्कर्म सर्वघाती और चतुःस्थानीय है । केवल इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदके उदयसे श्रेणीपर चढ़े हुए चरमसमयवर्ती नपुंसकवेदी क्षपकके नपुंसकवेदका अनुभागसत्कर्म देशघाती और एकस्थानीय होता है ॥२२-२६॥

२७. एगजीवेण सामित्तं । २८. मिच्छत्तस्स उक्कस्साणुभागसंतकम्मं कस्स ?
 २९. उक्कस्साणुभागं वंधिदूण जाव ण हणदि ३०. ताव सो हांज्ज एइंदिओ वा वेइं-
 दिओ वा तेइंदिओ वा चउरिंदिओ वा असणी वा सणी वा । ३१. असंखज्जवस्सा-
 उएसु मणुस्साववादियदेवेसु च णत्थि । ३२. एवं सोलसकसाय-णवणोकसायाणं । ३३.
 सम्पत्त-सम्मामिच्छत्ताणमुक्कस्साणुभागसंतकम्मं कस्स ? ३४. दंसणमोहक्खवगं मात्तण
 सव्वस्स उक्कस्सयं । ३५. मिच्छत्तस्स जहणयमणुभागसंतकम्मं कस्स ? ३६.
 सुहुमस्स । ३७. हदसमुप्पत्तियकम्मणेण अण्णदरो एइंदिओ वा वेइंदिओ वा तेइंदिओ

चूर्णिसू०—अब एक जीवकी अपेक्षा अनुभागविभक्तिके स्वामित्वका निरूपण करते
 हैं—मिथ्यात्वप्रकृतिका उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्म किसके हांता है ? उत्कृष्ट संक्लेशके द्वारा मिथ्यात्व-
 का उत्कृष्ट अनुभागबंध करनेवाले सजी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक मिथ्यादृष्टि जीवके हांता है ।
 इस प्रकारका जीव मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागका बाँधकर जब तक कांडकघातके द्वारा उसका
 घात नहीं करता है, तब तक वह जीव उस उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्मके साथ मरण करके चाहे
 एकेन्द्रिय हो जाय, या द्वीन्द्रिय, या त्रीन्द्रिय, या चतुरिन्द्रिय, या असंजी पंचेन्द्रिय अथवा
 संजी पंचेन्द्रिय हो जाय, अर्थात् इनमेसे किसीमे भी उत्पन्न हां जाय, तो भी वह मिथ्यात्वके
 उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्मका स्वामी रहेगा । किन्तु असंख्यात वर्षकी आयुवाले भोगभूमियाँ तिर्यच
 और मनुष्य जीवोमे, तथा मनुष्योमे ही उत्पन्न होनेवाले आनत-प्राणत आदि कल्पवासी
 देवोमे उसकी उत्पत्ति नहीं होती है । क्योंकि, इनमे मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्म नहीं
 पाया जाता है । इसी प्रकार सोलह कपायो और नव नाकपायोका स्वामित्व जानना चाहिए,
 क्योंकि, मिथ्यात्वके स्वामित्वसे इनके स्वामित्वमे कोई विशेषता नहीं है । सम्यक्त्व और
 सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनो प्रकृतियोका उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्म किसके हांता है ? दर्शनमोह-
 कर्मके क्षपण करनेवाले जीवको छोड़कर सबके इन दोनो प्रकृतियोका उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्म
 होता है । इसका कारण यह है कि दर्शनमोहनीय-क्षपकके सिवाय अन्य जीवोमे इन
 दोनो प्रकृतियोका अनुभागकांडकघात नहीं होता है ॥२७-३४॥

अब जघन्य अनुभागसत्कर्मके स्वामित्वको कहते हैं—

चूर्णिसू०—मिथ्यात्वकर्मका जघन्य अनुभागसत्कर्म किसके होता है ? सूक्ष्म निगो-
 दिया एकेन्द्रिय जीवके होता है ॥३५-३६॥

इस जघन्य अनुभागसत्कर्मके साथ वह सूक्ष्मनिगोदिया एकेन्द्रिय जीव मरणकर
 किस-किस जातिके जीवोमे उत्पन्न हो सकता है, इस बातके वतलानेके लिए चूर्णिकार उत्तर-
 सूत्र कहते हैं—

चूर्णिसू०—हतसमुत्पत्तिक कर्मके साथ वह सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव मरणकर कोई एक

१—हते धातिते समुत्पत्तिर्यस्य तद्वतसमुत्पत्तिक कर्म । अणुभागसतकम्मधादिदे जमुच्चरिद
 जहण्णाणुभागसतकम्म तस्म हदसमुत्पत्तियकम्ममिदि सण्णा त्ति भण्णिद होदि । जयव०

वा चउरिंदिओ वा असण्णी वा सण्णी वा सुहुमो वा वादरो वा पज्जत्तो वा अपज्जत्तो वा जहण्णाणुभागसंतकम्मिओ होदि ।

३८. एवमद्दकसायाणं । ३९. सम्मत्तस्स जहण्णयमणुभागसंतकम्मं कस्स ? ४०. चरिमसमय-अक्खीणदंसणमोहणीयस्स । ४१. सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णयमणुभागसंतकम्मं कस्स ? ४२. अवणिज्जमाणए अपच्छिमे अणुभागकंडए वट्टमाणस्स । ४३. अणंताणु-वंधीणं जहण्णयमणुभागसंतकम्मं कस्स ? ४४. पढमसमयसंजुत्तरस । ४५. क्रोधसंजलणस्स

एकेन्द्रिय, अथवा द्वीन्द्रिय, अथवा त्रीन्द्रिय, अथवा चतुरिन्द्रिय, अथवा असंज्ञी पंचेन्द्रिय, अथवा संज्ञी पंचेन्द्रिय, अथवा सूक्ष्मकायिक, अथवा वादरकायिक, अथवा पर्याप्तक, अथवा अपर्याप्तक जीवोमे उत्पन्न होकर मिथ्यात्वके जघन्य अनुभागसत्कर्मका स्वामी रहता है ॥ ३७ ॥

विशेषार्थ—विवक्षित जघन्य अनुभागसत्कर्मके वात करनेपर जो अनुभाग अवशिष्ट रहता है उसे हतसमुत्पत्तिककर्म कहते हैं । इस प्रकारके अनुभागसत्कर्मके साथ वह सूक्ष्म जीव मरणकर एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और सकलेन्द्रियोमे सम्भव वादर-सूक्ष्म, पर्याप्तक-अपर्याप्तक और संज्ञी-असंज्ञी आदि किसी भी जातिके जीवोमे उत्पन्न हो सकता है । और वहाँपर भी वह मिथ्यात्वप्रकृतिके जघन्य अनुभागसत्कर्मका स्वामी रहता है । यहाँपर इतना विशेष जानना चाहिए कि देव, नारकी और असंख्यात वर्षकी आयुवाले भोगभूमियाँ मनुष्य तिर्यच जीवोके मिथ्यात्वप्रकृतिका जघन्य अनुभाग नहीं पाया जाता, क्योंकि, सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव मरण करके उनमे उत्पन्न नहीं होते, ऐसा नियम है ।

चूर्णिसू०—जिस प्रकार मिथ्यात्वप्रकृतिके जघन्य अनुभागसत्कर्मकी प्ररूपणा की है, उसी प्रकार अप्रत्याख्याताचरण आदि आठ कपायोके जघन्य अनुभागसत्कर्मकी भी प्ररूपणा करना चाहिए । सम्यक्त्वप्रकृतिका जघन्य अनुभागसत्कर्म किसके होता है ? चरमसमयवर्ती अक्षीणदर्शनमोहनीय कर्मवाले जीवके होता है ॥ ३८-४० ॥

विशेषार्थ—दर्शनमोहनीयका क्षपण करने समय अधःप्रवृत्तकरण और अपूर्वकरणको करके अनिवृत्तिकरणके कालमे संख्यात भागोके व्यतीत हो जानेपर मिथ्यात्वको सम्यग्मिथ्यात्वमे संक्रमण कर पुनः सम्यग्मिथ्यात्वको भी अन्तर्मुहूर्तके द्वारा सम्यक्त्वप्रकृतिमे संक्रमण कर आठ वर्षप्रमाण स्थितिसत्त्वको करके प्रतिसमय अपवर्तनाके द्वारा सम्यक्त्वप्रकृतिके अनुभाग-सत्त्वको तबतक बराबर घातता जाता है, जबतक कि वह दर्शनमोह-क्षपण करनेके अन्तिम समयको प्राप्त नहीं हो जाता है । क्योंकि, दर्शनमोह-क्षपण करनेके अन्तिम समयमे ही उसके सम्यक्त्वप्रकृतिका सर्वजघन्य अनुभाग पाया जाता है ।

चूर्णिसू०—सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिका जघन्य अनुभागसत्कर्म किसके होता है ? सम्यग्मिथ्यात्वका सम्यक्त्वप्रकृतिमे संक्रमण कर उसे अपनीत करनेवाले तथा अन्तिम अनुभाग-कांडकमे वर्तमान ऐसे जीवके सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य अनुभाग पाया जाता है । अनन्तानुवन्धी चारो कपायोका जघन्य अनुभागसत्कर्म किसके होता है ? प्रथम समयमे संयोजन करने

जहणायमणुभागसंतकरमं करस ? ४६. खवगस चरिमसमयअसंक्रामयस्स । ४७. गुवं
माण-मायासंजलपाणं । ४८. लोमसंजलणस्स जहणायमणुभागसंतकरमं करस ? ४९.
खवगस्स चरिमसमयकसायस्स । ५०. इत्थिवेदस्स जहणायमणुभागसंतकरमं करस ?
५१. खवयस्स चरिमसमयइत्थिवेदयस्स । ५२. पुरिसवेदस्स जहणाणुभागसंतकरमं करस ?
५३. पुरिसवेदेण उवड्ढिटस्स चरिमसमयअसंक्रामयरस । ५४. णवुंसयवेदग्ग जहणाणु-
भागसंतकरमं करस ? ५५. खवगस्स चरिमसमयणवुंसयवेदयस्स । ५६. लण्णोकसायाणं
जहणाणुभागसंतकरमं करस ? ५७. खवगस्स चरिमे अणुभागखंडए वड्डमाणस्स ।

वाले जीवके होता है ॥४१-४४॥

विशेषार्थ—जो जीव अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन करके पुनः नीचे गिरकर उसका संयोजन करता है, उस जीवके संयोजन करनेके प्रथम समयमें अनन्तानुबन्धी कपायका सर्व जघन्य अनुभाग पाया जाता है ।

चूणिसू०—क्रोधसंज्वलन कपायका जघन्य अनुभागसत्कर्म किसके होता है ? चरम-समयवर्ती असंक्रामक क्षपकके होता है ॥४५-४६॥

विशेषार्थ—क्रोधकपायके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़नेवाले और क्रोधकं चरम समय-प्रवद्धकी अन्तिम अनुभागफालीको धारण करके स्थित क्षपकको चरमसमयवर्ती असंक्रामक क्षपक कहते हैं । ऐसे जीवके क्रोधसंज्वलनका जघन्य अनुभागसत्त्व पाया जाता है ।

चूणिसू०—इसी प्रकार मानसंज्वलन और मायासंज्वलन, इन दोनों कपायोंके जघन्य अनुभागसत्कर्मके स्वामित्वको जानना चाहिए ॥४७॥

विशेषार्थ—जिस प्रकार चरम समयवर्ती असंक्रामक क्षपकके क्रोधसंज्वलनके जघन्य अनुभागसत्कर्मका स्वामित्व बतलाया गया है, उसी प्रकारसे संज्वलन मान और माया के जघन्य स्वामित्वको कहना चाहिए । विशेषता केवल यह है कि स्वोदयसे अथवा अपने अधस्तनवर्ती कपायके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़नेवाले जीवके उस कपायके अनुभागसत्कर्मका जघन्य स्वामित्व होता है ।

चूणिसू०—लोमसंज्वलनका जघन्य अनुभागसत्कर्म किसके होता है ? चरमसमय-वर्ती सकपायी सूक्ष्मसाम्परायिक क्षपकके होता है । स्त्रीवेदका जघन्य अनुभागसत्कर्म किसके होता है ? चरमसमयवर्ती स्त्रीवेदक क्षपकके होता है । पुरुषवेदका जघन्य अनुभागसत्कर्म किसके होता है ? पुरुषवेदके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़नेवाले चरमसमयवर्ती असंक्रामक क्षपकके होता है । नपुंसकवेदका जघन्य अनुभागसत्कर्म किसके होता है ? चरमसमयवर्ती नपुंसकवेदी क्षपकके होता है । हास्यादि छह नोकपायोंका जघन्य अनुभागसत्कर्म किसके होता है ? चरम अनुभागकांडकमे वर्तमान क्षपकके होता है ॥४८-५७॥

विशेषार्थ—उपर्युक्त प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागसत्कर्म क्षपकश्रेणीमें अपनी उदय-व्युच्छित्तिके कालमें अर्थात् अन्तिम समयमें जघन्य अनुभाग होता है, ऐसा जानना चाहिए ।

५८. गिर्यगदीए मिच्छत्तरस जहण्णाणुभागसंतकम्मं कस्स ? ५९. असण्णिसस हदसमुत्पत्तिककम्मणेण आगदस्म जाव हेट्ठा संतकम्मस्स वंधदि ताव । ६०. एवं वारस-कसाय-णवणोकसायाणं । ६१. सम्मत्तरस जहण्णाणुभागसंतकम्मं कस्स ? ६२. चरिम-समयअदखीणदंसणमोहणीयस्स । ६३. सम्मामिच्छत्तरस जहण्णयं णत्थि । ६४. अणंता-णुवंधीणमोघं । ६५. एवं सच्चत्थ णेद्व्वं ।

६६. कालाणुगमेण । ६७. मिच्छत्तरस उक्कस्साणुभागसंतकम्मिओ केवचिरं कालादो होदि ? ६८. जहण्णुकस्सेण अंतोमुहुत्तं । ६९. अणुकस्सअणुभागसंतकम्मं

चूर्णिसू०—नरकगतिमे मिथ्यात्वकर्मका जघन्य अनुभागसत्कर्म किसके होता है ? हत-समुत्पत्तिककर्मके साथ आया हुआ असंजी जीव जब तक विद्यमान स्थितिसत्त्वके नीचे नवीन बन्ध करता है, तबतक उसके मिथ्यात्वकर्मका जघन्य अनुभागसत्कर्म होता है ॥५८-५९॥

विशेषार्थ—जा असंजी जीव मिथ्यात्वकर्मके घात करनेसे अवशिष्ट बचे अनुभाग-सत्कर्मके साथ नरकमें उत्पन्न होता है, उसके एक अन्तर्मुहूर्त तक मिथ्यात्वका जघन्य अनुभाग-सत्कर्म पाया जाता है, क्योंकि, तभीतक उसके विद्यमान स्थितिसत्त्वसे नीचे बन्ध होता है ।

चूर्णिसू०—इसी प्रकार अप्रत्याख्यानावरण आदि वारह कपाय और हास्यादि नव नोकपायोंके जघन्य अनुभागसत्कर्मका स्वामित्व जानना चाहिए । अर्थात् हतसमुत्पत्तिककर्मके साथ नरकमे उत्पन्न होनेवाले असंजी जीवके उक्त प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागसत्कर्म पाया जाता है । सम्यक्त्वप्रकृतिका जघन्य अनुभागसत्कर्म किसके होता है ? चरमसमयवर्ती अक्षीणदर्शनमोहनीयकर्मवाले जीवके होता है ॥६०-६२॥

विशेषार्थ—यद्यपि नरकगतिमे दर्शनमोहका क्षपण नहीं होता है, तथापि मनुष्यगतिमे दर्शनमोहके क्षपणके पूर्व जिसने नरकायुका बन्ध कर लिया, वह जीव मनुष्यभवमे दर्शनमोह-का क्षपण कर कृतकृत्यवेदकसम्यक्त्वी होकर जब नरकगतिमे उत्पन्न होता है, तब उसके सम्यक्त्वप्रकृतिका जघन्य अनुभागसत्कर्म पाया जाता है ।

चूर्णिसू०—नरकगतिमे सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिका जघन्य अनुभागसत्कर्म नहीं होता है । क्योंकि, दर्शनमोहकी क्षपणाको छोड़कर अन्यत्र सम्यग्मिथ्यात्वके अनुभागकांडकोका घात नहीं पाया जाता । नरकगतिमे अनन्तानुबन्धी चारो कपायोंका जघन्य अनुभागसत्कर्म ओघके समान जानना चाहिए । इसी प्रकार सर्वत्र अर्थात् शेष गतियोंमे और इन्द्रियादि शेष मार्ग-णाओंमे मिथ्यात्व आदि मोहप्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्म आगमके अवि-रोधसे जान लेना चाहिए ॥६३-६५॥

चूर्णिसू०—अब कालानुगमकी अपेक्षा एक जीव-सम्बन्धी अनुभागविभक्तिका काल कहते हैं—मिथ्यात्वप्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्मवाले जीवका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ॥ ६६-६८ ॥

विशेषार्थ—मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभागसत्त्वका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त

केवचिरं कालादो होदि ? ७०. जहणणेण अंतोमुहुत्तं । ७१. उक्कस्सेण असंखेज्जा पोगलपरियट्ठा । ७२. एवं सोलसकसाय-णवणोकसायाणं । ७३. सम्मत्त-सम्मामिच्छ-त्ताणमुक्कस्साणुभागसंतकम्मिओ केवचिरं कालादो होदि ? ७४. जहणणेण अंतोमुहुत्तं । ७५. उक्कस्सेण वे छावट्टिसागरोवमाणि साद्विरेयाणि । ७६. अणुक्कस्सअणुभागसंत-कम्मिओ केवचिरं कालादो होदि ? ७७. जहणणुकस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

७८. मिच्छत्तस्स जहणणाणुभागसंतकम्मिओ केवचिरं कालादो होदि ? ७९. जहणणुकस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

है । क्योंकि, उत्कृष्ट अनुभागको बाँधकर सर्वजघन्य अन्तर्मुहूर्तके द्वारा घात करनेवाले जीवके जघन्य काल जाता है और सर्व-दीर्घ अन्तर्मुहूर्तके द्वारा घात करनेवाले जीवके उत्कृष्ट काल पाया जाता है । इस प्रकार जघन्यतः और उत्कृष्टतः अन्तर्मुहूर्तकाल तक ही मिथ्यात्व-कर्मका उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्म रहता है ।

चूर्णिसू०—मिथ्यात्वप्रकृतिके अनुत्कृष्ट अनुभागसत्कर्मका कितना काल है ? जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है ॥ ६९-७० ॥

विशेषार्थ—उत्कृष्ट अनुभागको घात करके सर्वजघन्य अन्तर्मुहूर्तकाल तक अनुत्कृष्ट अनुभाग-दशामे रहकर पुनः उत्कृष्ट अनुभागके बाँधनेपर अन्तर्मुहूर्तप्रमाण जघन्यकाल प्राप्त होता है ।

चूर्णिसू०—मिथ्यात्वप्रकृतिके अनुत्कृष्ट अनुभागसत्कर्मका उत्कृष्टकाल असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन है ॥ ७१ ॥

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि मिथ्यात्वप्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्मको घात करके अनुत्कृष्ट अनुभागको प्राप्त होकर उसके साथ पंचेन्द्रियोमे यथासम्भव काल तक रहकर पुनः एकेन्द्रियोमं जाकर असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन विताकर पीछे पंचेन्द्रियोमे आकर उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाले जीवके सूत्रोक्त उत्कृष्ट काल पाया जाता है ।

चूर्णिसू०—इसी प्रकार सोलह कपाय और नव नोकपायोके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग-सम्बन्धी जघन्य और उत्कृष्ट काल जानना चाहिए । सम्यक्त्व और सम्यग्मि-थ्यात्व, इन दोनों प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्मका कितना काल है ? जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्टकाल कुछ अधिक दो लयासठ सागरोपम है । इन्हीं दोनों प्रकृ-तियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागसत्कर्मका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है ॥ ७२-७७ ॥

चूर्णिसू०—मिथ्यात्वप्रकृतिके जघन्य अनुभागसत्कर्मका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है ॥ ७८-७९ ॥

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि सूक्ष्म निगोदिया जीवका हतसमुत्पत्तिकर्मके साथ रहनेका काल जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त ही है ।

८०. एवं सम्मामिच्छत्त-अट्टकसाय-छण्णोक्सायाणं । ८१. सम्मत्त-अणंताणु-
वंधि-चदुसंजलण-त्तिण्णिवेदाणं जहण्णाणुभागसंतकम्मिओ केवचिरं कालादो होदि ?
८२. जहण्णुक्कस्सेण एगसमओ ।

८३. अंतरं । ८४. मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणोक्सायाणमुक्कस्साणुभागसंत-
कम्मियंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ८५. जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । ८६. उक्कस्सेण
असंखेज्जा पोग्गलपरियट्ठा । ८७. सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं जहा पयडिअंतरं तथा ।

८८. जहण्णाणुभागसंतकम्मियंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ८९. मिच्छत्त-
अट्टकसाय-अणंताणुवंधीणं च मोत्तूण सेसाणं णत्थि अंतरं । ९०. मिच्छत्त-अट्टकसायाणं
जहण्णाणुभागसंतकम्मियंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ९१. जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । ९२.
उक्कस्सेण असंखेज्जा लोगा । ९३. अणंताणुवंधीणं जहण्णाणुभागसंतकम्मियंतरं केवचिर
कालादो होदि ? ९४. जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । ९५. उक्कस्सेण उवड्डुपोग्गलपरियट्ठं ।

चूर्णिसू०—इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्व, अपत्याख्यानावरण आदि मध्यम आठ
कपाय और हास्य आदि छह नोकपायोका जघन्य अनुभागसत्कर्म-सम्बन्धी काल जानना
चाहिए । सम्यक्त्वप्रकृति, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, संज्वलनचतुष्क और तीनों वेदोके जघन्य
अनुभागसत्कर्मका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है ॥८०-८२॥

चूर्णिसू०—अब अनुभागविभक्तिके अन्तरको कहते हैं—मिथ्यात्व, सोलह कपाय,
और नव नोकपाय, इन छव्वीस मोहप्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्मका अन्तरकाल कितना
है ? जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन
है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनों प्रकृतियोंका जैसा प्रकृतिविभक्तिमें अन्तर बत-
लाया है, उसी प्रकार यहाँपर जानना चाहिए ॥८३-८७॥

विशेषार्थ—इन दोनों प्रकृतियोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर
उपार्धपुद्गलपरिवर्तन है ।

चूर्णिसू०—मोहनीयकर्मकी सर्वप्रकृतियोंके जघन्य अनुभागसत्कर्मका अन्तरकाल कितना
है ? मिथ्यात्व, अपत्याख्यानावरण आदि आठ मध्यम कपाय और अनन्तानुबन्धीचतुष्क,
इन तेरह प्रकृतियोंको छोड़ करके शेष पन्द्रह प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागसत्कर्मका अन्तर
नहीं होता है ॥८८-८९॥

विशेषार्थ—शेष पन्द्रह प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागसत्कर्मके अन्तर न होनेका कारण
यह है कि उन सम्यक्त्व आदि शेष पन्द्रह प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागसत्कर्मका क्षपकश्रेणीमें
निर्मूल विनाश हो जानेपर पुनः उत्पत्ति नहीं होती है, अतएव उनका अन्तर सम्भव नहीं है ।

चूर्णिसू०—मिथ्यात्वप्रकृति और आठ मध्यम कपायोके जघन्य अनुभागसत्कर्मका
कितना अन्तरकाल है ? जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात
लोक है । अनन्तानुबन्धी चारों कपायोके जघन्य अनुभागसत्कर्म करनेवाले जीवोंका कितना

९६. णाणाजीवेहि भंगविचथा । ९७. तन्थ अट्टपदं । ९८. जे उक्कस्माणु-
भागविहत्तिया ते अणुक्कस्मअणुभागस्स अविहत्तिया । ९९. जे अणुक्कस्मअणुभा-
गस्स विहत्तिया ते उक्कस्सअणुभागस्स अविहत्तिया । १००. जेमि पयडी अत्थि तेसु
पयदं, अक्कस्मे अव्ववहारो । १०१. एदेण अट्टपदेण । १०२. मव्वं जीवा मिच्छत्तस्स
उक्कस्सअणुभागस्स सिया सव्वे अविहत्तिया । १०३. सिया अविहत्तिया च विहत्तिया
च । १०४. सिया अविहत्तिया च विहत्तिया च । १०५. अणुक्कस्मअणुभागस्स सिया
सव्वे जीवा विहत्तिया । १०६. सिया विहत्तिया च अविहत्तिया च । १०७. मिया

अन्तरकाल है ? जबन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अर्थ-
पुद्गलपरिवर्तन है ॥ ९०-९५ ॥

चूणिसू०—अब नाना जीवोंकी अपेक्षा अनुभाग-विभक्तिके भंगोका निर्णय किया जाता
है—उसके विषयमें यह अर्थपद है । जिसके जान लेनेमें प्रकृत अर्थका भर्त्सा भौति जान हो,
अर्थपद उमे कहते है । जो जीव उत्कृष्ट अनुभागकी विभक्तिवाले है, वे अनुत्कृष्ट अनुभागकी
विभक्तिवाले नहीं है । क्योंकि, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग एक साथ नहीं रह सकते ।
जो जीव अनुत्कृष्ट अनुभागकी विभक्तिवाले होते है, वे उत्कृष्ट अनुभागकी विभक्तिवाले नहीं
होते है । क्योंकि, दोनोंका परस्पर विरोध है । जिन जीवोंके मोहर्त्सायकर्मकी उत्तरप्रकृ-
तियाँ सत्तामें होती है, उन जीवोंमें यह प्रकृत अधिकार है । क्योंकि मोहकर्मसे रहित जीवोंमें
भंगोका व्यवहार सम्भव नहीं है । इस उपर्युक्त अर्थपदके द्वारा नानाजीवोंकी अपेक्षा भंगोका
निर्णय किया जाता है ॥ ९६-१०१ ॥

चूणिसू०—कदाचित् किसी कालमें सर्व जीव मिथ्यात्वकर्म सन्वन्धी उत्कृष्ट अनु-
भागके सभी विभक्तिवाले नहीं होते है । क्योंकि, मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्मके साथ
अवस्थान-कालसे उसके विना अवस्थानका काल बहुत पाया जाता है । कदाचित् अनेक
जीव मिथ्यात्वकर्म-सन्वन्धी उत्कृष्ट अनुभागकी विभक्तिवाले नहीं होते है और कोई एक
जीव उत्कृष्ट अनुभागकी विभक्तिवाला होता है । क्योंकि, किसी कालमें मिथ्यात्वकर्मकी
अनुत्कृष्ट अनुभागविभक्ति करनेवाले जीवोंके साथ उत्कृष्ट अनुभागविभक्ति करनेवाले एक
जीवका पाया जाना सम्भव है । कदाचित् अनेक जीव मिथ्यात्वकर्मकी उत्कृष्ट अनुभाग
विभक्तिवाले नहीं होते है और अनेक जीव उत्कृष्ट अनुभागविभक्तिवाले होते है । क्योंकि,
किसी समय उत्कृष्ट अनुभागविभक्ति नहीं करनेवाले जीवोंके साथ उत्कृष्ट अनुभागविभक्ति
करनेवाले अनेक जीवोंका पाया जाना सम्भव है । इस प्रकार मिथ्यात्वकर्म-सन्वन्धी उत्कृष्ट
अनुभागविभक्तिके ये तीन भंग होते है । ॥ १०२-१०४ ॥

चूणिसू०—मिथ्यात्वकर्मके अनुत्कृष्ट अनुभागके कदाचित् सर्व जीव विभक्तिवाले होते
है । क्योंकि, किसी कालमें मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्मवाले जीवोंकी सान्तरभावके

विहत्तिया च अविहत्तिया च । १०८. एवं सेसाणं कम्मणं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-
वज्जाणं । १०९. सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमुक्कस्सअणुभागस्स सिया सव्वे जीवा
विहत्तिया । ११०. एवं तिण्णि भंगा । १११. अणुक्कस्सअणुभागस्स सिया सव्वे
अविहत्तिया । ११२ एवं तिण्णि भंगा ।

साथ प्रवृत्ति देखी जाती है । कदाचित् अनेक जीव मिथ्यात्वकर्मकी अनुत्कृष्ट अनुभागविभक्ति-
वाले हांते हैं और कोई एक जीव अनुत्कृष्ट अनुभागविभक्तिवाला नहीं होता है । क्योंकि,
कभी किसी कालमें मिथ्यात्वकी अनुत्कृष्ट अनुभागविभक्ति करनेवाले बहुतसे जीवोंके साथ
कोई एक उत्कृष्ट अनुभागविभक्ति करनेवाला भी जीव पाया जाता है । कदाचित् अनेक जीव
मिथ्यात्वकी अनुत्कृष्ट अनुभागकी विभक्तिवाले होते हैं और अनेक अनुत्कृष्टविभक्तिवाले नहीं
हांते हैं । क्योंकि, मिथ्यात्वकी अनुत्कृष्ट अनुभागविभक्तिवाले भी जीवोंका पाया जाना संभव
है । इस प्रकार मिथ्यात्वकर्मसम्बन्धी अनुत्कृष्ट अनुभागविभक्तिके ये तीन भंग होते
हैं ॥ १०५-१०७ ॥

चूर्णिसू०—इसी प्रकार सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दो प्रकृतियोंको छोड़कर
शेष चारित्रमोहसम्बन्धी पच्चीस कर्म-प्रकृतियोंके अनुभागविभक्तिसम्बन्धी भंग जानना चाहिए ।
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनों प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके कदाचित् सर्व जीव
विभक्तिवाले होते हैं, इस प्रकार तीन भंग जानना चाहिए । अनुत्कृष्ट अनुभागके कदाचित्
सर्व जीव अविभक्तिवाले हांते हैं, इस प्रकार तीन भंग जानना चाहिए ॥ १०८-११२ ॥

विशेषार्थ—सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागविभक्ति-
के तीन-तीन भंगोंका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—इन दोनों प्रकृतियोंके कदाचित् सर्वजीव उत्कृष्ट
अनुभागविभक्तिवाले होते हैं । कदाचित् अनेक विभक्ति करनेवाले हांते हैं और एक जीव
विभक्ति करनेवाला नहीं होता है । कदाचित् अनेक विभक्ति करनेवाले और अनेक जीव विभक्ति
नहीं करनेवाले होते हैं । इस प्रकार तीन भंग होते हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन
दोनों प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागके कदाचित् सर्वजीव विभक्ति करनेवाले नहीं होते हैं,
क्योंकि, दर्शनमोहकी क्षणका छोड़कर अन्यत्र उक्त दोनों प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट अनुभाग
पाया नहीं जाता, तथा दर्शनमोहके क्षण करनेवाले जीव भी सर्व काल नहीं पाये जाते हैं,
क्योंकि, उनका उत्कृष्ट अन्तरकाल छह मास बतलाया गया है । इन्हीं दोनों प्रकृतियोंकी अनु-
त्कृष्ट अनुभागविभक्ति करनेवाले कदाचित् अनेक जीव नहीं होते हैं और कोई एक जीव होता
है । कदाचित् अनेक जीव अनुत्कृष्ट अनुभागविभक्ति करनेवाले पाये जाते हैं और अनेक जीव
अनुत्कृष्ट अनुभागविभक्ति करनेवाले नहीं पाये जाते हैं । इस प्रकार सम्यक्त्व और सम्य-
ग्मिथ्यात्व, इन दोनों प्रकृतियोंके नानाजीवोंकी अपेक्षा-उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट अनुभागविभक्तिके तीन
तीन भंग होते हैं ।

११३. णाणाजीवेहि कालो ११४. मिच्छत्तस्स उक्कस्साणुभागकम्मंसिया केवचिरं कालादो होंति ? ११५. जहण्णेण अंतोमृहुत्तं । ११६. उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । ११७. एवं सेसाणं कम्माणं सम्मत्त-सम्मापिच्छत्तवज्जाणं । ११८. सम्मत्त-सम्मापिच्छत्ताणमुक्कस्साणुभागसंतकम्मिया केवचिरं कालादो होंति ? ११९. सव्वद्धा । १२०. मिच्छत्त-अट्ठकसायाणं जहण्णाणुभागसंतकम्मिया केवचिरं कालादो होति ? १२१. सव्वद्धा । १२२. सम्मत्त-अणंताणुवंधिचत्तारि-चदुसंजलण-तिवेदाणं जहण्णाणुभागकम्मंसिया केवचिरं कालादो होति ? १२३. जहण्णेण एगसमओ । १२४. उक्कस्सेण संखेज्जा समयया । १२५. णवरि अणंताणुवंधीणमुक्कस्सेण आवलियाए असंखेज्जदिभागो । १२६. सम्मापिच्छत्त-छण्णोकसायाणं जहण्णाणुभागकम्मंसिया

चूर्णिसू०—अब नानाजीवोकी अपेक्षा अनुभागविभक्तिसम्बन्धी काल कहते हैं—मिथ्यात्वकर्मके उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्मवाले जीवोका कितना काल है ? जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त हैं और उत्कृष्ट काल पल्योपमका असंख्यातवां भाग है ॥ ११३-११६ ॥

विशेषार्थ—इन दोनों कालोका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अनुभागबंध करनेवाले सात आठ जीवोके अन्तर्मुहूर्तकाल तक उस अवस्थामे रहकर तत्पश्चात् उत्कृष्ट अनुभागका घात करनेपर जघन्य काल अन्तर्मुहूर्तप्रमाण पाया जाता है । मिथ्यात्वकर्मके उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्मका उत्कृष्टकाल पल्योपमका असंख्यातवां भाग है । इसका कारण यह है कि एक जीवसम्बन्धी उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्मका काल अन्तर्मुहूर्त होता है और मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट अनुभागविभक्ति करनेवाले जीव एक साथ अधिकसे अधिक पल्योपमके असंख्यातवे भागमात्र होते हैं, अतएव उतनी शलाकाओसे उक्त अन्तर्मुहूर्तको गुणा कर देनेपर पल्योपमका असंख्यातवे भागमात्र उत्कृष्टकाल प्राप्त होता है ।

चूर्णिसू०—इसी प्रकार सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दो प्रकृतियोंको छोड़कर शेष कर्मोका उत्कृष्ट अनुभागविभक्तिसम्बन्धी काल जानना चाहिए । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनों प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्मवाले जीवोका कितना काल है ? सर्व काल है ॥ ११७-११९ ॥

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि एक जीवके उत्कृष्ट अनुभागमे अवस्थानकालकी अपेक्षा उसे प्राप्त होनेवाले जीवोका अन्तरकाल असंख्यातगुणित हीन होता है ।

चूर्णिसू०—मिथ्यात्व और आठ मध्यम कपायोके जघन्य अनुभाग सत्कर्मवाले जीवोका कितना काल है ? सर्वकाल है । क्योंकि, इन सूत्रोक्त सभी कर्मोके जघन्य अनुभागवाले जीवोका किसी भी काल मे विरह नहीं होता है । सम्यक्त्व, अनन्तानुबन्धी-चतुष्क, संव्वलन-चतुष्क और तीनों वेद, इन प्रकृतियोंके जघन्य अनुभाग सत्कर्मवाले जीवोका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । केवल अनन्तानुबन्धी चारो कपायोका जघन्य अनुभाग-सम्बन्धी उत्कृष्ट काल आवलीका असंख्यातवां

केवचिरं कालादो ह्यन्ति ? १२७. जहण्णुक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

१२८. णाणाजीवेहि अंतरं । १२९. मिच्छत्तस्स उक्कस्साणुभागसंतकम्मंसि-
याणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? १३०. जहण्णेण एगसमओ । १३१. उक्कस्सेण
असंखेज्जा लोगा । १३२. एवं सेसकम्ममाणं । १३३. णवरि सम्पत्त-सम्मामिच्छत्ताणं
णत्थि अंतरं ।

१३४. जहण्णाणुभागकम्मंसियंतरं णाणाजीवेहि । १३५. मिच्छत्त-अट्ठ-

भाग है । इसका कारण यह है कि अनन्तानुबन्धी-चतुष्ककी विसंयोजना करनेवाले सम्य-
ग्दृष्टि जीवोंकी अपेक्षा क्रमसे संयोजना करनेवाले जीवोंका उत्कृष्ट उपक्रमणकाल आवलीके
असंख्यातवे भागप्रमाण पाया जाता है । सम्यग्मिथ्यात्व और हास्यादि छह नोकपायोंके
जघन्य अनुभागसत्कर्मवाले जीवोंका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त
है । इसका कारण यह है कि अपनी-अपनी क्षपणाके अन्तिम अनुभागखंडमें होनेवाले जघन्य
अनुभागका अन्तर्मुहूर्तको छोड़कर अधिक काल नहीं पाया जाता है ॥ १२०-१२७ ॥

चूर्णिसू०—अब नाना जीवोंकी अपेक्षा अनुभागविभक्ति-सम्बन्धी अन्तर कहते
हैं—मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्मवाले जीवोंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तर-
काल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात लोक है ॥ १२८-१३१ ॥

विशेषार्थ—मिथ्यात्वकर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बिना त्रिभुवनवर्ती समस्त जीव कमसे
कम एक समय रहते हैं । तत्पश्चान् द्वितीय समयमें कितने ही जीव उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध
करने लगते हैं, इसलिए जघन्य अन्तर एक समय ही पाया जाता है । मिथ्यात्वकर्मकी
उत्कृष्ट अनुभागविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक है, अर्थात् असंख्यात लोकके जितने
प्रदेश हैं, तत्प्रमाण काल है । इसका कारण यह है कि तीनों लोकमें अधिकसे अधिक
असंख्यात लोकमात्र कालतक मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागसे रहित जीव पाये जाते हैं,
इससे अधिक नहीं, क्योंकि, उत्कृष्ट अनुभागबन्धके अध्यवसायस्थान असंख्यात लोकमात्र
ही होते हैं ।

चूर्णिसू०—इसी प्रकार शंप कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागविभक्तिका अन्तर जानना
चाहिए । केवल सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दो प्रकृतियोंकी अनुभागविभक्ति-
सम्बन्धी अन्तर नहीं होता है ॥ १३२-१३३ ॥

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि सम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाले
जीवोंके अन्तरकालकी अपेक्षा सम्यक्त्वप्रकृतिके अनुभागसत्कर्मके साथ रहनेवाले मिथ्यादृष्टि
और सम्यग्दृष्टि जीवोंका काल असंख्यातगुणा होता है ।

चूर्णिसू०—अब नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अनुभागसत्कर्मवाले जीवोंका अन्तर
कहते हैं—मिथ्यात्व और आठ मध्यम कपायोंका जघन्य अनुभागसम्बन्धी अन्तर नहीं होता
है । क्योंकि, इन प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागसत्कर्मवाले जीव अनन्त पाये जाते हैं । सम्यक्त्व,

कसायाणं गस्थि अंतरं । १३६. सम्पत्त-सम्पामिच्छत्त-लोभसंजलण-दृष्णोकसायाणं
 जहण्णाणुभागसंतक्रमियाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? १३७. जहण्णेण एगसमओ ।
 १३८. उक्कस्सेण छम्पामा । १३९. अणंताणुवंधीणं जहण्णाणुभागसंतक्रमियाणमंतरं केव-
 चिरं कालादो होदि ? १४०. जहण्णेण एगसमओ । १४१. उक्कस्सेण असंखेज्जा लोगा ।
 १४२. इत्थि-णहुंसयवेदजहण्णाणुभागसंतक्रमियाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ?
 १४३. जहण्णेण एगसमओ । १४४. उक्कस्सेण संखेज्जाणि वरसाणि । १४५
 तिसंजलण पुरिसवेदाणं जहण्णाणुभागसंतक्रमियाणमंतरं वेदचिरं कालादो होदि ?
 १४६. जहण्णेण एगसमओ । १४७ उक्कस्सेण वस्सं मादिरेयं ।

सम्यग्निश्चयात्, लोभसञ्चलन और हास्यादि छह नौकपायोंके जघन्य अनुभागसत्कर्मवाले
 जीवोंका कितना अन्तरकाल है ? जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह मास
 हैं । क्योंकि, दर्शनमोहकी क्षपणा व क्षपकश्रेणीमें ही इन प्रकृतियोंका जघन्य अनुभाग उत्पन्न
 होता है और इनका उत्कृष्ट अन्तरकाल छह मास ही माना गया है । अनन्तानुवन्धी चारों
 कपायोंके जघन्य अनुभागसत्कर्मवाले जीवोंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल
 एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात लोकके जितने प्रदेश हैं, उतने समयप्रमाण
 हैं । क्योंकि अनन्तानुवन्धी कपायके संयोजना करनेवाले परिणाम असंख्यात लोकप्रमाण
 पाये जाते हैं । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके जघन्य अनुभागसत्कर्मवाले जीवोंका अन्तर-
 काल कितना होता है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल
 संख्यात वर्ष हैं ॥ १३४-१४४ ॥

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके उदयसे क्षपक-
 श्रेणीपर चढ़नेवाले जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण पाया जाता है । तीनसे लेकर
 नौ तककी पृथक्त्वसंज्ञा है और दू तथा दोसे ऊपरकी संख्याकी संख्यातसंज्ञा है, इसलिए
 उक्त दोनों वेदोंका उत्कृष्ट अन्तर संख्यात वर्षप्रमाण सिद्ध हो जाता है ।

चूर्णिसू०—क्रोध, मान और नाया, ये तीन संञ्चलन कपाय और पुरुषवेद, इन
 क्रमोंके जघन्य अनुभागसत्कर्मवाले जीवोंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल
 एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल सातिरंक वर्षप्रमाण है ॥ १४५-१४७ ॥

विशेषार्थ—उक्त साधिक वर्षप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर इस प्रकार संभव है, जैसे—कोई
 जीव पुरुषवेदके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा, और पुरुषवेदके जघन्य अनुभागसत्कर्मका करके
 उपर चढ़ा गया । पुनः छह मासके पश्चात् अन्य कोई जीव नपुंसकवेदके उदयसे क्षपकश्रेणी
 पर चढ़ा । इस प्रकार संख्यात चार व्यतीत होनेके पश्चात् फिर कोई जीव पुरुषवेदके उदयसे
 क्षपकश्रेणीपर चढ़ा और पुरुषवेदका जघन्य अनुभागसत्कर्म किया । इस प्रकार पुरुषवेदका
 उत्कृष्ट अन्तर स्थापित हो गया । तीनों संञ्चलनोंका उत्कृष्ट अन्तर भी इसी प्रकार जान लेना
 सकिता ।

१४८. अप्पात्रहुअमुक्कससयं जहा उक्कससवंधे तथा । १४९. णवरि सच्चपच्छा
सम्मामिच्छत्तमणंतणणीणं । १५०. सम्मत्तमणतगुणणीणं ।

अत्र अनुभागसत्कर्मविभक्तिका अल्पबहुत्व कहा जाता है । वह जघन्य और उत्कृष्ट के भेदसे दो प्रकारका है । उनमेंसे पहले उत्कृष्ट अनुभागविभक्तिका अल्पबहुत्व कहनेके लिए चूर्णिकार उत्तरसूत्र कहते हैं—

चूर्णिमू०—अनुभागसत्कर्मसम्बन्धी उत्कृष्ट अल्पबहुत्व जिस प्रकार पहले उत्कृष्ट अनुभागबन्धमे कह आए है, उसी प्रकार यहाँपर भी जानना चाहिए । केवल उससे विशेषता यह है कि यहाँपर सबसे पीछे सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा हीन है और उससे सम्यक्प्रकृतिका उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा हीन है, ऐसा कहना चाहिए ॥१४८-१५०॥

विशेषार्थ—पहले उत्कृष्ट अनुभागबन्धके प्ररूपण करते समय जो अल्पबहुत्व कहा है, वही यहाँ अनुभागसत्कर्मके प्ररूपणावसर पर भी कहना चाहिए । केवल सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, इन दोनोंका अनुभागसत्कर्मसम्बन्धी अल्पबहुत्व सबसे पीछे कहना चाहिए । इसका कारण यह है कि इन दोनों प्रकृतियोंकी गणना बन्ध प्रकृतियोंमे नहीं है, इसलिए वहाँपर इनका अल्पबहुत्व नहीं बतलाया गया । किन्तु मिथ्यादृष्टि जीवके सम्यग्दृष्टि होनेपर मिथ्यात्वके अनुभागका इन दोनों प्रकृतियोंमे संक्रमण हो जाता है, इसलिए उनके अनुभागका सत्त्व पाया जाता है और इसी कारण यहाँपर उनके अनुभागसत्कर्मसम्बन्धी अल्पबहुत्वका कहना आवश्यक हो जानेसे चूर्णिकारने 'णवरि ' इत्यादि दो सूत्र निर्माण कर उसकी प्ररूपणा की है । इस प्रकारसे सूचिन किया गया वह अल्पबहुत्व इस प्रकार जानना चाहिए—

मिथ्यात्वकर्मका उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्म आगे कहे जानेवाले सर्वपदोंकी अपेक्षा सबसे तीव्र होता है । उससे अनन्तानुबन्धी लोभकपायका उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा हीन होता है । इससे अनन्तानुबन्धी माया, क्रोध और मानकपायके उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्म उत्तरोत्तर विशेष विशेष हीन होते हैं । अनन्तानुबन्धी मानके उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्मसे लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा हीन होता है, इससे संज्वलन माया, क्रोध और मानकपायके उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्म उत्तरोत्तर विशेष-विशेष हीन होते हैं । संज्वलन मानके उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्मसे प्रत्याख्यानावरण लोभका उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा हीन होता है । इससे प्रत्याख्यानावरण माया, क्रोध और मानकपायके उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्म उत्तरोत्तर विशेष विशेष हीन होते हैं । प्रत्याख्यानावरण मानके उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्मसे अप्रत्याख्यानावरण लोभका उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा हीन होता है । इससे अप्रत्याख्यानावरण माया, क्रोध और मानकपायके उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्म उत्तरोत्तर विशेष हीन होते हैं । अप्रत्याख्यानावरणमानके उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्मसे नपुंसकवेदका उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा हीन होता है । इससे अरतिप्रकृतिका उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा हीन होता है । इसमे शोक-

१५१. जहण्णाणुभागसंतकम्मंसियदंडओ । १५२. सव्वमंदाणुभागं लोभसंजलणस्स अणुभागसंतकम्मं । १५३. मायासंजलणस्स अणुभागसंतकम्ममणंतगुणं । १५४. माणसंजलणस्स अणुभागसंतकम्ममणंतगुण । क्रोधसंजलणस्स अणुभागसंतकम्ममणंतगुणं । सम्मत्तस्स जहण्णाणुभागसंतकम्ममणंतगुणं । १५५. पुरिसवेदस्स जहण्णाणुभागो अणंतगुणो । १५६. इत्थिवेदस्स जहण्णाणुभागो अणंतगुणो । १५७. णवुंसयवेदस्स जहण्णाणुभागो अणंतगुणो । १५८. सम्माभिच्छत्तस्स जहण्णाणुभागो अणंतगुणो । १५९. अणंताणु-

प्रकृतिका उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा हीन होता है । इससे भयप्रकृतिका उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा हीन होता है । इससे जुगुप्साप्रकृतिका उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा हीन होता है । इससे स्त्रीवेदका उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा हीन होता है । इससे पुरुषवेदका उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा हीन होता है । इससे रतिप्रकृतिका उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा हीन होता है । इससे हास्यप्रकृतिका उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा हीन होता है । इससे सम्यग्मिध्यात्वका उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा हीन होता है । इससे सम्यक्त्वप्रकृतिका उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा हीन होता है ।

हास्यप्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्मसे भी सम्यग्मिध्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्मको अनन्तगुणा हीन बतलानेका कारण यह है कि सम्यग्मिध्यात्वका उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्म द्विस्थानीय अर्थात् दारुसमान स्पर्धकोके अनन्तवे भागसे अवस्थित है, किन्तु हास्यप्रकृतिका उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्म चतुःस्थानीय अर्थात् शैलसमान स्पर्धकोसे अवस्थित है, इसलिए हास्यके अनुभागसे सम्यग्मिध्यात्वके अनुभागका अनन्तगुणा हीन होना स्वाभाविक है । सम्यग्मिध्यात्वसे सम्यक्त्वप्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्मके अनन्तगुणा हीन होनेका कारण यह है कि वह देशवाती है, अतएव उसका उत्कृष्ट अनुभाग भी दारुस्थानीय अनुभागके अनन्त बहुभाग तक ही सीमित रहता है ।

चूर्णिसू०—अब जघन्य अनुभागसत्कर्मसम्बन्धी अल्पबहुत्व कहनेके लिए अल्पबहुत्व-दंडक कहते हैं—लोभसंज्वलनका जघन्य अनुभागसत्कर्म आगे कहे जानेवाले सर्व अनुभागोसे अति मन्दशक्ति होता है । लोभसंज्वलनके सर्व-मन्द जघन्य अनुभागसे मायासंज्वलनका जघन्य अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा होता है । मायासंज्वलनके जघन्य अनुभागसे मानसंज्वलनका जघन्य अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा होता है । मानसंज्वलनके जघन्य अनुभागसे क्रोधसंज्वलनका जघन्य अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा होता है । क्रोधसंज्वलनके जघन्य अनुभागसे सम्यक्त्वप्रकृतिका जघन्य अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा होता है । सम्यक्त्वप्रकृतिके जघन्य अनुभागसे पुरुषवेदका जघन्य अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा होता है । पुरुषवेदके जघन्य अनुभागसे स्त्रीवेदका जघन्य अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा होता है । स्त्रीवेदके जघन्य अनुभागसे नपुंसकवेदका जघन्य अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा होता है । नपुंसकवेदके जघन्य अनुभागसे सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा होता है । सम्यग्मिध्यात्वके जघन्य

बंधिमाणजहण्णाणुभागो अणंतगुणो । १६०. क्रोधस्स जहण्णाणुभागो विसेसाहिओ ।
 १६१. मायाए जहण्णाणुभागो विसेसाहिओ । १६२. लोभस्स जहण्णओ अणुभागो
 विसेसाहिओ । १६३. हस्सस्स जहण्णाणुभागो अणंतगुणो । १६४. रदीए जहण्णाणु-
 भागो अणंतगुणो । १६५. दुगुंछाए जहण्णाणुभागो अणंतगुणो । १६६. भयस्स
 जहण्णाणुभागो अणंतगुणो । १६७. सोगस्स जहण्णाणुभागो अणंतगुणो । १६८.
 अरदीए जहण्णाणुभागो अणंतगुणो । १६९ अपच्चक्खाणमाणस्स जहण्णाणुभागो
 अणंतगुणो । १७०. क्रोधस्स जहण्णाणुभागो विसेसाहिओ । १७१. मायाए जहण्णाणु-
 भागो विसेसाहिओ । १७२ लोभस्स जहण्णाणुभागो विसेसाहिओ । १७३ पच्चक्खाण-
 माणस्स जहण्णाणुभागो अणंतगुणो । १७४. क्रोधस्स जहण्णाणुभागो विसेसाहिओ ।
 १७५. मायाए जहण्णाणुभागो विसेसाहिओ । १७६. लोभस्स जहण्णाणुभागो
 विसेसाहिओ । १७७. मिच्छत्तस्स जहण्णाणुभागो अणंतगुणो ।

अनुभागसे अनन्तानुबन्धीमानका जघन्य अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा होता है । अनन्तानुबन्धी मानके जघन्य अनुभागसे अनन्तानुबन्धी क्रोधका जघन्य अनुभागसत्कर्म विशेष अधिक होता है । अनन्तानुबन्धी क्रोधके जघन्य अनुभागसे अनन्तानुबन्धी मायाका जघन्य अनुभागसत्कर्म विशेष अधिक होता है । अनन्तानुबन्धी मायाके जघन्य अनुभागसे अनन्तानुबन्धी लोभका जघन्य अनुभागसत्कर्म विशेष अधिक होता है । अनन्तानुबन्धी लोभके जघन्य अनुभागसे हास्यप्रकृतिका जघन्य अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा है । हास्यप्रकृतिके जघन्य अनुभागसे रति-प्रकृतिका जघन्य अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा है । रतिप्रकृतिके जघन्य अनुभागसे जुगुप्सा प्रकृतिका जघन्य अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा है । जुगुप्साप्रकृतिके जघन्य अनुभागसे भय-प्रकृतिका जघन्य अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा है । भयप्रकृतिके जघन्य अनुभागसे शोकप्रकृतिका जघन्य अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा है । शोकप्रकृतिके जघन्य अनुभागसे अरतिप्रकृतिका जघन्य अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा है । अरतिप्रकृतिके जघन्य अनुभागसे अप्रत्याख्यानावरण मानका जघन्य अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा है । अप्रत्याख्यानावरण मानके जघन्य अनुभागसे अप्रत्याख्यावरण क्रोधका जघन्य अनुभागसत्कर्म विशेष अधिक है । अप्रत्याख्यानावरण क्रोधके जघन्य अनुभागसे अप्रत्याख्यानावरण मायाका जघन्य अनुभागसत्कर्म विशेष अधिक है । अप्रत्याख्यानावरण मायाके जघन्य अनुभागसे अप्रत्याख्यानावरण लोभका जघन्य अनुभाग-सत्कर्म विशेष अधिक है । अप्रत्याख्यानावरणलोभके जघन्य अनुभागसे प्रत्याख्यानावरण मान-का जघन्य अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा है । प्रत्याख्यानावरण मानके जघन्य अनुभागसे प्रत्याख्यानावरण क्रोधका जघन्य अनुभागसत्कर्म विशेष अधिक है । प्रत्याख्यानावरणक्रोधके जघन्य अनुभागसे प्रत्याख्यानावरण मायाका जघन्य अनुभागसत्कर्म विशेष अधिक है । प्रत्या-ख्यानावरण मायाके जघन्य अनुभागसे प्रत्याख्यानावरण लोभका जघन्य अनुभागसत्कर्म विशेष अधिक है । प्रत्याख्यानावरण लोभके जघन्य अनुभागसे मिथ्यात्वप्रकृतिका जघन्य अनुभाग-

१७८. गिरघर्षाए जहणायमणुभागसंतकर्म । १७९. सव्वमंदाणुभाग
सम्पत्तं । सम्मामिच्छत्तरस जहण्णाणुभागो अणंतगुणो । १८०. अणंताणुवांघिमाणस
जहण्णाणुभागो अणंतगुणो । १८१. क्रोधस्स जहण्णाणुभागो विसेसाहिओ । १८२.
मायाए जहण्णाणुभागो विसेसाहिओ । १८३. लोभस्स जहण्णाणुभागो विसेसाहिओ ।
१८४. सेसाणि जथा सम्मादिट्ठीए वंधे तथा णेदव्वाणि ।

सत्कर्म अनन्तगुणा है । इस प्रकार ओघकी अपेक्षा जघन्य अनुभागसम्बन्धी अल्पबहुत्वदंडक
समाप्त हुआ ॥ १५१-१७७ ॥

अब आदेशकी अपेक्षा जघन्य अनुभागसम्बन्धी अल्पबहुत्व कहनेके लिए उत्तर
सूत्र-प्रबन्ध कहते हैं—

चूर्णिसू०—नरकगतिमें जघन्य अनुभागसत्कर्म इस प्रकार है—सम्यक्त्वप्रकृति सर्व-मन्द
अनुभागवाली होती है । सम्यक्त्वप्रकृतिके सर्व-मन्द अनुभागसे सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य अनु-
भागसत्कर्म अनन्तगुणा होता है । सम्यग्मिथ्यात्वके जघन्य अनुभागसे अनन्तानुबन्धी मान-
का जघन्य अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा होता है । अनन्तानुबन्धी मानके जघन्य अनुभागसे
अनन्तानुबन्धी क्रोधका जघन्य अनुभागसत्कर्म विशेष अधिक होता है । अनन्तानुबन्धी क्रोध-
के जघन्य अनुभागसे अनन्तानुबन्धी मायाका जघन्य अनुभागसत्कर्म विशेष अधिक होता
है । अनन्तानुबन्धी मायाके जघन्य अनुभागसे अनन्तानुबन्धी लोभका जघन्य अनुभागसत्कर्म
विशेष अधिक होता है । शेष प्रकृतियोंके अल्पबहुत्वपद जिस प्रकार सम्यग्दृष्टिके अनुभाग-
बन्धमे कहे हैं, उस प्रकार जानना चाहिए ॥ १७८-१८४ ॥

विशेषार्थ—इस समर्पण-सूत्रसे नरकगतिमें जिस शेष अल्पबहुत्वके जान लेनेकी
सूचना की गई है, वह इस प्रकार है—अनन्तानुबन्धी लोभके जघन्य अनुभागसे हास्यप्रवृत्तिका
जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । इससे रतिप्रकृतिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । इससे
पुरुषवेदका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । इससे स्त्रीवेदका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा
है । इससे जुगुप्साप्रकृतिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । इससे भयप्रकृतिका जघन्य
अनुभाग अनन्तगुणा है । इससे शोकप्रकृतिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । इससे
अरतिप्रकृतिका जघन्य अनुभाग असंख्यातगुणा है । इससे नपुंसकवेदका जघन्य अनुभाग
अनन्तगुणा है । इससे अप्रत्याख्यानावरण मानका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । इससे
अप्रत्याख्यानावरण क्रोधका जघन्य अनुभाग विशेष अधिक है । इससे अप्रत्याख्यानावरण
मायाका जघन्य अनुभाग विशेष अधिक है । इससे अप्रत्याख्यानावरण लोभका जघन्य अनु-
भागसत्कर्म विशेष अधिक है । इससे प्रत्याख्यानावरण मानका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा
है । इससे प्रत्याख्यानावरण क्रोधका जघन्य अनुभाग विशेष अधिक है । इससे प्रत्याख्यानावरण
मायाका जघन्य अनुभाग विशेष अधिक है । इससे प्रत्याख्यानावरण लोभका जघन्य अनुभाग

१८५. जहा वंधे भुजगार-पदणिक्खेव-वड्डीओ तथा संतकम्मं वि कायव्याओ ।

१८६. संतकम्मट्टाणाणि तिविहाणि—बंधसमुत्पत्तियाणि हदसमुत्पत्तियाणि हदहदसमुत्पत्तियाणि । १८७. सब्वत्थोवाणि वंधसमुत्पत्तियाणि । १८८. हद-समुत्पत्तियाणि असंखेज्जगुणाणि । १८९. हदहदसमुत्पत्तियाणि असंखेज्जगुणाणि ।

विशेष अधिक है । इससे मानसंज्वलनका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । इससे क्रोध-संज्वलनका जघन्य अनुभाग विशेष अधिक है । इससे मायासंज्वलनका जघन्य अनुभाग विशेष अधिक है । इससे लोभसंज्वलनका जघन्य अनुभाग विशेष अधिक है । इससे मिथ्यात्वप्रकृतिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है ।

इस उपर्युक्त अल्पबहुत्व-वड्धमं शांकरप्रकृतिकं जघन्य अनुभागसे अरतिप्रकृतिका जघन्य अनुभाग असंख्यगुणा बतलाया गया है, यह नरकगतिकी विशेषता है, ऐसी सूचना जयधवला टीकाकारने उक्त दंडकके प्रारम्भमें की है ।

चूर्णिसू०—जिस प्रकार अनुभागबन्धमं भुजाकार, पदनिक्षेप और वृद्धि, इन तीन अनुयोगद्वारोंकी प्ररूपणा की है, उसी प्रकार यहां अनुभागसत्कर्ममें भी करना चाहिए ॥१८५॥

चूर्णिसू०—अनुभागसत्कर्मस्थान तीन प्रकारके होते हैं—बन्धसमुत्पत्तिकस्थान, हत-समुत्पत्तिकस्थान और हतहतसमुत्पत्तिकस्थान । इनमेंसे बन्धसमुत्पत्तिकस्थान सबसे कम है । बन्धसमुत्पत्तिकस्थानोंसे हतसमुत्पत्तिकस्थान असंख्यातगुणित है । हतसमुत्पत्तिकस्थानोंसे हत-हतसमुत्पत्तिकस्थान असंख्यातगुणित है ॥१८६-१८९॥

विशेषार्थ—जिन अनुभागस्थानोंकी बन्धसे उत्पत्ति होती है, वे बन्धसमुत्पत्तिकस्थान कहलाते हैं । बन्धसमुत्पत्तिकस्थानोंका प्रमाण यद्यपि शेष दोनों भेदोंकी अपेक्षा सबसे कम है, तथापि असंख्यात लोकाकाशके जितने प्रदेश होते हैं, तत्प्रमाण है । इसका कारण यह है कि

१ वंधात्समुत्पत्तिंयेषा तानि बधसमुत्पत्तिकानि । हते समुत्पत्तिंयेषा तानि हतसमुत्पत्तिकानि । हतस्य हतिं हतहतिः । तत समुत्पत्तिंयेषा तानि हतहतिसमुत्पत्तिकानि । जयध०

इयाणि अणुभागसतट्टाणाणि परवणत्थं भण्णति—

बंध-हय-हयहउत्पत्तिगाणि कमसो असंखगुणियाणि ।

उदयोदीरणवजाणि होति अणुभागट्टाणाणि ॥२४॥

(चू०) जे बंधातो उप्पजति अणुभागट्टाणा ते वंधुत्पत्तिगा बुच्चति, ते असखेज्जलोगागासपदेस मेत्ता । कह ? भण्णइ—अणुभागवधजवसाणट्टाणा असखेज्जलोगागासपदेसमेत्ता त्ति काउ । 'हतुत्पत्तिग' त्ति कि भणिय होति ? उवट्टणातोव्वट्टणाउ बुट्टिहहाणीतो जे उप्पजति ते हउत्पत्तिगा बुच्चति । वधुत्पत्तीतो हतुत्पत्तिगा असंखेज्जगुणा, एककेकमि वधुत्पत्तिमि असखेज्जगुणा लब्धति त्ति । हतहतुत्पत्तिगाणि ति ठितिघाय-रसघायातो जे उप्पजति ते हयहतुत्पत्तिगा, हतुत्पत्ती । हयहतुत्पत्तिगा असंखेज्जगुणा । कह ? भण्णति—सकित्तेस-विसेहा जीवस्स समए समए अन्नना भवति, तमेव अणुभागघायकारण ति तम्हा असखज्जगुणा । × × × कम्म० सत्ताधि० पृ० ५२.

अणुभागट्टाणाणि बधसमुत्पत्तिय हदसमुत्पत्तिय-हदहदसमुत्पत्तियअणुभागट्टाणमेण तिविहाणि होति । × × × तत्थ हदसमुत्पत्तिय कादूणाच्छदसु हुमाणिगोदजहण्णाणुभागसतट्टाणसमाणवधट्टाणमादि

एवं अणुभागे त्ति जं पदं तस्स अत्थपरूपणा समत्ता ।

अणुभागविहत्ती समत्ता ।

अनुभागबन्धके अध्यक्षस्थान असंख्यात लोकाकाशके प्रदेशप्रमित हैं । उद्वर्तना और अपवर्तना करणोंके द्वारा होनेवाली वृद्धि और हानिसे जो अनुभागस्थान उत्पन्न होते हैं, वे हतसमुत्पत्तिकस्थान कहलाते हैं, क्योंकि, हत नाम घातका है और उद्वर्तना अपवर्तना करणोंके द्वारा पूर्व अवस्थाका घात होता है, इसलिए उनसे उत्पन्न होनेवाले परिणाम-स्थान हतसमुत्पत्तिक कहलाते हैं । इनका प्रमाण बन्धसमुत्पत्तिकस्थानोंसे असंख्यातगुणा है । इसका कारण यह है कि एक एक बन्धसमुत्पत्तिक स्थानपर नानाजीवोंकी अपेक्षा उद्वर्तना और अपवर्तना करणोंके द्वारा असंख्यात भेद कर दिये जाते हैं । उद्वर्तना और अपवर्तना करणोंके द्वारा वृद्धि-हानि किये जानेके पश्चात् स्थितिघात और रसघातसे जो अनुभागस्थान उत्पन्न होते हैं, वे हतहतसमुत्पत्तिकस्थान कहलाते हैं, क्योंकि, हत अर्थात् उद्वर्तना और अपवर्तनाके द्वारा घात किये जानेपर, फिर भी हत अर्थात् स्थितिघात और रसघातके द्वारा किये जानेवाले घातसे इनकी उत्पत्ति होती है । इनका प्रमाण हतसमुत्पत्तिकस्थानोंसे असंख्यातगुणा है, क्योंकि, जीवोंके संक्लेश और विशुद्धि प्रतिममय अन्य अन्य होती हैं, और ये दोनों ही अनुभाग-घातके कारण हैं ।

इस प्रकार चौथी मूल गाथाके 'अणुभागे' इस पदके अर्थकी प्ररूपणा की गई ।

इस प्रकार अनुभागविभक्ति समाप्त हुई ।

कादूण जाव सण्णपच्चिदियपजत्तसञ्चुक्कस्साणुभागवधट्ठाणेत्ति ताव एदाणि असखेज्जलोगमेत्तच्छट्ठाणाणि वधसमुप्पत्तियट्ठाणाणि त्ति भण्णत्ति, वधेण समुप्पणत्तादो । अणुभागसत्तट्ठाणवादेण जमुप्पणमणुभागसत्तट्ठाण त पि णववधट्ठाणाणि त्ति वेत्त-व, वधट्ठाणसमाणत्तादो । पुणो एदेसिमसखेज्जलोगमेत्तच्छट्ठाणाण मज्जे अणतगुणवड्ढि-अणतगुणहाणि-अट्ठकुब्बंकाणं विच्चालेसु असखेज्जलोगमेत्तच्छट्ठाणाणि हदसमुप्पत्तियसत्तकम्मट्ठाणाणि भण्णत्ति, वधट्ठाणवादेण वधट्ठाणाण विच्चालेसु जज्जंतरभावेण उप्पणत्तादो । पुणो एदेसिमसखेज्जलोगमेत्ताणं हदसमुप्पत्तियसत्तकम्मट्ठाणाणमणंतगुणवड्ढि-हाणि-अट्ठकुब्बंकाण विच्चालेसु असखेज्जलोगमेत्तच्छट्ठाणाणि हदहदसमुप्पत्तियसत्तकम्मट्ठाणाणि बुच्चत्ति, वादेणुप्पण-अणुभागट्ठाणाणि वंधाणुभागट्ठाणेहितो विसरिसाणि घादिय वधसमुप्पत्तिय हदसमुप्पत्तिय-अणुभागट्ठाणेहितो विसरिसभावेण उप्पायिदत्तादो । कथमेकादो जीवदव्वादो अणेषाणमणुभागट्ठाणकजाणं समुन्मवो ? ण, अणुभागवधवाद्-वादेहेदुपरिणामसजोएण णाणाकजाणमुप्पत्तीए विरोहाभावादो । एदेसि ति विहाणमवि अणुभागट्ठाणाणं जहा वेयणभार्वाविहाणे परूवणा कदा, तहा एत्थ वि कायव्वा । जयघ०

पदेसविहती

१. पदेसविहती दुविहा-मूलपयडिपदेसविहती उत्तरपयडिपदेसविहती च ।
२. तत्थ मूलपयडिपदेसविहतीए गदाए ।

प्रदेशविभक्ति

अव अनुभागविभक्तिकी प्ररूपणाके पश्चान् प्रदेशविभक्ति कही जाती है । कर्म-पिडके भीतर जितने परमाणु हांते हैं, वे प्रदेश कहलाते हैं । उन प्रदेशोका भेद या विस्तारसे जिस अधिकारमें वर्णन किया जाय, उसे प्रदेशविभक्ति कहते हैं ।

चृणिसू०—वह प्रदेशविभक्ति दो प्रकार की है—मूलप्रकृतिप्रदेशविभक्ति और उत्तर-प्रकृतिप्रदेशविभक्ति । उनमेंसे मूलप्रकृतिप्रदेशविभक्तिका विवक्षित अनुयोगद्वारोसे वर्णन करना चाहिए ॥ १-२ ॥

विशेषार्थ—चृणिकारने मूलप्रकृतिप्रदेशविभक्तिका कुछ भी वर्णन न करके केवल उसके जाननेकी या उच्चारणाचार्योको प्ररूपण करनेकी सूचनामात्र करनी है । इसका कारण यह ज्ञात होता है कि यतः महाबन्धमे चौबीस अनुयोगद्वारोसे मूलप्रकृतिप्रदेशविभक्तिका विस्तारसे विवेचन किया गया है, अतः उसका यहाँ वर्णन पिष्ट-पेषण या पुनरुक्ति-दूषण होगा । ऐसा समझकर उन्होंने उसके जाननेकी केवल सूचना-भर कर दी है । महाबन्धमे इसका वर्णन चौबीस अनुयोगद्वारोसे किया है । किन्तु उच्चारणाचार्यने वाईस अनुयोगद्वारोसे ही इसका वर्णन किया है । इसका कारण यह है कि महाबन्धमे आठो कर्मोके प्रदेशबन्धका वर्णन है, अतः उनमें स्थानसंज्ञा और सन्निकर्षका होना संभव है । किन्तु प्रस्तुत ग्रन्थमे केवल मोह-कर्म ही विवक्षित है, अतः उसमें उक्त दोनो अनुयोगद्वार संभव नहीं है । उच्चारणाचार्यके द्वारा कहे गये वे वाईस अनुयोगद्वार इस प्रकार हैं—१ भागाभागानुगम, २ सर्वप्रदेश-विभक्ति, ३ नोसर्वप्रदेशविभक्ति, ४ उत्कृष्टप्रदेशविभक्ति, ५ अनुत्कृष्टप्रदेशविभक्ति, ६ जघन्य-प्रदेशविभक्ति, ७ अजघन्यप्रदेशविभक्ति, ८ सादिप्रदेशविभक्ति, ९ अनादिप्रदेशविभक्ति, १० ध्रुवप्रदेशविभक्ति, ११ अध्रुवप्रदेशविभक्ति, १२ एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, १३ काल, १४

१ मूलपयडिपदेसविहतीए परूविदाए पच्छा उत्तरपयडिपदेसविहती परूविदव्वा त्ति एदेण वयणेण जाणाविदं । तेणेद देसामासियसुत्त । एदस्स विवरणद्व परूविदउच्चारणमेत्थ भणिससामो । पदेसविहती दुविहा-मूलपयडिपदेसविहती उत्तरपयडिपदेसविहती चेव । मूलपयडिविहतीए तत्थ इमाणि वावीस अनुयोगद्वाराणि णादव्वाणि भवति । त जहा-भागाभाग १, सव्वपदेसविहती २, णोसव्वपदेसविहती ५, जहणपदेसविहती ६, अजहणपदेसविहती ७, सादियपदेसविहती ८, अणादियपदेसविहती ९, ध्रुवपदेसविहती १०, अद्ध्रुवपदेस-विहती ११, एगजीवेण मामित्त १२, कालो १३, अतर १४, णाणाजीवेहि भगविचओ १५, परिमाण १६,

और अन्तर, १५ नानाजीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, १६ परिमाणानुगम, १७ क्षेत्रानुगम, १८ स्पर्शनानुगम, १९ कालानुगम, २० अन्तरानुगम, २१ भावानुगम, और २२ अल्प-वहुत्वानुगम । इन वाईस अनुयोगद्वारोंके अतिरिक्त भुजाकार, पदनिक्षेप, वृद्धि और स्थान इन चार अर्थाधिकारोंके द्वारा भी मूलप्रदंशविभक्तिका वर्णन किया है । किन्तु न आज उच्चारणाचार्य है और न सर्वसाधारणकी महाबन्ध तक पहुँच ही है । अतएव यहाँपर उन अनुयोगद्वारोंसे मूलप्रकृतिप्रदंशविभक्तिका संक्षेपसे कुछ वर्णन किया जाता है—

(१) भागाभागानुगम—एक समयमें बंधनेवाले कर्म-प्रदंशोंका किस क्रमसे सर्व कर्मोंमें विभाग होता है, इस बातका वर्णन इस अनुयोगद्वारमें किया गया है । जैसे—कोई जीव यदि किसी विवक्षित समयमें शेष सात कर्मोंके बन्धके साथ आयुकर्मका भी बन्धकर रहा है, तो उसके उस समय बंधनेवाले कर्म-पिंडके प्रदंशोंका विभाग इस प्रकार होगा—आयुकर्मको सबसे कम प्रदंशोंका भाग मिलेगा । नाम और गोत्रकर्मको उससे विशेष अधिक, पर परस्परमें सदृश भाग मिलेगा । नाम-गोत्रसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीनों कर्मोंको विशेष अधिक, किन्तु परस्परमें समान भाग मिलेगा । इनसे मोहनीयकर्मको विशेष अधिक भाग मिलेगा और मोहनीयकर्मके भागसे भी विशेष अधिक भाग वेदनीयकर्मको मिलेगा ।

खेत १७, पोसण १८, कालो १९, अतर २०, भावो २१, अप्पावहुअ चेदि २२ । पुणो भुजगार-पदणिकखेव-वद्धि-हाणाणि त्ति (जयध०) । जो सो पदेसवधो सो दुविहो-मूलपगदिपदेसवधो चैव, उत्तरपगदिपदेसवधो चैव । एत्तो मूलपगदिपदेसवधो पुव्व गमणीयो । भागाभागसमुदाहारो × × × एदेण अट्टपदेण तत्थ इमाणि च्चदुवीस अणियोगद्वाराणि णादब्बाणि भवति । त जहा-टाणपरुवणा सव्ववधो णोसव्ववधो उक्कस्सवधो अणुक्कस्सवधो जहण्णवधो अजहण्णवधो एव याव अप्पावहुगेत्ति । भुजगारवधो पदणिकखेवो वद्धिवधो अज्जवसाणसमुदाहारो जीवसमुदाहारो त्ति । महाव०

१ (१) भागाभागपरुवणा—मूलपगदिपदेसवधे पुव्व गमणीयो भागाभागसमुदाहारो-अट्टविधवधगस्स आउगभावो थोवो । णामा-गोदेसु भागो विसेसावियो । मोहणीयभागो विसेसावियो । वेदणीयभागो विसेसावियो । एव सत्तविधवधगस्स वि । (णवरि तत्थ आउगभागो णत्थि) । एव छट्ठिवधवधगस्स वि । (णवरि तत्थ मोहणीयभागो णत्थि) महाव० । भागाभाग दुविह-जीवभागभाग पदेसभागभाग चेदि । तत्थ जीवभागभाग दुविह-जहण्णमुक्कस्स च । उक्कस्से पयद । दुविहो णिहेसो-ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोहणीयस्स उक्कस्सपदेसविहत्तिया जीवा सव्वजीवाण केवडिओ भागो ? अणतिमभागो । अणुक्कस्सपदेसविहत्तिया जीवा सव्वजीवाण केवडिया भागा ? अणता भागा । × × × जहण्णए पयद । दुविहो णिहेसो-ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोहणीयस्स जहण्णाजहण्ण० उक्कस्साणुक्कस्सभंगो । पदेसभागभागानुगमेण दुविहो णिहेसो-ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोहणीयस्स भागाभागो णत्थि, मूलपयडीए अप्पणाए पदेसभेदाभावादो । अधवा मोहणीयस्सव्वपदेसा सेससतकम्मपदेसेहितो कि सरिसा विसरिसा त्ति सदेहेण विनडियसिस्सस्स बुद्धिवाउलविणासणट्ठमिमा परुवणा एत्थ असवद्धा वि कीरदे । × × × सव्वत्थोवो आउगभावो । णामा-गोदभागो दो वि सरिसा विसेसाहिया । णाण दसणावरण-अतराइयाण भागा तिण्णि वि सरिसा विसेसाहिया । मोहणीयभागो विसेसाहियो । वेदणीयभागो विसेसाहियो । जहा वधमस्सिदूण अट्ठण्हं कम्मणं पदेसभागभागपरुवणा कदा, तहा सतमस्सिदूण वि कायव्वा, विसेसाभावादो । × × × जहण्णसतमस्सिदूण उक्कस्ससतकम्मपदेसवट्ठणभगो । जयध०

^१(२-३) सर्वप्रदेशविभक्ति-नोसर्वप्रदेशविभक्ति-इन दोनों अनुयोगद्वारोंमें क्रमशः कर्मोंके सर्वप्रदेश और नोसर्वप्रदेशोंका विचार किया गया है । विवक्षित कर्ममें उसके सर्व प्रदेशोंके पाये जानेको सर्वप्रदेशविभक्ति कहते हैं और उससे कम प्रदेशोंके पाये जानेको नोसर्वप्रदेशविभक्ति कहते हैं । मोहनीयकर्ममें ये दोनों प्रकारकी विभक्ति पाई जाती है ।

^२(४-५) उत्कृष्टप्रदेशविभक्ति-अनुत्कृष्टप्रदेशविभक्ति-इन दोनों अनुयोगद्वारोंमें क्रमशः कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंका और अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका विचार किया गया है । जिसमें सर्वोत्कृष्ट प्रदेशोंके पाये जाये जाते हैं, उसे उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति कहते हैं और जिसमें उत्कृष्ट प्रदेशोंके न्यून प्रदेशोंके पाये जाते हैं, उसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति कहते हैं । मोहनीय कर्ममें उत्कृष्ट प्रदेशोंके भी पाये जाते हैं और अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके भी पाये जाते हैं ।

^३(६-७) जघन्यप्रदेशविभक्ति-अजघन्यप्रदेशविभक्ति-इन दोनों अनुयोगद्वारोंमें क्रमशः कर्मोंके जघन्य और अजघन्य प्रदेशोंका विचार किया गया है । जिसमें सर्वजघन्य प्रदेशोंके पाये जाते हैं, उसे जघन्य प्रदेशविभक्ति कहते हैं और जिसमें सर्वजघन्य प्रदेशोंके उपरिष्ठ प्रदेशोंके पाये जाते हैं, उसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति कहते हैं । मोहनीयकर्ममें जघन्य प्रदेशोंके भी पाये जाते हैं और अजघन्य प्रदेशोंके भी पाये जाते हैं ।

^४(८-११) सादि-अनादि-ध्रुव-अध्रुवप्रदेशविभक्ति-इन अनुयोगद्वारोंमें कर्मोंके उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य प्रदेशोंका क्रमशः सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव रूपसे विचार किया गया है । प्रकृतमें मोहनीयकर्मकी उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट और जघन्य

१ (२-३) सच्च-णोसच्चप्रदेशविहृत्तिपरूचना—यो सो सच्चधो णोसच्चधो णाम, तस्स इमो दुविधो णिहेसो-ओघेण आदेसेण य । ओघेण णाणावरणीयस्स पदेसधो किं सच्चधो, णोसच्चधो ? सच्चधो वा, णोसच्चधो वा । सच्चाणि पदेसवधताणि वधमाणस्स सच्चधो । तदूण वधमाणस्स णोसच्चधो । एव सत्तहं कम्माणं (महाव०) । सच्चविहृत्ति-णोसच्चविहृत्तिण दुविधो णिहेसो-ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोहणीयस्स सच्चपदेसा सच्चविहृत्ति । तदूणो णोसच्चविहृत्ति । जयध०

२ (४-५) उक्कस्स-अणुक्कस्सपदेसविहृत्तिपरूचना—यो सो उक्कस्सधो अणुक्कस्सधो णाम, तस्स इमो दुविधो णिहेसो-ओघेण आदेसेण य । ओघेण णाणावरणीयस्स किं उक्कस्सधो अणुक्कस्सधो ? उक्कस्सधो वा, अणुक्कस्सधो वा । सच्चुक्कस्स पदेसं वधमाणस्स उक्कस्सधो, तदूण वधमाणस्स अणुक्कस्सधो । एवं सत्तहं कम्माणं (महाव०) । उक्कस्स-अणुक्कस्सविहृत्तियाणुगमेण दुविधो णिहेसो-ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोहणीयस्स सच्चुक्कस्सपदेसा उक्कस्सविहृत्ति । तदूणमणुक्कस्सविहृत्ति । जयध०

३ (६-७) जहण्ण-अजहण्णपदेसविहृत्तिपरूचना—यो सो जहण्णधो अजहण्णधो णाम, तस्स इमो दुविधो णिहेसो-ओघेण आदेसेण य । ओघेण णाणावरणीयस्स किं जहण्णधो, अजहण्णधो ? जहण्णधो वा, अजहण्णधो वा । सच्चजहण्णं पदेसग्ग वधमाणस्स जहण्णधो । तदुवरि वधमाणस्स अजहण्णधो । एव सत्तहं कम्माणं (महाव०) । जहण्णाजहण्णविहृत्तियाणुगमेण दुविधो णिहेसो-ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोहणीयस्स सच्चजहण्ण पदेसग्ग जहण्णविहृत्ति । तदुवरि अजहण्णविहृत्ति । जयध०

४ (८-९) सादि-अनादि-ध्रुव-अध्रुवप्रदेशविहृत्तिपरूचना—यो सो सादिधो अणादियधो ध्रुवधो अध्रुवधो णाम, तस्स इमो दुविधो णिहेसो-ओघेण आदेसेण य । ओघेण × × × मोहाउगाण उक्कस्स-अणुक्कस्स-जहण्ण-अजहण्णपदेसधो किं सादि० ४ । सादि अध्रुवधो (महाव०) । सादि-अनादि-

प्रदेशविभक्ति सादि और अध्रुव है । अजघन्य प्रदेशविभक्ति सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव चारो प्रकारकी है ।

१(१२) एकजीवापेक्षया स्वाभित्व-इस अनुयोगद्वारमे कर्मके उत्कृष्ट और जघन्य प्रदेशाप्रोके स्वाभियोंका एकजीवकी अपेक्षा विचार किया गया है । जैसे-मोहनीय कर्मकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी कौन है ? जो जीव वादर-पृथिवीकायिकोमे साधिक दो हजार सागरोपमसे न्यून कर्मरिथितिप्रमाण काल तक अवस्थित रहा है, वहाँपर उमके पर्याप्तक भव अधिक और अपर्याप्तक भव अल्प हुए । पर्याप्तकाल दीर्घ रहा और अपर्याप्तकाल अल्प रहा । वार-वार उत्कृष्ट योगस्थानोको प्राप्त हुआ और वार-वार अतिसंक्षेप परिणामोको प्राप्त हुआ । इस प्रकार परिभ्रमण करता हुआ वह वादर त्रसकायिक जीवोमे उत्पन्न हुआ । उनमे परिभ्रमण करते हुए उसके पर्याप्तक भव अधिक और अपर्याप्तक भव अल्प हुए । पर्याप्तक-काल दीर्घ और अपर्याप्तक-काल ह्रस्व रहा । वहाँपर भी वार-वार उत्कृष्ट योगस्थानोको और अतिसंक्षेपको प्राप्त हुआ । इस प्रकारसे संसारमे परिभ्रमण करके वह सातवीं पृथिवीके नारकियोमे तेतीस सागरोपमकी स्थितिका धारक नारकी हुआ । वहाँसे निकलकर वह पंचेन्द्रियोमे उत्पन्न हुआ और वहाँ अन्तर्मुहूर्तमात्र ही रह मरण करके पुनः तेतीस सागरोपम आयुवाले नारकियोमे उत्पन्न हुआ । वहाँ उस जीवके तेतीस सागरोपम व्यतीत होनेपर अन्तिम अन्तर्मुहूर्तके चरम समयमे वर्तमान होनेपर मोहनीयकर्मकी उत्कृष्टप्रदेशविभक्ति होती है । मोहनीयकर्मकी जघन्य प्रदेशविभक्ति उक्त विधानसे निकलकर क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए चरमसमयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायसंयतके होती है ।

ध्रुव-अद्धुवाणुगमेण दुविहो णिहेसो ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोहणीयस्स उक्क० अणुक्क० जहण्ण० कि सादिया, किमणादिया, कि ध्रुवा, किमद्धुवा ? सादि-अद्धुवा । अज० कि सादिया ४ ? (सादिया) अणादिया ध्रुवा अद्धुवा वा । जयध०

१ (१२) एगजीवेण सामित्तविहत्तिपरूवणा-सामित्त दुविध-जहण्णय उक्कस्सय च । उक्कस्सए पगद । दुविहो णिहेसो-ओघेण आदेसेण य । ओघेण × × × मोहणीयस्स उक्कस्सपदेसवधो कस्स ? अण्ण-दरस्स चहुगदियस्स पच्चिदियस्स सण्णिमिच्छादिट्ठिस्स वा सम्मादिट्ठिस्स वा, सन्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदस्स सत्तविधव वयस्स उक्कस्सजोगिस्स उक्कस्सए पदेसवधे वट्टमाणगस्स । × × × जहण्णए पगद । दुविहो णिहेसो-ओघेण आदेसेण य । ओघेण सत्तण्ण कम्माण जहण्णओ पदेसवधो कस्स ? अण्णदरस्स सुहुमणिगोदजीवअपज्जत्तयस्स पढमसमयतवभवत्थजहण्णजोगिस्स जहण्णए पदेसवधे वट्टमाणयस्स (महाव०) । सामित्त दुविह-जहण्णमुक्कस्स च । उक्कस्से पयद । दुविहो णिहेसो-ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोहणीयस्स उक्कस्सिया पदेसविहत्ती कस्स ? जो जीवो वादर पुढविकाइएसु वेहि सागरोवमसहस्सेहि सादिरेएहि ऊणिय कम्मट्ठिदिमच्छिदाउओ० । एव 'वेयणाए' बुत्तविहाणेण ससरिदूण अधो सत्तमाए पुढवीए णेरइएसु तेत्तीस सागरोवमाउट्ठिदिएसु उववण्णो । तदो उवट्ठिदसमाणो पच्चिदिएसु अतोमुहुत्तमच्छिय पुणो तेत्तीससागरोवमाउट्ठिदिएसु णेरइएसु उववण्णो । पुणो तत्थ अपच्छिमतेत्तीससागरोवमाउणिरयभवग्गहणअतोमुहुत्तचरिमसमए वट्टमाणस्स मोहणीयस्स उक्कस्सपदेसविहत्ती । × × × जहण्णए पयद । दुविहो णिहेसो-ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोहणीयस्स जहण्णपदेसविहत्ती कस्स ? जो जीवो सुहुमणिगोदजीवेषु पल्लिदोवमस्स 'असखेज्जदिमाणेणूणिय कम्मट्ठिदिमच्छिदो । एव 'वेयणाए' बुत्तविहणेण चरिमसमयकसाई जादो, तस्स मोहणीयस्स जहण्णपदेसविहत्ती । जयध०

(१३) प्रदेशविभक्ति-कालप्ररूपणा—इस अनुयोगद्वारमे एक जीवकी अपेक्षा कर्मोंकी उत्कृष्ट और जघन्य प्रदेशविभक्ति कितने समय तक होती है, इस प्रकारसे कालका निर्णय किया गया है। जैसे—मोहनीयकर्मकी उत्कृष्टप्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्यकाल वर्षपृथक्त्व और उत्कृष्टकाल असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण अनन्तकाल है। जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है। अजघन्यप्रदेशविभक्तिका काल अनादि-अनन्त और अनादि-सान्त है।

(१४) प्रदेशविभक्ति-अन्तरप्ररूपणा—इस अनुयोगद्वारमे एक जीवकी अपेक्षा कर्मोंके उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट और जघन्य, अजघन्य प्रदेशोंकी विभक्ति करनेवालोंके अन्तरकालका विचार किया गया है। जैसे—मोहनीयकर्मकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर चूर्णिकारके मतसे असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनप्रमित अनन्त काल है। किन्तु किसी-किसी आचार्यके मतसे जघन्य अन्तर असंख्यात लोक-प्रदेशप्रमित काल है। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है। जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्ति करनेवाले जीवोंका कभी अन्तर नहीं होना है, वे सर्वकाल पाये जाते हैं।

(१५) नानाजीवापेक्षया भंगविचयप्ररूपणा—इस अनुयोगद्वारमे नाना जीवोंकी

१ (१३) पदेसविहत्तिकालपररूपणा—काल दुविध-जहणय उक्कस्सय च । उक्कस्सए पगद । दुविहो णिहोसो-ओवेण आदेसेण य । ओवेण $\times \times \times$ मोहणीयस्स उक्कस्सपदेसवधो केवचिर कालादो होदि ? जहणेण एगसमओ । उक्कस्सेण वे समया । अणुक्कस्सपदेसवधो जहणेण एगसमओ । उक्कस्सेण अणतकालमसखेजा पोगगलपरियट्ठा । $\times \times \times$ जहणेणए पगद । दुविहो णिहोसो-ओवेण आदेसेण य । ओवेण सत्तए कम्मण जहणपदेसवधो केवचिर कालादो होदि ? जहणुक्कस्सेण एगसमओ । अजहणपदेसवधो केवचिर कालादो होदि ? जहणेण खुदाभवग्गहण । उक्कस्सेण असखेजा लोगा । अधवा सेटीए असखेजदि-भागो (महाव०) । कालाणुगमो दुविहो-जहणओ उक्कस्सओ चेदि । उक्कस्से पयदं । दुविहो णिहोसो-ओवेण आदेसेण य । ओवेण मोहणीयस्स उक्कस्सपदेसवधो केवचिर कालादो होदि ? जहणुक्कस्सेण एगसमओ । अणुक्कस्सपदेसवधो जहणेण वामपुधत्त । उक्कस्सेण अणतकालमसखेजा पोगगलपरियट्ठा । $\times \times \times$ जहणेणए पयद । दुविहो णिहोसो-ओवेण आदेसेण य । ओवेण मोहणीयस्स जहणपदेसवधो केवचिर कालादो होदि ? जहणुक्कस्सेण एगसमओ । अजहणपदेसवधो केवचिर कालादो होदि ? अणादिओ अपज्जवमिदो, अणादिओ सपज्जवमिदो । जयध०

२ (१४) पदेसविहत्ति-अंतरपररूपणा—अतर दुविध-जहणय उक्कस्सय च । उक्कस्सए पगद । दुविहो णिहोसो-ओवेण आदेसेण य । ओवेण अट्ठण्ह कम्मण उक्कस्सपदेसवधतर केवचिर कालादो होदि ? जहणेण एगसमओ । उक्कस्सेण अतोमुहुत्त । $\times \times \times$ जहणेणए पगद । दुविहो णिहोसो-ओवेण आदेसेण य । ओवेण अट्ठण्ह कम्मण जहण-अजहणपदेसवधतर णत्थि (महाव०) । अतर दुविह-जहणमुक्कस्स चेदि । उक्कस्से पयद । दुविहो णिहोसो-ओवेण आदेसेण य । ओवेण मोहणीयस्स उक्कस्सपदेसविहत्तीए अतर केवचिर कालादो होदि ? जहणुक्कस्सेण अणतकालमसखेजा पोगगलपरियट्ठा । अधवा जहणेण असखेजा लोगा, गुणितपरिणामेहितो पुवभूटपरिणामेसु असखेजलोगमेत्तेसु जहणेण सचरणकालस्स असखेजलोगपरिणामात्तादो । अणुक्क० जहणुक्क० एगसमओ । $\times \times \times$ जहणेणए पयद । दुविहो णिहोसो-ओवेण आदेसेण य । ओवेण मोहणीयस्स जहणाजहणपदेसविहत्तीण णत्थि अतर । जयध०

३ (१५) णाणजीवेहि भंगविचयपररूपणा—णाणजीवेहि भंगविचओ दुविहो-जहणओ उक्कस्सओ

अपेक्षा उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट और जघन्य-अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंके भंगोंका अन्वेषण किया गया है। भंगोंके जाननेके लिए यह अर्थपद है—जो जीव उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले होते हैं, वे जीव अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले नहीं होते, तथा जो अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले होते हैं, वे उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले नहीं होते हैं। इस अर्थपदके अनुसार कदाचिन् सर्व जीव मोहनीयकर्मकी उत्कृष्टप्रदेशविभक्तिवाले नहीं हैं ? कदाचिन् अनेक जीव अविभक्तिवाले हैं और कोई एक जीव विभक्तिवाला है ? कदाचिन् अनेक जीव अविभक्तिवाले और अनेक जीव विभक्तिवाले होते हैं ? इस प्रकार उत्कृष्टप्रदेशविभक्ति-सम्बन्धी तीन भंग होते हैं। इसी प्रकार अनुत्कृष्टप्रदेशविभक्तिके भी तीन भंग होते हैं। भेद केवल इतना है कि उसके भंग कहते समय विभक्ति पद पहले कहना चाहिए। इसी प्रकारसे मोहनीयकर्मके जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्ति-सम्बन्धी तीन-तीन भंग जानना चाहिए।

१ (१६) प्रदेशविभक्ति-परिमाणप्ररूपणा—इस अनुयोगद्वारमं विवक्षित कर्मके उत्कृष्टप्रदेशविभक्तिवाले जीव एक साथ कितने पाये जाते हैं और अनुत्कृष्टप्रदेशविभक्तिवाले कितने पाये जाते हैं, इस प्रकारसे उनके परिमाणका विचार किया गया है। जैसे—मोहनीयकर्मकी उत्कृष्टप्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात है। अनुत्कृष्टप्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त है। जघन्यप्रदेशविभक्तिवाले कितने हैं ? संख्यात है। अजघन्य-प्रदेशविभक्तिवाले कितने हैं ? अनन्त है।

२ (१७) प्रदेशविभक्ति-क्षेत्रप्ररूपणा—इस अनुयोगद्वारमं प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंके वर्तमानकालिक क्षेत्रका विचार किया गया है। जैसे—मोहनीयकर्मकी उत्कृष्टप्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवे भागमें रहते हैं। अनुत्कृष्टप्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सर्वलोकमें रहते हैं। इसी प्रकार जघन्य और अजघन्यप्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका क्षेत्र जानना चाहिए।

चेदि । उक्कस्से पयद । तत्थ अट्ठपद—जे उक्कस्सपदेसविहत्तिया, ते अणुक्कस्सपदेसस्स अविहत्तिया । जे अणुक्कस्सपदेसविहत्तिया ते उक्कस्सपदेसस्स अविहत्तिया । एदेण अट्ठपदेण दुविहो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोहणीयस्स उक्कस्सियाए पदेसविहत्तीए सिया सव्वे जीवा अविहत्तिया १, सिया अविहत्तिया च विहत्तिओ च २, सिया अविहत्तिया च विहत्तिया च ३ । अणुक्कस्सस्स विहत्तिपुव्वा तिण्णि भगा वत्तव्वा । × × × जहण्णए पयद । त चेव अट्ठपद कादूण पुणो एदेण अट्ठपदेण उक्कस्सभगो । जयध०

१ (१६) पदेसविहत्तिपरिमाणप्ररूपणा—परिमाण दुविहं—जहण्णमुक्कस्स च । उक्कस्से पयद दुविहो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोहणीयस्स उक्कस्सपदेसविहत्तिया केत्तिया ? असखेज्जा, आवलियाए असखेजभागमेत्ता । अणुक्कस्सपदेसविहत्तिया केत्तिया ? अणता । × × × जहण्णए पयद । दुविहो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोहणीयस्स जहण्णपदेसविहत्तिया केत्तिया ? सखेज्जा । अजहण्णपदेसविहत्तिया अणता । जयध०

२ (१७) पदेसविहत्तिखेत्तप्ररूपणा—खेत्त दुविह—जहण्णमुक्कस्स च । उक्कस्से पयद । दुविहो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोहणीयस्स उक्कस्सपदेसविहत्तिया केवडि खेत्ते ? लोगस्स असखेजदिभागे । अणुक्कस्सपदेसविहत्तिया सव्वलोमे । जहण्णाजहण्णपदेसविहत्तियाण खेत्त उक्कस्साणुक्कस्सखेत्तभगो । जयध०

^१(१८) प्रदेशविभक्ति-स्पर्शनप्ररूपणा—इस अनुयोगद्वारमे प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंके त्रिकाल-गोचर स्पृष्ट क्षेत्रका विचार किया गया है। जैसे—मोहनीयकर्मकी उत्कृष्टप्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने कितना क्षेत्र स्पृष्ट किया है ? लोकका असंख्यातवाँ भाग स्पृष्ट किया है। अनुत्कृष्टप्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने कितना क्षेत्र स्पृष्ट किया है ? सर्वलोक स्पृष्ट किया है। इसी प्रकार जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शन-क्षेत्र जानना चाहिए।

^२(१९) नानाजीवापेक्षया प्रदेशविभक्ति-कालप्ररूपणा—इस अनुयोगद्वारमे नाना जीवोंकी अपेक्षा कर्मोंके उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट और जघन्य-अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंके कालका विचार किया गया है। जैसे—मोहनीयकर्मकी उत्कृष्टप्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलीका असंख्यातवाँ भाग है। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका सर्वकाल है। जघन्यप्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका जघन्यकाल एक समय है, और उत्कृष्टकाल संख्यात समय है। अजघन्यप्रदेशविभक्तिवाले जीव सर्वकाल पाये जाते हैं।

^३(२०) नानाजीवापेक्षया प्रदेशविभक्ति-अन्तरप्ररूपणा—इन अनुयोगद्वारमे नानाजीवोंकी अपेक्षा कर्मोंके उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट और जघन्य-अजघन्यप्रदेशविभक्तिवाले जीवोंके अन्तरकालका निरूपण किया गया है। जैसे—मोहनीयकर्मकी उत्कृष्टप्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात पुद्गल-परिवर्तनप्रमित अनन्तकाल है। अनुत्कृष्टप्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका कभी अन्तर नहीं होता, अर्थात् वे सर्वकाल पाये जाते हैं। इसी प्रकार जघन्य और अजघन्यप्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका अन्तरकाल जानना चाहिए।

१ (१८) पदेसविहृत्तिपोसणपिस्वणा—पोसण दुविह-जहणमुक्कस्स च । उक्कस्से पयद । दुविहो णिहोसो-ओवेण आदेसेण य ओवेण मोहणीयस्स उक्कस्सअणुक्कस्सविहृत्तियाण पोमण खेत्तभगो । × × × जहणए पयद । दुविहो णिहोसो-ओवेण आदेसेण य । ओवेण मोहणीयस्स जहणाजहणपदेसविहृत्तियाण पोसण उक्कस्साणुक्कस्सभगो । जयध०

२ (१९) नानाजीवापेक्षया पदेसविहृत्तिकालपरवणा—कालो दुविहो-जहणओ उक्कस्सओ चेदि । उक्कस्सए पयदं । दुविहो णिहोसो-ओवेण आदेसेण य । ओवेण मोहणीयस्स उक्कस्सपदेसविहृत्तिया केवचिर कालादो होति ? जहणोण एगसमओ । उक्कस्सेण आवलियाए असखेज्जदिभागो । अणुक्क० सव्वट्ठा । × × जहणए पयद । दुविहो णिहोसो-ओवेण आदेसेण य । ओवेण मोहणीयस्स जहणपदेसविहृत्तिया केवचिर कालादो होति ? जहणोण एगसमओ । उक्कस्सेण सखेजा समया । अजहणपदेसविहृत्तिया सव्वट्ठा । जयध०

३ (२०) नानाजीवापेक्षया पदेसविहृत्तिअंतरपरवणा—अतर दुविह जहणय उक्कस्सय च । उक्कस्सए पयदं । दुविधो णिहोसो-ओवेण आदेसेण य । ओवेण अट्ठण्ह कम्माण उक्कस्सपदेसवधतर केवचिर कालादो होदि ? जहणोण एगसमओ । उक्कस्सेण सेटीए असखेज्जदिभागो । अणुक्कस्सपदेसविहृत्तियाणं णत्थि अतर । × × × जहणए पयद । दुविधो णिहोसो-ओवेण अदेसेण य । ओवेण अट्ठण्ह कम्माण जहण-अजहणपदेसविहृत्तियाण णत्थि अतर (महाय०) । अतर दुविह-जहणमुक्कस्स चेदि । उक्कस्से पयदं । दुविहो णिहोसो-ओवेण आदेसेण य । ओवेण मोहणीयस्स उक्कस्सपदेसविहृत्तिअतर केवचिर कालादो होदि ? जहणोण एगसमओ । उक्कस्सेण अणतकालमसखेजा पोगलपरियट्ठा । अणुक्कस्सपदेसविहृत्तियाण णत्थि अतर । × × × जहणए पयद । दुविहो णिहोसो-ओवेण आदेसेण य । ओवेण मोहणीयस्स जहणाजहणपदेसविहृत्तियाणमतर उक्कस्साणुक्कस्सभगो । जयध०

३. उत्तरपयडिपदमविहत्तीए एगजीवेण सामिचं । ४. पिच्छत्तस्स उक्कस्स-
पदेसविहत्ती कस्स । ५. वादरपुढविजीवेसु कम्मट्ठिदिमच्छिदाउओ, तदो उवट्ठिदां
तसकाए वे सागरोवमसहस्साणि सादिरयाणि अच्छिदाउओ, अपच्छिमाणि तेत्तीसं

^१(२१) प्रदेशविभक्ति-भावप्ररूपणा—इस अनुयोगद्वारामे प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंके भावोंका विचार किया गया है । मोहनीयकर्मकी प्रदेशविभक्तिवाले सभी जीवोंके औदयिक-भाव होता है ।

^२(२२) प्रदेशविभक्ति—अल्पग्रहत्वप्ररूपणा—इस अनुयोगद्वारामे कर्मोंके उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट और जघन्य-अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंकी अल्पता और अधिकताका अनु-गम किया गया है । जैसे—मोहनीयकर्मकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव सबसे कम हैं और इनसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणित हैं । इसी प्रकार मोहनीय कर्मकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीव सबसे कम हैं और उनसे अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीव अनन्त-गुणित हैं ।

इन वाईस अनुयोगद्वारोंके अतिरिक्त भुजाकार, पदनिक्षेप, वृद्धि और स्थान अधि-कारोंके द्वारा भी प्रदेशविभक्तिवा विस्तृत विवेचन उच्चारणावृत्तिमें किया गया है, सो विशेष जिज्ञासुजनोंको जयधवला टीकासे जानना चाहिए ।

चूर्णिसू०—अत्र उत्तरप्रकृतिप्रदेशविभक्तिका वर्णन करते हैं । उसमें पहलें एक जीवकी अपेक्षा प्रदेशविभक्तिका स्वामित्व कहते हैं—मिथ्यात्वकर्मकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति किस जीवके होती है ? जो जीव वादरपृथिवीकायिक जीवोंमें त्रस-स्थितिकालसे कम सत्तरकोडाकोडी साग-रोपम कर्म-स्थितिप्रमाण काल तक रहा हुआ है, तत्पश्चान् वहाँसे निकलकर त्रसकायमें कुछ अधिक दो हजार सागरोपम काल तक रहा, सबमें अन्तमें तेतीस सागरोपमकी आयुवाले

१ (२१) पदेसविहत्तिभावप्ररूपणा—भाव दुविध-जहणय उक्कस्सय च । उक्कस्से पयद । दुविहो णिहेसो-ओवेण आदेसेण य । ओवेण अट्ठह कम्माण उक्कस्स अणुक्कस्सपदेसवधगा त्ति को भावो ? ओदइगो भावो । X X X जहणए पयद । X X X अट्ठह कम्माण जहण-अजहणपदेसवधगा त्ति को भावो ? ओदइगो भावो (महाव०) । भाव सव्वत्थ ओदइओ भावो । जयव०

२ (२२) पदेसविहत्ति-अप्पावहुअप्ररूपणा—अप्पावहुअ दुविध जहणय उक्कस्सय चेदि । उक्क-
स्सए पयद । दुविहो णिहेसो-ओवेण आदेसेण य । ओवेण सव्वत्थोवो आउग उक्कस्सपदेसवधो । मोहणीयस्स
उक्कस्सपदेसवधो विसेसाहिओ । णामा गोदाण उक्कस्सपदेसवधो दो वि तुल्लो विसेसाहिओ । णाणावरण-
दसणावरण-अतराइयाण उक्कस्सपदेसवधो तिण्णिवि तुल्लो विसेसाहिओ । वेदणीयउक्कस्सपदेसवधो विसे-
साहिओ । जहणए पयद । ओवेण आदेसेण य । ओवेण सव्वत्थोवो णामा-गोदाण जहणपदेसवधो । णाणा-
वरण-दसणावरण-अतराइयाण जहणपदेसवधो तिण्णिवि तुल्ला विसेसाहित्वा । मोहणीयस्स जहणपदेसवधो
विसेसाहिओ । वेदणीयस्स जहणपदेसवधो विसेसाहिओ । आउगजहणपदेसवधो असखेज्जगुणो (महाव०)
अप्पावहुअ दुविह-जहणमुक्कस्स चेदि । उक्कस्से पयद । दुविहो णिहेसो-ओवेण आदेसेण य । ओवेण
मोहणीयस्स सव्वत्थोवो उक्कस्सपदेसविहत्तिया जीवा । अणुक्कस्सपदेसविहत्तिया जीवा अणुत्त गुणा । X X X
एव जहणअप्पावहुअ पि वत्तन्व । णवारे जहणाजहणणिहेसो कायव्वो । जयध०

सागरोपमाणि दोभवग्गहणाणि, तत्थ अपच्छिमे तेत्तीसं सागरोपमिण्णेणेरइयभवग्गहणे चरिमसमयणेरइयस्स तस्स मिच्छत्तस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं ।

६. एवं वारसकसाय-छण्णोकसायाणं । ७ सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेसविहत्तिओ को होदि ? ८. गुणिद्वम्मसिओ दंसणमोहणीयक्खवओ जम्मि मिच्छत्तं सम्मामिच्छत्ते पक्खित्तं तम्मि सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेसविहत्तिओ । ९. सम्मत्तस्स

सातवी पृथिवीके नारकियोमें उसने दो भवोंको ग्रहण किया । उनमेंसे सबसे अन्तिम अर्थात् दूसरे तेतीस सागरोपमवाले नारकीके भव-ग्रहण करनेपर चरमसमयवर्ती उस नारकीके मिथ्यात्वकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म होता है ॥ ३-५॥

चूर्णिसू०—इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी आदि वारह कपाय और हास्य आदि छह नोकपाय, इन अठारह प्रकृतियोंका प्रदेशसत्कर्मसम्बन्धी उत्कृष्ट स्वामित्व जानना चाहिए । विशेषता केवल इतनी है कि यहाँपर सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण कर्मस्थिति न कहकर चालीस कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण कर्मस्थिति कहना चाहिए । सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति करनेवाला कौन जीव है ? गुणितकर्माशिक दर्शनमोहनीय-क्षपक जीव जिस समय मिथ्यात्वको सम्यग्मिथ्यात्वमें प्रक्षिप्त करता है, उस समय वह सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी होता है ॥ ६-८॥

विशेषार्थ—जिस जीवके मोहनीयकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशसत्त्व विद्यमान होता है, उसे गुणितकर्माशिक कहते हैं । मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्त्व वतलाते हुए ऊपर जिस जीवके उसका उत्कृष्ट स्वामित्व वतलाया है वही सातवी पृथिवीका चरमसमयवर्ती नारकी यहाँपर गुणितकर्माशिक शब्दसे अभीष्ट है । वह जीव वहाँसे निकलकर तिर्यचांमे दो तीन भव धारण करके पुनः मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । आठ वर्षका होकर उपशमसम्यक्त्वको धारणकर और उपशमसम्यक्त्वके कालके भीतर ही अनन्तानुबन्धी-चतुष्कका विसंयोजन करके उपशमसम्यक्त्वके कालको पूराकर, वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त होकर, और उससे अन्तर्मुहूर्त रहकर दर्शन-मोहनीयका क्षपण प्रारम्भकर अधःकरण और अपूर्वकरणके कालको पूराकर अनिवृत्तिकरणके संख्यात भाग व्यतीत हो जानेपर जिस समय मिथ्यात्वकर्मके अन्तिम खंडकी अन्तिम फालीका सर्वसंक्रमणके द्वारा सम्यग्मिथ्यात्वमें संक्रमण करता है, उस समय सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्त्व पाया जाता है ।

चूर्णिसू०—इसी प्रकार सम्यक्त्वप्रकृतिका भी उसी सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशसत्त्ववाले जीवके द्वारा अन्तर्मुहूर्तकाल तक संख्यात हजार स्थिति-खंड करनेके पश्चात्

१ संपुन्नगुणियकम्मो पएसउक्कस्ससंतसामी उ ॥ २७ ॥

(चू०) 'संपुन्नगुणियकम्मो' ति—संपुन्नगुणियकम्मसिगत्तण जस्स अत्थि सो संपुन्नगुणियकम्मो 'पएस-उक्कस्ससंतसामी उ' ति—उक्कोसपदेससामी भवति । तस्सेव य ति णेरइयचरमसमये वट्टमाणस्स सामण्णेण सव्वकम्माण उक्कोसं पदेससतकम्मा भवति । कम्म० सत्ता० गा० २७, चूर्णि० पृ० ५७,

वि तेणेव जम्मि सम्मामिच्छत्तं सम्मत्ते पक्खित्तं तस्स सरमत्तस्स उक्कस्सपदेससंतकम्मं ।
 १०. णवुंसयवेदस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं करम ? ११. गुणितकम्मंसिओ
 ईसाणं गदो तस्स चरिमसमयदेवस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं । १२. इत्थिवेदस्स
 उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं कस्स ? १३. गुणितकम्मंसिओ असंखेज्जवरसाउए गदो
 तम्मि पलिदोवपरस असंखेज्जदिभागेण जम्मि पृग्दिो तस्स इत्थिवेदस्स उक्कस्सयं पदेस-
 संतकम्मं । १४. पुरिसवेदस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं कस्स ? १५. गुणितकम्मंसिओ
 ईसाणेसु णवुंसयवेदं पूरेदूण तदो कमेण असंखेज्जवरसाउएसु उववण्णो । तत्थ पलिदो-

जिस समय सम्यग्मिथ्यात्वका द्रव्य सर्वसंक्रमणके द्वारा सम्यक्त्वप्रकृतिमें प्रक्षिप्त किया जाता है, उस समय उस जीवके सम्यक्त्वप्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म होता है । नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म किस जीवके होता है ? वही पूर्वोक्त गुणितकर्माशिक मातर्वा पृथिवीका नारकी जीव वहाँसे निकलकर तिर्यच होता हुआ ईशानस्वर्गमें गया । वहाँपर अतिसंकलेशसे वह पुनः पुनः नपुंसकवेदको बाँधता है और बहुत कर्मप्रदेशोंका संचय करता है । ऐसे उस चरमसमयवर्ती देवके नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म होता है । त्रीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म किस जीवके होता है ? वही पूर्वोक्त गुणितकर्माशिक जीव ईशानस्वर्गमें नपुंसकवेदके उत्कृष्ट प्रदेशसंचयको करके वहाँसे च्युत हो संख्यात वर्षवाले मनुष्य या तिर्यचोमें उत्पन्न होकर तत्पश्चात् असंख्यात वर्षकी आयुवाले भोगभूमियाँ मनुष्य अथवा तिर्यचोमें गया । वहाँपर संकलेशसे पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण कालके द्वारा जिस समय त्रीवेद पूरित करता है, उस समय उस जीवके त्रीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म होता है ॥९-१३॥

चूर्णिसू०-पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म किस जीवके होता है ? वही पूर्वोक्त गुणितकर्माशिक जीव ईशान स्वर्गके देवोमें नपुंसकवेदको पूरित करके तत्पश्चात् संख्यात वर्ष-

१ मिच्छत्ते मीसस्मि य संपक्खित्तम्मि मीससुद्धाणं ।

(चू०) ततो उव्वट्ठित्तु तिरिएसु उववण्णो । ततो अतोमुहुत्तेण मणुएसु उप्पन्नो । तत्थ सम्मत्तं उप्पाएति । ततो लहुमेव खवणाए अद्भुट्ठिओ जम्मि समये मिच्छत्तं सम्मामिच्छत्ते सव्वसंकमेण सक्तं भवति, तम्मि समये सम्मामिच्छत्तस्स उक्कोसपदेससत्तं भवति । जम्मि समये सम्मामिच्छत्तं सम्मत्ते सव्वसंकमेण सक्तं भवइ, तम्मि समये सम्मत्तस्स उक्कोसपदेससत्तं भवति ।

२ वरिसवरस्स उ ईसाणगरस्स चरमम्मि समयम्मि ॥ २८ ॥

(चू०) सो चैव गुणियकम्मसिगो सव्वावासगाणि काउ ईसाणे उप्पण्णो, तत्थ सक्किलेसेण भूयो भूयो नपुंसगवेयमेव वधति, तत्थ बहुगो पदेसणिचयो भवति, तस्स चरिमसमये वट्टमाणस्स (वरिसवरस्स वर्षवरस्य, नपुंसकवेदस्स) उक्कोसपदेससत्तं ।

३ ईसाणे पूरित्ता णवुंसगं तो असंखवासीसु । पल्लासंखियभागेण पूरिए इत्थिवेयस्स ॥२९॥

(चू०) ईसाणे नपुंसगवेयपुव्वपउणेण पूरित्ता ततो उव्वट्ठित्तु लहुमेव 'असखवासीसु' त्ति-भोगभूमिगेसु उप्पण्णो । ××× तत्थ सक्किलेसेण पञ्चओवमस्स असखेज्जेण कालेण इत्थिवेउ पूरितो भवति, तम्मि समये इत्थिवेयस्स उक्कोसपदेससत्तं । कइं ? मण्णइ-पदमसमये वद्ध पलिओवमस्स असखेज्जतिभागेण अहापवत्तसकमेण णिट्ठाति । कम्म० सत्ता० पृ० ५८.

वमस्स असंखेज्जदिभागेण इत्थिवेदो पूरिदो । तदो सम्मत्तं लब्धिदूण मदो पलिदोवम-
ट्टिदिओ देवो जादो । तत्थ तेणेव पुरिसवेदो पूरिदो । तदो चुदो मणुसो जादो
सव्वलहं क्रमाए खवेदि । तदो णचुंसयवेदं पक्खिविदूण जम्हि इत्थिवेदो पक्खित्तो
तस्समए पुरिमवेदस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं ।

१६. तेणेव जाधे पुरिसवेद-लुण्णाकसायाणं पदेसग्गं क्रोधसंजलणे पक्खित्तं
ताधे क्रोधसंजलणस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं । १७. एसेव क्रोधो जाधे माणे पक्खित्तो
ताधे माणस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं । १८. एसेव माणो जाधे मायाए पक्खित्तो ताधे
मायासंजलणस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं । १९. एसेव माया जाधे लोभसंजलणे

की आयुवाले तिर्यच-मनुष्योमे उत्पन्न होकर पुनः क्रमसे असंख्यात वर्षकी आयुवाले भोग-
भूमियां तिर्यच-मनुष्योमे उत्पन्न हुआ । वहाँपर पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण कालसे
उमने स्त्रीवेदको पूरित किया । तत्पश्चात् सम्यक्त्वको प्राप्त कर मरा और पल्योपमकी स्थिति-
वाला सौधर्म-ईशानकल्पवासी देव हुआ । वहाँपर उस जीवने पुरुषवेदको पूरित किया ।
वहाँसे च्युत होकर मनुष्य हुआ और सर्व लघुकालसे कपायोका क्षपण प्रारम्भ किया । तत्प-
श्चात् सर्वसंक्रमणके द्वारा नपुंसकवेदको स्त्रीवेदमे प्रक्षिप्तकर जिस समय सर्वसंक्रमणके द्वारा
स्त्रीवेदको पुरुषवेदमे प्रक्षिप्त करता है, उस समय उस जीवके पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म
होता है ॥ १४-१५ ॥

चूर्णिसू०-पुरुषवेदके उत्कृष्टप्रदेशसत्त्ववाले उसी उपर्युक्त जीवके द्वारा जिस समय
पुरुषवेद और हाम्य आदि छह नोकपायोके प्रदेशाग्र (कर्मदालेक) सर्वसंक्रमणके द्वारा क्रोध-
संज्वलनमे प्रक्षिप्त किये जाते हैं, उस समय उस जीवके क्रोधसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म
होता है । यही जीव जिस समय क्रोधसंज्वलनको सर्वसंक्रमणके द्वारा मानसंज्वलनमे प्रक्षिप्त
करता है, उस समय उस जीवके मानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म होता है । यही जीव
जिस समय मानसंज्वलनको सर्वसंक्रमणके द्वारा मायासंज्वलनमे प्रक्षिप्त करता है, उस समयमें
उस जीवके मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म होता है । यही जीव जिस समय माया-
संज्वलनको सर्वसंक्रमणके द्वारा लोभसंज्वलनमे प्रक्षिप्त करता है, उस समय उस जीवके

१ पुरिसस्स पुरिससंक्रमणपएसउक्कस्ससामिगस्सेव ।

इत्थी जं पुण समयं संपक्खित्ता हवइ ताहे ॥ ३० ॥

(चू०) जो पुरिसवेयस्स उक्कोसपदेससतसामी भणितो तस्स चेव इत्थिवेदो जग्मि समये पुरिसवे-
यग्मि सव्वसंक्रमेण सकतो भवति, तग्मि समये पुरिसवेयस्स उक्कोस पदेससत । कम्म०सत्ता० पृ० ५७-५८

२ तस्सेव उ संजलणा पुगिसाइकमेण सज्वसंज्जोभे ।

(चू०) × × × जो पुरिसवेयस्स उक्कोसपदेससतसामी सो चेव चउण्हं सजलणाण उक्कोसपदेससत-
सामी । × × ×जग्मि समये पुरिसवेतो सव्वसंक्रमेण कोहसजलणाए सकतो भवति तग्मि समये कोहसंजलणाए
उक्कोसपदेससतं भवति । ३ तस्सेव जग्मि समये कोहसजलणा माणसजलणाए सव्वसंक्रमेण सकता तग्मि
समये माणसजलणाए उक्कोस पदेससत भवति । ४ तस्सेव जग्मि समए माणसजलणा मायासजलणाए
सव्वसंक्रमेण संकता भवति तग्मि समये मायासजलणाए उक्कोस पदेससत । कम्म० स० पृ० ५९.

पक्खित्ता ताधे लोभसंजलणस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं^१ ।

२०. मिच्छत्तस्स जहण्णपदेससंतकम्मिओ को होदि ? २१. सुहुमणिगोदेसु कम्मट्ठिदिमच्छिदाउओ^२ । तत्थ सव्ववहुआणि अपज्जत्तभवग्गहणाणि दीहाओ अपज्जत्तद्दाओ तप्पाओग्गजहण्णयाणि जोगट्ठाणाणि अभिवग्गं गदो । तदो तप्पाओग्गजहण्णियाए वड्डीए वड्ठिदो जदा जदा आउअं वंधदि तदा तदा तप्पाओग्गउक्कस्सएसु जोगट्ठाणेसु वंधदि हेठिच्छीणं ट्ठिदीणं णिसेयस्स उक्कस्सपदेसं तप्पाओग्गं उक्कस्सविसोहि-मभिवखं गदो, जाधे अभवसिद्धियपाओग्गं जहण्णगं कम्मं कदं तदो तसेसु आगदो संजमासंजमं संजमं सम्मत्तं च बहुसां लद्धो । चत्तारि वारे कमाए उवसामित्ता तदो वे छावट्ठिसागरोवमाणि सम्मत्तमणुपालेदूण तदो दंसणमोहणीयं खवेदि । अपच्छिमट्ठिदि-खंडयमवणिज्जमाणयमवणिदमुदयावलियाए जं तं गलमाणं तं गलिदं, जाधे एकस्से ट्ठिदीए दुसमयकालट्ठिदिगं सेसं ताधे मिच्छत्तस्स जहण्णयं पदेससंतकम्मं^३ ।

लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रवेशसत्कर्म होता है ॥ १६-१९ ॥

चूर्णिसू० - मिथ्यात्वकर्मका जघन्य प्रवेशसत्कर्म करनेवाला कौन जीव होता है ? जो सूक्ष्म निगोदिया जीवोमे कर्मस्थिति-कालप्रमाण तक रहा हुआ है और वहाँपर अपर्याप्त-के भव सबसे अधिक ग्रहण किये, अपर्याप्तका काल दीर्घ रहा और उनके योग्य जघन्य योग-स्थानोको निरन्तर प्राप्त हुआ है । तदनन्तर तत्प्रायोग्य जघन्य वृद्धिसे वृद्धिको प्राप्त होता हुआ जब-जब आयुको बाँधता है, तब तब तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट योगस्थानोमे आयुको बाँधता है और अधस्तन स्थितियोमे निपेकको उत्कृष्ट प्रवेशवाला किया और तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट विशुद्धि-को निरन्तर प्राप्त हुआ है, ऐसे इस जीवने जिस समय अभव्यसिद्धिकोके योग्य जघन्य कर्म-को उपार्जन किया तब तब जीवोमे आया । वहाँपर संयमासंयम, संयम और सम्यग्दर्शनको बहुत बार प्राप्त हुआ । चार बार कपायोको उपगमा कर तदनन्तर असंयमको प्राप्त हो दो बार छ्यासठ सागरोपम काल तक सम्यक्त्वको परिपालन कर तत्पश्चात् दर्शनमोहनीयकर्मका क्षण करता है । उस समय जब अपनीत होने योग्य मिथ्यात्वकर्मका अन्तिम स्थितिखंड

१ तस्सेव जम्मि समये मायासंजलणा लोभसजलणाए सव्वसकमेण सकता भवति तम्मि समये लोभसजलणाए से उक्कोस पदेससत । कम्म० सत्ता० गा० ३१, चू० पृ० ५९.

२ वेयणाए पल्लिदोवमस्स असखेज्जदिभागेणूणिय कम्मट्ठिदि सुहुमेइदिएसु हिंडाविय तसका-इएसु उप्पाइदो । एत्थ पुण कम्मट्ठिदि सपुण्ण भमाटिय तसत्तं णीदो । तदो दोण्ह सुत्ताण्ण जहाऽविरोहो तहा वत्तव्वमिदि । जइवसहाइरिओवएसेण खविदकम्मसियकालो कम्मट्ठिदिमेत्तो । 'सुहुमणिगोदेसु कम्मट्ठिदिमच्छिदाउओ' त्ति सुत्तणिद्देसण्णहाणुववत्तीदो । भूदवलिआइरियोवएसेण पुण खविदकम्मसिय-कालो कम्मट्ठिदिमेत्तो पल्लिदोवमस्स असखेज्जदिभागेणूण । एवेसिं दोण्हसुवदेसाण मज्जे सच्चेणेक्केणेव होदव्वं । तत्थ सच्चत्तणेगदरणिण्णओ णत्थि त्ति दोण्हं पि सगहो कायव्वो । जयध०

३ खवियंसयम्मि पगयं जहन्नगे नियगसंतकम्मंते ॥३९॥

(चू०) × × जहन्नग मतकम्मं × × अप्पणो सतकम्मस्स थते भवति । कम्म० सत्ता० पृ० ६३.

२२. तदो पदेसुत्तरं दुपदेसुत्तरमवमणंताणि द्वाणाणि तस्मि द्विदिविसेसे ।
 २३. केण कारणेण ? २४. जं तं जहाक्खयागदं तदो उक्कस्सयं पि समयपवद्धमेत्तं ।
 २५. जो पुण तस्मिह एकस्मिह ठिदिविसेमे उक्कस्सगस्स विसेसो असंखेज्जा समयपवद्धा ।
 २६. तस्स पुण जहण्णयरस संतकम्मस्स असंखेज्जदिभागो । २७. एदेण कारणेण एयं
 फद्दयं । २८. दोसु द्विदिविसेसेसु विदियं फद्दयं । २९. एवमावलियसमयूणमेत्ताणि
 फद्दयाणि । ३०. अपच्छिमरस द्विदिखंडयस्स चरिमसमयजहण्णफद्दयमादिं कादूण जाव
 मिच्छत्तस्स उक्कस्सगं ति एदमेगं फद्दयं ।

३१. सम्पामिच्छत्तस्स जहण्णयं पदेससंतकम्मं कस्स ? ३२. तथा चेव सुहुम-
 गल जाता है और उदयावलीमें जो गलने योग्य द्रव्य था, वह भी जब गल जाता है, तब
 जिस समय एक निपेककी दो समय-प्रमाण स्थिति अवशिष्ट रहती है, उस समय उस जीवके
 मिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशसत्कर्म होता है ॥ २०-२१ ॥

चूर्णिसू०—उस जघन्यप्रदेशस्थानसे एक प्रदेश अर्थात् एक परमाणुसे अधिक दूसरा
 प्रदेशस्थान होता है, दो प्रदेशसे अधिक तीसरा प्रदेशस्थान होता है, इस प्रकार उस स्थिति-
 विशेषमें उत्तरोत्तर एक-एक प्रदेशसे अधिक द्रव्यरूप अनन्त स्थान होते हैं ॥२२॥

शंकाचू०—किस कारणसे अनन्त स्थान होते हैं ? ॥२३॥

समाधानचू०—क्योंकि, कर्म-क्षपण-लक्षण-क्रियाकी परिपाटीसे जो जो द्रव्य क्षपण-
 को प्राप्त हुआ है, उसमें भी उत्कृष्ट द्रव्य समयप्रवद्धमात्र (अधिक) होता है, अतएव अनन्त
 स्थान बन जाते हैं ॥२४॥

चूर्णिसू०—किन्तु उस एक स्थितिविशेषमें जो उत्कृष्ट-गत विशेष है, वह असंख्यात
 समयप्रवद्धप्रमाण है । अर्थात् गुणितकर्मागिक जीवके उत्कृष्ट द्रव्यमेंसे उसीके जघन्य द्रव्यके
 निकाल देनेपर जो शेष द्रव्य रहता है, वह असंख्यात समयप्रवद्धप्रमाण है । इसका अभि-
 प्राय यह हुआ कि इस एक निपेक-स्थितिमें असंख्यात समयप्रवद्धमात्र प्रदेशस्थान निरन्तर
 उत्पन्न होते हुए पाये जाते हैं । किन्तु यह उत्कृष्टगत विशेष उस जघन्य सत्कर्मरूप प्रदेश-
 स्थानके असंख्यातवं भागप्रमाण ही होता है, अर्थात् जघन्यप्रदेश सत्कर्मस्थानके असंख्यातवं
 भागमात्र यहाँपर निरन्तर वृद्धिको प्राप्त हुए प्रदेश-सत्कर्मस्थान पाये जाते हैं, इस कारणसे
 इस स्थितिविशेषमें एक ही स्पर्धक होता है । दो स्थितिविशेषोंमें प्रदेशाग्र दो स्पर्धकप्रमाण
 होते हैं । इस प्रकार एक समय कम आवलीमात्र स्पर्धक पाये जाते हैं । अन्तिम स्थिति-खंड-
 के चरम समयमें जघन्य स्पर्धकको आदि करके मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मस्थान प्राप्त
 होने तक एक स्पर्धक पाया जाता है ॥२५-३०॥

चूर्णिसू०—सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशसत्कर्म किसके होता है ? जो उसी
 प्रकारसे अर्थात् मिथ्यात्वके जघन्य द्रव्यके समान ही सूक्ष्मनिगोदिया जीवोंमें कर्मस्थिति-
 प्रमाण रहकर पुनः वहाँसे निकलकर और व्रमजीवोंमें उत्पन्न होकर संयमासंयम, संयम और

णिगोदेसु कम्मट्ठिदिमच्छिदूण तदो तसेसु संजमासंजमं संजमं सम्मत्तं च बहुसो लद्धूण चत्तारि वारे कसाए उवसामेदूण वे छावट्टिसागरोवमाणि सम्मत्तमणुपालेदूण मिच्छत्तं गदो दीहाए उव्वेलणद्वाए उव्वेलिदं तरस जाथे सव्वं उव्वेलिदं उदयावलिया गलिदा, जाथे दुसमयकालट्ठिदियं एकम्मि ट्ठिदिविसेसे सेसं, ताथे सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णं पदेससंतकम्मं । ३३. तदो पदेसुत्तरं । ३४. दुपदेसुत्तरं ३५. गिरंतराणि ट्ठाणाणि उक्कस्सपदेससंतकम्मं ति । ३६. एवं चेव सम्मत्तस्स वि । ३७. दोण्हं पि एदंसि संतकम्माणमेगं फहयं ।

३८. अट्ठण्हं कसायाणं जहण्णयं पदेससंतकम्मं करस १ ३९. अभवसिद्धिय-पाओग्गजहण्णयं काऊण तसेसु आगदो संजमासंजमं संजमं सम्मत्तं च बहुसो लद्धूण चत्तारि वारे कसाए उवसामिदूण एइदियं गदो । तत्थ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभाग-

सम्यक्त्वको अनेक वार प्राप्त कर, तथा चार वार कपायोका उपशमन करके दो वार छथासठ सागरोपम कालतक सम्यक्त्वको परिपालन कर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ । वहाँपर दीर्घ उद्वेलनकालके द्वारा सम्यग्मिथ्यात्वका उद्वेलन किया, उसका जब सर्वद्रव्य उद्वेलन कर दिया गया और उदयावली भी गल गई, तथा जब एक स्थितिविशेषमें दो समयप्रमाण कालकी स्थितिवाला द्रव्य शेष रहा, तब उस जीवके सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य प्रदेश सत्कर्म पाया जाता है । तदनन्तर प्रदेशोत्तरके क्रमसे अर्थात् जघन्य स्थानके ऊपर उत्कर्षण-अपकर्षण-के द्वारा एक प्रदेशके बढ़नेपर सम्यग्मिथ्यात्वके प्रदेशसत्कर्मका द्वितीय स्थान होता है । पुनः द्विप्रदेशोत्तरके क्रमसे अर्थात् जघन्य द्रव्यके ऊपर उत्कर्षण-अपकर्षणके वशसे दो कर्म-परमाणुओके बढ़नेपर प्रदेशसत्कर्मका तीसरा स्थान होता है । इस प्रकार एक एक प्रदेश अधिकके क्रमसे निरन्तर बढ़ते हुए स्थान उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मरूप स्थान तक पाये जाते हैं । जिस प्रकारसे सम्यग्मिथ्यात्वके जघन्यस्थानसे लेकर उत्कृष्ट स्थान तक स्वामित्वका निरूपण किया है, उसी प्रकारसे सम्यक्त्वप्रकृतिके स्वामित्वका निरूपण करना चाहिए । इन दोनों ही प्रकृतियोंके सत्कर्मोंका एक स्पर्धक होता है, क्योंकि जघन्य सत्कर्मसे लेकर प्रदेशोत्तर, द्विप्रदेशोत्तरके क्रमसे निरन्तर वृद्धिगत स्थान उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मस्थान तक पाये जाते हैं ॥ ३१-३७ ॥

चूर्णिसू०—आठ मध्यम कपायोका जघन्य प्रदेशसत्कर्म किसके होता है ? जो एकेन्द्रिय जीवोंमें अभव्यसिद्धिकोके योग्य जघन्य द्रव्यको करके त्रसजीवोंमें आया और संयमा-संयम, संयम तथा सम्यक्त्वको अनेक वार प्राप्तकर और चार वार कपायोका उपशमन कर एकेन्द्रियोमें उत्पन्न हुआ । वहाँपर पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण काल तक रह करके

१ उव्वलमाणीण उव्वलणा एगट्ठिई दुसामइगा । दिट्ठिदुगे वत्तीसे उव्वहिसए पालिए पच्छा ॥४०॥

(चू०) × × × सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताण वे छावट्टीओ सागरोवमाणं सम्मत्तं अणुपालेत्तु पच्छा मिच्छत्तं गतो चिरउव्वलणाए अप्पप्पणो उव्वल्लणाए आवलिगाए उवरिम ट्ठित्थिखडग सकममाणं सकंतं उदयावलिया खिज्जति जाव एगट्ठित्थिसेसे दुसमयकालट्ठित्थिगे जहण्णं पदेससंतं । कम्म० सत्ता० पृ० ६४.

मच्छिद्रूण कर्म हृदसमुत्पत्तियं काद्रूण कालं गदो तसेसु आगदो कमाए खवेदि अप-
च्छिमे द्विदिखंडए अवगदे अधद्विदिगलणाए उदयावल्याए गलंतीए एक्किस्से द्विदीए
सेसाए तम्मि जहण्णयं पदं । ४०. तदो पदेसुत्तरं । ४१. णिरंतराणि द्वाणाणि जाव
एगद्विदिविसेसस्स उक्कस्सपदं । ४२. एदमेगं फहयं* । ४३. एदेण कमेण अट्टुण्हं पि
कसायाणं समयूणावलययेत्ताणि फहयाणि उदयावल्यादो । ४४. अपच्छिमद्विदिखंड-
यस्स चरिमसमयजहण्णपदमादिं काद्रूण जावुक्कस्सपदेससंतकम्मं ति एदमेगं फहयं ।

४५. अणंताणुवधीणं मिच्छत्तभंगो । ४६. णवुंसयवेदस्स जहण्णयं पदेस-
संतकम्मं कस्स ? ४७. तथा चेव अभवसिद्विययायोगेण जहण्णेण संतकम्मेण तसेसु
आगदो संजमासंजमं संजमं सम्पत्तं च बहुसो लद्धूण चत्तारि वारे कसाए उवसांमिद्रूण
तदो तिगलिदोवमिस्सु उववण्णो । तत्थ अंतोमुहुत्तावसेसे जीविदव्वए त्ति सम्पत्तं

और कर्मको हतममुत्पत्तिक करके मरणको प्राप्त हो, त्रसोमे आकर मनुष्य होकर कपायोका
क्षय करता है; उसके अन्तिम स्थिति-खंडके अधःस्थितिगलनाके द्वारा गल जानेपर तथा
गलती हुई उदयावलीमें एक स्थितिके शेष रहनेपर आठो कपायोका जघन्य प्रदेश सत्कर्म
होता है । उसके आगे प्रदेशोत्तरके क्रमसे तब तक निरन्तर स्थान पाये जाते हैं, जब तक
कि एक स्थितिविशेषका उत्कृष्ट पद प्राप्त होता है । ये स्थान एक स्पर्धकप्रमाण है । क्योंकि
यहाँ अन्तर नहीं पाया जाता । इस ही क्रमसे आठो ही कपायोके उदयावलीसे लेकर एक
समय कम आवलीमात्र स्पर्धक जानना चाहिए । अन्तिम स्थितिकांडके चरमसमयके जघन्य
पदको आदि लेकरके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म प्राप्त होने तक निरन्तर स्थानोका प्रमाण एक
स्पर्धक है ॥ ३८-४४ ॥

चूर्णिष्टु०—अनन्तानुबन्धी कपायोके जघन्य स्वामित्वकी प्ररूपणा मिथ्यात्वके जघन्य
स्वामित्वके समान जानना चाहिए । नपुंसकवेदका जघन्यप्रदेशसत्कर्म किसके होता है ? जो
जीव उसी प्रकारसे एकेंद्रियोमें अभव्यसिद्धिकोके योग्य जघन्य सत्कर्मको करके उसके साथ
त्रसोमे आया और संयमासंयम, संयम तथा सम्यक्त्वको अनेक वार प्राप्तकर, और चार वार
कपायोका उपजम कर तत्पश्चात् तीन पल्यकी आयुवाले जीवोमें उत्पन्न हुआ । वहाँ पर जीवन-
के अन्तर्मुहूर्तप्रमाण अवशेष रहनेपर सम्यक्त्वको ग्रहणकर दो वार छयासठ सागरोपमप्रमाण

ऋताग्र-पत्रवाली प्रतिमे यह सूत्र नहीं है, पर होना चाहिए, क्योंकि इसकी 'टीका एदमेग फहयमेत्थ
अतरामावादो' इस रूपसे पाई जाती है । आगे भी नपुंसकवेदके जघन्यप्रदेशसत्कर्म बतलाते हुए यही सूत्र
दिया गया है । (देखो सूत्र न० ५०)

१ खणसंजोइयसंजोयणाण चिरसम्मकालंते ॥ ३९ ॥

(चू०) × × खवियकम्मसिगो सम्मद्विट्ठी अणताणुवधिणो विसजोजेत्तु पुणो मिच्छत्त गतूण
अतोमुहुत्तं अणताणुवधी वधित्तु पुणो सम्मत्त पडिवन्नो 'चिरसम्मकालंते' त्ति-वे छावट्ठीतो सम्मत्तं
अणुपालेत्तु खवणाए अब्भुट्ठयस्स एगद्विदिसेसे वट्टमाणस्स दुसमयकालट्ठतीय जहण्णग अणताणुवधीण
पदेससत्त भवति । कम्म० सत्ता० गा० ३९, चू० पृ० ६३.

वेत्तूण वे छावट्टिसागरोवमाणि सम्मत्तद्धमणुपालिऊण मिच्छत्तं संत्तूण णवुंसयवेदम-
णुस्सेसु उववण्णो सव्वचिरं संजममणुपालिदूण खवेदुमाढत्तो । तदो तेण अपच्छिमट्टि-
दिखंडयं संलुहमाणं संलुद्धं उदओ णवरिविसेसो तस्स चरिमसमयणवुंसयवेदस्स
जहण्णयं पदेससंतकम्मं । ४८. तदो पदेसुत्तरं । ४९. णिरंतराणि द्वाणाणि जाव तप्पा-
ओग्गो उक्कस्सओ उदओ त्ति । ५०. एदमंगं फहयं । ५१. अपच्छिमस्स ट्टिदि-
खंडयस्स चरिमसमयजहण्णपदमादिं कादूण जाव उक्कस्सपदेससंतकम्मं णिरंतराणि
द्वाणाणि । ५२. एवं णवुंसयवेदरस दो फहयाणि । ५३. एवमित्थिवंदस्स, णवरि
त्तिपलिदोवमिएसु णो उववण्णो ।

५४. पुरिसवेदस्स जहण्णयं पदेससंतकम्मं कस्स ? ५५. चरिमसमयपुरिसवेदो-
दयक्खवगेण घोलमाणजहण्णजोगट्टाणे वट्टमाणेण जं कम्मं वट्टं तं कम्मयावलियसमय-
अवेदो संकामेदि । जत्तो पाए संकामेदि तत्तो पाए सो समयपवट्टो आवलियाए अकम्मं
होदि । तदो एगसमयमोसक्किदूण जहण्णयं पदेससंतकम्मट्टाणं ।

५६. तस्स कारणमिमा परूवणा कायव्वा ।

सम्यक्त्वके कालको अनुपालकर और पुनः मिथ्यात्वको प्राप्त होकर नपुंसकवेदी मनुष्योमे
उत्पन्न हुआ । वहाँ सर्वाधिक चिरकालतक संयमका परिपालनकर कर्मका क्षपण आरम्भ
किया । तब उसने संक्रम्यमाण अन्तिम स्थिति-खंडको संक्रान्त किया, अर्थात् नपुंसकवेदकी
चरमफालिको सर्वसंक्रमणके द्वारा पुरुषवेदमे संक्रमित किया । उस समय उदयमे इतनी
विशेषता है कि एक समयकी कालस्थितिवाले एक निपेकके अवशिष्ट रहनेपर उस चरमसमय-
वर्ती नपुंसकवेदी जीवके नपुंसकवेदका जघन्य प्रदेशसत्कर्म होता है । तदनन्तर प्रदेशोत्तरके
क्रमसे तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट उदय प्राप्त होने तक निरन्तर स्थान पाये जाते हैं, ये स्थान एक
स्पर्धक-प्रमाण है । अन्तिम स्थितिखंडके चरमसमयवर्ती जघन्य पदको आदि करके उत्कृष्ट
प्रदेशसत्कर्म तक निरन्तर स्थान पाये जाते हैं । इस प्रकार नपुंसकवेदके दो स्पर्धक जानना
चाहिए । इसी प्रकारसे स्त्रीवेदके जघन्य प्रदेशसत्कर्मका स्वामित्व भी प्ररूपण करना चाहिए ।
विशेषता केवल यह है कि उसे तीन पर्योपमकी आयुवाले जीवोमे उत्पन्न नहीं कराना
चाहिए ॥ ४५-५३ ॥

चूर्णिसू०—पुरुषवेदका जघन्य प्रदेशसत्कर्म किसके होता है ? घोटमान अर्थात्
परिवर्तमान जघन्य योगस्थानमे वर्तमान, चरम-समयवर्ती पुरुषवेदोदयी क्षपकने जो कर्म बाँधा
है, उस कर्मको वह अपगतवेदी होकर समयाधिक आवलीकालसे संक्रमण प्रारम्भ करता
है । जिस स्थलसे वह संक्रमण प्रारम्भ करता है, उस स्थलसे वह समयप्रवद्ध एक आवली-
कालके द्वारा अकर्मरूप होता है । उससे एक समय नीचे जाकर पुरुषवेदका जघन्य प्रदेश-
सत्कर्मस्थान होता है ॥ ५४-५५ ॥

चूर्णिसू०—उमका कारण जाननेके लिए यह वक्ष्यमाण प्ररूपणा करना चाहिए ॥ ५६ ॥

५७. प्रथमसमयअवेदगस्स केत्तिया समयपवद्धा ? ५८. दो आवलियाओ दुसम-
 उणाओ । ५९. केण कारणेण । ६०. जं चरिमसमयसवेदेण वद्धं तमवेदस्स विदियाए
 आवलियाए तिचरिमसमयादो त्ति दिस्सदि, दुचरिमसमए अकम्मं होदि । ६१. जं
 दुचरिमसमयसवेदेण वद्धं तमवेदस्स विदियाए आवलियाए चदुचरिमसमयादो त्ति
 दिस्सदि । ६२. *तिचरिमसमए अकम्मं होदि । ६३. एदेण कमेण चरिमावलियाए
 प्रथमसमयसवेदेण जं वद्धं तमवेदस्स प्रथमावलियाए चरिमसमए अकम्मं होदि । ६४.
 जं सवेदस्स दुचरिमाए आवलियाए प्रथमसमए पवद्धं तं चरिमसमयसवेदस्स अकम्मं
 होदि । ६५. जं तिस्से चेव दुचरिमसवेदावलियाए विदियसमए वद्धं तं प्रथमसमय-
 अवेदस्स अकम्मं होदि । ६६. एदेण कारणेण वे समयपवद्धे ण लहदि । ६७.
 सवेदस्स दुचरिमावलियाए दुसमयूणाए चरिमावलियाए सव्वे च एदे समयपवद्धे अवेदो
 लहदि । ६८. एसा ताव एका परूवणा ।

शंकाचू०—प्रथमसमयवर्ती अवेदकके कितने समयप्रवद्ध होते हैं ? ॥ ५७ ॥

समाधानचू०—दो समय कम दो आवलियोंके जितने समय होते हैं, उतने समय-
 प्रवद्ध होते हैं ॥ ५८ ॥

शंकाचू०—किस कारणसे दो समय कम किये गये हैं ? ॥ ५९ ॥

समाधानचू०—चरमसमयवर्ती सवेदी क्षपकने जो कर्म बाँधा है, वह अवेदी
 क्षपककी दूसरी आवलीके त्रिचरमसमय-पर्यन्त दिखाई देता है और द्विचरम समयमे अकर्म-
 रूप हो जाता है । द्विचरमसमयवर्ती सवेदी क्षपकने जो कर्म बाँधा है, वह अवेदी क्षपक-
 की दूसरी आवलीके चतुःचरमसमय-पर्यन्त दिखाई देता है और त्रिचरमसमयमे अकर्म-
 रूप हो जाता है । इस क्रमसे चरम-आवलीके प्रथमसमयवर्ती क्षपकने जो कर्म बाँधा है,
 वह अवेदी क्षपककी प्रथमावलीके अन्तिम समयमे अकर्मरूप हो जाता है । जो कर्म सवेदी
 क्षपकने द्विचरमावलीके प्रथम समयमे बाँधा है, वह चरमसमयवर्ती सवेदी क्षपकके अकर्म-
 रूप हो जाता है । जो कर्म उस ही द्विचरम-सवेदावलीके द्वितीय समयमे बाँधा है, वह
 प्रथमसमयवर्ती अवेदीके अकर्मरूप हो जाता है । इस कारणसे द्विचरम-सवेदावलीके प्रथम
 और द्वितीय समयमे बाँधे हुए दो समयप्रवद्ध प्रथमसमयवर्ती अवेदी क्षपकके नहीं पाये जाते
 हैं । अतः दो समय कम दो आवलीप्रमाण समयप्रवद्ध ही प्रथमसमयवर्ती अवेदकके पाये
 जाते हैं ॥ ६०-६७ ॥

चूणिस्स०—इस प्रकार यह एक प्ररूपणा जघन्य द्रव्यका प्रमाण जाननेके लिए तथा
 अपगतवेदी क्षपकके पाये जानेवाले सत्कर्मस्थानोका कारण बतलानेके लिए की गई है ॥ ६८ ॥

✽ ताम्रपत्रवाली प्रतिमे इसे ६१वें सूत्रके अन्तमे कोष्ठकके अन्तर्गत करके दिया है । पर इसका
 स्थान टीकाके 'सकमपारभादो'के अनन्तर है, जिसे कि टीका समझ लिया गया है । 'वद्धसमयादो'से आगे-
 का अत्र इमी सूत्रकी टीका है, अतएव इसे पृथक् सूत्र ही होना चाहिए । (देखो पृ० ७४७)

६९. इमा अण्णा परूवणा । ७०. दोहि चरिमसमयसवेदोहि तुल्लजोगीहि वद्धं कम्मं तेसिं तं संतकम्मं चरिमसमयअणिल्लेविदं पि तुल्लं । ७१. दुचरिमसमयअणिल्लेविदं पि तुल्लं । ७२. एवं सव्वत्थ ।

७३. एदाहि दोहि परूवणाहि पदेससंतकम्मट्टाणाणि परूवेदव्वाणि । ७४. जहा—जो चरिमसमयसवेदेण वद्धो समयप्रवद्धो तस्मिं चरिमसमयअणिल्लेविदं वालमाण-जहण्णजोगट्टाणमादि कादूण जत्तियाणि जोगट्टाणाणि तत्तियमेत्ताणि संतकम्मट्टाणाणि । ७५. चरिमसमयसवेदेण उक्करसजोगेत्ति दुचरिमसमयसवेदेण जहण्णजोगट्टाणंत्ति एत्थ जोगट्टाणमेत्ताणि [संतकम्मट्टाणाणि] लब्धंति । ७६. चरिमसमयसवेदो उक्कस्सजोगो दुचरिमसमयसवेदो उक्कस्सजोगो तिचरिमसमयसवेदो अण्णदरजोगट्टाणे ति । एत्थ पुण जोगट्टाणमेत्ताणि पदेससंतकम्मट्टाणाणि । ७७. एवं जोगट्टाणाणि दोहि आवलियाहि दुसमयूणाहि पदुप्पणाणि *एत्तियाणि अवेदस्स संतकम्मट्टाणाणि सांतराणि सव्वाणि ।

चूणिंस्सू०—अब उपर्युक्त प्ररूपणासे भिन्न दूमरी प्ररूपणा की जाती है—तुल्य योगवाले और चरमसमयवर्ती दो सवेदी क्षपकोंके द्वारा बंधा हुआ कर्म समान होता है. तथा चरम-समयमे अनिलेपित सत्कर्म भी उनका समान होता है । द्विचरम-समयमे अनिलेपित सत्कर्म भी समान होता है । त्रिचरम-समयमे अनिलेपित सत्कर्म भी समान होता है इस प्रकार बंधनेके प्रथम समय तक सर्वत्र अनिलेपित सत्कर्म समान जानना चाहिए । इस प्रकार इन दोनों प्ररूपणाओंके द्वारा पुरुषवेदके प्रदेशसत्कर्मस्थानोंकी प्ररूपणा करना चाहिए । वह इस प्रकार है—चरमसमयवर्ती सवेदी क्षपकने जो समयप्रवद्ध बंधा है, उसे चरम समयमे अनिलेपित करनेपर अर्थात् चरमफालिमात्रके जेप रहने पर घोटमानजघन्ययोगस्थानको आदि करके जितने योगस्थान होते हैं, उतने ही पुरुषवेदके सत्कर्मस्थान होते हैं ॥ ६९-७४ ॥

चूणिंस्सू०—जो जीव उत्कृष्ट योगी चरमसमयसवेदी है और जो जघन्य योगी द्विचरमसमयसवेदी है, उसके योगस्थान-प्रमाण पुरुषवेदके प्रदेशसत्कर्मस्थान होते हैं । जो जीव चरमसमयसवेदी उत्कृष्ट योगवाला है, जो द्विचरमसमयसवेदी उत्कृष्ट योगवाला है, त्रिचरमसमयसवेदी अन्यतर योगमे विद्यमान है, उनके योगस्थान-प्रमाण प्रदेशसत्कर्मस्थान होते हैं । इस प्रकार दो समय कम दो आवली-प्रमाण जो योगस्थान उत्पन्न किये गये हैं, उतने अवेदीके पुरुषवेदके सर्व सान्तर प्रदेशसत्कर्मस्थान होते हैं ॥ ७५-७७ ॥

विशेषार्थ—यहाँपर पुरुषवेदके जघन्य प्रदेशसत्कर्मस्थानोंको वतलानेके लिए चूणिंकारने 'एदाहि दोहि परूवणाहि पदेससंतकम्मट्टाणाणि परूवेदव्वाणि' इस सूत्रके द्वारा दो प्रकारकी प्ररूपणाके बीजपदोंका संकेत किया है । उनमेसे 'एक समयप्रवद्धसे लेकर दो समय कम दो आवलीप्रमाण समयप्रवद्धोंकी प्ररूपणा' यह प्रथम बीजपद है, क्योंकि यह जघन्य

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमे इससे आगेके सूत्राद्यको टीकामें सम्मिलित कर दिया गया है । पर प्रकरणको देखते हुए यह सूत्राद्य ही होना चाहिए । (देखो पृ० ७५६)

७८. चरिमसमयसवेदस्स एगं फद्दयं । ७९. दुचरिमसमयसवेदस्स चरिम-
द्विदिखंडगं चरिमसमयविण्ढं । ८०. तस्स दुचरिमसमयसवेदस्स जहण्णगं संतकम्म-
मादिं कादूण जाव पुरिसवेदस्स ओघुकस्सपदेससंतकम्मं ति एदमेगं फद्दयं ।

योगस्थानसे लेकर सत्र योगस्थानोकी अपेक्षा सान्तर प्रदेशसत्कर्मस्थानोकी उत्पत्तिका निमित्त है । इस सूत्रके पञ्चान् 'जहा—जो चरमसमयसवेदेण ..' इत्यादि सूत्रको आदि लेकर चार सूत्रोके द्वारा प्रथम वीजपदके निमित्तसे उत्पन्न हुए दो समय कम दो आवलीप्रमाण समय-प्रवद्धोकी प्ररूपणा की है । उन चार सूत्रोंसे प्रथम सूत्रके द्वारा चरम समयके प्रदेशसत्कर्म-स्थानोका, दूसरे सूत्रसे द्विचरम समयके प्रदेशसत्कर्मस्थानोका और तीसरे सूत्रसे त्रिचरम समयके प्रदेशसत्कर्मस्थानोका कथन करके चौथे सूत्रमे यह कहा कि 'इसी प्रकार जो दो समय कम दो आवलीप्रमाण योगस्थानोके अनुसार प्रदेशसत्कर्मस्थानोंको जानना चाहिए ।' सवेदी क्षपकके अन्तिम समयमे जघन्य योगस्थानसे लेकर जितने योगस्थान संभव है, उतने ही अवेदीके चरम समयमे प्रदेशसत्कर्मस्थान होते हैं । इसका कारण यह है कि पृथक्-पृथक् योग-स्थानोके द्वारा भिन्न-भिन्न समयप्रवद्धोका बन्ध होता है, और इसलिए उन समयप्रवद्धोका सत्त्व भी नाना प्रकारका होगा, जिसके कि कारण प्रदेशसत्कर्मस्थानोकी उत्पत्ति होती है । इसी प्रकार सवेदीके उपान्त्य समयमे तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे लेकर उत्कृष्ट योगस्थान तक जितने योगस्थान संभव है, उन योगस्थानोके द्वारा बन्धको प्राप्त हुए समयप्रवद्धोका सत्त्व अवेदी क्षपकके द्विचरम समयमे रहता है, और इन भिन्न-भिन्न समयप्रवद्धोके सत्त्वसे नाना-प्रकारके प्रदेशसत्कर्मस्थान उत्पन्न होते हैं । इसी प्रकार सवेदके त्रिचरम समयमे योगस्थानोके द्वारा बाँधे गये समयप्रवद्धोका सत्त्व अवेदी क्षपकके त्रिचरम समयमे प्राप्त होगा, जिनके निमित्तसे त्रिचरम समयमे प्रदेशसत्कर्मस्थानोकी उत्पत्ति होगी । इसी प्रकार दो समय कम दो आव-लियोंके समयमे प्रदेशसत्कर्मस्थानोका कथन कर लेना चाहिए ।

'बन्धावली-प्रमाण अतीत समयप्रवद्धोका अन्य प्रकृतिमे संक्रमण होना', यह सान्तर प्रदेशसत्कर्मस्थानोका दूसरा वीजपद है । आगेके तीन सूत्रोके द्वारा इस दूसरे वीजपदके निमित्तसे प्रदेशसत्कर्मस्थानोका कथन करते हैं—

चूर्णिसू०—चरमसमयवर्ती सवेदी क्षपकके एक स्पर्धक है । द्विचरमसमयवर्ती सवेदीके चरमस्थितिकांडक चरमसमयमे विनष्ट होता है । उस द्विचरमसमयवर्ती सवेदीके पुरुषवेदके जघन्य प्रदेशसत्कर्मस्थानसे लेकर ओघ-उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मस्थान तक जो द्रव्य है वह एक स्पर्धक है ॥ ७८-८० ॥

विशेषार्थ—द्विचरमसमयवर्ती सवेदी क्षपकके जघन्य सत्कर्मस्थानसे लेकर ओघ उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मस्थान तक एक स्पर्धक कहनेका कारण यह है कि यहाँपर जघन्य प्रदेशसत्कर्मस्थान-से लेकर उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मस्थान तक निरन्तर प्रदेशसत्कर्मस्थान पाये जाते हैं । कोई एक विवक्षित जीव जघन्य योगस्थान और जघन्य प्रकृत-गोपुच्छावाला है, उसकी प्रकृत-गोपुच्छाके

८१. क्रोधसंजलणस्स जहण्णयं पदेससंतकम्मं कस्स ? ८२. चरिमसमयक्रोध-
वेदगेण खवगेण जहण्णजोगट्ठाणे जं वद्धं तं जं वेलं चरिमसमयअणिल्लेविदं तस्स
जहण्णयं संतकम्मं । ८३. जहा पुरिसवेदस्स दोआवलियाहि दुसमऊणाहि जोगट्ठाणाणि
पटुप्पणाणि एवदियाणि संतकम्मट्ठाणाणि सांतराणि । एवं आवलियाए समऊणाए
जोगट्ठाणाणि पटुप्पणाणि एत्तियाणि क्रोधसंजलणस्स सांतराणि संतकम्मट्ठाणाणि ।
८४. क्रोधसंजलणस्स उदए वोच्छिण्णे जा पहमावलिया तत्थ गुणसेढी पविट्ठुल्लिया ।
८५. तिस्से आवलियाए चरिमसमए एगं फहयं । ८६. दुचरिमसमए अण्णं फहयं ।
८७. एवमात्रलियसमयूणमेत्ताणि फहयाणि । ८८. चरिमसमयक्रोधवेदयस्स खवयस्स
चरिमसमयअणिल्लेविदं खंडयं होदि । ८९. तस्स जहण्णसंतकम्ममादिं कादूण जाव
ओघुक्कस्सं क्रोधसंजलणस्स संतकम्मं ति एदमेगं फहयं ।

द्रव्यको एक एक प्रदेश अधिकके क्रमसे तत्र तक बढ़ाते जाना चाहिए जब तक कि वह जीव
उस दूसरे जीवके समान न हो जावे जो द्वितीय योगस्थान और जघन्य प्रकृत-गोपुच्छाके
साथ स्थित है । इसी प्रकार इस दूसरे जीवकी प्रकृत-गोपुच्छाके द्रव्यको एक एक प्रदेश
अधिकके क्रमसे तत्र तक बढ़ाना चाहिए, जब तक कि वह दूसरा जीव उस तीसरे जीवके
समान न हो जावे, जो तृतीय योगस्थान और जघन्य प्रकृत-गोपुच्छाके साथ अवस्थित है ।
इस प्रकार नाना जीवोंके आश्रयसे जघन्य योगस्थानसे लेकर उत्कृष्ट योगस्थान तक निरन्तर
प्रदेशसत्कर्मस्थान उत्पन्न कराना चाहिए । इस ही प्रकार द्विचरम, त्रिचरम आदि सवेदी जीवों-
के पृथक्-पृथक् एक एक स्पर्धकका कथन करना चाहिए । यहाँपर संक्रमणफालीके अन्तर्गत
प्रकृत-गोपुच्छाके आश्रयसे एक एक समयमे निरन्तर प्रदेशसत्कर्मस्थानोंकी उत्पत्ति कही गई है,
अतः ये प्रदेशसत्कर्मस्थान दूसरे वीजपदके निमित्तसे उत्पन्न हुए हैं ।

चूर्णिसू०—संज्वलनक्रोधका जघन्य प्रदेशसत्कर्म किसके होता है ? चरमसमय-
वर्ती क्रोध-वेदक क्षपकने जघन्य योगस्थानमे स्थित होकर जो कर्म बाँधा और जिस समय
वह चरम समयमे अनिल्लेपित है, उस समय उस जीवके संज्वलनक्रोधका जघन्य प्रदेश-
सत्कर्म होता है । जिस प्रकार पुरुषवेदके दो समय कम दो आवलियोंसे योगस्थान उत्पन्न
किये गये हैं, उतने ही पुरुषवेदके सान्तर सत्कर्मस्थान होते हैं । इसी प्रकार एक समय कम
आवलीके द्वारा जिनने योगस्थान उत्पन्न होते हैं, उतने ही संज्वलनक्रोधके सान्तर सत्कर्म-
स्थान होते हैं । संज्वलनक्रोधके उदयके व्युच्छिन्न होनेपर जो प्रथमावली है उसमे गुणश्रेणी
प्रविष्ट होती है । उस आवलीके चरम समयमे एक स्पर्धक होता है, द्विचरमसमयमे अन्य
स्पर्धक होता है । इस प्रकार एक समय कम आवली-प्रमाण स्पर्धक होते हैं । चरमसमय-
वर्ती क्रोधवेदक क्षपकके चरम समयमे अनिल्लेपित चरमस्थितिकांडक होता है । उस चरम-
समयवर्ती क्रोधवेदक क्षपकके जघन्य सत्कर्मसे लेकर संज्वलनक्रोधके ओव-उत्कृष्ट सत्कर्म
तक एक स्पर्धक होता है । ॥ ८१-८९ ॥

९०. जहा क्रोधसंजलणस्स, तथा माण-मायासंजलणाणं । ९१. लोभसंजलण-
स्म जहण्णाणं पदेससंतकम्मं कस्स ? ९२. अभवसिद्धियपाओग्गेण जहण्णेण कम्मेण
तसकायं गदो तम्मि संजमासंजमं संजमं च बहुवारं लद्धाउओ कसाए ण उवसामिदा-
उओ । तदो कमेण मणुस्सेसुववण्णो । दीहं संजमद्धमणुपालेदूण कसायकखवणाए अब्भु-
द्धिदो तस्स चरिमसमयअधापवत्तकरणे जहण्णाणं लोभसंजलणस्स पदेससंतकम्मं । ९३.
एदमादिं कादूण जावुक्कस्सयं संतकम्मं णिरंतराणि ङाणाणि । ९४. छण्णोकसायाणं
जहण्णयं पदेससंतकम्मं कस्स ? ९५. अभवसिद्धियपाओग्गेण जहण्णेण कम्मेण तसेसु
आगदो । तत्थ संजमासंजमं संजमं च बहुसो लद्धो । चत्तारि वारं कसाए उवसामेदूण
तदो कमेण मणुसो जादो । तत्थ दीहं संजमद्धं कादूण खवणाए अब्भुद्धिदो । तस्स
चरिमसमयद्धिदिखंडए चरियसमयअणिल्लेविदे छण्हं कम्मसाणं जहण्णयं पदेससंतकम्मं ।
९६. तदादियं जाव उक्कस्सियादो एगमेव फहयं ।

चूर्णिसू०—जिस प्रकारसे संज्वलनक्रोधके प्रदेशसत्कर्मस्थानोकी प्ररूपणा की है,
उसी प्रकारसे संज्वलनमान और संज्वलनमायाके प्रदेशसत्कर्मस्थानोकी प्ररूपणा करना चाहिए ।
संज्वलनलोभका जघन्यप्रदेश सत्कर्म किसके होता है ? जो जीव अभव्यसिद्धोके योग्य
जघन्य सत्कर्मके साथ त्रसकायको प्राप्त हुआ । वहाँपर उसने बहुत वार संयमासंयम और
संयमको धारण किया किन्तु कपायोको उपशमित नहीं किया । पुनः एकेन्द्रियादिकोमे
परिभ्रमण कर क्रमसे मनुष्योमे उत्पन्न हुआ । वहाँ दीर्घकाल तक संयमका परिपालन कर
कपायोकी क्षपणाके लिए उद्यत हुआ । उसके अधःप्रवृत्तकरणके चरम समयमे संज्वलन लोभ-
का जघन्यप्रदेश सत्कर्म होता है । इस जघन्य प्रदेशसत्कर्मस्थानको आदि लेकर उत्कृष्ट प्रदेश-
सत्कर्मस्थान प्राप्त होने तक निरन्तर प्रदेशसत्कर्मस्थान पाये जाते हैं ॥ ९०-९३ ॥

चूर्णिसू०—हास्यादि छह कपायोका जघन्य प्रदेशसत्कर्म किसके होता है ? जो जीव
अभव्यसिद्धोके योग्य जघन्यसत्कर्मके साथ त्रसोमे उत्पन्न हुआ । वहाँपर संयमासंयम और
संयमको बहुत वार प्राप्त किया और चार वार कपायोका उपशमन कर एकेन्द्रियोमे उत्पन्न
हुआ । पुनः क्रमसे मनुष्य हुआ और वहाँपर दीर्घकाल तक संयमका परिपालन कर क्षपणा-
के लिए उद्यत हुआ । तब चरम स्थितिकांडकके चरम समयमे अनिलेपित रहनेपर हास्यादि
छह नोऋपायोका जघन्य प्रदेशसत्कर्म होता है । उस जघन्यप्रदेशसत्कर्मस्थानको आदि लेकर
उत्कृष्टप्रदेशसत्कर्मस्थान तक एक ही म्पर्थक होता है ॥ ९४-९६ ॥

१ अंतिमलोभ-जसाणं मोहं अणुवसमइत्तु खीणाणं ।

नेयं अहापवत्तकरणस्स चरमस्मि समयस्मि ॥ ४१ ॥

(चू०) × × लोभसजलण-जसकित्तीण × × चरित्तमोहणिज्ज अणुवसमित्तु सेसिगाहि खवियकम्म-
सिगकिरियाहि 'खीणाण' त्ति-योगीकयाण दलियाण चरित्तमोह उवसामितस्स बहुगा पोग्गला गुणसकमेण
लभति तम्हा सेदिवज्जण इच्छिज्जति । × × अहापवत्तकरणस्स चरिमसमये च वट्टमाणस्स लोभसजलण-
जसाण जहण्णाण पदेससंत भवति, परओ दलिय तु गुणसकमेण वट्टति त्ति काउ । कम्म० सत्ता० पृ० ६५.

९७. कालो । ९८. मिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेसविहत्तिओ केवचिरं कालादो होदि ? ९९. जहण्णुक्कस्सेण एगसमओ । १००. अणुक्कस्सपदेसविहत्तिओ केवचिरं कालादो होदि ? १०१. जहण्णुक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्ठा । १०२. अणो उवदेसो जहण्णेण असंखेज्जा लोगा त्ति । १०३. अधवा खवगं पडुच्च वासपुधत्तं । १०४. एवं सेसाणं कम्मणं णादूण णेदव्वं । १०५. णवरि सम्मत्त-सम्पामिच्छत्ता-णमणुक्कस्सद्वक्कालो जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । १०६. उक्कस्सेण वे छावट्ठिसागरोवमाणि सादिरेयाणि । १०७. जहण्णकालो जाणिदूण णेदव्वो ।

चूर्णिसू०—अव प्रदेशविभक्तिके कालको कहते हैं—मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति-वाले जीवोंका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट दोनों ही अपेक्षासे एक समयमात्र काल है । मिथ्यात्वकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्टकाल असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । अन्य आचार्योंका उपदेश है कि मिथ्यात्वकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल असंख्यात लोकके जितने समय होते हैं, तत्प्रमाण है । अथवा क्षपककी अपेक्षा मिथ्यात्वकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल वर्षपृथक्त्वप्रमाण है । इसी प्रकारसे शेष कर्मोंकी प्रदेशविभक्तिका काल जान करके कहना चाहिए । विशेषता केवल यह है कि सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट द्रव्यका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्टकाल साधिक दो वार छयासठ सागरोपम है ॥ ९७—१०६ ॥

विशेषार्थ—इस सूत्रसे सूचित शेष कर्मोंकी प्रदेशविभक्तिका काल इस प्रकार जानना चाहिए—अप्रत्याख्यानावरणादि आठ मध्यमकपाय और हास्यादि सात नोकपायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है । अनुत्कृष्टप्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्टकाल असंख्यातपुद्गल परिवर्तनप्रमाण अनन्तकाल है । अथवा क्षपककी अपेक्षा वर्षपृथक्त्व है । अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी प्रदेशविभक्तिका काल मिथ्यात्वके समान ही है । केवल इतना भेद है कि अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी अनुत्कृष्टप्रदेशविभक्तिका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है । इसका कारण यह है कि कोई जीव अनन्तानुवन्धीचतुष्कका विसंयोजन करके पुनः उसका संयोजन करके फिर भी अन्तर्मुहूर्तसे उसका विसंयोजन कर सकता है । चारो संज्वलनकपाय और पुरुषवेदकी उत्कृष्टप्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है । इन्हीं पाँचों कर्मोंकी अनुत्कृष्टप्रदेशविभक्तिका काल अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त है । इनमेसे सादि-सान्त जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है । स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट-प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है । स्त्रीवेदकी अनुत्कृष्टप्रदेशविभक्तिका जघन्यकाल वर्षपृथक्त्वसे अधिक दश हजार वर्ष है और उत्कृष्ट अनन्तकाल है । सम्यक्त्व-प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है । इन्हीं दोनों कर्मोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल चूर्णिकारने स्वयं कहा ही है ।

चूर्णिसू०—जघन्य प्रदेशविभक्तिका काल जान करके कहना चाहिए ॥ १०७ ॥

१०८. अंतरं । १०९. मिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेससंतकम्मियंतरं जहण्णुक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्ठा । ११०. एवं सेसाणं कम्माणं णेदव्वं । १११. णवरि सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं पुरिसवेद-चदुसंजलणाणं च उक्कस्सपदेसविहत्तिअंतरं णत्थि । ११२. अंतरं जहण्णयं जाणिदूण णेदव्वं ।

११३. णाणाजीवेहि भंगविचओ दुविहो जहण्णुक्कस्सभेदेहि । अट्ठपदं कादूण सव्वकम्माणं णेदव्वो ।

विशेषार्थ—इस सूत्रसे सूचित सर्व कर्मोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका काल उच्चारणा-वृत्तिके अनुसार इस प्रकार है—मिथ्यात्व, अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क, प्रत्याख्यानावरणचतुष्क और लोभको छोड़कर शेष संज्वलनत्रिक, तथा नव नोऋषायोकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है । इन्हीं उक्त कर्मोंकी अजघन्यप्रदेशविभक्तिका काल अनादि-अनन्त और अनादि-सान्त हैं । सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिकी जघन्यप्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है । इन्हीं दोनों कर्मोंकी अजघन्यप्रदेशविभक्तिका जघन्य-काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टकाल साधिक एक सौ वत्तीस सागरोपम है । अनन्तानुबन्धी-चतुष्ककी जघन्यप्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है । अनन्तानुबन्धी-चतुष्ककी अजघन्यप्रदेशविभक्तिका काल तीन प्रकार का है—अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त । इनमेसे सादि-सान्तकाल जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे देशोन अर्ध-पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । संज्वलन लोभकी जघन्यप्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है । संज्वलन लोभकी अजघन्यप्रदेशविभक्तिका काल तीन प्रकार का है—अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त । इनमेसे सादि-सान्त जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त-प्रमाण है ।

चूर्णिसू०—अव प्रदेशविभक्तिका अन्तर कहते हैं—मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मका जघन्य उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण अनन्तकाल है । इसी प्रकार शेष कर्मोंका भी जानना चाहिए । विशेषता केवल इतनी है कि सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति, पुरुषवेद और चारो संज्वलनकपायोकी उत्कृष्टप्रदेशविभक्तिका अन्तर नहीं होता है । मोहनीय-कर्मकी सभी प्रकृतियोंकी प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर जान करके कहना चाहिए अर्थात् किसी भी कर्मकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तर नहीं होता है ॥ १०८-११२ ॥

चूर्णिसू०—नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उनका अर्थपद करके सर्व कर्मोंका भंगविचय जानना चाहिए ॥ ११३ ॥

विशेषार्थ—इस सूत्रसे सूचित सर्व कर्मोंका नानाजीवोंकी अपेक्षा भंगविचय करनेके लिए यह अर्थपद है—जो जीव उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मकी विभक्तिवाले होते हैं, वे जीव अनुत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मकी विभक्तिवाले नहीं होते । तथा जो अनुत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मकी विभक्तिवाले होते हैं, वे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मकी विभक्तिवाले नहीं होते हैं । इस अर्थपदके अनुसार मोहकर्मकी

११४. सव्वकम्माणं णाणाजीवेहि कालो कायव्वो ।

११५. अंतरं । णाणाजीवेहि सव्वकम्माणं जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्ठा ।

सभी प्रकृतियोंके कदाचित् सर्व जीव उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले होते हैं १, कदाचित् अनेक जीव विभक्तिवाले और कोई एक जीव अविभक्तिवाला होता है २, कदाचित् अनेक जीव विभक्तिवाले और अनेक जीव अविभक्तिवाले होते हैं ३ । इस प्रकार तीन भंग होते हैं । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके भी इसी प्रकार तीन भंग जानना चाहिए । इसी प्रकार सर्व कर्मोंके जघन्य अजघन्यप्रदेशविभक्तिवाले जीवोंके भी तीन-तीन भंग होते हैं । आदेशकी अपेक्षा कितने ही जीवोंके आठ भंग तक होते हैं, सो जयधवला टीकासे जानना चाहिए ।

चूर्णिसू०—नाना जीवोंकी अपेक्षा प्रदेशविभक्तिके कालकी प्ररूपणा करना चाहिए ॥ ११४ ॥

विशेषार्थ—चूर्णिकारके द्वारा सूचित और उच्चारणाचार्यके द्वारा प्ररूपित नाना-जीवोंकी अपेक्षा सर्व कर्मोंकी प्रदेशसत्कर्मविभक्तिका काल इस प्रकार है—मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी आदि वारह कपाय और पुरुषवेदको छोड़कर शेष आठ नोकपायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मविभक्तिका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल आवलीका असंख्यातवाँ भाग है । इन्हीं कर्मोंकी अनुत्कृष्टप्रदेशसत्कर्मविभक्तिका सर्वकाल है । सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति, चारो संख्यलन और पुरुषवेदके उत्कृष्टप्रदेशसत्कर्मविभक्तिका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल संख्यात समय है । इन्हीं कर्मोंकी अनुत्कृष्टप्रदेशसत्कर्मविभक्तिका सर्वकाल है । नानाजीवोंकी अपेक्षा मोहकर्मकी सभी प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशसत्कर्मविभक्तिका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल संख्यात समय है । सर्व कर्मोंकी अजघन्य प्रदेशसत्कर्मविभक्तिका सर्वकाल है । आदेशकी अपेक्षा उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट और जघन्य-अजघन्य प्रदेशसत्कर्मविभक्तिका काल जयधवला टीकासे जानना चाहिए ।

चूर्णिसू०—अब नाना जीवोंकी अपेक्षा प्रदेशविभक्तिका अन्तर कहते हैं—नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व कर्मोंकी प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर काल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनप्रमित अनन्तकाल है ॥ ११५ ॥

विशेषार्थ—मूलप्रकृतिप्रदेशविभक्तिका जिन वाईस अनुयोगद्वारोंसे इस अधिकारके प्रारंभमे वर्णन किया गया है, उनमे सन्निकर्षको मिलाकर तेईस अनुयोगद्वारोंसे उत्तरप्रकृति-प्रदेशविभक्तिका वर्णन करना क्रम-प्राप्त था । किन्तु ग्रन्थ-विस्तारके भयसे चूर्णिकारने उनमेंसे केवल स्वामित्व, एक जीवकी अपेक्षा काल और अन्तर कहकर नानाजीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, और कालके जाननेकी सूचना करते हुए नानाजीवोंकी अपेक्षा प्रदेशविभक्तिका अन्तर कहा है, तथा आगे अल्पबहुत्व कहेंगे । मध्यवर्ती शेष सोलह अनुयोगद्वारोंका देशामर्शरूपसे कथन किया गया है, अतएव विशेष जिज्ञासुजनको शेष अनुयोगद्वारोंसे प्रदेशविभक्तिके विशेष-परिज्ञानार्थ जयधवला टीका देखना चाहिए ।

११६. अप्पावहुअं । ११७. सव्वत्थोवमपच्चक्खाणमाणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं ।
११८. कोधे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । ११९. मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं
विसेसाहियं । १२०. लोभे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

१२१. पच्चक्खाणमाणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । १२२. कोधे
उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । १२३. मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।
१२४. लोभस्स उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

१२५. अणंताणुनंधिमाणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । १२६. कोधे
उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । १२७. मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।
१२८. लोभे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

१२९. सम्माच्छित्ते उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । १३०. सम्यत्ते उक्कस्स-
पदेससंतकम्मं विसेसाहियं । १३१. मिच्छित्ते उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।
१३२. हस्से उक्कस्सपदेससंतकम्ममणंतगुणं ।

चूर्णिसू०—अव प्रदेशसत्कर्मसम्बन्धी अल्पबहुत्व कहते हैं :—अप्रत्याख्यानावरण-
मानकपायमे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म सबसे कम है । इससे अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकपायमे
उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । इससे अप्रत्याख्यानावरण मायाकपायमे उत्कृष्ट प्रदेश-
सत्कर्म विशेष अधिक है । इससे अप्रत्याख्यानावरण लोभकपायमे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष
अधिक है ॥ ११६-१२० ॥

चूर्णिसू०—अप्रत्याख्यानावरण लोभकपायके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे प्रत्याख्या-
नावरण मानकपायमे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । इससे प्रत्याख्यानावरण क्रोध-
कपायमे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । इससे प्रत्याख्यानावरण मायाकपायमे उत्कृष्ट
प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । इससे प्रत्याख्यानावरण लोभकपायमे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष
अधिक है ॥ १२१-१२४ ॥

चूर्णिसू०—प्रत्याख्यानावरण लोभकपायके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे अनन्तानुबन्धी
मानकपायमे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । इससे अनन्तानुबन्धी क्रोधकपायमे
उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । इससे अनन्तानुबन्धी मायाकपायमे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म
विशेष अधिक है । इससे अनन्तानुबन्धी लोभकपायमे उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म विशेष अधिक
है ॥ १२५-१२८ ॥

चूर्णिसू०—अनन्तानुबन्धी लोभके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे सम्यग्मिथ्यात्वमे उत्कृष्ट
प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे सम्यक्त्वप्रकृतिमे
उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । सम्यक्त्वप्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे मिथ्यात्वप्रकृतिमे
उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । मिथ्यात्वप्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्ममे हास्यप्रकृतिमे
उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म अनन्तगुणा है । ॥ १२९-१३२ ॥

१३३. रदीए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । १३४. इत्थिवंदे उक्कस्स-
पदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं । १३५. सोगे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । १३६.
अरदीए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । १३७. णवुंसयवेदे उक्कस्सपदेससंतकम्मं
विसेसाहियं । १३८. दुगुंछाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । १३९. भए उक्कस्स-
पदेससंतकम्मं विसेसाहियं । १४०. पुरिसवेदे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।
१४१. कोधसंजलणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं । १४२. माणसंजलणे उक्कस्स-
पदेससंतकम्मं विसेसाहियं । १४३. मायासंजलणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।
१४४. लोभसंजलणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

१४५. गिरयगदीए सव्वत्थोवं सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेससंतकम्मं । १४६.
अपच्चक्खाणमाणे उक्कस्सपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । १४७. कोधे उक्कस्सपदेससंतकम्मं
विसेसाहियं । १४८. मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । १४९. लोभे उक्कस्स-
पदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

चूर्णिसू०—हास्यप्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे रतिप्रकृतिमे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म
विशेष अधिक है । रतिप्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे स्त्रीवेदमे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म संख्यातगुणा
है । स्त्रीवेदके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे शोकप्रकृतिमे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । शोक-
प्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे अरतिप्रकृतिमे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । अरति-
प्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे नपुंसकवेदमे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । नपुंसक-
वेदके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे जुगुप्साप्रकृतिमे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । जुगुप्सा-
प्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे भयप्रकृतिमे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । भयप्रकृतिके
उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे पुरुषवेदमे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । पुरुषवेदके उत्कृष्ट
प्रदेशसत्कर्मसे संज्वलनक्रोधकपायमे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म संख्यातगुणा है । संज्वलनक्रोध-
कपायके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे संज्वलनमानकपायमे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।
संज्वलनमानकपायके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे संज्वलनमायाकपायमे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष
अधिक है । संज्वलनमायाकपायके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे संज्वलन लोभकपायमे उत्कृष्ट प्रदेश-
सत्कर्म विशेष अधिक है ॥ १३३-१४४ ॥

चूर्णिसू०—नरकगतिमे सम्यग्मिध्यात्वका उत्कृष्टप्रदेशसत्कर्म वक्ष्यमाण पद्दोकी अपेक्षा
सबसे कम है । सम्यग्मिध्यात्वसे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे अप्रत्याख्यानावरणमानकपायमे उत्कृष्ट
प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है । अप्रत्याख्यानावरणमानकपायके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे अप्र-
त्याख्यानावरणक्रोधकपायमे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । अप्रत्याख्यानावरणक्रोध-
कपायके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे अप्रत्याख्यानावरण मायाकपायमे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष
अधिक है । अप्रत्याख्यानावरण मायाकपायके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे अप्रत्याख्यानावरण लोभ-
कपायमे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ॥ १४५-१४९ ॥

उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । १६७. भए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । १६८. पुरिसवेदे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

१६९. माणसंजलणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । १७०. कोधसंजलणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । १७१. मायासंजलणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । १७२. लोभसंजलणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । १७३. एवं सेसाणं गदीणं पादूण णेदव्वं ।

१७४. एइंदिएसु सव्वत्थोवं सम्मत्ते उक्कस्सपदेससंतकम्मं । १७५. सम्मामिच्छत्ते उक्कस्सपदेससंतकम्मपयसंखेज्जगुणं । १७६. अपच्चक्खाणमाणे उक्कस्सपदेससंतकम्मपसंखेज्जगुणं । १७७. कोहे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । १७८. मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । १७९. लोभे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

१८०. पच्चक्खाणमाणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । १८१. कोहे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । १८२. मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

अधिक है । जुगुप्साप्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे भयप्रकृतिमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । भयप्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे पुरुषवेदमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे विशेष अधिक है ॥ १५८-१६८ ॥

चूर्णिसू० - पुरुषवेदके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे संव्वलनमानमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । संव्वलनमानके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे संव्वलनक्रोधमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । संव्वलनक्रोधके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे संव्वलनमायामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । संव्वलनमायाके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे संव्वलनलोभमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । इसी प्रकारसे शेषगतियोंका अल्पबहुत्व जान करके लगाना चाहिए ॥ १६९-१७३ ॥

चूर्णिसू० - एकेन्द्रियोंमें सम्यक्त्वप्रकृतिमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म वक्ष्यमाण पदोंकी अपेक्षा सबसे कम है । सम्यक्त्वप्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म असंख्यात्तगुणा है । सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे अप्रत्याख्यानावरणमानकपायमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म असंख्यात्तगुणा है । अप्रत्याख्यानावरणमानकपायके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे अप्रत्याख्यानावरण-क्रोधकपायमें उत्कृष्टप्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । अप्रत्याख्यानावरण-क्रोधकपायके उत्कृष्टप्रदेशसत्कर्मसे अप्रत्याख्यानावरण-मायाकपायमें उत्कृष्टप्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । अप्रत्याख्यानावरण-मायाकपायके उत्कृष्टप्रदेशसत्कर्मसे अप्रत्याख्यानावरण लोभकपायमें उत्कृष्टप्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ॥ १७४-१७९ ॥

चूर्णिसू० - अप्रत्याख्यानावरण-लोभकपायके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे प्रत्याख्यानावरणमानकपायमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । प्रत्याख्यानावरणमानकपायके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्ममें प्रत्याख्यानावरण-क्रोधकपायमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । प्रत्याख्यानावरणक्रोधकपायके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे प्रत्याख्यानावरण-मायाकपायमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष

१८३. लोभे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

१८४. अणंताणुवंधिमाणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । १८५. कोहे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । १८६. मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । १८७. लोभे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

१८८. मिच्छत्ते उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । १८९. हस्से उक्कस्सपदेससंतकम्ममणंतगुणं । १९०. रदीए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । १९१. इत्थिवेदे उक्कस्सपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं । १९२. सोगे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । १९३. अरदीए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । १९४. णवुंसयवेदे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । १९५. दुगुंछाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । १९६. भए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । १९७. पुरिसवेदे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

१९८. माणंसंजलणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । १९९. कोहे उक्कस्स-
अधिक है । प्रत्याख्यानावरण-मायाकपायके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे प्रत्याख्यानावरण-लोभकपायमे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ॥१८०-१८३॥

चूर्णिसू०—प्रत्याख्यानावरण-लोभकपायके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे अनन्तानुवन्धीमान-
कपायमे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । अनन्तानुवन्धी मानकपायके उत्कृष्ट प्रदेश-
सत्कर्ममे अनन्तानुवन्धी क्रोधकपायमे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । अनन्तानुवन्धी
क्रोधकपायके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्ममे अनन्तानुवन्धी मायाकपायमे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष
अधिक है । अनन्तानुवन्धी मायाकपायके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्ममे अनन्तानुवन्धी लोभकपायमे
उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ॥१८४ १८७॥

चूर्णिसू०—अनन्तानुवन्धी-लोभकपायके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे मिथ्यात्वप्रकृतिमे उत्कृष्ट
प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । मिथ्यात्वप्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे हास्यप्रकृतिमें उत्कृष्ट
प्रदेशसत्कर्म अनन्तगुणा है । हास्यप्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे रतिप्रकृतिमे उत्कृष्ट प्रदेश-
सत्कर्म विशेष अधिक है । रतिप्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे स्त्रीवेदमे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म-
संख्यात्तगुणा है । स्त्रीवेदके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे शोकप्रकृतिमे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष
अधिक है । शोकप्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे अरतिप्रकृतिमे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष
अधिक है । अरतिप्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे नपुंसकवेदमे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष
अधिक है । नपुंसकवेदके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे जुगुप्साप्रकृतिमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष
अधिक है । जुगुप्साप्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे भयप्रकृतिमे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष
अधिक है । भयप्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे पुरुषवेदमे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक
है ॥१८८-१९७॥

चूर्णिसू०—पुरुषवेदके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे संज्वलनमानमे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म

पदेससंतकम्मं विसेसाहियं । २००. मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।
२०१. लोहे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

२०२. जहण्णदंडओ ओघेण सकारणो भणिहिदि । २०३. सव्वत्थोवं सम्मत्ते
जहण्णपदेससंतकम्मं । २०४. सम्पामिच्छत्ते जहण्णपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । २०५.
केण कारणेण ? २०६. सम्मत्ते उव्वेल्लिदे सम्पामिच्छत्तं जेण कालेण उव्वेल्लेदि एदम्मि
काले एक्कं पि पदेसगुणहाणिट्ठाणंतरं गत्थि, एदेण कारणेण ।

२०७. अणंताणुवंधिमाणे जहण्णपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । २०८. कोहे
जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । २०९. मायाए जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।
२१०. लोभे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । २११. मिच्छत्ते जहण्णपदेस-
संतकम्ममसंखेज्जगुणं ।

२१२. अपच्चक्खाणमाणे जहण्णपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । २१३. कोहे
विशेष अधिक है । संज्वलनमानके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे संज्वलनक्रोधमे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म
विशेष अधिक है । संज्वलनक्रोधके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे संज्वलनमायामे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म
विशेष अधिक है । संज्वलनमायाके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे संज्वलनलोभमे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म
विशेष अधिक है ॥१९८-२०१॥

चूर्णिसू०—अव ओघकी अपेक्षा जघन्य अल्पबहुत्वदंडकको सकारण कहेगे—सम्यक्त्व-
प्रकृतिमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म वक्ष्यमाण पदोकी अपेक्षा सबसे कम है । सम्यक्त्वप्रकृतिके
जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे सम्यग्मिथ्यात्वमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ॥२०२-२०४॥

शंकाचू०—इसका क्या कारण है ? ॥२०५॥

समाधानचू०—इसका कारण यह है कि सम्यक्त्वप्रकृतिके उद्वेलना कर देनेपर तदनन्तर
जिस कालसे सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना करेगा, उस कालमे एक भी प्रदेशगुणहानिस्थानान्तर
नहीं पाया जाता ॥२०६॥

चूर्णिसू०—सम्यग्मिथ्यात्वके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे अनन्तानुबन्धी-मानकपायमे जघन्य
प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है । अनन्तानुबन्धी-मानकपायके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे अनन्तानु-
बन्धीक्रोधकपायमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । अनन्तानुबन्धी-क्रोधकपायके जघन्य
प्रदेशसत्कर्ममे अनन्तानुबन्धी-मायाकपायमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । अनन्ता-
नुबन्धीमायाकपायसे अनन्तानुबन्धी-लोभकपायमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।
अनन्तानुबन्धी-लोभकपायके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे मिथ्यात्वप्रकृतिमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म असं-
ख्यातगुणा है ॥२०७-२११॥

चूर्णिसू०—मिथ्यात्वप्रकृतिके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे अप्रत्याख्यानावरण-मानकपायमे
जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है । अप्रत्याख्यानावरण-मानकपायके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे
अप्रत्याख्यानावरण-क्रोधकपायमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । अप्रत्याख्यानावरण-

जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । २१४. मायाए जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।
२१५. लोभे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

२१६. पच्चक्खाणमाणे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । २१७. कोहे
जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । २१८. मायाए जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।
२१९. लोभे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

२२०. कोहसंजलणे जहण्णपदेससंतकम्ममणंतगुणं । २२१. माणसंजलणे
जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । २२२. पुरिसवेदे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।
२२३. मायासंजलणे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । २२४. णवुंसयवेदे जहण्णपदेस-
संतकम्ममसंखेज्जगुणं ।

२२५. इत्थिवेदस्स जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । २२६. हस्से जहण्ण-
पदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । २२७. रदीए जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । २२८.
सोगे जहण्णपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं । २२९. अरदीए जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

क्रोधकपायके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे अप्रत्याख्यानावरण-मायाकपायमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष
अधिक है । अप्रत्याख्यानावरण-मायाकपायके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे अप्रत्याख्यानावरणलोभ-
कपायमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ॥२१२-२१५॥

चूर्णिसू०—अप्रत्याख्यानावरणलोभके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे प्रत्याख्यानावरणमान-
कपायमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । प्रत्याख्यानावरण-मानकपायके जघन्य प्रदेश-
सत्कर्मसे प्रत्याख्यानावरण-क्रोधकपायमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । प्रत्याख्याना-
वरणक्रोधकपायके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे प्रत्याख्यानावरण-मायाकपायमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म
विशेष अधिक है । प्रत्याख्यानावरणमायाकपायके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे प्रत्याख्यानावरणलोभ-
कपायमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ॥२१६-२१९॥

चूर्णिसू०—प्रत्याख्यानावरण-लोभकपायके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे संज्वलनक्रोधमे जघन्य
प्रदेशसत्कर्म अनन्तगुणा है । संज्वलनक्रोधके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे संज्वलनमानमे जघन्य
प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । संज्वलनमानके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे पुरुषवेदमे जघन्य
प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । पुरुषवेदके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे संज्वलनमायामे जघन्य
प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । संज्वलनमायाके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे नपुंसकवेदमे जघन्य
प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ॥२२०-२२४॥

चूर्णिसू०—नपुंसकवेदके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे स्त्रीवेदमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष
अधिक है । स्त्रीवेदके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे हास्यप्रकृतिमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा
है । हास्यप्रकृतिके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे रतिप्रकृतिमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।
रतिप्रकृतिके जघन्यप्रदेशसत्कर्मसे शोकप्रकृतिमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म संख्यातगुणा है । शोक-
प्रकृतिके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे अरतिप्रकृतिमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । अरति-

२३०. दुगुंछाए जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । २३१. भए जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । २३२. लोभसंजलणे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

२३३. गिरयगईए सव्वथोवं सम्मत्ते जहण्णपदेससंतकम्मं । २३४. सम्मा-
मिच्छत्ते जहण्णपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । २३५. अणंताणुवंधिमाणं जहण्णपदेससंत-
कम्ममसंखेज्जगुणं । २३६. कोहे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । २३७. मायाए
जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । २३८. लोभे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

२३९. मिच्छत्ते जहण्णपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । २४०. अपच्चखाणमाणं
जहण्णपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । २४१. कोहे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।
२४२. मायाए जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । २४३. लोभे जहण्णपदेससंतकम्मं
विसेसाहियं ।

२४४. पच्चखाणमाणं जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । २४५. कोहे जहण्ण-
प्रकृतिके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे जुगुसाप्रकृतिमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।
जुगुसाप्रकृतिके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे भयप्रकृतिमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।
भयप्रकृतिके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे संज्वलनलोभमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक
है ॥ २२५-२३२ ॥

चूर्णिसू०—नरकगतिमे सम्यक्त्वप्रकृतिमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म वक्ष्यमाण पदोर्का अपेक्षा
सबसे कम है । सम्यक्त्वप्रकृतिके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिमे जघन्य प्रदेश-
सत्कर्म असंख्यातगुणा है । सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे अनन्तानुवन्धी
मानकपायमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है । अनन्तानुवन्धी मानकपायके जघन्य प्रदेश-
सत्कर्मसे अनन्तानुवन्धी क्रोधकपायमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । अनन्तानुवन्धी
क्रोधकपायके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे अनन्तानुवन्धी मायाकपायमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष
अधिक है । अनन्तानुवन्धी मायाकपायके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे अनन्तानुवन्धी लोभकपायमे
जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ॥ २३३-२३८ ॥

चूर्णिसू०—अनन्तानुवन्धी लोभकपायके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे मिथ्यात्वप्रकृतिमे जघन्य
प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है । मिथ्यात्वप्रकृतिके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे अप्रत्याख्यानावरण-
मानकपायमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है । अप्रत्याख्यानावरण-मानकपायके जघन्य
प्रदेशसत्कर्मसे अप्रत्याख्यानावरण-क्रोधकपायमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । अप्रत्या-
ख्यानावरण-क्रोधकपायके जघन्यप्रदेशसत्कर्मसे अप्रत्याख्यानावरणमायाकपायमे जघन्य प्रदेश-
सत्कर्म विशेष अधिक है । अप्रत्याख्यानावरण मायाकपायके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे अप्रत्या-
ख्यानावरण लोभकपायमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ॥ २३९-२४३ ॥

चूर्णिसू०—अप्रत्याख्यानावरण लोभकपायके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे प्रत्याख्यानावरण-
मानकपायमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । प्रत्याख्यानावरणमानकपायके जघन्य

पदेससंतकर्मं विसेसाहियं । २४६. मायाए जहणपदेससंतकर्मं विसेसाहियं । २४७. लोभे जहणपदेससंतकर्मं विसेसाहियं ।

२४८. इत्थिवेदे जहणपदेससंतकर्ममणंतगुणं । २४९. णवुंसयवेदे जहणपदेससंतकर्मं संखेज्जगुणं । २५०. पुरिसवेदे जहणपदेससंतकर्ममसंखेज्जगुणं । २५१. हस्से जहणपदेससंतकर्मं संखेज्जगुणं । २५२. रदीए जहणपदेससंतकर्मं विसेसाहियं । २५३. सोगे जहणपदेससंतकर्मं संखेज्जगुणं । २५४. अरदीए जहणपदेससंतकर्मं विसेसाहियं । २५५. दुगुंछाए जहणपदेससंतकर्मं विसेसाहियं । २५६. भए जहणपदेससंतकर्मं विसेसाहियं ।

२५७. माणसंजलणे जहणपदेससंतकर्मं विसेसाहियं । २५८. कोहसंजलणे जहणपदेससंतकर्मं विसेसाहियं । २५९. मायासंजलणे जहणपदेससंतकर्मं विसेसाहियं । २६०. लोहसंजलणे जहणपदेससंतकर्मं विसेसाहियं ।

२६१. जहा गिरयगईए तथा सव्वासु गईसु । २६२. णवरि मणुसगदीए ओघं ।

प्रदेशसत्कर्मसे प्रत्याख्यानावरण क्रोधकपायमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । प्रत्याख्यानावरणक्रोधकपायके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे प्रत्याख्यानावरण मायाकपायमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । प्रत्याख्यानावरण मायाकपायके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे प्रत्याख्यानावरण लोभकपायमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ॥२४४-२४७॥

चूर्णिसू०—प्रत्याख्यानावरण लोभकपायके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे स्त्रीवेदमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म अनन्तगुणा है । स्त्रीवेदके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे नपुंसकवेदमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म संख्यातगुणा है । नपुंसकवेदके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे पुरुषवेदमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है । पुरुषवेदके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे हास्यप्रकृतिमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म संख्यातगुणा है । हास्यप्रकृतिके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे रतिप्रकृतिमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । रतिप्रकृतिके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे शोकप्रकृतिमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म संख्यातगुणा है । शोकप्रकृतिके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे अरतिप्रकृतिमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । अरतिप्रकृतिके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे जुगुप्साप्रकृतिमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । जुगुप्साप्रकृतिके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे भयप्रकृतिमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ॥२४८-२५६॥

चूर्णिसू०—भयप्रकृतिके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे संज्वलनमानमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । संज्वलनमानके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे संज्वलनक्रोधमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । संज्वलनक्रोधके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे संज्वलनमायामे जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । संज्वलनमायाके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे संज्वलनलोभमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । ॥२५७-२६०॥

चूर्णिसू०—जिस प्रकारसे नरकगतिमे जघन्य प्रदेशसत्कर्मसम्बन्धी अल्पबहुत्व कहा

२६३. एङ्दिएसु सञ्चत्थोवं सम्मत्ते जहण्णपदेससंतकम्मं । २६४. सम्मा-
मिच्छते जहण्णपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । २६५. अणंताणुवंधिमाणे जहण्णपदेससंत-
कम्ममसंखेज्जगुणं । २६६. कोहे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । २६७. मायाए
जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । २६८. लोभे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

२६९. मिच्छते जहण्णपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । २७०. अपच्चवखाणमाणे
जहण्णपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । २७१. क्रोधे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।
२७२. मायाए जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । २७३. लोभे जहण्णपदेससंतकम्मं
विसेसाहियं । २७४. पच्चवखाणमाणे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । २७५. कोहे
जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । २७६. मायाए जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।
२७७. लोहे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

हे, उसी प्रकारसे सर्व गतियोमे जानना चाहिए । केवल मनुष्यगतिसे ओषके समान अल्प-
बहुत्व है ॥२६१-२६२॥

चूर्णिसू०—एकेन्द्रियोमे सम्यक्त्वप्रकृतिमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म वक्ष्यमाण सर्व पदोकी
अपेक्षा सबसे कम है । सम्यक्त्वप्रकृतिके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिमे जघन्य
प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है । सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे अनन्तानुबन्धी-
मानकपायमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है । अनन्तानुबन्धीमानकपायके जघन्य
प्रदेशसत्कर्मसे अनन्तानुबन्धीक्रोधकपायमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । अनन्तानु-
बन्धीक्रोधकपायके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे अनन्तानुबन्धीमायाकपायमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष
अधिक है । अनन्तानुबन्धीमायाकपायके जघन्य प्रदेशसत्कर्ममे अनन्तानुबन्धीलोभकपायमे
जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ॥२६३-२६८॥

चूर्णिसू०—अनन्तानुबन्धीलोभकपायके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे मिथ्यात्वप्रकृतिमे जघन्य
प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है । मिथ्यात्वप्रकृतिके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे अप्रत्याख्यानावरण-
मानकपायमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है । अप्रत्याख्यानावरणमानकपायके जघन्य
प्रदेशसत्कर्मसे अप्रत्याख्यानावरणक्रोधकपायमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । अप्रत्या-
ख्यानावरणक्रोधकपायके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे अप्रत्याख्यानावरणमायाकपायमे जघन्य प्रदेश-
सत्कर्म विशेष अधिक है । अप्रत्याख्यानावरणमायाकपायके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे अप्रत्याख्या-
नावरणलोभकपायमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ॥२६९-२७३॥

चूर्णिसू०—अप्रत्याख्यानावरणलोभकपायके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे प्रत्याख्यानावरण-
मानकपायमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । प्रत्याख्यानावरणमानकपायके जघन्य
प्रदेशसत्कर्मसे प्रत्याख्यानावरणक्रोधकपायमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । प्रत्या-
ख्यानावरणक्रोधकपायके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे प्रत्याख्यानावरणमायाकपायमे जघन्य प्रदेश-
सत्कर्म विशेष अधिक है । प्रत्याख्यानावरणमायाकपायके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे प्रत्याख्याना-

२७८. पुरिसवेदे जहण्णपदेससंतकम्ममणंतगुणं । २७९. इत्थिवेदे जहण्णपदेस-
संतकम्मं संखेज्जगुणं । २८०. हस्से जहण्णपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं । २८१. रदीए
जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । २८२. सोगे जहण्णपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं ।
२८३. अरदीए जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । २८४. णवुंसयवेदे जहण्णपदेससंतकम्मं
विसेसाहियं । २८५. दुगुंछाए जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । २८६. भए जहण्ण-
पदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

२८७. माणसंजलणे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । २८८. क्रोहसंजलणे
जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । २८९. मायासंजलणे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।
२९०. लोभसंजलणे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

२९१. एत्तो भुजगारं पदणिकखेव-वड्डीओ च कायच्चाओ ।

वरणलोभकपायमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ॥ २७४-२७७ ॥

चूर्णिसू०—प्रत्याख्यानावरणलोभकपायके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे पुरुषवेदमे जघन्य
प्रदेशसत्कर्म अनन्तगुणा है । पुरुषवेदके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे स्त्रीवेदमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म
संख्यातगुणा है । स्त्रीवेदके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे हास्यप्रकृतिमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म संख्यात-
गुणा है । हास्यप्रकृतिके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे रतिप्रकृतिमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक
है । रतिप्रकृतिके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे शोकप्रकृतिमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म संख्यातगुणा है ।
शोकप्रकृतिके जघन्यप्रदेशसत्कर्मसे अरतिप्रकृतिमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।
अरतिप्रकृतिके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे नपुंसकवेदमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।
नपुंसकवेदके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे जुगुसाप्रकृतिमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।
जुगुसाप्रकृतिके जघन्यप्रदेशसत्कर्मसे भयप्रकृतिमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक
है ॥ २७८-२८६ ॥

चूर्णिसू०—भयप्रकृतिके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे संज्वलनमानमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म
विशेष अधिक है । संज्वलनमानके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे संज्वलनक्रोधमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म
विशेष अधिक है । संज्वलनक्रोधके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे संज्वलनमायामे जघन्य प्रदेशसत्कर्म
विशेष अधिक है । संज्वलनमायाके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे संज्वलनलोभमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म
विशेष अधिक है ॥ २८७-२९० ॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे भुजाकार, पदनिक्षेप और वृद्धिकी प्ररूपणा करना
चाहिए ॥ २९१ ॥

विशेषार्थ—भुजाकार-अनुयोगद्वारमे भुजाकार, अल्पतर और अवस्थितरूप प्रदेश-
सत्कर्मका विचार किया गया है । जो जीव विवक्षित कर्मके अल्प प्रदेशसत्कर्ममे अधिक
प्रदेशसत्कर्मको प्राप्त हो, वह भुजाकार-प्रदेशविभक्तिवाला है । जो जीव अधिक प्रदेशसत्कर्मसे
अल्प-प्रदेशसत्कर्मको प्राप्त हो, वह अल्पतर-प्रदेशविभक्तिवाला है । जिस जीवके विवक्षित

२९२. जहा उक्त्सस्यं पदेशसंतकम्मं तथा संतकम्मट्टाणाणि । एवं पदेशविहत्ती समत्ता

कर्मका प्रदेशसत्कर्म प्रथम समयके समान द्वितीय समयमे भी बना रहे, वह अवस्थित-प्रदेश-विभक्तिवाला है। जिस जीवके विवक्षितकर्मका पहले प्रदेशसत्कर्म न होकर वर्तमान समयमे नवीन प्रदेशसत्कर्म हो, वह अवक्तव्य-प्रदेशविभक्तिवाला है। भुजाकार-प्रदेशविभक्तिमें इन सबका विस्तृत विवेचन समुत्कीर्तना, स्वामित्व आदि तेरह अनुयोगद्वारोंसे किया गया है। पदनिक्षेप-अधिकारमे भुजाकार-प्रदेशसत्कर्मोंका ही उत्कृष्ट और जघन्य पदोंके द्वारा वृद्धि-हानि और अवस्थानका विशेष वर्णन किया गया है। इस अधिकारमे यह बतलाया गया है कि कोई जीव यदि विवक्षित कर्मका प्रथम समयमे अमुक प्रदेशसत्कर्मवाला हो, तो अधिकसे अधिक उसके प्रदेशसत्कर्ममे कितनी वृद्धि हो सकती है और कमसे कम कितनी वृद्धि हो सकती है। इसी प्रकार यदि कोई जीव वर्तमान समयके प्रदेशसत्कर्मसे अनन्तरवर्ती द्वितीय समयमे अल्पप्रदेश सत्कर्मवाला हो, तो उसके सत्कर्ममे अधिकसे अधिक कितनी हानि हो सकती है और कमसे कम कितनी हानि हो सकती है। यदि समान प्रदेशसत्कर्म बना रहे, तो कितने समय तक बना रहेगा, इस सबका विचार इस अधिकारमे समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पवहुत्व इन तीन अनुयोगद्वारोंसे किया गया है। वृद्धि अधिकारमे पदनिक्षेपका ही पङ्गुणी वृद्धि और हानिके द्वारा प्रदेशसत्कर्म-सम्बन्धी विशेष विचार समुत्कीर्तनादि तेरह अनुयोगद्वारोंसे किया गया है, सो विशेष जिज्ञासु जनोको जयववला टीकाके अन्तर्गत उच्चारणावृत्तिसे जानना चाहिए।

चूर्णिसू०—जिस प्रकार स्वामित्व आदि अनुयोगद्वारोंसे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मका निरूपण किया गया है, उसी प्रकारसे प्रदेशसत्कर्मस्थानोंकी भी प्ररूपणा करना चाहिए ॥२९२॥

विशेषार्थ—चूर्णिकारने प्रदेशसत्कर्मके स्वामित्वका वर्णन करते हुए प्रदेशसत्कर्मस्थानोंका भी निरूपण किया है, अतएव वे प्रदेशविभक्ति-अधिकारकी समाप्ति करते हुए उसके अन्तमे प्रदेशसत्कर्मस्थानोंके वर्णन करनेकी भी सूचना उच्चारणाचार्यों या व्याख्यानचार्योंको कर रहे हैं। प्रदेशसत्कर्मस्थानोंका वर्णन प्ररूपणा, प्रमाण और अल्पवहुत्वसे किया गया है। कर्मोंके जघन्य प्रदेशसत्कर्मस्थानसे लेकर उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मस्थान तकके सर्व स्थानोंका निरूपण प्ररूपणा-अनुयोगद्वारमे किया गया है। प्रमाण-अनुयोगद्वारमे बतलाया गया है कि प्रत्येक कर्मके प्रदेशसत्कर्मस्थान अनन्त होते हैं। प्रदेशसत्कर्मस्थानोंका अल्पवहुत्व पूर्व प्ररूपित उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मके अल्पवहुत्वके समान ही जानना चाहिए। अर्थात् जिस कर्मके प्रदेशाग्र विशेष अधिक होते हैं, उस कर्मके सत्कर्मस्थान भी विशेष अधिक होते हैं। संख्यातगुणित प्रदेशाग्रवाले कर्मके सत्कर्मस्थान संख्यातगुणित, असंख्यातगुणित प्रदेशाग्रवाले कर्मके सत्कर्मस्थान असंख्यातगुणित और अनन्तगुणित प्रदेशाग्रवाले कर्मके सत्कर्मस्थान अनन्तगुणित होते हैं।

इस प्रकार प्रदेशविभक्ति समाप्त हुई।

झीणाझीणाहियारो

१. एत्तो झीणमझीणं ति पदस्स विहासा कायव्वा* । २. तं जहा ३. अत्थि ओकडुणादो झीणट्टिदियं, उक्कडुणादो झीणट्टिदियं, संक्रमणादो झीणट्टिदियं, उदयादो झीणट्टिदियं ।

क्षीणाक्षीणाधिकार

चूणिसू०—अब इससे आगे चौथी मूलगाथाके 'झीणमझीणं' इस पदकी विभाषा करना चाहिए । वह इस प्रकार है:—कर्मप्रदेश अपकर्षणसे क्षीणस्थितिक है, उत्कर्षणसे क्षीणस्थितिक है, संक्रमणसे क्षीणस्थितिक है और उदयसे क्षीणस्थितिक है ॥१-३॥

विशेषार्थ—परिणामविशेषसे कर्म-प्रदेशोंकी अधिक स्थितिके ह्रस्व या कम करनेको अपकर्षण कहते हैं । कर्मप्रदेशोंकी लघु स्थितिके परिणामविशेषसे बढानेको उत्कर्षण कहते हैं । एक प्रकृतिके प्रदेशोंको अन्य प्रकृतिरूप परिणामानेको संक्रमण कहते हैं । कर्मोंके यथासमय फल-प्रदान करनेको उदय कहते हैं । जिस स्थितिमें स्थित कर्म-प्रदेशाग्र अपकर्षणके अयोग्य होते हैं, उन्हें अपकर्षणसे क्षीणस्थितिक कहते हैं और जिस स्थितिमें स्थित कर्म-प्रदेशाग्र अपकर्षणके योग्य होते हैं, उन्हें अपकर्षणसे अक्षीणस्थितिक कहते हैं । इसी प्रकार जिस स्थितिके कर्म-परमाणु उत्कर्षणके अयोग्य होते हैं, उन्हें उत्कर्षणसे क्षीणस्थितिक और उत्कर्षणके योग्य कर्म-परमाणुओंको उत्कर्षणसे अक्षीणस्थितिक कहते हैं । संक्रमणके अयोग्य कर्म-परमाणुओंको संक्रमणसे क्षीणस्थितिक और संक्रमणके योग्य कर्म-परमाणुओंको संक्रमणसे अक्षीणस्थितिक कहते हैं । जिस स्थितिमें स्थित कर्म-परमाणु उदयसे निर्जीर्ण हो रहे हैं, उन्हें उदयसे क्षीणस्थितिक कहते हैं और जो उदयके योग्य हैं, अर्थात् आगे निर्जीर्ण होंगे,

❁ ताम्रपत्रवाली प्रतिमें इस सूत्रके अनन्तर 'समुक्कित्तणा परूवणा समित्तमप्पावहुअं चेदि' यह एक और सूत्र मुद्रित है (देखो पृ० ८७६) । पर प्रकृत स्थलको देखते हुए यह सूत्र नहीं, अपितु जयध्वला टीकाका ही अंग है यह स्पष्ट जात होता है । ताडपत्रीय प्रतिसे भी इसके सूत्रत्वकी पुष्टि नहीं हुई है ।

१ ओकडुणा नाम परिणामविशेषेण कर्मपदेसाण टिट्ठीए दहरीकरण । तदो झीणा अप्पाओग्गभावेण अवट्टिदा टिट्ठी जस्स पदेसग्गस्स त ओकडुणादो झीणट्टिदिय सव्वकम्माणमत्थि । अहवा ओकडुणादो झीणा परिहीणा जा टिट्ठी त गच्छदि त्ति ओकडुणादो झीणट्टिदिगमिदि समासो कायव्वो । एवमुवरि सव्वत्य । दहरटिट्ठिदिट्टिदपदेसग्गाण टिट्ठीए परिणामविशेषेण वड्ढावण उक्कडुणा नाम । तत्तो झीणा टिट्ठी जस्स त पदेसग्ग सव्वपयडीणमत्थि । सकमादो समयाविरोहेण एयपयडिट्टिदपदेसाण अण्णपयडिसरूवेण परिणमणलक्खणादो झीणा टिट्ठी जस्स त पि पदेसग्गमत्थि सव्वेसि कम्माण । उदयादो वम्माण फलप्पदानलक्खणादो झीणा टिट्ठी जस्स पदेसग्गस्स त च सव्वकम्माणमत्थि त्ति । जयध०

४. ओकड्डणादो झीणट्टिदियं णाम किं ? ५. जं कम्ममुदयावलियव्भंतरे ट्टियं तमोक्कड्डणादो झीणट्टिदियं । जमुदयावलियवाहिरे ट्टिदं तमोक्कड्डणादो अज्झीणट्टिदियं ।
 ६. उक्कड्डणादो झीणट्टिदियं णाम किं ? ७. जं ताव उदयावलियपविट्ठं तं ताव उक्कड्डणादो झीणट्टिदियं । ८. उदयावलियवाहिरे वि अत्थि पदेसग्गमुक्कड्डणादो झीणट्टिदियं । तस्स णिदरिसणं । तं जहा । ९. जा समयाहियाए उदयावलियाए ट्टिदी, एदिस्से ट्टिदीए जं पदेसग्गं तमादिट्ठं । १०. तस्स पदेसग्गस्स जइ समयाहियाए आवलियाए ऊणिया कम्मट्टिदी विदिकंता वद्धस्स तं कम्मं ण सक्का उक्कड्डिदुं । ११. तस्सेव पदेसग्गस्स जइ वि दुसमयाहियाए आवलियाए ऊणियाए कम्मट्टिदी विदिकंता तं पि उक्कड्डणादो झीणट्टिदियं । १२. एवं गंतूण जदि वि जहणियाए आवाहाए ऊणिया कम्मट्टिदी विदिकंता तं पि उक्कड्डणादो झीणट्टिदियं ।

उन्हें उदयसे अक्षीणस्थितिक कहते हैं । मोहनीयकर्मकी किस प्रकृतिके कर्मप्रदेश उत्कर्षण आदिके योग्य है, अथवा योग्य नहीं है, इसका निर्णय इस क्षीणाक्षीणाधिकारसे किया जायगा ।

शंकाचू०—कौनसे कर्म-प्रदेश अपकर्षणसे क्षीणस्थितिक है ? ॥४॥

समाधानचू०—जो कर्म-प्रदेश उदयावलीके भीतर स्थित है, वे अपकर्षणसे क्षीणस्थितिक है । जो कर्म-प्रदेश उदयावलीके बाहिर स्थित है, वे अपकर्षणसे अक्षीणस्थितिक है ॥ ५ ॥

त्रिशेषार्थ—उदयावलीके भीतर जो कर्म-प्रदेश स्थित है, उनकी स्थितिका अपकर्षण नहीं हो सकता है, किन्तु जो कर्म-प्रदेश उदयावलीके बाहिर अवस्थित है, वे अपकर्षणके प्रायोग्य है, अर्थात् उनकी स्थितिको घटाया जा सकता है ।

शंकाचू०—कौनसे कर्म-प्रदेश उत्कर्षणसे क्षीणस्थितिक है ?

समाधानचू०—जो कर्म-प्रदेश उदयावलीमें प्रविष्ट है, वे उत्कर्षणसे क्षीणस्थितिक है । किन्तु जो कर्म-प्रदेशाग्र उदयावलीसे बाहिर भी अवस्थित है, वे भी उत्कर्षणसे क्षीणास्थितिक होते हैं । इसका निर्द्वान (उदाहरण) इस प्रकार है ॥७-८॥

चूर्णिसू०—एक समय-अधिक उदयावलीके अन्तिम समयमें जो स्थिति अवस्थित है, उस स्थितिके जो प्रदेशाग्र है, वे यहाँपर आदिष्ट अर्थात् विवक्षित है । उस कर्म-प्रदेशाग्रकी यदि बंधनेके समयसे लेकर एक समयाधिक आवलीसे कम कर्मस्थिति व्यतीत हुई है, तो उस कर्म-प्रदेशाग्रका उत्कर्षण नहीं किया जा सकता है । उस ही कर्म-प्रदेशाग्रकी यदि दो समयसे अधिक आवलीसे कम कर्मस्थिति व्यतीत हुई है तो वह भी उत्कर्षणसे क्षीणस्थितिक है, अर्थात् उस कर्मप्रदेशाग्रका भी उत्कर्षण नहीं किया जा सकता । इस प्रकार एक एक समय बढ़ते हुए यदि जवन्य आवाधासे कम कर्मस्थिति व्यतीत हुई है, तो वह कर्म-प्रदेशाग्र भी उत्कर्षणसे क्षीणस्थितिक है, अर्थात् उसका भी उत्कर्षण नहीं किया जा सकता ॥९-१२॥

१ आदिट्ठं विवक्खियमिदि । जवघ०

१३. समयुत्तराए उदयावल्याए तिस्से ट्टिदीए जं पदेसगं तस्स पदेसगस्स जइ जहणियाए आवाहाए समयुत्तराए ऊणिया कम्मट्टिदी विदिकंता तं पदेसगं सक्का आवाधामेत्तमुक्कट्टिदुमेक्किस्से ट्टिदीए णिसिंचिदुं । १४. जइ दुसमयाहियाए आवाहाए ऊणिया कम्मट्टिदी विदिकंता, तिसमयाहियाए वा आवाहाए ऊणिया कम्मट्टिदी विदिकंता, एवं गंतूण वासेण वा वासपुधत्तेण वा सागरोवमेण वा सागरोवमपुधत्तेण वा ऊणिया कम्मट्टिदी विदिकंता तं सव्वं पदेसगं उक्कट्टुणादो अज्झीणट्टिदियं ।

चूर्णिसू०—समयोत्तर उदयावलीमे, अर्थात् एक समय-अधिक उदयावलीके अन्तिम समयमे जो स्थिति अवस्थित है, उस स्थितिके जो प्रदेशाग्र है, उस प्रदेशाग्रकी यदि समय-अधिक जघन्य आवाधासे कम कर्मस्थिति वीत चुकी है, तो जघन्य आवाधाप्रमाण प्रदेशाग्रका उत्कर्षण किया जा सकता है और उसे उपरिम-अनन्तर एक स्थितिमे निपिक्त किया जा सकता है । यदि उस कर्म-प्रदेशाग्रकी दो समय-अधिक आवाधासे कम कर्मस्थिति वीत चुकी है, अथवा तीन समय-अधिक आवाधासे कम कर्मस्थिति वीत चुकी है, इस प्रकार समयोत्तर वृद्धिके क्रमसे आगे जाकर वर्षसे, या वर्षपृथक्त्वसे, या सागरोपमसे, या सागरोपमपृथक्त्वसे, कम कर्मस्थिति व्यतिक्रान्त हो चुकी है, सो वह सर्व कर्म-प्रदेशाग्र उत्कर्षणसे अक्षीण-स्थितिक है, अर्थात् उनका उत्कर्षण किया जा सकता है और अनन्तर-उपरिम स्थितिमे उसे निपिक्त भी किया जा सकता है ॥ १३-१४ ॥

विशेषार्थ—किसी भी विवक्षित कर्मके बंधनेके पश्चात् जब तक उसका कमसे कम जघन्य आवाधाकाल व्यतीत न हो जाय, तबतक उसका उत्कर्षण नहीं किया जा सकता है । एक समय अधिक जघन्य आवाधाकालके व्यतीत होनेपर उसका उत्कर्षण किया जा सकता है और उसे अनन्तर स्थितिमे निपिक्त भी किया जा सकता है । इसी बातको स्पष्ट करते हुए चूर्णिकारने बतलाया कि इस प्रकार एक-एक समय अधिक करते हुए जिस कर्म-प्रदेशाग्रकी स्थिति वर्ष-प्रमाण वीत चुकी हो, वर्ष-पृथक्त्वप्रमाण वीत चुकी हो, अथवा शत-वर्ष, सहस्र वर्ष, लक्ष वर्ष, सागरोपम, सागरोपम-पृथक्त्व, शत सागरोपम, या सहस्र सागरोपम, या लक्ष सागरोपम, या कोटिसागरोपम, या कोटिपृथक्त्व सागरोपम, या अन्तः कोड़ा-कोड़ी-पृथक्त्व सागरोपम भी व्यतीत हो चुकी हो, फिर भी उस कर्मकी जो स्थिति अवशिष्ट रही है, वह उत्कर्षणके योग्य है, क्योंकि उसकी आवाधाप्रमाण अतिस्थापना भी संभव है और एक समय अधिकसे लेकर बढ़ते हुए समयाधिक आवली और उत्कृष्ट आवाधासे कम सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपम-प्रमित निक्षेप भी संभव है ।

इस प्रकार उदय-स्थितिसे पूर्व कालमे बंधे हुए कर्म-प्रदेशांका उत्कर्षणके योग्य-अयोग्य भाव बतलाकर अब उदयस्थितिसे उत्तर कालमे बंधनेवाले नवकवद्ध समयप्रवद्धोके प्रदेशाग्रोके उत्कर्षणके योग्य-अयोग्यभावका निरूपण करते हैं—

१५. समयाहियाए उदयावलियाए तिस्से चैव द्विदीए पदेसग्गस्स एगो समओ पवद्धस्स अइच्छिदो त्ति अवत्थु, दो समया पवद्धस्स अइच्छिदा त्ति अवत्थु, तिणिण समया पवद्धस्स अइच्छिदा त्ति अवत्थु, एवं णिरंतरं गंतूण आवलिया पवद्धस्स अइच्छिदा त्ति अवत्थु । १६. तिस्से चैव द्विदीए पदेसग्गस्स समयुत्तरावलिया वद्धस्म अइच्छिदा त्ति एसो आदेशो होज्ज । १७. तं पुण पदेसग्गं कम्मट्ठिदिं णो सक्का उक्कट्ठिहुं, समयाहियाए आवलियाए ऊणियं कम्मट्ठिदिं सक्का उक्कट्ठिहुं । १८. एदे वियप्पा जा समयाहिय-उदयावलिया, तिस्से द्विदीए पदेसग्गस्स । १९. एदे चैव वियप्पा अपरिसेसा जा दुसमयाहिया उदयावलिया, तिस्से द्विदीए पदेसग्गस्स । २०. एवं तिसमयाहियाए चदुसमयाहियाए जाव आवाधाए आवलियुणाए एवदिमादो त्ति ।

२१ आवलियाए समयुणाए ऊणियाए आवाहाए एवदिमाए द्विदीए जं पदेसग्गं तस्स के वियप्पा ? २२. जस्स पदेसग्गस्स* समयाहियाए आवलियाए ऊणिया कम्मट्ठिदी विदिककंता तं पि पदेसग्गमंदिस्से द्विदीए णत्थि । २३. जस्स

चूर्णिसू०—जो पूर्वमे आदिष्ट अर्थात् विवक्षित समयाधिक उदयावलीकी अन्तिम स्थिति है, उस ही स्थितिके प्रदेशाग्रका बंधनेके समयसे यदि एक समय अतिक्रान्त हुआ है, तो वह अवस्तु है, अर्थात् उसके प्रदेशाग्र इस विवक्षित स्थितिमे नहीं है । यदि दो समय बन्ध-कालसे व्यतीत हुए हैं, तो वह भी अवस्तु है । इस प्रकार निरन्तर आगे जाकर यदि बन्ध-कालसे एक आवली व्यतीत हुई है, तो वह भी अवस्तु है, अर्थात् तत्प्रमाण कर्मप्रदेशाग्रोका उत्कर्षण नहीं किया जा सकता है । यदि उस ही विवक्षित स्थितिके प्रदेशाग्रकी बन्धकालसे आगे समयाधिक आवली व्यतीत हुई है, तो वह आदेश होगी, अर्थात् उसके कर्म-प्रदेशाग्रोका विवक्षित स्थितिमे वस्तुरूपसे अवस्थित होना सम्भव है । यदि वह प्रदेशाग्र कर्मस्थिति प्रमाण है, तो उनका उत्कर्षण नहीं किया सकता है । और यदि समयाधिक आवलीसे कम कर्मस्थितिप्रमाण है, तो उनका उत्कर्षण किया जा सकता है । जो समयाधिक उदयावली है, उसकी स्थितिके कर्मप्रदेशाग्रके ये सब विकल्प हैं । जो द्विसमयाधिक उदयावली है, उसकी स्थितिके कर्मप्रदेशाग्रके भी ये सब सम्पूर्ण विकल्प जानना चाहिए । इस प्रकार तिसमया-धिक, चतुःसमयाधिकसे लगाकर एक आवलीमे कम आवाधाकाल तक ये सर्व विकल्प जानना चाहिए ॥ १५-२० ॥

शंकाचू०—एक समय-कम आवलीसे हीन आवाधाकी इस मध्यवर्ती स्थितिमे जो कर्म-प्रदेशाग्र है, उसके कितने विकल्प हैं ॥२१॥

समाधानचू०—जिस प्रदेशाग्रकी समयाधिक आवलीसे कम कर्मस्थिति बीत चुकी

१ आदिश्यत इत्यादेशो विवक्षितस्थितौ वस्तुरूपेणावस्थितः प्रदेश आदेश इति यावत् । जयध०

२ ताम्रपत्रवाली प्रतिमे 'पदेसग्गस्स' पठ नहीं है, पर पूर्वापर सन्दर्भको देखते हुए यह पद होना चाहिए । (देखो पृ० ८८४)

पदेसग्गस्स दुसमयाहियाए आवलियाए ऊणिया कम्मट्टिदी विदिककंता तं पि णत्थि ।
 २४. एवं गंतूण जहेही एसा ट्टिदी एत्तिएण ऊणा कम्मट्टिदी विदिककंता जस्स
 पदेसग्गस्स तमेदिस्से ट्टिदीए पदेसग्गं होज्ज, तं पुण उक्कड्डणादो झीणट्टिदियं । २५.
 एदं ट्टिदिमादिं कादूण जाव जहणियाए आवाहाए एत्तिएण ऊणिया कम्मट्टिदी
 विदिककंता जस्स पदेसग्गस्स तं पि पदेसग्गमेदिस्से ट्टिदीए होज्ज । तं पुण सव्वयुक्कड्ड-
 णादो झीणट्टिदियं । २६. आवाधाए समयुत्तराए ऊणिया कम्मट्टिदी विदिककंता
 जस्स पदेसग्गस्स तं पि एदिस्से ट्टिदीए पदेसग्गं होज्ज । तं पुण उक्कड्डणादो झीण-
 ट्टिदियं । २७. तेण परमज्झीणट्टिदियं । २८.समयूणाए आवलियाए ऊणिया आवाहा,
 एदिस्से ट्टिदीए वियप्पा समत्ता ।

२९ एदादो ट्टिदीदो समयुत्तराए ट्टिदीए वियप्पे भणिस्सामो । ३०. सा पुण
 का ट्टिदी । ३१. दुसमयूणाए आवलियाए ऊणिया जा आवाहा एसा सा ट्टिदी । ३२.
 इदाणिमेदिस्से ट्टिदीए अवत्थुवियप्पा केत्तिया ? ३३. जावदिया हेट्टिहियाए ट्टिदीए

है, वह प्रदेशाग्र भी इस स्थितिमे नहीं है । जिस प्रदेशाग्रकी दो समय अधिक आवलीसे
 हीन कर्मस्थिति वीत चुकी है, वह प्रदेशाग्र भी नहीं है । इस प्रकार एक एक समय अधिक-
 के क्रमसे आगे जाकर जितनी यह स्थिति है, उससे हीन कर्मस्थिति जिस प्रदेशाग्रकी वीत
 चुकी है, उसका प्रदेशाग्र इस स्थितिमे होना सम्भव है, किन्तु वह उत्कर्षणसे क्षीणस्थितिक
 है । इस स्थितिको आदि करके जवन्व्य आवाधा तक इस मध्यवर्ती स्थितिसे हीन कर्मस्थिति
 जिस प्रदेशाग्रकी वीत चुकी है, उस प्रदेशाग्रका भी इस स्थितिमे होना सम्भव है । यह सर्व
 कर्म-प्रदेशाग्र उत्कर्षणसे क्षीणस्थितिक है । एक समय अधिक आवाधासे हीन कर्मस्थिति
 जिस प्रदेशाग्रकी वीत चुकी है, उस प्रदेशाग्रका भी इस स्थितिमे होना सम्भव है । वह
 प्रदेशाग्र भी उत्कर्षणसे क्षीणस्थितिक है । उससे परवर्ती प्रदेशाग्र अक्षीणस्थितिक जानना
 चाहिए । इस प्रकार एक समय कम आवलीसे हीन जो आवाधा है, उसकी स्थितिके
 विकल्प समाप्त हुए ॥ २२-२८ ॥

चूणिसू०—अब इस पूर्व-निरुद्ध स्थितिसे एक समय अधिक जो स्थिति है, उसके
 अवस्तु-विकल्प कहेंगे ॥ २९ ॥

शंका—वह स्थिति कौन-सी है ? ॥ ३० ॥

समाधान—दो समय कम आवलीसे हीन जो आवाधा है, यही वह स्थिति
 है । अर्थात् उदयस्थितिसे दो समय कम आवलीसे हीन आवाधामात्र ऊपर चलकर और
 आवाधाके अन्तिम समयसे दो समय कम आवलीमात्र नीचे उतर कर पूर्व निरुद्ध स्थितिके
 ऊपर यह स्थिति अवस्थित है ॥ ३१ ॥

शंका—अब इस विवक्षित स्थितिके अवस्तु-विकल्प कितने हैं ? ॥ ३२ ॥

समाधान—जितने अनन्तर-प्ररूपित अधस्तन-स्थितिके अवस्तु-विकल्प है, उससे
 सत्कर्मकी अपेक्षा एक रूप अधिक विकल्प है ॥ ३३ ॥

अवस्थुवियप्पा तदो रूवुत्तरा संतकम्ममस्सियूण* । ३४. जहेही एसा द्विदी तत्तियं
द्विदिसंतकम्मं कम्मद्विदीए सेसयं जस्स पदेसग्गस्स तं पदेसग्गमेदिस्से द्विदीए होज्ज ।
तं पुण उक्कड्डणादो झीणद्विदियं । ३५. एदादो द्विदीदो समयुत्तरद्विदिसंतकम्मं कम्म-
द्विदीए सेसयं जस्स पदेसग्गस्स तमुक्कड्डणादो झीणद्विदियं । ३६. एवं गंतूण आवा-
हामेत्तद्विदिसंतकम्मं कम्मद्विदीए सेसं जस्स पदेसग्गस्स एदीए द्विदीए दीसइ तं पि
उक्कड्डणादो झीणद्विदियं । ३७. आवाहासमयुत्तरमेत्तं द्विदिसंतकम्मं कम्मद्विदीए सेसं
जस्स पदेसग्गस्स तं पि उक्कड्डणादो झीणद्विदियं । ३८. आवाधा दुसमयुत्तरमेत्तद्विदि-
संतकम्मं कम्मद्विदीए सेसं जस्स पदेसग्गस्स एदिस्से द्विदीए दिस्सइ तं पि पदेसग्ग-
मुक्कड्डणादो झीणद्विदियं । ३९. तेण परमुक्कड्डणादो अज्झीणद्विदियं । ४०. दुसमयूणाए
आवलियाए ऊणिया आवाहा एवदिमाए द्विदीए वियप्पा समत्ता ।

४१. एत्तो समयुत्तराए द्विदीए वियप्पे भणिस्सामो । ४२ एत्तो पुण द्विदीदो

विशेषार्थ—अनन्तर-प्ररूपित अधस्तनस्थितिके अवस्तु-विकल्पोसे इस विवक्षित स्थितिके
विकल्पोको एक रूप अधिक कहनेका कारण यह है कि उससे एक समय आगे चलकर ही
इस स्थितिका अवस्थान है । यह 'रूपोत्तर' पद अन्तर्दीपक है, इसलिए अधस्तनवर्ती समस्त
स्थितियोंके अवस्तु-विकल्प अनन्तर-अनन्तरवर्ती स्थितिसे एक एक रूप अधिक ग्रहण करना
चाहिए । विकल्पोका यह कथन सत्कर्मकी अपेक्षा किया गया है, क्योंकि, नवकवद्धकी अपेक्षा
तो वहाँ पर आवली-प्रमाण अवस्तु-विकल्प अवस्थितस्वरूपसे पाये जाते हैं ।

चूर्णिसू०—जितनी यह स्थिति है, उतना स्थितिसत्कर्म जिस प्रदेशाग्रका कर्मस्थितिमें
शेष रहेगा, वह प्रदेशाग्र इस स्थितिमें पाया जा सकता है और वह उत्कर्षणसे क्षीण-
स्थितिक है । इस स्थितिसे एक समय-अधिक स्थितिसत्कर्म जिस प्रदेशाग्रका कर्मस्थितिमें शेष
होगा, वह भी प्रदेशाग्र उत्कर्षणसे क्षीणस्थितिक है । इस प्रकार एक एक समय-वृद्धिके क्रमसे
आगे जाकर इस स्थितिमें आवाधाप्रमाण स्थितिसत्कर्म जिस प्रदेशाग्रका कर्मस्थितिमें शेष
दिखाई देगा, वह भी उत्कर्षणसे क्षीणस्थितिक समझना चाहिए । एक समय अधिक आवाधा-
प्रमाण स्थितिसत्कर्म जिस प्रदेशाग्रका कर्मस्थितिमें शेष होगा, वह भी उत्कर्षणसे क्षीणस्थितिक
है । दो समय-अधिक आवाधाप्रमाण स्थितिसत्कर्म जिस प्रदेशाग्रका कर्मस्थितिमें शेषरूपसे इस
स्थितिमें दिखाई देगा, वह प्रदेशाग्र भी उत्कर्षणसे क्षीणस्थितिक है । उससे परवर्ती कर्मप्रदेशाग्र
उत्कर्षणसे अक्षीणस्थितिक है । इस प्रकार दो समय कम आवलीसे हीन आवाधावाली जो
स्थिति है, उस स्थितिके विकल्प समाप्त हुए ॥३४-४०॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे अनन्तर-व्यतिक्रान्त स्थितिसे एक समय-अधिक

* ताग्रपत्रवाली प्रतिमें 'सतकम्ममस्सियूण' इस सूत्राश्रको टीकाका अग वना दिया गया है,
जब कि इसकी व्याख्या टीकामें स्पष्टरूपमें की गई है । अतएव इसे सूत्राश्र ही मानना चाहिए ।
(देखो पृ० ८८६)

समयुत्तरा द्विदी कदमा ? ४३. जहणिया आवाहा तिसमयूणाए आवलियाए ऊणिया, एवदिमा द्विदी । ४४. एदिस्से द्विदीए एत्तिया चेव वियप्पा । णवरि अवत्थुवियप्पा रूयुत्तरा । ४५. एस कमो जाव जहणिया आवाहा समयुत्तरा त्ति । ४६. जहणियाए आवाहाए दुसमयुत्तराए पहुडि णत्थि उक्कडुणादो झीणद्विदियं । ४७. एवमुक्कडुणादो झीणद्विदियस्स अट्टपदं समत्तं ।

४८. एत्तो संक्रमणादो झीणद्विदियं । ४९. जं उदयावलयपविट्ठं तं, णत्थि अण्णो वियप्पो । ५०. उदयादो झीणद्विदियं ५१. जमुद्धिण्णं तं, णत्थि अण्णं ।

५२. एत्तो एगेगझीणद्विदियमुक्कस्सयमणुक्कस्सयं जहणयमजहणयं च ।

स्थितिके विकल्प कहेंगे ॥४१॥

शंका—इस अनन्तर-व्यतिक्रान्त स्थितिसे एक समय-अधिक स्थिति कौनसी है ? ॥ ४२ ॥

समाधान—तीन समय-कम आवलीसे हीन जो जघन्य आवाधा है, वही यह स्थिति है । अर्थात् उदयस्थितिसे लेकर तीन समय-कम आवलीसे हीन जघन्य आवाधा-प्रमाण ऊपर चलकर आवाधाके अन्तिम समयसे तीन समय कम आवलीप्रमाण नीचे उतर कर यह विवक्षित स्थिति अवस्थित है ॥४३॥

चूर्णिसू०—इस स्थितिके वस्तु-विकल्प इतने ही होते हैं । किन्तु अवस्तु-विकल्प एक रूपसे अधिक होने हैं । यह क्रम समयोत्तर जघन्य आवाधा तक जानना चाहिए । दो समय-अधिक जघन्य आवाधासे लेकर ऊपर उत्कर्षणसे प्रदेशाग्र क्षीणस्थितिक नहीं है । इस प्रकार उत्कर्षणसे क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्रका अर्थपद समाप्त हुआ ॥४४-४७॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे संक्रमणसे क्षीणस्थितिकको कहेंगे । जो कर्मप्रदेशाग्र उदयावलीमें प्रविष्ट हैं, वह संक्रमणसे क्षीणस्थितिक है, अर्थात् संक्रमणके अप्रायोग्य हैं । किन्तु जो प्रदेशाग्र उदयावलीके बाहिर स्थित है और जिनकी बन्धावली बीत चुकी है, वे संक्रमणसे अक्षीणस्थितिक हैं, अर्थात् संक्रमण होनेके योग्य है । इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प यहाँ संभव नहीं है ॥४८-४९॥

चूर्णिसू०—अब उदयसे क्षीणस्थितिकको कहेंगे । जो कर्मप्रदेशाग्र उदीर्ण है, अर्थात् उदयमें आकर और फलको देकर तत्काल गल रहा है, वह उदयसे क्षीणस्थितिक है । इसके अतिरिक्त अन्य समस्त स्थितियोंके प्रदेशाग्र उदयसे अक्षीणस्थितिक हैं, अर्थात् उन्हें उदयके योग्य जानना चाहिए । यहाँपर और अन्य कोई विकल्प संभव नहीं है ॥५०-५१॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे एक-एक क्षीणस्थितिकके उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य पदोंकी प्ररूपणा करना चाहिए ॥५२॥

विशेषार्थ—अभी ऊपर जो अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण और उदयकी अपेक्षा क्षीणस्थितिक-अक्षीणस्थितिककी प्ररूपणा की है, उसके विज्ञेय निर्णयके लिए उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट,

५३. सापित्तं । ५४. मिच्छत्तस्स उक्कस्सयमोक्कड्डणादो झीणट्ठिदियं कस्स ?
 ५५. गुणिदक्कम्मंसियस्स सच्चलहुं दंसणमोहणीयं खवेतस्स अपच्छिमट्ठिदियं उदयं
 संलुब्धमाणयं संलुब्धमावलिया समयूणा सेसा तस्स उक्कस्सयमोक्कड्डणादो झीणट्ठिदियं ।
 ५६. तस्सेव उक्कस्सयमुक्कड्डणादो संकमणादो च झीणट्ठिदियं ।

५७. उक्कस्सयमुदयादो झीणट्ठिदियं कस्स ? ५८ गुणियकम्मंसिओ संजमासं-
 जमगुणसेढी संजमगुणसेढी च एदाओ गुणसेढीओ काऊण मिच्छत्तं गदो, जाधे गुणसे-
 ढिसीसयाणि पहमसमयमिच्छादिट्ठिस्स उदयमागयाणि ताधे तस्स उक्कस्सयमुदयादो
 झीणट्ठिदियं ।

५९. सम्मत्तस्स उक्कस्सयमोक्कड्डणादो उक्कड्डणादो संकमणादो उदयादो च

जघन्य और अजघन्य पदोंका आश्रय करके विज्ञेय निरूपणकी सूचना चूर्णिकारने की है ।
 जहाँपर बहुतसे कर्मप्रदेगाग्र अपकर्षणादिसे क्षीणस्थितिक हो, उसे उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक कहते
 हैं और जहाँपर सबसे कम कर्म-प्रदेगाग्र अपकर्षणादिके द्वारा क्षीणस्थितिक हो, उसे जघन्य
 क्षीणस्थितिक कहते हैं । इसी प्रकार अनुत्कृष्ट और अजघन्यकी अपेक्षासे भी जानना
 चाहिए । इस प्ररूपणके सुगम होनेसे चूर्णिकारने उसे नहीं कहा है ।

चूर्णिसू०—अब इसमें आगे क्षीणस्थितिक-अक्षीणस्थितिक प्रदेगाग्रके स्वामित्वको
 कहेंगे ॥५३॥

शंका—अपकर्षणकी अपेक्षा मिथ्यात्वका उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेगाग्र किसके
 होता है ? ॥५४॥

समाधान—गुणितकर्मागिक और सर्वलघु कालसे दर्शनमोहनीयके क्षपण करने-
 वाले जीवके होता है, जिसने कि संक्रमण किये जाने योग्य मिथ्यात्वके अन्तिम स्थितिकांडकका
 सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिमें संक्रमण कर दिया है और जिसके एक समय कम आवली शेष रही
 है, उसके मिथ्यात्वका अपकर्षणसे उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेगाग्र होता है । उसी ही जीवके
 उत्कर्षण और संक्रमणसे भी मिथ्यात्वका उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेगाग्र होता है ॥५५-५६॥

शंका—उदयकी अपेक्षा मिथ्यात्वका उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेगाग्र किसके
 होता है ? ॥५७॥

समाधान—जो गुणितकर्मागिक जीव संयमासंयम-गुणश्रेणी और संयमगुणश्रेणी
 इन दोनों ही गुणश्रेणियोंको करके मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ, उस प्रथमसमयवर्ती मिथ्या-
 दृष्टिके जिस समय वे दोनों ही गुणश्रेणीगीर्षक एकीभूत होकर उदयको प्राप्त होते हैं, उस
 नमय मिथ्यात्वका उदयसे उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेगाग्र होता है ॥५८॥

शंका—सम्यक्त्वप्रकृतिका अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण और उदयकी अपेक्षा
 उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेगाग्र किसके होता है ? ॥ ५९ ॥

क्षीणद्विदियं कस्स ? ६०. गुणितकम्मंसिओ सव्वलहुं दंसणमोहणीयं कम्मं खवेहुमाढत्तो अधद्विदियं गलंतं जाधे उदयावलियं पविस्समाणं पविट्ठं ताधे उक्कस्सयमोकड्डणादो वि उक्कड्डणादो वि संक्रमणादो वि क्षीणद्विदियं । ६१. तस्सेव चरिमसमयअक्खीणदंसण-मोहणीयस्स सव्वमुदयंतमुक्कस्सयमुदयादो क्षीणद्विदियं ।

६२. सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्सयमोकड्डणादो उक्कड्डणादो संक्रमणादो च क्षीणद्विदियं कस्स ? ६३. गुणितकम्मंसियस्स सव्वलहुं दंसणमोहणीयं खवेमाणस्स सम्मामिच्छत्तस्स अपच्छिमद्विदियंखंडयं संलुब्धमाणयं संलुब्धं, उदयावलिया उदयवज्जा भरिदल्लिया, तस्स उक्कस्सयमोकड्डणादो उक्कड्डणादो संक्रमणादो च क्षीणद्विदियं ।

६४. उक्कस्सयमुदयादो क्षीणद्विदियं कस्स ?

समाधान—जिस गुणितकर्मांशिक जीवने सर्वलघु कालके द्वारा दर्शनमोहनीयकर्म-का क्षपण करना प्रारम्भ किया, (और अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण परिणामोके द्वारा अनेक स्थितिकांडक और अनुभागकांडकोका घातकर मिथ्यात्वके द्रव्यको सम्यग्मिथ्यात्वमे संक्रान्त किया । पुनः पत्त्योपमके असंख्यातवे भागमात्र अन्तिम स्थितिकांडकको चरमफालिस्वरूपसे सम्यक्त्वप्रकृतिमें संक्रान्त किया और सम्यक्त्वप्रकृतिके भी पत्त्योपमासंख्येयभागी तात्कालिक स्थितिकांडकसे अष्टवर्षप्रमाण स्थितिसत्कर्मको करके और उसमे संक्रान्त करके फिर भी संख्यात सहस्र स्थितिकांडकोके द्वारा सम्यक्त्वप्रकृतिकी स्थितिको अत्यल्प करके जो कृत-कृत्यवेदक होकर अवस्थित है,) उसके अधःस्थितिसे गलता हुआ सम्यक्त्वप्रकृतिका प्रदेशाग्र जिस समय क्रमसे उदयावलीमे प्रवेश करता हुआ निरवशेषरूपसे प्रविष्ट हो जाता है, उस समय उक्त जीवके अपकर्षणसे, उत्कर्षणसे और संक्रमणसे सम्यक्त्वप्रकृतिका उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्र होता है । उस ही चरमसमयवर्ती अक्षीणदर्शनमोही जीवके जो दर्शन-मोहनीयकर्मका सर्वोदयान्त्य प्रदेशाग्र है, वह सम्यक्त्वप्रकृतिका उदयसे उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्र है ॥ ६०-६१ ॥

विशेषार्थ—सर्व उदयोके अन्तमे उदय होनेवाले कर्म-प्रदेशाग्रको सर्वोदयान्त्य प्रदेशाग्र कहते हैं ।

शंका—सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिका अपकर्षणसे, उत्कर्षणसे और संक्रमणसे उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्र किसके होता है ? ॥ ६२ ॥

समाधान—जिस गुणितकर्मांशिक जीवने सर्वलघु कालसे दर्शनमोहनीयको क्षपण करते हुए सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिके संक्रम्यमाण अन्तिम स्थितिकांडकको संक्रान्त कर दिया और उदय-समयको छोड़कर उदयावलीको परिपूर्ण कर दिया, उसके सम्यग्मिथ्यात्व-प्रकृतिका अपकर्षणसे, उत्कर्षणसे और संक्रमणसे उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्र होता है ॥ ६३ ॥

शंका—सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिका उदयसे उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्र किसके होता है ॥ ६४ ॥

१ एत्थ सव्वमुदयतमिदि बुत्ते सर्वेपामुदयानामन्त्य निष्पश्चिममुदयप्रदेशाग्र सर्वोदयान्त्यमिति । जयध०

६५. गुणिदकम्मंसिओ संजमासंजम-संजमगुणसेहीओ काऊण ताथे गदो सम्मामिच्छत्तं जाथे गुणसेहिसीसयाणि पढमसमयसम्मामिच्छाइट्टिस्स उदयमागदाणि ताथे तस्स पढमसमयसम्मामिच्छाइट्टिस्स उक्कस्सयमुदयादो झीणट्टिदियं ।

६६. अणंताणुवंधीणमुक्कस्सयमोकड्डणादितिण्हं पि झीणट्टिदियं कस्स ?

६७. गुणिदकम्मंसिओ संजमासंजम-संजमगुणसेहीहि अविणट्टाहि अणंताणुवंधी विसंजोएदुमाढत्तो, तेसिमपच्छिमट्टिदिखंडयं संलुब्धमाणयं संलुब्धं तस्स उक्कस्सय-मोकड्डणादितिण्हं पि झीणट्टिदियं । ६८. उक्कस्सयमुदयादो झीणट्टिदियं कस्स ? ६९. संजमासंजम-संजमगुणसेहीओ काऊण तत्थ मिच्छत्तं गदो जाथे गुणसेहिसीसयाणि पढमसमयमिच्छाइट्टिस्स उदयमागयाणि, ताथे तस्स पढमसमयमिच्छाइट्टिस्स उक्कस्सय-मुदयादो झीणट्टिदियं ।

७०. अट्टण्हं कसायाणमुक्कस्सयमोकड्डणादितिण्हं पि झीणट्टिदियं कस्स ?

७१. गुणिदकम्मंसिओ कसायक्खवणाए अब्भुट्टिदो जाथे अट्टण्हं कसायाणमपच्छिम-

समाधान—जो गुणितकर्माशिक जीव संयमासंयम और संयमगुणश्रेणीको करके उस समय सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ, जब कि प्रथमसमयवर्ती सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवके गुणश्रेणीशीर्षक उदयको प्राप्त हुए, उस समय उस प्रथमसमयवर्ती सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवके सम्यग्मिथ्यात्वका उदयसे उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेगाग्र होता है ॥ ६५ ॥

शंका—अनन्तानुवन्धी चारो कपायोका अपकर्षण आदि तीनोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेगाग्र किसके होता है ? ॥ ६६ ॥

समाधान—जिस गुणितकर्माशिक जीवने अविनष्ट संयमासंयम और संयमगुण-श्रेणीके द्वारा अनन्तानुवन्धीकपायका विसंयोजन आरम्भ किया और उनके संक्रम्यमाण अन्तिम स्थितिकांडकको अप्रत्याख्यानादिकपायोमे संक्रान्त किया, उस समय उस जीवके अनन्तानुवन्धीकपायका अपकर्षण आदि तीनोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेगाग्र होता है ॥ ६७ ॥

शंका—उदयकी अपेक्षा अनन्तानुवन्धीकपायका उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेगाग्र किसके होता है ॥ ६८ ॥

समाधान—जो संयमासंयम और संयमगुणश्रेणीको करके मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। उस प्रथमसमयवर्ती मिथ्यादृष्टिके जिस समय दोनो गुणश्रेणीशीर्षक उदयको प्राप्त हुए, उस समय उस प्रथमसमयवर्ती मिथ्यादृष्टिके उदयकी अपेक्षा अनन्तानुवन्धीकपायका उत्कृष्ट क्षीण-स्थितिक प्रदेगाग्र होता है ॥ ६९ ॥

शंका—आठो कपायोका अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेगाग्र किसके होता है ॥ ७० ॥

समाधान—जो गुणितकर्माशिक जीव कपायोकी क्षणके लिए उद्यत हुआ,

द्विदिखंडयं संलुहमाणं संलुद्धं ताधे उक्कस्सयं तिण्हं पि झीणद्विदियं । ७२. उक्कस्सय-
मुदयादो झीणद्विदियं कस्स ? ७३. गुणिटक्कम्मंसियस्स संजमासंजम-संजम-दंसणमोह-
णीयक्खवणगुणसेढीओ एदाओ तिणिण गुणसेढीओ क्काळण असंजमं गदो, तस्स पढम-
समयअसंजदस्स गुणसेढिसीसयाणि उदयमागदाणि तस्स अड्ढकसायाणमुक्कस्सयमुद-
यादो झीणद्विदियं ।

७४. कोहसंजलणस्स उक्कस्सयमोकड्डणादितिण्हं पि झीणद्विदियं कस्स ?
७५. गुणिटक्कम्मंसियस्स कोधं खवंतस्स चरिमद्विदिखंडय-चरिमसमय-असंलुह-
माणयस्स उक्कस्सयं तिण्हं पि झीणद्विदियं । ७६. उक्कस्सयमुदयादो झीणद्विदियं पि
तस्सेव । ७७ एवं चेव माणसंजलणस्स । णवरि माणद्विदिकंडयं चरिमसमयअसंलुहमाण-
यस्स तस्स चत्तारि वि उक्कस्सयाणि झीणद्विदियाणि । ७८. एवं चेव मायासंजलणस्स ।

वह जिस समय आठों की कपायोके संक्रम्यमाण अन्तिम स्थितिकांडकको संक्रान्त कर देता है,
उस समय आठों कपायोंका अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्र होता
है ॥७१॥

शंका—उदयकी अपेक्षा आठों कपायोका उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्र किसके
होता है ॥७२॥

समाधान—जो गुणितकर्मांशिक जीव संयमासंयमगुणश्रेणी, संयमगुणश्रेणी और
दर्शनमोहनीयक्षपणा-सम्बन्धी गुणश्रेणी इन तीनों ही गुणश्रेणियोंको करके असंयमको प्राप्त हुआ ।
उस प्रथमसमयवर्ती असंयतके जिस समय वे गुणश्रेणीशीर्षक उदयको प्राप्त हुए, उस समय
उस असंयतके उदयकी अपेक्षा आठों कपायोका उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्र होता है ॥७३॥

शंका—संज्वलनक्रोधका अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्र
किसके होता है ॥७४॥

समाधान—जो गुणितकर्मांशिक जीव संज्वलनक्रोधको क्षपण करते हुए क्रोधके
अन्तिम स्थितिकांडकके अन्तिम समयमें असंक्षोभकभावसे अवस्थित है, अर्थात् किसीका भी
संक्रमण नहीं कर रहा है, उस समय उसके संज्वलनक्रोधका अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा
उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्र होता है ॥७५॥

चूर्णिसू०—संज्वलनक्रोधका उदयकी अपेक्षा उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक भी उस ही जीवके
होता है । इसी प्रकारसे संज्वलनमानके उत्कृष्ट क्षीणस्थितिकको जानना चाहिए । विशेषता
केवल यह है कि वह जिस समय मानको क्षपण करते हुए मानके अन्तिम स्थितिकांडकके
अन्तिम समयमें असंक्षोभकभावसे अवस्थित है, उस समय उसके अपकर्षणादि चारोंकी ही
अपेक्षासे उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्र होता है । इसी प्रकार संज्वलनमायाके उत्कृष्ट क्षीण-
स्थितिक प्रदेशाग्रको जानना चाहिए । विशेषता केवल यह है कि वह जिस समय मायाको
क्षपण करते हुए मायाके अन्तिम स्थितिकांडकके अन्तिम समयमें असंक्षोभकभावसे अवस्थित

णवरि मायाद्विदिकंडयं चरिमसमयअसंलुहमाणयस्स तस्स चत्तारि वि उक्कस्सयाणि श्लीणाद्विदियाणि ।

७९. लोहसंजलणस्स उक्कस्सयमोकड्डणादितिण्हं पि श्लीणाद्विदियं कस्स ? ८०. गुणिदकम्मंसियस्स सव्वसंतकम्ममावलियं पविरसमाणयं पविट्ठं ताधे उक्कस्सयं तिण्हं पि श्लीणाद्विदियं । ८१. उक्कस्सयमुदयादो भीणाद्विदियं कस्स ? ८२. चरिमसमयसकसायखवगस्स ।

८३. इत्थिवेदस्स उक्कस्सयमोकड्डणादिचउण्हं पि श्लीणाद्विदियं कस्स ? ८४. इत्थिवेदपूरिदकम्मंसियस्स आवलियचरिमसमयअसंलुहयस्स तिण्णि वि श्लीणाद्विदियाणि उक्कस्सयाणि । ८५. उक्कस्सयमुदयादो श्लीणाद्विदियं चरिमसमयइत्थिवेदकखवयस्स ।

८६. पुरिसवेदस्स उक्कस्सयमोकड्डणादिचउण्हं पि श्लीणाद्विदियं कस्स ? ८७.

है, उस समय उसके अपकर्षणादि चारोकी ही अपेक्षा संज्वलनमायाका उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेशाय होता है ॥ ७६-७८ ॥

शंका—संज्वलनलोभका अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेशाय किसके होता है ? ॥ ७९ ॥

समाधान—जिस गुणितकर्माशिक जीवने संज्वलनलोभके प्रविश्यमान सर्व सत्कर्मको जिस समय उदयावलीमे प्रविष्ट कर दिया, उस समय उसके अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा संज्वलनलोभका उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेशाय होता है ॥ ८० ॥

शंका—उदयकी अपेक्षा संज्वलनलोभका उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेशाय किसके होता है ? ॥ ८१ ॥

समाधान—चरमसमयवर्ती सकषाय क्षपकके होता है ॥ ८२ ॥

शंका—स्त्रीवेदका अपकर्षणादि चारोकी अपेक्षा उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेशाय किसके होता है ? ॥ ८३ ॥

समाधान—गुणितकर्माशिकरूपसे आकर जो जीव स्त्रीवेदको पूरण कर रहा है, और एक समय कम आवलीके अन्तिम समयमे असंश्लोभकभावसे अवस्थित है, उसके अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा स्त्रीवेदका उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेशाय होता है । किन्तु उदयकी अपेक्षा स्त्रीवेदका उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेशाय उस चरमसमयवर्ती स्त्रीवेदी क्षपकके होता है, जो कि एक समय कम आवलीमात्र स्थितियोंको गला करके अवस्थित है और उसके जिस समय प्रथमस्थितिका चरम निपेक उदयको प्राप्त हुआ है, उस समय उसके स्त्रीवेदका उदयकी अपेक्षा उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेशाय होता है ॥ ८४-८५ ॥

शंका—पुरुषवेदका अपकर्षणादि चारोकी अपेक्षा उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेशाय किसके होता है ? ॥ ८६ ॥

गुणितकर्मसियस्स पुरिसवेदं खवेमाणयस्स आवलियचरिमसमय-असंछोहयस्स तस्स उक्कस्सयं तिण्हं पि झीणट्टिदियं । ८८. उक्कस्सयमुदयादो झीणट्टिदियं चरिमसमय-पुरिसवेदयरस ।

८९. णवुंसयवेदयस्स उक्कस्सयं तिण्हं पि झीणट्टिदियं कस्स ? ९०. गुणित-कर्मसियस्स-णवुंसयवेदेण उवट्टिदस्स खवयस्स णवुंसयवेद-आवलियचरिमसंमयअसं-छोहयस्स तिण्णि वि झीणट्टिदियाणि उक्कस्सयाणि । ९१. उक्कस्सयमुदयादो झीणट्टिदियं तस्सेव ।

९२. छण्णोकसायाणमुक्कस्सयाणि तिण्णि वि झीणट्टिदियाणि कस्स ? ९३. गुणितकर्मसिएण खवएण जाधे अंतरं कीरमाणं कदं, तेसिं चेव कम्मसाणमुदयावलि-याओ उदयवज्जाओ पुण्णाओ ताधे उक्कस्सयाणि तिण्णि वि झीणट्टिदियाणि ९४. तेसिं चेव उक्कस्सयमुदयादो झीणट्टिदियं कस्स ? ९५. गुणितकर्मसियस्स खवयस्स चरिम-

समाधान—जो गुणितकर्माशिक जीव पुरुषवेदका क्षय करता हुआ आवलीके चरम समयमे असंक्षोभकभावसे अवस्थित है, उसके अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा पुरुषवेदका उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्र होता है । किन्तु उदयकी अपेक्षा चरमसमयवर्ती पुरुषवेदी क्षपकके पुरुषवेदका उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्र होता है ॥८७-८८॥

शंका—नपुंसकवेदका अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्र किसके होता है ॥८९॥

समाधान—जो गुणितकर्माशिक जीव नपुंसकवेदके उदयके साथ श्रेणीपर चढ़ा है और नपुंसकवेदको क्षय करते हुए आवलीके चरमसमयमे असंक्षोभकभावसे अवस्थित है, ऐसे क्षपकके अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा नपुंसकवेदका उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्र होता है । उसी ही चरमसमयवर्ती नपुंसकवेदी क्षपकके उदयकी अपेक्षा नपुंसकवेदका उत्कृष्ट क्षीण-स्थितिक प्रदेशाग्र होता है ॥९०-९१॥

शंका—हास्यादि छह नोकपायोका अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट क्षीण-स्थितिक प्रदेशाग्र किसके होता है ॥९२॥

समाधान—गुणितकर्माशिकरूपसे आये हुए क्षपकने जिस समय छहो नोकपायोके क्रियमाण अन्तरको कर दिया और उन्हीं कर्माशोकी उदय-समयको छोड़कर उदयावलियोंको पूर्ण किया, उस समय हास्यादि छह नोकपायोका अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट क्षीण-स्थितिक प्रदेशाग्र होता है ॥९३॥

शंका—उन्हीं हास्यादि छह नोकपायोका उदयकी अपेक्षा उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्र किसके होता है ? ॥९४॥

समाधान—गुणितकर्माशिक और अपूर्वकरणके चरम समयमे वर्तमान क्षपकके उदयकी अपेक्षा हास्यादि छह नोकपायोका उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्र होता है । केवल

समयअपुव्वकरणे वट्टमाणयस्स । ९६. णवरि हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं जइ कीरइ, भय-
दुगुंछाणमवेदगो कायव्वो । जइ भयस्स, तदो दुगुंछाए अवेदगो कायव्वो । अह दुगुं-
छाए, तदो भयस्स अवेदगो कायव्वो । ९७. उक्कस्सयं सामित्तं समत्तमोघेण ।

९८. एत्तो जहण्णयं सामित्तं वत्तइस्सामो । ९९. मिच्छत्तस्स जहण्णयमोकड्ड-
णादो उक्कड्डणादो संक्रमणादो च झीणट्ठिदियं कस्स ? १००. उव्वसामथो छसु आव-
लियासु सेसासु आसाणं गओ तस्स पढमसमयमिच्छाइट्ठिस्स जहण्णयमोकड्डणादो उक्क-
ड्डणादो संक्रमणादो च झीणट्ठिदियं । १०१. उदयादो जहण्णयं झीणट्ठिदियं तस्सेव
आवलियमिच्छादिट्ठिस्स ?

१०२. सम्मत्तस्म जहण्णयमोकड्डणादितिहं पि झीणट्ठिदियं कस्स ? १०३.
उव्वसमसम्मत्तपच्छायदस्स पढमसमयवेदयसम्माइट्ठिस्स ओकड्डणादो उक्कड्डणादो संक-

इतना भेद है कि यदि वह हास्य-रति और अरति-शोकका क्षपण कर रहा है, तो उस समय वह भय और जुगुप्साका अवेदक है । यदि भयका क्षपण कर रहा है, तो उस समय वह जुगुप्साका अवेदक है और यदि वह जुगुप्साका क्षपण कर रहा है, तो भयका अवेदक होता है । इस प्रकारसे उनके उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्रकी प्ररूपणा करना चाहिए ॥९५-९६॥

चूर्णिसू०—इस प्रकार ओघकी अपेक्षा उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्रके स्वामित्वका निरूपण समाप्त हुआ ॥९७॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे अपकर्षणादि चारोकी अपेक्षा क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्रके जघन्य स्वामित्वको कहेंगे ॥९८॥

शंका—मिथ्यात्वका अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणकी अपेक्षा जघन्य क्षीण-
स्थितिक प्रदेशाग्र किसके होता है ॥९९॥

समाधान—जो दर्शनमोहनीयकर्मका उपशमन करनेवाला उपशमसम्यग्दृष्टि जीव उपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आवलियोंके शेष रहनेपर सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुआ, (और वहाँपर अनन्तानुबन्धीकपायके तीव्र उदयसे प्रतिसमय अनन्तगुणित संक्लेशकी वृद्धिके साथ सासादनगुणस्थानका काल समाप्त करके मिथ्यात्वगुणस्थानको प्राप्त हुआ,) उस प्रथमसमयवर्ती मिथ्यादृष्टिके अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणकी अपेक्षा मिथ्यात्वका जघन्य क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्र होता है । इसी उपर्युक्त जीवके जब मिथ्यात्वगुणस्थानमें प्रवेश करनेके पश्चात् एक आवलीकाल बीत जाता है, तब उस आवलिक-मिथ्यादृष्टिके उदयकी अपेक्षा मिथ्यात्वका जघन्य क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्र होता है ॥१००-१०१॥

शंका—सम्यक्त्वप्रकृतिका अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा जघन्य क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्र किसके होता है ? ॥१०२॥

समाधान—उपशमसम्यक्त्वको पीछे किया है जिसने ऐसे, अर्थात् उपशमसम्यक्त्वके पश्चात् वेदकसम्यक्त्वको ग्रहण करनेवाले ऐसे प्रथमसमयवर्ती वेदकसम्यग्दृष्टिके अप-

मणादो च क्षीणद्विदियं । १०४. तस्सेव आवलियवेद्यसम्माइट्टिस्स जहण्णयमुदयादो क्षीणद्विदियं ।

१०५. एवं सम्मामिच्छत्तस्स । १०६. णवरि पढमसमयसम्मामिच्छाइट्टिस्स आवलियसम्मामिच्छाइट्टिस्स चेदि* । १०७. अहुकसाय-चउसंजलण-पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दुगुंछाणं जहण्णयमोकड्डणादो उक्कड्डणादो संक्रमणादो च क्षीणद्विदियं कस्स ? १०८. उवसंतकसाओ मदो देवो जादो तस्स पढमसमयदेवस्स जहण्णयमोकड्डणादो संक्रमणादो च क्षीणद्विदियं । १०९. तस्सेव आवलियउववण्णस्स जहण्णयमुदयादो क्षीण-द्विदियं ।

११०. अणंताणुवंधीणं जहण्णयमोकड्डणादो उक्कड्डणादो संक्रमणादो च क्षीण-द्विदियं करस्स ? १११. सुहुमणिओएसु कम्मद्विदिमणुपालियूण संजमासंजमं भंजमं च

कर्पणसे, उत्कर्पणसे और संक्रमणसे सम्यक्त्वप्रकृतिका जघन्य क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्र होता है । जिसे एक आवलीकाल वेदकसम्यक्त्वको धारण किये हुए हो गया है, ऐसे उसी वेदक-सम्यग्दृष्टि जीवके उदयकी अपेक्षा सम्यक्त्वप्रकृतिका जघन्य क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्र होता है ॥१०३-१०४॥

चूर्णिसू०—इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिके अपकर्पणादि चारोकी अपेक्षासे क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्रका जघन्य स्वामित्व जानना चाहिए । केवल इतनी विशेषता है कि प्रथमसमयवर्ती सम्यग्मिथ्यादृष्टिके अपकर्पणादि तीनकी अपेक्षा जघन्य स्वामित्व होता है, और एक आवली वित्त देनेवाले सम्यग्मिथ्यादृष्टिके उदयकी अपेक्षा जघन्य स्वामित्व होता है ॥१०५-१०६॥

शंका—आठ मध्यमकपाय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय और जुगुप्साका अपकर्पण, उत्कर्पण और संक्रमणकी अपेक्षा जघन्य क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्र किसके होता है ॥१०७॥

समाधान—जो उपशान्तकपाय-वीतरागलब्धस्थ संयत मरकर देव हुआ, उस प्रथम-समयवर्ती देवके अपकर्पण, उत्कर्पण और संक्रमणकी अपेक्षा उपर्युक्त प्रकृतियोंका जघन्य क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्र होता है । उसी देवके जब उत्पन्न होनेके अनन्तर एक आवलीकाल वीत जाता है, तब उसके उदयकी अपेक्षा उन्हीं प्रकृतियोंके क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्रका जघन्य स्वामित्व होता है ॥१०८-१०९॥

शंका—अनन्तानुवन्धीकपायोका अपकर्पण, उत्कर्पण और संक्रमणकी अपेक्षा जघन्य क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्र किसके होता है ? ॥११०॥

समाधान—जिसने सूक्ष्मनिगादिया जीवोमे कर्मस्थितिकाल-प्रमाण रहकर और

ताम्रपत्रवाली प्रतिमें इस सूत्रको टोकामें सम्मिलित कर दिया है । पर इसके सूत्रत्वकी पुष्टि ताडपत्रीय प्रतिसे हुई है । (देखो पृ० १०५ पक्ति ७)

बहुसो लभिदाउओ चत्तारि वारे कसाए उवसामेवृण तदो अणंताणुवंधी विसंजोएऊणः संजोइदो । तदो वे छावड्डिसागरोवमाणि सम्मत्तमणुपालेवृण तदो मिच्छत्तं गदो तस्स पहमसमयमिच्छाइड्डिस्स जहण्णयं तिण्हं पि झीणड्डिदियं । ११२. तस्सेव आवलिय-समयमिच्छाइड्डिस्स जहण्णयमुदयादो झीणड्डिदियं ।

११३. णवुंसयवेदस्स जहण्णयमोकडुणादितिण्हं पि झीणड्डिदियं कस्स ? ११४. अभवसिद्धियपाओग्गेण जहण्णएण कम्मएण तिपलिदोवमिएसु उववण्णो । तदो अंतो-मुहुत्तसेसे सम्मत्तं लद्धं, वे छावड्डिसागरोवमाणि सम्मत्तमणुपालिदं, संजमासंजमं संजमं च बहुसो^१ गदो । चत्तारि वारे कसाए उवसामित्ता अपच्छिमे भवे पुव्वकोडिआउओ मणुस्सो जादो । तदो देसणपुव्वकोडिसंजममणुपालियुण अंतोमुहुत्तसेसे परिणामपच्च-एण असंजमं गदो । ताव असंजदो जाव गुणसेही णिग्गलिदा त्ति । तदो संजमं पडि-वज्जियुण अंतोमुहुत्तेण कम्मकखयं काहिदि त्ति तस्स पहमसमयसंजमं पडिवण्णस्स जह-ण्णयं तिण्हं पि झीणड्डिदियं । ११५. इत्थिवेदस्स वि जहण्णयाणि तिण्णिवि झीणड्डि-

वहाँसे निकल करके संयमासंयम और संयमको बहुत वार प्राप्त किया, तथा चार वार कपायोका उपशमनकर तदनन्तर अनन्तानुवन्धीका विसंयोजनकर और पुनः अन्तर्मुहूर्तके पश्चात् ही उसका संयोजन किया । तदनन्तर दो वार छयासठ सागरोपमकाल तक सम्यक्त्वको परिपालन कर पुनः मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ, उस प्रथमसमयवर्ती मिथ्यादृष्टिके अनन्तानुवन्धी कपायोका अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा जघन्य क्षीणस्थितिक प्रदेगाग्र होता है । उस ही जीवके मिथ्यादृष्टि होनेके एक आवलीकालके अन्तिम समयमें अनन्तानुवन्धीकपायोका उदयकी अपेक्षा जघन्य क्षीणस्थितिक प्रदेगाग्र होता है ॥ १११-११२ ॥

शंका—नपुंसकवेदका अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा जघन्य क्षीणस्थितिक प्रदेगाग्र किसके होता है ? ॥ ११३ ॥

समाधान—जो असम्यसिद्धिकोके योग्य जघन्य सत्कर्मके द्वारा तीन पल्योपमवाले भोगभूमियों जीवोंमें उत्पन्न हुआ । तत्पश्चात् जीवनके अन्तर्मुहूर्त शेष रह जानेपर सम्यक्त्वको प्राप्त किया और दो वार छयासठ सागरोपमकाल तक सम्यक्त्वका अनुपालन किया, तथा संयमासंयम और संयमको बहुत वार धारण किया । चार वार कपायोका उपशमनकर अन्तिम भवमें पूर्वकोटी चर्पकी आयुका धारक मनुष्य—हुआ । तदनन्तर देशोन पूर्वकोटीकालप्रमाण संयमका परिपालनकर आयुके अन्तर्मुहूर्त शेष रह जानेपर परिणामोके निमित्तसे असंयमको प्राप्त हुआ और गुणश्रेणीके पूर्णरूपसे गलित होने तक असंयत रहा । तत्पश्चात् संयमको प्राप्त होकर अन्तर्मुहूर्तसे जो कर्मोंका क्षय करेगा, उस प्रथम समयमें संयमको प्राप्त हुए जीवके

^२ ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'विसंजोएऊण' के स्थानपर 'विसेजोएडु' ऐसा पाठ मुद्रित है, जो कि टीका और अर्थ के अनुसार अशुद्ध है । (देखो पृ० १०७)

^१ ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'बहुसो' पद नहीं है । (देखो पृ० १०९) ।

दियाणि एदस्स चैव, तिपलिदोवमिएसु णो उववण्णयस्स कायव्वाणि ।

११६. णवुंसयवेदस्स जहण्णयमुदयादो क्षीणट्टिदियं कस्स ? ११७. सुहुम-
णिगोदेसु कम्मट्टिदिमणुपालियूण तसेसु आगदो, संजमासंजमं संजमं सम्पत्तं च बहुसो
गथो, चत्तारि वारे कसाए उवसामित्ता तदो एइंदिए गदो । पलिदोवमस्सासंखेज्जदि-
भागमच्छिदो ताव, जाव उवसामयसमयपवद्धा णिग्गलिदा त्ति । तदो पुणो मणुस्सेसु
आगदो पुव्वसोडी देसणं संजममणुपालियूण अंतोमुहुत्तसेसे मिच्छत्तं गदो दसवस्ससह-
स्सिएसु देवेषु उववण्णो । अंतोमुहुत्तमुववण्णेण सम्पत्तं लद्धं, अंतोमुहुत्तावसेसे जीवि-
दव्वए त्ति मिच्छत्तं गदो । तदो* वि ओकड्डिदाओ [विकड्डिदाओ] ट्टिदीओ
तप्पाओग्गसव्वरहस्साए मिच्छत्तद्धाए एइंदिएसुववण्णो । तत्थ वि तप्पाओग्गउकस्सयं
संक्खिलेसं गदो । तस्स पढमसमयएइंदियस्स जहण्णयमुदयादो क्षीणट्टिदियं ।

११८. इत्थिवेदस्स जहण्णयमुदयादो क्षीणट्टिदियं कस्स ? ११९. एसो चैव

नपुंसकवेदका अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा जघन्य क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्र होता है । स्त्रीवेदका
अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा जघन्य क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्र भी इसी उपर्युक्त जीवके होता
है । भेद केवल यह है कि इसे तीन पल्योपमकी आयुवाले जीवोंमें नहीं उत्पन्न कराना
चाहिए ॥ ११४-११५ ॥

शंका—नपुंसकवेदका उदयकी अपेक्षा क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्र किसके होता
है ? ॥ ११६ ॥

समाधान—जो जीव सूक्ष्म निगोदिया जीवोंमें कर्मस्थितिकाल तक रह करके
त्रसोंमें आया और संयमासंयम, संयम तथा सम्यक्त्वको बहुत वार प्राप्त किया । चार वार
कपायोका उपगमनकर तदनन्तर एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ । पल्योपमके असंख्यातवे भाग काल
तक वहाँ रहा, जब तक कि उपगामकसम्बन्धी समयप्रवृद्ध पूर्णरूपसे गलित हो गये । तदनन्तर
वह मनुष्योंमें आया और देशोन पूर्वकोटीकाल तक संयमको परिपालनकर आयुके अन्तर्मुहूर्त
शेष रह जानेपर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ और मरकर दश हजार वर्षकी आयुवाले देवोंमें उत्पन्न
हुआ । उत्पन्न होनेके अन्तर्मुहूर्त पञ्चात् सम्यक्त्वको प्राप्त किया और जीवितव्यके अन्तर्मुहूर्त
शेष रह जानेपर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ । तत्पश्चात् वहाँपर पूर्ववद्ध और सत्तामें स्थित
सर्व कर्मोंकी स्थितियोंका उत्कर्षण कर और उन्हें अतिदूर निक्षिप्त करके तत्प्रायोग्य अर्थात्
एकेन्द्रियोंमें उत्पत्तिके योग्य सर्वह्रस्व मिथ्यात्वकालके रह जानेपर एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ ।
वहाँपर भी तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त हुआ । उस प्रथमसमयवर्ती एकेन्द्रिय जीवके
नपुंसकवेदका उदयकी अपेक्षा जघन्य क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्र होता है ॥ ११७ ॥

शंका—स्त्रीवेदका उदयकी अपेक्षा जघन्य क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्र किसके होता
है ? ॥ ११८ ॥

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'तदो' पद नहीं है । (देखो पृ० ९११) ।

णवसयवेदस्स पुव्वपरुविदो जाधे अपच्छिमणुस्सभवग्गहणं पुव्वकोडी देसणं संजममणु-
पालिदूण अंतोमुहुत्तसेसे मिच्छत्तं गथो । तदो वंमाणियदेवीसु उववण्णो, अंतोमुहुत्तद्व-
सुववण्णो उक्कस्ससंकिलेसं गदो । तदो विकट्टिदाआं द्विदीआं उक्कट्टिदा कम्ममा जाधे
तदो अंतोमुहुत्तद्वसुक्कस्सइत्थिवेदस्स द्विदिं वंधिवूण पडिमग्गो जादो, आवलियपडि-
मग्गाए तिससे देवीए इत्थिवेदस्स उदयादो जहण्णयं झीणद्विदियं ।

१२०. अरदि-सोगाणमोकहुणादितिगहीणद्विदियं जहण्णयं कस्स ? १२१.
एइंदियकस्सेण जहण्णएण तसेसु आगदो, संजमामंजमं गंजमं च बहुमो लद्धूण तिणिण
वारे कसाए उवसामेयूण एइंदिए गदो । तत्थ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमच्छियूण
जाव उवसामयसमयपवद्धा गलति तदो मणुस्सेसु आगदो । तत्थ* पुव्वकोडी देसणं संजम-
मणुपालियूण कसाए उवसामेयूण उवसंतकसाओ कालगदो देवां तेत्तीससागरोवमिओ
जादो । ताधे चेय हस्स-रईओ ओकट्टिदाओ उदयादिणिक्खित्ताओ अरदि-सोगा ओक-
ट्टिता उदयावलियनाहिरे णिक्खित्ता, से काले दुसमयदेवस्स एया द्विदी अरइ-सोगाण-

समाधान—इसी नपुंसकवेदकी प्ररूपणामे पूर्व प्ररूपित जीवने जिस समय अपश्चिम
मनुष्य भवको ग्रहण किया और देशोन पूर्वकोटीकाल तक संयमका परिपालनकर जीवनके
अन्तर्मुहूर्त शेष रह जानेपर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ और मरणकर विमानवासी देवियोंमे
उत्पन्न हुआ । उत्पन्न होनेके अन्तर्मुहूर्त पश्चान् ही, अर्थात् पर्याप्त होकर उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त
हुआ । उस संक्लेशसे जब सर्व कर्मोंके अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण स्थितिवन्धसे भी दूर तककी
स्थितियोंको बढ़ाया और उनके कर्मप्रदेशोंका भी उत्कर्षण किया, तब उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त काल
तक स्त्रीवेदकी पन्द्रह कोड़ाकोडी सागरोपमप्रमाण उत्कृष्ट स्थितिको बाँध करके संक्लेशसे
प्रतिभन्न अर्थात् प्रतिनिवृत्त हुआ । संक्लेशसे प्रतिनिवृत्त होनेके एक आवलीकाल बीतनेपर
उस देवीके स्त्रीवेदका उदयकी अपेक्षा जघन्य क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्र होता है ॥११९॥

गंका—अरति और शोकप्रकृतिका अपकर्षणादि तीनकी अपेक्षा जघन्य क्षीण-
स्थितिक प्रदेशाग्र किसके होता है ? ॥१२०॥

समाधान—जो जीव जघन्य एकेन्द्रियकर्मसे अर्थात् अभव्यसिद्धोंके योग्य जघन्य
सत्कर्मके साथ एकेन्द्रियोसे आकर त्रस जीवोमे उत्पन्न हुआ । वहाँपर संयमासंयम और
संयमको बहुत बार प्राप्तकर तथा तीन बार कपायोंका उपशमनकर पुनः एकेन्द्रियोमे उत्पन्न
हुआ । वहाँपर पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाणकाल तक रहा, जबतक कि उपशामक-
समयप्रवद्ध गलते है । उसके पश्चात् मनुष्योमे आया । वहाँपर देशोन पूर्वकोटीकाल तक
संयमका परिपालनकर और कपायोंका उपशमन करके उपशान्तकपायवीतरागद्वयस्थ होकर
और मरणको करके तेतीस सागरोपमकी स्थितिका धारक अहमिन्द्रदेव हुआ । उस ही समय
हास्य और रति प्रकृतियोंका अपकर्षणकर उदयावलीमे निक्षिप्त किया और अरति-शोकका

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमे 'तत्थ' पद नहीं है । (देखो पृ० ११५) ।

मुदयावलयं पविष्टा, ताथे अरदि-सोगाणं जहणयं तिण्हं पि झीणट्टिदियं ।

१२२. अरड-सोगाणं जहणयमुदयादो झीणट्टिदियं कस्स ? १२३. एइंदिय-कम्मेण जहणएण तमेसु आगदो । तत्थ संजमासंजमं संजमं च बहुसो गदो । चत्तारि वारं कसायमुवसामिदा । तदो एइंदिए गदो । तत्थ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभाग-मच्छिदो जाव उवसायसमयपवद्धा णिग्गलिदा त्ति । तदो मणुस्सेसु आगदो । तत्थ पुव्वकोडी देसूणं संजमणुपालियूण अपडिअदिदेण सम्मत्तेण वेमाणिएसु देवेषु उव-वण्णो । अंतोमुहुत्तमुववण्णो उक्कस्ससंक्किलेसं गदो, अंतोमुहुत्तमुक्कस्सट्टिदिं वंधियूण पडि-भग्गो जादो । तस्सा आवलियपडिभग्गस्स भय-दुग्गुंछाणं वेदयमाणस्स अरदि-सोगाणं जहणयमुदयादो झीणट्टिदियं ।

१२४. एवमाघेण सव्वमोहणीयपयडीणं जहणमोक्कड्डणादिझीणट्टिदियसामित्तं परूविदं ।

१२५. अप्पावहुअं । १२६. सव्वत्थोवं मिच्छत्तस्स उक्कस्सयमुदयादो झीण-ट्टिदियं । १२७. उक्कस्सयाणि ओक्कड्डणादो उक्कड्डणादो संक्रमणादो च झीणट्टिदि-

अपकर्षणकर उदयावलीके बाहिर निक्षेपण किया । तदनन्तर समयमें उस द्विसमयवर्ती देवके अरति-शोककी एक स्थिति उदयावलीमें प्रविष्ट हुई । उस समय उस देवके अरति-शोकका अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा जघन्य क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्र होता है ॥१२१॥

शंका—अरति-शोकका उदयकी अपेक्षा जघन्य क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्र किसके होता है ? ॥१२२॥

समाधान—जो जीव जघन्य एकेन्द्रियसत्कर्मके साथ त्रसोमे आया और वहाँपर संयमासंयम तथा संयमको बहुत बार प्राप्त हुआ । चार बार कपायोका उपशमन किया । तदनन्तर एकेन्द्रियोमें चला गया । वहाँपर पल्योपमके असंख्यातवे भागकाल तक रहा, जबतक कि उपशामक-समयप्रवद्ध पूर्णरूपमें गल जाते हैं । तदनन्तर वह मनुष्योमें आया । वहाँपर देशोन पूर्वकोटी तक संयमका परिपालनकर अप्रतिपतित सम्यक्त्वके साथ ही वैमानिक देवोमें उत्पन्न हुआ । उत्पन्न होनेके अन्तर्मुहूर्त पञ्चात्, अर्थात् पर्याप्तक होनेपर उत्कृष्ट संक्लेगको प्राप्त हुआ और अन्तर्मुहूर्त तक अरति-शोककी उत्कृष्ट स्थितिको बाँधकर संक्लेगसे प्रतिनिवृत्त हुआ । उस आवलिक-प्रतिभग्नके अर्थात् जिसे संक्लेगसे प्रतिनिवृत्त हुए एक आवलीकाल व्यतीत हो गया है और जो भय तथा जुगुप्साका वेदन कर रहा है, ऐसे उस जीवके अरति और शोकका उदयकी अपेक्षा जघन्य क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्र होता है ॥१२३॥

चूर्णिमू०—इस प्रकार मोहनीयकर्मकी सर्व प्रकृतियोंके अपकर्षणादि-सम्बन्धी जघन्य क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्रके स्वामित्वका निरूपण किया गया ॥१२४॥

अब क्षीण-अक्षीणस्थितिक प्रदेशाग्रोंका अल्पवृहत्त्व कहते हैं—मिथ्यात्वका उदयकी अपेक्षा उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्र सबसे कम है । अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणकी अपेक्षा मिथ्यात्वके उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्र तीनों परस्पर तुल्य होते हुए भी उपर्युक्त पदसे

याणि तिण्णि वि तुल्लाणि असंखेज्जगुणाणि । १२८. एवं सम्पामिच्छत्त-पण्णारसकसाय-
छण्णोकसायाणं । १२९. सम्मत्तस्स सच्चत्थोवमुक्कस्मयमुदयादो शीणद्धिदियं । १३०.
सेसाणि तिण्णि वि शीणद्धिदियाणि उक्कस्सयाणि तुल्लाणि विसेसाहियाणि । २३१. एवं
लोभसंजलण-तिण्णि वेदाणं ।

१३२. एत्तो जहण्णयं शीणद्धिदियं । १३३. मिच्छत्तरम नच्चत्थोवं जहण्णय-
मुदयादो शीणद्धिदियं । १३४. सेसाणि तिण्णि वि शीणद्धिदियाणि तुल्लाणि असंखेज्ज-
गुणाणि । १३५. जहा मिच्छत्तरस जहण्णयमप्पावहुअं तहा जेसिं कम्मसाणमुदीरणो-
दओ^१ अत्थि तेसिं पि जहण्णयमप्पावहुअं । अणंताणुवंधि इत्थि-णवुंसयवेद-अरह-सोगा
त्ति एदे अट्ठकम्मसे मोत्तूण सेमाणमुदीरणोदयो । १३६. जेसिं ण उदीरणोदयो तेसिं
पि सो चैव आलायो अप्पावहुअस्स जहण्णयस्स । १३७. णवरि अरह-सोमाणं जहण्णय-
मुदयादो शीणद्धिदियं थोवं । १३८. सेसाणि तिण्णि वि शीणद्धिदियाणि तुल्लाणि
विसेसाहियाणि ।

असंख्यातगुणित है । इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्व, संज्वलनलोभको छोड़कर पन्द्रह कपाय
और हास्यादि छह नोकपायोका अल्पवहुत्व जानना चाहिए ॥ १२५-१२८ ॥

चूर्णिसू०—सम्यक्त्वप्रकृतिका उदयकी अपेक्षा उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्र सवसे
कम है । जेप तीनों ही उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्र परस्पर तुल्य और उपर्युक्त पदसे विशेष
अधिक है । इसी प्रकार संज्वलनलोभ और तीनों वेदोंके अपकर्षणादि चारों पदोंका अल्प-
वहुत्व जानना चाहिए ॥ १२९-१३१ ॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे जवन्य क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्र-सम्बन्धी अल्पवहुत्वको
कहेंगे :-मिथ्यात्वका उदयकी अपेक्षा जवन्य क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्र सवसे कम है । जेप तीनों
ही क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्र परस्पर तुल्य और उदयकी अपेक्षा असंख्यातगुणित है । जिस प्रकार
मिथ्यात्वका जवन्य क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्रसम्बन्धी अल्पवहुत्व कहा है, उसी प्रकारसे जिन
कर्मागोंका उदीरणोदय है, उनका भी जवन्य क्षीणस्थितिक-प्रदेशाग्र-सम्बन्धी अल्पवहुत्व जानना
चाहिए । अनन्तानुबन्धीकपायचतुष्क, खीवेद, नपुंसकवेद, अरति और शोक इन आठ कर्म-
प्रकृतियोंको छोड़कर जेप मोह-प्रकृतियोंका उदीरणोदय होता है । जिन प्रकृतियोंका उदीरणो-
दय नहीं होता है, उनके जवन्य अल्पवहुत्वका भी वही उपर्युक्त आलाप (कथन) करना
चाहिए । केवल इतनी विशेषता है कि अरति और शोकका उदयकी अपेक्षा जवन्य क्षीण-
स्थितिक प्रदेशाग्र परस्पर तुल्य और उदय-सम्बन्धी क्षीणस्थितिकप्रदेशाग्रसे विशेष अधिक है ।
॥ १३२-१३८ ॥

विशेषार्थ—जिन कर्म-परमाणुओंका उद्यावलीके भीतर अन्तरकरणके निमित्तसे

१ उदीरणाय चैव उदयो उदीरणोदओ त्ति, जेसिं कम्मसाणमुदयावलियवभंतरे अतरकरणेण अच्चं-
तमसताण कम्मपरमाणूण परिणामविसेसेणासखेज्जलोगपडिभागोणोदीरिदाणमणुहवो तेसिमुदीरणोदओ त्ति
एसो एत्थ भावत्थो । जयध०

१३९. अहवा इत्थि-णयुंसयवेदाणं जहणयाणि ओकड्डणादीणि तिण्णि वि
झीणट्टिदियाणि तुल्लाणि थोवाणि । १४०. उदयादो जहणयं झीणट्टिदियमसंखेज्ज-
गुणं । १४१. अरइ-सोसाणं जहणयाणि तिण्णि वि झीणट्टिदियाणि तुल्लाणि थोवाणि ।
१४२. जहणयमुदयादो झीणट्टिदियं विसेसाहियं ।

अत्यन्त अभाव है, उन कर्म-परमाणुओंकी परिणामविशेषके द्वारा उद्दीरणा करके जो उनका
वेदन होता है, उसे उद्दीरणोदय कहते हैं ।

चूर्णिसू०—अथवा स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके अपकर्षणादि तीनों ही जघन्य क्षीण-
स्थितिक प्रदेशाग्र परस्पर तुल्य और अल्प है । उन्हींका उदयकी अपेक्षा जघन्य क्षीण-
स्थितिक प्रदेशाग्र असंख्यातगुणित है । अरति और शोकके तीनों ही जघन्य क्षीणस्थितिक
प्रदेशाग्र परस्पर तुल्य और अल्प है । उन्हींके उदयकी अपेक्षा जघन्य क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्र
विशेष अधिक है ॥ १३९-१४२ ॥

विशेषार्थ—इस क्षीणाक्षीण-प्रदेशसम्बन्धी अल्पवहुत्वके अन्तमे जयधवलकारने
सर्व अधिकारोमे साधारणरूपसे उपयुक्त एक अल्पवहुत्वदंडक भी मध्यदीपकरूपसे लिखा
है, जो इस प्रकार है:—सर्वसंक्रमणभागहार सबसे कम है । इससे गुणसंक्रमणभागहार
असंख्यातगुणा है । गुणसंक्रमणभागहारसे उत्कर्षणापकर्षणभागहार असंख्यातगुणा है ।
उत्कर्षणापकर्षणभागहारसे अधःप्रवृत्तभागहार असंख्यातगुणा है । अधःप्रवृत्तभागहारसे
योगगुणाकार असंख्यातगुणा है । योगगुणाकारसे कर्मस्थिति-सम्बन्धी नानागुणहानि-
शलाकाएँ असंख्यातगुणी है । कर्मस्थिति-सम्बन्धी नानागुणहानिशलाकाओसे पल्योपमके
अर्धच्छेद विशेष अधिक हैं । पल्योपमके अर्धच्छेदोसे पल्योपमका प्रथम वर्गमूल असंख्यात-
गुणा है । पल्योपमके प्रथम वर्गमूलसे एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है । एक
प्रदेशगुणहानिस्थानान्तरसे द्व्यर्धगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक है । द्व्यर्धगुणहानि-
स्थानान्तरसे निपेकभागहार विशेष अधिक है । निपेकभागहारसे अन्योन्याभ्यस्तराशि असं-
ख्यातगुणी है । अन्योन्याभ्यस्तराशिसे पल्योपम असंख्यातगुणा है । पल्योपमसे विध्यात-
संक्रमणभागहार असंख्यातगुणा है । विध्यातसंक्रमणभागहारसे उद्वेलनभागहार असंख्यातगुणा

१ सपहि एशुद्वेसे सव्वेसि अत्थाहियाराण माहारणभूदमप्पावहुआदडय मज्झदीवयभावेण परुव-
इस्सामो । स जहा-सव्वद्वोवो सव्वसकमभागहारो । गुणसकमभागहारो असखेज्जगुणो । ओकड्डुक्कड्डुण-
भागहारो असखेज्जगुणो । अधापवत्तभागहारो असखेज्जगुणो । जोगगुणगारो असखेज्जगुणो । कम्मट्टिदिणा-
णागुणहाणिसलागाओ असखेज्जगुणाओ । पल्लिदोवमस्स छेदणया विसेसाहिया । पल्लिदोवमपढमवग्गमूल
असखेज्जगुण । एगपदेसगुणहाणिट्टाणतरमसखेज्जगुण । दिवड्डहगुणहाणिट्टाणतर विसेसाहिय । णिसेयभागहारो
विसेसोहिओ । अण्णोण्णव्भत्थरासी असखेज्जगुणो । पल्लिदोवमसखेज्जगुण । विज्जादसकमभागहारो
असखेज्जगुणो । उव्वेहणभागहारो असखेज्जगुणो । अणुभागवग्गणाण णाणापदेसगुणहाणिसलागाओ अणत-
गुणाओ । एगपदेसगुणहाणिट्टाणतरमणतगुण । दिवड्डहगुणहाणिट्टाणतर विसेसाहिय । णिसेयभागहारो
विसेसाहियो । अण्णोण्णव्भत्थरासी अणतगुणो त्ति । जयव०

एवमप्यत्रहुए समत्ते झीणमझीणं ति पदं समत्तं होदि ।

झीणाश्रीणाहियारो समत्तो ।

है । उद्वेलनभागहारने अनुभागवर्गणाओंकी नानाप्रदेशगुणहानिजलाजए अनन्तगुणी हैं । उनमें इन्हींका एक प्रदेशगुणहानिस्थानान्तर अनन्तगुणा हैं । उसमें अनुभागवर्गणाओंका दृश्यगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक है । उनमें अनुभागवर्गणाओंका निपेकभागहार विशेष अधिक है । अनुभागवर्गणाओंके निपेकभागहारने उनकी अन्योन्याभ्यन्तगति अनन्तगुणी हैं ।

इस प्रकार अल्पबहुत्वके समाप्त होनेपर चौथी सूत्रगाथाके 'झीणमझीणं' इस पदकी विभाषा समाप्त हुई ।

इस प्रकार श्रीणाश्रीणाधिकार समाप्त हुआ ।

ठिदियं ति अहियारो

१. ठिदियं^१ ति जं पदं तस्स विहासा । २. तत्थ तिण्णि अणियोगहाराणि ।
तं जहा—समुक्कित्तणा सामित्तमप्पावहुअं च । ३. समुक्कित्तणाए अत्थि उक्कस्सयट्ठिदि-
पत्तयं णिसेयट्ठिदिपत्तयं अधाणिसेयट्ठिदिपत्तयं उदयट्ठिदिपत्तयं च । ४. उक्कस्सयट्ठिदि-
पत्तयं णाम किं ? ५. जं कम्मं वंघसमयादो कम्मट्ठिदीए उदए दीसइ तमुक्कस्सयट्ठिदि-

स्थितिक-अधिकार

चूर्णिसू०—अब चौथी मूलगाथाके 'ट्टिदियं वा' इस अन्तिम पदकी विभाषा की जाती है । इस स्थितिक-अधिकारमे तीन अनुयोगद्वार है । वे इस प्रकार है—समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पवहुत्व । समुत्कीर्तनाकी अपेक्षा चार प्रकारका प्रदेशाग्र होता है—उत्कृष्टस्थितिप्राप्तक, निपेकस्थितिप्राप्तक, यथानिपेकस्थितिप्राप्तक और उदयस्थितिप्राप्तक ॥ १-३ ॥

विशेषार्थ—अनेक प्रकारकी स्थितियोंको प्राप्त होनेवाले प्रदेशाग्रो अर्थात् कर्म-परमाणुओको स्थितिक या स्थिति-प्राप्तक कहते हैं । ये स्थिति-प्राप्त प्रदेशाग्र उत्कृष्टस्थिति, निपेकस्थिति, यथानिपेकस्थिति और उदयस्थितिभेदसे चार प्रकारके होते हैं । जिस विवक्षित कर्मकी जितनी उत्कृष्ट स्थिति है, उतनी स्थिति-प्रमाण वंघनेवाला जो कर्म-प्रदेशाग्र वंघनेके समयसे लेकर अपनी उत्कृष्ट कर्मस्थितिमात्र काल तक आत्माके साथ रहकर अपनी कर्म-स्थितिके अन्तिम समयमे उदयको प्राप्त हो, उसे उत्कृष्टस्थितिप्राप्त प्रदेशाग्र कहते हैं, क्योंकि वह अपनी उत्कृष्ट स्थितिको प्राप्त होकर उदयमे वर्तमान है । जो कर्म-प्रदेशाग्र वंघकालमे जिस स्थितिमे निपिक्त किया गया, वह अपकर्षण या उत्कर्षणको प्राप्त होकर भी उस ही स्थितिमे होकर उदयकालमे दृष्टि-गोचर हो, उसे निपेकस्थितिप्राप्त प्रदेशाग्र कहते हैं । जो कर्म-प्रदेशाग्र वन्धकालमे जिस स्थितिमे निपिक्त किया गया, वह अपकर्षण या उत्कर्षणको नहीं प्राप्त होकर ज्यो-का-त्यो अवस्थित रहते हुए उस ही स्थितिके द्वारा उदयको प्राप्त हो, उसे यथानिपेकस्थितिप्राप्त प्रदेशाग्र कहते हैं । जो कर्म-प्रदेशाग्र वन्धकालके पश्चात् जब कभी भी जिस किसी भी स्थितिमे होकर उदयको प्राप्त हो, उन्हें उदयस्थितिप्राप्त प्रदेशाग्र कहते हैं ।

अब चूर्णिकार शंका-समाधानपूर्वक इन चारो भेदोंका क्रमशः स्वरूप कहते हैं—

शंका—उत्कृष्टस्थितिप्राप्तक नाम किसका है ? ॥ ४ ॥

समाधान—जो कर्म-प्रदेशाग्र वन्ध-समयसे लेकर कर्मस्थितिप्रमाणकाल तक सत्तामे रहकर अपनी कर्म-स्थितिके अन्तिम समयमे उदयमे दिखाई देता है अर्थात् उदयको प्राप्त होता है, उसे उत्कृष्टस्थितिप्राप्तक कहते हैं ॥ ५ ॥

१. तत्थ किं ट्टिदियं णाम ? ट्टिदीओ गच्छइ त्ति ट्टिदिय पदेसगं ट्टिदिपत्तयमिदि उच्च होइ । जयथ०

पत्तयं । ६. णिसेयट्ठिदिपत्तयं णाम किं ? ७. जं कम्मं जिस्से ट्ठिदीए णिसिचं ओक-
ट्ठिदं वा उक्कट्ठिदं वा तिस्से चेव ट्ठिदीए उदए दिरसइ, तं णिमेयट्ठिदिपत्तयं । ८.
अधाणिसेयट्ठिदिपत्तयं णाम किं ? ९. जं कम्मं जिस्से ट्ठिदीए णिमिचं अणोकट्ठिदं अणु-
क्कट्ठिदं तिस्से चेव ट्ठिदीए उदए दिस्साइ तमधाणिसेयट्ठिदिपत्तयं । १०. उदयट्ठिदि-
पत्तयं णाम किं ? ११. जं कम्मं उदए जत्थ वा तत्थ वा दिरसइ तमुदयट्ठिदिपत्तयं ।
१२. एदमट्ठपदं* । १३. एत्तो एक्केकट्ठिदिपत्तयं चउव्विहगुक्कस्समणुक्कस्सं जहणमज-
हणं च ।

१४. सामिचं । १५. मिच्छत्तरस उक्कस्सयमग्गट्ठिदिपत्तयं कस्स ? १६.
अग्गट्ठिदिपत्तयमेको वा दो वा पदेसा एवमेगादि-एगुत्तरियाए वड्डीए जाव ताव उक्क-

शंका—निपेकस्थितिप्राप्तक नाम किसका है ? ॥ ६ ॥

समाधान—जो कर्म-प्रदेशाग्र बंधनेके समयमें ही जिस स्थितिमें निपिक्त कर दिये
गये, अथवा अपवर्तित कर दिये गये, वे उस ही स्थितिमें होकर यदि उदयमें दिखाई देते हैं,
तो उन्हें निपेकस्थितिप्राप्तक कहते हैं ॥ ७ ॥

शंका—यथानिपेकस्थितिप्राप्तक किसे कहते हैं ? ॥ ८ ॥

समाधान—जो कर्म-प्रदेशाग्र बन्धके समय जिस स्थितिमें निपिक्त कर दिये गये, वे
अपवर्तना या उद्वर्तनाको प्राप्त न होकर सत्तामें तदवस्थ रहते हुए ही यथाक्रमसे उन ही
स्थितिमें होकर उदयमें दिखाई दे, उसे यथानिपेकस्थितिप्राप्तक कहते हैं ॥ ९ ॥

शंका—उदयस्थितिप्राप्तक किसे कहते हैं ? ॥ १० ॥

समाधान—जो कर्म-प्रदेशाग्र बंधनेके अनन्तर जहाँ कहीं भी जिस किसी स्थितिमें
होकर उदयको प्राप्त होता है, उसे उदयस्थितिप्राप्तक कहते हैं ॥ ११ ॥

चूर्णिसू०—उत्कृष्टस्थितिप्राप्तक आदि चारों ही भेदोंके अर्थका निर्णय करानेवाला
यह उपर्युक्त अर्थपद है । मोहप्रकृतियोंके ये एक-एक अर्थात् चारों ही प्रकारके स्थितिप्राप्तक,
उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्यके भेदसे चार-चार प्रकारके होते हैं ॥ १२-१३ ॥

चूर्णिसू०—अव उत्कृष्ट स्थितिप्राप्तक आदिके स्वामित्वको कहते हैं ॥ १४ ॥

शंका—मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अग्रस्थितिप्राप्तक किसके होता है ? ॥ १५ ॥

समाधान—अग्रस्थितिको प्राप्त एक प्रदेश भी पाया जाता है, दो प्रदेश भी पाये
जाते हैं, तीन प्रदेश भी पाये जाते हैं, इस प्रकार एक-एक प्रदेशकी उत्तर वृद्धिसे तदवतक

१. कथं जहाणिसेयस्स अधाणिसेयव्वएसो त्ति ण पच्चवट्ठय, 'वच्चति क ग त द-य वा, अत्थ
वहति सरा' इदि यकारस्स लोव काऊण णिहेसादो । जयध०

० ताम्रपत्रवाली प्रतिमें यह सूत्र इस प्रकार सुद्रित है—'एदमट्ठपदं उक्कस्सट्ठिदिपत्तयादीणं
चउव्वं पि अत्थविसयणिण्णयणिवधं' । पर 'अट्ठपद' से आगेका अग्र तो उसके ही अर्थकी व्याख्यात्मक
टीकाका अंग है, उसे सूत्रका अंग बनाना ठीक नहीं । (देखो पृ० ९२३)

स्सयं समयप्रवद्धस्स अग्गट्ठिदीए जत्तियं णिसित्तं तत्तियमुक्कस्सेण अग्गट्ठिदिपत्तयं । १७. तं पुण अण्णदरस्स होज्ज । १८. अधाणिसेयट्ठिदिपत्तयमुक्कस्सयं कस्स ? १९. तस्स ताव संदरिसणा । २०. उदयादो जहण्णयमावाहापेत्तमोसक्कियूण जो समयप्रवद्धो तस्स णत्थि अधाणिसेयट्ठिदिपत्तयं । २१. समयुत्तराए आवाहाए एवदिमचरिमसमयप्रवद्धस्स अधाणिसेओ अत्थि । २२. तत्तो पाए जाव असंखेज्जाणि पलिदोवमवग्गमूलाणि तावदिम-

वद्धाते जाना चाहिए, जवतक कि उत्कृष्ट समयप्रवद्धकी अग्रस्थितिमे जितने प्रदेशाग्र निपिक्त किये हैं, वे सब प्राप्त न हो जायें । इस प्रकारसे चरमनिपेक-सम्बन्धी एक समयप्रवद्धगत जितने प्रदेश प्राप्त होते हैं, उतने सबके सब उत्कृष्ट अग्रस्थितिप्राप्तक कहलाते हैं । वह उत्कृष्ट अग्रस्थितिको प्राप्त प्रदेशाग्र किसी भी जीवके हो सकता है ॥१६-१७॥

विशेषार्थ—इस सूत्रका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—जो मिथ्यात्वकर्मका प्रदेशाग्र कर्म-स्थितिके प्रथम समयमे बन्धको प्राप्त होकर और सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपम-प्रमित कर्मस्थितिके असंख्यात बहुभागकाल तक अवस्थित रहकर पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण उत्कृष्ट निर्लेपनकालके अवशिष्ट रह जानेपर प्रथम समयमे शुद्ध होकर अर्थात् कर्मरूप पर्यायको छोड़कर आत्मासे निर्जीर्ण होता है, पुनः उसके उपरिम अनन्तर समयमे शुद्ध होकर निर्जीर्ण होता है, इस प्रकार उत्तर-उत्तरवर्ती समयोमे कर्मपर्यायको छोड़कर उसके निर्लेप होते हुए कर्मस्थितिके पूर्ण होनेपर एक परमाणुका भी अवस्थान सम्भव है, दो परमाणुओका अवस्थान भी सम्भव है, तीन परमाणुओका भी अवस्थान सम्भव है, इस प्रकार एक एक परमाणुकी वृद्धि करते हुए अधिकसे अधिक उतने कर्म-परमाणुओका पाया जाना सम्भव है, जितने कि समयप्रवद्धकी अग्रस्थितिमे उत्कृष्ट प्रदेशाग्र निपिक्त किये थे । यहाँपर समयप्रवद्धसे अभिप्राय उत्कृष्ट योगी संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवके द्वारा बँधे हुए समयप्रवद्धसे है, अन्यथा अग्रस्थितिमे उत्कृष्ट निपेकका पाया जाना सम्भव नहीं है । मिथ्यात्वके इस उत्कृष्ट अग्रस्थिति-प्राप्त प्रदेशाग्रका स्वामी कोई भी जीव हो सकता है, ऐसा सामान्यसे कहा गया है, तो भी क्षपितकर्मागिकको छोड़ करके ही अन्य किसी भी जीवके उसका स्वामित्व जानना चाहिए, क्योंकि क्षपितकर्मागिक जीवके उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त प्रदेशाग्रका पाया जाना सम्भव नहीं है ।

शंका—मिथ्यात्वका उत्कृष्ट यथानिपेकस्थितिप्राप्तक किसके होता है ? ॥१८॥

समाधान—इसका संदर्शन (स्पष्टीकरण) इस प्रकार है—उदयसे, अर्थात् मिथ्यात्वके यथानिपेकस्थितिको प्राप्त स्वामित्वके समयसे जवन्य आवाधाके कालप्रमाण नीचे आकरके जो वृद्ध समयवद्ध है, उसका प्रदेशाग्र विविक्षित स्थितिमे यथानिपेकस्थितिको प्राप्त नहीं होता है । एक समय अधिक आवाधाके व्यतीत होनेपर इस अन्तिम समयप्रवद्धका यथानिपेक होता है । इस एक समय अधिक जवन्य आवाधाकालसे आगे चलकर बँधे हुए समयप्रवद्धसे लेकर नीचे जितने असंख्यात पल्योपमके प्रथमवर्गमूलोका प्रमाण है, उतने समयोमे बँधे हुए समय-प्रवद्धोका यथानिपेक विविक्षित स्थितिमे नियमसे होता है ॥१९-२२॥

समयप्रवद्धस्स अधाणिसेओ णियमा अत्थि ।

२३. एकस्स समयप्रवद्धस्स एकस्से द्विदीए जो उक्कस्साओ अधाणिसेओ तत्तो केवडिगुणं उक्कस्सयमधाणिसेयद्विदिपत्तयं ? २४. तस्स णिदरिसणं । २५. जहा । २६. ओकड्डवक्कड्डुणाए कम्मस्स अवहारकालो थोवो । २७. अधाप्रवत्तसंक्रमेण कम्मस्स अवहारकालो असंखेज्जगुणो । २८. ओकड्डवक्कड्डुणाए कम्मस्स जो अवहारकालो सो पलिदोचमस्स असंखेज्जदिभागो । २९. एवदिगुणमेकस्स समयप्रवद्धस्स एकस्से द्विदीए उक्कस्सयादो जहाणिसेयादो उक्कस्सयमधाणिसेयद्विदिपत्तयं ।

३०. इदाणिमुक्कस्सयमधाणिसेयद्विदिपत्तयं कस्स ? ३१. सत्तमाए पुहवीए णेरइ-यस्स जत्तियमधाणिसेयद्विदिपत्तयमुक्कस्सयं तत्तो विसेसुत्तरकालमुववण्णो जो णेरइओ तस्स जहण्णेण उक्कस्सयमधाणिसेयद्विदिपत्तयं ३२. एदस्मि पुण काले सो णेरइओ तप्पाओग्गु-क्कस्सयाणि जोगट्टाणाणि अभिक्खं गदो । ३३. तप्पाओग्गुक्कस्सियाहि वड्डीहि

शंका—विवक्षित स्थितिसे एक समय अधिक जघन्य आवाधाकालप्रमाण नीचे आकर उत्कृष्ट योगसे बंधा हुआ जो एक समयप्रवद्ध है, उसकी एक स्थितिमें अर्थात् जघन्य आवाधाके बाहिर स्थित स्थितिमें जो उत्कृष्ट यथानिपेक प्रदेशाग्र है, उससे पल्योपमके असंख्यातवे भाग-प्रमाण अपने उत्कृष्ट संचयकालके भीतर गलनेसे अवशिष्ट रहे हुए नानासमयप्रवद्धोंका जो यथानिपेकस्थितिको प्राप्त हुआ उत्कृष्ट प्रदेशाग्र है, वह कितना गुणा अधिक है ? ॥२३॥

समाधान—इस गुणाकारको एक निदर्शन (उदाहरण) के द्वारा स्पष्ट करते हैं । वह इस प्रकार है—एक समयमें जो कर्मप्रदेशाग्र उद्वर्तना-अपवर्तनाकरणके द्वारा उद्वर्तित या अपवर्तित होता है, उसके प्रमाण निकालनेका जो अवहारकाल है, वह वक्ष्यमाण अवहार-कालसे थोड़ा है । उद्वर्तनापवर्तनाकरणके अवहारकालसे अधःप्रवृत्तसंक्रमणकी अपेक्षा कर्मका अवहारकाल असंख्यातगुणा है । उद्वर्तनापवर्तनाकरणकी अपेक्षा कर्मका जो अवहारकाल है, वह पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण है । इतना गुणा है, अर्थात् एक समयप्रवद्धकी एक स्थितिके उत्कृष्ट यथानिपेकसे उत्कृष्ट यथानिपेकस्थितिको प्राप्त कर्मप्रदेशाग्र जितना यह उद्वर्त-नापवर्तनाकरणकी अपेक्षा कर्मका अवहारकाल है, इतना गुणा अधिक है ॥२४-२९॥

शंका—उत्कृष्ट यथानिपेकस्थितिको प्राप्त प्रदेशाग्र किसके होता है ? ॥ ३० ॥

समाधान—वह उत्कृष्ट यथानिपेकस्थितिको प्राप्त प्रदेशाग्र सातवी पृथिवीके नारकीके होता है । किस प्रकारके नारकीके होता है, इसका स्पष्टीकरण यह है कि जितना काल उत्कृष्ट यथानिपेकस्थितिप्राप्त प्रदेशाग्रका है, उससे उत्तरकालमें उत्पन्न हुआ जो नारकी है, उसके उत्पत्तिके समयसे जघन्य अन्तर्मुहूर्तसे अधिक होनेपर, अर्थात् सर्वलघुकालसे पर्याप्त होनेपर उत्कृष्ट यथानिपेकस्थितिको प्राप्त प्रदेशाग्र होता है । पुनः वह नारकी इस यथानिपेक-संचयकालके भीतर तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट योगस्थान को बार-बार प्राप्त हुआ, तथा तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट वृद्धियोंसे वृद्धिको प्राप्त होता हुआ उस स्थितिके निपेकके उत्कृष्ट पदको प्राप्त हुआ ।

वद्धिदो । ३४. तिस्रे द्विदीए णिसेयस्स उक्कस्सपदं । ३५. जा जहणिया आवाहा अंतोमुहुत्तरा एवदिसमय-अणुदिण्णा सा द्विदी । तदो जोगट्ठाणाणमुवरिल्लमद्धं गदो ३६. दुसमयाहिय-आवाहाचरिमसमयअणुदिण्णाए एयसमयाहिय-आवाहाचरिमसमय-अणुदिण्णाए च उक्कस्सयं जोगमुववणो । ३७. तस्स उक्कस्सयमधाणिसेयद्विदिपत्तयं । ३८. णिसेयद्विदिपत्तयं पि उक्कस्सयं तस्सेव ।

३९ उदयद्विदिपत्तयमुक्कस्सयं कस्स ? ४०. गुणितकम्मसिओ संजमासंजम-गुणसेट्ठिं संजमगुणसेट्ठिं च काऊण मिच्छत्तं गदो जाधे गुणसेट्ठीसीसयाणि उदिण्णाणि ताधे मिच्छत्तस्स उक्कस्सयमुदयद्विदिपत्तयं । ४१. एवं सम्मत्त-सम्मामिच्छताणं पि । ४२. णवरि उक्कस्सयमुदयद्विदिपत्तयमुक्कस्सयमुदयादो झीणद्विदियभंगो । ४३. अणं-

जो अन्तर्मुहूर्त-अधिक जघन्य आवाधा है, इतने समय तक वह स्थिति अनुदीर्ण थी, अर्थात् उदयको प्राप्त नहीं हुई थी । तदनन्तर वह नारकी योगस्थानोके ऊपरी अर्धभागको प्राप्त हुआ, अर्थात् यवमध्यके ऊपर जाकर अन्तर्मुहूर्तकाल तक रहा । पुनः उस स्थितिके दो समय अधिक आवाधाके अन्तिम समयमें अनुदीर्ण होनेपर और एक समय अधिक आवाधाके अन्तिम समयमें अनुदीर्ण होनेपर वह उत्कृष्ट योगको प्राप्त हुआ । ऐसे उस नारकीके मिथ्यात्वका उत्कृष्ट यथानिपेकस्थितिको प्राप्त प्रदेशाग्र होता है । तथा उसीके ही निपेक-स्थितिको प्राप्त उत्कृष्ट प्रदेशाग्र होता है ॥ ३१-३८ ॥

भावार्थ—जो जीव सातवे नरकमें उत्पन्न हुआ, लघु अन्तर्मुहूर्तसे पर्याप्त हुआ, स्व-योग्य योगस्थानोसे निरन्तर परिणत हुआ, संख्यात गुणवृद्धि और असंख्यातभागवृद्धि इन दो वृद्धियोंसे बढ़ा, योगवृद्धिसे योगस्थानोके यवमध्यभागको प्राप्त होकर वहाँ अन्तर्मुहूर्तकाल तक रहा । जब दो समय और एक समय अधिक आवाधाका चरम समय आया, तब उत्कृष्ट योगको प्राप्त हुआ, ऐसे जीवके मिथ्यात्वका उत्कृष्ट यथानिपेकस्थितिक प्रदेशाग्र होता है और इसी नारकीके ही उत्कृष्ट निपेकस्थितिक प्रदेशाग्र पाया जाता है ।

शंका—मिथ्यात्वका उदयस्थितिको प्राप्त उत्कृष्ट प्रदेशाग्र किसके होता है ? ॥ ३९ ॥

समाधान—जो गुणितकर्माशिक जीव संयमासंयमगुणश्रेणीको और संयमगुणश्रेणीको करके मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ । उसके जिस समय गुणश्रेणीशीर्षक उदयको प्राप्त हुए उस समय उसके मिथ्यात्वका उदयस्थितिको प्राप्त उत्कृष्ट प्रदेशाग्र होता है ॥ ४० ॥

चूर्णिसू०—इसी प्रकारसे अर्थात् मिथ्यात्वके समान ही सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अग्रस्थिति-प्राप्त, यथानिपेकस्थिति-प्राप्त आदिके स्वामित्वको जानना चाहिए । विशेषता केवल यह है कि इन दोनों प्रकृतियोंके उत्कृष्ट उदयस्थिति-प्राप्त प्रदेशाग्रका स्वामित्व उदयकी अपेक्षा उत्कृष्ट क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्रके स्वामित्वके समान है । अनन्तानु-बन्धी चतुष्क, आठ मध्यम कपाय और हास्यादि छह नोकपायोंके उत्कृष्ट अग्रस्थिति आदिको प्राप्त प्रदेशाग्रका स्वामित्व मिथ्यात्वके स्वामित्वके समान जानना चाहिए ॥ ४१-४३ ॥

ताणुबंधिचउक-अट्टकसाय-छण्णाकसायाणं मिच्छत्तभंगो । ४४. णवन्नि अट्टकसायाणमुक्क-
स्सयमुदयट्ठिदिपत्तयं कस्स ? ४५. संजमासंजम-संजम-दंसणमाहणीयवपययगुणसेहीओ
त्ति एदाओ तिण्णि थि गुणसेहीओ गुणिदकस्मसिण्ण कदाओ । एदाओ काऊण अबि-
ण्णहेसु असंजयं गओ । पत्तेसु उदयगुणसेहिमीसएसु उक्कस्सयमुदयट्ठिदिपत्तयं ।

४६. छण्णोक्कसायाणमुक्कस्सयमुदयट्ठिदिपत्तयं कस्स ? ४७. चरिमममयअपु-
व्वकरणं वट्टमाणयरस । ४८. हम्म-रइ-अरइ-सोमाणं जइ कीरइ भय-इगुंछाणमवेदओ
कायव्वो । ४९ जइ भयस्स, तदो दृगुंछाए अवेदओ कायव्वो । अथ दृगुंछाए, तदो
भयस्स अवेदओ कायव्वो ।

५०. कोहसंजलणस्स उक्कस्सयमग्गट्ठिदिपत्तयं कस्स ? ५१. उक्कस्सयमग्ग-
ट्ठिदिपत्तयं जहा पुरिमाणं कायव्वं । ५२. उक्कस्सयमग्गणिमयट्ठिदिपत्तयं कस्स ? ५३.
कसाए उवसामित्ता पड्विदिदूण पुणो अंतोमुहुत्तेण कसाया उवसापिटा, विदिद्याए

शंका—आठ मध्यम कपायोंका उत्कृष्ट उदयस्थितिको प्राप्त प्रदेशाप्र किसके होता है ? ॥ ४४ ॥

समाधान—जिस गुणितकर्मागिक जीवने संयमामंयमगुणश्रेणी, संयमगुणश्रेणी
और दर्शनमोहनीय-क्षपकगुणश्रेणी इन तीनों ही गुणश्रेणियोंको किया । पुनः इनको करके
उनके नष्ट नहीं होनेके पूर्व ही वह असंयमको प्राप्त हुआ । वहाँ उन गुणश्रेणियोंके
शीर्षकोंके उदयको प्राप्त होनेपर आठो मध्यम कपायोंका उत्कृष्ट उदयस्थितिको प्राप्त प्रदेशाप्र
होता है ॥ ४५ ॥

शंका—छह नोकपायोंका उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त प्रदेशाप्र किसके होता है ? ॥ ४६ ॥

समाधान—अपूर्वकरण गुणस्थानके अन्तिम समयमें वर्तमान क्षपकके छह नो-
कपायोंका उत्कृष्ट उदयस्थितिको प्राप्त प्रदेशाप्र होता है । यहाँ इतना विशेष ज्ञातव्य है कि
जब हास्य-रति और अरति-शोककी प्ररूपणा की जाय, तब उसे भय और जुगुप्साका अवे-
दक निरूपण करना चाहिए । यदि भयकी प्ररूपणा की जाय, तो जुगुप्साका अवेदक कहना
चाहिए और यदि जुगुप्साकी प्ररूपणा की जाय, तो उसे भयका अवेदक निरूपण करना
चाहिए ॥ ४७-४९ ॥

शंका—संज्वलनक्रोधका उत्कृष्ट अग्रस्थितिक कर्मप्रदेशाप्र किसके होता है ? ॥ ५० ॥

समाधान—जिस प्रकारसे पूर्ववर्ती मिथ्यात्वादि कर्मोंके उत्कृष्ट अग्रस्थिति-प्राप्त
प्रदेशाप्रके स्वामित्वको कहा है, उसी प्रकारसे संज्वलनक्रोधके उत्कृष्ट अग्रस्थिति-प्राप्त कर्म-
प्रदेशाप्रके स्वामित्वकी प्ररूपणा करना चाहिए ॥ ५१ ॥

शंका—संज्वलनक्रोधका उत्कृष्ट यथानिपेकको प्राप्त प्रदेशाप्र किसके होता है ? ॥ ५२ ॥

समाधान—जो कपायोंका उपशमन करके गिरा और उसने पुनः अन्तर्मुहूर्तसे
कपायोंका उपशमन किया । (तदनन्तर वही जीव नरक-तिर्यच गतिमें दो-तीन भवोंको ग्रहण
करके पुनः मनुष्य हुआ और कपायोंके उपशमनके लिए उद्यत हुआ ।) इस दूसरे भवमें

उवसामणाए आवाहा जम्हि पुण्णा सा डिदी आदिट्ठा, तम्हि उक्कस्सयमधाणिसेय-
ट्ठिदिपत्तयं । ५४. णिसेयट्ठिदिपत्तयं च तम्हि चेव । ५५. उक्कस्सयमुदयट्ठिदिपत्तयं
कस्स ? ५६. चरिमसमयकोहवेदयस्स ।

५७. एवं माण-माया-लोहाणं । ५८. पुरिसवेदस्स चत्तारि वि ट्ठिदिपत्तयाणि
कोहसंजलणभंगो । ५९ णवरि उदयट्ठिदिपत्तयं चरिमसमयपुरिसवेदखवयस्स गुणिद-
कम्मंसियस्स । ६०. इत्थिवेदस्स उक्कस्सयमग्गट्ठिदिपत्तयं मिच्छत्तभंगो ।

६१. उक्कस्सय-अधाणिसेयट्ठिदिपत्तयं णिसेयट्ठिदिपत्तयं च कस्स ? ६२.
इत्थिवेदसंजदेण इत्थिवेद-पुरिसवेदपूरिदकम्मंसिएण अंतोमुहुत्तस्संतो दो वारे कसाए
उवसामिदा । जाथे विदियाए उवसामणाए जहण्णयस्स ट्ठिदिवंधस्स पढमणिसेयट्ठिदी
उदयं पत्ता ताथे अधाणिसेयादो णिसेयादो च उक्कस्सयं ट्ठिदिपत्तयं । ६३. उदयट्ठिदि-
पत्तयमुक्कस्सयं कस्स ? ६४. गुणिदकम्मंसियस्स खवयस्स चरिमसमय-इत्थिवेदयस्स

दूसरी वारकी उपशामनामे जिस समय आवाधा पूर्ण हो, वह स्थिति प्रकृतमे विवक्षित है ।
उस समयमे संज्वलनक्रोधका उत्कृष्ट यथानिपेकस्थितिको प्राप्त प्रदेशाग्र होता है । इस ही
जीवके उस ही समयमे संज्वलनक्रोधके निपेकस्थितिको प्राप्त प्रदेशाग्रका स्वामित्व जानना
चाहिए ॥ ५३-५४ ॥

शंका—संज्वलनक्रोधका उत्कृष्ट उदयस्थितिको प्राप्त प्रदेशाग्र किसके होता है ? ॥ ५५ ॥

समाधान—चरम-समयवर्ती क्रोधवेदक क्षपकके संज्वलनक्रोधका उत्कृष्ट उदयस्थिति-
को प्राप्त प्रदेशाग्र होता है ॥ ५६ ॥

चूणिसू०—इसी प्रकार संज्वलन मान, माया और लोभकपायके उत्कृष्ट अग्रस्थितिक
आदि चारो प्रकारके प्रदेशाग्रोका स्वामित्व जानना चाहिए । पुरुषवेदके चारो ही स्थितिप्राप्तक
प्रदेशाग्रोका स्वामित्व संज्वलनक्रोधके स्वामित्वके समान जानना चाहिए । केवल इतनी विशे-
पता है कि उदयस्थिति-प्राप्त प्रदेशाग्र गुणितकर्मागिक और चरमसमयवर्ती पुरुषवेदी क्षपकके
होता है । स्त्रीवेदके उत्कृष्ट अग्रस्थितिप्राप्तक प्रदेशाग्रका स्वामित्व मिथ्यात्वके समान जानना
चाहिए ॥ ५७-६० ॥

शंका—स्त्रीवेदका उत्कृष्ट यथानिपेकस्थिति-प्राप्त और निपेकस्थिति-प्राप्त प्रदेशाग्र किसके
होता है ? ॥ ६१ ॥

समाधान—जिसने स्त्रीवेद और पुरुषवेदके कर्मप्रदेशाग्रको पूरित किया है, ऐसे
स्त्रीवेदी संयतने अन्तर्मुहूर्तके भीतर दो वार कपायोका उपशमन किया । जब दूसरी उपशा-
मनामे जवन्य स्थितिवन्धके प्रथम निपेककी स्थिति उदयको प्राप्त हुई, तब स्त्रीवेदका यथा-
निपेकसे और निपेकसे उत्कृष्ट स्थितिको प्राप्त प्रदेशाग्र होता है ॥ ६२ ॥

शंका—स्त्रीवेदका उत्कृष्ट उदयस्थिति-प्राप्त प्रदेशाग्र किसके होता है ? ॥ ६३ ॥

समाधान—गुणितकर्मागिक और चरमसमयवर्ती स्त्रीवेदक क्षपकके स्त्रीवेदका उदय-
स्थितिको प्राप्त उत्कृष्ट प्रदेशाग्र होता है ॥ ६४ ॥

तस्स उक्कस्सयमुदयट्ठिदिपत्तयं । ६५. एवं णवुंसयवेदस्म । ६६. णवरि णवुंसयवेदोद-
यस्सेत्ति भाणिदव्वाणि ।

६७. जहणयाणि ट्ठिदिपत्तयाणि कायव्वाणि । ६८. सच्चकम्माणं पि अग्ग-
ट्ठिदिपत्तयं जहणयमेओ पदेसो, तं पुण अण्णदरस्स होज्ज । ६९. मिच्छत्तस्स णिसेय-
ट्ठिदिपत्तयमुदयट्ठिदिपत्तयं च जहणयं कस्स । ७०. उवसमसम्मत्तपच्छायदस्स
पहमसमयमिच्छाइट्ठिस्स तप्पाओग्गुक्कस्ससंकिलिट्ठस्स तस्स जहणयं णिसेयट्ठिदिपत्तय-
मुदयट्ठिदिपत्तयं च । ७१. मिच्छत्तस्स जहणयमधाणिसेयट्ठिदिपत्तयं कस्स ? ७२. जो
एइंदियट्ठिदिसंतकम्मेण जहणएण तसेसु आगदो अंतोमुहुत्तेण सम्मत्तं पडिवण्णो, वे
छावट्ठिसागरोवमाणि सम्मत्तमणुपालियूण मिच्छत्तं गदो । तप्पाओग्ग-उक्कस्सिया
मिच्छत्तस्स जावदिया आगहा तावदिमसमयमिच्छाइट्ठिस्स तस्स जहणयमधा-
णिसेयट्ठिदिपत्तयं ।

चूर्णिसू०—इसी प्रकार नपुंसकवेदके उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त प्रदेशाग्रोका स्वामित्व जानना
चाहिए । विशेषता केवल यह है कि नपुंसकवेदके उदयवाले जीवके ही उनका स्वामित्व
कहना चाहिए ॥ ६५-६६ ॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे जघन्य स्थिति-प्राप्त प्रदेशाग्रोकी प्ररूपणा करना चाहिए ।
मिथ्यात्व आदि सभी कर्मोका जघन्य अग्रस्थितिको प्राप्त एक कर्म-प्रदेग होता है । और वह
किसी भी एक जीवके हो सकता है ॥ ६७-६८ ॥

शंका—मिथ्यात्वका जघन्य निपेकस्थिति-प्राप्त और जघन्य उदयस्थिति-प्राप्त प्रदेशाग्र
किसके होता है ? ॥ ६९ ॥

समाधान—उपगमसम्यक्त्वसे पीछे आये हुये और तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशसे
युक्त ऐसे प्रथम-समयवर्ती मिथ्यादृष्टिके मिथ्यात्वका जघन्य निपेकस्थितिप्राप्त और जघन्य
उदयस्थितिप्राप्त प्रदेशाग्र होता है ॥ ७० ॥

शंका—मिथ्यात्वका जघन्य यथानिपेकस्थितिक प्रदेशाग्र किसके होता है ? ॥ ७१ ॥

समाधान—जो जीव जघन्य एकेन्द्रियस्थितिसत्कर्मके साथ त्रसोमे उत्पन्न हुआ
और अन्तर्मुहूर्तसे सम्यक्त्वको प्राप्त किया । पुनः दो बार छयासठ सागरोपम काल तक
सम्यक्त्वका परिपालनकर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ । उसके योग्य मिथ्यात्वकी जितनी उत्कृष्ट
आवाधा है, उतने समय तक मिथ्यादृष्टि रहनेवाले उस जीवके मिथ्यात्वका जघन्य यथा-
निपेकस्थितिको प्राप्त प्रदेशाग्र होता है ॥ ७२ ॥

विशेषार्थ—यहाँपर जो 'त्रसोमे उत्पन्न हुआ और अन्तर्मुहूर्तसे सम्यक्त्वको प्राप्त
किया' ऐसा कहा है, उसका अभिप्राय यह है कि वह एकेन्द्रियोसे आकर जघन्य आयुवाले
असंज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्तकोमे उत्पन्न होकर अतिलघु अन्तर्मुहूर्तके द्वारा पर्याप्तियोंको पूर्णकर
पर्याप्तक हुआ और तत्काल ही देवायुका बन्ध करके सरणको प्राप्त हो देवोमे उत्पन्न हुआ ।

७३. जेण मिच्छत्तस्स रचिदो अधाणिसेओ तस्स चेव जीवस्स सम्मत्तस्स अधाणिसेओ कायव्वो । णवरि तिस्से उक्कस्सियाए सम्मत्तद्वाए चरिमसमए तस्स चरिम-समयसम्माइड्डिस्स जहण्णयमधाणिसेयट्ठिदिपत्तयं । ७४. णिसेयादो च उदयादो च जहण्णयं ट्ठिदिपत्तयं कस्स ? ७५. उवसमसम्मत्तपच्छायदस्स पहमसमयवेदयसम्माइड्डि-स्स तप्पाओग्गउक्कस्ससंकिलिड्डस्स तस्स जहण्णयं । ७६. सम्मत्तस्स जहण्णओ अहाणिसेओ जहा परूविओ तीए चेव परूवणाए सम्मामिच्छत्तं गओ, तदो उक्कस्सियाए सम्मामिच्छत्तद्वाए चरिमसमए जहण्णयं सम्मामिच्छत्तस्स अधाणिसेयट्ठिदिपत्तयं । ७७. सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णयं णिसेयादो उदयादो च ट्ठिदिपत्तयं कस्स ? ७८ उवसम-सम्मत्तपच्छायदरस पहमसमयसम्मामिच्छाइड्डिस्स तप्पाओग्गुक्कस्ससंकिलिड्डस्स ।

सर्वलघु अन्तर्मुहूर्तसे पर्याप्तक होकर, विश्राम कर और विशुद्धिको प्राप्त होकर सम्यक्त्वको प्राप्त किया । इस प्रकारके जीवके एकेन्द्रियोसे निकलकर सम्यक्त्वको प्राप्त करने तक यद्यपि अनेक अन्तर्मुहूर्त हो जाते हैं, तथापि उन सब अतिलघु अन्तर्मुहूर्तोंका योग एक अन्तर्मुहूर्तके ही भीतर आ जाता है, इसलिए उपर्युक्त कथनमे कोई विरोध या वाधा नहीं समझना चाहिए ।

चूर्णिसू०—जिस जीवने मिथ्यात्वका यथानिषेक रचा है, उस ही जीवके सम्यक्त्व-प्रकृतिका भी यथानिषेक कहना चाहिए । विशेषता केवल यह है कि उस सम्यक्त्वप्रकृतिके उत्कृष्ट कालके अन्तिम समयमे वर्तमान उस चरमसमयवर्ती सम्यग्दृष्टि जीवके सम्यक्त्वप्रकृतिका जघन्य यथानिषेकस्थितिको प्राप्त प्रदेशाग्र होता है ॥७३॥

शंका—सम्यक्त्वप्रकृतिका निषेकसे और उदयसे जघन्य स्थितिप्राप्त प्रदेशाग्र किसके होता है ? ॥७४॥

समाधान—उपशमसम्यक्त्वको पीछे करके आये हुए, तथा तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशसे युक्त ऐसे प्रथमसमयवर्ती वेदरुमस्यग्दृष्टिके सम्यक्त्वप्रकृतिका निषेकसे और उदयसे जघन्य स्थितिको प्राप्त प्रदेशाग्र होता है ॥७५॥

चूर्णिसू०—जिस प्रकारसे सम्यक्त्वप्रकृतिके जघन्य यथानिषेककी प्ररूपणा की, उसी ही प्ररूपणासे सम्यग्मिथ्यात्वकी प्ररूपणा भी की हुई समझना चाहिए । उससे यहाँपर केवल इतना भेद है कि उत्कृष्ट सम्यग्मिथ्यात्वकालके चरम समयमे सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य यथा-निषेक स्थितिप्राप्त प्रदेशाग्र होता है ॥७६॥

शंका—सम्यग्मिथ्यात्वका निषेकसे और उदयसे जघन्य स्थितिप्राप्त प्रदेशाग्र किसके होता है ? ॥७७॥

समाधान—उपशमसम्यक्त्वसे पीछे आये हुए, तथा तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त, ऐसे प्रथमसमयवर्ती सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवके सम्यग्मिथ्यात्वका निषेकसे और उदयसे जघन्य स्थितिको प्राप्त प्रदेशाग्र होता है ॥७८॥

७९. अणंताणुवंधीणं णिसेयादो अधाणिसेयादो च जहण्णयं द्विदिपत्तयं कस्स ?
 ८०. जो एइंदियद्विदिसंतकम्मणेण जहण्णएण पंचिदिए गओ, अंतोमुहुत्तेण सम्मत्तं पडि-
 वण्णो, अणंताणुवंधी विसंजोइत्ता पुणो पडिवदिदो, रहस्मकालेण संजोएएण सम्मत्तं
 पडिवण्णो, वे छावट्टिसागरोवमाणि अणुपालियूण मिच्छत्तं गओ । तस्स आवलियमि-
 च्छाइद्विस्स जहण्णयं णिसेयादो अधाणिसेयादो च द्विदिपत्तयं । ८१. उदयद्विदिपत्तयं
 जहण्णयं कस्स ? ८२. एइंदियकम्मणेण जहण्णएण तसेसु आगदो, तस्मि संजमासंजमं
 संजमं च बहुसो लद्धूण चत्तारि वारे कसाए उवसापित्ता एइंदिए गओ, असंखेजाणि
 वस्साणि अच्चियूण उवसामयसमयप्रवट्ठेसु गलिदेसु पंचिदिएसु गदो । अंतोमुहुत्तेण
 अणंताणुवंधी विसंजोइत्ता तदो संजोएएण जहण्णएण अंतोमुहुत्तेण पुणो सम्मत्तं लद्धूण
 वे छावट्टिसागरोवमाणि अणंताणुवंधिणो गालिदा । तदो मिच्छत्तं गदो । तस्स आव-
 लियमिच्छाइद्विस्स जहण्णयमुदयद्विदिपत्तयं ।

८३. वारसकसायाणं णिसेयद्विदिपत्तयमुदयद्विदिपत्तयं च जहण्णयं कस्स ?

शंका—अनन्तानुवंधी चारो कपायोका निपेकसे और यथानिपेकसे जघन्य स्थिति-प्राप्त
 प्रदेशाग्र किसके होता है ? ॥७९॥

समाधान—जो जीव जघन्य एकेन्द्रियस्थितिसत्कर्मके साथ पंचेन्द्रियोमे उत्पन्न हुआ
 और अन्तर्मुहूर्तके द्वारा सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । पुनः अनन्तानुवंधी कपायोका विसंयोजन
 करके गिरा और ह्रस्व (सर्व लघु) कालसे अनन्तानुवंधी कपायोका पुनः संयोजन किया ।
 पुनः अति लघु अन्तर्मुहूर्तसे सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । मिथ्यात्वको प्राप्त होनेके एक आवली-
 कालके पश्चात् उस मिथ्यादृष्टि जीवके अनन्तानुवंधी कपायोका निपेकसे और यथानिपेकसे
 जघन्य स्थितिको प्राप्त प्रदेशाग्र होता है ॥८०॥

शंका—अनन्तानुवंधी कपायोका जघन्य उदयस्थितिको प्राप्त प्रदेशाग्र किसके होता
 है ? ॥ ८१ ॥

समाधान—जो जीव जघन्य एकेन्द्रिय सत्कर्मके साथ त्रसोमे उत्पन्न हुआ । वहाँ
 पर संयमासंयम और संयमको बहुत वार प्राप्त करके, तथा चार वार कपायोको भी उपशमा
 करके एकेन्द्रियोमे चला गया । वहाँपर असंख्यात वर्ष तक रहकर उपशामरु-समयप्रवट्ठोके
 गल जानेपर पंचेन्द्रियोमे आया । अन्तर्मुहूर्तसे अनन्तानुवंधी कपायका विसंयोजन करके पुनः
 लघुकालसे संयोजन कर, पुनः जघन्य अन्तर्मुहूर्तसे सम्यक्त्वको प्राप्तकर दो वार छ्यासठ
 सागरोपम काल तक सम्यक्त्वका परिपालन किया और अनन्तानुवंधीके समयप्रवट्ठोको गला
 दिया । तदनन्तर वह मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ । तब उस आवली-प्रविष्ट मिथ्यादृष्टिके अनन्ता-
 नुवंधी कपायोका जघन्य उदयस्थितिको प्राप्त प्रदेशाग्र होता है ॥ ८२ ॥

शंका—अप्रत्याख्यानावरणादि वारह कपायोका निपेकस्थिति-प्राप्त और उदयस्थिति-
 प्राप्त जघन्य प्रदेशाग्र किसके होता है ? ॥ ८३ ॥

८४. जो उवसंतकसाओ सो मदो देवो जादो, तस्स पढमसमयदेवस्स जहण्णयं णिसेय-
ट्टिदिपत्तयमुदयट्टिदिपत्तयं च । ८५. अथाणिसेयट्टिदिपत्तयं जहण्णयं कस्स ? ८६.
अभवसिद्धियपाश्रोग्गेण जहण्णएण कम्मेण तसेसु उववण्णो, तप्पाश्रोग्गुकस्सट्टिदिं
बंधमाणस्स जहेही आवाहा, तावदिमसमए तस्स जहण्णयमथाणिसेयट्टिदिपत्तयं ।
अइक्कंते काले कम्मट्टिदिअंतो सइं पि तसो ण आसी ।

८७. एवं पुरिसवेद-हस्स रइ-भय-दुगुंछाणं । ८८. इत्थि-णवुंसयवेद-अरदि-
सोणाणमथाणिसेयादो जहण्णयं ट्टिदिपत्तयं जहा संजलणाणं तथा कायव्वं । ८९. जस्मि
अथाणिसेयादो जहण्णयं ट्टिदिपत्तयं तस्मि चेव णिसेयादो जहण्णयं ट्टिदिपत्तयं ।
९०. उदयट्टिदिपत्तयं जहा उदयादो झीणट्टिदियं जहण्णयं तथा गिरवयवं कायव्वं ।
९१. अप्पावहुअं । ९२. सव्वपयडीणं सव्वत्थोचयुक्करसयमग्गट्टिदिपत्तयं ।

समाधान—जो उपशान्तकपाय-वीतरागछद्मस्थ सयत मरकर देव हुआ, उस प्रथम-
समयवर्ता देवके उक्त वारह कपायोका निपेकस्थिति-प्राप्त और उदयस्थिति-प्राप्त जघन्य प्रदेशाग्र
होता है ॥ ८४ ॥

शंका—अप्रत्याख्यानावरणादि वारह कपायोका यथानिपेकस्थितिप्राप्त जघन्य प्रदेशाग्र
किसके होता है ? ॥ ८५ ॥

समाधान—जो जीव अभव्यसिद्धिकोके योग्य जघन्य सत्कर्मके साथ त्रसोमे
उत्पन्न हुआ । वहाँपर उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे ही तत्प्रायोग्य संक्लेशके द्वारा तत्प्रायोग्य
उत्कृष्ट स्थितिको वांधा । इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिको वाँधनेवाले उसके जितनी तत्प्रायोग्य
उत्कृष्ट आवाधा है, उतने समय तक उसके वारह कपायोका जघन्य यथानिपेकस्थितिको प्राप्त
प्रदेशाग्र होता है । यह जीव अतीतकालमे कर्मस्थितिके भीतर एक वार भी त्रसपर्यायमे उत्पन्न
नहीं हुआ है ॥ ८६ ॥

विशेषार्थ—यहाँपर कर्मस्थितिसे अभिप्राय पर्योपमके असंख्यातवे भागसे अधिक
एकेन्द्रिय जीवोंकी कर्मस्थितिसे है, क्योंकि उससे अधिक कर्मस्थितिके माननेपर प्रकृतमे
उसका कोई लाभ नहीं दिखाई देता, ऐसा जयधवलाकारने स्पष्टीकरण किया है ।

चूर्णिसू०—इसी प्रकार पुरुषवेद, हास्य, रति, भय और जुगुसाका तीनों ही प्रकार-
के स्थितिप्राप्त प्रदेशाग्रके स्वामित्वको जानना चाहिए । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति और शोक
इन प्रकृतियोंके यथानिपेकसे जघन्य स्थितिको प्राप्त प्रदेशाग्रके स्वामित्वकी प्ररूपणा संज्वलन-
कपायोके समान करना चाहिए । जिस समयमे यथानिपेककी अपेक्षा जघन्य स्थितिप्राप्त प्रदे-
शाग्रका स्वामित्व होता है, उसी ही समयमे निपेककी अपेक्षासे भी जघन्य स्थितिप्राप्त प्रदेशाग्र-
का स्वामित्व होता है । उपर्युक्त प्रकृतियोंके जघन्य उदयस्थितिप्राप्तकी प्ररूपणा उदयकी
अपेक्षा जघन्य क्षीणस्थितिक प्रदेशाग्रके समान अविकल रूपसे करना चाहिए ॥ ८७-९० ॥

चूर्णिसू०—अब उपर्युक्त अग्रस्थितिप्राप्त आदि चागे प्रकारके प्रदेशाग्रोका अल्पवहुत्व

९३. उक्कस्सयमधाणिसेयट्ठिदिपत्तयमसंखेज्जगुणं । ९४. णिसेयट्ठिदिपत्तयमुक्कस्सयं
विसेसाहियं । ९५. उदयट्ठिदिपत्तयमुक्कस्सयमसंखेज्जगुणं * ।

९६. जहण्णयाणि कायव्वाणि । ९७. सव्वत्थोवं मिच्छत्तस्स जहण्णयमग्ग-
ट्ठिदिपत्तयं । ९८. जहण्णयं णिसेयट्ठिदिपत्तयं अणंतगुणं । ९९. जहण्णयमुदयट्ठिदि-
पत्तयं असंखेज्जगुणं । १००. जहण्णयमधाणिसेयट्ठिदिपत्तयमसंखेज्जगुणं । १०१. एवं
सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-वारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रह-भय-दुगुंछाणं । १०२. अणंताणु-
बंधीणं सव्वत्थोवं जहण्णयमग्गट्ठिदिपत्तयं । १०३. जहण्णयमधाणिसेयट्ठिदिपत्तयमणंत-
गुणं । १०४. [जहण्णयं] णिसेयट्ठिदिपत्तयं विसेसाहियं । १०५. जहण्णयमुदयट्ठिदि-
पत्तयमसंखेज्जगुणं । १०६. एवमित्थिवेद-णवुंसयवेद-अरदि-सोगाणं ।

कहते हैं—मिध्यात्व आदि सर्व प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अग्रस्थितिको प्राप्त कर्मप्रदेशाग्र सबसे कम
है । उत्कृष्ट अग्रस्थितिप्राप्त प्रदेशाग्रसे उत्कृष्ट यथानिपेकस्थितिको प्राप्त कर्मप्रदेशाग्र असंख्यात-
गुणित है । उत्कृष्ट यथानिपेकस्थिति-प्राप्त प्रदेशाग्रसे उत्कृष्ट निपेकस्थितिको प्राप्त कर्मप्रदेशाग्र
विशेष अधिक है । उत्कृष्ट निपेकस्थिति-प्राप्त प्रदेशाग्रसे उत्कृष्ट उदयस्थितिको प्राप्त कर्मप्रदेशाग्र
असंख्यातगुणित है ॥९१-९५॥

चूणिंसू०—अव जघन्य स्थितिको प्राप्त अग्रस्थितिक आदिके प्रदेशाग्रोका अल्पबहुत्व
कहना चाहिए । मिध्यात्वका जघन्य अग्रस्थितिको प्राप्त कर्मप्रदेशाग्र वक्ष्यमाण पदोंकी अपेक्षा
सबसे कम है । क्योंकि, वह एक परमाणुप्रमाण है । मिध्यात्वके जघन्य अग्रस्थिति-प्राप्त
प्रदेशाग्रसे उसीका जघन्य निपेकस्थितिको प्राप्त प्रदेशाग्र अनन्तगुणित है । क्योंकि, वह अनन्त
परमाणु-प्रमाण है । मिध्यात्वके जघन्य निपेकस्थिति-प्राप्त प्रदेशाग्रसे उसीका जघन्य उदय-
स्थितिको प्राप्त प्रदेशाग्र असंख्यातगुणित है । मिध्यात्वके जघन्य उदयस्थिति-प्राप्त प्रदेशाग्रसे
उसीका जघन्य यथानिपेकस्थितिको प्राप्त प्रदेशाग्र असंख्यातगुणित है । इसी प्रकार सम्यक्त्व-
प्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व, अप्रत्याख्यानावरणादि वारह कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय
और जुगुप्साके अग्रस्थितिक आदि चारोका अल्पबहुत्व जानना चाहिए ॥९६-१०१॥

चूणिंसू०—अनन्तानुबन्धीकपायोका जघन्य अग्रस्थितिको प्राप्त कर्मप्रदेशाग्र वक्ष्यमाण
पदोंकी अपेक्षा सबसे कम है । इन्हीं कपायोके जघन्य अग्रस्थितिको प्राप्त प्रदेशाग्रसे इनके
ही जघन्य यथानिपेकस्थितिको प्राप्त कर्मप्रदेशाग्र अनन्तगुणित है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कके
जघन्य यथानिपेकस्थितिको प्राप्त प्रदेशाग्रसे इन्हींके (जघन्य) निपेकस्थितिको प्राप्त कर्मप्रदेशाग्र
विशेष अधिक है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कके (जघन्य) निपेकस्थिति प्राप्त कर्मप्रदेशाग्रसे इन्हींके
जघन्य उदयस्थितिको प्राप्त कर्मप्रदेशाग्र असंख्यातगुणित हैं । इसी प्रकारसे स्त्रीवेद, नपुंसकवेद,

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमे 'असंखेज्जगुण' के स्थान पर 'विसेसाहिय' पाठ मुद्रित है । (देखो पृ०
९५२) । पर इस सूत्रकी ही टीकाको देखते हुए वह स्पष्टरूपसे अशुद्ध है, क्योंकि टीकामें 'असंख्यात-
गुणित' गुणाकारका स्पष्ट लल्लेख है । (देखो पृ० ९५३)

तदो 'ठिदियं' ति पदस्स विहासा समत्ता ।
 एत्थेव 'पयडीय मोहणिज्जा' एदिस्से मूलगाहाए अत्थो समत्तो ।
 ठिदियं ति अहियारो समत्तो
 तदो पदेसविहत्ती सचूलिया समत्ता

अरति और शोकप्रकृतियोंके अग्रस्थितिक आदि चारो प्रकारके प्रदेशाशोका अल्पबहुत्व जानना चाहिए ॥ १०२-१०६ ॥

इस प्रकार चौथी मूलगाथाके 'ठिदियं वा' इस पदकी विभाषा समाप्त हुई ।
 इसके साथ ही यहीं पर 'पयडीय मोहणिज्जा' इस मूलगाथाका अर्थ समाप्त हुआ ।

स्थितिक-अधिकार समाप्त हुआ ।

इस प्रकार चूलिका-सहित प्रदेशविभक्ति समाप्त हुई—।

४ बंधन-अत्याहियारो

१. बंधनेति एदस्स वे अणियोगद्वाराणि । तं जहा-बंधो च संक्रमो च ।
२. एत्थ सुत्तमाहा ।

(५) क्वदि पयडीयो बंधदि द्विदि-अणुभागे जहण्णमुक्कस्सं ।
संक्रामेइ क्वदि वा गुणहीणं वा गुणविप्पिट्ठं ॥२३॥

४ बंधक-अर्थाधिकार

कर प्रणाम जिन देवको सविनय वारस्वार ।
बंध और संक्रम कहें, चूण-सूत्र-अनुसार ॥

अब ग्रन्थकार क्रम-प्राप्त चौथे बन्धक अर्थाधिकारको कहते हैं—

चूणिसू०—इस बन्धक नामक अर्थाधिकारमें दो अनुयोगद्वार हैं । वे इस प्रकार हैं—बन्ध और संक्रम ॥१॥

विशेषार्थ—कर्मरूप परिणामनके योग्य पौद्गलिक स्कन्धोंका मिथ्यात्व आदि परिणामोंके वशसे कर्मरूप परिणत होकर जीवके प्रदेशोंके साथ एक क्षेत्रावगाहृत्पसे संबद्ध होनेको बन्ध कहते हैं । बन्ध होनेके अनन्तर उन कर्म-प्रदेशोंका परिणामोंके वशसे परप्रकृतिरूपसे परिणत होनेको संक्रम या संक्रमण कहते हैं । ये दोनों ही प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशके भेदसे चार-चार प्रकारके होते हैं । यहाँ स्वभावतः यह जंका उठती है कि बंधक-अधिकारके भीतर ही संक्रमण-अधिकारको क्यों कहा ? उसे स्वतंत्र ही कहना चाहिए था ? इसका उत्तर यह है कि बन्धकी ही विशिष्ट अवस्थाको संक्रम कहते हैं । वस्तुतः बन्ध दो प्रकारका है—अकर्मबन्ध और कर्मबन्ध । अकर्मरूपसे अवस्थित कर्मण-वर्गणाओंका आत्माके साथ संबद्ध होना अकर्म-बन्ध है और विवक्षित कर्मरूपसे बंधे हुए पुद्गल-स्कन्धोंका अन्य कर्मप्रकृतिरूपसे परिणामन होना कर्मबन्ध है । जैसे—असातावेदनीयरूपसे बंधे हुए कर्मका सातावेदनीयरूपसे परिणत होना । इस प्रकारसे संक्रम भी बन्धके ही अन्तर्गत आ जाता है ।

चूणिसू०—बन्ध और संक्रम इन दोनों अनुयोगद्वारोंके विषयमें यह सूत्र-गाथा है ॥ २ ॥

(५) कितनी प्रकृतियोंको बाँधता है, कितनी स्थिति और अनुभागको बाँधता है, तथा कितने जवन्य और उत्कृष्ट परिमाणयुक्त प्रदेशोंको बाँधता है ? कितनी प्रकृतियोंका संक्रमण करता है, कितनी स्थिति और अनुभागका संक्रमण करता है, तथा कितने गुण-हीन या गुण-विशिष्ट जवन्य-उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रमण करता है ? ॥२३॥

३. एदीए गाहाए बंधो च संक्रमो च सूचिदो होइ । ४. पदच्छेदो । ५. तं जहा । ६. 'कदि पयडीओ बंधइ' ति पयडिवंधो । ७. 'द्विदि-अणुभागे' ति द्विदिवंधो अणुभागबंधो च । ८. 'जहण्णमुक्कस्स' ति पदेसबंधो । ९. 'संक्रामेदि कदि वा' ति पयडिसंक्रमो च द्विदिसंक्रमो च अणुभागसंक्रमो च गहेयव्वो । १०. 'गुणहीणं वा गुणविसिद्धं' ति पदेससंक्रमो सूचिदो । ११. सो पुण पयडि-द्विदि-अणुभाग-पदेसबंधो बहुसो परुविदो ।

बंधग-अत्थाहियारो समत्तो ।

विशेषार्थ—यह सूत्र-गाथा प्रभात्मक है और किस प्रश्नसे क्या सूचित किया गया है, इसका स्पष्टीकरण आगे चूर्णिकार स्वयं ही कर रहे हैं ।

चूर्णिसू०—इस गाथाके द्वारा बन्ध और संक्रम ये दोनों सूचित किये गये हैं । गाथाका पदच्छेद अर्थात् पदोका पृथक् पृथक् अर्थ इस प्रकार है—'कितनी प्रकृतियोंको बाँधता है', इस पदसे प्रकृतिबन्ध सूचित किया गया है । 'स्थिति और अनुभाग' इस पदसे स्थिति-बन्ध और अनुभागबन्ध सूचित किये गये हैं । 'जबन्य और उत्कृष्ट' इस पदसे प्रदेशबन्ध सूचित किया गया है । 'कितनी प्रकृतियोंका संक्रमण करता है' इस पदके द्वारा प्रकृतिसंक्रम, स्थितिसंक्रम और अनुभागसंक्रमको ग्रहण करना चाहिए । गाथाके 'गुणहीन और गुणविशिष्ट' इस अन्तिम अवयवसे प्रदेशसंक्रम सूचित किया गया है । इनमेसे वह प्रकृतिबन्ध, स्थिति-बन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्ध बहुत बार प्ररूपण किया गया है । ॥३-११॥

विशेषार्थ—कसायपाहुडके पन्द्रह अर्थाधिकारोंमेसे बन्धनामक चतुर्थ और संक्रमण-नामक पंचम अर्थाधिकारका निरूपण 'कदि'पयडीओ बंधदि' इस पाँचवीं मूलगाथाके द्वारा किया गया है । बन्धके चार भेद हैं—प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्ध । इसी प्रकार संक्रमणके भी चार भेद हैं—प्रकृतिसंक्रमण, स्थितिसंक्रमण, अनुभागसंक्रमण और प्रदेशसंक्रमण । गाथाके किस पदसे बन्ध और संक्रमणके किस भेदकी सूचना की गई है, यह चूर्णिकारने स्पष्ट कर दिया है । पुनः बन्धके चारों भेदोंका वर्णन-करना क्रम-प्राप्त था, किन्तु चूर्णिकारने उनका कुछ भी वर्णन न करके एकमात्र ग्यारहवे सूत्र-द्वारा इतना ही निर्देश किया है कि वह चारों प्रकारका बन्ध 'बहुशः प्ररूपित है' । जिसका अभिप्राय यह है कि ग्रन्थान्तरोमे इन चारों प्रकारके बन्धोंका बहुत विस्तारसे वर्णन किया गया है, इस कारण मैं उनका यहाँपर कुछ भी वर्णन नहीं करूँगा । इस सूत्रकी व्याख्या करते हुए जयधवलकाकार लिखते हैं कि इसलिए 'महाबन्ध' के अनुसार यहाँपर चारों प्रकारके बन्धोंकी प्ररूपणा करनेपर बन्ध-नामक चौथा अर्थाधिकार समाप्त होता है ।

इस प्रकार बन्ध-नामक चौथा अर्थाधिकार समाप्त हुआ ।

५ संक्रम-अत्याहियारो

१. संक्रमे पयदं । २. संक्रमस्स पंचविहो उवक्रमो-आणुपुव्वी णामं
पमाणं वत्तव्वदा अत्याहियारो चेदि । ३. एत्थ णिकखेवो कायव्वो । ४. णामसंक्रमो
ठवणसंक्रमो दव्वसंक्रमो खेत्तसंक्रमो कालसंक्रमो भावसंक्रमो चेदि । ५. णेगमो सव्वे

५ संक्रमण-अर्थाधिकार

अत्र ग्रन्थकारके द्वारा पाँचवीं मूलगाथासे सूचित संक्रमण-नामक पाँचवे अर्थाधि-
कारका अवतार करते हुए यतिवृषभाचार्य उत्तर सूत्र कहते हैं—

चूर्णिसू०—अत्र संक्रम प्रकृत है, अर्थात् संक्रमणका वर्णन किया जायगा ॥१॥

विशेषार्थ—इस संक्रमका अवतार उपक्रम, निक्षेप, नय और अनुगम इन चार
प्रकारोंसे होता है; क्योंकि, इनके बिना संक्रम-विषयक यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता है ।

अत्र चूर्णिकार सर्वप्रथम उपक्रमके द्वारा संक्रमका अवतार करते हैं—

चूर्णिसू०—संक्रमका उपक्रम पांच प्रकारका है— आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता
और अर्थाधिकार ॥२॥

विशेषार्थ—आनुपूर्वी-उपक्रम के तीन भेद हैं, उनमेंसे पूर्वानुपूर्वीकी अपेक्षा यह संक्रम-
अधिकार कसायपाहुडके पन्द्रह अर्थाधिकारोंमेंसे पाँचवां है । नाम-उपक्रमकी अपेक्षा 'संक्रम'
यह गौण्यनामपद है, क्योंकि, इसमें कर्मोंके संक्रमणका विस्तारसे वर्णन किया गया है । प्रमाण-
उपक्रमकी दृष्टिसे इसका प्रमाण अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्ति और अनुयोगद्वारोंकी अपेक्षा
संख्यात है और अर्थकी अपेक्षा अनन्त है । वक्तव्यता-उपक्रमकी अपेक्षा संक्रमकी स्व-
समयवक्तव्यता है । संक्रमका अर्थाधिकार चार प्रकारका है—प्रकृतिसंक्रम, स्थितिसंक्रम, अनु-
भागसंक्रम और प्रदेशसंक्रम । इस पाँचवे अर्थाधिकारमें इन्हीं चारों प्रकारके संक्रमोंका विवे-
चन किया जायगा ।

अत्र निक्षेप-उपक्रमका अवतार करते हैं—

चूर्णिसू०—यहाँपर संक्रमका निक्षेप करना चाहिए । वह छह प्रकार का है—नाम-
संक्रम स्थापनासंक्रम, द्रव्यसंक्रम, क्षेत्रसंक्रम, कालसंक्रम और भावसंक्रम ॥३-४॥

अत्र नयोंका अवतार करते हैं—

चूर्णिसू०—नैगमनय उपर्युक्त सर्व संक्रमणोंको स्वीकार करता है । क्योंकि, वह द्रव्य
और पर्याय दोनोंको ही विषय करता है । संग्रहनय और व्यवहारनय कालसंक्रमको छोड़ देते

संक्रमे इच्छद् । ६. संग्रह-व्यवहारा कालसंक्रमवर्णंति । ७. उजुसुदो एदं च ठवणं च अवणोद् । ८. सदस्स णामं भावो य ।

९. णोआगमदो दव्वसंक्रमो ठवणिज्जो । १०. खेत्तसंक्रमो जहा-उड्डुलोगो संकंतो । ११. कालसंक्रमो जहा-संकंतो हेमंतो । १२. भावसंक्रमो जहा-संकंतं पेम्मं ।

१३. जो सो णोआगमदो दव्वसंक्रमो सो दुविहो-कम्मसंक्रमो च णोकम्म-संक्रमो च । १४. णोकम्मसंक्रमो जहा-कट्टसंक्रमो * । १५. कम्मसंक्रमो चउच्चिहो । तं जहा-पयडिसंक्रमो द्विदिसंक्रमो अणुभागसंक्रमो पदेससंक्रमो चेदि । १६. पयडि-संक्रमो दुविहो । तं जहा-एगोपयडिसंक्रमो पयडिट्ठाणसंक्रमो च ।

है । क्योंकि, संग्रहनयकी दृष्टिमें कालके भूत, भविष्यन् आदि भेद नहीं है और न व्यवहार-नयकी अपेक्षा उनसे व्यवहार ही हो सकता है । ऋजुसूत्रनय कालसंक्रम और स्थापनासंक्रम-को छोड़ देता है । क्योंकि वह तद्भवसामान्य और सादृश्यसामान्यको विषय नहीं करता । शब्दनय नामसंक्रम और भावसंक्रमको ही विषय करते हैं । क्योंकि शुद्ध पर्यायार्थिक रूपसे शब्दनयोंमें शेष निक्षेपोंको विषय करना संभव नहीं है । ॥ ५-८ ॥

अब निक्षेपकी अपेक्षा संक्रमकी प्ररूपणा की जाती है । ऊपर बतलाये गये छह प्रकारके निक्षेपोंमें नामसंक्रम, स्थापनासंक्रम और आगमकी अपेक्षा द्रव्य-संक्रम ये तीनों सुगम हैं, अतएव उन्हें न कहकर चूर्णिकार शेष निक्षेपोंका वर्णन करते हैं—

चूर्णिसू०—नोआगम-द्रव्यसंक्रम बहुवर्णनीय है, अतः उसे अभी स्थगित रखना चाहिए । क्षेत्रसंक्रम इस प्रकार है—ऊर्ध्वलोक संक्रान्त हुआ । अर्थात् ऊर्ध्वलोकवासी देवोंके मध्यलोकमें आनेपर ऐसा व्यवहार होता है, यह क्षेत्रसंक्रम है । हेमन्त संक्रान्त हुआ, अर्थात् वर्षाऋतुके चले जानेपर अब हेमन्त ऋतुका आगमन हुआ है, यह कालसंक्रम है । प्रेम संक्रान्त हुआ, अर्थात् अन्य व्यक्तिपर जो स्नेह था, वह उससे हटकर किसी अन्य व्यक्तिपर चला गया, यह भावसंक्रम है ॥ ९-१२ ॥

चूर्णिसू०—जो पूर्वमें स्थगित नोआगमद्रव्यसंक्रम है, वह दो प्रकारका है—कर्मसंक्रम और नोकर्मसंक्रम । नोकर्मसंक्रम इस प्रकार है, जैसे—काष्ठसंक्रम ॥ १३-१४ ॥

विशेषार्थ—काष्ठकी बनी हुई नौका आदिके द्वारा एक स्थानसे अन्य स्थानपर जाने-को काष्ठसंक्रम कहते हैं । यह उदाहरण उपलक्षणरूप है, अतः प्रस्तरसंक्रम, मृत्तिकासंक्रम, लोह-संक्रम आदि अनेक प्रकारके सब द्रव्याश्रित संक्रम इस नोकर्मसंक्रमके अन्तर्गत आ जाते हैं ।

चूर्णिसू०—कर्मसंक्रम चार प्रकारका है :—प्रकृतिसंक्रम, स्थितिसंक्रम, अनुभाग-संक्रम और प्रदेशसंक्रम । इनमेंसे प्रकृतिसंक्रमके दो भेद हैं । वे इस प्रकार हैं—एकैकप्रकृति-संक्रम और प्रकृतिस्थानसंक्रम ॥ १५-१६ ॥

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमें इस सूत्रके आगे वह एक सूत्र और सुद्रित है—“णईतोये अपणत्थ वा कत्थ वि कट्टाणि द्विविय जेणिच्छिदपदेस गच्छंति सो कट्टमओ संक्रमो” । (देखो पृ० ९६०) पर वस्तुतः यह सूत्र नहीं, किन्तु टीकाका अंश है, जिसमें कि ‘काष्ठसंक्रमकी व्याख्या की गई है ।

१७. पयडिसंक्रमे पयदं । १८. तत्र तिष्ठिण मुचगाहाधो हवन्ति । १९. तं तदा ।
 संक्रम-उपक्रमविही पंचविहो चउच्चिहो य णिग्म्वेवो ।
 णयविहि पयदं पयदे च णिग्ममो होह अट्टुविहो ॥२४॥
 एहोकाए संक्रमो दुविहो संक्रमविही य पयडीए ।
 संक्रमपडिग्महविही पडिग्महो उत्तम-जहण्णो ॥२५॥
 पयडि-पयडिहण्णेषु संक्रमो अंक्रमो तदा दुविहो ।
 दुविहो पडिग्महविही दुविहो अपडिग्महविही य ॥२६॥

चूणिसू०—यहाँ एकैकप्रकृतिसंक्रम प्रकृत हैं । उनमें तीन उचगाथाएँ निम्न हैं ।
 वे इस प्रकार हैं ॥ १७-१९ ॥

विशेषार्थ—मूलप्रकृतियोंका संक्रमण नहीं होता है, उनमें यहाँपर उचरप्रकृतियोंके संक्रमणके ही दो भेद किये गये हैं—एकैकप्रकृतिसंक्रम और प्रकृतिस्थानसंक्रम । मिथ्यात्व आदि पृथक्-पृथक् प्रकृतियोंका आलम्बन करके जो संक्रमणकी मार्गणा ली जाती है, उसे एकैकप्रकृतिसंक्रम कहते हैं । तथा एक नमयसे जितनी प्रकृतियोंका संक्रमण सम्भव हो, उनको एक साथ लेकर जो संक्रमणकी मार्गणा की जाती है, उसे प्रकृतिस्थानसंक्रम कहते हैं । यहाँपर 'स्थान' शब्दको समुदायका चानक जानना चाहिए ।

संक्रमकी उपक्रम विधि पाँच प्रकार की है, निक्षेप चार प्रकारका है, नयविधि भी प्रकृतमें विवक्षित है और प्रकृतमें निर्गम भी आठ प्रकार का है । प्रकृतिसंक्रम दो प्रकार का है—एक एक प्रकृतिमें संक्रम अर्थात् एकैकप्रकृतिसंक्रम और प्रकृतिमें संक्रमविधि अर्थात् प्रकृतिस्थानसंक्रम । संक्रममें प्रतिग्रहविधि होती है और वह उत्तम अर्थात् उत्कृष्ट और जघन्य होती है ॥२४-२५॥

विशेषार्थ—प्रथम गाथाके द्वारा प्रकृतिसंक्रमके उपक्रम, निक्षेप, नय और अनुगम रूप चार प्रकारके अवतारकी प्ररूपणा की गई है । दूसरी गाथाके पूर्वार्धके द्वारा आठ निर्गमों-मेसे प्रकृतिसंक्रम और प्रकृतिस्थानसंक्रम इन दोका और उत्तरार्धके द्वारा प्रकृतिप्रतिग्रह और प्रकृतिस्थानप्रतिग्रह इन दोका, इस प्रकार चार निर्गमोंका निर्देश किया गया है ।

प्रकृतिमें संक्रम और प्रकृतिस्थानमें संक्रम, इस प्रकार संक्रमके दो भेद हैं । इसी प्रकार से असंक्रम भी दो प्रकारका होता है—प्रकृति-असंक्रम और प्रकृतिस्थान-असंक्रम । प्रतिग्रहविधि दो प्रकारकी होती है—प्रकृति-प्रतिग्रह और प्रकृतिस्थान-प्रतिग्रह । इसी प्रकार अप्रतिग्रहविधि भी दो प्रकारकी होती है—प्रकृति-अप्रतिग्रह और प्रकृतिस्थान-अप्रतिग्रह । इस प्रकार निर्गम के आठ भेद होते हैं ॥२६॥

२०. एदाओ तिणिण गाहाओ पयडिसंकमे । २१. एदासिं गाहाणं पदच्छेदो ।
 २२. तं जहा । २३. 'संकम उवकमविही पंचविहो' तिः* एदस्स पदस्स अत्थो-पंच-
 विहो उवकमो, आणुपुव्वी णामं प्रमाणं वत्तव्वदा अत्थाहियारो चेदि । २४. 'चउव्विहो
 य णिकखेवो' ति णाम-ट्ठवणं वज्जं, दव्वं खेतं कालो भावो च । २५. 'णयविधि पयदं'
 ति एत्थ णओ वत्तव्वो । २६. 'पयदे च णिग्गमो होइ अडुविहो' ति-पयडिसंकमो
 पयडि-असंकमो पयडिद्वाणसंकमो पयडिद्वाण-असंकमो पयडिपडिग्गहो पयडि-अपडिग्गहो

विशेषार्थ—निकलनेको निर्गम कहते हैं । प्रकृतमे संक्रम विवक्षित है, अतः उसकी
 अपेक्षा निर्गमके तीसरी सूत्रगाथामें आठ भेद बतलाये गये हैं । उनका संक्षेपमे अर्थ इस
 प्रकार है—मिथ्यात्वप्रकृतिका सम्यग्मिथ्यात्व या सम्यक्त्वप्रकृतिरूपसे परिवर्तित होनेको
 प्रकृतिसंक्रम कहते हैं (१) । मिथ्यात्वका मिथ्यादृष्टिमे रहना, सम्यग्मिथ्यात्वका सम्यग्मि-
 थ्यादृष्टिमें रहना, यह प्रकृति-असंक्रम कहलाता है (२) । मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी
 सत्तावाले मिथ्यादृष्टिमे सत्ताईस प्रकृतिरूप स्थानके परिवर्तनको प्रकृतिस्थानसंक्रम कहते
 हैं (३) । अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाले मिथ्यादृष्टिका अट्टाईस प्रकृतियोंके सत्त्वरूप स्थानमे
 ही रहना प्रकृतिस्थान-असंक्रम कहलाता है (४) । मिथ्यात्वका मिथ्यादृष्टिमे पाया जाना
 यह प्रकृति-प्रतिग्रह कहलाता है (५) । मिथ्यात्वमे सम्यग्मिथ्यात्व या सम्यक्त्वप्रकृतिके
 संक्रमित नहीं होनेको, अथवा दर्शनमोहनीयका चारित्रमोहनीयमे और चारित्रमोहनीयका
 दर्शनमोहनीयमे संक्रमण नहीं होनेको प्रकृति-अप्रतिग्रह कहते हैं (६) । मिथ्यादृष्टिमे वाईस
 प्रकृतियोंके समुदायरूप स्थानके पाये जानेको प्रकृतिस्थान-प्रतिग्रह कहते हैं (७) । मिथ्या-
 दृष्टिमे सोलह प्रकृतिरूप स्थानके नहीं पाये जानेको प्रकृतिस्थान-अप्रतिग्रह कहते हैं (८) । इस
 प्रकार निर्गमके आठ भेद हैं ।

चूर्णिसू०—प्रकृति-संक्रममे ये उपर्युक्त तीन गाथाएँ निबद्ध हैं । अब इन गाथाओंका
 पदच्छेद किया जाता है । वह इस प्रकार है—'संक्रम-उपक्रमविधि पाँच प्रकारकी है', प्रथम
 गाथाके इस प्रथम पदका यह अर्थ है—संक्रमसम्बन्धी उपक्रमके पाँच भेद हैं—आनुपूर्वी,
 नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार । 'निक्षेप चार प्रकारका होता है' इस द्वितीय पदका
 यह अर्थ है—पहले जो निक्षेपके छह भेद बतलाये गये हैं, उनमेसे नाम और स्थापनाको
 छोड़कर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चार निक्षेप प्रकृतमे ग्रहण करना चाहिए । 'नयविधि
 प्रकृत है' गाथाके इस तीसरे पदका यह अर्थ है कि यहाँपर नय कहना चाहिए । 'प्रकृतमे
 निर्गम आठ प्रकारका है' गाथाके इस अन्तिम पदका यह अर्थ है कि निर्गमके आठ भेद
 हैं—(१) प्रकृतिसंक्रम, (२) प्रकृति-असंक्रम, (३) प्रकृतिस्थानसंक्रम, (४) प्रकृति-

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमे आगेके सूत्राशको टीकाका अग वना दिया है, जब कि इस सूत्रकी टीका
 'संकमउवकमविही पंचविहो ति एदस्स पदमगाहापुव्वदाववपयदस्स' यहाँ से प्रारभ होती है ।

पयडिङ्गाणपडिग्गहो पयडिङ्गाण-अपडिग्गहो त्ति एसो णिग्गमो अट्ठविहो ।

२७ 'एक्केकाए संक्रमो दुविहो संक्रमविही य पयडीए' त्ति पदस्स अत्थो कायव्वो । २८. 'एक्केकाए' त्ति एगेगपयडिसंक्रमो, दुविहो त्ति 'संक्रमो दुविहो' त्ति भणियं होइ । 'संक्रमविही य' त्ति पयडिङ्गाणसंक्रमो । 'पयडीए' त्ति पयडिसंक्रमो त्ति भणियं होइ । २९. 'संक्रमपडिग्गहविहि' त्ति संक्रमे पयडिपडिग्गहो । ३०. 'पडिग्गहो उत्तम-जहण्णो' त्ति पयडिङ्गाणपडिग्गहो ।

३१. 'पयडि-पयडिङ्गाणेषु संक्रमो' त्ति पयडिसंक्रमो पयडिङ्गाणसंक्रमो च । ३२. 'असंक्रमो तहा दुविहो' त्ति पयडि-असंक्रमो पयडिङ्गाण-असंक्रमो च । ३३. 'दुविहो पडिग्गहविहि' त्ति पयडिपडिग्गहो पयडिङ्गाणपडिग्गहो च । ३४. 'दुविहो

स्थान-असंक्रम, (५) प्रकृति-प्रतिग्रह, (६) प्रकृति-अप्रतिग्रह, (७) प्रकृतिस्थान-प्रतिग्रह और (८) प्रकृतिस्थान-अप्रतिग्रह, इस प्रकार निर्गमके आठ भेद होते हैं । यह प्रथम सूत्र-गाथाकी विभाषा है ॥२०-२६॥

चूर्णिसू०—अब दूसरी गाथाके 'एक्केकाए संक्रमो दुविहो संक्रमविही य पयडीए' इस पूर्वार्धका अर्थ करना चाहिए । वह इस प्रकार है :—'एक्केकाए' इस पदका अर्थ 'एकैक-प्रकृतिसंक्रम' है । 'दुविहो त्ति' इस पद का अर्थ है कि 'संक्रम दो प्रकारका होता है । 'संक्रमविही य' इस पदका अर्थ 'प्रकृतिस्थानसंक्रम है' और 'पयडीए' इस पदका अर्थ 'प्रकृतिसंक्रम' है । इस प्रकार पूर्वार्धका सीधा अर्थ यह हुआ कि 'प्रकृतिका संक्रम दो प्रकारका होता है—एक-एक प्रकृतिका संक्रम अर्थात् एकैकप्रकृतिसंक्रम और प्रकृतिमे संक्रमविधि अर्थात् प्रकृतिस्थानसंक्रम । 'संक्रमपडिग्गहविही' गाथाके इस तृतीय चरणका अर्थ 'संक्रममे प्रकृति-प्रतिग्रह' है । 'पडिग्गहो उत्तम-जहण्णो' गाथाके इस चतुर्थ चरणका अर्थ प्रकृतिस्थान-प्रतिग्रह है । इस प्रकार समुच्चयरूपसे इस गाथाके द्वारा चार निर्गम सूचित किये गये हैं—प्रकृति-संक्रम, प्रकृतिस्थान-संक्रम, प्रकृति-प्रतिग्रह और प्रकृतिस्थान-प्रतिग्रह । यह दूसरी सूत्र-गाथाकी विभाषा है ॥२७-३०॥

चूर्णिसू०—अब तीसरी गाथाका अर्थ करते हैं—'पयडि-पयडिङ्गाणेषु संक्रमो' गाथाके इस प्रथम अवयवका अर्थ—प्रकृति-संक्रम और प्रकृतिस्थान संक्रम है । 'असंक्रमो तहा दुविहो' गाथाके इस दूसरे पदका अर्थ—असंक्रम दो प्रकारका होता है—प्रकृति-असंक्रम और प्रकृतिस्थान-असंक्रम । 'दुविहो पडिग्गहविहि' गाथाके इस तीसरे पदका अर्थ है कि प्रतिग्रहविधि दो प्रकारकी है—प्रकृति-प्रतिग्रह और प्रकृतिस्थान-प्रतिग्रह । 'दुविहो अपडिग्गह-विही य' गाथाके इस अन्तिम चरणका अर्थ है कि अप्रतिग्रहविधि भी दो प्रकारकी होती

१ 'परिणमयह जीने त पगईइ पडिग्गहो एसो' । यत्था प्रकृतौ आधारभूताया तत्प्रकृत्यन्तरस्थं दल्लिक् परिणमयति आधारभूतप्रकृतिरुपतामापादयति' एषा प्रकृतिराधारभूता पतद्ग्रह इव पतद्ग्रहः सक्रम्यमाणप्रकृत्याधार इत्यर्थः । क्रम्मप० सक्र० ११२

अपडिग्गहविही य' त्ति पयडि-अपडिग्गहो पयडिड्डाण-अपडिग्गहो च । ३५. एस सुत्तफासो ।

३६. एगेगपयडिसंक्रमे पयदं *। ३७. एत्थ सामित्तं । ३८. मिच्छत्तस्स संकामओ को होइ ? ३९. णियमा सम्माइड्डी । ४०. वेदग्गसम्माइड्डी सव्वो । ४१. उवसामगो च णिरासाणो । ४२. सम्मत्तस्स संकामओ को होइ ? ४३. णियमा मिच्छाइड्डी सम्मत्तसंतकम्मिओ । ४४. णवरि आवलियपविट्ठसम्मत्तसंतकम्मियं वज्ज ।

है—प्रकृति-अप्रतिग्रह और प्रकृतिस्थान-अप्रतिग्रह । इस प्रकार प्रथम गाथाके द्वारा सूचित आठ निर्गमोका इस तीसरी गाथाके द्वारा गाथासूत्रकारने स्वयं नामोल्लेख कर दिया है । यह सूत्रस्पर्श है, अर्थात् गाथासूत्रोका पदच्छेदपूर्वक संक्षेपसे अर्थ किया गया है ॥ ३१-३५ ॥

चूर्णिषु०—एकैकप्रकृतिसंक्रम प्रकृत है, अर्थात् प्रतिग्रह आदि अवान्तर भेदोके साथ एकैकप्रकृतिसंक्रमका निरूपण किया जायगा ॥ ३६ ॥

विशेषार्थ—इस एकैकप्रकृतिसंक्रमके चौबीस अनुयोगद्वार है—१ समुत्कीर्तना, २ सर्वसंक्रम, ३ नोसर्वसंक्रम, ४ उत्कृष्टसंक्रम, ५ अनुत्कृष्टसंक्रम, ६ जघन्यसंक्रम ७ अजघन्य-संक्रम, ८ सादिसंक्रम, ९ अनादिसंक्रम, १० ध्रुवसंक्रम, ११ अध्रुवसंक्रम, १२ एकजीवकी अपेक्षा स्वामित्व, १३ काल, १४ अन्तर, १५ नाना जीवोकी अपेक्षा भंगविचय, १६ भागाभाग १७ परिमाण, १८ क्षेत्र, १९ स्पर्श, २० काल, २१ अन्तर, २२ सन्निकर्ष, २३ भाव और २४ अल्पवहुत्व । इनमेसे समुत्कीर्तनाको आदि लेकर अध्रुवसंक्रम तकके ग्यारह अनुयोगद्वारोका प्ररूपण सुगम एवं अल्प वर्णनीय होनेसे चूर्णिकारने नहीं किया है । विशेष जिज्ञासुओको जयधवला टीकासे जानना चाहिए ।

चूर्णिषु०—यहाँपर उक्त चौबीस अनुयोगद्वारोसेसे एक जीवकी अपेक्षा संक्रमणके स्वामित्वका निरूपण किया जाता है ॥ ३७ ॥

शंका—मिथ्यात्वका संक्रमण करनेवाला कौन जीव है ? ॥ ३८ ॥

समाधान—नियमसे सम्यग्दृष्टि है । संक्रमणके योग्य मिथ्यात्वकी सत्तावाले सर्व वेदकसम्यग्दृष्टि मिथ्यात्वका संक्रमण करते हैं । तथा निरासान अर्थात् आसादना या विराधनासे रहित सभी उपशमसम्यग्दृष्टि जीव भी मिथ्यात्वका संक्रमण करते हैं ॥ ३९-४१ ॥

शंका—सम्यक्त्वप्रकृतिका संक्रामक कौन जीव है ? ॥ ४२ ॥

समाधान—सम्यक्त्वप्रकृतिकी सत्ता रखनेवाला मिथ्यादृष्टि जीव नियमसे सम्यक्त्व-प्रकृतिका संक्रामक होता है । केवल आवली-प्रविष्ट सम्यक्त्वसत्कर्मिक मिथ्यादृष्टि जीवको छोड़ देना चाहिए, अर्थात् जिसके एक आवलीकालप्रमाण ही सम्यक्त्वप्रकृतिकी सत्ता शेष रह

* तत्थ चउवीसमणियोगद्वाराणि होति । त जहा—समुक्कित्तणा सव्वसकमो णोसव्वसकमो उक्कस्स-सकमो अणुक्कस्सकमो जहण्णसकमो अजहण्णसकमो सादियसकमो अणादियसकमो ध्रुवसकमो अध्रुवसकमो एकजीवेण सामित्त कालो अतर णाणाजीवेहि भगविचओ भागाभागो परिमाण खेत पोसण कालो अतर सणियासो भावो अप्पावहुअ चेदि । जयध०

४५. सम्पामिच्छत्तस्स संकामओ को होइ ? ४६. मिच्छाइड्डी उच्चेल्लमाणओ ।

४७. सम्पाइड्डी वा णिरासाणो । ४८. मोत्तूण पढमसमयसम्पामिच्छत्तसंतकम्मियं ।

४९. दंसणमोहणीयं चरित्तमोहणीए ण संकमइ । ५०. चरित्तमोहणीयं पि दंसणमोहणीए ण संकमइ । ५१. अणंताणुवंधी जत्तियाओ वज्झंति चरित्तमोहणीय-पयडीओ तासु सच्चासु संकमइ । ५२. एवं सच्चाओ चरित्तमोहणीयपयडीओ । ५३. ताओ पणुवीसं पि चरित्तमोहणीयपयडीओ अण्णदरस्स संकमंति ।

५४. एयजीवेण कालो । ५५. मिच्छत्तस्स संकामओ केवचिरं कालादो होदि ? ५६. जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । ५७. उक्कस्सेण छावट्टिसागरोवमाणि सादिरेयाणि । ५८. सम्पत्तस्स संकामओ केवचिरं कालादो होदि ? ५९. जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । ६०. उक्क-स्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । ६१. सम्पामिच्छत्तस्स संकामओ केवचिरं कालादो होदि ? ६२. जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । ६३. उक्कस्सेण वे छावट्टिसागरोवमाणि

गई हो, वह मिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्त्वप्रकृतिका संक्रमण नहीं करता है ॥४३-४४॥

शंका—सम्यग्मिथ्यात्वका संक्रामक कौन जीव है ? ॥४५॥

समाधान—सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना करनेवाला मिथ्यादृष्टि जीव सम्यग्मिथ्यात्वका संक्रामक होता है। आसादनासे रहित उपशमसम्यग्दृष्टि जीव भी सम्यग्मिथ्यात्वका संक्रामक होता है। तथा प्रथम समयमें सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्तावाले जीवको छोड़कर सर्व वेदकसम्यग्दृष्टि भी सम्यग्मिथ्यात्वके संक्रामक होते हैं ॥४६-४८॥

चूर्णिसू०—दर्शनमोहनीयकर्म चारित्रमोहनीयकर्ममें संक्रमण नहीं करता है। चारित्र-मोहनीयकर्म भी दर्शनमोहनीयकर्ममें संक्रमण नहीं करता है। चारित्रमोहनीयकर्मकी जितनी प्रकृतियाँ बँधती हैं, उन सबमें अनन्तानुबन्धीका संक्रमण होता है। इसी प्रकार सर्व चारित्र-मोहनीय-प्रकृतियाँ भी अनन्तानुबन्धीमें संक्रमण करती हैं। चारित्रमोहनीयकी ये पच्चीसों ही प्रकृतियाँ किसी भी एक प्रकृतिमें संक्रमण करती हैं ॥४६-५३॥

चूर्णिसू०—अब एक जीवकी अपेक्षा संक्रमणका काल कहते हैं ॥५४॥

शंका—मिथ्यात्वके संक्रमणका कितना काल है ? ॥५५॥

समाधान—मिथ्यात्वके संक्रमणका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ अधिक छयासठ सागरोपम है ॥५६-५७॥

शंका—सम्यक्त्वप्रकृतिके संक्रमणका कितना काल है ? ॥५८॥

समाधान—सम्यक्त्वप्रकृतिके संक्रमणका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्टकाल पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण है ॥५९-६०॥

शंका—सम्यग्मिथ्यात्वके संक्रमणका कितना काल है ? ॥६१॥

समाधान—सम्यग्मिथ्यात्वके संक्रमणका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ अधिक दो बार छयासठ सागरोपम है ॥६२-६३॥

सादिरेयाणि । ६४. सेसाणं पि षणुवीसं पयडीणं संक्रामयस्स तिणिण भंगा । ६५. तत्थ जो सो सादिओ सपज्जवसिदो, जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । उक्कस्सेण उवड्डुपोग्गल-परियट्टं ।

६६. एयजीवेण अंतरं । ६७. मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं संक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ६८. जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । ६९ उक्कस्सेण उवड्डुपोग्गल-परियट्टं । ७०. णवरि सम्मामिच्छत्तस्स संक्रामयंतरं जहण्णेण एयसमओ ।

७१. अणंताणुवंधीणं संक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ७२. जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । ७३. उक्कस्सेण वे छावड्डिसागरोवमाणि सादिरेयाणि । ७४. सेसाणमेक-वीसाए पयडीणं संक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होइ ? ७५. जहण्णेण एयसमओ । ७६. उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

७७. णाणाजीवेहि भंगविचओ । ७८. जेसिं पयडीणं संतकम्ममत्थि तेसु पयदं । ७९. मिच्छत्त-सम्मत्ताणं सव्वजीवा णियमा संक्रामया च असंक्रामया च ।

चूर्णिसू०—चारित्रमोहनीयकी शेष पच्चीस प्रकृतियोंके संक्रमणकालके तीन भंग है—अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त । इनमें जो सादि-सान्तकाल है, उसकी अपेक्षा उक्त प्रकृतियोंके संक्रमणका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल उपार्धपुद्गल-परिवर्तन है ॥ ६४-६५॥

चूर्णिसू०—अब एक जीवकी अपेक्षा प्रकृति-संक्रमणका अन्तर कहते हैं ॥ ६६॥

शंका—मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिके संक्रमणका अन्तरकाल कितना है ? ॥ ६७॥

समाधान—इन तीनों प्रकृतियोंके संक्रमणका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्धपुद्गलपरिवर्तन है । केवल सम्यग्मिथ्यात्वके संक्रमणका जघन्य अन्तरकाल एक समय होता है ॥ ६८-७०॥

शंका—अनन्तानुवन्धी कपायोंके संक्रमणका अन्तरकाल कितना है ? ॥ ७१॥

समाधान—अनन्तानुवन्धी कपायोंके संक्रमणका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक दो बार छयासठ सागरोपम है ॥ ७२-७३॥

शंका—चारित्रमोहनीयकी शेष इक्कीस प्रकृतियोंके संक्रमणका अन्तरकाल कितना है ? ॥ ७४॥

समाधान—चारित्रमोहनीयकी शेष इक्कीस प्रकृतियोंके संक्रमणका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है ॥ ७५-७६॥

चूर्णिसू०—अब नानाजीवोंकी अपेक्षा प्रकृति-संक्रामकका भंग-विचय कहते हैं—जिन प्रकृतियोंका सत्कर्म अर्थात् सत्त्व है, उनमें ही भंग-विचय प्रकृत है । मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिके सर्व जीव नियमसे संक्रामक भी होते हैं, और असंक्रामक भी होते हैं । सम्य-

८०. सम्मामिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणोकसायाणं च तिण्णि भंगा कायव्वा ।

८१. णाणाजीवेहि कालो । ८२. सव्वकम्माणं संकामया केवचिरं कालादो होंति ? ८३. सव्वद्धा ।

८४. णाणाजीवेहि अंतरं । ८५. सव्वकम्मसंकामयाणं णत्थि अंतरं ।

८६. सण्णियासो । ८७. मिच्छत्तस्स संकामओ सम्मामिच्छत्तस्स सिया संकामओ, सिया असंकामओ । ८८. सम्मत्तस्स असंकामओ । ८९. अणंताणुवंधीणं सिया कम्मंसिओ, सिया अकम्मंसिओ । जदि कम्मंसिओ, सिया संकामओ, सिया असंकामओ । ९०. सेसाणमेक्कवीसाए कम्माणं सिया संकामओ सिया असंकामओ । ९१. एवं सण्णियासो कायव्वो * ।

मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नव नोकपायोके तीन भंग करना चाहिए । अर्थात् कदाचित् सर्व जीव संक्रामक होते हैं (१) । कदाचित् अनेक जीव असंक्रामक होते हैं, और कोई एक जीव संक्रामक होता है (२) । कदाचित् अनेक जीव संक्रामक और अनेक जीव असंक्रामक होते हैं (३) ॥७७-८०॥

चूर्णिसू०—अब नाना जीवोंकी अपेक्षा प्रकृतिसंक्रमणका काल कहते हैं ॥८१॥

शंका—मोहनीयकी सर्व कर्मप्रकृतियोंके संक्रमणका कितना काल है ? ॥८२॥

समाधान—सर्वकाल है, अर्थात् मोहनीयकर्मकी सभी प्रकृतियोंके संक्रमण करनेवाले जीव सर्वदा पाये जाते हैं ॥८३॥

चूर्णिसू०—अब नाना जीवोंकी अपेक्षा प्रकृतिसंक्रमणका अन्तर कहते हैं—मोहनीय-कर्मकी सर्व प्रकृतियोंमेसे किसी भी प्रकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, अर्थात् मोहकर्मकी सभी प्रकृतियोंके संक्रामक जीव सर्व काल पाये जाते हैं ॥८४-८५॥

चूर्णिसू०—अब प्रकृति-संक्रामकका सन्निकर्ष कहते हैं—मिथ्यात्वका संक्रमण करने-वाला जीव सम्यग्मिथ्यात्वका कदाचित् संक्रामक होता है और कदाचित् असंक्रामक होता है । सम्यक्त्वप्रकृतिका असंक्रामक होता है । अनन्तानुबन्धी कपायोका कदाचित् कर्माशिक (सत्ता-युक्त) होता है और कदाचित् अकर्माशिक (सत्ता-रहित) होता है । यदि कर्माशिक है, तो कदाचित् संक्रामक होता है और कदाचित् असंक्रामक होता है । शेष इक्कीस कर्मप्रकृतियोंका कदाचित् संक्रामक होता है और कदाचित् असंक्रामक होता है । जिस प्रकार मिथ्यात्वको निरुद्ध करके श्रेय प्रकृतियोंका सन्निकर्ष किया, इसी प्रकारसे श्रेय कर्मप्रकृतियोंका भी सन्निकर्ष करना चाहिए ॥८६-९१॥

धत्ताप्रपत्रवाली प्रतिमें इस सूत्रका टीकाके पञ्चात् 'भावो सध्वत्थ ओद्दुओ भावो यह सूत्र भी' सुद्धित है (देखो पृष्ठ ९८०) । पर यह वस्तुतः सूत्र नहीं, किन्तु उच्चारणावृत्तिका ही अंग है, क्योंकि, 'पर जयवलाकारने टीका रूपसे 'सुगम' आदि कुछ भी नहीं लिखा है ।

९२. अप्पात्रहुअं । ९३. सव्वत्थोवा सम्मत्तस्स संकामया । ९४. मिच्छत्तस्स संकामया असंखेज्जगुणा । ९५. सम्पामिच्छत्तस्स संकामया विसेसाहिया । ९६. अणंताणुवंधीणं संकामया अणंतगुणा । ९७. अट्ठकसायाणं संकामया विसेसाहिया । ९८. लोभसंजलणस्स संकामया विसेसाहिया । ९९. णवुंसयवेदस्स संकामया विसेसाहिया । १००. इत्थिवेदस्स संकामया विसेसाहिया । १०१. छण्णोकसायाणं संकामया विसेसाहिया । १०२. पुरिसवेदरस संकामया विसेसाहिया । १०३. कोहसंजलणस्स संकामया विसेसाहिया । १०४. माणसंजलणस्स संकामया विसेसाहिया । १०५. मायासंजलणस्स संकामया विसेसाहिया ।

१०६. णिरयगदीए सव्वत्थोवा सम्मत्तसंकामया । १०७. मिच्छत्तस्स संकामया असंखेज्जगुणा । १०८. सम्पामिच्छत्तस्स संकामया विसेसाहिया । १०९. अणंताणुवंधीणं संकामया असंखेज्जगुणा । ११०. सेसाणं कम्माणं संकामया तुल्ला विसेसाहिया । १११. एवं देवगदीए ।

११२. तिरिक्खगईए सव्वत्थोवा सम्मत्तस्स संकामया । ११३. मिच्छत्तस्स

चूणिंस्सू०—अत्र प्रकृति-संक्रामकोका अल्पवहुत्व कहते हैं—सम्यक्त्वप्रकृतिके संक्रामक जीव वक्ष्यमाण पदोकी अपेक्षा सबसे कम है । सम्यक्त्वप्रकृतिके संक्रामकोसे मिथ्यात्वके संक्रामक असंख्यातगुणित हैं । मिथ्यात्वके संक्रामकोसे सम्यग्मिथ्यात्वसे संक्रामक विशेष अधिक हैं । सम्यग्मिथ्यात्वके संक्रामकोसे अनन्तानुबन्धी कपायोके संक्रामक अनन्तगुणित है । अनन्तानुबन्धी कपायोके संक्रामकोसे आठ मध्यम कपायोके संक्रामक विशेष अधिक है । आठ मध्यम कपायोके संक्रामकोसे संज्वलनलोभके संक्रामक विशेष अधिक है । संज्वलनलोभके संक्रामकोसे नपुंसकवेदके संक्रामक विशेष अधिक है । नपुंसकवेदके संक्रामकोसे स्त्रीवेदके संक्रामक विशेष अधिक है । स्त्रीवेदके संक्रामकोसे हान्यादि छह नोकपायोके संक्रामक विशेष अधिक है । हास्यादि छह नोकपायोके संक्रामकोसे पुरुषवेदके संक्रामक विशेष अधिक हैं । पुरुषवेदके संक्रामकोसे संज्वलनक्रोधके संक्रामक विशेष अधिक है । संज्वलनक्रोधके संक्रामकोसे संज्वलनमानके संक्रामक विशेष अधिक है । संज्वलनमानके संक्रामकोसे संज्वलनमायाके संक्रामक विशेष अधिक है ॥९२-१०५॥

चूणिंस्सू०—नरकगतिमे सम्यक्त्वप्रकृतिके संक्रामक जीव सबके कम है । सम्यक्त्वप्रकृतिके संक्रामकोसे मिथ्यात्वके संक्रामक असंख्यातगुणित है । मिथ्यात्वके संक्रामकोसे सम्यग्मिथ्यात्वके संक्रामक विशेष अधिक है । सम्यग्मिथ्यात्वके संक्रामकोसे अनन्तानुबन्धी-कपायोके संक्रामक असंख्यातगुणित है । अनन्तानुबन्धीकपायोके संक्रामकोसे शेष मोहनीय-प्रकृतियोंके संक्रामक परस्पर तुल्य और विशेष अधिक है । देवगतिमे संक्रामक-सम्बन्धी अल्पवहुत्व नरकगतिके समान जानना चाहिए ॥१०६-१११॥

चूणिंस्सू०—तिर्यचगतिमे सम्यक्त्वप्रकृतिके संक्रामक सबसे कम है । सम्यक्त्वप्रकृतिके

संक्रामया असंखेज्जगुणा । ११४. सम्मामिच्छत्तस्स संक्रामया विसेसाहिया । ११५. अणंताणुवंधीणं संक्रामया अणंतगुणा । ११६. सेसाणं कम्माणं संक्रामया तुल्ला विसेसाहिया ।

११७. मणुसगईए सव्वत्थोवा मिच्छत्तस्स संक्रामया । ११८. सम्मत्तस्स संक्रामया असंखेज्जगुणा । ११९. सम्मामिच्छत्तस्स संक्रामया विसेसाहिया । १२०. अणंताणुवंधीणं संक्रामया असंखेज्जगुणा । १२१. सेसाणं कम्माणं संक्रामया ओघो ।

१२२. एहंदिएसु सव्वत्थोवा सम्मत्तस्स संक्रामया । १२३. सम्मामिच्छत्तस्स संक्रामया विसेसाहिया । १२४. सेसाणं कम्माणं संक्रामया तुल्ला अणंतगुणा ।

१२५. एत्तो पयडिड्डाणसंक्रमो । १२६. तत्थ पुच्चं गणणिज्जा सुत्त-ससुक्कित्तणा । १२७. तं जहा ।

अट्ठावीस चउवीस सत्तरस सोलसेव पण्णरसा ।

एदे खलु मोत्तूणं सेसाणं संक्रमो होइ' ॥२७॥

संक्रामकोसे मिथ्यात्वके संक्रामक असंख्यातगुणित है । मिथ्यात्वके संक्रामकोसे सम्यग्मिथ्यात्वके संक्रामक विशेष अधिक हैं । सम्यग्मिथ्यात्वके संक्रामकोसे अनन्तानुबन्धीकपायोके संक्रामक अनन्तगुणित है । अनन्तानुबन्धीकपायोके संक्रामकोसे शेष मोहकर्मकी प्रकृतियोंके संक्रामक परस्पर तुल्य और विशेष अधिक है ॥११२-११६॥

चूणिंसू०—मनुष्यगतिसे मिथ्यात्वके संक्रामक सबसे कम है । मिथ्यात्वके संक्रामकोसे सम्यक्त्वप्रकृतिके संक्रामक असंख्यातगुणित है । सम्यक्त्वप्रकृतिके संक्रामकोसे सम्यग्मिथ्यात्वके संक्रामक विशेष अधिक है । सम्यग्मिथ्यात्वके संक्रामकोसे अनन्तानुबन्धीकपायोके संक्रामक असंख्यातगुणित है । शेष कर्मोंके संक्रामकोका अल्पबहुत्व ओवके समान है ॥११७-१२१॥

चूणिंसू०—एकेन्द्रियोमे सम्यक्त्वप्रकृतिके संक्रामक सबसे कम हैं । सम्यक्त्वप्रकृतिके संक्रामकोसे सम्यग्मिथ्यात्वके संक्रामक विशेष अधिक है । सम्यग्मिथ्यात्वके संक्रामकोसे शेष कर्मोंके संक्रामक परस्पर तुल्य और अनन्तगुणित है ॥१२२-१२४॥

इस प्रकार एकैकप्रकृतिसंक्रम समाप्त हुआ ।

चूणिंसू०—अब इससे आगे प्रकृतिस्थानसंक्रमको कहेंगे । उसमें सबसे पहले गाथा-सूत्रोंकी समुत्कीर्तना करना चाहिए । वह इस प्रकार है ॥१२५-१२७॥

अट्ठाईस, चौबीस, सत्तरह, सोलह और पन्द्रह प्रकृतिक स्थान नियमसे संक्रमके अयोग्य हैं, अतएव इन पाँचों असंक्रम-स्थानोंको छोड़कर शेष तेईस स्थानोंका संक्रम होता है ॥२७॥

१ अट्-चउरहियवीस सत्तरस सोलस च पन्नरस ।

बजिय सकमठाणाइ होति तेवीसइ मोहे ॥ १० ॥ कम्मप० स०

सोलसग वारसट्टग वीसं वीसं तिगादिगधिगा य । एदे खलु मोत्तूणं सेसाणि पडिग्गहा होंति ॥२८॥

विशेषार्थ—मोहनीयकर्मके सर्व प्रकृतिस्थान अट्टाईस होने हैं । उनकी अंकसंज्ञा इस प्रकार है—२८, २७, २६, २५, २४, २३, २२, २१, २०, १९, १८, १७, १६, १५, १४, १३, १२, ११, १०, ९, ८, ७, ६, ५, ४, ३, २ और १ । इनमेसे संक्रमणके अयोग्य ये पाँच स्थान हैं—२८, २४, १७, १६, और १५ । शेष तेईस स्थान संक्रमणके योग्य माने गये हैं । उनकी अंकसंज्ञा इस प्रकार है—२७, २६, २५, २३, २२, २१, २०, १९, १८, १४, १३, १२, ११, १०, ९, ८, ७, ६, ५, ४, ३, २ और १ । किस प्रकृतिके घटाने या बढ़ानेसे कौनसा स्थान वनता है, इसका स्पष्टीकरण आगे चूर्णिकारने स्वयं किया है ।

सोलह, वारह, आठ, बीस, और तीनको आदि लेकर एक-एक अधिक वीस अर्थात् तेईस, चौबीस, पच्चीस, छव्वीस, सत्ताईस और अट्टाईस प्रकृतिक स्थान प्रतिग्रहके अयोग्य हैं, अतएव इन दशों अप्रतिग्रहस्थानोंको छोड़कर शेष अट्टारह प्रतिग्रह-स्थान होते हैं ॥२८॥

विशेषार्थ—जिस आधारभूत प्रकृतिमें अन्य प्रकृतिके परमाणुओंका संक्रमण होता है, उसे प्रतिग्रहप्रकृति कहते हैं । इसी प्रकार मोहनीयकर्मके जिन प्रकृतिस्थानोंका जिन प्रकृतिस्थानोंमें संक्रमण होता है, वे प्रतिग्रहस्थान कहलाते हैं और जिन प्रकृतिस्थानोंमें संक्रमण नहीं होता है, वे अप्रतिग्रहस्थान कहलाते हैं । प्रकृत गाथामें इन्हीं प्रतिग्रह और अप्रतिग्रहस्थानोंका निरूपण किया गया है । प्रतिग्रहस्थान अट्टारह है । वे इस प्रकार हैं—२२, २१, १९, १८, १७, १५, १४, १३, ११, १०, ९, ७, ६, ५, ४, ३, २, १ । अप्रतिग्रहस्थान दश है । वे इस प्रकार हैं—२८, २७, २६, २५, २४, २३, २०, १६, १२, ८ । मोहनीयकी अट्टाईस प्रकृतियोंमेंसे सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका वन्ध नहीं होता, इसलिए छव्वीस प्रकृतियाँ शेष रहती हैं । उनमें भी एक समयमें तीन वेदोंमेंसे किसी एक, तथा हास्य-रति और अरति-शोक युगलोमेंसे किसी एकका वन्ध संभव है, इसलिए मिध्यादृष्टिके एक समयमें शेष वारस प्रकृतियोंका वन्ध होता है । यह वारस-प्रकृतिक पहला प्रतिग्रहस्थान है, क्योंकि, इन बंधनेवाली सर्व प्रकृतियोंमें सत्तामें स्थित सर्व प्रकृतियोंका संक्रमण होता है । यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि एक समयमें तेईस आदि प्रकृतियोंका वन्ध नहीं होता, अतः तेईस, चौबीस पच्चीस, छव्वीस, सत्ताईस और अट्टाईस-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान नहीं होते हैं । इसलिए गाथामें इनका निषेध किया गया है । वारस-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमेंसे मिध्यात्वकी वन्ध-व्युच्छिन्ति हो जानेपर या मिध्यात्वके प्रतिग्रह-प्रकृति न रहनेपर इक्कीस प्रकृ-

१ सोलह वारसट्टग वीसग तेवीसगाहगे छच्च ।

वज्जिय मोहस्स पडिग्गहा उ अट्टारस इवति ॥ ११ ॥ कम्मप० स०

निक प्रतिग्रहस्थान होता है। असंयतसम्यग्दृष्टिके सत्तरह प्रकृतियोंका बन्ध होता है। उनमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके मिला देनेपर उन्नीस-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान होता है। बन्ध-परिपाटीको देखते हुए एक साथ बीस प्रकृतियाँ प्रतिग्रहरूप नहीं हो सकती, इसलिए बीस-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानका निषेध किया गया है। क्षायिकसम्यक्त्वके प्रस्थापक असंयतसम्यग्दृष्टि जीवके मिथ्यात्वका क्षय हो जानेपर सम्यग्मिथ्यात्व प्रतिग्रह-प्रकृति नहीं रहती, इसलिए पूर्वोक्त उन्नीस-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमेसे सम्यग्मिथ्यात्वके कम कर देनेपर अट्ठारह-प्रकृतिक प्रतिग्रह-स्थान होता है। पुनः उक्त जीवके सम्यग्मिथ्यात्वका क्षय हो जानेपर सम्यक्त्वप्रकृतिके प्रतिग्रहरूप न रहनेके कारण सत्तरह-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान होता है। सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवके दर्शन-मोहनीयकी किसी भी प्रकृतिका संक्रमण नहीं होता, अतः उसके दर्शनमोहनीयकी तीनों प्रकृतियोंकी सत्ता रहनेपर भी यह सत्तरह-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान होता है। संयतासंयतके एक साथ तेरह प्रकृतियोंका बन्ध होता है, उनमें सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिके मिला देनेपर पन्द्रह-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान होता है। बन्ध-परिपाटीको देखते हुए सोलह-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान संभव नहीं, यह स्पष्ट ही है। इसी प्रकार बारह और आठ-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान संभव नहीं है। जब कोई संयतासंयत जीव मिथ्यात्वका क्षय करता है, तब उसके सम्यग्मिथ्यात्वके बिना चौदह-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान होता है और इसी जीवके द्वारा सम्यग्मिथ्यात्वका क्षय कर देनेपर तेरह-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान होता है। प्रमत्त और अप्रमत्त संयतके नौ प्रकृतियोंका बन्ध होता है, अतएव इनमें सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिके मिला देनेपर ग्यारह-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान होता है। पुनः इस जीवके मिथ्यात्वके क्षय कर देनेपर दश-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान होता है और इसीके सम्यग्मिथ्यात्वका क्षय हो जानेपर नौ-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान होता है। अपूर्वकरणमें भी नौ प्रकृतियोंका बन्ध होता है, इसलिए उपशमसम्यग्दृष्टिके इन नौ प्रकृतियोंमें सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिके मिलानेपर ग्यारह-प्रकृतिक प्रतिग्रह स्थान होता है, और क्षायिकसम्यग्दृष्टिके सम्यक्त्व-प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वके बिना नौ-प्रकृतिक भी प्रतिग्रहस्थान होता है। चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले अनिवृत्तिकरण उपशमकके पाँच प्रकृतियोंका बन्ध होता है, अतएव इनमें सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिके मिला देनेपर सात-प्रकृतिक प्रतिग्रह स्थान होता है। पुनः नपुंसकवेद और स्त्रीवेदके उपशम हो जानेपर पुरुषवेद प्रतिग्रह-प्रकृति नहीं रहती, इसलिए इसीके छह-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान होता है। अनन्तर दोनों प्रकारके मध्यम क्रोधोका उपशम हो जानेपर संज्वलनक्रोध प्रतिग्रह-प्रकृति नहीं रहती, इसलिए पाँच-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान होता है। अनन्तर दोनों मानकपायोका उपशम हो जानेपर मान-संज्वलन प्रतिग्रह-प्रकृति नहीं रहती, इसलिए चार-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान होता है। अनन्तर दोनों मायाकपायोके उपशम हो जानेपर मायासंज्वलन प्रतिग्रह-प्रकृति नहीं रहती, इसलिए तीन-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान होता है। पुनः इसके दोनों लोभकपायोका उपशम हो जानेपर संज्व-

छव्वीस सत्तवीसा य संक्रमो णियम चटुसु ट्ठाणेषु ।

वावीस पण्णरसगे एक्कारस उणवीसाए' ॥२९॥

सत्तारसेगवीसासु संक्रमो णियम पंचवीसाए ।

णियमा चटुसु गदीसु य णियमा दिट्ठीगए तिविहे' ॥३०॥

लन लोभ प्रतिग्रह-प्रकृति नहीं रहती इसलिए दो-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान होता है । जो क्षायिक-सम्यग्दृष्टि जीव उपजमश्रेणीपर चढ़ता है, उसकी अपेक्षा विचार करनेपर अद्विवृत्तिकरण-उपशमकके पाँच प्रकृतियोंका बन्ध होता है, इसलिए पाँच-प्रकृतिक पहला प्रतिग्रहस्थान होता है । पुनः नपुंसकवेद और स्त्रीवेदका उपजम हो जानेपर पुरुषवेदके प्रतिग्रह-प्रकृति न रहनेसे चार-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान होता है । पुनः सात नोकपाय और दो क्रोधकपायोंके उपजम होनेपर क्रोधसंज्वलनके प्रतिग्रह-प्रकृति न रहनेसे तीन-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान होता है । पुनः क्रोधसंज्वलन प्रतिग्रह-प्रकृति नहीं रहती, इसलिए दो-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान होता है । पुनः मानसंज्वलनके साथ दोनों मायाकपायोंके उपजम हो जानेपर एक लोभ-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान होता है । क्षपकश्रेणीकी अपेक्षा भी अनिवृत्तिकरणमें ये ही अन्तिम पाँच प्रतिग्रहस्थान होते हैं ।

वाईस, पन्द्रह, ग्यारह और उन्नीस-प्रकृतिक चार प्रतिग्रहस्थानोंमें ही छव्वीस और सत्ताईस-प्रकृतिक स्थानोंका नियमसे संक्रम होता है ॥२९॥

विशेषार्थ—इस गाथामें छव्वीस और सत्ताईस-प्रकृतिक दो संक्रमस्थानोंके वाईस, उन्नीस, पन्द्रह और ग्यारह-प्रकृतिक चार प्रतिग्रहस्थान बताये हैं—जो सम्यक्त्वप्रकृतिके विना सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला मिथ्यादृष्टि जीव है, उसके छव्वीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान और वाईस-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान होता है । तथा जो छव्वीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला मिथ्यादृष्टि जीव उपजमसम्यक्त्वको, उपजमसम्यक्त्वके साथ संयमासंयमको और उपजमसम्यक्त्वके साथ संयमको प्राप्त होता है उसके इनको प्राप्त करनेके प्रथम समयमें क्रमसे उन्नीस-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान, पन्द्रह-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान, ग्यारह-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान और छव्वीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है । तथा अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाले मिथ्यादृष्टि जीवके सत्ताईस-प्रकृतिक संक्रमस्थान और वाईस-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान होता है । और इस जीवके पूर्ववत् उपजमसम्यक्त्व, उपजमसम्यक्त्वके साथ संयमासंयम, तथा उपजमसम्यक्त्वके साथ संयमके ग्रहण करनेपर दूसरे समयसे लेकर अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना न होने तक क्रमसे उन्नीस, पन्द्रह, और ग्यारह-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान, तथा सत्ताईस-प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है ।

सत्तरह और इक्कीस-प्रकृतिक दो प्रतिग्रहस्थानोंमें पच्चीस-प्रकृतिक स्थानका नियमसे संक्रमण होता है । यह पच्चीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान नियमसे चारों ही गतियों-

१ छव्वीस-सत्तवीसाण सकमो होइ चउसु ट्ठाणेषु । वावीस पन्नरसगे इक्कारस इगुणवीसाए ॥२९॥

२ सत्तरस इक्कवीसासु सकमो होइ पन्नवीसाए । णियमा चउसु गदीसु णियमा दिट्ठीगए तिविहे ॥३०॥कम्मप०

वावीस पणरसगे सत्तग एकारसूणवीसाए ।

तेवीस संक्रमो पुण पंचसु पंचिदिएसु हवे ॥३१॥

मे होता है । तथा दृष्टिगत अर्थात् 'दृष्टि' यह पद जिनके अन्तमें हैं, ऐसे मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि, इन तीनों ही गुणस्थानोंमें वह पच्चीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान नियमसे पाया जाता है ॥३०॥

विशेषार्थ—इस गाथामे पच्चीस-प्रकृतिक एक संक्रमस्थानके इक्कीस और सत्तरह-प्रकृतिक दो प्रतिग्रहस्थान बताये गये हैं । इनमेसे इक्कीस-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमे छत्तीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले मिथ्यादृष्टि जीवके मिथ्यात्वके विना पच्चीस प्रकृतियोंका संक्रमण होता है । तथा अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाले सासादनसम्यग्दृष्टि जीवके इक्कीस-प्रकृतिक प्रतिग्रह-स्थानमे पच्चीस प्रकृतियोंका संक्रमण होता है । यहाँ दर्शनमोहनीयकी तीनों प्रकृतियोंमें प्रतिग्रह और संक्रमण गति नहीं है, इतना विशेष जानना चाहिए । तथा अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता-वाला जो मिथ्यादृष्टि और उपजमसम्यग्दृष्टि जीव सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानको प्राप्त होता है, उसके चारित्रमोहनीयकी पच्चीस प्रकृतियोंका सत्तरह-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमे संक्रमण होता है । ये संक्रमस्थान और प्रतिग्रहस्थान चारों गतियोंमे संभव हैं ।

तेईस-प्रकृतिक स्थानका संक्रम वाईस, पन्द्रह, सत्तरह, ग्यारह और उन्नीस-प्रकृतिक इन पाँच प्रतिग्रहस्थानोंमें होता है । यह तेईस-प्रकृतिक संक्रमस्थान संज्ञी पंचेन्द्रियोंमें ही होता है ॥३१॥

विशेषार्थ—इस गाथामे एक तेईस-प्रकृतिक संक्रमस्थानका पाँच प्रतिग्रहस्थानोंमे संक्रमण-विधान किया गया है । अनन्तानुबन्धीका विसंयोजक जो जीव मिथ्यात्वगुणस्थानको प्राप्त होता है, उसके प्रथम समयमे वाईस-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमे अनन्तानुबन्धीचतुष्क और मिथ्यात्वके विना तेईस प्रकृतियोंका संक्रमण होता है । मिथ्यात्वगुणस्थानमे मिथ्यात्वका संक्रमण न होनेसे उसका निषेध किया है और ऐसे जीवके अनन्तानुबन्धीचतुष्कका एक आवली-काल तक संक्रमण नहीं हो सकता, इसलिए उसका निषेध किया है । जेप तेईस प्रकृतियोंका संक्रमण होता है । तथा चौवीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले असंयतसम्यग्दृष्टि जीवके उन्नीस-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमे, चौवीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले संयतासंयत जीवके पन्द्रह-प्रकृतिक प्रतिग्रह-स्थानमे, चौवीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले प्रमत्तसंयत अप्रमत्तसंयत जीवके ग्यारह-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमे और चौवीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले अन्तरकरणसे पूर्ववर्ती अनिवृत्तिकरण जीवके सात-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमे तेईस प्रकृतियोंका संक्रमण होता है, क्योंकि, इन सब जीवोंके चौवीस प्रकृतियोंकी सत्ता पाई जाती है, इसलिए यहाँ एक सम्यक्त्वप्रकृतिको छोड़कर जेप तेईस प्रकृतियोंका उक्त सभी प्रतिग्रहस्थानोंमें संक्रमण संभव है । ऐसा जीव जिसने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना की है, वह नियमसे संज्ञी पंचेन्द्रिय ही होता है ।

१ वावीस पणरसगे सत्तगएकारसिगुणवीसासु । तेवीसाए णियमा पच वि पचिदिएसु भवे ॥१४॥ कम्मप०स०

चौदसग दसग सत्तग अट्टारसगे च णियम वावीसा ।
 णियमा मणुसगईए विरदे मिस्से अविरदे यं ॥३२॥
 तेरसय णवय सत्तय सत्तारस पणय एक्कवीसाए ।
 एगाधिगाए वीसाए संकमो छप्पि सम्मत्ते ॥३३॥

चाईस-प्रकृतिक स्थानका संक्रम नियमसे चौदह, दश, सात और अट्टारह प्रकृतिक चार प्रतिग्रहस्थानोंमें होता है । यह चाईस-प्रकृतिक संक्रमस्थान नियमसे मनुष्यगतियों ही होता है । तथा वह संयत, संयतासंयत और असंयतसम्यग्दृष्टि गुण-स्थानमें होता है ॥३२॥

विशेषार्थ—इस गाथामे मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्क, इन छह प्रकृतियोंके बिना जेप चाईस-प्रकृतिक संक्रमस्थानका अट्टारह, चौदह, दश और सात-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानोंमें संक्रम होता है, यह बतलाया गया है । अट्टारह-प्रकृतिक प्रतिग्रह-स्थान अविरतसम्यग्दृष्टिके, चौदह-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान देशसंयतके, दश-प्रकृतिक प्रतिग्रह-स्थान प्रमत्त-अप्रमत्तसंयतके और सात-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान जिस अनिवृत्तकरण संयतके आनु-पूर्वी संक्रम प्रारम्भ हो गया है, उसके होता है । यहाँ दो बातें ध्यान देनेके योग्य हैं—प्रथम यह कि प्रारम्भके तीन स्थानोंमें जिसने दर्शनमोहकी क्षपणा करते समय मिथ्यात्वका अभाव कर दिया है, उनके उक्त प्रतिग्रहस्थानोंमें चाईस प्रकृतियोंका संक्रम होता है । दूसरी यह कि अनिवृत्तिकरणमें आनुपूर्वीसंक्रमके प्रारम्भ हो जानेपर लोभसंज्वलनका संक्रम नहीं होता है, अतएव यह जीव चाँवीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला होगा, इसलिए इसके लोभसंज्वलन और सम्यक्त्वप्रकृतिको छोड़कर जेप चाईस प्रकृतियोंका सात-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें संक्रम होता है ।

इक्कीस-प्रकृतिक स्थानका संक्रम तेरह, नौ, सात, पाँच, सत्तरह और इक्कीस-प्रकृतिक छह प्रतिग्रहस्थानोंमें होता है । ये छहों ही प्रतिग्रहस्थान सम्यक्त्वसे युक्त गुणस्थानोंमें होते हैं ॥३३॥

विशेषार्थ—इस गाथामें यह बतलाया गया है कि इक्कीस-प्रकृतिक संक्रमस्थानका तेरह आदि छह प्रतिग्रहस्थानोंमें संक्रम होता है, क्योंकि क्षायिकसम्यग्दृष्टि संयतासंयतके प्रकृत संक्रमस्थानका तेरह-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान संभव है । प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत और अपूर्व-करण संयतके नौ-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान संभव है और अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवर्ती उपशा-मक और क्षपकके पाँच-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान संभव है । सत्ताकी अपेक्षा अनिवृत्तिकरणगुण-

- १ चौदसग दसग सत्तग अट्टारसगे य होइ वावीसा ।
 णियमा मणुसगईए णियमा ठिञ्जीकए डुविहे ॥ १५ ॥
- २ तेरसग णवग सत्तग सत्तारसग पणग एक्कवीसासु ।
 एक्कावीसा सकमइ सुद्धसासाणमीसेसु ॥ १६ ॥ कम्मप० स०

एत्तो अवसेसा संजमहि उवसामगे च खवगे च ।
वीसा य संक्रम दुगे छक्के पणगे च वाङ्गव्वा' ॥३४॥

स्थानमें सात-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान संभव हैं, क्योंकि, आनुपूर्वीसंक्रमकों करके नपुंसकवेदके उपगम कर देनेपर इक्कीस-प्रकृतिक संक्रमस्थानका सात-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें संक्रम पाया जाता है। सासादनसम्यग्दृष्टि जीवमें इक्कीस-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थान संभव हैं, क्योंकि अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनावाले उपशमसम्यग्दृष्टिके सासादनगुणस्थानकों प्राप्त होनेपर उसकी प्रथम आवलीमें इक्कीस-प्रकृतिक संक्रमस्थानका संक्रम पाया जाता है। इसी गाथामें चट भी बतलाया गया है कि ये छहों ही प्रतिग्रहस्थान सम्यक्त्वपदसे संयुक्त गुणस्थानोंमें पाये जाते हैं, अन्यत्र नहीं। यहाँपर दर्शनमोहनीयत्रिकके उदयाभावकी अपेक्षा सासादनगुणस्थानको भी सम्यक्त्वी गुणस्थानमें उपचारसे परिगणित कर लिया गया है।

इन ऊपर कहे गये स्थानोंसे अवशिष्ट रहे हुए संक्रम और प्रतिग्रहस्थान उपशमक और क्षपक संयतके ही होते हैं। वीस-प्रकृतिक स्थानका संक्रम छह और पाँच-प्रकृतिक दो प्रतिग्रहस्थानोंमें जानना चाहिए ॥३४॥

विशेषार्थ—उपर्युक्त गाथाओंके द्वारा सत्ताईस, छत्रीस, पचीस, तेईस, चाईस और इक्कीस-प्रकृतिक संक्रमस्थानोंके प्रतिग्रहस्थानोंका निरूपण किया जा चुका है। अब उनके अतिरिक्त जो सत्तरह संक्रमस्थान अवशिष्ट रहे हैं, उनके प्रतिग्रहस्थानोंकी सूचना इस गाथाके द्वारा की गई है। इसमें सर्वप्रथम बतलाया गया है कि वीस आदिक अवशिष्ट संक्रमस्थान और उनके छह, पाँच आदि प्रतिग्रहस्थान संयमसे युक्त गुणस्थानोंमें ही होते हैं, अन्यत्र नहीं। संयम-युक्त गुणस्थानोंमें भी वे उपशामक और क्षपकके ही सम्भव हैं, सबके नहीं, इस बातके बतलानेके लिए गाथामें 'उपशामक' और 'क्षपक' ये दो पद दिये हैं। उनमें भी वीस-प्रकृतिक संक्रमस्थानका संक्रमण छह और पाँच-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें ही होता है, सबमें नहीं, यह बात गाथाके उत्तरार्ध द्वारा सूचित की गई है। इसका कारण यह है कि चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवके उपशमश्रेणीपर चढ़ करके नपुंसकवेद और स्त्रीवेदका उपशमन करके पुरुषवेदको प्रतिग्रह-प्रकृतिरूपसे व्युच्छिन्न कर देनेपर सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति और संवलनचतुष्क, इन छह प्रकृतिरूप प्रतिग्रहस्थानमें वीस-प्रकृतिक संक्रमस्थानका संक्रम होता है। और इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवके उपशमश्रेणीपर चढ़ करके आनुपूर्वीसंक्रमके करनेपर वीस-प्रकृतिक संक्रमस्थानका संवलनचतुष्क और पुरुषवेदरूप पाँच-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण होता है।

१ एत्तो अविसेसा सकमंति उवसामगे व खवगे वा ।

उवसामगेसु वीसा य सत्तगे छक्क पणगे वा ॥ १७ ॥ कम्मप० सं०

पंचसु च ऊणवीसा अट्टारस चदुसु होंति वोद्धव्वा ।
 चोदस छसु पयडीसु य तेरसयं छक्क-पणगम्मिह' ॥३५॥
 पंच चउक्के वारस एकारस पंचगे तिग चउक्के ।
 दसगं चउक्क-पणगे णवगं च तिगम्मि वोद्धव्वा' ॥३६॥

उत्तीस-प्रकृतिक स्थानका संक्रम पांच-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें होता है । अट्टारह-प्रकृतिक स्थानका संक्रम चार-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें होता है । चौदह-प्रकृतिक स्थानका संक्रम छह-प्रकृतियोंवाले प्रतिग्रहस्थानमें होता है । तेरह-प्रकृतिक स्थानका संक्रम छह और पांच-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानोंमें जानना चाहिए ॥३५॥

विशेषार्थ—इस गाथामें उत्तीस, अट्टारह, चौदह और तेरह-प्रकृतिक चार संक्रम-स्थानोंके प्रतिग्रहस्थान बतलाये गये हैं । इनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले अनिवृत्तिकरण-उपशामकके आनुपूर्वी-संक्रमणका प्रारम्भ हो जानेके कारण लोभ-संज्वलनके संक्रमणकी योग्यता न रहनेसे और नपुंसकवेदके उपशम हो जानेसे उत्तीस-प्रकृतिक संक्रमस्थानका संज्वलन-चतुष्क और पुरुषवेदरूप पाँच-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण होता है । इसी उपर्युक्त जीवके स्त्रीवेदका उपशम कर देनेपर और पुरुषवेदके प्रतिग्रहरूपसे व्युच्छेद कर देनेपर अट्टारह-प्रकृतिक संक्रमस्थानका संज्वलनचतुष्करूप चार-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण होता है । चौदह प्रकृतियोंकी सत्तावाले अनिवृत्तिकरण-उपशामकके पुरुषवेदके नवकवन्धकी उपशमन-अवस्थामें पुरुषवेद, संज्वलनलोभको छोड़कर शेष ग्यारह कपाय और दर्शनमोहनीयकी दो, इन चौदह प्रकृतिरूप संक्रमस्थानका संज्वलन-चतुष्क, सम्यगिमध्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिरूप छह-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण होता है । उपर्युक्त जीवके द्वारा पुरुषवेदका उपशम कर देनेपर शेष तेरह प्रकृतिरूप संक्रमस्थानका उक्त छह-प्रकृतिक प्रतिग्रह-स्थानमें संक्रम होता है । इसी ही जीवके संज्वलनक्रोधकी प्रथमस्थितिमें एक समय कम तीन आवलीकालके शेष रहनेपर तेरह प्रकृतिरूप संक्रमस्थानका संज्वलनमान, माया, लोभ, सम्यगिमध्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिरूप पाँच-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण होता है । अथवा अनिवृत्तिकरणके द्वारा आठ मध्यम कपायोंके क्षय कर देनेपर शेष तेरह प्रकृतियोंका संज्वलनचतुष्क और पुरुषवेद, इन पाँच प्रकृतिरूप प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण होता है । किन्तु यह संक्रमण आनुपूर्वीसंक्रमके प्रारम्भ होनेके पूर्व तक ही होता है ।

वारह-प्रकृतिक स्थानका संक्रम पाँच और चार-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानोंमें होता है । ग्यारह-प्रकृतिक स्थानका संक्रम पाँच, चार और तीन-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानोंमें होता है । दश-प्रकृतिक स्थानका संक्रम पाँच और चार-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानोंमें होता है । नौ-प्रकृतिक स्थानका संक्रम तीन-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें जानना चाहिए ॥३६॥

१ पचहु एगुणवीसा अट्टारस पचगे चउक्के य । चोदस छसु पयडीसुं तेरसयं छक्क पणगम्मि ॥ १८ ॥

२ पच चउक्के वारस एकारस पचगे तिग चउक्के । दसगं चउक्क-पणगे णवगं च तिगम्मि वोद्धव्व ॥ १९ ॥

अट्ट दुग् तिग् चउक्के सत्त चउक्के तिगे च वोद्धव्वा ।
छक्कं दुग्ग्मिह णियमा पंच तिगे एकग्ग दुगे वा ॥३७॥

विशेषार्थ—इस गाथामे चारह, ग्यारह, दश और नौ-प्रकृतिक संक्रमस्थानोंका संक्रमण किन-किन प्रतिग्रहस्थानोंमें होता है, यह बतलाया गया है । यथा—इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला क्षपक आनुपूर्वी-संक्रमणका प्रारम्भ करके आठ मध्यम कपाय और संज्वलन-लोभको छोड़कर शेष चारह प्रकृतियोंका पुरुषवेद और चार संज्वलनरूप पाँच-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण करता है । तथा उसी इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवके उपशमश्रेणीमें पुरुषवेदके उपशम-कालमें संज्वलनलोभके विना ग्यारह कपाय और पुरुष-वेदका चार संज्वलनरूप चार-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण होता है । क्षपकके नपुंसक-वेदका क्षय हो जानेपर ग्यारह प्रकृतियोंका पाँच-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण होता है । अथवा चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके दोनों क्रोधोंके उपशम कर देनेपर और संज्वलनक्रोधके प्रतिग्रहप्रकृति न रहनेपर संज्वलनक्रोध, तीन मान, तीन माया, दो लोभ, मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वरूप ग्यारह प्रकृतियोंका संज्वलनमान, माया, लोभ, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिरूप पाँच-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण होता है । इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके आनुपूर्वी-संक्रमपूर्वक नव-नोकपायोंका उपशम हो जानेपर तीन क्रोध, तीन मान, तीन माया और दो लोभरूप ग्यारह प्रकृतियोंका चार संज्वलनरूप चार-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण होता है । तथा इसी जीवके क्रोध संज्वलनकी एक समय कम तीन आवलीप्रमाण प्रथमस्थितिके शेष रहनेपर उक्त ग्यारह प्रकृतियोंका संज्वलन क्रोधके विना शेष तीन प्रकृतिरूप प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण होता है । चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके तीन प्रकारके क्रोधके उपशम हो जानेपर तीन मान, तीन माया, दो लोभ, मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दश प्रकृतियोंका क्रोधके विना तीन संज्वलन, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिरूप पाँच-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण होता है । तथा इसी जीवके मानसंज्वलनकी प्रथमस्थितिमें एक समय कम तीन आवली शेष रहनेपर उक्त दश प्रकृतियोंका संज्वलन माया, लोभ, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिरूप चार-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण होता है । अथवा क्षपकके स्त्रीवेदका क्षय हो जानेपर पुरुषवेद, छह नोकपाय और लोभके विना तीन संज्वलन, इन दश प्रकृतियोंका चार संज्वलनरूप चार-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण होता है । इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके दो प्रकारके क्रोधका उपशम हो जानेपर क्रोधसंज्वलन, तीन मान, तीन माया और दो लोभ-रूप नौ प्रकृतियोंका तीन प्रकारके संज्वलनरूप तीन-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण होता है ।

आठ-प्रकृतिक स्थानका संक्रम दो, तीन और चार-प्रकृतिक प्रतिग्रह-

- १ अट्ट दुग् तिग् चउक्के सत्त चउक्के तिगे च वोद्धव्वा ।

छक्कं दुग्ग्मिह णियमा पंच तिगे एकग्ग दुगे वा ॥ २० ॥ कम्मप० स०

चत्वारि तिग चटुक्के तिणिण तिगे एकगे च वोद्धव्वा ।
दो दुसु एगाए वा एगा एगाए वोद्धव्वा' ॥३८॥

स्थानोंमें होता है । सात-प्रकृतिक स्थानका संक्रम चार और तीन-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानोंमें जानना चाहिए । छह-प्रकृतिक स्थानका संक्रम नियमसे दो-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें होता है । पाँच-प्रकृतिक स्थानका संक्रम तीन, दो और एक-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें होता है ॥३७॥

विशेषाथ—इस गाथामे आठ, सात, छह और पाँच-प्रकृतिक संक्रमस्थानोंके प्रतिग्रहस्थानोंका निर्देश किया गया है । उनका विवरण इस प्रकार है—चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके दो प्रकारके मानका उपशम हो जानेपर एक मान, तीन माया, दो लोभ, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृति, इन आठ प्रकृतियोंका संज्वलनमाया, लोभ, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिरूप चार-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण होता है । इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके तीन प्रकारके क्रोधका उपशम हो जानेपर तीन मान, तीन माया, और दो लोभरूप आठ प्रकृतियोंका तीन संज्वलनरूप तीन-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण होता है । इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके मानसंज्वलनकी प्रथमस्थितिमें एक समय कम तीन आवली शेष रहनेपर तीन मान, तीन माया और दो लोभरूप आठ प्रकृतियोंका माया और लोभरूप दो-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण होता है । चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके तीन प्रकारके मानका उपशम हो जानेपर तीन माया, दो लोभ, मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व इन सात प्रकृतियोंका संज्वलन माया, लोभ, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व-प्रकृतिरूप चार-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण होता है । तथा इसी जीवके मायासंज्वलनकी प्रथमस्थितिमें एक समय कम तीन आवली शेष रहनेपर उक्त सात प्रकृतियोंका संज्वलन लोभ, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिरूप तीन प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण होता है । इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके दो प्रकारके मानका उपशम हो जानेपर एक मान, तीन माया और दो लोभरूप छह प्रकृतियोंका संज्वलनमाया और लोभरूप दो-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण होता है । चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके दो मायाकपायोंका उपशम हो जानेपर एक माया, दो लोभ, मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व इन पाँच प्रकृतियोंका संज्वलन-लोभ, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिरूप तीन-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण होता है । इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके तीनों मानकपायोंके उपशम हो जानेपर तीन माया और दो लोभरूप पाँच प्रकृतियोंका माया और लोभसंज्वलनरूप दो-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण होता है । तथा इसी जीवके मायासंज्वलनकी प्रथमस्थितिमें एक समय कम तीन आवलीकाल शेष रहनेपर तीन माया और दो लोभरूप पाँच प्रकृतियोंका एक लोभप्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण होता है ।

चार-प्रकृतिक स्थानका संक्रम तीन और चार-प्रकृतिक दो प्रतिग्रहस्थानों-

१ चत्वारि तिग चउक्के तिनि तिगे एकगे य वोद्धव्वा । दो दुसु एकाए वि य एका एकाइ वोद्धव्वा ॥२१॥

में होता है। तीन-प्रकृतिक स्थानका संक्रम तीन और एक-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें जानना चाहिए। दो-प्रकृतिक स्थानका संक्रम दो और एक-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें होता है। एक-प्रकृतिक स्थानका संक्रम एक-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें जानना चाहिए ॥३८॥

विशेषार्थ—इस गायामे चार, तीन, दो और एक प्रकृतिरूप संक्रमस्थानोंके प्रतिग्रह-स्थानोंका निर्देश किया गया है। उनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—क्षपकके छह नोकपायोका क्षय हो जानेपर पुरुषवेद और तीन संज्वलनोंका चार संज्वलनरूप प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण होता है। चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके तीन मायाकपायोका उपशम हो जानेपर दो लोभ, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिरूप तीन-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण होता है। क्षपकके पुरुषवेदका क्षय हो जानेपर संज्वलनक्रोध, मान और मायाका संज्वलन मान, माया और लोभरूप तीन-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण होता है। इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके दो मायाकपायोका उपशम हो जानेपर एक माया और दो लोभ, इन तीन प्रकृतियोंका एक संज्वलनलोभरूप प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण होता है। क्षपकके क्रोधका क्षय हो जानेपर संज्वलनमान और माया, इन दो प्रकृतियोंका संज्वलन माया और लोभरूप दो-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण होता है। अथवा चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके दो लोभकपायोका उपशम हो जानेपर मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व इन दो प्रकृतियोंका सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिरूप दो-प्रकृतिक प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण होता है। इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके तीनों मायाकपायोका उपशम हो जानेपर दो लोभकपायोका एक संज्वलनलोभरूप प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण होता है। क्षपकके संज्वलनमानका क्षय हो जानेपर एक मायासंज्वलनका एक लोभसंज्वलनप्रकृतिरूप प्रतिग्रहस्थानमें संक्रमण होता है।

संक्रमस्थानोंके प्रतिग्रहस्थानोंका चित्र

संक्रमस्थान	प्रतिग्रहस्थान	संक्रमस्थान	प्रतिग्रहस्थान
२७	२२, १९, १५, ११	११	५, ४, ३
२६	२२, १९, १५, ११	१०	५, ४
२५	२१, १७	९	३
२३	२२, १९, १७, १५, ११	८	४, ३, २
२२	१८, १४, १०, ७	७	४, ३
२१	२१, १७, १३, ९, ७, ५	६	२
२०	६, ५	५	३, २, १
१९	५	४	४, ३
१८	४	३	३, १
१४	६	२	२, १
१३	६, ५	१	१
१२	५, ४		

अणुपुव्वमणुपुव्वं ज्ञीणमज्ञीणं च दंसणे मोहे । उवसामगे च खवगे च संकमे मग्गणोवाया' ॥३९॥

इस प्रकार मोहकर्मके संक्रमस्थानोंके प्रतिग्रहस्थान बतलाकर अब श्रीगुणधराचार्य उनके अनुमार्गणके उपायभूत अर्थपदको कहते हैं—

प्रकृतिस्थानसंक्रममें आनुपूर्वी-संक्रम, अनानुपूर्वी-संक्रम, दर्शनमोहके क्षय-निमित्तक-संक्रम, दर्शनमोहके अक्षय-निमित्तक-संक्रम, चारित्रमोहके उपशामना-निमित्तक-संक्रम और चारित्रमोहनीयके क्षपणा-निमित्तक संक्रम ये छह संक्रमस्थानोंके अनुमार्गणके उपाय जानना चाहिए ॥३९॥

विशेषार्थ—इस गाथाके द्वारा पूर्वोक्त संक्रमस्थानों और प्रतिग्रहस्थानोंकी उत्पत्ति सिद्ध करनेके लिए अन्वेषणके छह उपाय बतलाए गये हैं । उनमेंसे आनुपूर्वीसंक्रम-विषयक संक्रम-स्थानोंकी गवेषणा करनेपर चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके २२, २१, २०, १४, १३, ११, १०, ८, ७, ५, ४ और २ प्रकृतिक वारह संक्रमस्थान पाये जाते हैं । इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके २०, १९, १८, १२, ११, ९, ८, ६, ५, ३, २ और १ प्रकृतिक वारह संक्रमस्थान पाये जाते हैं । क्षपकके १२, ११, १०, ४, ३, २ और १ प्रकृतिक सात संक्रमस्थान पाये जाते हैं । अनानुपूर्वी-विषयक संक्रमस्थानोंकी गवेषणा करनेपर उनके २७, २६, २५, २३, २२ और २१ प्रकृतिक छह संक्रमस्थान पाये जाते हैं । दर्शन-मोहके क्षय-निमित्तक संक्रमकी अपेक्षा २१, २०, १९, १८, १२, ११, ९, ८, ६, ५, ३, २ और १ प्रकृतिक तेरह संक्रमस्थान पाये जाते हैं । तथा इसी इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्ता-वाले जीवके क्षपकश्रेणीमें संभव संक्रमस्थान भी पाये जाते हैं । दर्शनमोहके अक्षय-निमित्तक संक्रमकी अपेक्षा २७, २६, २५, २३, २२ और २१ प्रकृतिक छह संक्रमस्थान पाये जाते हैं । तथा चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवके आनुपूर्वीसंक्रमकी अपेक्षा संभव संक्रमस्थानोंका भी यहाँपर कथन करना चाहिए । चारित्रमोहकी उपशामना और क्षपणा-निमित्तक संक्रमकी अपेक्षा चौबीस और इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामक और क्षपकके क्रमशः तेईस और इक्कीस-प्रकृतिक संक्रमस्थानको आदि लेकर यथासंभव शेष संक्रमस्थान पाये जाते हैं । उप-शामश्रेणीसे उतरनेकी अपेक्षा चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके ४, ८, ११, १४, २१, २२ और २३ प्रकृतिक सात संक्रमस्थान पाये जाते हैं । तथा इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके उपशामश्रेणीसे उतरनेकी अपेक्षा ३, ६, ९, १२, १९, २० और २१ प्रकृतिक सात संक्रमस्थान पाये जाते हैं । इन उपर्युक्त संक्रमस्थानोंके प्रतिग्रहस्थानोंका निरूपण पहले कहे गये प्रकारसे कर लेना चाहिए ।

१ अणुपुव्वि अणुपुव्वी ज्ञीणमज्ञीणे य दिट्ठिमोहमि ।

उवसामगे य खवगे य संकमे मग्गणोवाया ॥ २२ ॥ कम्मप० सं०

एकैकस्मिं य द्वाणे पडिग्गहे संक्रमे तदुभए च ।

भविया वाऽभविया वा जीवा वा क्खु ठाणेसु ॥४०॥

कदि कस्मिं होंति ठाणा पंचविहे भावविविधिसेसस्मिं ।

संक्रमपडिग्गहो वा समाणणा वाऽध केवचिरं ॥४१॥

इस प्रकार उक्त गाथासे संक्रमस्थानोंके अनुमार्गणके उपायभूत अर्थपदका ओषकी अपेक्षा निरूपण करके अब गाथासूत्रकार संक्रमस्थान, प्रतिग्रहस्थान और तदुभयस्थानोंका आदेशकी अपेक्षा प्ररूपण करनेके लिए प्रज्जात्मक दो गाथा-सूत्र कहते हैं—

एक-एक प्रतिग्रहस्थान, संक्रमस्थान और तदुभयस्थानमें गति आदि चौदह मार्गणास्थान-विशिष्ट जीवोंकी मार्गणा करनेपर भव्य और अभव्य जीव किस-किस स्थानपर होते हैं, तथा गति आदि शेष मार्गणास्थान-विशिष्ट जीव किन-किन स्थानोंपर होते हैं, औदयिक आदि पाँच प्रकारके भावोंसे विशिष्ट गुणस्थानोंमेंसे किस गुणस्थानमें कितने संक्रमस्थान होते हैं और कितने प्रतिग्रहस्थान होते हैं, तथा किस संक्रमस्थान या प्रतिग्रहस्थानकी समाप्ति कितने कालसे होती है ? ॥४०-४१॥

विशेषार्थ—इन दो सूत्रगाथाओंके द्वारा जिन प्रश्नोंको उठाया गया है, या देशा-मर्गकरूपसे जिनकी सूचना की गई है, उनका समाधान आगे कही जानेवाली गाथाओंमें यथातथानुपूर्वीसे किया गया है । किस गुणस्थानमें कितने संक्रमस्थान और प्रतिग्रहस्थान होते हैं, यह नीचे दिये गये चित्रमें बतलाया गया है ।

गुणस्थानोंमें संक्रमस्थान और प्रतिग्रहस्थानोंका चित्र

गुणस्थान	संक्रमस्थान संख्या	संक्रमस्थान विवरण	प्रतिग्रह ^० संख्या	प्रतिग्रहस्थान-विवरण
१ मिथ्यात्त्वगुणस्थान	४	२७, २६, २५, २३	२	२२, २१
२ सासादन "	२	२५, २१	१	२१
३ मिश्र "	२	२५, २१	२	१७
४ अविरत "	५	२७, २६, २३, २२, २१	३	१९, १८, १७
५ देशविरत "	"	" " " " "	"	१५, १४, १३
६ प्रमत्तसंयत "	"	" " " " "	"	११, १०, ९
७ अप्रमत्तसंयत,	"	" " " " "	"	" " "
८ अपूर्वकरण "	२	२३, २१	२	११, ९
९ { अनिवृत्तिकरण उपगमोपगमक	१२	२३, २२, २१, २०, १८, १३, ११	५	५, ४, ३, २, १
" धाधिकोपगमक	१२	१०, ८, ७, ५, ४	"	" " " " "
" क्षयक	९	२१, २०, १९, १८, १२, ११, ९,	"	" " " " "
१० सुधमसांपराय	२	८, ६, ५, ३, २	"	" " " " "
११ उपशान्तकषाय	१	२१, १३, १२, ११, १०, ४, ३, २, १	१	२
			१	२

णिरयगइ-अमर-पंचिदिणसु पंचेव संक्रमट्टाणा ।

सव्वे मणुसगईए सेसेसु तिगं असण्णीसु ॥४२॥

चदुर दुगं तेवीसा मिच्छत्त मिस्सगे य सम्मत्ते ।

वावीस पणय छक्कं विरदे मिस्से अविरदे य ॥४३॥

अब ग्रन्थकार उक्त दो गाथाओके द्वारा उठाये गये प्रश्नोका समाधान करते हुए सबसे पहले गतिमार्गणामे संक्रमस्थानोका निरूपण करते हैं—

नरकगति, देवगति और संज्ञिपंचेन्द्रियतिर्यचोंमें सत्ताईस, छव्वीस, पच्चीस, तेईस और इक्कीस-प्रकृतिक पाँच ही संक्रमस्थान होते हैं। मनुष्यगतिमें सर्व ही संक्रमस्थान होते हैं। शेष एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और असंज्ञी पंचेन्द्रियोंमें सत्ताईस, छव्वीस और पच्चीस-प्रकृतिक तीन ही संक्रमस्थान होते हैं ॥४२॥

विशेषार्थ—इस गाथाके द्वारा चारो गतियोंमे संक्रमस्थानोका वर्णन तो स्पष्टरूपसे किया गया है, साथ ही 'असंज्ञी' पदके द्वारा इन्द्रियमार्गणा, कायमार्गणा, योगमार्गणा और संज्ञिमार्गणामे भी देशामर्शकरूपसे संक्रमस्थानोकी भी सूचना की गई है। उनकी प्ररूपणा सुगम होनेसे ग्रन्थकारने नहीं की है।

अब ग्रन्थकार सम्यक्त्वमार्गणा और संयममार्गणामे संक्रमस्थानोका निरूपण करते हैं—

मिथ्यात्व गुणस्थानमें सत्ताईस, छव्वीस, पच्चीस और तेईस-प्रकृतिक चार संक्रमस्थान होते हैं। मिश्रगुणस्थानमें पच्चीस और इक्कीस-प्रकृतिक दो संक्रमस्थान होते हैं। सम्यक्त्व-युक्त गुणस्थानोंमें तेईस संक्रमस्थान होते हैं। संयम-युक्त प्रमत्तसंयतादि-गुणस्थानोंमें चाईस संक्रमस्थान होते हैं। मिश्र अर्थात् संयतासंयतगुणस्थानमें सत्ताईस, छव्वीस, तेईस, चाईस और इक्कीस-प्रकृतिक पाँच संक्रमस्थान होते हैं। अविरत-गुणस्थानमें सत्ताईस, छव्वीस, पच्चीस, तेईस, चाईस और इक्कीस-प्रकृतिक छह संक्रमस्थान होते हैं ॥४३॥

विशेषार्थ—इस गाथाके द्वारा बतलाये गये संक्रमस्थानोका विवरण इस प्रकार है—सम्यक्त्वमार्गणाकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टिके २७, २६, २५ और २३ प्रकृतिक चार संक्रमस्थान होते हैं। सासादनसम्यग्दृष्टिके २५ और २१ प्रकृतिक दो संक्रमस्थान होते हैं। सम्यग्मिथ्यादृष्टिके २५ और २१ प्रकृतिक दो संक्रमस्थान होते हैं। सम्यग्दृष्टिके सर्व-संक्रमस्थान पाये जाते हैं। पच्चीस-प्रकृतिक संक्रमस्थानका निरूपण अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्ता-वाले और उपशमसम्यक्त्वसे गिरे हुए सासादन-सम्यग्दृष्टिकी अपेक्षा किया गया है। संयम-मार्गणाकी अपेक्षा सामायिक-छेदोपस्थापनासंयतके पच्चीस-प्रकृतिक संक्रमस्थानको छोड़कर शेष चाईस संक्रमस्थान पाये जाते हैं। परिहारविशुद्धिसंयतके २७, २३, २२ और २१ प्रकृतिक चार संक्रमस्थान होते हैं। सूक्ष्मसाम्पराय और यथाख्यातसंयतके चौबीस प्रकृतियोंकी

तेवीस सुकलेस्से छक्कं पुण तेउ-पम्भलेस्सासु ।
 पणयं पुण काऊए णीलाए किण्हलेस्साए ॥४४॥
 अवगयवेद-णवुंसय-इत्थी-पुरिसेसु चाणुपुव्वीए ।
 अट्टारसयं णवयं एकारसयं च तेरसया ॥४५॥

सत्तावाले जीवकी अपेक्षा एकमात्र दो-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता है । गाथा-पठित 'मिश्र' पदसे संयतासंयतका ग्रहण किया गया है । उसके २७, २६, २३, २२ और २१ प्रकृतिक पांच संक्रमस्थान होते हैं, ऐसा अभिप्राय जानना चाहिए ।

अब लेश्यामार्गणाकी अपेक्षा संक्रमस्थानोका निरूपण करते हैं—

शुक्कलेश्यामें तेईस संक्रमस्थान होते हैं । तेजोलेश्या और पद्मलेश्यामें सत्ताईससे लेकर इक्कीस तकके छह संक्रमस्थान होते हैं । कापोतलेश्यामें सत्ताईस, छव्वीस, पच्चीस, तेईस और इक्कीस-प्रकृतिक पाँच संक्रमस्थान होते हैं । ये ही पाँच संक्रमस्थान नील और कृष्णलेश्यामें भी जानना चाहिए ॥४४॥

विशेषार्थ—शुक्कलेश्यावाले जीवोंके सभी संक्रमस्थान पाये जाते हैं । तेजोलेश्या और पद्मलेश्यावाले जीवोंके २७, २६, २५, २३, २२ और २१ प्रकृतिक छह संक्रमस्थान पाये जाते हैं । कापोत, नील और कृष्णलेश्यावाले जीवोंके २७, २६, २५, २३ और २१ प्रकृतिक पाँच संक्रमस्थान पाये जाते हैं । यतः इक्कीससे नीचेके संक्रमस्थान उपशम या क्षपकश्रेणीमें ही संभव है और वहाँपर एकमात्र शुक्कलेश्या होती है, अतः शेष पांचो लेश्याओंमें बीस आदि संक्रमस्थानोका अभाव बतलाया गया है ।

अब वेदमार्गणाकी अपेक्षा संक्रमस्थानोका निरूपण करते हैं—

अपगतवेदी, नपुंसकवेदी, स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंमें आनुपूर्वीसे अर्थात् यथाक्रमसे अट्टारह, नौ, ग्यारह और तेरह संक्रमस्थान होते हैं ॥४५॥

विशेषार्थ—नौवे गुणस्थानके अवेदभागसे ऊपरके जीवोंको अपगतवेदी कहते हैं । उनके २७, २६, २५, २३ और २२ इन पाँच स्थानोको छोड़कर शेष अट्टारह स्थान पाये जाते हैं । इनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला उपनामक जीव पुरुषवेदके उदयके साथ श्रेणीपर चढ़ा और अनिवृत्तिकरणगुणस्थानमें लोभका असंक्रामक होकर क्रमसे स्त्रीवेद नपुंसकवेद, और छह नोकपायोका उपशमन करता हुआ अपगतवेदी होकर चौदह-प्रकृतिकस्थानका संक्रमण करता है १ । पुनः पुरुषवेदके नवकवन्धका उपशमन करके तेरह-प्रकृतिक स्थानका संक्रमण करता है २ । पुनः दो प्रकारके क्रोधका उपशम करनेपर ग्यारह-प्रकृतिक स्थानका संक्रमण किया ३ । पुनः संज्वलन क्रोधका उपशम करनेपर दश-प्रकृतिक स्थानका संक्रमण किया ४ । पुनः दो प्रकारके मानका उपशम करनेपर आठ-प्रकृतिक स्थानके संक्रमभावको प्राप्त हुआ ५ । पुनः संज्वलनमानके उपशम करनेपर सात-प्रकृतिक

स्थानका संक्रामक हुआ ६ । पुनः दोनो मायाकपायोका उपशम करनेपर पाँच-प्रकृतिक स्थानका संक्रामक हुआ ७ । पुनः संज्वलनमायाका उपशम करनेपर चार-प्रकृतिक स्थानका संक्रामक हुआ ८ । तदनन्तर दो प्रकारके लोभका उपशम करता हुआ दो-प्रकृतिक स्थानका संक्रामक हुआ ९ । इस प्रकार ये नौ संक्रमस्थान पुरुषवेदके साथ श्रेणीपर चढ़े हुए चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले अपगतवेदी जीवके पाये जाते हैं । जो इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जीव पुरुषवेदके साथ उपशमश्रेणीपर चढ़ता है उसके आनुपूर्वी-संक्रमणके अनन्तर नपुंसकवेद, स्त्रीवेद और हास्यादि छह नोकषायोके उपशम करनेपर अपगतवेदीके वारह-प्रकृतिक संक्रमस्थान उत्पन्न होता है । पुनः दो प्रकारके क्रोध, दो प्रकारके मान और दो प्रकारके माया कपायोके उपशमानेपर यथाक्रमसे नौ, छह और तीन-प्रकृतिक संक्रमस्थान उत्पन्न होते हैं । इन चार संक्रमस्थानोको पूर्वोक्त नौ संक्रमस्थानोसे मिला देनेपर अपगतवेदीके तेरह संक्रमस्थान हो जाते हैं । पुनः उसी जीवके नपुंसकवेदके उदयसे श्रेणी चढ़नेपर आनुपूर्वीसंक्रमके अनन्तर नपुंसकवेद और स्त्रीवेदका उपशमन करके अपगतवेदी होनेपर अठारह-प्रकृतिक एक अपुनरुक्त संक्रमस्थान पाया जाता है । इसी जीवके श्रेणीसे उतरते समय वारह कपाय और सात नोकपाय इन उन्नीस प्रकृतियोंका अपकर्षण करते हुए उन्नीस-प्रकृतिक अपुनरुक्त संक्रमस्थान पाया जाता है । इन दोनो संक्रमस्थानोको पूर्वोक्त तेरहसे मिलानेपर अपगतवेदीके पन्द्रह संक्रमस्थान हो जाते हैं । इसी प्रकार जो चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जीव नपुंसकवेदके साथ श्रेणीपर चढ़ता है, उसके चढ़ते और उतरते हुए क्रमशः बीस और उन्नीस-प्रकृतिक दो अपुनरुक्त संक्रमस्थान पाये जाते हैं । इन्हे पूर्वोक्त पन्द्रहसे मिलानेपर अपगतवेदी जीवके सत्तरह संक्रमस्थान हो जाते हैं । जो क्षपक जीव पुरुषवेद या नपुंसकवेदके साथ श्रेणीपर चढ़ता है, उसके अन्तिम एक-प्रकृतिक अपुनरुक्त संक्रमस्थान होता है । उसे पूर्वोक्त सत्तरहसे मिला देनेपर अपगतवेदी जीवके अठारह संक्रमस्थान हो जाते हैं । नपुंसकवेदके नौ संक्रमस्थान होते हैं । उनसे सत्ताईससे लेकर इक्कीस तकके छह संक्रमस्थान तो नपुंसकवेदीके श्रेणीसे नीचे ही पाये जाते हैं । तथा इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके आनुपूर्वी-संक्रमणकी अपेक्षा बीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान भी श्रेणीके पूर्व ही पाया जाता है । पुनः नपुंसकवेदके उदयसे श्रेणीपर चढ़नेवाले क्षपकके आठ मध्यम कषायोके क्षपण करनेपर तेरह-प्रकृतिक संक्रमस्थान प्राप्त होता है । आनुपूर्वीसंक्रमसे परिणत इसी जीवके वारह-प्रकृतिक संक्रमस्थान भी पाया जाता है । इस प्रकार नपुंसकवेदीके २७, २६, २५, २३, २२, २१, २०, १३ और १२ ये नौ संक्रमस्थान पाये जाते हैं । शेष संक्रमस्थानोका पाया जाना इसके सम्भव नहीं है । स्त्रीवेदी जीवके ग्यारह संक्रमस्थान होते हैं । उसके नौ संक्रमस्थानोकी प्ररूपणा तो नपुंसकवेदीके ही समान है । विशेष इसके उन्नीस और ग्यारह-प्रकृतिक दो संक्रमस्थान और अधिक है, क्योंकि, इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामक और क्षपकके स्त्रीवेदके उदयके साथ श्रेणी पर चढ़कर नपुंसकवेदके उपशम और क्षपण करनेपर यथाक्रमसे उनके उन्नीस

कोहादी उवजोगे चटुसु कसाएसु चाणुपुव्वाए । सोलस य ऊणवीसा तेवीसा चैव तेवीसा ॥४६॥

और ग्यारह-प्रकृतिक दोनो संक्रमस्थान पाये जाते हैं । पुरुषवेदी जीवके तेरह संक्रमस्थान होते हैं । उनमें ग्यारहकी प्ररूपणा तो स्त्रीवेदीके ही समान है । विशेष इसके अट्टारह और दश-प्रकृतिक दो संक्रमस्थान और अधिक होते हैं, क्योंकि इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामक और क्षपकके पुरुषवेदके उदयके साथ श्रेणीपर चढ़कर स्त्रीवेदके उपशमन और क्षपण करनेपर यथाक्रमसे उक्त दोनो संक्रमस्थान पाये जाते हैं ।

अब कपायमार्गणामे संक्रमस्थानोका निरूपण करते हैं—

क्रोधादि चारों कपायोंसे उपयुक्त जीवोंमें आनुपूर्वीसे सोलह, उन्नीस, तेईस और तेईस संक्रमस्थान होते हैं ॥४६॥

विशेषार्थ—क्रोधकपायके उदयसे युक्त जीवके सोलह संक्रमस्थान होते हैं । उनका विवरण इस प्रकार है—क्रोधकपायी जीवके सत्ताईससे लेकर इक्कीस तकके छह संक्रमस्थान तो मिथ्यादृष्टि आदि श्रेणीके पूर्ववर्ती गुणस्थानोमें यथासम्भव रीतिसे पाये ही जाते हैं । चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जो जीव क्रोधकपायके उदयके साथ श्रेणीपर चढ़ता है, उसके तेईस, बाईस और इक्कीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान तो पुनरुक्त ही पाये जाते हैं । पुनः उसके बीस, चौदह और तेरह ये तीन स्थान अपुनरुक्त पाये जाते हैं । तथा इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामककी अपेक्षा उन्नीस, अट्टारह, वारह और ग्यारह-प्रकृतिक चार संक्रमस्थान पाये जाते हैं । क्रोधकपायके साथ श्रेणीपर चढ़े हुए क्षपककी अपेक्षा दश, चार और तीन-प्रकृतिक संक्रमस्थान और पाये जाते हैं । इस प्रकार सब मिलाकर क्रोधकपायी जीवके २७, २६, २५, २३, २२, २१, २०, १९, १८, १४, १३, १२, ११, १०, ४ और ३ ये सोलह संक्रमस्थान पाये जाते हैं । मानकपायी जीवके इन सोलह संक्रमस्थानोके अतिरिक्त इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामककी अपेक्षा दोनो प्रकारके क्रोधोके उपशम होनेपर नौ-प्रकृतिक संक्रमस्थान और संज्वलनक्रोधके उपशम होनेपर आठ-प्रकृतिक संक्रमस्थान, तथा क्षपकके संज्वलनक्रोधका क्षय होनेपर दो-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता है । इस प्रकार सब मिलाकर मानकपायी जीवके २७, २६, २५, २३, २२, २१, २०, १९, १८, १४, १३, १२, ११, १०, ९, ८, ४ और २ प्रकृतिक उन्नीस संक्रमस्थान पाये जाते हैं । माया और लोभकपायवाले जीवोंके सभी अर्थात् तेईस तेईस ही संक्रमस्थान पाये जाते हैं । अकपायी जीवके एकमात्र दो-प्रकृतिक संक्रमस्थान है, क्योंकि चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामक जीवके ग्यारहवें गुणस्थानमें दो प्रकृतियोंका संक्रमण पाया जाता है ।

अब ज्ञानमार्गणामे संक्रमस्थानोका निरूपण करते हैं—

णाणाम्हि य तेवीसा तिविहे एकम्हि एकवीसा य ।
 अण्णाणम्हि य तिविहे पंचेव य संकमट्टाणा ॥४७॥
 आहारय-भविण्णु य तेवीसं होंति संकमट्टाणा ।
 अणाहारण्णु पंच य एककं ट्टाणं अभविण्णु ॥४८॥
 छव्वीस सत्तावीसा तेवीसा पंचवीस वावीसा ।
 एदे सुण्णट्टाणा अवगदवेदस्स जीवस्स ॥४९॥

मति, श्रुत और अवधि इन तीनों ज्ञानोंमें तेईस संक्रमस्थान होते हैं । एकमें अर्थात् मनःपर्ययज्ञानमें पच्चीस और छव्वीस-प्रकृतिरू दो स्थान छोड़कर शेष इक्कीस संक्रमस्थान होते हैं । कुमति, कुश्रुत और विभंग, इन तीनों ही अज्ञानोंमें सत्ताईस, छव्वीस, पच्चीस, तेईस और इक्कीस-प्रकृतिक पाँच संक्रमस्थान होते हैं ॥४७॥

विशेषार्थ—यद्यपि पच्चीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान सम्यग्निमध्यादृष्टि जीवके ही होता है, तथापि यहाँपर मतिज्ञानादि तीनों सद्-ज्ञानोंमें अशुद्ध-नयके अभिप्रायसे उसका निरूपण किया गया है, ऐसा समझना चाहिए । प्रथमोपगमसम्यक्त्वके ग्रहण करनेके प्रथम समयमें पाये जानेवाले छव्वीस-प्रकृतिक संक्रमस्थानका अवधिज्ञानमें जो प्रतिपादन किया गया है वह देव और नारकियोंकी अपेक्षासे जानना चाहिए, क्योंकि उनके प्रथमोपगमसम्यक्त्वके ग्रहण करनेके प्रथम समयमें ही अवधिज्ञानकी उत्पत्ति देखी जाती है । शेष गाथार्थ स्पष्ट ही है । इसी गाथाके द्वारा देशामर्शकरूपसे दर्शनमार्गणाके संक्रमस्थानोंका भी निरूपण किया गया है, क्योंकि मति, श्रुत और अवधिज्ञानके संक्रमस्थानोंसे चक्षु, अचक्षु और अवधिदर्शनके संक्रमस्थानोंका निरूपण हो जाता है । अर्थात् इन तीनों प्रकारके दर्शनमें तेईस-तेईस संक्रमस्थान पाये जाते हैं ।

अब भव्यमार्गणा और आहारमार्गणामें संक्रमस्थानोंका निरूपण करते हैं—

आहारक और भव्य जीवोंमें तेईस ही संक्रमस्थान होते हैं । अनाहारकोंमें सत्ताईस, छव्वीस, पच्चीस, तेईस और इक्कीस-प्रकृतिक पाँच संक्रमस्थान होते हैं । अभव्योंमें पच्चीस-प्रकृतिक एक ही संक्रमस्थान होता है ॥४८॥

अब अपगतवेदी जीवोंमें नहीं पाये जानेवाले संक्रमस्थानोंका निरूपण करते हैं—

अपगतवेदी जीवके छव्वीस, सत्ताईस, तेईस, पच्चीस और वाईस-प्रकृतिक पंच शून्यस्थान होते हैं, अर्थात् ये पाँच संक्रमस्थान नहीं पाये जाते हैं ॥४९॥

अब नपुंसकवेदी जीवोंमें नहीं पाये जानेवाले संक्रमस्थानों प्रतिपादन करते हैं—

उद्युवीसद्वारसयं चोदस एक्कारसादिया सेसा ।
 एदे सुण्णट्टाणा णवुंसए चोदसा होंति ॥५०॥
 अद्वारस चोदसयं ट्टाणा सेसा य दसगमादीया ।
 एदे सुण्णट्टाणा वारस इत्थीसु वोद्धव्वा ॥५१॥
 चोदसग णवगमादी हवंति उवसामगे च खवगे च ।
 एदे सुण्णट्टाणा दस वि य पुरिसेसु वोद्धव्वा ॥५२॥
 णव अट्ट सत्त छक्कं पणग दुगं एक्कयं च वोद्धव्वा ।
 एदे सुण्णट्टाणा पढसकसायोवजुत्तेसु ॥५३॥
 सत्त य छक्कं पणगं च एक्कयं च एव आणुपुव्वीए ।
 एदे सुण्णट्टाणा विदियकसाओवजुत्तेसु ॥ ५४ ॥

नपुंसकवेदी जीवोंमें उन्नीस, अद्वारह, चौदह और ग्यारहको आदि लेकर शेष स्थान, अर्थात् ग्यारह, दश, नौ, आठ, सात, छह, पाँच, चार, तीन, दो और एक प्रकृतिक चौदह स्थान शून्य हैं ॥५०॥

अब स्त्रीवेदी जीवोंमें नहीं पाये जानेवाले संक्रमस्थानोंका प्ररूपण करते हैं—

स्त्रीवेदी जीवोंमें अद्वारह और चौदह-प्रकृतिक ये दो स्थान, तथा दशको आदि लेकर एक तकके दश स्थान, इस प्रकार ये चारह स्थान शून्य जानना चाहिए ॥५१॥

अब पुरुषवेदी जीवोंमें नहीं पाये जानेवाले संक्रमस्थानोंको बतलाते हैं—

पुरुषवेदी जीवोंमें, उपशामकमें और क्षपकमें चौदह-प्रकृतिक संक्रमस्थान तथा नौको आदि लेकर एक तकके नौ स्थान इस प्रकार दश स्थान शून्य हैं ॥५२॥

अब क्रोधकपायी जीवोंमें नहीं पाये जानेवाले संक्रमस्थानोंको कहते हैं—

प्रथम-क्रोधकपायसे उपयुक्त जीवोंमें नौ, आठ, सात, छह, पाँच, दो और एक-प्रकृतिक सात स्थान शून्य हैं ॥५३॥

अब मानकपायी जीवोंमें नहीं पाये जानेवाले संक्रमस्थानोंको कहते हैं—

द्वितीय मानकपायसे उपयुक्त जीवोंमें सात, छह, पाँच और एक-प्रकृतिक चार स्थान शून्य हैं । इस प्रकार आनुपूर्वीसे शून्यस्थानोंका कथन किया ॥५४॥

• विशेषार्थ—शेष दो माया और लोभकपायमें शून्यस्थानका विचार नहीं है, क्योंकि उनमें सभी संक्रमस्थान पाये जाते हैं ।

अब ग्रन्थकार इसी उपर्युक्त दिशासे शेष मार्गस्थानोंमें सम्भव और असम्भव संक्रमस्थानोंके भी जान लेनेकी सूचना करते हैं—

दिद्वे सुण्णामुण्णे वेद-कसाएसु चैव द्वाणेषु ।

मग्गणगवेषणाए तु संक्रमो आपुणुव्वीए ॥ ५५ ॥

इस प्रकार वेदमार्गणामें और कपायमार्गणामें संक्रमस्थानोंके शून्य और अशून्य स्थानोंके दृष्टिगोचर हो जानेपर, अर्थात् जान लेनेपर शेष मार्गणाओंमें भी आनुपूर्वीसे संक्रमस्थानोंकी गवेषणा करना चाहिए ॥५५॥

विशेषार्थ—मार्गणास्थानोमे संक्रमस्थानो और प्रतिग्रहस्थानोका विवरण इस प्रकार है—

मार्गणास्थान	संक्रमस्थान	प्रतिग्रहस्थान
१ गतिमार्गणा	नरकगति	२२, २१, १९, १७
	देवगति	" " " "
	तिर्वग्गति	२२, २१, १९, १७, १५
	मनुष्यगति	सर्व प्रतिग्रहस्थान
२ इन्द्रिय "	पंचेन्द्रिय	" "
	विकलेन्द्रिय	२२, २१
	एकेन्द्रिय	" "
३ काय "	१ त्रसकाय	सर्व प्रतिग्रहस्थान
	५ स्थावरकाय	२२, २१
४ योग "	मनोयोगी	सर्व प्रतिग्रहस्थान
	वचनयोगी	" "
	काययोगी	" "
५ वेद "	पुरुषवेदी	२२, २१, १९, १८, १७, १५, १४, १३, ११, १०, ९, ७, ६, ५, ४
	न्वीवेदी	२२, २१, १९, १८, १७, १५, १४, २०, १९, १३, १२, ११, १३, ११, १०, ९, ७, ५
	नपु सकवेदी	२२, २१, १९, १८, १७, १५, १४, २०, १३, १२
	अपगतवेदी	२७, २६, २५, २३, २२के विना शेष १८
	क्रोधरूपायी	२७, २६, २५, २३, २२, २१, २०, १९, १८, १४, १३, १२, ११, १०, ४, ६, ३
	मान "	२७, २६, २५, २३, २२, २१, २०, १९, १८, १४, १३, १२, ११, १०, ९, ७, ६, ५, ४, ३, २
	माया "	सर्व संक्रमस्थान
	लोभ "	" "
	अकपायी	२
	अज्ञानत्रय	२७, २६, २५, २३, २१
६ कपाय "	सद्ज्ञानत्रय	२२, २१ को छोड़कर शेष २६
	मनःपर्ययज्ञान	११, १०, ९, ७, ६, ५, ४, ३, २, १
	सामायिक	" " " " " " " "
	छेदोपस्थापना	" " " " " " " "
७ शान "	परिहारविशु०	११, १०, ९
	सुखसाम्पराज	२
	यथाव्यात	"
	संयमाभयम	२७, २६, २५, २३, २२, २१
८ संयम "	अभयम	२७, २६, २५, २३, २२, २१
		२२, २१, १९, १८, १७

कर्मसियद्वाणेसु य वन्धद्वाणेसु संक्रमद्वाणे ।

एककेककेण समाणय वन्धेण य संक्रमद्वाणे ॥ ५६ ॥

		सर्व सत्त्वस्थान	सर्व प्रतिग्रहस्थान
९ दर्शन	" { चक्षुर्दग्धिनी अचक्षुर्दग्धिनी अवधिदग्धिनी कृष्ण०	सर्व सत्त्वस्थान	सर्व प्रतिग्रहस्थान
		२५ को छाटकर जेय २२	२२ और २१ को छोटाकर जेय १६
		२७, २६, २५, २३, २१	२०, २१, १९, १८, १७
		" " " " "	" " " " "
१० लेख्या	" { नील० कापोत० तेज०	" " " " "	" " " " "
		२७, २६, २५, २३, २२, २१	२२, २१, १९, १८, १७, १६, १५, १३, ११, १०, ९
		" " " " "	" " " " "
		सर्व सत्त्वस्थान	सर्व प्रतिग्रहस्थान
११ भव्य	" { पद्म० शुद्ध० भव्य० अभव्य०	सर्व सत्त्वस्थान	सर्व प्रतिग्रहस्थान
		" "	" "
		२५	२१
		२७, २६, २३, २२, २१, २०, १४, १३, ११, १०, ८, ७, ५, ४, २	१९, १५, ११, ७, ६, ५, ४, ३, २
१२ सम्यक्त्व,	" { औपचामिक धार्मिक० वेदक० सम्यग्मि० सासादन० मिथ्या०	२१, २०, १९, १८, १३, १२, ११, १०, ९, ८, ६, ५, ४, ३, २, १	१७, १३, ९, ५, ४, ३, २, १
		२७, २३, २२, २१	१९, १८, १८, १५, १४, १३, ११, १०, ९
		२५, २१	१७
		" "	२१
१३ सज्जि	" { संजी असजी	सर्व सत्त्वस्थान	सर्व प्रतिग्रहस्थान
		२७, २६, २५	२२, २१
१४ आहार	" { आहारक अनाहारक	सर्व सत्त्वस्थान	सर्व प्रतिग्रहस्थान
		२७, २६, २५, २३, २१	२२, २१, १९, १७

अत्र ग्रन्थकार मोहनीयकर्मके बन्धस्थान और सत्त्वस्थानके साथ सत्त्वस्थानोंके एक-संयोगी, द्वि-संयोगी भंगोंको निकालनेके लिए सन्निकर्षकी सूचना करते हैं—

कर्माशिक स्थानमे अर्थात् मोहनीयके सत्त्वस्थानोंमें और बन्धस्थानोंमें संक्रम-स्थानोंकी गवेषणा करना चाहिए । तथा एक-एक बन्धस्थान और सत्त्वस्थानके साथ संयुक्त संक्रमस्थानोंके एक-संयोगी, द्वि-संयोगी भंगोंको निकालना चाहिए ॥५६॥

विशेषार्थ—इस गाथाके द्वारा ओष और आदेशकी अपेक्षासे निरूपण किये संक्रम-स्थानों और उनके प्रतिनियत प्रतिग्रहस्थानोंका बन्धस्थानों और सत्त्वस्थानोंमे अनुमार्गण करनेका संकेत किया गया है । यहाँपर उनका कुछ स्पष्टीकरण किया जाता है—कर्माशिकस्थान सत्त्वस्थान और सत्त्वस्थान, ये तीनों पर्यायवाची नाम है । मोहकर्मके सत्त्वस्थान पन्द्रह होते हैं—२८, २७, २६, २४, २३, २२, २१, १३, १२, ११, ५, ४, ३, २ और १ । मोहकर्मके बन्धस्थान दश होते हैं—२२, २१, १७, १३, ९, ५, ४, ३, २ और १ । मोहकर्मके तेईस संक्रमस्थान पहले बतलाये जा चुके हैं । अब सत्त्वस्थानोंमे उन संक्रम-स्थानोंका अनुमार्गण करते हैं—जिस मिथ्यादृष्टि जीवके अट्टाईस प्रकृतियोंका सत्त्व है

उसके सत्ताईस प्रकृतियोंका संक्रम होता है १ । सम्यक्त्वप्रकृतिकी उद्वेलना करनेवाले मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टिके सम्यक्त्वप्रकृतिकी एक समय कम आवलीप्रमाण गोपुच्छा शेष रह जानेपर अट्ठाईसके सत्त्वके साथ छव्वीस प्रकृतियोंका संक्रम होता है । अथवा छव्वीस-प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवके प्रथमसम्यक्त्वके उत्पन्न करनेपर अट्ठाईस प्रकृतियोंके सत्त्वके साथ छव्वीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता है २ । जिसने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना नहीं की है ऐसे उपशमसम्यग्दृष्टि जीवके सासादनगुणस्थानको प्राप्त होनेपर अथवा अट्ठाईसकी सत्तावाले किसी दूसरे जीवके मिश्रगुणस्थानको प्राप्त होनेपर अट्ठाईस प्रकृतियोंके सत्त्वके साथ पच्चीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान उत्पन्न होता है ३ । अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन करके उसके संयोजन करनेवाले मिथ्यादृष्टिके प्रथमावलीमें अट्ठाईसके सत्त्वस्थानके साथ तेईस-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता है । अथवा अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करते हुए चरमफालीका संक्रमण कर एक समय कम आवलीमात्र गोपुच्छाके शेष रहनेपर उसी सत्त्वस्थानके साथ वही संक्रमस्थान पाया जाता है ४ । अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना-पूर्वक सासादनगुणस्थानको प्राप्त होनेवाले जीवके एक आवलीकाल तक अट्ठाईसके सत्त्वके साथ इक्कीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता है ५ । इस प्रकार ये पाँच संक्रमस्थान अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवके पाये जाते हैं । अब सत्ताईस प्रकृतियोंके सत्त्वस्थानके साथ सभ्य संक्रमस्थानोंका अन्वेषण करते हैं—अट्ठाईसकी सत्तावाले मिथ्यादृष्टिके सम्यक्त्वप्रकृतिकी उद्वेलना करनेपर सत्ताईसका सत्त्व होकर छव्वीसका संक्रम होता है १ । पुनः उसीके द्वारा सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना करते हुए समयोन आवलीमात्र गोपुच्छाके अवशेष रहनेपर सत्ताईसके सत्त्वके साथ पच्चीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता है २ । इस प्रकार सत्ताईसके सत्त्वस्थानके साथ छव्वीस और पच्चीस-प्रकृतिक दो संक्रमस्थान पाये जाते हैं । अब छव्वीस-प्रकृतिक सत्त्वस्थानके साथ संभव संक्रमस्थानकी गवेषणा करते हैं—अनादिमिथ्यादृष्टि या छव्वीसकी सत्तावाले सादिमिथ्यादृष्टिके छव्वीस-प्रकृतिक सत्त्वस्थानके साथ पच्चीस-प्रकृतिक एक संक्रमस्थान पाया जाता है । इसके अन्य संक्रमस्थानोंका पाया जाना संभव नहीं है । अब चौबीसके सत्त्वस्थानके साथ संभव संक्रमस्थानोंका अनुमार्गण करते हैं—अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनासे परिणत सम्यग्दृष्टिके चौबीसके सत्त्वस्थानके साथ तेईसका संक्रमस्थान पाया जाता है १ । पुनः उसी जीवके उपशमश्रेणीपर चढ़कर अन्तरकरण करनेके अनन्तर आनुपूर्वी-संक्रमण करनेपर वाईसका संक्रमस्थान पाया जाता है २ । पुनः उसी जीवके द्वारा नपुंसक-वेदका उपशम कर देनेपर इक्कीसका संक्रमस्थान होता है ३ । पुनः स्त्रीवेदका उपशम कर देनेपर बीसका संक्रमस्थान होता है ४ । उसी जीवके छह नोकपायोंका उपशम करनेपर चौदहका संक्रमस्थान पाया जाता है ५ । पुनः पुरुषवेदका उपशम करनेपर तेरहका संक्रमस्थान पाया जाता है ६ । अनन्तर दोनों मध्यम क्रोधोंके उपशम होनेपर ग्यारहका संक्रमस्थान होता है ७ । संज्वलनक्रोधके उपशम होनेपर दशका संक्रमस्थान होता है ८ । दोनों मध्यम मानोंके उपशम

होनेपर आठका संक्रमस्थान होता है ९ । संज्वलनमानके उपशम होनेपर सातका संक्रमस्थान पाया जाता है १० । दोनो मध्यम मायाकपायोके उपशम होने पर पाँचका संक्रमस्थान पाया जाता है ११ । संज्वलनमायाके उपशम होनेपर चारका संक्रमस्थान होता है १२ । दोनो मध्यम लोभोके उपशम होनेपर मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व इन दो ही प्रकृतियोंका संक्रमण होता है १३ । इस प्रकार चौबीस-प्रकृतिक सत्त्वस्थानके साथ ऊपर बतलाये गये तेरह संक्रमस्थान पाये जाते हैं । इसी जीवके श्रेणीमे उतरते हुए जो संक्रमस्थान पाये जाते हैं, वे पुनरुक्त होनेसे उपर्युक्त संक्रमस्थानोंके ही अन्तर्गत हो जाते हैं । तथा चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले सम्यग्मिथ्यादृष्टिके इक्कीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान और दर्शनमोहनीयका क्षपण करनेवाले जीवके मिथ्यात्वकी चरम फालीके पतनके अनन्तर पाया जानेवाला वाईस-प्रकृतिक संक्रमस्थान भी पुनरुक्त होनेसे पृथक् नहीं कहा गया है । अब तेईसके सत्त्वस्थानके साथ संभव संक्रमस्थानोंकी गवेषणा करते हैं—चौबीसकी सत्तावाले जीवके दर्शनमोहकी क्षपणाके लिए अभ्युद्यत होकर मिथ्यात्वका क्षपण कर देनेपर तेईसके सत्त्वस्थानके साथ वाईस-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता है १ । पुनः उसीके द्वारा सम्यग्मिथ्यात्वको क्षपण करते हुए समयोन आवलीमात्र गोपुच्छाओके अवशिष्ट रहनेपर उसी तेईसके सत्त्वस्थानके साथ इक्कीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता है २ । इस प्रकार तेईस-प्रकृतिक सत्त्वस्थानके साथ वाईस और इक्कीस-प्रकृतिक दो संक्रमस्थान पाये जाते हैं । इसी उपर्युक्त जीवके द्वारा सम्यग्मिथ्यात्वके निःशेषरूपसे क्षय कर देनेपर वाईसके सत्त्वस्थानके साथ इक्कीस-प्रकृतिक एक ही संक्रमस्थान पाया जाता है । अब इक्कीसके सत्त्वस्थानके साथ संभव संक्रमस्थानोंकी गवेषणा करते हैं—क्षायिकसम्यग्दृष्टिके इक्कीसके सत्त्वस्थानके साथ इक्कीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है १ । पुनः उसके उपशमश्रेणीपर चढ़कर आनुपूर्वी-संक्रमणके करनेपर इक्कीसके सत्त्वके साथ बीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता है २ । इसी प्रकारसे इसके अनन्तर संभव दश संक्रमस्थानोंका अनुमार्गण कर लेना चाहिए । इस प्रकार इक्कीसके सत्त्वके साथ उपशमश्रेणीकी अपेक्षा २१, २०, १९, १८, १७, १६, १५, १४, १३, १२, ११, १०, ९, ८, ७, ६, ५, ४, ३ और २ प्रकृतिक बारह संक्रमस्थान पाये जाते हैं । तथा क्षपकश्रेणीकी अपेक्षा आठ मध्यम कपायोका क्षपण करते हुए समयोन आवलीमात्र गोपुच्छाओके अवशिष्ट रहनेपर इक्कीसके सत्त्वके साथ तेरह-प्रकृतिक सत्त्वस्थान भी पाया जाता है । इसे पूर्वोक्त बारहमे मिला देनेपर कुल १३ संक्रमस्थान इक्कीसके सत्त्वस्थानके साथ पाये जाते हैं । पुनः उसी क्षपकके द्वारा आठो मध्यम कपायोके क्षपण कर देनेपर तेरह प्रकृतियोंके सत्त्वस्थानके साथ तेरह-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता है १ । पुनः उसी जीवके द्वारा अन्तकरण करनेके पश्चात् आनुपूर्वी-संक्रमण करनेपर तेरह-प्रकृतिक सत्त्वस्थानके साथ बारह-प्रकृतिक संक्रमस्थान भी पाया जाता है २ । इस प्रकार तेरहके सत्त्वस्थानके साथ तेरह और बारह-प्रकृतिक दो संक्रमस्थान पाये जाते हैं । इसी जीवके द्वारा नपुंसकवेदका क्षयकर देनेपर बारहके सत्त्वस्थानके साथ ग्यारह-प्रकृतिक

संक्रमस्थान पाया जाता है । पुनः स्त्रीवेदके क्षयकर देनेपर ग्यारह-प्रकृतिक सत्त्वस्थानके साथ द्वा-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता है । पुनः हास्यादि छह नो-कपायोके क्षयणके अनन्तर पंच-प्रकृतिक सत्त्वस्थानके साथ चार-प्रकृतिक संक्रमणस्थान पाया जाता है । पुनः नवकवद्ध पुरुषवेदके क्षय हो जानेपर चार-प्रकृतिक सत्त्वस्थानके साथ तीन प्रकृतिक संक्रम-स्थान पाया जाता है । पुनः संज्वलनक्रोवके क्षय कर देनेपर तीन-प्रकृतिक सत्त्वस्थानके साथ दोका संक्रम होता है । पुनः संज्वलनमानके क्षय कर देनेपर दो-प्रकृतिक सत्त्वस्थानके साथ एक प्रकृतिका संक्रम होता है । इस प्रकार मोहनीयकर्मके सत्त्वस्थानोंके साथ संक्रमस्थानोंकी मार्गणा की गई ।

मोहनीयकर्मके सत्त्वस्थानोंमें संक्रमस्थानोंका चित्र

सत्त्वस्थान	संक्रमस्थान	सत्त्वस्थान	संक्रमस्थान	सत्त्वस्थान	संक्रमस्थान	सत्त्वस्थान	संक्रमस्थान
२८	२७	२८	२३	२३	२२	२१	८
"	२६	"	२२	"	२१	"	६
"	२५	"	२१	२२	२१	"	५
"	२५	"	२०	२१	२१	"	३
"	२३	"	१४	२१	२१	"	२
"	२३	"	१३	"	२०	१३	१३
"	२१	"	११	"	१९	"	१२
"	२१	"	१०	"	१८	१२	११
२७	२६	"	८	"	१८	११	१०
"	२५	"	७	"	१३	५	४
"	२५	"	५	"	१२	४	३
"	२५	"	४	"	११	३	२
२६	२५	"	२	"	९	२	१

अब मोहनीयकर्मके वन्धस्थानोंमें संक्रमस्थानोंका अनुगम करते हैं—अट्ठाईस प्रकृति-योकी सत्तावाले मिथ्यादृष्टि जीवके वाईस-प्रकृतिक वन्धस्थानके साथ सत्ताईस-प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है १ । उसी जीवके द्वारा सम्यक्त्वप्रकृतिकी उद्वेलना करनेपर वाईसके वन्धस्थानके साथ छव्तीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है २ । उसी जीवके द्वारा सम्यग्मि-थ्यात्वकी उद्वेलना कर देनेपर वाईसके ही वन्धस्थानके साथ पच्चीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता है ३ । अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना करके मिथ्यात्वको प्राप्त हुए जीवके प्रथम आवलीमें वाईस-प्रकृतिक वन्धस्थानके साथ तेईस-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता है ४ । इस प्रकार वाईस प्रकृतिक वन्धस्थानमें सत्ताईस, छव्तीस, पच्चीस और तेईस-प्रकृतिक चार संक्रमस्थान पाये जाते हैं । अब इक्कीस-प्रकृतिक वन्धस्थानमें संक्रमस्थानोंकी मार्गणा करते हैं—सासादनसम्यग्दृष्टि जीवके इक्कीस-प्रकृतिक वन्धस्थानके साथ पच्चीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता है १ । अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना-पूर्वक सासादनगुणस्थानको प्राप्त होनेवाले जीवके प्रथम आवलीमें इक्कीस-प्रकृतिक वन्धस्थानके साथ इक्कीस प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया

जाता है २ । इस प्रकार इक्कीसके बन्धस्थानम पच्चीस और इक्कीस-प्रकृतिक दो संक्रमस्थान पाये जाते हैं । अब सत्तरह-प्रकृतिक बन्धस्थानमे संक्रमस्थानोंकी मार्गणा करते हैं—सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवके सत्तरह-प्रकृतिक बन्धस्थानके साथ अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना और अविशंयोजनाकी अपेक्षा इक्कीस और पच्चीस-प्रकृतिक दो संक्रमस्थान पाये जाते हैं २ । अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाले असंयतसम्यग्दृष्टि जीवके सत्तरह-प्रकृतिक बन्धस्थानके साथ सत्ताईस-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता है ३ । उपशमसम्यक्त्वके ग्रहण करनेके प्रथम समयमें वर्तमान असंयतसम्यग्दृष्टिके सत्तरह-प्रकृतिक बन्धस्थानके साथ छव्वीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता है ४ । उसीके अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करने पर तेईस-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता है ५ । स्त्रीवेदका उपशमन कर देनेके अनन्तर मिथ्यात्वका क्षय करनेपर उसीके चाईस-प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है ६ । और सम्यग्मिथ्यात्वका क्षय कर देनेपर उसीके इक्कीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है । इस प्रकार सर्व मिलाकर सत्तरह-प्रकृतिक बन्धस्थानमें उपर्युक्त छह संक्रमस्थान होते हैं । अब तेरह-प्रकृतिक बन्धस्थानमे संक्रमस्थानोंकी गवेषणा करते हैं—संयतासंयतके तेरह-प्रकृतिक बन्धस्थानके साथ सत्ताईस-प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है १ । प्रथमोपशमसम्यक्त्वके साथ संयमासंयमके ग्रहण करनेके प्रथम समयमे वर्तमान उसी संयतासंयतके तेरहके बन्धके साथ छव्वीसका संक्रमस्थान पाया जाता है २ । अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करनेवाले संयतासंयतके तेईसका संक्रमस्थान पाया जाता है ३ । उसीके द्वारा मिथ्यात्वका क्षय किये जानेपर चाईसका संक्रमस्थान पाया जाता है ४ । सम्यग्मिथ्यात्वके क्षय करने पर उसीके इक्कीसका संक्रमस्थान होता है ५ । इस प्रकार तेरह-प्रकृतिक बन्धस्थानमे सत्ताईस, छव्वीस, तेईस, चाईस और इक्कीस-प्रकृतिक पांच संक्रमस्थान होते हैं । अब नौ-प्रकृतिक बन्धस्थानमे संक्रमस्थानोंकी अनुमार्गणा करते हैं—प्रमत्त-अप्रमत्तसंयतके नौ-प्रकृतिक बन्धस्थानके साथ सत्ताईसका संक्रमस्थान होता है १ । उपशमसम्यक्त्वके साथ संयमको एक साथ प्राप्त होनेवाले अप्रमत्तसंयतके प्रथम समयमे नौ-प्रकृतिक बन्धस्थानके साथ छव्वीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता है २ । अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना-परिणत प्रमत्त-अप्रमत्तसंयतके नौ-प्रकृतिक बन्धस्थानके साथ तेईस-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता है ३ । उसी बन्धस्थानके साथ मिथ्यात्वके क्षयकी अपेक्षा चाईस-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता है ४ । तथा सम्यग्मिथ्यात्वके क्षयकी अपेक्षा इक्कीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता है ५ । इस प्रकार नौ-प्रकृतिक बन्धस्थानमे सत्ताईस, छव्वीस, तेईस, चाईस और इक्कीस-प्रकृतिक पांच संक्रमस्थान होते हैं । अब पांच-प्रकृतिक बन्धस्थानमे संक्रमस्थानोंका अन्वेषण करते हैं—चौवीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले अनिवृत्तिकरण-गुणस्थानवर्ती उपशामकके पांच-प्रकृतिक बन्धस्थानके साथ तेईस-प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है । वहीपर आनुपूर्वीसंक्रमके वशसे चाईस-प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है २ । नपुंसकवेदके उपशमन करनेपर इक्कीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है ३ । स्त्रीवेदका उपशमन करनेपर बीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान

होता है ४ । पुनः इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके आनुपूर्वीसंक्रमण करके नपुंसकवेदके उपशम करनेपर उन्नीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है ५ । उसीके द्वारा स्त्रीवेदका उपशमन कर देनेपर अट्टारह-प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है ६ । क्षपकके द्वारा आठ मध्यम कपायोके क्षयकर देनेपर तेरह-प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है ७ । अन्तरकरण करके आनुपूर्वीसंक्रमणके करनेपर बारह-प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है ८ । नपुंसकवेदके क्षय कर देनेपर ग्यारह-प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है ९ । स्त्रीवेदके क्षय कर देनेपर दश-प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है १० । इस प्रकार पाँच-प्रकृतिक बन्धस्थानमें तेईस, बाईस, इक्कीस, बीस, उन्नीस, अट्टारह, तेरह, बारह, ग्यारह और दश-प्रकृतिक दश संक्रमस्थान पाये जाते हैं । अब चार-प्रकृतिक बन्धस्थानमें संक्रमस्थानोंकी गवेषणा करते हैं—चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके द्वारा छह नोकपायोका उपशम कर दिये जानेपर चार-प्रकृतिक बन्धस्थानके साथ चौदह-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता है १ । पुनः उसीके पुरुषवेदका उपशम हो जानेपर तेरह-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता है २ । इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके द्वारा छह नोकपायोका उपशम कर दिये जानेपर बारह-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता है ३ । उसीके द्वारा पुरुषवेदका उपशम कर दिये जानेपर ग्यारह-प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है ४ । क्षपक संयतके द्वारा छह नोकपायोका क्षय कर देनेपर चार-प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है ५ । उसीके द्वारा पुरुषवेदका क्षय कर देनेपर तीन-प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है ६ । इस प्रकार चार-प्रकृतिक बन्धस्थानमें चौदह, तेरह, बारह, ग्यारह, चार और तीन-प्रकृतिक छह संक्रमस्थान पाये जाते हैं । अब तीन-प्रकृतिक बन्धस्थानमें संक्रमस्थानोंकी प्ररूपणा करते हैं—चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवके द्वारा संज्वलनक्रोधके बन्ध-व्युच्छेद कर देनेपर शेष संज्वलन-त्रिकके बन्धस्थानके साथ ग्यारह-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता है १ । पुनः संज्वलनक्रोधके उपशम कर देनेपर दश-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता है २ । इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवके द्वारा दोनो मध्यम क्रोधकपायोके उपशम करनेपर नौ-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता है ३ । उसीके द्वारा संज्वलनक्रोधका उपशमकर देनेपर आठ-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता है ४ । क्षपकके द्वारा संज्वलनक्रोधके बन्ध-व्युच्छेद कर दिये जानेपर तीन-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता है ५ । पुनः उसी क्षपकके द्वारा संज्वलनक्रोधके क्षय कर दिये जानेपर दो-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता है ६ । इस प्रकार तीन-प्रकृतिक बन्धस्थानमें ग्यारह, दश, नौ, आठ, तीन और दो-प्रकृतिक छह संक्रमस्थान पाये जाते हैं । अब दो-प्रकृतिक बन्धस्थानमें संक्रमस्थानोंका अन्वेषण करते हैं—चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके द्वारा दोनो मध्यम मानकपायोके उपशम कर देनेपर आठ-प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है १ । उसीके द्वारा संज्वलनमानके उपशम कर देनेपर सात-प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है २ । इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके द्वारा दोनो मध्यम मानकपायोके उपशम कर देनेपर छह-प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है ३ । पुनः संज्वलनमानके उपशम कर देनेपर पाँच-

प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है ४ । क्षपकके द्वारा संज्वलनमानके बन्ध-विच्छेद कर देनेपर उसके नवकवन्ध-संक्रमणकी अपेक्षा दो-प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है । और उसके निःशेष क्षय कर देनेपर एक-प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है । इस प्रकार दो-प्रकृतिक बन्धस्थानमें आठ, सात, छह, पाँच, दो और एक-प्रकृतिक छह संक्रमस्थान पाये जाते हैं । अब एक-प्रकृतिक बन्धस्थानमें पाये जानेवाले संक्रमस्थानोंका निरूपण करते हैं—चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके द्वारा दोनो मध्यम मानकपायोंके उपजम करनेपर संज्वलनमायाके नवकवन्धके साथ पाँच-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता है १ । पुनः संज्वलनमायाके उपजम कर देनेपर चार-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता है २ । इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके द्वारा दोनो मध्यम मायाकपायोंके उपजम करनेपर संज्वलनमायाके नवकवन्धके साथ तीन-प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है ३ । संज्वलनमायाके उपशम कर देनेपर दो प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है ४ । और एक संज्वलनलोभका बन्ध करनेवाले क्षपकके संज्वलनमायाके संक्रमणरूप एक-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता है । इस प्रकार एक-प्रकृतिक बन्धस्थानमें पाँच, चार, तीन, दो और एक-प्रकृतिक पाँच संक्रमस्थान पाये जाते हैं । इस प्रकार बन्धस्थानोंमें संक्रमस्थानोंकी प्ररूपणा समाप्त हुई ।

सोहनीयकर्मके बन्धस्थानोंमें संक्रमस्थानोंका चित्र

बन्धस्थान	संक्रमस्थान	बन्धस्थान	संक्रमस्थान
२२	२७, २६, २५, २३	५	२३, २२, २१, २०, १९, १८, १३, १२, ११, १०
२१	२५, २१	४	१४, १३, १२, ११, ४, ३
१७	२७, २६, २५, २३, २२, २१	३	११, १०, ९, ८, ३, २
१३	२७, २६, २३, २२, २१	२	८, ७, ६, ५, २, १
९	२७, २६, २३, २२, २१	१	५, ४, ३, २, १

उपर्युक्त प्रकारसे एक-संयोगी भंगोंकी प्ररूपणा करके अब बन्ध और सत्त्व इन दोनोंको आधार बनाकर संक्रमस्थानोंके द्विसंयोगी भंगोंकी प्ररूपणा करते हैं—अट्ठाईस-प्रकृतिक सत्त्वस्थानके साथ चाईस-प्रकृतिक बन्धस्थानमें सत्ताईस, छव्वीस और तेईस-प्रकृतिक तीन संक्रमस्थान पाये जाते हैं । अट्ठाईस-प्रकृतिक सत्त्वस्थानके साथ इक्कीस-प्रकृतिक बन्धस्थानमें पच्चीस और इक्कीस-प्रकृतिक दो संक्रमस्थान होते हैं । इसी सत्त्वस्थानके साथ सत्तरह-प्रकृतिक बन्धस्थानमें सत्ताईस, छव्वीस, पच्चीस और तेईस-प्रकृतिक चार संक्रमस्थान पाये जाते हैं । अट्ठाईसके सत्त्वस्थानके साथ तेरह और नौ-प्रकृतिक बन्धस्थानोंमें सत्ताईस, छव्वीस और तेईस-प्रकृतिक तीन तीन संक्रमस्थान पाये जाते हैं । ऊपरके बन्धस्थानोंमें अट्ठाईस-प्रकृतिक सत्त्वस्थानके साथ द्विसंयोगी भंग सम्भव नहीं है । इस प्रकारसे एक एक सत्त्वस्थानके साथ यथासम्भव बन्धस्थानोंको संयुक्त करके संक्रमस्थानोंका अनुमार्गण करना चाहिए । अथवा एक एक बन्धस्थानके साथ यथासम्भव सत्त्वस्थानोंको संयुक्त करके भी संक्रमस्थानोंकी मार्गणा की जा सकती है । इसी प्रकार एक एक सत्त्वस्थानको आधार बनाकर

सादि य जहणसंक्रम कदिखुत्तो होइ ताव एककेके ।
 अविरहित सांतरं केवचिरं कदिभाग परिमाणं ॥ ५७ ॥
 एवं दव्वे खेत्ते काले भावे य सण्णिवादे य ।
 संक्रमणयं णयविदू णेया सुददेसिदमुदारं ॥ ५८ ॥

१२८. सुत्तसमुक्कित्ताए समत्ताए इमे अणियोगद्वारा* । १२९. तं जहा ।
 १३०. ठाणसमुक्कित्ता सव्वसंक्रमो णोसव्वसंक्रमो उक्कस्ससंक्रमो अणुक्कस्ससंक्रमो

बन्ध और संक्रमस्थानोंकी, तथा एक एक संक्रमस्थानको आधार बनाकर बन्ध और सत्त्व-स्थानोंके परिवर्तनके द्वारा द्विसंयोगी भंगोंको निकालनेकी भी सूचना ग्रन्थकारने 'एक्केण समाणय' पदके द्वारा की है, सो विशेष जिज्ञासु जनोको जयधवला टीकासे जानना चाहिए ।

प्रकृतिस्थानसंक्रम अधिकारमें सादिसंक्रम जघन्यसंक्रम, अल्पवहुत्व, काल, अन्तर, भागाभाग और परिमाण अनुयोगद्वार होते हैं । इस प्रकार नय विज्ञ जनोंको श्रुतोपदिष्ट, उदार अर्थात् विशाल और गम्भीर संक्रमण द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और सन्निपात अर्थात् सन्निकर्षकी अपेक्षा जानना चाहिए ॥५७-५८॥

विशेषार्थ—प्रकृतिस्थानसंक्रमनामक अधिकारमें कितने अनुयोगद्वार होते हैं, इस बातका वर्णन इन दोनों गाथाओंके द्वारा किया गया है । जिसमेंसे कुछ अनुयोगद्वारोंके नाम तो गाथामें निर्दिष्ट हैं और कुछकी 'च' पदके द्वारा, नामकेदेशसे या प्रकारान्तरसे सूचना की गई है । जैसे—एक-एक संक्रमस्थानमें कितने जीव होते हैं, इस पदसे अल्पवहुत्वकी सूचना की गई है । 'अविरहित' पदसे एक जीवकी अपेक्षा काल, 'सान्तर' पदसे एक जीवकी अपेक्षा अन्तर, 'कति भाग' पदसे भागाभाग, 'एवं' पदसे भंगविचय, 'द्रव्य' पदसे द्रव्यानुगम, 'क्षेत्र' पदसे क्षेत्रानुगम और स्पर्शनानुगम, 'काल' पदसे नानाजीवोंकी अपेक्षा कालानुगम और अन्तरानुगम तथा 'भाव' पदसे भावानुगम कहे गये हैं । इनके अतिरिक्त ध्रुवसंक्रम, अत्रुवसंक्रम, सर्वसंक्रम, नोसर्वसंक्रम, उत्कृष्टसंक्रम, अनुत्कृष्टसंक्रम और अजघन्य संक्रम, इन सात अनुयोगद्वारोंकी सूचना प्रथम गाथा-पठित 'च' पदसे की गई है । द्वितीय गाथा-पठित 'च' पदसे भुजाकार, पदनिक्षेप और वृद्धि आदिक अनुयोगद्वारोंका ग्रहण किया गया है । इस प्रकार गाथा-पठित या गाथा-सूचित इन उपर्युक्त सर्व अनुयोगद्वारोंमें संक्रम अधिकारको भले प्रकार जानना चाहिए, ऐसी सूचना गाथासूत्र-कारने की है । इन्हींके आधार पर चूर्णिकारने आगे यथासंभव कुछ अनुयोगद्वारोंसे संक्रमकी प्ररूपणा की है ।

चूर्णिसू०—इस प्रकार संक्रमण-सम्बन्धी गाथा-सूत्रोंकी समुत्कीर्तनाके समाप्त होनेपर ये वक्ष्यमाण अनुयोगद्वार ज्ञातव्य हैं । वे इस प्रकार हैं—स्थानसमुत्कीर्तना, सर्वसंक्रम,

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'अणियोगद्वारागाहा' ऐसा पाठ मुद्रित है । पर 'गाहा' यह पद टीकाका अक्ष है जो कि 'गाहा' पदको जोड़नेपर 'गाहासुत्तसमुक्कित्ताणा-' ऐसा सुन्दर और प्रकरण-सगत पाठ बन जाता है । (देखो पृ० १८७)

जहणसंकमो अजहणसंकमो सादियसंकमो अणादियसंकमो ध्रुवसंकमो अद्रुवसंकमो
एगजीवेण सामित्तं कालो अंतरं णाणाजीवेहि भंगविचओ कालो अंतरं सण्णियासो
अप्पावहुगं भुजगारो* पदणिकखेवो वड्ढि त्ति ।

१३१. ठाणसमुक्कित्तणा त्ति जं पदं तस्स विहासा जत्थ एगा गाहा ।

अट्ठावीस चउवीस सत्तरस सोलसेव पण्णरसा ।

एदे खलु मोत्तूणं सेसाणं संकमो होइ ॥१॥

१३२ एवमेदाणि पंच द्वाणाणि मोत्तूणं सेसाणि तेवीस संकमद्वाण्णणि १३३.
एत्थ पयडिणिदेसो कायच्चो ।

नोसर्वसंक्रम, उत्कृष्टसंक्रम, अनुत्कृष्टसंक्रम, जघन्यसंक्रम, अजघन्यसंक्रम, सादिसंक्रम, अनादि-
संक्रम, ध्रुवसंक्रम, अध्रुवसंक्रम, एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल, अन्तर, नाना जीवकी
अपेक्षा भंगविचय, काल, अन्तर, सन्निकर्ष, अल्पबहुत्व, भुजाकार, पदनिक्षेप और वृद्धि ।
इनके द्वारा संक्रमणका अनुमार्गण करना चाहिए ॥१२८-१३०॥

चूर्णिसू०—इन उपर्युक्त अनुयोगद्वारोमे जो 'स्थानसमुत्कीर्तना' यह पद है, उसकी
विभाषा की जाती है । इस स्थानसमुत्कीर्तना-नामक अनुयोगद्वारोमे "अट्ठावीस चउवीस०"
इत्यादि एक सूत्रगाथा निबद्ध है । जिसका अर्थ इस प्रकार है—“अट्ठाईस, चौवीस, सत्तरह,
सोलह और पन्द्रह-प्रकृतिक जो ये पाँच स्थान है, उन्हें छोड़कर शेष प्रकृतिक स्थानोका
संक्रम होता है ।” इस प्रकार इन पाँच स्थानोको छोड़कर शेष तेईस संक्रमस्थान होते हैं ।
यहाँपर प्रकृतियोका निर्देश करना चाहिए ॥१३१-१३३॥

विशेषार्थ—यहाँपर चूर्णिकारने प्रकृतियोके निर्देशकी जो सूचना की है, उसे संक्षेपमे
इस प्रकार जानना चाहिए—मोहनीयकर्मके दो भेद हैं—दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय ।
दर्शनमोहनीयके तीन भेद होते हैं—मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृति । चारित्र-
मोहनीयके दो भेद हैं—कपाय और नोकषाय । कपायके सोलह और नोकषायके नौ भेद होते
हैं । ये सब मिलाकर मोहकर्मकी अट्ठाईस प्रकृतियाँ हो जाती हैं । जहाँपर ये सब प्रकृतियाँ
पाई जावे, वह अट्ठाईस-प्रकृतिक स्थान है । जहाँपर उनमेसे एक कम पाई जावे, वह
सत्ताईस-प्रकृतिक स्थान है, जहाँपर दो कम पाई जावे, वह छव्वीस-प्रकृतिक स्थान है । इस
प्रकार सर्व स्थानोको जानना चाहिए । किस स्थानमे किस किस प्रकृतिको कम करना
चाहिए, इसका निर्णय आगे चूर्णिकार स्वयं करेगे ।

* जयधवलाकी ताम्रपत्रीय मुद्रित तथा हसनलिखित प्रतियोमे 'भुजगारो' के पश्चात् 'अप्पदरो अव-
ट्टिदो अवत्तव्वगो' इतना पाठ और भी उपलब्ध होता है । पर ये तीनों तो भुजाकार अनुयोगद्वारके ही
भीतर आ जाते हैं । क्योंकि, उच्चारणावृत्ति और महाबन्ध आदि मे सर्वत्र अल्पतर, अवस्थित और अव-
क्तव्यका वर्णन भुजाकार अनुयोगद्वारमे ही किया गया है । तथा आगे या पीछे सर्वत्र भुजाकार, पदनिक्षेप
और वृद्धि, इन तीनोंका ही निर्देश चूर्णिकारने किया है । प्रकृत प्रकृतिसंक्रमण अधिकारके अन्तमे दी गई
उच्चारणा वृत्तिमें भी इसी प्रकारसे वर्णन किया गया है, अतः हमने उक्त पाठको मूल मे नहीं दिया है ।

१३४. अट्टावीसं क्रेण कारणेण ण संक्रमइ ? १३५. दंसणमोहणीय-चरित्त-मोहणीयाणि एक्केकम्मि ण संक्रमंति । १३६. तदो चरित्तमोहणीयस्स जाओ पयडीओ वज्झंति, तत्थ पणुवीसं पि संक्रमंति । १३७. दंसणमोहणीयस्स उक्कस्सेण दो पयडीओ संक्रमंति । १३८. एदेण कारणेण अट्टावीसाए णत्थि संक्रमो ।

१३९. सत्तावीसाए काओ पयडीओ ? १४०. पणुवीसं चरित्तमोहणीयाओ, दोणिण दंसणमोहणीयाओ । १४१. छुव्वीसाए सम्मत्ते उव्वेच्छिदे । १४२. अहवा पढम-समयसम्मत्ते उप्पाइदे । १४३. पणुवीसाए सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तेहि विणा सेसाओ ।

१४४. चउवीसाए किं कारणं णत्थि ? १४५. अणंताणुवंधिणो सव्वे अवणि-ज्जंति । १४६. एदेण कारणेण चउवीसाए णत्थि । १४७. तेवीसाए अणंताणुवंधीसु

अव संक्रमके योग्य-अयोग्य स्थानोंका स्पष्टीकरण करते हैं—

शंका—अट्टाईस-प्रकृतिक स्थानका संक्रमण किस कारणसे नहीं होता ? ॥ १३४ ॥

समाधान—दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीयकी प्रकृतियों परस्पर एक-दूसरेमें नहीं संक्रमण करती हैं, इसलिए चारित्रमोहनीयकी जो प्रकृतियों बंधती हैं, उनमें पच्चीसो ही प्रकृतियों संक्रमित हो जाती हैं । दर्शनमोहनीयकी अधिक-से-अधिक दो प्रकृतियों संक्रमण करती हैं । इसका कारण यह है कि अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाले मिथ्यादृष्टि जीवमें मिथ्यात्वके प्रतिग्रह-प्रकृतिक होनेसे उसमें सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृति इन दोनोंका संक्रम पाया जाता है । तथा सम्यग्दृष्टि जीवमें सम्यक्त्वप्रकृतिके प्रतिग्रहरूप होनेसे उसमें मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वका संक्रम देखा जाता है, इस कारणसे अट्टाईस-प्रकृतिक स्थानका संक्रमण नहीं होता है ॥ १३५-१३८ ॥

शंका—सत्ताईस-प्रकृतिक स्थानमें कौनसी प्रकृतियों होती हैं ? ॥ १३९ ॥

समाधान—चारित्रमोहनीयकी पच्चीस प्रकृतियों, तथा दर्शनमोहनीयकी मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व, अथवा सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृति, ये दो प्रकृतियों होती हैं ॥ १४० ॥

चूणिखू०—सत्ताईस प्रकृतियोंके संक्रामक मिथ्यादृष्टिके द्वारा सम्यक्त्वप्रकृतिकी उद्वेलनाकर देनेपर शेष प्रकृतियोंके समुदायात्मक छुव्वीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान उत्पन्न होता है । अथवा प्रथमोपशमसम्यक्त्वके उत्पन्न करनेपर प्रथमसमयवर्ती उपशमसम्यक्त्वकी भी छुव्वीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान उत्पन्न होता है । क्योंकि, उस समय मिथ्यात्वका सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिमें संक्रमण पाया जाता है । किन्तु उस समय सम्यग्मिथ्यात्वका संक्रमण नहीं पाया जाता । पच्चीस-प्रकृतिक स्थानमें सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वके बिना शेष प्रकृतियों होती हैं ॥ १४१-१४३ ॥

शंका—चौबीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान नहीं होनेका क्या कारण है ? ॥ १४४ ॥

समाधान—अनन्तानुबन्धीकी सभी प्रकृतियों एक साथ ही विसंयोजित की जाती हैं,

अवगदेसु । १४८. वावीसाए मिच्छत्ते खविदे सम्मामिच्छत्ते सेसे । १४९. अहवा चउवीसदिसंतकम्मियस्स आणुपुर्वीसकमे कदे जाव णउंसयवेदो अणुवसंतो । १५०. एकवीसाए खीणदंसणमोहणीयस्स अक्खवग-अणुवसामगस्स ।

१५१. चउवीसदिसंतकम्मियस्स वा णउंसयवेदे उवसंते इत्थिवेदे अणुवसंते । १५२. वीसाए एकवीसदिसंतकम्मियस्स आणुपुर्वीसकमे कदे जाव णउंसयवेदो अणुवसंतो । १५३. चउवीसदिसंतकम्मियस्स वा आणुपुर्वीसकमे कदे इत्थिवेदे उवसंते छसु कम्मेसु अणुवसंतसु । १५४. एगूणवीसाए एकवीसदिसंतकम्मंसियस्स णउंसयवेदे

उनके विसंयोजन होनेपर चौवीसका सत्त्व होकर तेईस-प्रकृतिक संक्रमस्थान उत्पन्न होता है । इस कारणसे चौवीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान नहीं होता है ॥ १४५-१४६ ॥

चूर्णिसू०—अनन्तानुबन्धी चारो कपायोके अपगत (विसंयोजित) होनेपर चारित्र-मोहनीयकी शेष इक्कीस तथा दर्शनमोहनीयकी दो प्रकृतियोंके मिलानेपर तेईस-प्रकृतिक संक्रम-स्थान होता है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करनेवाले जीवके मिथ्यात्वके क्षय होनेपर तथा सम्यग्मिथ्यात्वके शेष रहनेपर वाईस-प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है । अथवा चौवीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामक जीवके आनुपूर्वी-संक्रमण करनेपर जबतक उसके नपुंसकवेद अनुपशान्त है, अर्थात् नपुंसकवेदका उपशम नहीं हो जाता, तबतक उसके वाईस-प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है । जिसने दर्शनमोहनीयका क्षय कर दिया है, ऐसे अक्षपक और अनुपशामक जीवके इक्कीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है ॥ १४७-१५० ॥

विशेषार्थ—उपशम या क्षपक श्रेणीपर चढ़नेवाले जीवके नवे गुणस्थानके संख्यात बहुभाग व्यतीत हो जानेपर ही उपशामक या क्षपक संज्ञा प्राप्त होती है । अतः उससे पूर्ववर्ती सभी क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंका यहाँ अक्षपक और अनुपशामक पदसे ग्रहण किया गया है ।

चूर्णिसू०—अथवा चौवीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवके नपुंसकवेदके उपशान्त हो जानेपर तथा खीवेदके अनुपशान्त रहने तक इक्कीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता है । इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवके आनुपूर्वी-संक्रमण करनेपर जबतक नपुंसकवेद अनुपशान्त रहता है, तबतक वीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है । अथवा चौवीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवके आनुपूर्वी-संक्रमण करनेपर नपुंसकवेदकी उपशामनाके पश्चात् खीवेदके उपशान्त होनेपर तथा हास्यादि छह नोकपायोके अनुपशान्त रहनेपर भी वीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है ।

१. जेणेद सुत्त देसामासिय, तेण चउवीससंतकम्मिय-उवसमसम्माइट्टिस्स सासणभाव पडिवण्णस्स पटमावलिमाए चउवीससंतकम्मियसम्मामिच्छाइट्टिस्स वा इगिवीससकमट्ठाण पयारतरपडिग्गहिय होइ त्ति वत्तव्व, तत्थ पयारतरपरिहारेण पयदसकमट्ठाणसिद्धीए णिव्वाहमुवलमादो । अदो चेव ओदरमाणगस्स वि चउवीससंतकम्मियस्स सत्तसु कम्मेसु ओकड्डिदेसु जाव इत्थि-णउंसयवेदा उवसता ताव इगिवीससत-कम्मट्ठाणसभवो सुत्त तव्भूदो वक्खाणेयव्वो । जयध०

२. ओदरमाणगस्स पुण णउ सयवेदे उवसते चेव पयदसकमट्ठाणसभवो त्ति एसो वि अत्थो एत्थेव सुत्ते णिलीणो त्ति वक्खाणेयव्वो । जयध०

उवसंते इत्थिवेदे अणुवसंते । १५५. अट्टारसण्हमेक्कावीसदिकम्मंसियरस इत्थिवेदे उवसंते जाव छण्णोकसाया अणुवसंता ।

१५६. सत्तारसण्हं केण कारणेण णत्थि संकमो ? १५७. खवगो एक्कावीसादो एकपहारेण अट्टकसाए अवणेदि । १५८. तदो अट्टकसाएसु अवणिदेसु तेरसण्हं संरुमो होइ । १५९. उवसायगस्स वि एक्कावीसदिकम्मंसियस्स छसु कम्मेषु उवसंतेसु वारसण्हं संकमो भवदि । १६०. चउवीसदिकम्मंसियस्स छसु कम्मेषु उवसंतेसु चोदसण्हं संकमो भवदि । १६१. एदेण कारणेण सत्तारसण्हं वा सोलसण्हं वा पणहारसण्हं वा संकमो णत्थि ।

१६२. चोदसण्हं चउवीसदिकम्मंसियस्स छसु कम्मेषु उवसामिदेसु पुरिसवेदे अणुवसंते । १६३. तेरसण्हं चउवीसदिकम्मंसियरस पुरिसवेदे उवसंते कसाएसु अणुवसंतेसु । १६४. खवगस्स वा अट्टकसाएसु खविदेसु जाव अणाणुपुव्वीसंकमो । १६५.

इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके नपुंसकवेदके उपशान्त होनेपर तथा स्त्रीवेदके अनुपशान्त रहनेपर उन्नीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है । उन्नीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके स्त्रीवेदके उपशान्त होनेपर जबतक हास्यादि छह नोकपाय अनुपशान्त रहती है, तबतक अट्टारह-प्रकृतिक संक्रमस्थान होता है ॥ १५१-१५५ ॥

शंका—सत्तरह प्रकृतियोंका संक्रमण किस कारणसे नहीं होता है, अर्थात् सत्तरह-प्रकृतिक संक्रमस्थान क्यों नहीं होता ? ॥ १५६ ॥

समाधान—क्योंकि, इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला क्षपक एक ही प्रहारेसे एक साथ आठ मध्यम कपायोंका क्षय करता है, इसलिए इक्कीस-प्रकृतिक संक्रमस्थानमेसे आठ कपायोंके अपनीत करनेपर तेरह प्रकृतियोंका संक्रमण होता है । इस कारण सत्तरह-प्रकृतिक संक्रमस्थान नहीं होता ॥ १५७-१५८ ॥

चूणिंसू०—इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके भी हास्यादि छह कर्मोंके उपशान्त होनेपर वारह प्रकृतियोंका संक्रमण होता है । चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके हास्यादि छह कर्मोंके उपशान्त होनेपर चौदह प्रकृतियोंका संक्रमण होता है । इस कारणसे सत्तरह, सोलह और पन्द्रह प्रकृतियोंका संक्रमण नहीं होता है । अतएव सत्तरह, सोलह और पन्द्रह-प्रकृतिक संक्रमस्थान नहीं कहे गये हैं ॥ १५९-१६१ ॥

चूणिंसू०—चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके हास्यादि छह कर्मोंके उपशमित होनेपर और पुरुषवेदके अनुपशान्त रहनेपर चौदह प्रकृतियोंका संक्रमण होता है । चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके पुरुषवेदके उपशान्त होनेपर और आठ कपायोंके अनुपशान्त रहनेपर तेरह प्रकृतियोंका संक्रमण होता है । अथवा क्षपकके आठ मध्यम कपायोंके क्षपित होनेपर जबतक अनानुपूर्वी-संक्रमण रहता है, तबतक तेरह प्रकृतियोंका संक्रमण होता है । उन्नी

१ ओदरमाणग पि समस्सियूणेदस्स ट्ठाणस्स सभवो समयाविरोदेणाणुगतव्वो, सुत्तस्सेदस्स देसामासयत्तादो । जयध०

वारसण्हं खवगस्स आणुपुव्वीसंक्रमो आढत्तो जाव णत्तुंसयवेदो अक्खीणो । १६६. एका-
 वीसदिकम्मंसियस्स वा छसु कम्मसेसु उवसंतेसु पुरिसवेदे अणुवसंते । १६७. एकारसण्हं
 खवगस्स णउंसयवेदे अक्खीणे । १६८. अधवा एकावीसदिकम्मंसियस्स पुरिसवेदे उव-
 संते अणुवसंतेसु कसाएसु । १६९. चउवीसदिकम्मंसियस्स वा दुविहे कोहे उवसंते कोह-
 संजलणे अणुवसंते । १७०. दसण्हं खवगस्स इत्थिवेदे खीणे छसु कम्मसेसु अक्खीणेसु ।
 १७१. अधवा चउवीसदिकम्मंसियस्स कोधसंजलणे उवसंते सेसेसु कसाएसु अणुवसं-
 तेसु । १७२. णवण्हं एकावीसदिकम्मंसियस्स दुविहे कोहे उवसंते कोहसंजलणे अणु-
 वसंते । १७३. चउवीसदिकम्मंसियस्स खवगस्स च णत्थि ।

तेरह प्रकृतियोंके संक्रमण करनेवाले क्षपकके आनुपूर्वी-संक्रम आरम्भ कर जवतक नपुंसकवेद
 क्षीण नहीं होता, तवतक वारह प्रकृतियोंका संक्रमण होता है । अथवा इक्कीस प्रकृतियोंकी
 सत्तावाले उपशामकके हास्यादि छह कर्मोंके उपशान्त होनेपर और पुरुषवेदके अनुपशान्त
 रहने तक वारह प्रकृतियोंका संक्रमण होता है । वारह प्रकृतियोंके संक्रमण करनेवाले उसी
 क्षपकके नपुंसकवेदके क्षय कर देनेपर और स्त्रीवेदके क्षीण नहीं होने तक तीन संज्वलन और
 आठ नोकपाय इन ग्यारह प्रकृतियोंका संक्रमण होता है । अथवा इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले
 क्षायिकसम्यक्त्वी उपशामकके पुरुषवेदके उपशान्त होनेपर और अवशिष्ट कपायोंके अनुशान्त
 रहनेपर भी ग्यारह प्रकृतियोंका संक्रमण होता है । अथवा चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले
 उपशामकके दोनो मध्यम क्रोधोंके उपशान्त होनेपर और संज्वलनक्रोधके अनुपशान्त रहनेपर
 भी ग्यारह प्रकृतियोंका संक्रमण होता है । ग्यारह प्रकृतियोंका संक्रमण करनेवाले क्षपकके
 स्त्रीवेदके क्षीण हो जानेपर और छह नोकपायोंके अक्षीण रहने तक तीन संज्वलन और सात
 नोकपाय, इन दश प्रकृतियोंका संक्रमण होता है । अथवा चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले
 उपशामकके संज्वलनक्रोधके उपशान्त होनेपर और शेष कपायोंके अनुपशान्त रहनेपर भी
 दश प्रकृतियोंका संक्रमण होता है । इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले क्षायिकसम्यक्त्वी उपशामकके
 दोनो क्रोधोंके उपशान्त होनेपर और संज्वलनक्रोधके अनुपशान्त रहने तक शेष नौ प्रकृतियोंका
 संक्रमण होता है । यह नौ-प्रकृतिक संक्रमस्थान चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके
 और क्षपकके नहीं होता है ॥ १६२-१७३ ॥

विशेषार्थ—चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके नौ-प्रकृतियोंका संक्रमण क्यों
 नहीं होता, इस प्रश्नका उत्तर यह है कि चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके संज्वलन-
 क्रोधका उपशमन करनेके उपरान्त जब दोनो मध्यम मानकपाय उपशान्त हो जाते हैं, तब उसके
 उससे अधस्तन संक्रमस्थानकी उत्पत्ति होती है । तथा स्त्रीवेदके क्षयके साथ दश प्रकृतियोंके

१. ओदरमाणसंघेण कि पयदसकमट्ठाणसंभवो वत्तव्वो, सुत्तस्सेदस्स देसामासयभावेणावट्ठा-
 णादो । जयध०

२. ओदरमाणसंघेण वि एत्थ पयदसकमट्ठाणसंभवो वत्तव्वो, विरोहाभावादो । जयध०

१७४. अद्गुहं एकावीसदिकम्मंसियस्स तिविहे कोहे उवसंते सेसेसु कसाएसु अणुवसंतेसु । १७५. अहवा चउवीसदिकम्मंसियस्स दुविहे माणे उवसंते, माणसंजलणे अणुवसंते । १७६. सत्तण्हं चउवीसदिकम्मंसियस्स तिविहे माणे उवसंते सेससु कसाएसु अणुवसंतेसु । १७७. छण्हमेकावीसदिकम्मंसियस्स दुविहे माणे उवसंते सेसेसु कसाएसु अणुवसंतेसु । १७८. पंचण्हमेकावीसदिकम्मंसियस्स तिविहे माणे उवसंते सेसकसाएसु अणुवसंतेसु । १७९. अधवा चउवीसदिकम्मंसियस्स दुविहाए मायाए उवसंताए सेसेसु अणुवसंतेसु । १८०. चउण्हं खवगस्स छसु कम्मसेसु खीणसेसु पुरिसवेदे अक्खीणे । १८१. अहवा चउवीसदिकम्मंसियस्स तिविहाए मायाए उवसंताए सेसेसु अणुवसंतेसु । १८२

संक्रमण करनेवाले क्षपकके भी हाम्यादि छह प्रकृतियोंके एक साथ क्षीण होनेपर चार-प्रकृतिक संक्रमस्थानकी उत्पत्ति देखी जाती है, इसलिए क्षपकके नौ प्रकृतियोंका संक्रमण नहीं होता है ।

चूर्णिसू०—इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले क्षायिकसम्यक्त्वी उपशामकके तीन प्रकारके क्रोधके उपशान्त होनेपर और शेष कपायोंके अनुपशान्त रहने तक आठ प्रकृतियोंका संक्रमण होता है । अथवा चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके दोनों मध्यम मानकपायोंके उपशान्त होनेपर और संज्वलनमानके अनुपशान्त रहनेपर आठ प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता है । चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके तीनों प्रकारके मानकपायके उपशान्त होनेपर और शेष कपायोंके अनुपशान्त रहनेपर सात प्रकृतियोंका संक्रमण होता है । इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके दोनों प्रकारके मानकपायके उपशान्त होनेपर और शेष कपायोंके अनुपशान्त रहनेपर छह प्रकृतियोंका संक्रमण होता है । इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके तीनों प्रकारके मानके उपशान्त होनेपर और शेष कपायोंके अनुपशान्त रहनेपर पाँच प्रकृतियोंका संक्रमण होता है । अथवा चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके दोनों प्रकारकी मायाकपायके उपशान्त होनेपर और शेष कर्मोंके अनुपशान्त होनेपर पाँच-प्रकृतिक संक्रमस्थान पाया जाता है ॥ १७४-१७९ ॥

विशेषार्थ—पाँच-प्रकृतिक संक्रमस्थानकी प्ररूपणा दो प्रकारसे की गई है । उसमेसे प्रथम प्रकारमे तो 'शेष कपायोंके अनुपशान्त रहनेपर' ऐसा कहा है और द्वितीय प्रकारमे 'शेष कर्मोंके अनुपशान्त रहनेपर' ऐसा कहा है, इसका कारण यह है कि प्रथम प्रकारवाले जीवके तो तीन माया और दो लोभ इन पाँच कपायोंका संक्रमण पाया जाता है । किन्तु दूसरे प्रकारवालेके मायासंज्वलन दो लोभ और दर्जनमोहनीयकी मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व ये दो, इस प्रकार पाँच प्रकृतियोंका संक्रमण पाया जाता है । इस विभिन्नताको सूचित करनेके लिए चूर्णिकारने उक्त दो विभिन्न पदोंका प्रयोग किया है ।

चूर्णिसू०—क्षपकके स्त्रीवेदकी क्षपणाके अनन्तर छह नोकपायोंके क्षीण होनेपर और पुरुषवेदके अक्षीण रहनेपर पुरुषवेद, संज्वलनक्रोध, मान और माया, इन चार प्रकृतियोंका संक्रमण होता है । अथवा चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके तीन प्रकारकी माया

तिष्ठं खवगस्स पुरिसवेदे खीणे सेसेसु अक्खीणेषु । १८३. अथवा एकावीसदिकम्मंसियस्स दुविहाए मायाए उवसंताए सेसेसु अणुवसंतेसु । १८४. दाण्हं खवगस्स क्रोहे खविदे सेसेसु अक्खीणेषु । १८५. अहवा एकावीसदिकम्मंसियस्स निविहाए मायाए उवसंताए सेसेसु अणुवसंतेसु । १८६. अहवा चउवीसदिकम्मंसियस्स दुविहे लाहे उवसंते । १८७ सुहुमसांपराडय उवमामयस्स वा उवमंनरुसायस्स वा । १८८. एक्किस्से संक्रमो खवगस्स माणे खविदे मायाए अक्खीणाए ।

१८९. एनो पदाणुमाणियं सामितं णेयव्वं ।

कपायके उपज्ञान्त होनेपर और शेष कर्मके अनुपज्ञान्त रहनेपर दो मध्यम लोभ और दो दर्शनमोहनीय, इन चारका संक्रमण होता है । क्षपकके पुरुषवेदके क्षय होनेपर और कपायोके अक्षीण रहनेपर क्रोध, मान और माया इन तीन संज्वलनोका संक्रमण होता है । अथवा इकीस प्रकृतियोंके सत्तावाले क्षायिकसम्यक्त्वी उपशामकके दोनों मायाकपायोके उपज्ञान्त होनेपर और शेष कपायोके अनुपज्ञान्त रहनेपर मायासंज्वलन और दोनों मध्यम लोभ, इन तीन प्रकृतियोंका संक्रमण होता है । क्षपकके संज्वलनक्रोधका क्षय करनेपर और शेष कपायोके अनुपज्ञान्त रहनेपर संज्वलन मान और माया इन दो प्रकृतियोंका संक्रमण पाया जाता है । अथवा इकीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके तीनों मायाकपायोके उपज्ञान्त हो जानेपर और शेषके अनुपज्ञान्त रहनेपर अप्रत्याख्यानावरणलोभ और प्रत्याख्यानावरणलोभ, इन दो प्रकृतियोंका संक्रमण पाया जाया है । अथवा चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके दो प्रकारके लोभके उपज्ञान्त हो जानेपर दर्शनमोहनीयकी दो प्रकृतियोंका संक्रमण पाया जाता है । दर्शनमोहनीयकी दो प्रकृतियोंका उपशमन करनेवाला यह दो-प्रकृतिक संक्रमस्थान सूक्ष्मसाम्पराय-उपशामकके अथवा उपज्ञान्तकपायवीतरागलज्जस्थके होता है । क्षपकके संज्वलनमानकपायके क्षय हो जानेपर और संज्वलनमायाके अक्षीण रहनेपर एक प्रकृतिका संक्रमण होता है ॥ १८०-१८८ ॥

चूर्णिसू०—अव, इस स्थान-समुत्कीर्तनाके पञ्चात् पूर्वोक्त अर्थपदोंके द्वारा आनु-पूर्विसंक्रम आदिके साथ अनुमान करके संक्रमस्थानोके स्वामित्वको जानना चाहिए ॥ १८९ ॥

विशेषार्थ—संक्रमस्थानोकी स्थानसमुत्कीर्तनाके अनन्तर और स्वामित्व-अनुयोगद्वारके पूर्वतक मध्यवर्ती जो सर्वसंक्रम, नोसर्वसंक्रम आदि दश अनुयोगद्वार है, उनमेंसे सर्वसंक्रम, उत्कृष्टसंक्रम, अनुत्कृष्टसंक्रम, जघन्यसंक्रम और अजघन्यसंक्रम ये छह अनुयोगद्वार प्रकृत संक्रमस्थान-प्ररूपणामे संभव ही नहीं है, इसलिए, तथा सादिसंक्रम, अनादिसंक्रम, ध्रुव-संक्रम और अध्रुवसंक्रम, इन चार अनुयोगद्वारोकी प्ररूपणा सुगम है; इसलिए चूर्णिकारने उनकाकोई उल्लेख नहीं किया है । संक्रमस्थानोके स्वामित्वका वर्णन अवश्य करना चाहिए, पर ऊपरके चूर्णिमूत्रोंसे बहुत अंशोमे उसका भी प्ररूपण हो ही जाता है, अतः उसे न कहकर इस चूर्णिमूत्रके द्वारा उसे जान लेनेका निर्देश किया गया है । अतएव यहाँ पहले सादिसंक्रम

१९०. एयजीवेण कालो । १९१ सत्तवीसाए संक्रामओ केवचिरं कालादो होइ ? १९२. जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । १९३ उक्कस्सेण वे छावड्डिसागरोवमाणि सादिरे-याणि पलितोवमस्स असंखेज्जदिभागेण ।

आदि पर कुछ प्रकाश डाला जाता है— पच्चीस-प्रकृतिक स्थानका सादिसंक्रम भी होता है, अनादिसंक्रम भी होता है, ध्रुवसंक्रम, अध्रुवसंक्रम भी होता है । किन्तु शेष स्थानोका केवल सादिसंक्रम और अध्रुवसंक्रम ही होता है, अन्य नहीं । संक्रमस्थानोके स्वामित्वकी संक्षेपसे प्ररूपणा इस प्रकार जानना चाहिए—सत्ताईस, छत्तीस और तेईस-प्रकृतिक संक्रमस्थान सम्यग्दृष्टिके भी होते हैं और मिथ्यादृष्टिके भी होते हैं । पच्चीस-प्रकृतिक संक्रम-स्थान मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टिके होता है । इक्कीस-प्रकृतिक संक्रमस्थान सासादनसम्यग्दृष्टि, और सम्यग्मिथ्यादृष्टिके होता है । द्वाइस-प्रकृतिक संक्रम-स्थानसे लेकर एक-प्रकृतिक संक्रमस्थान तकके सर्व संक्रमस्थान सम्यग्दृष्टिके चौथे गुणस्थानसे लगाकर ग्यारहवे गुणस्थान तक यथासंभव पाये जाते हैं ।

चूर्णिसू०—अब एक जीवकी अपेक्षा संक्रमस्थानोका काल कहते हैं ॥१९०॥

शंका—सत्ताईस-प्रकृतिक संक्रमस्थानका कितना काल है ? ॥१९१॥

समाधान—सत्ताईस-प्रकृतिक संक्रमस्थानका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टकाल पर्योपमके असंख्यातवे भागसे अधिक दो बार छत्तासठ सागरोपमकाल है ॥१९२-१९३॥

विशेषार्थ—सत्ताईस-प्रकृतिक संक्रमस्थानके जघन्यकालका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—पच्चीस प्रकृतियोंके संक्रामक किसी मिथ्यादृष्टि जीवके उपशमसम्यक्त्वको ग्रहण कर और दूसरे समयसे सत्ताईस प्रकृतियोंका संक्रामक होकरके जघन्य अन्तर्मुहूर्तकाल तक रहकर पुनः उपशमसम्यक्त्वके कालके भीतर ही अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन कर तेईस प्रकृतियोंका संक्रामक हो जानेपर सत्ताईस-प्रकृतिक संक्रमस्थानका अन्तर्मुहूर्तप्रमाण जघन्यकाल सिद्ध हो जाता है । अथवा सम्यग्मिथ्यादृष्टिके सम्यक्त्व या मिथ्यात्वको प्राप्त होकर और सर्व-जघन्य अन्तर्मुहूर्त तक उसके साथ रहकर पुनः परिणामोके निमित्तसे सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त करनेपर भी सत्ताईस-प्रकृतियोंके संक्रमणका अन्तर्मुहूर्तमात्र जघन्यकाल प्राप्त हो जाता है । उत्कृष्टकालका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—कोई एक अनादिमिथ्यादृष्टि जीव उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त करके सत्ताईस प्रकृतियोंका संक्रामक होकर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ और पर्योपमके असंख्यातवे भागतक उद्वेलना करता हुआ रहा तथा संक्रमणके योग्य सम्यक्त्वप्रकृतिके सत्त्वके साथ सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ और उसके साथ प्रथम बार छत्तासठ सागरोपमकाल तक परिभ्रमण कर उसके अन्तर्मे मिथ्यात्वको प्राप्त होकर पहलेके समान ही पर्योपमके असंख्यातवे भाग-मात्र कालतक सम्यक्त्वप्रकृतिकी उद्वेलना करता रहा । अन्तर्मे उसकी उद्वेलना-चरमफालीके साथ सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ और दूसरी बार भी उसके साथ छत्तासठ सागरोपमकाल तक परिभ्रमण करके अन्तर्मे मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ । फिर भी दीर्घ उद्वेलनाकालसे सम्यक्त्व-

१९४. छत्रीससंक्रामओ केवचिरं कालादो होइ ? १९५. जहण्णेण एगममथो ।
 १९६ उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । १९७. पणुवीमाम् संक्रामम् तिण्णि
 भंगा । १९८. तत्थ जो सो सादिओ सपज्जवसिदो जहण्णेण एगममथो । उक्कस्सेण
 उवड्डुपोग्गलपरियट्ठं ।

प्रकृतिकी उद्वेलना करके छत्रीस प्रकृतियोंका संक्रामक हो गया । इस प्रकार तीन पल्योपमके असंख्यात भागोसे अधिक एकसौ वत्तीस सागरोपम-प्रमाण सत्ताईस प्रकृतियोंके संक्रमणका उत्कृष्ट काल सिद्ध हो जाता है ।

गंका छत्रीस-प्रकृतिक संक्रमस्थानका कितना काल है ? ॥ १९४ ॥

समाधान—छत्रीस प्रकृतिक संक्रमस्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण है ॥ १९५-१९६ ॥

चूणिसू०—पञ्चीस-प्रकृतिक संक्रमस्थानके कालके तीन भंग है । वे इस प्रकार हैं—
 अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त । इनमें जो सादि-सान्त भंग है, उसकी अपेक्षा पञ्चीस-प्रकृतिक संक्रमस्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल उपार्ध-
 पुद्गलपरिवर्तन है ॥ १९७-१९८ ॥

विशेषार्थ—पञ्चीसके संक्रामकके जघन्य कालका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—
 छत्रीस प्रकृतियोंका संक्रामक जो मिथ्यादृष्टि जीव सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना करता हुआ उपगमसम्यक्त्वके अभिमुख हो मिथ्यात्वकी प्रथमस्थितिके द्विचरम समयमें सम्य-
 ग्मिथ्यात्वकी चरम फालीको मिथ्यात्वरूपसे परिणाम कर पुनः चरम समयमें पञ्चीस
 प्रकृतियोंका संक्रामक होकर तदनन्तर समयमें फिर भी छत्रीस प्रकृतियोंका संक्रामक हो
 गया । इस प्रकार एक समय-मात्र जघन्यकाल प्राप्त होता है । अथवा अट्टाईसकी
 सत्तावाला और सत्ताईसका संक्रामक जो उपगमसम्यग्दृष्टि उपगमसम्यक्त्वके कालमें एक
 समय रहनेपर सासादनगुणस्थानको प्राप्त हुआ । वहाँपर एक समय पञ्चीसके संक्रामकरूपसे
 रहकर दूसरे समयमें मिथ्यात्वको प्राप्त होकर सत्ताईसका संक्रामक हो गया । इस प्रकार भी
 पञ्चीसके संक्रमणका जघन्य काल एक समय सिद्ध होता है । अथवा चौवीसकी सत्ता-
 वाला कोई उपगमसम्यग्दृष्टि अपने कालमें एक समय अधिक आवली-प्रमाण शेष रहनेपर
 सासादनगुणस्थानको प्राप्त हुआ । वहाँपर अनन्तानुबन्धीका बन्ध करके और एक आवली
 काल वित्ताकर अन्तिम समयमें पञ्चीसका संक्रामक हुआ और तदनन्तर समयमें मिथ्यात्वको
 प्राप्त होकर सत्ताईसका संक्रामक हो गया । इस प्रकारसे भी एक समयमात्र जघन्यकाल
 प्राप्त होता है । पञ्चीसके संक्रामकके उत्कृष्टकालकी प्ररूपणा इस प्रकार है—कोई अनादिमिथ्या-
 दृष्टि जीव अर्धपुद्गलपरिवर्तनके आदि समयमें सम्यक्त्वको प्राप्त होकर और उसके साथ
 जघन्य अन्तर्मुहूर्तमात्र रह करके मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ । वहापर सर्व लघुकालसे
 सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिकी उद्वेलना प्रारंभ करके पञ्चीसका संक्रामक हो गया ।
 पुनः देगोन अर्धपुद्गलपरिवर्तनकाल तक संसारमें परिभ्रमण करके अन्तर्मुहूर्तमात्र संसारके

१९९. तेवीसाए संक्रामओ केवचिरं कालादो होइ ? २००. जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, एगसमओ वा । २०१. उक्कस्सेण छावट्टिसागरोवमाणि सादिरेयाणि । २०२. वावीसाए वीसाए एगूणवीसाए अट्टारसण्हं तेरसण्हं वारसण्हं एक्कारसण्हं दसण्हं अट्टण्हं सत्तण्हं पंचण्हं चउण्हं तिण्हं दोण्हं पि कालो जहण्णेण एयसमओ । उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

शेष रह जानेपर सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । तब उसके पच्चीस प्रकृतियोंके संक्रमणका अभाव हो गया । इस प्रकार पच्चीस-प्रकृतिक संक्रामकका उत्कृष्टकाल उपार्धपुद्गलपरिवर्तन-प्रमाण सिद्ध हो जाता है ।

जंका-तेईस-प्रकृतिक संक्रमस्थानका कितना काल है ? ॥१९९॥

समाधान-तेईस-प्रकृतिक संक्रमस्थानका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त, अथवा एक समय और उत्कृष्टकाल साधिक छयासठ सागरोपमकाल है ॥२००-२०१॥

विशेषार्थ—तेईस-प्रकृतिक संक्रमस्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त भी बतलाया गया है और एक समय भी । इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—कोई उपजमसम्यग्दृष्टि जीव अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके तेईस-प्रकृतिक स्थानका संक्रामक हुआ । पश्चात् जघन्य अन्तर्मुहूर्त तक तेईसका संक्रामक रहकर उपजमसम्यक्त्वके कालमे छह आवली शेष रह जानेपर सासादनगुणस्थानको प्राप्त होकर इक्कीस-प्रकृतिक स्थानका संक्रामक हो गया । यह अन्तर्मुहूर्त जघन्य कालकी प्ररूपणा हुई । अब एक समयकी प्ररूपणा करते हैं—चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई उपजमसम्यग्दृष्टि उपजमसम्यक्त्वके कालमे एक समय कम आवली-मात्र शेष रह जानेपर सासादनसम्यक्त्वको प्राप्त होकर इक्कीस-प्रकृतिक स्थानका संक्रामक हो गया । पुनः मिथ्यात्वको प्राप्त होकर एक समय तेईसका संक्रामक होकर तदनन्तर समयमे अनन्तानुबन्धीक संक्रमणके निमित्तसे सत्ताईस-प्रकृतिक स्थानका संक्रामक हो गया । इस प्रकार तेईस-प्रकृतिक संक्रमस्थानका एक समयमात्र भी जघन्य काल सिद्ध हो जाता है । तेईस-प्रकृतिक संक्रमस्थानके उत्कृष्ट कालकी प्ररूपणा इस प्रकार है—कोई एक मिथ्यादृष्टि जीव प्रथमसम्यक्त्वको प्राप्त होकर और उपजमसम्यक्त्वके कालके भीतर ही अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके अन्तर्मुहूर्त तक तेईसका संक्रामक रहकर पुनः वेदक-सम्यक्त्वको प्राप्त हो करके छयासठ सागर तक परिभ्रमण कर अन्तमं दर्शनमोहकी क्षपणासे परिणत होकर मिथ्यात्वका क्षय करके चाईस-प्रकृतिक स्थानका संक्रामक हो गया । इस प्रकार तेईस संक्रामकका आदिके अन्तर्मुहूर्तसे तथा मिथ्यात्वकी चरमफालीके पतनसे लगाकर कृतकृत्यवेदकके चरम समय तकके अन्तर्मुहूर्तसे अधिक छयासठ सागरोपम-प्रमाण उत्कृष्ट काल सिद्ध हो जाता है ।

चूर्णिसू०—त्राईस, वीस, उन्नीस, अट्टारह, तेरह, वारह, ग्यारह, दश, आठ, सात, पाँच, चार, तीन और दो-प्रकृतिक संक्रमस्थानोंके संक्रमणका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ॥२०२॥

विशेषार्थ—प्रकृत सूत्रमे वतलाये गये संक्रमस्थानोके जघन्य और उत्कृष्ट कालोका स्पष्टीकरण करते है । उनमेसे वाईसके संक्रमस्थानके कालकी प्ररूपणा इस प्रकार है—चौवीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक जीव उपशमश्रेणीपर चढ़ करके अन्तरकरणके अनन्तर आनुपूर्वी-संक्रमणसे परिणत हो एक समयमात्र वाईस-प्रकृतिक स्थानका संक्रामक होकर और दूसरे समयमे मरण करके देवोमे उत्पन्न होकर तेईस-प्रकृतिक स्थानका संक्रामक हो गया । इस प्रकार वाईसके संक्रमस्थानका एक समयमात्र जघन्य काल उपलब्ध हो गया । इसीके उत्कृष्ट कालकी प्ररूपणा इस प्रकार है—कोई एक दर्शनमोहका क्षपक जीव मिथ्यात्वका क्षय करके सत्यगिमिथ्यात्वके क्षपण-कालमे वाईस-प्रकृतिक स्थानका संक्रामक हुआ और उसकी अन्तिम फालीके पतन होने तक उसका संक्रामक रहा । इस प्रकार वाईस-प्रकृतिक स्थानका अन्तर्मुहूर्त-प्रमाण उत्कृष्ट काल प्राप्त हो जाता है । वीस-प्रकृतिक स्थानके संक्रम-कालकी प्ररूपणा इस प्रकार है—इक्कीस प्रकृतियोंका संक्रामक कोई एक जीव उपशमश्रेणीपर चढ़ करके लोभका असंक्रामक होकर और एक समयमात्र वीसका संक्रामक बनकर तदनन्तर समयमे मरण करके देवोमे उत्पन्न होकर इक्कीसका संक्रामक हो गया । इस प्रकार एक समयमात्र जघन्य काल उपलब्ध हो जाता है । इसीके अन्तर्मुहूर्त-प्रमाण उत्कृष्ट कालकी प्ररूपणा इस प्रकार है—इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक जीव नपुंसकवेदके उदयके साथ श्रेणीपर चढ़ा और अन्तरकरण करके आनुपूर्वी-संक्रमणके वशसे वीस-प्रकृतिक स्थानका संक्रामक हो गया । इस प्रकार इस जीवके नपुंसकवेदके उपशमनका जितना काल है, वह सर्व प्रकृत संक्रमस्थानका उत्कृष्ट काल जानना चाहिए । उन्नीस-प्रकृतिक संक्रमस्थानके जघन्य और उत्कृष्ट कालका विवरण इस प्रकार है—इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक जीव उपशमश्रेणीपर चढ़ा और अन्तरकरणको करके नपुंसकवेदका उपशमनकर उन्नीस-प्रकृतिक स्थानका संक्रामक हुआ । पुनः दूसरे ही समयमे मरणकर देवोमे उत्पन्न होकर इक्कीस-प्रकृतिक स्थानका संक्रामक हो गया । इस प्रकार एक समयमात्र जघन्य काल उपलब्ध हो जाता है । इसी जीवके नपुंसकवेदका उपशमन करके स्त्रीवेदके उपशमन करनेका अन्तर्मुहूर्तमात्र सर्वकाल प्रकृत संक्रमस्थानका उत्कृष्ट काल जानना चाहिए । अट्टारह-प्रकृतिक संक्रमस्थानके जघन्य और उत्कृष्ट कालका विवरण इस प्रकार है—इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई उपशामक नपुंसकवेद और स्त्रीवेदका उपशमकर एक समय अट्टारह-प्रकृतिक स्थानका संक्रामक होकर और तदनन्तर समयमे मरण करके देवोमे उत्पन्न होकर इक्कीस-प्रकृतिक स्थानका संक्रामक हो गया । इस प्रकार एक समय-प्रमाण प्रकृत संक्रमस्थानका जघन्यकाल प्राप्त हो गया । उसी ही उपशामकके जब तक छह नोकपाय अनुपशान्त है, तब तक उनके उपशमनका सर्व काल ही अट्टारह-प्रकृतिक संक्रमस्थानका उत्कृष्टकाल जानना चाहिए । तेरह-प्रकृतिक संक्रमस्थानके जघन्य और उत्कृष्ट कालकी प्ररूपणा इस प्रकार है—चौवीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई उपशामक यथाक्रमसे नव नोकपायोको उपशमा कर एक समय तेरह

प्रकृतियोंका संक्रामक रहा और तदनन्तर समयमे मरकर तेईस प्रकृतियोंका संक्रामक हो गया । इस प्रकार एक समयमात्र जघन्य काल प्राप्त हो जाता है । क्षपक आठ मध्यम कपायोंका क्षय करके जवतक आनुपूर्वी-संक्रमणका प्रारम्भ नहीं करता है, तवतक तेरह-प्रकृतिक संक्रमस्थानका उत्कृष्ट काल जानना चाहिए । बारह-प्रकृतिक संक्रमस्थानके जघन्य कालका विवरण इस प्रकार है—इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई उपशामक यथाक्रमसे आठ नोकपायोंका उपशमन करके एक समयके लिए बारह प्रकृतियोंका संक्रामक हुआ और दूसरे समयमे मरणको प्राप्त हुआ और देवोमे उत्पन्न होकर इक्कीस-प्रकृतिक स्थानका संक्रामक हो गया । इस प्रकार एक समयमात्र जघन्य काल प्राप्त हो गया । इसी संक्रमस्थानके अन्तर्मुहूर्त-प्रमित उत्कृष्ट कालका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—कोई एक संयत चारित्रमोहकी क्षपणाके लिए अभ्युद्यत हुआ और आनुपूर्वी-संक्रमण करके वह जवतक नपुंसकवेदका क्षय नहीं करता है तवतक उसके प्रकृत संक्रमस्थानका उत्कृष्ट काल पाया जाता है । ग्यारह-प्रकृतिक संक्रम-स्थानके जघन्य कालका विवरण इस प्रकार है—इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई उपशामक यथाक्रमसे नव नोकपायोंका उपशमन करके एक समय ग्यारहका संक्रामक रहकर और तदनन्तर समयमे मरणको प्राप्त होकर देव हो गया । इस प्रकार एक समयमात्र प्रकृत संक्रमस्थानका जघन्य काल प्राप्त हो जाता है । इसी संक्रमस्थानके अन्तर्मुहूर्त-प्रमित उत्कृष्ट कालका विवरण इस प्रकार है—कोई एक क्षपक नपुंसकवेदका क्षय करके जवतक स्त्रीवेदका क्षय नहीं करता है तवतक वह प्रकृत स्थानका संक्रामक रहता है । दश-प्रकृतिक संक्रमस्थानके एक समय-प्रमित जघन्य कालका विवरण इस प्रकार है—चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक उपशामक तीन प्रकारके क्रोधकी उपशामनासे परिणत होकर एक समय दश प्रकृतियोंका संक्रामक रहा और दूसरे समयमे मरकर और देवोमे उत्पन्न होकर तेईस प्रकृतियोंका संक्रामक हो गया । इस प्रकार प्रकृत स्थानका जघन्य काल सिद्ध हो जाता है । क्षपकके छह नोकपायोंके क्षपणका सर्व काल ही दश-प्रकृतिक संक्रमस्थानका उत्कृष्ट काल जानना चाहिए । आठ-प्रकृतिक संक्रमस्थानके जघन्य और उत्कृष्ट कालका विवरण इस प्रकार है—चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई उपशामक दोनो मध्यम मान कपायोंका उपशमन करके एक समय आठका संक्रामक होकर और दूसरे समयमे मर कर देवोमे उत्पन्न हो गया । इस प्रकार एक समयमात्र जघन्यकाल प्राप्त हो जाता है । इसी स्थानके उत्कृष्ट संक्रम-कालका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक उपशामक क्रमसे नव नोकपाय और तीन प्रकारके क्रोधका उपशमन करके आठ-प्रकृतिक स्थानका संक्रामक हुआ और अन्तर्मुहूर्त तक उस अवस्थामे रह कर दोनो मध्यम मान-कपायोंका उपशमन करके छह प्रकृतियोंका संक्रामक हो गया इस प्रकार आठ-प्रकृतिक संक्रमस्थानका उत्कृष्ट काल दोनो मध्यम मान-कपायोंके उपशमनकाल-प्रमित अन्तर्मुहूर्त-मात्र जानना चाहिए । सात-प्रकृतिक संक्रमस्थानके जघन्य और उत्कृष्ट कालका विवरण

२०३. एकवीसाए संक्रामथो केवचिरं कालादो होइ ? २०४. जहण्णेय-

इस प्रकार है—चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई उपशामक प्रथम समयमें तीन प्रकारके मान कपायके उपशमसे परिणत हुआ और दूसरे ही समयमें मरण करके देवोंमें उत्पन्न हो गया। इस प्रकार प्रकृत संक्रमस्थानका एक समयमात्र जघन्यकाल सिद्ध हो जाता है। इसी जीवके दोनो मध्यम मायाकपायोका उपशमन करते हुए जब तक उनका अनुपशम रहता है तब तकका अन्तर्मुहूर्तमात्र काल प्रकृत संक्रमस्थानका उत्कृष्ट काल जानना चाहिए। पांच-प्रकृतिक संक्रमस्थानके कालका विवरण इस प्रकार है—इसी उपर्युक्त सात प्रकृतियोंके उपशामकके द्वारा दोनो मध्यम मायाकपायोका उपशमन करके एक समय पांच प्रकृतियोंका संक्रामक बनकर और दूसरे समयमें मर करके देव हो जाने पर एक समयमात्र प्रकृत संक्रमस्थानका जघन्य काल प्राप्त हो जाता है। इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशामकके द्वारा तीन प्रकारके मानकी उपशामनासे परिणत होकर जब तक दोनो मध्यम माया कपायोका अनुपशम रहता है, तब तकका अन्तर्मुहूर्तमात्र काल प्रकृत संक्रमस्थानका उत्कृष्ट काल जानना चाहिए। चार-प्रकृतिक संक्रमस्थानके जघन्य और उत्कृष्ट कालका विवरण इस प्रकार है—चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक उपशामक संज्वलन-मायाका उपशमन करके चार प्रकृतियोंका संक्रामक हुआ और दूसरे ही समयमें मरकर देव हो गया, इस प्रकार प्रकृत संक्रमस्थानका एक समयमात्र जघन्य काल प्राप्त हो जाता है। इसी उपशामकके संज्वलनमायाके उपशमकालसे लेकर जबतक दोनो मध्यम लोभोका अनुपशम रहता है, तबतकका अन्तर्मुहूर्तमात्र काल प्रकृत संक्रमस्थानका उत्कृष्ट काल जानना चाहिए। तीन-प्रकृतिक संक्रमस्थानके जघन्य और उत्कृष्ट कालका विवरण इस प्रकार है—इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक उपशामक दोनो मध्यम मायाकपायोकी उपशामनासे परिणत होकर तीन प्रकृतियोंका संक्रामक हुआ और दूसरे समयमें मरकर देव हो गया। इस प्रकार एक समयमात्र प्रकृत संक्रमस्थानका जघन्य काल सिद्ध हो जाता है। चारित्रमोहका क्षपण करनेवाले जीवके संज्वलनक्रोधके क्षपणका जितना काल है, वह सब प्रकृत संक्रमस्थानका उत्कृष्ट काल जानना चाहिए। दो-प्रकृतिक संक्रमस्थानके जघन्य और उत्कृष्ट कालका विवरण इस प्रकार है—चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक उपशामक आनुपूर्वी-संक्रमण आदिकी परिपाटीसे दोनो प्रकारके मध्यम लोभका उपशमन करके मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वका एक समय संक्रामक होकर दूसरे समयमें मरकर देव हो गया। इस प्रकार प्रकृत संक्रमस्थानका जघन्य काल प्राप्त हो जाता है। इसी जीवके दोनो मध्यम क्रोधोके उपशमन-कालसे लगा करके उपशान्तकपायगुणस्थानसे उतरते हुए सूक्ष्मसाम्परायगुणस्थानके अन्तिम समय तकका जितना काल है, वह सब प्रकृत संक्रमस्थानका उत्कृष्ट काल जानना चाहिए।

शंका—इक्कीस-प्रकृतिक संक्रमस्थानका कितना काल है ? ॥ २०३ ॥

समओ । २०५. उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि । २०६. चोद्दसण्हं णवण्हं छण्हं पि कांलो जहण्णेण्यसमओ । २०७. उक्कस्सेण दो आवलियाओ सम-
यूणाओ । २०८. अथवा उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ओयरमाणस्स लब्भइ । २०९. एकस्से
संकामओ केवचिरं कालादो होइ ? २१०. जहण्णुक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

२११. एत्तो एयजीवेण अंतरं । २१२. सत्तावीस-छव्वीस-तेवीस-इगिवीस-
संकामगंतरं केवचिरं कालादो होइ ?

समाधान—इक्कीस-प्रकृतिक संक्रमस्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट
काल साधिक तेतीस सागरोपम है ॥ २०४-२०५ ॥

विशेषार्थ—इक्कीस-प्रकृतिक संक्रमस्थानके जघन्य कालका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—
चौवीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक जीव नपुंसकवेदका उपगमन करके इक्कीस प्रकृतियोंका
संक्रामक हुआ और दूसरे ही समयमे मरकर देव हो गया । इस प्रकार एक समयमात्र
जघन्य काल सिद्ध हो जाता है । अथवा चौवीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशमसम्यग्दृष्टि
जीवके कालमें एक समय श्रेय रहनेपर सासादनगुणस्थानको प्राप्त होनेपर भी प्रकृत संक्रम-
स्थानका एक समयमात्र जघन्य काल पाया जाता है । उत्कृष्ट कालका स्पष्टीकरण इस प्रकार
है—देव या नरकगतिसे मनुष्यगतिमे आया हुआ चौवीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई जीव
गर्भसे लेकर अन्तर्मुहूर्तसे अधिक आठ वर्षका हो जानेपर सर्वलघुकालसे दर्शनमोहकी क्षणणासे
परिणत होकर और इक्कीस प्रकृतियोंका संक्रमण प्रारम्भ करके देशोन पूर्वकोटी तक संयमभावके
साथ विहार करके जीवनके अन्तमे मरा और विजयादिक अनुत्तर विमानोमे एक समय कम
तेतीस सागरोपमकी आयुका धारक देव हो गया । वह वहाँपर अपनी आयुको पूरा करके
च्युत हुआ और पूर्वकोटी आयुका धारक मनुष्य हुआ । जब उसके सिद्ध होनेमे अन्तर्मुहूर्त-
मात्र काल श्रेय रह गया, तब क्षपकश्रेणीपर चढ़कर और आठ मध्यम कपायोंका क्षय करके
तेरह प्रकृतियोंका संक्रामक हुआ । इस प्रकार दो अन्तर्मुहूर्त और आठ वर्षसे कम दो पूर्व-
कोटीसे अधिक तेतीस सागरोपम-प्रमाण इक्कीस-प्रकृतिक संक्रमस्थानका उत्कृष्ट काल
जानना चाहिए ।

चूणिसू०—चौदह, नौ और छह-प्रकृतिक संक्रमस्थानोका जघन्य काल एक समय
और उत्कृष्ट काल एक समय-कम दो आवली है । अथवा उपशमश्रेणीसे उतरनेवाले जीवकी
अपेक्षा उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त भी पाया जाता है ॥ २०६-२०८ ॥

शंका—एक-प्रकृतिक संक्रमस्थानका कितना काल है ? ॥ २०९ ॥

समाधान—एक-प्रकृतिक संक्रमस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त
है ॥ २१० ॥

चूणिसू०—अब एक जीवकी अपेक्षा संक्रमस्थानोका अन्तर कहते हैं ॥ २११ ॥

शंका—सत्ताईस, छव्वीस, तेईस और इक्कीस-प्रकृतिक संक्रमस्थानोका अन्तर-काल
कितना है ? ॥ २१२ ॥

२१३. जहणणेण एयसमओ । २१४. उक्कस्सेण उवड्डुपोग्गलपरियट्टं ।

समाधान—उक्त संक्रमस्थानोक्ता जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर-काल उपार्धपुद्गलपरिवर्तन है ॥ २१३-२१४ ॥

विशेषार्थ—सूत्रोक्त संक्रमस्थानोक्ते अन्तरकालोमसे यथाक्रमसे पहले सत्ताईस-प्रकृतिक संक्रमस्थानके जघन्य अन्तरका स्पर्ष्टीकरण करते हैं—सत्ताईसका संक्रामक कोई उपशमसम्यक्त्वट्टि जीव उपशमसम्यक्त्वके कालमे एक समय रहनेपर सासादनगुणस्थानको प्राप्त हुआ और एक समय पच्चीसका संक्रामक रहकर अन्तरको प्राप्त हो दूसरे ही समयमे मिथ्याट्टि बनकर सत्ताईसका संक्रामक हो गया । इस प्रकार एक समयमात्र प्रकृत संक्रमस्थानका जघन्य अन्तर-काल सिद्ध हो जाता है । अथवा सत्ताईसका संक्रामक कोई मिथ्याट्टि जीव सम्यक्त्वप्रकृतिकी उद्वेलना करता हुआ सम्यक्त्वके अभिमुख होकर अन्तर करके और मिथ्यात्वकी प्रथमस्थितिके द्विचरम समयमे सत्ताईसके संक्रामकरूपसे सम्यक्त्वप्रकृतिकी चरमफालीको मिथ्यात्वके उपर संक्रमित करके उसके अनन्तर चरम समयमे छव्वीसका संक्रमण करके अन्तरको प्राप्त हुआ और सम्यक्त्वको प्राप्त करनेके प्रथम समयमे पुनः सत्ताईसका संक्रामक हो गया । इस प्रकारसे भी सत्ताईस-प्रकृतिक संक्रमस्थानका एक समयप्रमाण जघन्य अन्तर सिद्ध हो जाता है । इसीके उत्कृष्ट अन्तर कालका विवरण इस प्रकार है—कोई एक अनादिमिथ्याट्टि जीव अर्धपुद्गलपरिवर्तनके आदि समयमें उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ और सर्व लघुकालसे मिथ्यात्वमे जाकर सर्व जघन्य उद्वेलना-कालसे सम्यक्त्वप्रकृतिकी उद्वेलना करके और सत्ताईस-प्रकृतिक संक्रमस्थानके अन्तरको प्राप्त हुआ । पुनः देगोन अर्धपुद्गलपरिवर्तन तक संसारमें परिभ्रमण करके सिद्ध होनेमे जब अन्तर्मुहूर्त काल शेष रहा, तब उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । उसके दूसरे समयमे सत्ताईसका संक्रमण करनेपर सत्ताईस-प्रकृतिक संक्रम-स्थानका उपार्धपुद्गल-परिवर्तनप्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकाल प्राप्त होता है । छव्वीस-प्रकृतिक संक्रमस्थानके एक समयमात्र जघन्य अन्तरकालका विवरण इस प्रकार है—जिसने सम्यक्त्वप्रकृतिकी उद्वेलना कर दी है ऐसा कोई छव्वीसका संक्रामक जीव उपशम-सम्यक्त्वके अभिमुख होकर मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिके द्विचरम समयमे सम्यग्मिथ्यात्वकी चरम फालीको मिथ्यात्वरूपसे संक्रमित करके तदनन्तर समयमे ही पच्चीसके संक्रमण-द्वारा अन्तरको प्राप्त होकर उपशमसम्यक्त्वके प्रथम समयमे पुनः छव्वीसका संक्रामक हो गया । इस प्रकार जघन्य काल सिद्ध हो गया । इसीके उत्कृष्ट अन्तरकालका विवरण इस प्रकार है—कोई अनादिमिथ्याट्टि जीव अर्धपुद्गलपरिवर्तनके आदि समयमे उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त होकर और सर्व लघुकालसे मिथ्यात्वमे जाकर सर्व जघन्य उद्वेलनाकालसे सम्यक्त्व-प्रकृतिकी उद्वेलना करके छव्वीसका संक्रामक हो गया । पुनः सर्व लघुकालसे सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना करके पच्चीसके संक्रामक रूपसे अन्तरको प्राप्त हुआ और देगोन अर्धपुद्गल-परिवर्तन तक परिभ्रमण करके संसारके अन्तर्मुहूर्तमात्र शेष रह जानेपर उपशमसम्यक्त्वको

प्राप्त कर छव्वीसका संक्रामक हुआ । इस प्रकार छव्वीस-प्रकृतिक संक्रमस्थानका उपार्धपुद्गल-परिवर्तनप्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकाल सिद्ध हो जाता है । तेईस-प्रकृतिक संक्रमस्थानके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकालका विवरण इस प्रकार है—चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई उपशमसम्यग्दृष्टि तेईस प्रकृतियोंके संक्रमणकालमें एक समय रह जाने पर सासादनगुण-स्थानको प्राप्त हुआ और एक समयमात्र इक्कीसका संक्रामक वन अन्तरको प्राप्त होकर दूसरे ही समयमें मिथ्यात्वमें जाकर तेईसका संक्रामक हो गया । इस प्रकार प्रकृत संक्रमस्थानका एक समयमात्र जघन्य अन्तरकाल प्राप्त हो जाता है । अथवा तेईसका संक्रामक कोई जीव उपशमश्रेणी पर चढ़ करके अन्तरकरणकी समाप्तिके अनन्तर ही आनुपूर्वी-संक्रमणका प्रारम्भ करके एक समय वाईसके संक्रामक रूपसे अन्तरको प्राप्त होकर और दूसरे समयमें देवोंमें उत्पन्न होकर तेईसका संक्रामक हो गया । इस प्रकारसे भी एक समयमात्र जघन्य अन्तर-काल सिद्ध हो जाता है । इसी संक्रमस्थानके उत्कृष्ट अन्तरकालका विवरण इस प्रकार है—कोई अनादिमिथ्यादृष्टि जीव अर्धपुद्गलपरिवर्तनके आदि समयमें सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ और उपशमसम्यक्त्वके कालके भीतर ही अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना करके तेईस-प्रकृतिक संक्रमस्थानका प्रारम्भ कर उपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आवली काल शेष रह जानेपर सासादनगुणस्थानको प्राप्त हुआ और इक्कीसका संक्रमणकर अन्तरको प्राप्त हो पुनः मिथ्यात्वमें जाकर देवोंमें अर्धपुद्गलपरिवर्तन तक संसारमें परिभ्रमण कर संसारके सर्व जघन्य अन्तर्मुहूर्तमात्र शेष रह जानेपर उपशमसम्यक्त्वको ग्रहण करके पुनः वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त होकर क्षपकश्रेणीपर चढ़नेके लिए अनन्तानुवन्धीका विसंयोजन करके तेईसका संक्रामक हुआ । इस प्रकार प्रकृत संक्रमस्थानका उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त हो जाता है । इक्कीस-प्रकृतिक संक्रमस्थानके जघन्य अन्तर कालका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई जीव उपशमश्रेणीपर चढ़ करके अन्तरकरणकी समाप्ति होनेपर लोभसंज्वलनके असंक्रमके वजसे एक समय बीसका संक्रामक वनकर अन्तरको प्राप्त होकर मरा और देव होकर पुनः इक्कीसका संक्रामक हो गया । इस प्रकार एक समयमात्र जघन्य अन्तरकाल सिद्ध हो गया । इसी संक्रमस्थानके उत्कृष्ट अन्तर कालका विवरण इस प्रकार है—कोई एक अनादिमिथ्यादृष्टि जीव अर्धपुद्गलपरिवर्तनके आदि समयमें प्रथमसम्यक्त्वको प्राप्त होकर और उपशमसम्यक्त्वके कालके भीतर ही अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करके उपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आवली काल शेष रह जानेपर सासादनगुणस्थानको प्राप्त होकर इक्कीस प्रकृतियोंका एक आवली तक संक्रमण करके तदनन्तर समयमें पच्चीसका संक्रामक वनकर और अन्तरको प्राप्त होकर तदनन्तर मिथ्यात्वमें जाकर और अर्धपुद्गलपरिवर्तन तक परिभ्रमण करके संसारके सर्व-जघन्य अन्तर्मुहूर्तमात्र शेष रह जानेपर दर्शनमोहका क्षय करके इक्कीस प्रकृतियोंका संक्रामक हुआ । इस प्रकार देवोंमें अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण इक्कीस-प्रकृतिक संक्रमस्थानका उत्कृष्ट अन्तरकाल जानना चाहिए ।

२१५. पशुजीसंक्रामयन्तं केवलिनं कालादो होः ? २१६. उपागेष
अंतोमृहत्तं । २१७. उरुस्मेण वे ज्ञानद्वि साशमं वपाणि सादिग्गणि । २१८. नार्वाम-र्वाम-
चौदस-तेरह-एकारम-दश-अष्ट-मत्त-पंच-नद-दांणिमंक्रामयन्तं केवलिनं कालादो होः ?
२१९. जहण्णेण अंतोमृहत्तं । २२०. उरुस्मेण उपागेषान्त्वपिहृत् । २२१. पूर्णान्मे
संक्रामयस्स णत्थि अंतरं ।

शंका—पर्वाण-प्रकृतिक संक्रमस्थानका अन्तरकाल कितना है ? ॥२१५॥

समाधान—पर्वाण-प्रकृतिक संक्रमस्थानका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट
अन्तरकाल सातिरेक दो चार उपागेष सागरोपम है ॥२१६-२१७॥

विशेषार्थ—पर्वाण-प्रकृतिक संक्रमस्थानके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकालके स्पष्टी-
करण इस प्रकार है—कौटिल्य एक सम्यग्मिथ्यात्वके तीन पर्वाण-प्रकृतिकों का संक्रमण प्रमाण
हुआ अवस्थित था । वह परिणामोक्ते अन्तर्मुहूर्त या अन्तर्कालके प्राप्त होना । उत्कृष्ट
सर्व जघन्य अन्तर्मुहूर्त तक रहकर और सन्तर्कालका संक्रमण कर अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होकर पुनः
सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त होकर पर्वाणिक संक्रमण हो गया । इस प्रकार अन्तर्मुहूर्तप्रमाण
पर्वाण-प्रकृतिक संक्रमस्थानका जघन्य अन्तरकाल हो जाता है । उर्वाके उरुस्मेण उपागेष
विवरण इस प्रकार है—पर्वाणिका संक्रमण कौटिल्य एक निःशक्ति जीव उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त
हुआ और किसी भी अव्यक्तित संक्रमस्थानके साथ अन्तरमे प्राप्त होकर पुनः मिथ्यात्वमें
जाकर सर्वोत्कृष्ट उद्वेलनकालमें सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वको उद्वेलना करता हुआ
उपशमसम्यक्त्वके अभिसुप्त होकर अन्तरकरणको करके मिथ्यात्वकी प्रथमव्यक्तिके चरम
समयमें सम्यग्मिथ्यात्वकी चरम फालीवा संक्रमण करके नदन्तर्काल समयमें सम्यक्त्वको प्राप्त
होकर द्वासाठ सागर तक परिभ्रमण करके उसके अन्तर्मुहूर्त मिथ्यात्वको प्राप्त होकर पल्लोपमके
असंख्यात्वे भागमात्र काल तक सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिको उद्वेलना करके तथा-
सम्भव प्रकारमें सम्यक्त्वको ग्रहण करके दूसरी बार उपागेष सागरोपम तक सम्यक्त्वके
साथ रहकर अन्तर्मुहूर्त फिर भी मिथ्यात्वमें जाकर दीर्घ उद्वेलनकालमें सम्यग्मिथ्यात्व और
सम्यक्त्वप्रकृतिको उद्वेलना करके पर्वाणिका संक्रमण हुआ । इस प्रकार तीन पल्लोपमके
असंख्यात भागोंसे अधिक एक सौ बत्तीस सागरोपमप्रमाण पर्वाण-प्रकृतिक संक्रमस्थानका
उत्कृष्ट अन्तरकाल जानना चाहिए ।

शंका—वाइम, वीस, चौदह, तेरह, ग्यारह, दश, आठ, सात, पांच, चार और दो
प्रकृतिक संक्रमस्थानोंका अन्तरकाल कितना है ? ॥२१८॥

समाधान—उक्त संक्रमस्थानोंका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर-
काल उपावर्षपुद्गलपरिवर्तन है ॥२१९-२२०॥

चूर्णिसू०—एक प्रकृतिके संक्रमणका अन्तर नहीं होता है ॥२२१॥

२२२. सेसाणं संक्रामयाणमंतरं क्वेचिरं कालादो होइ ? २२३. जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । २२४. उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोपमाणि सादिरेयाणि* ।

शंका—शेष अर्थान् उन्नीस, अट्टारह, वारह, नौ, छह और तीन-प्रकृतिक संक्रमस्थानोका अन्तरकाल कितना है ? ॥२२२॥

समाधान—उक्त संक्रमस्थानोका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल सातिरेक तेत्तीस सागरोपम है ॥२२३-२२४॥

विशेषार्थ—सूत्रमे शेष पदके द्वारा सूचित संक्रमस्थानोके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकालोका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई उपगामक उपगमश्रेणीमें अन्तरकरणकी समाप्तिके अनन्तर ही आनुपूर्वीसंक्रमणको आरम्भ करके नपुंसकवेदका उपशम कर इक्कीसका संक्रामक हुआ । पुनः स्त्रीवेदका उपशमन करके अन्तरका प्रारम्भ कर अट्टारहका संक्रामक हुआ और छह नोकपायोका उपशमन करके अन्तर उत्पन्न कर उसी समय वारहका संक्रमण आरम्भ किया, पुनः पुरुषवेदका उपशम कर और अन्तरको प्राप्त होकर तत्पश्चान् दोनों प्रकारके क्रोधका उपशम किया और नौके संक्रमस्थानको प्राप्त होकर संज्वलनक्रोधका उपशम करके नौके अन्तरका आरम्भ किया । पुनः दोनों प्रकारके मानका उपशम करके छहका संक्रामक हुआ और संज्वलनमानका उपशम करके छहके अन्तरका आरम्भ किया । तदनन्तर दोनों मायाका उपशम करके तीनका संक्रामक हुआ और संज्वलन मायाका उपशम करके तीनके अन्तरका आरम्भ कर ऊपर चढ़ा और वापिस उतरते हुए तीनों मायाकपायोकी उद्वर्तना करके छहका संक्रामक बनकर, तीनों मानकपायोकी उद्वर्तना करके नौका संक्रामक बनकर, तीनों क्रोधोकी उद्वर्तना करके वारहका संक्रामक बनकर और सात नोकपायोकी उद्वर्तना करके उन्नीसका संक्रामक बनकर यथाक्रमसे उन उन संक्रमस्थानोके अन्तरको पूरा किया । इस प्रकार उन्नीस, अट्टारह, वारह, छह और तीन प्रकृतिक संक्रमस्थानोमेसे प्रत्येकका अन्तर्मुहूर्तप्रमाण जघन्य अन्तरसिद्ध हो जाता है । इन्हीं स्थानोके उत्कृष्ट अन्तरका विवरण इस प्रकार है—चौवीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक वेदकसम्यग्दृष्टि देव या नारकी पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्योमे उत्पन्न हुआ और गर्भसे लगाकर आठ वर्षके पश्चात् सर्वलघुकालसे विशुद्ध होकर संयमको प्राप्त होकर और दर्जनमोहनीयका क्षय करके उपगमश्रेणीपर चढ़ा । चढ़ते समय तीन और अट्टारहके अन्तरको उत्पन्न करके तथा उतरते हुए छह, नौ, वारह और उन्नीसके अन्तरको उत्पन्न करके देशोत पूर्वकोटी तक संयमका परिपालन कर जीवनके अन्तमे मरा और तेत्तीस सागरोपमकी आयुवाले देवोमे उत्पन्न हो गया । पुनः आयुके अन्तमे वहाँसे च्युत होकर पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्योमे उत्पन्न हुआ और जीवनके अन्तर्मुहूर्त शेष रह जानेपर उपगमश्रेणीपर चढ़ करके यथाक्रमसे पूर्वोक्त सर्व संक्रमस्थानोके अन्तर-

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमे 'सादिरेयाणि' के स्थानपर 'देसूणाणि' पाठ मुद्रित है, (देखो पृ० १०२६) जो कि टीकामे किये गये व्याख्यानके अनुसार नहीं होना चाहिए ।

२२५. णाणाजीवेहि भंगविचओ । २२६. जेरिं पयडीओ अत्थि तेसु पयदं ।
 २२७. सव्वजीवा सत्तावीसाए छव्वीसाए पणुवीसाए तेवीसाए एकवीसाए एदेसु पंचसु
 संक्रमट्ठाणेषु णियमा संक्रामगा' । २२८. सेसेसु अट्टारससु संक्रमट्ठाणेषु भजियव्वा ।
 २२९. णाणाजीवेहि कालो । २३०. पंचण्हं ट्ठाणाणं संक्रामया सव्वट्ठा ।
 २३१. 'सेसाणं ट्ठाणाणं संक्रामया जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । २३२.
 णवरि एक्किस्से संक्रामया जहण्णुक्कस्सेणंतोमुहुत्तं' ।

२३३. णाणाजीवेहि अंतरं । २३४. वावीसाए तेरसण्हं वारसण्हं एकारसण्हं
 दसण्हं चटुण्हं तिण्हं दोण्हमेक्किस्से एदेसिं णवण्हं ट्ठाणाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ?

को पूरा किया । इस प्रकार उन संक्रमस्थानोका दो अन्तर्मुहूर्त और आठ वर्षसे कम दो
 पूर्वकोटीसे अधिक तेतीस सागरोपम-प्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकाल सिद्ध हो जाता है । यहाँ
 इतनी बात ध्यानमें रखना आवश्यक है कि वारह और तीन-प्रकृतिक संक्रमस्थानका अन्तर
 क्षपकश्रेणीकी अपेक्षा निरूपण करना चाहिए ।

चूर्णिसू०—अब नानाजीवोकी अपेक्षा संक्रमस्थानोका भंगविचय कहते हैं । जिन
 जीवोके विवक्षित प्रकृतियोंकी सत्ता पाई जाती है, उनमें ही यह भंगविचय प्रकृत है । सर्व
 जीव सत्ताईस, छव्वीस, पच्चीस, तेईस और इक्कीस, इन पाँच संक्रमस्थानोपर नियमसे
 संक्रामक होते हैं । शेष अट्टारह संक्रमस्थानोपर वे भजितव्य हैं, अर्थात् संक्रामक होते भी
 हैं, और नहीं भी होते हैं ॥२२५-२२८॥

चूर्णिसू०—अब नाना जीवोकी अपेक्षा संक्रमस्थानोका काल कहते हैं—सत्ताईस,
 छव्वीस, पच्चीस, तेईस और इक्कीस-प्रकृतिक पाँच संक्रमस्थानोके संक्रामक जीव सर्व काल
 होते हैं । शेष अट्टारह स्थानोके संक्रामकोका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल
 अन्तर्मुहूर्त है । विशेषता केवल यह है कि एक प्रकृतिके संक्रामकोका जघन्य और उत्कृष्ट
 काल अन्तर्मुहूर्त है ॥२२९-२३२॥

चूर्णिसू०—अब नाना जीवोकी अपेक्षा संक्रमस्थानोका अन्तर कहते हैं ॥२३३॥

शंका—वाईस, तेरह, वारह, ग्यारह, दश, चार, तीन, दो और एक-प्रकृतिक

१. एदेसि पंचण्ह संक्रमट्ठाणाणं सक्रामया जीवा सव्वकालमत्थि त्ति भणिद होइ । जयध०

२. एत्थ सेसग्गहणेण वावीसादीण सक्रामट्ठाणाण गहण कायव्व । तेसिं च जहण्णकालो एयसमय-
 मेत्तो, उवसमसेट्ठिमि विवक्खियसकमट्ठाणसंक्रामयत्तेणेयसमयं परिणदाण केत्तियाण पि जीवाणं विदिय-
 समए मरणपरिणामेण तदुवलभादो । उक्कस्सकालो अंतोमुहुत्तं; तेसिं चेव विवक्खियसकमट्ठाणसक्रामयोव-
 सामयाणमुवरिं चटताणमण्णेहि चटणोवयरणवावदेहिं अणुसधिदसताणाणमविच्छेदकालस्स समालवणादो ।
 णवरि तेरस-वारस-एकारस-चटु-तिण्णि-दोणिसक्रामगाण खवगोवसामगे अत्तिस्सुण उक्कस्सकालपरुवणा
 कायव्वा । जयध०

३. एत्थ एक्किस्से सक्रामयाणं जहण्णकालो कोहमाणाणसण्णदरोदएण चट्टिदाणं मायासंक्रामयाण-
 मणुसधिदसंताणाणमतोमुहुत्तमेत्तो होइ । उक्कस्सकालो पुण मायासंक्रामयाणमणुसधिदपवाहाणं होइ त्ति
 वत्तव्व । जयध०

२३५. जहण्णेण एयसमओ । २३६. उक्कस्सेण छम्मासा^१ । २३७. ^२सेसाणं णवण्हं संकमट्ठाणाणमंतरं केवचिरं कालादो होइ ? २३८. जहण्णेण एयसमओ । २३९. उक्कस्सेण संखेज्जाणि वस्साणि^३ । २४०. जेसिमविरहिदकालो तेसिं णत्थि अंतरं ।

२४१. सण्णियासो णत्थि ।

२४२. अप्पावहुअं । २४३. सञ्चत्थोवा णवण्हं संकामया^४ । २४४. छण्हं संकामया तेत्थिया चेवं^५ । २४५. चोदसण्हं संकामया संखेज्जगुणा^६ । २४६. पंचण्हं

नौ संक्रमस्थानोका अन्तरकाल कितना है ? ॥२३४॥

समाधान—उक्त नौ स्थानोके संक्रामकोका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह मास है ॥२३५-२३६॥

शंका—जेप नौ संक्रमस्थानोका अन्तरकाल कितना है ? ॥२३७॥

समाधान—जेप बीस, उत्रीस, अट्टारह, सत्तरह, नौ, आठ, सात, छह और पांच-प्रकृतिक नौ संक्रमस्थानोका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल संख्यात वर्ष है ॥२३८-२३९॥

चूर्णिसू०—जिन सत्ताईस, छत्रीस, पच्चीस, तेईस और इक्कीस-प्रकृतिक संक्रम-स्थानोके कालका कभी विरह नहीं होता, उनका अन्तर नहीं है ॥२४०॥

चूर्णिसू०—संक्रमस्थानोका सन्निकर्ण नहीं होता । क्योंकि, एक संक्रमस्थानके निरुद्ध करनेपर उसमें जेप संक्रमस्थान संभव नहीं है ॥२४१॥

चूर्णिसू०—अब संक्रमस्थानोका अल्पवहुत्व कहते हैं । नौ प्रकृतियोंके संक्रामक वक्ष्य-माण पदोंकी अपेक्षा सबसे कम हैं । छह प्रकृतियोंके संक्रामक भी उतने ही हैं, अर्थात् नौ

१. बावीसाए ताव जहण्णेण्यसमओ, उक्कस्सेण छम्मासमेत्तमतर होइ, दसणमोह-क्खवणपट्ठव-णाए णाणाजीवावेक्खजहण्णुक्कस्सतराण तेत्थियमेत्तपरिणामाणमुवलभादो । एव तेरसादीण पि वत्तव, खवय-सेढीलद्धसरुवाणमेदेसिं णाणाजीवावेक्खाए जहण्णुक्कस्सतराण तप्पमाणाणमुवलद्धीदो । जयध०

२. एत्थ सेसग्गहणेण २०, १९, १८, १४, ९, ८, ७, ६, ५ एदेसि संकमट्ठाणाण सगहो कायव्वो ।

३. एदेसि च उवसमसेट्ठिसवधीण जहण्णेण एयसमओ । उक्कस्सेण वासपुधत्तमेत्तमतर होइ, तदा-रोहणविरहकालस्स तेत्थियमेत्तस्स णिव्वाहमुवलद्धीदो । सुत्ते सखेज्जवस्सग्गहणेण वासपुधत्तमेत्तकालविसेस-पडिवत्ती । कुदो ? अविरुद्धाइरियवक्खाणादो । जयध०

४. त कय ? इगिवीससत्तकम्मिओ उवसमसेट्ठि चट्ठिय हुविट् कोट् कोट् सजलणचिराणसतेण सह उवसामयत्तणवक्खधमुवसामेतो समऊणदोआवलियमेत्तकाल णवण्हं सकामओ होइ, तदो थोवयरकाल-सच्चिदत्तादो थोवयरत्तमेदेसिं उिद्ध । जयध०

५. कुदो, माणसजलणवक्खधोवसामणापरिणदाणमिगिवीससत्तकम्मिओवसामयाण समऊण-दो-आवलियमेत्तकालसच्चिदाणमिहावलवणादो । एदेसि च दोण्ह रासीण सरिसत्त चट्ठमाणरामिं पहाण काट्ठूण भणिद, ओयरमाणरासिस्स विवक्खाभावादो । तमिह विवमिखये छसकामएहितो णवसकामयाणमद्दाविसेसेण विसेसाहियत्तदसणादो । जयध०

६. जइ वि एटे वि समऊणदोआवलियमेत्तकालसच्चिदा, तो वि सखेज्जगुणत्तमेदेसिं ण विरुज्जदे; इगिवीससत्तकम्मिओवसामएहितो चउत्रीससत्तकम्मिओवसामयाण सखेज्जगुणत्तदसणादो । जयध०

संक्रामया संखेज्जगुणा^१ । २४७. अट्ठण्हं संक्रामया विसेसाहिया^२ । २४८. अट्ठारसण्हं संक्रामया विसेसाहिया^३ । २४९. एगूणवीसाए संक्रामया विसेसाहिया^४ । २५०. चउण्हं संक्रामया संखेज्जगुणा^५ । २५१. सत्तण्हं संक्रामया विसेसाहिया^६ । २५२ वीसाए संक्रामया विसेसाहिया^७ ।

२५३. एकस्से संक्रामया संखेज्जगुणा^८ । २५४. दोण्हं संक्रामया विसेसाहिया^९ । २५५. दसण्हं संक्रामया विसेसाहिया^{१०} । २५६. एक्कारसण्हं संक्रामया विसे-

प्रकृतियोंके संक्रामकोंके बराबर है । छह प्रकृतियोंके संक्रामकोंसे चौदह प्रकृतियोंके संक्रामक संख्यातगुणित है । चौदह प्रकृतियोंके संक्रामकोंसे पाँच प्रकृतियोंके संक्रामक संख्यातगुणित है । पाँच प्रकृतियोंके संक्रामकोंसे आठ प्रकृतियोंके संक्रामक विशेष अधिक है । आठ प्रकृतियोंके संक्रामकोंसे अट्ठारह प्रकृतियोंके संक्रामक विशेष अधिक है । अट्ठारह प्रकृतियोंके संक्रामकोंसे उन्नीस प्रकृतियोंके संक्रामक विशेष अधिक है । उन्नीस प्रकृतियोंके संक्रामकोंसे चार प्रकृतियोंके संक्रामक संख्यातगुणित है । चार प्रकृतियोंके संक्रामकोंसे सात प्रकृतियोंके संक्रामक विशेष अधिक है । सात प्रकृतियोंके संक्रामकोंसे बीस प्रकृतियोंके संक्रामक विशेष अधिक है ॥ २४२-२५२ ॥

चूर्णिसू०—बीस प्रकृतियोंके संक्रामकोंसे एक प्रकृतिके संक्रामक संख्यातगुणित है । एक प्रकृतिके संक्रामकोंसे दो प्रकृतियोंके संक्रामक विशेष अधिक है । दो प्रकृतियोंके संक्राम-

१ कुदो, इगिवीस-चउवीससत्तकम्मिओवसामयाणमतोमुहुत्तसमऊणदोआवलियसच्चिदाणमिहोवलभादो । जयध०

२. कि कारण ? इगिवीससत्तकम्मियोवसामयस्स दुविहमायोवसामणकालादो दुविहमाणोवसामणद्वाए विसेसाहियत्तदसणादो, चउवीससत्तकम्मिओवसामगसमऊणदोआवलियसचयस्स उहयत्थ समाणत्तदसणादो च । जयध०

३. एत्थ वि कारण माणोवसामणद्वादो विसेसाहियकोहोवसामणद्वादो वि छण्णोकसाओवसामणकालस्स विसेसाहियत्त दट्ठव्व । जयध०

४. एत्थ वि कारणमित्थिवेदोवसामणाकालस्स छण्णोकसाओवसामणद्वादो विसेसाहियत्तमणुगतत्वं । जयध०

५. कुदो, सगतोभाविदच्चदुसंक्रामयखवयदुविहलोहसकामयचउवीससत्तकम्मिओवसामयरासिस्स पहाणत्तावलवणादो । तदो जइ वि पुत्तिरत्तसचयकालादो एत्थतणसचयकालो विसेसहीणो, तो वि चउवीससत्तकम्मियरासिमाहप्पादो सखेज्जगुणो त्ति सिद्ध । जयध०

६ चउवीससत्तकम्मिओवसामयदुविहलोहोवसामणकालादो विसेसाहियदुविहमायोवसामणकालसच्चिदत्तादो । जयध०

७ जइ वि दोण्हमेदेसि चउवीससत्तकम्मिया संक्रामया, तो वि सत्तसकामयकालादो वि वीससकामयकालस्स छण्णोकसाओवसामणद्वापडिवद्धस्सविसेसाहियत्तमस्सिऊण तत्तो एदेसि विसेसाहियत्तमविरुद्धं । जयध०

८. कुदो, मायासकामयखवयरासिस्स अतोमुहुत्तकालसच्चिदस्स विवक्खियत्तादो । जयध०

९. एकस्से सकमणकालादो दोण्ह संक्रमकालस्स विसेसाहियत्तोवलद्धीदो । जयध०

१०. माणसजलणखवणद्वादो विसेसाहियछण्णोकसायखवणद्वाए लद्धसचयत्तादो । जयध०

साहिया^१ । २५७. वारसणहं संक्रामया विसेसाहिया^२ । २५८. तिणहं संक्रामया संखे-
ज्जगुणा^३ । २५९. तेरसणहं संक्रामया संखेज्जगुणा^४ । २६०. वावीससंक्रामया संखे-
ज्जगुणा^५ । २६१. छव्वीसाए संक्रामया असंखेज्जगुणा^६ । २६२. एकवीसाए संक्रामया
असंखेज्जगुणा^७ । २६३. तेवीसाए संक्रामया असंखेज्जगुणा^८ । २६४. सत्तावीसाए संक्रा-
मया असंखेज्जगुणा^९ । २६५. पणुवीससंक्रामया अणंतगुणा^{१०} ।

तदो पयडिड्ढाणसंक्रमो समत्तो । एवं पयडिसंक्रमो समत्तो ॥

मकोसे द्वा प्रकृतियोंके संक्रामक विशेष अधिक हैं । दश प्रकृतियोंके संक्रामकोसे ग्यारह प्रकृ-
तियोंके संक्रामक विशेष अधिक है । ग्यारह प्रकृतियोंके संक्रामकोसे बारह प्रकृतियोंके
संक्रामक विशेष अधिक है । बारह प्रकृतियोंके संक्रामकोसे तीन प्रकृतियोंके संक्रामक संख्यात-
गुणित है । तीन प्रकृतियोंके संक्रामकोसे तेरह प्रकृतियोंके संक्रामक संख्यातगुणित है । तेरह
प्रकृतियोंके संक्रामकोसे वाईस प्रकृतियोंके संक्रामक संख्यातगुणित है । वाईस प्रकृतियोंके
संक्रामकोसे छव्वीस प्रकृतियोंके संक्रामक असंख्यातगुणित है । छव्वीस प्रकृतियोंके संक्रामकोसे
इक्कीस प्रकृतियोंके संक्रामक असंख्यातगुणित है । इक्कीस प्रकृतियोंके संक्रामकोसे तेईस
प्रकृतियोंके संक्रामक असंख्यातगुणित है । तेईस प्रकृतियोंके संक्रामकोसे सत्ताईस प्रकृतियोंके
संक्रामक असंख्यातगुणित है । सत्ताईस प्रकृतियोंके संक्रामकोसे पच्चीस प्रकृतियोंके संक्रामक
अनन्तगुणित हैं ॥ २५३-२६५ ॥

भुजाकार आदि शेष अनुयोगद्वाराका वर्णन सुगम होनेसे चूर्णिकारने नहीं किया है ।

इस प्रकार प्रकृतिस्थानसंक्रमकी समाप्तिके साथ प्रकृतिसंक्रम समाप्त हुआ ।

१. छणोक्रसायनखवणद्दासादिरेयइत्थिवेदकखवणद्दासचयस्स सगहादो । जयध०

२. तत्तो विसेसाहियणवुसयवेदकखवणद्दाए संकलिदसरुवत्तादो । जयध०

३. अस्सकण्णकरण-किट्ठीकरण-कोइकिट्ठीवेदगकालपडिवद्दाए तिण्ह सकामणद्दाए णवुसयवेद-
कखवणकालादो किचूणतिगुणमेत्ताए संकलिदसरुवत्तादो । जयध०

४. अट्ठरुसाएसु खविदेसु जावाणुपुव्वीसक्रमो णाढविजइ, ताव पुव्वित्ठकालादो सखेजगुण-
कालम्मि सचिदत्तादो । जयध०

५. ढसणमोहकखवगो मिच्छत्त खविय जाव सम्मामिच्छत्त ण खवेइ, ताव पुव्वित्ठकालादो सखेज-
गुणभूदम्मि कालेण एदेसिं, सचिदसरुवत्ताणमुवलभादो । जयध०

६. कुदो; सम्मत्तमुव्वेल्लिय सम्मामिच्छत्तमुव्वेल्लमाणस्स कालो पल्लिदोवमासखेजभागमेत्तो, तत्थ
सचिदजीवरासिस्स पल्लिदोवमस्स असखेजदिभागमेत्तस्स पढमसम्मत्तगहणपढमसमयवड्ढमाणजीवेहि सह
गहणादो । जयध०

७. कुदो, वेसागरोवमकालसचिदखइयसम्माइट्ठरासिस्स पहाणभावेण इहग्गहणादो । जयध०

८. छावट्ठसागरोवमकालवमतरसचिदत्तादो । जइ एव, सखेजगुणत्त पसजदे, कालगुणयारस्स
तहाभावोवलभादो त्ति ? ण एस दोसो, उवक्कमाणजीवपाहम्मेण असखेजगुणत्तसिद्धीदो । त जहा-खइय-
सम्माइट्ठणमेयसमयसचओ सखेजजीवमेत्तो । चउवीससतकम्मियाण पुण उक्कस्सेण पल्लिदोवमस्स असखेज-
दिभागमेत्ता एगसमए उवक्कमता लव्वमि, तम्हा एहितो एदेसिमसखेजगुणत्तमविरुद्धमिदि । जयध०

९ कुदो, अट्ठावीससतकम्मियसम्माइट्ठम्मि मिच्छाइट्ठणमिहग्गहणादो । जयध०

१०. किंचूणसञ्चजीवरासिस्स पणुवीससकामयत्तेण विवक्खियत्तादो ।

ठिदि-संक्रमाहियारो

१. ठिदिसंक्रमो^१ दुविहो- मूलपयडिठिदिसंक्रमो च, उत्तरपयडिठिदिसंक्रमो च । २. तत्थ अट्टपदं*—जा ट्ठिदी ओकड्डिज्जदि वा उकड्डिज्जदि वा अण्णपयडि संक्रामिज्जइ वा, सो ट्ठिदि-संक्रमो । सेसो ट्ठिदि-असंक्रमो^३ ।

स्थिति-संक्रमाधिकार

अत्र यतिवृषभाचार्य क्रम-प्राप्त स्थितिसंक्रमणका वर्णन करनेके लिए सूत्र कहते हैं—
चूर्णिसू०—स्थितिसंक्रम दो प्रकारका है—मूलप्रकृतिस्थितिसंक्रम और उत्तरप्रकृतिस्थिति-संक्रम । इन दोनों स्थितिसंक्रमोके स्पष्टीकरणके लिए यह अर्थपद है—जो स्थिति अपवर्तित की जाती है, या उद्वर्तित की जाती है, या अन्य प्रकृतिमें संक्रान्त की जाती है, उस स्थिति-को स्थितिसंक्रम कहते हैं । शेष स्थितिको स्थिति-असंक्रम कहते हैं ॥१'-२॥

विशेषार्थ—किसी प्रकारके विज्ञेय परिवर्तन या संक्रान्तिको संक्रम या संक्रमण कहते हैं । यह संक्रमण या परिवर्तन यदि कर्मोंकी प्रकृतियोंमें हो, तो उसे प्रकृतिसंक्रम कहते हैं । यदि कर्मोंकी स्थितिमें परिवर्तन हो, तो उसे स्थितिसंक्रम कहते हैं । इसी प्रकार अनुभागके परिवर्तनको अनुभागसंक्रम और कर्म-प्रदेशोंके परिवर्तनको प्रदेशसंक्रम जानना चाहिए । प्रकृतमें स्थितिसंक्रम विवक्षित है । कर्मोंकी स्थितिका संक्रमण अपवर्तनासे होता है, उद्वर्तनासे होता है और पर-प्रकृतिरूप परिणमनसे भी होता है । कर्म-परमाणुओंकी दीर्घकालिक स्थिति-को घटाकर अल्पकालिकरूपसे परिणत करनेको अपवर्तना कहते हैं । कर्मोंकी अल्पकालिक स्थितिके बढ़ानेको उद्वर्तना कहते हैं । संक्रमके योग्य किसी विवक्षित प्रकृतिकी स्थितिको समान

१ ठिइसंक्रमो त्ति दुच्चइ मूलुत्तरपगइतो उ जा हि ठिई ।

उच्चट्टिया व ओवट्टिया व पगइं णिया वऽण्णं ॥२८॥

चूर्णि :—जा ट्ठिदी उच्चइण-ओवट्टिण-अण्णपगतिसंक्रमणपाओग्गा सा उच्चट्टिया ठितिसंक्रमो उच्चति, ओवट्टिया वि ठितिसंक्रमो उच्चइ, अण्णपगतिं सकमिया वि ठितिसंक्रमो उच्चति । (कम्मप० सक०) तत्थ मूलपयडीए मोहणीयमणिणदाए जा ट्ठिदी, तिस्से संक्रमो मूलपयडिट्ठिसंक्रमो उच्चइ । एवमुत्तर-पयडिट्ठिसंक्रमो च वत्तव्वो । जयघ०

२ एत्थ मूलपयडिट्ठिदीए ओकड्डुक्कड्डुणवसेण संक्रमो । उत्तरपयडिट्ठिदीए पुण ओकड्डुक्कड्डुण-परपयडिसंक्रमोहि संक्रमो दद्वव्वो । एदेणोक्कड्डुणादओ जिस्से ट्ठिदीए णत्थि सा ट्ठिदी ट्ठिट्ठिसंक्रमो त्ति मण्णदे । जयघ०

३ ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'तत्थ अट्टपद' इतना ही सूत्र मुद्रित है; आगेके 'जा ट्ठिदी' आदि अक्षरोंकी टीकामें सम्मिलित कर दिया है, जब कि 'सेसो ट्ठिदि-असंक्रमो', तक वह सूत्र है, क्योंकि वहाँ तक ही अर्थपद बतलाया गया है । (देखो पृ० १०४१)

३. ओकड्डिता कथं णिकखेवदि ठिदिं ❀? ४. उदयावलय-चरिमसमय-अप्र-
विष्टा जा डिदी सा कथमोकड्डिज्जइ ? ५. तिस्से उदयादि जाव आवलयतिभागो
ताव णिकखेवो, आवलियाए वे-तिभागा अइच्छावणा । ६. उदए बहुअं पदेसग्गं
दिज्जइ, तेण परं विसेसहीणं जाव आवलयतिभागो त्ति । ७. तदो जा विदिया

जातीय अन्य प्रकृतिकी स्थितिमे परिवर्तित करनेको प्रकृत्यन्तर-परिणमन कहते हैं । ज्ञानावरणादि मूलकर्मोंके स्थिति-संक्रमणको मूलप्रकृति-स्थितिसंक्रम कहते हैं और उत्तरप्रकृतियोंके स्थिति-संक्रमणको उत्तरप्रकृति-स्थितिसंक्रम कहते हैं । इन दोनों प्रकारके स्थितिसंक्रमोंमे यह भेद है कि उत्तरप्रकृतियोंकी स्थितिका संक्रमण तो अपवर्तनादि तीनों प्रकारसे होता है । किन्तु मूल प्रकृतियोंकी स्थितिका संक्रमण केवल अपवर्तना और उद्वर्तनासे ही होता है । इसका अर्थ यह हुआ कि ज्ञानावरणकर्मकी स्थिति दर्शनावरणकर्मरूपसे परिणत नहीं हो सकती है । केवल उनकी स्थिति घट और बढ़ सकती है । मूल कर्मोंके समान मोहनीयके दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय इन दोनों भेदोंकी स्थितिका भी परस्परमे संक्रमण नहीं होता, तथा आयुकर्मकी चारो उत्तरप्रकृतियोंकी भी स्थितियोंका परस्परमे संक्रमण नहीं होता है । जिस स्थितिमे अपवर्तनादि तीनों ही न हों, उसे स्थिति-असंक्रम कहते हैं । उद्वर्तनाको उत्कर्षण और अपवर्तनाको अपकर्षण भी कहते हैं ।

शंका—विवक्षित स्थितियोंका अपकर्षण करके अधस्तन स्थितियोंमे उसे कैसे निक्षिप्त किया जाता है ? तथा उदयावलीके चरमसमय-अप्रविष्ट जो स्थिति है, अर्थात् वह स्थिति जो उदयावलीमे प्रविष्ट नहीं है और उदयावलीके बाहिर उपरितन प्रथम समयमे स्थित है, कैसे अपकर्षित की जाती है ? अर्थात् उस स्थितिका अपवर्तनारूप संक्रमण किस प्रकारसे होता है ? ॥३-४॥

समाधान—उदयावलीके बाहिर स्थित प्रथमस्थितिको अपकर्षित करके उदयावलीके प्रथम समयवर्ती उदयसे लेकर आवलीके त्रिभाग तक निक्षिप्त करता है, आवलीके उपरिम दो त्रिभागोंमे निक्षिप्त नहीं करता । अतएव उदयावलीका प्रथम त्रिभाग उस उदयावली-वाह्य-स्थित प्रथम स्थितिके निक्षेपका विषय है और आवलीके शेष दो त्रिभाग अतिस्थापनारूप है । अर्थात् उदयावलीके उपरितन प्रथम समयवाली स्थितिके प्रदेशोका अपकर्षण कर उन्हें उदयावलीके अन्तिस दो-त्रिभागोंको छोड़कर प्रथम त्रिभागमे स्थापित किया जाता है । प्रथम त्रिभागमें भी उदयरूप प्रथम समयमें बहुत प्रदेशाग्र दिया जाता है, उससे परवर्ती द्वितीय समयमें विशेष हीन प्रदेशाग्र दिया जाता है, उससे परवर्ती तृतीय समयमें और भी विशेष

❀ ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'ठिदि' पदको टीकामें सम्मिलित कर दिया है, जब कि टीकाके प्राग्गममे 'टिडिदि' पद दिया हुआ है । (देखो पृ० १०४१)

१ त जहा-तमोकड्डिय उदयादि जाव आवलयतिभागो तव णिकखेवदि, आवलय-वे-तिभाग-मेत्तमुवरिमभागो अइच्छावेइ । तदो आवलयतिभागो तिस्से णिकखेवविसओ, आवलय-वे-तिभागा च अइच्छावणा त्ति भण्णइ । जयध०

द्विदी तिस्से वि तत्तिगो चैव णिक्खेवो । अइच्छावणा समयुत्तरा^१ । ८. एवमइच्छा-
वणा समयुत्तरा, णिक्खेवो तत्तिगो चैव उदयावलियवाहिरादो आवलियतिभागंतिम-
द्विदि^२ त्ति । ९. तेण परं* णिक्खेवो वड्ढइ, अइच्छावणा आवलिया चैव ।

हीन प्रदेशाग्र दिया जाता है । इस प्रकार आवलीका त्रिभाग पूर्ण होने तक उत्तरोत्तर समयोमे विशेष हीन प्रदेशाग्र दिया जाता है । इससे उत्तर-समयवर्ती जो द्वितीय स्थिति है, उसका भी निक्षेप उतना ही है, अर्थात् उसके भी प्रदेशाग्र अपकर्षित होकर आवलीके त्रिभागवर्ती समयोमे उपर्युक्त क्रमसे दिये जाते हैं, अतः उसके निक्षेपका प्रमाण आवलीका त्रिभाग है । किन्तु अतिस्थापना एक समयसे अधिक आवलीके दो त्रिभाग-प्रमाण हो जाती है । इस प्रकार उत्तरोत्तर समयवाली स्थितियोंकी अतिस्थापना एक-एक समय अधिक होती जाती है और निक्षेप उतना ही रहता है । यह क्रम उदयावलीके बाहिरसे लेकर आवलीके त्रिभागके अन्तिम समयवाली स्थितिके अपकर्षण होनेके क्षण तक प्रारम्भ रहता है । इस प्रकार आवलीके त्रिभाग-के जितने समय होते हैं, तत्प्रमाण समयवाली स्थितियोंके प्रदेशाग्रोका अपकर्षण हो जानेपर उस अन्तिम स्थितिकी अतिस्थापनाका प्रमाण सम्पूर्ण आवली है । किन्तु निक्षेप जवन्य ही रहता है, अर्थात् उसका प्रमाण आवलीका त्रिभाग ही है । उस जवन्य निक्षेपसे परे समयो-त्तर वृद्धिके क्रमसे उत्कृष्ट निक्षेप प्राप्त होने तक निक्षेपका प्रमाण बढ़ता जाता है किन्तु अति-स्थापना आवली-प्रमाण ही रहती है ॥५-९॥

विशेषार्थ—कर्मोंकी स्थितिके घटानेको स्थिति-अपवर्तना कहते हैं । यह कर्मोंकी स्थिति कैसे घटाई जाती है, ऊपरसे अपकर्षित कर कहाँ निक्षिप्त की जाती है, कहाँ नहीं, और किस क्रमसे निक्षिप्त की जाती है, इत्यादि प्रश्नोंका उत्तर ऊपरकी शंकाका समाधान करते हुए चूर्णिकारने दिया है । ऊपरकी स्थितिके कर्म-प्रदेशोंका अपकर्षण कर नीचे जिस स्थलपर उन्हें निक्षिप्त किया जाता है, उसे निक्षेप कहते हैं और जिस स्थल को छोड़ दिया जाता है अर्थात् जहाँपर ऊपरकी स्थितिके प्रदेशोंको निक्षिप्त नहीं किया जाता, उसे अतिस्थापना कहते हैं । निक्षेप और अतिस्थापना ये दोनों जवन्य भी होते हैं और उत्कृष्ट भी होते हैं । दोनोंके मध्यवर्ती भेद असंख्यात होते हैं । प्रकृतमे दोनोंका स्पष्टीकरण जवन्य निक्षेप और जवन्य

१ तदो पुञ्चणिसद्धट्ठदीदो अणंतरा जा ट्ठदी उदयावलियवाहिरविदियट्ठदि त्ति उत्त होइ, तिस्से वि तत्तिओ चैव णिक्खेवो होइ, तस्य णाणत्ताभावादो । अइच्छावणा पुण समयुत्तरा होइ, उदयावलिय-वाहिरट्ठदीए वि एदिस्से अइच्छावणाभावेण पदेसद सणादो । जयध०

२ एदयावलियतिभागग्गहणेण समयूणावलियतिभागो समयुत्तरो घेत्तवो । तदतिमग्गहणेण च तद-णतत्तरिमट्ठदिविसेसो गहेयव्वो । तम्हा उदयावलियवाहिरादो जहण्णणिक्खेवमेत्तीओ ट्ठदीओ उह-विय ट्ठिदाए ट्ठिदीए सपुण्णावलियमेत्ती अइच्छावणा होइ त्ति सुत्तस्स भावरथो । जयध०

३ ताम्भपत्रवाली प्रतिमे 'पदणिक्खेवो' पाठ सुद्धित है । (देखो पृ० १०४२) पर प्रकरणके अनुसार वह अशुद्ध है । आगे भी इस प्रकारका प्रयोग (सूत्र न० ३७ मे) आया है, वहाँ यह 'तेण पर' पाठ सुद्धित है । (देखो पृ० १०४८)

अतिस्थापनामे क्रिया गया है। आवाधाकाल व्यतीत होनेके पश्चात् जिस क्षणमे विवक्षित कर्मके प्रदेश उदयमें आते है, उस समयसे लगाकर एक आवली तकके कालको उदयावली कहते है। इस उदयावलीके अन्तर्गत जितनी भी स्थितियाँ हैं, वे न घटाई जा सकती है, न बढ़ाई जा सकती है और न अन्य प्रकृतिरूपसे परिवर्तित ही की जा सकती है, इसीलिए उदयावलीको 'अपवर्तना, उद्धर्तना आदि सभी करणोके अयोग्य' कहा जाता है। उदयावलीके वाहिर अनन्तर समयवर्ती जो एक समयमात्र प्रथमस्थिति है उसके प्रदेश उदयावलीमे निक्षिप्त होते हैं। उदयावलीके असंख्यात समय होते है, उनको कहाँ निक्षिप्त करे, इसके लिए उदयावलीके समयोमेसे एक कम करके उसे तीनसे भाजित करना चाहिए। इन तीन भागोमेसे एक समय अधिक प्रथम त्रिभागमें उस विवक्षित स्थितिके प्रदेशोको निक्षिप्त किया जाता है, अतएव इस त्रिभागको निक्षेप कहा जाता है। अन्तिम दोनो त्रिभागोमे वे प्रदेश निक्षिप्त नहीं किये जाते, किन्तु उन्हें अतिक्रमण करके प्रथम त्रिभागमे स्थापित किया जाता है, इसलिए उन दोनो त्रिभागोको अतिस्थापना कहते है। इस प्रकार जवन्व्य निक्षेपका प्रमाण आवलीका एक समयसे अधिक एक त्रिभाग है और जवन्व्य अतिस्थापनाका प्रमाण आवलीके शेष दो त्रिभाग है। जव उदयावलीसे उपरितन द्वितीय समयवर्ती स्थिति अपवर्तित की जाती है, तब निक्षेपका प्रमाण एक समय अधिक हो जाता है। जव उदयावलीसे उपरितन तृतीय स्थितिका अपकर्षण किया जाता है, तब निक्षेपका प्रमाण तो वही रहता है, किन्तु अतिस्थापनाके प्रमाणमे एक समय और अधिक हो जाता है। इस प्रकार क्रमशः एक-एक समयवाली उत्तरोत्तर स्थितियोको तबतक अपवर्तित करते जाना चाहिए, जव तक कि एक-एक समय बढ़ते हुए अतिस्थापनाका प्रमाण पूरा एक आवलीप्रमाण न हो जाय। दूसरे शब्दोमे इसे इस प्रकारसे भी कह सकते है कि उदयावलीसे उपरितन-स्थित एक आवलीके त्रिभागप्रमाण स्थितियोके अपवर्तन करनेपर अतिस्थापनाका प्रमाण पूर्ण एक आवली हो जाता है। अतिस्थापनाके एक आवलीप्रमाण होने तक निक्षेपका वही पूर्वोक्त प्रमाण रहता है। इसके पश्चात् उपरितन स्थितियोके अपवर्तित करनेपर अतिस्थापनाका प्रमाण तो सर्वत्र एक आवली ही रहता है, किन्तु निक्षेपका प्रमाण प्रतिसमय बढ़ता जाता है। इस प्रकार एक-एक समयरूपसे बढ़ते हुए निक्षेपका प्रमाण कहाँ तक बढ़ता जाता है, इस प्रश्नका उत्तर यह है कि दो आवली और एक समयसे कम कर्मस्थितिके काल तक बढ़ता जाता है। कर्मस्थितिका काल सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपम है। उसमें दो आवली और एक समय कम करनेका कारण यह है कि बन्धावली जवतक न वीत जाय, तबतक तो कर्मस्थितिका अपवर्तन किया नहीं जा सकता। और जव सबसे ऊपरी अन्तिम स्थितिका अपवर्तन किया जाता है, तब आवली-प्रमाण जो अतिस्थापना है उसे छोड़कर उससे नीचेकी स्थितियोमे उसके द्रव्यको निक्षिप्त किया जायगा। अतः अतिस्थापनान्तर्गत स्थितियोका भी अपवर्तन नहीं होता है। तथा जिस सर्वोपरितन स्थितिका अपवर्तन किया जा रहा है, उसे भी छोड़ना पडता है। इस प्रकार बन्धावली, अतिस्थापनावली और सर्वोपरितनस्थितिका

१०. वाघादेण अइच्छावणा एका जेणावलिया अदिरित्ता होइ । ११. तं जहा । १२. ट्ठिदिघादं करंतेण खंडयमागाइदं । १३. तन्ध जं पढममए उक्कीग्दि पदेसग्गं तस्स पदेसग्गरस आवलियाए अइच्छावणा । १४. एवं जाव दुचरिमसमय-अणुक्किण्णखंडयं ति । १५. चरिमसमए जा खंडयस्स अग्गट्ठिदी तस्से अइच्छावणा खंडयं समयूणं । १६. एसा उकरिसया अइच्छावणा वाघादे ।

समय इन सबको मिलानेपर उत्कृष्ट निक्षेपका प्रमाण दो आवली और एक समयमें कम सत्तर-कोड़ाकोड़ी सागरोपम भिन्न होता है । जबन्य निक्षेपका प्रमाण एक नाम अधिक आवलीका त्रिभाग है । उत्कृष्ट अतिस्थापनाका प्रमाण एक आवली और जबन्य अतिस्थापनाका प्रमाण एक समय कम आवलीके दो त्रिभागमात्र जानना चाहिए । अपवर्त्यमान स्थितिके कर्म-प्रदेश निक्षेप-कालान्तर्गत स्थितियोंके किस क्रमसे निक्षिप्त किये जाते हैं, उसके लिए बताया गया है कि उद्यवाले समयमें सबसे अधिक कर्मप्रदेश दिये जाते हैं और उसमें परवर्ती समयमें उत्तरोत्तर विशेष हीनके क्रमसे अतिस्थापनावली प्राप्त होने तक दिये जाते हैं ।

निर्व्याघातकी अपेक्षा अपवर्तनाद्वारा स्थितिसंक्रम किन्तु प्रकारसे होता है, उन वातको बताकर अब चूर्णिकार व्याघातकी अपेक्षा स्थितिसंक्रमकी प्ररूपणा करते हैं—

चूर्णिसू०—व्याघातकी अपेक्षा एक प्रमाणवाली अतिस्थापना होती है, जिससे कि आवली अतिरिक्त है । वह इस प्रकारसे जानना चाहिए—स्थितिघातको करनेवालेके द्वारा जो स्थितिकांडक ग्रहण किया गया है, उसमें जो प्रदेशाग्र प्रथम समयमें उत्कीर्ण (अपवर्तित) किया जाता है, उस प्रदेशाग्रकी एक आवलीके प्रमाण अतिस्थापना होती है । जो प्रदेशाग्र द्वितीय समयमें उत्कीर्ण किया जाता है, उसकी अतिस्थापना भी एक आवली-प्रमाण होती है । इस प्रकार द्विचरम-समयवर्ती अनुत्कीर्ण स्थितिकांडक तक ले जाना चाहिए । चरम समयमें कांडककी जो अग्रस्थिति है, उसकी अतिस्थापना एक समय कम कांडक-प्रमाण होती है । यह उत्कृष्ट अतिस्थापना व्याघातके विषयमें जानना चाहिए ॥ १०-१६ ॥

विशेषार्थ—व्याघात नाम स्थितिघातका है । जब स्थितियोंका अपवर्तन स्थितिकांडकघातके रूपसे होता है, तब उत्कृष्ट अतिस्थापनाका प्रमाण सर्वोपरिम समयवर्ती स्थितिकी अपेक्षा एक समय कम स्थितिकांडकके प्रमाण होता है । इस स्थितिकांडकका भी प्रमाण अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरोपमसे हीन सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपम है । सर्वोपरिम समयके अतिरिक्त अन्य सब उत्कीर्ण (अपवर्तित) होनेवाली स्थितियोंकी अतिस्थापनाका प्रमाण एक आवली ही है ।

१ जेण ट्ठिदिघादं करंतेण ट्ठिदिकखंडयमागाइदं, तस्स वाघादेणुक्किसिया अइच्छावणा आवलिया-दिरित्ता होइ ति सुत्तत्थसवधो । जयघ०

२ कुदो; तम्मि समए ट्ठिदिखंडयं तन्धाविणीण सव्वासिमेव ट्ठिदीणं वाघादेण हेट्ठा घाददस-णादो । ××× कुदो समयूणत्त ? अग्गट्ठिदीए ओकट्ठिज्जमाणीए अइच्छावणावहिंभावदसणादो । जयघ०

१७. तदो सव्वत्थोवो जहण्णओ णिकखेवो^१ । १८. जहण्णिया अइच्छावणा दुसमयूणा दुगुणा^२ १९. णिव्वाघादेण^३ उक्कस्सिया अइच्छावणा विसेसाहिया^४ । २०. वाघादेण उक्कस्सिया अइच्छावणा असंखेज्जगुणा^५ । २१. उक्कस्सियं द्विदिखंडयं विसेसाहियं^६ । २२ उक्कस्सओ णिकखेवो विसेसाहियो^७ । २३. उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहियो ।

२४. जाओ वज्झंति द्विदीओ तासिं द्विदीणं पुव्वणिन्नद्विदिमहिकिच्च णिव्वाघादेण उक्कहुणाए अइच्छावणा आवलिया । २५. एदिरसे अइच्छावणाए आवलियाए असंखेज्जदिभागमादिं कादूण जाव उक्कस्सओ णिकखेवो त्ति णिरंतरं

अत्र चूर्णिकार जघन्य-उत्कृष्ट अतिस्थापना और निक्षेप आदिका प्रमाण अल्पवहुत्व-द्वारा वतलाते हैं—

चूर्णिसू०—वक्ष्यमाण पदोकी अपेक्षा जघन्य निक्षेप सबसे कम है । जघन्य निक्षेपसे जघन्य अतिस्थापना दो समय कम दुगुणी है । जघन्य अतिस्थापनासे निर्व्याघातकी अपेक्षा उत्कृष्ट अतिस्थापना विज्ञेय अधिक है । निर्व्याघातकी अपेक्षा उत्कृष्ट अतिस्थापनासे व्याघातकी अपेक्षा उत्कृष्ट अतिस्थापना असंख्यातगुणी है । व्याघातकी अपेक्षा उत्कृष्ट अतिस्थापनासे उत्कृष्ट स्थितिकांडक विज्ञेय अधिक है । उत्कृष्ट स्थितिकांडकमे उत्कृष्ट निक्षेप विज्ञेय अधिक है । उत्कृष्ट निक्षेपसे उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विज्ञेय अधिक है ॥ १७-२३ ॥

इस प्रकार अपवर्तनाकी अपेक्षा स्थितिसंक्रमकी प्ररूपणा करके अत्र उद्वर्तनाकी अपेक्षा स्थितिसंक्रमकी प्ररूपणा करते हैं—

चूर्णिसू०—जो स्थितियाँ बँधती है, उन स्थितियोंकी पूर्व निबद्ध स्थितिको लेकर निर्व्याघातकी अपेक्षा उद्वर्तना करनेपर अतिस्थापना आवलीप्रमाण होती है । इस अतिस्थापनाका जघन्य निक्षेप आवलीके असंख्यातवे भाग है । इस जघन्य निक्षेपस्थानको आदि करके एक-एक समयकी वृद्धि करने हुए उत्कृष्ट निक्षेप प्राप्त होने तक निरन्तर निक्षेपस्थान पाये जाते हैं ॥ २४-२५ ॥

१ कुटो, आवलियतिभागप्रमाणत्तादो । जयध०

२ जहण्णाइच्छावणा णाम आवलिय वे-तिभागा । तदो तत्तिभागादो वे-तिभागाण दुगुणत्त होउ णाम, विरोहाभावादो । कथ पुण दुसमयूणत्त ? उच्चदे ? आवलिया णाम कदजुम्मसखा । तदो तिभागं सुद्ध ण ह्वेदि त्ति स्वमवणिय तिभागो वेत्तव्वो, तत्थावणिरुवेण सह तिभागो जहण्णणिकखेवो, वे-तिभागा अइच्छावणा । एतेण कारणेण समयाहियतिभागे दुगुणिदे जहण्णाइच्छावणादो दुखुवाहियसुपपज्जइ, तम्हा दुसमयूणा त्ति सुत्ते वुत्त । जयध०

३ को णिव्वाघादो णाम ? ठिदिखंडयघादस्साभावो । जयध०

४ केत्तियमेत्तेण ? समयाहियदुभागमेत्तेण । जयध०

५ कुटो, अतोकोडाकोटीपरिहीणकम्मट्ठिदिपमाणत्तादो । जयध०

६ अग्गट्ठिदीए वि एत्थ पवेसदसणादो ।

७ कुटो, उक्कस्सट्ठिदिं वधिय ववावलयि वोलाविय अग्गट्ठिदिमोक्कड्डिज्जावलयिमेत्तमइच्छाविय उदयपज्जत णिकखवमाणस्स समयाहियदोआवलियणकम्मट्ठिदिमेत्तुक्कस्सणिकखेवसभवोचलभादो । जयध०

णिकखेवट्ठाणाणि । २६. उक्कस्सओ पुण णिकखेवो केत्तिओ ? २७ जत्तिया उक्कस्सिया कम्मट्ठिदी उक्कस्सियाए आवाहाए समयुत्तरावलियाए च ऊणा तत्तिओ उक्कस्सओ णिकखेवो^१ ।

२८. वाधादेण कथं ? २९. जइ संतकम्मादो वंधो समयुत्तरो तिस्से ट्ठिदीए णत्थि उक्कड्डुणा^२ । ३०. जइ संतकम्मादो वंधो दुसमयुत्तरो तिस्से वि संतकम्मअग्गट्ठिदीए णत्थि उक्कड्डुणा । ३१. एत्थ आवलियाए असंखेज्जदिभागो जहणिया अइच्छावणा^३ ।

शंका—उत्कृष्ट निक्षेपका प्रमाण कितना है ? ॥२६॥

समाधान—उत्कृष्ट आवाधा और एक समय अधिक आवलीसे हीन उत्कृष्ट कर्म-स्थितिका जितना प्रमाण होता है, उतना उत्कृष्ट निक्षेपका प्रमाण है ॥२७॥

विशेषार्थ—पूर्वमे वंधे हुए कर्मप्रदेगोकी नवीन बन्धके सम्बन्धसे स्थितिके बढ़ानेको उद्वर्तना या उत्कर्षणा कहते हैं । यह उद्वर्तना भी निर्व्याघात और व्याघातकी अपेक्षा दो प्रकारकी होती है । व्याघातसे होनेवाली उद्वर्तना आगे कही जायगी । यहाँपर निर्व्याघातकी अपेक्षा उद्वर्तनाका वर्णन किया जा रहा है, उसका स्पष्टीकरण यह है कि विवक्षित जिस किसी जीवके जिस समय जो स्थितियाँ बंध रही हैं, उनके ऊपर पूर्वमे बंधी हुई स्थितियोंकी उद्वर्तना होती है । उस उद्वर्त्यमान स्थितिकी आवली-प्रमाण जघन्य अतिस्थापना होती है और आवलीके असंख्यातवे भागप्रमाण जघन्य निक्षेप होता है । उत्कृष्ट अतिस्थापनाका प्रमाण उत्कृष्ट आवाधाकाल है । उत्कृष्ट निक्षेपका प्रमाण उत्कृष्ट आवाधा और एक समय अधिक आवलीसे कम उत्कृष्ट कर्मस्थिति है, उस आवाधाकालके अन्तर्गत जितनी स्थितियाँ हैं, उनके कर्मप्रदेगोकी उद्वर्तना नहीं की जा सकती, अतएव वे उद्वर्तनाके अयोग्य हैं । आवाधाकालसे परे जो स्थितियाँ हैं, वे उद्वर्तनाके योग्य होती हैं । आवाधाकालके वीतनेपर जब वे स्थितियाँ उदयको प्राप्त होती हैं, तो एक आवली तककी स्थितियोंकी जिसे कि उदयावली कहते हैं, उद्वर्तना नहीं की जा सकती । जघन्य निक्षेपसे लेकर उत्कृष्ट निक्षेप तकके जितने मध्यवर्ती भेद होते हैं, तत्प्रमाण ही निक्षेपस्थान होते हैं ।

शंका—व्याघातकी अपेक्षा उद्वर्तना कैसे होती है ? ॥२८॥

समाधान—यदि पूर्व-बद्ध सत्कर्मसे नवीन बन्ध एक समय अधिक है, तो उस स्थितिके ऊपर सत्कर्मकी अग्रस्थितिकी उद्वर्तना नहीं होगी । यदि पूर्वबद्ध सत्कर्मसे नवीन बन्ध दो समय अधिक है, तो उसके ऊपर भी सत्कर्मकी अग्रस्थितिकी उद्वर्तना नहीं होगी । जितनी

१ समयाहियवंधावलियं गालिय उदयावलयवाहिरिट्ठदिट्ठिदीए उक्कड्डिज्जमाणाए एसो उक्कस्सणिकखेवो परुविदो; परिघडमेव तिस्से समयाहियावलियाए उक्कस्सावाहाए च परिहीणुक्कस्सकम्मट्ठिदिमेत्तु-क्कस्सणिकखेवदसणादो । जयध०

२ कुदो, जहणाइच्छावणाणिकखेवाण तत्थासभवादो । जयध०

३ कुदो एव; एत्थ जहणाइच्छावणाए आवलियाए असंखेज्जदिभागमेत्तीए तासिं ट्ठिदीणमंतन्नावदसणादो । जयध०

३२. जदि जत्तिया जहणिया अइच्छावणा तत्तिएण अब्भहिओ संतकम्मादो वंधो तिस्से वि संतकम्मअग्गट्ठिदीए णत्थि उक्कट्ठणा^१ । ३३. अण्णो आवलियाए असंखेज्जदिभागो जहण्णओ णिकखेवो^२ । ३४. जइ जहणियाए अइच्छावणाए जहण्णएण च णिकखेवेषण एत्तियमेत्तेण संतकम्मादो अदिरत्तो वंधो सा संतकम्मअग्गट्ठिदी उक्कट्ठिज्जदि^३ । ३५. तदो समयुत्तरे वंधे णिकखेवो तत्तिओ चैव, अइच्छावणा वड्ढिदि^४ । ३६. एवं ताव अइच्छावणा वड्ढइ जाव अइच्छावणा आवलिया जादा त्ति^५ । ३७. तेण परं णिकखेवो वड्ढइ जाव उक्कस्सओ णिकखेवो त्ति^६ ।

३८. उक्कस्सओ णिकखेवो को होइ ? ३९. जो उक्कस्सियं ठिदिं वंधियुणा-

जघन्य अतिस्थापना है, उसमे भी अधिक यदि सत्कर्मसे बन्ध हो, तो उसके ऊपर भी सत्कर्मकी अग्रस्थितिकी उद्वर्तना नहीं होगी । जघन्य अतिस्थापनाके ऊपर आवलीके असंख्यातवे भागसे अधिक और भी बन्ध होनेपर जघन्य निक्षेप होता है । यदि जघन्य अतिस्थापना और जघन्य निक्षेप, इन दोनोंके प्रमाणसे अधिक सत्कर्मकी अपेक्षा नवीन बन्ध हो, तो वह सत्कर्मस्थिति उद्वर्तित की जाती है, अर्थात् सत्कर्मसे नवीन बन्धके उक्त प्रमाणसे अधिक होनेपर उद्वर्तना होगी । जघन्य स्थापना और जघन्य निक्षेपसे एक समय अधिक बन्ध होनेपर निक्षेपका प्रमाण तो उतना ही रहेगा । किन्तु अतिस्थापनाका प्रमाण बढ़ता है । इस प्रकार एक-एक समयकी वृद्धिसे अतिस्थापन तब तक बढ़ती है, जब तक कि अतिस्थापना पूरी एक आवली प्रमाण न हो जाय । अतिस्थापनाके एक आवली प्रमाण हो जाने पर उससे आगे निक्षेप ही बढ़ता है । यह समयोत्तर-वृद्धि उत्कृष्ट निक्षेप तक बराबर चालू रहती है ॥ २९-३७ ॥

शंका—उत्कृष्ट निक्षेपका प्रमाण कितना है ? ॥ ३८ ॥

समाधान—जो संज्ञी, पंचेन्द्रिय, पर्याप्तक जीव सर्वोत्कृष्ट संकलेशके द्वारा सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर-प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिको बँधकर और बन्धावलीको अतिक्रान्त कर उस

१ कुटो, एत्थ जहण्णाइच्छावणाए सर्तीए वित्तपडिवद्धजहण्णणिकखेवस्स अज्जवि सभवाणुवलभादो । ण च णिकखेवविसएण विणा उक्कट्ठणासभवो अत्थि, विप्पडिसेहादो । जयध०

२ जहण्णाइच्छावणाए उवरि पुणो वि आवलियाए असंखेज्जदिभागमेत्तवधवुड्ढीए जहण्णणिकखेवसभवो होइ त्ति भण्ड होइ । जयध०

३ कुटो, एत्थ जहण्णाइच्छावणाणिकखेवाणमविकलसरुवेणोवलभादो । जयध०

४ कुटो एव, सच्चत्थ णिकखेववुड्ढीए अइच्छावणावड्ढीपुरस्सरत्तदसणादो । जयध०

५ सा जहण्णाइच्छावणा समयुत्तरकमेण वधवुड्ढीए वड्ढमाणिया ताव वट्ढइ जाव उक्कस्सियाइच्छावणा आवलिया सपुण्णा जादा त्ति मुत्तत्थसवधो । एत्तो उवरि वि अइच्छावणा किण्ण वड्ढाविज्जदे ण, पत्तपयग्गिमपज्जताए पुण वट्ठिविरोहादो । जयध०

६ एत्थ ताव पुव्वणिरुद्धसत्तकम्मअग्गट्ठिदीए उक्कस्सणिकखेववुड्ढी समयुत्तरकमेण अइच्छावणावलियासियहेट्ठिमअतोकोडाकोडीपरिहीणकम्मट्ठिदिमेत्ता होइ । णवरि वधावलियाए सह अतोकोडाकोडी ऊणियव्वा । एमा च आवेमुक्कस्सिया । एत्तो हेट्ठिमाण सत्तकम्मदुत्तरिमादिट्ठिदीण समयाहियकमेण पच्छाणुपुन्वीए णिकखेववुड्ढी वत्तवा जाव ओवुक्कस्सणिकखेव पत्ता त्ति । जयध०

वलयमदिकंतो तमुक्कस्सियट्ठिदियोवड्डियूण उदयावलयवाहिराए विदियाए ठिदीए णिक्खिवदि । दुणसे काले उदयावलयवाहिरे अणंतरट्ठिदिं पावेहिदि त्ति तं पदेसग्ग-मुक्कड्डियूण समयाहियाए आवलियाए ऊणियाए अग्गट्ठिदीए णिक्खिवदि । एस उक्कस्सओ णिक्खेवो । ४०. एवमोक्कड्डुक्कड्डुणाणमड्डुपदं समत्तं ।

४१. एत्ता अट्ठाच्छेदो । जहा उक्कस्सियाए ट्ठिदीए उदीरणा तथा उक्कस्सओ ट्ठिदिसंक्रमो ।

उत्कृष्ट स्थितिको अपवर्तित कर उदयावलीके वाहिर स्थित द्वितीय स्थितिमे निक्षिप्त करता है । पुनः वह तदनन्तर कालमे (प्रथम स्थितिको उदयावलीके भीतर प्रविष्ट करके उस द्वितीय स्थितिको) उदयावलीके वाहिर अनन्तरस्थिति अर्थान् प्रथम स्थितिके रूपसे प्राप्त करनेवाला था कि परिणामोके वजसे उद्वर्तनाको प्राप्त होकर उस पूर्व अवर्तित प्रदेशात्रको उद्वर्तित करके एक समय अधिक आवलीसे हीन अत्र स्थितिमे निक्षिप्त करता है । यह उत्कृष्ट निक्षेप है । इस प्रकार समयाधिक आवलीसे अधिक आवाधाकालसे परिहीन उत्कृष्ट कर्मस्थितिका जितना प्रमाण है उतना उत्कृष्ट निक्षेपका प्रमाण जानना चाहिए ॥३९॥

चूर्णिसू०—इस प्रकार अपवर्तना और उद्वर्तनाका अर्थपद समाप्त हुआ ॥४०॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे स्थितिसंक्रम-सम्बन्धी अट्ठाच्छेद कहना चाहिए । वह जिस प्रकारसे उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणामे कहा गया है, उसी प्रकार निरवशेष रूपसे यहाँ उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमणमे भी जानना चाहिए । अर्थात् उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमणकी अट्ठाच्छेद-प्ररूपणा उत्कृष्ट स्थिति-उदीरणामे अट्ठाच्छेदके समान है ॥४१॥

१ जो सण्णिवच्चिदियपज्जत्तो सागार-जागार उव्वसक्खिलेसेहि उक्कस्सदाहं गदो उक्कस्सट्ठिदि सत्तरि-सागारोवमकोटाकोडिपमाणावच्छिण्ण वंधियूण वधावलयमदिकंतो तमुक्कस्सिय ट्ठिदिमोक्कड्डियूणुदयावलय-वाहिरपटमट्ठिदिणिसेयानो विसेसहीण विदियाट्ठिदीए णिसिंचिय तदणतरसमए अणतरवदिक्कंतसमयपदम-ट्ठिदिमुदयावलयमभतर पवेसिय विदियाट्ठिदि च पदमट्ठिदित्तेण परिट्ठविय से काले त च णिरुद्धट्ठिदि-उदयावलयगम पावेहिदि त्ति ट्ठिदो । तम्मि चैव समए तदणतरसमयोक्कड्डिदण्ठेत्तग्गमुक्कड्डुणावसेण त्कालि-यणवक्कवपडिवउक्कस्सट्ठिदीए णिक्खिवमाणो पच्चग्गवधपरमाणुणमभावेणुक्कस्सावाहमेत्तमइच्छाविय तमावा-हावाहिरपटमणिसेयट्ठिदिमादि कादूण ताव णिक्खिवदि जाव समयाहियावलिया परिहीणा उक्कस्सकम्म-ट्ठिदिमेत्त जायदि त्ति सुत्तथसमासो । जयव०

२ अप्पणासुत्तमेदमुक्कस्सट्ठिदिउदीरणापसिद्धस्स धम्मस्स मूलुत्तरपयडिभेयभिण्णट्ठिदिसंक्रमुक्कस्स-डाच्छेदे समपणादो । जयव०

बंधाओ उक्कस्सो जासि गंतूण आलिंगं परओ ।

उक्कस्स सामिओ संक्रमेण जासि दुगं तासि ॥३८॥

चूर्णि :—जासि पगडीण ववुक्कस्सो टितिसक्कमो तासि उक्कस्सट्ठिदिवग्गा एव णेरइय-तिरिय-मणुय-देवा वधावलियाए परतो उक्कोम सक्कमति । 'सक्कमेण जासि दुगं तासि' ति, सक्कमेण उक्कोसट्ठिति-सक्कमो जासि पगडीण तासि दुआवलय गंतूण ते चैव णारगादी सामिओ । जहासभव 'दुगं' ति बंधाव-लय-सक्कमावलयविदूणो टितिसंक्रमो । सम्मत्त-सम्भामिच्छत्ताण उक्कस्सनामी भण्णति—

४२. एत्तो जहण्णयं वत्तइस्सामो । ४३. मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्त-वारस-
कसाय-इत्थि-णवुंसयवेदाणं जहण्णट्ठिदिसंक्रमो पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो^१ । ४४.
सम्मत्त-लोहसंजलणाणं जहण्णट्ठिदिसंक्रमो एया ट्ठिदी^२ । ४५. कोहसंजलणरस जहण्ण-
ट्ठिदिसंक्रमो वे मासा अंतोमुहुत्तूणा^३ । ४६. भाणसंजलणस्स जहण्णट्ठिदिसंक्रमो मासो
अंतोमुहुत्तूणो । ४७. मायासंजलणस्स जहण्णट्ठिदिसंक्रमो अट्ठमासो अंतोमुहुत्तूणो^४ ।
४८. पुरिसवेदस्स जहण्णट्ठिदिसंक्रमो अट्ठ वस्साणि अंतोमुहुत्तूणाणि । ४९. छण्णोक-
सायाणं जहण्णट्ठिदिसंक्रमो संखेज्जाणि वस्साणि^५ । ५०. गदीसु अणुमग्गियव्वो ।

५१. सामित्तं । ५२ उक्कस्सट्ठिदिसंक्रामयस्स सामित्तं जहा उक्कस्सियाए
ट्ठिदीए उदीरणा तथा णेइच्चं ।

चूर्णिसू०-अत्र इससे आगे जघन्य अट्टाच्छेदको कहेंगे । गिथ्यात्व, सम्यग्गिथ्यात्व,
वारह कपाय, लीवेद और नपुंसकवेद, इन कर्मोंके जघन्य स्थितिके संक्रमणका काल
पल्ल्यापमका असंख्यातव्रों भाग है । सम्यक्त्वप्रकृति और संज्वलनलोभकी जघन्य स्थितिके
संक्रमणका काल एक स्थिति है । संज्वलनक्रोवके जघन्य-स्थिति-संक्रमणका काल अन्तर्मुहूर्त
कम दो मास है । संज्वलनमानके जघन्य-स्थिति-संक्रमणका काल अन्तर्मुहूर्त कम एक मास
है । संज्वलनमायाके जघन्य-स्थिति-संक्रमणका काल अन्तर्मुहूर्त कम अर्ध मास है । पुरुषवेदके
जघन्य स्थिति-संक्रमणका काल अन्तर्मुहूर्त कम आठ वर्ष है । हास्यादि छह नोकपायोके जघन्य-
स्थितिसंक्रमणका काल संख्यात वर्ष है । इसी प्रकारसे गतियोंसे भी जघन्य संक्रमणके कालका
अन्वेषण करना चाहिए ॥४२-५०॥

चूर्णिसू०-अत्र स्थितिसंक्रमके स्वामित्वको कहते हैं-उत्कृष्ट स्थिति-संक्रामकका स्वा-
मित्व जिस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणामे कहा है, उस प्रकार जानना चाहिए ॥५१-५२॥

तस्संतकम्मिगो वंधिऊण उक्कस्सियं मुहुत्तंता ।

सम्मत्त-मीरणाणं आवलिगा सुद्धट्ठिदीओ ॥३९॥

चूर्णिः :- 'तस्सकम्मिगो' इति, सम्मत्त सम्मामिच्छत्तसत्तकम्मिगो मिच्छादिट्ठी 'व धिऊण उक्क-
स्सियं' ति मिच्छत्तस्म उक्कस्स ट्ठिति वधिऊण 'मुहुत्तंता' इति, अतोमुहुत्ता परिवड्ढिदूण सम्मत्त पडिवण्णस्स
अतोमुहुत्तूणा मिच्छत्तट्ठिदी सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तेसु सकमते । ततो आवलियं गत्तूण सम्मादिट्ठी ओवट्ठ-
णाए सम्मत्त मकामेति, सम्मामिच्छत्त सम्मत्ते सकामेति ओवट्ठेति वि । 'सुद्धदिट्ठि' त्ति सम्मादिट्ठी ।
कम्मप० सक०

१ कुदो; मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्ताण दसणमोहक्खवणाचरिमफालीए अणताणुवधीण विसजोयणा-
चरिमफालिसकमे अट्ठकमायाण च खवयस्स तेषि चैव पच्छिमट्ठिदिलखडयचरिमफालीसकमकाले इत्थि-
णवुंसयवेदाण पि चरिमट्ठिदिलखडयम्म सुत्तुत्तपमाणजहण्णट्ठिदिसकमसभवोवल्लिदी । जयध०

२ सम्मत्तस्स दसणमोहक्खवणाए समयाहियावलियमेत्तसेसे लोहसजलणस्म वि सुहुमसापराइयस्स-
वणट्ठाए समयाहियावलियाए सेसाए ओकडुणासंक्रमवसेण पयदट्ठाहेदसभवो वत्तव्वो । जयध०

३ खवयस्स चरिमट्ठिदिव वचरिमफालिसकमणावत्थाए तडुवलभादो । कुदो अतोमुहुत्तूणत्त १ ण,
आवाहावाहिरस्सेव णवकवधस्स तस्य सकतीए तदूणत्ताविरोहादो । जयध०

४ कुदो, तेषि चरिमट्ठिदिलखडयायामस्स तप्पमाणत्तादो । जयध०

५३. जहणयमेयजीवेण सामित्तं कायव्वं । ५४. मिच्छत्तस्स जहणणओ ढ्ढिसं-
कमो कस्स ? ५५. मिच्छत्तं खवेमाणयस्स अपच्छिमढ्ढिदिखंडयचरिमसमयसंक्रामयस्स तस्स
जहणणयं । ५६. सम्मत्तस्स जहणणढ्ढिसंक्रमो कस्स ? ५७. समयाहियावलियअक्खीण-
दंसणमोहणीयस्स । ५८. सम्मामिच्छत्तस्स जहणणढ्ढिसंक्रमो कस्स ? ५९. अपच्छिम-
ढ्ढिदिखंडय-चरिमसमयसंछुहमाणयस्स तस्स जहणणयं । ६०. अणंताणुवंधीणं जहणण-
ढ्ढिसंक्रमो कस्स ? ६१. विसंजोएंतस्स तेसिं चेव अपच्छिमढ्ढिदिखंडय-चरिमसमय-
संक्रामयस्स । ६२. अट्टुण्हं कसायाणं जहणणढ्ढिसंक्रमो कस्स ? ६३. खवयस्स तेसिं

अव एक जीवकी अपेक्षा जघन्य स्थितिसंक्रमका स्वामित्व वर्णन करना चाहिए ॥५३॥

शंका—मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिसंक्रम किसके होता है ? ॥५४॥

समाधान—मिथ्यात्वको क्षपण करनेवाले जीवके अन्तिम स्थितिकांडकके अन्तिम समयवर्ती द्रव्यके संक्रमण करनेपर उसके मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिसंक्रम होता है ॥५५॥

शंका—सम्यक्त्वप्रकृतिका जघन्य स्थितिसंक्रम किसके होता है ? ॥५६॥

समाधान—एक समय अधिक आवलीकाल जिसके दर्शनमोहनीयकर्मके क्षय होनेमे अवशिष्ट रहा है, ऐसे जीवके सम्यक्त्वप्रकृतिका जघन्य स्थितिसंक्रम होता है ॥५७॥

शंका—सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिसंक्रम किसके होता है ? ॥५८॥

समाधान—सम्यग्मिथ्यात्वके अन्तिम स्थितिकांडकको चरम समयमे संक्रमण करने-
वाले जीवके सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिसंक्रमण होता है ॥५९॥

शंका—अनन्तानुवन्धी कपायोका जघन्य स्थितिसंक्रमण किसके होता है ? ॥६०॥

समाधान—अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना करनेवाले जीवके उन्ही कपायोके अन्तिम
स्थितिकांडकके चरम समयमे संक्रमण करनेपर अनन्तानुवन्धी कपायोका जघन्य स्थितिसंक्रमण
होता है ॥६१॥

शंका—अप्रत्याख्यानावरणादि आठ मध्यम कपायोका जघन्य स्थितिसंक्रमण किसके
होता है ? ॥६२॥

१ समयाहिगालिगाए सेसाए वेयगस्स कयकरणो ।

सक्खवग-चरमखंडगसंछुभणे ढ्ढिमोहाणं ॥४१॥

चूर्णिः—दसणमोहखवगस्स मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्ते खवेत्तु सम्मत्तं सव्वोवट्टणाए ओवट्टेत्तूण
वेदेमाणस्स चतुगतिगस्स अण्णयरस्स समयाहियावलियाए सेसाए पवट्टमाणस्स जहणणो ढ्ढितिसकमो । तत्तो
पर खाइयसभदिट्ठी होस्सति । 'कयकरणो'त्ति खवणकरणे वट्टमाणो चेव । वेदगसम्मत्तस्स उत्त । मिच्छत्त-
सम्मामिच्छत्ताण भण्णइ—'सखवगचरिमखडगसंछुभणा दिट्ठिमोहाणं'ति, मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्ताण अप्पणो
खवणचरिमखडगे वट्टमाणो मणुओ अविरतसम्मादिट्ठी देसविरतो वा विरतो वा जहणणढ्ढिसकामगो
लभति । कम्मप० सक०

२ पढमकसायाण विसंजोयणसंछोभणाए उ ॥४२॥

चूर्णिः—'पढमकसाया' इति अणताणुवंधी, विसंजोयण विणासण । अणताणुवंधीण अप्पणो
खवणयाले चरिमसकामगे वट्टमाणो अण्णदरो चतुगतिगो सम्मदिट्ठी सामी । कम्म० स०

चेव अपच्छिमट्टिदिखंडयं चरिमसमयसंलुहमाणयस्स जहण्णयं ।

६४. कोहसंजलणरस जहण्णट्टिदिसंक्रमो कस्स ? ६५. खवयस्स कोहसंजलणरस अपच्छिमट्टिदिवंधचरिमसमयसंलुहमाणयस्स तस्स जहण्णयं । ६६. एवं माणमायासंजलण-पुरिसवेदानं । ६७. *लोभसंजलणरस जहण्णट्टिदिसंक्रमो कस्स ? ६८. आवलियसमयाहियसकमायस्स खवयस्स । ६९. इत्थिवेदस्स जहण्णट्टिदिसंक्रमो कस्स ? ७०. इत्थिवेदोदयकखवयस्स तस्स अपच्छिमट्टिदिखंडयं संलुहमाणयस्स तरस जहण्णयं । ७१. णवुंसयवेदस्स जहण्णट्टिदिसंक्रमो कस्स ? ७२. णवुंसयवेदोदयकखवयस्स तस्स

समाधान—इन्हीं आठ मध्यम कपायोंके अन्तिम स्थितिकांडकको चरम समयमें संक्रमण करनेवाले क्षपकके उक्त आठो कपायोंका जघन्य स्थितिसंक्रमण होता है ॥६३॥

शंका—संज्वलनक्रोधका जघन्य स्थितिसंक्रमण किसके होता है ? ॥६४॥

समाधान—संज्वलनक्रोधके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके संज्वलनक्रोधके अन्तिम स्थितिबद्ध द्रव्यको चरम समयमें संक्रमण करनेवाले क्षपकके संज्वलनक्रोधका जघन्य स्थितिसंक्रमण होता है ॥६५॥

चूणिं०—इसी प्रकार संज्वलनमान, माया और पुरुषवेदके जघन्य स्थितिसंक्रमणका स्वामित्व जानना चाहिए ॥६६॥

शंका—संज्वलनलोभका स्थितिसंक्रमण किसके होता है ? ॥६७॥

समाधान—एक समय अधिक आवलीकालवाले सकपाय अर्थात् दशम गुणस्थानवर्ती क्षपक जीवके संज्वलनलोभका जघन्य स्थितिसंक्रमण होता है ॥६८॥

शंका—स्त्रीवेदका जघन्य स्थितिसंक्रमण किसके होता है ? ॥६९॥

समाधान—स्त्रीवेदके उदयसे श्रेणी चढ़नेवाले क्षपकके जब स्त्रीवेदके अन्तिम स्थितिकांडकका संक्रमण होता है, तब उसके स्त्रीवेदका जघन्य स्थितिसंक्रमण होता है ॥७०॥

शंका—नपुंसकवेदका जघन्य स्थितिसंक्रमण किसके होता है ? ॥७१॥

समाधान—नपुंसकवेदके उदयके साथ श्रेणी चढ़नेवाले क्षपकके जब नपुंसकवेदके अन्तिम स्थितिकांडकका संक्रमण होता है, तब उस जीवके नपुंसकवेदका जघन्य स्थितिसंक्रमण होता है ॥७२॥

१ सोदण्णेव चट्ठिदस्स खवयस्स कोववेदगद्धाचरिमसमयणवक्कधमावलियादीद सकामेमाणयस्स समयूणावलियमेत्तफालीओ गालिय चरिमफालि सकामणे वावदस्स कोहसजलणस्स जहण्णओ ट्ठिदिसकमो होइ त्ति । जयध०

२ समउत्तरालियाए लोभे सेसाइ सुहुमरागस्स ।

चूर्णिः—सुहुमए रागे समयाधियावलियसेसे वट्टमाणो लोभस्स जहण्णिय ट्ठिति सकामेति ।

कम्मप० स० गा० ४२

∴ ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'लोभ' पदके स्थानपर 'तेणेह' पाठ मुद्रित है, (देखो पृ० १०६३) । पता नहीं, इस पदको किस आधारपर दिया गया है ? प्रकरणके अनुसार 'लोभ' पद होना आवश्यक है ।

अपच्छिमट्टिदिखंडयं संछुहमाणयस्स तस्स जहण्णयं । ७३. छण्णोकसायाणं जहण्णट्टिदि-
संक्रमो कस्स ? ७४. खवयस्स तेसिमपच्छिमट्टिदिखंडयं संछुहमाणयस्स तस्स जहण्णयं ।

७५. एयजीवेण कालो । ७६. जहा उक्कस्सिया ट्टिदि-उदीरणा, तथा उक्कस्सओ
ट्टिदिसंक्रमो । ७७. एत्तो जहण्णट्टिदिसंक्रमकालो । ७८. अट्टावीसाए पयडीणं जहण्ण-
ट्टिदिसंक्रमकालो केवचिरं कालादो होदि ? ७९. जहण्णुकस्सेण एयसमथो । ८०.
णवरि इत्थि-णवुंसयवेद छण्णोकसायाणं जहण्णट्टिदिसंक्रमकालो केवचिरं कालादो होदि ?
८१. जहण्णुकस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

८२. एत्तो अंतरं । ८३. उक्कस्सयट्टिदिसंक्रामयंतरं जहा उक्कस्सट्टिदिउदीरणाए
अंतरं तथा कायव्वं । ८४. एत्तो जहण्णयमंतरं । ८५. सव्वासिं पयडीणं णत्थि अंतरं ।
८६. णवरि अणंताणुवंधीणं जहण्णट्टिदिसंक्रामयंतरं जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । ८७. उक्कस्सेण
उवड्डुपोग्गलपरियट्टं ।

शंका—हास्यादि छह नोकपायोका जघन्य स्थितिसंक्रमण किसके होता है ? ॥७३॥

समाधान—हास्यादि छह नोकपायोके अन्तिम स्थितिकांडकको संक्रमण करनेवाले
क्षपकके छह नोकपायोका जघन्य स्थितिसंक्रमण होता है ॥७४॥

चूणिसू०—अब एक जीवकी अपेक्षा स्थितिसंक्रमणकालका निरूपण किया जाता है ।
(स्थितिसंक्रमणकाल जघन्य और उत्कृष्टके भेदसे दो प्रकारका है ।) उनमेंसे जिस प्रकार
उत्कृष्ट स्थिति उदीरणाके कालका निरूपण किया गया है, उसी प्रकार उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमणके
कालकी प्ररूपणा जानना चाहिए । अब इससे आगे जघन्य स्थितिसंक्रमणकालका निरूपण
करते हैं ॥७५-७७॥

शंका—अट्टाईस प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिसंक्रमणका कितना काल है ? ॥७८॥

समाधान—सभी प्रकृतियोंके संक्रमणका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है ।
विशेषता केवल यह है कि स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और हास्यादि छह नोकपाय इन आठ प्रकृ-
तियोंके जघन्य स्थितिसंक्रमणका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त
है ॥७९-८१॥

चूणिसू०—अब इससे आगे एक जीवकी अपेक्षा स्थितिसंक्रमणका अन्तर कहते हैं ।
(वह स्थितिसंक्रमण-अन्तर जघन्य और उत्कृष्टके भेदसे दो प्रकारका है ।) उनमेंसे जिस
प्रकार उत्कृष्ट स्थिति-उदीरणाके अन्तरका निरूपण किया गया है, उसी प्रकार उत्कृष्ट स्थिति-
संक्रमणके अन्तरका निरूपण करना चाहिए । अब इससे आगे जघन्य स्थितिसंक्रमणका अन्तर
कहते हैं । मोहनीय कर्मकी सर्व प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिसंक्रमणका अन्तर नहीं होता है ।
केवल अनन्तानुबन्धी चारो कपायोकी जघन्य स्थितिके संक्रमणका जघन्य अन्तरकाल अन्त-

१ कुदो ? खवयचरिमफालीए चरिमट्टिदिखंडए समयाहियावलियाए च लद्धजहण्णसामित्ताणमतर-
सवधस्स अचत्ताभावेण णिसिद्धत्तादो । जयव०

२ विसजोयणाचरिमफालीए लद्धजहण्णभावस्साणताणुवधिचउक्कस्स ट्टिदिसंक्रमस्स सव्वजहण्ण-

८८. णाणाजीवेहि भंगविचओ दुविहो उक्कस्सपदभंगविचओ च जहणपद-भंगविचओ च । ८९. तेसिमह्वपदं काऊण उक्कस्सओ जहा उक्कस्सट्ठिदिउणीरणा तहा कायव्वा । ९०. एत्तो जहणपदभंगविचओ । ९१. सव्वासिं पयडीणं जहणाट्ठिदि-संक्रामयस्स सिया सव्वे जीवा असंक्रामया, सिया असंक्रामया च संक्रामओ च, सिया असंक्रामया च संक्रामया च । ९२. सेसं विहत्ति-भंगो ।

९३. णाणाजीवेहि कालो । ९४. सव्वासिं पयडीणमुक्कस्सट्ठिदिसंक्रमो केवचिरं कालादो होदि ? ९५. जहणेण एयसमओ । ९६. उक्कस्सेण पलिदोवमरसं असंखेज्जदि-

मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्धपुद्गलपरिवर्तन है ॥८२-८७॥

चूर्णिसू०—नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय दो प्रकार है—उत्कृष्टपद-भंगविचय और जघन्यपद-भंगविचय । उनका अर्थपद करके जिस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति-उदीरणाकी प्ररूपणा की गई है, उसी प्रकारसे उत्कृष्टपद-भंगविचयकी प्ररूपणा करना चाहिए ॥८८-८९॥

विशेषार्थ—वह अर्थपद इस प्रकार है—जो जीव उत्कृष्ट स्थितिके संक्रामक होते हैं, वे जीव अनुत्कृष्ट स्थितिके असंक्रामक होते हैं । और जो जीव अनुत्कृष्ट स्थितिके संक्रामक होते हैं, वे उत्कृष्ट स्थितिके असंक्रामक होते हैं ।

चूर्णिसू०—अब इससे आगे जघन्यपद-भंगविचयकी प्ररूपणा की जाती है—मोहनीय कर्मकी सभी प्रकृतियोंकी जघन्य स्थिति-संक्रमणके कदाचित् सर्व जीव असंक्रामक होते हैं, कदाचित् अनेक असंक्रामक और कोई एक संक्रामक होता है, कदाचित् अनेक जीव असंक्रामक और अनेक जीव संक्रामक होते हैं ॥९०-९१॥

चूर्णिसू०—स्थिति-संक्रमणके शेष भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र और स्पर्शन अनुयोग-द्वारोंकी प्ररूपणा स्थितिविभक्तिके समान जानना चाहिए ॥९२॥

चूर्णिसू०—अब नाना जीवोंकी अपेक्षा स्थितिसंक्रमणके कालका निरूपण करते हैं ॥९३॥

शंका—सर्व प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमणका कितना काल है ? ॥९४॥

समाधान—सर्व प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमणका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल पल्योपमके असंख्यातवे भाग-प्रमाण है । विशेषता केवल यह है कि सम्यक्त्व-

विसजुत्त सजुत्तकालेहि अतरिय पुणो वि विसजोयणाए कादुमाढत्ताए चरिमफालिविसए लद्धमतोमुहुत्त होइ । जयध०

१ तथुक्कस्सपदभंगविचओ णाम उक्कस्सट्ठिदि-संक्रामयाण पवाहवोच्छेदसमवासभवपरिक्खा । तहा जहणो वि वत्तव्वो । जयध०

२ एगसमयमुक्कस्सट्ठिदिं सकामेदूण विदियसमए अणुक्कस्सट्ठिदिं सकामेमाणएसु णाणाजीवेषु तदु-वलभादो । जयध०

३ एत्थ मिच्छत्त-सोलसकसाय-भय-दुगुञ्ज-णउसयवेद-अरइ-सोगाणमुक्कस्सट्ठिदिविधगद्व ठविय आव-लियाए असखेजभागमेत्ततदुवक्कमणवारसलागाहि गुणिदे उक्कस्सकालो होइ । हस्स रइ-इरिय-पुरिसवेदाण-मावलिय ठविय तदसखेज्जभागोण गुणिदे पयदुक्कस्सकालसमुप्पत्ती वत्तव्वा । जयध०

भागो । ९७. णवरि सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमुक्कस्सट्ठिदिसंक्रमो केवचिरं कालादो होदि ? ९८. जहण्णेण एयसमओ । ९९. उक्कस्सेण आवलियाए असंखेज्जदिभागो^१ ।

१००. एत्तो जहण्णयं । १०१. सव्वासिं पयडीणं जहण्णट्ठिदिसंक्रमो केवचिरं कालादो होदि ? १०२. जहण्णेणयसमओ । १०३. उक्कस्सेण संखेज्जा समया^२ । १०४. णवरि अणंताणुवंधीणं जहण्णट्ठिदिसंक्रमो केवचिरं कालादो होदि ? १०५. जहण्णेण एयसमओ । १०६. उक्कस्सेण आवलियाए असंखेज्जदिभागो । १०७. इत्थि-णत्तुंसयवेद-छण्णोकसायाणं जहण्णट्ठिदिसंक्रमो केवचिरं कालादो होदि ? १०८. जहण्णुक्कस्सेणंतोमुहुत्तं^३ ।

१०९. एत्थ सण्णियासो कायव्वो ।

११०. अप्पावहुअं । १११. सव्वत्थोथो णवणोकसायाणमुक्कस्सट्ठिदिसंक्रमो^४ ।

प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वके उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमणका कितना काल है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल आवलीके असंख्यातवे भागप्रमाण है ॥९५-९९॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे नाना जीवोक्ती अपेक्षा जघन्य स्थितिसंक्रमणकालको कहते हैं ॥१००॥

शंका—सर्व प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिसंक्रमणका कितना काल है ? ॥१०१॥

समाधान—सर्व प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिसंक्रमणका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल संख्यात समय है । विशेषता केवल यह है कि अनन्तानुवन्धी चारो कपायोंके जघन्य स्थितिसंक्रमणका कितना काल है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल आवलीके असंख्यातवे भागप्रमाण है ॥१०२-१०६॥

शंका—स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और हास्यादि छह नोकपायोंके जघन्य स्थितिसंक्रमणका कितना काल है ? ॥१०७॥

समाधान—इन सूत्रोक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिसंक्रमणका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ॥१०८॥

चूर्णिसू०—यहाँपर स्थितिसंक्रमणका सन्निकर्ष करना चाहिए ॥१०९॥

विशेषार्थ—स्थितिसंक्रमण-सम्बन्धी सन्निकर्षकी प्ररूपणा स्थितिभिक्तिके सन्निकर्षके समान है । जहाँ-कहीं कुछ विशेषता है, वह जयधवला टीकासे जानना चाहिए ।

चूर्णिसू०—अब स्थितिसंक्रमणका अल्पवहुत्व कहते हैं—नव नोकपायोंका उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमण सबसे कम है । नोकपायोंके उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमणसे सोलह कपायोंका उत्कृष्ट

१ एयवारमुवक्कत्ताणमेयसमओ चेव लब्भइ ति तमेयसमय ठविय आवलियाए असंखेज्जदिभागमेत्तुवक्कमणवारेहि णिरतरमुवल्लभमाणसरूवेहि गुणिदे तदुवल्लभो होइ । जयध०

२ खवणाए लद्धजहण्णभावाण तदुवल्लभादो । जयध०

३ चरिमट्ठिदिसखडयम्मि लद्धजहण्णभावाणं तदुवल्लभादो । णवरि जहण्णकालादो उक्कस्सकालस्स संखेज्जगुणत्तमेत्थ दट्ठव्व, संखेज्जवार तदणुसघाणावल्लवणे तदविरोहादो । जयध०

४ एदस्स पमाण वधसकमणोदयावल्लियाहि परिहीणचालीससागरोवमकोडाकोडीमेत्त । जयध०

११२. सोलसकसायाणमुकस्सट्ठिदिसंक्रमो विसेसाहिओ^१ । ११३. सम्पत्त-सम्मामिच्छ-
त्ताणमुकस्सट्ठिदिसंक्रमो तुल्लो विसेसाहिओ^२ । ११४. मिच्छत्तस्स उकस्सट्ठिदिसंक्रमो
विसेसाहिओ^३ । ११५. एवं सव्वासु गइसु ।

११६. एत्तो जहण्णयं । ११७. सव्वत्थोवो सम्पत्त-लोहसंजलणाणं जहण्ण-
ट्ठिदिसंक्रमो^४ । ११८. जट्ठिदिसंक्रमो^५ असंखेज्जगुणो^६ । ११९. मायाए जहण्णट्ठिदिसंक्रमो
संखेज्जगुणो^७ । १२०. जट्ठिदिसंक्रमो विसेसाहिओ^८ । १२१. माणसंजलणस्स जहण्णट्ठिदि-
संक्रमो विसेसाहिओ^९ । १२२. जट्ठिदिसंक्रमो विसेसाहिओ^{१०} । १२३. कोहसंजलणस्स
जहण्णट्ठिदिसंक्रमो विसेसाहिओ^{११} । १२४. जट्ठिदिसंक्रमो विसेसाहिओ^{१२} । १२५. पुरिस-

स्थितिसंक्रमण विशेष अधिक है । सोलह कपायोके उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमणसे सम्यक्त्वप्रकृति
और सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमण परस्पर तुल्य हो करके भी विशेष अधिक है ।
सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमणसे मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमण
विशेष अधिक है । इसी प्रकारसे सभी गतियोमे उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमण-सम्बन्धी अल्पवहुत्व
जानना चाहिए ॥११०-११५॥

चूर्णिसु०—अब इससे आगे जघन्य स्थितिसंक्रमण-सम्बन्धी अल्पवहुत्वको कहते
हैं । सम्यक्त्वप्रकृति और संज्वलनलोभका जघन्य स्थितिसंक्रमण सबसे कम है । इससे
इन्हीं प्रकृतियोंका यत्स्थितिकसंक्रमण असंख्यातगुणित है । इससे संज्वलनमायाका जघन्य
स्थितिसंक्रमण संख्यातगुणित है । इससे संज्वलनमानका जघन्य यत्स्थितिकसंक्रमण संख्यातगुणित
है । इससे इसीका यत्स्थितिकसंक्रमण विशेष अधिक है । इससे संज्वलनमानका जघन्य स्थिति-
संक्रमण विशेष अधिक है । इससे इसीका यत्स्थितिकसंक्रमण विशेष अधिक है । संज्वलनमानके
यत्स्थितिकसंक्रमणसे संज्वलनक्रोधका जघन्य स्थितिसंक्रमण विशेष अधिक है । इससे इसीका
यत्स्थितिकसंक्रमण विशेष अधिक है । संज्वलनक्रोधके यत्स्थितिकसंक्रमणसे पुरुषवेदका जघन्य
स्थितिसंक्रमण संख्यातगुणित है । इससे इसीका यत्स्थितिकसंक्रमण विशेष अधिक है । पुरुषवेदके

१ दोआवल्लिऊणवालीससागरोवमकोडाकोडीपमाणत्तादो । जयध०

२ एदेसिमुकस्सट्ठिदिसंक्रमो अतोमुहुत्तूणसत्तरिसागरोपमकोडाकोडिमेत्तो । एसो वुण कसायाण-
मुकस्सट्ठिदिसंक्रमादो विसेसाहिओ । केत्तियमेत्तेण ? अतोमुहुत्तूणतीससागरोवमकोडाकोडिमेत्तेण । जयध०

३ वधोदयावल्लिऊणसत्तरिकोडाकोडिसागरोवमपमाणत्तादो । एत्थ विसेसपमाणमतोमुहुत्त । जयध०

४ एयट्ठिठ्ठिपमाणत्तादो ।

५ जा जम्मि सक्रमणकाले ट्ठिदी वा जट्ठिती, जा जस्स अत्थि सो सक्रमो जट्ठितिसंक्रमो । कम्मप०

६ समयाहियावल्लियपमाणत्तादो । जयध०

७ आवाहापरिहीणद्वमासपमाणत्तादो । जयध०

८ समयूणदोआवल्लियपरिहीणावाहामेत्तेण । जयध०

९ समयूणदोआवल्लियूणद्वमासादो अतोमुहुत्तूणमाससेदस्स तदविरोहादो । जयध०

१० समयूणदोआवल्लियपरिहीणावाहापवेसादो । जयध०

११ आवाहूणवेमासपमाणत्तादो । जयध०

१२ एत्थ विसेसपमाण समयूणदोआवल्लियपरिहीणावाहामेत्त । जयध०

वेदस्स जहण्णट्टिदिसंक्रमो संखेज्जगुणो^१ । १२६. जट्टिदिसंक्रमो विसेसाहिओ । १२७. छण्णोकसायाणं जहण्णट्टिदिसंक्रमो संखेज्जगुणो । १२८. इत्थि-णवुंसयवेदाणं जहण्णट्टिदिसंक्रमो तुल्लो असंखेज्जगुणो^१ । १२९. अट्टुण्हं कसायाणं जहण्णट्टिदिसंक्रमो असंखेज्जगुणो^१ । १३०. सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णट्टिदिसंक्रमो असंखेज्जगुणो^१ । १३१. मिच्छत्तस्स जहण्णट्टिदिसंक्रमो असंखेज्जगुणो^१ । १३२. अणंताणुवंधीणं जहण्णट्टिदिसंक्रमो असंखेज्जगुणो^१ ।

१३३. णिरयगईए सव्वत्थोवो सम्पत्तस्स जहण्णट्टिदिसंक्रमो^१ । १३४. जट्टिदिसंक्रमो असंखेज्जगुणो । १३५. अणंताणुवंधीणं जहण्णट्टिदिसंक्रमो असंखेज्जगुणो^१ ।

यत्स्थितिक संक्रमणसे हास्यादि छह नोकपायोका जघन्य स्थितिसंक्रमण संख्यातगुणित है । छह नोकपायोके जघन्य स्थितिसंक्रमणसे स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका जघन्य स्थितिसंक्रमण परस्पर तुल्य हो करके भी असंख्यातगुणित है । - इससे आठ मध्यम कपायोका जघन्य स्थितिसंक्रमण असंख्यातगुणित है । आठो कपायोके जघन्य स्थितिसंक्रमणसे सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य स्थितिसंक्रमण असंख्यातगुणित है । सम्यग्मिध्यात्वके जघन्य स्थितिसंक्रमणसे मिध्यात्वका जघन्य स्थितिसंक्रमण असंख्यातगुणित है । मिध्यात्वके जघन्य स्थितिसंक्रमणसे अनन्तानुवन्धी कपायोका जघन्य स्थितिसंक्रमण असंख्यातगुणित है । ॥११६-१३२॥

विशेषार्थ—जिस किसी विवक्षित कर्मकी संक्रमणकालमें जो स्थिति होती है, यह यत्स्थिति कहलाती है और उसके संक्रमणको यत्स्थितिकसंक्रमण कहते हैं ।

चूर्णिसू०—नरकगतिमें सम्यक्त्वप्रकृतिका जघन्य स्थितिसंक्रमण सबसे कम है । इससे इसीका यत्स्थितिकसंक्रमण असंख्यातगुणित है । सम्यक्त्वप्रकृतिके यत्स्थितिकसंक्रमण-

१ किञ्चूणवेमासेहितो अतोमुहुत्तूणट्ठवरसाणं तहाभावस्स णायोववण्णत्तादो । जयध०

२ समयूणदोआवलयपरिहीणट्ठवस्सेहितो छण्णोकसायचरिमट्ठदिल्लंडयस्स सखेज्जवस्ससहस्स-पमाणस्स सखेज्जगुणत्ताविरोहादो । जयध०

३ पल्लिदोवमासखेज्जदिभागपमाणत्तादो । जयध०

४ इत्थि णवुंसयवेदाणं चरिमट्ठदिल्लंडयायामादो दुच्चरिमट्ठदिल्लंडयायामो असखेज्जगुणो । एव दुच्चरिमादो तिच्चरिमट्ठदिल्लंडयमसखेज्जगुण । तिच्चरिमादो चदुच्चरिममिदि एदेण कमेण संखेज्जट्ठदिल्लंडयसहस्साणि हेट्ठा ओसरिय अतरकरणप्पारभादो पुव्वमेव अट्ठकसाया खविदा । तेण कारणेणेदेसि चरिमट्ठदिल्लंडयचरिमफाली तत्तो असखेज्जगुणा जाटा । जयध०

५ चरित्तमोहकखवपरिणामेहि घादिदावसेसो अट्ठकसायाणं जहण्णट्टिदिसंक्रमो । एसो वुण तत्तो अणतगुणहीणविसोहिदसणमोहकखवपरिणामेहि घादिदावसेसो त्ति । तत्तो एदत्तासखेज्जगुणत्तमव्वा-मोहेण पडिबजेदव्व । जयध०

६ मिच्छत्तकखवणादो अंतोमुहुत्तुवरि गत्तूण सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णट्टिदिसकमुप्पत्तिदसणादो ।

७ विसजोयणापरिणामेहितो दसणमोहकखवपरिणामाणमणतगुणत्तेण मिच्छत्तचरिमफालीदो अणंताणुवधिचरिमफालीए असखेज्जगुणत्तविरोहाभावादो । जयध०

८ कट्ठकरणिजोववाद पडुच्च एयट्ठदिमेत्तो लव्वमइ त्ति सव्वत्थोवत्तमेदस्स भणिद । जयध०

९ कुदो ? पल्लिदोवमासखेज्जदिभागपमाणत्तादो । जयध०

१३६. सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णट्टिदिसंक्रमो असंखेज्जगुणो^१ । १३७. पुरिसवेदस्स जहण्णट्टिदिसंक्रमो असंखेज्जगुणो^२ । १३८. इत्थिवेदस्स जहण्णट्टिदिसंक्रमो विसेसाहिओ । १३९. हस्स-रईणं जहण्णट्टिदिसंक्रमो विसेसाहिओ । १४०. णजुंसयवेदस्स जहण्णट्टिदिसंक्रमो विसेसाहिओ । १४१. अरइ-सोगाणं जहण्णट्टिदिसंक्रमो विसेसाहिओ । १४२. भय-दुगुंछाणं जहण्णट्टिदिसंक्रमो विसेसाहिओ । १४३. वारसकसायाणं जहण्णट्टिदिसंक्रमो विसेसाहिओ । १४४. मिच्छत्तस्स जहण्णट्टिदिसंक्रमो विसेसाहिओ ।

१४५. विदियाए सव्वत्थोवो अणंताणुवंधीणं जहण्णट्टिदिसंक्रमो^३ । १४६. सम्मत्तस्स जहण्णट्टिदिसंक्रमो असंखेज्जगुणो^४ । १४७. सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णट्टिदिसंक्रमो विसेसाहिओ^५ । १४८. वारसकसाय-णवणोकसायाणं जहण्णट्टिदिसंक्रमो तुल्लो असंखेज्ज-

से अनन्तानुवन्धीकपायका जघन्य स्थितिसंक्रमण असंख्यातगुणित है । अनन्तानुवन्धी कपायके जघन्य स्थितिसंक्रमणसे सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिसंक्रमण असंख्यातगुणित है । सम्यग्मिथ्यात्वके जघन्य स्थितिसंक्रमणसे पुरुषवेदका जघन्य स्थितिसंक्रमण असंख्यातगुणित है । पुरुषवेदके जघन्य स्थितिसंक्रमणसे स्त्रीवेदका जघन्य स्थितिसंक्रमण विशेष अधिक है । स्त्रीवेदके जघन्य स्थितिसंक्रमणसे हास्य और रतिका जघन्य स्थितिसंक्रमण विशेष अधिक है । हास्य-रतिके जघन्य स्थितिसंक्रमणसे नपुंसकवेदका जघन्य स्थितिसंक्रमण विशेष अधिक है । नपुंसकवेदके जघन्य स्थितिसंक्रमणसे अरति और शोकका जघन्य स्थितिसंक्रमण विशेष अधिक है । अरति-शोकके जघन्य स्थितिसंक्रमणसे भय-जुगुप्साका जघन्य स्थितिसंक्रमण विशेष अधिक है । भय-जुगुप्साके जघन्य स्थितिसंक्रमणसे वारह कपायोंका जघन्य स्थितिसंक्रमण विशेष अधिक है । वारह कपायोंके जघन्य स्थितिसंक्रमणसे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिसंक्रमण विशेष अधिक है ॥ १३३-१४४ ॥

चूर्णिसू०—दूसरी पृथिवीमे अनन्तानुवन्धीका जघन्य स्थितिसंक्रमण सबसे कम है । अनन्तानुवन्धीके जघन्य स्थितिसंक्रमणसे सम्यक्त्वप्रकृतिका जघन्य स्थितिसंक्रमण असंख्यातगुणित है । सम्यक्त्वप्रकृतिके जघन्य स्थितिसंक्रमणसे सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिसंक्रमण विशेष अधिक है । सम्यग्मिथ्यात्वके जघन्य स्थितिसंक्रमणसे वारह कपाय और नव नोक-

१ उव्वेल्लणाचरिमफालीए जहण्णभावोवल्लद्धीदो एत्थतणी पल्लिदोवमासखभागायामा चरिमफाली अणताणुवंधीविसजोयणाचरिमफालीआयामादो असखेज्जगुणा, तत्थ करणपरिणामेहि घादिदावसेस्स एत्तो योवत्तसिद्धीए णाइयत्तादो । जयध०

२ ह्दसमुप्पत्तिकम्मियासण्णिपच्छायदणेरइयम्मि अंतोमुहुत्ततग्भवत्थम्मि पल्लिदोवमासखेज्जभागैणूणसागारोवमसहस्सचदुसत्तभागमेत्तपुरिसवेदजहण्णट्टिदिसकमावल्लवणादो । जयध०

३ तत्थ विसजोयणाचरिमफालीए करणपरिणामेहि लद्धघादावसेसिदाए सव्वत्थोवत्ताविरोहादो । जयध०

४ उव्वेल्लणाचरिमफालीए लद्धजहण्णभावत्तादो । जयध०

५ कारण—पढमदाए उव्वेल्लमाणो मिच्छाइट्ठी सव्वत्थ सम्मामिच्छत्तुव्वेल्लणकडयादो सम्मत्तस्स विसेसाहियमेव टिट्ठिखडयवाद्द करेइ जाव सम्मत्तमुव्वेल्लिद ति । पुणो सम्मामिच्छत्तमुव्वेल्लेमाणो सम्मत्त-

गुणो^१ । १४९. मिच्छत्तस्स जहण्णट्ठिदिसंक्रमो विसेसाहिओ^२ ।

१५० भुजगारसंक्रमस्स अट्ठपदं काल्ण सामित्तं कायव्व^३ । १५१. मिच्छत्तस्स भुजगार-अप्पदर-अवट्ठिद-संक्रामओ को होदि ? १५२. अण्णदरो । १५३. अवत्तव्व-

पायोका जघन्य स्थितिसंक्रमण परस्पर तुल्य और असंख्यातगुणित है । वारह कपाय और नव नोकपायोके जघन्य स्थितिसंक्रमणसे मिध्यात्वका जघन्य स्थितिसंक्रमण विशेष अधिक है ॥१४५-१४९॥

विशेषार्थ—इसी प्रकार ज्ञेय पृथिवियोंमें भी जघन्य स्थितिसंक्रमण जानना चाहिए । ज्ञेय गतियोंमें और ज्ञेय मार्गणाओंमें भी ओषके अल्पबहुत्वके अनुसार यथासंभव अल्पबहुत्व लगा लेना चाहिए । विस्तारके भयसे चूर्णिकारने नहीं लिखा है, सो विशेष जिज्ञासुओंको जयधवला टीका देखना चाहिए ।

चूर्णिसू०—अब इससे आगे भुजाकार-संक्रमणका अर्थपद करके उसके स्वामित्वका निरूपण करना चाहिए ॥१५०॥

विशेषार्थ—अतीत समयमें जितनी स्थितियोंका संक्रमण करता था, उससे इस वर्तमान समयमें अधिक स्थितियोंका संक्रमण करना भुजाकार-संक्रम है । अतीत समयमें जितनी स्थितियोंका संक्रमण करता था, उससे इस वर्तमान समयमें कम स्थितियोंका संक्रमण करना, यह अल्पतर-संक्रम कहलाता है । जितनी स्थितियोंका अतीत समयमें संक्रमण करता था, उतनीका ही वर्तमान समयमें संक्रमण करना, यह अवस्थित-संक्रम है । अतीत समयमें किसी भी स्थितिका संक्रमण न करके वर्तमान समयमें संक्रमण करना अवक्तव्यसंक्रम है । यह भुजाकार-संक्रमका अर्थपद है ।

शंका—मिध्यात्वके भुजाकारसंक्रम, अल्पतरसंक्रम और अवस्थितसंक्रमका करनेवाला कौन जीव है ? ॥१५१॥

समाधान—चारों गतियोंमेंसे किसी भी एक गतिका जीव उक्त संक्रमणोंका करनेवाला होता है ॥१५२॥

चूर्णिसू०—मिध्यात्वका अवक्तव्य संक्रमण संभव नहीं, इसलिए उसका संक्रामक चरिमफालीदो विसेसाहियकमेण टिट्ठिदखडयमागाएदि जाव सगचरिमटिट्ठिदखडयादो त्ति । तदो एदमेत्थ विसेसाहियत्ते कारण । जयध०

१ अंतोकोडाकोडिपमाणत्तादो । जयध०

२ चालीस०पडिभागियतोकोडाकोडीदो सत्तरि०पडिभागियतोकोडाकोडीए तीहि-सत्तभागोहि अहियत्तदसणादो । जयध०

३ किं तमट्ठपदं ? बुच्चदे—अणत्तरोसक्काविद-विदिक्तसमए अप्पदरसंक्रमादो एण्हि बहुवयर सकामेइ त्ति एसो भुजगारसकमो । अणत्तरस्सक्काविदविदिक्तसमए बहुवयरसकमादो एण्हि थोवयराओ सकामेइ त्ति एस अप्पदरसकमो । तत्तिय तत्तिय चेव सकामेइ त्ति एसो अवट्ठिदसकमो । अणत्तर वदिक्तसमए असकमादो सकामेदि त्ति एसो अवत्तव्वसकमो । एदेणट्ठपदेण भुजगार-अप्पदर-अवट्ठिदावत्तव्वसंक्रामयाण परूवणा भुजगारसकमो त्ति बुच्चइ । जयध०

संकामथो णत्थि^१ । १५४. एवं सेसाणं पयड्डीणं । णवरि अवत्तव्वया अत्थि^२ ।

१५५. कालो । १५६. मिच्छत्तस्स भुजगारसंकामगो केवचिरं कालादो होदि ? १५७. जहण्णेण एयसमथो^३ । १५८. उक्कस्सेण चत्तारि समयो^४ । १५९. अप्पदरसंकामगो केवचिरं कालादो होदि ? १६०. जहण्णेण्यसमथो^५ । १६१. उक्कस्सेण

भी कोई नहीं है । इसी प्रकार शेष प्रकृतियोंके भुजाकारादि संक्रमणोका स्वामित्व जानना चाहिए । विशेषता केवल यह है कि उन प्रकृतियोंका अवक्तव्यसंक्रम होता है ॥१५३-१५४॥

चूणिमू०—अब भुजाकारादि संक्रमणोके कालका वर्णन किया जाता है ॥१५५॥

शंका—मिथ्यात्वके भुजाकारसंक्रमणका कितना काल है ? ॥१५६॥

समाधान—मिथ्यात्वके भुजाकारसंक्रमणका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल चार समय है ॥१५७-१५८॥

शंका—मिथ्यात्वके अल्पतरसंक्रमणका कितना काल है ? ॥१५९॥

समाधान—मिथ्यात्वके अल्पतरसंक्रमणका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल साधिक एकसौ तिरसठ सागरोपम है ॥१६०-१६१॥

विशेषार्थ—मिथ्यात्वके अल्पतरसंक्रमणके उत्कृष्टकालका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—कोई एक तिर्यच या मनुष्य मिथ्यादृष्टिके सत्कर्मसे नीचे स्थितिवन्ध करता हुआ सर्वोत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त काल तक मिथ्यात्वके अल्पतरसंक्रमणको करके तीन पल्यकी आयुवाले जीवोमें उत्पन्न हुआ । वहाँ पर भी मिथ्यात्वके अल्पतरसंक्रमणको करके अपनी आयुके अन्तर्मुहूर्तमात्र

१ असकमादो सकमो अवत्तव्वसकमो णाम । ण च मिच्छत्तस्स तारिसकमसभवो; उवसतकमायस्म वि तस्सोकड्डणापरपयडिसकमाणमरिथत्तदसणादो । जयध०

२ णवरि सम्भत्त-सम्मामिच्छत्ताण भुजगारस्स अण्णदरो सम्माइट्ठी, अप्पदरस्स मिच्छाइट्ठी सम्माइट्ठी वा, अवट्ठिदस्स पुव्वुपण्णादो सम्भत्तादो समयुत्तरमिच्छत्तमतकम्मियविदियममयग्ग्माइट्ठी सामो होइ त्ति विसेसो जाणियव्वो । अण्ण च अवत्तव्वया अत्थि, सम्भत्त सम्मामिच्छत्ताणमणादियमिच्छाइट्ठिणा उव्वेल्लिदत्तदुभयसत्तकम्मिण वा सम्भत्ते पटिवण्णे विदियममयम्मि तदुव्वट्ठभादो । अण्णानुपपत्तीण वि विमज्जोयणापुव्वसजोगे अवसेसाण च सव्वोवसागणादो परिणममाणस्स देवस्स वा पटममममनामगन्स अवत्तव्वसकमसभवो । जयध०

३ एत्थ ताव जहण्णकालपरुव्वणा कीरदे—एगो टिट्ठिदिगतकम्मस्सुवरि एयनमय नधवुट्ठोए परिणदो विदियादिसमएसु अवट्ठिदमप्पथर वा वधिय वधावलियादीद सकामिय तदण्णतरमए अवट्ठिदमप्पदर वा पटिवण्णो । लद्धो मिच्छत्तट्ठिदोए भुजगारसकमयस्स जहण्णेण्यसमथो । जयध०

४ त जहा, एद्विओ अत्तान्नय-नक्किलेसकाएहि दोसु समएसु भुजगारवधं कादूण तदो मे कान्हे सण्णियचिदिएसुपज्जमाणो विग्गदग्दीए एगसमयमसण्णिट्ठिदि वधियऊण तदण्णतरमए सरोर पेत्तण मण्णिट्ठिदि पव्वो । एव चदुसु समएसु णिरतर भुजगारवधं कादूण पुणो त्तेण वग्गेण पयावपिआदिस्सन्न सकामेमाणस्स लद्धा मिच्छत्तभुजगारसकमस्स उक्कस्सेण चत्तारि समय । जयध०

५ तं कथं ? भुजगारमवट्ठिद वा दधमाणस्स एयसमयमप्पदर वधिय विदियमए भुजगारवट्ठिदाणमण्णदरवधेण परिणमिय वधावलिवदिदिसं वध्वाणुजग्गेण सत्तममाणस्स अप्पदरज्जो वध्वाणुसमयमेत्तो होइ । जयध०

तेवद्विसागरोपमसदं सादिरेयं । १६२. अवद्विदसंक्रामओ केवचिरं कालादो होदि ?
 १६३. जहण्णेणोयसमओ । १६४. उक्कस्सेणंतोमुहुत्तं । १६५. सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणं
 भुजगार-अवद्विद-अवत्तव्व-संक्रामया केवचिरं कालादो होंति ? १६६. जहण्णुक्कस्सेणोय-
 समओ । १६७. अप्पदरसंक्रामओ केवचिरं कालादो होदि ? १६८. जहण्णेण अंतो-

शेष रह जाने पर प्रथमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ और अन्तर्मुहूर्त तक अल्पतरसंक्रमण करता रहा । पुनः वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ और प्रथम वार छ-यासठ सागरोपमकाल तक अल्पतर-संक्रमण करके और छ-यासठ सागरोपमकालमें अन्तर्मुहूर्त शेष रह जाने पर अल्पतरकालके अविरोधसे अन्तर्मुहूर्तके लिए मिथ्यात्वमें जाकर और अन्तरको प्राप्त होकर पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ और दूसरी वार छ-यासठ सागरोपमकाल तक सम्यक्त्वके साथ परिभ्रमण करके अन्तमें परिणामोके निमित्तसे फिर भी मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ और द्रव्यलिंगके माहात्म्यसे इकतीस सागरोपमवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ । वहाँ पर भी शुक्लेश्याके माहात्म्यसे सत्कर्मसे नीचे ही स्थितिवन्ध करता हुआ मिथ्यात्वका अल्पतर-संक्रामक ही रहा । वहाँसे च्युत होकर मनुष्योमें उत्पन्न हो करके अन्तर्मुहूर्त तक अल्पतरसंक्रमण कर पुनः भुजाकार या अवस्थित संक्रमणको प्राप्त हुआ । इस प्रकार अन्तर्मुहूर्त और तीन पल्योपमसे अधिक एकसौ तिरेसठ सागरोपम-प्रमाण मिथ्यात्वके अल्पतरसंक्रमणका उत्कृष्टकाल सिद्ध हो जाता है ।

शंका—मिथ्यात्वके अवस्थितसंक्रमण कितना काल है ? ॥१६२॥

समाधान—मिथ्यात्वके अवस्थितसंक्रमणका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है ॥१६३-१६४॥

शंका—सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वके भुजाकार, अवस्थित और अवत्तव्व-संक्रमणका कितना काल है ? ॥१६५॥

समाधान—इनके संक्रमणका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है ॥१६६॥

शंका—सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वके अल्पतरसंक्रमणका कितना काल है ? ॥१६७॥

समाधान—इन दोनों प्रकृतियोंके अल्पतरसंक्रमणका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और

१ कुदो, एयद्विट्ठदिवधावट्ठणकालस्स जहण्णुक्कस्सेणोयसमयमतोमुहुत्तमेत्तपमाणोवलभादो । जयध०

२ भुजगारसकमस्स ताव उच्चदे—तप्पाओग्गसम्मत्त-सम्माभिच्छत्तिट्ठदिसतकम्मियमिच्छाइट्ठिणा तत्तो दुसमउत्तरादिमिच्छत्तिट्ठदिसतकम्मिएण सम्मत्ते पडिवण्णे विदियसमयम्मि भुजगारसकमो होदूण तट्ठणतरसमए अप्पदरसकमो जादो । लद्धो जहण्णुक्कस्सेणोयसमयमेत्तो भुजगारसकामयकालो । एवमवद्विट्ठद-संक्रमत्स वि, णवरि समयुत्तरमिच्छत्तिट्ठदिसतकम्मिएण वेदगसम्मत्ते पडिवण्णे विदियसमयम्मि तदुवलभो वत्तव्वो । एवमवत्तव्वसकमस्स वि वत्तव्वं, णवरि णिस्सतकम्मियमिच्छाइट्ठिणा उवसमसम्मत्ते गहिदे विदियसमयम्मि तदुवलड्डी होदि । जयध०

३ त जहा—एगो मिच्छादिट्ठी पुव्वुत्तेहि तीहि पयारेहि सम्मत्त वेत्तूण विदियसमए भुज-गारावद्विट्ठदावत्तव्वान्णमण्णदरसकमपजाएण परिणमिय तदियसमए अप्पयरसकामयत्तमुवगओ । जहण्णकाला-

मुहुत्तं । १६९. उक्कस्सेण वे छावड्डिसागरोवमाणि सादिरेयाणि^१ । १७०. सेसाणं कम्माणं भुजगारसंक्रामओ केवचिरं कालादो होदि ? १७१. जहण्णेयसमओ । १७२. उक्कस्सेण एगूणवीससमया । १७३. सेसपदाणि मिच्छत्तभंगो । १७४. णवरि अवत्तव्वसंक्रामया जहण्णुक्कस्सेण एगसमओ ।

१७५. एत्तो अंतरं । १७६. मिच्छत्तस्स भुजगार-अवड्डिसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? १७७. जहण्णेण एयसमओ । १७८. उक्कस्सेण तेवड्डिसागरोवमसदं^२

उत्कृष्टकाल कुछ अधिक एकसौ बत्तीस सागरोपम है ॥१६८-१६९॥

शंका—शेष कर्मोंके भुजाकारसंक्रमणका कितना काल है ? ॥१७०॥

समाधान—शेष कर्मोंके भुजाकारसंक्रमणका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल उन्नीस समय है ॥१७१-१७२॥

विशेषार्थ—उन्नीस समयकी प्ररूपणा स्थितिविभक्तिमे वतलाये गये प्रकारसे जानना चाहिए ।

चूर्णिसू०—शेष पदोंके संक्रमणका काल मिथ्यात्वके समान जानना चाहिए । विशेषता केवल यह है कि शेष पदोंके अवक्तव्यसंक्रमणका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ॥१७३-१७४॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे भुजाकारादि संक्रमणोंका अन्तर कहते हैं ॥१७५॥

शंका—मिथ्यात्वके भुजाकार और अवस्थित संक्रमणका अन्तर काल कितना है ? ॥१७६॥

समाधान—मिथ्यात्वके भुजाकार और अवस्थित संक्रमणका जघन्य अन्तर काल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर काल साधिक एक सौ तिरसठ सागरोपम है ॥१७७-१७८॥

विरोहेण सकिलिट्ठो सम्मत्तिट्ठदीए उवरि मिच्छत्तिट्ठदिं तप्पाओग्गवड्ढीए वड्ढाविय सव्वलहु सम्मत्त पडिवण्णो भुजगारसक्रमेण अवट्ठदसक्रमेण वा परिणदो त्ति तस्स अतोमुहुत्तमेत्तो सम्मत्त सम्माच्छित्ताण-मप्पदरसक्रमणजहण्णकालो होइ । अहवा सम्मत्त पडिवजिय अतोमुहुत्तमप्पदरसरूपेण सम्मत्त सम्मामिच्छत्ताणं ट्ठदिसक्रमणुपालिय सव्वलहु दसणमोहक्खवणाए वावदस्स पयदजहण्णकालो परुवेयव्वो ।

१ त जहा—एङ्को मिच्छाइट्ठी पढससम्मत्त घेत्तूण सव्वमहंतमुवसमसम्मत्तद्वमप्पदरसक्रमणुपालिय वेदयसम्मत्तेण पढमछावट्ठमणुपालिय अतोमुहुत्तावसेसे तम्मि अप्पयरसक्रमाविरोहेण मिच्छत्त सम्मामिच्छत्त वा पडिवण्णो । तदो अतोमुहुत्तेण वेदयसम्मत्त पडिवजिय विदियछावट्ठमप्पयरसक्रमेणाणुपालिय तदवसाणे अतोमुहुत्तावसेसे मिच्छत्त गदो । पल्लिदोवमासखेजभागमेत्तकालमुव्वेत्तलणावाचारेणत्थिय सम्मत्त-चरिमुव्वेत्तलणफालीए तदप्पयरसक्रमं समाणिय पुणो वि तप्पाओग्गेण कालेण सम्मामिच्छत्तचरिमफालिमुव्वेत्तिलय तदप्पयरकाल समाणेदि । एव पल्लिदोवमासखेजभागम्भहियवेछावट्ठसागरोवमाणि दोण्हमेदेत्ति कम्माणमुक्कस्सपयदट्ठदिसक्रमकालो होइ । जयध०

२ एत्थ जहण्णतर भुजगारावट्ठदसक्रमेहितो एयसमयमप्पयेरे पडिय विदियसमए पुणो वि अप्पिद-पद गयस्स वत्तव्व । उक्कस्सतर पि अप्पयरक्कस्सकालो वत्तव्वो । णवरि भुजगारतरे विवत्तिए अवट्ठद-कालेण सह वत्तव्व । अवट्ठदतर च भुजगारकालेण सह वत्तव्व । जयध०

सादिरेयं । १७९. अप्पयरसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? १८०. जहण्णेण्य-
समओ । १८१. उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । १८२. एवं सेगाणं कम्मणां सम्पत्त-सम्मामि-
च्छत्तवज्जाणं । १८३. णवरि अणंताणुवंधीणमप्पयरसंक्रामयंतरं जहण्णेण्यसमओ । १८४.
उक्कस्सेण वे छावड्डिसागरोवमाणि सादिरेयाणि । १८५. सव्वेसिमवत्तव्वसंक्रामयंतरं
केवचिरं कालादो होदि ? १८६. जहण्णेणंतोमुहुत्तं । १८७. उक्कस्सेण अट्टपोग्गलपरियट्टं
देसुणं । १८८. सम्पत्त-सम्मामिच्छत्ताणं भुजगार-अवट्टिदसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो
होदि ? १८९. जहण्णेणंतोमुहुत्तं । १९०. अप्पयरसंक्रामयंतरं जहण्णेण्यसमयो ।
१९१. अवत्तव्वसंक्रामयंतरं जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । १९२. उक्क-
स्सेण सव्वेसिमट्टपोग्गलपरियट्टं देसुणं ।

शंका—मिथ्यात्वके अल्पतरसंक्रमणका अन्तरकाल कितना है ? ॥१७९॥

समाधान—मिथ्यात्वके अल्पतरसंक्रमणका जघन्य अन्तरकाल एक समय और
उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है ॥१८०-१८१॥

चूर्णिसू०—इसी प्रकार मिथ्यात्वके समान सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्व, इन
दो को छोड़ कर शेष कर्मोंके संक्रमणका अन्तर जानना चाहिए । विशेषता केवल यह
है कि अनन्तानुबन्धी कर्माद्योके अल्पतरसंक्रमणका जघन्य अन्तरकाल एक समय और
उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ अधिक एक सौ बत्तीस सागरोपम है ॥१८२-२८४॥

शंका—मिथ्यात्वादि तीन कर्मोंको छोड़कर शेष सब कर्मोंके अवक्तव्यसंक्रमणका
अन्तरकाल कितना है ? ॥१८५॥

समाधान—जघन्य अन्तर काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर काल कुछ कम अर्ध-
पुद्गलपरिवर्तन-प्रमाण है ॥१८६-१८७॥

शंका—सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वके भुजाकार और अवस्थितसंक्रमणका
अन्तरकाल कितना है ? ॥१८८॥

समाधान—जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है । सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मि-
थ्यात्वके अल्पतरसंक्रमणका जघन्य अन्तरकाल एक समय है । अवक्तव्य संक्रमणका
जघन्य अन्तरकाल पल्योपमका असंख्यातवां भाग है । सबका अर्थात् सम्यक्त्वप्रकृति और

१ अणताणुवंधीण विसजोयणापुव्वसजोगे सेसकसाय-णोकसायाण च सव्वोवसामणापडिवादे
अवत्तव्वसकम्मस्सादि करिय अतरिदस्स पुणो जहण्णुक्कस्सेणतोमुहुत्तट्टपोग्गलपरियट्टमेत्तमतारिय पडिवण्णत-
व्भावमि तदुभयसभवदसणादो । जयध०

२ पुव्वुप्पणसम्मत्तादो परिवडिय मिच्छत्तट्टिदिसत्तवुड्डीए सह पुणो वि सम्पत्त पडिवजिय
समयाविरोहैण भुजगारभवट्टिद च एगसमय कादूणप्पदरेणतरिय सवल्लहु मिच्छत्त गत्तूण तेणेव कमेण
पडिणियत्तिय भुजगारावट्टिदसकामयत्ताएण परिणदमि तदुवलभादो । जयध०

३ पढमसम्मत्तुप्पत्तिविदियसमए अवत्तव्वसकम्मस्सादि कादूणतरिदस्स सवल्लहु मिच्छत्त गत्तूण
जहण्णुव्वेत्तलणकालव्भतरे तदुभयमुव्वेत्तिय चरिमकालिपदणाणतरसमए सम्पत्त पडिवण्णस्स विदियसमयमि
तदतरपरिसमत्तिदसणादो । जयध०

१९३. णाणाजीवेहि भंगविचओ । १९४. मिच्छत्तस्स सव्वजीवा भुजगार-संक्रामगा च अप्पयरसंक्रामया च अवट्ठिदसंक्रामया च^१ । १९५. सम्मत्त-सम्पामिच्छत्ताणं सत्तावीस भंगा^२ । १९६. सेसाणं मिच्छत्तभंगो । १९७. णवरि अवत्तव्वसंक्रामया भजियव्वा^३ ।

१९८. णाणाजीवेहि कालो । १९९. मिच्छत्तस्स भुजगार-अप्पदर-अवट्ठिद-संक्रामया केवचिरं कालादो होंति ? २००. सव्वद्धा^४ । २०१. सम्मत्त-सम्पामिच्छत्ताणं भुजगार-अवट्ठिद-अवत्तव्वसंक्रामया केवचिरं कालादो होंति ? २०२. जहणणेण्य-

सम्यग्मिध्यात्वके भुजाकार, अवस्थित, अल्पतर और अवक्तव्य संक्रमणका उत्कृष्ट अन्तर-काल देशोन अर्धपुद्गलपरिवर्तन है ॥१८९-१९२॥

चूर्णिसू०—अव भुजाकारादि संक्रमणोका नाना जीवोकी अपेक्षा भंगविचय कहते हैं । सर्व जीव मिध्यात्वके भुजाकार-संक्रामक है, अल्पतर-संक्रामक है, और अवस्थित संक्रामक है । सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वके भुजाकारादि संक्रमण-सम्बन्धी सत्ताईस भंग होते हैं । शेष पच्चीस कृपायोके भुजाकारादि संक्रमण-सम्बन्धी भंग मिध्यात्वके समान होते हैं । केवल अवक्तव्य-संक्रामक भजितव्य है ॥१९३-१८७॥

विशेषार्थ—सम्यग्मिध्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिके सत्ताईस भंगोका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—इन दोनो कर्मोके भुजाकार, अवस्थित और अवक्तव्य संक्रामक जीव भजितव्य है, अर्थात् कदाचित् होते हैं और कदाचित् नहीं । किन्तु अल्पतर-संक्रामक जीव नियमसे होते हैं । इसलिए भजितव्य पदोको विरलन कर, उन्हे तिगुणा करने पर अल्पतर-संक्रामक रूप ध्रुवपदके साथ सत्ताईस भंग हो जाते हैं ।

चूर्णिसू०—अव भुजाकारादिसंक्रमोका नानाजीवोकी अपेक्षा कालका वर्णन करते हैं ॥१९८॥

शंका—मिध्यात्वके भुजाकार, अल्पतर और अवस्थित संक्रमण करनेवाले जीवोका कितना काल है ?

समाधान—सर्व काल है ॥२००॥

शंका—सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वके भुजाकार, अवस्थित और अवक्तव्य-संक्रमण करनेवाले जीवोका कितना काल है ? ॥२०१॥

१ कुदो, मिच्छत्तभुजगारादिसकामयाणमणतजीवाण सव्वद्धमविच्छिण्णपवाहसस्त्वेणावट्ठणदसणादो । जयध०

२ कुदो, भुजगारावट्ठिदवत्तव्वसकामयाण भयणिज्जत्तेणाप्पयरसकामयाण ध्रुवत्तदसणादो । तदो भयणिज्जपदाणि विरलिय तिगुणिय अण्णोण्णव्भासे कए ध्रुवसहिया सत्तावीस भगा उप्पज्जति । जयध०

३ मिच्छत्तस्सावत्तव्वसकामया णत्थि । एदेसि पुण अवत्तव्वसंक्रामया अत्थि, ते च भजियव्वा त्ति उत्त होइ । जयध०

४ कुदो; तिसु वि कालेसु एदेसि विरहाणुवलभाढो । जयध०

समओ^१ । २०३. उक्कस्सेण आवलियाए असंखेज्जदिभागो । २०४. अप्पयरसंक्रामया सव्वद्धा^२ । २०५. सेसाणं कम्माणं भुजगार-अप्पयर-अवट्ठिदसंक्रामया केवचिरं कालादो होंति ? २०६. सव्वद्धा^३ । २०७. अवत्तव्वसंक्रामया केवचिरं कालादो होंति ? २०८. जहण्णेण्यसमओ^४ । २०९. उक्कस्सेण संखेज्जा समया । २१०. णवरि अणंताणुवंधीण-मवत्तव्वसंक्रामया सम्पत्तभंगो^५ ।

२११. णाणाजीवेहि अंतरं । २१२. मिच्छत्तस्स भुजगार-अप्पयर-अवट्ठिद-संक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? २१३. णत्थि अंतरं । २१४. सम्पत्त-सम्मा-

समाधान—जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल आवलीका असंख्यातवां भाग है ॥२०२-२०३॥

चूर्णिसू०—इन्ही दोनो कर्मोंके अल्पतरसंक्रामक जीव सर्व काल होते हैं ॥२०४॥

शंका—श्रेय कर्मोंके भुजाकार, अल्पतर और अवस्थित संक्रामकोंका कितना काल है ? ॥२०५॥

समाधान—सर्व काल है ॥२०६॥

शंका—मोहनीयकी पच्चीस प्रकृतियोंके अवक्तव्यसंक्रमणका कितना काल है ? ॥२०७॥

समाधान—जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल संख्यात समय है । केवल अनन्तानुबन्धी कषायोंके अवक्तव्य-संक्रमणका काल सम्यक्त्वप्रकृतिके समय जानना चाहिए । अर्थात् चारित्रमोहनीयकी सभी प्रकृतियोंके अवक्तव्य संक्रमणका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल आवलीका असंख्यातवां भाग है । ॥२०८-२१०॥

चूर्णिसू०—अब नाना जीवोंकी अपेक्षा भुजाकारादि संक्रमणोंका अन्तर कहते हैं ॥२११॥

शंका—मिध्यात्वके भुजाकार अल्पतर और अवस्थित संक्रमण करने वालोंका कितना अन्तरकाल है ? ॥२१२॥

समाधान—मिध्यात्वके भुजाकार, अल्पतर और अवक्तव्य संक्रामकोंका कभी अन्तर नहीं होता है ॥२१३॥

१ दोण्हमेद्वेसिं कम्माणमेयसमय भुजगारादिसकामयत्तेण परिणदणाणाजीवाण विदियसमए सव्वेसि-मेव सकामयपजायपरिणामे तदुवल्लद्धीदो । जयध०

२ कुदो, णाणाजीवाणुसधाणेण तेसिमेत्तियमेत्तकालावट्ठाणोवल्लभादो । जयध०

३ कुदो, मिच्छाइट्ठि-सम्माइट्ठीण पवाहस्स तदप्पयरसकामयस्स तिसु विकालेसु णिरतरमवट्ठा-णोवल्लभादो । जयध०

४ सव्वकालमविच्छिण्णसरुवेणेदेसिं सताणस्स समवट्ठाणादो । जयध०

५ उवसामणादो परिवड्ढिदानमणुसधिसताणाणमेत्थ जहण्णकालसभवो । तेसि चेव सखेजवारमणु-सधिसताणाणमवट्ठाणकालो । जयध०

६ जहण्णेण्यसमओ, उक्कस्सेणावलियाए असखेज्जदिभागो इच्चेदेण भेदाभावादो । जयध०

मिच्छत्ताणं भुजगार-अवत्तव्वसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? २१५. जहण्णेण्य-समओ । २१६. उक्कस्सेण चउवीसमहोरत्ते सादिरेये । २१७. अप्पयरसंक्रामयंतरं णत्थि अंतरं । २१८. अवट्ठिदसंक्रामयंतरं जहण्णेण्यसमयो । २१९. उक्कस्सेण अंगुलस्स असंखेज्जदिभागो । २२०. अणंताणुबंधीणं अवत्तव्वसंक्रामयंतरं जहण्णेण्यसमओ । २२१. उक्कस्सेण चउवीसमहोरत्ते सादिरेये । २२२. सेसाणं कम्माणमवत्तव्वसंक्रामयंतरं जहण्णेण्यसमओ । २२३. उक्कस्सेण संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । २२४. सोलसकसायणवणोकसायाणं भुजगार-अप्पदर-अवट्ठिदसंक्रामयाणं णत्थि अंतरं ।

२२५. अप्पावहुअं । २२६. सव्वत्थोवा मिच्छत्तभुजगारसंक्रामयां । २२७.

शंका-सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वके भुजाकार और अवत्तव्य-संक्रमण करनेवाले जीवोका अन्तरकाल कितना है ? ॥२१४॥

समाधान-जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ अधिक चौबीस अहोरात्र (दिन-रात) है ॥२१५-२१६॥

चूर्णिसू०-उक्त दोनों प्रकृतियोंके अल्पतर-संक्रमण करनेवालोका कभी अन्तर नहीं होता । इन्हीं दोनों प्रकृतियोंके अवस्थित संक्रमण करनेवालोका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनन्तानुबन्धी कपायोके अवत्तव्यसंक्रामकोका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ अधिक चौबीस अहोरात्र है । शेष कर्मोंके अवत्तव्यसंक्रामकोका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल संख्यात सहस्र वर्ष है । सोलह कपाय, और नव नोकपायोके भुजाकार, अल्पतर और अवस्थित संक्रामकोका अन्तर नहीं होता है ॥२१७-२२४॥

चूर्णिसू०-अब भुजाकारादि संक्रमण करनेवाले जीवोका अल्पवहुत्व कहते हैं- मिथ्यात्वके भुजाकार-संक्रामक सबसे कम है । इससे अवस्थित-संक्रामक असंख्यातगुणित

१ कुदो, एत्तिएणुक्कस्सतरेण विणा पयट्ठभुजगारावत्तव्वसंक्रामयाण पुणरुभवाभावादो । जयध०

२ सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तट्ठिसत्तकम्मदो समयुत्तरमिच्छत्तट्ठिसत्तकम्मियाण केत्तियाण पि जीवाण वेदयसम्मत्तुप्पत्तिविदियसमए विवक्खियसकमपजाएण परिणमिय तदणतरसमए अतरिदाण पुणो अण्णजीवेहि तदणतरोवरिमसमए अवट्ठिदपजायपरिणदेहि अतरवोच्छेदे कदे तट्ठवलभादो । जयध०

३ एत्तिएणुक्कस्सतरेण विणा समयुत्तरमिच्छत्तट्ठिसत्तकम्मेण सम्मत्तपडिलभस्स दुस्सहत्तादो । कुदो एव ? दुसमयुत्तरादिमिच्छत्तट्ठिवियप्पाणं सखेज्जसागरोवमकोडाकोडिपमाणण सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-भुजगारसकमहेज्जण वट्ठुलसभेवेण तत्थेव णाणाजीवाण पाएण सचरणोवलभादो । तदो तेहि ट्ठिदिवियपेहि भूयो भूयो सम्मत्त पडिवजमाणणाणाजीवाणमेसो उक्कस्सतरसभवो दट्ठव्यो । जयध०

४ कुदो, सव्वद्वमेदेसु अणतस्स जीवरासिस्स जहापविभागमवट्ठाणदसणादो । जयध०

५ कुदो; दुसमयसच्चिदत्तादो । जयध०

॥ ताम्रपत्रवाली प्रतिमे इससे आगे 'केवचिर कालादो होदि' इतना पाठ और अविक मुद्रित है । (देखो पृ० १०९२) पर टोकाको देखते हुए वह नहीं होना चाहिए । ताडपत्रीय प्रतिसे भी उसकी पुष्टि नहीं हुई है ।

अवट्टिदसंक्रामया असंखेज्जगुणा^१ । २२८. अप्पयरसंक्रामया संखेज्जगुणा^१ । २२९. सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं सव्वत्थोवा अवट्टिदसंक्रामया^१ । २३०. भुजगारसंक्रामया अमंसेज्जगुणा^१ । २३१. अवत्तव्वसंक्रामया असंखेज्जगुणा^१ । २३२. अप्पयरसंक्रामया असंखेज्जगुणा^१ । २३३. अणंताणुवंधीणं सव्वत्थोवा अवत्तव्वसंक्रामया^१ । २३४. भुजगारसंक्रामया अणंतगुणा^१ । २३५. अवट्टिदसंक्रामया असंखेज्जगुणा^१ । २३६. अप्पयरसंक्रामया संखेज्जगुणा^१ । २३७. एवं सेसाणं कम्मणं ।

है । इनसे अल्पतर संक्रामक संख्यातगुणित हैं ॥२२५-२०८॥

चृणिंमू०-सन्न्यक्त्वप्रकृति और सन्न्यग्मिध्यात्वके अवस्थित-संक्रामक सबसे कम है । इनसे भुजाकार-संक्रामक असंख्यातगुणित है । इनसे अवक्तव्य-संक्रामक असंख्यातगुणित है । इनसे अल्पतर-संक्रामक असंख्यातगुणित है ॥२२९-२३२॥

चृणिंमू०-अनन्तानुवन्धी कपायोके अवक्तव्य-संक्रामक सबसे कम है । इनसे भुजाकार-संक्रामक अनन्तगुणित है । इनसे अवस्थित-संक्रामक असंख्यातगुणित है । इनसे अल्पतर-संक्रामक संख्यातगुणित हैं ॥२३२-२३६॥

चृणिंमू०-इसी प्रकारसे शेष कर्मोंके भुजाकारादि-संक्रामकोंका अल्पवहुत्व जानना चाहिए ॥२३७॥

१ कुदो; अतोमुहुत्तसन्नियत्तादो । जयध०

२ जइवि अप्पयरसकम्मकालो वि अतोमुहुत्तमेत्तो चेष, तो वि तक्कालसंचिदजीवरासित्स पुव्विल्लनचत्तादो सत्ते जगुणत्त ण विरुज्जदे, संतत्स हेट्ठा सखेज्जवारसव्वट्टिदट्टिदिवधेषु पाठेकमतोमुहुत्तकालपडिचडेसु परिणमिध सइ सतसमागव्वेण सव्वेसि जीवाण परिणमणदसणादो । जयध०

३ कुदो, समयुत्तरमिच्छत्तट्टिदिसतकम्मण वेदयसम्मत्तं षड्विज्जमाणजीवाणमइदुल्लहत्तादो । जयध०

४ टोण्हमेद्रेसिमेयसन्नयसन्नित्तो सत्ते कुदो एस विसरिसमावो त्ति णासकणिज्ज, तत्तो एदस्स विसयवट्टुत्तत्ताभादो । त कथं ? अगट्टिदसंक्रमविसथो णिरुद्धेयट्टिदिमेत्तो: समयुत्तरमिच्छत्तट्टिदिसतकम्मादो अणत्थ तदभाणिण्ययादो । भुजगारसम्मो पुण दुसमयुत्तरादिट्टिदिवियपेसु सखेज्जगारोवमपमाणावच्छिण्णत्तु अउट्टिदयसरो । तदो तेसु ठाइदूण वेदयसम्मत्तमुवसमसम्मत्तं च षड्विज्जमाणो जीवरासी असखेज्जगुणो त्ति णिप्पडिवधमेद । जयध०

५ भुजगारसंक्रामयरासीदो अट्टयोगलपरियट्टकालभतरसंचिदणित्सतकम्मियरासिणित्संसदत्सावत्तव्व-संक्रामयरासित्स असखेज्जगुणत्ते वित्तवादाभावादो । जयध०

६ अवत्तव्वसंक्रामयरासी उवसमसम्माइट्टिणीमसखेज्जट्टिभागो । एतो एण उवसमवेदगसम्माइट्टिणीसरो सत्तो उव्वेत्तणमिच्छत्तट्टिदरासी च, तदो असखेज्जगुणो जादो । जयध०

७ कुदो, गल्लिदोवमासग्नेज्जमागयमाणत्तादो । जयध०

८ कुदो, सव्वज्जिवाणित्स अग्नेज्जमागयमाणत्तादो । जयध०

९ कुदो, सव्वज्जिवाणित्स सखेज्जभागयमाणत्तादो । जयध०

१० अ ट्टिदसंक्रमवट्टाणत्तादो अप्पयरसंक्रमपरिणामकालत्स सखेज्जगुणत्तादो । जयध०

२३८. पदणिक्रखेवे तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगद्वाराणि समुक्कित्तणा सामित्तमप्पावहुअं च । २३९. तत्थ समुक्कित्तणा-सव्वासिं पयडीणमुक्कस्सिया वड्डी हाणी अवट्ठाणं च अत्थि । २४०. एवं जहण्णयस्स वि णेदव्वं ।

२४१. सामित्तं । २४२. मिच्छत्त सोलसकसायाणमुक्कस्सिया वड्डी कस्स ? २४३. जो चउट्ठाणियजवमज्झस्स उवरि अंतोकोडाकोडिट्ठिदिं अंतोमुहुत्तं संकामेमाणो सो सव्वमहंतं दाहं गदो उक्कस्सट्ठिदिं पवद्धो तस्सावलियादीदस्स तस्स उक्कस्सिया वड्डी । २४४. तस्सेव से काले उक्कस्सयमवट्ठाणं । २४५. उक्कस्सिया हाणी कस्स ? २४६. जेण उक्कस्सट्ठिदिखंडयं वादिदं तस्स उक्कस्सिया हाणी । २४७. जमुक्कस्सट्ठिदि-खंडयं तं थोवं । जं सव्वमहंतं दाहं गदो त्ति भणिदं, तं विसेसाहियं । २४८.

चूर्णिसू०—पदनिक्षेपमे ये तीन अनुयोगद्वार होते हैं—समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पवहुत्व । उनमे समुत्कीर्तना इस प्रकार है—सभी प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अवस्थान होते हैं । इसी प्रकार जघन्यका भी वर्णन करना चाहिए । अर्थात् सभी प्रकृतियोंके जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान होते हैं ॥२३८-२४०॥

चूर्णिसू०—अव स्वामित्वको कहते हैं ॥२४१॥

शंका—मिथ्यात्व और सोलह कपायोंकी स्थितिसंक्रमण-विषयक उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? ॥२४२॥

समाधान—जो जीव चतुःस्थानिक यवमध्यके ऊपर अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण स्थितिको संक्रमण करता हुआ अन्तर्मुहुत्त तक स्थित था, वह उत्कृष्ट संकुशके वशसे सर्व महान दाहको प्राप्त हुआ और उसने उक्त कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध किया, उसके एक आवली-काल व्यतीत होनेपर प्रकृत कर्मोंकी स्थितिसंक्रमण-विषयक उत्कृष्ट वृद्धि होती है ॥२४३॥

चूर्णिसू०—उस ही जीवके अनन्तरकालमे अर्थात् उत्कृष्ट वृद्धि होनेके दूसरे समयमे उक्त कर्मोंका स्थितिसंक्रमण-सम्बन्धी उत्कृष्ट अवस्थान होता है ॥२४४॥

शंका—मिथ्यात्व और सोलह कपायोंकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? ॥२४५॥

समाधान—जिसने उत्कृष्ट स्थितिकांडकका घात किया है, उसके प्रकृत कर्मोंकी स्थितिसंक्रमण-विषयक उत्कृष्ट हानि होती है ॥२४६॥

चूर्णिसू०—जो उत्कृष्ट स्थितिकांडक है, वह अल्प है और जो सर्व महान दाह-गत

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमे 'अतोमुहुत्तं' पाठ नहीं है । (देखो पृ० १०९५) पर टीकाके अनुसार सूत्रमे यह पाठ होना चाहिए ।

१ कुदो; उक्कस्सवुद्धीए अविणट्ठसरुवेण तत्थावट्ठाणदसणादो । जयध०

२ तत्थुक्कस्सट्ठिदिखंडयमेत्तस्स ट्ठिदिसकमस्स एकसरहेण परिहाणिदसणादो । केत्तियमेत्ते च तमुक्कस्सट्ठिदिखंडय ? अतोकोडाकोडिपरिहीणकम्मट्ठिदिमेत्तुक्कस्सवुद्धीदो किचूणपमाणत्तादो । जयध०

३ जमुक्कस्सट्ठिदिदिकडयमुक्कस्सहाणीए विसईकयं तं थोवं । ज पुण उक्कस्सवट्ठिपरुवणाए सव्वमहत दाह गदो त्ति भणिद त विसेसाहिय ति वुत्त होइ । केत्तियमेत्तो विसेसो ? अतोकोडाकोडिमेत्तो । जयध०

एदमपावहुअस्स साहणं । २४९. एवं णवणोकसायाणं । २५०. णवरि कसायाणमा-
वलियूणमुक्कस्सट्ठिदिं पडिच्छिदूणावलियादीदस्स तस्स उक्कस्सिया वड्डी । २५१. से
काले उक्कस्सयमवट्ठारणं ।

२५२. सम्मत्त-सम्पामिच्छत्ताणमुक्कस्सिया वड्डी कस्स ? २५३. वेदगसम्पत्त-
पाओग्गजहण्णट्ठिदिसंतकम्मिओ मिच्छत्तस्स उक्कस्सट्ठिदिं वंधियूण ट्ठिदिषादमकाऊण
अंतोमुहुत्तेण सम्मत्तं पडिवण्णो तस्स विदियसमयसम्पाइट्ठिस्स उक्कस्सिया वड्डी^१ ।

वृद्धि कही है, वह विशेष अधिक है । यह कथन वक्ष्यमाण अल्पवहुत्वका साधन है
॥२४७-२४८॥

विशेषार्थ—ऊपर जो मिथ्यात्व और सोलह कपायोकी स्थितिसंक्रमण-विषयक वृद्धि-
हानिका निरूपण किया गया है और अन्तमे जो उसका अल्पवहुत्व बताया गया है, उसका
स्पष्टीकरण यह है कि प्रकृत कर्मोंकी स्थितिसंक्रमण-गत उत्कृष्ट वृद्धिका प्रमाण अन्तःकोडा-
कोडीपरिहीन कर्मस्थितिमात्र है । तथा उत्कृष्ट हानिका प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिकांडक-प्रमाण है ।
उत्कृष्ट हानिसे उत्कृष्ट वृद्धि विशेष अधिक है, यहाँ विशेष अधिकका प्रमाण अन्तःकोडाकोडी-
मात्र जानना चाहिए ।

चूर्णिसू०—इसी प्रकार नव नोकपायोके स्थितिसंक्रमण-विषयक वृद्धि, हानि और
अवस्थानकी प्ररूपणा करना चाहिए । विशेषता केवल यह है कि कपायोकी एक आवली कम
उत्कृष्ट स्थितिको ग्रहण करके आवलीकाल व्यतीत करनेवाले जीवके नव नोकपायोकी उत्कृष्ट
वृद्धि होती है । (क्योंकि नोकपायोका स्वमुखसे स्थितिवंध नहीं होता है ।) और उसके
द्वितीय समयमे उत्कृष्ट अवस्थान होता है ॥२४९-२५१॥

शंका—सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? ॥२५२॥

समाधान—वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त करनेके योग्य जवन्य स्थितिकी सत्तावाला (एके-
न्द्रियोसे आया हुआ) जो जीव मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिको बाँध करके और स्थितिवातको
नहीं करके अन्तर्मुहूर्तकाल द्वारा सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ, उस द्वितीय समयवर्ती सम्यग्दृष्टि
जीवके उक्त दोनो प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है ॥२५३॥

१ कुदो एवं कीरदे चे ण, समुहेणेदेसिं चालीससागरोवमकोडाकोडीण वधाभावेण कसायुक्कस्सट्ठिदि-
पडिग्गहमुहेण तहा सामित्तिवाहाणादो । तदो वधावलियूण कसायट्ठिदिमुक्कस्सियं सगपाओग्गतोकोडाकोडि-
ट्ठिदिसकमे पडिच्छियूण सकमणावलियादिक्कतस्स पयदसामित्तिमिदि वुत्तं । ××× णवुसयवेदारइसोगभय-
दुगुछाणमुक्कस्सट्ठिदिबुड्डी अवट्ठण च वीससागरोवमकोडाकोडीओ पल्लिवमासखेज्जभागव्भहियाओ ।
कुदो, कसायाणमुक्कस्सट्ठिदिवधकाले तेसि पि रूवूणावाहाकडएणूणवीससागरोवमकोडाकोडिमेत्त-ट्ठिदि-
वधस्स दुप्पडिसेहत्तादो । जयध०

२ एत्थ वेदयपाओग्गजहण्णट्ठिदिसंतकम्मिओ णाम दुविहो—किंचूणसागरोवमट्ठिदिसतकम्मिओ
तण्णुधत्तमेत्तट्ठिदिसतकम्मिओ च । एत्थ पुण सागरोवममेत्तट्ठिदिइदियपच्छायदो घेत्तव्वो, उक्कस्स-
वड्डीए पयदत्तादो । × × × तत्थ थोवूणसागरोवमसंकमादो हेट्ठिमसमयपडिवद्धत्तादो तदूणसत्तिसागरो-
वममेत्तट्ठिदिसकमस्स बुड्ढिट्ठसणादो । जयध०

२५४. हाणी मिच्छत्तभंगो । २५५. उक्कस्सयमवट्ठाणं कस्स ? २५६. पुब्बुप्पणादो सम्मत्तादो समयुत्तरमिच्छत्तट्ठिदिसंतकम्मिओ सम्मत्तं पडिवण्णो तस्स विदियसमय-सम्माइट्ठिस्स उक्कस्सयमवट्ठाणं ।

२५७ एत्तो जहणियाए* । २५८. सम्मत्त-सम्माभिच्छत्तवज्जाणं जहणिया वट्ठी कस्स ? २५९. अप्पण्णो समयुणादो उक्कस्सट्ठिदिसंक्रमादो उक्कस्सट्ठिदि संक्रमे-माणयस्स तस्स जहणिया वट्ठी^२ । २६०. जहणिया हाणी कस्स ? २६१ तप्पाओग्ग-समयुत्तरजहणणट्ठिदिसंक्रमादो तप्पाओग्गजहणणट्ठिदि संक्रममाणयस्स तस्स जहणिया हाणी^३ ।

चूर्णिसू०—उक्त दोनो प्रकृतियोंके स्थितिसंक्रमण-विषयक हानिकी प्ररूपणा मिथ्यात्वके समान जानना चाहिए ॥२५४॥

शंका—सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यगभिध्यात्वका स्थितिसंक्रमण-विषयक उत्कृष्ट अव-स्थान किसके होता है ? ॥२५५॥

समाधान—जो जीव पूर्वोक्त प्रकारसे सम्यक्त्वको उत्पन्न कर (और मिथ्यात्वसे जाकर) सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यगभिध्यात्वके स्थितिसत्त्वसे (एक समय अधिक मिथ्यात्व-की स्थितिको बंधकर) समयोत्तर मिथ्यात्वस्थितिसत्कर्मिक होकर सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ, उस द्वितीय समयवर्ती सम्यग्दृष्टिके उक्त दोनो कर्मोंका उत्कृष्ट अवस्थान होता है ॥२५६॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे सर्व कर्मोंके जघन्य वृद्धि, हानि ओर अवस्थानके स्वामित्वकी प्ररूपणा की जाती है ॥२५७॥

शंका—सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यगभिध्यात्वको छोड़कर शेष सब कर्मोंकी जघन्य वृद्धि किसके होती है ? ॥२५८॥

समाधान—अपने अपने एक समय कम उत्कृष्ट स्थितिसंक्रमणसे उत्कृष्ट स्थितिका संक्रमण करनेवाले जीवके उस उस कर्मकी जघन्य वृद्धि होती है ॥२५९॥

शंका—पूर्वोक्त कर्मोंकी जघन्य हानि किसके होती है ? ॥२६०॥

समाधान—तत्तत्प्रायोग्य एक समय अधिक जघन्यस्थितिसंक्रमणमे तत्तत्प्रायोग्य जघन्य स्थितिको संक्रमण करनेवाले जीवके उस-उस कर्मकी जघन्य हानि होती है ॥२६१॥

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमे 'जहणिया' इतना ही पाठ मुद्रित है । (देखो पृ० १०९७)

१ तत्थ पढमसमयसकतमिच्छत्तट्ठिदिसतकम्मस्स विदियसमए गलिदावसिट्ठस्स पढमसमयसम्मत्त-सम्माभिच्छत्तट्ठिदिसकमपमाणेणावट्ठाणदसणादो । जयव०

२ त कय ? समयुणुक्कस्सट्ठिदि वधियुण तदणतरसमए उक्कस्सट्ठिदि वधिय वंधावलियवदिक्कन सकामेनो हेट्ठिमसमयुणट्ठिदिसकमादो समयुत्तरं सकामेदि । तदो तस्स जहणिया वट्ठी होदि, एय-ट्ठिदिमेत्तस्सेव तत्थ बुद्धिदसणादो । उदाहरणपदसणट्ठमेदं परुविद, तदो सव्वासु चेव ट्ठिदीसु समयु-त्तरवधवसेण जहणिया वट्ठी अविद्धा परुवेयव्वा । जयध० ।

३ समयुत्तरवुवट्ठिदि सकामेहुमाढत्तो, तस्स जहणिया हाणी, एयट्ठिदिमेत्तस्सेव तत्थ हाणिदस-णादो । जयध०

२६२. एयदरत्थमवट्ठाणं^१ । २६३. सम्मत्त-सम्पामिच्छत्ताणं जहणिया वट्ठी करुस ? २६४. पुव्वुप्पणसम्मत्तादो दुसमयुत्तरमिच्छत्तत्तिट्ठिदिदिसकमादो सम्मत्तं पडिवण्णो तस्स विदियसमयसम्माइड्डिस्स जहणिया वट्ठी^२ । २६५. हाणी सेसकम्मभंगो । २६६. अवट्ठाणमुक्करसभंगो ।

२६७. अप्पावहुअं । २६८. मिच्छत्त-सोलसकसाय-इत्थि-पुरिसवेद-हस्म-रदीणं सव्वत्थोवा उक्कस्सिया हाणी^३ । २६९ वट्ठी अवट्ठाणं च दोवि तुट्ठाणि विसेसाहियाणि^४ । २७०. सम्मत्त-सम्पामिच्छत्ताणं सव्वत्थोवो अवट्ठाणसंक्रमो^५ । २७१. हाणिमंक्रमो असंखेज्जगुणो^६ । २७२. वड्डिसंक्रमो विसेसाहिओ^७ । २७३. णत्तुंसयवेद-अरइ-सोग-भय-

चूर्णिसू०—उन ही पूर्वोक्त कर्मोंकी अन्तर्मुहूर्तकाल तक अवस्थित उत्कृष्ट वृद्धि या हानिसे किसी एक स्थितिमें जघन्य अवस्थान पाया जाता है । यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि ये जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान एक स्थितिमात्र ही होते हैं ॥२६२॥

शंका—सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य वृद्धि किसके होती हैं ? ॥२६३॥

समाधान—पूर्वोत्पन्न सम्यक्त्वसे (गिरकर और दो समय अधिक मिथ्यात्वकी स्थितिको बाँध कर) द्विसमयुत्तर मिथ्यात्वसत्कर्मिक होकर जो सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ है उस द्विसमयवर्ती सम्यग्दृष्टिके उक्त दोनो कर्मोंकी जघन्य वृद्धि होती है ॥२६४॥

चूर्णिसू०—उक्त दोनो कर्मोंकी हानि शेष कर्मोंकी हानिके समान जानना चाहिए दोनो कर्मोंका अवस्थान अपने-अपने उत्कृष्ट अवस्थानके सन्तुष्ट होता है ॥२६५-२६६॥

चूर्णिसू०—अब उपर्युक्त उत्कृष्ट जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान संक्रमणोंके प्रमाणका निर्णय करनेके लिए अल्पबहुत्व कहते हैं—मिथ्यात्व, सोलह कषाय, स्त्रीवेद, पुरुष-वेद, हास्य और रति, इन कर्मोंकी उत्कृष्ट हानि सबसे कम होती है । इन कर्मोंकी उत्कृष्ट हानिसे इन्हीं कर्मोंकी वृद्धि और अवस्थान ये दोनो परस्पर तुल्य और विशेष अधिक हैं ॥२६७-२६९॥

चूर्णिसू०—सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनो कर्मोंका अवस्थान-संक्रमण सबसे कम है । इससे इन्हीं कर्मोंका हानि-संक्रमण असंख्यातगुणा है और इससे वृद्धि-संक्रमण विशेष अधिक है ॥२७०-२७२॥

१ कथं ताव वट्ठीए अवट्ठाणसभवो ? बुच्चदे-समयूक्कस्सट्ठिदिसकमादो उक्कस्सट्ठिदिसकमेण वड्डिदस्स अतोमुहुत्तमवट्ठिदवधवसेण तत्थेवावट्ठाणे णत्थि विरोहो । जयध०

२ कुदो, वेदगसम्मत्तगहणपढमसमए दुसमयुत्तरमिच्छत्तत्तिट्ठिदि पडिच्छिय तत्थेवाधट्ठिदीए णिसे-यमेत्त गालिय विदियसमए पढमसमयसंक्रमादो समयुत्तरं सकामेमाणयम्मि जहणवुड्डीए एयसमयमेत्तो मुवलंमादो । जयध०

३ कुदो; अतोकोडाकोडिपरिहीणसत्तरि-चालीससागरोवमकोडाकोडिपमाणत्तादो । जयध०

४ केत्तियमेत्तो विसेसो ? अंतोकोडाकोडिमेत्तो । ५ एयणिसेवपमाणत्तादो । जयध०

६ उक्कस्सट्ठिदिसवड्डयपमाणत्तादो । ७ केत्तियमेत्तेण ? अतोकोडाकोडिमेत्तेण । जयध०

दुर्गुच्छाणं सच्चत्थोवा उक्कस्सिया वड्ढी अवट्ठाणं च^१ २७४. हाणिसंक्रमो विसेसाहिओ^२ ।
 २७५. एत्तो जहण्णयं । २७६. सव्वासिं पयडीणं जहण्णिया वड्ढी हाणी
 अवट्ठाण-ट्ठिदिसंक्रमो तुल्लो^३ ।

एवं पदणिकखेवो समत्तो ।

२७७. वड्ढीए तिण्णि अण्णिओगदाराणि । २७८. समुक्कित्ताणा परूवणा
 अप्पावहुए त्ति । २७९. तत्थ समुक्कित्ताणा । २८०. तं जहा । २८१. मिच्छत्तस्स
 असंखेज्जभागवड्ढि-हाणी संखेज्जभागवड्ढि-हाणी संखेज्जगुणवड्ढि-हाणी असंखेज्जगुण-
 हाणी अवट्ठाणं च । २८२. अवत्तव्वं णत्थि^४ । २८३. सम्पत्त-सम्पामिच्छत्ताणं चउच्चिहा
 वड्ढी चउच्चिहा हाणी अवट्ठाणमवत्तव्वयं च । २८४. सेसकम्माणं मिच्छत्तभंगो ।
 २८५. णवरि अवत्तव्वयमत्थि^५ ।

चूर्णिसू०—तपुंसक्रवेद, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, इन कर्मों की उत्कृष्ट वृद्धि
 और अवस्थान संक्रमण सबसे कम है और हानिसंक्रमण विशेष अधिक है ॥२७३-२७४॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे जघन्य अल्पवहुत्व कहते हैं—सभी प्रकृतियोंकी जघन्य
 स्थितिका वृद्धिसंक्रमण, हानिसंक्रमण और अवस्थानसंक्रमण परस्पर तुल्य है ॥२७५-२७६॥

इस प्रकार पदनिक्षेप समाप्त हुआ ।

चूर्णिसू०—पदनिक्षेपके विशेष कथन करनेरूप वृद्धिम तीन अनुयोगद्वार है—समुत्कीर्तना,
 प्ररूपणा और अल्पवहुत्व । उनमेसे पहले समुत्कीर्तना की जाती है । वह इस प्रकार है—
 मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि होती है, असंख्यातभागहानि होती है, संख्यातभागवृद्धि
 होती है, संख्यातभागहानि होती है, संख्यातगुणवृद्धि होती है, संख्यातगुणहानि होती है,
 असंख्यातगुणहानि होती है और अवस्थान भी होता है । किन्तु मिथ्यात्वका अवक्तव्यसंक्रमण
 नहीं होता है ॥२७७-२८२॥

चूर्णिसू०—सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका चार प्रकारकी वृद्धिरूप, चार
 प्रकारकी हानिरूप संक्रमण तथा अवस्थानसंक्रमण और अवक्तव्यसंक्रमण होता है । शेष
 कर्मोंका संक्रमण मिथ्यात्वके समान जानना चाहिए । अर्थात् सोलह कपाय और नव नोक-
 पायोंका तीन वृद्धिरूप और चार हानिरूप संक्रमण और अवस्थान संक्रमण होता है ।
 केवल इतना विशेष है कि इन कर्मोंका अवक्तव्यसंक्रमण होता है ॥२८३-२८५॥

१ कुदो; एट्ठेसिमुक्कस्सवड्ढीए अवट्ठाणस्स च पल्लिदोवमासखेज्जभागवभियवीससागरोवमकोडा-
 कोटिपमाणत्तदसणादो । जयध०

२ केत्तियमेत्तेण ? अतोकोडाकोटिपरिहीणवीससागरोवमकोडाकोडिमेत्तेण । जयध०

३ कुदो; सव्वपयडीण जहण्णवड्ढि हाणि-अवट्ठाणाणमेयट्ठिदपिमाणत्तादो । जयध०

४ कुदो; असकमादो तस्स सकमपुत्तीए सव्वद्धमणुवलंभादो । जयध०

५ विसजोयणापुव्वसजोगे सव्वोवसामणापडिवादे च तस्सभवो अत्थि त्ति एसो विसेसो । अण्ण च
 पुरिसवेद-त्तिण्ह सजलणाणमसखेज्जगुणवड्ढिसभयो वि अत्थि, उवसमसेदीए अप्पापणो णवकवधसकमणा-
 वत्थाए काल काऊण देवेसुववण्णयम्मि तदुवलद्धीदो । जयध०

२८६. परूवणा एदासिं विधिं पुथ पुथ उवसंदरिसणा परूवणा णाम ।

२८७. अप्पावहुअं । २८८. सव्वत्थोवा मिच्छत्तस्स असंखेज्जगुणहाणिसंक्रामया^१ ।

२८९. संखेज्जगुणहाणिसंक्रामया असंखेज्जगुणा^२ । २९०. संखेज्जभागहाणिसंक्रामया

संखेज्जगुणा^३ । २९१. संखेज्जगुणवड्डिसंक्रामया असंखेज्जगुणा^४ । २९२. संखेज्जभागवड्डि-

संक्रामया संखेज्जगुणा^५ । २९३. असंखेज्जभागवड्डिसंक्रामया अणंतगुणा^६ । २९४.

अवड्डिदसंक्रामया असंखेज्जगुणा^७ । २९५. असंखेज्जभागहाणिसंक्रामया संखेज्जगुणा^८ ।

चूर्णिसू०—अव प्ररूपणा अनुयोगद्वार कहते है । इन उपर्युक्त वृद्धि, हानि आदिकी विधिके पृथक्-पृथक् विषय-विभागपूर्वक दिखलानेको प्ररूपणा कहते है ॥२८६॥

चूर्णिसू०—अव वृद्धि-हानि आदिके संक्रमणसम्बन्धी अल्पवहुत्वको कहते हैं । मिथ्यात्वके असंख्यातगुणहानि-संक्रामक सबसे कम है । इनसे संख्यातगुणहानि-संक्रामक असंख्यातगुणित है । इनसे संख्यातभागहानि-संक्रामक संख्यातगुणित है । इनसे संख्यातगुण-वृद्धि-संक्रामक असंख्यातगुणित है । इनसे संख्यातभागवृद्धि-संक्रामक संख्यातगुणित हैं । इनसे असंख्यातभागवृद्धि-संक्रामक अनन्तगुणित है । इनसे अवस्थित-संक्रामक असंख्यात-गुणित है । इनसे असंख्यातभागहानि-संक्रामक संख्यातगुणित हैं ॥२८७-२९५॥

१ कुदो; दसणमोहकखवयजीवे सोत्तूण एत्थ तदसभवदो । जयध०

२ कुदो, सण्णिपच्चिदियरासिस्स असंखेज्जभागपमाणत्तादो । जयध०

३ कुदो, संखेज्जगुणहाणिपरिणमणवारेहितो सखेज्जभागहाणिगरिणमगवाराण सखेज्जगुणत्तुवलंभादो । ण चेदमसिद्ध, तित्त्वविसोहीहितो मदविसोहीण पाएण सभवदसणादो । जयध०

४ एत्थ कारण-सखेज्जभागहाणीए सण्णिपच्चिदियरासी पहाणो, सेसजीवसमासेतु सखेज्जभागहाणी कुणतार्णं बहुवाणमसभवदो । सखेज्जगुणवड्डी पुण परत्थाणादो आगतूण सण्णिपच्चिदिएसुप्पज्जमाणाण सव्वेसिमेव लभदे । तदा एइदिय-वियल्लिदियाणमसण्णिपच्चिदिएसुवज्जमाणाण सखेज्जगुणवड्डी चैव होइ । एवमेइदिय-वीइदियाण चउरिंदिएसु वेइदिय-तेइदिएसु च समुप्पज्जमाणाणमेइदियाण सखेज्जगुणवड्डि-णियमो वत्तव्वो । एवमुप्पज्जमाणासेसजीवरासिपमाण तसरासिस्स असखेज्जदिभागो, तसरासि उवक्कमण-कालेण खड्दिदेयखड्मेत्ताण चैव परत्थाणादो आगतूण तत्थुप्पज्जमाणाणमुवलंभादो । तदो परत्थाणरासिपाह-म्मेण सिद्धमेदेसि असखेज्जगुणत्त । जयध०

५ एत्थ वि तसरासी चैव परत्थाणादो पविसंतओ पहाण, सत्थाणे सखेज्जभागवड्डिसंक्रामयाण संखेज्जभागहाणिसंक्रामएहि सरिसाणमप्यहाणत्तादो । किंतु परत्थाणादो सखेज्जगुणवड्डिपवेसएहितो संखे-ज्जभागवड्डिपवेसया बहुआ संखेज्जगुणहीणट्ठिसतकम्मेण सह एइदिएहितो णिप्पिदमाणाणं सखेज्जभाग-हाणिट्ठिसतकम्मेण सह तत्तो णिप्पिदमाणे पेक्खिऊण सखेज्जगुणहीणत्तादो । ×× तदो सखेज्जगुणत्त-मेदेसि ण विरुज्जदे । जयध०

६ कुदो, एइदियरासिस्सासखेज्जभागपमाणत्तादो । दुसमयाहियावट्ठिदासंखेज्जभागहाणिकाल-समासेणतोमुहुत्तपमाणेणेइदियरासिमोवट्ठिय दुगुणिदे पयदवड्डिसंक्रामया होति ति सिद्धमेदेसिमणतगुणत्तं ।

जयध०

७ कुदो; एइदियरासिस्स सखेज्जभागपमाणत्तादो । जयध०

८ कुदो; अवट्ठणकालादो अप्पयरकालस्स सखेज्जगुणत्तादो । जयध०

२९६. सम्मत्त-सम्पामिच्छत्ताणं सन्वत्योवा असंखेज्जगुणहाणिसंक्रामया^१ । २९७. अवट्ठिदसंक्रामया असंखेज्जगुणा^२ । २९८. असंखेज्जभागवट्ठिसंक्रामया असंखेज्जगुणा^३ । २९९. असंखेज्जगुणवट्ठिसंक्रामया असंखेज्जगुणा^४ । ३००. संखेज्जभागवट्ठिसंक्रामया असंखेज्जगुणा^५ । ३०१. संखेज्जगुणवट्ठिसंक्रामया संखेज्जगुणा^६ । ३०२. संखेज्जगुण-हाणिसंक्रामया संखेज्जगुणा^७ । ३०३. संखेज्जभागहाणिसंक्रामया संखेज्जगुणा^८ । ३०४. अवत्तव्यसंक्रामया असंखेज्जगुणा^९ । ३०५. असंखेज्जभागहाणिसंक्रामया असंखेज्जगुणा^{१०} ।

चूर्णिमू०—सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वके असंख्यातगुणहानिसंक्रामक सबसे कम है । इनमें अवरिधत्तसंक्रामक असंख्यातगुणित हैं । इनसे असंख्यातभागवट्ठिसंक्रामक असंख्यातगुणित है । इनसे असंख्यातगुणवट्ठिसंक्रामक असंख्यातगुणित है । इनसे संख्यात-भागवट्ठि-संक्रामक असंख्यातगुणित है । इनसे संख्यातगुणवट्ठि संक्रामक संख्यातगुणित है । इनसे संख्यातगुणहानि-संक्रामक संख्यातगुणित हैं । इनसे संख्यातभागहानि-संक्रामक संख्यातगुणित हैं । इनसे अवत्तव्य-संक्रामक असंख्यातगुणित है । इनसे असंख्यातभाग-हानि-संक्रामक असंख्यातगुणित हैं ॥२९६-३०५॥

विशेषार्थ—नूत्र नं० ३०३ की टीका करते हुए आ० वीरसेनने 'असंखेज्जगुणा' कहकर एक पाठान्तरका उल्लेख किया है, और उसका समाधान इस प्रकार किया है कि स्वस्थानकी अपेक्षा तो संख्यातगुणहानि-संक्रामकोसे संख्यातभागहानि-संक्रामक संख्यात-गुणित ही है, किन्तु अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करनेवाले सम्यग्दृष्टियोंकी अपेक्षा वे असंख्यातगुणित भी हैं । ऐसा कहकर उन्होंने अपना यह अभिप्राय प्रगट किया है कि यह पाठान्तर ही यहाँ प्रधानरूपसे स्वीकार करना चाहिए ।

१ कुटो; दसणमोहस्खवयसखेज्जजीवे मोत्तण्णत्थ तदसभवादो । जयध०

२ कुटो, पल्लिदोवमासखेज्जभागवमाणत्ताटो । ण चेदमसिद्ध, अवट्ठिदपाओग्गसमयुत्तरमिच्छत्त-ट्ठिदिवियप्पेत्तु तैत्तियमेत्तजीवाण मभवट्ठसणादो । जयध०

३ त जहा—अवट्ठिदमरुमपाओग्गविसयादो असखेज्जभागवट्ठिपाओग्गविसओ असखेज्जगुणो; अवट्ठिदपाओग्गट्ठिदिविसेसेमु पादेक्क पल्लिदोवमस्स सखेज्जदिभागमेत्ताणमसखेज्जभागवट्ठिवियप्पाण-मुपत्तिदसणादो । तटो विसयवहुत्ताटो सिद्धमेदेसिमसखेज्जगुणत्त । जयध०

४ संचयकालमाहप्पेणेदेसिमसखेज्जगुणत्त । जयध०

५ ऋ कारण; पुव्वित्तलविसयादो पदेसि विसयस्स असखेज्जगुणत्तोवलभादो । जयध०

६ कारण—दोण्हमेदेसि वेदगसम्मत्त पडिवज्जमाणरासीपहाणो । कित्तु सखेज्जभागवट्ठिविसयादो वेदगसम्मत्तं पडिवज्जमाणजीवेहिंतो सखेज्जगुणवट्ठिविसयादो वेदगसम्मत्त पडिवज्जमाणजीवा सचयकाल-माहप्पेण सखेज्जगुणा जादा । जयध०

७ कुटो; तिण्णिवट्ठि-अवट्ठाणेहिं गहियसम्मत्ताणमतोमुहुत्तसच्चिदाण सखेज्जगुणहाणीए पाओग्गत्त-दंसणादो । जयध०

८ कारणमेत्थ सुगम, मिच्छत्तप्पावहुअसुत्ते परुविदत्तादो । जयध०

९ कुटो; अद्दपोग्गलपरियट्ठमचयादो पडिणियत्तिय णिस्सतकम्मियभावेण सम्मत्त पडिवज्जमाण-मिह्रगहणादो । जयध०

१० पुव्वित्तलामेससक्रामया सम्मत्त-सम्पामिच्छत्त-सतकम्मियाणमसखेज्जदिभागो चेष, सव्वेसिमेय-

३०६. सेसाणं कम्मणं सवत्थोवा अवत्तव्वसंक्रामया^१ । ३०७. असंखेज्जगुण-
हाणिसंक्रामया संखेज्जगुणा^२ । ३०८. सेससंक्रामया मिच्छत्तभंगो ।

एवं ठिदिसंक्रमो समत्तो

चूर्णिसू०-शेष पच्चीस कर्मोके अवत्तव्व-संक्रामक सवमे कम है । इनसे असंख्यात-
गुणहानिसंक्रामक संख्यातगुणित हैं । इनसे जेव संक्रामकोंका अल्पवहुत्व मिश्र्यात्व-
संक्रामकोंके अल्पवहुत्वके समान है ॥ ३०६-३०८ ॥

इस प्रकार स्थितिसंक्रमण अधिकार समाप्त हुआ ।

समयसच्चिदत्तभुवगमादो । एदे बुण तेसिमसंखेज्जभागा, वेसागरोवमकालम्भतरे वेदयसम्माइट्ठरासिसंचय-
स्स दीहुव्वेलणकालम्भतरमिच्छाइट्ठसचयसहिदस्स पहाणत्तावलवणादो । तदो असंखेज्जगुणा जादा । जयध०
१ अणताणुवधीण ताव पलिदोवमस्सासंखेज्जभागमेत्ता उक्कस्सेणेयसमयम्मि अवत्तव्वसकम्मं कुणति ।
वारसकसाय-णवणोकसायाणे पुण संखेज्जा चैव उवसामया सव्वोवसामणादो परिवडिय अवत्तव्वसकम्म
कुणमाणा लम्भति त्ति सव्वत्थोवत्तमेदेसिं जाद । जयध०
२ अणताणुवधिविसजोयणाए चरित्तमोहवखवणाए च दूरावकिट्ठिप्पहुडि संखेज्जसहस्सट्ठिदिव्खंडय-
चरिमफालीसु वट्टमाणजीवाणमेवविप्पपडिवद्धावत्तव्वसकामएहितो तद्दाभावसिद्धीए णाइयत्तादो । जयध०

अणुभाग-संकमाहियारो

१. अणुभागसंकमो दुविहो मूलपयडि-अणुभागसंकमो च उत्तरपयडि-अणुभाग-संकमो च^१ । २. तत्थ अट्टपदं^२ । ३. अणुभागो ओकडिदो वि संकमो, उक्कडिदो वि संकमो, अण्णपयडिं णीदो वि संकमो^३ ।

अनुभाग-संकमाधिकार

अत्र गुणधराचार्यके मुख-कमलसे विनिर्गत 'संकामेदि कदि वा' गाथासूत्रके इस तृतीय चरणमे निवट्ट अनुभागसंक्रमणका विवरण किया जाता है ।

चूर्णिमू०—अनुभागसंक्रमण दो प्रकारका है—मूलप्रकृति-अनुभागसंक्रमण और उत्तर-प्रकृति-अनुभागसंक्रमण । उनके विषयमे यह अर्थपद है—अपकर्षित भी अनुभागसंक्रमण होता है, उत्कर्षित भी अनुभागसंक्रमण होता है और अन्य प्रकृतिरूपसे परिणत भी अनुभाग-संक्रमण होता है ॥१-३॥

विशेषार्थ—अनुभाग नाम कर्मोंके स्वकार्योत्पादन या फल-प्रदान करनेकी शक्तिका है । उसके संक्रमण अर्थात् स्वभावान्तर करनेको अनुभागसंक्रमण कहते हैं । यह स्वभावान्तरावाप्ति तीन प्रकारसे की जा सकती है—फल देनेकी शक्तिको घटाकर, बढ़ाकर या पर प्रकृतिरूपसे परिवर्तित कर । इनमेसे कर्मोंकी आठो मूलप्रकृतियोंके अनुभागमे पर प्रकृतिरूप-संक्रमण नहीं होता, केवल अनुभागशक्तिके घटानेरूप अपकर्षणसंक्रमण और बढ़ानेरूप उत्कर्षणसंक्रमण होता है । परन्तु उत्तरप्रकृतियोंमे अपकर्षणसंक्रमण, उत्कर्षणसंक्रमण और पर-प्रकृतिसंक्रमण ये तीनों ही होते हैं ।

१ अणुभागो णाम कम्मण सगक्खुप्पायणसत्ती । तस्स सकमो सहावतरसकती । सो अणुभाग-सकमो त्ति बुच्चइ । × × × तत्थ मूलपयडिमोहणीयसण्णिदाएजो अणुभागो जीवमि मोहुप्पायणमत्तिलक्खणो तस्स ओकड्ढुक्कट्टुणावसेण भावतरावत्ती मूलपयडिअणुभागसकमो णाम । उत्तरपयडिण च मिच्छत्तादीण-मणुभागस्स ओकड्ढुक्कट्टुणपरपयडिसकमेहि जो सत्तिविपरिणामो सो उत्तरपयडिअणुभागसकमो त्ति भण्णदे । जयध०

२ तत्थट्टपयं उच्चट्टिया व ओवट्टिया व अविभागा ।

अणुभागसंकमो एस अन्नपगइ णिया वावि ॥४६॥ कम्मप० अनु० सकम०

३ ओकडिदो ताव अणुभागो सकमववएस लहटे, अहियरसस्स कम्मक्खधस्स तस्स हीणरसत्तेण विपरिणामदसणादो, अवत्थादो अवत्थतरसकती सकमो त्ति । एवमुक्कडिदो अण्णपयडिं णीदो वि सकमो; तत्थ वि पुव्वावत्थापरिच्चाएणुत्तरावत्थावत्तिदसणादो । × × × अण्णपयडिं णीदो वि अणुभागो सकमो त्ति एद तहज्जमट्टपदमुत्तरपयडिविसय चेव, मूलपयडिण तदसभवादो । जयध०

४. ओकड्डुणाए परुवणा । ५. पढमफद्दयं ण ओकड्डुज्जदि^१ । ६. विदिय-
फद्दयं ण ओकड्डुज्जदि^२ । ७. एवमणंताणि फद्दयाणि जहणिया अइच्छावणा, तत्ति-
याणि फद्दयाणि ण ओकड्डुज्जंति । ८. अण्णाणि अणंताणि फद्दयाणि जहण्णिकखेव-
मेत्ताणि च ण ओकड्डुज्जंति^३ । ९. जहण्णओ णिकखेवो जहणिया अइच्छावणा च
तत्तियमेत्ताणि फद्दयाणि आदीदो अधिच्छिद्दूण तदित्थफद्दयमोक्कड्डुज्जइ^४ । १०. तेण
परं सव्वाणि फद्दयाणि ओकड्डुज्जंति ।

११. एत्थ अप्पावहुअं । १२. "सव्वत्थोवाणि पदेसगुणहाणिट्ठाणंतरफद्दयाणि ।

चूर्णिसू०—इनमेसे पहले अपकर्षणा या अपवर्तनारूप संक्रमणकी प्ररूपणा की जाती है—प्रथम स्पर्धक अपकर्षित नहीं किया जा सकता । द्वितीय स्पर्धक अपकर्षित नहीं किया जा सकता । इस प्रकार अनन्त स्पर्धक अपकर्षित नहीं किये जा सकते, जिनका कि प्रमाण जघन्य अतिस्थापना जितना है । इसी प्रकार इनसे आगेके जघन्य निक्षेपमात्र अन्य अनन्त स्पर्धक भी अपकर्षित नहीं किये जा सकते । आदि स्पर्धकसे लेकर जघन्य निक्षेप और जघन्य अतिस्थापनाका जितना प्रमाण है, उतने स्पर्धक अतिक्रान्त करके जो इष्ट स्पर्धक प्राप्त होता है, वह अपकर्षित किया जा सकता है और उससे परवर्ती सर्व स्पर्धक अपकर्षित किये जा सकते हैं ॥४-१०॥

विशेषार्थ—ऊपरके स्पर्धकोके अनुभागका अपकर्षण करके नीचे जिन स्पर्धकोमे उसे निक्षिप्त किया जाता है, उन्हें निक्षेप कहते हैं, और आदि स्पर्धकसे लेकर निक्षेपके प्रथम स्पर्धकके पूर्वतकके जिन स्पर्धकोके वह अपकर्षित अनुभागशक्ति निक्षिप्त नहीं की जाती और न जिनका अपकर्षण ही किया जा सकता है, उन्हें अतिस्थापना कहते हैं ।

चूर्णिसू०—यहाँपर जघन्यनिक्षेपादिविषयक अल्पबहुत्व इस प्रकार है—प्रदेशगुण-

- १ कुदो, तथाइच्छावणाणिकखेवाणमदसणादो । जयघ०
- २ तत्थ वि अइच्छावणाणिकखेवाभावस्स समणत्तादो । जयघ०
- ३ तस्साइच्छावणासभवे वि णिकखेवविसयादसणादो । जयघ०
- ४ अइच्छावणाणिकखेवाणमेत्थ सपुण्णत्तदसणादो । विवक्खियफद्दयादो हेट्ठा जहण्णाइच्छावणा-
मेत्तमुल्लघिय हेट्ठमेसु फद्दएसु जहण्णिकखेवमेत्तेसु जहण्णफद्दयउज्जवसाणेसु तदित्थफद्दयोक्कड्डुणासभवो
त्ति भणिद होइ । जयघ०

५ पदेसगुणहाणिट्ठाणतर णाम किं ? जम्मि उद्देसे पढमफद्दयादिवग्गणा अवट्ठदविसेसहाणीए गच्छमाणाए दुगुणहीणा जायदे, तदवहिपरिच्छिण्णमद्दाण गुणहाणिट्ठाणतरमिदि भण्णदे । एदम्मि पदेसगुणहाणिट्ठाणतरे अणताणि फद्दयाणि अभवसिद्धिएहितो अणतगुणमेत्ताणि अत्थि, ताणि सव्वत्थोवाणि त्ति भणिदं होइ । जयघ०

६ थोवं पदेसगुणहाणिअंतरं दुसु जहन्ननिकखेवो ।

कम्मसो अणंतगुणिओ दुसु वि अइत्थावणा तुल्ला ॥८॥

वाघाएणणुभागकंडगमेक्काइ वग्गणाऊणं ।

उक्कस्सो णिकखेवो ससंतवंधो य सविसेसो ॥९॥ कम्मप० उद्वर्तनापवर्त०

१३. जहण्णओ णिक्खेवो अणंतगुणो^१ । १४. जहण्णिया अइच्छावणा अणंत-
गुणा^२ । १५. उक्कस्सयमणुभागकंडयमणंतगुणं^३ । १६. उक्कस्सिया अइच्छावणा एग्गाए
वग्गणाए ऊणिया^४ । १७. उक्कस्सओ णिक्खेवो विसेसाहिया^५ । १८. उक्कस्सओ वंधो
विसेसाहिया^६ ।

१९. उक्कहुणाए परूवणा । २०. चरिमफहयं ण उक्कहुज्जदि^७ । २१. दुच-

हानिस्थानान्तर-सम्बन्धी स्पर्धक सबसे कम है । इनसे जघन्य निक्षेप अनन्तगुणित है ।
जघन्य निक्षेपसे जघन्य अतिस्थापना अनन्तगुणी है । जघन्य अतिस्थापनासे उत्कृष्ट अनुभाग-
कांडक अनन्तगुणा है । उत्कृष्ट अनुभागकांडकसे उत्कृष्ट अतिस्थापना एक वर्गणासे कम है ।
अर्थात् उत्कृष्ट अतिस्थापनासे उत्कृष्ट अनुभागकांडक एक वर्गणामात्रसे अधिक है । उत्कृष्ट
अनुभागकांडकसे उत्कृष्ट निक्षेप विशेष अधिक है । उत्कृष्ट निक्षेपसे उत्कृष्ट बन्ध विशेष
अधिक है ॥११-१८॥

विशेषार्थ—जिस स्थलपर प्रथम स्पर्धककी आदि वर्गणा अवस्थित विशेष हानिसे
जाती हुई दुगुण-हीन हो जाती है, उस अवधि-परिच्छिन्न अध्वानको प्रदेशगुणहानिस्थाना-
न्तर कहते हैं । इस प्रदेशगुणहानिस्थानान्तरमे अनन्त स्पर्धक होते हैं, जिनका कि प्रमाण
अभव्योके प्रमाणसे भी अनन्तगुणा है । फिर भी वह आगे कहे गये जघन्य निक्षेपादिके
प्रमाणकी अपेक्षा सबसे कम है ।

चूर्णिसू०—अत्र उत्कर्षणा या उद्वर्तनारूप संक्रमणकी प्ररूपणा की जाती है—
अन्तिम स्पर्धक उत्कर्षित नहीं किया जा सकता । द्विचरमस्पर्धक भी उत्कर्षित नहीं किया

१ कुदो ? तत्थाणताणमणुभागपदेसगुणहाणीण सभवादो । जयध०

२ कुदो ? तत्तो वि अणतगुणाणि गुणहाणिट्ठाणतराणि विसईकरिय पयट्ठादो । जयध०

३ कुदो ? उक्कस्साणुभागसतकम्मस्स अणताण भागाण उक्कस्साणुभागखडयसरूवेण गहणोवल-
भादो । जयध०

४ चरिमवग्गणपरिहीणुक्कस्साणुभागकडयपमाणत्तादो । त कध ? उक्कस्साणुभागखडए आगाइदे
दुच्चरिमादिहंदिमफालोसु अतोमुहुत्तमेत्तोसु सव्वस्थ जहण्णाइच्छावणा चेव पुव्वुत्तपरिमाणा होइ, तक्काले
वाघाटाभावादो । पुणो चरिमफालिपदणसमकाल चरिमफहयचरिमवग्गणाए उक्कस्साइच्छावणा होइ,
णिरुद्धचरिमवग्गण मोत्तूणाणुभागकडयस्सेव सव्वस्स तत्थाइच्छावणासरूवेण परिणमणदसणादो । एदेण
कारणेण उक्कस्साइच्छावणा उक्कस्साणुभागखडयादो एगवग्गणामेत्तेण ऊणिया होइ । त पि तत्तो एयवग्ग-
णामेत्तेणवभियमिदि सिद्ध । जयध०

५ उक्कस्साणुभाग वधियूणावळियादीदस्स चरिमफहयचरिमवग्गणाए ओकहुज्जमाणाए रूवाहिय-
जहण्णाइच्छावणापरिहीणो सव्वो चेवाणुभागपत्थारो उक्कस्सणिक्खेवसरूवेण लभइ । तदो घादिदावसेसम्मि
रूवाहियजहण्णाइच्छावणामेत्त सोहिय सुद्धसेसमेत्तेण उक्कस्साणुभागकडयादो उक्कस्सणिक्खेवो विसेसाहियो
त्ति वेत्तव्वो । जयध०

६ केत्तियमेत्तेण ? रूवाहियजहण्णाइच्छावणामेत्तेण । जयध०

७ चरमं णोव्वहुज्जड जात्राणंताणि फहुगाणि तथो ।

उस्समक्किय उक्कड्हड एवं ओवट्ठगाईओ ॥७॥ कम्मप० उद्वर्तनापवर्त०

८ कुदो, उवरि अइच्छावणाणिक्खेवाणमसभवादो । जयध०

रिमफद्दयं पि ण उक्कड्डिज्जदि' । २२. एवमणंताणि फद्दयाणि ओसक्किळण तं फद्दयमुक्क-
ड्डिज्जदि' । २३. सव्वत्थोवो जहण्णओ णिवखेओ' । २४. जहण्णिया अइच्छावणा
अणंतगुणा' । २५. उक्कस्सओ णिवखेवो अणंतगुणो' । २६. उक्कस्सओ वंधो विमेमा-
हियो' । २७. ओक्कड्डणादो उक्कड्डणादो च जहण्णिया अइच्छावणा तुल्ला । २८. जह-
ण्णओ णिवखेवो तुल्लो । २९. एदेण अट्टपदेण मूलपयडिअणुभागमंक्रमो । ३०. तत्थ
च तेवीसमणिओगदाराणि सण्णा जाव अप्पावहुए चि' (२३) । ३१. भुजगारो
पदणिवखेवो वड्ढि त्ति भाणिदव्वो ।

३२. तदो उत्तरपयडिअणुभागसंक्रमं चउवीस-अणियोगदारेहि वत्तइस्सामो' ।

जा सकना । इस प्रकार अनन्त स्पर्धक अपसरण करके अर्थात् जवन्य अतिस्थापना और
जवन्य निक्षेपप्रमाण स्पर्धकोको छोड़कर नीचे जो इष्ट स्पर्धक प्राप्त होता है, वह उत्कर्षित
किया जाता है और इसके नीचेसे लगाकर जवन्य स्पर्धक-पर्यन्त जितने स्पर्धक हैं, उन
सबकी उत्कर्षणा की जा सकती है ॥ १९-२२ ॥

अब उत्कर्षणसंक्रमण-सम्बन्धी जवन्य निक्षेपादि पदोंका अल्पबहुत्व कहते हैं—

चूर्णिसू०—उत्कर्षणसंक्रमण-विषयक जवन्य निक्षेप सबसे कम है । इसमें जवन्य
अतिस्थापना अनन्तगुणित है । इससे उत्कृष्ट निक्षेप अनन्तगुणित है । उत्कृष्ट निक्षेपसे
उत्कृष्ट बन्ध विशेष अधिक है । अपकर्षण और उत्कर्षणकी अपेक्षा जवन्य अतिस्थापना तुल्य
है । तथा जवन्य निक्षेप भी तुल्य है ॥ २३-२८ ॥

चूर्णिसू०—इस उपरि-वर्णित अर्थपदके द्वारा मूलप्रकृति-अनुभागसंक्रमणका वर्णन
करना चाहिए । उसके विषयमे संज्ञासे लेकर अल्पबहुत्व तक तेईस अनुयोगद्वार होते हैं ।
केवल एक सन्निकर्ष संभव नहीं है । तथा चूलिकारूप भुजाकार पदनिक्षेप और वृद्धि इन
तीन अनुयोगद्वारोको भी कहना चाहिए ॥ २९-३१ ॥

चूर्णिसू०—अब उत्तरप्रकृति-अनुभागसंक्रमणको चौबीस अनुयोगद्वारोसे कहेंगे ॥ ३२ ॥

- १ एत्थ कारणमइच्छावणाणिवखेवाणमसंभवो चेव वत्तव्वो । जयध०
- २ तत्थाइच्छावणाणिवखेवाण पडिबुण्णत्तदसणादो । जयध०
- ३ किपमाणो एस जहण्णणिवखेवो ? एयपदेसगुणहाणिट्ठाणतरफद्दएहितो अणतगुणमेत्तो । जयध०
- ४ ओक्कड्डणा जहण्णाइच्छावणाए समाणपरिमाणत्तादो । जयध०
- ५ मिच्छादट्ठणा उक्कस्साणुभागो वज्जमाणे जहण्णफद्दयादिवग्गणुकड्डणाए रुवाहियजहण्णाइच्छा
वणापरिहीणुकस्साणुभागवधमेत्तुकस्सणिवखेवदसणादो । जयध०
- ६ केत्तियमेत्तेण ? रुवाहियजहण्णाइच्छावणामेत्तेण । जयध०
- ७ एत्थ मूलपयडिविवक्खाए सणियाससभवाभावादो । जयध०
- ८ काणि ताणि चउवीस अणियोगदाराणि ? सण्णा सव्वसकमो णोसव्वसकमो उक्कस्ससकमो अणु-
क्कस्ससकमो जहण्णसकमो अजहण्णसकमो सादियसकमो अणादियसकमो धुवसकमो अद्दुवसकमो एगजीवेण
सामित्त कालो अतर सणियासो णाणाजीवेहि भगविचओ भागाभागो परिमाण खेत्त पोसण कालो अतरं
भावो अप्पावहुए चेदि । जयध०

३३. तत्थ पुच्चं गमणिज्जा घादिसण्णा च द्वाणसण्णा च । ३४. सम्मत्त-चटुसंजलण-पुरिसवेदाणं मोत्तूण सेसाणं कम्मणमणुभागसंक्रमो णियमा सव्वघादी, वेट्ठाणिओ वा तिट्ठाणिओ वा चउट्ठाणिओ वा । ३५. णवरि सम्मामिच्छत्तस्स वेट्ठाणिओ चेव । ३६.

विशेषार्थ—वे चौबीस अनुयोगद्वार इस प्रकार है—१ संज्ञा, २ सर्वसंक्रम, ३ नोसर्वसंक्रम, ४ उत्कृष्टसंक्रम, ५ अनुत्कृष्टसंक्रम, ६ जघन्यसंक्रम, ७ अजघन्यसंक्रम, ८ सादिसंक्रम, ९ अनादिसंक्रम, १० ध्रुवसंक्रम, ११ अध्रुवसंक्रम, १२ एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, १३ काल, १४ अन्तर, १५ सन्निकर्ष, १६ नाना जीवोको अपेक्षा भंगविचय, १७ भागाभाग, १८, परिमाण, १९ क्षेत्र, २० स्पर्शन, २१ काल, २२ अन्तर, २३ भाव और २४ अल्पबहुत्व । इनका अर्थ अनुभागविभक्तिके अनुसार जानना चाहिए ।

चूर्णिसू०—इनमेसे पहले संज्ञा गवेषणीय है । संज्ञा दो प्रकारकी है घातिसंज्ञा और स्थानसंज्ञा ॥३३॥

विशेषार्थ—मिथ्यात्वादि कर्मोंके उत्कृष्ट-अनुत्कृष्टादि अनुभागसंक्रमण-सम्बन्धी स्पर्धकोंमे देवघाती और सर्वघातीकी परीक्षा करनेको घातिसंज्ञा कहते हैं । तथा उन्हीं स्पर्धकोंमें यथासंभव एकस्थानीय, द्विस्थानीय आदि भावोंकी गवेषणा करनेको स्थानसंज्ञा कहते हैं ।

अब चूर्णिकार इन दोनों संज्ञाओंका एक साथ निर्देश करते हैं—

चूर्णिसू०—सम्यक्त्वप्रकृति, चारो संज्वलनकषाय और पुरुषवेद, इन छह कर्मोंको छोड़कर शेष वार्डस कर्मोंका अनुभागसंक्रमण नियमसे सर्वघाती, तथा द्विस्थानीय, त्रिस्थानीय और चतुःस्थानीय होता है । केवल सम्यग्मिथ्यात्वका अनुभागसंक्रमण द्विस्थानीय ही होता है ॥३४-३५॥

विशेषार्थ—मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी आदि वारह कषाय और पुरुषवेदको छोड़कर शेष आठ नोकषायोंका उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य अनुभागसंक्रमण नियमसे सर्वघाती ही होता है । इनमे उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमण चतुःस्थानीय ही होता है । अनुत्कृष्ट अनुभागसंक्रमण चतुःस्थानीय भी होता है, त्रिस्थानीय भी होता है और द्विस्थानीय भी होता

१ सेसकम्मण मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्त-वारसकसाय अट्ठणोकसायाणमणुभागसक्रमो उक्कस्सो अणु क्कस्सो जहणो अजहणो च सव्वघादी चेव; देवघादिसरुवेण सव्वकालमेदेसिमणुभागसक्रमपवुत्तीए असभवादो । जयध०

२ एयट्ठाणिओ णत्थि; सव्वघादित्तणेण तस्स पडिसिद्धत्तादो । तत्थुक्कसाणुभागसक्रमो चउट्ठाणिओ चेव, तत्थ पयारतराणुवलभादो । अणुक्कसाणुभागसक्रमो पुण चउट्ठाणिओ तिट्ठाणिओ विट्ठाणिओ वा, तिण्हमेदेसि भावाण तत्थ सभवादो । जहण्णाणुभागसक्रमो विट्ठाणिओ चेव, तत्थ पयारतरासभवादो । अजहण्णाणुभागसक्रमो विट्ठाणिओ, तिट्ठाणिओ चउट्ठाणिओ वा, तिविहस्स वि भावस्स तत्थ सभवादो । जयध०

३ कुदो ? दारुअसमाणाणत्तिमभागे चेव सव्वघादित्तणेण तदणुभागस्स पजवसिदत्तादो । जयध०

अवखवग-अणुवसामगस्स चटुसंजलण-पुरिसवेदाणमणुभागसंकमो मिच्छत्तभंगो^१ । ३७. खवगुवसामगाणमणुभागसंकमो सव्वघादी वा देसघादी वा, वेट्ठाणिओ वा एयट्ठाणिओ वा^२ । ३८. सम्पत्तस्स अणुभागसंकमो णियमा देसघादी^३ । ३९. एयट्ठाणिओ वेट्ठाणिओ वा^४ ।

है । जघन्य अनुभागसंक्रमण द्विस्थानीय ही होता है । अजघन्य अनुभागसंक्रमण द्विस्थानीय भी होता है, त्रिस्थानीय भी होता है और चतुःस्थानीय भी होता है । किन्तु सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य चारो ही प्रकारका अनुभागसंक्रमण द्विस्थानीय ही होता है ।

चूर्णिंस्सु०—अक्षपक और अनुपशामक जीवके चारो संज्वलन और पुरुषवेदका अनुभागसंक्रमण मिथ्यात्वके समान जानना चाहिए । क्षपक और उपशामक जीवोंके कर्मोंका अनुभागसंक्रमण सर्वघाती भी होता है और देशघाती भी होता है । तथा वह द्विस्थानीय भी होता है और एकस्थानीय भी होता है ॥३६-३७॥

विशेषार्थ—उपशम या क्षपक श्रेणी चढ़नेके पूर्ववर्ती सातवें गुणस्थान तकके जीवोंके चारो संज्वलन और पुरुषवेदका अनुभागसंक्रमण सर्वघाती तथा द्विस्थानीय, त्रिस्थानीय और चतुःस्थानीय होता है । क्षपक और उपशमश्रेणीपर चढ़नेवाले जीवोंके उक्त पाँचों कर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमण द्विस्थानीय और सर्वघाती ही होता है । अनुत्कृष्ट अनुभागसंक्रमण द्विस्थानीय भी होता है और एकस्थानीय भी होता है, तथा सर्वघाती भी होता है और देशघाती भी होता है । इनका जघन्यानुभागसंक्रमण देशघाती और एकस्थानीय होता है । अजघन्यानुभागसंक्रमण एकस्थानीय भी होता है और द्विस्थानीय भी होता है । तथा देशघाती भी होता है और सर्वघाती भी होता है ।

चूर्णिंस्सु०—सम्यक्त्वप्रकृतिका अनुभागसंक्रमण नियमसे देशघाती होता है । तथा वह एकस्थानीय भी होता है और द्विस्थानीय भी होता है ॥३८-३९॥

१ कुदो ? सव्वघादित्तणेण वि-त्ति चटुट्ठाणियत्तणेण च भेदाभावादो । जयघ०

२ त जहा-खवगोवसामगेसु एदेसिमुक्कस्साणुभागसंकमो वेट्ठाणिओ सव्वघादी चेव, अपुव्वकरण-पवेसपढमसमए तहुवलंभादो । अणुक्कस्साणुभागसंकमो वेट्ठाणिओ एगट्ठाणिओ वा, सव्वघादी वा देसघादी वा । एगट्ठाणिओ कत्थोवल्लभदे ? खवगोवसमसेठीसु अंतरकरणं कादूणेगट्ठाणियमणुभाग वंधमाणस्स सुद्धणवकवधसकमणावत्थाए किट्ठीवेदगकालव्भतरे च । देसघादिंत्त च तत्थेव ल्लभदे । जहण्णाणुभागसकमो एदेसि देसघादी एयट्ठाणिओ च, जहासंभवणवक्कबंधस्स किट्ठीण चरिमसमयसकामणाए तहुवलभादो । अजहण्णाणुभागसकमो एयट्ठाणिओ वेट्ठाणिओ वा देसघादी वा सव्वघादी वा, अणुक्कस्सस्सेव तहुवलभादो । जयघ०

३ कुदो ? उक्कस्साणुक्कस्स जहण्णाजहण्णभेदाण सव्वेसिमेव देसघादित्तदसणादो । जयघ०

४ तहुक्कस्साणुभागसकमो वेट्ठाणिओ चेव; तत्थ लदा-दारुअसमाणाणुभागाण दोण्हं पि णियमेणो-वलभादो । अणुक्कस्सो वेट्ठाणिओ एयट्ठाणिओ वा; दंसणमोहक्खवणाए अट्ठवस्सट्ठिदिसत्तकम्मप्पहुडि एयट्ठाणाणुभागदसणादो । हेट्ठा विट्ठाणियणियमादो जहण्णाणुभागसंकमो णियमेणेयट्ठाणिओ, समया-

४०. सामित्तं । ४१. मिच्छत्तस्स उक्कस्साणुभागसंक्रमो कस्स ? ४२. उक्कस्साणुभागं वंधिदूणावलियपडिभग्गस्स अण्णदरस्स । ४३. एवं सव्वकम्मपाणं । ४४. णवरि सम्मत्त-सम्भामिच्छत्ताणमुक्कस्साणुभागसंक्रमो कस्स ? ४५. दंसणमोहणीय-क्खवयं मोत्तूण जस्स संतकम्ममत्थि त्ति तस्स उक्कस्साणुभागसंक्रमो ।

४६. एत्तो जहण्णयं । ४७. मिच्छत्तस्स जहण्णाणुभागसंक्रामओ को होइ ?

चूर्णिसू०—अत्र उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमणके स्वामित्वको कहते हैं ॥४०॥

शंका—मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमण किसके होता है ? ॥४१॥

समाधान—उत्कृष्ट अनुभागको बाँध करके आवलिप्रतिभग्न अर्थात् बन्धावलीके परे अवस्थित किसी भी एक जीवके मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमण होता है ॥४२॥

विशेषार्थ—जिस जीवने तीव्र संक्लेशसे मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागको बाँधा, बन्धावलीके पश्चात् उसके मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमण पाया जाता है । ऐसा जीव कोई भी संज्ञी पंचेन्द्रिय उत्कृष्ट संक्लेश-युक्त मिथ्यादृष्टि होता है । यहाँ इतना विशेष ज्ञातव्य है कि असंख्यात वर्षकी आयुवाले तिर्यच और मनुष्योंमें तथा देवोंमें यह उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमण नहीं पाया जाता ।

चूर्णिसू०—इसी प्रकार मिथ्यात्वकर्मके समान सर्वकर्मोंका स्वामित्व जानना चाहिए । विशेषता केवल यह है कि सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमण किसके होता है ? दर्शनमोहनीयके क्षपण करनेवाले जीवको छोड़कर जिसके संक्रमणके योग्य सत्कर्म पाया जाता है, उसके उक्त दोनों कर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमण होता है ॥४३-४५॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे जयन्य अनुभागसंक्रमणके स्वामित्वको कहते हैं ॥४६॥

हियावलियदसणमोहक्खवयमि तदुवलंभादो । अजहण्णाणुभागसंक्रमो एयट्ठाणिओ वेट्ठाणिओ वा, दुसमयाहियावलियदसणमोहक्खवयप्पहुडि जाउक्कस्साणुभागो त्ति ताव अजहण्णवियप्पावट्ठाणादो । जयध०
१ उक्कोसगं पवंधिय आवलियमइच्छिऊण उक्कस्सं ।

जाव ण घाएइ तयं संकमइ आमुहुत्तंता ॥५२॥ कम्म० अनु० स०

२ आवलियपडिभग्न मोत्तूण वधपढमसमए चेंव सामित्त किण्ण दिज्जदे ? ण, अणइच्छाविय वंवावलियस्स कम्मस्स ओकडुणादिसकमणाण पाओग्गत्ताभावादो । सो बुण मिच्छत्तुक्कस्साणुभागवधगो सण्णिपच्चिदियपज्जत्तमिच्छाइट्टिसव्वसकिलिट्ठो । जइ एव, अण्णत्थुक्कस्साणुभागसकमो ण कयाइ लब्भदि त्ति आसकाए णिरायरणट्ठमण्णदरविसेसण कद; तदुक्कस्सवधेणावादिदेण सह एइ दियादिसुप्पणस्स तदुवल्लभे विरोहाभावादो । णवरि असखेज्जवस्साउअतिरिक्ख-मणुसोववादियदेवेषु च ओक्कस्साणुभागसकमो ण लब्भदे, तमवाटेदूण तत्थुप्पत्तीए असभवादो । एदेण सम्माइट्ठीसु वि मिच्छत्तुक्कस्साणुभागसकमो पडि-सिद्धो दट्ठव्यो । उक्कस्साणुभागं वंधिय आवलियपडिभग्गस्स कडयघाटेण विणा सम्मत्तगुणगहणाणुववत्तीदो । कथमेषो विसेसो सुत्तेणाणुवइट्ठो णज्जदे ? ण, वक्खाणादो सुत्तरादो ततजुत्तीए च तदुवल्लब्धीदो । जयध०

३ कुदो; दसणमोहक्खवयादो अण्णत्थ तेसिमणुभागखडयघादाभावादो । जइ वि एत्थ सामण्णेण जस्स सतकम्ममत्थि त्ति बुत्त, तो वि पयरणवमेण सकमपाओग्ग जस्स सतकम्ममत्थि त्ति वेत्तव्व, अण्णहा उव्वेळणाए आवलियपविट्ठसतकम्मियस्स वि गहणप्पसादो । जयध०

४८. सुहुमस्स^१ हदसमुत्पत्तिकम्मणेण अण्णदरो । ४९. एइंदिओ वा वेइंदिओ वा तेइंदिओ वा चउरिंदिओ वा पंचिंदिओ वा^२ । ५०. एवमट्टुण्णं कसायाणं । ५१. सम्मत्तस्स जहण्णाणुभागसंक्रामओ को होइ ? ५२. समयाहियावलिय-अक्खीणदंसणमोहणीओ^३ । ५३. सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णाणुभागसंक्रामओ को होइ ? ५४. चरिमाणुभागखंडयं

शंका—मिध्यात्वका जघन्य अनुभागसंक्रमण किसके होता है ? ॥४७॥

समाधान—सूक्ष्मनिगोदिया लब्धपर्याप्तक जीवके होता है । अथवा हतसमुत्पत्तिक कर्मसे उपलक्षित जो कोई एक एकेन्द्रिय, अथवा द्वीन्द्रिय, अथवा त्रीन्द्रिय, अथवा चतुरिन्द्रिय, अथवा पंचेन्द्रिय जीव है, वह मिध्यात्वके जघन्य अनुभागसंक्रमणका स्वामी है ॥४८-४९॥

विशेषार्थ—सूक्ष्मनिगोदिया लब्धपर्याप्तक जीवके मिध्यात्वके अनुभागसत्त्वका जितना घात शक्य है, उतना घात करके अवस्थित जीवको हतसमुत्पत्तिक कर्मसे उपलक्षित कहते है । मिध्यात्वके इस प्रकार जघन्य अनुभागसत्त्वसे युक्त उक्त प्रकारका एकेन्द्रिय जीव भी जघन्य अनुभागसंक्रमण करता है, अथवा उतने ही अनुभागसत्त्ववाला द्वीन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय तकका कोई भी जीव मिध्यात्वका जघन्य अनुभागसंक्रमण कर सकता है ।

चूर्णिसू०—इसी प्रकार आठो मध्यम कपायोके जघन्य अनुभागसंक्रमणके स्वामित्वको जानना चाहिए ॥५०॥

शंका—सम्यक्त्वप्रकृतिका जघन्य अनुभागसंक्रमण कौन करता है ? ॥५१॥

समाधान—जिसके दर्शनमोहनीयकर्मके क्षय करनेमे एक समय अधिक आवलीकाल अवशिष्ट है, ऐसा जीव सम्यक्त्वप्रकृतिके जघन्य अनुभागका संक्रमण करता है ॥५२॥

शंका—सम्यग्मिध्यात्वके जघन्य अनुभागका संक्रामक कौन है ? ॥५३॥

समाधान—सम्यग्मिध्यात्वके अन्तिम अनुभागकांडकका संक्रमण करनेवाला जीव सम्यग्मिध्यात्वके जघन्य अनुभागका संक्रामक होता है ॥५४॥

१ एत्थ सुहुमगहणेण सुहुमणिगोद अपज्जत्तयस्स गहण कायव्व, अण्णत्थ जहण्णाणुभागसकमुत्पत्तीए अदसणादो । × × × किं हदसमुत्पत्तिं गाम ? हते समुत्पत्तिर्यस्स तद्धतसमुत्पत्तिक कर्म, यावच्छक्य तावत्प्रातघातमित्यर्थः । तं पुण सुहुमणिगोदापज्जत्तयस्स सव्वुक्कस्सविसोहीए पत्तघाद जहण्णाणुभागसत्तकम्मं तदुक्कस्साणुभागवधादो अणत्तगुणहीण, तस्सेव जहण्णाणुभागवधादो अणत्तगुणव्महियं तप्पाओग्गजहण्णाणुक्कस्सवधट्ठाणेण समाणमिदि घेत्तव्व । जयध०

२ सेसाण सुहुमहयसंतकम्मिगो तस्स हेट्ठओ जाव ।

बंधइ तावं एगिदिओ व णेगिदिओ वा वि ॥५९॥ कम्म० अनुभागस० ।

३ कुदो एस्स जहणभावो ? पत्तसव्वुक्कस्सघादत्तादो अणुसमवोवट्टमाणाए अइजहणीकयत्तादो च । जयध०

४ दसणमोहदखवणाए दुचरिमादिहेट्ठिमाणुभागखंडयाणि सकामिय पुणो सम्मामिच्छत्तचरिमाणुभागखंडए वावदो जो सो पयदजहणसामिओ होइ; तत्तो हेट्ठा सम्मामिच्छत्तसवधिजहण्णाणुभागसंक्रामणुवलभादो । जयध०

संछुहमाणओ । ५५. अणंताणुवंधीणं जहण्णाणुभागसंक्रामओ को होइ ? ५६. विसंजोएदूण पुणो तप्पाओग्गविसुद्धपरिणामेण संजोएदूणावलियादीदो^१ । ५७. कोहसंजलणस्स जहण्णाणुभागसंक्रामओ को होइ ? ५८. चरिमाणुभागबंधस्स चरिमसमयअणिल्लेवगो^२ । ५९. एवं माण-मायासंजलण-पुरिसवेदाणं । ६०. लोहसंजलणस्स जहण्णाणुभागसंक्रामओ को होइ ? ६१. समयाहियात्रलियचरिमसमयसकसाओ खवगो^३ । ६२. इत्थिवेदस्स जहण्णाणुभागसंक्रामओ को होइ ? ६३. इत्थिवेदकखवगो तस्सेव चरिमाणुभागखंडए वट्टमाणओ । ६४. णवुंसयवेदरस जहण्णाणुभागसंक्रामओ को होइ ? ६५. णवुंसय-

शंका—अनन्तानुवन्धी चारो कपायोके जघन्य अनुभागका संक्रामक कौन है ? ॥५५॥

समाधान—अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना करके पुनः तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामके द्वारा उसे संयोजित करके अर्थात् पुनः नवीन बंध करके एक आवलीकाल व्यतीत करनेवाला जीव अनन्तानुवन्धी कपायोके जघन्य अनुभागका संक्रामक होता है ॥५६॥

शंका—संज्वलनक्रोधके जघन्य अनुभागका संक्रामक कौन है ? ॥५७॥

समाधान—क्रोधवेदक क्षपकका जो अन्तिम अनुभागबन्ध है, उसके अन्तिम समयका अनिल्लेपक जो जीव है, अर्थात् मानवेदककालके दो समय कम दो आवलियोंके अन्तिम समयमें वर्तमान जो जीव है, वह संज्वलनक्रोधके जघन्य अनुभागका संक्रामक होता है ॥५८॥

चृणिसू०—इसी प्रकार संज्वलनमान, संज्वलनमाया और पुरुषवेदके जघन्य अनुभागसंक्रमणका स्वामित्व जानना चाहिए ॥५९॥

शंका—संज्वलनलोभका जघन्य अनुभागसंक्रामक कौन है ? ॥६०॥

समाधान—एक समय अधिक आवलीके अन्तिम समयमें वर्तमान सकपाय क्षपक अर्थात् सूक्ष्मसाम्परायमंत संज्वलनलोभके जघन्य अनुभागका संक्रामक है ॥६१॥

शंका—स्त्रीवेदके जघन्य अनुभागका संक्रामक कौन है ? ॥६२॥

समाधान—स्त्रीवेदका क्षपण करनेवाला स्त्रीवेदके ही अन्तिम अनुभागखंडमें वर्तमान जीव स्त्रीवेदके जघन्य अनुभागका संक्रामक है ॥६३॥

शंका—नपुंसकवेदके जघन्य अनुभागका संक्रामक कौन है ? ॥६४॥

१ किमट्ठमेसो विसजोयणाए पुणो जोयणाए पयट्ठाविदो ? विट्ठाणाणुभागसत्तकम्म सव्व गालिय णवक्रवधाणुभागे जहण्णाणुसामित्तविहाणदट्ठ । तत्थ वि असखेजलोगमेत्तपडिवादट्ठाणेसु तप्पाओग्गजहण्णसकिल्लेसाणुविद्धपरिणामेण सजुत्तो त्ति जाणावणदट्ठ तप्पाओग्गविसुद्धपरिणामेणेत्ति भणिद, मदसकिल्लेसिदाए चेव विसोहित्तेण विवक्खियत्तादो ।

२ कोहवेदयस्स खवयस्स जो अपच्छिमो अणुभागवधो सो चरिमाणुभागवधो णाम । सो बुण किट्ठिसरूवो, कोहतट्ठियकिट्ठीवेदएण णिव्वत्तिट्ठत्तादो । तस्स चरिमाणुभागवधस्स चरिमसमयअणिल्लेवगो त्ति भणिदे माणवेदगट्ठाए दुसमयूणदोआवलियाण चरिमसमए वट्टमाणओ चेत्तव्वो । जयध०

३ कुदो एत्थ जहण्णभावो ? ण, सुट्ठमकिट्ठीए अणुसमयमणतगुणहाणिसरूवेण अतोमुट्ठत्तमेत्तकालमोवट्ठिदाए तत्थ सुट्ठु जहण्णभावेण सकमुवलभादो । जयध०

वेदकखवओ तस्सेव चरिमे अणुभागखंडए वट्टमाणओ । ६६. छण्णोकसायाणं जहण्णा-
णुभागसंक्रामओ को होइ ? ६७. खवगो तेसिं चए छण्णोकसायवेदणीयाणं चरिमे
अणुभागखंडए वट्टमाणओ ।

६८. एयजीवेण कालो । ६९. मिच्छत्तस्स उक्कस्साणुभागसंक्रामओ केवचिरं
कालादो होदि ? ७०. जहण्णुकस्सेण अंतोमुहुत्तं^१ । ७१. अणुकस्साणुभागसंक्रामओ
केवचिरं कालादो होदि ? ७२. जहण्णेण अंतोमुहुत्तं^२ । ७३. उक्कस्सेण अणंतकाल-
मसंखेज्जा पोग्गलपरियट्ठा^३ । ७४. एवं सोलमकसाय-णवणोकसायाणं । ७५. सम्मत्त-
सम्मामिच्छत्ताणमुक्कस्साणुभागसंक्रामओ केवचिरं कालादो होदि ? ७६. जहण्णेण

समाधान—नपुंसकवेदका क्षपण करनेवाला नपुंसकवेदके ही अन्तिम अनुभागखंडमें
वर्तमान जीव नपुंसकवेदके जघन्य अनुभागका संक्रामक है ॥६५॥

शंका—हास्यादि छह नोकपायोके जघन्य अनुभागका संक्रामक कौन है ? ॥६६॥

समाधान—उन्हीं हास्यादि छह नोकपायवेदनीयोके अन्तिम अनुभागखंडमें वर्तमान
क्षपक जीव छह नोकपायोके जघन्य अनुभागका संक्रामक है ॥६७॥

चूर्णिसू०—अब एक जीवकी अपेक्षा मिथ्यात्वादिकर्मोके उत्कृष्ट अनुभाग संक्रमणका
काल कहते हैं ॥६८॥

शंका—मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभाग संक्रमणका कितना काल है ? ॥६९॥

समाधान—मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमणका जघन्य और उत्कृष्ट काल
अन्तर्मुहूर्त है ॥७०॥

शंका—मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट अनुभागसंक्रमणका कितना काल है ? ॥७१॥

समाधान—मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट अनुभागसंक्रमणका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और
उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन है ॥७२-७३॥

चूर्णिसू०—इसी प्रकार सोलह कषाय और नव नोकपायोके अनुभागसंक्रमणका काल
जानना चाहिए ॥७४॥

शंका—सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमणका कितना
काल है ? ॥७५॥

१ जहण्णेण ताव उक्कस्साणुभाग वधिदूणावलियादीद सकामेमाणएण सव्वलहुमणुभागखंडए घादिदे
अतोमुहुत्तमेत्तो उक्कस्साणुभागसकामयजहण्णकालो लद्धो होइ ! एत्तो सखेज्जगुणो उक्कस्सकालो होइ; उक्क-
स्साणुभाग वविक्रण खडयघाटेण विणा सुट्ठु बहुअ कालमच्छत्तस्स वि अतोमुहुत्तादो उवरिमवट्ठाणा-
सभवादो । जयध०

२ उक्कस्साणुभागसकामादो खडयघादवसेणाणुकस्ससकामयत्तमुवणभिय पुणो वि सव्वरहस्सेण कालेण
उक्कस्साणुभागसकामयत्तमुवणयम्मि तदुवलभादो । जयध०

३ उक्कस्साणुभागसकामादो खडयघादवसेणाणुकस्सभावमुवणयस्स एइदिय-वियलिदिएसु उक्कस्साणु-
भागवधविरहिएसु असखेज्जपोग्गलपरियट्ठमेत्तकालमणुकस्सभावावट्ठाणदसणादो । जयध०

अंतोमुहुत्त^१ । ७७. उक्त्सेण वे छावट्टिसागरोवमाणि सादिरेयाणि^२ । ७८. अणुक्त्साणुभागसंक्रामओ केवचिरं कालादो होदि ? ७९. जहण्णुक्त्सेण अंतोमुहुत्तं ।

८०. एत्तो एयजीवेण कालो जहण्णओ ८१. मिच्छत्तस्स जहण्णाणुभागसंक्रामओ केवचिरं कालादो होदि ? ८२. जहण्णुक्त्सेण अंतोमुहुत्तं । ८३. अजहण्णाणुभागसंक्रामओ केवचिरं कालादो होदि ? ८४ जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । ८५ उक्त्सेण असंखेज्जा लोगा^३ । ८६. एवमट्टुक्त्सायाणं । ८७. सम्मत्तस्स जहण्णाणुभागसंक्रामओ

समाधान—इन दोनों कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमणका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ अधिक एक सौ वत्तीस सागरोपम है ॥ ७६-७७ ॥

शंका—इन्हीं दोनों कर्मोंके अनुत्कृष्ट अनुभागसंक्रमणका कितना काल है ? ॥ ७८ ॥

समाधान—उक्त दोनों कर्मोंके अनुत्कृष्ट अनुभागसंक्रमणका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ॥ ७९ ॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे मिथ्यात्व आदि कर्मोंके अनुभागसंक्रमणका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल कहते हैं ॥ ८० ॥

शंका—मिथ्यात्वके जघन्य अनुभागसंक्रमणका कितना काल है ? ॥ ८१ ॥

समाधान—मिथ्यात्वके जघन्य अनुभागसंक्रमणका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्तप्रमाण है ॥ ८२ ॥

शंका—मिथ्यात्वके अजघन्य अनुभागसंक्रमणका कितना काल है ? ॥ ८३ ॥

समाधान—मिथ्यात्वके अजघन्य अनुभागसंक्रमणका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकके जितने प्रदेश है, उतने समय-प्रमाण है ॥ ८४-८५ ॥

चूर्णिसू०—इसी प्रकार आठ मध्यमकपायोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागसंक्रमणका काल जानना चाहिए ॥ ८६ ॥

शंका—सम्यक्त्वप्रकृतिके जघन्य अनुभागसंक्रमणका कितना काल है ? ॥ ८७ ॥

१ त जहा—एकौ णिस्सतकम्मियमिच्छाइट्ठी पढमसम्मत्तं पडिवजिय सम्माइट्ठिपढमसमए मिच्छत्ताणुभाग सम्मत्तसम्मामिच्छत्तसरूवेण परिणमाविय विटियसमवप्पहुडि तट्टुक्त्साणुभागसकामओ होदूण सव्वलट्टु दसणमोहक्खवण पट्टविय पढमाणुभागखडय घादिय अणुक्त्साणुभागसकामओ जादो । लट्ठो सम्मत्तसम्मामिच्छत्ताणमुक्त्साणुभागसकामयजहण्णकालो अतोमुहुत्तमेत्तो । जयध०

२ तं कथं ? एक्का णिस्सतकम्मियमिच्छाइट्ठी सम्मत्तं वेत्तूणुक्त्साणुभागसकामओ जादो । तदो क्रमेण मिच्छत्तं गतूण पल्लिदोवमम्म असव्वेज्जदिभागमेत्तमुव्वेत्तलणाए परिणमिय पुव्वं व सम्मत्तं वेत्तूण विटियछावट्टि परिभमिय तदवसाणे मिच्छत्तं पडिवण्णो । सव्वुक्त्सेणुव्वेत्तलणकालेण सम्मत्तसम्मामिच्छत्ताणि उव्वेत्तिल्लदूण असकामगो जादो । लट्ठो तीहि पल्लिदोवमम्म असखेज्जदिभागेहि अब्भहियवेत्तावट्टिसागरोवममेत्तो पयट्टुक्त्सकालो । जयध०

३ एयवार हदममुत्पत्तियपाओगपरिणामेण परिणदस्स पुणो णेसपरिणामेसु उक्त्सावट्टाणकालो असखेज्जलोगमेत्तो होइ । जयध०

केवचिरं कालादो होदि ? ८८. जहण्णुक्खस्सेण एयसमओ^१ । ८९. अजहण्णाणुभाग-
संक्रामओ केवचिरं कालादो होदि ? ९०. जहण्णेण अंतोमुहुत्तं^२ । ९१. उक्खस्सेण वे
छावड्डिसागरोवमाणि सादिरेयाणि । ९२. एवं सम्मामिच्छत्तस्स । ९३. णवरि जहण्णा-
णुभागसंक्रामओ केवचिरं कालादो होदि ? ९४. जहण्णुक्खस्सेण अंतोमुहुत्तं^३ ।

९५. अणंताणुवंधीणं जहण्णाणुभागसंक्रामओ केवचिरं कालादो होदि ? ९६.
जहण्णुक्खस्सेण एयसमओ^४ । ९७. अजहण्णाणुभागसंक्रामयस्स तिण्णि भंगा ।
९८. तत्थ जो सो सादिओ सपज्जवसिदो सो जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । ९९. उक्खस्सेण
उवड्डुपोग्गलपरियट्ठं^५ । १००. चट्ठुसंजलण-पुरिसवेदानं जहण्णाणुभागसंक्रामओ केवचिरं

समाधान—सम्यक्त्वप्रकृतिके जघन्य अनुभागसंक्रमणका जघन्य और उत्कृष्ट काल
एक समयमात्र है ॥८८॥

शंका—सम्यक्त्वप्रकृतिके अजघन्य अनुभागसंक्रमणका कितना काल है ? ॥८९॥

समाधान—सम्यक्त्वप्रकृतिके अजघन्य अनुभागसंक्रमणका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है
और उत्कृष्टकाल कुछ अधिक एक सौ वत्तीस सागरोपम है ॥९०-९१॥

चूर्णिसू०—सम्यक्त्वप्रकृतिके समान ही सम्यग्मिथ्यात्वके अजघन्य अनुभागसंक्रमण-
का काल जानना चाहिए । विशेषता केवल यह है कि सम्यग्मिथ्यात्वके जघन्य अनुभागसंक्र-
मणका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है ॥९२-९४॥

शंका—अनन्तानुवन्धी कपायोके जघन्य अनुभागसंक्रमणका कितना काल है ? ॥९५॥

समाधान—अनन्तानुवन्धी कपायोके जघन्य अनुभागसंक्रमणका जघन्य और उत्कृष्ट
काल एक समयमात्र है ॥९६॥

चूर्णिसू०—अनन्तानुवन्धी कपायोके जघन्य अनुभागसंक्रमण-कालके तीन भंग
है—अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त । इनमे जो सादि-सान्त काल है,
वह जघन्यकी अपेक्षा अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्टकी अपेक्षा उपार्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण
है ॥९७-९९॥

शंका—चारों संज्वलन और पुरुषवेदके जघन्य अनुभाग संक्रमणका कितना काल
है ? ॥१००॥

१ कुदो, समयाहियावलयअक्खीणदसणमोहणीय मोत्तूण पुव्वावरकोडीसु तदसभवणियमादो । जयध०

२ णिस्सतकम्मियमिच्छाइट्ठिणा सम्मत्ते समुप्पाइटे लद्धप्पसहावस्स सम्मत्तजहण्णाणुभागसकमस्स
सव्वलहु खवणाए जहण्णाणुभागसकमेण विणासिदत्तभावस्स तेत्तियमेत्तकालावट्ठणदसणादो । जयध०

३ दसणमोहइस्सखवयचरिमाणुभागखडए तदुवलमादो । जयध०

४ विसजोयणापुरस्सर जहण्णभावेण सजुत्तपढमसमयाणुभागवधसकमे लद्धजहण्णभावत्तादो । जयध०

५ कुदो: अद्धपोग्गलपरियट्ठदिसमए पढमसम्मत्त वेत्तूणुवसमसम्मत्तकालम्भतरे नेय विसजोइय पुणो
वि सव्वलहु संजुत्तो होदूण आदिं करिय अद्धपोग्गलपरियट्ठ परिभमिय तदवसाणे अतोमुहुत्तसेसे ससारे
विमजोयणापरिणदम्मि तदुवलमादो । जयध०

कालादो होदि ? १०१. जहण्णुक्कस्सेण एयसमओ^१ । १०२. अजहण्णाणुभागसंक्रामओ अणंताणुवंधीणं भंगो । १०३. इत्थि-णवुंसयवेद-छण्णोकसायाणं जहण्णाणुभागसंक्रामओ केवचिरं कालादो होदि ? १०४. जहण्णुक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं^२ । १०५. अजहण्णाणुभाग-संक्रामयस्स तिण्णि भंगा । १०६ तत्थ जो सो सादिओ सपज्जवसिदो सो जहण्णेण अंतोमुहुत्तं^३ । १०७. उक्कस्सेण उवड्डुपोगलपरियट्ठं^४ ।

१०८. एत्तो एयजीवेण अंतरं । १०९. मिच्छत्तस्स उक्कस्साणुभागसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ११०. जहण्णेण अंतोमुहुत्तं^५ । १११. उक्कस्सेण असंखेज्जा^६

समाधान—उक्त पाँचों कर्मोंका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समयमात्र है ॥१०१॥

चूणिंसू०—चारों संज्वलन और पुरुषवेदके अजघन्य अनुभागसंक्रमणका काल अन्तानुबन्धीकपायके समान जानना चाहिए ॥१०२॥

शंका—न्वीवेद, नपुंसकवेद और हास्यादि छह नोकपायोंके जघन्य अनुभागसंक्रमणका कितना काल है ? ॥१०३॥

समाधान—उक्त आठों नोकपायोंके जघन्य अनुभागसंक्रमणका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुद्भूतप्रमाण है ॥१०४॥

चूणिंसू०—इन्हीं उक्त आठों नोकपायोंके अजघन्य अनुभागसंक्रमणकालके तीन भंग हैं—अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त । इनमें जो सादि-सान्त काल है, वह जघन्यकी अपेक्षा अन्तमुद्भूतप्रमाण है और उत्कृष्टकी अपेक्षा उपार्धपुद्गल-परिवर्तनप्रमाण है ॥१०५-१०७॥

चूणिंसू०—अब एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अनुभाग-संक्रामकोका अन्तरकाल कहते हैं ॥१०८॥

शंका—मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमणका अन्तरकाल कितना है ? ॥१०९॥

समाधान—मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमणका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुद्भूत है और उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन है ॥११०-१११॥

१ कुदो, तिण्ह सजलणाण पुरिसवेदस्स च चरिमाणुभागवधचरिमफालीए लोहसजलणस्स वि समया-हियावल्लियसकसायम्मि तदुवलद्धीदो । जयध०

२ कुदो; खवगचरिमाणुभागखडयम्मि अतोमुहुत्तुक्कीरणद्वापड्विद्धम्मि लद्धजहण्णभावत्तादो । जयध०

३ सव्वोवसामणादो परिवट्ठिय सव्वजहण्णतोमुहुत्तकालमजहण्ण सकामिय पुणो खवगसेट्ठि चट्ठिय जहण्णभावेण परिणदम्मि तदुवलद्धीदो । जयध०

४ सव्वोवसामणादो परिवट्ठिय अद्धपोगलपरियट्ठ परिभमिय तदवसाणे असकामयत्तमुवगयम्मि तदुवलभादो । जयध०

५ तं जहा—उक्कस्साणुभागसकामओ अणुक्कस्सभाव गत्तूण जहण्णमतोमुहुत्तमतिय पुणो वि उक्कस्सा-णुभागस्स पुव्व सकामओ जादो । लद्धमुक्कस्साणुभागसकामयजहण्णतरमतोमुहुत्तमेत्त । जयध०

६ तं कथं ? सण्णी पचिट्ठिओ उक्कस्साणुभाग वधिय सकामेमाणो कडयधादेण अणुक्कस्से णिवट्ठिय एहदिएसु अणतकालमच्छिदूण पुणो सण्णिपचिदियपजत्तएसु पजिय उक्कस्साणुभाग वविदूण सकामओ जादो । तस्स लद्धमतर होइ । जयध०

पोग्गलपरियट्टा । ११२. अणुक्कस्साणुभागसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ११३. जहण्णुक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं^१ । ११४. एवं सोलसकसाय-णवरणोक्कसायाणं । ११५. णवरि वारसकसाय-णवरणोक्कसायाणमणुक्कस्साणुभागसंक्रामयंतरं जहण्णेण एयसमओ^२ । ११६. अणंताणुवंधीणमणुक्कस्साणुभागसंक्रामयंतरं जहण्णेण अंतोमुहुत्तं^३ । ११७. उक्कस्सेण वे छावट्टि-सागरोवमाणि सादिरेयाणि^४ । ११८. समत्त-सम्मामिच्छत्ताणमुक्कस्साणुभाग-संक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ११९. जहण्णेणेयसमओ^५ । १२०. उक्कस्सेण उवड्डुपोग्गलपरियट्टं^६ ।

शंका-मिध्यात्वके अनुत्कृष्ट अनुभागसंक्रमणका अन्तरकाल कितना है ? ॥११२॥

समाधान-मिध्यात्वके अनुत्कृष्ट अनुभागसंक्रमणका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहूर्त है ॥११३॥

चूर्णिसू०-इसी प्रकार मिध्यात्वके समान सोलह कपायो और नव नोकपायोके अनु-भाग संक्रमणका अन्तरकाल जानना चाहिए । विशेषता केवल यह है कि वारह कषाय और नव नोकषायोके अनुत्कृष्ट अनुभागसंक्रमणका जघन्य अन्तरकाल एक समय है । तथा अनन्ता-नुवन्धी कषायोके अनुत्कृष्ट अनुभागसंक्रमणका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ अधिक एक सौ वत्तीस सागरोपम है ॥११४-११७॥

शंका-सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमणका अन्तरकाल कितना है ? ॥११८॥

समाधान-उक्त दोनो प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमणका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल उपाधुपुद्गलपरिवर्तन है ॥११९-१२०॥

१ त जहा-अणुक्कस्सकामओ उक्कस्सं काऊणतोमुहुत्तकालं उक्कस्समेव संकामिय पुणो खंडयघादेणा-णुक्कस्सकामओ जादो । लद्धमंतरं होइ । णवरि जहण्णतरे इच्छिज्जमाणे सव्वलहुमेव कडयघादो करावेयव्वो । उक्कस्सतरे विवट्ठिलए सव्वचिरेणतोमुहुत्तेण कडयघादो करावेयव्वो । जयध०

२ अप्पण्णो सव्वोवसामणाए एयसमयमंतरिय विदियसवए काल काऊण देवेसुप्पण्णपढमसमए पुणो वि संकामयत्तमुवगयम्मि तहुवलभादो । जयध०

३ त कथं ? अणुक्कस्साणुभागं सकामेतो विसजोइय पुणो अतोमुहुत्तेण सजुत्तो होदूण संकामगो जादो । लद्धमतर । जयध०

४ त कथं ? उवसमसम्मत्तकालमंतरे अणताणुवधी विसंजोएदूण वे छावट्टीओ भमिय मिच्छत्तं गतणावल्लिमादीद सकामेमाणत्तम लद्धमंतर । एत्थ सादिरेयमाणमतोमुहुत्तं । जयध०

५ त जहा-सम्मत्तमुव्वेह्लमाणो उवसमसम्मत्ताहिमुहो होऊणतरकरण परिसमाणिय मिच्छत्तपढम-टिठदिचरिमनमयम्मि सम्मत्तचरिमफालिं सकामिय उवसमसम्मत्तगहणपढमसमए असकामओ होऊण-तरिय पुणो विदियनमए उक्कस्साणुभागसंक्रामओ जादो । लद्धमतर । एव सम्मामिच्छत्तस्स वि जहण्णमतर-परुवणा ज्ञायव्व्या । जयध०

६ त कथं ? अद्धपोग्गलपरियट्टादिसमए पढमसम्मत्तं पडिवजिय सव्वलहु मिच्छत्त गतूण सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणि उव्वेत्तिलिय अतरस्सादिं कादूण उवड्डुपोग्गलपरियट्ट परिभमिय पुणो थोवावट्टे ससारे उव-सम्मत्तं पडिवणो । विदियसमयम्मि सकामओ जादो । लद्धमुक्कस्संतरमुवड्डुपोग्गलपरियट्टमेत्तं । जयध०

१२१. अणुकस्साणुभागसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? १२२. णत्थि अंतरं । १२३. एत्तो जहण्णयंतरं । १२४. मिच्छत्तस्स जहण्णाणुभागसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? १२५. जहण्णेण अंतोमुहुत्तं^१ । १२६. उक्कस्सेण असंखेज्जा लोमा^२ । १२७. अजहण्णाणुभागसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? १२८. जहण्णु-क्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । १२९. एवमद्धकसायाणं । १३०. णवरि अजहण्णाणुभागसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? १३१. जहण्णेण एयसमओ^३ । १३२. सडमत्त-सम्भामिच्छत्ताणं जहण्णाणुभागसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? १३३. णत्थि अंतरं^४ । १३४. अजहण्णाणुभागसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? १३५. जहण्णेण एयसमओ ।

शंका—सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट अनुभागसंक्रमणका अन्तर-काल कितना है ? ॥१२१॥

समाधान—इन दोनों प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागसंक्रमणका अन्तर नहीं होता है ॥१२२॥

चूर्णिसू०—अब इसमें आगे अनुभागसंक्रमणका जघन्य अन्तर कहते हैं ॥२२३॥

शंका—मिथ्यात्वके जघन्य अनुभागसंक्रमणका अन्तरकाल कितना है ? ॥१२४॥

समाधान—मिथ्यात्वके जघन्य अनुभागसंक्रमणका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात लोकप्रमाण है ॥१२५-१२६॥

शंका—मिथ्यात्वके अजघन्य अनुभागसंक्रमणका अन्तरकाल कितना है ॥१२७॥

समाधान—मिथ्यात्वके अजघन्य अनुभागसंक्रमणका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहूर्त है ॥१२८॥

चूर्णिसू०—इसी प्रकार मिथ्यात्वके समान आठो मध्यम कपायोंके अजघन्य अनु-भागसंक्रमणका अन्तरकाल जानना चाहिए । विशेषता केवल यह है कि आठो मध्यम कपायोंके अजघन्य अनुभागसंक्रमणका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय है ॥१२९-१३१॥

शंका—सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वके जघन्य अनुभागसंक्रमणका अन्तरकाल कितना है ? ॥१३२॥

समाधान—इन दोनों प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागसंक्रमणका अन्तर नहीं होता ॥१३३॥

शंका—सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वके अजघन्य अनुभागसंक्रमणका अन्तर-

१ त कथं ? जहा-सुहुमेइदियहदसमुप्पत्तियजहण्णाणुभागसकामादो अजहण्णभावं गत्तूण पुणो वि अंतोमुहुत्तेण घादिय सव्वजहण्णाणुभागसकामओ जादो । लद्धमतर होइ । जयध०

२ त कथं ? जहण्णाणुभागसकामओ अजहण्णभाव गत्तूण तप्पाओग्गपरिणामट्ठाणेसु असखेज्जलोग-मेत्त काल गमिय पुणो हट्समुप्पत्तियपाओग्गपरिणामेण जहण्णभावमुवगओ । तस्स लद्धमतर होइ । जयध०

३ सव्वोवसामणाए अतरिदस्स तदुवलभादो । जयध०

४ कुदो; खवणाए जाटजहण्णाणुभागसकामयस्स पुणकम्भवाभावादो । जयध०

१३६. उक्कस्सेण उवड्डुपोग्गलपरियट्ठं^१ । १३७. अणंताणुवंधीणं जहण्णाणुभागसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? १३८. जहण्णेण अंतोमुहुत्तं^२ । १३९. उक्कस्सेण उवड्डुपोग्गलपरियट्ठं^३ । १४०. अजहण्णाणुभागसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? १४१. जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । १४२. उक्कस्सेण वे छावट्ठिसागरोवमाणि सादिरेयाणि^४ । १४३. सैसाणं कस्माणं जहण्णाणुभागसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? । १४४. णत्थि अंतरं^५ । १४५. अजहण्णाणुभागसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ?

काल कितना है ? ॥१३४॥

समाधान—उक्त दोनों प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागसंक्रमणका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्धपुद्गलपरिवर्तन है ॥१३५-१३६॥

शंका—अनन्तानुवन्धी कपायोके जघन्य अनुभागसंक्रमणका अन्तरकाल कितना है ? ॥१३७॥

समाधान—जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्धपुद्गलपरिवर्तन है ॥१३८-१३९॥

शंका—अनन्तानुवन्धी कपायोके अजघन्य अनुभागके संक्रमणका अन्तरकाल कितना है ? ॥१४०॥

समाधान—जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ अधिक एक सौ बत्तीस सागरोपम है ॥१४१-१४२॥

शंका—शेष चार संव्वलन और नव नोकपाय, इन तेरह कर्मोंके जघन्य अनुभागसंक्रमणका अन्तरकाल कितना है ? ॥१४३॥

समाधान—उक्त तेरह कर्मोंके जघन्य अनुभागसंक्रमणका अन्तर नहीं होता है ॥१४४॥

शंका—उन्हीं तेरह कर्मोंके अजघन्य अनुभागसंक्रमणका अन्तर काल कितना है ? ॥१४५॥

१ त जहा—अणताणुवधीण सजुत्तपटमसमयणवक्कधमावलियादीद जहण्णभावेण सकामिय तत्तो विट्ठियादिसमएसु अजहण्णभावेणतरिय पुणो वि सव्वलहुएण कालेण विसंजोयणापुव्व तप्पाओग्गजहण्णपरिणामेण सजुत्तो होऊणावलियादिककतो जहण्णाणुभागसंक्रामओ जादो । लद्धमतर होइ । जयध०

२ तं जहा—पुव्वत्तेणेव विहिणा आदि कादूणतरिय उवड्डुपोग्गलपरियट्ठं परिभमिय थोवावसेवे नि.सद्वए नि समत्त पटिवज्जिय अणताणुवंधिविसजोयणापुरस्सर परिणामपच्चएण सजुत्तो होऊण आवलियादिककतो जहण्णाणुभागसंक्रामओ जादो । लद्धमुक्कत्ततर होइ । जयध०

३ उव्वनमसम्मत्तकालभतरे चैव अणताणुवंधिचउक्क विसजोइय वेट्ठयसम्मत्त वेत्तूण वे छावट्ठिसागरोवमाणि परिभमिय तदवसाणे मिच्छत्त गत्तूणावलियादीद सकामेमाणत्स लद्धमुक्कत्तसमंतर होइ । एत्थ सादिरेयमाणमतोमुहुत्त । जयध०

५ मुदो, न्ययाए जादजहण्णाणुभागत्तादो । जयध०

१४६. जहण्णेण एयसमओ^१ । १४७. उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त^२ ।

१४८. सण्णियासो । १४९. मिच्छत्तस्स उक्कस्साणुभागं संकामेतो सम्मत्त-
सम्मामिच्छत्ताणं जइ संकामओ णियमा उक्कस्सयं संकामेदि^३ । १५०. सेसाणं कम्माणं
उक्कस्सं वा अणुक्कस्सं वा संकामेदि^४ । १५१. उक्कस्सादो अणुक्कस्सं छट्ठाणपदिदं ।
१५२. एवं सेसाणं कम्माणं णादूण णेदव्वं ।

१५३. [जहण्णओ] सण्णियासो । १५४. मिच्छत्तस्स जहण्णाणुभागं संकामेतो
सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं जइ संकामओ णियमा अजहण्णाणुभागं संकामेदि^५ । १५५.

समाधान—जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त
है ॥१४६-१४७॥

चूर्णिसू०—अब उत्कृष्ट अनुभाग-संक्रमण करनेवाले जीवोंका सन्निकर्ष कहते हैं—
मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागका संक्रमण करनेवाला जीव यदि सम्यक्त्वप्रकृति और सम्य-
गिमथ्यात्वका संक्रमण करता है, तो नियमसे उत्कृष्ट अनुभागका संक्रमण करता है और
शेष कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागका भी संक्रमण करता है, अथवा अनुत्कृष्ट अनुभागका भी
संक्रमण करता है । शेष कर्मोंका उत्कृष्ट अनुभाग-संक्रमणसे अनुत्कृष्ट अनुभाग-संक्रमण
पटस्थानपतित हानिरूप होता है । जिस प्रकार मिथ्यात्वके साथ शेष कर्मोंके सन्निकर्षका
विधान किया गया है, उसी प्रकार शेष कर्मोंका भी पृथक् पृथक् निरूपण करके उत्कृष्ट
अनुभागका सन्निकर्ष लगा लेना चाहिए ॥१४८-१५२॥

चूर्णिसू०—अब जघन्य अनुभाग-संक्रमण करनेवाले जीवोंका सन्निकर्ष कहते हैं—
मिथ्यात्वके जघन्य अनुभागका संक्रमण करनेवाला जीव यदि सम्यक्त्वप्रकृति और सम्य-
गिमथ्यात्वका संक्रमण करता है, तो नियमसे अजघन्य अनुभागका संक्रमण करता है ।

१ सच्चोवसामणाए एयसमयमतरिय विदियसमए काल कादूण देवेसु^१पणपढमसमए सकामयत्तमुव-
गयम्मि तदुवलभादो । जयध०

२ सच्चोवसामणाए सच्चिरकालमतरिय पडिवाटवसेण पुणो सकामयत्तमुवगयस्स पयदतर समा-
णणोवलभादो । जयध०

३ मिच्छत्तुक्कस्साणुभागसकामओ सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताण सिया सत्तकम्मिओ, सिया असत्तकम्मिओ ।
सत्तकम्मिओ वि सिया सकामओ, आवलियपविट्ठसत्तकम्मियस्स वि सभवोवलभादो । जइ सकामओ,
णियमा सो उक्कस्स सकामेइ, दसणमोहक्खवणणादो अण्णत्थ तदणुक्कस्सभावाणुप्पत्तीदो । जयध०

४ कुदो, मिच्छत्तुक्कस्साणुभागसकामयम्मि सोलसकसाय णथणोक्कसायाणमुक्कस्साणुभागस्स तत्तो
छट्ठाणहीणाणुभागस्स वि विसेसपच्चयवसेण सभव पडि विरोहाभावादो । जयध०

५ किं कारणं ? णिरुद्धमिच्छत्तुक्कस्साणुभाग सकामयम्मि विवक्खियपयडीणमणुभागस्स छट्ठाण-
हाणिवधसभव पडि विप्पडिसेहाभावादो । जयध०

६ कुदो; मिच्छत्तजट्ठाणुभागसकामयसुहुमेइदियहदसमुप्पत्तियसंत्तकम्मियम्मि सम्मत्त सम्मामिच्छ-
त्ताणमुक्कस्साणुभागसकमस्सेव सभवदसणादो । जयध०

जहण्णादो अजहण्णमणंतगुणव्भहियं । १५६. अट्ठहं कम्माणं जहण्णं वा अजहण्णं वा संकामेदि । १५७. जहण्णादो अजहण्णं छट्ठाणपदिदं^२ । १५८. सेसाणं कम्माणं णियमा अजहण्णं । १५९. जहण्णादो अजहण्णमणंतगुणव्भहियं । १६०. एवमट्ठकसायाणं ।

१६१. सम्मत्तस्स जहण्णाणुभागं संकामंतो मिच्छत्त-सम्पामिच्छत्त-अणंताणु-वंधीणमकम्मंसिओ^३ । १६२. सेसाणं कम्माणं णियमा अजहण्णं संकामेदि^४ । १६३. जहण्णादो अजहण्णमणंतगुणव्भहियं^५ । १६४. एवं सम्पामिच्छत्तस्स वि । णवरि सम्मत्तं

मिथ्यात्वके जघन्य अनुभाग-संक्रमणसे अजघन्य अनुभागसंक्रमण अनन्तगुणा अधिक होता है । मिथ्यात्वके जघन्य अनुभागका संक्रमण करनेवाला जीव आठ मध्यम कपायरूप कर्मों के जघन्य अनुभागका भी संक्रमण करता है और अजघन्य अनुभागका भी संक्रमण करता है । यह जघन्य अनुभागसे अजघन्य अनुभाग संक्रमण पट्-स्थान-पतित वृद्धिरूप होता है । अर्थात् कहींपर जघन्य अनुभागसे अनन्तभाग अधिक, कहींपर असंख्यातभाग अधिक, कहीं पर संख्यातभाग अधिक, कहींपर संख्यातगुण अधिक, कहींपर असंख्यातगुण अधिक और कहींपर अनन्तगुण अधिक जघन्य अनुभागका संक्रमण करता है । मिथ्यात्वके जघन्य अनुभागका संक्रमण करनेवाला शेष कर्मों के अजघन्य अनुभागका नियमसे संक्रमण करता है । यह जघन्य अनुभागसंक्रमणसे अजघन्य अनुभागसंक्रमण अनन्तगुणा अधिक होता है । इसी प्रकार मिथ्यात्वके जघन्य अनुभागसंक्रमणके समान आठ मध्यम कपायोके जघन्य अनुभाग-संक्रमणका सन्निकर्ष जानना चाहिए ॥ १५३-१६० ॥

चूर्णिसू०—सम्यक्त्वप्रकृतिके जघन्य अनुभागका संक्रमण करनेवाला जीव मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धी कपायोकी सत्तासे रहित होता है । सम्यक्त्वप्रकृतिके जघन्य अनुभागका संक्रमण करनेवाला जीव शेष वारह कपाय और नव नोकपाय, इन उन्नीस कर्मों के अजघन्य अनुभागका नियमसे संक्रमण करता है । यह जघन्य अनुभाग-संक्रमणसे अजघन्य अनुभागसंक्रमण अनन्तगुणा अधिक होता है । इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वके जघन्यानुभागसंक्रमणका भी सन्निकर्ष जानना चाहिए । विशेषता केवल यह है कि

१ कुदो, मिच्छत्तेण समाणसामियत्ते वि विसेसपच्चयवसेणेदेसिमणुभागस्स तत्थ जहण्णाजहण्णभाव-सिद्धीए विरोहाभावादो । जयध०

२ एत्थ छट्ठाणपदिदमिदि बुत्ते कत्थ वि जहण्णादो अणतभागव्भहिय, कत्थ वि असखेज्जभाग-व्भहिय, कत्थ वि सखेज्जभागव्भहिय, कत्थ वि सखेज्जगुणव्भहिय, कत्थ वि असखेज्जगुणव्भहिय अणतगुण-व्भहिय च जहण्णाणुभाग सकामेदि त्ति घेत्तव्व; अतरगपच्चयवसेण जहण्णभावपाओग्गविसए वि पयद-वियप्पाणमुप्पत्तीए पडिच्चधाभावादो । जयध०

३ कुदो; एदेसिमविणासे सम्मत्तजहण्णाणुभागसकमुप्पत्तीए विप्पडिसिद्धत्तादो । जयध०

४ कुदो, सुहुमहदसमुप्पत्तियकम्मेण चरित्तमोहक्खवणाए च लद्धजहण्णभावानं तेसिमेत्थ जहण्ण-भावाणुवलभादो । जयध०

५ कुदो, अट्ठकसायाण हदसमुप्पत्तियजहण्णाणुभागादो सेसकसाय-णोकसायाण पि खवणाए जणिदजहण्णाणुभागसंक्रमादो एत्थतणतदणुभागसकमस्स तहाभावसिद्धीए विप्पडिसेहाभावादो । जयध०

विज्जमाणोहि भणियव्वं । १६५. पुरिसवेदस्स जहण्णाणुभागं संकामंतो चटुण्हं कसायाणं
णियमा अजहण्णमणंतगुणव्वभहियं । १६६. कोधादितिए उवरिह्छाणं संकामओ^२ णियमा
अजहण्णमणंतगुणव्वभहियं । १६७. लोहसंजलणे णिरुद्धे णत्थि सण्णियासोक्क ।

१६८. णाणाजीवेहि भंगविचओ दुविहो-उक्कस्सपदभंगविचओ जहण्णपदभंग-
विचओ च । १६९. तेसिमट्ठपदं^३ काज्जण । १७०. मिच्छत्तस्स सव्वे जीवा उक्कस्साणु-
भागस्स असंकामया^४ । १७१. सिया असंकामया च संकामओ च^५ । १७२. सिया

यहाँपर सम्यक्त्वप्रकृतिकी विद्यमानताके साथ सम्यग्मिथ्यात्वके जवन्य अनुभागसंक्रमणका सन्निकर्ष कहना चाहिए । पुरुषवेदके जवन्य अनुभागका संक्रमण करनेवाला जीव चारो संज्वलन कषायोके अनन्तगुण अधिक अजवन्य अनुभागका नियमसे संक्रमण करता है । संज्वलन क्रोधादित्रिकके जवन्य अनुभागका संक्रमण करनेवाला जीव उपरितन कषायोके अनन्तगुणा अधिक अजवन्य अनुभागका नियमसे संक्रामक होता है । संज्वलन लोभके निरुद्ध करनेपर सन्निकर्ष नहीं है ॥१६१-१६७॥

चूर्णिसू०—नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय दो प्रकारका है—उत्कृष्टपदभंगविचय और जवन्यपदभंगविचय । इन दोनोंके अर्थपदको कहकर उन दोनोंकी प्ररूपणा करना चाहिए ॥१६८-१६९॥

विशेषार्थ—वह अर्थपद इस प्रकार है—जो जीव उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक होते हैं, वे अनुत्कृष्ट अनुभागके असंकामक होते हैं और जो अनुत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक होते हैं, वे उत्कृष्ट अनुभागके असंकामक होते हैं । इसी प्रकार जवन्य-अजवन्य अनुभागसंक्रामकोंका भंगविचय-सम्बन्धी अर्थपद जानना चाहिए ।

चूर्णिसू०—सभी जीव मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागके असंकामक होते हैं । कदाचित् अनेक जीव असंकामक होते हैं और कोई एक जीव संक्रामक होता है । कदाचित् अनेक

१ तेसिं पुण अजहण्णाणुभागमणतगुणव्वभहिय चैव सकामेदि; उवरि किट्ठीपजाएण लद्धजहण्णभावाण-
मेत्थ तटविरोहादो । जयध०

२ कोधादितिगे सजलणसण्णिदे णिरुद्धे हेट्ठट्ठलाण णत्थि सण्णियासो, असत्तकम्मिए तटविरोहादो ।
उवरिह्छाणमत्थि, कोहसजलणे णिरुद्धे माण-माया लोहसजलणाण, माणसजलणे णिरुद्धे माया-लोहसजलणाण,
मायासजलणे णिरुद्धे लोहसजलणस्स सकमसभवोवलभादो । जयध०

३ किं तमट्ठपद ? बुच्चद—जे उक्कस्साणुभागसकामया ते अणुक्कस्साणुभागस्स असकामया, जे
अणुक्कस्साणुभागसकामया ते उक्कस्साणुभागस्स असकामया । कुदो ? जेसिं सत्तकम्ममत्थि तेसु पयद,
अकम्मिहि अव्ववहारो । जयध०

४ कुदो, मिच्छत्तुक्कस्साणुभागसकामयाणमद्धुवभाविच्चादो । जयध०

५ कुदो; सव्वजीवाणमुक्कस्साणुभागस्स असकामयाण मज्जे कदाइमेयजीवस्स तदुक्कस्साणुभाग-
सकामयत्तेण परिणदम्मुवलभादो । जयध०

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमे इस सूत्रको ऊपरके सूत्रकी टीकामे सम्मिलित कर दिया है । (देखो पृ०
११४२ पक्ति ४)

असंक्रामया च संक्रामया च^१ । १७३. एवं सेसाणं कम्माणं । १७४. णवरि सम्पत्त-
सम्मामिच्छत्ताणं संक्रामया-पुव्वं ति भाणिदव्वं^२ । १७५. जहण्णाणुभागसंक्रमभंगविचओ ।
१७६. मिच्छत्त-अट्ठकसायाणं जहण्णाणुभागस्स संक्रामया च असंक्रामया च^३ । १७७.
सेसाणं कम्माणं जहण्णाणुभागस्स सव्वे जीवा सिया असंक्रामया^४ । १७८. सिया
असंक्रामया च संक्रामओ च^५ । १७९. सिया असंक्रामया च संक्रामया च^६ ।

१८०. णाणाजीवेहि कालो । १८१. मिच्छत्तस्स उक्कस्साणुभागसंक्रामया
केवचिरं कालादो हांति ? १८२. जहण्णेण अंतोघुहुत्तं^७ । १८३. उक्कस्सेण पलिदोवमस्स

जीव असंक्रामक और अनेक संक्रामक होते हैं । जिस प्रकार यह मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनु-
त्कृष्ट अनुभागसंक्रामकोका भंगविचय किया है, उसी प्रकारसे ज्ञेय कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभाग-
संक्रामकोका भंगविचय जानना चाहिए । विशेषता केवल यह है कि सम्यक्त्वप्रकृति
और सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभाग-संक्रामकोके भंग संक्रामक-पदपूर्वक कहना
चाहिए ॥१७०-१७४॥

चूर्णिद्वयं—अब जघन्य अनुभागसंक्रामकोका भंगविचय कहते हैं । मिथ्यात्व और
आठ मध्यम कथायोंके जघन्य अनुभागके अनेक जीव संक्रामक भी होते हैं और अनेक जीव
असंक्रामक भी होते हैं ज्ञेय कर्मोंके जघन्य अनुभागके सर्व जीव कदाचित् असंक्रामक
होते हैं । कदाचित् अनेक असंक्रामक और कोई एक जीव संक्रामक भी होता है । कदाचित्
अनेक असंक्रामक और अनेक संक्रामक भी होते हैं ॥१७५-१७९॥

चूर्णिद्वयं—अब नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट अनुभागसंक्रामकोका काल कहते
हैं ॥१८०॥

शंका—मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक जीवोंका कितना काल है? ॥१८१॥

समाधान—जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टकाल पल्योपमका असंख्यातवर्ष
भाग है ॥१८२-१८३॥

१ कदाइमुक्कस्साणुभागस्सकामयसव्वजीवाण मज्जे केत्तियाणं पि जीवाणमुक्कस्साणुभागसंक्रा-
मयभावेण परिणदानुव्वलभादो । जयध०

२ त जहा—सम्पत्त-सम्मामिच्छत्ताणसुक्कस्साणुभागस्स सिया सव्वे जीवा सकामया १, सिया एदे
च असकामओ च २, सिया एदे च असकामया च ३ । एवमणुक्कस्साणुभागसंक्रामयाण पि विवजासेण
तिण्ह भगाणमालावो कायव्वो ति एस विसेसो सुत्तेणेदेण जाणाविदो । जयध०

३ कुदो एवं, सुहुमेइदियहदसमुप्पत्तियकम्मेण लद्धजहण्णभावणमेदेसि तदविरोहादो । जयध०

४ कुदो; दसण-चरित्तमोहकखवयाणमणताणुवधिसजोइयाण च सव्वद्वमणुव्वलभादो । जयध०

५ कुदो, असंक्रामयाण धुवभावेण कटाइमेयजीवस्स जहण्णभावपरिणदस्स परिप्फुडमुव्वलभादो । जयध०

६ कुदो, असंक्रामयाणं धुवभावेण केत्तियाण पि जीवाण जहण्णाणुभागसकामयभावपरिणदान-
मुव्वलभादो । जयध०

७ त कथ ? सत्तट्ठ जणा बहुगा वा बद्धुक्कस्साणुभागा सव्वजहण्णमंतोमुहुत्तमेत्तकालं संक्रामया
होदूण पुणो कंडयथादवसेणाणुक्कस्सभावमुव्वगया । लद्धो सुत्तुदिट्ठजहण्णकालो । जयध०

असंखेज्जदिभागो' । १८४. अणुक्कस्साणुभागसंक्रामया सव्वद्धा^३ । १८५. एवं सेसाणं वस्माणं । १८६. णवरि सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमुक्कस्साणुभागसंक्रामया सव्वद्धा । १८७. अणुक्कस्साणुभागसंक्रामया केवचिरं कालादो होंति ? १८८. जहण्णुक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं^४ ।

१८९. एत्तो जहण्णकालो । १९०. मिच्छत्त-अट्ठकसायाणं जहण्णाणुभागसंक्रामया केवचिरं कालादो होंति ? १९१. सव्वद्धा^५ । १९२. सम्मत्त-चट्ठसंजलण-पुरिसवेदाणं जहण्णाणुभागसंक्रामया केवचिरं कालादो होंति ? १९३. जहण्णेण्यसमर्थो^६ । १९४. उक्कस्सेण संखेज्जा समयो^७ । १९५. सम्मामिच्छत्त-अट्ठणोकसायाणं जहण्णाणुभागसंक्रामया

चृणिसू०—मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट अनुभाग-संक्रामक सर्वकाल पाये जाते हैं । इसी प्रकार जेप कर्मोंके अनुभागसंक्रामकोंका काल जानना चाहिए । विशेषता केवल यह है कि सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक सर्वकाल होते हैं ॥१८४-१८६॥

शंका—सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट अनुभाग-संक्रामक जीवोंका कितना काल है ? ॥१८७॥

समाधान—जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है ॥१८८॥

चृणिसू०—अब इससे आगे जघन्य अनुभागसंक्रमण करनेवालोंका काल कहते हैं ॥१८९॥

शंका—मिथ्यात्व और आठ मध्यम कर्मायोंके जघन्य अनुभागसंक्रामकोंका कितना काल है ? ॥१९०॥

समाधान—सर्व काल है ॥१९१॥

शंका—सम्यक्त्वप्रकृति, चारो संज्वलन और पुरुषवेदके जघन्य अनुभाग-संक्रामकोंका कितना काल है ? ॥१९२॥

समाधान—जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल संख्यात समय है ॥१९३-१९४॥

१ न जहा—एयजीवस्सुक्कस्साणुभागसंक्रमकालमतोमुहुत्तपमाणं ठविय तप्पाओग्गपलिटोवमासखेज्ज-भागमेत्ततट्ठणुसधाणवारसलागाहि गुणेयव्व । तदो पयदुक्कस्सकालपमाणमुप्पज्जदि । जयध०

२ कुदो; सव्वकालमिच्छिण्णपवाहसल्लवेणेदेसिमवट्ठाणदसणादो । जयध०

३ कुदो; सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमुक्कस्साणुभागसंक्रामयवेदगसम्माइट्ठीणमुव्वेहमाणमिच्छाइट्ठीण च पवाहवोच्छेदाणुवलभादो । जयध०

४ दसणमोहक्खवणादो अण्णत्थ तदणुवलभादो । जयध०

५ कुदो, सुट्टुमेइदियजीवाण हदसमुप्पत्तियजहण्णसतकम्मपरिणदाण तिसु वि कालेसु वोच्छेदाणुवलभादो । जयध०

६ कुदो; सम्मत्तस्स समयाहियावलियअस्खीणदसणमोहणीयम्मि लोभसजलणस्स समयाहियावलिय-सकसायम्मि सेसाण अप्पणो णवकवधचरिमफालिसकमणावत्थाए जहण्णभावाणमेयसमयोवलढ्ढीए वाहाणुवलभादो । जयध०

७ कुदो, सखेज्जवारमणुसधाणवसेण तदुवलभादो । जयध०

केवचिरं कालादो होंति ? १९६. जहण्णुक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं^१ । १९७. अणंताणुवंधीणं जहण्णाणुभागसंक्रामया केवचिरं कालादो होंति ? १९८. जहण्णेण एयसमभ्रं^२ । १९९ उक्कस्सेण आवलियाए असंखेज्जदिभागो^३ । २००. एदेसिं कम्माणमजहण्णाणु-भागसंक्रामया केवचिरं कालादो होंति ? २०१. सव्वट्ठा ।

२०२. णाणाजीवेहि अंतरं । २०३. मिच्छत्तस्स उक्कस्साणुभागसंक्रामयाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? २०४. जहण्णेण्यसमभ्रं^४ । २०५. उक्कस्सेण असंखेज्जा लोगा^५ । २०६. अणुक्कस्साणुभागसंक्रामयाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? २०७.

शंका-सम्यग्मिध्यात्व और आठ नोकपायोके जघन्य अनुभागसंक्रामकोका कितना काल ? ॥१९५॥

समाधान-जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है ॥१९६॥

शंका-अनन्तानुवन्धी कपायोके जघन्य अनुभाग-संक्रामकोका कितना काल है ? ॥१९७॥

समाधान-जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल आवलीका असंख्यातवो भाग है ॥१९८-१९९॥

शंका-इन उपयुक्त सर्व कर्मोंके अजघन्य अनुभाग-संक्रामक जीवोंका कितना काल है ? ॥२००॥

समाधान-उक्त सर्व कर्मोंके अजघन्य अनुभागके संक्रामक जीव सर्वकाल पाये जाते हैं ॥२०१॥

चूर्णिसू०-अत्र नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकोका अन्तर कहते हैं ॥२०२॥

शंका-मिध्यात्वके उत्कृष्ट अनुभाग-संक्रामकोका अन्तरकाल कितना है ? ॥२०३॥

समाधान-जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल असंख्यात लोकके समय-प्रमाण है ॥२०४-२०५॥

शंका-मिध्यात्वके अनुत्कृष्ट अनुभाग-संक्रामकोका अन्तरकाल कितना है ? ॥२०६॥

१ जहण्णेण ताव तेसिमव्वपणो चरिमाणुभागखंडयकालो घेत्तव्वो । उक्कस्सेण सो चैव छायादिट्ठतेण लद्धाणुसधाणो घेत्तव्वो । जयध०

२ कुटो, विसजोयणापुव्वसजोगपढमसमए जहण्णपरिणामेण वद्धजहण्णाणुभागमावलिवादीदमेयसमइ सकामिय विदियसमए अजहण्णभावपरिणदणाणाजीवेषु तदुवलंभादो । जयध०

३ कुटो; आवलियाए असखेज्जदिभागमेत्ताण चैव गिरतरोवक्कमणवारणमेत्थ सभवदसणादो । जयध०

४ तं जहा-मिच्छत्तुक्कस्साणुभागसंक्रामयाणजाजीवाण पवाहविच्छेदवसेणेयसमयमंतरिदाण विदियसमए पुणरुभवो दिट्ठो । लद्धमंतरं जहण्णेण्यसमयमेत्त । जयध०

५ कुटो, उक्कस्साणुभागवत्तेण चिणा सव्वजीवाणमेत्तियमेत्तकालमवट्ठाणसंभवादो । जयध०

णत्थि अंतरं । २०८. एवं सेसाणं कम्माणं । २०९. णवरि सम्पत्त-सम्पामिच्छत्ताण-
मुक्कस्साणुभागसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? २१०. णत्थि अंतरं । २११.
अणुक्कस्साणुभागसंक्रामयाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? २१२. जहण्णेण एयसमओ^३ ।
२१३. उक्कस्सेण छम्मासा^४ ।

२१४ एत्तो जहण्णयंतरं । २१५. मिच्छत्तस्स अट्ठकसायस्स जहण्णाणुभाग-
संक्रामयाणं केवचिरं अंतरं ? २१६. णत्थि अंतरं^५ । २१७. सम्पत्त-सम्पामिच्छत्त-
चदुसंजलण-णवणोक्कसायाणं जहण्णाणुभागसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? २१८.
जहण्णेण एयसमओ । २१९. उक्कस्सेण छम्मासा । २२०. णवरि तिण्णिसंजलण-
पुरिसवेदाणमुक्कस्सेण वासं सादिरेयं^६ । २२१. णवुंसयवेदस्स जहण्णाणुभागसंक्रामयंतर-

शंका—मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट अनुभाग-संक्रामकोका कभी अन्तर नहीं होता है ॥२०७॥

चूर्णिसू०—इसी प्रकार मिथ्यात्वके समान जेप कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभाग-संक्रामकोका
अन्तर जानना चाहिए । विशेषता केवल यह है कि सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वके
उत्कृष्ट अनुभाग-संक्रामकोका अन्तरकाल कितना है ? इन दोनों कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभाग-संक्रा-
मकोका कभी अन्तर नहीं होता ॥२०८-२१०॥

शंका—इन्हीं दोनों कर्मोंके अनुत्कृष्ट अनुभागसंक्रामकोका अन्तरकाल कितना है ॥२११

समाधान—जघन्य अन्तरकाल एकसमय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह मास
है ॥२१२-२१३॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे जघन्य अनुभाग-संक्रामकोका अन्तर कहते है ॥२१४॥

शंका—मिथ्यात्व और आठ मध्यम कपायोके जघन्य अनुभाग-संक्रामकोका अन्तर
काल कितना है ? ॥२१५॥

समाधान—इन कर्मोंके जघन्य अनुभाग-संक्रामकोका कभी अन्तर नहीं होता ॥२१६॥

शंका—सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व, चारो संज्वलन और नव नोकपायोके
जघन्य अनुभाग-संक्रामकोका अन्तरकाल कितना है ? ॥२१७॥

समाधान—जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह मास है ।
विशेषता केवल यह है कि अन्तिम तीन संज्वलन और पुरुषवेदके जघन्य अनुभाग-संक्रा-
मकोका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ अधिक एक वर्ष है । नपुंसक वेदके जघन्य अनुभाग संक्रा-
मकोका उत्कृष्ट अन्तर संख्यात वर्ष है ॥२१८-२२१॥

१ कुदो, णाणाजीवविवक्खाए अणुक्कस्साणुभागसंक्रमस्स विच्छेदाणुवलद्वीदो । जयध०

२ दसणमोहक्खवयण जहण्णतरस्स तप्पमाणत्तोवलभादो । जयध०

३ तदुक्कस्सविरहकालस्स णाणाजीवविसयस्स तप्पमाणत्तादो । जयध०

४ कुदो, पयदजहण्णाणुभागसंक्रामयाण सुहुमाणं णिरतरसरुवेण सव्वकालमवट्ठित्तत्तादो । जयध०

५ त जहा—कोहसंजलणस्स उक्कस्सतरे विवक्खिए सोदएणादिं कादूण छम्मासमतराविय पुणो माण-
माया लोभोदएहि च्छदाविय पच्छा सोदयपटिलभेण सादिरेयवासमेत्तमतरसुपाएयव्व । एव माण माया-

मुक्कस्सेण संखेज्जाणि वासाणि^१ । २२२. अणंताणुवंधीणं जहण्णाणुभागसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? २२३. जहण्णेण एयसमओ । २२४. उक्कस्सेण असंखेज्जा लोमा^२ । २२५. एदेसिं सव्वेसिमजहण्णाणुभागस्स केवचिरयंतरं ? २२६. णत्थि अंतरं ।

२२७. अप्पावहुअं । २२८. जहा उक्कस्साणुभागविहत्ती तथा उक्कस्साणु-भागसंक्रमो । २२९. एत्तो जहण्णयं । २३०. सव्वत्थोवो लोहसंजलणस्स जहण्णाणु-भागसंक्रमो^३ । २३१. मायासंजलणस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो अणंतगुणो^४ । २३२. माणसंजलणस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो अणंतगुणो^५ । २३३. कोहसंजलणस्स जहण्णाणु-

शंका—अनन्तानुबन्धी कपायोके जघन्य अनुभाग-संक्रामकोका अन्तरकाल कितना है ? ॥२२४॥

समाधान—जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात लोकप्रमाण है ॥२२३-२२४॥

शंका—इन सभी कर्मोंके अजघन्यानुभाग-संक्रामकोका अन्तरकाल कितना है ? ॥२२५॥

समाधान—उक्त सभी कर्मोंके अजघन्यानुभाग-संक्रामकोका कभी अन्तर नहीं होता है ॥२२६॥

चूर्णिसू०—अब अनुभाग-संक्रामकोके अल्पवहुत्वको कहते हैं । (वह अल्पवहुत्व दो प्रकारका है—उत्कृष्ट अनुभाग-संक्रामक-विषयक और जघन्य अनुभाग-संक्रामक-विषयक ।) जिस प्रकार उत्कृष्ट अनुभागविभक्तिका अल्पवहुत्व कहा है, उसी प्रकार उत्कृष्ट अनुभाग-संक्रामक-विषयक अल्पवहुत्व जानना चाहिए ॥२२७-२२८॥

चूर्णिसू—अब इसके आगे जघन्य अनुभाग-संक्रामकोका अल्पवहुत्व कहते हैं—संज्वलन लोभका जघन्य अनुभाग-संक्रमण सघसे कम है । इससे संज्वलन मायाका जघन्य अनुभाग-संक्रमण अनन्तगुणित है । संज्वलन मायासे संज्वलन मानका जघन्य अनुभाग-संक्रमण अनन्तगुणित है । संज्वलनमानसे संज्वलन क्रोधका जघन्य अनुभाग-संक्रमण अनन्त-

संजलणार्णं वि पयदुक्कस्सतर वत्तव्व । णवरि माणसंजलणस्स माया-लोभोदएहि, माया-संजलणस्स च लोभोदएण चढाविच अतरावेयच्च । × × × एव चेष पुरिसवेदस्स वि सोदएणादिं कादूण परोदएणतरिदस्स सादिरैयवासमेत्तुक्कस्सतरसभवो दट्ठव्वो । जयव०

१ णवुसयवेदोदएणादिं कादूण अणप्पिदवेदोदएण वासपुधत्तमेत्तमंतरिदस्स तदुवलभादो । जयध०

२ जहण्णपरिणामेणादिं कादूणासखेज्जलोगमेत्तेहिं अजहण्णपाओग्गपरिणामेहिं चेष सजो जयताण णाणाजीवाणमेदमुक्कस्सतर लब्भदि । जयध०

३ कुदो; सुहुमकिट्टिसरुवत्तादो । जयध०

४ कुदो; वादरकिट्टीसरुवेण पुब्बमेवाणियट्टिपरिणामेहिं लद्धजहण्णभावत्तादो । जयध०

५ कुदो; जहण्णसामित्तविसयीकयमायासजलणचरिमणवकववादो जहाकममणतगुणसत्त्वेणावट्ठिद-मायातदिय-विदियपटमंगहकिट्टीहिंतो वि माणसजलणणदक्कवधसत्त्वेदस्साणतगुणत्तदसणादो । जयध०

भागसंक्रमो अणंतगुणो^१ । २३४. सम्मत्तस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो अणंतगुणो^२ । २३५. पुरिसवेदस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो अणंतगुणो^३ । २३६. सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णाणु-भागसंक्रमो अणंतगुणो^४ ।

२३७. अणंताणुवंधिमाणस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो अणंतगुणो^५ । २३८. क्रोधस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो विसेसाहिओ । २३९. मायाए जहण्णाणुभागसंक्रमो विसेसाहिओ । २४०. लोभस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो विसेसाहिओ ।

२४१. हस्सस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो अणंतगुणो^६ । २४२. रदीए जहण्णाणु-भागसंक्रमो अणंतगुणो^७ । २४३. दुगुंछाए जहण्णाणुभागसंक्रमो अणंतगुणो^८ । २४४.

गुणित है । संज्वलन क्रोधसे सम्यक्त्वप्रकृतिका जघन्य अनुभाग-संक्रमण अनन्तगुणित है । सम्यक्त्वप्रकृतिसे पुरुषवेदका जघन्य अनुभाग-संक्रमण अनन्तगुणित है । पुरुषवेदमे सम्य-ग्मिध्यात्वका जघन्य अनुभाग-संक्रमण अनन्तगुणित है ॥ २३९-२३६ ॥

चूर्णिसू०—सम्यग्मिध्यात्वसे अनन्तानुबन्धी मानका जघन्य अनुभाग-संक्रमण अनन्त-गुणित है । अनन्तानुबन्धी मानसे अनन्तानुबन्धी क्रोधका जघन्य अनुभाग-संक्रमण विशेष अधिक है । अनन्तानुबन्धी क्रोधसे अनन्तानुबन्धी मायाका जघन्य अनुभाग-संक्रमण विशेष अधिक है । अनन्तानुबन्धी मायासे अनन्तानुबन्धी लोभका जघन्य अनुभाग-संक्रमण विशेष अधिक है ॥ २३७-२४० ॥

चूर्णिसू०—अनन्तानुबन्धी लोभसे हास्यका जघन्य अनुभागसंक्रमण अनन्तगुणित है । हास्यसे रतिका जघन्य अनुभागसंक्रमण अनन्तगुणित है । रतिसे जुगुप्साका जघन्य

१ कुदो; पुव्विल्लसामित्तविसयादो हेट्ठा अतोमुहुत्तमोयरिय कोह्वेदयचरिमसमयणवक्कवंधचरिम-समयसकामयम्मि जहण्णभावमुवगयत्तादो । जयध०

२ कुदो, किट्ठीसरूवकोहसजलणजहण्णाणुभागसकमादो फहयमयसम्मत्तजहण्णाणुभागसकमस्साणत-गुणवमहियत्ते विसवादाणुवलभादो । जयध०

३ किं कारण ? सम्मत्तस्स अणुसमयोवट्टणकालादो पुरिसवेदणवक्कवधाणुसमयोवट्टणाकालस्स थोवत्तदसणादो । जयध०

४ कुदो, देसवादिएयट्ठाणियसरूवादो पुव्विल्लादो सव्वघादिविट्ठाणियसरूवस्सेदस्स तथाभाव-सिद्धीए णाइयत्तादो । जयध०

५ किं कारण ? सम्मामिच्छत्ताणुभागविण्णासो मिच्छत्तजहण्णफहयादो अणतगुणहीगो होऊण लद्धावट्ठाणो पुणो दसणमोहक्खवणाए सखेजसहस्समेत्ताणुभागखडयघादसमुवलद्धजहण्णभावो । एसो वुण णवक्कवधसरूवो वि सम्मामिच्छत्तेण समाणपारभो होदूण पुणो मिच्छत्तजहण्णफहयप्पहुडि उवरि वि अणतफहएसु लद्धविण्णासो अपत्तघादो च । तदो अणतगुणत्तमेदस्स सिद्ध । जयध०

६ कुदो; णवक्कवधसरूवादो पुव्विल्लादो चिराणसतसरूवस्सेदस्स तथाभावसिद्धीए विरोहा-भावादो । जयध०

७ कुदो, सव्वत्थ रदिपुरस्सरत्तेणेव हस्सपवुत्तीए दसणादो । जयध०

८ कुदो; अप्पसत्थयरत्तादो । जयध०

भयस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो अणंतगुणो^१ । २४५. सोगस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो अणंत-
गुणो^१ । २४६. अरदीए जहण्णाणुभागसंक्रमो अणंतगुणो । २४७. इत्थिवेदस्स
जहण्णाणुभागसंक्रमो अणंतगुणो^३ । २४८. णवुंसयवेदस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो
अणंतगुणो^५ ।

२४९. अपच्चक्खाणमाणस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो अणंतगुणो^५ । २५०.
कोहस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो विसेसाहिओ । २५१. मायाए जहण्णाणुभागसंक्रमो विसे-
साहिओ । २५२. लोभस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो विसेसाहिओ २५३. पच्चक्खाणमाणस्स
जहण्णाणुभागसंक्रमो अणंतगुणो^५ । २५४. कोहस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो विसेसाहिओ ।
२५५. मायाए जहण्णाणुभागसंक्रमो विसेसाहिओ । २५६. लोभस्स जहण्णाणुभाग-
संक्रमो विसेसाहिओ । २५७. मिच्छत्तस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो अणंतगुणो^५ ।

अनुभागसंक्रमण अनन्तगुणित है । जुगुप्सासे भयका जघन्य अनुभाग-संक्रमण अनन्त-
गुणित है । भयसे शोकका जघन्य अनुभाग-संक्रमण अनन्तगुणित है । शोकसे अरतिका जघन्य
अनुभागसंक्रमण अनन्तगुणित है । अरतिसे स्त्रीवेदका जघन्य अनुभागसंक्रमण अनन्त-
गुणित है । स्त्रीवेदसे नपुंसकवेदका जघन्य अनुभाग-संक्रमण अनन्तगुणित है ॥ २४१-२४८ ॥

चूर्णिसू०—नपुंसकवेदसे अप्रत्याख्यानमानका जघन्य अनुभाग-संक्रमण अनन्तगुणित
है । अप्रत्याख्यान मानसे अप्रत्याख्यान क्रोधका जघन्य अनुभाग-संक्रमण विशेष अधिक
है । अप्रत्याख्यान क्रोधसे अप्रत्याख्यान मायाका जघन्य अनुभाग-संक्रमण विशेष अधिक
है । अप्रत्याख्यान मायासे अप्रत्याख्यान लोभका जघन्य अनुभाग-संक्रमण विशेष अधिक
है । अप्रत्याख्यान लोभसे प्रत्याख्यान मानका जघन्य अनुभाग-संक्रमण अनन्तगुणित है ।
प्रत्याख्यानमानसे प्रत्याख्यान क्रोधका जघन्य अनुभाग-संक्रमण विशेष अधिक है । प्रत्याख्यान
क्रोधसे प्रत्याख्यानमायाका जघन्य अनुभाग-संक्रमण विशेष अधिक है । प्रत्याख्यानमायासे
प्रत्याख्यानलोभका जघन्य अनुभाग-संक्रमण विशेष अधिक है । प्रत्याख्यान लोभसे
मिध्यात्वका जघन्य अनुभाग-संक्रमण अनन्तगुणित है ॥ २४९-२५७ ॥

१ दुगुच्छिदो देसच्चागमेत्त कृणदि । भयोदएण पुण पाणच्चागमवि कुणदि त्ति तिव्वाणुभागत्त-
मेदस्स दट्ठव्व । जयध०

२ कुदो; छम्मासपज्ज त्तित्व्वदुक्खकारणत्तादो । जयध०

३ कुदो, अतोमुहुत्त हेट्ठा ओयरिदूण पुव्वमेव खविदत्तादो । जयध०

४ कि कारण ? कारिसग्गिसमाणो इत्थिवेदाणुभागो । णवुंसयवेदाणुभागो पुण इट्ठावाग्गिसमाणो,
तेणणत्तगुणो जादो । जयध०

५ कुदो, सुहुमेइ दियहदसमुत्तियक्कमेण लद्धजहण्णाणुभागस्सेदस्स अतरकरणे कदे खवगपरिणामेहिं
घादिदावसेसणवुंसयवेदजहण्णाणुभागसकमादो अणतगुणत्तसिद्धीए णाइयत्तादो । जयध०

६ कुदो, सयलसजमघादित्तण्णहाणुव्वत्तीदो । ण च देससजमघादि-अपच्चक्खाणलोभजहण्णाणु-
भागादो अणतगुणत्ताभावे तत्तो अणतगुणसयलसजमघादित्तमेदस्स जुज्जदे, विप्पडिसेहादो । जयध०

७ सयलदत्थविसयसहहणपरिणामपडिधत्तेण लद्धमाहप्पस्सेदस्स तहाभावविरोहाभावादो । जयध०

२५८. गिरयगईए सव्वत्थोवो सम्मत्तस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो^१ २५९. सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो अणंतगुणो^२ । २६०. अणंताणुवंधिमाणस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो अणंतगुणो^३ । २६१. कोहस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो विसेसाहिओ । २६२. मायाए जहण्णाणुभागसंक्रमो विसेसाहिओ । २६३ लोभस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो विसेसाहिओ ।

२६४. हस्मस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो अणंतगुणो^४ । २६५. रदीए जहण्णाणुभागसंक्रमो अणंतगुणो । २६६. पुरिसवेदस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो अणंतगुणो^५ । २६७. इत्थिवेदस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो अणंतगुणो^६ । २६८. दुगुंछाए जहण्णाणुभागसंक्रमो अणंतगुणो । २६९. भयस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो अणंतगुणो । २७०. सोगस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो अणंतगुणो । २७१. अरदीए जहण्णाणुभागसंक्रमो अणंतगुणो । २७२. णत्तुंसयवेदस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो अणंतगुणो^७ ।

चूर्णिसू०—नरकगतिमे सम्यक्त्वप्रकृतिका जघन्य अनुभाग-संक्रमण सवसे कम है । सम्यक्त्वप्रकृतिसे सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य अनुभाग-संक्रमण अनन्तगुणित है । सम्यग्मिथ्यात्वसे अनन्तानुबन्धी मानका जघन्य अनुभाग-संक्रमण अनन्तगुणित है । अनन्तानुबन्धी मानसे अनन्तानुबन्धी क्रोधका जघन्य अनुभाग-संक्रमण विशेष अधिक है । अनन्तानुबन्धी क्रोधसे अनन्तानुबन्धी मायाका जघन्य अनुभाग-संक्रमण विशेष अधिक है । अनन्तानुबन्धी मायासे अनन्तानुबन्धी लोभका जघन्य अनुभाग-संक्रमण विशेष अधिक है ॥२५८-२६३॥

चूर्णिसू०—अनन्तानुबन्धी लोभसे हास्यका जघन्य अनुभाग-संक्रमण अनन्तगुणित है । हास्यसे रतिका जघन्य अनुभागसंक्रमण अनन्तगुणित है । रतिसे पुरुषवेदका जघन्य अनुभागसंक्रमण अनन्तगुणित है । पुरुषवेदसे स्त्रीवेदका जघन्य अनुभागसंक्रमण अनन्तगुणित है । स्त्रीवेदसे जुगुप्साका जघन्य अनुभागसंक्रमण अनन्तगुणित है । जुगुप्सासे भयका जघन्य अनुभागसंक्रमण अनन्तगुणित है । भयसे शोकका जघन्य अनुभागसंक्रमण अनन्तगुणित है । शोकसे अरतिका जघन्य अनुभागसंक्रमण अनन्तगुणित है । अरतिसे नपुंसकवेदका जघन्य अनुभागसंक्रमण अनन्तगुणित है ॥२६४-२७२॥

१ कुदो; देसघाटिएयट्ठाणियसरुवत्तादो । जयध०

२ कुदो; सव्वघादिविट्ठाणियसरुवत्तादो । जयध०

३ कुदो; सम्मामिच्छत्तुक्कसाणुभागादो अणतगुणभावेणावट्ठदमिच्छत्तजहण्णफद्दयप्पहुडि उवरि वि लद्धाणुभागविण्णासस्सेदस्स तत्तो अणतगुणत्तसिद्धीए पडिवधाभावादो । जयध०

४ सुहुमेइदियहदसमुत्तियकम्मादो अणतगुणहीणो पुविल्लो णवकवधाणुभागसंक्रमो । एसो वुण सुहुमाणुभागादो अणतगुणो, असण्णिपच्चिदियहदसमुत्तियकम्मेण णेरइएसु लद्धजहण्णभावत्तादो । तदो सिद्धमेदस्स तत्तो अणतगुणत्त । जयध०

५ एत्थ कारण रदी रमणमेत्तुप्पाइया, पलाल्गिसण्हसत्तिविसेसो पुण पुवेदो । तदो सामित्त-विसयभेदाभावे वि सिद्धमेदस्साणतगुणव्भहियत्त । जयध०

६ किं कारण ? कारिसग्गिसरिसतिव्वपरिणामणिव्वधणत्तादो । जयध०

७ किं कारण ? इट्ठावागग्गिसरिसपरिणामकारणत्तादो । जयध०

२७३. अपञ्चक्खाणमाणस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो अणंतगुणो^१ । २७४. क्रोधस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो विसेसाहिओ । २७५. मायाए जहण्णाणुभागसंक्रमो विसेसाहिओ । २७६. लोभस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो विसेसाहिओ । २७७. पञ्चक्खाण-माणस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो अणंतगुणो^२ । २७८. कोहस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो विसेसाहिओ । २७९. मायाए जहण्णाणुभागसंक्रमो विसेसाहिओ । २८०. लोभस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो विसेसाहिओ ।

२८१. माणसंजलणस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो अणंतगुणो^३ । २८२. कोहसंजलणस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो विसेसाहिओ । २८३. मायासंजलणस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो विसेसाहिओ । २८४. लोभसंजलणस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो विसेसाहिओ । २८५. मिच्छत्तस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो अणंतगुणो^४ ।

२८६. जहा णिरयगईए तहा सेसासु गदीसु ।

चूर्णिसू०—तपुंसकवेदसे अप्रत्याख्यानावरण मानका जघन्य अनुभागसंक्रमण अनन्त-गुणित है । अप्रत्याख्यानावरण मानसे अप्रत्याख्यानावरण क्रोधका जघन्य अनुभागसंक्रमण विशेष अधिक है । अप्रत्याख्यानावरण क्रोधसे अप्रत्याख्यानावरण मायाका जघन्य अनुभागसंक्रमण विशेष अधिक है । अप्रत्याख्यानावरण मायासे अप्रत्याख्यानावरण लोभका जघन्य अनुभागसंक्रमण विशेष अधिक है । अप्रत्याख्यानावरण लोभसे प्रत्याख्यानावरण मानका जघन्य अनुभागसंक्रमण अनन्तगुणित है । प्रत्याख्यानावरण मानसे प्रत्याख्यानावरण क्रोधका जघन्य अनुभागसंक्रमण विशेष अधिक है । प्रत्याख्यानावरण क्रोधसे प्रत्याख्यानावरण मायाका जघन्य अनुभागसंक्रमण विशेष अधिक है । प्रत्याख्यानावरण मायाके जघन्य अनुभाग-संक्रमणसे प्रत्याख्यानावरण लोभका जघन्य अनुभागसंक्रमण विशेष अधिक है ॥ २७३-२८० ॥

चूर्णिसू०—प्रत्याख्यानावरण लोभसे संज्वलन मानका जघन्य अनुभागसंक्रमण अनन्त-गुणित है । संज्वलनमानसे संज्वलनक्रोधका जघन्य अनुभागसंक्रमण विशेष अधिक है । संज्वलन क्रोधसे संज्वलन मायाका जघन्य अनुभागसंक्रमण विशेष अधिक है । संज्वलन मायासे संज्वलन लोभका जघन्य अनुभागसंक्रमण विशेष अधिक है । संज्वलनलोभसे मिथ्यात्वका जघन्य अनुभागसंक्रमण अनन्तगुणित है ॥ २८१-२८५ ॥

चूर्णिसू०—जिस प्रकारसे नरकगतिमें यह जघन्य अनुभागसंक्रमणका अल्पबहुत्व कहा है, उसी प्रकारसे शेष गतियोंमें भी जघन्य अनुभागसंक्रमणका अल्पबहुत्व जानना चाहिए ॥ २८६ ॥

१ कुदो, णोकसायाणुभागादो कसायाणुभागस्स महल्लत्तसिद्धीए णाहयत्तादो । जयघ०

२ कुदो, सयल्लसजमघादित्तणहाणुववत्तीए तस्स सडभावसिद्धीदो । जयघ०

३ कुदो, जहाक्खादसजमघादणसत्तिसमण्णिदत्तादो । जयघ०

४ कुदो, सयलपदरथविसयसद्दहणलक्खणसम्मत्तसण्णिदजीवणुणघादण्णहाणुववत्तीदो । जयघ०

२८७. एहंदिएसु सव्वत्थोवो सम्पत्तस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो । २८८. सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो अणंतगुणो । २८९. हस्सस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो अणंतगुणो । २९०. संसाणं जहा मम्माम्हाड्डिवंधे तथा कायव्वो ।

२९१. भुजगारे त्तिस्स तेरस्स अणियोगहारणि । २९२ तत्थ अट्टपदं । २९३. तं जहा । २९४. जाणि एण्हि फ्हयाणि संकामेदि अणंतरोसक्काविदे अप्पदर-संकमादो बहुगाणि त्ति एस भुजगारो । २९५. ओसक्काविदे बहुदरादो एण्हिमप्प-दराणि संकामेदि त्ति एम अप्पदरां । २९६. ओसक्काविदे एण्हि च तत्तियाणि संका-

चूर्णिसू०—०केन्द्रियोंमें सम्यक्त्वप्रकृतिका जघन्य अनुभागसंक्रमण सबसे कम है । सम्यक्त्वप्रकृतिसै सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य अनुभागसंक्रमण अनन्तगुणित है । सम्यग्मिथ्यात्वसे हास्यका जघन्य अनुभागसंक्रमण अनन्तगुणित है । शेष कर्मोंके जघन्य अनुभागसंक्रमणका अल्पवृत्त्व जैसा सम्यग्दृष्टि-बन्धमें अर्थान् सम्यक्त्वके अभिमुख सर्वविशुद्ध मिथ्यादृष्टिके जघन्यबन्धका कहा गया है, उस प्रकारमें निरूपण करना चाहिए ॥२८७-२९०॥

चूर्णिसू०—भुजाकार संक्रममें तरह अनुयोगद्वार होते हैं । उसमें पहले अर्थपद ज्ञातव्य है । वह इस प्रकार है—जिन अनुभागस्पर्धकोंको इन समय संक्रमित करता है, वे अनन्तर-व्यतिक्रान्त अल्पतर संक्रमणमें बहुत हैं । यह भुजाकारसंक्रमण है । अर्थान् पहले समयमें अल्प स्पर्धकोंका संक्रमण करके जब दूसरे समयमें बहुत स्पर्धकोंका संक्रमण करता है, तब उमें भुजाकारसंक्रमण कहते हैं । अनन्तर-व्यतिक्रान्त समयमें बहुत अनुभागस्पर्धकोंका संक्रमण करके इस समय अल्प स्पर्धकोंका संक्रमण करता है । यह अल्पतरसंक्रमण

१ कुट्टो; मव्वघाटिविट्ठाणियत्ते समाणे वि सत्ते सम्मामिच्छत्तस्स विगयीकयदारुअसमाणान्णतिम-भागमुल्लघिय परदो एट्ठसावट्ठाणट्ठसणादो । जयध०

२ एत्थ सम्माडिट्ठववे त्ति णित्थेण सम्मत्ताहिमुहसव्वविमुद्धमिच्छाडिट्ठजहणवधस्स गहण कायव्व; अण्णहा अणताणुवधियाटीण सम्माडिट्ठवधवहिद्धमृदाणमप्पावहुअविहाणाणुववत्तीदो । विमोहि-परिणामोवलक्खणमेत्त चेद, तेण विमुद्धमिच्छाडिट्ठवधे जारिसमप्पावहुअ परुविट तारिसमेवेत्थ सेसपयडीण कायव्व, विसोहिणिवधणसुद्धुमेइदियहदममुप्पत्तियक्रम्मेण लद्धजहणभावान तव्भावविरोहाभावादो त्ति एसो सुत्तथसव्भावो । जयध०

३ चउवीसमणियोगहारेसु परुविय समत्तेसु किमट्ठमेसो भुजगारसण्णदो अहियारो समागदो ? बुच्चदे—जहण्णुक्कस्सभेयभिण्णाणुभागसकमस्स सगतोभाविटाजहण्णाणुक्कस्सवियपस्स अवत्थाभेयपट्टाप्यायण-ट्ठमागओ । तदवत्थामूद्धभुजगारादिपदानमेत्थ समुक्किरुत्तादितेरसाणियोगहारेहि विसेसिऊण परुवणोव-लभादो । जयध०

४ थोवयरफहयाणि सकामेमाणो जाधे तत्तो बहुवयराणि फ्हयाणि सकामेदि सो तस्स ताधे भुजगारसकमो त्ति भावत्थो । जयध०

५ एत्थ ओसक्काविदसद्धो अणतरवदिककत्तसमयवाचओ त्ति धेत्तव्वो । अथवा बहुदरादो पुविल्ल-समयसकमादो एण्हिमोसक्काविदे इदानीमपकर्पिते न्यूनीकृतेऽपतराणि स्पर्धकानि सक्रमयतीत्यल्पतरसक्रम इति सूत्रार्थसम्बन्धः । जयध०

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'भुजगारे त्ति' इतना ही सूत्र मुद्रित है । 'तेरस्स अणियोगारहाणि' इतने अक्षको टीका में सम्मिलित कर दिया है । (देखो पृ० ११५७ पक्ति ५)

मेदि त्ति एस अवट्टिदसंक्रमो^१ । २९७. ओसक्काविदे असंक्रमादो एण्हि संक्रामेदि त्ति एस अवत्तव्वसंक्रमो^२ ।

२९८ एदेण अट्टुपदेण सामित्तं । २९९. मिच्छत्तस्स भुजगारसंक्रामगो को होइ ? ३००. मिच्छाइट्ठी अण्णदरो । ३०१. अप्पदर-अवट्टिदसंक्रामओ होइ ? ३०२. अण्णदरो । ३०३. अवत्तव्वसंक्रामओ णत्थि^३ । ३०४. एवं सेसाणं कम्माणं सम्पत्त-सम्मामिच्छत्तवज्जाणं । ३०५. णवरि अवत्तव्वगो च अत्थि^४ । ३०६. सम्पत्त-सम्पामिच्छत्ताणं भुजगारसंक्रामओ णत्थि^५ । ३०७. अप्पदर-अवत्तव्वसंक्रामगो को होइ ?

है । अनन्तर-व्यतिक्रान्त समयमे जितने अनुभागस्पर्धकोका संक्रमण किया है, उतने ही स्पर्ध-कोका वर्तमान समयमे संक्रमण करता है, यह अवस्थितसंक्रमण है । अनन्तर-व्यतीत समयमे असंक्रमणसे अर्थात् कुछ भी अनुभागस्पर्धकोका संक्रमण न करके इस वर्तमान समयमे स्पर्धकोका संक्रमण करता है, यह अवक्तव्यसंक्रमण है ॥२९१-२९७॥

चूर्णिसू०—इस अर्थपदके द्वारा भुजाकार आदि संक्रमणोका स्वामित्व कहते हैं ॥ २९८ ॥

शंका—कौन जीव मिथ्यात्वके अनुभागका भुजाकारसंक्रमण करता है ? ॥२९९॥

समाधान—चारो गतियोमेसे कोई भी एक मिथ्यादृष्टि जीव मिथ्यात्वके अनुभागका भुजाकारसंक्रमण करता है ॥३००॥

शंका—मिथ्यात्वके अनुभागका अल्पतर और अवस्थित संक्रमण कौन जीव करता है ? ॥३०१॥

समाधान—अन्यतर अर्थात् सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि कोई एक जीव मिथ्यात्वके अनुभागका अल्पतर और अवस्थितसंक्रमण करता है ॥३०२॥

चूर्णिसू०—मिथ्यात्वके अनुभागका अवक्तव्य-संक्रमण नहीं होता है । इसी प्रकार मिथ्यात्वके समान ही सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वको छोड़कर शेष कर्मोंके भुजाकारादि संक्रमणोके स्वामित्वको जानना चाहिए । विशेषता केवल यह है कि शेष कर्मोंका अवक्तव्यसंक्रमण होता है । सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका भुजाकारसंक्रमण नहीं होता है ॥३०३-३०६॥

१ अनन्तरव्यतिक्रान्तसमये वर्तमानसमये च तावतामेव स्पर्धकानां सक्रमोऽवस्थितसक्रम इति यावत् । जयध०

२ ओसक्काविदे अणतरहेट्ठिमसमए असक्रमादो संक्रमविरहलक्खणादो अवत्थाविसेसादो एण्हिमिदाणि वट्टमाणसमए सक्रामेदि त्ति सकसपजाएण परिणामेदि त्ति एस एवंलक्खणो अवत्तव्वसक्रमो । असंक्रमादो जो सक्रमो सो अवत्तव्वसक्रमो त्ति भावत्यो । जयध०

३ कुदो, मिच्छत्तस्स सव्वकालमसक्रमादो संक्रमसमुप्पत्तीए अणुवलभादो । जयध०

४ वारसक्रसाय णवणोकसायाणमुवसमसेदीए अणताणुवधीण च विसजोवणापुव्वसजोगे अवत्तव्व-सक्रमदसणादो । तदो वारसक्रसाय-णवणोकसायाण अवत्तव्वसंक्रामओ को होइ ? विसजोवणादो सजुत्तो होदूणावलियादिक्कतो त्ति सामित्त कायव्वमिदि । जयध०

५ कुदो, तदणुभागत्स वट्टिविरहेणावट्ठित्तादो । जयध०

३०८. सम्माइट्टी अण्णदरो । ३०९. अवट्ठिदसंक्रामओ को होइ ? ३१०. अण्णदरो ।
 ३११. एत्तो एयजीवेण कालो । ३१२. मिच्छत्तस्स भुजगारसंक्रामओ केव-
 चिरं कालादो होइ ? ३१३. जहण्णेण एयसमओ । ३१४ उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं^३ ।
 ३१५. अप्पयरसंक्रामओ केवचिरं कालादो होइ ? ३१६. जहण्णुक्कस्सेण एयसमओ^४ ।
 ३१७. अवट्ठिदसंक्रामओ केवचिरं कालादो होइ ? ३१८. जहण्णेण एयसमओ । ३१९.
 उक्कस्सेण तेवट्ठिसागरोवपसदं सादिरेयं^५ ।

शंका—इन्हीं दोनो कर्मोंके अनुभागका अल्पतर और अवक्तव्य-संक्रामक कौन जीव है ? ॥३०७॥

समाधान—कोई एक सम्यग्दृष्टि जीव सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वके अल्प-
 तर और अवक्तव्य अनुभागसंक्रमणको करता है ॥३०८॥

शंका—उक्त दोनो कर्मोंका अवस्थित अनुभाग-संक्रामक कौन जीव है ? ॥३०९॥

समाधान—कोई भी एक सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि जीव उक्त दोनो कर्मोंका अव-
 स्थित अनुभागसंक्रामक है ॥३१०॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे एक जीवकी अपेक्षा भुजाकारादि संक्रमणोंका काल
 कहते हैं ॥३११॥

शंका—मिथ्यात्वके भुजाकार-संक्रमणका कितना काल है ? ॥३१२॥

समाधान—जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तमुहूर्त है ॥३१३-३१४॥

शंका—मिथ्यात्वके अल्पतर-संक्रमणका कितना काल है ? ॥३१५॥

समाधान—जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समयमात्र है ॥३१६॥

शंका—मिथ्यात्वके अवस्थित-संक्रमणका कितना काल है ? ॥३१७॥

समाधान—जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल साधिक एक सौ तिरेसठ साग-
 रोपम है ॥३१८-३१९॥

१ अण्णदियमिच्छाइट्ठी सादिछव्वीससतकम्मिओ वा सम्मत्तमुप्पाइय विदियसमए अवत्तव्वसकम-
 सामिओ होइ । अप्पदरसकामओ दसणमोहक्खवओ, अण्णत्थ तदणुवलभादो । जयध०

२ कुदो, हेट्ठिमाणुभागसकमादो वधवुट्ठिवसेणेयसमय भुजगारसकामओ होदूण विदियसमए अव-
 ट्ठिदसकमेण परिणदम्मि तदुवलभादो । जयध०

३ एदमणुभागट्ठण वधमाणो तत्तो अणत्तगुणवड्ढीए वड्ढिदो पुणो विदियसमये वि तत्तो अणत्त-
 गुणवट्ठीए परिणदो । एवमणत्तगुणवट्ठीए ताव वधपरिणाम गदो जाव अतोमुहुत्तचरिमसमयो त्ति । एवमतो-
 मुहुत्तभुजगारवधसभवादो भुजगारसकमुक्कस्सकालो वि अतोमुहुत्तपमाणो त्ति णत्थि सदेहो; वधावलियादीद-
 क्कमेणेव सकमपज्जायपरिणामदसणादो । जयध०

४ त जहा—अणुभागखडयघादवसेणेयसमयमप्पयरसकामओ जादो । विदियसमये अवट्ठिदपरिणाम-
 मुवगओ । लद्धो जहण्णुक्कस्सेणेयसमयमेत्तो अप्पयरकालो । जयध०

५ त जहा—एगो मिच्छाइट्ठी उवसमसम्मत्त वेत्तूण परिणामपच्चएण मिच्छत्त गदो । तत्थ मिच्छत्तस्स
 तप्पाओग्गमणुक्कस्साणुभाग वधिय अतोमुहुत्तमेत्तकाल तिरिक्ख-मणुसेसु अवट्ठिदसकामओ होदूण पुणो

३२०. सम्मत्तस्स अप्पयरसंकामओ केवचिरं कालादो होदि ? ३२१. जहण्णेण एयसमओ^१ । ३२२. उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं^२ । ३२३. अवट्ठिसंकामओ केवचिरं कालादो होइ ? ३२४. जहण्णेण अंतोमुहुत्तं^३ । ३२५. उक्कस्सेण वे छावट्ठिसागरोवमाणि सादिरेयाणि^४ । ३२६. अवत्तव्वसंकामओ केवचिरं कालादो होइ ? ३२७. जहण्णुकस्सेण एयसमओ ।

३२८. सम्मामिच्छत्तस्स अप्पयर-अवत्तव्वसंकामओ केवचिरं कालादो होइ ?

शंका—सम्यक्त्वप्रकृतिके अल्पतर-संक्रमणका कितना काल है ? ॥३२०॥

समाधान—जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है ॥३२१-३२२॥

शंका—सम्यक्त्वप्रकृतिके अवस्थित-संक्रमणका कितना काल है ? ॥३२३॥

समाधान—जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टकाल कुछ अधिक एक सौ वत्तीस सागरोपम है ॥३२४-३२५॥

शंका—सम्यक्त्वप्रकृतिके अवक्तव्यसंक्रमणका कितना काल है ? ॥३२६॥

समाधान—जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समयमात्र है ॥३२७॥

शंका—सम्यग्मिथ्यात्वके अल्पतर और अवक्तव्य संक्रमणका कितना काल है ? ॥३२८॥

पल्लिदोवमासखेजभागाउएसु भोगभूमिएसु उववण्णो । तत्थावट्ठिदसकम कुणमाणो अतोमुहुत्तावसेसे सगा-उए वेदगसम्मत्त पडिवज्जिय देवेसुववण्णो । तदो पढमछावट्ठिमणुपालिय अतोमुहुत्तावसेसे सम्मामिच्छत्त-मवट्ठिदसकमाविरोहेण मिच्छत्त वा पडिवण्णो । पुणो वि अतोमुहुत्तेण वेदगसम्मत्त पडिवज्जिय विदियछा-वट्ठिमवट्ठिदसकमणुपालेदूण तदवसाणे पयटाविरोहेण मिच्छत्त गतूणेक्कत्तीससागरोवमिएसु उववण्णो । तदो णिप्पिडिदो सतो मणुसेसुववण्णो जाव सकिलेस ण पूरेदि ताव अवट्ठिदसकमेणेवावट्ठिदो । तदो सकिलेसवसेण भुजगारवध काज्जण वधावलियवदिकमे तस्स सकामओ जादो । लद्धो पयदुक्कस्सकालो दो-अतोमुहुत्तं हि पल्लिदोवमासखेजभागेण च अब्भहियतेवट्ठिसागरोवमसदमेत्तो । जयध०

१ दसणमोहक्खवणाए एयमणुभागखडय पादिय सेसाणुभाग सवामेमाणस्स पढमसमयम्मि तदुव-लभादो । जयध०

२ कुदो, सम्मत्तस्स अट्ठवस्सट्ठिदिसत्तप्पहुडि जाव समयाहियावलियज्जखीणटसणमोहणीयो त्ति ताव अणुसमयोवट्ठण कुणमाणो अतोमुहुत्तमेत्तकालमप्पयरसकामओ होइ, तस्य पडिसमयमणतगुणहाणीए तदणुभागस्स हीयमाणक्कमेण सकतिदसणादो । जयध०

३ दुचरिमाणुभागखडय घादिय तदणतरसमए अप्पयरभावेण परिणदस्स पुणो चरिमाणुभागखड-युक्कीरणकालो सव्वो चेवावट्ठिदसकामयस्स जहण्णकालत्तेण गहियव्वो । जयध०

४ त जहा—एक्को अणादियमिच्छाइट्ठी पढमसम्मत्तमुप्पाइय विदियसमये अवत्तव्वसकामओ होदूण तदियादिसमएसु अवट्ठिदसकम कुणमाणो उवसमसम्मत्तद्वान्खएण मिच्छत्त गदो । पल्लिदोवमासखेजभाग-मेत्तकालमुव्वेळणापरिणामेणच्छिदो चरिसुव्वेळणफालीए सह उवसमसम्मत्त पडिवण्णो । पुणो वेदधभावेण पढमछावट्ठिमणुपालिय तदवसाणे मिच्छत्तेण पल्लिदोवमासखेजभागमेत्तकालमवट्ठिदसकमेणच्छिदो पुव्व व सम्मत्तप्पडिल्लमेण विदियछावट्ठिमणुपालेयूण तदवसाणे पुणो वि मिच्छत्त गतूणुव्वेळणाचरिमफालीए अवट्ठिदसकमस्स पज्जवसाण करेदि, तेण लद्धो पयदुक्कस्सकालो तीहि पल्लिदोवमासखेजभागेहि सादिरेयवे-छावट्ठिसागरोवममेत्तो । जयध०

३२९. जहण्णुक्स्सेण एयसमयं । ३३०. अवट्ठिदसंकामओ केवचिरं कालादो होइ ?
 ३३१. जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । ३३२. उक्स्सेण वे छावट्ठिसागरोवमाणि सादिरेयाणि ।

३३३. सेसाणं कम्माणं भुजगारं जहण्णेण एयसमओ । ३३४. उक्स्सेण अंतो-
 मुहुत्तं । ३३५. अप्पयरसंकामओ केवचिरं कालादो होइ ? ३३६. जहण्णुक्स्सेण
 एयसमओ । ३३७. णवरि पुरिसवेदस्स उक्स्सेण दो आवलियाओ समज्जाओ ।
 ३३८. चट्ठुहं संजलणाणमुक्स्सेण अंतोमुहुत्तं । ३३९. अवट्ठिदं जहण्णेण एयसमओ ।
 ३४०. उक्स्सेण तेवट्ठिसागरोवमसदं सादिरेयं । ३४१. अवत्तव्वं जहण्णुक्स्सेण एय-
 समओ ।

३४२. एत्तो एयजीवेण अंतरं । ३४३. मिच्छत्तस्स भुजगारसंकामयंतरं केव-
 चिरं कालादो होइ ? ३४४. जहण्णेण एयसमओ । ३४५. उक्स्सेण तेवट्ठिसागरोवमसदं

समाधान—जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समयमात्र है ॥ ३२९॥

शंका—सम्यग्मिथ्यात्वके अवस्थितसंक्रमणका कितना काल है ? ॥ ३३०॥

समाधान—जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टकाल कुछ अधिक एकसौ बत्तीस साग-
 रोपम है ॥ ३३१-३३२॥

चूर्णिसू०—शेष सोलह कपाय और नव नोकपाय इन पच्चीस कर्मोंके भुजाकार संक्र-
 मणका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है ॥ ३३३-३३४॥

शंका—उक्त पच्चीस कर्मोंके अल्पतर-संक्रमणका कितना काल है ? ॥ ३३५॥

समाधान—जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समयमात्र है । विशेषता केवल यह है कि
 पुरुषवेदके अल्पतर-संक्रमणका उत्कृष्टकाल एक समय कम दो आवली है । चारों संज्वलनोके
 अल्पतर-संक्रमणका उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है । पच्चीस कपायोंके अवस्थित-संक्रमणका जघन्य-
 काल एक समय और उत्कृष्टकाल साधिका एक सौ तिरैसठ सागरोपम है । पच्चीस कपायोंके
 अवक्तव्यसंक्रमणका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है ॥ ३३६-३४१॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे एक जीवकी अपेक्षा भुजाकारादि संक्रामकोंका अन्तर
 कहते हैं ॥ ३४२॥

शंका—मिथ्यात्वके भुजाकार संक्रमणका अन्तरकाल कितना है ? ॥ ३४३॥

समाधान—जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल सातिरेक एक
 सौ तिरैसठ सागरोपम है ॥ ३४४-३४५॥

१ सम्मत्तस्सेव सादिरेयवेलावट्ठिसागरोवममेत्तावट्ठिदुक्स्सकालसिद्धीए पडिवधाभावादो । जयध०

२ अणंतगुणवट्ठिकालस्स तप्पमाणत्तोवएसादो । जयध०

३ कुदो, पुरिसवेदोदयखवयस्स चरिमसमयसवेदप्पहुडि सययूणदोआवलियमेत्तकाल पुरिसवेदाणु-
 भागस्स पडिसमयमणतगुणहीणकमेण सकमदसणादो । जयध०

४ कुदो; खवयसेट्ठीए किट्ठीए वेदयपढमसमयप्पहुडि चट्ठुसजलणाणुभागस्स अणुसमयोवट्ठणावाद्-
 दंसणादो । जयध०

५ तं जहा-भुजगारसंकामओ एयसमयमवट्ठिदसंकमेणतरिय पुणो वि विदियसमए भुजगार-
 सकामओ जादो । जयध०

सादिरेयं' । ३४६. अप्पयरसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होइ ? ३४७. जहण्णेण अंतो-
मुहुत्तं । ३४८. उक्कस्सेण तेवट्टिसागरोवमसदं सादिरेयं' । ३४९. अवट्टिदसंक्रामयंतरं
केवचिरं कालादो होइ ? ३५०. जहण्णेण एयसमओ' । ३५१. उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं' ।

३५२. सम्मत्त-सन्मामिच्छत्ताणमप्पयरसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होइ ?

३५३. जहण्णुक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं' । ३५४. अवट्टिदसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो
होइ ? ३५५. जहण्णेण एयसमओ' । ३५६. उक्कस्सेण उवड्डुपोगलपरियट्टं' ।

शंका—मिथ्यात्वके अल्पतर-संक्रमणका अन्तरकाल कितना है ? ॥ ३४६ ॥

समाधान—जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल सातिरेक एक
सौ तिरेसठ सागरोपम है ॥ ३४७-३४८ ॥

शंका—मिथ्यात्वके अवस्थित-संक्रमणका अन्तरकाल कितना है ? ॥ ३४९ ॥

समाधान—जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त
है ॥ ३५०-३५१ ॥

शंका—सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वके अल्पतर-संक्रमणका अन्तरकाल कितना
है ? ॥ ३५२ ॥

समाधान—जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है ॥ ३५३ ॥

शंका—उक्त दोनो कर्मोके अवस्थित-संक्रमणका अन्तरकाल कितना है ? ॥ ३५४ ॥

समाधान—जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्धपुट्टलपरि-
वर्तन है ॥ ३५५-३५६ ॥

१ त जहा-भुजगारमकामओ अवट्टिदभावमुवणमिय तिरिक्ख-मणुसेसु अतोमुहुत्तमेत्तकालं गमिक्कण
तिपल्लिदोवमिएसुववण्णो । सगट्ठिदिमणुपालिय योवावत्तेसे जीविदव्वए त्त उवसमसम्मत्त घेत्तूण तदो
वेदगसम्मत्त पडिबज्जिय पढम-विदियछावट्ठीओ परिभमिय तटवसाणे समयात्तिरोहेण मिच्छत्तमुवणमिय
एक्कत्तीससागरोवमिएसु देवेमुववण्णो । तत्तो चुदो मणुसेसुप्पज्जिय अंतोमुहुत्तेण सकिलेस पूरिय भुजगार-
सकामओ जादो । तत्थ लद्धमेदमुक्कस्सतर वे-अतोमुहुत्ताहिय-तिपल्लिदोवमेहि सादिरेयतेवट्टिसागरोवम-
सदमेत्त । जयध०

२ त कथ ? गसणमोहक्खवणाए मिच्छत्तस्स तिचरिमाणुभागखड्यचरिमफालि पादिय तदणतर-
मप्पयरसकम कादूणतरिय पुणो दुचरिमाणुभागखड्यं घादिय अप्पयरभावमुवणयमि लद्धमतरं होइ । जयध०

३ कुदो; अवट्टिदसकमकालस्स पहाणभावेणेत्य विक्खिक्खयत्तादो । जयध०

४ भुजगारेणप्पयरेण वा एयसमयमतरिदस्स तदुवलभादो । जयध०

५ कुदो, भुजगारुक्कस्सकालेणतरिदस्स तदुवलद्धीदो । जयध०

६ तत्थ जहण्णतरे विक्खिक्खए सम्मत्तस्स चरिमाणुभागखड्यकालो घेत्तव्वो । सम्मामिच्छत्तस्स
तिचरिमाणुभागखड्यपदणाणतरमप्पदरं कादूणतरिय दुचरिमाणुभागखड्यए पादिदे लद्धमंतरं कायव्व ।
दोण्हमुक्कस्सतरे इच्छिजमाणे पुट्टमाणुभागखड्यदाघाण तरमप्पयर कादूणतरिय विदियाणुभागखड्यए णिट्ठिदे
लद्धमतर कायव्व । जयध०

७ अप्पयरसकमेण्यसमयमतरिदस्स तदुवलद्धीदो । जयध०

८ पढमसम्मत्तमुग्गाइय मिच्छत्त गंतूण सव्वलहु उव्वेल्लणचरिमफालि पादिय अंतरिदस्स पुणो
उवड्डुपोगलपरियट्टावसाणे सम्मत्तुप्पायणतदियसमयमि पयदतरसमाणणोवलद्धीदो । जयध०

३५७. अवत्तव्यसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होइ ? ३५८. जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो^१ । ३५९. उक्कस्सेण उवड्डुपोग्गलपरियट्ठ^२ ।

३६०. सेसाणं कम्माणं मिच्छत्तभंगो । ३६१. णवरि अवत्तव्यसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होइ ? ३६२. जहण्णेण अंतोमुहुत्तं^३ । ३६३ उक्कस्सेण उवड्डुपोग्गल-परियट्ठ^४ । ३६४. अणंताणुवंधीणमवट्ठिदसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होइ ? ३६५. जहण्णेण एयसमओ । ३६६. उक्कस्सेण वे छावट्ठिमागरोवमाणि सादिरेयाणि ।

३६७. णाणाजीवेहि भंगविचओ । ३६८. मिच्छत्तस्स सव्वे जीवा भुजगार-संक्रामया च अप्पयरसकामया च अवट्ठिदसंक्रामया च । ३६९. सम्मत्त-सम्पामिच्छत्ताणं णव भंगा^५ । ३७०. सेसाणं कम्माणं सव्वजीवा भुजगार-अप्पयर-अवट्ठिदसंक्रा-

शंका—इन्ही दोनो कर्मोके अवत्तव्यसंक्रामकोका अन्तरकाल कितना है ? ॥३५७॥

समाधान—जघन्य अन्तरकाल पल्योपमके असंख्यात्तवे भाग और उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्धपुद्गलपरिवर्तन है ॥३५८-३५९॥

चूर्णिसू०—शेष सोलह कषाय और नव नोकषाय इन पच्चीस कर्मोके भुजाकारादि संक्रामकोका अन्तरकाल मिध्यात्वके भुजाकारादि संक्रामकोके अन्तरकालके समान जानना चाहिए । विशेषता केवल यह है कि उक्त कर्मोके अवत्तव्यसंक्रामकोका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्धपुद्गलपरिवर्तन है ॥३६०-३६३॥

शंका—अनन्तानुवन्धी कषायोके अवस्थितसंक्रामकोका अन्तरकाल कितना है ? ॥३६४॥

समाधान—जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ अधिक एक सौ बत्तीस सागरोपम है ॥३६५-३६६॥

चूर्णिसू०—अब नाना जीवोकी अपेक्षा मिध्यात्वादि कर्मोके भुजाकारादि-संक्रामकोका भंगविचय कहते हैं—मिध्यात्वके भुजाकार-संक्रामक, अल्पतर-संक्रामक और अवस्थित-संक्रामक सर्व जीव होते हैं । सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वके भुजाकारादि संक्रामकोके नौ भंग होते हैं । शेष पच्चीस कर्मोके सर्व जीव भुजाकार-संक्रामक, अल्पतर-संक्रामक और अवस्थित-संक्रामक होते हैं । इस ध्रुवपदके साथ कदाचित् अनेक जीव भुजाकारादि-संक्रामक

१ त कथं ? पढमसम्मत्तुप्पत्तिविदियसमए अवत्तव्यसकम कादूणावट्ठिदसकमेणतरिदस्स सव्वलहु-मुव्वेत्तणाए णिस्सतीकरणाणतर पडिवण्णसम्मत्तस्स विदियसमए लद्धमतर होइ । जयध०

२ त जहा—पढमसम्मत्तुप्पायणविदियसमए अवत्तव्य कादूणतरिय उवड्डुपोग्गलपरियट्ठावसाणे गट्ठिदसम्मत्तस्स विदियसमए लद्धमतर होइ । जयध०

३ वारसकसाय णवणोकसायाण सव्वोवसामणादो परिवदिय अवत्तव्यसकम कादूणतरिय पुणोवि सव्वलहुमुवसमसेटिमाराहिय सव्वोवसामण काजण परिवदमाणयस्स पढमसमयम्मि लद्धमतर होइ । अणताणु-वंधीण विसंजोयणापुव्वसजोरोणादिं कादूण पुणो वि अतोमुहुत्तेण विसजोयण सजुत्तस्स लद्धमतर वत्तव्व ।

जयध०

४ कुदो; तदवट्ठिदसकामयाण ध्रुवत्तेण अप्पयरावत्तव्याण भयणिजत्तदसणादो । जयध०

मया^१ । ३७१. सिया एदे च अवत्तव्वसंक्रामओ च, सिया एदे च अवत्तव्वसंक्रामया च ।

३७२. णाणाजीवेहि कालो । ३७३. मिच्छत्तस्स सव्वे संक्रामया सव्वद्वा । ३७४. सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमप्पयरसंक्रामया केवचिरं कालादो होंति ? ३७५. जहण्णेण एयसमओ^२ । ३७६. उक्कस्सेण संखेज्जा समयो^३ । ३७७ णवरि सम्मत्तस्स उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं^४ । ३७८. अवट्ठिदसंक्रामया सव्वद्वा । ३७९. अवत्तव्वसंक्रामया केवचिरं कालादो होंति ? ३८०. जहण्णेण एयसमओ^५ । ३८१. उक्कस्सेण आवलियाए असंखेज्जदिभागो^६ । ३८२. अणंताणुवंधीणं भुजगार-अप्पयर-अवट्ठिदसंक्रामया सव्वद्वा । ३८३. अवत्तव्वसंक्रामया केवचिरं कालादो होंति ? ३८४. जहण्णेण एयसमओ^७ ।

और कोई एक जीव अवत्तव्वसंक्रामक भी होता है । कदाचित् अनेक जीव भुजाकारादि-संक्रामक भी होते हैं और अनेक जीव अवत्तव्व-संक्रामक भी होते हैं ॥३६७-३७१॥

चृणिसू०—अब नाना जीवोंकी अपेक्षा भुजाकारादि-संक्रामकोंका काल कहते हैं—
मिथ्यात्वके भुजाकारादि सर्वपदोंके संक्रामक जीव सर्वकाल होते हैं ॥३७२-३७३॥

शंका—सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वके अल्पतर-संक्रामकोंका कितना काल है ? ॥३७४॥

समाधान—जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल संख्यात समय है । केवल सम्यक्त्वप्रकृतिके अल्पतर-संक्रामकोंका उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है । उक्त दोनों कर्मोंके अवस्थित संक्रामक सर्वकाल होते हैं ॥३७५-३७८॥

शंका—इन्हीं दोनों कर्मोंके अवत्तव्व-संक्रामकोंका कितना काल है ? ॥३७९॥

समाधान—जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल आवलीके असंख्यातवे भाग है ॥३८०-३८१॥

चृणिसू०—अनन्तानुवन्धी कपायोके भुजाकार-संक्रामक, अल्पतर-संक्रामक और अवस्थित-संक्रामक जीव सर्वकाल होते हैं ॥३८२॥

शंका—अनन्तानुवन्धी कपायोके अवत्तव्व-संक्रामकोंका कितना काल है ? ॥३८३॥

१ कुदो, तिण्हमेदेसिं पदाण उवभावित्तदसणादो । जयध०

२ कुदो; दसणमोहक्खवयणाणाजीवाणमेयसमयमणुभागखडयवादनवदेणप्पयरभावेण परिणदाणं पयदजहण्णकालोवलभादो । जयध०

३ तेसिं चैव सखेज्जवारमणुसंधिदपवाहाणमप्पयरकालस्स तप्पमाणत्तोवलभादो । जयध०

४ कुदो, अणुसमयोवट्ठणाकालस्स सखेज्जवारमणुसंधिदस्स गहणादो । जयध०

५ सखेज्जाणमसखेज्जाणं वा णिस्सतकम्मियजीवाण सम्मत्तुप्पायणाए परिणदाण विदियसमयम्मि पुव्वावरकोडिववच्छेदेण तदुवलभादो । जयध०

६ तदुवत्तमणवारणमेत्तियमेत्ताणं णिरतरसरुवेणोवलभादो । जयध०

७ विसजोयणापुव्वसजोयणाण केत्तियाण पि जीवाणमेयसमयमवत्तव्वसकम कादूण विदियसमए अवत्थतरं गयाणनेयसमयमेत्तकालोवलभादो । जयध०

३८५. उक्त्सेण आवलियाए असंखेज्जदिभागो^१ । ३८६. एवं सेसाणं कम्माणं । णवरि अवत्तव्वसंक्रामयाणमुक्त्सेण संखेज्जा समया ।

३८७. एत्तो अंतरं । ३८८. मिच्छत्तस्स णाणाजीवेहि भुजगार-अप्पयर-अवट्ठिदसंक्रामयाणं णत्थि अंतरं । ३८९. सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमप्पयरसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होइ ? ३९०. जहण्णेण एयसमओ । ३९१. उक्त्सेण छम्मासा^२ । ३९२. अवट्ठिदसंक्रामयाणं णत्थि अंतरं । ३९३. अवत्तव्वसंक्रामयंतरं जहण्णेण एयसमओ । ३९४. उक्त्सेण चउवीसमहोरत्ते सादिरेगे^३ । ३९५. अणंताणुवंधीणं भुजगार-अप्पयर-अवट्ठिदसंक्रामयाणं णत्थि अंतरं^४ । ३९६. अवत्तव्वसंक्रामयंतरं जहण्णेण एयसमओ । ३९७. उक्त्सेण चउवीसमहोरत्ते सादिरेये^५ । ३९८. एवं सेसाणं कम्माणं । ३९९.

समाधान—जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल आवलीका असंख्यातवर्ष भाग है ॥३८४-३८५॥

चूर्णिसू०—इसी प्रकार शेष कर्मोंके भुजाकारादि-संक्रामकोका काल जानना चाहिए । विशेषता केवल यह है कि उनके अवक्तव्य-संक्रामकोका उत्कृष्टकाल संख्यात समय है ॥३८६॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे नाना जीवोंकी अपेक्षा भुजाकारादि-संक्रामकोका अन्तर कहते हैं—नाना जीवोंकी अपेक्षा मिथ्यात्वके भुजाकार-संक्रामक, अल्पतर-संक्रामक और अवस्थित-संक्रामकोंका अन्तर नहीं है ॥३८७ ३८८॥

शंका—सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वके अल्पतर-संक्रामकोका अन्तरकाल कितना है ? ॥३८९॥

समाधान—जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह मास है ॥३९०-३९१॥

चूर्णिसू०—उक्त दोनों कर्मोंके अवस्थित-संक्रामकोका अन्तर नहीं होता है । इन्हीं दोनों कर्मोंके अवक्तव्य-संक्रामकोका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ अधिक चौबीस अहोरात्र (दिन-रात) है । अनन्तानुवन्धी कपायोंके भुजाकार-संक्रामक, अल्पतरसंक्रामक और अवस्थित-संक्रामकोंका अन्तर नहीं है । अनन्तानुवन्धी कपायोंके अवक्तव्य-संक्रामकोका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ अधिक चौबीस अहोरात्र है । इसी प्रकारसे शेष कर्मोंके भुजाकारादि-संक्रामकोके अन्तरको जानना चाहिए । विशेषता केवल यह है कि शेष कर्मोंके अवक्तव्य-

१ तदुवक्कमणवाराणमुक्त्सेणेत्तियमेत्ताणमुवलमादो । जयध०

२ कुदो, दसणमोहक्खवयाण जहण्णुक्त्सेविरहकालस्स तप्पमाणत्तोवएसादो । जयध०

३ कुदो, णिस्सतकम्मियमिच्छाइट्ठीणमुवसमसम्मत्तगहणविरहकालस्स जहण्णुक्त्सेण तप्पमाणत्तोवएसादो । जयध०

४ कुदो, तव्विसेसियजीवाणमाणत्थिदसणादो । जयध०

५ अणताणुवधिविसजोयणाण च सजुत्ताण पि पयदतरसिद्धीए वाहाणुवलमादो । जयध०

णवरि अवत्तव्वसंक्रामयाणमंतरमुक्कस्सेण संखेज्जाणि वस्साणि^१ ।

४००. अप्पावहुअं । ४०१. सव्वत्थोवा मिच्छत्तस्स अप्पयरसंक्रामया^२ ।
 ४०२. भुजगारसंक्रामया असंखेज्जगुणा^३ । ४०३. अवट्ठिदसंक्रामया संखेज्जगुणा^४ ।
 ४०४. सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं सव्वत्थोवा अप्पयरसंक्रामया^५ । ४०५. अवत्तव्वसंक्रामया
 असंखेज्जगुणा^६ । ४०६. अवट्ठिदसंक्रामया असंखेज्जगुणा^७ । ४०७. सेसाणं कम्माणं
 सव्वत्थोवा अवत्तव्वसंक्रामया^८ । ४०८. अप्पयरसंक्रामया अणंतगुणा^९ । ४०९.
 भुजगारसंक्रामया असंखेज्जगुणा । ४१०. अवट्ठिदसंक्रामया संखेज्जगुणा^{१०} ।

भुजगारसंक्रमो त्ति समत्तमणिओगद्वारं ।

४११. पदणिक्खेवे त्ति तिण्णि अणिओगद्वाराणि । ४१२. तं जहा । ४१३.
 परूवणा सायित्तमप्पावहुअं च । ४१४. परूवणाए सव्वेसिक्कम्माणमत्थि उक्कस्सिया
 संक्रामकोका उत्कृष्ट अन्तरकाल संख्यात वर्ष है ॥३९२-३९९॥

चूर्णिसू०—अव भुजाकारादि-संक्रामकोके अल्पवहुत्वको कहते है—मिथ्यात्वके अल्प-
 तर-संक्रामक सबसे कम होते है । भुजाकार-संक्रामक असंख्यातगुणित होते है । अवस्थित-
 संक्रामक संख्यातगुणित होते है । सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वके अल्पतर-संक्रामक
 सबसे कम है । अवक्तव्यसंक्रामक असंख्यातगुणित हैं । अवस्थित-संक्रामक असंख्यात-
 गुणित है । शेष कर्मोंके अवक्तव्यसंक्रामक सबसे कम हैं । अल्पतर-संक्रामक अनन्तगुणित
 है । भुजाकार-संक्रामक असंख्यातगुणित है और उनसे अवस्थित-संक्रामक संख्यातगुणित
 है । ॥४००-४१०॥

इस प्रकार भुजाकार-संक्रमण नामक अनुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

चूर्णिसू०—पदनिक्षेप नामक जो अधिकार है, उसमे तीन अनुयोगद्वार है । वे
 इस प्रकार है—परूपणा, स्वामित्व और अल्पवहुत्व । परूपणाकी अपेक्षा सर्व कर्मोंकी उत्कृष्ट
 वृद्धि होती है, उत्कृष्ट हानि होती है और उत्कृष्ट अवस्थान होता है । इसी प्रकार सर्व

१ कुदो, वासपुधत्तमेत्तुक्कस्सतरेण विणा उवसमसेट्ठिविसयाणमवत्तव्वसकामयाणमेदेसि समवाणुव-
 लभादो । जयध०

२ कुदो, एयसमयसच्चिदत्तादो । जयध०

३ कुदो, अतोमुहुत्तमेत्तुभुजगारकालव्भतरसभवग्गहणादो । जयध०

४ कुदो, भुजगारकालादो अवट्ठिदकालस्स संखेज्जगुणात्तादो । जयध०

५ कुदो, दसणमोहक्खवणजीवाणमेव तदप्पयरभावेण परिणदाणमुवलभादो । जयध०

६ कुदो, पल्लिदोवमासखेज्जभागमेत्तणस्सतकम्मियजीवाणमेयसमयम्मि सम्मत्तगहणसभवादो । जयध०

७ कुदो, सकमपाओग्गतदुभयसतकम्मियमिच्छाइट्ठि-सम्माइट्ठीण सव्वेसिमेवग्गहणादो । जयध०

८ कुदो, वारसकसाय-णवणोक्कसायाणमवत्तव्वसकामयभावेण संखेज्जाणमुवसामयजीवाण परिणमण-
 दसणादो । अणताणुवधीण पि पल्लिदोवमासखेज्जभागमेत्तजीवाण तव्भावेण परिणदाणमुवलभादो । जयध०

९ कुदो, सव्वजीवाणमसखेज्जभागपमाणत्तादो । जयध०

१० कुदो, भुजगारकालादो अवट्ठिदकालस्स तावदिगुणत्तोवलभादो । जयध०

बड्डी हाणी अवट्टाणं । जहणिया बड्डी हाणी अवट्टाणं । ४१५. णवरि सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं बड्डी णत्थि^१ ।

४१६. सामित्तं । ४१७. मिच्छत्तस्स उक्कस्सिया बड्डी कस्स ? ४१८. सण्णियाओग्गजहण्णएण अणुभागसंक्रमेण अच्छिदो उक्कस्ससंकिलेसं गदो, तदो उक्कस्सयमणुभागं पन्नदो, तस्स आवलियादीदस्स उक्कस्सिया बड्डी । ४१९. तस्स चैव से काले उक्कस्सयमवट्टाणं^२ । ४२०. उक्कस्सिया हाणी कस्स ? ४२१. जस्स उक्कस्सय-मणुभागसंतकम्मं तेण उक्कस्सयमणुभागखंडयमागाइदं, तम्मि खंडये घादिदे तस्स उक्कस्सिया हाणी^३ । ४२२. तप्पाओग्गजहण्णाणुभागसंक्रमादो उक्कस्ससंकिलेसं गंतूण जं वंधदि सो वंधो बहुवो । ४२३. जमणुभागखंडयं गेणहइ तं विसेसहीणं । ४२४.

कर्मोकी जघन्य वृद्धि होती है, जघन्य हानि होती है और जघन्य अवस्थान होता है । केवल सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी वृद्धि नहीं होती है, हानि और अवस्थान होते हैं ॥४११-४१५॥

चूर्णिसू०—अव स्वामित्वको कहते हैं ॥४१६॥

शंका—मिध्यात्वकी उत्कृष्ट अनुभाग वृद्धि किसके होती है ? ॥४१७॥

समाधान—जो जीव संज्ञियोंके योग्य जघन्य अनुभागसंक्रमणसे अवस्थित था, वह उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त हुआ और उसने उस संक्लेश-परिणामसे उत्कृष्ट अनुभागबन्धस्थानको बाँधना प्रारम्भ किया । आवलीकालके व्यतीत होनेपर उसके मिध्यात्वके अनुभागकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । उस ही जीवके अनन्तर समयमें मिध्यात्वके अनुभागका उत्कृष्ट अवस्थान होता है ॥४१८-४१९॥

शंका—मिध्यात्वके अनुभागकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? ॥४२०॥

समाधान—जिस जीवके मिध्यात्वका उत्कृष्ट अनुभागसत्त्व था, उसने उत्कृष्ट अनुभागकांडकको घात करनेके लिए ग्रहण किया । उस अनुभागकांडके घात कर दिये जाने पर उस जीवके मिध्यात्वके अनुभागकी उत्कृष्ट हानि होती है ॥४२१॥

मिध्यात्वके अनुभागकी यह उत्कृष्ट हानि क्या उत्कृष्ट वृद्धिप्रमाण होती है, अथवा हीनाधिक होती है, इसके निर्णय करनेके लिए आचार्य अल्पबहुत्व कहते हैं—

चूर्णिसू०—मिध्यात्वके योग्य जघन्य अनुभागसंक्रमणसे उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त होकर जिस अनुभागको बाँधता है, वह अनुभागबन्ध बहुत है । तथा जिस अनुभाग-

१ कुदो, तदुभयाणुभागस्स वड्ढिविरुद्धसहावत्तादो । तम्हा जहण्णुक्कस्सहाणि-अवट्टाणाणि चैव सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमत्थि त्ति सिद्ध । जयध०

२ कुदो, तत्थुक्कस्सवड्ढिपमाणेण सकमट्टाणदसणादो । जयध०

३ कुदो, तत्थाणुभागसत्तकम्मस्साणताण भागाणमसखेज्जलोगमेत्तच्छट्टाणावच्छिण्णाणमेक्कवारेण हाणिदसणादो । जयध०

४ केत्तियमेत्तेण ? तदणत्तिमभागमेत्तेण । कुदो, वड्ढिदाणुभागस्स णिरवसेसवादनसत्तीए असभ-वादो । जयध०

एदमप्पावहुअस्स साहणं । ४२५. एवं सोलसकसाय-णवणोकसायाणं । ४२६. सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमुक्कस्सिया हाणी कस्स ? ४२७. दंसणमोहणीयक्खवयस्स विदिय-अणुभागखंडयपढमसमयसंक्रामयस्स तस्स उक्कस्सिया हाणी^१ । ४२८. तस्स चैव से काले उक्कस्सयमवट्ठाणं ।

४२९. मिच्छत्तस्स जहणिया वड्डी कस्स ? ४३०. सुहुमेइंदियकम्मेण जहण्णएण जो अणंतभागेण वड्ढिदो तस्स जहणिया वड्डी । ४३१. जहणिया हाणी कस्स ? ४३२. जो वड्ढाविदो तम्मि घादिदे तस्स जहणिया हाणी^२ । ४३३. एगद-रत्थमवट्ठाणं । ४३४. एवमट्ठकसायाणं । ४३५. सम्मत्तस्स जहणिया हाणी कस्स ?

कांडकको घात करनेके लिए ग्रहण करता है, वह विज्ञेय हीन है । यह कथन वक्ष्यमाण अल्पवहुत्वका साधक है ॥४२२-४२४॥

चूर्णिसू०—इसी प्रकार मिध्यात्वकी उत्कृष्ट अनुभागवृद्धि, हानि और अवस्थानके समान सोलह कपाय और नव नोकपायोकी अनुभागवृद्धि, हानि और अवस्थानोका स्वामित्व जानना चाहिए ॥४२५॥

शंका—सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वके अनुभागकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? ॥४२६॥

समाधान—दर्शनमोहनीयकी क्षपणाके समय द्वितीय अनुभागकांडकको प्रथम समय-मे संक्रमण करनेवाले दर्शनमोहनीय-क्षपकके उक्त दोनो कर्मोके अनुभागकी उत्कृष्ट हानि होती है । उसी जीवके तदनंतर समयमे कर्मोके अनुभागका उत्कृष्ट अवस्थान होता है ॥४२७-४२८॥

शंका—मिध्यात्वके अनुभागकी जघन्य वृद्धि किसके होती है ? ॥४२९॥

समाधान—जो जीव सूक्ष्म एकेन्द्रियके योग्य जघन्य अनुभागसत्कर्मसे विद्यमान था, वह जब परिणामोके निमित्तसे अनन्तभागरूप वृद्धिसे बढ़ा, तब उसके मिध्यात्वके अनुभागकी जघन्य वृद्धि होती है ॥४३०॥

शंका—मिध्यात्वके अनुभागकी जघन्य हानि किसके होती है ? ॥४३१॥

समाधान—जो सूक्ष्म निगोदियाका जघन्य अनुभाग संक्रमण अनन्तभाग वृद्धिरूपसे बढ़ाया गया, उसके घात करनेपर उस जीवके मिध्यात्वकी जघन्य हानि होती है ॥४३२॥

चूर्णिसू०—मिध्यात्वके अनुभागकी जघन्य वृद्धि या हानि करनेवाले किसी एक जीवके तदनन्तर समयमे मिध्यात्वके अनुभागका अवस्थान होता है । इसी प्रकार आठो कपायोके जघन्य वृद्धि हानि और अवस्थानको जानना चाहिए ॥४३३-४३४॥

शंका—सम्यक्त्वप्रकृतिके अनुभागकी जघन्य हानि किसके होती है ? ॥४३५॥

१ दसणमोहक्खवणाए अणुवकरणपढमाणुभागखडय घादिय विदियाणुभागखडए वट्ठमाणस्स पढम-समए पयदकम्माणमुक्कस्सहाणी होइ, तत्थ सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमणुभागसतकम्मस्साणताणं भागाणमेक-वारेण हाइट्टूणाणंतिमभागे समवट्ठाणदंसणादो । जयध०

२ जहण्णवडिट्ठविसईकयाणुभागस्सेव तत्थ हाणिसरुवेण परिणामदसणादो । ण चाणतिमभागस्स खडयघादो णत्थित्ति पच्चवट्ठेयं, संसारावत्थाए छव्विहाए हाणीए घादस्स पवुत्तिअब्भुवगमादो । जयध०

३ रुदो; जहण्णवडिट्ठहाणीणमण्णदरस्स से काले अवट्ठाणसिद्धिपवाहाणुवल्भादो । जयध०

४३६. दंसणमोहणीयकखवयस्स समयाहियावलियअकखीणदंसणमोहणीयस्स तस्स जहणिया हाणी^१ । ४३७. जहणयमवट्ठाणं कस्स ? ४३८. तस्स चैव दुचरिमे अणुभागखंडए हदे चरिमअणुभागखंडए वट्ठमाणखवयस्स^२ । ४३९. सम्मामिच्छत्तस्स जहणिया हाणी कस्स ? ४४०. दंसणमोहणीयकखवयस्स दुचरिमे अणुभागखंडए हदे तस्स जहणिया हाणी^३ । ४४१. तस्स चैव से काले जहणयमवट्ठाणं ।

४४२. अणंताणुबंधीणं जहणिया वट्ठी कस्स ? ४४३. विसंजोएदूण पुणो मिच्छत्तं गंतूण तप्पाओग्गविसुद्धपरिणामेण विदियसमए तप्पाओग्गजहणाणुभागं बंधिऊण आवलियादीदस्स तस्स जहणिया वट्ठी^४ । ४४४. जहणिया हाणी कस्स ? ४४५.

समाधान—दर्शनमोहनीयका क्षपण करनेवाले जीवके एक समय अधिक आवली-काल जब दर्शनमोहनीयके क्षपण करनेमें श्रेय रहे, तब उसके सम्यक्त्वप्रकृतिके अनुभागकी जघन्य हानि होती है ॥४३६॥

शंका—सम्यक्त्वप्रकृतिके अनुभागका जघन्य अवस्थान किसके होता है ? ॥४३७॥

समाधान—द्विचरम अनुभाग-कांडकका घात करके चरम अनुभाग-कांडकके घात करनेमें वर्तमान उस ही दर्शनमोहनीयका क्षपण करनेवाले जीवके सम्यक्त्वप्रकृतिके अनुभागका जघन्य अवस्थान होता है ॥४३८॥

शंका—सम्यग्मिध्यात्वके अनुभागकी जघन्य हानि किसके होती है ? ४३९॥

समाधान—सम्यग्मिध्यात्वके द्विचरम अनुभागकांडकके घात कर देनेपर उसी दर्शनमोहनीय-क्षपकके सम्यग्मिध्यात्वके अनुभागकी जघन्य हानि होती है । उस ही जीवके तदनन्तर समयमें सम्यग्मिध्यात्वके अनुभागका जघन्य अवस्थान होता है ॥४४०-४४१॥

शंका—अनन्तानुबन्धी कपायोके अनुभागकी जघन्य वृद्धि किसके होती है ? ॥४४२॥

समाधान—जो जीव अनन्तानुबन्धी कपायोका विसंयोजन करके पुनः मिध्यात्वको जाकर और तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामसे द्वितीय समयमें तत्प्रायोग्य जघन्य अनुभागको बाँधकर आवलीकाल व्यतीत करता है, उसके अनन्तानुबन्धी कपायोके अनुभागकी जघन्य वृद्धि होती है ॥४४३॥

शंका—अनन्तानुबन्धी कपायोके अनुभागकी जघन्य हानि किसके होती है ? ॥४४४॥

१ कुदो; तत्थाणुसमयवट्ठणावसेण सुट्ठु थोवीभूदाणुभागसतकम्मादो तक्काले थोवयराणुभागसकमहाणिदसणादो । जयध०

२ तस्स चैव दंसणमोहकखवयस्स दुचरिमाणुभागखडय वादिय तदणतरसमये तप्पाओग्गजहणहाणीए परिणदस्स चरिमाणुभागखंडयविदियसमयप्पट्टुडि जावतोसुहुत्त जहणावट्ठाणसंकमो होइ, तत्थ पयारतरासभववादो । जयध०

३ कुदो, दुचरिमाणुभागखडयसकमादो अणतगुणहाणीए हाइदूण चरिमाणुभागखडयसरूवेण परिणदस्स पढमसमए जहणभावसिद्धिपवाहाणुवलभादो । जयध०

४ एत्थ तप्पाओग्गविसुद्धपरिणामेणेत्ति णिद्दे सो पढमसमयजहणाणुभागवधादो विदियसमए जहण-

विसंजोएदूण पुणो मिच्छत्तं गंतूण अंतोमुहुत्तसंजुत्ते वि तस्स सुहुमस्स हेडुदो संतकम्मं* ।
 ४४६. तदो जो अंतोमुहुत्तसंजुत्तो जाव सुहुमकम्मं जहणयं ण पावदि ताव घादं
 करेज्ज । ४४७ तदो सव्वत्थोवाणुभागे घादिज्जमाणे घादिदे तस्स जहणिया हाणी ।
 ४४८. तस्सेव से काले जहणयमवट्ठाणं ।

४४९. कोहसंजलणस्स जहणिया वड्डी मिच्छत्तभंगो । ४५०. जहणिया
 हाणी कस्स ? ४५१. खवयस्स चरिमसमयबंध-चरिमसमयसंक्रामयस्स^१ । ४५२.
 जहणयमवट्ठाणं कस्स ? ४५३. तस्सेव चरिमे अणुभागखंडए वट्टमाणयस्स^२ । ४५४.

समाधान—अनन्तानुवन्धी कपायोका विसंयोजन करके पुनः मिथ्यात्वको जाकर
 और अन्तर्मुहूर्त तक अनन्तानुवन्धी कपायोका संयोजन करके भी जिसके सूक्ष्म निगोदिया-
 के अनुभागसे नीचे अनुभागसत्त्व रहता है, तदनन्तर वह अन्तर्मुहूर्त तक कपायोसे
 संयुक्त हो करके भी जब तक सूक्ष्मनिगोदियाके योग्य जघन्य कर्मको नहीं प्राप्त कर लेता है,
 तब तक घात करता जाता है । इस क्रमसे घात करते हुए घातने योग्य सर्व-स्तोक
 अनुभागके घात करनेपर उस जीवके अनन्तानुवन्धी कपायोके अनुभागकी जघन्य हानि
 होती है । उस ही जीवके तदनन्तरकालमे उक्त कपायोके अनुभागका जघन्य अवस्थान
 होता है ॥४४५-४४८॥

चूर्णिसू०—संज्वलनक्रोधकी जघन्य वृद्धिका स्वामित्व मिथ्यात्वके समान जानना
 चाहिए ॥४४९॥

शंका—संज्वलनक्रोधकी जघन्य हानि किसके होती है ? ॥४५०॥

समाधान—चरमसमयमे अर्थात् क्रोधकी तृतीय संग्रहकृष्टि-वेदकके अन्तिम समयमे
 बंधे हुए नवकवद्ध अनुभागको चरम समयमे संक्रमण करनेवाले अर्थात् मानवेदककालके
 दो समय कम दो आवलियोंके अन्तिम समयमे वर्तमान क्षपकके संज्वलनक्रोधके अनुभागकी
 जघन्य हानि होती है ॥४५१॥

शंका—संज्वलनक्रोधके अनुभागका जघन्य अवस्थान किसके होता है ? ॥४५२॥

समाधान—अन्तिम अनुभागकांडकमे वर्तमान उस ही क्षपकके संज्वलन क्रोधके

दुद्धिसगहणट्टो । XXX एव वुत्तविहाणेण विदियसमए वड्ढिदूण तत्तो आवलियादीदस्स तस्स जहणिया
 वड्ढी, अणइच्छाविद्वधवावलिस्स णवकवधस्स सकमपाओग्गभावाणुववत्तीदो । जयध०

१ एत्थ चरिमसमयवधो त्ति वुत्ते कोहतदियसगहकिट्ठीवेदयचरिमसमयवद्धणवक्रवधाणुभागो घेत्त-
 व्वो । तस्स चरिमसमयसकामओ णाम माणवेदगद्धाए दुसमऊणदोआवलियचरिमसमए वट्टमाणो त्ति
 गहेयव्व । तस्स कोधमजलणाणुभागसकमणित्रधणा जहणिया हाणी होइ । जयध०

२ चरिमाणुभागखंडय णाम किट्ठीकारयचरिमावत्थाए वेत्तव्व, उवरिमणुसमयोवट्टणाविसए खडय-
 घदासंमवादो । जयध०

ताम्रपत्रवाली प्रतिमे 'संतकम्मं' पदसे आगे 'पयदजहणणसामित्तसाहणट्टमिदं ताव
 पुच्चमेव णिट्ठिमट्टपट्टं' इतना अंग और भी स्वरूपसे मुद्रित है (देखो पृ० ११७६) । पर यह सूत्रका
 अंग नहीं, अपि तु स्पष्ट रूपसे टीकागत अंग है ।

एवं माण-मायासंजलण-पुरिसवेदाणं^१ । ४५५. लोहसंजलणस्स जहणिया वड्डी मिच्छत्त-
भंगो । ४५६. जहणिया हाणी कस्स ? ४५७. खवयस्स समयाहियावलियसकसायस्स^२ ।
४५८. जहणयमवट्ठाणं कस्स ? ४५९. दुचरिमे अणुभागखंडए हदे चरिमे अणुभागखंडए
वट्टमाणयस्स । ४६०. इत्थिवेदस्स जहणिया वड्डी मिच्छत्तभंगो^३ । ४६१. जहणिया
हाणी कस्स ? ४६२. चरिमे अणुभागखंडए पढमसमयसंक्रामिदे तस्स जहणिया हाणी^४ ।
४६३. तस्सेव विदियसमये जहणयमवट्ठाणं^५ । ४६४. एवं णत्तुंसयवेद-छण्णोकसायाणं ।

अनुभागका जघन्य अवस्थान होता है ॥४५३॥

चूर्णिसू०—इसी प्रकार संज्वलन मान, मायाकपाय और पुरुषवेदके अनुभागकी जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान जानना चाहिए । संज्वलन लोभकी जघन्य वृद्धिका स्वामित्व मिथ्यात्वके समान है ॥४५४-४५५॥

शंका—संज्वलनलोभकी जघन्य हानि किससे होती है ? ॥४५६॥

समाधान—एक समय अधिक आवलीकालवाले सकपाय सूक्ष्मसाम्पराय क्षपकके होती है ॥४५७॥

शंका—संज्वलनलोभका जघन्य अवस्थान किसके होता है ? ॥४५८॥

समाधान—द्विचरम अनुभागकांडकको घात कर चरम अनुभागकांडकमे वर्तमान क्षपकके होता है ॥४५९॥

चूर्णिसू०—स्त्रीवेदकी जघन्य वृद्धि मिथ्यात्वके समान जानना चाहिए ॥४६०॥

शंका—स्त्रीवेदकी जघन्य हानि किसके होती है ? ॥४६१॥

समाधान—स्त्रीवेदके अन्तिम अनुभागकांडकको प्रथम समयमे संक्रान्त करनेपर, अर्थात् अन्तिम अनुभागकांडकके प्रथम समयमे वर्तमान क्षपकके स्त्रीवेदकी जघन्य हानि होती है ॥४६२॥

चूर्णिसू०—उस ही जीवके द्वितीय समयमे स्त्रीवेदका जघन्य अवस्थान होता है । इसी प्रकार नपुंसकवेद और हास्यादि छह नोकपायोकी वृद्धि, हानि और अवस्थानके स्वामित्वको जानना चाहिए ॥४६३-४६४॥

१ कुदो, वड्डीए मिच्छत्तभगेण, हाणि-अवट्ठाणाण पि खवयस्स चरिमसमयणवक्रवधचरिमफालि-
विसयत्तेण चरिमाणुभागखडयविसयत्तेण च सामित्तपरुवण पडिविसेसाभावादो । जयध०

२ समयाहियावलियसकसायो णाम सुहुमसपराइयो सगद्धाए समयाहियावलियसेसाए वट्टमाणो
वेत्तव्वो । तस्स पयदजहणणसामित्त दट्ठव्व, एत्तो सुहुमदरहाणीए लोहसजलणाणुभागसकमणिवधणाए अण-
त्थाणुवलळीदो । जयध०

३ कुदो; सुहुमहदसमुपत्तियकम्भेण जहणणणाणतमागवड्डीए वडिडठम्मि सम्मत्तपडिलभ पडिं
तत्तो एदस्स भेदाभावादो । जयध०

४ इत्थिवेदस्स दुचरिमाणुभागखडयचरिमफालिं सकामिय चरिमाणुभागखडयवढमसमए वट्टमाणस्स
जहणिया हाणी होइ, तत्थ खवगपरिणामेहि वादिदावसेस्स तदणुभागस्स सुट्ठु जहणहाणीए हाइदूण
सकत्तिदसणादो । जयध०

५ कुदो; पढमसमए जहणहाणिविसयीकयाणुभागस्स विदियसमए तत्तियमेत्तपमाणेणावट्ठाणदस-
णादो । जयध०

४६५. अप्पावहुअं । ४६६. सव्वत्थोवा मिच्छत्तस्स उक्कस्सिया हाणी ।
 ४६७. वड्डी अवट्ठाणं च विसेसाहियं^१ । ४६८. एवं सोलसकसाय-णवणोकसायाणं ।
 ४६९. सन्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमुक्कस्सिया हाणी अवट्ठाणं च सरिसं^२ ।

४७०. जहणयं । ४७१. मिच्छत्तस्स जहणिया वड्डी हाणी अवट्ठाणसंक्रमो
 च तुल्लो^३ । ४७२. एवमट्ठकसायाणं । ४७३. सम्मत्तस्स सव्वत्थोवा जहणिया हाणी^४ ।
 ४७४. जहणयमवट्ठाणमणंतगुणं^५ । ४७५. सम्मामिच्छत्तस्स जहणिया हाणी अवट्ठा-
 णसंक्रमो च तुल्लो^६ । ४७६. अणंताणुबंधीणं सव्वत्थोवा जहणिया वड्डी । ४७७.
 जहणिया हाणी अवट्ठाणसंक्रमो च अणंतगुणो^७ । ४७८. चदुसंजलण-पुरिसवेदाणं
 सव्वत्थोवा जहणिया हाणी^८ । ४७९. जहणयमवट्ठाणं अणंतगुणं^९ । ४८०. जहणिया

चूर्णिसू०—अव उत्कृष्ट वृद्धि आदिके अल्पवहुत्वको कहते हैं—मिध्यात्वकी उत्कृष्ट
 हानि सबसे कम होती है । वृद्धि और अवस्थान विशेष अधिक होते हैं । इसी प्रकार
 सोलह कपाय और नव नोकपायोका अल्पवहुत्व जानना चाहिए । सम्यक्त्वप्रकृति और
 सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट हानि और अवस्थान सद्ग होते हैं ॥४६५-४६९॥

चूर्णिसू०—अव जघन्य अल्पवहुत्वको कहते हैं—मिध्यात्वकी जघन्य वृद्धि, हानि
 और अवस्थानसंक्रमण तुल्य है । इसी प्रकार आठ मध्यम कपायोकी वृद्धि आदिका अल्प-
 वहुत्व है । सम्यक्त्वप्रकृतिकी जघन्य हानि सबसे कम है । जघन्य अवस्थान अनन्त-
 गुणित है । सम्यग्मिध्यात्वकी जघन्य हानि और अवस्थानसंक्रमण तुल्य है । अनन्तानु-
 बन्धी कपायोकी जघन्य वृद्धि सबसे कम है । जघन्य हानि और अवस्थानसंक्रमण अनन्त-
 गुणित है । चारो संज्वलन और पुरुषवेदकी जघन्य हानि सबसे कम है । इससे इन्ही

१ कुदो जुण एदेसिं विसेसाहियणिच्छयो ? ण, वड्ढिदाणुभागस्स गिरवत्तेमघादणसत्तीए असंभवेण
 तत्विणिच्छयादो । जयध०

२ कुदो, उक्कस्सहाणीए चैव उक्कस्सावट्ठाणसामित्तदसणादो । जयध०

३ कुदो; तिण्हमेदेसिं सुहुमहदसमुप्पत्तिजहणणाणुभागअणतिमभागे पडिबद्धत्तादो । जयध०

४ कुदो. अणुसमयोवट्ठणाए पत्तघादसम्मत्ताणुभागस्स समयाहियावलियअक्खीणदसणमोहणीयम्मि
 जहणहाणिभावमुवगयस्स सव्वत्थोवत्ते विरोहाणुवलभादो । जयध०

५ कुदो: अणुसमयोवट्ठणापारभादो पुञ्चमेव चरिमाणुभागखडयविसए जहणभावमुवगयत्तादो ।
 जयध०

६ कुदो, दोण्हमेदेसिं दसणमोहक्खवयदुचरिमाणुभागखडयपमाणेण हाइदूण लद्धजहणभावानमणो-
 ष्णेण समाणत्तसिद्धीए विप्पडिसेहाभावादो । जयध०

७ कुदो, तप्पाओगविमुद्धपरिणामेण सजुत्तविदियसमयणवकवधस्स जहणवड्ढिभावेणेह विवक्खि-
 यत्तादो । जयध०

८ कुदो, अतोमुहुत्तसजुत्तस्स एयताणुवड्ढोए वड्ढिदाणुभागविसयसव्वत्थोवाणुभागखडयघादे कदे
 जहणहाणि-अवट्ठाणण सामित्तदसणादो । जयध०

९ कुदो, तिणिसजलण-पुरिसवेदाण सगसगचरिमसमवणवक्खबंधचरिमसमयसकामयखवयम्मि लोभ-
 सजलणस्स समाहियावलियसकसायम्मि पयदजहणसामित्तावलंबणादो । जयध०

१० केण कारणेण ? चिराणसतकम्मचरिमाणुभागखडयम्मि पयदजहणावट्ठाणसामित्तावलंबणादो ।
 जयध०

वृद्धी अणंतगुणा^१ । ४८१. अट्टणोकसायाणं जहणिया हाणी अवट्टाणसंक्रमो च तुल्लो थोवो^२ ४८२. जहणिया वृद्धी अणंतगुणा ।

पदणिकखेवो समत्तो

४८३. वृद्धीए तिण्णि अण्णिओगदाराणि समुक्कित्तणा सामित्तमप्पावहुअं च । ४८४. समुक्कित्तणा । ४८५. मिच्छत्तस्स अत्थि छव्विहा वृद्धी, छव्विहा हाणी अवट्टाणं च । ४८६. सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमत्थि अणंतगुणहाणी अवट्टाणमवत्तव्वयं च^३ । ४८७. अणंतगुणं धीणमत्थि छव्विहा वृद्धी हाणी अवट्टाणमवत्तव्वयं च । ४८८. एवं सेसाणं कम्मणं^४ ।

४८९. सामित्तं । ४९०. मिच्छत्तस्स छव्विहा वृद्धी पंचविहा हाणी कस्स ? ४९१. मिच्छाइट्ठिस्स अण्णयरस्सै । ४९२. अणंतगुणहाणी अवट्टिदसंक्रमो च कस्स ?

कर्माका जघन्य अवस्थान अनन्तगुणित है । इससे उन्हींकी जघन्य वृद्धि अनन्तगुणित होती है । आठों मध्यम कपायोंकी जघन्य हानि और अवस्थानसंक्रमण परस्पर तुल्य और अल्प है । जघन्य वृद्धि अनन्तगुणित है ॥४७०-४८२॥

इस प्रकार पक्षनिक्षेप अधिकार समाप्त हुआ ।

चूर्णिसू०—वृद्धि अधिकारमे तीन अनुयोगद्वार है—समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पवहुत्व । पहले समुत्कीर्तना कहते हैं—मिथ्यात्वकी छह प्रकारकी वृद्धि, छह प्रकारकी हानि और अवस्थान होता है । सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी अनन्तगुणहानि होती है, अवस्थान और अवक्तव्यसंक्रमण होता है । अनन्तानुवन्धी कपायोंकी छह प्रकारकी वृद्धि और छह प्रकारकी हानि होती है, तथा अवस्थान और अवक्तव्यसंक्रमण भी होता है । इसी प्रकार जेप वारह कपाय और नव नोकपायोंकी वृद्धि, हानि, अवस्थान और अवक्तव्यसंक्रमण होते हैं ॥४८३-४८८॥

चूर्णिसू०—अव वृद्धि आदिके स्वामित्वको कहते हैं ॥४८९॥

शंका—मिथ्यात्वकी छह प्रकारकी वृद्धि और अनन्तगुणहानिको छोड़कर पाँच प्रकारकी हानि किसके होती है ? ॥४९०॥

समाधान—किसी एक मिथ्यादृष्टिके होती है ॥४९१॥

शंका—मिथ्यात्वकी अनन्तगुणहानि और अवस्थितसंक्रमण किसके होता है ? ॥४९२॥

१ कुदो, एत्तो अणतगुणसुट्टुमाणुभागविसए लद्धजहणमावत्तादो । जयध०

२ कुदो, दोण्हमेदेसि पटाणमप्पणो चरिमाणुभागखडयविसए पयदजहणसामित्तसमुवलद्धीदो । जयध०

३ दसणमोहक्खवणाए अणतगुणहाणिसभवो, हाणीदो अणत्थे सव्वत्थेवाट्ठाणसकमसभवो, असकमादो सकामयत्तमुवगयमि अवत्तव्वसकमो, तिण्हमेदेसिमेत्थ सभवो ण विरुज्जदे । सेसपदाणमेत्थ णत्थि सभवो । जयध०

४ णवरि सव्वोवसामणापडिवादे अवत्तव्वसभवो वत्तव्वो । जयध०

५ (कुदो;) ण ताव सम्माइट्ठिमि मिच्छत्ताणुभागविसयछव्वइट्ठीणमत्थि सभवो, तत्थ तव्वंधा-

४९३. अण्णयरस्स । ४९४. सम्मत्त-सम्मा मिच्छत्ताणमणंतगुणहाणिसंक्रमो कम्म ?
 ४९५. दंसणमोहणीयं खवेंतस्सं । ४९६. अवट्ठाणसंक्रमो कस्स ? ४९७. अण्णदरस्सं ।
 ४९८. अवत्तव्वसंक्रमो कस्स ? ४९९. विदियसमय-उवसमसम्माइट्ठिस्सं । ५००.
 सेसाणं कम्माणं मिच्छत्तमंगो । ५०१. णवरि अणंताणुवंधीणमवत्तव्वं धिमंजोएदूण
 पुणो मिच्छत्तं गंतूण आवलियादीदस्स । ५०२. सेसाणं कम्माणमवत्तव्वमुव्वमामेदूण
 परिवदमाणयस्स ।

५०३. अप्पावहुअं । ५०४. सव्वत्थोवा मिच्छत्तस्स अणंतभागहाणिसंक्रामयां ।

५०५. असंखेज्जभागहाणिसंक्रामया असंखेज्जगुणां । ५०६. संखेज्जभागहाणिसंक्रामया

समाधान—किसी एक सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टिके होता है ॥४९३॥

शंका—सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका अनन्तगुणहानिसंक्रमण किसके
 होता है ? ॥४९४॥

समाधान—दर्शनमोहनीयकर्मका क्षपण करनेवाले जीवके होता है ॥४९५॥

शंका—उक्त दोनों कर्मोंका अवस्थानसंक्रमण किसके होता है ? ॥४९६॥

समाधान—किसी एक सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टिके होता है ॥४९७॥

शंका—उक्त दोनों कर्मोंका अवक्तव्यसंक्रमण किसके होता है ? ॥४९८॥

समाधान—द्वितीयसमयवर्ती उपशमसम्यग्दृष्टिके होता है ॥४९९॥

चूर्णिसू०—शेष कर्मोंका स्वामित्व मिथ्यात्वके समान जानना चाहिए । विशेषता
 केवल यह है कि अनन्तानुवन्धी कपायोका अवक्तव्यसंक्रमण अनन्तानुवन्धीका विसंयोजन
 करके पुनः मिथ्यात्वको प्राप्त होकर एक आवलीकाल व्यतीत करनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके
 होता है । शेष कर्मोंका अवक्तव्यसंक्रमण कपायोका उपशमन करके नीचे गिरनेवाले जीवके
 होता है ॥५००-५०२॥

चूर्णिसू०—अव वृद्धि आदि पदोंका अल्पबहुत्व कहते हैं—मिथ्यात्वकी अनन्तभाग-
 हानिके संक्रामक वक्ष्यमाण पदोंकी अपेक्षा सबसे कम है । अनन्तभागवृद्धि-संक्रामकोसे
 असंख्यातभागहानिके संक्रामक असंख्यातगुणित है । असंख्यातभागहानि-संक्रामकोसे संख्यात-
 भागहानिके संक्रामक संख्यातगुणित है । संख्यातभागहानि-संक्रामकोसे संख्यातगुणहानिके

भावादो । ण च वधेण विणा अणुभागसकमस्स वड्ढी लब्भदे, तहाणुवलद्धीदो । तहा पचविहा हाणी वि
 तथ णत्थि, सुट्ठु वि मदविसोहीए कडयघाद करेमाणसम्माइट्ठिम्मि अणतगुणहाणि मोत्तूण सेसपचहाणीण-
 मसभवादो । तदो मिच्छाइट्ठिस्सेव णिरुद्धछवड्ढिह-पचहाणीणं सामित्तिमिदि । जयध०

१ कुदो, दंसणमोहक्खवणादो अण्णत्येदेसिमणुभागघादासभवादो । जयध०

२ कुदो, मिच्छाइट्ठि-सम्माइट्ठीणं तदुवलद्धीए विरोहाभावादो । जयध०

३ कुदो, तत्थासकमादो सकमपवुत्तीए परिप्फुडमुवलभादो । जयध०

४ कुदो, एगकडयविसयत्तादो । जयध०

५ चरिमुव्वकट्ठाणादोप्पहुडि अणतभागहाणिअट्ठाणमेगकडयमेत्त चेव होदि । एदेसि पुण तारि-
 साणि अट्ठाणाणि रूवाहियकडयमेत्ताणि हवति । तदो तव्विसयादो पयदविसयो असखेज्जगुणो त्ति सिद्धमेदेसि
 तत्तो असखेज्जगुणत्त । जयध०

संखेज्जगुणा^१ । ५०७. संखेज्जगुणहाणिसंक्रामया संखेज्जगुणा^२ । ५०८. असंखेज्जगुणहाणिसंक्रामया असंखेज्जगुणा^३ । ५०९. अणंतभागवद्धिसंक्रामया असंखेज्जगुणा^४ । ५१०. असंखेज्जभागवद्धिसंक्रामया असंखेज्जगुणा^५ । ५११. संखेज्जभागवद्धिसंक्रामया संखेज्जगुणा । ५१२. संखेज्जगुणवद्धिसंक्रामया संखेज्जगुणा । ५१३. असंखेज्जगुणवद्धिसंक्रामया असंखेज्जगुणा । ५१४. अणंतगुणहाणिसंक्रामया असंखेज्जगुणा^६ । ५१५.

संक्रामक संख्यातगुणित है । संख्यातगुणहानि-संक्रामकोसे असंख्यातगुणहानिके संक्रामक असंख्यातगुणित हैं । असंख्यातगुणहानि-संक्रामकोसे अनन्तभागवृद्धिके संक्रामक असंख्यातगुणित है । अनन्तभागवृद्धि-संक्रामकोसे असंख्यातभागवृद्धिके संक्रामक असंख्यातगुणित है । असंख्यातभागवृद्धि-संक्रामकोसे संख्यातभागवृद्धिके संक्रामक संख्यातगुणित है । संख्यातभागवृद्धि-संक्रामकोसे संख्यातगुणवृद्धिके संक्रामक संख्यातगुणित है । संख्यातगुणवृद्धि-संक्रामकोसे असंख्यातगुणवृद्धिके संक्रामक असंख्यातगुणित है । असंख्यातगुणवृद्धि-संक्रामकोसे अनन्तगुणहानिके संक्रामक असंख्यातगुणित है । अनन्तगुणहानिके संक्रामकोसे अनन्तगुण-

१ त जहा-रूवाहियअणतभागहाणि-असखेज्जभागहाणि-अद्वाणपमाणेण एग सखेज्जभागहाणिअद्वाण कादूणेवविहाणि दोण्णि तिण्णि चत्तारि त्ति गणिज्जमाणे उक्कस्ससखेज्जयस्स सादिरेयद्वमेत्ताणि अद्वाणाणि संखेज्जभागहाणीए विसओ होइ, तेत्तियमेत्तमद्वाण गतूण तत्थ दुगुणहाणीए समुप्पत्तिदसणादो । तदो विसयाणुसारेणुक्कस्ससखेज्जयस्स सादिरेयद्वमेत्तो गुणगारो तप्पाओग्गसखेज्जरूवमेत्तो वा । जयध०

२ तं कथं ? सखेज्जभागहाणिसकामएहि लद्धट्ठाणपमाणेणेयमद्वाण कादूण तारिसाणि जहणपरित्ता-सखेज्जयस्स रूवूण द्दच्छेदणयमेत्ताणि जाव गच्छति ताव सखेज्जगुणहाणिविसओ चेव, नत्तोप्पट्ठि असखेज्जगुण-हाणिसमुप्पत्तीदो । तदो एत्थ वि विसयाणुसारेण रूवूणजहणपरित्तासंखेज्जच्छेदणयमेत्तो तप्पाओग्गसखेज्जरूव-मेत्तो वा गुणगारो । जयध०

३ पुच्चाणुपुच्चीए चरिमसखेज्जभागवद्धिद्वकडयस्सासखेज्जदिभागे चेव सखेज्जभागहाणि-सखेज्जगुणहा-णीओ समप्पत्ति । तेण कारणेण चरिमसखेज्जभागवद्धिद्वकडयस्स सेसा असखेज्जा भागा सखेजासखेज्जगुणवद्धि-सयलद्वाण च असखेज्जगुणहाणिसकमाण विसयो होइ । तदो एत्थ विसयाणुसारेण अगुलस्सासंखेज्जभागमेत्तो गुणगारो, तप्पाओग्गसखेज्जरूवमेत्तो वा । जयध०

४ तं कथं ? पुच्चुत्तासेसहाणिसकामयरासी एयसमयसच्चिदो, खडयवादाण तस्समयमोत्तूण्णत्थ हाणिसकमसभवादो । एसो बुण रासी आवलियाए असखेज्जभागमेत्तकालसच्चिदो; पच्चह वड्ढीणमावलियाए असखेज्जदिभ्यगमेत्तकालोवएसादो । तदो कडयमेत्तविसयत्ते वि सचयकालपाहम्मेणासखेज्जभागमेत्तमेदेसि सिद्ध । गुणगारपमाणमेत्थासखेजा लोगा त्ति वत्तव्व । कुदो एव चे, हाणिपरिणामाण सुट्ठु दुल्लहत्तादो । वड्ढिपरिणामाणमेव पाएण सभवादो । जयध०

५ दोण्हमावलियासखेज्जभागमेत्तकालपडिवद्धत्ते समाणे सते वि पुच्चित्तकालादो एदस्स कालो अस-खेज्जगुणो पुच्चित्तकालस्स चेव असखेज्जगुणत्त । कथमेसो कालगओ विसेसो परिच्छिण्णो ? महावधपरुविद-कालप्पावहुआदो । जयध०

६ किं कारणं ? असखेज्जगुणवद्धिद्वसकामयरासी आवलियाए असखेज्जदिभागमेत्तकालसच्चिदो होइ, किंतु थोवविसयो, एयल्लट्ठाणव्भतरे चेय तत्त्विसयणिवधदसणादो । अणतगुणहाणिसकामयरासी पुण जइ वि एयसमयसच्चिदो, तो वि असखेज्जलोगमेत्तल्लट्ठाणपडिवद्धो । तदो सिद्धमेदेसि तत्तो असखेज्जगुणत्तं ।

अणंतगुणवृद्धिसंक्रामया असंखेज्जगुणा^१ । ५१६. अवट्ठिदमंक्रामया संखेज्जगुणा^१ ।

५१७. सम्पत्त-सम्मामिच्छत्ताणं सव्वत्थोवा अणंतगुणहाणिसंक्रामया^१ । ५१८. अवत्तव्वसंक्रामया असंखेज्जगुणा^१ । ५१९. अवट्ठिदसंक्रामया अमंखेज्जगुणा^१ । ५२०. सेसाणं कम्मणं सव्वत्थोवा अवत्तव्वसंक्रामया^१ । ५२१. अणंतभागहाणिसंक्रामया अणंतगुणा^१ । ५२२. सेसाणं संक्रामया मिच्छत्तभंगो ।

एवं वृद्धिसंक्रमो समत्तो ।

५२३. एत्तो ट्ठाणाणि कायव्वाणि^१ । ५२४. जहा संतकम्मट्ठाणाणि तहा संक्रमट्ठाणाणि । ५२५. तहावि परुवणा कायव्वा । ५२६. उक्कस्मए अणुभागवंधट्ठाणे वृद्धिके संक्रामक असंख्यातगुणित है । अनन्तगुणवृद्धि संक्रामकोमे अवन्वितसंक्रानक सन्ध्यात-गुणित है ॥५०३-५१६॥

चूर्णिसू०—सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी अनन्तगुणहानिके संक्रामक सबसे कम है । अवक्तव्यसंक्रामक असंख्यातगुणित है । अवस्थितसंक्रामक असंख्यात-गुणित है । जेप कर्मोके अवक्तव्यसंक्रामक सबसे कम है । अवक्तव्यसंक्रामकोमे अनन्त-भागहानि संक्रामक अनन्तगुणित है । जेप संक्रामकोका अल्पवहुत्व मिथ्यात्वके समान जानना चाहिये ॥५१७-५२२॥

इस प्रकार वृद्धिसंक्रमण समाप्त हुआ ।

चूर्णिसू०—अब इससे आगे अनुभागके संक्रमस्थानोंकी प्ररूपणा करना चाहिए । जिस प्रकार अनुभागविभक्तिमे अनुभागके सत्कर्मस्थान कहे गये हैं, उसी प्रकार अनुभाग-संक्रमस्थानोंको जानना चाहिए । तथापि उनकी प्ररूपणा यहाँ करने योग्य है ॥५२३-५२५॥

विशेषार्थ—संक्रमस्थानोंका प्ररूपण चार अनुयोगद्वारोसे किया गया है—समुत्कीर्तना, प्ररूपणा, प्रमाण और अल्पवहुत्व । समुत्कीर्तनाकी अपेक्षा मोहनीयकी सभी प्रकृतियोंके

१ को गुणगारो ? अतोमुहुत्त । जयध०

२ कुदो, अणतगुणवडिदकालदो अवट्ठिदसकमकालत्स अमखेज्जगुणत्तावलवणादो । जयध०

३ कुदो, ढसणमोहवखवयजीवाण च्चव तव्भावेण परिणामोवलभादो । जयध०

४ कुदो, पल्लिदोवमासखेज्जभागमेत्तजीवाण तव्भावेण परिणदाणमुवलभादो । जयध०

५ कुदो, तव्वदिरित्तासेससम्पत्त-सम्मामिच्छत्तसत्तकम्मियजीवाणमवट्ठिदसकामयभावेणावट्ठाणदस-णादो । एत्थ गुणगारपमाण आवलियाए असखेज्जदिभागमेत्तो वेत्तव्वो । जयध०

६ कुदो, अणताणुवधीण विसयोजणापुव्वसजोरो वट्टमाणपल्लिदोवमासखेज्जभागमेत्तजीवाण सेसकसाय-णोकसायाण पि सव्वोवसामणापडिवादपढमसमयमहिट्ठिदसखेज्जोवसामयजीवाणमवत्तव्वभावेण परिणदाण-मुवलद्वीदो । जयध०

७ कुदो, सव्वजीवाणमसखेज्जभागपमाणत्तादो । जयध०

८ किमट्ठमेसा ट्ठाणपरुवणा आगया ? वड्ढीए परुविदछवडिदहाणीणमवतरवियप्पपहुप्पायणट्ठ-मागया । X X तत्थापरुविदवधसमुप्पत्तिय-इदसमुप्पत्तिय-इददहसमुप्पत्तियमेदाण पादेकमसखेज्जलोगमेत्तछट्ठा-णसरुवाणमिह परुवणोवलभादो । जयध०

एगं संतकम्मं तमेगं संक्रमट्ठाणं । ५२७. दुचरिमे अणुभागबंधट्ठाणे एवमेव । ५२८. एवं ताव जाव पच्छाणुपुव्वीए पढमणंतगुणहीणबंधट्ठाणमपत्तो त्ति । ५२९. पुव्व्वाणुपुव्वीए गणिज्जमाणे जं चरिमणंतगुणं बंधट्ठाणं तस्स हेट्ठा अणंतरमणंतगुणहीणमेदम्मि अंतरे असंखेज्जलोगमेत्ताणि घादट्ठाणाणि । ५३०. ताणि संतकम्मट्ठाणाणि ताणि चेव संक्रमट्ठाणाणि । ५३१. तदो पुणो बंधट्ठाणाणि संक्रमट्ठाणाणि च ताव तुल्लाणि जाव पच्छाणुपुव्वीए विदियमणंतगुणहीणबंधट्ठाणं । ५३२. विदियअणंतगुण-

संक्रमस्थान तीन प्रकारके होते है:-बन्धसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान, हतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान, और हतहतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान । सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वके बन्धसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान नहीं होते है, शेष दो संक्रमस्थान होते है । सुगम होनेसे चूर्णिकारने समुत्कीर्तना नहीं कही है । आगे शेष तीन अनुयोगद्वारोको कहा है ।

अब चूर्णिकार प्ररूपणा और प्रमाण इन दोनोको एक साथ कहते है—

चूर्णिसू०—उत्कृष्ट अनुभागबन्धस्थान पर जो एक अनुभागसत्कर्म है, वह एक अनुभागसंक्रमस्थान है । द्विचरम अनुभागबन्धस्थानपर इसी प्रकार एक अनुभागसत्कर्मस्थान और एक अनुभागसंक्रमस्थान होता है । इस प्रकार त्रिचरम, चतुरचरम आदिके क्रमसे पञ्चादानुपूर्विके द्वारा अनन्तगुणहीन प्रथम बन्धस्थान प्राप्त होने तक अनुभागसत्कर्मस्थान और अनुभागसंक्रमस्थान उत्पन्न होते हुए चले जाते है, ॥५२६-५२८॥

चूर्णिसू०—पूर्वानुपूर्वीसे गिननेपर जो अन्तिम अनन्तगुणित अनुभागबन्धस्थान है, उसके नीचे अनन्तगुणितहीन बन्धस्थानके नहीं प्राप्त होने तक इस मध्यवर्ती अन्तरालमे असंख्यातलोकप्रमाण घातस्थान हाने हैं । ये घातस्थान ही अनुभागसत्कर्मस्थान कहलाते है और वे ही अनुभागसंक्रमस्थानरूपसे परिणत होनेके कारण अनुभागसंक्रमस्थान कहलाते है । उस पूर्वोक्त अनन्तगुणहीन बन्धस्थानसे लेकर पुनः बन्धस्थान और संक्रमस्थान ये दोनो तत्र तक तुल्य चले जाते है, जब तक कि पञ्चादानुपूर्वीसे द्वितीय अनन्तगुणहीन बन्धस्थान

१ वधानंतरसमए बंधट्ठाणस्सेव सतकम्मववएससिद्धीदो । तमेव संक्रमट्ठाण पि, वधावलियवदिक्कमाणतर तस्सेव सक्रमट्ठाणभावेण परिणयत्तादो । तदो पजवसाणवधट्ठाणस्स सतकम्मट्ठाणत्ताणुवादमुहेण सक्रमट्ठाणभावविहाणमेदेण सुत्तेण कय ति दट्ठव्व । जयध०

२ कुदो, तेसिं सव्वेसिं बंधसमुप्पत्तियसतकम्मट्ठाणत्तसिद्धीए पडिसेहाभावादो ।

३ त जहा—पुव्व्वाणुपुव्वी णाम मुहुमहदसमुप्पत्तियसव्वजहणसतकम्मट्ठाणप्पहुडि छवड्ढीए अवट्ठिटाणमणुभागवधट्ठाणणमादीदो परिवाडीए गणणा । ताए गणिज्जमाणे ज चरिमणतगुणवधट्ठाणपज्जवसाणट्ठाणादो हेट्ठा रुव्वणलट्ठाणमेत्तमोसरिदूणावट्ठिठ्ठ, तस्स हेट्ठा अणतरमणतगुणहीणवधट्ठाणमपावेदूण एदम्मि अतरे घादट्ठाणाणि समुप्पज्जति । केत्तियमेत्ताणि ताणि त्ति वुत्ते असंखेज्जलोगमेत्ताणि त्ति तेसिं पमाणणिहेसो कटो । जयध०

४ ताणि समणतरणिद्विट्ठघादट्ठाणाणि सतकम्मट्ठाणाणि, हदसमुप्पत्तियसतकम्मभावेणावट्ठिटाण तन्भावाविरोहादो । ताणि चेव सक्रमट्ठाणाणि, कुदो; तेसिमुप्पत्तिसमणतरसमयपहुडि ओक्कड्डुणादिवसेण सक्रमपज्जायपरिणामे पडिसेहाभावादो । जयध०

हीणबंधङ्गाणस्सुवरिल्ले अंतरे असंखेज्जलोगमेत्ताणि घादङ्गाणाणि^१ । ५३३. एवमणंत-
गुणहीणबंधङ्गाणस्सुवरिल्ले अंतरे असंखेज्जलोगमेत्ताणि घादङ्गाणाणि^२ । ५३४. एवम-
णंतगुणहीणबंधङ्गाणस्स उवरिल्ले अंतरे असंखेज्जलोगमेत्ताणि घादङ्गाणाणि भवंति,
णत्थि अण्णमि । ५३५. एवं जाणि बंधङ्गाणाणि ताणि णियमा संक्रमङ्गाणाणि^३ ।
५३६. जाणि संक्रमङ्गाणाणि ताणि बंधङ्गाणाणि वा ण वा^४ । ५३७. तदो बंधङ्गाणाणि
थोवाणि^५ । ५३८. संतकम्मङ्गाणाणि असंखेज्जगुणाणि^६ । ५३९. जाणि च संतकम्म-
ङ्गाणाणि तणि संक्रमङ्गाणाणि ।

५४०. अप्पावहुअं जहा सम्माइट्ठिगे बंधे तथा ।

प्राप्त होता है । इस द्वितीय अनन्तगुणहीन बन्धस्थानके उपरिम अन्तरालमे फिर भी असं-
ख्यात लोकप्रमाण घातस्थान होते हैं ॥५२९-५३२॥

चूर्णिसू०—इस प्रकार (तृतीय, चतुर्थादि) अनन्तगुणहीन बन्धस्थानोंके उपरिम
अन्तरालोमे सर्वत्र असंख्यातलोकप्रमाण घातस्थान होते हैं, अन्यमे नहीं । अर्थात् असंख्यात-
गुणहीनादि अन्य बन्धस्थानोंके उपरिम अन्तरालमे घातस्थान नहीं होते हैं । इस प्रकार
जितने बन्धस्थान हैं, वे नियमसे संक्रमस्थान हैं । किन्तु जो संक्रमस्थान हैं, वे बन्धस्थान
हैं भी, और नहीं भी हैं । इसलिए बन्धस्थान थोड़े हैं और सत्कर्मस्थान असंख्यातगुणित
हैं । अनुभागके जितने सत्कर्मस्थान होते हैं, उतने ही संक्रमस्थान होते हैं ॥५३३-५३९॥

अत्र चूर्णिकार संक्रमस्थानोंका अल्पवहुत्व कहनेके लिए समर्पणसूत्र कहते हैं—

चूर्णिसू०—जिस प्रकारसे सम्यग्दृष्टिके बन्धस्थानोंका अल्पवहुत्व कहा है, उसी
प्रकारसे यहाँपर संक्रमस्थानोंका अल्पवहुत्व जानना चाहिए ॥५४०॥

विशेषार्थ—चूर्णिकारने संक्रमस्थानोंके जिस अल्पवहुत्वका यहाँ पर संकेत किया है,
वह स्वस्थान और परस्थानके भेदसे दो प्रकारका है । उसमे स्वस्थान-अल्पवहुत्व इस प्रकार
है—मिथ्यात्वके बन्धसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान सबसे कम है । हतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असं-
ख्यातगुणित है । हतहतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित है । इसी प्रकार सर्व कर्मोंके
संक्रमस्थानोंका अल्पवहुत्व जानना चाहिए । केवल सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वके

१ कुदो, एगल्लट्ठाणेणुभागसतकम्मियमादि कादूण जाव पच्छाणुपुव्वीए विदियअट्ठकट्ठाणे
त्ति ताव एदेसु ट्ठाणेसु घादिजमाणेसु पयट्तरे असंखेज्जलोगमेत्तवादट्ठाणाणमुपत्तीए परिफुडमुवलंभादो ।

जयध०

२ णवरि सुहुमहदसमुप्पत्तियजहणट्ठाणादो उवरिमाण सखेज्जाणमट्ठकुव्वकाणमंतरेसु हदसमु-
प्पत्तियसकमट्ठाणाणमुपत्ती णत्थि त्ति वत्तव्व । जयध०

३ किं कारण ? पुब्बुत्तणाएण सव्वेसिं बधट्ठाणाण सकमट्ठाणत्तसिद्धीए विरोहाभावादो । जयध०

४ कुदो, बधट्ठाणेहिंतो पुधभूदघादट्ठाणेसु वि सकमट्ठाणाणमणुवत्तिदसणादो । जयध०

५ जदो एव घादट्ठाणेसु बधट्ठाणाण सभवो णत्थि, तदो ताणि थोवाणि त्ति भणिद होइ । जयध०

६ कुदो, ववट्ठाणेहिंतो असंखेज्जगुणघादट्ठाणेसु वि सतकम्मट्ठाणाण सभवदंसणादो । जयध०

एवं 'संक्रामेदि कदि वा' ति एदस्स पदस्स अत्थं समाणिय
अणुभागसंक्रमो समत्तो ।

इनसे क्रोध, माया और लोभके विशेष-विशेष अधिक है । संज्वलनलोभके हतसमुत्पत्तिक-संक्रमस्थानोसे संज्वलनमानके हतहतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित है । इनसे क्रोध, माया और लोभके उत्तरोत्तर विशेष अधिक है । संज्वलनलोभके हतहतसमुत्पत्तिकसंक्रम-स्थानोसे अनन्तानुबन्धीमानके बन्धसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित है । इनसे क्रोध, माया और लोभके उत्तरोत्तर विशेष-विशेष अधिक है । अनन्तानुबन्धी लोभके बन्धसमुत्प-त्तिकसंक्रमस्थानोसे अनन्तानुबन्धीमानके हतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित है । इनसे क्रोध, माया और लोभके उत्तरोत्तर विशेष अधिक है । अनन्तानुबन्धी लोभके हतहत-समुत्पत्तिकसंक्रमस्थानोसे अनन्तानुबन्धीमानके हतहतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित है । इनसे क्रोध, माया और लोभके उत्तरोत्तर विशेष अधिक है । अनन्तानुबन्धी लोभके हतहतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थानोसे मिथ्यात्वके बन्धसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित है । इनसे हतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित है और इनसे हतहतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित है । यहाँ सर्वत्र गुणकारका प्रमाण असंख्यात लोक है और विशेषका प्रमाण असंख्यातलोभका प्रतिभाग है । जिन कर्मोंके अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणित है, उनके अनु-भागसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित है । किन्तु जिन कर्मोंके अनुभागसत्कर्म विशेष अधिक है, उनके संक्रमस्थान भी विशेष अधिक ही है ।

इस प्रकार पाँचवीं मूलगाथाके 'संक्रामेदि कदि वा' इस पदका अर्थ समाप्त होनेके साथ अनुभागसंक्रमण अधिकार समाप्त हुआ ।

पदेससंकमाहियारो

१. पदेससंकमो । २. तं जहा । ३. मूलपयडिपदेससंकमो णत्थि^१ । ४. उत्तर-पयडिपदेससंकमो^२ । ५. अट्टपदं^३ । ६. "जं पदेसग्गमण्णपयडिं णिज्जदे जत्तो पयडीदो तं पदेसग्गं णिज्जदि तिससे पयडीए सो पदेससंकमो" । ७. जहा मिच्छत्तस्स पदेसग्गं सम्मत्ते संछुहदि तं पदेसग्गं मिच्छत्तस्स पदेससंकमो । ८. एवं सव्वत्थ । ९. एदेण अट्ट-पदेण तत्थ पंचविहो संकमो । १०. तं जहा । ११. उव्वेल्लणसंकमो विज्झादसंकमो अधापवत्तसंकमो गुणसंकमो सव्वसंकमो च^४ ।

प्रदेश-संकमाधिकार

चूणिंस्सू०—अव प्रदेशसंक्रमण कहते हैं । वह इस प्रकार है—मूलप्रकृतियोंके प्रदेशोंका संक्रमण नहीं होता है । उत्तरप्रकृतियोंके प्रदेशोंका संक्रमण होता है । उत्तरप्रकृतियोंके प्रदेशसंक्रमणके विषयसे यह अर्थपद है—जो प्रदेशाय जिस प्रकृतिसे अन्य प्रकृतिको ले जाया जाता है, वह उस प्रकृतिका प्रदेश-संक्रमण कहलाता है । जैसे—मिध्यात्वका प्रदेशाय सम्यक्त्वप्रकृतिसे संक्रान्त किया जाता है, वह सम्यक्त्वप्रकृतिके रूपसे परिणत प्रदेशाय मिध्यात्वका प्रदेश-संक्रमण है । इसी प्रकार सर्व प्रकृतियोंका प्रदेश-संक्रमण जानना चाहिए । इस अर्थपदकी अपेक्षा वह प्रदेश-संक्रमण पाँच प्रकारका है । वे पाँच भेद ये हैं—उद्वेल्लन-संक्रमण, विध्यातसंक्रमण, अधःप्रवृत्तसंक्रमण, गुणसंक्रमण और सर्वसंक्रमण ॥ १-११ ॥

१ कुदो, सहावदो चैव मूलपयडीणमण्णोणविसयसकतीए असभवादो । जयध०

२ कुदो, तासि समयाविरोहेण परोप्परविसयसकमस्स पडिसेहाभावादो । जयध०

३ किमट्ठपट्ट णाम ? जत्तो विवक्खियस्स पयत्थस्स परिच्छिन्ती तमट्ठपदमिदि भण्णदे । जयध०

४ जं दल्लियमन्नपगइं णिज्जइ सो संकमो पएसस्स ।

उव्वल्लणो विज्झाओ अहापवत्तो गुणो सव्वो ॥ ६० ॥ कम्मप० पदेसस०

५ एदेण परपयडिसकतिलक्खणो चैव पदेससकमो, ओकड्डुकड्डुणालक्खणो त्ति जाणाविद; ट्ठिद्वि-अणुभागाण च ओकड्डुकड्डुणाहि पदेसग्गस्स अण्णभावावत्तीए अणुवल्लभादो । जयध०

६ तत्थुव्वेल्लणसकमो णाम करणपरिणामेहि विणा रज्जुव्वेल्लणकमेण कम्मपदेसाण परंपयडिसरूवेण सच्छेह्णा । × × × सपहि विज्झादसकमस्स परुवणा कीरटे । त जहा—वेदगसम्मत्तकालम्भतरे सव्वत्थेव मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्ताण विज्झादसकमो होइ जाव दसणमोहक्खवयअधापवत्तकरणचरिमसमयो त्ति । उव्वसमसग्गमाइटिठम्मि गुणसकमकालादो उवरि सव्वत्थ विज्झादसकमो होइ । × × × वधपयडीण सगवधसभवविसए जो पदेससकमो सो अधापवत्तसकमो त्ति भण्णदे । × × × समय पडि असंखेज्जगुणाए सेटीए जो पदेससकमो सो गुणसकमो त्ति भण्णदे । × × × सव्वस्सेव पदेसग्गस्स जो सकमो सो सव्वसंकमो त्ति भण्णदे । सो कत्थ होइ ? उव्वेल्लणाए विसजोयणाए खवणाए च चरिमिट्ठदिव्वडयचरिमफालिंसंकमो होइ । जयध०

विशेषार्थ—संक्रमणके योग्य जो कर्मप्रदेश जिस-किसी विवक्षित प्रकृतिमें ले जाकर अन्य प्रकृतिके स्वभावसे परिणमित किये जाते हैं, उमे प्रदेशसंक्रमण कहते हैं। मूल प्रकृतियों-का प्रदेश-संक्रमण नहीं होता, अर्थात् जानावरणकर्मके प्रदेश कभी भी दर्शनावरणकर्मरूपमें परिणत नहीं होंगे। इससे यह स्वयंसिद्ध है कि उत्तरप्रकृतियोंमें ही प्रदेशसंक्रमण होता है। तथापि उनमें दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीयका, तथा चारों आयुर्कर्मोंका परस्परमें प्रदेश-संक्रमण नहीं होता। प्रदेशसंक्रमणके पाँच भेद हैं—उद्वेलनसंक्रमण, विध्यानसंक्रमण, अधः-प्रवृत्तसंक्रमण, गुणसंक्रमण और सर्वसंक्रमण। अधःप्रवृत्त आदि तीन वर्ण-परिणामोंके बिना ही कर्मप्रकृतियोंके परमाणुओंका अन्य प्रकृतिरूप परिणमित होना उद्वेलनसंक्रमण कहलाता है। उद्वेलन नाम उकेलनेका है। जैसे अच्छी तरहमें भेंजी हुई रस्मी किमी निमित्तको पाकर उकलने लगती है और धीरे-धीरे विलकुल उकल जाती है, उमी प्रकार कुछ कर्म-प्रकृतियाँ ऐसी हैं, जो कि बँधनेके बाद किसी निमित्तविशेषमें स्वयं ही उकलने लगती हैं और धीरे-धीरे वे एकदम उकल जाती हैं, अर्थात् उनके प्रदेश अन्य प्रकृतिरूपसे परिणत हो जाते हैं। उद्वेलन-प्रकृतियाँ १३ हैं, उनमेंसे मोहकर्मकी केवल दो ही प्रकृतियाँ ऐसी हैं जिनकी उद्वेलना होती है, अन्यकी नहीं होती। वे दो प्रकृतियाँ हैं—सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृति। अनादिकालीन मिथ्यादृष्टिके इनकी सत्ता नहीं होती, किन्तु जब प्रथम बार जीव औपशमिकसम्यक्त्वको प्राप्त करता है, तभी एक मिथ्यात्वके तीन टुकड़े हो जाते हैं और उस एक मिथ्यात्वके स्थान पर तीन प्रकृतियोंकी सत्ता हो जाती है। वह औप-शमिकसम्यग्दृष्टि औपशमिकसम्यक्त्वको प्राप्त कर अन्तर्मुहूर्तके पञ्चान नियमसे गिरता है और मिथ्यात्वी हो जाता है। उसके मिथ्यात्वगुणस्थानमें पहुँचनेपर अन्तर्मुहूर्त तक तो अधःप्रवृत्तसंक्रमण होता है और उसके पञ्चात् उद्वेलनासंक्रमण प्रारंभ हो जाता है। उद्वेलनासंक्रमणका उत्कृष्टकाल पल्योपमका असंख्यातर्वा भाग है। इतने काल तक वह बराबर इन दो प्रकृतियोंकी उद्वेलना करता रहता है। उसका क्रम यह है कि प्रथमोपशमसम्यक्त्वकी-के मिथ्यात्वमें पहुँचनेके एक अन्तर्मुहूर्त पञ्चात् सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिकी

१ अंतोमुहुत्तमद्धं पल्लासंखिज्जमेत्तटिइखंडं ।

उक्किरइ पुणोवि तहा ऊण्णमसंखगुणहं जा ॥ ६२ ॥

तं दलियं सट्ठाणे समए समए असंखगुणियाए ।

सेहीए परठाणे विसेसहाणीए संद्धुमइ ॥ ६३ ॥

जं दुचरिमस्स चरिमे अन्नं संकमइ तेण सव्वं पि ।

अंगुलअसंखभागेण हीरए एस उच्चलणा ॥ ६४ ॥

जासि ण वंधो गुण-भवपच्चयो तासि होइ विज्जाओ ।

अंगुलअसंखभागेणवहारो तेण सेसस्स ॥ ६८ ॥

गुणसंकमो अवज्झंतिगाण असुभाणऽपुव्वकरणाई ।

बंधे अहापवत्तो परित्तिओ वा अवंधे वि ॥ ६९ ॥ कम्म० पदेससक०

पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिखंडको एक अन्तर्मुहूर्तके द्वारा उत्कीर्ण करता है। अर्थात् उद्वेलन करता है। उकेरने या उकेलनेका नाम उत्कीर्ण या उद्वेलन है। पुनः द्वितीय अन्तर्मुहूर्तके द्वारा पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण स्थितिखंडको उत्कीर्ण करता है। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थादि अन्तर्मुहूर्तके द्वारा तावत्प्रमाण स्थितिखंडको उत्कीर्ण करता जाता है। यह क्रम पल्योपमके असंख्यातवे भागकाल तक जारी रहता है। इतने कालमें वह उक्त दोनो प्रकृतियोंकी उद्वेलना कर डालता है, अर्थात् उन्हें निःशेष कर देता है। ये एक-एक अन्तर्मुहूर्तमें होनेवाले उत्तरोत्तर स्थितिखंड यद्यपि सभी पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण हैं, तथापि उत्तरोत्तर विशेष हीन है। यह स्थितिसंक्रमणकी अपेक्षा वर्णन है। प्रदेशसंक्रमणकी अपेक्षा तो पूर्व-पूर्व स्थितिखंडसे उत्तरोत्तर स्थितिखंडोके कर्म-प्रदेश विशेष-विशेष अधिक हैं। प्रदेशोके उत्कीरणकी विधि यह है कि प्रथम समयमें अल्प-प्रदेशोका उत्कीरण करता है। द्वितीय समयमें उससे असंख्यातगुणित प्रदेशोका, तृतीय समयमें उससे भी असंख्यातगुणित प्रदेशोका उत्कीरण करता है। इस प्रकार यह क्रम प्रत्येक अन्तर्मुहूर्तके अन्तिम समय तक रहता है। प्रदेशोको उत्कीर्ण (उकेर) कर जहाँ निक्षेप करता है, उसका भी एक विगिष्ट क्रम है और वह यह कि कुछको तो स्वस्थानमें ही नीचे निक्षिप्त करता है और कुछको परस्थानमें निक्षिप्त करता है। इसका रपट्टीकरण यह है कि प्रथम स्थितिखंडमेंसे प्रथम समयमें जितने प्रदेश उकेरता है, उनमेंसे परस्थानमें अर्थात् परप्रकृतिमें तो अल्प प्रदेश निक्षेपण करता है। किन्तु स्वस्थानमें उनसे असंख्यातगुणित प्रदेशोका अधः-निक्षेपण करता है। इससे द्वितीय समयमें स्वस्थानमें तो असंख्यातगुणित प्रदेशोका निक्षेपण करता है, किन्तु परस्थानमें प्रथम समयके परस्थान-प्रक्षेपसे विशेष हीन प्रदेशोका प्रक्षेपण करता है। यह क्रम प्रत्येक अन्तर्मुहूर्तके अन्तिम समय तक जारी रहता है। यह उद्वेलन-संक्रमणका क्रम उक्त दोनो प्रकृतियोंके उपान्त्य स्थितिखंड तक चलता है। अन्तिम स्थिति-खंडमें गुणसंक्रमण और सर्वसंक्रमण दोनो होते हैं। इस प्रकार यह उद्वेलनासंक्रमणका स्वरूप कहा। अब विध्यातसंक्रमणका स्वरूप कहते हैं—जिन कर्मोंका गुणप्रत्यय या भव-प्रत्ययसे जहाँ पर बन्ध नहीं होता, वहाँ पर उन कर्मोंका जो प्रदेशसंक्रमण होता है, उसे विध्यातसंक्रमण कहते हैं। गुणस्थानोके निमित्तसे होनेवाले बन्धको गुणप्रत्यय बन्ध कहते हैं। जैसे मिथ्यात्व आदि सोलह प्रकृतियोंका मिथ्यात्वके निमित्तसे बन्ध होता है, आगे नहीं होता। अनन्तानुबन्धी आदि पच्चीस प्रकृतियोंका दूसरे गुणस्थान तक बन्ध होता है, आगे नहीं होता। इस प्रकार आगेके गुणस्थानोंमें भी जानना। इन बन्ध-व्युच्छिन्न प्रकृतियोंका उपरितन गुणस्थानोंमें बन्ध नहीं होता है, अतएव वहाँ पर उक्त प्रकृतियोंका जो प्रदेशसत्त्व है, उसका जो पर-प्रकृतियोंमें संक्रमण होता है, उसे आगममें विध्यात-संक्रमण कहा है। जिन प्रकृतियोंका मिथ्यात्व आदि गुणस्थानोंमें बन्ध संभव है, फिर भी जो भवप्रत्ययसे अर्थात् नारक, देवादि पर्यायविशेषके निमित्तसे वहाँपर नहीं बँधती है,

१२. उद्वेलणसंक्रमे पदेसग्गं धोवं^१ । १३. विज्झादसंक्रमे पदेसग्गमसंखेज्ज-
गुणं^२ । १४. अधापवत्तसंक्रमे पदेसग्गमसंखेज्जगुणं^३ । १५. गुणसंक्रमे पदेसग्गमसंखेज्ज-
गुणं^४ । १६. सव्वसंक्रमे पदेसग्गमसंखेज्जगुणं^५ ।

उनका उन गुणस्थानोमे भवप्रत्ययसे अवन्ध कहलाता है । जैसे मिथ्यात्वगुणस्थानमे एके-
न्द्रिय जाति, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण आदि प्रकृतियोंका बन्ध सामान्यतः होता है,
परन्तु नारकियोंके नारकभवके कारण उनका बन्ध नहीं होता है क्योंकि वे मरकर एकेन्द्रि-
यादिमे उत्पन्न ही नहीं होते । यतः नारक-भवंमे एकेन्द्रियादि प्रकृतियोंका बन्ध नहीं है,
अतः वहाँ पर जो उनके प्रदेशोंका संक्रमण पर-प्रकृतिमे होता रहता है, उसे भी विव्यात-
संक्रमण कहते हैं । यह संक्रमण अधःप्रवृत्तसंक्रमणके निरुद्ध हो जाने पर ही होता है ।
सभी संसारी जीवोंके ध्रुवबंधिनी प्रकृतियोंके बन्ध होनेपर, तथा स्व-स्वभव-बन्धयोग्य परा-
वर्तमान प्रकृतियोंके बन्ध या अवन्धकी दृश्यामे जो स्वभावतः प्रकृतियोंके प्रदेशोंका पर-प्रकृति-
रूप संक्रमण होता रहता है, उसे अधःप्रवृत्तसंक्रमण कहते हैं । जैसे जिस गुणस्थानमे
चारित्रमोहनीयकी जितनी प्रकृतियोंका बन्ध होता है, उन व्यवमान प्रकृतियोंमे चारित्रमोहनीय-
की जितनी सत्त्व प्रकृतियाँ हैं, उनके प्रदेशोंका जो प्रदेशसंक्रमण होता है, वह अधः-
प्रवृत्तसंक्रमण है । अपूर्वकरणादि परिणामविशेषोंका निमित्त पाकर प्रतिसमय जो असं-
ख्यातगुणश्रेणीरूपसे प्रदेशोंका संक्रमण होता है, उसे गुणसंक्रमण कहते हैं । यह गुणसंक्रमण
अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर दर्शनमोहनीयके क्षपणकालमे, चारित्रमोहनीयके क्षपणकालमे,
उपजमश्रेणीमे, अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनामे, सम्यक्त्वकी उत्पत्ति-कालमे, तथा सम्यक्त्व-
प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलनाके चरमस्थितिखंडके प्रदेशसंक्रमणके समय होता
है । विवक्षित प्रकृतिके सभी कर्मप्रदेशोंका जो एक साथ पर-प्रकृतिमे संक्रमण होता है, उसे
सर्वसंक्रमण कहते हैं । यह सर्वसंक्रमण उद्वेलन, विसंयोजन और क्षपणकालमे चरम-
स्थितिखंडके चरमसमयवर्ती प्रदेशोंका ही होता है, अन्यका नहीं, ऐसा जानना चाहिए ।

अत्र उपर्युक्त संक्रमणोंके प्रदेशगत अल्पबहुत्वको कहते हैं—

चृणिसू०—उद्वेलनसंक्रमणमे प्रदेशाग्र सत्त्वसे कम होते हैं । उद्वेलनसंक्रमणसे
विध्यातसंक्रमणमे प्रदेशाग्र असंख्यातगुणित होते हैं । विध्यातसंक्रमणसे अधःप्रवृत्तसंक्रमणमे
प्रदेशाग्र असंख्यातगुणित होते हैं । अधःप्रवृत्तसंक्रमणसे गुणसंक्रमणमे प्रदेशाग्र असंख्यात-
गुणित होते हैं । गुणसंक्रमणसे सर्वसंक्रमणमे प्रदेशाग्र असंख्यातगुणित होते हैं ॥१२-१६॥

१ कुटो; अंगुलासंखेज्जभागपडिभागियत्तादो । जयध०

२ कुटो- दोण्हमेदेसिमंगुलासंखेज्जभागपडिभागियत्ते समाणे वि पुव्विल्लभागहारादो विज्झादभाग-
हारत्सासंखेज्जगुणहीणत्तन्धुवगमादो । जयध०

३ कि कारण ? पल्लिदोवमासंखेज्जभागपडिभागियत्तादो । जयध०

४ कि कारण ? पुव्विल्लभागहारादो एदस्स असंखेज्जगुणहीणभागहारपडिवद्धत्तादो । जयध०

५ कि कारण ? एगत्त्वभागहारणडिवद्धत्तादो । जयध०

१७. एतो सामित्तं । १८. मिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेससंकमो कस्स ? १९. गुणिद-
कम्मसिओ' सत्तमादो पुढवीदो उव्वट्ठिदो^२ । २०. दो तिण्णिण भवग्गहणाणि पंचिदिय-
तिरिक्खपज्जत्तएसु उववण्णो^३ । २१. अंतोमुहुत्तेण मणुसेसु आगदो^४ । २२. सव्वलहुं
दंसणमोहणीयं खवेदुमाहत्तो । २३. जाधे मिच्छत्तं सम्मामिच्छत्ते सव्वं संलुभमाणं संलुद्धं
ताधे तस्स मिच्छत्तस्स उक्कस्सओ पदेससंकमो^५ ।

चूर्णिसू०—अब इससे आगे प्रदेशसंक्रमणके स्वामित्वको कहते हैं ॥१७॥

शंका—मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण किसके होता है ? ॥१८॥

समाधान—जो गुणितकर्माशिक जीव सातवां पृथ्वीसे निकला । पुनः पंचेन्द्रिय-
तिर्यच पर्याप्तकोमे दो-तीन भवग्रहण करके एकेन्द्रियोमे उत्पन्न हुआ और अन्तर्मुहूर्तसे ही
मनुष्योमे आगया । मनुष्योमे उत्पन्न होकर सर्वलघुकालसे दर्शनमोहनीयका क्षण प्रारम्भ
किया । जिस समय सर्वसंक्रम्यमाण मिथ्यात्वद्रव्यको सम्यग्मिथ्यात्वमे संक्रान्त करता है,
उस समय उस जीवके मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण होता है ॥१९-२३॥

विशेषार्थ—गुणितकर्माशिक जीव किसे कहते हैं, इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार
है—जो जीव पूर्वकोटी-पृथक्त्वसे अधिक दो हजार सागरोपम वादर-त्रसकालसे हीन सत्तर
कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण कर्मस्थिति तक वादर पृथ्वीकायिकजीवोमे परिभ्रमण करता रहा ।

१ जो वायरतसकालेण्णं कम्मट्ठिं तु पुढवीए ।

वायरे पज्जत्तापज्जत्तगदीहेयरच्चासु ॥७४॥

जोगकसाउक्कोसो बहुसो निच्चमवि आउवंधं च ।

जोगजहण्णेणुवरिल्लट्ठिइ णिसेगं वहुं किच्चा ॥७५॥

वायरतसेसु तक्कालमेवमंते य सत्तमखिईए ।

सव्वलहुं पज्जत्तो जोगकसायाहिओ बहुसो ॥७६॥

जोगजवमज्जउवरि मुहुत्तमच्छित्तु जीवियवसाणे ।

तिचरिम-दुचरिमसमए पूरित्तु कसायउक्कस्सं ॥७७॥

जोगुक्कस्सं चरिम-दुचरिमसमए य चरिमसमयस्मि ।

संपुन्नगुणियकम्मो पगयं तेणेह सामित्ते ॥७८॥ कम्मप० प्रदेशसक्र०

२ किमट्ठमेसो तत्तो उव्वट्ठाविदो ? ण, णेरह्यचरिमसमए चेव पयदुक्कस्ससामित्तविहाणोवायाभावेण
तहाकरणादो । कुदो तत्थ तदसभवो चे मणुसगदीदो अण्णत्थ दसणमोहक्खवणाए असभवादो । ण च
दंसणमोहक्खवणादो अण्णत्थ सव्वसकमसरुवो मिच्छत्तुक्कस्सपदेससकमो अत्थि, तग्हा गुणिदकम्मसिओ
सत्तमपुढवीदो उव्वट्ठिदो त्ति सुसवद्धमेद । जयध०

३ कुदो; सत्तमपुढवीदो उव्वट्ठिदस्स दो-तिण्णिणपंचिदिय तिरिक्खभवग्गहणेहि विणा तदणतरमेव मणु-
सगदीए उप्पज्जासभवादो । जयध०

४ पंचिदियतिरिक्खेसु तसट्ठिदिसमाणिय पुणो एइदिएसुप्पजिय अतोमुहुत्तकालेणेव मणुसगइमागदो
त्ति भणिद होइ । जयध०

५ (कुदो;) तत्थ गुणसेट्ठिणजरासहिदगुणसकमदव्वेण्णदिवहुगुणहाणिमेत्तुक्कस्ससमयपवद्धानमेक-
वारेणेव सम्मामिच्छत्तसरुवेण मकत्तिसणादो । जयध०

२४. सम्पत्तस्स उक्कस्सओ पदेससंक्रमो कस्स ? २५. गुणिटक्कम्मंसिएण सत्त-
माए पुहवीए णेरइएण मिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेससंतक्कम्मसंतोमुहुत्तेण होहिदि त्ति सम्पत्त-
गुप्पाइदं, सव्वुक्कस्सियाए पूरणाए सम्पत्तं पूरिदं । तदो उवसंतद्वाए पुण्णाए मिच्छत्त-
मुदीरयमाणस्स पढमसमयमिच्छाइट्ठिस्स तस्स उक्कस्सओ पदेससंक्रमो । २६. सो बुण
अधापवत्तसंक्रमो ?

२७. सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्सओ पदेससंक्रमो कस्स ? २८. जेण मिच्छत्तस्स

वहाँपर उसने बहुतसे पर्याप्तक भव और थोड़े अपर्याप्तक भव धारण किये । उनमें पर्याप्त-
काल दीर्घ और अपर्याप्त काल ह्रस्व ग्रहण किया । उस पृथ्वीकायिकमें रहते हुए वह
बार-बार बहुतसे उत्कृष्ट योगस्थानोंको और उत्कृष्ट संकलेशको प्राप्त हुआ । वहाँपर जब भी
नवीन आयुका बन्ध किया, तब जघन्य योगस्थानमें वर्तमान होकर किया । वहाँपर उसने
उपरिष्ठन स्थितियोंमें कर्म-प्रदेशोंका बहुत निक्षेपण किया । इस प्रकार वादर पृथ्वीकायिकोंमें
परिभ्रमण करके निकला और वादर-त्रसकायिकोंमें उत्पन्न हुआ । वहाँपर भी साविक दो
हजार सागर तक उपर्युक्त विधित्से परिभ्रमण करके अन्तमें सातवीं पृथ्वीमें उत्पन्न हुआ ।
वहाँपर बार-बार उत्कृष्ट योगस्थान और उत्कृष्ट संकलेशको प्राप्त हुआ । इस प्रकार उत्तरोत्तर
गुणितक्रमसे कर्मप्रदेशोंका संचय करनेवाले जीवको गुणितकर्माशिक कहते हैं ।

गंक्षा—सम्यक्त्वप्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण किसके होता है ? ॥२४॥

समाधान—सातवीं पृथिवीमें जो गुणितकर्माशिक नारकी है और जिसके
मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म अन्तर्मुहूर्तसे होगा, उसने सम्यक्त्व उत्पन्न किया और
सर्वोत्कृष्ट पूरणासे अर्थात् सर्वजघन्य गुणसंक्रमणभागहारसे और सर्वोत्कृष्ट गुणसंक्रमणपूरण-
कालसे सम्यक्त्वप्रकृतिको पूरित किया । तदनन्तर उपशमकालके पूर्ण होनेपर मिथ्यात्वकी
उद्दीरणा करनेवाले उस प्रथमसमयवर्ती मिथ्यादृष्टिके सम्यक्त्वप्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण
होता है । और यह अधःप्रवृत्तसंक्रमण है ॥२५-२६॥

गंक्षा—सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण किसके होता है ? ॥२७॥

समाधान—जिसने मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशाग्रको सम्यग्मिथ्यात्वमें प्रक्षिप्त किया,

१ संछोभणाए दोण्हं मोहाणं वेयगस्स खणसेसे ।

उण्पाइय सम्पत्तं मिच्छत्तगए तमतमाए ॥८२॥

भिन्नमुहुत्ते सेसे तच्चरमावस्सगाणि किञ्चेत्थ ।

संजोयणाविसंजोयगस्स संछोभणे एस्सि ॥८३॥ कम्मप०, प्रदेशसंक्र०,

एतदुक्तं भवति—तथा वृरिदसम्मत्तो तेण दब्बेणाविणट्ठेणुवसमसम्मत्तकालमतोमुहुत्तमणुपालेऊण
तदवसाणे मिच्छत्तमुदीरयमाणो पढमसमयमिच्छाइट्ठी जादो । तस्स पढमसमयमिच्छाइट्ठस्स पयदुक्कस्स-
सामित्ताहिसव्वो त्ति । किं कारणमेत्थेवुक्कस्सवसामित्तं जादमिदि चे सम्पत्तस्स तदवत्थाए मिच्छत्तगुणानिवधण-
मधापवत्तसंक्रमपजाएण सव्वुक्कस्सएण परिणमणदसणादो । जयध०

२ कुदो एवं चे वधसवधाभावे वि सहावदो चेव सम्पत्त-सम्मामिच्छत्ताण मिच्छाइट्ठिम्मि अतो-
मुहुत्तमेत्तकालमधापवत्तसंक्रमपहुत्तीए सभव्वुवगमादो । जयध०

उक्त्सपदेसगां सम्पामिच्छते पक्खित्तं, तेणेव जाधे सम्पामिच्छत्तं सम्मत्ते संपक्खित्तं ताधे तस्स सम्पामिच्छत्तस्स उक्त्सओ पदेससंक्रमो^१ ।

२९. अणंताणुबंधीणमुक्त्सओ पदेससंक्रमो कस्स ? ३०. सो चेव सत्तमाए पुहवीए णेरइओ गुणिदकम्मंसिओ अंतोमुहुत्तेणेव तेसिं चेव उक्त्सपदेससंतकम्मं होहिदि त्ति उक्त्सजोगेण उक्त्ससंकिलेसेण च णीदो । तदो तेण रहस्सकाले सेसे सम्मत्तमुष्पाइयं । पुणो सो चेव सव्वलहुमणंताणुबंधीणं विसंजोएदुमाहत्तो । तस्स चरिमट्ठिदिखंडयं चरिमसमयसंछुहमाणयस्स तेसिमुक्त्सओ पदेससंक्रमो^१ ।

३१. अट्ठण्हं कसायाणमुक्त्सओ पदेससंक्रमो कस्स ? ३२. गुणिदकम्मंसिओ सव्वलहुं मणुपगइमागदो अट्ठवस्सिओ खवणाए अब्भुट्ठिदो । तदो अट्ठण्हं कसायाणमपच्छिमट्ठिदिखंडयं चरिमसमयसंछुहमाणयस्स तस्स अट्ठण्हं कसायाणमुक्त्सओ पदेससंक्रमो ।

उसने ही जिस समय सम्यग्मिध्यात्वको सम्यक्त्वप्रकृतिमें प्रक्षिप्त किया, उस समय उसके सम्यग्मिध्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण होता है ॥२८॥

शंका—अनन्तानुबन्धी कपायोका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण किसके होता है ? ॥२९॥

समाधान—वही सातवीं पृथिवीका गुणितकर्मांशिक नारकी—जब कि अन्तर्मुहूर्तसे ही उसके उन ही अनन्तानुबन्धी कपायोका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म होगा—उस समय उत्कृष्ट योग और उत्कृष्ट संक्लेशसे परिणत हुआ । तदनन्तर उसने लघुकाल शेष रहनेपर विशुद्धिको पूरित करके सम्यक्त्वको उत्पन्न किया । पुनः वही सर्वलघुकालसे अनन्तानुबन्धी कपायोके विसंयोजनके लिए प्रवृत्त हुआ । उसके चरम स्थितिखंडके चरम समयमें संक्रमण करनेपर पर अनन्तानुबन्धी कपायोका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण होता है ॥३०॥

शंका—आठो मध्यम कपायोका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण किसके होता है ? ॥३१॥

समाधान—वही पूर्वोक्त गुणितकर्मांशिक नारकी सर्वलघुकालसे मनुष्यगतिमें आया और आठ वर्षका होकर चारित्रमोहकी क्षपणाके लिए अभ्युद्यत हुआ । तदनन्तर आठो कपायोके अन्तिम स्थितिखंडको चरम समयमें संक्रमण करनेवाले उसके आठों मध्यम कपायोका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण होता है ॥३२॥

१ त जहा—जेण गुणिदकम्मसिएण मणुसगइमागतूण सव्वलहु ढसणमोहखवणाए अब्भुट्ठिदेण जहाकममधापवत्तापुव्वकरणाणि वोलिय अणियट्ठीकरणद्वाए सखेजदिभागासेसे मिच्छत्तस्स उक्त्सपदेसगा सगासखेजपागभूदगुणसेटिणिजरासहिदगुणसकमदव्वपरिहीण सव्वसकमेण सम्पामिच्छत्ते सपक्खित्ते तेणेव मिच्छत्तक्त्सपदेससकमसामिएण जाधे सम्पामिच्छत्त सम्मत्ते पक्खित्तं, ताधे तस्स सम्पामिच्छत्तविसयो उक्त्सओ पदेससंक्रमो होइ त्ति एमो सुत्तत्थसंगहो । जयध०

२ एव विसजोएमाणस्स तस्स णेरहयस्स चरिमट्ठिदिखंडयं चरिमसमयसंछुहमाणयस्स तेसिमणताणुबन्धीणमुक्त्सओ पदेससंक्रमो होदि; तत्थ सव्वसकमेणाणताणुबंधिव्वस्स कम्मट्ठिदिअव्वमंतरसगान्ठिस्स थोवूणस्स सेसकसायाणमुवरि संकमतस्सुक्त्सभावसिद्धीए विरोहाभावादो । जयध०

३३. एवं छण्णोकसायाणं । ३४. इत्थिवेदस्स उक्कस्सओ पदेससंक्रमो कस्स ?
 ३५. गुणिदकम्मंसिओ असंखेज्वस्साउएसु इत्थिवेदं पूरेदूण तदो क्रमेण पूरिदकम्मं-
 सिओ खवणाए अब्भुट्ठिदो तदो चरिमट्ठिदिखंडयं चरिमसमयसंछुहमाणयस्स तस्स
 इत्थिवेदस्स उक्कस्सओ पदेससंक्रमो^१ ।

३६. पुरिसवेदस्स उक्कस्सओ पदेससंक्रमो कस्स ? ३७. गुणिदकम्मंसिओ
 इत्थि-पुरिस-णवुंसयवेदे पूरेदूण तदो सव्वलहुं खवणाए अब्भुट्ठिदो, पुरिसवेदस्स अप-
 च्छिमट्ठिदिखंडयं चरिमसमयसंछुहमाणयस्स तस्स पुरिसवेदस्स उक्कस्सओ पदेससंक्रमो ।

३८. णवुंसयवेदस्स उक्कस्सओ पदेससंक्रमो कस्स ? ३९. गुणिदकम्मंसिओ
 ईसाणादो आगदो सव्वलहुं खवेदुमाहत्तो । तदो णवुंसयवेदस्स अपच्छिमट्ठिदिखंडयं
 चरिमसमयसंछुहमाणयस्स तस्स णवुंसयवेदस्स उक्कस्सओ पदेससंक्रमो^२ ।

४०. कोहसंजलणस्स उक्कस्सओ पदेससंक्रमो कस्स ? ४१. जेण पुरिसवेदो

चूर्णिसू०—इसी प्रकार हास्यादि छह नोकपायोके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमणके स्वामित्वको जानना चाहिए ॥३३॥

शंका—स्त्रीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण किसके होता है ? ॥३४॥

समाधान—कोई गुणितकर्मागिक जीव असंख्यात वर्षकी आयुवाले भोगभूमियोंमें उत्पन्न होकर और वहाँ पर स्त्रीवेदको पूरित करके पुनः क्रमसे पूरित-कर्माशिक होकर क्षपणाके लिए अभ्युद्यत हुआ । तदनन्तर स्त्रीवेदके चरम स्थितिखंडको चरम समयमें संक्रमण करनेवाले उस जीवके स्त्रीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण होता है ॥३५॥

शंका—पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण किसके होता है ? ॥३६॥

समाधान—गुणितकर्मागिक जीव स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेदको पूरित करके तदनन्तर सर्वलघुकालसे क्षपणाके लिए अभ्युद्यत हुआ । वह जिस समय पुरुषवेदके अन्तिम स्थितिखंडको चरम समयमें संक्रमण करता है, उस समय उस जीवके पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण होता है ॥३७॥

शंका—नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण किसके होता है ? ॥३८॥

समाधान—कोई गुणितकर्मागिक जीव ईशानस्वर्गसे आया और सर्वलघुकालसे क्षपणाके लिए प्रवृत्त हुआ । तदनन्तर नपुंसकवेदके अन्तिम स्थितिखंडको चरम समयमें संक्रमण करनेवाले उसके नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण होता है ॥३९॥

शंका—संज्वलन क्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण किसके होता है ? ॥४०॥

समाधान—जिसने पुरुषवेदके उत्कृष्ट द्रव्यको संज्वलन क्रोधमें संक्रान्त किया,

१ इत्थीए भोगभूमिसु जीविय वासाणसंखियाणि तओ ।

हस्सट्ठिइं देवत्ता सव्वलहुं सव्वसंछोमे ॥८५॥

२ ईसाणागयपुरिसस्स इत्थियाए व अट्टवासाए ।

मासपुहुत्तम्भिए नपुंसगे सव्वसंक्रमणे ॥८४॥ कम्मप०, प्रदेशसंक्रमण०,

उक्त्स्सओ संछुद्धो कोधे तेणेव जाधे माणे कोधो सव्वसंक्रमेण संछुद्धदि ताधे तस्स कोधस्स उक्त्स्सओ पदेससंक्रमो' । ४२. एदस्स चैव माणसंजलणस्स उक्त्स्सओ पदेससंक्रमो कायव्वो, णवरि जाधे माणसंजलणो मायासंजलणे संछुद्धइ ताधे । ४३. एदस्स चैव मायासंजलणस्स उक्त्स्सओ पदेससंक्रमो कायव्वो, णवरि जाधे मायासंजलणो लोभसंजलणे संछुद्धइ ताधे ।

४४. लोभसंजलणस्स उक्त्स्सओ पदेससंक्रमो कस्स ? ४५. गुणिदकम्मंसिओ सव्वलहुं खवणाए अब्भुद्धिदो अंतरं से काले कादूण लोहस्स असंक्रामगो होहिदि त्ति तस्स लोहस्स उक्त्स्सओ पदेससंक्रमो ।

४६. एत्तो जहण्णयं । ४७. पिच्छत्तस्स जहण्णओ पदेससंक्रमो कस्स ? ४८. खविदकम्मंसिओ' एहं'दियकम्मेण जहण्णएण मणुसेसु आगदो सव्वलहुं चैव सम्मत्तं उसने ही जिस समय संज्वलनमानमे संज्वलनक्रोधको सर्वसंक्रमणसे संक्रमित किया, उस समय उसके संज्वलनक्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण होता है ॥४१॥

चूर्णिसू०—इस ही जीवके संज्वलनमानका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण कहना चाहिए । विशेषता केवल यह है कि जिस समय यह संज्वलनमानको संज्वलनमायामे संक्रान्त करता है, उस समय संज्वलनमानका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण होता है । इस ही जीवके संज्वलनमायाके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमणकी प्ररूपणा करना चाहिए । विशेषता केवल यह है कि वह जिस समय संज्वलनमायाको संज्वलनलोभमे संक्रमित करता है, उस समय उसके संज्वलनमायाका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण होता है ॥४२-४३॥

शंका—संज्वलनलोभका उत्कृष्टप्रदेशसंक्रमण किसके होता है ? ॥४४॥

समाधान—गुणितकर्माशिक जीव सर्वलघुकालसे क्षपणाके लिए अभ्युद्यत हुआ । अन्तरकरण करके तदनन्तर समयमे जब लोभका असंक्रामक होगा, उस समय उसके संज्वलनलोभका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण होता है ॥४५॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे जघन्य प्रदेशसंक्रमणके स्वामित्वको कहते हैं ॥४६॥

शंका—मिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशसंक्रमण किसके होता है ? ॥४७॥

समाधान—जो क्षपितकर्माशिक जीव एकेन्द्रिय-प्रायोग्य जघन्य सत्कर्मके साथ मनुष्योमे आया और सर्वलघुकालसे ही सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । (पुनः उसी और विभिन्न

१ वरिसवरिद्धिं पूरिय सम्मत्तमसंखवासियं लहियं ।

गंता मिच्छत्तमथो जहण्णदेवट्ठिं भोच्चा ॥८६॥

आगंतु लहुं पुरिसं संछुद्धमाणस्स पुरिसवेयस्स ।

तस्सेव सगे कोहस्स माणमायाणमवि कसिणो ॥८७॥ कम्मप० प्रदेशसक्र०

२ पल्लासंखियभागोणकम्ममट्ठिमच्छिओ निगोएसु ।

सुद्धमेसुऽभविद्यजोग्गं जहण्णयं कट्टु निग्गम्म ॥९४॥

जोग्गोसुऽसंखवारे सम्मत्तं लभिय देसविरइं च ।

अट्टक्खुत्तो विरइं संजोयणहा तइयवारे ॥९५॥

पडिवण्णो संजम संजमासंजमं च बहुसो लभिदाउगो चत्तारि वारे कसाए उवसापित्ता वे छावड्ढि सागरोवमाणि सादिरेयाणि सम्मत्तमणुपालिदं । तदो मिच्छत्तं गदो अंतोमुहुत्तेण पुणो तेण सम्मत्तं लद्धं । पुणो सागरोवमपुधत्तं सम्मत्तमणुपालिदं । तदो दंसण-मोहणीयक्खवणाए अब्भुद्धिदो । तस्स चरिमसमयश्रधापवत्तकरणस्स मिच्छत्तस्स जह-ण्णओ पदेससंक्रमो ।

भवोमे) संयम और संयमासंयमको बहुत बार प्राप्त किया, चार बार कपायोंका उपशमन करके दो बार सातिरेक छत्थासठ सागरोपमकाल तक सम्यक्त्वका परिपालन किया । तदनन्तर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ और अन्तर्मुहूर्तसे ही पुनः उसने सम्यक्त्वको प्राप्त किया । पुनः सागरोपमपृथक्त्व तक सम्यक्त्वका परिपालन किया । तदनन्तर दर्शनमोहनीयकी क्षपणाके लिए अभ्युद्यत हुआ । वह जीव जब अधःप्रवृत्तकरणके चरम समयमें वर्तमान हो, तब उसके मिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशसंक्रमण होता है ॥४८॥

विशेषार्थ—यहाँ ऊपर जो क्षपितकर्मागिक कहा है, उसका अभिप्राय यह है कि जो जीव पत्यके असंख्यातवे भागसे कम कर्मस्थितिकाल तक सूक्ष्मनिगोदियोमे रहकर और अभव्योके योग्य जघन्य कर्मस्थितिको करके वादर पृथिवीकायिकोम उत्पन्न हुआ और अन्तर्मुहूर्तमे ही मरण कर पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्योमे उत्पन्न हुआ । वहाँ आठ वर्षकी अवस्थामे ही संयमको धारण कर और देवोन पूर्वकोटी वर्ष तक संयमको पालन कर, जीवनके अल्प अवशिष्ट रहनेपर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ । मिथ्यात्व और असंयममे सर्वलघु काल रहकर मरा और दश हजार वर्षकी आयुवाले देवोमे उत्पन्न हुआ । वहाँ पर्याप्तक हो

चउरुवसमित्तु मोहं लहुं खवेतो भवे खवियकम्मो ।

पाएण तहि पगयं पडुच्च काओ वि सविसेसं ॥९६॥ कम्मप० प्रदेशसक्र०

१ ततो सुहुमणिगोवेहितो उव्वट्टित्तु वादरपुढविकाइएसु उव्वण्णो अतोमुहुत्तेण काल गतो पुव्व-कोडाउगोसु मणुत्सेसु उव्वण्णो सव्वलक्खणेहि जोणिजम्मण-णिकखमणेण अट्ठवासिगो संजम पडिवण्णो । तत्थ देसुण पुव्वकोडी सजम अणुगालित्ता थोवावसेसे जीविये मिच्छत्तं गतो सव्वत्थोवाए मिच्छत्तअसजम-द्धाए मिच्छत्तेण कालगतो समाणो दसवाससहस्सट्ठिदिएसु देवेषु उव्वण्णो । तदो अतोमुहुत्तेण सम्मत्तं पडिवण्णो दसवाससहस्साणि जीवित्तु ततो अते मिच्छत्तेण कालगतो वादरपुढविकाइएसु उव्वण्णो । ततो अतोमुहुत्तेण उव्वट्टित्ता मणुत्सेसु उव्वण्णो । पुणो सम्मत्तं वा देसविरतिं वा पडिवज्जति । एव जत्थ जत्थ मम्मत्तं पडिवज्जति तत्थ तत्थ बहुप्पदेसाओ पगडीओ अप्पप्पदेसाओ पगरेति । एयाणिमित्तं सम्मत्तादि-पडिवज्जाविज्जइ । देव-मणुएसु सम्मत्तादि गेण्हतो मुच्चतो य जत्थ तसेसु उव्वज्जति तत्थ सम्मत्तादी णियमा पडिवज्जति । कयाइं देसविरतिं पडिवज्जति, कयाइ सज्जम पि । कयाइ अणताणुवधी विसजोएति त्ति, कयाइ उव्वसामगवेदि पडिवज्जति । 'अट्ठक्खुत्तो विरतिं सजोयणहा तइयवारे'—एएसु असखेज्जेसु भवग्गहणेषु अट्ठवारे सजम लब्भदि, अट्ठवारे अणताणुवधिणो विसजोएत्ति । 'चउरुवसमित्तु मोहं' ति एट्ठेषु भवग्गहणेषु चत्तारि वारा चरित्तमोहं उव्वसामेउ 'लहुं खवेतो भवे खवियकम्मो' त्ति 'लहुं खवेतो' -लहुंखवगसेट्ठि पडिवज्जमाणो 'भवे खवियकम्मो' त्ति-एरिसेण विहिणा आगतो खवियकम्मो वुच्चति ।

कम्मपयडीचूणि, प्रदेशसं०

४९. सम्पत्त-सम्पामिच्छत्ताणं जहणओ पदेससंकमो कस्स ? ५०. एसो चव जीवो मिच्छत्तं गदो । तदो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं गंतूण अप्पणो दुचरिम-ट्टिदिखंडयं चरिमसमय-उव्वेलमाणयस्स तस्स जहणओ पदेससंकमो' ।

५१. अणंताणुवंधीणं जहणओ पदेससंकमो कस्स ? ५२. एहंदिक्कम्मेण जहणएण तसेसु आगदो । संजमं संजमासंजमं च बहुसो लद्धूण चत्तारि वारे कसाए उवसामित्ता तदो एहंदिएसु पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमिच्छिदो जाव उवसामय-समयपवद्धा णिग्गलिदा त्ति । तदो पुणो तसेसु आगदो सव्वलहुं सम्पत्तं लद्धं

अन्तर्मुहूर्तसे सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । दश हजार वर्ष तक सम्यक्त्वके साथ जीवित रहकर अन्तमे मिथ्यात्वको प्राप्त होकर मरा और वादर पृथिवीकायिकोमे उत्पन्न हुआ । वहाँसे अन्तर्मुहूर्तमे ही निकलकर मनुष्योंमे उत्पन्न हुआ औप उनमे सम्यक्त्व और संयमासंयमको धारण किया । इस प्रकार वह असंख्य वार देव और मनुष्योंमे उत्पन्न होकर पल्योपमके असंख्यातवें भाग वार सम्यक्त्व और संयमासंयमको, आठ वार संयम और अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजनाको, तथा चार वार उपशमश्रेणीको प्राप्त हुआ । अन्तिम मनुष्य भवमे उत्पन्न होकर जो लघुकालसे ही मोह-क्षपणाके लिए उद्यत होता है, वह जीव क्षपितकर्मागिक कहलाता है ।

शंका—सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशसंक्रमण किसके होता है ? ॥४९॥

समाधान—यही उपयुक्त क्षपितकर्मागिक जीव (दर्शनमोहकी क्षपणाके लिए उद्यत होनेके पूर्व ही) मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ । (वहाँपर अन्तर्मुहूर्तके पश्चात् सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना प्रारम्भ कर और) पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक उद्वेलना करके उक्त दोनों कर्मोंके अपने-अपने द्विचरम स्थितिखंडके चरम समयवर्ती द्रव्यकी जब वह उद्वेलना करता है, तब उसके सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशसंक्रमण होता है ॥५०॥

शंका—अनन्तानुवन्धी कपायोका जघन्य प्रदेशसंक्रमण किसके होता है ? ॥५१॥

समाधान—जो जीव एकेन्द्रियोके योग्य जघन्य सत्कर्मके साथ त्रसोमे आया । वहाँपर संयम और संयमासंयमको बहुत वार प्राप्त कर और चार वार कपायोका उपशमन करके तदनन्तर एकेन्द्रियोमे पल्योपमके असंख्यातवे भागकाल तक रहा—जबतक कि उपशामक-कालमे बँधे हुए समयप्रवद्ध निर्गलित हुए । तदनन्तर वह पुनः त्रसोमें आया, और सर्वलघु कालसे सम्यक्त्वको प्राप्त किया और अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना की । पुनः मिथ्यात्वको प्राप्त होकर और अन्तर्मुहूर्त तक अनन्तानुवन्धीकी संयोजना करके पुनः उसने सम्यक्त्वको

१ हस्सगुणसंकमद्धा पूरियित्ता समीस-सम्मत्तं ।

चिरसंमत्ता मिच्छत्तगयस्सुध्वलणथोगे सिं ॥१००॥ कम्मप० प्रदेशसंक्र०

अणंताणुवंधिणो च विसंजोद्दा । पुणो मिच्छत्तं गंतूण अंतोमुहुत्तं संजोएदूण पुणो तेण सम्मत्तं लद्धं । तदो सागरोवमवेछावट्ठीओ अणुपालिदं । तदो विसंजोएदुमाहत्तो । तस्स अधापवत्तकरणचरिमसमए अणंताणुवंधीणं जहण्णओ पदेससंक्रमो ।

५३. अट्टुहं कसायाणं जहण्णओ पदेससंक्रमो कस्स ? ५४. एइंदियक्कम्मेण जहण्णएण तसेसु आगदो संजमासंजमं संजमं च बहुसो गदो । चत्तारि वारे कसाए उवसामित्ता तदो एइंदिएसु गदो । असंखेज्जाणि वस्साणि अच्छिदो जाव उवसामय-समयपवद्धा णिग्गलंति । तदो तसेसु आगदो संजमं सव्वलहुं लद्धो । पुणो कसायक्ख-वणाए उवट्ठिदो । तस्स अधापवत्तकरणस्स चरिमसमए अट्टुहं कसायाणं जहण्णओ पदेससंक्रमो^१ । ५५. एवमरइ-सोगाणं । ५६. हस्स-रइ-भय-दुगुंछाणं पि एवं चेव, णवरि अपुव्वकरणस्सावलियपविट्ठस्स ।

५७. कोहसंजलणस्स जहण्णओ पदेससंक्रमो कस्स ? ५८. उवसामयस्स चरिमसमयपवद्धो जाधे उवसामिज्जमाणो उवसंतो ताधे तस्स कोहसंजलणस्स जहण्णओ प्राप्त किया । तव उसने दो वार छयासठ सागरोपम कालतक सम्यक्त्वका परिपालन किया । तदनन्तर अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना आरम्भ की । ऐसे जीवके अधःप्रवृत्तकरणके चरम समयमे अनन्तानुवन्धी कपायोका जघन्य प्रदेशसंक्रमण होता है ॥५२॥

शंका—आठो मध्यम कपायोका जघन्य प्रदेशसंक्रमण किसके होता है ? ॥५३॥

समाधान—जो जीव एकेन्द्रियोके योग्य जघन्य सत्कर्मके साथ त्रसोमे आया । वहाँपर संयमासंयम और संयमको बहुत वार प्राप्त हुआ । चार वार कपायोका उपशमन करके तदनन्तर एकेन्द्रियोमे गया । वहाँपर जितने समयमे उपशामककालमे वँधेहुए समय-प्रवद्ध गलते है, उतनी असंख्यात वर्षो तक रहा । तदनन्तर त्रसोमे आया और सर्वलघु-कालसे संयमको प्राप्त हुआ । पुनः कपायोकी क्षपणाके लिए उद्यत हुआ । ऐसे जीवके अधः-प्रवृत्तकरणके चरम समयमे आठो मध्यम कपायोका जघन्य प्रदेशसंक्रमण होता है ॥५४॥

चूर्णिसू०—इसी प्रकारसे अरति और शोकके जघन्य प्रदेशसंक्रमणका स्वामित्व जानना चाहिए । हास्य, रति, भय और जुगुप्साका जघन्य प्रदेशसंक्रमण-स्वामित्व भी इसी प्रकारसे जानना चाहिए । विशेषता केवल यह है कि इन कर्मोका जघन्य प्रदेशसंक्रमण (अधःप्रवृत्तकरणके चरम समयमे न होकर) अपूर्वकरणमे प्रवेश करनेवाले जीवके प्रथम आवलीके चरम समयमे होता है ॥५५-५६॥

शंका—संज्वलन क्रोधका जघन्य प्रदेशसंक्रमण किसके होता है ? ॥५७॥

समाधान—उपशामकके संज्वलनक्रोधके चरम समयमे वँधा हुआ समयप्रवद्ध जब उपशमन किया जाता हुआ उपशान्त होता है, उस समय उसके संज्वलन क्रोधका जघन्य प्रदेशसंक्रमण होता है ॥५८॥

१ अट्टुकसायासाए असुभधुवंधि अत्थिरत्तिगे य ।

सव्वलहुं खवणाए अहापवत्तस्स चरिमम्मि ॥१०२॥ कम्मप० प्रदेशसंक्र०

पदेससंक्रमो । ५९. एवं माण-मायासंजलण-पुरिसवेदाणं ।

६०. लोहसंजलणस्स जहण्णओ पदेससंक्रमो कस्स ? ६१. एइंदियकम्पेण जहण्णएण तसेसु आगदो संजमासंजमं संजमं च बहुसो लद्धूण कसाएसु किं पि णो उवसामेदि । दीहं संजमद्धमणुपालिदूण खवणाए अब्भुद्धिदो तस्स अपुव्वकरणस्स आवलियपविट्ठस्स लोहसंजलणस्स जहण्णओ पदेससंक्रमो ।

६२. णवुंसयवेदस्स जहण्णओ पदेससंक्रमो कस्स ? ६३ एइंदियकम्पेण जहण्णएण तसेसु आगदो तिपलिदोवमिएसु उववण्णो । तिपलिदोवमे अंतोमुहुत्ते सेसे सम्मत्तमुप्पाइदं । तदो पाए सम्मत्तेण अपडिवदिदेण सागरोवमछावट्टिमणुपालिदेण संजमासंजमं संजमं च बहुसो लद्धो, चत्तारि वारे कसाया उवसामिदा । तदो सम्मामिच्छत्तं गंतूण पुणो अंतोमुहुत्तेण सम्मत्तं धेत्तूण सागरोवमछावट्टिमणुपालिदूण मणुसभवग्गहणे सव्वचिरं संजममणुपालिदूण खवणाए उवट्ठिदो । तरस अधापवत्तकरणस्स चरिमसमए

चूणिसू०—इसी प्रकारसे संज्वलनमान, संज्वलनमाया और पुरुषवेदके जघन्यप्रदेश-संक्रमणका स्वामित्व जानना चाहिए ॥५९॥

शंका—संज्वलनलोभका जघन्य प्रदेशसंक्रमण किसके होता है ? ॥६०॥

समाधान—जो जीव एकेन्द्रियोंके योग्य जघन्य सत्कर्मके साथ त्रसोम आया । वहाँपर संयमासंयम और संयमको बहुत बार प्राप्त करके कपायोमे कुछ भी उपशमन नहीं करता है, तथा वह दीर्घ काल तक संयमका परिपालन करके चारित्रमोहनीयकी क्षपणाके लिए अभ्युद्यत हुआ । ऐसे आवली-प्रविष्ट अपूर्वकरण-संयतके संज्वलनलोभका जघन्य प्रदेश-संक्रमण होता है ॥६१॥

शंका—नपुंसकवेदका जघन्य प्रदेशसंक्रमण किसके होता है ? ॥६२॥

समाधान—जो जीव एकेन्द्रियोंके योग्य जघन्य सत्कर्मके साथ त्रसोमे आया और क्रमसे तीन पत्न्योपमवाले भोगभूमियोंमें उत्पन्न हुआ । तीन पत्न्योपममे अन्तर्मुहूर्त शेष रहने-पर उसने सम्यक्त्वको उत्पन्न किया । नदनन्तर अप्रतिपतित सम्यक्त्वके साथ छयासठ सागरोपम कालतक सम्यक्त्वका परिपालन करते हुए संयमासंयम और संयमको बहुत बार प्राप्त हुआ । चार बार कपायोका उपशमन किया । तत्पश्चात् सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त होकर और पुनः अन्तर्मुहूर्तसे ही सम्यक्त्वको ग्रहण कर दूसरी बार छयासठ सागरोपम कालतक सम्यक्त्वका परिपालन कर अन्तिम मनुष्य भवके ग्रहण करनेपर सर्व-चिरकाल तक संयमका परिपालन करके जीवनके अल्प अवशेष रहनेपर क्षपणाके लिए उपस्थित हुआ । ऐसे जीवके अधः-प्रवृत्तकरणके चरम समयमें नपुंसकवेदका जघन्य प्रदेशसंक्रमण होता है ॥६३॥

१ पुरिसे संजलणतिगे य घोळमाणेण चरमवद्धस्स ।

सग-अंतिमे असाण्ण समा अरई य सोगो य ॥१०३॥ कम्मप० प्रदेशसक्र०

णजुंसयवेदस्स जहण्णओ पदेससंक्रमो । ६४. एवं चेव इत्थिवेदस्स चि, णवरि तिपलि-
दोवमिएसु ण अच्छिदाउगो ।

६५. एयजीवेण कालो । ६६. सव्वेसिं कम्माणं जहण्णुक्कस्सपदेससंक्रमो
केवचिरं कालादो होदि ? ६७. जहण्णुक्कस्सेण एयसमओ' ।

६८. अंतरं । ६९. सव्वेसिं कम्माणमुक्कस्सपदेससंक्रामयस्स णत्थि अंतरं' ।
७०. अथवा सम्मत्ताणताणुवंधीणमुक्कस्सपदेससंक्रामयस्स अंतरं केवचिरं कालादो
होदि ? ७१. जहण्णेण असंखेज्जा लोगा' । ७२. उक्कस्सेण उवड्डुपोग्गलपरियट्टं' ।

चूर्णिसू०—इसी प्रकार ही स्त्रीवेदके जघन्य प्रदेशसंक्रमणके स्वामित्वको जानना
चाहिए । विशेषता केवल इतनी ही है कि तीन पत्योपमकी आयुवाले जीवोंमें वह नहीं
उत्पन्न होता है ॥६४॥

चूर्णिसू०—अब एक जीवकी अपेक्षा प्रदेशसंक्रमणके कालको कहते हैं ॥६५॥

शंका—सर्व कर्मोंके जघन्य और उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमणका कितना काल है ? ॥६६॥

समाधान—सर्व कर्मोंके जघन्य और उत्कृष्ट प्रदेश संक्रमणका जघन्य और उत्कृष्ट
काल एक समय है ॥६७॥

चूर्णिसू०—अब प्रदेशसंक्रमणके अन्तरको कहते हैं—सर्व कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण-
का अन्तर नहीं है । यह एक उपदेशकी अपेक्षा कथन है ॥६८-६९॥

शंका—अथवा अन्य उपदेशकी अपेक्षा सम्यक्त्वप्रकृति और अनन्तानुबन्धी कपायोंके
उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमणका अन्तरकाल कितना है ? ॥७०॥

समाधान—सम्यक्त्वप्रकृति और अनन्तानुबन्धी कपायोंके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमणका
जघन्यकाल असंख्यात लोक-प्रमित और उत्कृष्टकाल उपार्धपुद्गलपरिवर्तन-प्रमाण है ॥७१-७२॥

१ कुदो; सव्वेसि कम्माण जहण्णुक्कस्सपदेससकमाणमेयसमयादो उवरिमवट्टाणासभवादो । जयध०

२ होउ णाम खवगसवधेण लद्धक्कस्सभावाण मिच्छत्तादिकम्माणमतराभावो, ण बुण सम्मत्ताणता-
णुवंधीणमतराभावो जुत्तो, तेसिमखवयविसयत्तेण लद्धक्कस्सभावाणमतरसभवे विप्पडिसेहाभावादो ? ण
एस दोसो, गुणिदकम्मसियलक्खणेणोयवार परिणदस्स पुणो जहण्णदो चि अड्डुपोग्गलपरियट्टमेत्तकालम्भतरे
तम्भावपरिणामो णत्थि त्ति एवविहाहिप्पाएणेदस्स सुत्तस्स पयइत्तादो । एसो ताव एक्को उवएसो
जुणिसुत्तयारेण सिस्साण परुविदो । अण्णेणोवएस्सेण पुण सम्मत्ताणताणुवंधीणमुक्कस्सपदेससकामयतरसभवो
अत्थि त्ति तप्पमाणावहारणह उत्तरसुत्त भणइ । जयध०

३ गुणिदकम्मसियलक्खणेणागतूण णेरइयच्चरिमसमयादो हेट्ठा अतोमुहुत्तमोसरिय पढमसम्मत्तमुप्पाइय
जहाउत्तपदेसे सम्मत्ताणताणुवंधीणमुक्कस्सपदेससकमस्सादि कादूण अतरिय अणुक्कस्सपरिणामेसु तेत्तियमेत्त-
कालमच्छिज्जण पुणो सव्वलहु गुणिदकिरियासबंधमुवसामिय पुव्वुत्तेणैव कमेण पडिवण्णतम्भावम्मि तदुवल-
भादो । जयध०

४ पुव्वुत्तविहाणेणैवादि करिय अतरिदस्स देसूणदुपोग्गलपरियट्टमेत्तकाल परिभमिय तदवसाणे
गुणिदकम्मसिओ होदूण सम्मत्तमुप्पाइय पुव्व व पडिवण्णतम्भावम्मि तदुवलद्वीदो । जयध०

७३. एत्तो जहण्णयं । ७४. कोहसंजलण-माणसंजलण-मायासंजलण-पुरिसवेदाणं जहण्णपदेससंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ७५. जहण्णेण अतोमुहुत्तं । ७६. उक्कस्सेण उव्वड्डुपोग्गलपरियट्ठं । ७७. सेसाणं कम्मणं जाणिल्लण णेद्व्वं ।

७८. सण्णियासो । ७९. मिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेससंकामओ सम्पत्ताणंताणु-वंधीणमसंकामओ । ८०. सम्मामिच्छत्तस्स णियमा अणुक्कस्सं पदेसं संघामेदि । ८१. उक्कस्सादो अणुक्कस्समसंखेज्जगुणहीणं । ८२. सेसाणं कम्मणं संकामओ णियमा अणुक्कस्सं संकामेदि । ८३. उक्कस्सादो अणुक्कस्सं णियमा असंखेज्जगुणहीणं । ८४.

चूर्णिसू०—अब इससे आगे जघन्य प्रदेशसंक्रमणके अन्तरको कहते हैं ॥७३॥

शंका—सञ्चलनक्रोध, मञ्चलनमान, मञ्चलनमाया और पुरुषवेदके जघन्य प्रदेश-संक्रमणका अन्तरकाल कितना है ? ॥७४॥

समाधान—उक्त कर्मोंके जघन्य प्रदेशसंक्रमणका जघन्य अन्तरकाल अन्नमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्थपुद्गलपरिवर्तन है ॥७५-७६॥

चूर्णिसू०—जेय कर्मोंका जघन्य अन्तर जानकर प्ररूपण करना चाहिए ॥७७॥

चूर्णिसू०—अब प्रदेशसंक्रमणके सन्निकर्षको कहते हैं—मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेश-संक्रमणका करनेवाला जीव सम्यक्त्वप्रकृति और अनन्तानुबन्धी कपायोके प्रदेशसंक्रमणको नहीं करता है । सम्यग्मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका नियमसे संक्रमण करता है । उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमणसे अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण असंख्यातगुणित हीन होता है । मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जेय कर्मोंके प्रदेशोंका संक्रामक होता है, किन्तु नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका ही संक्रमण करता है । उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमणसे अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण नियमसे अस-

१ त जहा—चिराणसतकम्ममेदेसिमुवसामिय धोलमाणजहण्णजोगेण वट्टचरिमसमयणवकवधसकामय-चरिमसमयम्मि जहण्णसकमस्मादि कादूण विदियादिसमएसु अतरिय उवरि चटिय ओऽण्णो सतो पुणो वि सव्वलहुमंतोमुहुत्तेण विमुच्चिदूण सेटिसमारोहण करिय पुव्वुत्तपदेमे तेणेव विहिणा जहण्णपदेससकामओ जादो । लद्धमतर । जयध०

२ पुव्वुत्तकमेणेवादि करिय अतरिदो सतो देसणद्वपोग्गलपरियट्ठमेत्तकाल परियट्ठिदूण पुणो अतो-मुहुत्तसेसे ससारे उवसमसेटिमारुहिय जहण्णपदेससकामओ जादो । लद्धमुक्कस्सतर । जयध०

३ कुदो; सम्माइट्ठम्मि सम्मत्तस्स सकामामावादो, अणताणुवधीण च पुव्वमेव विसजोइयत्तादो ।

४ कुदो; मिच्छत्तुक्कस्सपदेससकम्म पडिच्छिल्लण अतोमुहुत्तेण सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेससकमु-प्यत्तिदसणादो । जयध०

५ कुदो, सम्मामिच्छत्तुक्कस्सपदेससकमादो सव्वसकमसरुवादो एत्थतणसकमस्स गुणसकमसरुवरस असखेज्जगुणहीणत्ते सदेहाभावादो । जयध०

६ कुदो; सव्वेसिमण्यण्णो गुणिटकम्मसियक्खवयचरिमफालिसकमादो लद्धुक्कस्सभावणमेत्थाणुक्कस्स-भावसिद्धीए विसवादाभावादो । जयध०

७ किं कारण ? अप्पण्णो खवयचरिमफालिसकमादो एत्थतणसकमस्स असखेज्जगुणहीणत्त मोत्तूण पयारतरासभावादो । जयध०

णवरि लोभसंजलणं विसेसहीणं संकामेदि' । ८५. सेसाणं कम्माणं साहेयव्वं । ८६. सव्वेसिं कम्माणं जहणसण्णियासो विहासेयव्वो ।

८७. अप्पावहुअं । ८८. सव्वत्थोवो सम्मत्ते उक्कस्सपदेससंकमो' । ८९. अपच्चक्खाणमाणे उक्कस्सओ पदेससंकमो असंखेज्जगुणो' । ९०. कोहे उक्करसपदेससंकमो विसेसाहियो' । ९१. मायाए उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहियो । ९२. लोभे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहियो । ९३. पच्चक्खाणमाणे उक्कस्सपदेससंकमो विसंसाहियो । ९४. कोहे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहियो । ९५. मायाए उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहियो । ९६. लोभे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहियो । ९७. अणंताणुव्वंधिमाणे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहियो । ९८. कोहे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहियो । ९९. मायाए उक्कस्स-

ख्यातगुणित हीन होता है । विशेषता केवल यह है कि संज्वलनलोभका विशेष हीन संक्रमण करता है । जोष कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमणसम्बन्धी सन्निकर्षको इसी प्रकारसे सिद्ध करना चाहिए ॥७८-८५॥

चूर्णिसू०—सर्व कर्मोंके जघन्य प्रदेशसंक्रमण-सम्बन्धी सन्निकर्षकी प्ररूपणा करना चाहिए ॥८६॥

चूर्णिसू०—अत्र प्रदेशसंक्रमणके अल्पबहुत्वको कहते हैं—सम्यक्त्वप्रकृतिसे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण वक्ष्यमाण पदोंकी अपेक्षा सबसे कम होता है । सम्यक्त्वप्रकृतिसे अप्रत्याख्यानमानसे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण असंख्यातगुणित होता है । अप्रत्याख्यानमानसे अप्रत्याख्यानक्रोधसे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । अप्रत्याख्यान क्रोधसे अप्रत्याख्यानमायामे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । अप्रत्याख्यानमायासे अप्रत्याख्यानलोभसे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । अप्रत्याख्यानलोभसे प्रत्याख्यानमानसे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । प्रत्याख्यानमानसे प्रत्याख्यानक्रोधसे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । प्रत्याख्यानक्रोधसे प्रत्याख्यानमायामे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । प्रत्याख्यानमायासे प्रत्याख्यानलोभसे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । प्रत्याख्यानलोभसे अनन्तानुबन्धीमानसे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । अनन्तानुबन्धीमानसे अनन्तानुबन्धीक्रोधसे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । अनन्तानुबन्धीक्रोधसे अनन्तानुबन्धीमायामे उत्कृष्ट

१ कुदो; दसणमोहक्खवणाविसए लोहसजलणस्स अधापवत्तसंकमादो चरित्तमोहक्खवयसामित्त-विसईकयअधापवत्तसकमस्स गुणसेडिणिजरापरिहीणगुणसकमदव्वस्सासखेज्जिभागमेत्तेण विसेमाहियत्तदसणादो । जयव०

२ कुदो, सम्मत्तदव्वे अधापवत्तभागहारेण खडिदे तत्थेयखडपमाणत्तादो । जयध०

३ कुदो, मिच्छत्तसयलदव्वादो आवलियाए असखेज्जभागपडिभागेण परिहीणदव्वं घेत्तूण सव्वसकमेणेदस्सुक्कस्ससामित्तविहाणादो । एत्थ गुणगारो गुणसकमभागहारपहुप्पणअधापवत्तभागहारमेत्तो । जयध०

४ कुदो, दोण्हमेद्वेसिं सामित्तमेदाभावे वि पयडिविसेममेत्तेण तत्तो एदस्साहियभावोवल्लद्धीदो । जयध०

पदेससंक्रमो विसेसाहिओ । १००. लोभे उक्कस्सपदेससंक्रमो विसेसाहिओ ।

१०१. मिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेससंक्रमो विसेसाहिओ^१ । १०२. सम्मामिच्छत्ते उक्कस्सपदेससंक्रमो विसेसाहिओ^२ । १०३. लोहसंजलणे उक्कस्सपदेससंक्रमो अणंतगुणो^३ । १०४. हस्से उक्कस्सपदेससंक्रमो असंखेज्जगुणो^४ । १०५. रदीए उक्कस्सपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । १०६. इत्थिवेदे उक्कस्सपदेससंक्रमो संखेज्जगुणो^५ । १०७. सोगे उक्कस्सपदेससंक्रमो विसेसाहिओ^६ । १०८ अरदीए उक्कस्सपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । १०९. णवुंभयवेदे उक्कस्सपदेससंक्रमो विसेसाहिओ^७ । ११०. दुगुंछाए उक्कस्सपदेससंक्रमो विसेसाहिओ^८ । १११. भए उक्कस्सपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । ११२. पुरिसवेदे उक्कस्सपदेससंक्रमो विसेसाहिओ^९ । ११३. क्रोहसंजलणे उक्कस्सपदेससंक्रमो संखेज्जगुणो^{१०} ।

प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । अनन्तानुबन्धीमायासे अनन्तानुबन्धीलोभमे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है ॥८७-१००॥

चृणिसू०—अनन्तानुबन्धीलोभसे मिध्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । मिध्यात्वसे मन्यग्मिध्यात्वमे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । मन्यग्मिध्यात्वसे संज्वलनलोभमे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण अनन्तगुणित होता है । संज्वलनलोभसे हास्यमे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण असंख्यातगुणित होता है । हास्यसे रतिमे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । रतिमे स्त्रीवेदमे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण संख्यातगुणित होता है । स्त्रीवेदसे शोकमे उत्कृष्टप्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । शोकसे अरतिमे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । अरतिसे नपुंसकवेदमे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । नपुंसकवेदसे जुगुंसासे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । जुगुंसासे भयमे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । भयसे पुरुषवेदमे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । पुरुषवेदसे संज्वलनक्रोधमे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है ।

१ केत्तियमेत्तेण ? आवलियाए असखेज्जदिभागेण खडिदेयलटमेत्तेण । जयध०

२ मिच्छत्त सक्कामिय पुणो जेण कालेण सम्मामिच्छत्तसव्वसकमेण सक्कामेदि तक्कालव्भतरे णट्ठासेसदव्व सम्मामिच्छत्तमूलदव्वाढो अमखेज्जगुणहीण ति कट्ठु तत्थ तम्मि सोहिदे सुद्धसेममेत्तेण विसेसाहियत्तमिदि वुत्त होइ । जयध० ३ कुदो; देसघाटित्ताढो । जयध०

४ कुदो, दोण्ह देसघादित्ताविसेसे वि अधापवत्तसव्वसकमविसयसामित्तभेदावल्लवणाढो तहाभाव सिद्धीए विरोहाभावाढो । जयध०

५ कुदो, हस्स रइवधगद्धाढो सखेज्जगुणकुरवित्थिवेदवधगद्धाए सच्चिदत्ताढो । जयध०

६ एत्थ वि अट्ठाविसेसमस्सिऊण सखेज्जभागाहियत्त दट्ठव्व, कुरवित्थिवेदवधगद्धाढो णेरइयाणमरटिसोगवधगद्धाए सखेज्जभागव्वहियत्तदसणाढो । जयध०

७ कुदो, अट्ठाविसेसमस्सिऊण हस्स-रइवधगद्धाए सखेज्जभागसचयस्स अहियत्तुवलभाढो । जयध०

८ कुदो; धुवववित्ताढो । जयध०

९ कुदो, दोण्ह धुवववित्तेण समाणविसयसामित्तपडिलमे वि पयडिविसेसमस्सिऊण पुव्विल्लाढो एटस्स विसेसाहियत्तसिद्धीए विरोहाभावाढो । जयध०

१० को गुणमारो ? एगल्लवचउव्भागाहियाणि छरुवाणि । कुदो, कसायचउव्भागेण सह सयलणोकसायभागस्स क्रोहसंजलणायारेण परिणट्ठमुवलभाढो । जयध०

११४. माणसंजलणे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ^१ । ११५. मायासंजलणे उक्कस्स-
पदेससंकमो विमेसाहिओ ।

११६. गिरयगईए सव्वत्थोवो सम्मत्ते उक्कस्सपदेससंकमो^२ । ११७. सम्मा-
मिच्छत्ते उक्कस्सपदेससंकमो असंखेज्जगुणो^३ । ११८. अपच्चक्खाणमाणे उक्कस्सपदेससंकमो
असंखेज्जगुणो^४ । ११९. क्रोधे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ । १२०. मायाए
उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ । १२१. लोहे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।
१२२ पच्चक्खाणमाणे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ । १२३. क्रोधे उक्कस्सपदेससंकमो
विसेसाहिओ । १२४. मायाए उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ । १२५. लोहे उक्कस्स-
पदेससंकमो विसेसाहिओ । १२६. मिच्छत्ते उक्कस्सपदेससंकमो असंखेज्जगुणो^५ । १२७.
अणंताणुवंधिमाणे उक्कस्सपदेससंकमो असंखेज्जगुणो^६ । १२८. क्रोधे उक्कस्सपदेससंकमो

है । संज्वलनक्रोधसे संज्वलनमानमे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । संज्वलन
मानसे संज्वलनमायामे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है ॥१०१-११५॥

चूर्णिसू०-गतिमार्गणाकी अपेक्षा नरकगतिमें सम्यक्त्वप्रकृतिमें उत्कृष्ट प्रदेश-
संक्रमण वक्ष्यमाण पदोंकी अपेक्षा सबसे कम होता है । सम्यक्त्वप्रकृतिसे सम्यग्मिथ्यात्वमें
उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण असंख्यातगुणित होता है । सम्यग्मिथ्यात्वमें अप्रत्याख्यानमानमे
उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण असंख्यातगुणित होता है । अप्रत्याख्यानमानसे अप्रत्याख्यान क्रोधमें
उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । अप्रत्याख्यानक्रोधसे अप्रत्याख्यानमायामें
उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । अप्रत्याख्यानमायासे अप्रत्याख्यानलोभमें
उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । अप्रत्याख्यानलोभसे प्रत्याख्यानमानमे उत्कृष्ट
प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । प्रत्याख्यानमानसे प्रत्याख्यानक्रोधमें उत्कृष्ट प्रदेश-
संक्रमण विशेष अधिक होता है । प्रत्याख्यानक्रोधसे प्रत्याख्यानमायामे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण
विशेष अधिक होता है । प्रत्याख्यानमायासे प्रत्याख्यानलोभमें उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष
अधिक होता है ॥११६-१२५॥

चूर्णिसू०-प्रत्याख्यानलोभसे मिथ्यात्वमें उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण असंख्यातगुणित
होता है । मिथ्यात्वसे अनन्तानुवन्धी मानमे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण असंख्यातगुणित होता है ।
अनन्तानुवन्धी मानसे अनन्तानुवन्धी क्रोधमें उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है ।

१ केत्तियमेत्तेण ? पचमभागमेत्तेण । जयध०

२ कुदो, मिच्छत्तादो गुणसकमेण पडिच्छिददव्वमधापवत्तभागहारेण खंडिदेयखडपमाणत्तादो । जयध०

३ कुदो, दोण्हमेयविसयसामित्तपडिलभे वि सामित्तमूलदव्वादो सम्मामिच्छत्तमूलदव्वस्तासखेज-
गुणत्तमस्सिऊण तथाभावसिद्धोदो । जयध०

४ दोण्हमधापवत्तसकमविसयत्ते वि दव्वगयविसेसोवल्भादो । जयध०

५ किं कारणेण ? अधापवत्तसकमादो पुव्वित्त्लादो गुणसकमदव्वस्सेदस्तासखेजगुणत्ते विसवादाणुव-
ल्भादो । जयध०

६ केण कारणेण ? सव्वसकमेण पडिलदुक्कस्सभावत्तादो । जयध०

विसेसाहियो । १२९. मायाए उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहियो । १३०. लोभे उक्कस्स-
पदेससंकमो विसेसाहियो ।

१३१. हरसे उक्कस्सपदेससंकमो अणंतगुणो^१ । १३२. रदीए उक्कस्सपदेससंकमो
विसेसाहियो । १३३. इत्थिवेदे उक्कस्सपदेससंकमो संखेज्जगुणो । १३४ सोगे उक्कस्स-
पदेससंकमो विसेसाहियो । १३५. अरदीए उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहियो । १३६.
णवुंसयवेदे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहियो । १३७. दुगुंछाए उक्कस्सपदेससंकमो
विसेसाहियो । १३८. भए उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहियो । १३९. पुरिसवेदे उक्कस्स-
पदेससंकमो विसेसाहियो । १४०. माणसंजलणे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहियो ।
१४१. कोहसंजलणे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहियो । १४२. मायासंजलणे उक्कस्स-
पदेससंकमो विसेसाहियो । १४३. लोहसंजलणे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहियो ।
१४४. एवं सेसासु गदीसु णेदव्वं ।

१४५. तदो एइंदिएसु सव्वत्थोवो सम्मत्ते उक्कस्सपदेससंकमो । १४६.
सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेससंकमो असंखेज्जगुणो^२ । १४७. अपच्चक्खाणमाणे

अनन्तानुवन्धी क्रोधसे अनन्तानुवन्धी मायामे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है ।
अनन्तानुवन्धी मायासे अनन्तानुवन्धी लोभमे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है ।
॥ १२६-१३० ॥

चूर्णिसू०—अनन्तानुवन्धी लोभसे हास्यमे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण अनन्तगुणित होता
है । हास्यसे रतिमे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । रतिसे स्त्रीवेदमे उत्कृष्ट
प्रदेशसंक्रमण संख्यातगुणित होता है । स्त्रीवेदसे शोकमे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक
होता है । शोकसे अरतिमे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । अरतिसे नपुंसक-
वेदमे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । नपुंसकवेदसे जुगुप्सामे उत्कृष्ट प्रदेश-
संक्रमण विशेष अधिक होता है । जुगुप्सासे भयमे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता
है । भयसे पुरुषवेदमे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । पुरुषवेदसे संज्वलन-
मानमे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । संज्वलनमानसे संज्वलनक्रोधमे उत्कृष्ट
प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । संज्वलनक्रोधसे संज्वलनमायामे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण
विशेष अधिक होता है । संज्वलनमायासे संज्वलनलोभमे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक
होता है । इसी प्रकार शेष गतियोंमे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण-सम्बन्धी अल्पवहुत्व जानना
चाहिए ॥ १३१-१४४ ॥

चूर्णिसू०—इन्द्रियमार्गणाकी अपेक्षा एकेन्द्रियोमे सम्यक्त्वप्रकृतिमे उत्कृष्ट प्रदेश-
संक्रमण सबसे कम होता है । सम्यक्त्वप्रकृतिसे सम्यग्मिथ्यात्वमे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण

१ कुदो; सव्वधादिपदेसग्ग पेक्खिज्जण देसधादिपदेसग्गस्साणंतगुणत्ते सदेहाभावादो । जयध०

२ कुदो, दोण्हमेदेसि अधापवत्तेण सामित्तपडिलभाविसेसेवि दव्वविसेसमस्सिज्जण तत्तो एदस्सा-
सखेज्जगुणव्वमहियक्कमेणावट्ठाणदसणादो । जयध०

उक्कस्सपदेससंक्रमो असंखेज्जगुणो । १४८. कोहे उक्कस्सपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । १४९. मायाए उक्कस्सपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । १५०. लोहे उक्कस्सपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । १५१. पच्चक्खाणमाणे उक्कस्सपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । १५२. कोहे उक्कस्सपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । १५३. मायाए उक्कस्सपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । १५४. लोभे उक्कस्सपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । १५५. अणंताणुबंधिमाणे उक्कस्सपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । १५६. कोहे उक्करसपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । १५७. मायाए उक्कस्सपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । १५८. लोहे उक्कस्सपदेससंक्रमो विसेसाहिओ ।

१५९. हस्से उक्कस्सपदेससंक्रमो अणंतगुणो । १६०. रदीए उक्कस्सपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । १६१. इत्थिवेदे उक्कस्सपदेससंक्रमो संखेज्जगुणो । १६२. सोगे उक्कस्सपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । १६३. अरदीए उक्कस्सपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । १६४. णडुंसपवेदे उक्कस्सपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । १६५. दुगुंछाए उक्कस्सपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । १६६. भए उक्कस्सपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । १६७. पुरिसवेदे उक्कस्सपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । १६८. माणसंजलणे उक्कस्सपदेससंक्रमो विसेसाहिओ ।

असंख्यातगुणित होता है । सम्यग्मिध्यात्वसे अप्रत्याख्यानमानमे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण असंख्यातगुणित होता है । अप्रत्याख्यानमानसे अप्रत्याख्यानक्रोधमे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । अप्रत्याख्यानक्रोधसे अप्रत्याख्यानमायामे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । अप्रत्याख्यानमायासे अप्रत्याख्यानलोभमे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । अप्रत्याख्यानलोभसे प्रत्याख्यानमानमें उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । प्रत्याख्यानमानसे प्रत्याख्यानक्रोधमे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । प्रत्याख्यानक्रोधसे प्रत्याख्यानमायामे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । प्रत्याख्यानमायासे प्रत्याख्यान लोभमे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । प्रत्याख्यानलोभसे अनन्तानुबन्धी मानमे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । अनन्तानुबन्धी मानसे अनन्तानुबन्धी क्रोधमे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । अनन्तानुबन्धी क्रोधसे अनन्तानुबन्धी मायामे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । अनन्तानुबन्धी मायासे अनन्तानुबन्धी लोभमे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है ॥ १४५-१५८ ॥

चृणिंमू०—अनन्तानुबन्धी लोभसे हास्यमे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण अनन्तगुणित होता है । हास्यसे रतिमे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । रतिसे स्त्रीवेदमें उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण संख्यातगुणित होता है । स्त्रीवेदसे शोकमे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । शोकसे अरतिमे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । अरतिसे नपुंसकवेदमे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । नपुंसकवेदसे जुगुप्सासे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । जुगुप्सासे भयमे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । भयमे पुन्यवेदमे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । पुरुषवेदसे संज्वलन-

१६९. कोहसंजलणे उक्कस्सपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । १७०. मायासंजलणे उक्कस्सपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । १७१. लोभसंजलणे उक्कस्सपदेससंक्रमो विसेसाहिओ ।

१७२. एत्तो जहणपदेससंक्रमदंडओ । १७३. सव्वत्थोवो सम्मत्ते जहणपदेससंक्रमो । १७४. सम्मामिच्छत्ते जहणपदेससंक्रमो असंखेज्जगुणो^१ । १७५. अण्णताणुवंधिमाणे जहणपदेससंक्रमो असंखेज्जगुणो^२ । १७६. क्रोहे जहणपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । १७७. मायाए जहणपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । १७८. लोहे जहणपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । १७९. मिच्छत्ते जहणपदेससंक्रमो असंखेज्जगुणो^३ । १८०. अपच्चक्खाणमाणे जहणपदेससंक्रमो असंखेज्जगुणो^४ । १८१. क्रोहे जहणपदेससंक्रमो

मानमे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । संज्वलनमानसे संज्वलनक्रोधमे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । संज्वलनक्रोधसे संज्वलनमायामे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । संज्वलनमायासे संज्वलनलोभमे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है ॥ १५९-१७१ ॥

चूर्णिसू०—अव इससे आगे जघन्य प्रदेशसंक्रम-सम्बन्धी अल्पवहुत्व-दण्डक कहते हैं—सम्यक्त्वप्रकृतिमे जघन्य प्रदेशसंक्रमण सबसे कम होता है । सम्यक्त्वप्रकृतिसे सम्यग्मिथ्यात्वमे जघन्य प्रदेशसंक्रमण असंख्यातगुणित होता है । सम्यग्मिथ्यात्वसे अनन्तानुबन्धी मानमे जघन्य प्रदेशसंक्रमण असंख्यातगुणित होता है । अनन्तानुबन्धी मानसे अनन्तानुबन्धी क्रोधमे जघन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । अनन्तानुबन्धी क्रोधसे अनन्तानुबन्धी मायामे जघन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । अनन्तानुबन्धी मायासे अनन्तानुबन्धी लोभमे जघन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । अनन्तानुबन्धी लोभसे मिथ्यात्वमे जघन्य प्रदेशसंक्रमण असंख्यातगुणित होता है । मिथ्यात्वसे अप्रत्याख्यानमानमे जघन्य प्रदेशसंक्रमण असंख्यातगुणित होता है । अप्रत्याख्यानमानसे अप्रत्याख्यानक्रोधमे जघन्य प्रदेशसंक्रमण

१ कुदो, दोण्हमेदेति सामित्तभेदाभावे पि सम्मत्तमूलदव्वादो सम्मामिच्छत्तमूलदव्वस्सासखेज्जगुणकमेणावट्ठाणदसणादो । सम्मत्ते उव्वेल्लिदे जो सम्मामिच्छत्तुव्वेल्लणकालो तस्स एयगुणहाणीए असखेज्जविभागपमाणत्तम्भुवगमादो च । जयध०

२ किं कारण, विसजोयणापुव्वसजोगणवक्कवधसमयपवद्धानमतोमुहुत्तमेत्ताणमुवरि सेसकसायाणमधा पवत्तसकमसुकुट्टुणा पडिभाग्गेणपडिच्छिय सम्मत्तपटिलमेण, वेत्थावट्ठिसागरोवमाणि परिहिडिय तप्पज्वसाणे विसजोयणाए उवट्ठिदस्स अधापवत्तकरणचरिमसमए विज्झादसंक्रमेणेदस्स जहणसामित्त जाद । सम्मामिच्छत्तस्स पुण वेत्थावट्ठिसागरोवमाणि सागरोवमपुधत्त च परिभमिय दीहुव्वेल्लणकालेण उव्वेल्लेमाणस्स दुचरिमिट्ठिदिसखडयचरिमफालीए उव्वेल्लणभागहारेण जहण जाद । तदो उव्वेल्लणभागहारमाहप्पेणणोण्णव्भत्थरासिमाहप्पेण च सम्मामिच्छत्तदव्वादो एदमसखेज्जगुण जाद । जयध०

३ किं कारण, अणताणुवधीण विसजोयणापुव्वसजोगे णवक्कवधस्सुवरि अवापवत्तभागहारेण पडिच्छिदसेसकसायदव्वस्सुकुट्टुणापडिभाग्गेण वेत्थावट्ठिसागरोवमगालणाए जहणभावो संजादो । तेण कारणेणाणताणुवधिलोभजहणपदेससकमादो मिच्छत्तजहणपदेससकमो असखेज्जगुणो । जयध०

४ कुदो; वेत्थावट्ठिसागरोवमपरिव्भमणेण विणा लद्धजहणभावत्तादो । जयध०

विसेसाहिओ । १८२. मायाए जहण्णपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । १८३. लोहे जहण्ण-
पदेससंक्रमो विसेसाहिओ । १८४. पच्चङ्खाणमाणे जहण्णपदेससंक्रमो विसेसाहिओ ।
१८५. कोहे जहण्णपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । १८६. मायाए जहण्णपदेससंक्रमो
विसेसाहिओ । १८७ लोभे जहण्णपदेससंक्रमो विसेसाहिओ ।

१८८. णवुंसयवेदे जहण्णपदेससंक्रमो अणंतगुणो^१ । १८९. इत्थिवेदे जहण्ण-
पदेससंक्रमो असंखेज्जगुणो^२ । १९०. सोगे जहण्णपदेससंक्रमो असंखेज्जगुणो^३ । १९१.
अरदीए जहण्णपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । १९२. कोहसंजलणे जहण्णपदेससंक्रमो
असंखेज्जगुणो^४ । १९३. माणसंजलणे जहण्णपदेससंक्रमो विसेसाहिओ^५ । १९४ पुणिसवेदे
जहण्णपदेससंक्रमो विसेसाहिओ^६ । १९५. मायासंजलणे जहण्णपदेससंक्रमो विसेसाहिओ^७ ।

विशेष अधिक होता है । अप्रत्याख्यानक्रोधसे अप्रत्याख्यानमायामे जघन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष
अधिक होता है । अप्रत्याख्यानमायासे अप्रत्याख्यानलोभमें जघन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष
अधिक होता है । अप्रत्याख्यानलोभसे प्रत्याख्यानमानमे जघन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक
होता है । प्रत्याख्यानमानसे प्रत्याख्यानक्रोधमे जघन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है ।
प्रत्याख्यानक्रोधसे प्रत्याख्यानमायामे जघन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । प्रत्याख्यान
मायासे प्रत्याख्यानलोभमे जघन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है ॥ १७२-१८७ ॥

चूर्णिसू०—प्रत्याख्यानलोभसे नपुंसकवेदमे जघन्य प्रदेशसंक्रमण अनन्तगुणित होता
है । नपुंसकवेदसे स्त्रीवेदमे जघन्य प्रदेशसंक्रमण असंख्यातगुणित होता है । स्त्रीवेदसे शोकमे
जघन्य प्रदेशसंक्रमण असंख्यातगुणित होता है । शोकसे अरतिमे जघन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष
अधिक होता है । अरतिसे संज्वलनक्रोधमे जघन्य प्रदेशसंक्रमण असंख्यातगुणित होता है ।
संज्वलनक्रोधसे संज्वलनमानमे जघन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । संज्वलनमानसे
पुरुषवेदमे जघन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । पुरुषवेदसे संज्वलनमायामे जघन्य

१ जइ वि तिपल्लिदोवमाहियवेत्थावट्ठसागरोवमाणि परिगालिय णवुसयवेदस्स जहण्णसामित्त जाद,
तो वि पुव्वित्तलदन्नादो अणतगुणमेव णवुसयवेदद्वय होइ, देसधाइपडिभागियत्तादो । जयध०

२ कुदो, णवुसयवेदजहण्णसामियस्सेवित्थिवेदजहण्णसामियस्स तिसु पल्लिदोवमेसु परिवभमणाभा-
वादो । जयध०

३ कुदो, इत्थिवेदजहण्णसामियस्सेव पयदजहण्णसामियस्स वेत्थावट्ठसागरोवमाण परिवभमणादो ।

४ कुदो, विज्झादभागहारोवट्ठिट्ठददिवड्ढगुणहाणिमेत्ते इत्थियसमयपवद्धेहितो अधापवत्तभागहारो-
वट्ठिट्ठपच्चिदियसमयपवद्धस्सासखेज्जगुणत्तुवलभादो । जयध०

५ कि कान्ण ? कोहसजलणदब्बमेयसमयपवद्धस्स चउवभागमेत्तं, माणसजलणद्वय पुण तत्तियभाग-
मेत्तं . तेण विसेसाहिच्च जाद । जयध०

६ कुदो, समयपवद्धवहुभागपमाणत्तादो । जयध०

७ कुदो, दोणं पि समयपवद्धवपमाणत्ताविसेसे वि णोकसायभागादो कसायभागस्स पयडिविसेस-
मेत्तेणाहियत्तवसणादो । जयध०

१९६. हस्से जहणपदेससंक्रमो असंखेज्जगुणो^१ । १९७. रदीए जहणपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । १९८. दुगंछाए जहणपदेससंक्रमो संखेज्जगुणो^२ । १९९. भए जहणपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । २००. लोभसंजलणे जहणपदेससंक्रमो विसेसाहिओ^३ ।

२०१. गिरयगईए सव्वत्थोवो सम्मत्ते जहणपदेससंक्रमो । २०२. सम्मामिच्छत्ते जहणपदेससंक्रमो असंखेज्जगुणो । २०३. अणंताणुर्वधिमाणे जहणपदेससंक्रमो असंखेज्जगुणो । २०४. कांहे जहणपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । २०५. मायाए जहणपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । २०६. लोभे जहणपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । २०७. मिच्छत्ते जहणपदेससंक्रमो असंखेज्जगुणो^४ । २०८. अपच्चवखाणमाणे जहणपदेससंक्रमो असंखेज्जगुणो^५ । २०९. कांहे जहणपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । २१०. मायाए

प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । संज्वलनमायासे हास्यमे जघन्य प्रदेशसंक्रमण असंख्यातगुणित होता है । हास्यसे रतिमें जघन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । रतिसे जुगुप्सामे जघन्य प्रदेशसंक्रमण संख्यातगुणित होता है । जुगुप्सासे भयमे जघन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । भयसे संज्वलनलोभमे जघन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है ॥१८८-२००॥

चूर्णिसू०—गतिमार्गणाकी अपेक्षा नरकगतिमें सम्यक्त्वप्रकृतिमे जघन्य प्रदेशसंक्रमण सबसे कम होता है । सम्यक्त्वप्रकृतिसे सम्यग्मिथ्यात्वमे जघन्य प्रदेशसंक्रमण असंख्यातगुणित होता है । सम्यग्मिथ्यात्वसे अनन्तानुबन्धी मानसे जघन्य प्रदेशसंक्रमण असंख्यातगुणित होता है । अनन्तानुबन्धी मानसे अनन्तानुबन्धी क्रोधमें जघन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । अनन्तानुबन्धी क्रोधसे अनन्तानुबन्धी मायामे जघन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । अनन्तानुबन्धी मायासे अनन्तानुबन्धी लोभमे जघन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । अनन्तानुबन्धी लोभसे मिथ्यात्वमे जघन्य प्रदेशसंक्रमण असंख्यातगुणित होता है । मिथ्यात्वसे अप्रत्याख्यानमानसे जघन्य प्रदेशसंक्रमण असंख्यातगुणित होता है । अप्रत्याख्यानमानसे अप्रत्याख्यानक्रोधमें जघन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । अप्रत्याख्यानक्रोधसे अप्रत्याख्यानमायामे जघन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । अप्रत्याख्यानमायासे

१ कुदो, अधापवत्तभागहारोवट्ठददिवड्ढगुणहाणिमेत्तेइदियसमयपवद्धेसु असखेज्जाण पच्चिदियसमयपवद्धाणमुव्वलभादो । जयध०

२ कुदो, हस्स-रदिपडिवड्ढवधकाले वि दुगुछाए वधमभवादो । जयध०

३ कंत्तियमेत्तेण ? चउव्भागमेत्तेण ? कुदो; णोकसायपचभागमेत्तेण भयदव्वेण कसायचउव्भागमेत्तलोहसजलणजहणसक्रमदव्वे ओवट्ठदे सचउव्भागेरुवागमदसणादो । जयध०

४ टोण्हमेदेसि जइ वि थोव्वण तेत्तीससागरोप्रममेत्तगोवुच्छगालणेण सम्माइट्ठिचरिसममयग्मि विज्जादसक्रमेण जहणसामित्तपविसिट्ठ तो वि पुट्ठिवल्लादो एदस्सासखेज्जगुणत्तमविदद्ध, अधापवत्तभागहारमभवासभवकयवित्तेसोववत्तीदो । जयध०

५ कि कारण ? खविदकम्ममियलव्वखणेणागतूण णेरइएसुप्पणपट्टमसमए अधापवत्तसक्रमेणदस्स सामित्तावलवणादो । जयध०

जहणपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । २११. लोभे जहणपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । २१२. यच्चखाणमाणे जहणपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । २१३. कोहे जहणपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । २१४. मायाए जहणपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । २१५. लोभे जहणपदेससंक्रमो विसेसाहिओ ।

२१६. इत्थिवेदे जहणपदेससंक्रमो अणंतगुणो^१ । २१७. णचुंसयवेदे जहणपदेससंक्रमो संखेज्जगुणो^२ । २१८. पुरिसवेदे जहणपदेससंक्रमो असंखेज्जगुणो^३ । २१९. हस्से जहणपदेससंक्रमो संखेज्जगुणो^४ । २२०. रदीए जहणपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । २२१. सोगे जहणपदेससंक्रमो संखेज्जगुणो । २२२. अरदीए जहणपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । २२३. दुगुंछाए जहणपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । २२४. भये जहणपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । २२५. माणसंजलणे जहणपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । २२६. कोहसंजलणे जहणपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । २२७. मायासंजलणे जहणपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । २२८. लोहसंजलणे जहणपदेससंक्रमो विसेसाहिओ ।

अप्रत्याख्यान लोभमे जघन्य प्रदेगसंक्रमण विशेष अधिक होता है । अप्रत्याख्यानलोभसे प्रत्याख्यानमानमे जघन्य प्रदेगसंक्रमण विशेष अधिक होता है । प्रत्याख्यानमानसे प्रत्याख्यान क्रोधमे जघन्य प्रदेगसंक्रमण विशेष अधिक होता है । प्रत्याख्यानक्रोधसे प्रत्याख्यानमायामे जघन्य प्रदेगसंक्रमण विशेष अधिक होता है । प्रत्याख्यानमायासे प्रत्याख्यानलोभमे जघन्य प्रदेगसंक्रमण विशेष अधिक होता है ॥२०१-२१५॥

चूर्णिसू०—प्रत्याख्यानलोभसे स्त्रीवेदमे जघन्यप्रदेशसंक्रमण अनन्तगुणित होता है । स्त्रीवेदसे नपुंसकवेदमे जघन्य प्रदेगसंक्रमण संख्यातगुणित होता है । नपुंसकवेदसे पुरुषवेदमे जघन्य प्रदेगसंक्रमण असंख्यातगुणित होता है । पुरुषवेदसे हान्यमे जघन्य प्रदेगसंक्रमण संख्यातगुणित होता है । हान्यसे रतिमे जघन्य प्रदेगसंक्रमण विशेष अधिक होता है । रतिसे शोकमे जघन्य प्रदेगसंक्रमण संख्यातगुणित होता है । शोकसे अरतिमे जघन्य प्रदेगसंक्रमण विशेष अधिक होता है । अरतिसे जुगुप्तामे जघन्य प्रदेगसंक्रमण विशेष अधिक होता है । जुगुप्तासे भयमे जघन्य प्रदेगसंक्रमण विशेष अधिक होता है । भयसे संज्वलनमानमे जघन्य प्रदेगसंक्रमण विशेष अधिक होता है । संज्वलनमानसे संज्वलनक्रोधमे जघन्य प्रदेगसंक्रमण विशेष अधिक होता है । संज्वलनक्रोधसे संज्वलनमायामे जघन्य प्रदेगसंक्रमण विशेष अधिक होता है । संज्वलनमायासे संज्वलनलोभमे जघन्य प्रदेगसंक्रमण विशेष अधिक होता है ॥२१६-२२८॥

१ जइ वि सम्मत्तगुणपाहम्मणित्थीवेदस्स वधवोच्छेद काडूण तेत्तीससागरोवमाणि देवणाणि गालिय विज्जादसक्रमेण जहणसामित्त जाद, तो वि देसघादिमाहप्येणाणतगुणत्तमेदस्स पुब्बिह्लादो ण विरुज्झदे ।

२ कुदो, वधगद्धावधेणेदस्स तत्तो सखेज्जगुणन् पडि विरोहाभावादो । जयध०

३ कुदो, खविदकम्मसियल्लखणेणागतूण णेरइएसुप्पणस्स पडिवकखवधगद्धामेत्तगलणेण पुरिसवेदस्स अवापवत्तसकमणिव धणजहणसामित्तावलवणादो । जयध०

४ कुदो, वधगद्धापडिवद्धगुणगारस्स तहाभावोवलभादो । जयध०

२२९. जहा गिरयगईए, तहा तिरिक्खगईए । २३०. देवगईए णाणत्तं; णवुंसयवेदादो इत्थिवेदो असंखेज्जगुणो^१ ।

२३१. एइंदिएसु सव्वत्थोवो सम्मत्ते जहणपदेससंकमो । २३२. सम्मा-
मिच्छत्ते जहणपदेससंकमो असंखेज्जगुणो । २३३. अणंताणुवंधिमाणे जहणपदेससंकमो
असंखेज्जगुणो^२ । २३४. कोहे जहणपदेससंकमो विसेसाहिओ । २३५. मायाए
जहणपदेससंकमो विसेसाहिओ । २३६. लोहे जहणपदेससंकमो विसेसाहिओ । २३७.
अपच्चक्खाणमाणे जहणपदेससंकमो असंखेज्जगुणो^३ । २३८. कोहे जहणपदेससंकमो
विसेसाहिओ । २३९. मायाए जहणपदेससंकमो विसेसाहिओ । २४०. लोभे जहण-
पदेससंकमो विसेसाहिओ । २४१. पच्चक्खाणमाणे जहणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।
२४२. कोहे जहणपदेससंकमो विसेसाहिओ । २४३. मायाए जहणपदेससंकमो

चूर्णिसू०—जिस प्रकार नरकगतिमे यह जघन्य प्रदेशसंक्रमणका अल्पवहुत्व कहा है, उसी प्रकारसे तिर्यचगतिमे भी जानना चाहिए । (मनुष्यगनिका जघन्य प्रदेशसंक्रमण-सम्बन्धी अल्पवहुत्व ओषके समान है ।) देवगतिमे कुछ विभिन्नता है, वहाँपर नपुंसकवैद-से स्त्रीवैदका जघन्य प्रदेशसंक्रमण असंख्यातगुणित होता है ॥२२९-२३०॥

चूर्णिसू०—इन्द्रियमार्गणाकी अपेक्षा एकेन्द्रियोमे सम्यक्त्वप्रकृतिमे जघन्य प्रदेशसंक्रमण सबसे कम होता है । सम्यक्त्वप्रकृतिसे सम्यग्मिथ्यात्वमे जघन्य प्रदेशसंक्रमण असंख्यातगुणित होता है । सम्यग्मिथ्यात्वसे अनन्तानुबन्धी मानमें जघन्य प्रदेशसंक्रमण असंख्यातगुणित होता है । अनन्तानुबन्धी मानसे अनन्तानुबन्धी क्रोधमे जघन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । अनन्तानुबन्धी क्रोधसे अनन्तानुबन्धी मायामें जघन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । अनन्तानुबन्धी मायासे अनन्तानुबन्धी लोभमे जघन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । अनन्तानुबन्धी लोभसे अप्रत्याख्यान मानमे जघन्य प्रदेशसंक्रमण असंख्यातगुणित होता है । अप्रत्याख्यानमानसे अप्रत्याख्यानक्रोधमे जघन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । अप्रत्याख्यानक्रोधसे अप्रत्याख्यानमायामे जघन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । अप्रत्याख्यानमायासे अप्रत्याख्यानलोभमे जघन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । अप्रत्याख्यानलोभसे प्रत्याख्यानमानमे जघन्यप्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । प्रत्याख्यान-

१ (कुदो,) गिरयगईए तिरिक्खगईए च इत्थिवेदादो णवुंसयवेदस्स असंखेज्जगुणत्तोवलभादो ।

२ कुदो; अधापवत्तभागहारवग्गेण खड्दिददिवड्ढगुणहाणिमेत्तजहणसमयपवद्धपमाणत्तादो । त पि कुदो ? विसजोयणापुव्वसजोमेण सेसकसाएहितो अधापवत्तसकमेणेण पडिन्धिदखविदकम्मसियदव्वेण सह समयविरोहेण सव्वलहुमेइदिएसुप्पणस्स पढमसमए अधापवत्तसकमेणेण पयटजहणणसामित्तावलवणादो ।

३ कुदो, खविदकम्मसियलक्खणेणागतूण दिवड्ढगुणहाणिमेत्तजहणसमयपवड्ढेहिं सह एइदिएसुप्पणपढमसमए अधापवत्तसकमेणेण पडिलद्धजहणभावत्तादो । जयध०

विसेसाहिओ । २४४. लोभे जहणपदेससंक्रमो विसेसाहिओ ।

२४५. पुरिसवेदे जहणपदेससंक्रमो अणंतगुणो^१ । २४६. इत्थिवेदे जहणपदेससंक्रमो संखेज्जगुणो^२ । २४७. हरसे जहणपदेससंक्रमो संखेज्जगुणो । २४८. रदीए जहणपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । २४९. सोगे जहणपदेससंक्रमो संखेज्जगुणो^३ । २५०. अरदीए जहणपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । २५१. णवुंसयवेदे जहणपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । २५२. दुगुंछाए जहणपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । २५३. भए जहणपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । २५४. माणसजलणे जहणपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । २५५. क्रोहे जहणपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । २५६. मायाए जहणपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । २५७ लोहे जहणपदेससंक्रमो विसेसाहिओ ।

२५८. भुजगारस्स अट्टपदं । २५९. एण्ह पदेसे बहुदरगे संकामेदि त्ति उस्सककाविदे अप्पदरसंकामदो एसो भुजगारसंकमो^४ । २६०. एण्ह पदेसे अप्पदरगे

क्रोधसे प्रत्याख्यानमायामे जघन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । प्रत्याख्यानमायासे प्रत्याख्यानलोभमे जघन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है ॥२३१-२४४॥

चूर्णिसू०—प्रत्याख्यानलोभसे पुरुषवेदमे जघन्य प्रदेशसंक्रमण अनन्तगुणित होता है । पुरुषवेदसे स्त्रीवेदमे जघन्य प्रदेशसंक्रमण संख्यातगुणित होता है । स्त्रीवेदसे हास्यमे जघन्य प्रदेशसंक्रमण संख्यातगुणित होता है । हास्यसे रतिमे जघन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । रतिसे शोकमे जघन्य प्रदेशसंक्रमण संख्यातगुणित होता है । शोकसे अरतिमे जघन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । अरतिसे नपुंसकवेदमे जघन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । नपुंसकवेदसे जुगुप्सामे जघन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । जुगुप्सासे भयमे जघन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । भयसे संज्वलनमानमे जघन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । संज्वलनमानसे संज्वलनक्रोधमे जघन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । संज्वलनक्रोधसे संज्वलनमायासे जघन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है । संज्वलनमायासे संज्वलनलोभमे जघन्य प्रदेशसंक्रमण विशेष अधिक होता है ॥२४५-२५७॥

चूर्णिसू०—अव प्रदेशसंक्रमण सम्बन्धी भुजाकार कहते हैं । उसका यह अर्थपद है । अनन्तर-व्यतिक्रान्त समयमे अल्पतरसंक्रमण करके इस समय (वर्तमान समय) में बहुतर कर्मप्रदेशोका संक्रमण करता है, यह भुजाकार संक्रमण है । अनन्तर-व्यतिक्रान्त

१ कुदो, देसघादिकारणावेक्खित्तादो । जयध०

२ कुदो, वधगद्दावसेण तावदिगुणत्तोवलभादो । जयध०

३ कुदो; पुत्विट्त्ववधगद्दादो सखेज्जगुणवधगद्दाए सच्चिट्ठदब्बाणुसारेण सकमपवुत्तिअब्भुवगमादो ।

४ कुदो उण तारिसस्स सकममेदस्स भुजगारववएसो ? ण, बहुदरीकरण च भुजगारो त्ति तस्स तच्चवएसोववत्तीदो । जयध०

-- ताम्रपत्रवाली प्रतिमे 'संखेज्जगुणो'के स्थानपर 'विसेसाहिओ' पाठ मुद्रित है । पर टीकाके अनुमार वह अशुद्ध है । (देखो पृ० १२४०)

संक्रामेदि त्ति ओसक्काविदे बहुदरपदेससंक्रामादो एस अप्पयरसंक्रमो^१ । २६१.
ओसक्काविदे एण्ह च तत्तिगे चैव पदेसे संक्रामेदि त्ति एस अवट्ठिदसंक्रमो^२ । २६२.
असंक्रामादो संक्रामेदि त्ति अवत्तव्वसंक्रमो^३ ।

२६३. एदेण अट्टपदेण तत्थ समुक्कित्तणा । २६४. मिच्छत्तस्स भुजगार-
अप्पदर-अवट्ठिद-अवत्तव्व-संक्रामया अत्थि^४ । २६५. एवं सोलसकसाय-पुरिसवेद-भय-
दुगुंछाणं^५ । २६६. एवं चैव सम्मत्त-सम्पामिच्छत्त-इत्थि-णवुंसयवेद-हस्स-रइ-अरइ-
सोगाणं । २६७. णवरि अवट्ठिदसंक्रामणा णत्थि ।

समयमें बहुतर प्रदेशोंका संक्रमण करके वर्तमान समयमें अल्पतर प्रदेशोंका संक्रमण करता है, यह अल्पतरसंक्रमण है । अनन्तर-व्यतिक्रान्त समयमें जितने प्रदेशोंका संक्रमण किया है, वर्तमान समयमें भी उतने ही प्रदेशोंका संक्रमण करता है, यह अवस्थितसंक्रमण है । अनन्तर-व्यतिक्रान्त समयमें कुछ भी संक्रमण न करके वर्तमान समयमें संक्रमण करता है, यह अवक्तव्यसंक्रमण है । इस अर्थपदके द्वारा भुजाकारसंक्रमणकी पहले समुत्कीर्तना की जाती है—मिथ्यात्वके भुजाकार, अल्पतर, अवस्थित और अव्यक्तव्य संक्रामक होते हैं । इसी प्रकार सोलह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साके चारों प्रकारके संक्रामक होते हैं । इस ही प्रकार सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोकप्रकृतियोंके संक्रामक जानना चाहिए । विशेषतया केवल यह है कि इनके अवस्थितसंक्रामक नहीं होते हैं ॥ २५८-२६७ ॥

१ अथ सूत्रार्थः—इदानीमल्पतरकान् प्रदेशान् सक्रमयतीत्ययमल्पतरसंक्रमः । कुतोऽल्पतरत्वमिदानी-
तनस्य प्रदेशसंक्रमस्य विवक्षितमिति चेदनन्तरातिक्रान्तसमयसम्बन्धिवहुतरप्रदेशसंक्रमविशेषादिति । जयध०

२ अनन्तरव्यतिक्रान्तसमये साम्प्रतिके च समये तावन्त एव प्रदेशानन्यूनाधिकान् सक्रामयतीत्यतोऽ-
वस्थितसंक्रम इत्युक्तं भवति । जयध०

३ पूर्वमसक्रामादिदानीमेव संक्रमपर्यायमभूत्पूर्वमास्फन्दतीत्यस्या विवक्षायामवत्तव्यसंक्रामस्यात्मलाभ-
इत्युक्तं भवति । अस्य चात्रक्तव्यव्यपदेशोऽवस्थात्रयप्रतिपादकैरभिलाषैरनभिलाष्यत्वादिति । जयध०

४ त जहा—अट्टावीससतकम्मियमिच्छाइट्ठिणा वेदगसम्मत्ते पडिवण्णे पढमसमये मिच्छत्तस्स विज्जा-
देणावत्तव्वसक्रमो होइ । पुणो विदियादिसमएसु भुजगारसक्रमो अवट्ठिदसक्रमो अप्पयरसक्रमो होइ जाव
आवलियसम्माइट्ठि त्ति । तत्तो उवरि सव्वत्थ वेदयसम्माइट्ठिम्मि अप्पयरसक्रमो जाव ढसणमोहकखवणाए
अपुव्वकरण पविट्ठस्स गुणसक्रमपारभो त्ति । गुणसक्रमविसए सव्वत्थेव भुजगारसक्रमो दट्ठव्वो । उवसम-
सम्मत्त पडिवण्णस्स वि पढमसमए अवत्तव्वसक्रमो, विदियादिमएसु भुजगारसक्रमो जाव गुणसक्रमचरिम-
समयो ज्जि । तदो विज्जादसक्रमविसए सव्वत्थ अप्पयरसक्रमो त्ति वेत्तव्व । जयध०

५ जत्थागमादो णिज्जरा थोवा, तत्थ भुजगारसक्रमो, जत्थागमादो णिज्जरा बहुगी, एयतणिज्जरा चैव
वा, तत्थ अप्पयरसक्रमो । जम्हि विसए ढोण्ह पि सरिसभावो, तम्हि अवट्ठिदसक्रमो । असक्रामादो सक्रमो
जत्थ, तत्थावत्तव्वसक्रमो त्ति पुव्व व सव्वमेत्थाणुगतव्व । णवरि अवत्तव्वसक्रमो वारसकसाय पुरिसवेद भय-
दुगुंछाण सव्वोवमामणापडिवादे, अणताणुवधीण च विसजोयणा अपुव्वमजोगे दट्ठव्वो । जयध०

२६८. सामित्तं । २६९. मिच्छत्तस्स भुजगारसंकामगो को होइ ? २७०. पहमसम्मत्तमुप्पादयमाणगो पहमसमए अवत्तव्वसंकामगो^१ । सेसेसु समएसु जाव गुण-संकमो ताव भुजगारसंकामगो^२ । २७१. जो वि दंसणमोहणीयक्खवगो अपुच्चकरणस्स पहमसमयमादिं कादूण जाव मिच्छत्तं सव्वसंकमेण संलुहदि त्ति ताव मिच्छत्तस्स भुजगारसंकामगो^३ । २७२. जो वि पुव्वुप्पण्णेण सम्मत्त ण मिच्छत्तादो सम्मत्तमागदो तस्स पहमसमयसम्माइड्डिस्स जं वंधादो आवलियादीदं मिच्छत्तस्स पदेसग्गं तं विज्झाद-संकमेण संकामेदि आवलियचरिमसमयमिच्छाइड्डिमादिं कादूण जाव चरिमसमयमिच्छा-इड्डि त्ति एत्थ जे समयपवद्धा ते समयपवद्धे पहमसमयसम्माइड्डि त्ति ण संकामेइ । से कालप्पहुडि जस्स जस्स वंधावलिया पुण्णा तदो तदो सो संकामिज्जदि । एवं पुव्वुप्पा-इदेण सम्मत्तेण जो सम्मत्तं पडिवज्जइ तं दुसमयसम्माइड्डिमादिं कादूण जाव आवलि-

चूर्णिसू०—अव भुजाकार प्रदेशसंक्रमणके स्वामित्वको कहते है ॥२६८॥

शंका—मिथ्यात्वका भुजाकार-संक्रामक कौन है ? ॥२६९॥

समाधान—प्रथमोपशमसम्यक्त्वको उत्पन्न करनेवाला जीव प्रथम समयमे मिथ्यात्वका अवक्तव्यसंक्रामक है । शेष समयोमे जव तक गुणसंक्रमण रहता है, तव तक वह मिथ्यात्व का भुजाकार-संक्रामक है ॥२७०॥

अव प्रकारान्तरसे भुजाकारसंक्रमके स्वामित्वको कहते है—

चूर्णिसू०—और जो दर्शनमोहनीयका क्षपण कर रहा है, वह अपूर्वकरणके प्रथम समयको आदि लेकर जव तक सर्वसंक्रमणसे मिथ्यात्वका संक्रमण करता है, तव तक मिथ्यात्वका भुजाकारसंक्रामक रहता है । तथा जिसने पूर्वमे सम्यक्त्व उत्पन्न किया है, वह जीव मिथ्यात्वसे सम्यक्त्वमे आया, उस प्रथम समयवर्ती सम्यग्दृष्टिके जो बन्ध-समयके पश्चात् एक आवली अतीत काल तकके मिथ्यात्वके प्रदेशाग्र है, उन्हे विध्यातसंक्रमणसे संक्रामित करता है । चरम आवलीकालवाले चरमसमयवर्ती मिथ्यादृष्टिको आदि करके जव तक वह चरमसमयवर्ती मिथ्यादृष्टि है, तव तक इस अन्तरालमे जो समयप्रवद्ध बाँधे है, उन समयप्रवद्धोको प्रथम समयवर्ती सम्यग्दृष्टि होने तक संक्रमण नहीं करता है । तदनन्तरकालसे लेकर जिन जिनकी बंधावली पूर्ण हो जाती है, उन उन कर्मप्रदेशोको वह संक्रमण करता है । इस प्रकार पूर्वोत्पादित सम्यक्त्वके साथ जो सम्यक्त्वको प्राप्त होता है, उस द्वितीय समयवर्ती सम्यग्दृष्टिको आदि करके जव तक आवलीकालवर्ती सम्यग्दृष्टि रहता है, तव तक

१ (कुदो,) पुव्वमसंकतस्स तस्स ताघे चेव सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तसरूवेण सकतिदसणादो । जयध०

२ कुदो, पडिसमयमसखेज्जगुणाए सेठीए गुणसकमेण मिच्छत्तपदेसग्गस्स तत्थ सकतिदसणादो । जयध०

३ अपुव्वकरणद्वाए सव्वत्थ अणियट्ठिकरणद्वाए च जाव मिच्छत्तस्स सव्वसंकमसमयो ताव अतो-सुहत्तमेत्तकालं गुणसकमेण भुजगारसंकामगो होइ त्ति भणिद होइ । जयध०

यसम्माइडि त्ति ताव मिच्छत्तस्स भुजगारसंकमो होज्ज । २७३. ण हु सव्वत्थ आव-
लियाए भुजगारसंकमो जहण्णेण एयसमओ । २७४. उक्कस्सेणावलिया समयूणा ।

२७५. एवं तिसु कालेषु मिच्छत्तस्स भुजगारसंकामगो । २७६. तं जहा ।
२७७. उवसामग-दुसमयसम्माइडिमादिं कादूण जाव गुणसंकमो त्ति ताव गिरंतरं
भुजगारसंकमो । २७८. खवगस्स वा जाव गुणसंकमेण खविज्जदि मिच्छत्तं ताव
गिरंतरं भुजगारसंकमो । २७९. पुव्वुप्पादिदेण वा सम्मत्तेण जो सम्मत्तं पडिवज्जदि
तं दुसमयसम्माइडिमादिं कादूण जाव आवलियसम्माइडि त्ति एत्थ जत्थ वा तत्थ वा
जहण्णेण एयसमयं उक्कस्सेण आवलिया समयूणा भुजगारसंकमो होज्ज । २८०.
एवमेदेषु तिसु कालेषु मिच्छत्तस्स भुजगारसंकमो । २८१. सेसेसु समएसु जइ संकामगो
अप्पयरसंकामगो वा अवत्तव्वसंकामगो वा । २८२. अवड्ढिदसंकामगो मिच्छत्तस्स को
होइ ? २८३. पुव्वुप्पादिदेण सम्मत्तेण जो सम्मत्तं पडिवज्जदि जाव आवलियसम्माइडि
त्ति एत्थ होज्ज अवड्ढिदसंकामगो । अण्णम्मि णत्थि ।

उसके मिथ्यात्वका भुजाकारसंक्रमण होता रहता है । आवलीके भीतर सर्वत्र भुजाकार-
संक्रमण नहीं होता, किन्तु जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे एक समय कम आवली तक
होता है ॥२७१-२७४॥

अव चूर्णिकार उपर्युक्त अर्थका उपसंहार करते हैं—

चूर्णिसू०—इस प्रकार तीन अवसरोंमें जीव मिथ्यात्वका भुजाकारसंक्रमण करता
है । वे तीन अवसर इस प्रकार हैं—उपशामक द्वितीय-समयवर्ती सम्यग्दृष्टिको आदि लेकर
जब तक गुणसंक्रमण रहता है, तब तक निरन्तर भुजाकारसंक्रमण होता है । अथवा क्षपकके
जब तक गुणसंक्रमणसे मिथ्यात्व क्षपित किया जाता है, तब तक निरन्तर भुजाकारसंक्रमण
होता है । अथवा जिसने पूर्वमे सम्यक्त्व उत्पन्न किया है, ऐसा जो जीव सम्यक्त्वको
प्राप्त होता है, उस द्वितीय-समयवर्ती सम्यग्दृष्टिको आदि करके आवलीके पूर्ण होने तक उस
सम्यग्दृष्टिके इस अवसरमे जहां-कहीं जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे एक समय कम
आवली तक भुजाकारसंक्रमण हो सकता है । इस प्रकार इन तीन कालोंमें मिथ्यात्वका
भुजाकारसंक्रमण होता है ॥२७५-२८०॥

चूर्णिसू०—उक्त तीनों अवसरोंके जेप समयोंमे यदि संक्रमण करता है, तो या तो
अल्पतरसंक्रमण करता है, अथवा अवक्तव्यसंक्रमण करता है ॥२८१॥

शंका—मिथ्यात्वका अवस्थितसंक्रामक कौन जीव है ? ॥२८२॥

समाधान—जिसने पूर्वमे सम्यक्त्व उत्पन्न किया है, ऐसा जो जीव सम्यक्त्वको
प्राप्त करता है, वह जब तक आवली-प्रविष्ट सम्यग्दृष्टि है, तब तक इस अन्तरालमे वह अव-
स्थित-संक्रामक हो सकता है । अन्य अवसरमे अवस्थितसंक्रामक नहीं होता ॥२८३॥

२८४. सम्पत्तस्स भुजगारसंक्रामगो को होदि ? २८५. सम्पत्तमुव्वेह्णमाणयस्स अपच्छिमे द्विदिखंडए सव्वम्हि चैव भुजगारसंक्रामगो^१ । २८६. तव्वदिरित्तो जो संक्रामगो सो अप्परसंक्रामगो वा अवत्तव्वसंक्रामगो वा^२ । २८७. सम्पामिच्छत्तस्म भुजगारसंक्रामगो को होइ ? २८८. उव्वेल्लमाणयस्स अपच्छिमे द्विदिखंडए सव्वम्हि चैव^३ । २८९. खवगस्स वा जाव गुणसंक्रमेण संछुहदि सम्पामिच्छत्तं ताव भुजगारसंक्रामगो^४ । २९०. पढममस्सत्तमुप्पादयमाणयस्स वा तदियसमयप्पहुडि जाव विज्जादसंक्रमपढमसमयादो त्ति^५ । २९१. तव्वदिरित्तो जो संक्रामगो सो अप्परसंक्रामगो वा अवत्तव्वसंक्रामगो वा ।

शंका—सम्यक्त्वप्रकृतिका भुजाकार-संक्रमण कौन करता है ? ॥२८४॥

समाधान—सम्यक्त्वप्रकृतिकी उद्वेलना करनेवाले जीवके अन्तिम स्थितिखंडके सर्व ही कालमें भुजाकारसंक्रमण होता है । भुजाकार-संक्रमणके अतिरिक्त यदि वह संक्रामक है, तो या तो अल्पतरसंक्रमण करता है, अथवा अवक्तव्यसंक्रमण करता है ॥२८५-२८६॥

शंका—सम्यग्मिथ्यात्वका भुजाकारसंक्रमण कौन करता है ? ॥२८७॥

समाधान—सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना करनेवाले जीवके अन्तिम स्थितिखंडके सर्व ही कालमें सम्यग्मिथ्यात्वका भुजाकारसंक्रमण होता है । अथवा क्षणिकके जब तक वह गुणसंक्रमणसे सम्यग्मिथ्यात्वको संक्रमित करता है, तब तक वह भुजाकार-संक्रामक है । अथवा प्रथमोपशमसम्यक्त्वको उत्पन्न करनेवाले जीवके तृतीय समयसे लेकर विध्यातसंक्रमणके प्रथम समय तक सम्यग्मिथ्यात्वका भुजाकारसंक्रमण होता है । सम्यग्मिथ्यात्वके भुजाकारसंक्रमणके अतिरिक्त यदि वह संक्रामक है, तो या तो अल्पतरसंक्रामक है, अथवा अवक्तव्यसंक्रामक है ॥२८८-२९१॥

विशेषार्थ—सम्यग्मिथ्यात्वका भुजाकारसंक्रमण तीन प्रकारसे बतलाया गया है । इनमें प्रथम और द्वितीय प्रकार तो स्पष्ट हैं । तीसरे प्रकारका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्तासे रहित मिथ्यादृष्टि जीव जब प्रथमोपशमसम्यक्त्वको उत्पन्न करता है, तब उसके प्रथम समयमें सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्ता होती है और द्वितीय समयमें अवक्तव्यसंक्रमण होता है । पुनः उसके तृतीयादि समयोंमें गुणसंक्रमणके वशसे भुजाकारसंक्रमण

१ कुदो, तत्थ गुणसकमणियमदसणादो । जयध०

२ कि कारण ? उव्वेल्लणचरिमट्ठिदिखंडयादो अण्णत्थ जहासभवमप्पदरावत्तव्वसकमाण चैव सभवदसणादो । जयध०

३ कुदो, तत्थ गुणसकमणियमदसणादो । जयध०

४ कुदो, दसणमोहक्खवयापुव्वकरणपढमसमयप्पहुडि जाव सव्वसकमो त्ति ताव सम्पामिच्छत्तस्स गुणसकमसभववसेण तत्थ भुजगारसिद्धीए विस्वादाभावादो । जयध०

५ जदो एद देसामानिय, तदो मम्मइट्ठिणा मिच्छत्ते पडिबण्णे तप्पढमसमयम्मि अधापवत्तसंक्रमेण भुजगारसकमो होइ, तहा उव्वेल्लमाणमिच्छाइट्ठिणा वेदयममत्ते गहिदे तस्स पढममए वि विज्जादसकमेण भुजगारसकमभवो वत्तव्वो । जयध०

२९२. सोलसकसायाणं भुजगारसंक्रामगो अप्पदरसंक्रामगो अवट्टिदसंक्रामगो अवत्तव्वसंक्रामगो क्को होदि ? २९३. अण्णदरो^१ । २९४. एवं पुरिसवेद-भय-दुगुंछाणं । २९५. णवरि पुरिसवेद-अवट्टिदसंक्रामगो णियमा सम्माइठ्ठी^२ । २९६. इत्थि-णवुंसयवेद-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं भुजगार-अप्पदर अवत्तव्वसंक्रामो कस्स ? २९७. अण्णदरस्स ।

२९८. कालो एयजीवस्स । २९९. मिच्छत्तस्स भुजगारसंक्रामो केवचिरं कालादो

होता है । यह क्रम विध्यातसंक्रमणको प्रारम्भ करनेके प्रथम समय तक जारी रहता है । यह कथन सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्ता नहीं रखनेवाले मिथ्यादृष्टिकी अपेक्षा किया गया है । किन्तु जिस मिथ्यादृष्टिके उसकी सत्ता है, वह जब उपशमसम्यक्त्व उत्पन्न करता है, तत्र उसके प्रथम समयसे लेकर गुणसंक्रमणके अन्तिम समय तक भुजाकारसंक्रमण होता रहता है । यतः यह सूत्र देशामर्शक है, अतः यह भी सूचित करता है कि सम्यग्दृष्टिके मिथ्यात्वको प्राप्त होनेपर उसके प्रथम समयमें अधःप्रवृत्तसंक्रमण होनेसे भुजाकारसंक्रमण होता है । तथा सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना करनेवाला मिथ्यादृष्टि जब वेदकसम्यक्त्वको ग्रहण करता है, तत्र उसके प्रथम समयमें भी विध्यातसंक्रमणके होनेसे भुजाकारसंक्रमणका होना संभव है ।

शंका—अनन्तानुबन्धी आदि सोलह कपायोका भुजाकारसंक्रामक, अल्पतरसंक्रामक, अवस्थितसंक्रामक और अवक्तव्यसंक्रामक कौन है ? ॥२९२॥

समाधान—यथासंभव कोई एक सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि जीव चारों प्रकारके संक्रमणोंका संक्रामक होता है ॥२९३॥

चूर्णिसू०—इसी प्रकार पुरुषवेद भय और जुगुसाके भुजाकारादि संक्रामक जानना चाहिए । विशेषता केवल यह है कि पुरुषवेदका अवस्थितसंक्रामक नियमसे सम्यग्दृष्टि जीव ही होता है ॥२९४-२९५॥

शंका—स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोकप्रकृतियोंका भुजाकार, अल्पतर और अवक्तव्य संक्रमण किसके होता है ? ॥२९६॥

समाधान—किसी एक सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टिके होता है ॥२९७॥

चूर्णिसू०—अव भुजाकारादि संक्रमणोंका एक जीवकी अपेक्षा काल कहते हैं ॥२९८॥

शंका—मिथ्यात्वके भुजाकारसंक्रमणका कितना काल है ? ॥२९९॥

१ अण्णताणुवधीण ताव भुजगारसंक्रामगो अण्णदरो मिच्छाइट्ठी सम्माइट्ठी वा होइ, मिच्छाइट्ठिम्मि गिरंतरवधीण तेषिं तदविरोहादो । सम्माइट्ठिम्मि वि गुणसंक्रमपरिणदम्मि सम्मत्तग्गहणपट्टमावल्लियाए वा विदियादिसमएसु तदुवल्लदीदो । अण्णताणुवधीणमवत्तव्वसंक्रामगो अण्णदरो त्ति वुत्ते विसजोयणापुव्वसजोगपट्टमसमयणवकवधमावल्लियादिककत सकामेमाणयस्स मिच्छाइट्ठिस्स सासणसम्माइट्ठिस्स वा गहण कायव्व । एव चैव सेसकसायाण पि भुजगारादिपदानमण्णदरसामित्ताहिग्गवधो अण्णगतव्वो । णवरि तेषिसवत्तव्वसंक्रामगो अण्णदरो सव्वोवसामणापडिवाट्टसमए वट्टमाणो सम्माइट्ठी चैव होइ, णाण्णो त्ति वत्तव्व ।

जयध०

२ कुदो, सम्माइट्ठीदो अण्णत्थ पुरिसवेदस्स गिरतरवधित्ताभावादो । ण च गिरतरवधेण विणा अवट्टिदसंक्रामसामित्तविहाणसभवो, विरोहादो । जयध०

होदि ? ३००. जहण्णेण एयसमओ^१ । ३०१. उक्कस्सेण आवलिया समयूणा^२ । ३०२. अधवा अंतोमुहुत्तं^३ । ३०३. अप्पयरसंकमो केवचिरं कालादो होदि ? ३०४. एको वा समयो जाव आवलिया दुसमयूणा^४ । ३०५. अधवा अंतोमुहुत्तं^५ । ३०६. तदो समयुत्तरो जाव छावट्ठि सागरोवमाणि सादिरेयाणि^६ । ३०७. अवट्ठिदसंकमो केवचिरं कालादो

समाधान—जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल एक समय कम आवलीप्रमाण है । अथवा गुणसंक्रमण-कालकी अपेक्षा मिथ्यात्वके भुजाकारसंक्रमणका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ॥ ३००-३०२ ॥

शंका—मिथ्यात्वके अल्पतरसंक्रमणका कितना काल है ? ॥ ३०३ ॥

समाधान—एक समय भी है, दो समय भी है, इस प्रकार समयोत्तर वृद्धिसे बढ़ते हुए दो समय कम आवली काल तक मिथ्यात्वका अल्पतरसंक्रमण होता है । अथवा वेदक-सम्यग्दृष्टिकी अपेक्षा मिथ्यात्वके अल्पतरसंक्रमणका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है । उससे लगाकर एक समय, दो समय आदिके क्रमसे उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ सातिरेक छयासठ सागरोपम तक मिथ्यात्वके अल्पतर संक्रमणका उत्कृष्ट काल है ॥ ३०४-३०६ ॥

शंका—मिथ्यात्वके अवस्थितसंक्रमणका कितना काल है ? ॥ ३०७ ॥

१ त जहा—पुच्चुप्पण्णेण सम्मत्तेण मिच्छत्तादो वेदगसम्मत्तमागयस्स पढमसमए विज्झादसंकमेणावत्तव्वसकमो होइ । विदियादीणमण्णदरसमए जत्थ वा तत्थ वा चरिमावलियमिच्छाइट्ठणा वट्ठिदूण वद्धणवक्कवसमयप्रवद्ध वधावलियाट्ठिककत भुजगारसत्त्वेण सकामिय तदणतरसमए अप्पदरमवट्ठिद वा गयस्स लद्धो मिच्छत्तभुजगारसकामयस्स जहण्णकालो एयसमयमेत्तो । जयध०

२ त कथ ? पुच्चुप्पण्णसम्मत्तपच्छायदमिच्छाइट्ठणा चरिमावलियाए णिरतरमुदयावलिय पविसमाणोवुच्छाहितो अब्भहियकमेण वविदूण वेदगसम्मत्ते पडिवण्णे तस्स पढमसमए अवत्तव्वसकमो होदूण पुणो विदियादिसमएसु पुच्चुत्तणवक्कवधवसेण णिरतर भुजगारसकमे सजादे लद्धो मिच्छत्तभुजगारसकमस्स समयूणावलियमेत्तो उक्कस्सकालो । जयध०

३ त जहा—दसणमोहमुवसामेतयस्स वा जाव गुणसंकमो ताव णिरतर भुजगारसकमो चेव, तत्थ पयारतरासभवादो । सो च गुणसकमकालो अतोमुहुत्तमेत्तो । तदो पयदुक्कस्सकालोवलभो ण विरुद्धो । जयध०

४ त जहा—तहाविहसम्माइट्ठणो पढमसमए अवत्तव्वसकामगो होदूण विट्ठियसमयम्मि अप्पयरसकमेण परिणमिय तदणतरसमए चरिमावलियमिच्छाइट्ठिवधवसेण भुजगारमवट्ठिदभाव वा गयस्स लद्धो एयसमयमेत्तो अप्पयरकालजहणवियणो । एव दुसमयतिसमयादिकमेण णेदव्व जाव आवलिया दुसमयूणात्ति । तत्थ चरिमवियणो वुच्चडे—पढमसमए अवत्तव्वसकामगो होदूण विदियादिसमएसु सव्वेसु चेव अप्पयरसकम कादूण पुणो पढमावलियचरिमसमए भुजगारावट्ठिदणमण्णयरसकमपजाय गदो लद्धो दुसमयूणावलियमेत्तो मिच्छत्तप्पयरसकमकालो । जयध०

५ त जहा—वहुसो दिट्ठमग्गेण मिच्छाइट्ठणा वेदगसम्मत्तमुप्पाइद । तस्स पढमावलियचरिमसमए पुच्चुत्तेण णाएण भुजगारसकम कादूण तदो अप्पयरसकमं पारमिय सव्वजहण्णेण कालेण मिच्छत्त-सम्मा-मिच्छत्ताणमण्णदरगुण गयस्स जहण्णतोमुहुत्तपमाणे अप्पयरकालवियणो लब्भदे ।

६ त जहा—अणादियमिच्छाइट्ठणा सम्मत्ते समुप्पाइदे अतोमुहुत्तकाल गुणसकमो होदि । तदो विज्झादे पदिट्ठस्स णिरतरमप्पयरसकमो होदूण गच्छदि जावतोमुहुत्तमेत्तुवसमसम्मत्तकालसेसो वेदगसम्मत्तकालो च देमूणछावट्ठिसागरोवममेत्तोत्ति । तत्थतोमुहुत्तसेने वेदगसम्मत्तकाले खवणाए अब्भुट्ठिदस्सा-

होदि ? ३०८. जहण्णेण एयसमओ । ३०९. उक्कस्सेण संखेज्जा समया । ३१०. अवत्तव्वसंक्रमो केवचिरं कालादो होदि ? ३११. जहण्णुक्कस्सेण एयसमओ' ।

३१२. सम्मत्तस्स भुजगारसंक्रमो केवचिरं कालादो होदि ? ३१३. जहण्णेण एयसमओ । ३१४. उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं^३ । ३१५. अप्पयरसंक्रमो केवचिरं कालादो होदि ? ३१६. जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । ३१७. उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो^३ । ३१८. अवत्तव्वसंक्रमो केवचिरं कालादो होदि ? ३१९. जहण्णुक्कस्सेण एयसमयो^३ ।

३२०. सम्मामिच्छत्तस्स भुजगारसंक्रमो केवचिरं कालादो होदि ? ३२१. एको वा दो वा समया । एवं समयुत्तरो उक्कस्सेण जाव चरिमुव्वेल्लणकंडयुकीरणा त्ति ।

समाधान—मिथ्यात्वके अवस्थितसंक्रमणका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है ॥३०८-३०९॥

शंका—मिथ्यात्वके अवक्तव्यसंक्रमणका कितना काल है ? ॥३१०॥

समाधान—मिथ्यात्वके अवक्तव्यसंक्रमणका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ॥३११॥

शंका—सम्यक्त्वप्रकृतिके भुजाकारसंक्रमणका कितना काल है ? ॥३१२॥

समाधान—जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है ॥३१३-३१४॥

शंका—सम्यक्त्वप्रकृतिके अल्पतरसंक्रमणका कितना काल है ? ॥३१५॥

समाधान—जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टकाल पल्योपमके असंख्यातवे भाग-प्रमाण है ॥३१६-३१७॥

शंका—सम्यक्त्वप्रकृतिके अवक्तव्यसंक्रमणका कितना काल है ? ॥३१८॥

समाधान—जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समयमात्र है ॥३१९॥

शंका—सम्यग्मिथ्यात्वके भुजाकारसंक्रमणका कितना काल है ? ॥३२०॥

समाधान—एक समय भी होता है, दो समय भी होता है, इस प्रकार एक-एक समय अधिकके क्रमसे बढ़ते हुए उत्कर्षसे चरम उद्वेलनाकांडकके उत्कीर्ण होने तक अन्तर्मुहूर्त-प्रमाण भी सम्यग्मिथ्यात्वके भुजाकारसंक्रमणका उत्कृष्ट काल है । अथवा सम्यक्त्वको उत्पन्न

पुव्वकरणपढमसमए गुणसकमगारभेणाप्पयरसकमस्स पजवसाण होइ । तदो सपुण्णञ्जावट्ठिसागरोवममेत्त-वेदगसम्मत्तुक्कस्सकालम्मि अपुव्वाणियट्ठिकरणढामेत्तमप्पयरसकमस्स ण लब्भइ त्ति । तम्मि पुण्णिवल्लोव-समसम्मत्तकालम्भतरअप्पयरकालादो सोहिदे सुद्धसेसमेत्तेयसादिरेयञ्जावट्ठिसागरोवमपमाणो पयदुक्कस्स-कालवियप्पो समुवल्लो होइ । जयध०

१ सम्माइट्ठपढमसमय मोत्तण्णत्थ तदभावविणिण्णयादो । जयध०

२ कुटो, चरिमुव्वेल्लणकडए सव्वत्थेव गुणसकमेण परिणदम्मि पयदभुजगारसकमुक्कस्सकालस्स तपमाणत्तोवल्लभादो । जयध०

३ कुटो; सम्मत्तादो मिच्छत्त गतूण सव्वुक्कस्सेणुव्वेल्लणकालेणुव्वेल्लमाणयस्स तदुवल्लभादो । जयध०

४ सम्मत्तादो मिच्छत्तमुव्वगयस्स पढमसमयादो अण्णत्थ तदभावविणिण्णयादो । जयध०

३२२. अधवा सम्भत्तमुप्पादेमाणयस्स वा तदो खवेमाणयस्स वा जो गुणसंक्रमकालो सो वि भुजगारसंक्रामयस्स कायव्वो^१ । ३२३. अप्पदरसंक्रामगो केवचिरं कालादो होदि ? ३२४. जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । ३२५. एयसमओ वा^२ । ३२६. उक्कस्सेण छावट्टि-सागरोवमाणि सादिरेयाणि । ३२७. अवत्तव्वसंक्रमो केवचिरं कालादो होदि ? ३२८. जहण्णुक्कस्सेण एयसमओ ।

३२९. अणंताणुवंधीणं भुजगारसंक्रामगो केवचिरं कालादो होदि ? ३३०. जहण्णेण एयसमयो । ३३१. उक्करसेण पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो^३ । ३३२. अप्पदरसंक्रमो केवचिरं कालादो होदि ? ३३३. जहण्णेण एयसमओ । ३३४. उक्कस्सेण वे छावट्टिसागरोवमाणि सादिरेयाणि । ३३५. अवट्टिदसंक्रमो केवचिरं कालादो होदि ? ३३६. जहण्णेण एयसमओ । ३३७. उक्कस्सेण संखेज्जा समयो^४ । ३३८. अवत्तव्वसंक्रामगो

करनेवालेका, अथवा मिध्यात्वको क्षपण करनेवालेका जो गुणसंक्रमणकाल है, वह भी सम्यग्मिध्यात्वके भुजाकारसंक्रमणका काल प्ररूपण करना चाहिए ॥ ३२१-३२२ ॥

शंका—सम्यग्मिध्यात्वके अल्पतरसंक्रमणका कितना काल है ? ॥ ३२३ ॥

समाधान—जघन्य अन्तर्मुहूर्त, अथवा एक समय है और उत्कृष्ट काल सातिरेक छयासठ सागरोपम है ॥ ३२४-३२६ ॥

शंका—सम्यग्मिध्यात्वके अवत्तव्यसंक्रमणका कितना काल है ? ॥ ३२७ ॥

समाधान—जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ॥ ३२८ ॥

शंका—अतन्तानुवन्धी कपायोके भुजाकारसंक्रमणका कितना काल है ? ॥ ३२९ ॥

समाधान—जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण है ॥ ३३०-३३१ ॥

शंका—अतन्तानुवन्धी कपायोके अल्पतरसंक्रमणका कितना काल है ? ॥ ३३२ ॥

समाधान—जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल सातिरेक दो वार छयासठ सागरोपम है ॥ ३३३-३३४ ॥

शंका—अतन्तानुवन्धी कपायोके अवस्थितसंक्रमणका कितना काल है ? ॥ ३३५ ॥

समाधान—उक्त कपायोके जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है ॥ ३३६-३३७ ॥

१ कुटो; गुणसंक्रमणस्य भुजगारसंक्रमण मोत्तूण पवारंतरासंभवादो । जघन्य०

२ त जहा—चरिमुव्वेस्सणकडयं गुणसंक्रमेण संक्रामेतेण सम्भत्तमुप्पाइत्तं । तस्स पढमसमए विज्झा-देणप्पयरसंक्रमो जादो । पुणो विदियसमए गुणसंक्रमणपारमेण भुजगारसंक्रमो जादो । लद्धो एयसमयमेत्तो सम्भामिच्छत्तप्पयरसंक्रमकालो । जघन्य०

३ त जहा—थावरकायादो आगतूण तसकाइएसुप्पणस्स जाव पल्लिदोवमासखेज्जभागमेत्तकालो गच्छट्ठि ताव आगमो ब्रह्मगो, गिज्जरा थोवयरा होइ, तस्सा पल्लिदोवमासखेज्जभागमेत्तो पयदभुजगारसंक्रमसंक्रमकालो ण विरुज्जदे । जघन्य०

४ आगमणिज्जराण सरिसत्तवमेण सत्तट्ठममएसु अवट्टिदसंक्रमसंभवे विरोहाभावादो । जघन्य०

केवचिरं कालादो होदि ? ३३९. जहण्णुक्कस्सेण एयसमओ^१ ।

३४०. वारसकसाय-पुरिसवेद-भय-दुगुंछाणं भुजगार-अप्पदर-संक्रमो केवचिरं कालादो होदि ? ३४१. जहण्णेण्यममओ । ३४२. उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्ज-दिभागो^२ । ३४३. अवड्ढिसंक्रमो केवचिरं कालादो होदि ? ३४४. जहण्णेण एयसमओ । ३४५. उक्कस्सेण संखेज्जा समया । ३४६. अवत्तव्वसंक्रमो केवचिरं कालादो होदि ? ३४७. जहण्णुक्कस्सेण एयसमओ^३ ।

३४८. इत्थिवेदस्स भुजगारसंक्रमो केवचिरं कालादो होदि ? ३४९. जहण्णेण एयसमओ^४ । ३५०. उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । ३५१. अप्पयरसंक्रमो केवचिरं कालादो होदि ? ३५२. जहण्णेण एगसमओ । ३५३. उक्कस्सेण वे छावड्ढिसागरोवमाणि

शंका—अनन्तानुबन्धी कपायोंके अवक्तव्यसंक्रमणका कितना काल है ? ॥३३८॥

समाधान—जघन्य और उत्कृष्टकाल एक सनयमात्र है ॥३३९॥

शंका—अप्रत्याख्यानावरणादि वारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्सा, इतनी प्रकृतियोंके भुजाकार और अल्पतर संक्रमणका कितना काल है ? ॥३४०॥

समाधान—उक्त प्रकृतियोंका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण है ॥३४१-३४२॥

शंका—उक्त प्रकृतियोंके अवस्थितसंक्रमणका कितना काल है ? ॥३४३॥

समाधान—जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल संख्यात समय है ॥३४४-३४५॥

शंका—उन्ही प्रकृतियोंके अवक्तव्यसंक्रमणका कितना काल है ? ॥३४६॥

समाधान—उक्त प्रकृतियोंके अवक्तव्यसंक्रमणका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समयमात्र है ॥३४७॥

शंका—स्त्रीवेदके भुजाकारसंक्रमणका कितना काल है ? ॥३४८॥

समाधान—जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है ॥३४९-३५०॥

शंका—स्त्रीवेदके अल्पतरसंक्रमणका कितना काल है ? ॥३५१॥

समाधान—जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात वर्ष अधिक दो वार छयासठ सागरोपम है ॥३५२-३५३॥

१ विसजोयणापुव्वसजोगणवक्कवधावलिवदिककतपढमसमए तदुवलभादो । जयध०

२ एइदिएहिंतो पच्चिदिएसु पच्चिदिएहिंतो वा एइदिएसुप्पणस्स जहाकम तदुभयकालस्स तप्प-माणत्तसिद्धीए विरोहाभावादो । जयध०

३ सव्वोवसामणापडिवादपढमसमयादो । जयध०

४ त कथं ? अण्णवेदवधादो एयसमयमित्थिवेदवध कादूण तदणतरसमए पुण्णो वि पडिवक्खवेद-वधमादविय वधावलियवदिककतसमए क्रमेण सकामेमाणयस्स एयसमयमेत्तो इत्थिवेदस्स भुजगारसकमकालो जहण्णकालो होइ । जयध०

संखेज्जवस्सव्भहियाणि । ३५४. अवत्तव्वसंक्रमो केवचिरं कालादो होदि ? ३५५. जहण्णुक्कस्सेण एयसमओ ।

३५६. णवुंसयवेदस्स अप्पयत्संक्रमो केवचिरं कालादो होदि ? ३५७. जहण्णेण एयसमओ । ३५८. उक्कस्सेण वे छावट्टिसागरोवमाणि तिण्णि पलिदोवमाणि सादिरेयाणि । ३५९. सेसाणि इत्थिवेदभंगो ।

३६०. हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं भुजगार-अप्पयरसंक्रमो केवचिरं कालादो होदि ? ३६१. जहण्णेण एयसमओ । ३६२. उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं^१ । ३६३. अवत्तव्वसंक्रमो केवचिरं कालादो होदि ? ३६४. जहण्णुक्कस्सेण एयसमओ ।

३६५. एवं चटुसु गदीसु ओघेण साधेदूण णेदव्वो ।

३६६. एइंदिएसु सव्वेसिं कम्माणपवत्तव्वसंक्रमो णत्थिं^२ । ३६७. सम्मत्त-सम्पामिच्छत्ताणं भुजगारसंक्रामओ केवचिरं कालादो होदि ? ३६८. जहण्णेण एयसमओ^३ ।

शंका-खीवेदके अवत्तव्यसंक्रमणका कितना काल है ? ॥३५४॥

समाधान-जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समयमात्र है ॥३५५॥

शंका-नपुंसकवेदके अल्पतरसंक्रमणका कितना काल है ? ॥३५६॥

समाधान-जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन पन्न्योपमसे अविक्क दो वार छयासठ सागरोपम है ॥३५७-३५८॥

चूर्णिसू०-नपुंसकवेदके जेप संक्रमणोका काल खीवेदके संक्रमणकालके समान जानना चाहिए ॥३५९॥

शंका-हास्य, रति, अरति और शोकके भुजाकारसंक्रमण और अल्पतरसंक्रमणका कितना काल है ? ॥३६०॥

समाधान-जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है ॥३६१-३६२॥

शंका-उक्त प्रकृतियोंके अवत्तव्यसंक्रमणका कितना काल है ? ॥३६३॥

समाधान-जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समयमात्र है ॥३६४॥

चूर्णिसू०-इसी प्रकार चारो गतियोमे ओघके समान साध करके कालकी प्ररूपणा करना चाहिए ॥३६५॥

चूर्णिसू०-(इन्द्रिय मार्गणाकी अपेक्षा) एकेन्द्रियोमे सभी कर्मोका अवत्तव्यसंक्रमण नहीं होता है ॥३६६॥

शंका-सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वके भुजाकारसंक्रमणका कितना काल है ? ॥३६७॥

१ अप्पण्णो वधकाले भुजगारसंक्रमो होइ, पडिक्खपयडिवधकाले एदेसिम्पयरसंक्रमो होदि त्ति पयदुक्कस्सकालसिद्धी वत्तव्वा । जयध०

२ कुदो, गुणतरपडिवत्तिपडिवादणित्रघणस्स सव्वेसिमवत्तव्वसंक्रमत्सेइदिएसु असभवादो । जयध०

३ कुदो, चरिसुव्वेत्तलणखडयदुचरिमफालीए सह तत्थुप्पण्णस्स विदियसमयम्मि तदुवलभादो । दुचरिसुव्वेत्तलणखडयचरिफालिसंक्रमादो चरिसुव्वेत्तलणखडयपट्टमफालिं सकामिय तदणंतरसमए तत्तो णिस्सरिदस्स वा तदुवलभसभवादो । जयध०

३६९. उक्त्सेण अंतोमुहुत्तं^१ । ३७०. अप्पदरसंकामगो केवचिरं कालादो होदि ?
 ३७१. जहण्णेण एयसमओ^२ । ३७२. उक्त्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो^३ ।
 ३७३. सोलसकसाय-भयदुगुंछाणमोघ-अपच्चक्खाणावरणभंगो । ३७४. सत्तणोकसायाणं
 ओघहस्स-रदीणं भंगो ।

३७५. एयजीवेण अंतरं । ३७६. मिच्छत्तस्स भुजगारसंकामयंतरं केवचिरं
 कालादो होदि ? ३७७. जहण्णेण एयसमओ वा दुसमओ वा, एवं णिरंतरं जाव तिसमऊ-
 णावलिया । ३७८. अधवा जहण्णेण अंतोमुहुत्तं^४ । ३७९. उक्त्सेण उवड्डुपोग्गल-
 परियट्टं । ३८०. एवमप्पदरावट्ठिदसंकामयंतरं । ३८१. अवत्तव्वसंकामयंतरं केवचिरं
 कालादो होदि ? ३८२. जहण्णेणंतोमुहुत्तं । ३८३. उक्त्सेण उवड्डुपोग्गलपरियट्टं ।

समाधान—जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है ? ॥ ३६८-३६९ ॥

शंका—उक्त दोनों प्रकृतियोंके अल्पतरसंक्रमणका कितना काल है ? ॥ ३७० ॥

समाधान—जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्योपमके असंख्यातवे भाग-
 प्रमाण है ॥ ३७१-३७२ ॥

चूर्णिसू०—सोलह कषाय, भय और जुगुप्सा-सम्बन्धी संक्रमणोका काल ओघ-
 अप्रत्याख्यानावरणके संक्रमण-कालके समान है । शेष सात नोकपायोके संक्रमणोका काल
 ओघके हास्य-रतिके संक्रमण-कालके समान जानना चाहिए ॥ ३७३-३७४ ॥

चूर्णिसू०—अत्र उक्त भुजाकारादि संक्रामकोका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर कहते
 है ॥ ३७५ ॥

शंका—मिथ्यात्वके भुजाकार संक्रामकोका अन्तरकाल कितना है ? ॥ ३७६ ॥

समाधान—जघन्य अन्तरकाल एक समय, अथवा दो समय, अथवा तीन समय,
 इस प्रकार समयोत्तर क्रमसे निरन्तर बढ़ते हुए तीन समय कम आवली है । अथवा जघन्य
 अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्धपुद्गलपरिवर्तन है ॥ ३७७-३७९ ॥

चूर्णिसू०—इसीप्रकार मिथ्यात्वके अल्पतर और अवस्थित संक्रामकोका अन्तर
 जानना चाहिए ॥ ३८० ॥

शंका—मिथ्यात्वके अवक्तव्यसंक्रामकोका अन्तरकाल कितना है ? ॥ ३८१ ॥

समाधान—जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्धपुद्गल-
 परिवर्तन है ॥ ३८२-४८३ ॥

१ कुदो, चरिमट्ठिदखडयउक्कीरणकालस्ताण्णाहियस्स भुजगारसकमविसईकयस्स तदुवलभादो ।
 जयध०

२ कुदो, दुचरिमुव्वेत्तलणखडयदुचरिमफालीए सह तत्थुववण्णयम्मि तदुवलद्धीदो । जयध०

३ कुदो, अप्पदरसकमाविणाभाविदीहुव्वेत्तलणकालावलवणादो । जयध०

४ त कथं ? उवसमसम्माइट्ठी गुणसकमेण भुजगार सकममादिं कादूण विज्झादेणतरिय पुणो सव्व-
 लहु ढ सणमोहक्खवणाए अट्टिदो, तस्सापुव्वकरणपढमसमए गुणसकमपारभेण पयदतरपरिसमत्ती जादा ।
 लद्धो जहण्णेणतोमुहुत्तमेत्तो पयदभुजगारतरकालो । जयध०

३८४. सत्पत्तस्स भुजगारसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ३८५. जहण्णेण पलिदोवमस्सासंखेज्जदिभागो^१ । ३८६. उक्कस्सेण उवड्डुपोग्गलपरियट्ठं^२ । ३८७. अप्पदरावत्तव्वसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ३८८. जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । ३८९. उक्कस्सेण उवड्डुपोग्गलपरियट्ठं ।

३९०. सम्मामिच्छत्तस्स भुजगार-अप्पयरसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ३९१. जहण्णेण एयसमओ । ३९२. उक्कस्सेण उवड्डुपोग्गलपरियट्ठं । ३९३. अवत्तव्व-संक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ३९४. जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । ३९५. उक्कस्सेण उवड्डुपोग्गलपरियट्ठं ।

३९६. अणंताणुवंधीणं भुजगार-अप्पयरसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ?

शंका—सम्यक्त्वप्रकृतिके भुजाकार-संक्रामकका अन्तरकाल कितना है ? ॥३८४॥

समाधान—जघन्य अन्तरकाल पल्योपमके असंख्यातवे भाग है और उत्कृष्ट अन्तर-काल उपार्धपुद्गलपरिवर्तन है ॥३८५-३८६॥

शंका—सम्यक्त्वप्रकृतिके अल्पतर और अवक्तव्यसंक्रामकोका अन्तरकाल कितना है ? ॥३८७॥

समाधान—जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्धपुद्गल-परिवर्तन है ॥३८८-३८९॥

शंका—सम्यग्मिध्यात्वके भुजाकार और अल्पतरसंक्रामकोका अन्तरकाल कितना है ? ॥३९०॥

समाधान—जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्धपुद्गल-परिवर्तन है ॥३९१-३९२॥

शंका—सम्यग्मिध्यात्वके अवक्तव्यसंक्रामकका अन्तरकाल कितना है ? ॥३९३॥

समाधान—जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्धपुद्गल-परिवर्तन है ॥३९४-३९५॥

शंका—अनन्तानुवन्धी कपायोके भुजाकार और अल्पतर संक्रामकोका अन्तरकाल कितना है ? ॥३९६॥

१ त जहा—चरिमुव्वेल्लणकडयम्मि गुणसकमेण पयदसंक्रमस्सादि करिय तदणतरसमए सम्मत्तमुप्पा-इय असकामगो होदूर्णतरिय सव्वलहु मिच्छत्त गंतूण सव्वजहणुव्वेल्लणकालेणुव्वेल्लमाणयस्स चरिमट्ठिदि-खडए पढमसमए लद्धमतर होइ । जयध०

२ कय ? अणाटियमिच्छाइट्ठी सम्मत्तमुप्पाइय सव्वलहु मिच्छत्त गंतूण जहणुव्वेल्लणकालेणुव्वे-त्तमाणो चरिमट्ठिदिखडम्मि भुजगारसकमस्सादि कादूर्णतरिय देसणद्धपोग्गलपरियट्ठ परिभमिय पुणो पलिदोवमासखेजभागमेत्तलेने सिञ्जणकाले सम्मत्त धेत्तूण मिच्छत्तपडिवादेणुव्वेल्लेमाणयस्स चरिमे ट्ठिदि-व्वडए लद्धमतर कायव्व । एवमाट्ठित्ठित्ठेहि पलिदोवमस्स असंखेजदिभागतोमुहुत्तेहि परिहीणद्धपोग्गल-परियट्ठमेत्त पयदुक्कस्सतरपमाण होटि । जयध०

३९७. जहण्णेण एयसमओ । ३९८. उक्कस्सेण वे छावट्ठिसागरोवमाणि सादिरेयाणि ।
 ३९९. अवट्ठिट्ठसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ४००. जहण्णेण्यसमओ । ४०१.
 उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्ठा^१ । ४०२ अवत्तव्वसंक्रामयंतरं केवचिरं
 कालादो होदि ? ४०३. जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । ४०४ उक्कस्सेण उवड्ढुपोग्गलपरियट्ठं ।

४०५. वारमकसाय-पुरिसवेद-भय-दुगुंछाणं भुजगारप्पयरसंक्रामयंतरं केवचिरं
 कालादो होदि ? ४०६. जहण्णेण एयसमओ । ४०७. उक्कस्सेण पलिदोवमस्स
 असंखेज्जदिभागो^२ ।

४०८. अवट्ठिट्ठसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ४०९. जहण्णेण एय-
 समओ । ४१०. उक्कस्सेण अणतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्ठा । ४११. णवरि पुरिस-
 वेदस्स उवड्ढुपोग्गलपरियट्ठं^३ । ४१२. सव्वेसिमवत्तव्वसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो

समाधान—जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ अधिक
 दो बार छयासठ सागरोपम है ॥३९७-३९८॥

शंका—उक्त कथायो के अवस्थित-संक्रामकका अन्तरकाल कितना है ? ॥३९९॥

समाधान—जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात पुद्गल-
 परिवर्तन-प्रमाण अन्तरकाल है ॥४००-४०१॥

शंका—उक्त कथायोके अवक्तव्यसंक्रामकका अन्तरकाल कितना है ? ॥४०२॥

समाधान—जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्धपुद्गलपरि-
 वर्तन है ॥४०३-४०४॥

शंका—अप्रत्याख्यानावरणादि वारह कथाय, पुरुषवेद भय और जुगुप्साके भुजाकार
 और अल्पतर संक्रामकोका अन्तरकाल कितना है ? ॥४०५॥

समाधान—जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्योपमके असं-
 ख्यातवै भागप्रमाण है ॥४०६-४०७॥

शंका—उक्त कर्मोंके अवस्थितसंक्रामकोका अन्तरकाल कितना है ? ॥४०८॥

समाधान—जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात पुद्गल-
 परिवर्तन-प्रमित अनन्तकाल है । केवल पुरुषवेदका उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्धपुद्गलपरिवर्तन
 है ॥४०९-४११॥

शंका—उपर्युक्त सर्व कर्मोंके अवक्तव्यसंक्रामकोका अन्तरकाल कितना है ? ॥४१२॥

१ कुटो; एयवारमवट्ठिट्ठसक्रमेण परिणदस्स पुणो तदसंभवेणासखेज्जोग्गलपरियट्ठमेत्तकालमुक्क-
 स्सेणावट्ठाणव्युवगमादो । असखेज्जलोगमेत्तमुक्कस्सतरमवट्ठिट्ठदपदस्स परुविदमुच्चारणाकारेण । कथमेदेण
 मुत्तेण तस्साविरोहो त्ति ? ण, उवएसतरावलवणेणाविरोहसमत्थणादो । जयध०

२ भुजगारप्पयराणमण्णोणुक्कस्सकालेणावट्ठिट्ठकालसहिदेणंतरिटाणमुक्कस्सतरस्स तण्यमाणत्तोवलभा-
 दो । जयध०

३ कुटो; सम्माइट्ठिम्मि केव तट्ठवट्ठिट्ठदसकमस्स समवणियमादो । जयध०

होदि ? ४१३. जहण्णेण अंतोमुहुत्तं^१ । ४१४. उक्कस्सेण उवड्डुपोग्गलपरियट्टं ।

४१५. इत्थिवेदस्स भुजगारसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ४१६. जहण्णेण एयसमओ । ४१७. उक्कस्सेण वेछावट्टिसागरोवमाणि संखेज्जवस्सव्भहियाणि^२ ।

४१८. अप्पयरसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ४१९. जहण्णेणेयसमओ । ४२०. उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं^३ । ४२१. अवत्तव्वसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ४२२. जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । ४२३. उक्कस्सेण उवड्डुपोग्गलपरियट्टं ।

४२४. णवुंसयवेदभुजगारसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ४२५. जहण्णेण एयसमओ । ४२६. उक्कस्सेण वे छ्वावट्टिसागरोवमाणि तिण्णि पलिदोवमाणि सादिरेयाणि । ४२७. अप्पयरसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ४२८. जहण्णेण एयसमओ । ४२९. उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । ४३०. अवत्तव्वसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ४३१. जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । ४३२. उक्कस्सेण उवड्डुपोग्गलपरियट्टं ।

समाधान—जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्धपुद्गलपरिवर्तन है ॥४१३-४१४॥

शंका—स्त्रीवेदके भुजाकार-संक्रामकका अन्तरकाल कितना है ? ॥४१५॥

समाधान—जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल संख्यात वर्षसे अधिक दो बार छयासठ सागरोपम है ॥४१६-४१७॥

शंका—स्त्रीवेदके अल्पतर-संक्रामकका अन्तरकाल कितना है ? ॥४१८॥

समाधान—जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है ॥४१९-४२०॥

शंका—स्त्रीवेदके अवत्तव्य-संक्रामकका अन्तरकाल कितना है ? ॥४२१॥

समाधान—जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्धपुद्गलपरिवर्तन है ॥४२२-४२३॥

शंका—नपुंसकवेदके भुजाकार-संक्रामकका अन्तरकाल कितना है ? ॥४२४॥

समाधान—जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल तीन पल्योपम से अधिक दो बार छयासठ सागरोपम है ॥४२५-४२६॥

शंका—नपुंसकवेदके अल्पतर-संक्रामकका अन्तरकाल कितना है ? ॥४२७॥

समाधान—जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है ॥४२८-४२९॥

शंका—नपुंसकवेदके अवत्तव्य-संक्रामकका अन्तरकाल कितना है ? ॥४३०॥

समाधान—जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्धपुद्गलपरिवर्तन है ? ॥४३१-४३२॥

१ सन्धोवसामणापडिवादजहण्णतरस्स तप्पयत्तोवलभादो । जयव०

२ कुदो, तदप्पयरसकमुक्कस्सकालस्स पयदतरत्तेण विवक्खिसयत्तादो । जयव०

३ कुदो, सगवधगद्घामेत्तभुजगारकालावलवणेण पयदतरसमत्थणादो । जयव०

४३३. हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं भुजगार-अप्पयरसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ४३४. जहण्णेण एयसमओ । ४३५. उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । ४३६. कथं ताव हस्स-रदि-अरदि-सोगाणमेयसमयमंतरं ? ४३७ हस्म-रदिभुजगारसंक्रामयंतरं जइ इच्छसि, अरदि-सोगाणमेयसमयं वंधावेद्वओ । ४३८. जइ अप्पयरसंक्रामयंतरमिच्छसि, हस्स-रदीओ एयसमयं वंधावेयव्वाओ । ४३९. अवत्तव्वसंक्रामयंतरं केवत्तिरं कालादो

शंका—हास्य, रति, अरति और शोकके भुजाकार और अल्पतरसंक्रामकोका अन्तर-काल कितना है ? ॥४३३॥

समाधान—जवन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है । ॥४३४-४३५॥

शंका—हास्य-रति और अरति-शोकके भुजाकार और अल्पतरसंक्रामकोका जवन्य अन्तर एक समय कैसे संभव है ? ॥४३६॥

समाधान—यदि हास्य और रतिके भुजाकारसंक्रामकका जवन्य अन्तर जानना चाहते हो, तो अरति और शोकका एक समय-प्रमित बन्ध कराना चाहिए । और यदि अल्पतरसंक्रामकका अन्तर जानना चाहते हो, तो हास्य और रतिका एक समय-प्रमित बन्ध कराना चाहिए ॥४३७-४३८॥

विशेषार्थ—कोई जीव हास्य-रतिका बन्ध कर रहा था, उसने एक समयके लिए अरति-शोकका बन्ध किया और तदनन्तर समयमे ही हास्य-रतिका बन्ध करने लगा । इस प्रकार हास्य-रतिका बंध कर और बन्धावलीके व्यतीत होनेपर बन्धके अनुसार संक्रमण करनेवाले जीवके एक समय-प्रमित भुजाकारसंक्रमणका अन्तर सिद्ध हो जाता है । अल्पतर-संक्रमणका अन्तर इस प्रकार निकलता है कि कोई जीव अरति-शोकका बन्ध कर रहा था, उसने एक समयके लिए हास्य-रतिका बन्ध किया और तदनन्तर समयमे ही पुनः अरति-शोकका बन्ध करने लगा । इस प्रकार उक्त प्रकृतियोंको बाँधकर और बन्धावलीके व्यतीत होनेपर उसका संक्रमण किया, तब एक समयप्रमित जवन्य अन्तर सिद्ध हो जाता है । इसी प्रकार अरति और शोकके भुजाकार और अल्पतरसंक्रामकका जवन्य अन्तर निकालना चाहिए ।

शंका—हास्य, रति, अरति और शोकके अवक्तव्यसंक्रामकका अन्तरकाल कितना है ? ॥४३९॥

१ त जहा-हस्स-रदीओ वधमाणो एयसमयमरइ-सोगवधगो जादो । तदो पुणो वि तदणतरसमए हस्स रदीण वधगो जादो । एव वधिदूण वधावलियवदिक्कमे वधाणुसाणेण सकामेमाणयस्स लद्धमेयसमयमेत्त-भुजगारसंक्रामयतर । जयध०

२ एटस्स णिटरिसण-एयो अरदिसोगवधगो एयसमय हस्म-रदिवधगो जादो । तदणतरसमए पुणो वि परिणामपच्चणारदिसोगाण वधो पारद्धो । एव वधिऊण वधावलियादिकमेदणेव कमेण सकामेमाणयस्स लद्धमेयसमयमेत्त पयदजहण्णतर । एदेणेव णिटरिसणेणारदि-सोगाण पि भुजगारप्पयरसकामतरमेयसमय-मेत्त हस्स रइविवजासेण जोजेयव्व । जयध०

होदि ? ४४०. जहण्णेण अंतोमुहुत्त^१ । ४४१. उक्कस्सेण उवड्डुपोग्गलपरियट्ठं ।

४४२. गदीसु च साहेयव्वं ।

४४३. एइंदिएसु सम्पत्त-सम्मामिच्छत्ताणं णत्थि किंचि वि अंतरं^२ । ४४४. सोलसकसाय-भय-दुगुंछाणं भुजगार-अप्पयरसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ४४५. जहण्णेण एयसमओ ४४६. उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो^३ । ४४७. अव-ड्ठिदसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ४४८. जहण्णेण एयसमओ । ४४९. उक्क-स्सेण अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्ठा । ४५०. सेसाणं सत्तणोकसायाणं भुजगार-अप्पयरसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ४५१. जहण्णेण एयसमओ । ४५२. उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त^४ ।

समाधान-जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्धपुद्गल-परिवर्तन है ॥४४०-४४१॥

चूर्णिसू०-इसीप्रकार ओषके अनुसार चारो गतियोमे भुजाकारादि संक्रामकोका अन्तर सिद्ध करना चाहिए ॥४४२॥

चूर्णिसू०-(इन्द्रियमार्गणाकी अपेक्षा) एकेन्द्रियोमे सम्यक्त्वप्रकृति और सम्य-ग्मिथ्यात्वके भुजाकारादि संक्रामकोका कुछ भी अन्तर नहीं है ॥४४३॥

शंका-सोलह कपाय, भय और जुगुप्साके भुजाकार और अल्पतर संक्रामकोका अन्तरकाल कितना है ? ॥४४४॥

समाधान-जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण है ॥४४५-४४६॥

शंका-उक्त कर्मोंके अवस्थितसंक्रामकोका अन्तरकाल कितना है ? ॥४४७॥

समाधान-जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनप्रमित अनन्तकाल है ॥४४८-४४९॥

शंका-शेष सात नोकपायोके भुजाकार और अल्पतर संक्रामकोका अन्तर कितना है ? ॥४५०॥

समाधान-जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त-प्रमाण है ॥४५१-४५२॥

१ कुदो; सद्योवसामणापडिवादजहण्णतरस्स तप्पमाणोवलंभादो । जयध०

२ कुदो, तस्य सभवताण पि भुजगारप्पदरपटाणं लद्धंतरकरणोवायाभावादो । जयध०

३ कुदो, भुजगारप्पयरकालाणमुक्कस्सेण पलिदोवमासखेज्जभागपमाणाण जोण्हुदरप्पखाण व परियत्त-माणाणमण्णोणेतदिदाणमेइदिएसु सभवे विरोहाभावादो । जयध०

४ परियत्तमाणवघपयडीसु भुजगारप्पयरकालस्स अतोमुहुत्तपमाणस्स अण्णोण्णतरभावेण समुवल-दीए विनवादाणुवलभादो । जयध०

४५३. णाणाजीवेहि भंगविचयो । ४५४. अट्टपदं कायव्वं । ४५५. जा जेसु पयडी अत्थि तेसु पयदं । ४५६. सव्वजीवा मिच्छत्तस्स सिया अप्पयरसंक्रामया च असंक्रामया च । ४५७. सिया एदे च, भुजगारसंक्रामओ च, अवट्ठिदसंक्रामओ च, अवत्तव्वसंक्रामओ च । ४५८. एवं सत्तावीस भंगा । ४५९. सम्मत्तस्स सिया अप्पयरसंक्रामया च असंक्रामया च णियमा । ४६०. सेससंक्रामया भजियव्वा । ४६१. सम्मामिच्छत्तस्स अप्पयरसंक्रामया णियमा । ४६२. सेससंक्रामया भजियव्वा । ४६३. सेसाणं कम्माणं अवत्तव्वसंक्रामगा च असंक्रामगा च भजिदव्वा । ४६४. सेसा णियमा ।

चूर्णिसू०—अव नानाजीवोकी अपेक्षा भंगविचय कहते हैं । उसके अर्थपदका निरूपण करना चाहिए । जिन जीवोंमें जो कर्म-प्रकृति विद्यमान है, उनमें ही प्रकृत अर्थात् प्रयोजन है । मिथ्यात्वकी सत्तावाले सर्व जीव कदाचित् मिथ्यात्वके अल्पतरसंक्रामक हैं, और कदाचित् असंक्रामक हैं । कदाचित् मिथ्यात्वके अनेक अल्पतरसंक्रामक और एक भुजाकारसंक्रामक पाया जाता है । (१) कदाचित् मिथ्यात्वके अनेक अल्पतरसंक्रामक और एक अवस्थितसंक्रामक पाया जाता है । (२) कदाचित् मिथ्यात्वके अनेक अल्पतरसंक्रामक और एक अवक्तव्यसंक्रामक पाया जाता है । (३) इस प्रकार अनेक अल्पतरसंक्रामकोंके साथ भुजाकारादि अनेक संक्रामक भी पाये जाते हैं । इसी प्रकार द्विसंयोगादिकी अपेक्षा सत्ताईस भंग होते हैं ॥४५३-४५८॥

चूर्णिसू०—सम्यक्त्वप्रकृतिके कदाचित् अनेक जीव अल्पतरसंक्रामक हैं और कदाचित् नियमसे असंक्रामक भी हैं । शेष संक्रामक भजितव्य है । सम्यग्मिथ्यात्वके अल्पतरसंक्रामक नियमसे पाये जाते हैं । शेष संक्रामक भजितव्य हैं । शेष कर्मोंके अवक्तव्यसंक्रामक और असंक्रामक भजितव्य है । शेष अर्थात् भुजाकारसंक्रामक, अल्पतर-

१ कुदो; अकम्मोहि अव्ववहारादो । जयध०

२ कुदो; मिच्छत्तप्पयरसकामयवेदयसम्माइट्ठीण तदसकामयमिच्छाइट्ठीण च सव्वकालमवट्ठाणणियमटसणादो । जयध०

३ त जहा—सिया एदे च भुजगारसकामगो च १, कदाइमप्पयरसकामएहि सह भुजगारपजायपरिणदेयजीवसभवोवलभादो । सिया एदे च अवट्ठिदसकामगो च; पुट्ठित्थेहि सह कम्मि वि अवट्ठिदपरिणामपरिणदेयजीवसभवाविरोहादो २ । सिया एदे च अवत्तव्वसकामगो च, कयाइ धुवपदेण सह अवत्तव्वसकमपजाएण परिणदेयजीवसभवे विप्पडिसेहाभावादो ३ । एवमेयवयणेण तिण्णि भगा णिहिट्ठा । एदे चेव वट्ठुवयणसवधेण वि जोजेव्वा । एवमेदे एगसजोगभगा परुविदा । जयध०

४ सम्मत्तस्स अप्पयरसकामया णाम उव्वेत्तलमाणमिच्छादिट्ठिणो, असकामया च वेदगसम्माइट्ठिणो सव्वे चेव, तेसिमेव पाहणियादो । तेसिमुभएसि णियमा अत्थित्तमेदेण सुत्तेण जाणाविद । जइ एच, एत्थ 'सिया'—सदो ण पयोत्तव्वो त्ति णासकणिज, उवरिमभयणिजभगसजोगसजोगविवक्खाए धुवपदस्स वि कदाचिक्कभावसिद्धीदो । जयध०

५ कुदो, उव्वेत्तलमाणमिच्छाइट्ठीण वेदयसम्माइट्ठीण च तदप्पयरसकामयाण सव्वकालमुवलभादो । जयध० ६ कुदो; तेसि धुवभावित्तादो । तदो सत्तावीसभगाणमेत्थुप्पत्ती वत्तव्वा । जयध०

७ कुदो; तेसि सव्वकालमत्थित्तणियमाणुवलभादो । जयध०

८ एत्थ सेसगहणेण भुजगारप्पयरावट्ठिदसकामयाण जहास भव गहण कायव्व । जयध०

४६५. णवरि पुरिसवेदस्सावड्ढिसंक्रामया भजियव्वा^१ ।

४६६. णाणाजीवेहि कालो एदाणुमाणिय णेदव्वा ।

४६७ णाणाजीवेहि अंतरं । ४६८. मिच्छत्तस्स भुजगार-अवत्तव्व*संक्राम-
याणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ४६९. जहण्णेण एयसमओ^२ । ४७०. उक्कस्सेण
सत्त रादिंदियाणि^३ । ४७१. अप्पयरसंक्रामयाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ४७२.
णत्थि अंतरं । ४७३. अवड्ढिसंक्रामयाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ४७४. जह-
ण्णेण एयसमओ । ४७५. उक्कस्सेण असंखेज्जा लोगा^४ ।

संक्रामक और अवस्थितसंक्रामक नियमसे पाये जाते हैं । केवल पुरुषवेदके अवस्थित-
संक्रामक भजितव्य है ॥४५९-४६५॥

चूर्णिसू०—इस भंगविचयकी अपेक्षा अनुमान करके नाना जीवोंकी अपेक्षा भुजा-
कारादि-संक्रामकोंके कालको जानना चाहिए ॥४६६॥

चूर्णिसू०—अब नाना जीवोंकी अपेक्षा भुजाकारादिसंक्रामकोंके अन्तरकालको
कहते हैं ॥४६७॥

शंका—मिथ्यात्वके भुजाकार और अवत्तव्यसंक्रामक जीवोंका अन्तरकाल कितना
है ? ॥४६८॥

समाधान—जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल सात रात्रि-
दिवस है ? ४६९-४७०॥

शंका—मिथ्यात्वके अल्पतरसंक्रामकोंका अन्तरकाल कितना है ? ॥४७१॥

समाधान—मिथ्यात्वके अल्पतरसंक्रामकोंका अन्तर कभी नहीं होता ॥४७२॥

शंका—मिथ्यात्वके अवस्थितसंक्रामकोंका अन्तरकाल कितना है ? ॥४७३॥

समाधान—जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल असंख्यात लोकप्रमाण
है ॥४७४-४७५॥

१ कुटो, तेसिमद्दुवभावित्तेण सम्माइट्ठीसु वरथ वि कदाइमाविग्भावदसणादो । जयध०

२ भुजगारसंक्रामयाण ताव उच्चदे—एको वा दो वा तिण्णि वा एवमुक्कस्सेण पल्लिवमत्स असखेजदि-
भागमेत्ता वा मिच्छाइट्ठी उवसमसम्मत्त पडिवजिय गुणसक्कमचरिमसमए वट्टमाणा भुजगारसंक्रामया
दिट्ठा, णट्ठो च तदणंतरसमए तेसि पवाहो । एवमेयसमयमंतरिदपवाहाणं पुणो वि णाणाजीवाणुसधाणे-
णाणंतरसमए समुम्भवो दिट्ठो । विणट्ठतरं होइ । एवमवत्तव्वसंक्रामयाण पि वत्तव्वं । णवरि सम्मत्तं पडि-
वण्णपढसमए आदी कायव्वा । जयध०

३ कुटो, सम्मत्तगाहयाणमुक्कस्सतरस्स तप्पमाणत्तोवएसादो । जयध०

४ कुटो, एयवारमवट्ठदपरिणामेण परिणट्ठणाणाजीवाणमेत्तियमेत्तु कस्सतरेण पुणो अवट्ठदसंक्रम-
हेट्टुपरिणामविसेसपडिलभादो । जयध०

एतामपत्रवाली प्रतिमें 'अवत्तव्व' के स्थानपर 'अप्पयर' पाठ मुद्रित है । (देखो पृ० १२७७)
पर वह अशुद्ध है, क्योंकि 'अल्पतर संक्रामकके' कालका निरूपण आगेके सूत्र नं० ४७१ में किया गया है ।

४७६. सम्मत्तस्स भुजगारसंक्रामयाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ४७७. जहण्णेण एयसमओ । ४७८. उक्कस्सेण चउवीसमहोरत्ते सादिरेये^१ । ४७९. अप्पयर-संक्रामयाणं णत्थि अंतरं^२ । ४८०. अवत्तव्वसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ४८१. जहण्णेण एयसमओ^३ । ४८२. उक्कस्सेण सत्त रादिंदियाणि^४ ।

४८३. सम्मामिच्छत्तस्स भुजगार-अवत्तव्वसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि । ४८४. जहण्णेण एयसमओ^५ । ४८५. उक्कस्सेण सत्त रादिंदियाणि^६ । ४८६. णवरि अवत्तव्वसंक्रामयाणमुक्कस्सेण चउवीसमहोरत्ते सादिरेये^७ । ४८७. अप्पयरसंक्रामयाणं णत्थि अंतरं^८ ।

शंका—सम्यक्त्वप्रकृतिके भुजाकारसंक्रामकोका अन्तरकाल कितना है ? ॥४७६॥

समाधान—जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ अधिक चौबीस अहोरात्र है ॥४७७-४७८॥

चूर्णिमू०—सम्यक्त्वप्रकृतिके अल्पतरसंक्रामकोका अन्तर नहीं होता है ॥४७९॥

शंका—सम्यक्त्वप्रकृतिके अवक्तव्यसंक्रामकोका अन्तरकाल कितना है ? ॥४८०॥

समाधान—सम्यक्त्वप्रकृतिके अवक्तव्यसंक्रामकोका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल सात रात्रि-दिवस है ॥४८१-४८२॥

शंका—सम्यग्मिथ्यात्वके भुजाकार और अवक्तव्य संक्रामकोका अन्तरकाल कितना है ? ॥४८३॥

समाधान—जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल सात रात्रि-दिवस है । केवल अवक्तव्यसंक्रामकोका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ अधिक चौबीस अहोरात्र है ॥४८४-४८६॥

चूर्णिमू०—सम्यग्मिथ्यात्वके अल्पतर-संक्रामकोका अन्तर नहीं होता है । नाना

१ कुदो; उव्वेल्लणापवेसयाणमुक्कस्सतरस्स तप्पमाणत्तोवएसोदो । जयध०

२ कुदो; सम्मत्तप्पयरसकामयाणमुव्वेल्लणापरिणटमिच्छाइट्ठीणमवोच्छिण्णकमण सव्वद्धमवट्ठाणणियमादो । जयध०

३ सम्मत्तादो मिच्छत्त पडिवजमाणणाणाजीवाणमेयसमयमेत्तजहणसिद्धीए विसवादाभावादो । जयध०

४ कुदो; सम्मत्तुप्पत्तिपडिभागेणैव तत्तो मिच्छत्त गच्छमाणजीवाणमुक्कस्सतरसभव पडि विरोहाभावादो । जयध०

५ कुदो; पयदभुजगारावत्तव्वसकामयणाणाजीवाणमेयसमयमतरिदाण पुणो णाणाजीवाणुसधाणेण तदण तरसमए तद्दभावपरिणामाविरोहादो । जयध०

६ कुदो; सम्मत्तुप्पादयाणमुक्कस्सतरस्स वि तन्भावसिद्धीए पडिधधाभावादो । जयध०

७ णेदमुक्कस्संतरविहाणं षडतयमुवसमसम्मत्तग्गाहीण सत्तरादिंदियमेत्तुक्कस्सतरणियमो; तत्थ विसंवादाणुवलभादो । किंतु णीसतकम्मियमिच्छाइट्ठीणमुवसमसम्मत्त गेण्हमाणामेदमुक्कस्सतरमिह सुत्ते विव-क्खियं, ससत्तकम्मियाणमुवसमसम्मत्तग्गहणे अवत्तव्वसकमसभवाणुवलभादो । जयध०

८ कुदो; सम्मामिच्छत्तप्पयरसकामयवेदयसम्माइट्ठीणमुव्वेल्लमाणमिच्छाइट्ठीण च पवाहवोच्छेदेण विणा सव्वद्धमवट्ठाणणियमादो । जयध०

४८८. अणंताणुवंधीणं भुजगार-अप्पदर-अवट्ठिदसंक्रामयंतरं णत्थि । ४८९. अवत्तव्वसंक्रामयाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ४९०. जहण्णेण एयसमओ' । ४९१. उक्कस्सेण चउवीसमहोरत्ते सादिरेमे' । ४९२. एवं सेमाणं कम्माणं । ४९३. णवरि अवत्तव्वसंक्रामयाणमुक्कस्सेण वासपुधत्तं' । ४९४. पुरिसवेदस्स अवट्ठिदसंक्रामयंतरं जहण्णेण एयसमओ । ४९५. उक्कस्सेण असंखेज्जा लोगा' ।

४९६. अप्पावहुअं । ४९७. सव्वत्थोवा मिच्छत्तस्स अवट्ठिदसंक्रामया' । ४९८. अवत्तव्वसंक्रामया असंखेज्जगुणा' । ४९९. भुजगारसंक्रामया असंखेज्जगुणा' । ५००. अप्पयरसंक्रामया असंखेज्जगुणा' ।

जीवोकी अपेक्षा अनन्तानुवन्धी कपायोके भुजाकार, अल्पतर और अवस्थितसंक्रामकोका कभी अन्तर नहीं होता है ॥४८७-४८८॥

शंका-नाना जीवोकी अपेक्षा अनन्तानुवन्धी कपायोके अवक्तव्यसंक्रामकोका अन्तरकाल कितना है ? ॥४८९॥

समाधान-जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल सातिरेक चौबीस अहोरात्र है ॥४९०-४९१॥

चूर्णिसू०-इसीप्रकार शेष कर्मोके भुजाकारादि संक्रामकोका अन्तर जानना चाहिए । केवल शेष कर्मोके अवक्तव्यसंक्रामकोका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है । पुरुषवेदके अवस्थित-संक्रामकोका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात लोकप्रमाण है ॥४९२-४९५॥

चूर्णिसू०-अत्र भुजाकारादि संक्रामकोका अल्पवहुत्व कहते हैं—मिथ्यात्वके अवस्थितसंक्रामक सबसे कम होते हैं । अवस्थितसंक्रामकोसे अवक्तव्यसंक्रामक असंख्यातगुणित होते हैं । अवक्तव्यसंक्रामकोसे भुजाकारसंक्रामक असंख्यातगुणित होते हैं । भुजाकार-संक्रामकोसे अल्पतरसंक्रामक असंख्यातगुणित होते हैं ॥४९६-५००॥

१ विसजोयणादो सजुजतमिच्छाइट्ठीण जहण्णतरस्स तप्पमाणत्तादो । जयध०

२ अणताणुवधिविसजोयणाण व तस्सलोजयाण पि उक्कस्सतरस्स तप्पमाणत्तसिद्धीए विरोहाभावादो । जयध०

३ कि कारण, सव्वोवसामणपडिवाहुक्कस्सतरस्स तप्पमाणत्तोवलभणादो । जयध०

४ कुदो, एगवार पुरिसवेदावट्ठिदसकमेण परिणदणाणाजीणाण सुट्ठु बहुअ कालमंतरिदाण-ममखेज्जलोगमेत्तकाले वोल्लिणे णियमा तव्भावसभवोवएसादो । जयध०

५ मिच्छत्तसावट्ठिदसक्रामया णाम पुव्वप्पण्णेण सम्मत्तेण मिच्छत्तादो सम्मत्तविपडिक्कणपडमा वलियमिच्छत्तवट्ठमाणा उक्कस्सेण सखेज्जसमयसच्चिदा ते सव्वत्थोवा, उवरि भणिसमाणासेसपदेहिंत्तो थोव-यरा त्ति वुत्त होइ । जयध० ।

६ कथ सखेज्जसमयसच्चादो पुव्विल्लादो एयसमयसच्चिदो अवत्तव्वसक्रामयरासी असखेज्जगुणो होइ त्ति णेहासकणिज, कुदो, सम्मत्त पडिक्कणमाणजीवाणमसखेज्जदिभागस्तेवावट्ठिदभावेण परिणामन्भुवग-माठो । कुदो, एयमवट्ठिदपरिणामस्स सुट्ठु दुल्लहत्तादो । जयध०

७ कि कारण, अतोमुहुत्तमेत्तकालसच्चिदत्तादो । जयध०

८ कुदो, छावट्ठिसागरोवममेत्तवेदयसम्मत्तकालम्भतरसंचयावलवणादो । जयध०

५०१. सम्पत्त-सम्पामिच्छताणं सव्वत्थोवा अवत्तव्वसंक्रामया^१ । ५०२. भुज-
गारसंक्रामया असंखेज्जगुणा^२ । ५०३. अप्पयरसंक्रामया असंखेज्जगुणा^३ ।

५०४. सोलसकसाय-भय-दुगुंछाणं सव्वत्थोवा अवत्तव्वसंक्रामया^४ । ५०५.
अवट्ठिदसंक्रामया अणंतगुणा^५ । ५०६. अप्पयरसंक्रामया असंखेज्जगुणा^६ । ५०७. भुज-
गारसंक्रामया संखेज्जगुणा^७ ।

५०८. इत्थिवेद-हस्स-रदीणं सव्वत्थोवा अवत्तव्वसंक्रामया^८ । ५०९. भुज-
गारसंक्रामया अणंतगुणा^९ । ५१०. अप्पयरसंक्रामया संखेज्जगुणा^{१०} ।

५११. पुरिसवेदरस सव्वत्थोवा अवत्तव्वसंक्रामया । ५१२. अवट्ठिदसंक्रामया

चूर्णिसू०—सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्निभ्यात्वके अवक्तव्यसंक्रामक सबसे कम होते हैं । अवक्तव्यसंक्रामकोसे भुजाकारसंक्रामक असंख्यातगुणित होते हैं । भुजाकार-संक्रामकोसे अल्पतरसंक्रामक असंख्यातगुणित होते हैं ॥५०१-५०३॥

चूर्णिसू०—सोलह कपाय, भय और जुगुप्साके अवक्तव्यसंक्रामक सबसे कम होते हैं । अवक्तव्यसंक्रामकोसे अवस्थितसंक्रामक अनन्तगुणित होते हैं । अवस्थितसंक्रामकोसे अल्पतरसंक्रामक असंख्यातगुणित होते हैं । अल्पतरसंक्रामकोसे भुजाकारसंक्रामक संख्यात-गुणित होते हैं ॥५०४-५०७॥

चूर्णिसू०—हीवेद, हास्य और रतिके अवक्तव्यसंक्रामक सबसे कम हैं । अवक्तव्य-संक्रामकोसे भुजाकारसंक्रामक अनन्तगुणित है । भुजाकारसंक्रामकोसे अल्पतरसंक्रामक संख्यातगुणित होते हैं ॥५०८-५१०॥

चूर्णिसू०—पुरुषवेदके अवक्तव्यसंक्रामक सबसे कम है । अवक्तव्यसंक्रामकोसे

१ कुदो, एयसमयसंचयावलवणादो । जयध०

२ कुदो, अतोमुहुत्तसच्चिदत्तादो । जयध०

३ कुदो; सम्मामिच्छत्तस्स उव्वेतलमाणमिच्छाइट्ठीहि सह छावट्ठिसागरोवमकालम्भतरसच्चिदवेदय-सम्माइट्ठिरासिस्स सम्मत्तस्स वि पल्लिवेवमासखेज्जभागमेत्तुव्वेतलणकालम्भतरमकल्लिदरासिस्स गणहादो ।
जयध०

४ कुदो; अणताणुवधीण विसजोयणापुव्वसजोगे वट्टमाणणमेयसमयसच्चिद पल्लिवेवमस्स असखेज-दिभागमेत्तजीवाण सेमाण च सव्वोवसामणापडिवाटपट्टमसमए पयट्टमाणसखेज्जोवमामयजीवाण गहणादो ।
जयध०

५ कुदो, सखेज्जसमयसच्चिदेहदियरासिस्स पहाणीभावेणेत्य विवक्खियत्तादो । जयध०

६ क्रि कारण, पल्लिवेवमासखेज्जभागमेत्तप्पयरकालसंचयावलवणादो । जयध०

७ कुदो, धुव्वधीणमपयरकालादो भुजगारकालस्स सखेज्जगुणत्तोवएसादो । जयध०

८ सखेज्जोवसामयजीवविसयत्तेण पयदावत्तव्वसकामयाण थोवभावसिद्धीए अविरोहादो । जयध०

९ कुदो, अतोमुहुत्तमेत्तसगकालसच्चिदेहदियरासिस्स गहणादो । जयध०

१० कुदो; सगवधकालादो सखेज्जगुणपडिक्खवधगट्ठाए सच्चिदरासिस्स गहणादो । जयध०

असंखेज्जगुणा^१ । ५१३. भुजगारसंक्रामया अणंतगुणा^१ । ५१४. अप्पयरसंक्रामया संखेज्जगुणा^१ ।

५१५. णवुंसयवेद-अरइ-सोगाणं सव्वत्थोवा अवत्तव्वसंक्रामया^१ । ५१६. अप्प-यरसंक्रामया अणंतगुणा^१ । ५१७. भुजगारसंक्रामया संखेज्जगुणा^१ ।

भुजगारो समत्तो ।

५१८. एत्तो पदणिकखेवो^१ । ५१९. तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगद्वाराणि । ५२०. तं जहा-परुवणा सामित्तमप्पावहुगं च । ५२१. परुवणा । ५२२. सव्वासिं पयडीणमुक्कस्सिया वड्डी हाणी अवट्ठाणं च अत्थि^१ । ५२३. एवं जहण्णयस्स वि णेदव्वं । ५२४. णवरि सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-इत्थि-णवुंसयवेद-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमवट्ठाणं णत्थि^१ ।

अवस्थितसंक्रामक असंख्यातगुणित हैं । अवस्थितसंक्रामकोसे भुजाकारसंक्रामक अनन्त-गुणित है । भुजाकारसंक्रामकोसे अल्पतरसंक्रामक संख्यातगुणित हैं ॥५११-५१४॥

चूर्णिसू०-नपुंसकवेद, अरति और शोकके अवक्तव्यसंक्रामक सबसे कम हैं । अवक्तव्यसंक्रामकोसे अल्पतरसंक्रामक अनन्तगुणित हैं । अल्पतरसंक्रामकोसे भुजाकार-संक्रामक संख्यातगुणित होते हैं ॥५१५-५१७॥

इस प्रकार भुजाकार अनुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

चूर्णिसू०-अब इससे आगे पदनिक्षेप कहते हैं । उसमें ये तीन अनुयोगद्वार होते हैं । वे इस प्रकार हैं—प्ररूपणा, स्वामित्व और अल्पवहुत्व । इनमेंसे पहले प्ररूपणा कहते हैं—सर्वप्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अवस्थान होते हैं । इसीप्रकार जघन्यके भी जानना चाहिए । विशेषता केवल यह है कि सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोकका अवस्थान नहीं होता है ॥५१८-५२४॥

१ कुदो, पल्लिदोवमासखेज्जभागमेत्तसम्माइट्ठजीवाण पुरिसवेदावट्ठदसकमपजाएण परिणदाण-मुवलभादो । जयध०

२ सगवधकालम्भतरसच्चिदेइदियरासिस्स गहणादो । जयध०

३ पडिवक्खवधगद्वागुणगारस्स तप्पमाणत्तोवलभादो । जयध०

४ सखेजोवसामवजीवविसयत्तादो । जयध०

५ किं कारण, अंतोमुहुत्तमेत्तपडिवक्खवधगद्वासच्चिदेइदियरासिस्स समवलंवणादो । जयध०

६ कुदो, एदेसिं कम्माण पडिवक्खवधगद्वादो सगवधकालस्स सखेज्जगुणत्तोवलंभादो । जयध०

७ को पदणिकखेवो णाम ? पदाण णिकखेवो पदणिकखेवो, जहण्णुक्कस्सवड्ढि-हाणि-अवट्ठाणपदाणं सामित्तादिणिहेसमुहेण णिच्छत्तकरण पदणिकखेवो त्ति भण्णदे । जयध०

८ कुदो; सव्वेसिमेव कम्माण जहाणिहिट्ठविसए सव्वुक्कस्सवड्ढि-हाणि-अवट्ठाणसरुवेण पदेस-सकमपवुत्तीए वाहाणुवलभादो । जयध०

९ कुदो, सव्वकालमेदेसि कम्माणमागमणिजराण सरिसत्ताभावादो । जयध०

५२५. सामित्तं । ५२६. मिच्छत्तस्स उक्कस्सिया वड्ढी कस्स ? ५२७. गुणिद-
कम्मंसियस्स मिच्छत्तक्खवयस्स सव्वसंक्रामयस्स^१ । ५२८. उक्कस्सिया हाणी कस्स ?
५२९. गुणिदकम्मंसियस्स सम्मत्तमुप्पाएदूण गुणसंक्रमेण संक्रामिदूण पढमसमयविज्झाद-
संक्रामयस्स^२ । ५३०. उक्कस्सयमवड्ढाणं कस्स ? ५३१. गुणिदकम्मंसिओ पुव्वुप्पण्णेण
सम्मत्तेण मिच्छत्तादो सम्मत्तं गदो तं दुसमयसम्माइट्ठिमादिं कादूण जाव आवलिय-
सम्माइट्ठि त्ति एत्थ अण्णदरम्मिह समये तप्पाओग्ग-उक्कस्सेण वड्ढिं कादूण से काले तत्तियं
संक्रामयमाणस्स तस्स उक्कस्सयमवड्ढाणं^३ ।

चूर्णिसू०—अव स्वामित्व कहते हैं ॥५२५॥

शंका—मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? ॥५२६॥

समाधान—जो गुणितकर्मांगिक है, मिथ्यात्वका क्षयण कर रहा है, वह जब मिथ्यात्वकी चरम फालिको सर्वसंक्रमणमे संक्रान्त करता है, तब उसके मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है ॥५२७॥

शंका—मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि किसके होनी है ? ॥५२८॥

समाधान—जो गुणितकर्मांगिक (सातवीं पृथ्वीका नारकी) सम्यक्त्वको उत्पन्न करके गुणसंक्रमणसे मिथ्यात्वका संक्रमण करके विध्यातसंक्रमण प्रारंभ करता है, उसके प्रथम समयमें मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि होती है ॥५२९॥

शंका—मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अवस्थान किसके होता है ? ॥५३०॥

समाधान—जो गुणितकर्मांगिक है और पूर्वमे जिसने सम्यक्त्व उत्पन्न किया है, वह मिथ्यात्वसे सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ, उस सम्यग्दृष्टिके सम्यक्त्व उत्पन्न करनेके द्वितीय समयसे लेकर जब तक वह आवली-प्रविष्ट सम्यग्दृष्टि है, तब तक इस अन्तरालके किसी एक समयमे तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट वृद्धि करके तदनन्तर कालमे उतने ही द्रव्यका संक्रमण करना है, तब उसके मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अवस्थान होता है ॥५३१॥

१ जो गुणिदकम्मंसियो सत्तमाए पुढवीए णेरइयो तत्तो उव्वट्ठिदूण सव्वलहु समयाविरोहेण मणु-
सेसुपज्जिय गवभादि-अट्ठवस्साणि गमिय तदो दसणमोहक्खवणाए अब्भुट्ठिदो, तस्स अणियट्ठिअट्ठाए
सखेज्जेसु भागेषु गदेसु मिच्छत्तचरिमफालिं सव्वसक्रमेण सल्लुहमाणयस्स पयदुक्कस्मसामित्त होइ, तत्थ किंचूण-
ट्ठिवड्ढुगुणहाणिमेत्तसमयपवड्ढाणमुक्कस्सवट्ठिसरुवेण सकमदमणादो । जयध०

२ जो गुणिदकम्मसिओ सत्तमाए पुढवीए णेरइयो अतोमुहुत्तेण कम्ममुक्कस्स काहिदि त्ति विवरीय-
भावसुवगतूण सम्मत्तुप्पायणाए वावदो, तस्स सव्वुक्कस्सेण गुणसक्रमेण मिच्छत्त स क्रामेमाणयस्स चरिमसमय-
गुणसकमादो पढमसमयविज्झादसक्रमे पदिदस्स पयदुक्कस्ससामित्त होइ । तत्थ किंचूणचरिमगुणसकमदव्वस्स
हाणिसरुवेण सभवदसणादो । जयध०

३ त जहा-तहा सम्मत्त पडिवण्णस्स पढमसमए अवत्तव्वसकमो होइ । पुणो विदियसमए तप्पा-
ओग्गुक्कस्मएण सकमपजाएण वड्ढिदस्स वड्ढिसकमो जायदे । एसो च वट्ठिसकमो समयपवड्ढस्सासखेज्जदि-
भागमेत्तो । एवमेद्वेण तप्पाओग्गुक्कस्सेणासखेज्जदिभागेण वट्ठिदूण से काले आगमणिज्जराण सरिसत्तवसेण
तत्तियं चैव सक्रामेमाणयस्स तस्स उक्कस्सयमवड्ढाण होदि । एव तदिवादिसमएसु वि तप्पाओग्गुक्कस्सेण

५३२. सम्पत्तस्स उक्कस्सिया वड्डी कस्स ? ५३३. उच्चेल्लमाणयस्स चरिम-समए^१ । ५३४. उक्कस्सिया हाणी कस्स ? ५३५. गुणिटक्कम्मसियो सम्पत्तमुप्पाएदूण लहुं मिच्छत्तं गओ । तस्स मिच्छाइड्डिस्स पढमसमए अवत्तव्वसंक्रमो, विदियसमए उक्कस्सिया हाणी^२ ।

५३६. सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्सिया वड्डी कस्स ? ५३७ गुणिटक्कम्मसियस्स सव्वसंक्रामयस्स । ५३८. उक्कस्सिया हाणी कस्स ? ५३९. उप्पादिदे सम्पत्ते सम्मामि-च्छत्तादो सम्पत्ते जं संक्रामेदि तं पदेसग्गमंगुलस्सासंखेज्जभागपडिभागं^३ । ५४०.

शंका—सम्यक्त्वप्रकृतिकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? ॥५३२॥

समाधान—सम्यक्त्वप्रकृतिकी उद्वेलना करनेवाले जीवके चरम स्थितिसंबंधके चरम समयमें सम्यक्त्वप्रकृतिकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है ॥५३३॥

शंका—सम्यक्त्वप्रकृतिकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? ॥५३४॥

समाधान—जो गुणितकर्माशिक जीव सम्यक्त्वको उत्पन्न करके लघुकालसे मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ । उस मिथ्यादृष्टिके प्रथम समयमें अवन्तव्यसंक्रमण होता है और द्वितीय समयमें उसके सम्यक्त्वप्रकृतिकी उत्कृष्ट हानि होती है ॥५३५॥

शंका—सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? ॥५३६॥

समाधान—गुणितकर्माशिक जीव जब सर्वसंक्रमणसे सम्यग्मिथ्यात्वको संक्रान्त करता है, तब उसके सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है ॥५३७॥

शंका—सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? ॥५३८॥

समाधान—उपशमसम्यक्त्वके उत्पन्न करनेपर सम्यग्मिथ्यात्वसे सम्यक्त्वप्रकृतिमें जो द्रव्य संक्रमित करता है, वह प्रदेगाग्र अंगुलके असंख्यातवे भागका प्रतिभागी है।

सकमपजाएण वड्ढिदूण तदणतरसमए तत्तिव चेव सकामेमाणयस्स पयदसामित्तमविरुद्ध णेदव्व जाव दुचरिमसमए तप्पाओग्गुक्कस्ससकमवुड्डीए वड्ढिं कादूण चरिमसमए उक्कस्सावट्ठाणपजाएण परिणदाव-लियसम्माइट्ठि त्ति । एत्तियो च्चेषुक्कस्सावट्ठाणसामित्तविसयो । जयध०

१ गुणिटक्कम्मसियल्लण्णेणागतूण सम्पत्तमुप्पाइय सव्वुक्कस्सियाए पूरणाए सम्पत्तमावूरिय तदो मिच्छत्त पडिवजिय सव्वरहस्सेणुव्वेल्लण्णकालेणुव्वेल्लमाणयस्स चरिमट्ठिदिसडयचरिमसमए पयदुक्कस्ससामित्त होइ । तथ किंचूणसव्वसकमदव्वमेत्तस्स उक्कस्सवड्ढिसरूवेणुवलद्धीदो । जयध०

२ जो गुणिटक्कम्मसियो अतोमुहुत्तेण कम्म गुणेहिदि त्ति विवरीय गतूण सम्पत्तमुप्पाइय सव्वुक्कस्सियाए पूरणाए सम्पत्तमाऊरिय तदो सव्वलहु मिच्छत्त गदो, तस्स विदियसमयमिच्छाइड्डिस्स उक्कस्सिया सम्पत्त-पदेसकमहाणी होइ । कुदो; तथ पढमसमयअधापवत्तसक्रमादो अवत्तव्वसरूवादो विदियसमए हीयमाण-सकमदव्वस्स उवरिमासेसहाणिदव्व पेक्खिज्जण वहुत्तोवलभादो । जयध०

३ उव्वसमसम्मत्ते समुप्पादिदे मिच्छत्तस्सेव सम्मामिच्छत्तस्स वि गुणसकमो अत्थि चेव, उव्वसमसम्मत्त-विदियसमयप्पहुडि पडिसमयसखेज्जगुणाए सेडीए सम्मामिच्छत्तादो सम्पत्तसरूवेण सकमपवुत्तीए वाहाणुव-लभादो । किंतु तहा सकममाणसम्मामिच्छत्तदव्वस्स पडिभागो अगुलस्सासंखेज्जदिभागो । जयध०

∴ ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'चरिमसमए' इस पदको टीकाका अग बना दिया है, जब कि इस पदकी टीकाकारने स्वतंत्र व्याख्या की है । (देखो पृ० १२८७)

गुणितकर्मसिओ मम्मत्तमुप्पाएदूण लहुं चैव मिच्छत्तं गदो जहणियाए मिच्छत्तद्वाए पुण्णाए सम्मत्तं पडिवण्णो । तस्स पढमसमयसम्माइट्टिस्स उक्कस्सिया हाणी ।

५४१. अणंताणुवंधीणमुक्कस्सिया वड्ढी कस्स ? ५४२. गुणितकर्मसियस्स सव्वसंक्रामयस्स^१ । ५४३ उक्कस्सिया हाणी कस्स ? ५४४. गुणितकर्मसिओ तप्पा-ओग्ग-उक्कस्सयादो अधापवत्तसंक्रमादो सम्मत्तं पडिवज्जिऊण विज्झादसंक्रामगो जादो । तस्स पढमसमयसम्माइट्टिस्स उक्कस्सिया हाणी । ५४५. उक्कस्सयमवट्ठाणं कस्स ? ५४६. जो अधापवत्तसंक्रमेण तप्पाओग्गुक्कस्सएण वड्ढिदूण अवट्ठिदो, तस्स उक्कस्सयमवट्ठाणं ।

५४७. अट्ठकसायाणमुक्कस्सिया वड्ढी कस्स ? ५४८. गुणितकर्मसियस्स सव्वसंक्रामयस्स^२ । ५४९. उक्कस्सिया हाणी कस्स ? ५५०. गुणितकर्मसियो पढम-

(इसलिए उसकी उत्कृष्ट हानि नहीं होती है ।) अतएव जो गुणितकर्मांशिक जीव सम्यक्त्व-को उत्पन्न करके लघुकालसे ही मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ और जघन्य मिथ्यात्वकालके पूर्ण होनेपर सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ, उस प्रथमसमयवर्ती सम्यग्दृष्टिके सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि होती है ॥५३९-५४०॥

शंका—अनन्तानुवन्धी कपायोकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? ॥५४१॥

समाधान—गुणितकर्मांशिक जीव अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना करते हुए जब सर्वसंक्रमणके द्वारा चरम फालिको संक्रान्त करता है, तब उसके अनन्तानुवन्धी कपायोकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है ॥५४२॥

शंका—अनन्तानुवन्धी कपायोकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? ॥५४३॥

समाधान—गुणितकर्मांशिक जीव तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अधःप्रवृत्तसंक्रमणसे सम्यक्त्व-को प्राप्त करके विध्यातसंक्रमणको प्राप्त हुआ । उस प्रथमसमयवर्ती सम्यग्दृष्टिके अनन्तानु-वन्धी कपायोकी उत्कृष्ट हानि होती है ॥५४४॥

शंका—अनन्तानुवन्धी कपायोका उत्कृष्ट अवस्थान किसके होता है ? ॥५४५॥

समाधान—जो तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अधःप्रवृत्तसंक्रमणसे वृद्धिको प्राप्त होकर अवस्थित है, उसके अनन्तानुवन्धी कपायोका उत्कृष्ट अवस्थान होता है ॥५४६॥

शंका—आठ मध्यम कपायोकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? ॥५४७॥

समाधान—गुणितकर्मांशिक जीव जब चारित्रमोहकी क्षपणाके समय सर्वसंक्रमणके द्वारा उक्त कपायोके सर्वद्रव्यका संक्रमण करता है, तब उसके आठो मध्यम कपायोकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है ॥५४८॥

शंका—आठो कपायोकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? ॥५४९॥

१ गुणितकर्मसियलक्खणेणागतूण सव्वलहु विज्जोयणाए अब्भुट्ठिदस्स चरिमफालीए सव्वसक्रमेण पयदुक्कस्ससामित्त होइ, तत्थ किचूणकम्मट्ठिसचयस्स वड्ढिसरूवेण सक्किदसणादो । जयध०

२ गुणितकर्मसियलक्खणेणागतूण सव्वलहु खवणाए अब्भुट्ठिय सव्वसक्रमेण परिणदम्मि पयद-कम्माणमुक्कस्सिया वड्ढी होइ; तत्थ सव्वसक्रमेण किचूणदिवड्ढगुणहाणिमेत्तसमयपवट्ठाण पयदवड्ढिसरूवेण सक्किदसणादो । जयध०

दाए कसायउवसायणद्वाए जाधे दुविहस्स कोहस्स चरिमसमयसंक्रामगो जादो । तदो से काले मदो देवो जादो । तस्स पहमसमयदेवस्स उक्कस्सिया हाणी । ५५१. एवं दुविहमाण-दुविहमाया-दुविहलोहाणं । ५५२. णवरिअप्पप्पणो चरिमसमयसंक्रामगो होदूण से काले मदो देवो जादो । तस्स पहमसमयदेवस्स उक्कस्सिया हाणी ।

५५३. अट्टुहं कसायाणमुक्कस्सयमवट्टाणं कस्स ? ५५४. अध्यापवत्तसंक्रमेण तप्पाओग्गउक्कस्सएण वट्ठिपूण से काले अवट्ठिदसंक्रामगो जादो । तस्स उक्कस्सयम-वट्टाणं । ५५५ कोहसंजलणस्स उक्कस्सिया वट्ठी कस्स ? ५५६. जस्स उक्कस्सओ सव्व-संक्रमो तस्स उक्कस्सिया वट्ठी । ५५७. तस्सेव से काले उक्कस्सिया हाणी । ५५८. णवरि से काले संक्रमपाओग्गा समयपवट्टा जहण्णा कायव्वा । ५५९. तं जहा । जेसिं से काले आवलियमेत्ताणं समयपवट्टाणं पदेसग्गं संक्रामिज्जहिदि ते समयपवट्टा तप्पाओग्ग-जहण्णा । ५६०. एदीए परूवणाए सव्वसंक्रमं संछुहिदूण जस्स से काले पुव्वपरूविदो

समाधान—गुणितकर्माशिक जीव प्रथम बार कपाय-उपशमनकालमे जिस समय दोनो मध्यम क्रोधोके द्रव्यका चरमसमयवर्ती संक्रामक हुआ और तदनन्तर समयमें मर करके देव हुआ । उस प्रथमसमयवर्ती देवके दोनो क्रोधकपायोकी उत्कृष्ट हानि होती है ॥५५०॥

चूर्णिसू०—इसीप्रकार दोनो मध्यम मान, दोनो माया और दोनो लोभकपायोकी उत्कृष्ट हानि जानना चाहिए । विशेषता केवल यह है कि मान, माया और लोभमेसे अपने-अपने द्रव्यका चरमसमयवर्ती संक्रामक होकर तदनन्तर समयमे मरा और देव हुआ । उस प्रथमसमयवर्ती देवके विवक्षित द्विविध मध्यम मान, माया और लोभकपायकी उत्कृष्ट हानि होती है ॥५५१-५५२॥

शंका—आठो मध्यम कपायोका उत्कृष्ट अवस्थान किसके होता है ? ॥५५३॥

समाधान—जो तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अधःप्रवृत्तसंक्रमणके द्वारा वृद्धिको प्राप्त होकर तदनन्तरकालमे अवस्थित संक्रामक हुआ । उसके आठो मध्यम कपायोका उत्कृष्ट अवस्थान होता है ॥५५४॥

शंका—संव्वलनक्रोधकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? ॥५५५॥

समाधान—जिस क्षपकके संव्वलनक्रोधका उत्कृष्ट सर्वसंक्रमण होता है, उसके ही संव्वलनक्रोधकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है ॥५५६॥

चूर्णिसू०—उस ही जीवके तदनन्तरकालमे संव्वलनक्रोधकी उत्कृष्ट हानि होती है । विशेषता केवल यह है कि तदनन्तर समयमे उसके संक्रमणके योग्य जवन्य समयप्रवद्ध होना चाहिए । उनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—उत्कृष्ट वृद्धिके अनन्तर समयमे जिन आवली-मात्र नवकवद्ध समयप्रवद्धोके प्रदेशाग्र संक्रमित होंगे, वे समयप्रवद्ध अपने बंधकालमे तत्प्रा-योग्य जवन्य योगसे बंधे हुए होना चाहिए । इस प्ररूपणाके द्वारा उत्कृष्ट वृद्धिरूप प्रदेशाग्र सर्वसंक्रमणसे संक्रान्त होकर जिसके तदनन्तरकालमे पूर्वप्ररूपित (आवलीमात्र नवकवद्ध

संक्रमो तस्स उक्कस्सिया हाणी कोहसंजलणस्स । ५६१. तस्सेव से काले उक्कस्सयमव-
ट्ठाणं । ५६२. जहा कोहसंजलणस्स तहा माण-मायासंजलण-पुरिसवेदाणं ।

५६३. लोहसंजलणस्स उक्कस्सिया वड्डी कस्स ? ५६४. गुणिदक्कम्मंसिएण
लहुं चत्तारि वारे कसाया उवसामिदा । अपच्छिमे भवे दो वारे कसायोवसामेऊण खव-
णाए अब्भुट्ठिदो जाधे चरिमसमए अंतरमकदं ताधे उक्कस्सिया वड्डी । ५६५. उक्क-
स्सिया हाणी कस्स ? ५६६. गुणिदक्कम्मंसियो तिणिण वारे कसाए उवसामेऊण चउ-
त्थीए उवसामणाए उवसामेमाणो अंतरे चरिमसमय-अकदे से काले मदो देवो जादो ।
तस्स समयाहियावलिय-उववण्णस्स-उक्कस्सिया हाणी । ५६७. उक्कस्सयमवट्ठाणमपच्च-
क्खणाणावरणभंगो ।

५६८. भय-दुगुंछाणमुक्कस्सिया वड्डी कस्स ? ५६९. गुणिदक्कम्मंसियस्स सव्व-

जघन्य समयप्रवट्ठोका) संक्रमण होगा, उसके संज्वलनक्रोधकी उत्कृष्ट हानि होती है । उसही
जीवके तदनन्तरकालमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । जिस प्रकारसे संज्वलनक्रोधके उत्कृष्ट वृद्धि,
हानि और अवस्थानकी प्ररूपणा की गई है, उसी प्रकारसे संज्वलनमान, संज्वलनमाया और
पुरुषवेदके उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अवस्थानकी प्ररूपणा जानना चाहिए ॥५५७-५६२॥

शंका—संज्वलनलोभकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? ॥५६३॥

समाधान—जिस गुणितकर्माशिक जीवने अल्पकालमें ही चार वार कपायोका उप-
शमन किया है, वह अन्तिम भवमें दो वार कपायोका उपशमन करके क्षपणाके लिए
अभ्युद्यत हुआ । उसने जिस समय चरम समयमें अन्तरको नहीं किया है, उस समय
उसके संज्वलनलोभकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है ॥५६४॥

शंका—संज्वलनलोभकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? ॥५६५॥

समाधान—जो गुणितकर्माशिक जीव तीन वार कपायोका उपशमन करके चौथी
वार उपशमनामें कपायोका उपशमन करता हुआ चरम समयमें अन्तरको न करके तदनन्तर-
कालमें मरा और देव हुआ । उस उत्पन्न हुए देवके एक समय अधिक आवलीके होनेपर
संज्वलनलोभकी उत्कृष्ट हानि होती है ॥५६६॥

चूर्णिसू०—संज्वलनलोभके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामित्व अप्रत्याख्यानावरणकपायके
अवस्थानस्वामित्वके समान जानना चाहिए ॥५६७॥

शंका—भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? ॥५६८॥

समाधान—गुणितकर्माशिक क्षपक जिस समय इन दोनों प्रकृतियोंके द्रव्यका सर्व-
संक्रमण करता है उस समय उसके भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है ॥५६९॥

१ किमट्ठमेसो गुणिदक्कम्मंसिओ चदुक्खुत्तो कसायोवसामणाए पयट्ठाविदो ? अब्भुज्जमाणपयडीहितो
गुणसक्रमेण बहुदव्वसगहणट्ठ । जयध०

संक्रामयस्स' । ५७०. उक्कस्सिया हाणी कस्स ? ५७१. गुणितकम्मसिओ पढमदाए कसाए उवसामेमाणो भय-दुगुंछासु चरिमसमयअणुवसंतासु से काले मदो देवो जादो । तस्स पढमसमयदेवस्स उक्कस्सिया हाणी । ५७२ उक्कस्सयमवट्ठाणमपचक्खाणावरणभंगो । ५७३. एवमित्थि-णवुंसयवेद-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं । ५७४. णवरि अवट्ठाणं णत्थि ।

५७५. मिच्छत्तस्स जहणिया वड्डी कस्स ? ५७६. जस्स कम्मस्स अवट्ठिद-संक्रमो अत्थि, तस्स असंखेज्जलोगपडिभागो वड्डी वा हाणी वा अवट्ठाणं वा होइ । ५७७. जस्स कम्मस्स अवट्ठिदसंक्रमो णत्थि तस्स वड्डी वा हाणी वा असंखेज्जा लो-ग-भागो ण लब्भइ । ५७८. एसा परूवणा अट्ठपदभूदा जहणियाए वड्डीए वा हाणीए वा अवट्ठाणस्स वा । ५७९. एदाए परूवणाए मिच्छत्तस्स जहणिया वड्डी हाणी अव-ट्ठाणं वा कस्स ? ५८०. जस्हि तप्पाओग्गजहणणेण संक्रमेण से काले अवट्ठिदसंक्रमो संभवदि तस्हि जहणिया वड्डी वा हाणी वा । से काले जहणयमवट्ठाणं ।

शंका—भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? ॥५७०॥

समाधान—जो गुणितकर्माशिक जीव प्रथम वार कपायोका उपशमन करता हुआ भय और जुगुप्साको चरम समयमें उपशान्त न करके तदनन्तर कालमें मरा और देव हुआ । उस प्रथमसमयवर्ती देवके भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट हानि होती है ॥५७१॥

चूर्णिसू०—भय और जुगुप्साके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामित्व अप्रत्याख्यानावरणके उत्कृष्ट अवस्थान-स्वामित्वके समान जानना चाहिए । इसी प्रकार स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी उत्कृष्ट वृद्धि और हानिका स्वामित्व जानना चाहिए । केवल इन कर्मोंका अवस्थान नहीं होता है ॥५७२-५७४॥

शंका—मिथ्यात्वकी जघन्य वृद्धि किसके होती है ? जिस कर्मका अवस्थित संक्रमण होता है, उस कर्मकी असंख्यात लोककी प्रतिभागी वृद्धि, अथवा हानि, अथवा अवस्थान होता है । जिस कर्मका अवस्थित संक्रमण नहीं होता है, उस कर्मकी वृद्धि अथवा हानि असंख्यात लोककी प्रतिभागी नहीं प्राप्त होती है । यह प्ररूपणा जघन्य वृद्धि, हानि अथवा अवस्थानकी अर्थपदभूत है । इस प्ररूपणासे मिथ्यात्वकी जघन्य वृद्धि, हानि अथवा अवस्थान किसके होता है ? ॥५७५-५७९॥

समाधान—जहाँपर तत्प्रायोग्य जघन्य संक्रमणसे तदनन्तर समयमें अवस्थित संक्रमण संभव है, वहाँपर जघन्य वृद्धि, अथवा हानि होती है और तदनन्तर कालमें जघन्य अवस्थान होता है ॥५८०॥

१ गुणितकम्मसियलक्खणेणागतूण खवगसेट्ठिमारुहिय सव्वसकमेण परिणदम्मि सव्वुक्कस्सवड्ठिसभवं पडि विरोहाभावादो । जयध०

२ किं कारण, अवट्ठाणसकमपाओग्गपयडीसु एगेसतकम्मपक्खेवुत्तरकमेण सतकम्मवियप्पाणं पयदजहणवड्ठि हाणि अवट्ठाणणिवंधणाणमुप्पत्तीए विरोहाभावादो । जयध०

३ किं कारण; तत्थ तदुवलभकारणसतकम्मवियप्पाणमणुप्पत्तीदो । तदो तत्थागमणिज्जरावसेण पल्लिदोवमस्स असंखेज्जिभाग-पडिभागेण सतकम्मस्स वड्डी वा हाणी वा होइ त्ति तदणुसारेणेव सकमपवुत्ती दट्ठव्वा । जयध०

५८१. सम्पत्तस्स जहणिया हाणी कस्स ? ५८२. जो सम्माइट्ठी* तप्पा-ओग्गजहण्णएण कम्मएण सागरोवमवेछावट्ठी ओगालिदूण मिच्छत्तं गदो । सव्व-महंत-उव्वेल्लणकालेण उव्वेल्लेमाणगस्स तस्स दुचरिमट्ठिदिखंडयस्स चरिमसमए जहणिया हाणी । ५८३. तस्सेव से काले जहणिया वट्ठी । ५८४. एवं सम्पामिच्छत्तस्स वि ।

५८५. अणंताणुवंधीणं जहणिया वट्ठी [हाणी अवट्ठाणं च] कस्स ? ५८६. जहण्णणेण एइंदियकम्मएण विसंजोएदूण संजोइदो । तदो ताव गालिदा जाव तेसिं गलिदसेसाणमधापवत्तणिज्जरा जहण्णेण एइंदियसमयपवट्ठेण सरिसी जादा त्ति । केव-चिरं पुण कालं गालिदस्स अणंताणुवंधीणमधापवत्तणिज्जरा जहण्णएण एइंदियसमय-पवट्ठेण सरिसी भवदि ? तदो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागकालं गालिदस्स जहण्णेण एइंदियसमयपवट्ठेण सरिसी णिज्जरा भवदि । जहण्णेण एइंदियसमयवट्ठेण सरिसी णिज्जरा आवलियाए समयुत्तराए एत्तिएण कालेण होहिदि त्ति तदो मदो एइंदिओ

शंका—सम्यक्त्वप्रकृतिकी जघन्य हानि किसके होती है ? ॥५८१॥

समाधान—जो सम्यग्दृष्टि जीव तत्प्रायोग्य जघन्य कर्मके साथ दो वार छयासठ सागरोपमकाल विताकर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ । वह जब सर्व दीर्घ उद्वेलनकालके द्वारा सम्यक्त्वप्रकृतिकी उद्वेलना करता हुआ द्विचरम स्थितिखंडके चरम समयमे वर्तमान होता है, तब उसके सम्यक्त्वप्रकृतिकी जघन्य हानि होती है ॥५८२॥

चूर्णिसू०—उसी जीवके तदनन्तर समयमे सम्यक्त्वप्रकृतिकी जघन्य वृद्धि होती है । इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य वृद्धि हानिका स्वामित्व जानना चाहिए ॥५८३-५८४॥

शंका—अनन्तानुबन्धी कपायोकी जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान किसके होता है ? ॥५८५॥

समाधान—जो जघन्य एकेन्द्रिय-सत्कर्मके साथ पंचेन्द्रियोमे आकर और वहाँ अनन्तानुबन्धी कपायोका विसंयोजन करके अन्तर्मुहूर्तके पश्चात् ही अनन्तानुबन्धी कपायसे संयुक्त हुआ । तदनन्तर एकेन्द्रियोमे उत्पन्न होकर उसने अनन्तानुबन्धीको तब तक गलाया, जब तक कि अनन्तानुबन्धीके गलित-शेष समयप्रवट्ठोकी अधःप्रवृत्तनिर्जरा जघन्य एकेन्द्रिय-समय-प्रवट्ठके सदृश नहीं हो जाती है ।

शंका—कितने कालतक गलानेपर अनन्तानुबन्धी कपायोकी अधःप्रवृत्तनिर्जरा जघन्य एकेन्द्रिय-समयप्रवट्ठके सदृश होती है ?

समाधान—एकेन्द्रियोमे तत्प्रायोग्य पत्त्योपमके असंख्यातवे भाग-प्रमित काल तक गलानेवाले जीवके जघन्य एकेन्द्रिय-समयप्रवट्ठके सदृश निर्जरा होती है ।

चूर्णिसू०—जब जघन्य एकेन्द्रिय-समयप्रवट्ठके सदृश निर्जरा एक समय-अधिक आवली-प्रमित कालसे होगी अर्थात् होनेवाली थी कि तब वह मरा और जघन्ययोगी एके-

*ताम्रपत्रवाली प्रतिमे 'सम्माइट्ठी' के स्थानपर 'सम्मा [मिच्छा] इट्ठी' ऐसा पाठ मुद्रित है । (देखो पृ० १२९७) पता नहीं कोष्ठकके भीतर 'मिच्छा' पदके देनेसे सम्पादकका क्या अभिप्राय है ?

जहण्णजोगी जादो । तस्स समयाहियावलियउववण्णस्स अणंताणुवंधीणं जहण्णिया वड्डी वा हाणी वा अवट्ठाणं वा ।

५८७. अट्ठहं कसायाणं भय-दुगुंछाणं च जहण्णिया वड्डी हाणी अवट्ठाणं च कस्स ? ५८८. एइंदियकम्मेण जहण्णेण संजमासंजमं संजमं च बहुसो गदो । तेणेव चत्तारि वारे कसायभुवसामिदा । तदो एइंदिए गदो पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं कालमच्छिऊण उवसामयसमयपवद्धेसु गलिदेसु जाधे वंधेण णिज्जरा सरिसी भवदि ताधे एदेसिं कम्माणं जहण्णिया वड्डी च हाणी च अवट्ठाणं च ।

५८९. चट्ठसंजलणाणं जहण्णिया वड्डी हाणी अवट्ठाणं च कस्स ? ५९०. कसाए अणुवसामेऊण संजमासंजमं संजमं च बहुसो लद्धूण एइंदिए गदो । जाधे वंधेण णिज्जरा तुल्ला ताधे चट्ठसंजलणस्स जहण्णिया वड्डी हाणी अवट्ठाणं च ।

५९१. पुरिसवेदस्स जहण्णिया वड्डी हाणी अवट्ठाणं च कस्स ? ५९२. जम्हि अवट्ठाणं तस्मिह तप्पाओग्गजहण्णएण कम्मेण जहण्णिया वड्डी वा हाणी वा अवट्ठाणं वा ।

न्द्रिय हुआ । उस एक समय-अधिक आवली कालसे उत्पन्न होनेवाले जघन्ययोगी एकेन्द्रिय जीवके अनन्तानुवन्धी कपायोकी जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि, अथवा जघन्य अवस्थान होता है ॥५८६॥

शंका—आठो मध्यम कपायोकी और भय-जुगुसाकी जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान किसके होता है ? ॥५८७॥

समाधान—जो जघन्य एकेन्द्रियसत्कर्मके साथ संयमासंयम और संयमको बहुत बार प्राप्त हुआ और उसने चार बार कपायोका उपशमन किया । पुनः वह एकेन्द्रियोमे चला गया । वहाँ परलोपमके असंख्यातवे भागप्रमित कालतक रहकर उपशामककालमे बाँधे-हुए समयप्रवद्धोके गल जानेपर जिस समय उसके वन्धके सद्दश निर्जरा होती है, उस समय उसके इन उपयुक्त कर्मोकी जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान होता है ॥५८८॥

शंका—चारो संज्वलनकपायोकी जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान किसके होता है ? ॥५८९॥

समाधान—जो जीव कपायोका उपशमन करके और संयमासंयम तथा संयमको बहुत बार प्राप्त करके एकेन्द्रियोमे उत्पन्न हुआ । उसके जिस समय वन्धके तुल्य निर्जरा होती है, उस समय उसके चारो संज्वलनकपायोकी जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान होता है ॥५९०॥

शंका—पुरुषवेदकी जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान किसके होता है ? ॥५९१॥

समाधान—जहाँपर पुरुषवेदके प्रदेशसंक्रमणका अवस्थान संभव है, वहाँपर तत्प्रायोग्य जघन्य कर्मके साथ वर्तमान जीवके पुरुषवेदकी जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान होता है ॥५९२॥

५९३. हस्स-रदीणं जहणिया वड्डी कस्स ? ५९४. एइंदियकम्मेण जहण्ण-एण संजमासंजमं संजमं च बहुमो लद्धूण चत्तारि वारे कसाए उवसामेऊण एइंदिए गदो । तदो पलिदोवमस्सासंखेज्जदिभागं कालमच्छिऊण सण्णी जादो । सव्वमहंति-मरदि-सोगवंधगद्धं कादूण हस्स-रदीओ पवद्धाओ । पहमसमयहस्स-रइवंधगस्स तप्पा-ओग्गजहण्णओ वंधो च आगमो च तस्स आवलिय-हस्स-रदिवंधमाणस्स जहणिया हाणी । ५९५. तस्सेव से काले जहणिया वड्डी । ५९६. अरदिसोगाणमेवं चेव । णवरि पुवं हस्स-रदीओ वंधावेयव्वाओ । तदो आवलिय-अरदि-सोगवंधगस्स जहणिया हाणी । से काले जहणिया वड्डी ।

५९७. एवमित्थिवेद-णवुंसयवेदानं । ५९८. णवरि जइ इत्थिवेदस्स इच्छसि, पुवं णवुंसयवेद-पुरिसवेदे वंधावेदूण पच्छा इत्थिवेदो वंधावेयव्वो । तदो आवलिय-इत्थिवेदवंधमाणयस्स इत्थिवेदस्स जहणिया हाणी । से काले जहणिया वड्डी । ५९९. जदि णवुंसयवेदस्स इच्छसि, पुव्वमित्थि-पुरिसवेदे वंधावेदूण पच्छा णवुंसयवेदो

शंका—हास्य और रतिकी जघन्य वृद्धि और हानि किसके होती है ? ॥५९३॥

समाधान—जो जीव जघन्य एकेन्द्रिय-सत्कर्मके साथ संयमासंयम और संयमको बहुत बार प्राप्त करके और चार बार कपायोका उपशमन करके एकेन्द्रियोमे गया । वहाँ पल्यो-पमके असंख्यातवे भागप्रमित कालतक रहकर संज्ञी जीवोमे उत्पन्न हुआ । वहाँपर सर्व-महान् अरति-शोकके वंध-कालको करके हास्य और रतिको बाँधा । प्रथमसमयवर्ती हास्य-रतिके वन्धकके तत्प्रायोग्य जघन्य वन्ध है और जघन्य निर्जरा है । इसप्रकार एक आवली तक हास्य और रतिके वन्ध करनेवाले जीवके हास्य और रतिकी जघन्य हानि होती है । उसके ही तदनन्तर समयमे हास्य और रतिकी जघन्य वृद्धि होती है ॥५९४-५९५॥

चूर्णिसू०—अरति और शोककी जघन्य वृद्धि और हानि भी इसी प्रकार जानना चाहिए । विशेषता केवल यह है कि उसके पहले हास्य और रतिका वन्ध कराना चाहिए । तदनन्तर एक आवलीतक अरति-शोकके वन्ध करनेवाले जीवके अरति शोककी जघन्य हानि होती है और तदनन्तर कालमे उसके अरति-शोककी जघन्य वृद्धि होती है ॥५९६॥

चूर्णिसू०—इसीप्रकार स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी जघन्य वृद्धि और हानिका स्वामित्व जानना चाहिए । विशेषता केवल यह है कि यदि स्त्रीवेदकी जघन्य वृद्धि और हानि जानना चाहते हो, तो पहले नपुंसकवेद और पुरुषवेदका वंध कराके पीछे स्त्रीवेदका वन्ध कराना चाहिए । तदनन्तर एक आवलीतक स्त्रीवेदका वन्ध करनेवाले जीवके स्त्रीवेदकी जघन्य हानि होती है और तदनन्तरकालमे उसके स्त्रीवेदकी जघन्य वृद्धि होती है । यदि नपुंसकवेदकी जघन्य वृद्धि और हानि जानना चाहते हो तो पहले स्त्रीवेद और पुरुष-वेदका वन्ध कराके पीछे नपुंसकवेदका वन्ध कराना चाहिए । तदनन्तर एक आवली तक

बंधावेयव्यो । तदो आवलियणवुंसयवेदं बंधमाणयरस जहणिया हाणी । से काले जहणिया वड्डी ।

६००. अप्पावहुअं । ६०१. उक्कस्सयं ताव । ६०२. मिच्छत्तस्स सव्वत्थोव-
सुक्कस्सयमवट्ठाणं । ६०३. हाणी असंखेज्जगुणा । ६०४. वड्डी असंखेज्जगुणा ।
६०५. एवं वारस कसाय-भय-दुगुंछाणं ।

६०६. सम्मत्तस्स सव्वत्थोवा उक्कस्सिया वड्डी । ६०७. हाणी असंखेज्ज-
गुणा । ६०८. सम्मामिच्छत्तस्स सव्वत्थोवा उक्कस्सिया हाणी । ६०९. उक्कस्सिया
वड्डी असंखेज्जगुणा । ६१०. एवमित्थिवेद-णवुंसयवेदस्स, हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं ।

६११. कोहसंजलणस्स सव्वत्थोवा उक्कस्सिया वड्डी । ६१२. हाणी अव-
ट्ठाणं च त्रिसेसाहियं । ६१३. एवं माण-मायासंजलण-पुरिसवेदाणं । ६१४. लोहसंज-

नपुंसकवेदका बन्ध करनेवाले जीवके नपुंसकवेदकी जघन्य हानि होती है और तदनन्तर कालमें उसके नपुंसकवेदकी जघन्य वृद्धि होती है ॥५९७-५९९॥

चूर्णिसू०—अत्र पदनिक्षेपसम्बन्धी अल्पवहुत्वको कहते हैं । उसमें पहले उत्कृष्ट अल्पवहुत्व कहते हैं । मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अवस्थान सबसे कम होता है । मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अवस्थानसे उसकी उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणित होती है । मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि-से उसकी उत्कृष्ट वृद्धि असंख्यातगुणित होती है । इसीप्रकार अनन्तानुबन्धी आदि वारह कषाय, भय और जुगुप्साका अल्पवहुत्व जानना चाहिए ॥६००-६०५॥

चूर्णिसू०—सम्यक्त्वप्रकृतिकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे कम होती है । इसकी उत्कृष्ट वृद्धिसे इसीकी उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणित होती है । सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि सबसे कम होती है । इससे इसीकी उत्कृष्ट वृद्धि असंख्यातगुणित होती है । इसी प्रकार स्त्रीवेद, नपुंसक-वेद, हास्य, रति, अरति और शोकके अल्पवहुत्वको जानना चाहिए ॥६०६-६१०॥

चूर्णिसू०—संज्वलनक्रोधकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे कम होती है । इससे संज्वलन-क्रोधकी उत्कृष्ट हानि और अवस्थान विशेष अधिक होते हैं । इसीप्रकार संज्वलनमान, संज्वलनमाया और पुरुषवेदका अल्पवहुत्व जानना चाहिए । संज्वलनलोभका उत्कृष्ट अव-

१ कुदो; एयसमयपवट्ठासंखेज्जदिभागपमाणत्तादो । जयध०

२ कि कारण, चरिमगुणसकमादो विज्झादसकममि पदिदस्स पढमसमयअसखेज्जसमयपवट्ठे हाइदूण हाणी जादा, तेणेद पदेसग्गमसखेज्जगुण भणिद । जयध०

३ कुदो, सव्वसकममि उक्कस्सवड्ढिसामित्तावलवणादो । जयध०

४ कि कारण, उव्वेत्तलणकालम्भतरे गल्लिदसेसदव्वस्स चरिमुव्वेत्तलणकडयचरिमफालीए लड्डुक्कस्स-भावत्तादो । जयध०

५ कुदो, मिच्छत्त गयस्स विदियसमवमि अधापवत्तसकमेण पडिलड्डुक्कस्सभावत्तादो । जयध०

६ कुदो, अधापवत्तसकमादो विज्झादस कमे पदिदपढमसमयसम्माइट्ठिमि किंचूणअधापवत्तसकम-दव्वमेत्तुक्कस्सहाणिभावेण परिग्गहादो । जयध०

७ कुदो, दसणमोहक्खवणाए सव्वसकमेण तहुक्कस्ससामित्तपडिलभादो । जयध०

लणस्स सव्वत्थोवमुक्कस्समवट्ठाणं । ६१५. हाणी विसेसाहिया^३ । ६१६. वड्डी विसेसाहिया ।

६१७. एत्तो जहण्णयं । ६१८. मिच्छत्तस्स सोलसकसाय-पुरिसवेद-भय-दुगुं-छाणं जहण्णिया वड्डी हाणी अवट्ठाणं च तुल्लाणि^३ । ६१९. सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं सव्वत्थोवा जहण्णिया हाणी^५ । ६२०. वड्डी असंखेज्जगुणा^३ । ६२१. इत्थि-णवुंसय-वेद-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं सव्वत्थोवा जहण्णिया हाणी^५ । ६२२. वड्डी विसेसाहिया^३ ।

पदणिकखेवो समत्तो ।

स्थान-सवसे कम होता है । इससे इसीकी उत्कृष्ट हानि विशेष अधिक होती है । इससे इसीकी उत्कृष्ट वृद्धि विशेष अधिक होती है ॥ ६११-६१६ ॥

चूणिसू०—अब इससे आगे जघन्य अल्पवहुत्व कहते हैं—मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान परस्पर तुल्य होते हैं । सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य हानि सबसे कम होती है । इससे इन दोनोंकी जघन्य वृद्धि असंख्यातगुणित होती है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी जघन्य हानि सबसे कम होती है । जघन्य हानिसे इनकी जघन्य वृद्धि विशेष अधिक होती है ॥ ६१७-६२२ ॥

इस प्रकार पदनिक्षेप अनुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

१ किं पमाणमेदमवट्ठददव्व ? असखेज्जसमयपवद्वपमाणमेद । किं कारण, तप्पाओग्गुक्कस्स-अधापवत्तसकमेण वड्ढिदूणावट्ठदम्मि वड्ढिणिमित्तमूलदव्वेण सहावट्ठाणव्भुवगमादो । तदो दिवड्ढ-गुणहाणिमेत्तसमयपवद्वानमधापवत्तभागहारपडिभागेणासखेज्जदिभागमेत्त होदूण सव्वत्थोवमेद ति वेत्तव्वं । जयध०

२ किं कारण, उवसमसेटीए सव्वुक्कस्सगुणसकमदव्व पडिच्छिय काल कादूण देवेसुववण्णस्स समयाहियावलियाए अणूणाहियत्तकालभावे अधापवत्तसकमेण हाणिववहारव्भुवगमादो । जयध०

३ कुदो, एदेसिं कम्माणमेगसत्तकम्मपक्खेवावलवणेण जहण्णवड्ढि-हाणि-अवट्ठाणाण सामित्त-पडिलभादो । जयध०

४ किं कारण; खविदकम्मसियदुचरिसुव्वेल्लणखडय चरिमफालीए पडिलद्वजहण्णभावत्तादो । जयध०

५ कुदो, सम्मत्तस्स चरिसुव्वेल्लणखडयपटमफालीए गुणसकमेण जहण्णभावपडिलभादो । सम्मा-मिच्छत्तस्स वि दुचरिसुव्वेल्लणखडयचरिमफालि सकामिय सम्मत्त पडिवण्णस्स पटमसमये विज्झादसकमेण जहण्णसामित्तदसणादो । जयध०

६ किं कारण, खविदकम्मसियलक्खणेणागतूण एइंदिएसु पल्लिदोवमस्स असखेज्जदिभागमेत्तकालं गालिय पुणो सण्णिपंचिदिएसुप्पलिय पडिवक्खवधगद्व बोलाविय सगवधपारभादो आवलियचरिमसमए वट्टमाणस्स गल्लिदसेसजहण्णसत्तकम्मविसयअधापवत्तसकमेण पडिलद्वजहण्णभावत्तादो । जयध०

७ किं कारण; पुव्वुत्तेणेव कमेणागतूण सण्णिपंचिदिएसु अप्पणो पडिवक्खवधगद्व गालिय सगवधपारभादो समयाहियावलियाए वट्टमाणस्स पुव्विल्लसतादो विसेसाहियसत्तकम्मविसयत्तेण पडिवण्ण-जहण्णभावत्तादो । जयध०

६२३. वड्डीए तिण्णि अणियोगद्वाराणि समुक्कित्तणा सामित्तमप्पावहुअं च ।
 ६२४. समुक्कित्तणा । ६२५. मिच्छत्तस्स अत्थि असंखेज्जभागवड्ढि-हाणी असंखेज्ज-
 गुणवड्ढि-हाणी, अवट्ठाणमवत्तव्वयं च । ६२६. एवं वारसकसाय-भय-दुगुंछाणं । ६२७.
 एवं सम्मापिच्छत्तस्स वि, णवरि अवट्ठाणं णत्थि । ६२८. सम्मत्तस्स असंखेज्जभाग-
 हाणी असंखेज्जगुणवड्ढि-हाणी अवत्तव्वयं च अत्थि । ६२९. तिसंजलण-पुरिसवेदाण-
 मत्थि चत्तारि वड्ढी चत्तारि हाणीओ अवट्ठाणमवत्तव्वयं च । ६३०. लोहसंजलणस्स
 अत्थि असंखेज्जभागवड्ढी हाणी अवट्ठाणमवत्तव्वयं च । ६३१. इत्थि-णवुंसयवेद-हस्स-
 रइ-अरइ-सोगाणमत्थि दो वड्ढी हाणीओ अवत्तव्वयं च ।

६३२. सामित्ते अप्पावहुए च विहासिदे वड्ढी समत्ता भवदि ।

६३३. एत्तो ट्ठाणाणि । ६३४. पदेससंक्रमट्ठाणाणं परूवणा अप्पावहुअं च ।
 ६३५. परूवणा जहा । ६३६. मिच्छत्तस्स अभवसिद्धियपाओग्गेण जहण्णएण कम्मेण
 जहण्णयं संक्रमट्ठाणं ।

चूर्णिसू०—प्रदेशसंक्रमणसम्बन्धी वृद्धिके तीन अनुयोगद्वार है—समुत्कीर्तना, स्वा-
 मित्व और अल्पवहुत्व । उनमेसे पहले समुत्कीर्तना कहते हैं—मिथ्यात्वकी असंख्यातभाग-
 वृद्धि होती है, असंख्यातभागहानि होती है, असंख्यातगुणवृद्धि होती है, असंख्यातगुण-
 हानि होती है, अवस्थान होता है और अवक्तव्य होता है । इसीप्रकार अनन्तानुबन्धी
 आदि वारह कपायोकी तथा भय और जुगुंसाकी जानना चाहिए । इसीप्रकार सम्यग्मिथ्यात्व-
 की भी वृद्धि-हानि जानना चाहिए । केवल उसका अवस्थान नहीं होता है ॥६२३-६२७॥

चूर्णिसू०—सम्यक्त्वप्रकृतिकी असंख्यातभागहानि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यात-
 गुणहानि और अवक्तव्य होते हैं । संज्वलनक्रोध, मान, माया और पुरुषवेदकी चारो
 प्रकारकी वृद्धि, चारो प्रकारकी हानि, अवस्थान और अवक्तव्य होता है । संज्वलनलोभकी
 असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, अवस्थान और अवक्तव्यसंक्रमण होता है । स्त्रीवेद,
 नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि ये दो
 वृद्धियाँ, असंख्यातभागहानि, असंख्यातगुणहानि ये दो हानियाँ और अवक्तव्यसंक्रमण होता
 है ॥६२८-६३१॥

चूर्णिसू०—समुत्कीर्तनाके अनुसार स्वामित्व और अल्पवहुत्वकी विभाषा करनेपर
 वृद्धिसम्बन्धी प्ररूपणा समाप्त हो जाती है ॥६३२॥

इस प्रकार वृद्धि अनुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

चूर्णिसू०—अत्र इससे आगे प्रदेशसंक्रमणसम्बन्धी स्थानोंको कहते हैं । प्रदेशसंक्रमण-
 स्थानोंके विषयमे प्ररूपणा और अल्पवहुत्व ये दो अनुयोगद्वार होते हैं । उनमे प्ररूपणा
 इस प्रकार है—अभवसिद्धिकोके योग्य जघन्य कर्मके द्वारा मिथ्यात्वका जघन्य संक्रमस्थान
 होता है ॥६३३-६३६॥

१ त कथ, एदेण (अभवसिद्धियपाओग्गेण) जहण्णकम्मेणागतूण असण्णिपत्तिदिएसुववज्जिय पजत्तयदो
 होदूण तस्य देवाउअं वधिय सव्वलहु कालं कादूण देवेसुववज्जिय छदि पजत्तीहि पजत्तयदो होदूण पढम-

६३७. अणंतम्हि (अणं तम्हि) चेव कम्मे असंखेज्जलोगभागुत्तरं संक्रम-
 ङ्गाणं होइ । ६३८. एवं जहण्णए कम्मे असंखेज्जा लोगा संक्रमङ्गाणाणि । ६३९. तदो
 पदेसुत्तरे दुपदेसुत्तरे वा, एवमणंतभागुत्तरे वा जहण्णए संतकम्मे ताणि चेव संक्रमङ्गा-
 णाणि । ६४०. असंखेज्जलोगे भागे पक्खित्ते विदियसंक्रमङ्गाणपरिवाडी होइ । ६४१.
 जो जहण्णगो पक्खेवो जहण्णए कम्मसरीरे तदो जो च जहण्णगो कम्मे विदियसंक्रमङ्गाण-
 विसेसो असंखेज्जगुणो । ६४२ एत्थ वि असंखेज्जा लोगा संक्रमङ्गाणाणि ।

विशेषार्थ—अभव्यसिद्धोके योग्य जघन्य कर्मसे अभिप्राय यह है कि जो क्षपित-
 कर्माग्निक जीव एकेन्द्रियोमे कर्मस्थितिपर्यन्त रहा और वहाँपर उसने जो जघन्य कर्म संचित
 किया, वह अभव्यसिद्धोके योग्य जघन्य कर्म यहाँ विवक्षित है । इस जघन्य कर्मसे सबसे
 छोटा संक्रमस्थान उत्पन्न होता है । इसके अतिरिक्त जयधवलाकारने दूसरे प्रकारसे भी
 जघन्य संक्रमस्थानकी उत्पत्ति बतलाई है । वे कहते हैं कि जो जीव जघन्य कर्मके साथ
 एकेन्द्रियोसे आकर असंज्ञिपंचेन्द्रियोमे उत्पन्न होकर पर्याप्त हुआ और अति शीघ्र देवायुका
 बंध कर मरा और देवोमे उत्पन्न हुआ । वहाँ पर्याप्त होकर उसने पहले उपशमसम्यक्त्वको
 प्राप्त किया । तदनन्तर वेदकसम्यक्त्वको धारण किया और दो बार छ्यासठ सागरोपम
 तक वेदकसम्यक्त्वका परिपालनकर उसके अन्तमे अन्तर्मुहूर्त शेष रहनेपर दर्शनमोहकी क्षपणा-
 के लिए उद्यत हुआ । उस जीवके अधःप्रवृत्तकरणके चरम समयमे जघन्य परिणामके कारण-
 भूत विध्यातसंक्रमणके द्वारा मिथ्यात्वका सर्वजघन्य प्रदेशसंक्रमणस्थान उत्पन्न होता है ।

अत्र मिथ्यात्वके अजघन्य प्रदेशसंक्रमस्थानका निरूपण करते हैं—

चूर्णिसू०—उस ही सत्कर्ममे असंख्यातलोकप्रमितभागसे अधिक अन्य अर्थात्
 दूसरा संक्रमस्थान उत्पन्न होता है । पुनः उसी जघन्य सत्कर्ममे असंख्यात लोकभागसे अधिक
 तीसरा संक्रमस्थान होता है । इसप्रकार उसी जघन्य सत्कर्ममे असंख्यात लोकप्रमित संक्रम-
 स्थान होते हैं । उससे एक प्रदेश अधिक, दो प्रदेश अधिक, तीन प्रदेश अधिक, चार प्रदेश
 अधिक, इत्यादि क्रमसे संख्यात प्रदेश अधिक, असंख्यात प्रदेश अधिक और अनन्त भाग
 अधिक जघन्य सत्कर्ममे वे ही संक्रमस्थान उत्पन्न होते हैं । (यह संक्रमस्थानोकी प्रथम
 परिपाटी या परम्परा है ।) जघन्य सत्कर्ममे असंख्यात लोकके प्रक्षिप्त करनेपर संक्रमस्थानो-
 की दूसरी परिपाटी उत्पन्न होती है । जघन्य कर्मशरीर अर्थात् सत्कर्ममे जो जघन्य प्रक्षेप
 है, उससे जघन्य सत्कर्मपर जो द्वितीय संक्रमस्थानविशेष है, वह असंख्यातगुणित है । इस
 द्वितीय संक्रमस्थानपरिपाटीमे भी असंख्यात लोकप्रमाण संक्रमस्थान होते हैं ॥ ६३७-६४२ ॥

सम्मत्तमुष्पाइय तदो वेदयसम्मत्त पडिवज्जिय वेछावट्ठिसागरोवमाणि सम्मत्तमणुपालिय तदवसाणे अतो-
 मुहुत्तमेसे दसणमोहक्खवणाए अट्ठसुट्ठिदो जो जीवो, तस्स अधापवत्तकरणचरिमसमये वट्टमाणस्स जहण्ण-
 परिणामणिव वणविज्झादसकमेण सव्वजहण्णपदेसकमट्टाण होइ । जयध०

१ कुदो, पाणाकालसवविणाणाजीवेहि तदियादिपरिणामट्टाणेहि परिवाडीए परिणमाविय तम्मि
 जहण्णसतकम्मे सकामिज्जमाणे अवट्ठदपक्खेवुत्तरकमेण पुव्वविरचिदपरिणामट्टाणमेत्ताणं चेव सकमट्टा-
 णाणमुप्पत्तीए परिष्फुडमुवलभादो । जयध०

६४३. एवं सव्वासु परिवाडीसु । ६४४. णवरि सव्वसंक्रमे अणंताणि संक्रमट्टाणाणि । ६४५. एवं सव्वकम्मणं । ६४६ णवरि लोहसजलणस्म सव्वसंक्रमो णत्थि^१ । ६४७. अप्पावहुअं । ६४८. सव्वत्थोवाणि लोहसंजलणे पदेससंक्रमट्टाणाणि^२ । ६४९. सम्मत्ते पदेससंक्रमट्टाणाणि अणंतगुणाणि^३ । ६५०. अपच्चक्खाणमाणे पदेससंक्रमट्टाणाणि असखेज्जगुणाणि । ६५१. कोहे पदेससंक्रमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । ६५२. मायाए पदेससंक्रमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । ६५३. लोहे पदेससंक्रमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । ६५४. पच्चक्खाणमाणे पदेससंक्रमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । ६५५. कोहे पदेससंक्रमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । ६५६ मायाए पदेससंक्रमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । ६५७. लांहे पदेससंक्रमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । ६५८. अणंताणुवंधिमाणस्स पदेससंक्रमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । ६५९. कोहे पदेससंक्रमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । ६६०. मायाए पदेससंक्रमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । ६६१. लोभे पदेससंक्रमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।

चूर्णिसू०—इसीप्रकार सर्वसंक्रमस्थानपरिपाटियोमे असंख्यात लोकप्रमित संक्रमस्थान होते है । केवल सर्वसंक्रमणमें अनन्त संक्रमस्थान होते है । जिस प्रकार मिथ्यात्वके संक्रमस्थान होते हैं उसी प्रकार सर्व कर्मोंके संक्रमस्थान जानना चाहिए । केवल संज्वलनलोभका सर्वसंक्रमण नहीं होता है ॥ ६४३-६४६ ॥

चूर्णिसू०—अत्र प्रदेशसंक्रमस्थानोका अल्पबहुत्व कहते हैं । संज्वलनलोभमे प्रदेशसंक्रमस्थान सबसे कम है । संज्वलनलोभसे सम्यक्त्वप्रकृतिमे प्रदेशसंक्रमस्थान अनन्तगुणित है । सम्यक्त्वप्रकृतिसे अप्रत्याख्यानमानमे प्रदेशसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित है । अप्रत्याख्यानमानसे अप्रत्याख्यानक्रोधमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । अप्रत्याख्यानक्रोधसे अप्रत्याख्यानमायामे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । अप्रत्याख्यानमायासे अप्रत्याख्यानलोभमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । अप्रत्याख्यानलोभसे प्रत्याख्यानमानसे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । प्रत्याख्यानमानसे प्रत्याख्यानक्रोधमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । प्रत्याख्यानक्रोधसे प्रत्याख्यानमायामे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । प्रत्याख्यानमायासे प्रत्याख्यानलोभमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । प्रत्याख्यानलोभसे अनन्तानुबन्धीमानमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । अनन्तानुबन्धीमानसे अनन्तानुबन्धीक्रोधमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । अनन्तानुबन्धीक्रोधसे अनन्तानुबन्धीमायामे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । अनन्तानुबन्धीमायासे अनन्तानुबन्धीलोभमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं ॥ ६४७-६६१ ॥

१ कि कारण, परपयडिस्सछोहणेण विणा खविदत्तादो । तम्हा लोहसजलणस्सासंखेज्जलोगमेत्ताणि चैव सक्रमट्टाणाणि अघापवत्तसक्रममत्सिज्जण परुवेयव्वाणि त्ति भावत्थो । जयध०

२ कुदो, लोहसजलणस्स सव्वसकमाभावेणासखेज्जलोगमेत्ताण चैव सक्रमट्टाणाणमुवलभादो । जयध०

३ कि कारण, अभवत्तिद्विपट्ठितो अणतगुणसिद्धाणमणंतभागपमाणत्तादो । जयध०

६६२. मिच्छत्तस्स पदेससंक्रमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । ६६३. सम्मामिच्छत्ते पदेससंक्रमट्टाणाणि विसेसाहियाणि^१ । ६६४. हस्से पदेससंक्रमट्टाणाणि अणंतगुणाणि^२ । ६६५. रदीए पदेससंक्रमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । ६६६. इत्थिवेदे पदेससंक्रमट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि^३ । ६६७ सोगे पदेससंक्रमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । ६६८. अरदीए पदेससंक्रमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । ६६९. णवुंसयवेदे पदेससंक्रमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । ६७०. दग्गुच्छाए पदेससंक्रमट्टाणाणि विसेसाहियाणि^४ । ६७१. भये पदेससंक्रमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । ६७२. पुरिसवेदे पदेससंक्रमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । ६७३. कोहसंजलणे पदेससंक्रमट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि^५ । ६७४. माणसंजलणे पदेससंक्रमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । ६७५. मायासंजलणे पदेससंक्रमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।

६७६. णिरयगईए सव्वत्थोवाणि अपच्चक्खणमाणे पदेससंक्रमट्टाणाणि । ६७७. कोहे पदेससंक्रमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । ६७८. मायाए पदेससंक्रमट्टाणाणि विसेसा-

चूर्णिसू०—अनन्तानुवन्धीलोभसे मिथ्यात्वके प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । मिथ्यात्वसे सम्यग्मिथ्यात्वमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । सम्यग्मिथ्यात्वसे हास्यमे प्रदेशसंक्रमस्थान अनन्तगुणित है । हास्यसे रतिमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । रतिसे स्त्रीवेदमे प्रदेशसंक्रमस्थान संख्यातगुणित हैं । स्त्रीवेदसे शोकमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । शोकसे अरतिमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । अरतिसे नपुंसकवेदमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । नपुंसकवेदसे जुगुप्सासे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । जुगुप्सासे भयमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । भयसे पुरुषवेदमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । पुरुषवेदसे संज्वलनक्रोधमे प्रदेशसंक्रमस्थान संख्यातगुणित है । संज्वलनक्रोधसे संज्वलनमानसे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । संज्वलनमानसे संज्वलनमायासे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है ॥ ६६२-६७५ ॥

चूर्णिसू०—(रतिसार्गणाकी अपेक्षा) नरकगतिमे अप्रत्याख्यानमानके प्रदेशसंक्रमस्थान सबसे कम हैं । अप्रत्याख्यानमानसे अप्रत्याख्यानक्रोधमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । अप्रत्याख्यानक्रोधसे अप्रत्याख्यानमायामें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । अप्रत्या-

१ किं कारण, मिच्छत्तजहण्णचरिमफालिमुक्कस्सचरिमफालीदो सोहिय सुद्धसेसदव्वादो सम्मामिच्छत्तसुद्धसेसचरिमफालिदव्वस्स गुणर.कमभागहारेण खडिदेयखडमेत्तेण अहियत्तदसणादो, मिच्छाद्दट्ठिम्मि वि सम्मामिच्छत्तस्स अणताणं सकमट्टाणाणमहियाणसुवलभादो च । जयध०

२ कुदो, देसवाहत्तादो । जयध०

३ कुदो; वधगद्धापाहम्मादो । जयध०

४ कुदो, धुवन्नधित्तेणित्थि पुरिसवेदन्नधगद्धासु वि सचयोवलंभादो । जयध०

५ कुदो; कसायच्चउव्वाणेण सह णोकसायभागस्स सव्वस्सेव कोहसजलणचरिमफालीए सव्वसकमसरुवेण परिणदस्सुवलभादो । जयध०

हियाणि । ६७९. लोहे पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि । ६८०. पच्चक्खाणमाणे पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि । ६८१. कोहे पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि । ६८२. मायाए पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि । ६८३. लोहे पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि ।

६८४ मिच्छत्ते पदेससंक्रमद्वाणाणि असंखेज्जगुणाणि । ६८५. हस्से पदेससंक्रमद्वाणाणि असंखेज्जगुणाणि । ६८६. रदीए पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि । ६८७. इत्थिवेदे पदेससंक्रमद्वाणाणि संखेज्जगुणाणि । ६८८. सोजे पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि । ६८९. अरदीए पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि । ६९०. णवुंसयवेदे पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि । ६९१. दुगुंछाए पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि । ६९२. भए पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि । ६९३. पुरिसवेदे पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि ।

६९४. माणसंजलणे पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि । ६९५. कोहसंजलणे पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि । ६९६. मायासंजलणे पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि । ६९७. लोहसंजलणे पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि । ६९८. सम्भत्ते पदेससंक्रमद्वाणाणि अणंतगुणाणि । ६९९. सम्भामिच्छत्ते पदेससंक्रमद्वाणाणि

ख्यानमायासे अप्रत्याख्यानलोभमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । अप्रत्याख्यानलोभसे प्रत्याख्यानमानमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । प्रत्याख्यानमानसे प्रत्याख्यानक्रोधमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । प्रत्याख्यानक्रोधसे प्रत्याख्यानमायामे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । प्रत्याख्यानमायासे प्रत्याख्यानलोभमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है ॥ ६७६-६८३ ॥

चृणिंसू०—प्रत्याख्यानलोभसे मिथ्यात्वमे प्रदेशसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित है । मिथ्यात्वसे हास्यमे प्रदेशसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित है । हास्यसे रतिमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । रतिसे स्त्रीवेदमे प्रदेशसंक्रमस्थान संख्यातगुणित है । स्त्रीवेदसे शोकमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । शोकसे अरतिमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । अरतिसे नपुंसकवेदमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । नपुंसकवेदसे जुगुप्सामे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । जुगुप्सासे भयमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । भयसे पुरुषवेदमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है ॥ ६८४-६९३ ॥

चृणिंसू०—पुरुषवेदसे संज्वलनमानमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । संज्वलनमानसे संज्वलनक्रोधमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । संज्वलनक्रोधसे संज्वलनमायामे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । संज्वलनमायासे संज्वलनलोभमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । संज्वलनलोभसे सम्यक्त्वप्रकृतिमे प्रदेशसंक्रमस्थान अनन्तगुणित है । सम्यक्त्व-

१ कुटी, उच्चेल्लणचरिमफालीए सच्चमकमेणतमकमट्टाणमभवाविनेसे वि उच्चविसेसमस्सिकण तदाभावोच्चत्तीदो । जयध०

असंखेज्जगुणाणि । ७००. अणंताणुबंधिमाणे पदेससंकमट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि^१ ।
 ७०१. कोहे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । ७०२. मायाए पदेससंकमट्टाणाणि
 विसेसाहियाणि । ७०३. लोहे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।

७०४. एवं तिरिक्खगइ-देवगईसु वि । ७०५. मणुसगई ओघभंगो ।

प्रकृतिसे सन्यग्मिथ्यात्वमे प्रदेशसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित है । सम्यग्मिथ्यात्वसे अनन्तानु-
 वन्धीमानमे प्रदेशसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित है । अनन्तानुवन्धीमानसे अनन्तानुवन्धीक्रोधमे
 प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । अनन्तानुवन्धीक्रोधसे अनन्तानुवन्धीमायामे प्रदेशसंक्रम-
 स्थान विशेष अधिक है । अनन्तानुवन्धीमायासे अनन्तानुवन्धीलोभमे प्रदेशसंक्रमस्थान
 विशेष अधिक हैं ॥६९४-७०३॥

चूर्णिसू०—इसीप्रकार तिर्यग्गति और देवगतिमे भी प्रदेशसंक्रमस्थानोंका अल्पवहुत्व
 जानना चाहिए । मनुष्यगतिसम्बन्धी प्रदेशसंक्रमस्थानोंका अल्पवहुत्व ओवके समान होता
 है ॥७०४-७०५॥

विशेषार्थ—यद्यपि चूर्णिकारने देवगतिमे भी प्रदेशसंक्रमस्थानोंका अल्पवहुत्व नरक-
 गतिके अल्पवहुत्वके समान सामान्यसे कह दिया है तथापि देवोंके अल्पवहुत्वमे थोड़ीसी
 विशेषता है । वह यह कि अनुदिशसे आदि लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंके सम्यक्त्वप्रकृति-
 सम्बन्धी प्रदेशसंक्रमस्थान नहीं होते हैं । तथा उनमे सम्यग्मिथ्यात्वके प्रदेशसंक्रमस्थान सचसे
 कम होते हैं । सम्यग्मिथ्यात्वसे मिथ्यात्वमे प्रदेशसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित होते है ।
 मिथ्यात्वसे अप्रत्याख्यानमानमे प्रदेशसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित होते है । अप्रत्याख्यान-
 मानसे अप्रत्याख्यानक्रोधमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक होते है । अप्रत्याख्यानक्रोधसे
 अप्रत्याख्यानमायामे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक होते है । अप्रत्याख्यानमायासे अप्रत्या-
 ख्यानलोभमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक होते हैं । अप्रत्याख्यानलोभसे प्रत्याख्यानमानमे
 प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक होते हैं । प्रत्याख्यानमानसे प्रत्याख्यानक्रोधमे प्रदेशसंक्रमस्थान
 विशेष अधिक होते है । प्रत्याख्यानक्रोधसे प्रत्याख्यानमायामे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक
 होते हैं । प्रत्याख्यानमायासे प्रत्याख्यानलोभमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक होते है ।
 प्रत्याख्यानलोभसे स्त्रीवेदमे प्रदेशसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित होते है । स्त्रीवेदसे नपुंसक-
 वेदमे प्रदेशसंक्रमस्थान संख्यातगुणित होते है । नपुंसकवेदसे हास्यमे प्रदेशसंक्रमस्थान असं-
 ख्यातगुणित होते है । हास्यसे रतिमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक होते है । रतिसे शोकमे
 प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक होते है । शोकसे अरतिमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक
 होते है । अरतिसे जुगुप्सामे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक होते हैं । जुगुप्सासे भयमे
 प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक होते है । भयसे पुरुषवेदमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक

^१ कुदो; विसजोयणाचरिमफालीए सव्वसकमेण समुप्पणाणतसकमट्टाणाण दव्वमाहप्पेण पुत्त्विल्ल-
 सकमट्टाणेहिंती अमखेज्जगुणत्तदसणादो । जयध०

७०६. एङ्दिण्णु मच्चत्थोत्ताणि अपच्चक्खाणमाणे पदेससंक्रमट्ठाणाणि । ७०७. कोहे पदेससंक्रमट्ठाणाणि विसेसाहियाणि । ७०८. मायाए पदेससंक्रमट्ठाणाणि विसेसाहियाणि । ७०९. लोहे पदेससंक्रमट्ठाणाणि विसेसाहियाणि । ७१०. पच्चक्खाणमाणे पदेससंक्रमट्ठाणाणि विसेसाहियाणि । ७११. कोहे पदेससंक्रमट्ठाणाणि विसेसाहियाणि । ७१२. मायाए पदेससंक्रमट्ठाणाणि विसेसाहियाणि । ७१३. लोहे पदेससंक्रमट्ठाणाणि विसेसाहियाणि । ७१४. अणंताणुवंधिमाणे पदेससंक्रमट्ठाणाणि विसेसाहियाणि । ७१५. कोहे पदेससंक्रमट्ठाणाणि विसेसाहियाणि । ७१६. मायाए पदेससंक्रमट्ठाणाणि विसेसाहियाणि । ७१७. लोहे पदेससंक्रमट्ठाणाणि विसेसाहियाणि ।

७१८. हस्से पदेससंक्रमट्ठाणाणि असंखेज्जगुणाणि । ७१९. रदोए पदेससंक्रम-

होते है । पुरुषवेदसे संज्वलनमानमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक होते है । संज्वलनमानसे संज्वलनक्रोधमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक होते है । संज्वलनक्रोधसे संज्वलनमायामे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक होते हैं । संज्वलनमायासे संज्वलनलोभमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक होते है । संज्वलनलोभसे अनन्तानुवन्धी मानमे प्रदेशसंक्रमस्थान अनन्तगुणित होते है । अनन्तानुवन्धी मानसे अनन्तानुवन्धी क्रोधमे प्रदेश संक्रमस्थान विशेष अधिक होते है अनन्तानुवन्धी क्रोधसे अनन्तानुवन्धी मायामे संक्रमस्थान विशेष अधिक होते है । अनन्तानुवन्धी मायासे अनन्तानुवन्धी लोभमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक होते है । तिर्यचगतिमे भी पंचेन्द्रियतिर्यच-अपर्याप्तकोके प्रदेशसंक्रमस्थानोका अल्पबहुत्व आगे कहे जानेवाले एकेन्द्रिय जीवोके अल्पबहुत्वके समान जानना चाहिए । मनुष्य-अपर्याप्तक जीवोके प्रदेशसंक्रमस्थानोका अल्पबहुत्व पंचेन्द्रिय-अपर्याप्तकोके समान जानना चाहिए ।

चूर्णिसू०—(इन्द्रियमार्गणाकी अपेक्षा) एकेन्द्रियोमे अप्रत्याख्यानमानके प्रदेशसंक्रमस्थान सबसे कम है । अप्रत्याख्यानमानसे अप्रत्याख्यान क्रोधमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । अप्रत्याख्यान क्रोधसे अप्रत्याख्यानमायामे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । अप्रत्याख्यानमायासे अप्रत्याख्यानलोभमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । अप्रत्याख्यानलोभसे प्रत्याख्यानमानमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । प्रत्याख्यानमानसे प्रत्याख्यानक्रोधमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । प्रत्याख्यानक्रोधसे प्रत्याख्यानमायामे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । प्रत्याख्यानमायासे प्रत्याख्यान लोभमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । प्रत्याख्यानलोभसे अनन्तानुवन्धी मानमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । अनन्तानुवन्धी मानसे अनन्तानुवन्धी क्रोधमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । अनन्तानुवन्धी क्रोधसे अनन्तानुवन्धी मायामे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । अनन्तानुवन्धी मायासे अनन्तानुवन्धी लोभमे प्रदेशसंक्रमस्थान अधिक है ॥ ७०६-७१७ ॥

चूर्णिसू०—अनन्तानुवन्धी लोभसे हास्यमे प्रदेशसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित है ।

ट्टाणाणि विसेसाहियाणि । ७२०. इत्थिवेदे पदेससंक्रमट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि । ७२१. सोगे पदेससंक्रमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । ७२२. अरदीए पदेससंक्रमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । ७२३. णत्तुंसयवेदे पदेससंक्रमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । ७२४. दुगुंछाए पदेससंक्रमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । ७२५. भए पदेससंक्रमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । ७२६. पुरिसवेदे पदेससंक्रमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । ७२७. माणसंजलणे पदेससंक्रमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । ७२८. कोहसंजलणे पदेससंक्रमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । ७२९. मायासंजलणे पदेससंक्रमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । ७३०. लोहसंजलणे पदेससंक्रमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । ७३१. सम्मत्ते पदेससंक्रमट्टाणाणि अणंतगुणाणि । ७३२. सम्पामिच्छत्ते पदेससंक्रमट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि ।

७३३. केण कारणेण णिरयगईए पच्चक्खाणकसायलोभपदेससंक्रमट्टाणेहिंतो मिच्छत्ते पदेससंक्रमट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि ? ७३४. मिच्छत्तस्स गुणसंक्रमो अत्थि, पच्चक्खाणकसायलोहस्स गुणसंक्रमो णत्थि; एदेण कारणेण णिरयगईए पच्चक्खाणकसायलोहपदेससंक्रमट्टाणेहिंतो मिच्छत्तस्स पदेससंक्रमट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि ।

७३५. जस्स कम्मस्स सच्चवसंक्रमो णत्थि तस्स कम्मस्स असंखेज्जाणि

हास्यसे रतिमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । रतिसे स्त्रीवेदमे प्रदेशसंक्रमस्थान संख्यातगुणित है । स्त्रीवेदसे शोकमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । शोकसे अरतिमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । अरतिसे नपुंसकवेदमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । नपुंसकवेदसे जुगुप्सांमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । जुगुप्सासे भयमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । भयसे पुरुषवेदमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । पुरुषवेदसे संज्वलनमानमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । संज्वलनमानसे संज्वलनक्रोधमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । संज्वलनक्रोधसे संज्वलनमायांमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । संज्वलनमायासे संज्वलनलोभमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । संज्वलन लोभसे सम्यक्त्वप्रकृतिमें प्रदेशसंक्रमस्थान अनन्तगुणित है । सम्यक्त्वप्रकृतिसे सम्यग्मिथ्यात्वमे प्रदेशसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित है ॥७१८-७३२॥

शंका—नरकगतिमे प्रत्याख्यानलोभकपायके प्रदेशसंक्रमस्थानोसे मिथ्यात्वमे प्रदेशसंक्रमस्थान किस कारणसे असंख्यातगुणित होते हैं ? ॥७३३॥

समाधान—मिथ्यात्वका गुणसंक्रमण होता है, किन्तु प्रत्याख्यानलोभकपायका गुणसंक्रमण नहीं होता , इस कारणसे नरकगतिमे प्रत्याख्यानलोभकपायके प्रदेशसंक्रमस्थानोसे मिथ्यात्वके प्रदेशसंक्रमस्थान असंख्यातगुणित होते हैं ॥७३४॥

चूणिंस्स०—जिस कर्मका सर्वसंक्रमण नहीं होता है, उस कर्मके प्रदेशसंक्रमस्थान

पदेससंक्रमद्व्याणाणि । जस्स कम्मस्स सव्वसंक्रमो अत्थि, तस्स कम्मस्स अणंताणि पदेससंक्रमद्व्याणाणि ।

७३६. माणस्स जहण्णए संतकम्मद्व्याणे असंखेज्जा लोगा पदेससंक्रमद्व्याणाणि ।
 ७३७. तम्मि चैव जहण्णए माणसंतकम्मे विदियसंक्रमद्व्याणविसेसस्स असंखेज्जलोग-
 भागमेत्ते पक्खित्ते माणस्स विदियसंक्रमद्व्याणपरिवाडी । ७३८. तत्तियमेत्ते चैव पदेसग्गे
 कोहस्स जहण्णसंतकम्मद्व्याणे पक्खित्ते कोहस्स विदियसंक्रमद्व्याणपरिवाडी । ७३९.
 एदेण कारणेण माणपदेससंक्रमद्व्याणाणि थोवाणि, कोहे पदेससंक्रमद्व्याणाणि विसेसाहि-
 याणि । ७४०. एवं सेसेसु वि कम्मेषु वि णेदव्वाणि ।

एवं गुणहीणं वा गुणविसिद्धमिदि अत्थ-विहासाए समत्ताए
 पंचमीए मूलगाहाए अत्थपरूवणा समत्ता ।
 तदो पदेससंक्रमो समत्तो ।

असंख्यात होते हैं । जिस कर्मका सर्वसंक्रमण होता है, उस कर्मके प्रदेशसंक्रमस्थान अनन्त-
 गुणित होते हैं ॥७३५॥

चूर्णिंस्सु०—मानके जघन्य सत्कर्मस्थानमे असंख्यातलोकप्रमाण प्रदेशसंक्रमस्थान होते
 हैं । उस ही मानके जघन्य सत्कर्मम द्वितीय संक्रमस्थानविशेषके असंख्यातलोकभागमात्र
 प्रक्षिप्त करनेपर मानकी द्वितीय संक्रमस्थानपरिपाटी उत्पन्न होती है । तावन्मात्र ही प्रदेशाग्रके
 क्रोधके जघन्य सत्कर्मस्थानमे प्रक्षिप्त करनेपर क्रोधकी द्वितीय संक्रमस्थानपरिपाटी उत्पन्न होती
 है । इस कारणसे मानके प्रदेशसंक्रमस्थान थोड़े होते हैं और क्रोधके प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष
 अधिक होते हैं । इसी प्रकार शेष कर्मोमे भी संक्रमस्थानोकी हीनाधिकताके कारणकी प्ररूपणा
 करना चाहिए ॥७३६-७४०॥

इस प्रकार 'गुणहीणं वा गुणविसिद्ध' इस पदकी विभापाके समाप्त होनेके साथ

पाँचवी मूलगाथाकी अर्थप्ररूपणा समाप्त हुई ।

इस प्रकार प्रदेशसंक्रमण-अधिकार समाप्त हुआ ।

वेदग-अत्थाहियारो

१. वेदगे त्ति अणियोगदारे दोण्णि अणियोगदाराणि । तं जहा-उदयो च उदीरणा च । २. तत्थ चत्तारि सुत्तगाहाओ । ३. तं जहा ।

कदि आवलियं पवेसेइ कदि च पविस्संति कस्स आवलियं ।

खेत्त-भव-काल-पोगल-ट्टिदिविवागोदयखयो दु ॥५९॥

वेदक अर्थाधिकार

कर्मनिके वेदन-रहित सिद्धनिका जयकार ।

करिके भाषू' अति गहन यह वेदक अधिकार ॥

अब कपायप्राभृतके पन्द्रह अधिकारोंमेंसे छठे वेदक नामके अनुयोगद्वारको कहनेके लिए यतिवृषभाचार्य चूर्णिसूत्र कहते हैं—

चूर्णिसू०—वेदक नामके अनुयोगद्वारमें उदय और उदीरणा नामक दो अनुयोग-द्वार हैं ॥१॥

विशेषार्थ—कर्मोंके यथाकाल-जनित फल या विपाकको उदय कहते हैं और उदय-काल आनेके पूर्व ही तपश्चरणादि उपाय-विशेषसे कर्मोंके परिपाचनको उदीरणा कहते हैं । उदय और उदीरणाको कर्म—फलानुभवरूप वेदनकी अपेक्षा 'वेदक' यह संज्ञा दी गई है ।

चूर्णिसू०—इस वेदक नामके अनुयोगद्वारमें चार सूत्र-गाथाएं हैं । वे इस प्रकार हैं ॥२-३॥

प्रयोग-विशेषके द्वारा कितनी कर्म-प्रकृतियोंको उदयावलीके भीतर प्रवेश करता है ? तथा किस जीवके कितनी कर्म-प्रकृतियोंको उदीरणाके विना ही स्थिति-क्षयसे उदयावलीके भीतर प्रवेश करता है ? क्षेत्र, भव, काल और पुद्गलद्रव्यका आश्रय लेकर जो स्थिति-विपाक होता है, उसे उदीरणा कहते हैं और उदय-क्षयको उदय कहते हैं ॥५९॥

विशेषार्थ—यहाँ 'क्षेत्र' पदसे नरकादि क्षेत्रका, 'भव' पदसे जीवोंके एकेन्द्रियादि भवोंका, 'काल' पदसे शिशिर, वसन्त आदि कालका, अथवा बाल, यौवन, वार्धक्य आदि काल-जनित पर्यायोंका और 'पुद्गल' पदसे गंध, ताम्बूल वस्त्र-आभरण आदि इष्ट-अनिष्ट पदार्थोंका ग्रहण करना चाहिए । कहनेका सारांश यह है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव आदिका आश्रय लेकर कर्मोंका उदय और उदीरणारूप फल-विपाक होता है ।

को कदमाए द्विदीए पवेसगो को व के य अणुभागे ।
 सांतर णिरंतरं वा कदि वा समया दु वोद्धव्या ॥६०॥
 बहुगदरं बहुगदरं से काले को णु थोवदरुगं वा ।
 अणुसमयमुदीरेतो कदि वा समयं (ये) उदीरेदि ॥६१॥
 जो जं संकामेदि य जं वंधदि जं च जो उदीरेदि ।
 तं केण होइ अहियं द्विदि-अणुभागे पदेसग्गे ॥६२॥

कौन जीव किस स्थितिमें प्रवेश करानेवाला है और कौन जाव किस अनुभाग में प्रवेश कराता है । तथा इनका सान्तर और निरन्तर काल कितने समयप्रमाण जानना चाहिए ॥६०॥

विशेषार्थ—यद्यपि गाथाके प्रथम चरणसे स्थिति-उदीरणाका और द्वितीय चरणसे अनुभाग-उदीरणाका उल्लेख किया गया है, तथापि स्थिति-उदीरणा प्रकृति-उदीरणाकी और अनुभाग-उदीरणा प्रदेश-उदीरणाकी अविनाभाविनी है, अतः गाथाके पूर्वार्धसे चारो उदीरणाओका कथन किया गया समझना चाहिए । गाथाके उत्तरार्ध-द्वारा उक्त चारो उदीरणाओकी कालप्ररूपणा और अन्तरप्ररूपणा सूचित की गई है । तथा गाथाके उत्तरार्धमें पठित द्वितीय 'वा' शब्द अनुक्तका समुच्चय करनेवाला है अतः उससे गाथासूत्रकारके द्वारा नहीं कहे गये समुत्कीर्तना आदि शेष अनुयोगद्वारोका ग्रहण करना चाहिए ।

विवक्षित समयसे तदनन्तरवर्ती समयमें कौन जीव बहुतकी अर्थात् अधिकसे अधिकतर क्रमोंकी उदीरणा करता है और कौन जीव स्तोक्सं स्तोकतर अर्थात् अल्प क्रमोंकी उदीरणा करता है ? तथा प्रतिसमय उदीरणा करता हुआ यह जीव कितने समय तक निरन्तर उदीरणा करता रहता है ॥६१॥

विशेषार्थ—गाथाके प्रथम चरणसे प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश उदीरणा-सम्बन्धी भुजाकार पदका निर्देश किया गया है और द्वितीय चरणसे उन्हींके अल्पतर पदकी सूचना की गई है । गाथाके पूर्वार्धमें पठित 'वा' शब्दसे अवस्थित और अवक्तव्य पदोका ग्रहण करना चाहिए । इस प्रकार गाथाके पूर्वार्ध-द्वारा प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश-उदीरणा-विषयक भुजाकार अनुयोगद्वारकी प्ररूपणा की गई है । गाथाके उत्तरार्ध-द्वारा भुजाकार-विषयक कालानुयोगद्वारकी सूचना की गई है । और इसी देशामर्शक वचनसे शेष समस्त अनुयोगद्वारोका भी संग्रह करना चाहिए । तथा इसीके द्वारा ही पदनिक्षेप और वृद्धि भी कही गई समझना चाहिए ; क्योंकि भुजाकारके विशेषको पदनिक्षेप और पदनिक्षेपके विशेषको वृद्धि कहते हैं ।

जो जीव स्थिति, अनुभाग और प्रदेशाग्रमें जिसे संक्रमण करता है, जिसे बाँधता है और जिसकी उदीरणा करता है, वह द्रव्य किससे अधिक होता है (और किससे कम होता है) ? ॥६२॥

४. तस्य पृथग्विल्लगाहा पयडि-उदीरणाए पयडि-उदए च वद्धा । ५. कदि आवलियं पवेसेदि त्ति एस गाहाए पृथमपादो पयडिउदीरणाए । ६. एदं पुण सुत्तं पयडिङ्गाण-उदीरणाए वद्धं । ७. एदं ताव ठवणीयं । ८. एगेगपयडिउदीरणा दुविहा-एगेगमूलपयडिउदीरणा च एगेगुत्तरपयडिउदीरणा च । ९. एदाणि वेवि पत्तेगं चउवीसमणियोगदारेहिं मग्गिऊण । १०. तदो पयडिङ्गाणउदीरणा कायव्वा ।

विशेषार्थ—यह गाथा प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश-विषयक बंध, संक्रमण, उदय, उदीरणा तथा सत्तासम्बन्धी जघन्य उत्कृष्ट पदविशिष्ट अल्पबहुत्वका निरूपण करती है। प्रकृतिके विना स्थिति, अनुभाग और प्रदेशबंधादिका होना असंभव है, अतः यहाँपर 'प्रकृति' पद अनुक्त सिद्ध है। गाथा-पठित 'जो जं संकामेदि' पदसे 'संक्रमण', 'जं बंधदि' पदसे बंध और सत्त्व तथा 'जं च जो उदीरेदि' पदमे उदय और उदीरणाकी सूचना की गई है।

अत्र यतिवृषभाचार्य उक्त चारों सूत्र-गाथाओंका क्रमगः व्याख्यान करते हुए पहले प्रथम गाथाका व्याख्यान करते हैं—

चूर्णिसू०—उक्त चारों सूत्र-गाथाओंमेंसे पहली गाथा प्रकृति-उदीरणा और प्रकृति-उदयमें निबद्ध है, अर्थात् इन दोनोंका निरूपण करती है। 'कदि आवलियं पवेसेदि' गाथाका यह प्रथम पाद प्रकृति-उदीरणासे प्रतिबद्ध है। किन्तु यह सूत्र प्रकृतिस्थान-उदीरणासे सम्बद्ध है और इमे स्थगित करना चाहिए ॥४-७॥

विशेषार्थ—प्रकृति-उदीरणा दो प्रकारकी है—मूलप्रकृति-उदीरणा और उत्तरप्रकृति-उदीरणा। इनमें उत्तरप्रकृति-उदीरणा भी दो प्रकार की है—एकैकोत्तरप्रकृति-उदीरणा और प्रकृतिस्थान-उदीरणा। उक्त सूत्र इसी प्रकृतिस्थान-उदीरणासे सम्बद्ध है, अन्यसे नहीं, यह अभिप्राय जानना चाहिए। यहाँ चूर्णिकार इस प्रकृतिस्थान-उदीरणाका वर्णन स्थगित करते हैं, क्योंकि एकैकप्रकृति-उदीरणाकी प्ररूपणाके विना उसका निरूपण करना असम्भव है।

चूर्णिसू०—एकैकप्रकृति-उदीरणा दो प्रकारकी है—एकैकमूलप्रकृति-उदीरणा और एकैकोत्तरप्रकृति-उदीरणा। इन दोनों ही प्रकारकी उदीरणाओंको पृथक्-पृथक् चौबीस अनुयोग-द्वारोसे अनुमार्गण करके तत्पश्चात् प्रकृतिस्थान-उदीरणाका वर्णन करना चाहिए ॥८-१०॥

विशेषार्थ—गणधर-ग्रथित पेज्जदोसपाहुडमे एकैकप्रकृति-उदीरणाके दोनों भेदोका समुत्कीर्तनासे आदि लेकर अल्पबहुत्व-पर्यन्त चौबीस अनुयोगद्वारोसे विस्तृत वर्णन किया गया है। चूर्णिकार कसायपाहुडकी रचना संक्षिप्त होनेके कारण अपनी चूर्णिमें भी वैसा विस्तृत वर्णन न करके व्याख्यानाचार्योंके लिए उसे वर्णन करनेका संकेत करके तत्पश्चात् प्रकृतिस्थान-उदीरणाके व्याख्यान करनेके लिए कह रहे हैं। एक समयमें जितनी प्रकृतियोंकी उदीरणा करना सम्भव है, उतनी प्रकृतियोंके समुदायको प्रकृतिस्थान-उदीरणा कहते हैं।

११. तत्थ द्वाणसमुक्कित्तणा । १२. अत्थि एकस्से पयडीए पवेसगो ।
 १३. दोण्हं पयडीणं पवेसगो । १४. तिण्हं पयडीणं पवेसगो णत्थि । १५. चउण्हं
 पयडीणं पवेसगो । १६. एत्तो पाए णिरंतरमत्थि जाव दसण्हं पयडीणं पवेसगो ।

चूर्णिसू०—उसमे यह स्थानसमुत्कीर्तना है ॥११॥

विशेषार्थ—प्रकृतिस्थान-उदीरणाका वर्णन चूर्णिसूत्रकार समुत्कीर्तना आदि सत्तरह अनुयोगद्वारोसे करते हुए पहले समुत्कीर्तनासे वर्णन करते हैं । समुत्कीर्तना दो प्रकारकी है—स्थानसमुत्कीर्तना और प्रकृतिसमुत्कीर्तना । इन दोनोंमेसे पहले स्थानसमुत्कीर्तनाके द्वारा प्रकृति-उदीरणा कही जाती है, ऐसा अभिप्राय जानना चाहिए ।

चूर्णिसू०—एक प्रकृतिका प्रवेश करनेवाला होता है ॥१२॥

विशेषार्थ—तीनो वेदोमेसे किसी एक वेद और चारो संज्वलन कपायोमेसे किसी एक कपायके उदयसे क्षपकश्रेणी या उपशमश्रेणीपर आरुढ़ हुए जीवके वेदकी प्रथम स्थितिके आवलिमात्र शेष रह जानेपर वेदकी उदीरणा होना बन्द हो जाती है, तब वह उपशामक या क्षपक जीव एक संज्वलनप्रकृतिकी उदीरणा करनेवाला होता है ।

चूर्णिसू०—दो प्रकृतियोका प्रवेश करनेवाला होता है ॥१३॥

विशेषार्थ—उपशम और क्षपकश्रेणीमे अनिवृत्तिकरण गुणस्थानके प्रथम समयसे लगाकर समयाधिक आवलीमात्र वेदकी प्रथमस्थिति रहनेतक तीनो वेदोमे किसी एक वेद और चारो संज्वलनकपायोमेंसे किसी एक कपायकी उदीरणा करनेवाला होता है ।

चूर्णिसू०—तीन प्रकृतियोका प्रवेश करनेवाला नहीं होता ॥१४॥

विशेषार्थ—क्योकि, पूर्वोक्त दो प्रकृतियोकी उदीरणा होनेके पूर्व अपूर्वकरणगुण-स्थानमे हास्य रति और अरति-शोक इन दो युगलोमे से किसी एक युगलके युगपत् प्रवेश होनेसे तीन प्रकृतियोकी उदीरणारूप स्थान नहीं पाया जाता ।

चूर्णिसू०—चार प्रकृतियोका प्रवेश करनेवाला होता है ॥१५॥

विशेषार्थ—औपशमिक या क्षायिक सस्यगृष्टि जीव प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत और अपूर्वकरण गुणस्थानमे हास्य-रति और अरति-शोक युगलमेसे किसी एक युगलके साथ किसी एक वेद और किसी एक संज्वलनकपाय इन चार प्रकृतियोकी एक साथ उदीरणा करता है ।

चूर्णिसू०—यहाँसे लेकर निरन्तर दश प्रकृतियोतकका प्रवेश करनेवाला होता है ॥१६॥

विशेषार्थ—उपर्युक्त चार प्रकृतियोकी उदीरणाके स्थानसे लगाकर निरन्तर अर्थात् लगातार दश प्रकृतिरूप स्थान तक मोहप्रकृतियोकी उदीरणा करता है । अर्थात् उक्त चार प्रकृतिरूप उदीरणास्थानमे भय, जुगुप्सा, किसी एक प्रत्याख्यानावरण कपाय अथवा सम्य-क्त्वप्रकृति, इन चारोमे से किसी एकके प्रवेश करनेपर पाँच प्रकृतिरूप उदीरणास्थान होता है । उक्त स्थानमे किसी एक अप्रत्याख्यानावरण कपायके प्रवेश करनेपर छह प्रकृतिरूप

१७. एदेसु द्वाणेषु पयडिणिदेसो कायव्वो भवदि । १०. एयपयडिं पवेसेदि सिया कोहसंजलणं वा, सिया माणसंजलणं वा, सिया मायासंजलणं, सिया लोभसंजलणं वा । १९. एवं चत्तारि भंगा । २०. दोण्हं पयडीणं पवेसगस्स वारस भंगा ।

उद्दीरणास्थान होता है । उक्त छह प्रकृतिरूप स्थानमें सम्यग्मिथ्यात्व या किसी एक अनन्तानुबन्धीकपायके प्रवेश करनेपर सात प्रकृतिरूप उद्दीरणास्थान हो जाता है । इसीमें सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीकपाय इन दोनोंके साथ मिथ्यात्वके और मिलानेपर आठ प्रकृतिरूप उद्दीरणास्थान होता है । सम्यक्त्वप्रकृति, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलनसम्बन्धी क्रोधादिचतुष्कमें से कोई एक क्रिक, कोई एक वेद, हान्यादि युगलद्वयमेंसे कोई एक युगल और भय और जुगुप्साकी उद्दीरणा करनेवालेके नौ प्रकृतिरूप उद्दीरणास्थान होता है । सम्यक्त्वप्रकृतिके स्थानपर मिथ्यात्वको लेकर तथा अनन्तानुबन्धी किसी एक कपायके और मिला देनेपर दश प्रकृतिरूप उद्दीरणास्थान होता है ।

चूर्णिसू०—इन उपर्युक्त उद्दीरणास्थानोंमें प्रकृतियोंका निर्देश करना चाहिए ॥ १७ ॥

विशेषार्थ—किन-किन प्रकृतियोंको लेकर कौन-सा स्थान उत्पन्न होता है, इस बातका निर्देश करना आवश्यक है, अन्यथा उद्दीरणास्थान-विषयक ठीक ज्ञान नहीं हो सकेगा । प्रकृतियोंका निर्देश ऊपरके विशेषार्थमें किया जा चुका है ।

चूर्णिसू०—एक प्रकृतिका प्रवेश करना है—कदाचिन् क्रोध संज्वलनका, कदाचित् मानसंज्वलनका, कदाचित् मायासंज्वलनका और कदाचित् लोभसंज्वलन का । इस प्रकार चार भंग होते हैं ॥ १८-१९ ॥

विशेषार्थ—जो जीव एक प्रकृतिरूप स्थानकी उद्दीरणा करते हैं, उनके चार विकल्प होते हैं । जो जीव संज्वलन क्रोधकपायके उदयके साथ श्रेणीपर चढ़ा है, वह वेदकी प्रथम स्थितिके आवलिमात्र अवशिष्ट रह जानेपर एक संज्वलनक्रोधकी ही उद्दीरणा करेगा । इसी प्रकार मान, माया और लोभकपायके उदयके साथ श्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव उक्त समयपर एक मान, माया अथवा लोभकपायकी ही उद्दीरणा करेगा । इस प्रकार एक प्रकृतिरूप उद्दीरणास्थानके चार भंग हो जाते हैं ।

चूर्णिसू०—दो प्रकृतियोंकी उद्दीरणा करनेवालेके वारह भंग होते हैं ॥ २० ॥

विशेषार्थ—तीनों वेदोंके साथ चारों संज्वलनकपायोंके अक्ष-परिवर्तनसे वारह भंग होते हैं । अर्थात् पुरुषवेदके साथ क्रमशः संज्वलन क्रोध, मान, माया अथवा लोभकी उद्दीरणा करनेपर चार भंग, स्त्रीवेदके साथ संज्वलन क्रोध, मान, माया अथवा लोभकी उद्दीरणा करनेपर चार और नपुंसकवेदके साथ संज्वलन क्रोध, मान, माया अथवा लोभकी उद्दीरणा करनेपर चार भंग होते हैं । इस प्रकार दो प्रकृतियोंकी उद्दीरणा करनेवालोंके सब मिलानेपर $(४ + ४ + ४ = १२)$ वारह भंग होते हैं ।

२१. चउण्हं पयडीणं पवेसगस्स चउवीस भंगां । २२. पंचण्हं पयडीणं पवेस-
गस्स चत्तारि चउवीस भंगां । २३. छण्हं पयडीणं पवेसगस्स सत्त-चउवीस भंगां ।

चूर्णिसू०—चार प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवालेके चौबीस भंग होते हैं ॥२१॥

विशेषार्थ—हास्य-रति और अरति-शोक युगलमेसे किसी एक युगलके साथ किसी एक वेद और किसी एक संव्वलनकपायकी उदीरणा करनेपर चार प्रकृतिरूप उदीरणास्थान होता है । अतएव उपर्युक्त वारह भंगोंकी उत्पत्ति हास्य-रति युगलके साथ भी संभव है और अरति-शोक युगलके साथ भी । इस प्रकार चार प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवाले जीवके ($१२ \times २ = २४$) चौबीस भंग होते हैं ।

चूर्णिसू०—पाँच प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवालेके चार-गुणित चौबीस भंग होते हैं ॥२२॥

विशेषार्थ—उक्त चार प्रकृतिरूप उदीरणास्थानमे भय, जुगुप्सा, सम्यक्त्वप्रकृति, अथवा किसी एक प्रत्याख्यानकपायके प्रवेश करनेपर पाँच प्रकृतिरूप उदीरणास्थान होता है । अतः उपर्युक्त चौबीस भंगोंको क्रमशः इन चारों प्रकृतियोंकी उदीरणाके साथ मिलानेपर चार-गुणित चौबीस अर्थात् ($२४ \times ४ = ९६$) छयानवे भंग होते हैं । इसका स्पष्टीकरण इसप्रकार है—भयप्रकृतिकी उदीरणाके साथ उपर्युक्त २४ भंग, जुगुप्साप्रकृतिकी उदीरणा के साथ २४ भंग, भय और जुगुप्साको छोड़कर सम्यक्त्वप्रकृतिकी उदीरणाके साथ २४ भंग, इस प्रकार ७२ भंग तो प्रमत्त-अप्रमत्तसंयतके होते हैं । तथा क्षायिकसम्यग्दृष्टि, अथवा औपशमिकसम्यग्दृष्टि संयतासंयतके भय-जुगुप्साके विना प्रत्याख्यानकपायके प्रवेशसे २४ भंग और होते हैं । इसप्रकार सब मिलाकर पाँच प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवाले जीवके ($७२ + २४ = ९६$) छयानवे भंग होते हैं ।

चूर्णिसू०—छह प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवालेके सात गुणित चौबीस भंग होते हैं ॥२३॥

विशेषार्थ—उपर्युक्त पाँच प्रकृतिरूप उदीरणास्थानमे भय, जुगुप्सा या अप्रत्या-
ख्यानवरण कपायके मिलानेपर छह प्रकृतिरूप उदीरणास्थान होता है । इस स्थानके सात-
गुणित चौबीस अर्थात् ($२४ \times ७ = १६८$) एकसौ अड़सठ भंग होते हैं । वे इस प्रकार
हैं—औपशमिकसम्यग्दृष्टि या क्षायिकसम्यग्दृष्टि संयतके भय और जुगुप्साप्रकृतिकी
उदीरणाके साथ उपर्युक्त प्रथम २४ भंग, वेदकसम्यग्दृष्टि संयतके भयके विना केवल
जुगुप्साप्रकृतिके साथ द्वितीय २४ भंग, उसीके जुगुप्साके विना केवल भयप्रकृतिके साथ
तृतीय २४ भंग, इस प्रकार संयतके आश्रयसे तीन चौबीस ($२४ + २४ + २४ = ७२$) भंग
होते हैं । पुनः औपशमिक या क्षायिकसम्यग्दृष्टि संयतके जुगुप्साके विना प्रत्याख्यान-
वरण कपायके किसी एक भेदके साथ भयप्रकृतिका वेदन करनेपर चतुर्थ २४ भंग होते हैं ।
इसी जीवके भयके विना किसी एक प्रत्याख्यानवरण कपाय और जुगुप्साके साथ पंचम

२४. सत्तण्हं पयडीणं पवेसगस्स दस-चउवीस भंगा । २५. अड्डण्हं पयडीणं पवेसगस्स एकारस-चउवीस भंगा ।

२४ भंग, भय-जुगुप्साके उदयसे रहित वेदकसम्यग्दृष्टि संयतासंयतके किसी एक अप्रत्याख्यानावरणरूपायकी उद्दीरणा करनेपर पष्ठ २४ भंग तथा औपशमिक या क्षायिकसम्यक्त्वी असंयतसम्यग्दृष्टिके भय-जुगुप्साके विना किसी एक अप्रत्याख्यानावरण कपायकी उद्दीरणा करनेपर सप्तम २४ भंग होते हैं । इस प्रकार सब मिलकर छह प्रकृतियोंकी उद्दीरणा करने-वालोंके एकसौ अड़सठ (१६८) भंग होते हैं ।

चूर्णिसू०—सात प्रकृतियोंकी उद्दीरणा करनेवालेके दस-गुणित चौबीस भंग होते हैं ॥२४॥

विशेषार्थ—वेदकसम्यक्त्वी प्रमत्त-अप्रमत्तसंयतके सम्यक्त्वप्रकृति, किसी एक संञ्चलनरूपाय, किसी एक वेद, हास्य, अरति युगलमेसे किसी एक युगल, भय और जुगुप्साके आश्रयसे प्रथम २४ भंग उत्पन्न होने हैं । औपशमिक या क्षायिक सम्यग्दृष्टि संयतासंयतके किसी एक प्रत्याख्यानावरणरूपाय, भय और जुगुप्साके साथ द्वितीय २४ भंग, वेदकसम्यक्त्वी संयतासंयतके सम्यक्त्वप्रकृति और भयप्रकृतिके साथ तृतीय २४ भंग, उसीके भयके विना और जुगुप्साके साथ चतुर्थ २४ भंग होते हैं । औपशमिक या क्षायिकसम्यक्त्वी अमंयतसम्यग्दृष्टिके भय और किसी एक अप्रत्याख्यानावरणकपायके साथ पंचम २४ भंग उसीके भयके विना और जुगुप्साके साथ पष्ठ २४ भंग तथा वेदकसम्यक्त्वी असंयतसम्यग्दृष्टिके भय-जुगुप्साके विना और सम्यक्त्वप्रकृतिके साथ सप्तम २४ भंग होते हैं । सम्यग्मिथ्यादृष्टिके भय-जुगुप्साके विना सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिके साथ अष्टम २४ भंग, सासादनसम्यग्दृष्टिके भय-जुगुप्साके विना किसी एक अनन्तानुबन्धी कपायके प्रवेशसे नवम २४ भंग और संयुक्त प्रथमावलीमे वर्तमान मिथ्यादृष्टिके अनन्तानुबन्धी, भय, जुगुप्साके विना दशम २४ भंग होते हैं । इसप्रकार सब मिलाकर (२४ x १०=२४०) दो सौ चालीस भंग सात प्रकृतियोंकी उद्दीरणा करनेवालेके होते हैं ।

चूर्णिसू०—आठ प्रकृतियोंकी उद्दीरणा करनेवालेके ग्यारह गुणित चौबीस भंग होते हैं ॥२५॥

विशेषार्थ—वेदकसम्यक्त्वी संयतासंयतके सम्यक्त्वप्रकृति, प्रत्याख्यानावरण और संञ्चलनसंबन्धी एक-एक कपाय, कोई एक वेद, हास्यादि दो युगलमे से एक भय और जुगुप्सा इन आठ प्रकृतियोंकी उद्दीरणा होती है, अतः इनकी अपेक्षा प्रथम २४ भंग, औपशमिक या क्षायिकसम्यग्दृष्टि असंयतके सम्यक्त्वप्रकृतिके विना और अप्रत्याख्यानावरणके साथ उन्हीं प्रकृतियोंके ग्रहण करनेपर द्वितीय २४ भंग, वेदकसम्यक्त्वी असंयतके जुगुप्साके विना और भयके साथ तृतीय २४ भंग, भयके विना और जुगुप्साके साथ चतुर्थ २४ भंग, सम्यग्मिथ्यादृष्टिके जुगुप्साके विना और सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिके साथ पंचम २४ भंग,

२६. णवण्हं पयडीणं पवेसगस्स छ-चदुवीस भंगा" । २७. दसण्हं पयडीणं पवेसगस्स एक-चदुवीस भंगा" । २८. एदेसि भंगाणं गाहा दसण्हमुदीरणट्टाणमादिं कादूण । २९. तं जहा ।

उसीके भयके विना और जुगुप्साके साथ पष्ठ २४ भंग होते हैं । भयकी उदीरणा करनेवाले सासादनसम्यग्दृष्टिके जुगुप्साके विना तथा अनन्तानुवन्धी किसी एक कपायके प्रवेशसे सप्तम २४ भंग, उसीके भयके विना जुगुप्साकी उदीरणा करनेपर अष्टम २४ भंग, संयुक्त प्रथमावली-मे वर्तमान मिथ्यादृष्टिके भयके साथ मिथ्यात्वकी उदीरणा करनेपर नवम २४ भंग, भयके विना और जुगुप्साके साथ मिथ्यात्वकी उदीरणा करनेवाले उक्त मिथ्यादृष्टिके दशम २४ भंग, तथा भय और जुगुप्साके विना अनन्तानुवन्धी किसी एक कपायके साथ मिथ्यात्वकी उदीरणा करनेवाले उक्त जीवके एकादशम २४ भंग होते हैं । इस प्रकार आठ प्रकृतियोंकी उदीरणारूप स्थानके सब मिलाकर (२४ × ११=२६४) दो सौ छ्यासठ भंग होते हैं ।

चूर्णिसू०—नौ प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवालेके छह गुणित चौबीस भंग होते हैं ॥२६॥

विशेषार्थ—सम्यक्त्वप्रकृति, प्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण, संव्वलनसम्बन्धी क्रोधादि चतुष्टयमेसे कोई एक कपाय, तीनों वेदोंमेसे कोई एक वेद, हास्य-रति और अरति शोकमेसे कोई एक युगल, भय और जुगुप्सा इन नौ प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवाले असंयत वेदकसम्यग्दृष्टिके प्रथम २४ भंग होते हैं । उक्त प्रकृतियोंमेसे सम्यक्त्वप्रकृतिको निकालकर और सम्यग्मिथ्यात्वको मिलाकर उसकी उदीरणा करनेवाले सम्यग्मिथ्यादृष्टिके द्वितीय २४ भंग होते हैं । सम्यग्मिथ्यात्वके स्थानपर किसी एक अनन्तानुवन्धीके प्रवेश करनेपर उसकी उदीरणा करनेवाले सासादनसम्यग्दृष्टिके तीसरे प्रकारसे २४ भंग होते हैं । अनन्तानुवन्धीके स्थान-पर मिथ्यात्वप्रकृतिके प्रवेश करनेपर संयुक्त-प्रथमावलीवाले मिथ्यात्वके साथ षपर्युक्त आठ प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवाले मिथ्यादृष्टिके चतुर्थ २४ भंग, उसीके अनन्तानुवन्धी किसी एककी भयके विना जुगुप्साके साथ उदीरणा करनेपर पंचम २४ भंग, उसीके जुगुप्साके विना भयके साथ उक्त प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवालेके छठे प्रकारसे २४ भंग होते हैं । इस प्रकार सब भंगोंका योग (२४ × ६=१४४) एकसौ चवालीस होता है ।

चूर्णिसू०—दश प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवालेके एक ही प्रकारसे चौबीस भंग होते हैं ॥२७॥

विशेषार्थ—मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्ध्यादिचतुष्टयमेसे कोई एक कपायचतुष्क, तीन वेदोंमे से कोई एक वेद, हास्यादि युगलद्वयमे से कोई एक युगल, भय और जुगुप्सा, इन दश प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके २४ भंग होते हैं । यहाँ अन्य किसी विकल्पके संभव न होनेसे एक ही प्रकारसे चौबीस भंग कहे गये हैं ।

चूर्णिसू०—दश प्रकृतियोंके उदीरणास्थानको आदि लेकरके ऊपर वतलाये गये भंगोंकी निरूपण करनेवाली गाथा इस प्रकार है ॥२८-२९॥

“एकग छकेकारस दस सत्त चउक एकगं चेत्रे ।
दोसु च वारस भंगा एकम्हि य होंति चत्तारि” ॥१॥

३०. *सामित्तं । ३१. सामित्तस्स साहण्डुमिमाओ दो सुत्तगाहाओ । ३२.
तं जहा ।

“सत्तादि दसुकस्सा मिच्छत्ते मिस्सए णवुकस्सा ।
छादी णव उकस्सा अविरदसम्मे दु आदिस्से ॥२॥
पंचादि-अट्टुणिहणा विरदाविरदे उदीरणट्टाणा ।
एगादी तिगरहिदा सत्तुकस्सा च विरदेसु” ॥३॥

३३. एदासु दोसु गाहासु विहासिदासु सामित्तं समत्तं भवदि ।

“दशप्रकृतिरूप स्थानके भंग एक, नौप्रकृतिरूप स्थानके छह, आठप्रकृतिरूप स्थानके ग्यारह, सातप्रकृतिरूप स्थानके दश, छहप्रकृतिरूप स्थानके सात, पाँचप्रकृतिरूप स्थानके चार, चारप्रकृतिरूप स्थानके एक, दोप्रकृतिरूप स्थानके वारह और एकप्रकृतिरूप स्थानके चार भंग होते हैं” ॥१॥

विशेषार्थ—उक्त स्थानोंके भंगोंकी अंकसंज्ञा इस प्रकार है—

१०	९	८	७	६	५	४	३	१
१	६	११	१०	७	४	१	१२	४

इन सब भंगोंका योग (२४+१४४+२६४+२४०+१६८+९६+२४+१२+४=९७६) नौ सौ छिहत्तर होता है ।

चूर्णिसू०—अब उपर्युक्त उदीरणास्थानोंके स्वामित्वका वर्णन करते हैं । स्वामित्वके साधन करनेके लिए ये दो सूत्रगाथाएँ हैं । वे इस प्रकार हैं ॥३०-३२॥

“सातसे आदि लेकर दश तकके चार उदीरणास्थान मिथ्यादृष्टिके होते हैं । सातसे आदि लेकर नौ तकके तीन उदीरणास्थान सम्यगिमथ्यादृष्टिके होते हैं । (ये ही तीन स्थान सासादनसम्यग्दृष्टिके भी होते हैं, किन्तु उसके सम्यगिमथ्यात्वप्रकृतिके स्थानपर किसी एक अनन्तानुबन्धी कपायकी उदीरणा होती है ।) छहसे आदि लेकर नौ तकके चार उदीरणास्थान अविरतसम्यग्दृष्टिके होते हैं । पाँचसे आदि लेकर आठ तकके चार उदीरणास्थान विरताविरत श्रावकके होते हैं । एकसे आदि लेकर मध्यमे तीन रहित सात तकके छह स्थान संयतोमे होते हैं” ॥२-३॥

चूर्णिसू०—इन दोनों गाथाओंकी व्याख्या करनेपर स्वामित्व समाप्त होता है ॥३३॥

*ताम्रपत्रवाली प्रतिमें इस सूत्रके पूर्व ‘एत्थ सादि-अणादि-धुव-अद्-धुवाणुगमो ताव काथच्चो’ यह एक और सूत्र मुद्रित है (देखो पृ० १३६३) । पर प्रकरणको देखते हुए वह सूत्र नहीं, अपि तु टीकाका ही अंग प्रतीत होता है, क्योंकि चूर्णिकारने कहीं भी सादि आदि अनुयोगद्वारोंको नहीं कहा है ।

३४. एयजीवेण कालो । ३५. एकस्से दोण्हं चदुण्हं पंचण्हं छण्हं सत्तण्हं अट्टण्हं णवण्हं दसण्हं पयडीणं पवेसगो केवचिरं कालादो होदि ? ३६. जहण्णेण एयममओ । ३७. उक्कस्सेणंतोमुहुत्तं ।

३८. एगजीवेण अंतरं । ३९. एकस्से दोण्हं चउण्हं पयडीणं पवेसगंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ४०. जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । ४१. उक्कस्सेण उवड्डुपोगगलपरियट्ठं ।

४२. पंचण्हं छण्हं सत्तण्हं पयडीणं पवेसगंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ४३. जहण्णेण एयसमओ । ४४. उक्कस्सेण उवड्डुपोगगलपरियट्ठं ।

४५. अट्टण्हं णवण्हं पयडीणं पवेसगंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ४६. जहण्णेण एयसमयो । ४७. उक्कस्सेण पुव्वकोडी देसूणा ।

४८. दसण्हं पयडीणं पवेसगस्स अंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ४९. जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । ५०. उक्कस्सेण वे छावट्टिसागरोवमाणि सादिरेयाणि ।

५१. णाणाजीवेहि भंगविचयो । ५२. सव्वजीवा दसण्हं णवण्हमट्टण्हं सत्तण्हं

चृणिसू०—अत्र एक जीवकी अपेक्षा उद्दीरणास्थानोके कालका वर्णन करते हैं ॥३४॥

शंका—एक, दो, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ और दश प्रकृतियोंकी उद्दीरणाका कितना काल है ? ॥३५॥

समाधान—जघन्यकाल समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है ॥३६-३७॥

चृणिसू०—अत्र एक जीवकी अपेक्षा उद्दीरणा-स्थानोके अन्तरका वर्णन करते हैं ॥३८॥

शंका—एक, दो और चार प्रकृतिरूप उद्दीरणा स्थानोका अन्तर काल कितना है ? ॥३९॥

समाधान—जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्थपुद्गल-परिवर्तन है ॥४०-४१॥

शंका—पाँच, छह और सात प्रकृतिरूप उद्दीरणा-स्थानोका अन्तरकाल कितना है ? ॥४२॥

समाधान—जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्थपुद्गल-परिवर्तन है ॥४३-४४॥

शंका—आठ और नौ प्रकृतिरूप उद्दीरणा-स्थानोका अन्तरकाल कितना है ? ॥४५॥

समाधान—जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल देशोन पूर्व-कोटी वर्ष है ॥४६-४७॥

शंका—दश प्रकृतिरूप उद्दीरणास्थानका अन्तरकाल कितना है ? ॥४८॥

समाधान—जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक दो बार छयान्ठ सागरोपम है ॥४९-५०॥

चृणिसू०—अत्र नाना जीवोकी अपेक्षा उद्दीरणास्थानोका भंगविचय कहते हैं—सर्व

छण्हं पंचण्हं चट्टण्हं णियमा पवेसगा । ५३. दोण्हयेक्किस्से पवेसगा भजियव्वा ।

५४. णाणाजीवेहि कालो । ५५. एक्किस्से दोण्हं पवेसगा केवचिरं कालादो होति ? ५६. जहण्णेण एयसमओ । ५७. उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । ५८. सेसाणं पयडीणं पवेसगाञ्ज सव्वद्दा ।

५९. णाणाजीवेहि अंतरं । ६०. एक्किस्से दोण्हं पवेसगंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ६१. जहण्णेण एयसमओ । ६२. उक्कस्सेण छम्मासा । ६३. सेसाणं पयडीणं पवेसगाणं णत्थि अंतरं ।

६४. सण्णियामो । ६५. एक्किस्से पवेसगो दोण्हमपवेसगो । ६६. एवं सेसाणं ।

जीव नियमसे दश, नौ, आठ, सात, छह, पाँच और चार प्रकृतिरूप स्थानोंकी उद्दीरणा करनेवाले सर्व काल पाये जाते हैं । (क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा उक्त स्थानोंकी उद्दीरणा करनेवाले जीवोंका कभी विच्छेद नहीं पाया जाता ।) किन्तु दो और एक प्रकृतिरूप स्थानोंकी उद्दीरणा करनेवाले जीव भजितव्य है । (क्योंकि, उपशम और क्षपक श्रेणीपर चढ़नेवाले जीव सदा नहीं पाये जाते ।) ॥५१-५३॥

चूर्णिसू०—अब नाना जीवोंकी अपेक्षा उद्दीरणास्थानोंका काल कहते हैं ॥५४॥

शंका—एक और दो प्रकृतिरूप स्थानोंकी उद्दीरणा करनेवाले जीवोंका कितना काल है ? ॥५५॥

समाधान—जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । (क्योंकि, उपशम या क्षपकश्रेणीका उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त ही है) शेष प्रकृतिरूप स्थानोंकी उद्दीरणा करनेवाले सर्व काल पाये जाते हैं ॥५६-५८॥

चूर्णिसू०—अब नाना जीवोंकी अपेक्षा उद्दीरणास्थानोंका अन्तर कहते हैं ॥५९॥

शंका—एक और दो प्रकृतिरूप उद्दीरणास्थानोंका अन्तरकाल कितना है ? ॥६०॥

समाधान—जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह मास है । (क्योंकि, क्षपकश्रेणीका उत्कृष्ट विरहकाल छह मास होता है ।) ॥६१-६२॥

चूर्णिसू०—शेष प्रकृतिरूप उद्दीरणास्थानोंका अन्तर नहीं होता । (क्योंकि, उनकी उद्दीरणा करनेवाले जीव सर्वकाल पाये जाते हैं ।) ॥६३॥

चूर्णिसू०—अब उद्दीरणास्थानोंके सन्निकर्षका वर्णन करते हैं—एक प्रकृतिरूप स्थानकी उद्दीरणा करनेवाला दो प्रकृतिरूप स्थानकी उद्दीरणा नहीं करता है । (क्योंकि स्वामि-भेदकी अपेक्षा दोनों परस्पर-विरोधी स्वभाववाले हैं ।) इसीप्रकार शेष उद्दीरणास्थानोंका सन्निकर्ष जानना चाहिए ॥६४-६६॥

✽ ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'पवेसगा केवचिरं कालादो होदि' ऐसा पाठ मुद्रित है ।

(देखो पृ० १३७२)

६७. अप्पावहुअं । ६८. सन्वत्थोवा एकस्से पवेसगा^१ । ६९. दोण्हं पवेसगा संखेज्जगुणा^२ । ७०. चउण्हं पयडीणं पवेसगा संखेज्जगुणा^३ । ७१. पंचण्हं पयडीणं पवेसगा असंखेज्जगुणा^४ । ७२. छण्हं पयडीणं पवेसगा असंखेज्जगुणा^५ । ७३. सत्तण्हं पयडीणं पवेसगा असंखेज्जगुणा^६ । ७४. दसण्हं पयडीणं पवेसगा अणंतगुणा^७ । ७५. णवण्हं पयडीणं पवेसगा संखेज्जगुणा^८ । ७६. अट्ठण्हं पयडीणं पवेसगा संखेज्जगुणा^९ ।

७७. गिरयगदीए सन्वत्थोवा छण्हं पयडीणं पवेसगा^{१०} । ७८. सत्तण्हं पयडीणं

चूर्णिसू०—अव उदीरणास्थानोका अल्पवहुत्व कहते है—एक प्रकृतिरूप स्थानकी उदीरणा करनेवाले सबसे कम है । एक प्रकृतिरूप स्थानके उदीरकोसे दो प्रकृतिरूप स्थानकी उदीरणा करनेवाले संख्यातगुणित है । दो प्रकृतिरूप स्थानके उदीरकोसे चार प्रकृतिरूप स्थानकी उदीरणा करनेवाले संख्यातगुणित है । चार प्रकृतिरूप स्थानके उदीरकोसे पाँच प्रकृतिरूप स्थानकी उदीरणा करनेवाले असंख्यातगुणित है । पाँच प्रकृतिरूप स्थानके उदीरकोसे छह प्रकृतिरूप स्थानकी उदीरणा करनेवाले असंख्यातगुणित है । छह प्रकृतिरूप स्थानके उदीरकोसे सात प्रकृतिरूप स्थानकी उदीरणा करनेवाले असंख्यातगुणित है । सात प्रकृतिरूपस्थानके उदीरकोसे दश प्रकृतिरूप स्थानकी उदीरणा करनेवाले अनन्तगुणित हैं । दश प्रकृतिरूप स्थानके उदीरकोसे नौ प्रकृतिरूप स्थानकी उदीरणा करनेवाले संख्यातगुणित है । नौ प्रकृतिरूप-स्थानके उदीरकोसे आठ प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवाले संख्यातगुणित है ॥ ६७-७६ ॥

चूर्णिसू०—नरकगतिमे छह प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवाले सबसे कम हैं । छह प्रकृतिरूप स्थानके उदीरकोसे सात प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवाले असंख्यातगुणित है ।

१ कुदो, सुहुमसापराइयद्वाए अणियट्ठियद्वासखेज्जदिभागे च सच्चिदखवगोवसामगजीवाणमिहग्गहणादो । जयध०

२ कुदो; अणियट्ठिपढमसमयप्पट्टुडि तदद्वाए सखेज्जेसु भागेसु सच्चिदखवगोवसामगजीवाणमिहावलवणादो । जयध०

३ किं कारण; उवसम-खइयसम्माइट्ठिसस पमत्तापमत्तसजदाणमपुव्वकरणखवगोवसामगाण च भय-दुगुछोदयविरहिदाणमेत्थ गहणादो । जयध०

४ कुदो, उवसम-खइयसम्माइट्ठिसजदासजदरासिसस सखेजाण भागाणमेत्थ पहाणभावेणावलवियत्तादो । जयध०

५ कुदो; वेदगसम्माइट्ठिसजदासजदाण संखेज्जेहि भागेहि सह उवसम खइयसम्माइट्ठि-असजदरासिसस संखेजाण भागाणमिह पहाणभावदसणादो । जयध०

६ कुदो, खइयसम्माइट्ठीण सखेज्जदिभागेण सह वेदगसम्माइट्ठि-असजदरासिसस सखेजाण भागाणमिह पहाणत्तदसणादो । जयध०

७ कुदो, मिच्छाइट्ठिरासिसस सखेज्जदिभागपमाणत्तादो । जयध०

८ कुदो; भय-दुगुछाण दोण्ह पि समुदिदाणमुदयकालादो अण्णदरविरहिदकालसस सखेज्जगुणत्तो-वएसादो । जयध०

९ किं कारण; अण्णदरविरहकालादो दोण्ह हि विरहिदकालसस सखेज्जगुणत्तावलवणादो । जयध०

१० किं कारण, उवसम खइयसम्माइट्ठीजीवाण पलिदोवमासखेज्जभागपमाणमिह गहणादो । जयध०

पवेसगा असंखेज्जगुणा^१ । ७९. दसण्हं पयडीणं पवेसगा असंखेज्जगुणा^२ । ८०. णवण्हं पयडीणं पवेसगा संखेज्जगुणा^३ । ८१. अट्ठण्हं पयडीणं पवेसगा संखेज्जगुणा^४ ।

प्रकृतिस्थान-उदीरणा समत्ता ।

८२. एत्तो भुजगार-पवेसगो । ८३. तत्थ अट्ठपदं कायव्वं^५ । ८४. तदो

सात प्रकृतिरूप स्थानके उदीरकोंसे दश प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवाले असंख्यातगुणित है । दश प्रकृतिरूप स्थानके उदीरकोंसे नौ प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवाले संख्यातगुणित है । नौ प्रकृतिरूप स्थानके उदीरकोंसे आठ प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवाले संख्यातगुणित हैं । (इसी प्रकार शेष गतियोंमें और अवशिष्ट मार्गणाओमें अल्पबहुत्व जानना चाहिए ।) ॥७७-८१॥

इस प्रकार प्रकृतिस्थान-उदीरणाका वर्णन समाप्त हुआ ।

चूर्णिसूत्र०-अब इससे आगे भुजाकार-उदीरणा कहते हैं । उसमें पहले अर्थपदकी प्ररूपणा करना चाहिए ॥८२-८३॥

विशेषार्थ-भुजाकार उदीरककी प्ररूपणा करनेके पूर्व अर्थपदकी प्ररूपणा करना आवश्यक है, अन्यथा भुजाकार आदि पद-विशेषोंका निर्णय नहीं हो सकता है । चूर्णिकारने भुजाकार आदि पदोंकी अर्थपद-प्ररूपणा स्वयं न करके व्याख्यानाचार्योंके लिए इस सूत्र द्वारा सूचनामात्र कर दी है । अतः जयधवला टीकाके आधारपर वह यहाँ की जाती है- अनन्तर-अतिक्रान्त समयमें स्तोक्ततर (थोड़ी-सी) प्रकृतियोंकी उदीरणा करके वर्तमान समयमें उससे अधिक प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवालेको भुजाकार-उदीरक कहते हैं । अनन्तर-अतीत समयमें बहुत (बहुत अधिक) प्रकृतियोंकी उदीरणा करके वर्तमान समयमें उससे अल्प प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवाले जीवको अल्पतर-उदीरक कहते हैं । अनन्तर-अतीत समयमें जितनी प्रकृतियोंकी उदीरणा कर रहा था, उतनी ही प्रकृतियोंकी वर्तमान समयमें भी उदीरणा करनेवालेको अवस्थित-उदीरक कहते हैं । अनन्तर-अतिक्रान्त समयमें एक भी प्रकृतिकी उदीरणा न करके जो इस वर्तमान समयमें उदीरणा करना प्रारम्भ करता है, उसे अवक्तव्य-उदीरक कहते हैं । इस अर्थपदके द्वारा स्वामित्वका निर्णय करना चाहिए ।

१ कुदो, वेदयसम्माइट्टिरासिस्स पहाणभावेणेत्थ विवक्खियत्तादो । जयध०

२ किं कारणं, भय-दुगुंछोदयसहिदमिच्छाइट्टिरासिस्स विवक्खियत्तादो । जयध०

३ कुदो; भय-दुगुञ्जणमण्णदरोदयविरहिदकालमि दोण्हमुदयकालादो सखेज्जगुणमि सच्चिदत्तादो ।

जयध०

४ कुदो; अण्णदरविरहिदकालादो सखेज्जगुणमि दोण्ह विरहिदकालसच्चिदत्तादो । जयध०

५ त जहा-अणतरादिक्तसमए थोवयरपयडिपवेसादो एण्हि बहुदरियाओ पयडीओ पवेसेदि त्ति एसो भुजगारपवेसगो । अणतरविदिक्तसमए बहुदरपयडिपवेसादो एण्हि थोवयरपयडीओ पवेसेदि त्ति एसो अप्पदरपवेसगो । अणतरविदिक्तसमए एण्हि च तत्तियाओ चेष पयडीओ पवेसेदि त्ति एसो अवट्टिदपवेसगो । अणतरविदिक्तसमए अपवेसगो होदूण एण्हि पवेसेदि त्ति एस अवत्तव्वपवेसगो । जयध०

सामित्तं । ८५. भुजगार-अप्पदर-अवट्टिदपवेसगो को होइ ? ८६. अण्णदरो । ८७. अवत्तव्वपवेसगो को होइ ? ८८. अण्णदरो उवसामणादो परिवदमाणगो' ।

८९. एगजीवेण कालो । ९०. भुजगारपवेसगो केवचिरं कालादो होदि ? ९१. जहण्णेण एयसमओ । ९२. उक्कस्सेण चत्तारि समया ।

चूर्णिसू०—अव भुजाकार-उदीरणाके स्वामित्वका वर्णन करते हैं ॥८४॥

शंका—भुजाकार, अल्पतर और अवस्थित उदीरणा करनेवाला कौन हैं ? ॥८५॥

समाधान—कोई एक मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि जीव है ॥८६॥

शंका—अवक्तव्य-उदीरणा करनेवाला कौन जीव है ? ॥८७॥

समाधान—उपशामनासे गिरनेवाला कोई एक जीव है ॥८८॥

विशेषार्थ—भुजाकार, अल्पतर और अवस्थित उदीरणा करनेवाले जीव सम्यग्दृष्टि भी होते हैं और मिथ्यादृष्टि भी होते हैं । किन्तु अवक्तव्य-उदीरणा करनेवाला मोहके सर्वोपशमसे ग्यारहवें गुणस्थानसे गिरकर एक प्रकृतिकी उदीरणा प्रारंभ करनेवाला प्रथमसमयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायसंयत या मरकर देवगतिमें उत्पन्न हुआ प्रथम समयवर्ती देव होता है । इन दोनों बातोंके बतलानेके लिए सूत्रमें 'अन्यतर' पद दिया है ।

चूर्णिसू०—अव एक जीवकी अपेक्षा भुजाकार उदीरकका कालका कहते हैं ॥८९॥

शंका—भुजाकार उदीरकका कितना काल है ? ॥९०॥

समाधान—जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल चार समय है ॥९१-९२॥

विशेषार्थ—सात प्रकृतिरूप स्थानकी उदीरणा करनेवाला सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि जीव भय-जुगुप्सासे किसी एकका प्रवेश करके भुजाकार-उदीरक हुआ । पुनः द्वितीय समयमें इन्हीं आठों प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेपर भुजाकार-उदीरकका एक समयप्रमाण जघन्य काल सिद्ध होता है । उत्कृष्टकालके चार समय इस प्रकार सिद्ध होते हैं—औपशमिक-सम्यक्त्वी प्रमत्तसंयत, संयतासंयत और असंयतसम्यग्दृष्टि ये तीनों ही यथाक्रमसे चार, पाँच और छह प्रकृतियोंकी उदीरणा करते हुए अवस्थित थे । जब औपशमिकसम्यक्त्वका काल एक समयमात्र शेष रहा, तब वे सभी ससादनगुणस्थानको प्राप्त हुए । इसप्रकार एक समय प्राप्त हुआ । तत्पश्चात् ही दूसरे समयमें मिथ्यात्वगुणस्थानमें पहुँचनेपर द्वितीय समय, तत्पश्चात् ही भयकी उदीरणा करनेपर तृतीय समय और तदनन्तर ही जुगुप्साकी उदीरणा करनेपर चतुर्थ समय उपलब्ध हुआ । इसप्रकार भुजाकार-उदीरकका उत्कृष्ट काल चार समय प्राप्त होता है । अथवा ग्यारहवें गुणस्थानसे उतरनेवाला और किसी एक संज्वलन कपायकी उदीरणा करनेवाला अनिवृत्तिकरण-संयत पुरुषवेदकी उदीरणा कर प्रथम वार भुजाकार उदीरक हुआ । तदनन्तर समयमें मरण कर देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान कपायोंकी उदीरणा करनेपर द्वितीय वार, तत्पश्चात् भयकी उदीरणा करनेपर तृतीय वार और

१ सत्वोवसमं कादूण परिवदमाणगो पढमसमयसुहुमसापराइयो पढमममयदेवो वा अवत्तव्वपवेसगो होइ । जयध०

९३. अप्पदरपवेसगो केवचिरं कालादो होदि ? ९४. जहण्णेण एयसमओ^१ ।
 ९५. उक्कस्सेण तिण्णिण समया^२ । ९६. अवट्ठिदपवेसगो केवचिरं कालादो होदि ?
 ९७. जहण्णेण एगसमओ^३ । ९८. उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं^४ । ९९. अवत्तव्वपवेसगो
 केवचिरं कालादो होदि ? १००. जहण्णुकस्सेण एयसमयो^५ ।

तदनन्तर ही जुगुप्साकी उदीरणा करनेपर चतुर्थ वार भुजाकार उदीरक हुआ । इस प्रकार भी भुजाकार उदीरकका चार समयप्रमाण उत्कृष्ट काल सिद्ध हो जाता है ।

शंका—अल्पतर-उदीरकका कितना काल है ? ॥९३॥

समाधान—जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय है ॥९४-९५॥

विशेषार्थ—किसी संयत या असंयतके विवक्षित अल्पतर प्रकृतिरूप उदीरणास्थानकी उदीरणा करनेके अनन्तर समयमें ही उससे अधिक या कम प्रकृतिरूप उदीरणास्थानकी उदीरणा करनेपर एक समय जघन्यकाल सिद्ध होता है । उत्कृष्टकालकी प्ररूपणा इस प्रकार है—इन्द्र प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवाले मिथ्यादृष्टिके भयके विना नों प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेपर एक समय, तदनन्तर समयमें जुगुप्साके विना आठ प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेपर द्वितीय समय, तत्पश्चात् ही सम्यक्त्वके प्राप्त होनेपर मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीके विना छह प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेपर तृतीय समय अल्पतर-उदीरकका प्राप्त होता है । इसी प्रकार असंयतसम्यग्दृष्टिके संयमासंयमको प्राप्त होनेपर और संयतासंयतके संयमको प्राप्त होनेपर अल्पतर उदीरकके तीन समयप्रमाण उत्कृष्ट कालकी प्ररूपणा करना चाहिए ।

चृणिसू०—अवस्थित-उदीरकका कितना काल है ? ॥९६॥

समाधान—जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है ॥९७-९८॥

शंका—अवक्तव्य-उदीरकका कितना काल है ? ॥९९॥

समाधान—जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समयप्रमाण है ॥१००॥

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि सर्वोपगमनासे गिरकर प्रथम समयमें उदीरणा प्रारंभ करनेवाले जीवके अतिरिक्त अन्यत्र अवक्तव्य-उदीरणाका होना असंभव है ।

१ कुटो, एयसमयमप्पर कादूण तदणतरसमए भुजगारमवट्ठिद वा गदस्स तदुवलभादो । जयध०

२ त जहा—मिच्छाइट्ठी दस पयडीओ उदीरेमाणगो भयवोच्छेदेण णवण्हमुदीरगो होदूणेक्को अप्पदरसमयो, से काले दुगुछोदयवोच्छेदेणट्ठण्हमुदीरगो होदूण विदियो अप्पयरसमयो, तदणतरसमए सम्मत्तं पडिवण्णस्स मिच्छत्ताणताणुवधिओच्छेदेण तदियो अप्पदरसमयो त्ति । एव अप्पदरपवेगस्स उक्कस्सकालो तिसमयमेत्तो । एव चेवासजदसम्माइट्ठिस्स सजमासंजम पडिवजमाणस्स, संजदासजदस्स वा सजम पडिवजमाणस्स तिसमयमेत्तप्परुक्कस्सकालपरुवणा कायव्वा । जयध०

३ त कथ; णवपवडिपवेसमाणस्स दुगुछागमेणेयसमग्र भुजगारपजाएण परिणमिय से काले तत्तिय-मेत्तेणावट्ठिदस्स तदणतरसमए भयवोच्छेदेणप्पदरपजायमुवगयस्स लद्धो एयसमयमेत्तो अवट्ठिदजहण्णकालो । एवमण्णत्थ वि दट्ठव्व । जयध०

४ त जहा—दसपयडीओदीरेमाणस्स भय दुगुछाणमुदयवोच्छेदेणप्पदर कादूणावट्ठिदस्स जाव पुणो भय-दुगुछाणमणुदयो ताव अतोमुहुत्तमेत्तो अवट्ठिदपवेसगस्स उक्कस्सकालो होइ । जयध०

५ कुटो; सव्वोवसामणादो परिवदिदपट्टममय मोत्तण्णत्थ तदसभवादो । जयध०

१०१. एयजीवेण अंतरं । १०२. भुजाकार-अल्पतर-अवस्थित-उदीरकका अन्तरं क्वेवचिरं कालादो होदि ? १०३. जघण्णेण एयसमथो । १०४. उत्कृष्टेण अन्तोमुहूर्त्तं ।

चूर्णिसू०—अत्र एक जीवकी अपेक्षा भुजाकार-उदीरकका अन्तरं कइते हैं ॥१०१॥

शंका—भुजाकार, अल्पतर और अवस्थित उदीरकका अन्तरकाल कितना है? ॥१०२॥

समाधान—जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त्त-प्रमाण है ॥१०३-१०४॥

विशेषार्थ—ग्यारहवें गुणस्थानसे उतरकर किती एक संञ्चलनकी उदीरणा करनेवाला उपनामक पुरुषवेदकी उदीरणा कर भुजाकार-उदीरक हुआ । तदनन्तर समयमें उतनी ही प्रकृतियोंकी उदीरणा कर अवस्थित-उदीरक हो अन्तरको प्राप्त हुआ और तदनन्तर समयमें मरण कर देवोंमें उत्पन्न होकर अधिक प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेपर भुजाकार-उदीरक हुआ । इस प्रकार भुजाकार-उदीरकका एक समयप्रमाण अन्तरकाल सिद्ध हो जाता है । इसीप्रकार नीचेके गुणस्थानोंमें भी जानना चाहिए । अब अल्पतरका जघन्य अन्तर कइते हैं—भय और जुगुप्साके साथ विवक्षित उदीरणास्थानकी उदीरणा करनेवाला कोई एक गुणस्थानवर्ती जीव भयके विना शेष अल्पतर प्रकृतियोंकी उदीरणा कर तदनन्तर समयमें उतनी ही प्रकृतियोंकी अवस्थित उदीरणा कर अन्तरको प्राप्त हुआ । तदनन्तर समयमें ही जुगुप्साके विना और भी अल्पतर प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवाला हुआ, इसप्रकार अल्पतर-उदीरकका एक समयप्रमाण जघन्य अन्तर सिद्ध हो जाता है । इसी प्रकार मिथ्यादृष्टिके सम्यक्त्वके ग्रहण करनेपर और असंयतसम्यग्दृष्टिके संयमासंयम या संयमके ग्रहण करनेपर भी अल्पतर-उदीरकका जघन्य अन्तरकाल सिद्ध होता है । अवस्थित-उदीरककी जघन्य-अन्तर-प्ररूपणा इस प्रकार है—सात या आठ प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवाला जीव भयकी उदीरणा करनेपर एक समय भुजाकार-उदीरकरूपसे रहकर अन्तरको प्राप्त हो तदुपरितन समयमें सात या आठ ही प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवाला हो गया । इसी प्रकार अल्पतर-उदीरकके साथ भी जघन्य अन्तर सिद्ध करना चाहिए । अब उक्त समस्त उदीरकोके उत्कृष्ट अन्तरका वर्णन करते हैं । उनमें पहले भुजाकार-उदीरकका उत्कृष्ट अन्तर कइते हैं—पांच प्रकृतिरूप स्थानकी उदीरणा करनेवाला एक संयतासंयत असंयमको प्राप्त होनेके प्रथम समयमें भुजाकार-उदीरणाका प्रारम्भ कर अन्तरको प्राप्त हुआ और सर्वोत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त तक अन्तरित रहकर भय या जुगुप्साकी उदीरणाके वशसे फिर भी भुजाकार-उदीरक हुआ । इस प्रकार उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्तकाल-प्रमाण अन्तर प्राप्त हो गया । अथवा चार प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवाला एक औपशमिकसम्यग्दृष्टि प्रमत्त या अप्रमत्त-संयत भय या जुगुप्साके प्रवेशसे भुजाकार-उदीरणाको प्रारम्भ कर और स्वस्थानमें ही उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त तक रह कर अन्तरको प्राप्त हो उपशमश्रेणीपर चढ़कर सर्वोपशम करके उतरता हुआ संञ्चलन लोभकी उदीरणाकर और नीचे गिरकर जिस समय स्त्रीवेदकी उदीरणा करता हुआ भुजाकार-उदीरक हुआ उस समय भुजाकार-उदीरकका उत्कृष्ट अन्तर सिद्ध हो जाता

१०५. अवत्त्वपत्रेसंगंतरं केवचिरं कालादो होदि ? १०६. जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । १०७. उक्कस्सेण उवड्डुपोग्गलपरियट्टं ।

है । अब अल्पतर-उदीरकका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं—नौ या दश प्रकृतियोंकी उदीरणा करने-वाले जीवके भय-जुगुप्साकी उदीरणाके विना अल्पतर उदीरणारूप पर्यायसे परिणत होनेके अनन्तर समयमें अन्तरको प्राप्त होकर अन्तर्मुहूर्तके पश्चात् भय और जुगुप्साकी उदीरणा करने पर फिर भी अन्तर्मुहूर्त तक अन्तरित रहनेवाले जीवके अन्तर्मुहूर्तप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर सिद्ध होता है । अथवा उपशमश्रेणीपर चढ़कर र्क्षावेदकी उदीरणा-व्युच्छेद करके अल्पतर-उदीरक बनकर अन्तरको प्राप्त हो, ऊपर चढ़कर और नीचे गिरकर, भय-जुगुप्साकी उदीरणा प्रारंभ कर अन्तर्मुहूर्त तक उदीरणा करने पर उत्कृष्ट अन्तर सिद्ध हो जाता है । अब अवस्थित-उदीरकका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं—संज्वलन लोभकी उदीरणा करनेवाला उपशमक अवस्थित उदीरणाका आदि करके अनुदीरक बन अन्तर्मुहूर्त तक अन्तरित रह कर पुनः उत्तरता हुआ सूक्ष्मसाम्परायसंयत होकर और दूसरे समयमें मरकर देवोंमें उत्पन्न हो यथाक्रमसे दो समयोंमें भय और जुगुप्साकी उदीरणा कर तत्पश्चात् अवस्थित-उदीरक हुआ । इस प्रकार उत्कृष्ट अन्तर सिद्ध हो जाता है ।

शंका—अवक्तव्य-उदीरकका अन्तरकाल कितना है ? ॥१०५॥

समाधान—जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्धपुद्गल-परिवर्तन है ॥१०६-१०७॥

विशेषार्थ—कोई संयत उपशमश्रेणीपर चढ़कर सर्वोपशमनासे गिरनेके प्रथम समयमें अवक्तव्य उदीरणाका प्रारम्भ कर और नीचे गिरकर अन्तरको प्राप्त हुआ । पुनः सर्वलघु अन्तर्मुहूर्तके द्वारा उपशमश्रेणीपर चढ़कर और वहाँसे गिरकर सूक्ष्मसाम्परायकी चरमावलीके प्रथम समयमें एक प्रकृतिका उदीरक बनके और वहाँ पर मरण करके उसके देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें अन्तर्मुहूर्तप्रमाण जघन्य अन्तर उपलब्ध हो जाता है । उत्कृष्ट अन्तरकी प्ररूपणा इस प्रकार है—कोई विवक्षित जीव संसारके अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण अवशिष्ट रहनेके प्रथम समयमें सम्यक्त्वको उत्पन्नकर सर्वलघु अन्तर्मुहूर्तके द्वारा तत्काल उपशमश्रेणीपर चढ़कर गिरा और दशवे गुणस्थानमें अवक्तव्य उदीरक बनके अन्तरको प्राप्त हुआ । पश्चात् कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तन तक संसारमें परिभ्रमणकर संसारके अल्प श्रेय रह जानेपर पुनः सर्व विशुद्ध होकर उपशमश्रेणीपर चढ़कर और वहाँसे गिरनेपर एक प्रकृतिकी उदीरणाके प्रथम समयमें उत्कृष्ट अन्तरको प्राप्त हुआ । इस प्रकार उपार्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकाल सिद्ध हो जाता है ।

१ तं जहा—उवसमसेदिमारुदिय सव्वोवसामणापडिवादपढमसमए अवत्त्वस्सादि कादूण हेदूठा णिवदिय अतरिदो । पुणो वि सव्वलहुमंतोमुहुत्तेण उवसमसेदिमारोहण कादूण सुहुमसापराइयचरिमावलय-पढमसमए अपवेसगभावमुवणमिय तत्थेव काल कादूण देवेसुप्पणपढमसमए लद्धमतर करेदि; पयारतरेण जहण्णतराणुप्पत्तीदो । जयध०

२ तं कथ, अड्डुपोग्गलपरियट्टपढमसमए सम्मत्तमुप्पाइय मव्वलहुसुवमसेदिसमारोहणपुरस्सरपडिवा-

१०८ गाणाजीवेहि भंगविचयादि-अणियोगद्वाराणि अप्पावहुअवज्जाणि कायव्वाणि ।

१०९. अप्पावहुअं । ११०. सव्वत्थोवा अवत्तव्वपवेसगा^१ । १११. भुजगार-पवेसगा अणंतगुणा^२ । ११२. अप्पदरपवेसगा विसेसाहिया^३ । ११३. अवट्ठिदपवेसगा असंखेज्जगुणा^४ ।

११४. पदणिकखेव-वड्डीओ कादव्वाओ ।

तदो 'कदि आवलियं पवेसेइ' त्ति पदं समत्तं । एवं पयडि-उदीरणा समत्ता ।

चूर्णिसू०—नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयको आदि लेकर अल्पवहुत्वके पूर्ववर्ती अनुयोगद्वारोंकी प्ररूपणा करना चाहिए ॥ १०८ ॥

चूर्णिसू०—अव भुजगार-उदीरकोंके अल्पवहुत्वको कहते हैं—अवक्तव्य-उदीरक सबसे कम है । (क्योंकि सर्वोपशम करके गिरनेवाले जीव संख्यात ही पाये जाते हैं ।) अवक्तव्य-उदीरकोसे भुजाकार-उदीरक अनन्तगुणित है । (क्योंकि, यहाँपर द्विसमय-संचित एकेन्द्रिय-जीवराशिका प्रधानतासे ग्रहण किया गया है ।) भुजाकार-उदीरकोसे अल्पतर-उदीरक विशेष अधिक है । (यद्यपि भुजाकार-उदीरक और अल्पतर-उदीरक सामान्यतः समान हैं, तथापि सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेवाले अनादिमिथ्यादृष्टियोंके साथ दर्शनमोह और चारित्रमोहका क्षयकर अल्पतर-उदीरक जीवोंकी संख्याके कुछ अधिक होनेसे यहाँ अल्पतर-उदीरक भुजाकार-उदीरकोसे विशेष अधिक बताया गया है ।) अल्पतर-उदीरकोसे अवस्थित-उदीरक असंख्यातगुणित है । (क्योंकि अवस्थित-उदीरणाका काल अन्तर्मुहूर्त है, उसमें संचित होनेवाली एकेन्द्रिय जीवराशिकी यहाँ प्रधानता होनेसे अल्पतर-उदीरकोसे अवस्थित-उदीरकोको असंख्यातगुणित कहा गया है ॥ १०९-११३ ॥

चूर्णिसू०—यहाँपर पदनिक्षेप और वृद्धिकी प्ररूपणा करना चाहिए ॥ ११४ ॥

इस प्रकार 'कदि आवलियं पवेसेइ' पहली गाथाके इस प्रथम चरणकी व्याख्या समाप्त हुई और इस प्रकार प्रकृतिस्थान-उदीरणाकी प्ररूपणा समाप्त होती है ।

देणादि कादूणतरिदो किचूणमद्धपोगलपरियट्टुण थोवावसेसे ससारे पुणो वि सव्वविसुद्धो होदूण उवसमसेटिमारूदो पडिवादपढमसमए लद्धमतर करेदि त्ति वत्तव्व । जयध०

१ कि कारण, उवसमसेटीए सव्वोवसम कादूण परिवदमाणजीवेसु चेष तदुवलंभादो । जयध०

२ कि कारण, दुसमयसच्चिदेइदियजीवाणमेत्थ पहाणभावेणावलवणादो । जयध०

३ कि कारण; मिच्छत्त पडिवज्जमाणसम्माइट्ठीण सम्मत्त पडिवज्जमाणमिच्छाइट्ठीण च जहाकम भुजगारप्पदरपरिणदाण सत्थाणमिच्छाइट्ठीण च सव्वत्थ भुजगारप्पदरपवेसगाण समाणत्ते सते वि सम्मत्त-मुप्पाएमाणाणादियमिच्छाइट्ठीहि सह दसण-चारित्तमोहकखवयजीवाण भुजगारेण विणा अप्पदरमेव कुणमाणाणमेत्थाहियत्तदसणादो । जयध०

४ कि कारण, अतोमुहुत्तसच्चिदेइदियरासिस्स पहाणत्तादो । जयध०

११५. 'कदि च पविसंति कस्स आवलियं' ति ? ११६. एत्थ पुब्बं गम-
णिज्जा ठाणसमुक्कित्तणा पयडिणिद्देसो च^१ । ११७. ताणि एकदो भणिसंति । ११८.
अट्ठावीसं पयडीओ उदयावलियं पविसंति । ११९. सत्तावीसं पयडीओ उदयावलियं
पविसंति सम्मत्ते उव्वेल्लिदे । १२०. छव्वीसं पयडीओ उदयावलियं पविसंति सम्मत्त-
सम्मामिच्छत्तेसु उव्वेल्लिदेसु^२ ।

चूर्णिसू०—अब पहली गाथाके 'कदि च पविसंति कस्स आवलियं' इस द्वितीय
चरणकी व्याख्या की जाती है। यहाँपर पहले स्थानसमुत्कीर्तना और प्रकृतिनिर्देश गमनीय
अर्थात् ज्ञातव्य हैं, अतः ये दोनों एक साथ कहे जावेगे ॥११५-११७॥

विशेषार्थ—पहली गाथाके दूसरे चरणसे प्रकृतिप्रवेशका निर्देश किया गया है उद्या-
वलीके भीतर प्रकृतियोंके प्रवेश करनेको प्रकृतिप्रवेश कहते हैं। प्रकृतिप्रवेशके दो भेद हैं—मूल-
प्रकृतिप्रवेश और उत्तरप्रकृतिप्रवेश। उत्तरप्रकृतिप्रवेशके भी दो भेद हैं—एकैकोत्तरप्रकृतिप्रवेश
और प्रकृतिस्थानप्रवेश। इसमें मूलप्रकृतिप्रवेश और एकैकोत्तरप्रकृतिप्रवेशके सुगम होनेसे
चूर्णिकारने उनकी प्ररूपणा नहीं की है। यहाँ प्रकृतिस्थानप्रवेश विवक्षित है। उसका वर्णन
आगे समुत्कीर्तना आदि सत्तरह अनुयोगद्वारासे किया जायगा, ऐसा अभिप्राय मनमें रख
कर चूर्णिकार पहले समुत्कीर्तना अनुयोगद्वाराका प्ररूपण कर रहे हैं। समुत्कीर्तना के दो भेद
हैं—स्थानसमुत्कीर्तना और प्रकृतिसमुत्कीर्तना। अट्ठाईस प्रकृतिरूप स्थानको आदि लेकर
गुणस्थान और मार्गणास्थानोंके द्वारा इतने प्रकृतिस्थान उद्यावलीके भीतर प्रवेश करते हैं, इस
प्रकारकी प्ररूपणा करनेको स्थानसमुत्कीर्तना कहते हैं। इतनी प्रकृतियोंको ग्रहण करनेपर यह
अमुक्त या विवक्षित प्रकृतिस्थान उत्पन्न होता है, इस प्रकारके वर्णन करनेको प्रकृतिसमुत्की-
र्तना कहते हैं। इसीका दूसरा नाम प्रकृतिनिर्देश है। चूर्णिकार इन दोनोंका एक साथ
वर्णन करेगे।

चूर्णिसू०—मोहकर्मकी अट्ठाईस (सभी) प्रकृतियों उद्यावलीमें प्रवेश करती है।
इनमेंसे सम्यक्त्वप्रकृतिकी उद्वेलना करने पर मोहकर्मकी जेप सत्ताईस प्रकृतियों उद्यावलीमें
प्रवेश करती है। सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेलना करनेपर जेप छव्वीस
प्रकृतियों उद्यावलीमें प्रवेश करती है ॥११८-१२०॥

१ तत्थ ठाणसमुक्कित्तणा णाम अट्ठवीसाए पयडिट्ठाणमादि कादूण ओघादेसेहि एत्तियाणि
पयडिट्ठाणाणि उदयावलिय पविसमाणाणि अत्थि त्ति पस्वणा । पयडिणिद्देसो णाम एदाओ पयडीओ
वेत्तूणेढ पवेसट्ठाणमुपज्जइ त्ति णिरूवणा । जयध०

२ ण केवलमुव्वेल्लिदसम्मत्त-सम्मामिच्छत्तसेव, किंतु अणादियमिच्छाइट्ठिणो वि छव्वीसाए पवेस-
ट्ठाणमत्थि त्ति धेत्तव्व । अट्ठावीस-सत्तावीसाणमण्णदरसत्तकम्मियमिच्छाइट्ठिणा वा उवसमसम्मत्ताहि-
मुद्देणतर कादूण सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमावलियमेत्तपढमट्ठिदीए गलिदाए छव्वीसपवेसट्ठाणमुवलम्भइ ।
उवसमसम्माम्हाट्ठिणा पणुवीसपवेसणेण मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमण्णदरे ओकडुिदे सासणसम्माम्हाट्ठिणा
वा मिच्छत्ते पडिवणो एयसमय छव्वीसाए पवेसट्ठाणमुवलम्भइ । गवरि सुत्ते सम्मत्त सम्मामिच्छत्तेसु
उव्वेल्लिदेसु त्ति णिद्देसो उदाहरणमेत्तो; तेणेदेसि पि पयाराण संगहो कायव्वो । जयध०

१२१. पणुवीसं पयडीओ उदयावलयं पविसंति दंसणतियं मोत्तूण^१ । १२२. अणंताणुवंधीणमविसंजुत्तस्स उवसंतदंसणमोहणीयस्स^२ । १२३. णत्थि अण्णस्स कस्स वि^३ । १२४. चउवीसं पयडीओ उदयावलयं पविसंति अणंताणुवंधिणो वज्जं ।

विशेषार्थ—यह छव्वीस प्रकृतिरूपस्थान सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेलना करनेवाले सादि मिध्यादृष्टिके ही नहीं होता है, किन्तु अनादिमिध्यादृष्टिके भी पाया जाता है, क्योंकि उसके तो उक्त दोनो प्रकृतियोंका अस्तित्व ही नहीं पाया जाता है। तथा अट्ठाईस या सत्ताईस प्रकृतियोंकी मत्तावाले मिध्यादृष्टिके उपशमसम्यक्त्वके अभिमुख होनेपर अन्तर करके सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी आवलीमात्र प्रथम स्थितिके गला देने पर छव्वीस प्रकृतिरूप स्थान पाया जाता है। इसके अतिरिक्त पच्चीस प्रकृतियोंका प्रवेश करनेवाले उपशमसम्यग्दृष्टिके सम्यग्मिध्यात्व या सम्यक्त्वप्रकृतिके अपकर्षण करनेपर, अथवा सासादनसम्यग्दृष्टिके मिध्यात्वको प्राप्त होनेपर भी एक समय छव्वीस प्रकृतियोंके प्रवेशरूप स्थान पाया जाता है। चूर्णिकारने उदाहरणकी दिशामात्र बतलानेके लिए सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेलनाका निर्देश किया है, अतः उक्त अन्य प्रकारोका भी यहाँ संग्रह कर लेना चाहिए।

चूर्णिसू०—दर्शनमोहकी तीन प्रकृतियां छोड़कर चारित्रमोहकी पच्चीस प्रकृतियां उदयावलीमे प्रवेश करती हैं। यह प्रकृतिउदीरणास्थान अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना न करके दर्शनमोहनीयका उपशमन करनेवाले उपशमसम्यग्दृष्टि जीवके ही होता है, अन्य किसीके भी नहीं होता ॥१२१-१२३॥

विशेषार्थ—दर्शनमोहकी तीन प्रकृतियोंका उपशम करनेवाले उपशमसम्यग्दृष्टि जीवके चारित्रमोहकी पच्चीस प्रकृतियोंका प्रवेश उदयावलीके भीतर निराबाधरूपसे पाया जाता है। यहाँ पर 'अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना न करनेवाले' इस विशेषणके देनेका अभिप्राय यह है कि जो अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके उपशमसम्यग्दृष्टि बनेगा, उसके तो इक्कीस प्रकृतिरूप स्थान प्राप्त होगा, पच्चीस प्रकृतिवाला स्थान नहीं। इसी अर्थकी पुष्टि करनेके लिए कहा है कि यह स्थान अविसंयोजित उपशमसम्यग्दृष्टिके सिवाय और किसीके नहीं पाया जाता है।

चूर्णिसू०—अनन्तानुबन्धी चतुष्कको छोड़कर शेष चौबीस मोहप्रकृतियाँ उदयावलीमे प्रवेश करती हैं ॥१२४॥

१ कसाय णोकसायपयडीण उदयावलयपवेसस्स कत्थ वि समुवलंभादो । जयव०

२ किं कारण, उवसंतदंसणमोहणीयम्मि दंसणतिय मोत्तूण पणुवीसचरित्तमोहपयडीणमुदयावलयपवेसस्स णिप्पडिवंधमुवलंभादो । एत्थाणनाणुवंधीणमविसंजुत्तस्सेत्ति विसेसण विसजोइदाणंताणुवविचउक्कम्मि पणुवीसपवेसट्ठाणासंभवपहुप्पायणफल; उवसमसम्माइट्ठिणा अणंताणुवंधीसु विसजोइदेसु इगिवीसपवेसट्ठाणुवत्तिसणादो । जयध०

३ कुदो, अविसजोइदाणताणुवधिचउक्कसुवसमसम्माइट्ठि मोत्तूणणत्थ पणुवीसपवेसट्ठाणासंभादो ।

जयध०

४ चउवीससत्तकम्मियवेदयसम्माइट्ठि-सम्मामिच्छाइट्ठीसु तदुवलभादो । विसजोयणापुव्वसजोरापटमसमए वट्ठमाणमिच्छाइट्ठिम्मि वि एदस्स पवेसट्ठाणस्स सभवो दट्ठवो । जयध०

१२५. तेत्रीसं पयडीओ उदयावलियं पविसंति मिच्छत्ते खविदे । १२६. वात्रीसं पयडीओ उदयावलियं पविसंति सम्मामिच्छत्ते खविदे । १२७. एकवीसं पय-
डीओ उदयावलियं पविसंति दंसणमोहणीए खविदे । १२८. एदाणि द्वाणाणि असंजद-
पाओग्गाणि ।

१२९ एत्तो उवसामगपाओग्गाणि ताणि भणिस्सामो । १३०. उवसामणादो

विशेषार्थ—चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले वेदकसम्यग्दृष्टि या सम्यग्मिथ्यादृष्टिके चौबीस प्रकृतिरूप स्थानकी उद्दीरणा होती है । तथा विसंयोजनाके पश्चात् मिथ्यात्व गुण-
स्थानमें आनेवाले मिथ्यादृष्टिके भी प्रथम समयमें यह उद्दीरणास्थान पाया जाता है ।

चूर्णिसू०—मिथ्यात्वके क्षय हो जाने पर तेईस प्रकृतियाँ उदयावलीमें प्रवेश करती
हैं । उनमेंसे सम्यग्मिथ्यात्वके क्षय हो जानेपर बाईस प्रकृतियाँ उदयावलीमें प्रवेश करती
हैं । दर्शनमोहनीयके क्षय हो जानेपर इक्कीस प्रकृतियाँ उदयावलीमें प्रवेश करती हैं
॥ १२५-१२७ ॥

विशेषार्थ—दर्शनमोहनीयकी क्षपणाके लिए उन्नत उक्त वेदकसम्यग्दृष्टिके मिथ्यात्व-
के क्षयकर देनेपर तेईस प्रकृतियोंका, अन्तर्मुहूर्त पश्चात् सम्यग्मिथ्यात्वके क्षय कर देनेपर
बाईस प्रकृतियोंका और अन्तर्मुहूर्त पश्चात् सम्यक्त्वप्रकृतिके क्षयकर देनेपर इक्कीस प्रकृतियों-
का उद्दीरणस्थान पाया जाता है । यहाँ इतना विशेष है कि अनन्तानुबन्धी कपाय-चतुष्टयकी
विसंयोजना और दर्शनमोहनीय-त्रिककी उपशमनाकर उपशमसम्यक्त्व प्राप्त करनेवाले औप-
शमिकसम्यग्दृष्टिके मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी, सम्यग्मिथ्यात्व या सम्यक्त्वप्रकृतिमेंसे किसी
एक प्रकृतिके उद्भव आनेपर विवक्षित गुणस्थानकी प्राप्तिके प्रथम समयमें भी बाईस
प्रकृतियोंका उद्दीरणास्थान पाया जाता है । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी-चतुष्ककी विसंयो-
जना पूर्वक दर्शनमोह-त्रिकका उपशम करनेवाले औपशमिकसम्यग्दृष्टिके भी इक्कीस प्रकृति-
रूप उद्दीरणास्थान पाया जाता है । चूर्णिकारने यहाँ इन दोनों प्रकारोंकी विवक्षा नहीं की है,
ऐसा अभिप्राय जानना चाहिए ।

चूर्णिसू०—ये सब उपर्युक्त स्थान असंयतोके योग्य हैं ॥ १२८ ॥

विशेषार्थ—ऊपर कहे गये अट्ठाईस, सत्ताईस, छठ्ठीस, पच्चीस, चौबीस, तेईस,
बाईस और इक्कीस प्रकृतिरूप आठ उद्दीरणास्थान असंयत जीवोंके होते हैं । चूर्णिकारका
यह कथन असंयतोके योग्य उद्दीरणास्थानोंके निर्देशके लिए है, अतः उक्त सभी स्थान असं-
यतोके ही होते हैं, ऐसा अवधारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्ताईस प्रकृतिरूप उद्दीरणा-
स्थानको छोड़कर शेष सात स्थान यथासंभव संयतोमें भी पाये जाते हैं ।

चूर्णिसू०—अब इससे आगे उपशामक-प्रायोग्य जो स्थान है, उन्हें कहेंगे ॥ १२९ ॥

? एसो एको पयारो सुत्तयारेण णिद्विट्ठो त्ति पयारतरेण वि एदस्स सभवविसयो अणुसग्गियच्चो,
अणताणुवविणो विसजोइय डग्गिवीसपवेसयभावेणावट्ठदस्स उवसमसम्माइट्ठस्स मिच्छत्तवेदयसम्मत्त-
सम्मामिच्छत्त-मागणसम्मत्ताणमण्णदरगुणपडिवत्तिपढसमए पयदट्ठाणसभवणियमदमणादो । जयध०

परिवदंतेण तिविहो लोहो ओकड्ढिदो । तत्थ लोभसंजलणमुदए दिण्णं, दुविहो लोहो उदयावलियवाहिरे णिक्खित्तो । ताथे एक्का पयडी पविसदि । १३१. से काले तिण्णि पयडीओ पविसंति । १३२. तदो अंतोमुहुत्तेण तिविहा माया ओकड्ढिदा । तत्थ माया-संजलणमुदए दिण्णं, दुविहमाया उदयावलियवाहिरे णिक्खित्ता । ताथे चत्तारि पय-डीओ पविसंति । १३३. से काले छप्पयडीओ पविसंति । १३४. तदो अंतोमुहुत्तेण तिविहो माणो ओकड्ढिदो, तत्थ माणसंजलणमुदये दिण्णं, दुविहो माणो आवलि-वाहिरे णिक्खित्तो । ताथे सत्त पयडीओ पविसंति । १३५. से काले णव पयडीओ पविसंति । १३६. तदो अंतोमुहुत्तेण तिविहो क्रोहो ओकड्ढिदो । तत्थ क्रोहसंजलण-मुदए दिण्णं, दुविहो क्रोहो उदयावलियवाहिरे णिक्खित्तो, ताथे दस पयडीओ पवि-संति । से काले वारस पयडीओ पविसंति । १३७. तदो अंतोमुहुत्तेण पुरिसवेद-छण्णो-कसायवेदणीयाणि ओकड्ढिदाणि । तत्थ पुरिसवेदो उदए दिण्णो । छण्णोकसायवेद-

विशेषार्थ—उपर असंयतोके योग्य स्थान वतलाकर अव संयतोके योग्य उद्दीरणा-स्थानोका वर्णन करनेकी चूर्णिकार प्रतिज्ञा कर रहे हैं । संयत दो प्रकारके होते हैं—उपशामक संयत और क्षपक संयत । इन दोनोंके स्थानोका वर्णन करना एक साथ असंभव है, अतः पहले उपशामक-संयतोके योग्य उद्दीरणास्थानोको कहते हैं ।

चूर्णिसू०—उपशामनासे अर्थात् मोहकर्मका सर्वोपशम करके ग्यारहवें गुणस्थानसे गिरता हुआ जीव दशवें गुणस्थानके प्रथम समयमें तीन प्रकारके लोभका अपकर्षण करता है । उससे संज्वलन लोभको उदयमें देता है, तथा अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान इन दोनों लोभोको उदयावलीके वाहिर निक्षिप्त करता है, उस समय एक संज्वलनलोभ प्रकृति उदया-वलीमें प्रवेश करती है । तदनन्तर समयमें पूर्वोक्त दोनों लोभोके मिल जानेसे तीनों लोभ प्रकृतियाँ उदयावलीमें प्रवेश करती हैं । इसके अन्तर्मुहूर्त पश्चात् तीनों मायाकपायोका अप-कर्षण करता है । उनसे संज्वलन मायाको उदयमें देता है और शेष दोनों मायाकपायोको उदयावलीके वाहिर स्थापित करता है । उस समय चार प्रकृतियाँ उदयावलीमें प्रवेश करती हैं । तदनन्तर समयमें तीनों लोभ व तीनों मायारूप छह प्रकृतियाँ प्रवेश करती हैं । इसके अन्तर्मुहूर्त पश्चात् तीनों प्रकारके मानका अपकर्षण करता है । उनसे संज्वलन मानको उदयमें देता है और शेष दोनों प्रकारके मानोको उदयावलीके वाहिर निक्षिप्त करता है । उस समय तीन लोभ, तीन माया और संज्वलनमान ये सात प्रकृतियाँ प्रवेश करती हैं । तदनन्तर कालमें शेष दोनों मानकपायोके मिलनेपर नौ प्रकृतियाँ प्रवेश करती हैं । इसके अन्तर्मुहूर्त पश्चात् तीनों प्रकारके क्रोधका अपकर्षण करता है । उनसे संज्वलन क्रोध-को उदयमें देता है और शेष दोनों प्रकारके क्रोधोको उदयावलीके वाहिर निक्षिप्त करता है । उस समय दश प्रकृतियाँ प्रवेश करती हैं । तदनन्तर समयमें दोनों क्रोध मिलनेपर बारह प्रकृतियाँ प्रवेश करती हैं । इसके अन्तर्मुहूर्त पश्चात् पुरुषवेद, और हास्यादि छह नोकपाय-

णीयाणि उदयावलियवाहिरे णिक्खित्ताणि । ताथे तेरस पयडीओ पविसंति । १३८. से काले एग्गुणवीसं पयडीओ पविसंति । १३९. तदो अंतोमुहुत्तेण इत्थिवेदमोकड्डिऊण उदयावलियवाहिरे णिक्खिवदि^१ । १४०. से काले वीसं पयडीओ पविसंति^२ । १४१. ताव, जाव अंतरं ण विणस्सदि त्ति । १४२. अंतरे विणासिज्जमाणे णवुंसयवेदमोकड्डि-दूण उदयावलियवाहिरे णिक्खिवदि । १४३. से काले एकवीसं पयडीओ पविसंति ।

१४४. एत्तो पाए जइ खीणदंसणमोहणीयो, एदाओ एकवीसं पयडीओ पवि-संति जाव अक्खवग-अणुवसामगो ताव । १४५. एदस्स चव कसायोवसामणादो परि-

वेदनीयका अपकर्षण करता है । इनमेसे पुरुषवेदको उदयमें देता है और छहों नोकपायवेद-नीयप्रकृतियोंको उदयावलीके वाहिर निक्षिप्त करता है । उस समय पूर्वोक्त दशमें शेष दोनो क्रोध, और पुरुषवेदके मिल जानेसे तेरह प्रकृतियाँ प्रवेश करती है । तदनन्तर समयमें हास्यादिपट्टकके भी उदयावलीमें आजानेसे उन्नीस प्रकृतियाँ प्रवेश करती है । इसके अन्त-मुहूर्त पश्चात् स्त्रीवेदका अपकर्षण करके उदयावलीके वाहिर निक्षिप्त करता है । (क्योंकि यह कथन पुरुषवेदके उदयके साथ उपशमश्रेणीपर चढ़े हुए जीवकी अपेक्षासे किया जा रहा है ।) तदनन्तर समयमें उक्त उन्नीस प्रकृतियोंमें स्त्रीवेदके और मिल जानेसे बीस प्रकृतियाँ प्रवेश करती है । इस स्थानपर जबतक अन्तरका विनाश नहीं हो जाता है, तब तक यही बीस प्रकृतिरूप प्रवेशस्थान बराबर अवस्थित रहता है । अन्तरके विनाश हो जानेपर नपुंसक-वेदका अपकर्षणकर उदयावलीके वाहिर उसे निक्षिप्त करता है । तदनन्तर समयमें नपुंसकवेदके मिल जानेसे इक्कीस प्रकृतियाँ प्रवेश करती है ॥ १३०—१४३ ॥

चूर्णिसू०—इस स्थलपर यदि वह जीव क्षपित-दर्शनमोहनीय अर्थात् क्षायिक-सम्यग्दृष्टि है, तो ये इक्कीस प्रकृतियाँ तब तक उदयावलीमें प्रवेश करती है, जब तक कि वह अक्षपक या अनुपशमक रहता है ॥ १४४ ॥

विशेषार्थ—उपशमश्रेणीसे गिरा हुआ क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव अप्रमत्तसंयत, प्रमत्त-संयत, संयतासंयत और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें जितने कालतक रहता है, उतने कालतक इक्कीस प्रकृतिरूप प्रवेशस्थान बराबर पाया जाता है । आगे उपशम या क्षपक श्रेणीपर चढ़नेपर ही उसका विनाश होता है, ऐसा जानना चाहिए ।

अब उपशमसम्यग्दृष्टिकी अपेक्षा जो अन्य प्रवेशस्थान पाये जाते हैं, उन्हें वत-लानके लिए चूर्णिकार उत्तर सूत्र कहते हैं—

चूर्णिसू०—कपायोपशामनासे गिरनेवाले उपशमसम्यग्दृष्टि जीवके जो कुछ विभिन्नता है, उसे कहते हैं । जिस समय अन्तर विनष्ट हो जाता है, उस स्थानपर इक्कीस प्रकृ-

१ कुदो, पुरिसवेदोदण चट्टिदत्तादो । ण च मोदण विणा उदयादिणिकखेवसभवो, विप्पडि-सेहादो । जयध०

२ कुदो, उदयावलियवाहिरे णिक्खित्तस्स इत्थिवेदस्स तावे उदयावलियवमतरपवेमदसणादो । जयध०

वदमाणयस्स^१ । १४६. जाथे अंतरं विणट्ठं तत्तो पाए एकवीसं पयडीओ पविसंति जाव सम्मत्तमुर्दारिंतो सम्मत्तमुदए देदि, सम्मामिच्छत्तं मिच्छत्तं च आवलियवाहिरे णिक्खि-
वदि, ताथे वावीसं पयडीओ पविसंति^२ । १४७. से काले चउवीसं पयडीओ पविसंति ।
१४८. जइ सो कसायउवसामणादो परिवदिदो दंसणमोहणीय-उवसंतद्वाए अचरिमेसु
समएसु आसाणं गच्छइ, तदा आसाणगमणादो से काले पणुवीसं पयडीओ पविसंति ।

तियाँ उदयावलीमे प्रवेश करती है । जब उपशमसम्यक्त्वका काल समाप्त हो जाता है, तब सम्यक्त्वप्रकृतिकी उदीरणा करके सम्यक्त्वप्रकृतिको उदयावलीमे देता है और सम्यग्मिथ्यात्व तथा मिथ्यात्व प्रकृतिको उदयावलीके बाहिर निक्षिप्त करता है । उस समय चाईस प्रकृतियाँ उदयावलीमे प्रवेश करती है । (यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि जिस प्रकार सम्यक्त्वप्रकृतिकी उदीरणाकर उदयावलीमे देनेपर चाईस प्रकृतिरूप प्रवेशस्थान बनता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व या सम्यग्मिथ्यात्वकी उदीरणा करनेवाले जीवके भी चाईस प्रकृतिरूप प्रवेशस्थान पाया जाता है ।) तदनन्तर समयमें चौवीस प्रकृतियाँ प्रवेश करती है । अर्थात् जिन दो दर्शनमोहनीय प्रकृतियोंको उदयावलीके बाहिर निक्षिप्त किया था, एक क्षण पश्चात् उनके उदयावलीमे आ जानेपर चौवीस प्रकृतिरूप स्थान पाया जाता है ॥१४५-१४७॥

चूर्णिसू०—यदि वह जीव कपायांपशमनासे गिरकर दर्शनमोहनीयके उपशमन-कालके अचरिम समयोमे सासादनगुणस्थानको प्राप्त होता है, तब सासादनगुणस्थानमे पहुँचनेके एक समय पश्चात् पच्चीस प्रकृतियाँ उदयावलीमे प्रवेश करती है ॥१४८॥

विशेषार्थ—कपायोके सर्वोपशमसे गिरे हुए चतुर्थ गुणस्थानवर्ती उपशमसम्यग्दृष्टि जीवके उपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आवलीकालसे लेकर एक समय अवशिष्ट रहने तक सासादन गुणस्थान होना संभव है । यहाँ अन्तिम समयमे सासादनगुणस्थानको प्राप्त होनेवाले जीवकी विवक्षा नहीं की गई है, यह बात 'अचरिम समयोमे' इस पदसे प्रकट होती है, क्योंकि उसकी प्ररूपणामे कुछ विभिन्नता है । जो जीव द्विचरम समयसे लेकर छह आवली-कालके भीतर सासादन गुणस्थानको प्राप्त होता है, उसके सासादनभावको प्राप्त होनेके प्रथम समयमे ही अनन्तानुबन्धी किसी एक कपायके उदय आजानेसे चाईस प्रकृतिरूप प्रवेशस्थान पाया जाता है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कमेसे किसी एक कपायके उदयमे आनेका

१ जइ वि एत्थ उवसतदसणमोहणीयस्वेत्ति सुत्ते ण वुत्त, तो वि पारिसेसियणाएण तदुवल्लभो दट्ठव्वो । जयध०

२ एतदुक्त भवति—अतरविणासाण तरमेव समुवल्लद्वसरुवस्स इगिवीसपवेसट्ठाणस्स ताव अवट्ठाण होइ जाव उवसंतसम्मत्तकालचरिमसमयो त्ति । तत्तो परमुवसमसम्मत्तद्वाक्खएण सम्मत्तमुर्दारेमाणेण सम्मत्ते उदए दिण्णे मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्तेसु च आवलियवाहिरे णिक्खित्तेसु तत्काले वावीसपवेसट्ठाणमुप्पत्ती जायदि त्ति । ण केवल सम्मत्तमुदीरेमाणस्स एस कमो, किंतु मिच्छत्त सम्मामिच्छत्त वा उदीरेमाणस्स वि एदेणेव क्रमेण वावीसपवेसट्ठाणुप्पत्ती वत्तव्वा; सुत्तस्सेदस्स देसामासयत्तादो । जयध०

१४९. जाधे मिच्छत्तमुदीरेदि ताधे छव्वीसं पयडीओ पविसंति । १५०. तदो से काले अट्ठावीसं पयडीओ पविसंति । १५१. अह सो कसाय-उवसामणादो परिवदिदो दंसण-मोहणीयस्स उवसंतद्वाए चरिमसमए आसाणं गच्छइ से काले मिच्छत्तमोकड्डमाणयस्स छव्वीसं पयडीओ पविसंति । १५२. तदो से काले अट्ठावीसं पयडीओ पविसंति ।

कारण यह है कि सासादनगुणस्थानमें उसका उदय नियमसे पाया जाता है। यहाँ यह आशंका नहीं करना चाहिए कि जब अनन्तानुवन्धी कषाय सत्ता में थी ही नहीं, तब यहाँ उसका वन्ध हुए बिना उदय सहसा कहाँसे आगया ? इसका समाधान यह है कि सम्यक्त्वरत्नरूप पर्वतसे गिरानेवाले परिणामोंके कारण अप्रत्याख्यानादि शेष कषायरूप द्रव्य तत्काल ही अनन्तानुवन्धी कषायरूपसे परिणत होकर उदयमें आजाता है। इसके एक समय पश्चात् उदयावलीके बाहिर स्थित शेष तीन अनन्तानुवन्धी कषायोंका उदय आजानेसे पच्चीस प्रकृतिरूप प्रवेशस्थान पाया जाता है।

चूर्णिसू०—जिस समय उक्त जीव मिथ्यात्वप्रकृतिकी उदीरणा करता है, उस समय छव्वीस प्रकृतियों उदयावलीमें प्रवेश करती है। (क्योंकि सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व-प्रकृतिको उस जीवने उदयावलीके बाहिर निक्षिप्त किया है।) इसके एक समय पश्चात् ही सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिके उदयावलीमें आजानेसे मोहकी अट्ठाईस प्रकृतियों प्रवेश करती है, अर्थात् सभी प्रकृतियोंका उदय हो जाता है ॥ १४९-१५० ॥

अब दर्शनमोहनीयके उपशमनकालके अन्तिम समयमें सासादनगुणस्थानको प्राप्त होनेवाले जीवके प्रवेशसम्बन्धी विशेषता बतलानेके लिए चूर्णिकार उत्तर सूत्र कहते हैं—

चूर्णिसू०—अथवा कषायोपशमनासे गिरा हुआ वह जीव यदि दर्शनमोहनीयके उपशमनकालके अन्तिम समयमें सासादनगुणस्थानको प्राप्त होता है, तो तदनन्तर समयमें मिथ्यात्वकी उदीरणा करनेपर उसके छव्वीस प्रकृतियों उदयावलीमें प्रवेश करती है ॥ १५१ ॥

विशेषार्थ—जो उपशमश्रेणीसे गिरा हुआ उपशमसम्यग्दृष्टि जीव उपशमसम्यक्त्वके कालमें एक समयमात्र शेष रह जानेपर सासादनगुणस्थानको प्राप्त होता है, वह किसी एक अनन्तानुवन्धीकषायके उदयसे बाईस प्रकृतियोंका उदयावलीमें प्रवेश करेगा और शेष तीन अनन्तानुवन्धी प्रकृतियोंको उदयावलीके बाहिर ही निक्षिप्त करेगा। दूसरे ही समयमें वह गिरकर मिथ्यात्वगुणस्थानको प्राप्त होगा, वहाँ एक साथ ही मिथ्यात्वप्रकृति और शेष तीन अनन्तानुवन्धी कषाय इन चार प्रकृतियोंका उदय आनेसे छव्वीस प्रकृतिरूप ही प्रवेशस्थान पाया जाता है। पूर्वोक्त जीवके समान उसके पच्चीस प्रकृतिरूप प्रवेशस्थान नहीं पाया जाता है, ऐसा अभिप्राय जानना चाहिए।

चूर्णिसू०—तदनन्तर कालमें अर्थात् मिथ्यात्वगुणस्थानमें पहुँचनेके द्वितीय समयमें ही सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिका उदय आजानेसे अट्ठाईस प्रकृतियों उदयावलीमें

१५३. एदे वियप्पा कसाय-उवसामणादो परिवदमाणगादो ।

१५४. एत्तो खवगादो मग्गियव्वा कदि पवेसट्टाणाणि त्तिः* । १५५. दंसण-
मोहणीए खविदे एक्कावीसं पयडीओ पविसंति । १५६. अट्टकसाएमु खविदेसु तेरस पय-

प्रवेश करती है । ये उपर्युक्त विकल्प कपायोंके सर्वोपशमसे गिरे हुए जीवकी अपेक्षामें कहे गये हैं ॥ १५२-१५३ ॥

विशेषार्थ—ऊपर जो मोहकर्मके प्रवेशस्थानोंका वर्णन किया गया है, वह मोहके सर्वोपशमसे गिरकर मिथ्यात्व गुणस्थान तक पहुँचनेवाले जीवकी अपेक्षा जानना चाहिए । किन्तु जो जीव सर्वोपशमसे गिरते ही मरणको प्राप्त होकर देवोंमें उत्पन्न होते हैं, उनकी अपेक्षा कुछ अन्य भी विकल्प संभव है, जो इस प्रकार है—सर्वोपशमसे गिरकर तीन प्रकारके लोभका अपकर्षण करके तीन प्रकृतियोंका प्रवेश करनेवाला होकर मरा और देवोंमें उत्पन्न हुआ । वहाँ उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें ही पुरुषवेद, हास्य, रति, भय और जुगुप्सा इन पाँच प्रकृतियोंका एक साथ उदय आनेसे आठ प्रकृतियाँ उदयावलीमें प्रवेश करती हैं । इसी प्रकार सर्वोपशमसे गिरकर छह प्रकृतियोंका उदयावलीमें प्रवेश करके मरणकर देवोंमें उत्पन्न होनेवाले जीवके प्रथम समयमें ही उक्त पाँच प्रकृतियोंके एक साथ उदयमें आनेसे ग्यारह प्रकृतियाँ उदयावलीमें प्रवेश करती हैं । जो जीव सर्वोपशमनासे गिरकर नौ प्रकृतियोंका उदयावलीमें प्रवेश कर मरण करता है, उसके देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें चौदह प्रकृतियाँ उदयावलीमें प्रवेश करती हैं । इसी प्रकार जो तीनों क्रोधका भी अपकर्षण करके बारह प्रकृतियोंका उदयावलीमें प्रवेश करके मरण करता है, उसके देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें भय और जुगुप्साके विना शेष तीन प्रकृतियोंके उदय आनेसे पन्द्रह प्रकृतियाँ उदयावलीमें प्रवेश करती हैं । इसी या इसी प्रकारके जीवके भय और जुगुप्सामेंसे किसी एकके उदय आजानेसे सोलह और दोनोके उदय आजानेसे सत्तरह प्रकृतियाँ उदयावलीमें प्रवेश करती हैं । इस प्रकार आठ, ग्यारह, चौदह, पन्द्रह, सोलह और सत्तरह प्रकृतिरूप प्रवेशस्थान देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें ही पाये जाते हैं । यहाँपर चूर्णिकारने स्व-स्थान प्ररूपणा करनेकी अपेक्षा इन्हें नहीं कहा है, ऐसा जानना चाहिए ।

चूर्णिसू०—अब इससे आगे क्षपककी अपेक्षा कितने प्रवेशस्थान होते हैं, इस बातकी गवेषणा करना चाहिए । दर्शनमोहनीयकर्मके क्षय हो जानेपर इक्कीस प्रकृतियाँ उदयावलीमें प्रवेश करती हैं । अपत्याख्यानचतुष्क और प्रत्याख्यानचतुष्क इन आठ कपायोंके क्षय हो जानेपर अवशिष्ट तेरह प्रकृतियाँ उदयावलीमें प्रवेश करती हैं । अर्थात् पूर्वोक्त क्षायिक-सम्यग्दृष्टि जीव क्षपकश्रेणीपर चढ़कर नवें गुणस्थानमें प्रवेशकर उक्त आठ कपायोंका क्षपण कर उससे आगे जब तक अन्तरकरणको समाप्त नहीं करता है, तब तक चार संज्वलन कपाय और नव नोकपाय ये तेरह प्रकृतियाँ उदयावलीमें प्रवेश करती हैं ॥ १५४-१५६ ॥

ॐ ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'एत्तो खवणादो मग्गियव्वा' इतना ही सूत्र मुद्रित है । आगेके अंशको टीकाका अंग बना दिया है । (देखा पृ० १३९४)

डीओ पविसंति^१ । १५७. अंतरे कदे दो पयडीओ पविसंति^२ । १५८. पुरिसवेदे खविदे एका पयडी पविसदि । १५९. कोधे खविदे माणो पविसदि । १६०. माणे खविदे माया पविसदि । १६१. मायाए. खविदाए लोभो पविसदि । १६२. लोभे खविदे अपवेसगो^३ ।

१६३. एवमणुमाणिय सामित्तं णेदव्वं ।

चूर्णिसू०—अन्तरकरणके करनेपर पुरुषवेद और संज्वलनक्रोध ये दो प्रकृतियाँ उद-यावलीमे प्रवेश करती है ॥ १५७ ॥

विशेषार्थ—अन्तरकरण करनेवाला जीव पुरुषवेद और संज्वलनक्रोध इन दो प्रकृतियोंकी अन्तर्मुहूर्त-प्रमाण प्रथमस्थितिको स्थापित करता है और शेष तीन कपाय और नोकपायोंके उदयावलीको छोड़कर अवशिष्ट सर्व द्रव्यको अन्तरके लिए ग्रहण कर लेता है । इस प्रकार अन्तर करता हुआ जिस समय अन्तर समाप्त करता है, उस समय पुरुषवेद और संज्वलनक्रोधकी अन्तर्मुहूर्तप्रमाण प्रथम स्थिति वाकी रहती है । शेष ग्यारह प्रकृतियोंकी उदयावलीके भीतर एक समय कम आवलीमात्र गोपुच्छा अवशिष्ट रहती है । पुनः उन प्रकृतियोंकी अधःस्थितिके निरवशेष गला देनेपर दो ही प्रकृतियाँ उदयावलीमे प्रवेश करती हैं, क्योंकि, पुरुषवेद और संज्वलनक्रोध इन दो प्रकृतियोंको छोड़कर अन्य प्रकृतियोंकी प्रथम स्थिति असंभव है ।

चूर्णिसू०—पुरुषवेदके क्षय हो जानेपर एक संज्वलनक्रोध प्रकृति उदयावलीमें प्रवेश करती है । संज्वलनक्रोधके क्षय हो जानेपर संज्वलनमान उदयावलीमे प्रवेश करता है । संज्वलनमानके क्षय हो जानेपर संज्वलनमाया उदयावलीमे प्रवेश करती है । संज्वलनमायाके क्षय हो जानेपर संज्वलनलोभ उदयावलीमे प्रवेश करता है । संज्वलनलोभके क्षय हो जानेपर यह अप्रवेशक हो जाता है । अर्थात् फिर मोहनीयकर्मकी कोई भी प्रकृति उदयावलीमें प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि उसकी समस्त प्रकृतियोंका क्षय हो जानेसे कोई भी प्रकृति अवशिष्ट नहीं रही है ॥ १५८-१६२ ॥

इस प्रकार स्थानसमुत्कीर्तनाका वर्णन समाप्त हुआ ।

चूर्णिसू०—इसी समुत्कीर्तनाका आश्रय लेकर स्वामित्वका वर्णन करना चाहिए ॥ १६३ ॥

विशेषार्थ—अमुक स्थान संयतोके योग्य हैं और अमुक स्थान असंयतोके योग्य हैं ।

१ पुञ्चुत्तह्मिगीसपवेसगेण खवगसेदिमारूढेण अणियट्टिगुणट्ठाण पविसिय अट्ठकसाएसु खविदेसु तत्तोप्पहुडि जाव अतरकरण ण समप्पइ ताव चहुसजलण णवणोकसाप्रसण्णिदाओ तेरस पयडीओ तस्स खवगस्स उदयावलि पविसति त्ति समुक्कित्तिद होइ । जयध०

२ (कुदो,) पुरिसवेद-क्रोहसजलणे मोत्तूण्णेसिं पढमट्ठदीए असमवादो । जयध०

३ णवरि क्रोहपढमट्ठदीए आवलियमेत्तसेसाए माणसंजलणमोकड्डिय पढमट्ठदि करेदि, तथु-च्छिट्ठावलियमेत्तकाल दोण्ह पवेसगो होदूण तदो एक्किस्से पवेसगो होदि त्ति वेत्तव्व । लोभे खविदे पुण ण किञ्चि कम्मं पविसदि, विवक्खियमोहणीयकम्मस्स तत्तो परससमवादो । जयध०

१६४. एयजीवेण कालो । १६५. एकस्से दोणं छणं णवणं वारसणं तेर-
सणं एगूणवीसणं वीसणं पयडीणं पवेसगो केवचिरं कालादो होइ ? १६६. जहण्णेण
एयसमओ । १६७. उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । १६८. चदुणं सत्तणं दसणं पयडीणं पवे-
सगो केवचिरं कालादो होइ ? १६९. जहण्णुकस्सेण एयसमओ । १७०. पंच अट्ट एका-
रस चोदसादि जाव अट्टारसा त्ति एदाणि सुण्णट्टाणाणि ।

१७१. एकवीसाए पयडीणं पवेसगो केवचिरं कालादो होदि ? १७२. जह-
ण्णेण अंतोमुहुत्तं । १७३. उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि ।

संयतोमे भी अमुक स्थान उपशामक संयतोके योग्य हैं और अमुक स्थान क्षपक संयतोके योग्य
हैं । असंयतोमे अमुक स्थान सम्यग्दृष्टिके योग्य हैं और अमुक स्थान मिथ्यादृष्टि आदिके योग्य
हैं, इत्यादिका निर्णय समुत्कीर्तनाके आधारपर सुगमतासे हो जाता है, अतः चूर्णिकारने
स्वामित्वका वर्णन पृथक् नहीं किया है ।

चूर्णिसू०—अब एक जीवकी अपेक्षा उपर्युक्त प्रवेश-स्थानोंके कालका वर्णन
करते हैं ॥१६४॥

शंका—एक, दो, तीन, छह, नौ, बारह, तेरह, उन्नीस और बीस प्रकृतियोंके
उदीरकका कितना काल है ? ॥१६५॥

समाधान—उक्त स्थानों के उदीरकका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल
अन्तर्मुहूर्त है ॥१६६-१६७॥

विशेषार्थ—मरण आदिकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय और स्वस्थानकी अपेक्षा
अन्तर्मुहूर्तप्रमाण उत्कृष्ट काल आगमाविरोधसे जानना चाहिए ।

शंका—चार, सात और दश प्रकृतियोंके उदीरकका कितना काल है ? ॥१६८॥

समाधान—उक्त प्रवेशस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समयमात्र है । क्योंकि
उक्त प्रकृतियोंके उद्यावलीमे प्रवेश करनेके एक समय पश्चात् ही क्रमशः छह, नौ और बारह
प्रकृतियाँ उद्यावलीमे प्रवेश कर जाती हैं ॥१६९॥

चूर्णिसू०—पाँच, आठ, ग्यारह, और चौदहसे लेकर अठारह तकके स्थान, ये सब
शून्य स्थान हैं ॥१७०॥

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि उक्त प्रवेशस्थान किसी भी कालमे किसी जीवके
पाये नहीं जाते हैं, इसलिए इन्हे शून्य स्थान कहते हैं । और इसीलिए उनके जघन्य
और उत्कृष्ट कालको नहीं वतलाया गया ।

शंका—इक्कीस प्रकृतियोंके उदीरकका कितना काल है ? ॥१७१॥

समाधान—जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल सातिरेक तेतीस सागरोपम
हैं ॥१७२-१७३॥

विशेषार्थ—इक्कीस प्रकृतियोंके उदीरकका अन्तर्मुहूर्तप्रमाण जघन्य काल इस प्रकार
संभव है—चौबीस प्रकृतियोंका उदीरक वेदकसम्यग्दृष्टि दर्शनमोहनीयका क्षय करके इक्कीस

१७४. वावीसाए पणुवीसाए पयडीणं पवेसगो केवचिरं कालाद्दो होदि ?
१७५. जहणणेण एयसमओ । १७६. उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

प्रकृतियोंका प्रवेशक हुआ और अन्तर्मुहूर्तकालके भीतर ही क्षपकश्रेणीपर चढ़कर आठ कषायोंका क्षयकर तेरह प्रकृतियोंका प्रवेशक बन गया । इस प्रकार अन्तर्मुहूर्तप्रमाण जघन्य काल उपलब्ध हो गया । अथवा कोई उपशमसम्यग्दृष्टि जीव अनन्तानुबन्धी कषायचतुष्टयकी विसंयोजना करके सर्वजघन्य अन्तर्मुहूर्तप्रमाण इक्कीस प्रकृतियोंका प्रवेशक रहकर छह आवली कालके अवशेष रहनेपर सासादनगुणस्थानको प्राप्त होकर वाईस प्रकृतियोंका प्रवेशक बन गया । इस प्रकार भी अन्तर्मुहूर्तप्रमाण जघन्य काल सिद्ध हो जाता है । अब इक्कीस प्रकृतियोंके प्रवेश करनेवाले जीवके उत्कृष्ट कालकी प्ररूपणा करते हैं—मोहकर्मकी चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक देव या नारकी पूर्व कोटीकी आयुवाले कर्मभूमिज मनुष्योमे उत्पन्न हुआ । गर्भसे लेकर आठ वर्ष और अन्तर्मुहूर्तके पश्चात् दर्शनमोहनीयका क्षपणकर इक्कीस प्रकृतियोंका प्रवेशक बना और अपनी शेष मनुष्यायुको पूरा करके मरकर तेतीस सागरोपमकी आयुवाले देवोमे उत्पन्न हुआ । वहाँकी आयु पूरी करके च्युत होकर पुनः पूर्वकोटीकी आयुके धारक कर्मभूमियाँ मनुष्योमें उत्पन्न हुआ । जब जीवनका अन्तर्मुहूर्तकाल शेष रह गया, तब संयमको ग्रहणकर क्षपकश्रेणीपर चढ़कर और आठ कषायोंका क्षयकर तेरह प्रकृतियोंका प्रवेशक हुआ । इस प्रकार कुछ अन्तर्मुहूर्तोसे अधिक आठ वर्षोंसे कम दो पूर्वकोटी सातिरेक तेतीस सागरोपम उत्कृष्ट काल इक्कीस प्रकृतियोंके प्रवेशकका सिद्ध होता है ।

चूर्णिसू०—वाईस प्रकृतियों और पच्चीस प्रकृतियोंके प्रवेश करनेवाले जीवका कितना काल है ? ॥१७४॥

समाधान—जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है ॥१७५-१७६॥

विशेषार्थ—इनमेसे पहले वाईस प्रकृतियोंके प्रवेश करनेवाले जीवके एक समय-प्रमाण जघन्य कालकी प्ररूपणा करते हैं—अनन्तानुबन्धी कषायकी विसंयोजना करके बना हुआ उपशमसम्यग्दृष्टि जीव अपना काल पूरा करके सासादन, मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व या सम्यक्त्वप्रकृतिको प्राप्त होनेपर प्रथम समयमें वह वाईस प्रकृतियोंका प्रवेश करता है और तदनन्तर समयमें ही यथाक्रमसे पच्चीस, अट्ठाईस, या चौबीस प्रकृतियोंका प्रवेश करनेवाला हो जाता है, इस प्रकार एक समयप्रमाण जघन्य काल सिद्ध हो जाता है । अब पच्चीस प्रकृतियोंके प्रवेश करनेवाले जीवके जघन्य कालकी प्ररूपणा करते हैं—अनन्तानुबन्धीकी विसं-योजना करनेवाले उपशमसम्यग्दृष्टि जीवके उपशम सम्यक्त्व-कालके द्विचरम समयमे सासा-दन गुणस्थानको प्राप्त होनेके प्रथम समयमे किसी एक अनन्तानुबन्धीके उदय आनेसे वाईस प्रकृतिरूप प्रवेश स्थान उपलब्ध हुआ और दूसरे समयमे ही उदयावलीके वाहिर अवस्थित शेष तीन अनन्तानुबन्धी प्रकृतियोंके उदयावलीमे प्रवेश करनेपर पच्चीस प्रकृतियोंका प्रवेश उप-लब्ध हुआ । इसके दूसरे समयमे ही मिथ्यात्वको प्राप्त हो जानेसे छबीस प्रकृतिरूप प्रवेश

१७७. तेवीसाए पयडीणं पवेसगो केवचिरं कालादो होदि ? १७८. जहणु-
कस्सेण अंतोमुहुत्तं । १७९. चउवीसाए पयडीणं पवेसगो केवचिरं कालादो होदि ?
१८०. जहणणेण अंतोमुहुत्तं । १८१. उक्कस्सेण वे छावड्डिसागरोवमाणि देसुणाणि ।

१८२. छव्वीसाए पयडीणं पवेसगो केवचिरं कालादो होदि ? १८३. तिण्णि
भंगा । १८४. तत्थ जो सो सादिओ सपज्जवसिदो तस्स जहणणेण एयसमओ । १८५.

स्थान उत्पन्न हो जाता है । इस प्रकार पचीस प्रकृतियोंके प्रवेशका जघन्य काल भी एक समयमात्र ही सिद्ध होता है । बाईस प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रवेश कालकी प्ररूपणा इस प्रकार है—क्षायिकसम्यक्त्वको प्राप्त करनेवाला जीव सम्यग्मिथ्यात्वका क्षपण करके जब तक सम्यक्त्व-प्रकृतिका क्षय करता है, तब तक बाईस प्रकृतियोंका अन्तर्मुहूर्त-प्रमाण उत्कृष्ट प्रवेशकाल पाया जाता है । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी कपायका विसंयोजन नहीं करनेवाले उपशम-सम्यग्दृष्टिका अन्तर्मुहूर्त-प्रमाण सर्वकाल पचीस प्रकृतियोंके प्रवेशका उत्कृष्ट काल जानना चाहिए ।

शंका—तेईस प्रकृतियोंके प्रवेश करनेवाले जीवका कितना काल है ? ॥१७७॥

समाधान—जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है । क्योंकि, सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिके क्षपण करनेका अन्तर्मुहूर्तप्रमाण सर्वकाल ही तेईस प्रकृतियोंके प्रवेशका काल है ॥१७८॥

शंका—चौबीस प्रकृतियोंके प्रवेश करनेवाले जीवका कितना काल है ? ॥१७९॥

समाधान—जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टकाल देशोन दो वार छयासठ सागरोपम है ॥१८०-१८१॥

विशेषार्थ—चौबीस प्रकृतियोंके जघन्य प्रवेश कालकी प्ररूपणा इस प्रकार है—अट्ठा-ईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला वेदकसम्यग्दृष्टि जीव अनन्तानुबन्धी-चतुष्कका विसंयोजन करके चौबीस प्रकृतियोंका प्रवेश करनेवाला बना और सर्वजघन्य अन्तर्मुहूर्तके पश्चात् ही मिथ्यात्वको प्राप्त होकर अट्ठाईस प्रकृतियोंका प्रवेश करनेवाला हो गया । इस प्रकार चौबीस प्रकृतियोंका अन्तर्मुहूर्तप्रमाण जघन्य प्रवेश-काल सिद्ध हो जाता है । अब इसीके उत्कृष्ट प्रवेश-कालकी प्ररूपणा करते हैं—कोई एक मिथ्यादृष्टि जीव उपशमसम्यक्त्वको ग्रहण करके उपशम-सम्यक्त्वके कालके भीतर ही चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला हो गया और वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त करनेके दूसरे समयसे लेकर चौबीस-प्रकृतियोंका प्रवेशक बनकर दो वार छयासठ सागरोपम कालतक देव और मनुष्यगतिमे परिभ्रमण करके अन्तमे दर्शनमोहनीयके क्षपणके लिए अभ्युद्यत होनेपर मिथ्यात्वका क्षपण कर तेईस प्रकृतियोंका प्रवेश करनेवाला हुआ । इस प्रकार एक समय अधिक सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिके क्षपण कालसे कम दो वार छयासठ सागरोपम चौबीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रवेशकाल जानना चाहिए ।

शंका—छव्वीस प्रकृतियोंका प्रवेश करनेवाले जीवका कितना काल है ? ॥१८२॥

समाधान—इस विषयमे तीन भंग हैं—अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त । इनमे जो तीसरा सादि-सान्त भंग है, उसकी अपेक्षा छव्वीस प्रकृतियोंके प्रवेशका

उक्कस्सेण उवड्डुपोग्गलपरियट्टुं । १८६. सत्तवीसाए पयडीणं पवेसगो केवचिरं कालादो होदि ? १८७. जहण्णेण एयसमओ । १८८. उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागे । १८९. अट्ठावीसं पयडीणं पवेसगो केवचिरं कालादो होदि ? १९०. जहण्णेण अंतो-मुहुत्तं । १९१. उक्कस्सेण वे छावट्ठिसागरोवमामि सादिरेयाणि ।

१९२. अंतरमणुच्चित्तिऊण णेदब्बं ।

१९३. णाणाजीवेहि भंगविचयो । १९४. अट्ठावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चट्ठवीस-

जघन्य काल एक समय है, क्योंकि अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशमसम्यग्दृष्टि जीवके मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व या वेदकसम्यक्त्व प्राप्त करनेपर, अथवा सासादनसम्यग्दृष्टिके मिथ्यात्वमें जानेपर एक समयप्रमाण जघन्य प्रवेश-काल पाया जाता है । छव्वीस प्रकृतियोंके प्रवेशका उत्कृष्ट काल उपार्धपुद्गल परिवर्तन है ॥ १८३-१८५ ॥

विशेषार्थ—जिस जीवने अपने संसार-परिभ्रमणके अर्धपुद्गलपरिवर्तन काल अवशिष्ट रहनेके प्रथम समयमें उपशमसम्यक्त्वको उत्पन्न किया और सर्व जघन्य अन्तर्मुहूर्तकाल सम्यक्त्वके साथ रहकर मिथ्यात्वको प्राप्त हो सर्वलघुकाल-द्वारा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतियोंकी उद्वेलनाकर छव्वीस प्रकृतियोंका प्रवेशक बनकर अर्धपुद्गलपरिवर्तन तक संसारसे परिभ्रमणकर अन्तर्मुहूर्तप्रमाण संसारके शेष रह जानेपर सम्यक्त्वको प्राप्त किया । ऐसे जीवके कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तन-प्रमाण छव्वीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रवेश काल पाया जाता है ।

शंका—सत्ताईस प्रकृतियोंके प्रवेश करनेवाले जीवका कितना काल है ? ॥ १८६ ॥

समाधान—जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्योपमका असंख्यातवाँ भाग है । क्योंकि सम्यग्मिथ्यात्वके उद्वेलनका उत्कृष्ट काल पल्योपमका असंख्यातवाँ भाग घतलाया गया है ॥ १८७-१८८ ॥

शंका—अट्ठाईस प्रकृतियोंके प्रवेश करनेवाले जीवका कितना काल है ? ॥ १८९ ॥

समाधान—जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल सातिरेक दो वार छयासठ सागरोपम है ॥ १९०-१९१ ॥

विशेषार्थ—किसी मिथ्यादृष्टि जीवके उपशमसम्यक्त्वको ग्रहणकर तदनन्तर ही वेदकसम्यक्त्वी बनकर अट्ठाईस प्रकृतियोंके प्रवेशको प्रारम्भकर सर्वलघु अन्तर्मुहूर्तकालके पश्चात् ही अनन्तानुबन्धी कपायका विसंयोजनकर चौबीस प्रकृतियोंका प्रवेशक बननेपर अन्तर्मुहूर्तप्रमाण जघन्य काल सिद्ध हो जाता है । इसी प्रकार उत्कृष्ट कालकी प्ररूपणा जानना चाहिए । विशेष यह है कि यहाँ सातिरेकसे तीन वार पल्योपमके असंख्यातवें भागसे अधिक अर्थ अभीष्ट है ।

चूर्णिसू०—इसी प्रकार उक्त प्रवेश स्थानोका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर भी आगम-के अनुसार चिन्तन करके जानना चाहिए ॥ १९२ ॥

चूर्णिसू०—अब नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय करते हैं—अट्ठाईस, सत्ताईस, चौबीस और इक्कीस प्रकृतियाँ नियमसे उदयावलीमें प्रवेश करती हैं । (क्योंकि, नानाजीवोंकी

एकवीसाए पयडीओ णियमा पविसंति' । १९५. सेसाणि ठाणाणि भजियन्वाणि' ।

१९६. णाणाजीवेहि कालो अंतरं च अणुचित्तिऊण णेदव्वं ।

१९७. अप्पावहुअं । १९८. चउण्हं सत्तण्हं दसण्हं पयडीणं पवेसगा तुल्ला थोवा' । १९९. तिण्हं पवेसगा संखेज्जगुणा' । २००. छण्हं पवेसगा विसेसाहिया' । २०१. णवण्हं पवेसगा विसेसाहिया' । २०२. वारसण्हं पवेसगा विसेसाहिया' । २०३. एगूणवीसाए पवेसगा विसेसाहिया' । २०४. वीसाए पवेसगा विसेसाहिया' ।

अपेक्षा ये प्रवेशस्थान सर्वकाल पाये जाते हैं ।) शेष प्रवेशस्थान भजनीय हैं । अर्थात् उनके प्रवेश करनेवाले जीव कभी पाये जाते हैं और कभी नहीं पाये जाते हैं ॥१९३-१९५॥

चूर्णिसू०—इसी प्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा काल और अन्तरको आगमानुसार चिन्तवन करके जानना चाहिए ॥१९६॥

चूर्णिसू०—अब उक्त प्रवेश-स्थानोंका अल्पवहुत्व कहते हैं चार, सात, और दश प्रकृतियोंके प्रवेश करनेवाले जीव परस्परसे बराबर हैं, किन्तु वक्ष्यमाण स्थानोंकी अपेक्षा सबसे कम हैं । तीन प्रकृतियोंके प्रवेश करनेवाले जीव उपर्युक्त प्रवेश-स्थानोंसे संख्यातगुणित हैं । तीन प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवोंसे छह प्रकृतियोंके प्रवेश करनेवाले जीव विशेष अधिक हैं । छह प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवोंसे नौ प्रकृतियोंके प्रवेश करनेवाले जीव विशेष अधिक हैं । नौ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवोंसे बारह प्रकृतियोंके प्रवेश करनेवाले जीव विशेष अधिक हैं । बारह प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवोंसे उन्नीस प्रकृतियोंके प्रवेश करनेवाले जीव विशेष अधिक हैं । उन्नीस प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवोंसे बीस प्रकृतियोंके प्रवेश करनेवाले जीव विशेष अधिक हैं ॥१९७-२०४॥

१ कुदो; णाणाजीवावेक्खाए एदेसि पवेसट्ठाणाण उवभावेण सव्वकालमवट्ठाणदसणादो । जयध०

२ कुदो; पणुवीसाट्ठिसेसपवेसट्ठाणाणमद्धुवभावदसणादो । जयध०

३ कुदो, एयसमयसच्चिदत्तादो । त जहा—तिण्ह लोभाणमुवरि मायासंजलणे पवेसिदे एयसमयं चट्टुण्हं पवेसगो होइ । तिण्ह मायाणमुवरि माणसजलण पवेसिय एगसमय सत्तण्ह पवेसगो होइ । तिण्ह माणाणमुवरि कोहसजलण पवेसयमाणो एयसमय खेव दसण्ह पवेसगो होदि त्ति एदेण कारणेण एदेसिं तिण्ह पि पवेसट्ठाणाण सामिणो जीवा अण्णोण्णेण सरिसा होदूण उवरि भणिस्समाणसेसपदेहिंतो थोवा जाटा । जयध०

४ कि कारण, सव्वकालवहुत्तादो । त जहा—तिविह लोभमोकड्डिऊण टिठदसुहुमसापराइयकाले पुणो अणियट्ठिअद्धाए सखेज्जे भागे च सच्चिदो जीवरासी तिण्ह पवेसगो होइ । तेण पुव्विह्लादो एगसमय-सचयादो एसो अतोमुहुत्तसचओ सखेज्जगुणो त्ति णत्थि सदेहो । जयध०

५ केण कारणेण, विसेसाहियकालम्भतरसच्चिदत्तादो । जयध०

६ कुदो, मायावेदगकालादो विसेसाहियमाणवेदगकालम्मि सच्चिदजीवरासिस्स गहणादो । जयध०

७ कि कारण; पुव्विह्लसचयकालादो विसेसाहियकोहवेदगकालम्मि अवगदवेदपडिबद्धम्मि सच्चिद-जीवरासिस्स गहणादो । जयध०

८ कि कारण; पुरिसवेद-छण्णोकसाए ओकड्डिय पुणो जाव इत्थिवेदं ण ओकड्डुदि, ताव एदम्मि काले पुव्विल्लसचयकालादो विसेसाहियम्मि सच्चिदजीवरासिस्स विवक्खियत्तादो । जयध०

९ कुदो; इत्थिवेदमोकड्डिय पुणो जाव णवुसयवेद ण ओकड्डुदि ताव एदम्मि काले पुव्विल्लसचय-कालादो विसेसाहियम्मि सच्चिदजीवाणमिहग्गहणादो । जयध०

२०५. दोण्हं पवेसगा संखेज्जगुणा^१ । २०६. एक्किंस्से पवेसगा संखेज्जगुणा^२ ।
 २०७. तेरसण्हं पवेसगा संखेज्जगुणा^३ । २०८. तेवीसाए पवेसगा संखेज्जगुणा^४ ।
 २०९. वावीसाए पवेसगा असंखेज्जगुणा^५ । २१०. पणुवीसाए पवेसगा असंखेज्ज-
 गुणा^६ । २११. सत्तावीसाए पवेसगा असंखेज्जगुणा^७ । २१२. एकवीसाए पवेसगा
 असंखेज्जगुणा^८ । २१३. चउवीसाए पवेसगा असंखेज्जगुणा । २१४. अट्ठावीसाए

विशेषार्थ—उक्त इन सभी प्रवेश-स्थानोका संचय-काल उत्तरोत्तर विशेष अधिक होनेसे जीवोंकी संख्या भी विशेष-विशेष अधिक बतलाई गई है ।

चूर्णिसू०—बीस प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवोंसे दो प्रकृतियोंके प्रवेश करनेवाले जीव संख्यातगुणित हैं । दो प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवोंसे एक प्रकृतिके प्रवेश करनेवाले जीव संख्यातगुणित है । एक प्रकृतिके प्रवेशक जीवोंसे तेरह प्रकृतियोंके प्रवेश करनेवाले जीव संख्यातगुणित हैं । तेरह प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवोंसे तेईस प्रकृतियोंके प्रवेश करनेवाले जीव संख्यातगुणित है ॥२०५-२०८॥

विशेषार्थ—उक्त प्रवेशस्थानोका संचय काल उत्तरोत्तर संख्यातगुणित है, अतः उनमें प्रवेश करनेवाले जीवोंकी संख्या भी उत्तरोत्तर संख्यातगुणित बतलाई गई है ।

चूर्णिसू०—तेईस प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवोंसे वाईस प्रकृतियोंके प्रवेश करनेवाले जीव असंख्यातगुणित है । वाईस प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवोंसे पच्चीस प्रकृतियोंके प्रवेश करनेवाले जीव असंख्यातगुणित हैं । पच्चीस प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवोंसे सत्ताईस प्रकृतियोंके प्रवेश करनेवाले जीव असंख्यातगुणित है । सत्ताईस प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवोंसे इक्कीस प्रकृतियोंके प्रवेश करनेवाले जीव असंख्यातगुणित है । इक्कीस प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवोंसे चौबीस प्रकृतियोंके प्रवेश करनेवाले जीव असंख्यातगुणित हैं । चौबीस प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवोंसे अट्ठाईस प्रकृतियोंके प्रवेश करनेवाले जीव असंख्यातगुणित है ॥२०९-२१४॥

१ केण कारणेण ? पुरिसवेदोदएण खवगसेट्ठिमारुट्ठस्स अतरकरणादो समयूणावलियागदाए तदोप्पहुडि जाव पुरिसवेदपढमट्ठिट्ठिचरिमसमयो त्ति ताव एदम्मि कालविसेसे पयदसचयावलवणादो । जइवि उवसमसेटीए चैव पयदसचयो अवलंविज्जे, तो वि पुव्विल्लदो एदस्स सचयकालमाहप्पेण सखेज्जगुणत्तं ण विरुज्जते । जयध०

२ कुदो, पुव्विल्लादो एदस्स सचयकालमाहप्पदंसणादो । जयध०

३ कि कारण; अट्ठकसाएसु खविदेसु तत्तोप्पहुडि जाव अतरकरण समाणिय समयूणावलियमेत्तो कालो गच्छदि ताव एदम्मि काले पुव्विल्लकालादो सखेज्जगुणो तेरसपवेसगाण सचयावलवणादो । जयध०

४ कुदो; दसणमोहक्खवणाए अब्भुट्ठिदएण मिच्छत्ते खविदे तत्तोप्पहुडि जाव सम्मामिच्छत्तक्ख-
 वणचरिमसमयो त्ति ताव एदम्मि काले पुव्विल्लकालादो सखेज्जगुणे सच्चिदजीवाण गहणादो । जयध०

५ कुदो; पल्लिदोवसस्सासखेज्जभागपमाणत्तादो । जयध०

६ कुदो; अणताणुवधिविसजोयणाविरहिदाणमुवसमसम्माइट्ठीण सासणसम्माइट्ठीण च अंतोमुहुत्त-
 संचिदाणमिहरगहणादो । जयध०

७ कुदो; सम्मत्ते उव्वेल्लिदे पुणो पल्लिदोवमासखेज्जभागपमाणसम्मामिच्छत्तुव्वेल्लणाकालभंतरे
 पयदसंचयावलवणादो । जयध०

८ कुदो; चउवीससत्तकभिमयवेदयसंम्माइट्ठरासिस्स गहणादो । जयध०

पवेसगा असंखेज्जगुणा' । २१५. छव्वीसाए पवेसगा अणंतगुणा' ।

२१६. भुजगारो कायव्वो । २१७. पदणिकखेवो कायव्वो । २१८. वड्ढी वि कायव्वो ।

२१९. 'खेत्त-भव-काल-पोग्गलट्टिदि-विवागोदयखयो दु' त्ति एदस्स विहासा ।
२२०. कम्मोदयो खेत्त-भवकाल-पोग्गल-ट्टिदिविवागोदयखयो भवदि' ।

विशेषार्थ—इन उक्त सर्व प्रवेशस्थानोका संचय काल उत्तरोत्तर असंख्यातगुणित होनेसे उनमें प्रवेश करनेवाले जीवोंकी संख्या भी असंख्यातगुणित बतलाई गई है ।

चूर्णिसू०—अट्ठाईस प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवोंसे छव्वीस प्रकृतियोंके प्रवेश करनेवाले जीव अनन्तगुणित है ॥२१५॥

विशेषार्थ—क्योंकि छव्वीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवोंकी संख्या कुछ कम सर्व जीवराशि-प्रमाण है, जो कि अनन्त है । अतएव छव्वीस प्रकृतियोंके प्रवेश करनेवाले जीव अनन्तगुणित बतलाये गये हैं ।

चूर्णिसू०—भुजाकार-प्ररूपणा करना चाहिए, पदनिक्षेपका वर्णन करना चाहिए और वृद्धिकी प्ररूपणा भी करना चाहिए ॥२१६-२१८॥

इस प्रकार इन भुजाकारादि अनुयोगद्वारोंके निरूपण करनेपर 'कितनी प्रकृतियाँ किस जीवके उद्यावलीमें प्रवेश करती हैं' प्रथम गाथाके इस द्वितीय पादका अर्थ समाप्त हुआ ।

चूर्णिसू०—अव 'क्षेत्र, भव, काल और पुद्गल द्रव्यका आश्रय लेकर जो स्थिति-विपाकरूप उदय होता है, उसे क्षय कहते हैं' गाथाके इस उत्तरार्धकी विभाषा की जाती है अपक्वपाचनके बिना यथाकाल-जनित कर्मोंके विपाकको कर्मोदय कहते हैं ? वह कर्मोदय क्षेत्र, भव, काल और पुद्गल द्रव्यके आश्रयसे स्थितिके विपाकरूप होता है । अर्थात् कर्म उदयमें आकर अपना फल देकर झड़ जाते हैं । इसीको उदय या क्षय कहते हैं ॥२१९-२२०॥

विशेषार्थ—यह कर्मोदय प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशके भेदसे चार प्रकारका है । इनमेंसे यहाँपर प्रकृति-उदयसे प्रयोजन है, क्योंकि प्रकृति-उदीरणाके वर्णनके पश्चात् प्रकृति-उदयका वर्णन ही न्याय-प्राप्त है । चूर्णिसूत्रकारने कर्मोदयकी अर्थ-विभाषा इसलिए नहीं की है कि उदीरणाके वर्णनसे ही उदयका वर्णन भी हो ही जाता है । और फिर उदयसे उदीरणा सर्वथा भिन्न भी तो नहीं है; क्योंकि उदयके अवस्था-विशेषको ही उदीरणा कहते हैं ।

१ किं कारणं; अट्ठावीससतकम्मियवेदगसम्माइट्ठिरासिस्स पहाणभावेण विवद्विलयत्तादो । जयध०

२ कुदोः किंचूणसञ्चजीवराशिप्रमाणत्तादो । जयध०

३ कम्मेण उदयो कम्मोदयो; अक्वपाचणाए विणा जहाकालज्जणितो कम्मणं ट्ठिट्ठिकवणण जो विवागो सो कम्मोदयो त्ति भण्णदे । सो इण खेत्त-भव काल-पोग्गलट्टिदिविवागोदयखयो त्ति एदस्स गाहापच्छदस्स समुदायत्थो भवदि । कुदो; खेत्त-भव काल-पोग्गले अस्सिक्कण जो ट्ठिट्ठिकवयो उदिण्ण-फलरूपपरिसङ्गणत्तल्लणो सोदयो त्ति सुत्तथावलंक्कणादो । जयध०

२२१. 'को कदमाए ङ्ङिदीए पवेसगो' त्ति पदस्स ङ्ङिदि-उदीरणा कायव्वा^१ ।
 २२२. एत्थ ङ्ङिदिउदीरणा दुविहा-मूलपयडिङ्ङिदिउदीरणा उत्तरपयडिङ्ङिदिउदीरणा
 च । २२३. तत्थ इमाणि अणियोगद्वाराणि । तं जहा- पमाणाणुगमो सामित्तं कालो
 अंतरं णाणाजीवेहि भंगविचयो कालो अंतरं सण्णियासो अप्पावहुअं भुजगारो पद-
 णिक्खेवो वड्ढी ट्ठाणाणि च । २२४. एदेसु अणियोगद्वारेसु विहासिदेसु 'को कदमाए
 ङ्ङिदीए पवेसगो' त्ति पदं समत्तं ।

२२५. 'को व के य अणुभागो' त्ति अणुभागउदीरणा कायव्वा । २२६.
 तत्थ तत्थ अट्ठपदं^२ । २२७. अणुभागा पयोगेण ओकङ्ङियूण उदये दिज्जति सा
 उदीरणा^३ । २२८. तत्थ जं जिस्से आदिफ्हयं तं ण ओकङ्ङिज्जदि^४ । २२९.

उदय और उदीरणामे जो थोड़ी-सी विशेषता है, वह व्याख्यानार्थोंके विशेष व्याख्यानसे
 ज्ञात ही हो जाती है ।

इस प्रकार कर्मोदयके व्याख्यान कर देनेपर वेदक अधिकारकी प्रथम गाथाका अर्थ
 समाप्त हो जाता है ।

चूर्णिसू०—'कौन जीव किस स्थितिमें प्रवेगक होता है' दूसरी गाथाके इस प्रथम
 पदकी स्थिति उदीरणा (—रूप व्याख्या) करना चाहिए । यह स्थिति-उदीरणा दो प्रकारकी
 है—मूलप्रकृतिस्थिति-उदीरणा और उत्तरप्रकृतिस्थिति-उदीरणा । इन दोनों प्रकारकी उदी-
 रणाओंके प्ररूपण करनेवाले अनुयोगद्वार इस प्रकार है—प्रमाणानुगम, स्वामित्व, एक जीवकी
 अपेक्षा काल, अन्तर, नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, काल और अन्तर, सन्निकर्ष, अल्प-
 बहुत्व, भुजाकार, पदनिक्षेप, स्थान और वृद्धि । इन अनुयोगद्वारोंके व्याख्यान करनेपर 'को
 कदमाए ङ्ङिदीए पवेसगो' इस पदका अर्थ समाप्त हो जाता है ॥२२२-२२४॥

विशेषार्थ—चूर्णिसूत्रकारने ग्रन्थ-विस्तारके भयसे उक्त अनुयोगद्वारोंका वर्णन नहीं
 किया है । अतः विशेष जिज्ञासुओंको जयधवला टीका देखना चाहिये ।

चूर्णिसू०—'कौन जीव किस अनुभागमें प्रवेश करता है' दूसरी गाथाके इस दूसरे
 पदमें अनुभाग-उदीरणाकी प्ररूपणा करना चाहिए । इस विषयमें यह अर्थपद है । वह इस
 प्रकार है—प्रयोग अर्थात् परिणाम-विशेषके द्वारा स्पर्धक, वर्ग, वर्गणा ओर अविभागप्रतिच्छेद-
 स्वरूप अनन्तभेद-भिन्न अनुभागका अपकर्षण करके और अनन्तगुणहीन बनाकर जो स्पर्धक
 उदयमें दिये जाते हैं, उसे उदीरणा कहते हैं । उसमें जिस कर्म-प्रकृतिका जो आदि स्पर्धक
 हैं, वह उदीरणाके लिए अपकर्षित नहीं किया जा सकता है । इस प्रकार द्वितीय, तृतीय आदि

१ पयडिउदीरणाणतरमेत्तो ट्ठिट्ठिउदीरणा कायव्वा, पत्तावसरत्तादो । जयध०

२ क्रिमट्ठपद णाम ? जत्तो सोदाराण पयदत्थविसए सम्ममवगमो समुप्पज्जइ, तमट्ठस्स वाचयं
 पदमट्ठपदमिदि भण्णदे । जयध०

३ अणुभागा मूलउत्तरपयडीणमगतभेयभिण्णफ्हयवग्गणाविभागपलिच्छेदसरूवा, पयोगेण परिणाम-
 विसेत्तेण ओकङ्ङियूण अणतगुणहीणसरूवेण जमुदए दिज्जति, सा उदीरणा णाम । जयध०

४ कुदो; तत्तो हेट्ठा अणुभागफ्हयंणमसभवादो । जयध०

एवमणंताणि फ्रह्याणि ण ओकड्डिज्जति' । २३०. केत्तियाणि ? जत्तिगो जहण्णगो णिक्खेवो जहण्णिया च अइच्छावणा तत्तिगाणि । २३१. आदीदो पडुडि एत्तियमेत्ताणि फ्रह्याणि अइच्छिदूणं तं फ्रह्यमोक्कड्डिज्जदि । २३२. तेण परमपडिसिद्धं । २३३. एदेण अट्टपदेण अणुभागुदीरणा दुविहा-मूलपयडि-अणुभागउदीरणा च उत्तरपयडि-अणुभाग-उदीरणा च । २३४ एत्थ मूलपयडिअणुभाग उदीरणा भाणियव्वा । २३५. उत्तर-पयडिअणुभागुदीरणं वत्तइस्सामो । २३६. तत्थेमाणि चउवीसमणियोगदाराणि सण्णा सव्वउदीरणा एवं जात्र अप्पावहुए त्ति । भुजगार-पदणिक्खेव-वड्ढि-ट्टाणाणि च । २३७ तत्थ पुव्वं गमणिज्जा दुविहा-सण्णा घाइसण्णा ठाणसण्णा च' । २३८. ताओ

अनन्त स्पर्धक उदीरणाके लिए अपकर्षित नहीं किये जा सकते हैं । उदीरणाके लिए अयोग्य स्पर्धक कितने है ? जितना जघन्य निक्षेप है और जितनी जघन्य अतिस्थापना है, तत्प्रमाण अर्थात् उतने उदीरणाके अयोग्य स्पर्धक होते हैं ॥२२५-२३०॥

चूर्णिसू०-विवक्षित कर्म-प्रकृतिके आदि स्पर्धकसे लेकर इतने अर्थात् जघन्य निक्षेप और जघन्य अतिस्थापना-प्रमाण स्पर्धकोको छोड़कर जो स्पर्धक प्राप्त होता है, वह स्पर्धक उदीरणाके लिए अपकर्षित किया जाता है । इससे परे कोई निषेध नहीं है, अर्थात् आगेके समस्त स्पर्धक उदीरणाके लिए अपकर्षित किये जा सकते हैं । इस अर्थपदके द्वारा वर्णनकी जानेवाली अनुभाग-उदीरणा दो प्रकारकी है-मूलप्रकृति-अनुभाग-उदीरणा और उत्तरप्रकृति-अनुभाग-उदीरणा । इनमेसे मूलप्रकृतिअनुभाग-उदीरणाका संज्ञा आदि तेईस अनुयोगद्वारोंसे व्याख्यानाचार्योंको निरूपण करना चाहिए ॥२३१-२३४॥

चूर्णिसू०-अब उत्तरप्रकृति-अनुभाग-उदीरणाको कहेंगे । उसके विषयमे ये चौबीस अनुयोगद्वार हैं-१ संज्ञा, २ सर्वउदीरणा, ३ नोसर्वउदीरणा, ४ उत्कृष्टउदीरणा, ५ अनुत्कृष्ट-उदीरणा, ६ जघन्यउदीरणा, ७ अजघन्यउदीरणा, ८ सादिउदीरणा, ९ अनादिउदीरणा, १० घ्रुवउदीरणा, ११ अघ्रुवउदीरणा, १२ एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, १३ काल, १४ अन्तर, १५ नानाजीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, १६ भागाभाग, १७ परिमाण, १८ क्षेत्र, १९ स्पर्शन, २० काल, २१ अन्तर, २२ सन्निकर्ष, २३ भाव और २४ अल्पबहुत्व । तथा भुजाकार, पदनिक्षेप, वृद्धि और स्थान, इन सर्व अनुयोगद्वारोंसे अनुभाग-उदीरणाका वर्णन करना चाहिए ॥२३५-२३६॥

चूर्णिसू०-उत्तरप्रकृति-उदीरणाके वर्णन करनेवाले अनुयागद्वारोंमे प्रथम संज्ञा नामक अनुयोगद्वार जाननेके योग्य है । वह इस प्रकार है-संज्ञाके दो भेद है घातिसंज्ञा और स्थानसंज्ञा । इन दोनों ही संज्ञाओंको एक साथ कहेंगे ॥२३७-२३८॥

१ केत्तियाणि ? जत्तिगो जहण्णगो णिक्खेवो, जहण्णिया च अइच्छावणा; तत्तिगाणि । अणताणि ण ओकड्डिज्जति । जयध०

२ तत्थ जा सा घादिसण्णा, सा दुविहा, सव्वघादि-देसघादिभेदेण । ठाणसण्णा चउव्विहा, त्हासमाणादिसहावभेदेण भिण्णत्तादो । जयध०

दो वि एकदो वत्तइस्सामो । २३९. तं जहा-मिच्छत्त-वारसकसायाणमणुभाग-उदीरणा सव्वघादी^१ । २४०. दुट्ठाणिया तिट्ठाणिया चउट्ठाणिया वा^२ । २४१. सम्मत्तस्स अणुभागुदीरणा देसघादी^३ । २४२. एगट्ठाणिया वा दुट्ठाणिया वा^४ । २४३. सम्मा-मिच्छत्तस्स अणुभागउदीरणा सव्वघादी विट्ठाणिया^५ । २४४. चटुसंजलण-तिवेदाण-मणुभागुदीरणा देसघादी सव्वघादी वा^६ । २४५. एगट्ठाणिया वा दुट्ठाणिया तिट्ठाणिया

विशेषार्थ-वर्ण्यमान विषयके नामको संज्ञा कहते हैं । यहाँ अनुभागकी उदीरणा-का वर्णन सर्वघाति और देशघातिरूप घातिसंज्ञाके द्वारा, तथा लता, दारु, अस्थि और शैल-रूप चार प्रकारकी स्थानसंज्ञाके द्वारा किया जायगा ।

चूर्णिसू०-उन दोनोंका एक साथ वर्णन इस प्रकार है-मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी आदि चारह कपायोंकी अनुभाग-उदीरणा सर्वघाती है, तथा वह द्विस्थानीय, त्रिस्थानीय और चतुःस्थानीय है । सम्यक्त्वप्रकृतिकी अनुभाग-उदीरणा देशघाती तथा एकस्थानीय और द्विस्थानीय है । सम्यग्मिथ्यात्वकी अनुभाग-उदीरणा सर्वघाती और द्विस्थानीय है । चार संव्वलन और तीनों वेदोंकी अनुभाग-उदीरणा देशघाती भी है और सर्वघाती भी है, तथा एकस्थानीय भी है, द्विस्थानीय भी है, त्रिस्थानीय भी है और चतुःस्थानीय भी है ॥२३९-२४५॥

विशेषार्थ-अनुभाग-उदीरणासम्बन्धी एकस्थानीय आदि चार भेद क्रमशः जघन्य, अजघन्य, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागशक्तिकी अपेक्षासे किये गये हैं । अतएव मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी आदि चारह कपायोंके उत्कृष्ट अनुभागकी अपेक्षा द्विस्थानीय और त्रिस्थानीय भेद जानना चाहिए । सम्यक्त्वप्रकृति सम्यग्दर्शनका विनाश करनेमें असमर्थ

१ कुदो, एदेसिमणुभागोदीरणाए सम्मत्त सजमगुणाण णिरवसेसविणासदसणादो । पच्चक्खाणकसायो-दीरणाए सतीए वि देससजमो समुवल्लभदि, तदो ण तेसिं सव्वघादित्तमिदि णासकणिज्ज, सयलसजममस्सिज्जण तेसिं सव्वघादित्तसमत्थणादो । जयध०

२ कुदो; मिच्छत्त-वारसकसायाणमुक्कस्साणुभागुदीरणाए चउट्ठाणियत्तदसणादो, तेसिं चेवाणुक्कस्सा-णुभागुदीरणाए चउट्ठाण-तिट्ठाण-दुट्ठाणियत्तदसणादो । जयध०

३ कुदो; मिच्छत्तुदीरणाए इव सम्मत्तुदीरणाए सम्मत्तसणिदजीवपञ्जायस्स अच्चतुच्छेदाभावादो । जयध०

४ कुदो; सम्मत्तजहण्णाणुभागुदीरणाए एगट्ठाणियत्तदसणादो, तदुक्कस्साणुभागुदीरणाए दुट्ठाणि-यत्तदसणादो । जयध०

५ कुदो ताव सव्वघादित्तं ? मिच्छत्तोदीरणाए इव सम्मामिच्छत्तोदीरणाए वि सम्मत्तसणिदजीवगुणस्स णिमूलविणासदसणादो । एसा पुण दुट्ठाणिया चेव । कुदो; सम्मामिच्छत्ताणुभागमिं दुट्ठाणियत्त मोत्तूण पयारतरासभवादो । जयध०

६ कुदो; एदेसिं जहण्णाणुभागुदीरणाए देसघादित्तणियमदसणादो, उक्कस्साणुभागुदीरणाए च णियमदो सव्वघादित्तदसणादो; अजहण्णाणुक्कस्साणुभागोदीरणासु देस सव्वघादिभावाण दोह पि समुवल्लभोदो च । एतदुक्क भवति-मिच्छाइट्ठप्पहुडि जाव असजदसम्माइट्ठ त्ति ताव एदेसिं कम्मणमणुभागुदीरणाए सव्वघादी देसघादी च होदि, सकिलेस-विसोहिवसेण । सजदासजदप्पहुडि उवरि सव्वत्थेव देसघादी होदि; तस्य सव्वघादिउदीरणाए तग्गुणपरिणामेण सह विरोहादो त्ति । जयध०

चउट्टाणिया वा^१ । २४६. छण्णोकसायाणमणुभाग-उदीरणा देसघादी वा सच्चघादी वा^२ । २४७. दुट्टाणिया वा तिट्टाणिया वा चउट्टाणिया वा^३ । २४८. चदुसंजलण-णवणोकसायाणमणुभाग-उदीरणा एइंदिए वि देसघादी होइ^४ ।

होनेसे देशघाती कही गई है । उसे जघन्य अनुभागकी अपेक्षा एकस्थानीय और उत्कृष्ट अनु-भागकी अपेक्षा द्विस्थानीय कहा है । सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृति सम्यक्त्वकी विनाशक है, अतः सर्वघाती है और इसका अनुभाग द्विस्थानीय ही कहा है, क्योंकि इसमें अन्य तीन विकल्प संभव नहीं है । चारो संज्वलन और तीनों वेद जघन्य अनुभागकी अपेक्षा सर्वघाती हैं । तथा अजघन्य और उत्कृष्ट अनुभागकी अपेक्षा दोनों रूप भी है । इसका अभिप्राय यह है कि मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक संकलेश और विशुद्धिके निमित्तसे उक्त कर्म-प्रकृतियोंकी अनुभाग-उदीरणा सर्वघाती भी होती है और देशघाती भी होती है । किन्तु संयतासंयतसे लेकर ऊपरके गुणस्थानोमे अनुभाग-उदीरणा सर्वत्र देशघाती ही होती है, क्योंकि, वहाँ सर्वघातीरूप उदीरणाका होना संभव नहीं है । उक्त प्रकृतियोंकी चारो ही स्थानरूप उदीरणा कहनेका आशय यह है कि नवे गुणस्थानमें अन्तरकरण करनेपर उक्त प्रकृतियोंकी अनुभाग-उदीरणा नियमसे लतारूप एकस्थानीय ही दिखाई देती है । इससे नीचे दूसरे गुणस्थानतक द्विस्थानीय ही अनुभागउदीरणा होती है । किन्तु मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमे परिणामोके परिवर्तनके अनुसार द्विस्थानीय, त्रिस्थानीय और चतुःस्थानीय भी होती है ।

चूर्णिसू०—हास्यादि छह नोकपायोकी अनुभागउदीरणा देशघाती भी है और सर्वघाती भी है । तथा द्विस्थानीय भी है, त्रिस्थानीय भी है और चतुःस्थानीय भी है ॥२४६॥

विशेषार्थ—संयतासंयतादि उपरिम गुणस्थानोमे हास्यादिषट्ककी अनुभाग-उदीरणा द्विस्थानीय होनेपर भी देशघाती ही होती है । किन्तु इससे नीचे सासादनगुणस्थान तक द्विस्थानीय होते हुए भी देशघाती और सर्वघाती इन दोनों ही रूपोमे अनुभाग-उदीरणा होती है । मिथ्यादृष्टिकी अनुभाग-उदीरणा द्विस्थानीय, त्रिस्थानीय तथा चतुःस्थानीय होती है ।

चूर्णिसू०—चारो संज्वलन और नवो नोकपायोकी अनुभाग-उदीरणा एकेन्द्रिय जीवमे भी देशघाती होती होती है ॥२४८॥

१ कुदो; अंतरकरणे कदे एदेसिमणुभागोदीरणाए णियमेणेगट्टाणियत्तदंसणादो । हेट्टा सच्चत्येव गुणपडिवणोसु दुट्टाणियत्तणियमदसणादो । मिच्छाइट्ठम्मि दुट्टाण-तिट्टाण-चउट्टाणभेदेण परियत्त-माणुभागोदीरणाए दसणादो । जयध०

२ कुदो; असजदसम्माइट्ठप्पहुडि हेट्टा सच्चत्येव देस-सच्चघादिभावेणेदेसिमणुभागोदीरणाए पउत्तिदसणादो. सजदासजदप्पहुडि जाव अपुच्चकरणो त्ति देसघादिभावेणुदीरणाए पउत्तिणियमदसणादो च । जयध०

३ कुदो, सजदासजदादिउवरिमगुणट्टाणेसु छण्णोकसायाणमणुभागोदीरणाए देनवादि दुट्टाणि-यत्तणियमदसणादो । हेट्ठिमेसु वि गुणपडिवणोसु विट्टाणियाणुभागोदीरणाए देस सच्चघादिविसेसिदाए संभवोवयंभादो । मिच्छादट्ठिम्मि विट्टाण-तिट्टाण-चउट्टाणवियप्पाण सच्चेसिमेव सभवादो । जयध०

४ इत्थं देसघादी चैव उदीरणाए होइ त्ति णावहारैय्व्व, किंतु एदेसु जीवसमासेसु सच्चघादि-

२४९. एगजीवेण सामित्तं । २५०. तं जहा । २५१. मिच्छत्तस्स उक्कस्साणु-
भागुदीरणा कस्स ? २५२. मिच्छाइट्ठिस्स सण्णिस्स सव्वाहिं पज्जत्तीहिं पज्जत्तयदस्स
उक्कस्ससंकिलिट्ठस्स^१ । २५३. एवं सोलसकसायाणं^२ । २५४. सम्पत्तस्स उक्कस्साणुभागु-

विशेषार्थ—उक्त प्रकृतियोंकी देशघाती अनुभाग-उदीरणा संयतासंयतादि उपरिम
गुणस्थानोके समान असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर संज्ञी पंचेन्द्रिय मिथ्यादृष्टियोमे भी परिणामोकी
विशुद्धिके समय पाई जाती है । इतना ही नहीं, असंज्ञी पंचेन्द्रिय और विकलेन्द्रियोमें भी
यथायोग्य संभव विशुद्धिके कारण देशघाती अनुभाग-उदीरणाके पाये जानेका कहीं कोई निषेध
नहीं है । और तो क्या, एकेन्द्रिय जीवो तकमे यथासंभव विशुद्धिके कारण उक्त प्रकृतियोंकी
देशघाती अनुभागउदीरणा पाई जाती है । यहाँ प्रकृत सूत्रके द्वारा असंज्ञी पंचेन्द्रियादि एकेन्द्रिय
जीवोंमें सर्वघाती अनुभाग-उदीरणाका निषेध नहीं किया गया है किन्तु सर्वघातीके समान
देशघातीके सद्भावका भी निरूपण किया गया है, ऐसा अभिप्राय लेना चाहिए ।

चूर्णिसू०—अब एक जीवकी अपेक्षा अनुभाग-उदीरणाका स्वामित्व कहते हैं । वह
इस प्रकार है ॥२४९-२५०॥

शंका—मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा किसके होती है ? ॥२५१॥

समाधान—सर्व पर्याप्तियोसे पर्याप्त और उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त, संज्ञी पंचेन्द्रिय
मिथ्यादृष्टिके होती है ॥२५२॥

चूर्णिसू०—इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी आदि सोलह कपायोकी उत्कृष्ट अनुभाग-
उदीरणाका स्वामित्व जानना चाहिए । अर्थात् उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त, संज्ञी, पर्याप्तक मिथ्या-
दृष्टि जीव ही सोलह कपायोकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणाका स्वामी है ॥२५३॥

शंका—सम्यक्त्वप्रकृतिकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा किसके होती है ? ॥२५४॥

उदीरणासम्भावमविष्पडिवत्तिसिद्ध कादूण देसघादि-उदीरणाए तत्थासभवणिरायरणमुहेण सभवविहाणमेदेण
सुत्तेण कीरदे । तदो सण्णिमिच्छाइट्ठिपहुडि एइदियपज्जवसाणसव्वजीवसमासेसु एदेसि कम्मणसणुभागुदीरणा
देसघादी वा सव्वघादी वा होदूण लब्भदि त्ति णिच्छयो कायव्वो । जयध०

१ किमट्ठमण्णजोगववच्छेदेण सव्वसकिलिट्ठस्सेव पयदसामित्तणियमो ? ण, म दसकिलेसेण तिसोहीए
वा परिणदस्स सव्वुक्कस्साणुभागुदीरणाणुववत्तीदो । तदो उक्कस्साणुभागसत कम्मट्ठाणचरिमफहयचरिमवग्गणा-
विभागपडिच्छेदे उक्कस्ससकिलेसवसेण थोवयरे चैव होदूण तप्पाओग्गट्ठिमाणतगुणहीणचउट्ठाणाणुभाग-
सरुत्तेण उदीरेमाणस्स सण्णिपचिदियपज्जत्तमिच्छादिट्ठस्स उक्कस्सय मिच्छत्ताणुभागुदीरणासामित्त होदि
त्ति एसो सुत्तत्थसमुच्चयो । एत्थ उक्कस्साणुभागसतकम्मट्ठो चैव उक्कस्साणुभागुदीरणा होदि त्ति णत्थि
णियमो, किंतु तप्पाओग्गाणुक्कस्साणुभागसतकम्मणेण वि उक्कस्साणुभागुदीरणाए होदव्व; अण्णहा थावरकायादो
आगतूण तसकाइएसुप्पणस्स सव्वकालमुक्कस्साणुभागसतकम्मप्पत्तीए अभावप्पसगादो । जयध०

२ एत्थ सव्वुक्कस्सकिलिट्ठमिच्छाइट्ठिअणुभागुदीरणाए सामित्तविसईकयाए माहप्पजाणावणट्ठ-
मेदसापावहुअमणुगतव्व । त जहा—सम्मत्ताहिमुहचरिमसमयमिच्छाइट्ठस्स अणुभागुदीरणा थोवा, दुचरिम-
समए अणतगुणग्गहिया, तिचरिमसमए अणतगुणग्गहिया । एव चउत्थसमयादो णेदव्व जाव सव्वुक्कस्स-
सकिलिट्ठमिच्छाइट्ठस्स अणुभागुदीरणा अणतगुणा त्ति । तदो अणजोगववच्छेदेणेत्थेव मिच्छत्त-सोलस-
कसायाणमुक्कस्ससामित्तमवहारय-वमिदि । जयध०

दीरणा कस्स ? २५५. मिच्छत्ताहिमुहचरिमसमयअसंजदसम्मादिट्ठिस्स सव्वसंक्किलि-
ट्ठस्स^१ । २५६. सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्साणुभागुदीरणा कस्स ? २५७. मिच्छत्ताहि-
मुहचरिमसमय-सग्गामिच्छाइट्ठिस्स सव्वसंक्किलिट्ठस्स । २५८. इत्थिवेद-पुरिसवेदाणमुक्क-
स्साणुभागुदीरणा कस्स ? २५९. पंचिदियतिरिक्खस्स अट्ठवासजादरत्त करहस्स^२ सव्व-
संक्किलिट्ठस्स^३ । २६०. णवुंमयवेद-अरदि-सोग-भय-दुगुंछाणमुक्कस्साणुभागुदीरणा कस्स ?

समाधान—सर्वोत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त और मिथ्यात्वके अग्निमुख चरमसमयवर्ती असंयतसम्यग्दृष्टिके होती है ॥२५५॥

शंका—सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा किसके होती हैं ? ॥२५६॥

समाधान—सर्वाधिक संक्लेश-युक्त एवं मिथ्यात्वको प्राप्त होनेके सम्मुख चरम-समयवर्ती सम्यग्मिथ्यादृष्टिके होती है ॥२५७॥

शंका—स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा किसके होती हैं ? ॥२५८॥

समाधान—अष्टवर्षायुष्क, सर्वाधिक संक्लिष्ट, पंचेन्द्रिय तिर्यच करम अर्थात् ऊँट और ऊँटनीके होती है ॥२५९॥

विशेषार्थ—कर्मोदयकी विचित्रतापर आश्चर्य है कि हजारों शरीर बनाकर एक साथ स्त्री-सेवन करनेवाले चक्रवर्ती या इन्द्रके पुरुषवेदकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा नहीं होती। और इसी प्रकार हजारों रूप बनाकर एक साथ इन्द्रके साथ वैपयिक सुख भोगनेवाली इन्द्राणीके भी स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा नहीं होती, जब कि आठ वर्ष या इससे अधिक आयुके धारक और वेदोदयसे उत्कृष्ट वैकल्य या संक्लेशको प्राप्त ऊँटके पुरुषवेदकी और ऊँटनीके स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा होती है। इसका एकमात्र कारण जातिगत स्वभाव ही हैं। ऊँट-ऊँटनीके कामकी वेदना देव, मनुष्य और तिर्यच इन तीनोंमें सबसे अधिक होती है, वह स्त्री या पुरुषवेदके तीव्र उदय होनेपर कामान्ध या उन्मत्त हो जाता है, जब तक उसके प्रकृत-वेदकी उदीरणा नहीं हो जाती है, तब तक उसे और कुछ नहीं सूझता है।

शंका—नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा किसके होती है ? ॥२६०॥

१ कुदोः जीवादिपयत्थे दूसिय मिच्छत्त गच्छमाणस्स तस्स उक्कस्ससक्किलेसेण बहुआणुभागहाणीए अभावेण सम्मत्तुक्कस्साणुभागुदीरणाए तत्थ सव्वद्धमुवलभादो । जयध०

२ उग्ग्री मयः शृङ्खलिकः करमः शीघ्रगामुकः ॥९१॥ धनजयः

३ एत्थ पंचिदियतिरिक्खणिद्देसो मणुस-देवगदिवुदासट्ठो; तत्थुक्कस्सवेदसक्किलेसाभावादो । कुदो एद णव्वेदे ? एदम्हादो चेव सुत्तादो । अट्ठवासजादस्सेत्ति तस्स विसेसेणमट्ठवस्सेहितो हेट्ठा सव्वुक्कस्सो वेदसक्किलेसो ण होदि त्ति जाणावणट्ठ । करमस्सेत्ति वयण जादिविसेसेण तत्थेविस्सि पुरिसवेदाणमुक्कस्साणु-भागुदीरणा होदि त्ति पटुप्पायणट्ठ । तस्स वि उक्कस्ससक्किलेसेण परिणदावत्थाए चेव उक्कस्साणुभागउदीरणा होदि त्ति जाणावणट्ठ सव्वसंक्किलिट्ठस्सेत्ति भणिद । तदो एवविहस्स जीवस्स पयदुक्कस्ससामित्तमिदि सिद्धं । जयध०

२६१. सत्तमाए पुढवीए णेरइयस्स सव्वसंक्किलिड्डस्स^१ । २६२. हस्स-रदीणमुक्कस्साणु-
भागउदीरणा कस्स ? २६३. सदार-सहस्सारदेवस्स सव्वसंक्किलिड्डस्स^१ ।

२६४. एत्तो जहण्णिया उदीरणा । २६५. पिच्छत्तस्स जहण्णाणुभागुदीरणा
कस्स ? २६६ संजमाहिमुहचरिमसमयमिच्छाइड्डिस्स सव्वविसुद्धस्स^१ । २६७. सम्मत्तस्स
जहण्णाणुभागुदीरणा कस्स ? २६८. समयाहियावलिय-अक्खीणदंसणमोहणीयस्स^१ ।

समाधान—सातवी पृथिवीके सर्वोत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त नारकीके होती है ॥२६१॥

विशेषार्थ—ये नपुंसकवेदादि सूत्रोक्त प्रकृतियाँ अत्यन्त अप्रशस्त-स्वरूप होनेसे नितरां
महादुःखोत्पादन-स्वभाववाली है । फिर त्रिभुवनमे सातवे नरकसे अधिक दुःख भी और
कहीं नहीं । और नपुंसकवेद, अरति, शोकादिकी उदीरणाके निमित्तकारणरूप अशुभतम वाह्य
द्रव्य सप्तम नरकसे बढ़कर अन्यत्र सम्भव नहीं हैं, इन्हीं सब कारणोंसे उक्त प्रकृतियोंकी
उत्कृष्ट अनुभागउदीरणा सप्तम नरकके सर्वसंक्लिष्ट नारकीके बतलाई गई है ।

शंका—हास्य और रतिप्रकृतिकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा किसके होती है ? ॥१६२॥

समाधान—सर्वाधिक संक्लिष्ट, शतार-सहस्रार-कल्पवासी देवोंके होती है ॥२६३॥

विशेषार्थ—क्योंकि, उक्त राग बहुल देवोंमे हास्य और रतिके कारण प्रचुरतासे पाये
जाते हैं । उक्त देवोंके हास्य-रतिका छह मास तक निरन्तर एक-सा उदय बना रहता है,
अर्थात् वहाँके देव छह मास तक लगातार हँसते हुए रह सकते हैं ।

चूर्णिसू०—अब इससे आगे जघन्य अनुभाग-उदीरणाके स्वामित्वका वर्णन करते
हैं ॥२६४॥

शंका—मिथ्यात्वकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा किसके होती है ? ॥२६५॥

समाधान—(सम्यक्त्व और) संयमको ग्रहण करनेके अभिमुख, सर्वविशुद्ध चरम-
समयवर्ती मिथ्यादृष्टिके होती है ॥२६६॥

शंका—सम्यक्त्वप्रकृतिकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा किसके होती है ? ॥२६७॥

समाधान—एक समय अधिक आवलीकालवाले अक्षीणदर्शनमोह सम्यग्दृष्टिके होती
है, अर्थात् जिसने दर्शनमोहका क्षण प्रारम्भ कर दिया है, पर अभी जिसके क्षयमे एक
समय-अधिक एक आवलीप्रमाण काल बाकी है, ऐसे वेदकसम्यक्त्वकी सम्यक्त्वप्रकृतिकी
जघन्य अनुभाग-उदीरणा होती है ॥२६८॥

१ एदाओ पयडीओ अच्चतअप्पसत्थसरूवाओ, एयंतेण दुक्खुप्पायणसहावत्तादो । तदो एदासिमुदीरणाए
सत्तमपुढवीए चेव उक्कस्ससामित्त होइ; तत्तो अण्णदरस्स दुक्खणिहाणस्स तिहुवणभवणम्मतरे कहि पि
अणुवलभादो, तदुदीरणाकारणवज्झदव्वाण पि असुहयराण तत्थेव बहुल सभवोवलभादो । जयध०

२ कुदो, सदार-सहस्सारदेवेषु रागबहुलेषु हस्स-रदिकारणाण बहूणमुवलभादो । णेदमसिद्ध, उक्कस्तेण
छम्मासमेत्तकाल तत्थ हस्स रदीणमुदयो होदि त्ति परमावगमोवएसवलेण सिद्धत्तादो । जयध०

३ किं कारण, विसोहिपरिसेण अप्पसत्थाण कम्माणमणुभागो सुट्ठु ओहड्डिक्कण हेट्ठिमाणतिम-
भागसरूवेणुदीरिज्जिदि त्ति । तदो सम्मत्त सजम च जुगव गेणहमाणचरिमसमयमिच्छाइड्डिस्स जहण्णसामित्तमेद
दट्ठन्व । जयध०

४ कुदो, दसणमोहक्खवयतिव्वपरिणामेहि वहुअ खंडयवाद् पाविदूण पुणो अतोमुहुत्तमेत्तकालमणु-
६४

२६९. सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णाणुभागुदीरणा कस्स ? २७०. सम्मत्ताहिमुहचरिमसमय-
सम्मामिच्छाइट्ठिस्स सव्वविसुद्धस्स । २७१. अणंताणुवंधीणं जहण्णाणुभागउदीरणा
कस्स ? २७२. संजमाहिमुहचरिमसमयमिच्छाइट्ठिस्स सव्वविसुद्धस्स । २७३. अपच्चक्खाण-
कसायस्स जहण्णाणुभागउदीरणा कस्स ? २७४. संजमाहिमुहचरिमसमय-असंजदसम्मा-
इट्ठिस्स सव्वविसुद्धस्स । २७५. पच्चक्खाणकसायस्स जहण्णाणुभागउदीरणा कस्स ?
२७६. संजमाहिमुहचरिमसमय-संजदासंजदस्स सव्वविसुद्धस्स । २७७. कोहसंजलणस्स
जहण्णाणुभागउदीरणा कस्स ? २७८. खवगस्स चरिमसमयकोधवेदगस्स । २७९.

शंका—सम्यग्मिध्यात्वकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा किसके होती है ? ॥२६९॥

समाधान—सम्यक्त्वको ग्रहण करनेके अभिमुख, सर्व-विशुद्ध चरम समयवर्ती
सम्यग्मिध्यादृष्टिके होती है ॥२७०॥

विशेषार्थ—यहां 'संयमके अभिमुख' ऐसा न कहनेका कारण यह है कि कोई भी
जीव तीसरे गुणस्थानसे सम्यक्त्व और संयमको एक साथ ग्रहण नहीं कर सकता है ।

शंका—अनन्तानुवन्धी कषायकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा किसके होती है ?
॥२७१॥

समाधान—संयमके अभिमुख, सर्व-विशुद्ध चरम समयवर्ती मिध्यादृष्टिके होती
है ॥२७२॥

शंका—अप्रत्याख्यानावरण कषायकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा किसके होती है ?
॥२७३॥

समाधान—संयमके अभिमुख, सर्व-विशुद्ध चरमसमयवर्ती असंयतसम्यग्दृष्टिके होती
है ॥२७४॥

शंका—प्रत्याख्यानावरण कषायकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा किसके होती है ?
॥२७५॥

समाधान—संयमके अभिमुख, सर्व-विशुद्ध, चरमसमयवर्ती संयतासंयतके होती
है ॥२७६॥

शंका—संज्वलन क्रोधकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा किसके होती है ? ॥२७७॥

— समाधान—चरमसमयवर्ती क्रोधका वेदन करनेवाले अनिवृत्तिसंयत क्षपकके होती
है ? ॥२७८॥

समओववृणाए सुट्ठु ओहट्ठिऊण ट्ठिदसम्मत्ताणुभागविसयउदीरणाए तत्थ जहण्णभावसिद्धीए णिव्वाहमुव-
लभादो । एसा समयाहियावलियअक्खीणदसणमोहणीयस्स जहण्णाणुभागुदीरणा एयट्ठाणिया । एत्तो
पुन्विल्लासेसअणुभागुदीरणाओ एयट्ठाणिय-विट्ठाणियसरूवाओ जहाकममणत्तगुणाओ । तदो तप्परिहारेण-
त्येव जहण्णसामिच्च गहिद । जयध०

१ जो खवगो कोधोदण खवगसेट्टिमरूढो, अट्ठकसाए खविय पुणो जहाकममंतरकरणं समाणिय
णत्तुसय-इत्थिवेद-छण्णोकसाए पुरिसवेद च जहावुत्तेण कमेण णिण्णासिय तदो अस्सकण्णकरण-किट्ठीकरणद्धाओ
गमिय कोहतिणिसगहकिट्ठीओ वेदेमाणो तदियसंगहकिट्ठीवेदयपढमट्ठदीए समयाहियावलियमेत्तसेसाए
चरिमसमयकोधवेदगो जादो, तस्स कोहसजलणविसया जहण्णाणुभागुदीरणा होदि, हेट्ठिमासेसउदीरणाहिंत्तो
एट्ठिस्से उदीरणाए अणत्तगुणहीणत्तदंसणादो । जयध०

माणसंजलणस्स जहण्णाणुभागउदीरणा कस्स ? २८०. खवगस्स चरिमसमयमाणवेद-
गस्स । २८१. मायासंजलणस्स जहण्णाणुभागउदीरणा कस्स २८२. खवगस्स चरिम-
समयमायावेदगस्स । २८३. लोहसंजलणस्स जहण्णाणुभागउदीरणा कस्स ? २८४.
खवयस्स समयाहियावलियचरिमसमयसकसायस्स' । २८५. इत्थिवेदस्स जहण्णाणुभाग-
उदीरणा कस्स ? २८६. इत्थिवेदखवगस्स समयाहियावलियचरिमसमयसवेदस्स ।
२८७. पुरिसवेदस्स जहण्णाणुभागउदीरणा कस्स ? २८८. पुरिसवेदखवगस्स समया-
हियावलियचरिमसमयसवेदस्स । २८९. णवुंसयवेदस्स जहण्णाणुभागउदीरणा कस्स ?
२९०. णवुंसयवेदखवयस्स समयाहियावलिय-चरिमसमयसवेदस्स । २९१. छण्णो-
कसायाणं जहण्णाणुभागउदीरणा कस्स ? २९२. खवगस्स चरिमसमय-अपुव्वकरणे
वट्टमाणस्स' ।

शंका—संज्वलनमानकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा किसके होती है ? ॥२७९॥

समाधान—चरमसमयवर्ती मानका वेदन करनेवाले अनिवृत्तिसंयत क्षपकके होती है ॥२८०॥

शंका—संज्वलन मायाकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा किसके होती है ? ॥२८१॥

समाधान—चरमसमयवर्ती माया-वेदक अनिवृत्तिसंयत क्षपकके होती है ॥२८२॥

शंका—संज्वलन लोभकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा किसके होती है ? ॥२८३॥

समाधान—समयाधिक आवलीके चरम समयमे वर्तमान सकपाय (सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानवर्ती) क्षपकके होती है ॥२८४॥

शंका—स्त्रीवेदकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा किसके होती है ? ॥२८५॥

समाधान—समयाधिक आवलीके चरमसमयवर्ती सवेदी स्त्रीवेद-क्षपकके होती है ॥२८६॥

शंका—पुरुषवेदकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा किसके होती है ? ॥२८७॥

समाधान—समयाधिक आवलीके चरमसमयवर्ती सवेदी पुरुषवेद-क्षपकके होती है ॥२८८॥

शंका—नपुंसकवेदकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा किसके होती है ? ॥२८९॥

समाधान—समयाधिक आवलीके चरमसमयवर्ती सवेदी नपुंसकवेद-क्षपकके होती है ॥२९०॥

शंका—हास्यादि छह नोकषायोकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा किसके होती है ॥२९१॥

समाधान—अपूर्वकरण गुणस्थानके अन्तिम समयमे वर्तमान क्षपकके होती है ॥२९२॥

१ कुदो, समयाहियावलियचरिमसमयवट्टमाण सुहुमसापराह्यखवगस्स सुहुमकिट्टिसरूवाणुभागोदीरणाए सुट्टु जहण्णभावोववत्तीदो । जयध०

२ कुदो; तत्थेदेसिमपुव्वकरणचरिमविसोहीए हेट्टिठ्ठासासेसविसोहीहिंत्तो अणत्तगुणाए उदीरिज्जमाणा-
णुभागस्स सुट्टु जहण्णाणुभावोववत्तीदो । जयध०

२९३. एगजीवेण कालो । २९४. मिच्छत्तस्स उक्कस्साणुभागउदीरगो केवचिरं कालादो होइ ? २९५. जहण्णेण एगसमओ^१ । २९६. उक्कस्सेण वे समया^२ । २९७. अणुक्कस्साणुभागुदीरगो केवचिरं कालादो होदि ? २९८. जहण्णेण एगसमओ^३ । २९९. उक्कस्सेण असंखेज्जा पोग्गलपरियड्ढा^४ ।

विशेषार्थ—तीनो वेदोंमेंसे विवक्षित वेदके उदयसे क्षपकश्रेणी पर चढ़कर नवें गुणस्थानके सवेद भागके एक समय अधिक आवलीके अन्तिम समयमें वर्तमान जीवके उस उस विवक्षित वेदकी जवन्य अनुभाग-उदीरणा होती है ।

चूर्णिसू०—अब एक जीवकी अपेक्षा अनुभाग-उदीरणाके कालका वर्णन करते हैं ॥ २९३ ॥

शंका—मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागकी उदीरणाका कितना काल है ? ॥ २९४ ॥

समाधान—जवन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल दो समय है । (क्योंकि, इससे अधिक उत्कृष्ट संक्लेश संभव नहीं ।) ॥ २९५-२९६ ॥

शंका—मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट अनुभागकी उदीरणाका कितना काल है ? ॥ २९७ ॥

समाधान—जवन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन है ॥ २९८-२९९ ॥

विशेषार्थ—उत्कृष्ट स्थितिवन्धके कारणभूत एक उत्कृष्ट कपायाध्यवसायस्थानके असंख्यात लोकप्रमाण अनुभागवन्धके योग्य अध्यवसायस्थान होते हैं । जो जीव उत्कृष्ट अनुभागवन्धके योग्य उत्कृष्ट संक्लेशसे परिणत होकर और उत्कृष्ट अनुभागकी उदीरणा करके परिणामोके वशसे तदनन्तर ही एक समय अनुत्कृष्ट अनुभागकी उदीरणा करके फिर भी तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त होकर उत्कृष्ट अनुभागकी उदीरणा करनेवाला हुआ । इस प्रकार मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट अनुभागकी उदीरणाका जवन्यकाल एक समयमात्र सिद्ध हो गया । यहाँ यह शंका नहीं करना चाहिए कि उत्कृष्ट संक्लेशसे गिरे हुए जीवके अन्तर्मुहूर्तके विना केवल एक समयमें ही पुनः उत्कृष्ट संक्लेशका होना कैसे सम्भव है ? इसका कारण यह है कि अनुभागवन्धाध्यवसायस्थानोंमें इस प्रकारका कोई नियम नहीं माना गया

१ त जहा—अणुक्कस्साणुभागुदीरगो सण्णिमिच्छाइट्ठी एगसमय उक्कस्ससकिलेसेण परिणमिय उक्कस्साणुभागउदीरगो जादो । विदियसमए उक्कस्ससकिलेसक्खएणाणुक्कस्सभावमुवगओ । लद्धो तस्स मिच्छत्तुक्कस्साणुभागोदीरण कालो एगसमयमेत्तो । जयध०

२ त कय ? अणुक्कस्साणुभागुदीरगो उक्कस्ससतकम्मिओ उक्कस्ससकिलेसमावूरिय दोसु समएसु मिच्छत्तस्स उक्कस्साणुभागुदीरगो जादो । तदो से काले सकिलेसपरिक्खएणाणुक्कस्सभावे णिवदिदो । लद्धो मिच्छत्तुक्कस्साणुभागु दीरणस्स उक्कस्सकालो विसमयमेत्तो, तत्तो परमुक्कस्ससकिलेसस्सावट्ठाणाभावादो । जयध०

३ कयमुक्कस्ससकिलेसादो पडिभग्गस्स अतोसुहुत्तेण विणा एगसमयेणेव पुणो उक्कस्ससकिलेसावूरण-सभवो त्ति णेहासकणिज्ज; अणुभागवधज्जवसाणट्ठाणेसु तहाविहणियमाणम्भुवगमादो । जयध०

४ कुदो, पच्चिदिपहितो एइदिएसु पइट्ठस्स उक्कस्ससकिलेसपडिलभेण विणा आवलियाए असंखेज्ज-दिभागमेत्तपोग्गलपरियट्ठेसु परिब्भमणदसणादो । जयध०

३००. सम्मत्तस्स उक्कस्साणुभागुदीरगो केवचिरं कालादो होदि ? ३०१. जहण्णुक्कस्सेण एगसमयो^१ । ३०२. अणुक्कस्साणुभाग-उदीरगो केवचिरं कालादो होदि ? ३०३. जहण्णेण अंतोमुहुत्तं^२ । ३०४. उक्कस्सेण छावट्टिसागरोवमाणि आवलियूणाणि^३ । ३०५. सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्साणुभागउदीरगो केवचिरं कालादो होदि ? ३०६. जहण्णुक्कस्सेण एयसमयो^४ ।

है । मिथ्यात्वकी अनुत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणाका उत्कृष्टकाल आवलीके असंख्यातवे भागमात्र पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण माना गया है । क्योंकि, पंचेन्द्रियोंसे आकर एकेन्द्रियोमे उत्पन्न हुए जीवोंके उत्कृष्ट संक्लेशके प्राप्त हुए विना असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनकाल तक परिभ्रमण देखा जाता है ।

शंका—सम्यक्त्वप्रकृतिकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणाका कितना काल है ? ॥३००॥

समाधान—जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समयमात्र है ॥३०१॥

विशेषार्थ—क्योंकि, मिथ्यात्वके अभिमुख, सर्वाधिक संक्लिष्ट असंयतसम्यग्दृष्टिके अन्तिम समयको छोड़कर अन्यत्र सम्यक्त्व-प्रकृतिकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणाका होना सम्भव नहीं है ।

शंका—सम्यक्त्वप्रकृतिकी अनुत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणाका कितना काल है ? ॥३०२॥

समाधान—जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टकाल आवली कम छयासठ सागरोपम है ॥३०३-३०४॥

विशेषार्थ—वेदकसम्यक्त्वको ग्रहण कर सर्वजघन्य अन्तर्मुहूर्तके पश्चात् ही मिथ्यात्वको प्राप्त होनेपर सम्यक्त्वप्रकृतिकी अनुत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणाका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्तप्रमाण ही पाया जाता है । सम्यक्त्वप्रकृतिकी अनुत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणाका उत्कृष्टकाल एक आवली कम छयासठ सागरोपम है । इसका कारण यह है कि वेदक-सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल ही इतना माना गया है । एक आवली कम कहनेका अभिप्राय यह है कि वेदकसम्यक्त्वके छयासठ सागरोपमकालके पूरा होनेमे अन्तर्मुहूर्त शेष रह जानेपर दर्शनमोहनीयको क्षपण करनेवाले जीवके सम्यक्त्वकी प्रथम स्थितिके समयाधिक आवलीप्रमाण शेष रह जानेपर सम्यक्त्वप्रकृतिकी उदीरणाका अवसान होता है ।

शंका—सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणाका कितना काल है ? ॥३०५॥

समाधान—जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है ॥३०६॥

१ कुदो; मिच्छत्ताहिमुहसव्वसकिलिट्ठासजदसम्मादिट्ठिचरिससमय मोत्तूणण्णस्य सम्मत्तुक्कस्साणु-भागुदीरणाए सभवाणुवलभादो । जयध०

२ कुदो, वेदगसम्मत्त वेत्तूण सव्वजहण्णतोमुहुत्तेण कालेण मिच्छत्त पडिन्नणम्मि अणुक्कस्सजहण्ण-कालस्स तप्पमाणत्तोवलभादो । जयध०

३ कुदो; वेदगसम्मत्तउक्कस्सकालस्सावलियूणस्स पयदुक्कस्सकालत्तेणावलवियत्तादो । कुदो आवलि-यूणत्तमिदि चे छावट्ठिसागरोवमाणमवसाणे अंतोमुहुत्तसेसे दसणमोहणीय खवेतस्स सम्मत्तपढमट्ठिदीए समयाहियावलियमेत्तसेसाए सम्मत्तुदीरणाए पजवसाणं होइ, तेणावलियूणत्तमेत्थ दट्ठव्वमिदि । जयध०

४ किं कारणं, सव्वुक्कस्ससकिलेसेण मिच्छत्त पडिवजमाणसम्मामिच्छाइट्ठिचरिससमए चेव सम्मामिच्छत्त क्कस्साणुभागुदीरणदसणादो । जयध०

३०७. अणुकस्साणुभागुदीरगो केवचिरं कालादो होदि ? ३०८ जहणुकस्सेण अंतोमुहुत्तं^१ । ३०९. सेसाणं कम्माणं मिच्छत्तभंगो । ३१०. णवरि अणुकस्साणु-भागुदीरग-उकस्सकालो पयडिकालो कादव्वो ।

३११. एत्तो जहणगो कालो । ३१२. सव्वासिं पयडीणं जहण्णाणुभाग-उदीरगो केवचिरं कालादो होदि ? ३१३. जहणुकस्सेण एगसमओ । ३१४. अजहण्णा-णुभागुदीरणा पयडि-उदीरणाभंगो ।

३१५. अंतरं । ३१६. मिच्छत्तस्स उकस्साणुभागुदीरगंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ३१७. जहणेण एगसमओ^२ । ३१८. उकस्सेण असंखेज्जा पोग्गलपरियट्ठा^३ ।

विशेषार्थ—क्योकि, सर्वोत्कृष्ट संक्लेशसे मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाले सम्यग्मिथ्या-दृष्टिके चरम समयमे ही सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा होती है ।

शंका—सम्यग्मिथ्यात्वकी अनुत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणाका कितना काल है ? ॥ ३०७ ॥

समाधान—जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है । (क्योकि, तीसरे गुणस्थानका उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्तप्रमाण ही माना गया है ।) ॥ ३०८ ॥

चूर्णिसू०—मोहकी शेष पच्चीस कर्मप्रकृतियोंकी अनुभाग-उदीरणाका काल मिथ्यात्वके समान जानना चाहिए । विशेषता केवल यह है कि उक्त पच्चीसो प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणाके उत्कृष्टकालका निरूपण प्रकृति-उदीरणाके उत्कृष्टकालके समान करना चाहिए ॥ ३०९-३१० ॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे जघन्य अनुभाग-उदीरणाका काल कहते हैं ॥ ३११ ॥

शंका—मोहकर्मकी सर्वप्रकृतियोंके जघन्य-अनुभागकी उदीरणाका कितना काल है ? ॥ ३१२ ॥

समाधान—जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है ॥ ३१३ ॥

विशेषार्थ—क्योकि, सम्यक्त्व और संयमको एक साथ ग्रहण करके सम्मुख चरम-समयवर्ती मिथ्यादृष्टि ही जघन्य अनुभाग-उदीरणाका स्वामी बतलाया गया है ।

चूर्णिसू०—मोहकर्मकी सभी प्रकृतियोंके जघन्य अनुभाग-उदीरणाका काल प्रकृति-उदीरणाके कालके समान है ॥ ३१४ ॥

चूर्णिसू०—अब एक जीवकी अपेक्षा अनुभाग-उदीरणाके अन्तरको कहते हैं ॥ ३१५ ॥

शंका—मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागकी उदीरणाका अन्तरकाल कितना है ? ॥ ३१६ ॥

समाधान—जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन है ॥ ३१७-३१८ ॥

१ कुदो; जहणुकस्ससम्मामिच्छत्तगुण कालदस तप्पमाणत्तादो । जयघ०

२ कुदो, उकस्सादो अणुकस्सभावं गत्थेगममयमतरिय पुणो वि विदियसमए उकस्सभावमुवगा-यम्मि तदुवलमादो । जयघ०

३ कुदो सग्गिपंचिदिएसुकस्ससकिल्लेणुकस्साणुभागुदीरणाए आदि कादूणतरिय एइदिएसु

३१९. अणुकस्साणुभागुदीरगंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ३२० जहण्णेण एगसमओ ।
 ३२१. उक्कस्सेण वे छावड्डिसागरोवमाणि सादिरेयाणि । ३२२. एवं सेसाणं कम्माणं
 सम्पत्त-सम्पामिच्छत्तवज्जाणं । ३२३. णवरि अणुकस्साणुभागुदीरगंतरं पयडिअंतरं का-
 यव्वं । ३२४. सम्पत्त-सम्पामिच्छत्ताणमुक्कस्साणुकस्साणुभागुदीरगंतरं केवचिरं कालादो
 होदि ? ३२५ जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । ३२६ उक्कस्सेण अद्धपोग्गलपरियट्ठं देसुणं ।

विशेषार्थ—उत्कृष्ट अन्तरका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—कोई एक जीव, संज्ञी पंचेन्द्रियोमे उत्कृष्ट संक्लेशसे उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा प्रारम्भ करके अन्तरको प्राप्त होकर एकेन्द्रियोमे उत्पन्न हो, उनकी असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण उत्कृष्ट स्थितिको पालन करके पुनः वहाँसे लौटकर त्रसोमे उत्पन्न होकर उत्कृष्ट संक्लेशसे उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणाका पुनः प्रारम्भ करनेवाले जीवमे असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन प्रमाण उत्कृष्ट अन्तर-काल पाया जाता है ।

शंका—मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणाका अन्तरकाल कितना है ? ॥ ३१९ ॥

समाधान—जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल सातिरेक दो वार छयासठ सागरोपम है ॥ ३२०-३२१ ॥

विशेषार्थ—मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागउदीरणाके उत्कृष्ट अन्तरकी प्ररूपणा इस प्रकार है—कोई जीव मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट अनुभागकी उदीरणा करता हुआ प्रथमोपशम-सम्यक्त्वके अभिमुख होकर मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिके आवलीमात्र शेष रह जाने पर अनु-दीरक वनके अन्तरको प्राप्त हुआ और सम्यक्त्वको उत्पन्न कर तथा सर्वोत्कृष्ट उपशम-सम्यक्त्वका काल विताकर वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । वहाँ अन्तर्मुहूर्त कम छयासठ सागरोपम पूरा करके अन्तमे सम्यग्मिथ्यात्वके उदयसे गिरा और अन्तर्मुहूर्त अन्तरको प्राप्त होकर फिर भी वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त होकर और दूसरी वार छयासठ सागरोपम परिभ्रमण करके अन्तर्मुहूर्तकालके शेष रह जानेपर मिथ्यात्वमे जाकर मिथ्यादृष्टि होनेके प्रथम समयमे मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट अनुभागकी उदीरणा करनेवाला हुआ । इस प्रकार सूत्रोक्त अन्तरकाल सिद्ध हो जाता है ।

चूर्णिसू०—इसी प्रकार सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वको छोड़कर शेष कर्मोंकी अनुभाग-उदीरणाके अन्तरकी प्ररूपणा करना चाहिए । केवल अनुत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणाके अन्तरकी प्ररूपणा प्रकृति-उदीरणाकी अन्तर-प्ररूपणाके समान जानना चाहिए ॥ ३२२-३२३ ॥

शंका—सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणाका अन्तरकाल कितना है ? ॥ ३२४ ॥

समाधान—जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल देशोन अर्ध-पुद्गलपरिवर्तन प्रमाण है ॥ ३२५-३२६ ॥

पविसिय तदुक्कस्सट्ठिदिमैत्तमुक्कस्सतरमणुपालिय पुणो वि पडिणियत्तिय तसेसु आगतूण पडिवण्णतम्भा-
 वम्मि तदुवलंभादो । जयघ०

३२७. जहण्णाणुभागुदीरगंतरं केसिंचि अत्थि, केसिंचि णत्थि' ।

३२८. णाणाजीवेहि भंगविचओ भागाभागो परिमाणं खेत्त' फोसणं कालो अंतरं सण्णियासो च एदाणि कादव्वाणि ।

३२९. अप्पावहुअं ३३०. सव्वतिव्वाणुभागा मिच्छत्तस्स उक्कस्साणुभागु-दीरणा' । ३३१. अणंताणुवंधीणमण्णदरा उक्कस्साणुभागुदीरणा तुच्छा अणंतगुणहीणा' ।

विशेषार्थ—प्रथमोपशम सम्यक्त्वको प्राप्त होकर उसके छूट जानेके पश्चात् जीव अधिकसे अधिक उक्त प्रकृतियोंके अनुभाग-उदीरणाके अन्तरभावको कुछ अन्तर्मुहूर्त कम अर्धपुद्गलपरिवर्तन तक धारण कर सकता है ।

चूर्णिसू०—जघन्य अनुभागकी उदीरणाका अन्तर कितने ही जीवोंके होता है और कितने ही जीवोंके नहीं होता है ॥ ३२७ ॥

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि क्षपकश्रेणीमें और दर्शनमोहनीयकी क्षपणामे प्राप्त होनेवाले जघन्य अनुभाग-उदीरणाके स्वामियोंके अन्तरके अभावका नियम देखा जाता है । किन्तु अनन्तानुवन्धी आदि कपायोंके जघन्य अनुभाग-उदीरणाका अन्तर पाया जाता है, सो आगमानुसार जानना चाहिए ।

चूर्णिसू०—ताना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर और सन्निकर्ष इतने अनुयोगद्वारासे अनुभाग-उदीरणाकी प्ररूपणा करना चाहिए ॥ ३२८ ॥

विशेष जिज्ञासुओंको उच्चारणाचार्यके उपदेशके बल पर लिखी गई जयधवला टीका देखना चाहिए ।

चूर्णिसू०—अब अनुभाग-उदीरणासम्बन्धी अल्पबहुत्वको कहते हैं—मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा सबसे अधिक तीव्र अनुभागवाली होती है । (क्योंकि, वह सर्व-द्रव्योंके विषयभूत श्रद्धानकी प्रतिबन्धक है ।) अनन्तानुवन्धी कपायोंमेंसे किसी एक कपायकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा परस्परमें समान होते हुए भी मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट अनुभागसे अनन्तगुणी हीन है । (क्योंकि मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागसे अनन्तानुवन्धी कपायोंका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणित हीनस्वरूपसे ही अवस्थित देखा जाता है ।) संज्वलन कपायोंमेंसे किसी एक कपायकी उत्कृष्ट अनुभाग उदीरणा परस्परमें

१ कुदो, खवगसेटीए दसणमोहकखवणाए च लद्धजहणसामित्ताणमतराभावणियमदसणादो । जयध०

२ कुदो, सव्वदव्वविसयसदहणगुणपडिन्नघित्तादो । जयध०

३ कुदो; मिच्छत्तुक्कस्साणुभागादो एदेसिमुक्कस्साणुभागास्स अण तगुणहीणसरूवेणावट्ठाणदसणादो । एत्थ अणताणुवविमाणादीणमणुभागुदीरणा सत्थाणे समाणा त्ति ज भण्णिद, तण्ण घड्ढे । किं कारण ? विसेसाहियसत्त्वेणेदेनिमणुभागमतक्कम्मत्सावट्ठाणदसणादो ? ण एस दोसो; विसेसाहियसत्कम्मादो विसेस-दीणसत्कम्मादो च समाणपरिणामणिवधणा उदीरणा सरिसी होटि त्ति अब्भुवगमादो । एसो अत्थो उवरि संजलणादिकसाएनु वि जोजेयन्वो । जयध०

३३२. संजलणाणमण्णदरा उक्कस्साणुभागुदीरणा अणंतगुणहीणा^१ । ३३३. पच्चक्खाणा-
वरणीयाणमुक्कस्साणुभागुदीरणा अण्णदरा अणंतगुणहीणा^२ । ३३४. अपच्चक्खाणावरणी-
याणमुक्कस्साणुभागुदीरणा अण्णदरा अणंतगुणहीणा^३ ।

३३५. णवुंसयवेदस्स उक्कस्साणुभागुदीरणा अणंतगुणहीणा^४ । ३३६. अरदीए

समान होते हुए भी अनन्तानुबन्धी किसी एक कपायकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणासे अनन्त-
गुणी हीन है । (क्योकि, सम्यक्त्व और चारित्रकी घातक अनन्तानुबन्धी कपायके उत्कृष्ट
अनुभागसे केवल चारित्रका ही घात करनेवाली संज्वलनकपायका उत्कृष्ट भी अनुभाग अनन्त-
गुणित हीन ही पाया जाता है ।) प्रत्याख्यानावरणीय कपायोमेसे किसी एक कपायकी
उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा परस्परमे समान होते हुए भी किसी एक संज्वलन कपायकी उत्कृष्ट
अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी हीन है । (क्योकि, यथाख्यातसंयमके विरोधी संज्वलन
कपायोके अनुभागको देखते हुए क्षायोपशमिक संयमके प्रतिबन्धक प्रत्याख्यानावरणीय कपायके
अनुभागका अनन्तगुणित हीन होना न्यायसंगत ही है ।) अप्रत्याख्यावरणीय कपायोमेसे
किसी एक कपायकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा परस्परमे समान होते हुए भी किसी एक
प्रत्याख्यानावरणीय कपायकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी हीन है ॥ ३२९-३३४ ॥

विशेषार्थ—सकल संयमके घातक प्रत्याख्यानावरणीय कपायके उत्कृष्ट अनुभागसे
देशसंयमके घातक अप्रत्याख्यानावरणीय कपायके उत्कृष्ट अनुभागका अनन्तगुणित हीन
होना स्वाभाविक ही है । यहाँ यह शंका की जा सकती है कि जब अनन्तानुबन्धी आदि
कपायोंका अनुभाग-सत्त्व स्वस्थानमे विशेषाधिक है, अर्थात् अनन्तानुबन्धी मानके अनुभाग-
सत्त्वसे उसीके क्रोधका अनुभाग-सत्त्व विशेष अधिक होता है । इससे इसीकी मायाका
अनुभाग-सत्त्व विशेष अधिक होता है और लोभका विशेष अधिक होता है । यही क्रम चारो
जातिकी कपायोके लिए वतलाया गया है, तो फिर यहाँ चूर्णिकारने उक्त कपायोकी अनुभाग-
उदीरणा स्वस्थानमे परस्पर तुल्य कैसे कही ? इस शंकाका समाधान यह है कि अनुभाग-
सत्त्वके उत्तरोत्तर विशेष अधिक होनेपर भी समान परिणामके निमित्तसे होनेवाली अनुभाग-
उदीरणा समान ही होती है, ऐसा अर्थ आगममे स्वीकार किया गया है । अतएव उक्त
कपायोकी अनुभाग-उदीरणा स्वस्थानमे समान पाई जाती है ।

चूर्णिसू०—नपुंसक वेदकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा अप्रत्याख्यानावरणीय किसी

१ कुदो; दसण-चरित्तपडिवधिअणताणुवधीणमुक्कस्साणुभागुदीरणादो चरित्तमेत्तपडिवधीण सजल-
णाणमुक्कस्साणुभागुदीरणाए अणंतगुणहीणत्त पडि विरोहाभावादो । जयध०

२ कुदो; जहाक्खादसजमविरोहिसजलणाणुभाग पेक्खियूण खयोवसमियसजमप्पडिवधिपच्चक्खाण-
कसायस्साणुभागस्साणतगुणहीणत्तसिद्धीए णाइयत्तादो । जयध०

३ किं कारण, सयलसजमघादिपच्चक्खाणकसायाणुभागादो देससजमविरोहि-अपच्चक्खाणाणुभाग-
स्साणतगुणहीणसरूवेणावट्ठाणदसणादो । जयध०

४ कुदो, कसायाणुभागादो णोकसायणुभागस्साणतगुणहीणत्तसिद्धीए णाइयत्तादो । जयध०

उक्कस्साणुभागुदीरणा अणंतगुणहीणा^१ । ३३७. सोमस्स उक्कस्साणुभागुदीरणा अणंतगुणहीणा^१ । ३३८. भये उक्कस्साणुभागुदीरणा अणंतगुणहीणा^१ । ३३९. दुगुंछाए उक्कस्साणुभागुदीरणा अणंतगुणहीणा^१ । ३४०. इत्थिवेदस्स उक्कस्साणुभागुदीरणा अणंतगुणहीणा^१ । ३४१. पुरिसवेदस्स उक्कस्साणुभागुदीरणा अणंतगुणहीणा^१ । ४४२. रदीए उक्कस्साणुभागुदीरणा अणंतगुणहीणा^१ । ३४३. हस्से उक्कस्साणुभागुदीरणा

एक कपायकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी हीन है । (क्योकि, कपायोके अनुभागमें नोकेपायोके अनुभागका अनन्तगुणित हीन होना न्याय-प्राप्त है ।) अरतिकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट अनुभाग उदीरणासे अनन्तगुणी हीन है । (क्योकि, अरति प्रकृतिकी अनुभाग-उदीरणा तो केवल अरतिभावको ही उत्पन्न करती है, किन्तु नपुंसकवेदकी अनुभाग-उदीरणा इष्टपाक-ईटोके पंजावा-के समान निरन्तर प्रज्वलित परिणामोको उत्पन्न करती है, अतएव नपुंसकवेदसे अरतिकी अनुभाग-उदीरणाका अनन्तगुणित हीन होना उचित ही है ।) शोककी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा अरतिकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी हीन है । (क्योकि अरतिपूर्वक ही शोक होता है ।) भयकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा शोककी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी हीन है । (क्योकि, शोकके उदयके समान भयका उदय बहुत काल तक दुःख उत्पादन करनेमें असमर्थ है ।) जुगुप्साकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा भयकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी हीन है । (क्योकि, भयके उदयके समान जुगुप्साके उदयसे किसीका मरण नहीं देखा जाता है ।) स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा जुगुप्साकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी हीन है । (क्योकि, जुगुप्साके उदयकी अपेक्षा स्त्रीवेदके उदयके प्रशस्तपना देखा जाता है । पुरुषवेदकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी हीन है । (क्योकि, कारीप (गोबरके कण्डा) की अग्निसे पलाल (धान्यके घास) की अग्नि हीन दहन-शक्तिवाली होती है ।) रतिकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा पुरुषवेदकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी हीन होती है । (क्योकि, पुरुषवेदके उदयके समान रतिकर्मके उदयमें सन्ताप उत्पन्न करनेकी शक्तिका अभाव है ।) हास्यकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा रतिकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी हीन है । (क्योकि यह रतिपूर्वक होती है ।) सम्यग्मिध्यात्वकी

१ कुदो, अरदिमेत्तुकारणत्तादो । णवुसयवेदाणुभागो पुण इट्ठवागग्गिसमाणो त्ति । जयध०

२ कुदो, अरदिपुरगमत्तादो । जयध०

३ कुदो; सोगोदयस्सेव भयोदयस्स बहुकालपडिन्नद्धुक्खुप्पायणसत्तीए अभावादो । जयध०

४ कुदो, भयोदएणेव दुगुल्लोदएण मरणाणुवलभादो । जयध०

५ कुदो, पुव्वित्तल पेक्खिज्जणेदस्स पसत्थभावोवलभादो । जयध०

६ कुदो; इत्थिवेदो कारिसग्गिसमाणो । पुरिसवेदो पुण पलालग्गिसमाणो, तेणाणत्तगुणहीणो जादो । जयध०

७ कुदो, पुवेदोदयस्सेव रदिकम्मोदयस्स संतापजणणसत्तीए अभावादो । जयध०

अणंतगुणहीणा' । ३४४. सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्साणुभागुदीरणा अणंतगुणहीणा' ।
३४५. सम्मत्ते उक्कस्साणुभागुदीरणा अणंतगुणहीणा' ।

३४६. जहण्णाणुभागुदीरणा । ३४७. सञ्चमंदाणुभागा लोभसंजलणस्स
जहण्णाणुभागुदीरणा' । ३४८. मायासंजलणस्स जहण्णाणुभागुदीरणा अणंतगुणा' ।
३४९. माणसंजलणस्स जहण्णाणुभागुदीरणा अणंतगुणा' । ३५०. क्रोहसंजलणस्स
जहण्णाणुभागुदीरणा अणंतगुणा । ३५१. सम्मत्ते जहण्णाणुभागुदीरणा अणंतगुणा' ।
३५२. पुरिसवेदे जहण्णाणुभागुदीरणा अणंतगुणा' । ३५३. इत्थिवेदे जहण्णाणुभागु-

उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा हास्यकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी हीन है । (क्योंकि,
सम्यग्मिध्यात्वका अनुभाग सर्वघाती होनेपर भी द्विस्थानीय ही है ।) सम्यक्त्वप्रकृतिकी
उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा सम्यग्मिध्यात्वकी अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी हीन है ।
क्योंकि, इस सम्यक्त्वप्रकृतिका अनुभाग द्विस्थानीय होनेपर भी देशघाती ही है ॥ ३३५-३४५ ॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे जघन्य अनुभाग-उदीरणाका अल्पवहुत्व कहा जाता
है—संज्वलन लोभकपायकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा सबसे मन्द अनुभागवाली होती है ।
मायासंज्वलनकी जघन्य अनुभाग उदीरणा लोभसंज्वलनकी जघन्य अनुभाग उदीरणासे
अनन्तगुणी है । मानसंज्वलनकी जघन्य अनुभाग उदीरणा माया संज्वलनकी जघन्य अनुभाग-
उदीरणासे अनन्तगुणी है । क्रोधसंज्वलनकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा मायासंज्वलनकी जघन्य
अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी है । सम्यक्त्वप्रकृतिकी जघन्य अनुभाग उदीरणा क्रोध-
संज्वलनकी जघन्य अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी है । पुरुषवेदकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा
सम्यक्त्वप्रकृतिकी जघन्य अनुभाग उदीरणासे अनन्तगुणी है । स्त्रीवेदकी जघन्य अनुभाग-
उदीरणा पुरुषवेदकी जघन्य अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी है । नपुंसकवेदकी जघन्य
अनुभाग-उदीरणा स्त्रीवेदकी जघन्य अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी है । हास्यकी जघन्य

१ कुदो, रदिपुरंगमत्तादो । जयध०

२ कुदो, विट्ठाणियत्तादो । जयध०

३ कुदो; देसघादिविट्ठाणियसरूवत्तादो । जयध०

४ कुदो; सुहुमकिट्ठीए अतोमुहुत्तमणुसमयोवट्ठणाए सुट्ठु जहण्णभाव पत्ताए पडिलद्धजहण्ण-
भावत्तादो । जयध०

५ कुदो; वादरकिट्ठिसरूवेण चरिमसमयमायावेदगम्मि पडिलद्धजहण्णभावत्तादो । जयध०

६ कुदो; पुव्विल्लसामित्तविसयादो अतोमुहुत्तमोसरिदूणट्ठिदचरिमसमयमाणवेदगम्मि पुव्विल्लकिट्ठि-
अणुभागादो अणतगुणमाणतदियसगहकिट्ठि-अणुभाग वेत्तूण जहण्णसामित्तविहाणादो । जयध०

७ किं कारण, किट्ठिअणुभागादो अणतगुणकह्यगदाणुभागमेगट्ठाणिय वेत्तूण समयाहियावलिय-
चरिमसमयअक्खीणदसणमोहणीयम्मि जहण्णसामित्तपडिलभादो । जयध०

८ त जहा—चरिमसमयसवेदएण वद्धपुरिसवेदणवकवधाणुभागो समयाहियावलियअक्खीणदसणमोहणी-
यस्स सम्मत्तजहण्णाणुभागसकमादो अणतगुणो होदि त्ति सकमे भणिद । एदम्हादो पुण चरिमसमय-
णवकवधादो तत्थेव पुरिसवेदस्स जहण्णाणुभागोदयो अणतगुणो । पुणो एदम्हादो वि उदयादो समयाहिया-
वलियचरिमसमयसवेदस्स पुरिसवेदजहण्णाणुभागुदीरणा अणतगुणा । जयध०

दीरणा अणंतगुणा^१ । ३५४. णवुंसयवेदे जहण्णाणुभागुदीरणा अणंतगुणा^१ । ३५५. हस्से जहण्णाणुभागुदीरणा अणंतगुणा^३ । ३५६. रदीए जहण्णाणुभागुदीरणा अणंतगुणा । ३५७. दुगुंछाए जहण्णाणुभागुदीरणा अणंतगुणा । ३५८. भये जहण्णाणुभागुदीरणा अणंतगुणा । ३५९. सोमस्स जहण्णाणुभागुदीरणा अणंतगुणा । ३६०. अरदीए जहण्णाणुभागुदीरणा अणंतगुणा । ३६१. पच्चक्खाणावरणजहण्णाणुभागुदीरणा अण्णदरा अणंतगुणा^१ । ३६२. अपच्चक्खाणावरणजहण्णाणुभागुदीरणा अण्णदरा अणंतगुणा^१ । ३६३. सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णाणुभागुदीरणा अणंतगुणा^१ । ३६४. अणंता-

अनुभाग-उदीरणा नपुंसकवेदकी जघन्य अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी है । रतिकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा हास्यकी जघन्य अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी है । जुगुप्साकी जघन्य अनुभाग उदीरणा रतिकी जघन्य अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी है । भयकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा जुगुप्साकी जघन्य अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी है । शोककी जघन्य अनुभाग-उदीरणा भयकी जघन्य अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी है । अरतिकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा शोककी जघन्य अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी है । प्रत्याख्यानावरणीय किसी एक कषायकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा अरतिकी जघन्य अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी है । अप्रत्याख्यानावरणीय किसी एक कषायकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा प्रत्याख्यानावरणीय किसी एक कषायकी जघन्य-अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी हीन है । सम्यग्मिध्यात्वकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा अप्रत्याख्यानावरणीय किसी एक कषायकी जघन्य अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी हीन है । अनन्तानुवन्धी किसी एक कषायकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा सम्यग्मिध्यात्वकी जघन्य अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी है । मिध्यात्वकी अनुभाग-उदीरणा

१ किं कारण, पुरिसवेदजहण्णसामित्तविसयादो हेट्ठा अतोमुहुत्तमोदरियूण समयाहियावलियचरिमसमयइत्थिवेदस्ववगम्मि जहण्णसमित्तपडिलभादो । जयध०

२ जइवि दोण्हमेदेसि सामित्तविसयो समाणो, एगट्ठाणिया च दोण्हमणुभागुदीरणा पडिसमयमणतगुणहाणीए पडिलद्धजहण्णभावा, तो वि पुव्विल्लादो एदस्स पयडिमाहप्पेणतगुणत्तमविरूद्ध दट्ठव्व । जयध०

३ किं कारण, अणियडिपरिणामादो अणतगुणहीण चरिमसमयापुव्वकरणविसोहीए देसघादिविट्ठाणियसरूवेण हस्साणुभागुदीरणाए जहण्णभावोवलंभादो । जयध०

४ त जहा-छण्णोकसायाणमणुभागुदीरणा अपुव्वकरणपरिणामेहिं बहुअ घादं पावेदूण चरिमसमयापुव्वकरणविसोहीए देसघादिसरूवेण जहण्णभाव पत्ता । पच्चक्खाणावरणीयाणं पुण अपुव्वकरणविसोहीदो अणतगुणहीणसजदासंजदचरिमविसोहीए जहण्णसामित्त जाद । सव्वघादिसरूवा च एदेसि जहण्णाणुभागुदीरणा, ततो अणतगुणा जादा । जयध०

५ कुदो, सजमाहिमुहचरिमसमयअसजदसम्माइट्ठिविसोहीए पुव्विल्लविसोहीदो अणतगुणहीणसरूवाए पत्तजहण्णभावत्तादो । जयध०

६ कुदो, सव्वघादिविट्ठाणियत्ताविसेसेवि पुव्विल्लदो एदस्स विसोहिपाहम्मणेणतगुणत्तसिद्धीए गिन्वाहमुवलंभादो । जयध०

णुबंधीणं जहण्णाणुभागुदीरणा अण्णदरा अणंतगुणा^१ । ३६५, मिच्छत्तस्स जहण्णाणु-
भागुदीरणा अणंतगुणा^२ । ३६६, एवमोघजहण्णओ समत्तो ।

३६७, णिरयगदीए सव्वमंदाणुभागा सम्मत्तस्स जहण्णाणुभागुदीरणा^३ ।
३६८, हस्सस्स जहण्णाणुभागउदीरणा अणंतगुणा^४ । ३६९, रदीए जहण्णाणुभागुदीरणा
अणंतदुगुणा । ३७०, दुगुंछाए जहण्णाणुभागुदीरणा अणंतगुणा । ३७१, भयस्स जह-
ण्णाणुभागुदीरणा अणंतगुणा । ३७२, सोगस्स जहण्णाणुभागुदीरणा अणंतगुणा ।
३७३, अरदीए जहण्णाणुभागुदीरणा अणंतगुणा । ३७४, णवुंसयवेदे जहण्णाणुभागु-
दीरणा अणंतगुणा । ३७५, संजलणस्स जहण्णाणुभागुदीरणा अण्णदरा अणंतगुणा^५ ।
३७६, अपच्चक्खाणावरण-जहण्णाणुभागुदीरणा अण्णदरा अणंतगुणा^६ । ३७७, पच्चक्खा-

अनन्तानुवन्धी किसी एक कपायकी जघन्य अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी है । इस प्रकार ओघकी अपेक्षा जघन्य अनुभाग-उदीरणाका वर्णन समाप्त हुआ ॥ ३४६-३६६ ॥

अथ आदेशकी अपेक्षा जघन्य अनुभाग-उदीरणाका वर्णन करते हैं—

चूर्णिसू०—नरकगतिमे सम्यक्त्वप्रकृतिकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा सबसे कम मन्द अनुभागवाली होती है । हास्यकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा सम्यक्त्वप्रकृतिकी जघन्य अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी है । रतिकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा हास्यकी जघन्य अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी है । जुगुंसाकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा रतिकी जघन्य अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी है । भयकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा जुगुंसाकी जघन्य अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी है । शोककी जघन्य अनुभाग-उदीरणा भयकी जघन्य अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी है । अरतिकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा शोककी जघन्य अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी है । नपुंसकवेदकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा अरतिकी जघन्य अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी है । संज्वलनचतुष्कमेसे किसी एक कपायकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा नपुंसकवेदकी जघन्य अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी है । अप्रत्याख्यानावरणीयचतुष्कमेसे किसी एक कपायकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा किसी एक संज्वलनकपायकी जघन्य अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी है । प्रत्याख्यानावरणीयचतुष्कमेसे किसी एक कपायकी जघन्य

१ कुदो, सव्वविसुद्धसजमाहिसुहचरिमसमयमिच्छाहट्ठिम्मि पत्तजहण्णभावत्तादो । जयध०

२ किं कारण, उहयत्थ विसेसाभावे वि पचडिविसेसेणेवाणंताणुवधीणमणुभागादो मिच्छत्ताणुभागस्स सव्वकालमणतगुणाहियसरुत्तेणावट्ठाणदसणादो । जयध०

३ कुदो; एगट्ठाणियसत्त्वत्तादो । जयध०

४ कुदो, देसघादिविट्ठाणियसत्त्वत्तादो । जयध०

५ कुदो; देसघादि-विट्ठाणियत्ताविसेसे सामित्तविसयभेदाभावे च कसायाणुभागमाहप्पेण पुव्विह्लादो एदिस्से अणतगुणत्तसिद्धीए णिव्वाहमुवलभादो । जयध०

६ किं कारण; सामित्तभेदाभावेवि सव्वघादिमाहप्पेण पुव्विह्लादो एदिस्से तहाभावोवलद्धीदो । जयध०

णावरणजहण्णाणुभागुदीरणा अण्णदरा अणंतगुणा^१ । ३७८. सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णाणु-
भागुदीरणा अणंतगुणा^२ । ३७९. अणंताणुवंधीणं जहण्णाणुभागुदीरणा अण्णदरा
अणंतगुणा^३ । ३८०. मिच्छत्तस्स जहण्णाणुभागुदीरणा अणंतगुणा ।

३८१. एवं देवगदीए वि ।

३८२. भुजगारुदीरणा उवरिमगाहाए परूविहिदि । पदणिकखेवो वि तत्थेव ।
वड्डी वि तत्थेव ।

तदो 'को व के य अणुभागे' त्ति पदस्स अत्थो समत्तो ।

३८३. पदेसुदीरणा दुविहा-मूलपयडिपदेसुदीरणा उत्तरपयडिपदेसुदीरणा च ।

अनुभाग-उदीरणा अप्रत्याख्यानावरणीय किसी एक कपायकी जघन्य अनुभाग-उदीरणासे
अनन्तगुणी है । सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा प्रत्याख्यानावरणीय किसी एक
कपायकी जघन्य अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी है । अनन्तानुवन्धीचतुष्क्रमसे किसी एक
कपायकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी
है । मिथ्यात्वकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा अनन्तानुवन्धी किसी एक कपायकी जघन्य
अनुभाग-उदीरणासे अनन्तगुणी है ॥ ३६७-३८० ॥

इस प्रकार नरकगतिमें ओचकी अपेक्षा जघन्य अनुभाग-उदीरणा कही ।

चूर्णिसू०—इसी प्रकार नारक-ओवालापके समान देवगतिमें भी जघन्य अनुभाग-
उदीरणा-सम्बन्धी अल्पवहुत्वका आलाप (कथन) है । जो थोड़ी बहुत विशेषता है, वह
स्वयं आगमसे जानना चाहिए ॥ ३८१ ॥

इस प्रकार अल्पवहुत्वके समाप्त होनेपर उत्तरप्रकृतिअनुभाग-उदीरणाका वर्णन
समाप्त हुआ ।

अब भुजाकारादि उदीरणाका वर्णन क्रम-प्राप्त है, अतः उसका वर्णन करनेके लिए
चूर्णिकार उत्तरसूत्र कहते हैं—

चूर्णिसू०—भुजाकार-उदीरणा उपरिम अर्थात् आगे कही जानेवाली 'वहुदरगं बहु-
दरगं से काले को णु थोचदरगं वा' इस गाथामे प्ररूपण की जायगी । पदनिक्षेप भी वहींपर
कहा जायगा और वृद्धि भी उसी गाथामे कही जायगी ॥ ३८२ ॥

इस प्रकार 'को व के य अणुभागे' मूलगाथाके इस पदका अर्थ समाप्त हुआ ।

अब प्रदेश-उदीरणाका वर्णन किया जाता है—

चूर्णिसू०—प्रदेश-उदीरणा दो प्रकारकी है—मूलप्रकृतिप्रदेश-उदीरणा और उत्तरप्रकृति-

१ कुदो, दोण्हमेदेदिं सामित्तभेदाभावे वि देस-सयलसजमपडिविधित्तमस्सियूण तहाभावसिद्धीए
णिप्पडिविधमुवलभादो । जयध०

२ कुदो, सव्वघादिविट्ठाणियत्ताविसेसे वि सम्माइट्ठविसोहीदो सम्मामिच्छाइट्ठविसोहीए
अणंतगुणहीणत्तमस्सियूण तहाभावोवलभादो । जयध०

३ कुदो; सम्मामिच्छाइट्ठविसोहीदो अणतगुणहीणमिच्छाइट्ठविसोहीए जहण्णसामित्तपडि-
लभादो । जयध०

३८४. मूलपद्यडिपदेशुदीरणं मग्गियूण । ३८५. तदो उत्तरपद्यडिपदेशुदीरणा च समु-
क्कित्तणादि-अप्पात्रहुअंतेहि अणिओगदारेहि मग्गियव्वा । ३८६. तत्थ सामित्तं । ३८७.
मिच्छत्तस्स उक्कस्सिया पदेशुदीरणा कस्स ? ३८८. संजमाहिमुहचरिमसमयमिच्छाइड्डिस्स ।
से काले सम्मत्तं संजमं च पडिवज्जमाणस्स । ३८९. सम्मत्तस्स उक्कस्सिया
पदेशुदीरणा कस्स ? ३९०. समयाहियावलिय-अक्खीणदंसणमोहणीयस्स ।

प्रदेश-उदीरणा । पहले मूलप्रकृतिप्रदेश-उदीरणाका अनुसर्गण कर (व्याख्यानाचार्योसे जानकर)
तदनन्तर उत्तरप्रकृतिप्रदेश-उदीरणा समुत्कीर्तनाको आदि लेकर अल्पबहुत्व-पर्यन्त चौबीस
अनुयोगद्वारोसे जानना चाहिए ॥ ३८३-३८५ ॥

चूर्णिसू०—उनमेसे समुत्कीर्तनादि अनुयोगद्वारोके सुगम होनेसे उनका वर्णन न
करके स्वामित्वनामक अनुयोगद्वारका वर्णन करते है ॥ ३८६ ॥

शंका—मिथ्यात्वकर्मकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा किसके होती है ? ॥ ३८७ ॥

समाधान—संयम ग्रहणके अभिमुख चरमसमयवर्ती मिथ्यादृष्टि जीवके होती है,
जो कि तदनन्तर समयमे सम्यक्त्व और संयमको एकसाथ ग्रहण करनेवाला है ॥ ३८८ ॥

विशेषार्थ—जो वेदकसम्यक्त्वके ग्रहण करनेके योग्य मिथ्यादृष्टि अधःप्रवृत्त और
अपूर्वकरणको करके संयम-ग्रहण करनेके अभिमुख हुआ है, उसके अन्तर्मुहूर्त तक अनन्तगुणी
विशुद्धिसे विशुद्ध होकर चरमसमयवर्ती मिथ्यादृष्टिरूपसे अवस्थित होनेपर मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट
प्रदेश-उदीरणा होती है, क्योंकि उसके ही तदनन्तरकालमे सम्यक्त्वके साथ संयमको प्राप्त
होनेके कारण सर्वोत्कृष्ट विशुद्धि देखी जाती है । यहाँ यह आशंका नहीं करना चाहिए कि
उपशमसम्यक्त्वके साथ संयमको ग्रहण करनेवाले मिथ्यादृष्टिके मिथ्यात्वकी प्रथमस्थितिके
समयाधिक आवलीमात्र शेष रह जानेपर उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा क्यों नहीं बतलाई ? क्योंकि,
पूर्वोक्त संयमाभिमुख चरमसमयवर्ती मिथ्यादृष्टिकी अपूर्वकरण-परिणाम-जनित विशुद्धिसे
इसकी विशुद्धि अनिवृत्तिकरण-परिणामके माहात्म्यसे अनन्तगुणी देखी जाती है । इसका
समाधान यह है कि उपशमसम्यक्त्वके साथ संयमको ग्रहण करनेवाले जीवकी अपेक्षा
वेदकसम्यक्त्वके साथ संयमको ग्रहण करनेवाले जीवके ही संयमकी प्रत्यासत्तिके बलसे
अपूर्वकरण-जनित भी परिणामविशुद्धि बहुत अधिक होती है । अतः सूत्रोक्त स्वामित्व ही
युक्ति-संगत है ।

शंका—सम्यक्त्वप्रकृतिकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा किसके होती है ? ॥ ३८९ ॥

समाधान—समयाधिक आवलीकालसे युक्त अक्षीणदर्शनमोही कृतकृत्यवेदक
सम्यग्दृष्टिके होती है ॥ ३९० ॥

१ जो मिच्छाइट्ठी अण्णदरकम्मसिओ वेदगसम्मत्तपाओगो अधापवत्तापुव्वकरणाणि कादूण
सजमाहिमुहो जादो, तस्स अतोमुहुत्तमणत्तगुणाए विसोहीए विसुद्धिदूण चरिमसमयमिच्छाइट्ठभावेणाव-
ट्ठिदस्स पयहुक्कस्ससामित्त होइ । से काले सम्मत्तेण सह सजम पडिवज्जमाणस्स तस्स सच्चुक्कस्सविसोहि-
दंसणादो त्ति एसो एदस्स सुत्तस्स समुदायत्थो । जयध०

२ जो दसणमोहणीयक्खवगो अण्णदरकम्मसिओ अणियट्ठिअट्ठाए सखेज्जेसु भागेषु गदेसु असखेजाण

३९१. सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्सिया पदेसुदीरणा कस्स ? ३९२. सम्मत्ता-
हिमुह-चरिमसमयसम्मामिच्छाइट्ठिस्स सच्चविसुद्धस्स^१ । ३९३. अणंताणुवंधीणं उक्क-
स्सिया पदेसुदीरणा कस्स ? ३९४. संजमाहिमुह-चरिमसमयमिच्छाइट्ठिस्स सच्चविसु-
द्धस्स । ३९५. अपच्चक्खाणकसायाणमुक्कस्सिया पदेस-उदीरणा कस्स ? ३९६. संजमा-

विशेषार्थ—जो दर्शनमोहनीयका क्षपण करनेवाला जीव अनिवृत्तिकरणकालके संख्यात भागोके व्यतीत होनेपर असंख्यात समयप्रवद्धोकी उदीरणा प्रारम्भ करके मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वका यथाक्रमसे क्षयकर तदनन्तर सम्यक्त्वप्रकृतिका क्षपण करता हुआ अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमें सम्यक्त्वप्रकृतिकी चरम फालिको दूरकर और कृतकृत्यवेदक होकर अन्तर्मुहूर्त तक समयाधिक आवलीसे युक्त अक्षीण-दर्शनमोहनीयरूपसे अवस्थित है, उसके ही सम्यक्त्वप्रकृतिकी सर्वोत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा होती है। क्योंकि, इसके ही अधस्तनकालवर्ती समस्त प्रदेश-उदीरणाओसे असंख्यातगुणी प्रदेश-उदीरणा पाई जाती है। यहाँ यह आशंका नहीं करना चाहिए कि यदि आगे जाकर कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि संक्लेशको प्राप्त हो गया, तो उसके उक्त समयपर सम्यक्त्वप्रकृतिकी सर्वोत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा कैसे सम्भव है ? इसका समाधान यह है कि आगे जाकर भले ही कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि संक्लेशको प्राप्त हो जाय, परन्तु कृतकृत्यवेदक होनेके पश्चात् अन्तर्मुहूर्त तक तो अपने कालके भीतर प्रतिसमय असंख्यात-गुणित द्रव्यकी उदीरणा करता ही है, इसलिए इसके अतिरिक्त अन्यत्र सम्यक्त्वप्रकृतिकी प्रदेश-उदीरणाका उत्कृष्ट स्वामित्व सम्भव नहीं है।

शंका—सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा किसके होती है ? ॥३९१॥

समाधान—सर्व-विशुद्ध और सम्यक्त्वके अभिमुख चरमसमयवर्ती सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवके होती है ॥३९२॥

शंका—अनन्तानुवन्धी चारो कषायोकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा किसके होती है ? ॥३९३॥

समाधान—सर्व-विशुद्ध और संयमके अभिमुख चरमसमयवर्ती मिथ्यादृष्टिके होती है ॥३९४॥

शंका—अप्रत्याख्यानावरणकषायोकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा किसके होती है ॥३९५॥

समयपवद्धानुदीरणाभादविय मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्ताणि जहाकम खविय तदो सम्मत्त खवेमाणो अणियट्ठि-
करणचरिमसमए सम्मत्तचरिमफालिं णिवादिय कदकरणिज्जो होदूणंतोमुहुत्तं समयावलियअक्खीणदसण-
मोहणीयभावेणावट्ठिदो, तस्स पयहुक्कस्ससामित्तं होइ । कुदो, तस्स समयाहियावलियमेत्तगुणसेदिगोउच्छाणं
चरिमट्ठिदीदो उदीरिज्जमाणमत्तखेज्जाण समयपवद्धानुदीरणाहंतो अर.खेज्जगुणत्तदसणादो ।

जयध०

१ किं कारण, उक्कस्सविसोहिपरिणामेण विणा पदेसुदीरणाए उक्कस्सभावाणुववत्तीदो । जयध०

हिमुहचरिमसमय-असंजदसम्माइट्टिस्स सव्वविसुद्धस्स ईसिमज्झिमपरिणामस्स वा' ।

३९७. पच्चक्खाणकसायाणमुक्कस्सिया पदेसुदीरणा कस्स ? ३९८. संजमा-हिमुहचरिमसमयसंजदासंजदस्स सव्वविसुद्धस्स ईसिमज्झिमपरिणामस्स वा । ३९९. कोहसंजलणस्स उक्कस्सिया पदेसुदीरणा कस्स ? ४००. खवगस्स चरिमसमयक्रोधवेद-गस्स । ४०१. एवं माण-माया संजलणाणं ।

४०२. लोहसंजलणस्स उक्कस्सिया पदेसुदीरणा कस्स ? ४०३. खवगस्स समय-

समाधान—सर्वविशुद्ध या ईपन्मध्यम परिणामवाले और संयमके अभिमुख चरम-समयवर्ती असंयतसम्यग्दृष्टिके होती है ॥३९६॥

विशेषार्थ—ईपन्मध्यमपरिणाम किसका नाम है ? इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—संयमग्रहण करनेके सम्मुख चरमसमयवर्ती असंयतसम्यग्दृष्टिके जघन्य स्थानसे लेकर पडवृद्धिरूपसे अवस्थित विशुद्ध परिणाम असंख्यातलोकप्रमाण होते हैं । उनके इस आयाम-को आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण भागहारसे खंडित करनेपर उनमेंका जो अन्तिम खंड-रूप उत्कृष्ट परिणाम है, वह तो सर्वविशुद्ध परिणाम कहलाता है और उसी खंडका जो जघन्य परिणाम है, वह ईपन्मध्यम परिणाम कहलाता है । शेष समस्त परिणामोंको मध्यम परिणाम कहते हैं ।

शंका—प्रत्याख्यानावरणकपायोकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा किसके होती है ? ॥३९७॥

समाधान—सर्वविशुद्ध या ईपन्मध्यम परिणामवाले संयमाभिमुख चरमसमयवर्ती संयतासंयतके होती है ॥३९८॥

शंका—संज्वलनक्रोधकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा किसके होती है ? ॥३९९॥

समाधान—चरमसमयवर्ती क्रोधका वेदन करनेवाले क्षपकके होती है ॥४००॥

चूर्णिसू०—इसीप्रकार संज्वलन मान और मायाकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणाका स्वामित्व जानना चाहिए ॥४०१॥

विशेषार्थ—यहाँ केवल इतना विशेष जानना चाहिए कि मानकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा मानका वेदन करनेवाले चरमसमयवर्ती क्षपकके और मायाकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा मायाका वेदन करनेवाले चरमसमयवर्ती क्षपकके होती है ।

शंका—संज्वलन लोभकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा किसके होती है ? ॥४०२॥

१ एतदुक्त भवति—सजमाहिमुहचरिमसमयअसंजदसम्माइट्टिस्स असखेज्जलोगमेत्ताणि विसोहिट्ठा-णाणि जहण्णट्ठाणप्पहुडि छवट्टिसरूवेणावट्ठिदाणि अरिथि, तेसिमायामे आवलियाए असखेज्जभागमेत्तभाग-हारेण खडिदे तत्थ चरिमखड्यसव्वपरिणामेहि असखेज्जलोगभेयमिण्णेहि उक्कस्सिया पदेसुदीरणा ण विरुज्जट्ठि ति । तक्खंडचरिमपरिणामो सव्वविसुद्धपरिणामो णाम । तत्थेव जहण्णपरिणामो ईसिपरिणामो णाम । सेसासेसपरिणामा मज्झिमपरिणामा ति भण्णते । जयध०

हियावलियचरिमसमयसकसायस्स । ४०४. इत्थिवेदस्स उक्कस्सिया पदेसुदीरणा कस्स ? ४०५. खवगस्स समयाहियावलियचरिमसमयइत्थिवेदगस्स । ४०६. पुरिसवेदस्स उक्कस्सिया पदेसुदीरणा कस्स ? ४०७. खवगस्स समयाहियावलियचरिमसमयपुरिसवेदगस्स । ४०८. णवुंसयवेदस्स उक्कस्सिया पदेसुदीरणा कस्स ? ४०९. खवगस्स समयाहियावलियचरिमसमयणवुंसयवेदगस्स । ४१०. छण्णोकसायाणमुक्कस्सिया पदेसुदीरणा कस्स ? ४११. खवगस्स चरिमसमयअपुव्वकरणे वट्टमाणगस्स ।

४१२. जहण्णसामित्तं । ४१३. मिच्छत्तस्स जहण्णिया पदेसुदीरणा कस्स ? ४१४. सण्णिमिच्छाइट्ठिस्स उक्कस्ससंक्रिलिड्ढस्स ईसिमज्झिमपरिणामस्स वा । ४१५. सम्मत्तस्स जहण्णिया पदेसुदीरणा कस्स ? ४१६. मिच्छत्ताहिमुहचरिमसमयसम्माइट्ठिस्स

समाधान—समयाधिक आवली कालवाले चरमसमयवर्ती सकपाय (दशमगुणस्थानी) क्षपकके होती है ॥४०३॥

शंका—स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा किसके होती है ? ॥४०४॥

समाधान—समयाधिक आवली कालवाले चरमसमयवर्ती स्त्रीवेदका वेदन करनेवाले क्षपकके होती है ॥४०५॥

शंका—पुरुषवेदकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा किसके होती है ? ॥४०६॥

समाधान—समयाधिक आवली कालवाले और चरमसमयमे पुरुषवेदका वेदन करनेवाले क्षपकके होती है ॥४०७॥

शंका—नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा किसके होती है ? ॥४०८॥

समाधान—समयाधिक आवली कालवाले चरमसमयवर्ती नपुंसकवेदक क्षपकके होती है ॥४०९॥

विशेषार्थ—यहाँ सर्वत्र समयाधिक आवलीवाले चरमसमयसे, एक समय अधिक आवलीप्रमाण कालके पश्चात् विवक्षित वेदका अन्तिम समयमे वेदन करनेवाले जीवका अभिप्राय है ।

शंका—छह नोकषायोकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा किसके होती है ? ॥४१०॥

समाधान—अपूर्वकरणगुणस्थानके अन्तिम समयमे वर्तमान क्षपकके होती है ॥४११॥

चूर्णिसू०—अव जघन्य प्रदेश-उदीरणाके स्वामित्वको कहते है ॥४१२॥

शंका—मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेश-उदीरणा किसके होती है ? ॥४१३॥

समाधान—उत्कृष्ट संक्लेशवाले या ईषन्मध्यमपरिणामवाले संज्ञी मिथ्यादृष्टिके होती है ॥४१४॥

शंका—सम्यक्त्वप्रकृतिकी जघन्य प्रदेश-उदीरणा किसके होती है ? ॥४१५॥

समाधान—(चतुर्थ गुणस्थानके योग्य) सर्वोत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त या ईषन्मध्यम

सव्वसंक्किलिट्ठस्स ईसिमज्झिमपरिणामस्स वा । ४१७. सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णिया पदे-
सुदीरणा कस्म । ४१८. मिच्छत्ताहिमुहचरिमसमयसम्मामिच्छाइट्ठिस्स सव्वसंक्किलिट्ठस्स
ईसिमज्झिमपरिणामस्स वा ।

४१९. सोलसकसाय-णवणोकसायाणं जहण्णिया पदेसुदीरणा मिच्छत्तभंगो ।

४२०. एगजीवेण कालो । ४२१. मिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेसुदीरणो केवचिरं
कालादो होदि ? ४२२. जहण्णुकस्सेण एयसमओ^१ । ४२३. अणुकस्सपदेसुदीरणो
केवचिरं कालादो होदि ? ४२४. एत्थ तिण्णि भंगा । ४२५. जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ।
४२६. उक्कस्सेण उवड्ढुपोग्गलपरियड्डुं । ४२७. सेसाणं कम्माणमुक्कस्सपदेसुदीरणा केव-
चिरं कालादो होदि ? ४२८. जहण्णुकस्सेण एयसमओ^२ । ४२९. अणुकस्सपदेसुदीरणो
पयडि-उदीरणाभंगो ।

परिणामवाले मिथ्यात्वके अभिमुख चरमसमयवर्ती असंयतसम्यग्दृष्टिके होती है ॥४१६॥

शंका—सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेश-उदीरणा किसके होती है ? ॥४१७॥

समाधान—तृतीय गुणस्थानके योग्य सर्वोत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त या ईषन्मध्यम परि-
णामवाले मिथ्यात्वके अभिमुख चरमसमयवर्ती सम्यग्मिथ्यादृष्टिके होती है ॥४१८॥

चूर्णिसू०—सोलह कपाय और नव नोकपायोकी जघन्य प्रदेश-उदीरणाका स्वामित्व
मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेश-उदीरणाके स्वामित्वके समान जानना चाहिए ॥४१९॥

चूर्णिसू०—अब एक जीवकी अपेक्षा प्रदेश-उदीरणाका काल कहते हैं ॥४२०॥

शंका—मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणाका कितना काल है ? ॥४२१॥

समाधान—जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ? ॥४२२॥

विशेषार्थ—क्योंकि, संयमके अभिमुख मिथ्यादृष्टिके अन्तिम समयमें ही मिथ्यात्वकी
उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा होती है ।

शंका—मिथ्यात्वकी अनुत्कृष्ट प्रदेश उदीरणाका कितना काल है ? ॥४२३॥

समाधान—इस विषयमें तीन भंग है—अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त, और सादि-
सान्त । इनमेंसे मिथ्यात्वकी सादि-सान्त अनुत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणाका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त
और उत्कृष्ट काल उपार्धपुद्गलपरिवर्तन है ॥४२४-४२६॥

शंका—मिथ्यात्वके अतिरिक्त शेष कर्मोंकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा करनेवाले जीवोंका
कितना काल है ? ॥४२७॥

समाधान—जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ॥४२८॥

चूर्णिसू०—उक्त सर्व कर्मोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणाका काल प्रकृति-उदीरणाके
कालके समान जानना चाहिए ॥४२९॥

१ कुदो, संजमाहिमुहमिच्छाइट्ठिचरिमसमए चेव तदुवलभादो । जयध०

२ कुदो; सव्वेसिमप्पणो सामित्तविसए चरिमविसोहीए समुवलड्ढजहण्णभावत्तादो । जयध०

४३०. णिरयगदीए मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणंताणुवंधीणमुक्कस्सपदे-सुदीरगो केवचिरं कालादो होदि ? ४३१. जहण्णुक्कस्सेण एगसमओ^१ । ४३२. अणु-क्कस्सपदेसुदीरगो पयडि-उदीरणाभंगो । ४३३. सेसाणं कम्माणमित्थि-पुरिसवेदवज्जाण-मुक्कस्सिया पदेसुदीरणा केवचिरं कालादो होदि ? ४३४. जहण्णेण एगसमओ^२ । ४३५. उक्कस्सेण आवलियाए असंखेज्जदिभागो^३ । ४३६. अणुक्कस्सपदेसुदीरगो केवचिरं कालादो होदि ? ४३७. जहण्णेण एगसमओ^४ । ४३८. उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं^५ । ४३९. णवरिणवुंसयवेद-अरइ-सोगाणमुदीरगो उक्कस्सादो तेत्तीसं सागरोवमाणि^६ । ४४०. एवं सेसासु गदीसु उदीरगो साहेयव्वो ।

अव आदेशकी अपेक्षा प्रदेश-उदीरणाका काल कहते हैं—

शंका—नरकगतिमे मिध्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्ता-नुवन्धी चारो कपायोकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणाका कितना काल है ? ॥४३०॥

समाधान—जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ॥३३१॥

चूर्णिसू०—इन्ही कर्मोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणाका काल प्रकृति-उदीरणाके कालके समान जानना चाहिए ॥४३२॥

शंका—पूर्व सूत्रोक्त कर्मोंके अतिरिक्त, तथा स्त्रीवेद और पुरुषवेदको छोड़कर (क्योंकि, नरकगतिमे इन दोनों वेदोंका उदय ही नहीं होता,) शेष कर्मोंकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणाका कितना काल है ? ॥४३३॥

समाधान—जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलीके असंख्यातवें भाग-प्रमाण है ॥४३४-४३५॥

शंका—इन्ही पूर्वोक्त कर्मोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणाका कितना काल है ? ॥४३६॥

समाधान—जघन्य काल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है । विशेष बात यह है कि नपुंसकवेद, अरति और शोककी प्रदेश-उदीरणाका उत्कृष्टकाल तेत्तीस सागरोपम है ॥४३७-४३९॥

चूर्णिसू०—इसी प्रकार शेष गतियोमे प्रदेश-उदीरणा करनेवाले जीवोंका काल सिद्ध

१ कुदो, मिच्छत्ताणताणुवधीणमुवसमयसम्मत्ताहिमुहमिच्छाइट्ठस्स समयाहियावलियचरिमसमए दुचरिमसमए च जहाकमेणुक्कस्ससामित्तपडिलभादो । सम्मत्तस्स कदकरणिजसमयाहियावलियाए, सम्मा-मिच्छत्तस्स वि सम्मत्ताहिमुहसम्मामिच्छाइट्ठचरिमविसोहीए विसयतरपरिहारेणुक्कस्ससामित्तदसणादो । जयध०

२ कुदो; सत्थाणसम्माइट्ठस्स सव्वुक्कस्सविसोहीए ईसिमज्झिमपरिणामेण वा एगसमयं परिणमिय विदियसमए परिणामतर गदस्स तदुवलभादो । जयध०

३ कुदो; उक्कस्सपदेसुदीरणापाओगचरिमखडज्जवसाणट्टाणेसु असखेज्जलोगमेत्तेसु अवट्ठाणकालस्स उक्कस्सेण तप्पमाणत्तोवएसदो । जयध०

४ कुदो, उक्कस्सादो अणुक्कस्सभाव गतूण एगसमएण पुणो वि परिणामवसेणुक्कस्सभावेण परिणदम्मि सव्वेसिमेगसमयमेत्ताणुक्कस्सजहण्णकालोवलभादो । जयध०

५ कुदो, कसाय णोकसायाण पयडि-उदीरणाए उक्कस्सकालस्स तप्पमाणत्तोवलंभादो । जयध०

६ कुदो, एदेसिं कम्माण पयडि उदीरणुक्कस्सकालस्स णिरयगईए तप्पमाणत्तोवलभादो । जयध०

४४१. एतो जहणपदेसुदीरगाणं कालो । ४४२. सव्वकम्माणं जहणपदे-
सुदीरगो केवचिरं कालादो होइ ? ४४३. जहणणेण एगसमओ^१ । ४४४. उक्कस्सेण
आवलियाए असंखेज्जदिभागो^२ । ४४५. अजहणपदेसुदीरगो केवचिरं कालादो होदि ?
४४६. जहणणेण एयसमओ । ४४७. उक्कस्सेण पयडिउदीरणाभंगो । ४४८. णवरि
सम्पत्त-सम्पामिच्छत्ताणं जहणपदेसुदीरगो केवचिरं कालादो होदि ? ४४९. जहणु-
क्कस्सेण एयसमआ । ४५०. अजहणपदेसुदीरगो जहा पयडि-उदीरणाभंगो ।

४५१. एगजीवेण अंतरं । ४५२. मिच्छत्तुक्कस्सपदेसुदीरगंतरं केवचिरं कालादो
होदि ? ४५३. जहणणेण अंतोमुहुत्तं^३ । ४५४. उक्कस्सेण अद्दपोग्गलपरियट्ठं देसूणं ।

करना चाहिए ॥४४०॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे जघन्य प्रदेश-उदीरणा करनेवाले जीवों का काल
कहते हैं ॥४४१॥

शंका—सर्व कर्मोंकी जघन्य प्रदेश-उदीरणाका कितना काल है ? ॥४४२॥

समाधान—जघन्यकाल एक समय और और उत्कृष्टकाल आवलीके असंख्यातवे
भागप्रमाण है ॥४४३-४४४॥

शंका—सर्व कर्मोंकी अजघन्य प्रदेश-उदीरणाका कितना काल है ? ॥४४५॥

समाधान—जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल प्रकृति-उदीरणाके समान
जानना चाहिए ॥४४६-४४७॥

शंका—केवल सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्व, इन दो कर्मोंकी जघन्य प्रदेश-
उदीरणाका कितना काल है ? ॥४४८॥

समाधान—जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ॥४४९॥

चूर्णिसू०—इन्हीं दोनों प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेश-उदीरणाका काल प्रकृति-
उदीरणाके कालके समान जानना चाहिए ॥४५०॥

चूर्णिसू०—अब एक जीवकी अपेक्षा प्रदेश-उदीरणाके अन्तरको कहते हैं ॥४५१॥

शंका—मिध्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा करनेवाले जीवका अन्तरकाल कितना
है ? ॥४५२॥

समाधान—जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टकाल देशोत्त अर्धपुद्गलपरिवर्तन
है ॥४५३-४५४॥

१ त कथं; सण्णमिच्छाइट्ठी उक्कस्ससकिलेसेण परिणमिय एगसमय जहणपदेसुदीरगो जादो ।
पुणो विदियसमए जहणभावेण परिणदो । लद्धो सव्वेसि कम्माणं जहणपदेसुदीरगकालो जहणयसमय-
मेत्तो । जयध०

२ कुदो, जहणपदेसुदीरणकारणपरिणामेसु असखेज्जलीगमेत्तेसु उक्कस्सेणावट्ठाणकालस्स एगजीव-
विसयस्स तण्यमाणत्तोवलभादो । जयध०

३ त कथं, अण्णदरकम्मसियलक्खणेणागदसंजमाहिमुहचरिमसमयमिच्छाइट्ठणा उक्कस्सविसोहि-

४५५. सेसेहिं कस्मेहिं अणुमग्गियूण णेद्व्वं ।

४५६. णाणाजीवेहि भंगविचयो भागाभागो परिमाणं खेत्तं पोसणं कालो अंतरं च एदाणि भाणिद्व्वाणि ।

४५७. तदो सण्णियासो । ४५८. मिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेसुदीरगो अणंताणु-
वंधीणमुक्कस्सं वा अणुक्कस्सं वा उदीरेदि^१ । ४५९. उक्कस्सादो अणुक्कस्सा चउ-
ट्ठाणपदिदा^२ । ४६०. एवं णेद्व्वं ।

चूर्णिसू०—इसी प्रकार श्लेष कर्मोंकी अपेक्षा अनुमार्गणकर अन्तरकाल जानना चाहिए ॥४५५॥

चूर्णिसू०—नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल और अन्तर, इन अनुयोगद्वारोका व्याख्यान करना चाहिए ॥४५६॥

विशेषार्थ—चूर्णिकारने सुगम समझकर इन अनुयोगद्वारोका व्याख्यान नहीं किया है । अतः विशेष जिज्ञासु जनोको जयधवला टीकासे जानना चाहिए ।

चूर्णिसू०—उक्त अनुयोगद्वारोके पश्चात् अव सन्निकर्ष नामक अनुयोगद्वार कहते हैं—
मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणाका करनेवाला जीव अनन्तानुबन्धी कषायोंकी उत्कृष्ट प्रदेश-
उदीरणा भी करता है और अनुत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा भी करता है ॥४५७-४५८॥

अनन्तानुबन्धीकी अनुत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा कितने विकल्परूप करता है ? ऐसा प्रश्न होनेपर आचार्य उत्तर सूत्र कहते हैं—

चूर्णिसू०—उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा चतुःस्थान-पतित होती है । अर्थात् असंख्यातभागहीन, संख्यातभागहीन, संख्यातगुणहीन और असंख्यातगुणहीन प्रदेशोंकी उदीरणा करता है ॥४५९॥

इसी वीजपदके द्वारा श्लेष कर्मोंकी प्रदेश-उदीरणाका सन्निकर्ष भी जान लेना चाहिए, ऐसा बतलानेके लिए आचार्य उत्तर सूत्र कहते हैं—

चूर्णिसू०—इसी प्रकार श्लेष कर्मोंका भी सन्निकर्ष जानना चाहिए ॥४६०॥

विशेषार्थ—जिस प्रकार मिथ्यात्वका अनन्तानुबन्धीके साथ सन्निकर्षका निरूपण किया

परिणदेणुक्कस्सपदेसुट्ठ रणाए कदाए आदी दिट्ठा । तदो सज्जम गत्तणतरिय सव्वजहण्णतोमुहुत्तेण पुणो मिच्छत्त पडिवज्जिय जहण्णतराविरोट्ठेण विषोहिमावूरिय संजमाहिमुदो होदूण मिच्छाइट्ठिचरिमसमए उक्कस्सपदेसुदीरगो जादो । लद्धमतर । जयध०

१ मिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेसुदीरगो णाम सज्जमाहिमुहचरिमसमयमिच्छाइट्ठी सव्वविमुदो सो अणताणुवंधीणमण्णदरस्म णिग्गमा एवमुदीरेमाणो उक्कस्सं वा अणुक्कस्सं वा उदीरेदि; सामित्तभेदाभावे पि अप्पणो विसेसपच्चयमस्मियूण तदाभावमिद्धीए विरोहाभावादो । जयध०

२ कुदो; मिच्छत्तुक्कस्सपदेसुदीरगस्माणंताणुवंधीण चउट्ठाणपदिट्ठपदेसुदीरणाकारणपरिणामाणं पि संबन्धे विरोहाभावादो । तदो मिच्छत्तुक्कस्सपदेसुदीरगो अणताणुवंधीणमण्णुक्कस्समुदीरेमाणो असखेजभागहीणं सखेजभागहीणं सखेजगुणहीणं असखेजगुणहीणमुदीरेदि त्ति सिद्ध । जयध०

४६१. अप्पावहुअं । ४६२. सव्वत्थोवा मिच्छत्तस्स उक्कस्सिया पदेसुदी-
रणा^१ । ४६३. अणंताणुवंधीणमुक्कस्सिया पदेसुदीरणा अण्णदरा तुल्ला संखेज्जगुणा^२ ।
४६४. सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्सिया पदेसुदीरणा असंखेज्जगुणा^३ । ४६५. अपच्च-
क्खाणचउक्कस्स उक्कस्सिया पदेसुदीरणा अण्णदरा तुल्ला असंखेज्जगुणा । ४६६.
पच्चक्खाणचउक्कस्स उक्कस्सिया पदेसुदीरणा अण्णदरा तुल्ला असंखेज्जगुणा^४ । ४६७.
सम्मत्तस्स उक्कस्सिया पदेसुदीरणा असंखेज्जगुणा^५ । ४६८. भय-दुगुंछाणमुक्कस्सिया

है, उसी प्रकार शेष कर्मोंके साथ भी जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी प्रत्येक कपायको निरुद्ध करके भी शेष कर्मोंके साथ सन्निकर्षका निरूपण करना चाहिए ।

चूणिंसू०—अब प्रदेश-उदीरणा-सम्बन्धी अल्पवहुत्वको कहते हैं—मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा सबसे थोड़ी होती है । मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणासे अनन्तानुबन्धी प्रत्येक कपायकी प्रदेश-उदीरणा परस्परमे तुल्य हो करके भी संख्यातगुणी है ॥४६१-४६२॥

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि अनन्तानुबन्धी किसी एक कपायकी उदीरणा होनेपर शेष तीनों कपाय भी स्तिवुकसंक्रमणसे उदयमे प्रवेश कर जाती है, अतः मिथ्यात्वकी उदीरणासे अनन्तानुबन्धी कपायोंकी प्रदेश-उदीरणा कुछ कम चौगुनी हो जाती है ।

चूणिंसू०—अनन्तानुबन्धीकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणासे सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा असंख्यातगुणी होती है । सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणासे अप्रत्याख्यानावरण-चतुष्ककी प्रदेश-उदीरणा परस्परमे तुल्य होते हुए भी असंख्यातगुणी होती है । अप्रत्याख्यानावरण-चतुष्ककी प्रदेश-उदीरणासे प्रत्याख्यानावरण-चतुष्ककी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा किसी एक कपायकी परस्परमे समान होकर भी असंख्यातगुणी होती है । प्रत्याख्यानावरण-चतुष्ककी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणासे सम्यक्त्वप्रकृतिकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा असंख्यातगुणी होती है । सम्यक्त्वप्रकृतिकी प्रदेश-उदीरणासे भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा परस्परमे समान हो करके भी अनन्तगुणी होती है । भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणासे हास्य और

१ कुदो; सजमाहिमुहचरिमसमयमिच्छाइट्ठणा असखेज्जलोगपडिभागेण उदीरिददव्वग्गहणादो ।
जयध०

२ कुदो; मिच्छत्तुदीरणादो अणताणुवंधीणमण्णदरोदीरणा उदयपडिभागेण थोवूणचउगुणत्तुवलभादो ।
त जहा—अणताणुवधिकोहादीणमण्णदरस्स उदए सते सेसकसाया तिण्णि वि स्थियउक्कसकमेणुदय पविसति त्ति
मिच्छत्तुदयादो अणंताणुवधि-उदयो थोवूणचउगुणो होइ; पयडिविसेसवसेण तस्य थोवूणभावदसणादो ।जयध०

३ कुदो; परिणामपाहम्मादो । त जहा—अणताणुवंधीण मिच्छाइट्ठविसोहीए उक्कस्सिया पदेसुदीरणा
जादा । सम्मामिच्छत्तस्स पुण तव्विसोहीदो अणतगुणसम्मामिच्छाइट्ठविसोहीए उक्कस्सिया पदेसुदीरणा
गहिदा । एदेण कारणेण पुव्विल्लादो एदिस्से असखेज्जगुणत्त जाद । जयध०

४ कि कारण; असजदसम्माइट्ठविसोहीदो अणतगुणसजमाहिमुहचरिमसमयसजदासंजदुक्कस्स-
विसोहीए पच्चक्खाणकसायाणमुक्कस्सपदेसुदीरणसामित्तप्पडिलभादो । जयध०

५ कुदो; असखेज्जसमथपवद्धपमाणत्तादो । जयध०

पदेसुदीरणा तुल्ला अणंतगुणा^१ । ४६९. हस्स-सोगाणमुक्कस्सिया पदेसुदीरणा विसेसा-
हिया^२ । ४७०. रदि-अरदीणमुक्कस्सिया पदेसुदीरणा विसेसाहिया ।

४७१. इत्थि णवुंसयवेदे उक्कस्सिया पदेसुदीरणा असंखेज्जगुणा^३ । ४७२.
पुरिसवेदे उक्कस्सिया पदेसुदीरणा असंखेज्जगुणा^४ । ४७३. कोहसंजलणस्स उक्क-
स्सिया पदेसुदीरणा असंखेज्जगुणा^५ । ४७४. माणसंजलणस्स उक्कस्सिया पदेसुदीरणा
असंखेज्जगुणा । ४७५. मायासंजलणस्स उक्कस्सिया पदेसुदीरणा असंखेज्जगुणा ।
४७६. लोहसंजलणस्स उक्कस्सिया पदेसुदीरणा असंखेज्जगुणा ।

४७७ णिरयगदीए सव्वत्थोवा मिच्छत्तस्स उक्कस्सिया पदेसुदीरणा^६ ।

शोककी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा विशेष अधिक होती है । हास्य और शोककी उत्कृष्ट प्रदेश-
उदीरणासे रति और अरतिकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा विशेष अधिक होती है ॥४६३-४७०॥

विशेषार्थ—यहाँ ऐसा अर्थ जानना चाहिए कि हास्यसे रतिकी और अरतिसे शोककी
उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा विशेष अधिक होती है ।

चूर्णिसू०—रति-अरतिकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणासे स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट
प्रदेश-उदीरणा असंख्यातगुणी होती है । स्त्रीवेद-नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणासे पुरुष-
वेदकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा असंख्यातगुणी होती है । पुरुषवेदकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणासे
संज्वलनक्रोधकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा असंख्यातगुणी होती है । संज्वलनक्रोधकी उत्कृष्ट प्रदेश-
उदीरणासे संज्वलनमानकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा असंख्यातगुणी होती है । संज्वलनमानकी
उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणासे संज्वलनमायाकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा असंख्यातगुणी होती है ।
संज्वलनमायाकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणासे संज्वलन लोभकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा असंख्यात-
गुणी होती है ॥४७१-४७६॥

इस प्रकार-ओघकी अपेक्षा प्रदेश-उदीरणाका अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

अब आदेशकी अपेक्षा प्रदेश-उदीरणाका अल्पबहुत्व कहते हैं—

चूर्णिसू०—नरकगतिमे मिध्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा सबसे कम होती है ।

१ कुदो; देसघादिपडिभागत्तादो । जयध०

२ कुदो; पयडिविसेससमस्सिऊण विसेसाहियत्तदसणादो । जयध०

३ कुदो, असखेज्जसमयपवद्धपमाणत्तादो । जयध०

४ किं कारण; इत्थि णवुंसयवेदाणमुक्कस्सपदेसुदीरणासामित्तविसयादो अतोमुहुत्तमुवरिं गंतूण समया-
हियावलियमेत्तपुरिसवेदपढमट्ठदीए सेसाए तत्थुदीरिज्जमाणसखेज्जसमयपवद्धाणमिहग्गहणादो । जयध०

५ किं कारण, पुरिसवेदसामित्तुद्देसादो अतोमुहुत्तमुवरि गतूण कोहसजलणपढमट्ठदीए समया-
हियावलियमेत्तसेसाए पडिल्लुक्कस्सभावत्तादो । जयध०

६ कुदो, सम्मत्ताहिमुहमिच्छाइट्ठणा उदीरिज्जमाणासखेज्जलोपडिभागियदव्वस्स गहणादो । जयध०

४७८. अणताणुबंधीणमुक्कस्सिया पदेसुदीरणा अणदरा संखेज्जगुणा^१ । ४७९. सम्मा-
मिच्छत्तस्स उक्कस्सिया पदेसुदीरणा असंखेज्जगुणा^२ । ४८०. अपच्चक्खाणकसायाणमु-
क्कस्सिया पदेसुदीरणा अणदरा असंखेज्जगुणा^३ । ४८१. पच्चक्खाणकसायाणमुक्क-
स्सिया पदेसुदीरणा अणदरा विसेसाहिया^४ । ४८२. सम्मत्तस्स उक्कस्सिया पदेसुदी-
रणा असंखेज्जगुणा । ४८३. णत्तुंसयवेदस्स उक्कस्सिया पदेसुदीरणा अणंतगुणा^५ ।

मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणासे अनन्तानुबन्धीकपायोमेसे किसी एक कपायकी उत्कृष्ट प्रदेश-
उदीरणा संख्यातगुणी होती है ॥४७७-४७८॥

विशेषार्थ—यह वेदकसम्यक्त्वके अभिमुख चरमसमयवर्ती मिथ्यादृष्टिकी अपेक्षा
कथन है । किन्तु उपशमसम्यग्दर्शनके अभिमुख मिथ्यादृष्टिकी अपेक्षा उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा
नियमसे असंख्यातगुणी होती है, ऐसा उच्चारणावृत्तिकारका मत है ।

चूर्णिसू०—अनन्तानुबन्धीकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणासे सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट
प्रदेश-उदीरणा असंख्यातगुणी होती है । सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणासे अप्रत्या-
ख्यानावरणीय किसी एक कपायकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा असंख्यातगुणी होती है ।
अप्रत्याख्यानावरणीय किसी एक कपायकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणासे प्रत्याख्यानावरणीय किसी
एक कपायकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा विशेष अधिक होती है । प्रत्याख्यानावरणीय किसी एक
कपायकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणासे सम्यक्त्वप्रकृतिकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा असंख्यातगुणी होती
है । सम्यक्त्वप्रकृतिकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणासे नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा अनन्तगुणी
होती है । नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणासे भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा

१ कुदो, एगासखेज्जलोगपडिभागियमिच्छत्तदंवादो चदुण्हमसखेज्जलोगपडिभागियदंवाण थोवृण-
चउगुणत्तदसणादो । एत्थ चोदगो भणइ—उवसमसम्मत्ताहिमुहसमयाहियावलयिमिच्छाइट्ठम्मि मिच्छत्तस्स
उक्कस्सिया पदेसुदीरणा जादा । अणताणुवधीण पुण मिच्छत्तपट्टमट्ठदीए चरिमसमयम्मि उक्कस्ससामित्त
जाद । तथा च सते मिच्छत्तुक्कस्सपदेसुदीरणादो अणताणुवधीणमुक्कस्सपदेसुदीरणाए असखेज्जगुणाए
होदव्वमिदि । एत्थ परिहारो बुच्चदे—सच्चमेद, तथाविहसामित्तावलवणे असखेज्जगुणत्तव्भुवगमादो । किंतु
उवसमसम्मत्ताहिमुह मोत्तूण वेदयसम्मत्ताहिमुहमिच्छाइट्ठचरिमसमए मिच्छत्ताणताणुवधीणमक्कमेण सामित्तं
होदि त्ति एदेणाहिप्पाएण सखेज्जगुणत्तमेद सुत्त शारेण पदुप्पायियं, तदो ण दोसो त्ति । उच्चारणाहिप्पा-
एण पुण णियमा असखेज्जगुणेण होदव्व, तत्थ सामित्तभेददसणादो, तदणुसारेणेव तत्थ सण्णियासविहाणादो
च । तदो उच्चारणासामित्तं मोत्तूण सुत्तसात्तिमण्णारिस घेत्तूण पयदप्पावहुअसमत्थणमेद कायव्वमिदि
ण किं चि विरुद्धं । जयध०

२ कुदो, सम्मत्ताहिमुहचरिमसमयमिच्छाइट्ठसव्वुक्कस्सविषोहीए अणतगुणसम्मत्ताहिमुहसम्मामि-
च्छाइट्ठचरिमविषोहीए पडिल्लुक्कस्सभावत्तादो । जयध०

३ कुदो; सम्मामिच्छाइट्ठविषोहीदो अणतगुणसत्थाणसम्माइट्ठसव्वुक्कस्सविषोहीए अपच्चक्खाण-
कसायाणमुक्कस्ससामित्तावलवणादो । जयध०

४ सामित्तभेदाभावे वि पयडिविसेसमस्सियूण विसेसाहियत्तसिद्धीए णिव्वाहमुवलभादो । जयध०

५ कुदो; देसघादिमाह्पादो । जयध०

४८४. भय-दुगुंछाणमुक्कस्सिया पदेसुदीरणा विसेसाहिया^१ । ४८५. हस्स-सोगाणमुक्क-स्मिया पदेसुदीरणा विसेसाहिया । ४८६. रदि-अरदीणमुक्कस्सिया पदेसुदीरणा विसेसाहिया । ४८७. संजलणाणमुक्कस्सिया पदेसुदीरणा संखेज्जगुणा ।

४८८. एत्तो जहणिया । ४८९. सच्चत्थोत्ता मिच्छत्तस्स जहणिया पदेसुदीरणा^२ । ४९०. अपच्चक्खाणकसायाणं जहणिया पदेसुदीरणा अण्णदरा तुल्ला संखेज्जगुणा^३ । ४९१. पच्चक्खाणकसायजहणिया पदेसुदीरणा अण्णदरा तुल्ला विसेसाहिया । ४९२. अणंताणुबंधीणं जहणिया पदेसुदीरणा अण्णदरा तुल्ला विसेसाहिया । ४९३. सम्मामिच्छत्तस्स जहणिया पदेसुदीरणा असंखेज्जगुणा^४ । ४९४. सम्मत्तस्स जहणिया

विशेष अधिक होती है । भय-जुगुप्साकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणासे हास्य और शोककी उत्कृष्ट-प्रदेश-उदीरणा विशेष अधिक होती है । हास्य और शोककी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणासे रति और अरतिकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा विशेष अधिक होती है । रति-अरतिकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणासे संखलनचतुष्ककी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा संख्यातगुणी होती है ॥४७९-४८७॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे जघन्य प्रदेश-उदीरणासम्बन्धी अल्पबहुत्व कहते हैं—मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेश-उदीरणा आगे कहे जानेवाले पदोंकी अपेक्षा सबसे कम होती है । मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेश-उदीरणासे अप्रत्याख्यानावरणीय कपायोंकी जघन्य प्रदेश-उदीरणा परस्पर समान होकरके भी संख्यातगुणी होती है । अप्रत्याख्यानावरणीय किसी एक कपायकी जघन्य प्रदेश-उदीरणासे प्रत्याख्यानावरणीय किसी एक कपायकी जघन्य प्रदेश-उदीरणा परस्परमे समान होते हुएभी विशेष अधिक होती है । प्रत्याख्यानावरणीय किसी एक कपायकी जघन्य प्रदेश-उदीरणासे अनन्तानुबन्धी किसी एक कपायकी जघन्य प्रदेश-उदीरणा परस्परमे समान होते हुए विशेष अधिक होती है । अनन्तानुबन्धी किसी एक कपायकी जघन्य प्रदेश उदीरणासे सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेश-उदीरणा असंख्यातगुणी होती है । सम्य-

१ त जहा—णिरयगदीए तिण्ह वेदाणमसखेज्जालोगपडिभागिय दव्व णवुसयवेदसरुवेणुदीरिजमाण घेत्तूण एगवुवपयडिपमाणमुदीरणादव्व होदि । भय दुगुंछाण पुण पादेक्क धुवमयडिपमाणमुदीरणदव्वमुवलभइ, तेसिं धुववधित्तादो । किन्तु वेदभाग पेक्खियूण पयडिविसेसेण विसेसहीण होदि । होत पि भय-दुगुंछाण दोण्ह पि दव्व तदण्णदरसरुवेणुदीरिजमाणमुवल्लभदे, स्थियुक्कसंक्रमवसेण तेसिमणोण्णाणुप्पवेस कादूणुक्कस्ससामित्तावल्लवणादो । एव ल्लभदि त्ति कादूण जो तिवेदभागो तत्थेगदव्व पेक्खियूण पयडिविसेसेणवमहिथो सो दोण्हमव्वोगाढदव्वसमुदायादो विसेसहीणो चव होइ, किंचूणद्धमेत्तदव्वेण परिहीणत्तदसणादो । तदो किंचूणदुगुणपमाणत्तादो विसेसाहियमेद दव्वमिदि सिद्धं । जयध०

२ कुदो, सच्चक्कस्ससकिलिट्ठमिच्छाइट्ठणा उदीरिजमाणासखेज्जलोगपडिभागियदव्वस्स गहणादो । जयध०

३ कुदो सामित्तविसयभेदाभावे वि एगासखेज्जलोगपडिभागियदव्वादो चदुण्हमसखेज्जलोगपडिभागियदव्वाणं समुदायस्स योव्वणत्त उग्गुणत्तुवल्लभादो । जयध०

४ कुदो, मिच्छाइट्ठसकिलेस पेक्खियूणाण तगुणहीणसम्मामिच्छाइट्ठसकिलेसपरिणामेणुदीरिजमाणासखेज्जलोगपडिभागियदव्वस्स गहणादो । जयध०

पदेसुदीरणा असंखेज्जगुणा^१ । ४९५. दुगुंछाए जहणिया पदेसुदीरणा अणंतगुणा^२ । ४९६. भयस्स जहणिया पदेसुदीरणा विसेसाहिया^३ । ४९७. हस्स-सोगाणं जहणिया पदेसुदीरणा विसेसाहिया । ४९८. रदि-अरदीणं जहणिया पदेसुदीरणा विसेसाहिया । ४९९. तिण्हं वेदाणं जहणिया पदेसुदीरणा अणदरा विसेसाहिया । ५००. संजलणाणं जहणिया पदेसुदीरणा अणदरा संखेज्जगुणा^४ ।

५०१. भुजगार-उदीरणा उवरिमाए गाहाए परूविहिदि । पदणिकखेवो वड्ढी चि तत्थेव ।

तदो पदेसुदीरणा समत्ता ।

गिमध्यात्वकी जघन्य प्रदेश-उदीरणासे सम्यक्त्वप्रकृतिकी जघन्य प्रदेश-उदीरणा असंख्यात-गुणी होती है । सम्यक्त्वप्रकृतिकी जघन्य प्रदेश-उदीरणासे जुगुप्साकी जघन्य प्रदेश-उदीरणा अनन्तगुणी होती है । जगुप्साकी जघन्य प्रदेश-उदीरणासे भयकी जघन्य प्रदेश-उदीरणा विशेष अधिक होती है । भयकी जघन्य प्रदेश-उदीरणासे हास्य और शोककी जघन्य प्रदेश-उदीरणा विशेष अधिक होती है । हास्य-शोककी जघन्य प्रदेश-उदीरणासे रति और अरतिकी जघन्य प्रदेश-उदीरणा विशेष अधिक होती है । रति अरतिकी जघन्य प्रदेश-उदीरणासे तीनों वेदोमेसे किसी एक वेदकी जघन्य प्रदेश-उदीरणा विशेष अधिक होती है । तीनों वेदोमेसे किसी एक वेदकी जघन्य प्रदेश-उदीरणासे संज्वलन कपायोमेसे किसी एक कषायकी जघन्य प्रदेश-उदीरणा संख्यातगुणी होती है ॥४८८-५००॥

चूर्णिसू०—उत्तरप्रकृतिप्रदेश-उदीरणा-सम्बन्धी भुजाकार-उदीरणा आगेकी गाथाके व्याख्यानावसरमे कही जावेगी । वहींपर पदनिक्षेप और वृद्धि अनुयोगद्वारोका भी प्ररूपण किया जायगा ॥५०१॥

इस प्रकार प्रदेश-उदीरणा समाप्त हुई और उसके साथ दूसरी गाथाके पूर्वार्धका व्याख्यान समाप्त हुआ ।

अब वेदक अधिकारकी दूसरी गाथाके उत्तरार्धकी व्याख्या करनेके लिए आचार्य उत्तर सूत्र कहते हैं—

१ कुदो; सम्मामिच्छाइट्टिसकिलेसादो अण तगुणहीणसम्माइट्टिसकिलेसपरिणामेणुदीरिजमाण-दव्वग्गहणादो । जयध०

२ कुदो, देसघाट्टिपडिभागियत्तादो । तदो जइ वि मिच्छाइट्टिसकिलेसेण जहण्णा जादा, तो वि पुव्विल्लादो एसा अण तगुणा त्ति सिद्ध । जयध०

३ एत्थ भय-दुगुच्छामण्णदरस्स जहण्णभावे इच्छिजमाणे दोण्ह पि उदर्यं कादूण गेण्हियव्व; अण्णहा जहण्णभावणुववत्तीदो । जयध०

४ को गुणगारो ? सादिरेयपंचरुवमेत्तो; णोकसायभागस्स पच्चमभागमेत्तवेदुदीरणादव्वादो सपुण्ण-कसायभागमेत्तसजलणोदीरणादव्वस्स पयडिविसेसगम्भस्स तावदिगुणत्तसिद्धीए णिव्वाहमुवल्लभादो । जयध०

५०२. 'सांतर गिरंतरं वा कदि वा समया दु वोद्धव्वा' त्ति एत्थ अंतरं च कालो च हेड्ढदो विहासिया' ।

विदियमाहाए अत्थपरूवणा समत्ता ।

५०३. 'बहुगदरं बहुगदरं से काले को णु थोवदरगं वा' त्ति एत्तो भुजगारो कायव्वो' । ५०४. पयडिभुजगारो द्विदिभुजगारो अणुभागभुजगारो पदेसभुजगारो ।

५०५. एवं मग्गणाए कदाए समत्ता गाहा ।

'जो जं संकामेदि य जं वंधदि जं च जो उदीरेदि ।

तं होइ केण अहियं द्विदि-अणुभागे पदेसग्गे ॥'

५०६. एदिस्से गाहाए अत्थो-बंधो संतकम्मं उदयो उदीरणा संकमो एदेसिं

चूर्णिसू०—'सांतर गिरंतरं वा कदि वा समया दु वोद्धव्वा' दूसरी गाथाके इस उत्तरार्धमें आये अंतर और काल (तथा उनके अविनाभावी जोप अनुयोगद्वारा) अधस्तन अर्थात् पहले प्रकृति-उदीरणा आदिके व्याख्यानावसरमें ही यथास्थान कह दिये गये हैं ॥५०२॥

इस प्रकार दूसरी गाथाकी अर्थ-प्ररूपणा समाप्त हो जाती है ।

अब वेदक अधिकारकी तीसरी गाथाके व्याख्यानके लिए चूर्णिकार उत्तर सूत्र कहते हैं—

चूर्णिसू०—'बहुगदरं बहुगदरं से काले को णु थोवदरगं वा' इस तीसरी गाथाके द्वारा भुजाकार-उदीरणाका व्याख्यान करना चाहिए । वह भुजाकार चार प्रकारका है—प्रकृति-भुजाकार, स्थिति-भुजाकार, अनुभाग-भुजाकार और प्रदेश-भुजाकार ॥५०३-५०४॥

विशेषार्थ—इस गाथा-द्वारा केवल भुजाकार-उदीरणाकी ही प्ररूपणा करनेकी सूचना नहीं की गई है । अपि तु पदनिक्षेप और वृद्धिकी भी प्ररूपणा करना चाहिए, यह भी सूचित किया गया है, क्योंकि भुजाकारके विज्ञेप वर्णनको पदनिक्षेप कहते हैं और पदनिक्षेपके विशेष वर्णनको वृद्धि कहते हैं । इसलिए इन दोनोंका भुजाकार-उदीरणामें ही अन्तर्भाव हो जाता है । यह सब व्याख्यान यथावसर दूसरी गाथाकी व्याख्यामें कर ही आए है, अतः फिर उनका प्ररूपण नहीं करते हैं ।

चूर्णिसू०—इस प्रकार भुजाकारादि तीनों अनुयोगद्वाराके अनुमार्गण करनेपर तीसरी गाथाका अर्थ समाप्त हो जाता है ॥५०५॥

चूर्णिसू०—'जो जीव स्थिति, अनुभाग और प्रदेशाग्रमें जिसे संक्रमण करता है । जिसे बंधता है और जिसकी उदीरणा करता है, वह द्रव्य किससे अधिक होता है और

१ 'सातर गिरतरो वा' त्ति एदेण गाहासुत्तावयवेण सूचिदकालतराण हेट्ठिमोवरिमसेसाणिओग्गा-राविणाभावीण पयडि-ट्ठिदि-अणुभाग-पदेसुदीरणासु सचित्थरमणुमग्गियत्तादो । जयध०

२ 'बहुगदर बहुगदर' इच्चेदेण सुत्तावयवेण भुजगारसण्णिदो अवत्थाविसेसो सूचिदो । से काले 'को णु थोवदरगवा' त्ति एदेण वि अप्पदरसण्णिदो अवत्थाविसेसो सूचिदो । णोहमेदेसिं देसामासयभावेणा-वट्ठिदावत्तन्नसण्णिदाणमवत्थतराणमेत्थेव संगहो । दट्ठव्वो । पुणो 'अणुसमयमुदीरेतो' इच्चेदेण गाहापच्छ-द्वेण भुजगारविसयाण समुक्कित्तणादिअणियोगहाराण देसामासयभावेण कालाणियोगो परूविदो । जयध०

पंचपदं पदाणं उक्त्स्समुक्त्स्सेण जहणं जहणेण अप्पावहुअं पयडीहिं ड्ढिदीहिं अणुभा-
गेहिं पदेसेहिं ।

५०७. पयडीहिं उक्त्स्सेण जाओ पयडीओ उदीरिज्जंति, उदिण्णाओ च ताओ
थोवाओ' । ५०८. जाओ वज्जंति ताओ संखेज्जगुणाओ' । ५०९. जाओ संकामिज्जंति

किससे कम होता है ?' वेदक अधिकारकी इस चौथी गाथाका अर्थ कहते हैं—वन्ध, सत्कर्म,
उदय, उदीरणा और संक्रम, इन पाँचो पदोका प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशकी अपेक्षा
उत्कृष्टका उत्कृष्टके साथ और जघन्यका जघन्यके साथ अल्पवहुत्व कहना चाहिए ॥५०६॥

विशेषार्थ—गाथासे संक्रम आदि पाँचो पदोका उक्त अर्थ किस प्रकार निकलता है,
इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—'जो जं संकामेदि' गाथाके इस प्रथम पदसे 'संक्रम'का ग्रहण
किया गया है । 'जं वंधदि' इस द्वितीय पदसे 'वन्ध'का तथा 'सत्कर्म या सत्ता'का अर्थ
ग्रहण किया गया है, क्योंकि, वन्धकी ही द्वितीयादि समयोमे 'सत्ता' संज्ञा हो जाती है ।
'जं च जो उदीरेदि' इस तृतीय पदसे उदय और उदीरणा'का ग्रहण किया गया है । 'तं
केण होइ अहियं' अर्थात् ये संक्रम, वन्ध आदि किससे अधिक होते हैं और किससे कम
होते हैं, इस चौथे पदसे अल्पवहुत्वका अर्थ-बोध होता है । 'ड्ढिदि-अणुभागे पदेसग्गे' इस
अन्तिम चरणसे प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशका ग्रहण किया गया है । 'प्रकृति' पद
यद्यपि गाथा-सूत्रमें नहीं कहा गया है, तथापि स्थिति, अनुभाग और प्रदेश प्रकृतिके अविना-
भावी हैं, अतः प्रकृतिका ग्रहण अनुक्त-सिद्ध है । यहाँ यह आशंका की जा सकती है कि
वेदक अधिकारमे उदय-उदीरणाका वर्णन तो संगत है, पर वन्ध, संक्रम और सत्कर्मका वर्णन
असंगत है ? इसका समाधान यह है कि उदय और उदीरणा-सम्बन्धी विशेष निर्णय करनेके
लिए वन्ध, संक्रम और सत्कर्मके वर्णनकी भी आवश्यकता होती है और उनके साथ अल्प-
वहुत्व लगाये बिना उदय-उदीरणासम्बन्धी अल्पवहुत्वका समीचीन बोध हो नहीं सकता है ।
अतः यहाँपर उनका वर्णन असंगत नहीं है । यह गाथा इस अधिकारकी चूलिकारूप जानना
चाहिए ।

अब चूर्णिकार इनका यथाक्रमसे वर्णन करते हुए पहले प्रकृतियोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट
अल्पवहुत्वका वर्णन करते हैं—

चूर्णिसू०—प्रकृतियोंकी अपेक्षा उत्कृष्टतः अर्थात् अधिक से अधिक जितनी प्रकृतियाँ
उदयमे आती हैं और उदीरणा की जाती है, वे आगे कहे जानेवाले पदोकी अपेक्षा सबसे कम
हैं । क्योंकि, मोहकी दश प्रकृतियोंका ही एक साथ उदय या उदीरणा होती है । जितनी
प्रकृतियाँ वंधती हैं, वे उदय और उदीरणाकी प्रकृतियोंसे संख्यातगुणी हैं । क्योंकि, मोहकी
वन्ध-योग्य प्रकृतियाँ छत्तीस बतलाई गई हैं, सम्यग्भिध्यात्त्व और सम्यक्त्वप्रकृतिका वन्ध

१ कुदो, एदासि थोवभावणिणयो चे, दससखावच्छिण्णपमाणत्तादो । जयध०

२ कुदो; छत्तीससखावच्छिण्णपमाणत्तादो । जयध०

ताओ विसेसाहियाओ' । ५१०. संतकम्मं विसेसाहियं' ।

५११ जहण्णाओ । ५१२. जाओ पयडीओ वज्झंति संकामिज्जंति उदीरि-
ज्जंति उदिण्णाओ संतकम्मं च एक्का पयडी' ।

५१३ ङ्घिदीहिं उक्कस्सेण जाओ ङ्घिदीओ मिच्छत्तस्स वज्झंति ताओ थोवाओ' ।

नहीं होता है । जितनी प्रकृतियों संक्रमणको प्राप्त होती है, वे बंध-योग्य प्रकृतियोंसे विशेष अधिक हैं । क्योंकि उनकी संख्या सत्ताईस बतलाई गई है । संक्रमण-योग्य प्रकृतियोंसे सत्कर्म योग्य प्रकृतियों विशेष अधिक है, क्योंकि मोहकी सत्ता-योग्य प्रकृतियों अट्ठाईस बतलाई गई है ॥५०७-५१०॥

अत्र प्रकृतियोंकी अपेक्षा जघन्य अल्पबहुत्व कहते हैं—

चूर्णिसू०—जितनी प्रकृतियों बंधती हैं, संक्रमण करती है, उदय और उदीरणाको प्राप्त होती है, तथा सत्त्वमे रहती है, उन प्रकृतियोंकी संख्या एक है ॥५११-५१२॥

विशेषार्थ—नवम गुणस्थानमे मोहकी एक संज्वलन लोभप्रकृति ही बंधती है । संक्रमण भी एक मायासंज्वलनका नवे गुणस्थानमे होता है । उदय, उदीरणा और सत्त्व भी दशमे गुणस्थानमे एक सूक्ष्म लोभसंज्वलनकपायका पाया जाता है । इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि बन्ध, उदय, उदीरणा, संक्रम और सत्कर्म जघन्यतः मोहकी एक प्रकृतिका ही होता है ।

इस प्रकार प्रकृति-विषयक अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

अत्र स्थिति-विषयक-अल्पबहुत्व कहनेके लिए चूर्णिकार उत्तर सूत्र कहते हैं—

चूर्णिसू०—स्थितिकी अपेक्षा उत्कर्षसे मिथ्यात्वकी जितनी स्थितियाँ बंधती है, वे सबसे कम हैं ॥५१३॥

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि यहाँपर आवाधाकालसे न्यून सत्तर कोड़ी-कोड़ी सागरप्रमाण निपेकस्थितिकी विवक्षा की गई है । मिथ्यात्वका उत्कृष्ट आवाधाकाल सात हजार वर्ष है ।

१ कुदो; सत्तावीसपयडिपमाणत्तादो । जयध०

२ कुदो, अट्ठावीसपयडीणमुक्कस्ससतकम्मभावेण समुबलभादो ।

३ त जहा-वधेण ताव जहण्णेण लोहसजलणसण्णिदा एकका चेव पयडी होदि, अणियङ्घिमि माया-संजलणवधवोच्छेदे तदुबलभादो । सकमो वि मायासंजलणसण्णिदाए एक्कस्से चेव पयडीए होइ; माणसज-लणसकमवोच्छेदे तदुबलभादो । उदयोदीरणसतकम्माण पि जहण्णभावो अणियङ्घि-सुहुमसापराइएसु वेत्तन्वो । एवमेदासिं जहण्णवध-सकम-सतकम्मोदयोदीरणमाणमेयपगडिपमाणत्तादो णत्थि अप्पावहुअमिदि जाणाविदमेदेण सुत्तेण । जयध०

४ किंपमाणाओ मिच्छत्तस्स उक्कस्सेण वज्झमाणट्ठिदीओ ? आवाहूणसत्तरिसागरोवमकोडाकोडि-मेत्ताओ । कुदो; णिसेयट्ठिदीण चेव विवक्खियत्तादो । जयध०

५१४. उदीरिज्जंति संकापिज्जंति च विसेसाहियाओ^१ । ५१५. उदिण्णाओ विसेसाहि-
याओ^२ । ५१६ संतकम्मं विसेसाहियं^३ । ५१७ एवं सोलसकसायाणं ।

५१८. सम्पत्तस्स उक्खसेण जाओ द्विदीओ संकापिज्जंति उदीरिज्जंति च

चूर्णिसू०—जो स्थितियाँ मिथ्यात्वकी उत्कर्षसे उदीरणाको प्राप्त होती हैं और संक्र-
मणको प्राप्त होती हैं, वे परस्परमे समान होकर भी मिथ्यात्वकी बंधनेवाली स्थितियोंसे विशेष
अधिक है ॥५१४॥

विशेषार्थ—इनका प्रमाण बंधावलीसे कम सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपम है ।

चूर्णिसू०—मिथ्यात्वकी उदीरणा और संक्रमणको प्राप्त होनेवाली स्थितियोंसे उदय-
को प्राप्त होनेवाली स्थितियाँ विशेष अधिक है ॥५१५॥

विशेषार्थ—क्योकि, उदीर्यमाण सर्व स्थितियाँ तो उदयको प्राप्त होती ही हैं, किन्तु
तत्काल वेद्यमान उदय-स्थिति भी इसमें सम्मिलित हो जाती है, अतः यहाँपर एक स्थिति-
मात्रसे अधिक विशेष जानना चाहिए ।

चूर्णिसू०—मिथ्यात्वकी उदयको प्राप्त होनेवाली स्थितियोंसे उसका सत्कर्म विशेष
अधिक है ॥५१६॥

विशेषार्थ—क्योकि, सत्कर्मका प्रमाण पूरा सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपम है । यहाँ-
पर एक समय कम दो आवली प्रमाणकाल विशेष अधिक है । इसका कारण यह है कि
बंधावलीके साथ समयोन उदयावलीका यहाँपर प्रवेश देखा जाता है ।

चूर्णिसू०—इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी आदि सोलह कपायोका भी अल्पवहुत्व
जानना चाहिए ॥५१७॥

विशेषार्थ—कपायोकी स्थिति-आदिका अल्पवहुत्व कहते समय सत्तर कोड़ाकोड़ी
सागरोपमके स्थानपर चालीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम कहना चाहिए ।

चूर्णिसू०—सम्यक्त्वप्रकृतिकी उत्कर्षसे जितनी स्थितियाँ संक्रमणको प्राप्त होती हैं
और उदीरणाको प्राप्त होती हैं, वे परस्परमे समान होकर भी वक्ष्यमाण पदोंकी अपेक्षा सबसे
कम है ॥५१८॥

विशेषार्थ—क्योकि, उसका प्रमाण एक अन्तर्मुहूर्त और आवलीसे कम सत्तर
कोड़ाकोड़ी सागरोपम है ।

१ कुदो एदासि विसेसाहियत्त ? बंधावलियाए उदयावलियाए च ऊणसत्तरिसागरोवमकोडाकोडि-
पमाणत्तादो । जयव०

२ त कथ ? उदीरिज्जमाणट्ठिदीओ सच्चाओ चैव उदिण्णाओ । पुणो तत्कालवेदिज्जमाणउदयट्ठिदी
वि उदिण्णा होइ; पत्तोदयकालत्तादो । तदो एगट्ठिदिमेत्तेण विसेसाहियत्तमेत्थ वेत्तव्व ।

३ कुदो, सपुण्णसत्तरिसागरोवमकोडाकोडिपमाणत्तादो । केत्तियमेत्तो विसेसो ? समयूणदोआवलिय-
मेत्तो; बंधावलियाए सह समयूणुदयावलियाए एत्थ पवेसुवलभादो । जयध०

ताओ थोवाओ^१ । ५१९. उदिण्णाओ विसंसाहियाओ^२ । ५२०. संतकम्म विसंसाहियं^३ ।

५२१. सम्मामिच्छत्तस्स जाओ द्विदीओ उदीरिज्जंति ताओ थोवाओ^४ ।

५२२ उदिण्णाओ द्विदीओ विसंसाहियाओ^५ । ५२३. संकामिज्जंति द्विदीओ विसंसा-

चूर्णिसू०—सम्यक्त्वप्रकृतिकी संक्रमण और उदीरणाका प्राप्त होनेवाली स्थितियोंमें उसीकी उदयको प्राप्त होनेवाली स्थितियाँ कुछ विज्ञेय अधिक हैं ॥५१९॥

विशेषार्थ—यहाँ एक स्थितिमें अविक विज्ञेय जानना चाहिए ।

चूर्णिसू०—सम्यक्त्वप्रकृतिकी उदयको प्राप्त होनेवाली स्थितियोंसे उसीका सत्कर्म विज्ञेय अधिक है ॥५२०॥

विशेषार्थ—यह विज्ञेयता सम्पूर्ण आवलीमात्रसे अविक है ।

चूर्णिसू०—सम्यग्मिथ्यात्वकी जितनी स्थितियाँ उदीरणाको प्राप्त होती हैं, वे वक्ष्यमाण पदोंकी अपेक्षा सबसे कम है ॥५२१॥

विशेषार्थ—क्योंकि, उनका प्रमाण दो अन्तर्मुहूर्त और एक उदयावलीसे कम सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपम है ।

चूर्णिसू०—सम्यग्मिथ्यात्वकी उदीरणाको प्राप्त होनेवाली स्थितियोंसे उसीकी उदयको प्राप्त होनेवाली स्थितियाँ कुछ विज्ञेय अधिक हैं ॥५२२॥

विशेषार्थ—यह विज्ञेयता एक स्थितिमात्र जानना चाहिए ।

चूर्णिसू०—सम्यग्मिथ्यात्वकी उदयको प्राप्त होनेवाली स्थितियोंसे उसीकी संक्रमणको प्राप्त होनेवाली स्थितियाँ कुछ विज्ञेय अधिक है । ५२३॥

विशेषार्थ—यहाँ विज्ञेय अविकृताका प्रमाण एक अन्तर्मुहूर्तमात्र है ।

१ मिच्छत्तस्स उक्कस्सट्ठिदि वधिद्य अतोमुहुत्तपडिभागेण वेदगमम्मत्ते पडिवण्णे सम्मत्तस्स उक्कस्सट्ठिदिसत्तकम्ममतोमुहुत्तणसत्तरिसागरोवममेत्त होइ । पुणो त सत्तकम्म सम्माइट्ठिदियसमए उदयावलियवाहिरादो ओकड्डियूण वेदयमाणस्स उक्कस्सट्ठिदिउदीरणा उक्कस्सट्ठिदिसंक्रमो च होदि । तेण कारणेणतोमुहुत्तणसत्तरिसागरोवमकोडाकोडीओ आवलियूणाओ सम्मत्तस्स संकामिज्जमाणोदीरिज्जमाणट्ठिदीओ होति त्ति थोवाओ जादाओ । जयध०

२ केत्तियमेत्तो विसंसे ? एगट्ठिदिमेत्तो । किं कारणं; तक्कालवेदिज्जमाणुदयट्ठिदीए वि एत्थ तन्भावदसणादो । जयध०

३ केत्तियमेत्तो विसंसे ? सपुण्णावलियमेत्तो । किं कारणं, सम्माइट्ठिपदमसमए गल्लिदेगट्ठिदीए सह समयूणुदयावलियाए एत्थ पवेसुवलभादो । जयध०

४ किंपमाणाओ ताओ ? दोहि अंतोमुहुत्तेहि उदयावलियाए च ऊणसत्तरिसागरोवमकोडाकोडिपमाणाओ । त कथं ? मिच्छत्तस्स उक्कस्सट्ठिदि वधिद्यूणतोमुहुत्तपडिभगो सव्वलहु सम्मत्त वेत्तूण सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्सट्ठिदिसत्तकम्ममुपाइय पुणो सव्वजहण्णेणतोमुहुत्तेण सम्मामिच्छत्तसुवणमिय तं सत्तकम्ममुदयावलिवाहिरमुदीरेदि त्ति एदेण कारणेणान्तरणिट्ठिपमाणाओ होदूण थोवाओ जादाओ । जयध०

५ केत्तियमेत्तो विसंसे ? एगट्ठिदिमेत्तो । कुदो, तक्कालवेदिज्जमाणुदयट्ठिदीए वि एत्थतन्भूदत्तादो । जयध०

हियाओ^१ । ५२४. संतकम्मट्टिदीओ विसेसाहियाओ^२ । ५२५. णवणोकसायाणं जाओ ट्टिदीओ वज्झंति ताओ थोवाओ^३ । ५२६. उदीरिज्जंति संकामिज्जंति य संखेज्जगुणाओ^४ । ५२७. उदिण्णाओ विसेसाहियाओ^५ । ५२८. संतकम्मट्टिदीओ विसेसाहियाओ^६ ।

चूर्णिसू०—सम्यग्मिध्यात्वकी संक्रमणको प्राप्त होनेवाली स्थितियोंसे उसीकी सत्कर्म-स्थितियाँ कुछ विशेष अधिक है ॥५२४॥

विशेषार्थ—यह विशेष अधिकता सम्पूर्ण आवलीमात्र जानना चाहिए ।

चूर्णिसू०—नव नोकपायोकी जो स्थितियाँ बन्धको प्राप्त होती है, वे सबसे कम है ॥५२५॥

विशेषार्थ—क्योंकि, उनका प्रमाण आवाधाकालसे हीन अपना-अपना उत्कृष्ट स्थितिवन्ध है ।

चूर्णिसू०—नव नोकपायोकी बँधनेवाली स्थितियोंसे उनकी उदीरणा और संक्रमणको प्राप्त होनेवाली स्थितियाँ संख्यातगुणी है ॥५२६॥

विशेषार्थ—क्योंकि, उनका प्रमाण बन्धावली, संक्रमणावली और उद्यावलीसे हीन वालीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम है ।

चूर्णिसू०—नव नोकपायोकी उदीरणा और संक्रमणको प्राप्त होनेवाली स्थितियोंसे उन्हींकी उद्यको प्राप्त होनेवाली स्थितियाँ कुछ विशेष अधिक है ॥५२७॥

विशेषार्थ—यहाँ अधिकताका प्रमाण एक स्थितिमात्र है ।

चूर्णिसू०—नव नोकपायोकी उद्यको प्राप्त होनेवाली स्थितियोंसे उन्हींकी सत्कर्म-स्थितियाँ कुछ विशेष अधिक है ॥५२८॥

विशेषार्थ—यहाँ अधिकताका प्रमाण एक समय कम दो आवलीमात्र है, क्योंकि यहाँ पर समयोत्त उद्यावलीके साथ संक्रमणावलीका भी अन्तर्भाव हो जाता है ।

अब जघन्य स्थिति-सम्बन्धी अल्पबहुत्वको कहते हैं—

१ केत्तियमेत्तो विसेसो ? अतोसुहुत्तमेत्तो । कुदो; मिच्छत्तु क्खस्सट्ठिदि वधियूण सम्मत्तं पडिवण्ण-विदियसमए चेव सम्मामिच्छत्तस्सुक्खस्सट्ठिदिसंक्रमावलवणादो । जयध०

२ केत्तियमेत्तो विसेसो ? सपुण्णावलियमेत्तो । कुदो, सम्माइट्ठिपढमसमए चेव उक्खस्सट्ठिदि-सक्रमावलवणादो । जयध०

३ कुदो, आवाहूणसग-सगुक्खस्सट्ठिदिवधपमाणत्तादो । जयध०

४ कुदो, सत्वासिं वधसक्रमणावलियाहिं उद्यावलियाए च परिहीणत्तलीससागरोवमकोडा-कोडीमेत्तट्ठदीण सकामिज्जमाणोदीरिज्जमाणणमुवलभादो । जयध०

५ केत्तियमेत्तो विसेसो ? एगट्ठिदिमेत्तो । जयध०

६ केत्तियमेत्तो विसेसो ? समयूण-दो-आवलियमेत्तो । किं कारण, समयूणुद्यावलियाए सह सक्रमणावलियाए तथ पवेसुवलभादो । जयध०

५२९. जहणणेण मिच्छत्तस्स एगा द्विदी उदीग्जिदि, उदयो संतकम्मं च थोवाणि^१ । ५३०. जट्टिदि-उदयो च तत्तियो चेव^२ । ५३१. जट्टिदि-संतकम्मं संखेज्जगुणं^३ । ५३२. जट्टिदि-उदीरणा असंखेज्जगुणा^४ । ५३३. जहणओ द्विदिसंतकम्मा असंखेज्जगुणो^५ । ५३४ जहणओ द्विदिवंधो असंखेज्जगुणो^६ ।

चूर्णिसू०—जघन्यकी अपेक्षा मिथ्यात्वकी एक स्थिति उदीरणाको प्राप्त होती है, उदय भी एक स्थितिप्रमाण है और सत्कर्म भी एक स्थितिप्रमाण है । (अतः ये तीनों एक स्थितिमात्र होकरके भी वक्ष्यमाण पदोंकी अपेक्षा सबसे कम हैं ।) मिथ्यात्वका जघन्य यत्स्थितिक उदय भी तत्प्रमाण ही है । मिथ्यात्वके जघन्य यत्स्थितिक उदयसे यत्स्थितिक सत्कर्म संख्यातगुणा है ॥५२९-५३१॥

विशेषार्थ—मिथ्यात्वके जघन्य यत्स्थितिक-उदयसे यत्स्थितिक सत्कर्मके संख्यातगुणित कहनेका कारण यह है कि एक स्थितिकी अपेक्षा दो समय-सम्बन्धी स्थिति दुगुनी होती है । विवक्षित प्रकृतिकी संक्रमणकालमें जो स्थिति होती है, उसे 'यत्स्थिति' कहते हैं । वह 'यत्स्थिति' जिसके पाई जावे, उसे 'यत्स्थितिक' कहते हैं । इस प्रकारके यत्स्थितिके उदयको 'यत्स्थितिक-उदय', उदीरणाको 'यत्स्थितिक-उदीरणा' और सत्कर्मको 'यत्स्थितिक सत्कर्म' कहते हैं । आगे भी सर्वत्र 'जट्टिति' पदसे 'यत्स्थिति' का ही अर्थ ग्रहण करना चाहिए ।

चूर्णिसू०—मिथ्यात्वके यत्स्थितिक सत्कर्मसे उसीकी यत्स्थितिक उदीरणा असंख्यातगुणी है ॥५३२॥

विशेषार्थ—क्योकि, उसका प्रमाण एक समय अधिक आवलीप्रमाण है । असंख्यात समयकी एक आवली होती है, अतः इसके असंख्यातगुणित होना सिद्ध है ।

चूर्णिसू०—मिथ्यात्वकी यत्स्थितिक-उदीरणासे उसीका जघन्य स्थितिक-सत्कर्म असंख्यातगुणा है ॥५३३॥

विशेषार्थ—क्योकि, इसका प्रमाण पल्योपमके असंख्यातवे भाग है ।

चूर्णिसू०—मिथ्यात्वके जघन्य स्थिति सत्कर्मसे उसीका जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है ॥५३४॥

१ तं जहा—उदीरणा ताव पढमसम्मत्ताभिसुहमिच्छाइट्टस्स समयाहियावलियमेत्तमिच्छत्तपटमट्टिदीए सेसाए एगट्टिदिमेत्ता होदूण जहणिया होइ । उदयो वि तस्सेवावलियपविट्ठपढमट्टिदियस्स जहणओ होइ । सत्कम्म पुण दंसणमोहक्खवगस्स एगट्टिदिदुसमयकालमेत्तमिच्छत्तट्टिदिसत्कम्म घेत्तूण जहणयं होइ । तदो मिच्छत्तस्स जहणिया ट्टिदि-उदीरणा उदयो सत्कम्म च एगट्टिदिमेत्ताणि होदूण थोवाणि जादाणि । जयध०

२ किं कारण; मिच्छत्तपढमट्टिदीए आवलियपविट्ठाए आवलियमेत्तकाल जहणओ ट्टिदि-उदओ होइ । तत्थ जट्टिदि-उदयो वि तत्तियो चेव, तग्हा जट्टिदि-उदयो तत्तियो चेवेत्ति भणिद । जयध०

३ किं कारण; एगट्टिदीदो दुसमयकालट्टिदीए दुगुणत्तुवलभादो । जयध०

४ कुदो; समयाहियावलियपमाणत्तादो । जयध०

५ कुदो, पल्लिदोवमस्स असखेज्जदिभागपमाणत्तादो । जयध०

६ किं कारण, सव्वचिसुद्धवादरेइदियपजत्तस्स पल्लिदोवमासखेज्जभागपरिहीणसागरोवममेत्तजहण-ट्टिदिवंधगाहणादो । जयध०

५३५. सम्मत्तस्र जहण्णगं द्विदिसंतकम्मं संक्रमो उदीरणा उदयो च एगा द्विदी^१ । ५३६. जह्विदिसंतकम्मं जह्विदि-उदयो च तत्तियो चेव^२ । ५३७. सेसाणि जह्विदिगाणि असंखेज्जगुणाणि^३ ।

५३८. सम्भापिच्छत्तस्र जहण्णयं द्विदिसंतकम्मं थोवं^४ । ५३९. जह्विदि-संतकम्मं संखेज्जगुणं^५ । ५४०. जहण्णओ द्विदिसंक्रमो अमंखेज्जगुणो^६ । ५४१. जह-णिण्या द्विदि-उदीरणा असंखेज्जगुणा^७ । ५४२. जहण्णओ द्विदि-उदयो विसैसाहिओ^८ ।

विशेषार्थ—क्योंकि, सर्वविशुद्ध आदर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके पल्योपमके असंख्यातवे भागसे हीन सागरापमप्रमाण जघन्य स्थितिवन्ध माना गया है ।

चूर्णिमू०—सम्यक्त्वप्रकृतिका जघन्य स्थिति सत्कर्म, संक्रमण, उदीरणा और उदय एक स्थितिमात्र है । (अतः वक्ष्यमाण सर्वपदोकी अपेक्षा उनका प्रमाण सबसे कम है ।) सम्यक्त्वप्रकृतिका जितना जघन्यस्थिति सत्कर्म है यत्स्थितिक-सत्कर्म और यत्स्थितिक-उदय भी उतना ही है । सम्यक्त्वप्रकृतिके यत्स्थितिक-उदयमे उसीके जेय यत्स्थितिक (उदीरणा आदि) असंख्यातगुणित होने हैं । क्योंकि, उनका प्रमाण एक समयमे अधिक आवली-प्रमाण है ॥५३५-५३७॥

चूर्णिमू०—सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिमत्कर्म वक्ष्यमाण सर्व पदोकी अपेक्षा सबसे कम है । (क्योंकि, उसका प्रमाण एक स्थितिमात्र ।) सम्यग्मिथ्यात्वके जघन्य स्थितिमत्कर्मसे उसीका यत्स्थितिक-सत्कर्म संख्यातगुणा है । (क्योंकि, उसका प्रमाण दो स्थितिप्रमाण है ।) सम्यग्मिथ्यात्वके यत्स्थितिकमत्कर्मसे उसीका जघन्य स्थिति-संक्रमण असंख्यातगुणा है । (क्योंकि, उसका प्रमाण पल्योपमके असंख्यातवे भाग है ।) सम्यग्मिथ्यात्वके जघन्य स्थिति-संक्रमणमे उसीकी जघन्य स्थिति-उदीरणा असंख्यातगुणी है । (क्योंकि, उसका प्रमाण कुछ कम सागरापम है ।) सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य स्थिति-उदीरणासे उसीका जघन्य स्थिति-उदय विशेष अधिक है । (यह विशेषता केवल एक स्थितिमात्र है ।) ॥५३८-५४२॥

१ त जहा-कदकरणिजचरिमसमे सम्मत्तस्र जहण्णट्ठिदिसत्तम्ममेगट्ठिदिमेत्तमवलम्बदे । जहण्ण-ट्ठिदि-उदयो वि तत्थेव गहेयव्वो । अथवा कदकरणिजचरिमावल्याए सब्बत्थेव जहण्णट्ठिदि-उदयो व समुवलम्बदे; तेत्तियमेत्तकालमेक्खिस्सेव ट्ठिदीए उदयदमणादो । एणो कदकरणिजत्तस समयाहियावल्याए सब्बत्थेव जहण्णट्ठिदि उदीरणा जहण्णिया होइ; एगट्ठिदिविमयत्तादो । सकमो वि तत्थेव गहेयव्वो । एवमेदेसिमेगट्ठिदिपमाणत्तादो थोवत्तमिदि सिद्ध । जयव०

२ कुदो, कदकरणिजचरिमसमए तेसिं पि एगट्ठिदिपमाणत्तदंसणादो । जयध०

३ कुदो, समयाहियावल्यापमाणत्तादो । जयध०

४ कुदो, एगट्ठिदिपमाणत्तादो । जयध०

५ कुदो, वृत्तमयकालट्ठिदिपमाणत्तादा । जयध०

६ कुदो; पल्लिवमासखेज्जभागपमाणत्तादो । जयव०

७ कुदो, देसुणसागराधमपमाणत्तादो । जयव०

८ केत्तियमेत्तो विसैसा ? एगट्ठिदिमेत्तो ? किं कारणं; उदयट्ठिदीए वि एत्थ पवेसदंसणादो ।

जयध०

५४३. वारसकसायाणं जहण्णयं ढ्ढिदिसंतकम्मं थोवं^१ । ५४४. जड्ढिदिसंत-
कम्मं संखेज्जगुणं^२ । ५४५. जहण्णगो ढ्ढिदिसंक्रमो असंखेज्जगुणो^३ । ५४६. जहण्णगो
वंधो असंखेज्जगुणो^४ । ५४७. जहण्णिया ढ्ढिदि-उदीरणा विसेसाहिया^५ । ५४८. जह-
ण्णगो ढ्ढिदि-उदयो विसेसाहियो^६ ।

५४९. तिण्हं संजलणाणं जहण्णिया ढ्ढिदि-उदीरणा थोवां^१ । ५५०. जहण्णगो
ढ्ढिदि-उदयो संखेज्जगुणो^२ । ५५१. जड्ढिदि-उदयो जड्ढिदि-उदीरणा च असंखेज्जगुणो^३ ।
५५२. जहण्णगो ढ्ढिदिवंधो ढ्ढिदिसंक्रमो ढ्ढिदिसंतकम्मं च संखेज्जगुणाणि^४ । ५५३.

चूर्णिसू०—अनन्तानुबन्धी आदि वारह कपायोका जघन्य स्थिति-सत्कर्म वक्ष्यमाण
सर्व पदोकी अपेक्षा सबसे कम है । वारह कपायोके जघन्य स्थितिसत्कर्मसे उन्हींका यत्स्थि-
तिक सत्कर्म संख्यातगुणा है । वारह कपायोके यत्स्थितिक सत्कर्मसे उन्हींका जघन्य स्थिति-
संक्रमण असंख्यातगुणा है । वारह कपायोके जघन्य स्थितिसंक्रमणसे उन्हींका जघन्य स्थिति-
बन्ध असंख्यातगुणा है । वारह कपायोके जघन्य स्थितिवन्धसे उन्हींकी जघन्य स्थिति-
उदीरणा विशेष अधिक है । वारह कपायोकी जघन्य स्थिति-उदीरणासे उन्हींका जघन्य
स्थिति-उदय विशेष अधिक है ॥५४३-५४८॥

चूर्णिसू० क्रोधादि तीनों संज्वलनकपायोंकी जघन्य स्थिति-उदीरणा वक्ष्यमाण सर्व
पदोकी अपेक्षा सबसे कम है । (क्योंकि, वह एक स्थितिप्रमाण है ।) तीनों संज्वलनोंकी
जघन्य स्थिति-उदीरणासे उन्हींका जघन्य स्थिति-उदय संख्यातगुणा है । (क्योंकि, वह दो
स्थितिप्रमाण है ।) तीनों संज्वलनोंके जघन्य स्थिति-उदयसे उन्हींका यत्स्थितिक-उदय और
यत्स्थितिक-उदीरणा असंख्यातगुणी हैं । (क्योंकि, उनका प्रमाण एक समय अधिक आवली-
काल है ।) तीनों संज्वलनकपायोके यत्स्थितिक-उदय और उदीरणासे उन्हींका जघन्य स्थिति-
बन्ध, जघन्य स्थितिसंक्रमण और जघन्य स्थितिसत्कर्म ये तीनों संख्यातगुणित हैं । (क्योंकि,

१ कुदो; एगट्ठदिपमाणत्तादो । जयध०

२ कुदो; दुसमयकालट्ठदिपमाणत्तादो । जयध०

३ कुदो; पलिटोवमासखेज्जभागपमाणत्तादो । जयध०

४ किं कारणं, सब्बविसुद्धवादरेइदियजहण्णट्ठिदिवधत्स गहणादो । जयध०

५ कुदो; सब्बविसुद्धवादरेइदियत्स जहण्णट्ठिदि-वधादो विसेसाहियहदसमुत्पत्तिय-जहण्णट्ठिदि-
संतकम्मविसयत्तेण पडिलद्धजहण्णभावत्तादो । जयध०

६ केत्तियमेत्तो विसेसो ? एगट्ठदिमेत्तो । कुदो, उदयट्ठिदीए वि एत्थंतन्भावदसणादो । जयध०

७ किं कारणं; एगट्ठदिपमाणत्तादो । जयध०

८ कुदो; दोट्ठिदिपमाणत्तादो । णेदमसिद्ध; तम्मि चैव विसए उदयट्ठिदीए सह उदीरिजमाण-
ट्ठिदीए जहण्णोदयभावेण विवक्खियत्तादो । जयध०

९ कुदो, समयाहियावलयपमाणत्तादो । जयध०

१० कुदो; आवाहूण-वेमास-मास-पक्खपमाणत्तादो । किमट्ठमावाहाए ऊणत्तमेत्थ कीरदे ? ण,
जहण्णवध-सत्कम्माण णिसेयपहाणत्तावलवणादो । जयध०

जट्टिदिसंकमो विसेसाहिओ' । ५५४. जट्टिदिसंतकम्मं विसेसाहियं । ५५५. जट्टिदि-
वंधो विसेसाहिओ' ।

५५६. लोहसंजलणस्स जहण्णजट्टिदिसंकमो संतकम्ममुदयोदीरणा च तुल्ला
थोवा' । ५५७. जट्टिदि-उदयो जट्टिदिसंतकम्मं च तत्तियं चेव' । ५५८. जट्टिदि-उदी-

उनका प्रमाण क्रमशः आवाधाकालसे हीन दो मास, एक मास और एक पक्ष-प्रमाण कहा गया है ।) तीनों संज्वलनोके जघन्य स्थितिवन्ध आदि पदोकी अपेक्षा उन्हींका यत्स्थितिक-संक्रमण विशेष अधिक है । (यह विशेष अन्तर्मुहूर्तप्रमाण है, क्योंकि यहाँपर समयोन दो आवलीसे हीन जघन्य आवाधाकालका प्रवेश देखा जाता है ।) तीनों संज्वलनोके यत्स्थितिक संक्रमणसे उन्हींका यत्स्थितिक-सत्कर्म विशेष अधिक है । (यह विशेष एक स्थितिमात्र है ।) तीनों संज्वलनोंके यत्स्थितिक सत्कर्मसे उन्हींका यत्स्थितिक-वन्ध विशेष अधिक है । (यह विशेष दो समय कम दो आवलीमात्र जानना चाहिए । क्योंकि, सम्पूर्ण आवाधाकालके साथ ही यत्स्थितिवन्धके जघन्यपना माना गया है ।) ॥५४९-५५५॥

चूर्णिसू०—लोभसंज्वलनका जघन्य स्थितिसंक्रमण, जघन्य स्थितिसत्कर्म, जघन्य उदय और जघन्य उदीरणा ये चारो परस्परमे तुल्य है और वक्ष्यमाण पदोकी अपेक्षा सबसे कम हैं । (क्योंकि, इन सबका प्रमाण एक स्थितिमात्र है ।) लोभसंज्वलनका जघन्य यत्स्थितिक-उदय और जघन्य यत्स्थितिक-सत्कर्म भी उतना ही अर्थात् एक स्थितिप्रमाण ही है । लोभसंज्वलनके जघन्य यत्स्थितिक-उदय और जघन्य यत्स्थितिक-सत्कर्मसे उसीकी जघन्य यत्स्थितिक उदीरणा और जघन्य यत्स्थितिक संक्रमण असंख्यातगुणित है । (क्योंकि, उनका प्रमाण एक समय अधिक आवलीकाल है ।) लोभसंज्वलनके जघन्य यत्स्थितिक-उदीरणा और जघन्य संक्रमणसे उसीका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । (क्योंकि, अनिवृत्तिकरण गुणस्थानके अन्तिम समयमे होनेवाले आवाधा-विहीन अन्तर्मुहूर्त-प्रमाण स्थितिवन्धको यहाँ

१ केत्तियमेत्तो विसेसो ? अंतोमुहुत्तमेत्तो । कुटो, समयूणदो-आवलियाहिं परिहीण-जहण्णावाहाए एत्थ पवेसदसणादो । जयध०

२ केत्तियमेत्तो विसेसो ? एगट्ठिदमेत्तो । किं कारण; सकमणावलियाए चरिमसमयम्मि जट्टिदिसंकमो जहण्णो जादो । जट्टिदिसंतकम्म पुण तत्तो हेट्ठिमाणतरसमए वट्टमाणस्स जहण्ण होह, तेण कारणेण सकमणावलियाए दुचरिमसमयप्पवेसेण विसेसाहियत्तमेत्थ गट्टेयव्व । जयध०

३ केत्तियमेत्तो विसेसो ? दुसमयूणदोआवलियमेत्तो । किं कारण; सपुण्णावाहाए जट्टिदिवधस्स जहण्णभावदसणादो । जयध०

४ कुटो, सव्वेसिमेगट्टिदिपमाणत्तादो । त कथ; सुहुमसापराइयस्स समयाहियावलियाए ट्ठिदिसंकमो ट्ठिदि-उदीरणा च जहण्णया होइ । [तस्सेव चरिमसमए ट्ठिदिसंतकम्ममुदयो च जहण्णभाव पडिवज्जे तदो सव्वेसिमेयट्ठिदिपमाणत्तादो थोवत्तमिदि सिद्ध ।

५ किं कारण; उहयत्थ जहण्णट्ठिदीदो जट्टिदीए भेदाणुवलंभादो । जयध०

रणा संकपो च असंखेज्जगुणो^१ । ५५९. जहण्णगो द्विदिवंधो मंतेज्जगुणो^२ । ५६०. जह्दिदिवंधो विसेसाहियो^३ ।

५६१. इत्थि-णचुंमयवेदाणं जहण्णद्विदिमंतकम्ममृद्गोदीरणा च थोवाणि^४ । ५६२. जह्दिदिसंतकम्मं जह्दिदि-उदयो च तत्तियो चैवं^५ । ५६३. जह्दिदि-उदीरणा असंखेज्जगुणा^६ । ५६४. जहण्णगो द्विदिमंकपो असंखेज्जगुणो^७ । ५६५. जहण्णगो द्विदि-वंधो असंखेज्जगुणो^८ ।

५६६. पुरिसवेदस्स जहण्णगो द्विदि-उदयो द्विदि-उदीरणा च थोवा^९ । ५६७.

ग्रहण किया गया है ।) लोभसंज्वलनके जघन्य स्थितिवन्धमे उर्साका यत्स्थितिक वन्ध विशेष अधिक है । (क्योंकि, यहाँ पर उममे जघन्य आवावाकाल भी नम्मिलित हो जाता है ।) ॥५५६-५६०॥

चूणिसू०—स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका जघन्य स्थिति-सत्कर्म, जघन्य स्थिति-उदय और जघन्य स्थिति-उदीरणा ये तीनों परस्परमे समान हैं और वक्ष्यमाण पदोंकी अपेक्षा मन्त्रमे कम हैं । (क्योंकि, उनका प्रमाण एक स्थितिमात्र है । स्त्री और नपुंसक वेदका जघन्य यत्स्थितिकसत्कर्म और जघन्य यत्स्थितिक उदय भी उनना अर्थात् एक स्थितिप्रमाण ही है । स्त्री और नपुंसक वेदके जघन्य यत्स्थितिक-सत्कर्म और जघन्य यत्स्थितिक-उदयसे उन्हींकी जघन्य यत्स्थितिक-उदीरणा असंख्यातगुणी है । (क्योंकि, उसका प्रमाण एक समय अधिक आवलीकाल है ।) स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी जघन्य यत्स्थितिक-उदीरणासे उसीका जघन्य स्थिति-संक्रमण असंख्यातगुणा है । (क्योंकि, उनका प्रमाण पल्योपमके असंख्यातवें भाग है ।) स्त्री और नपुंसकवेदके जघन्य स्थिति-संक्रमणसे उन्हींका जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है । (क्योंकि, पल्योपमके असंख्यातवें भागसे हीन सागरोपमके दो वटे सात (३) भागप्रमाण एकेन्द्रियोके स्त्री और नपुंसकवेद-सम्बन्धी जघन्य स्थितिवंधको यहाँ ग्रहण किया गया है ॥५६१-५६५॥

चूणिसू०—पुरुषवेदका जघन्य स्थिति-उदय और जघन्य स्थिति-उदीरणा सबसे कम है । (क्योंकि, वह एक स्थिति-प्रमाण है ।) पुरुषवेदका यत्स्थितिक-उदय भी उतना ही है,

१ कुदो; समयाहियावल्लियपमाणत्तादो । जयध०

२ किं कारण. अणियद्विकरणचरिमट्ठदिवधस्स अतोमुहुत्तपमाणस्सावाहाए विणा गहिदत्तादो ।

जयध०

३ कुदो, जहण्णावाहाए वि एत्थतन्भावदसणादो । जयध०

४ कुदो; एगट्ठदिपमाणत्तादो । जयध०

५ किं कारण, एत्थ जट्ठदीए जहण्णट्ठदीदो भेदाणुवलभादो । जयध०

६ कुदो; समयाहियावल्लियपमाणत्तादो । जयध०

७ कुदो, पल्लिदोवमासखेज्जदिभागमेत्तचरिमफालिविसयत्तादो । जयध०

८ कुदो, एइंदियजहण्णट्ठदिवंधस्स पल्लिदोवमानखेज्जभागपरिहीणसागरोवम-वे-सत्तभागपमाणस्स गहणादो । जयध०

९ कुदो; एगट्ठदिपमाणत्तादो । जयध०

जट्टिदि-उदयो तत्तियो चैव । ५६८. जट्टिदि-उदीरणा ममयाहियावलिया सा असंखेज्ज-
गुणा । ५६९. जहण्णगो ट्टिदिवंधो ट्टिदिसंकमो ट्टिदिसंतकम्मं च ताणि संखेज्जगु-
णाणि^१ । ५७०. जट्टिदिसंकमो विसेसाहियो^२ । ५७१. जट्टिदिसंतकम्मं विसेसाहियं^३ ।
५७२. जट्टिदिवंधो विसेसाहियो^४ ।

५७३. छण्णोकसायाणं जहण्णगो ट्टिदिसंकमो संतकम्मं च धोवं^५ । ५७४.
जहण्णगो ट्टिदिवंधो असंखेज्जगुणो^६ । ५७५ जहण्णिया ट्टिदि-उदीरणा संखेज्जगुणां^७ ।

अर्थात् एक स्थितिप्रमाण है । पुरुषवेदकी यत्स्थितिक-उदीरणा एक समय अधिक आवलीप्रमाण
है । वह पुरुषवेदके यत्स्थितिक-उदयसे असंख्यातगुणी है । पुरुषवेदकी यत्स्थितिक-उदीरणासे
उसीका जघन्य स्थितिवन्ध, जघन्य स्थितिसंक्रम और जघन्य स्थितिसत्कर्म ये सब संख्यात-
गुणित है । (क्योंकि, यहाँपर अवाधाकालसे रहित आठ वर्षप्रमाण पुरुषवेदके चरम स्थिति-
वन्धको ग्रहण किया गया है ।) पुरुषवेदके जघन्य स्थितिसंक्रमसे उसीका यत्स्थितिकसंक्रम
विशेष अधिक है । (क्योंकि, यहाँपर एक समय-हीन दो आवलीकालसे कम पुरुषवेदका जघन्य
आवाधाकाल भी सम्मिलित हो जाता है ।) पुरुषवेदके यत्स्थितिक-संक्रमसे उसीका यत्स्थितिक-
सत्कर्म (एक स्थितिसे) विशेष अधिक है । पुरुषवेदके यत्स्थितिक-सत्कर्मसे उसीका यत्स्थितिक-
वन्ध विशेष अधिक है (यह विशेष दो समयसे कम दो आवलीप्रमाण अधिक जानना
चाहिए ।) ॥५६६-५७२॥

चृणिसू० हास्यादि छह कपायोंका जघन्य स्थितिसंक्रम और जघन्य स्थितिसत्कर्म
वक्ष्यमाण सर्व पदोंकी अपेक्षा सबसे कम है । हास्यादिपट्कके जघन्य स्थितिसंक्रमसे उन्हीका
जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणित है । (क्योंकि, उसका प्रमाण पल्योपमके असंख्यातवें
भागसे हीन दो बटे सात (३) सागरोपम है ।) हास्यादिपट्कके जघन्य स्थितिवन्धसे उन्हीकी
जघन्य स्थिति-उदीरणा संख्यातगुणी है । (क्योंकि, उसका प्रमाण पल्योपमके असंख्यातवें

१ कुदो; पुरिसवेदचरिमट्टिदिवधस्स अट्टवस्सपमाणस्स आत्राहाए विणा गहणादो । जयध०

२ कुदो; समयूण दो आवलियाहि परिहीणजहण्णावाहाए एस्थ पवेसदसणादो । जयध०

३ केत्तियमेत्तो विसेसो ? एगट्टिदिमेत्तो । जयध०

४ केत्तियमेत्तो विसेसो ? दुसमयूण-दो-आवलियमेत्तो । जयध०

५ कुदो; खवगस्स चरिमट्टिदिवधस्स पडिलह्वजहण्णभावत्तादो । जयध०

६ किं कारण; एइ दिवजहण्णट्टिदिवधस्स पलिटोवमासखेजभागपरिहीणसागरोवम-वे-सत्तभागपमा-
णस्स गहणादो । जयध०

७ कि कारण, पलिटोवमासखेजभागपरिहीणसागरोवमचदुसत्तभागमेत्तजहण्णट्टिदिसत्कम्मविसयत्तेण
ट्टिदिउदीरणाए जहण्णसामित्तपवुत्तिदसणादो । जयध०

१० ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'असंखेज्जगुणा' पाठ मुद्रित है (देखो पृ० १५९६) । पर टीकाके
अनुसार 'संखेज्जगुणा' पाठ होना चाहिए ।

५७६. जहण्णओ द्विदि-उदयो विसंसाहियो' ।

५७७. एत्तो अणुभागेहिं अप्पावहुअं ५७८. उक्कम्मंण ताव । ५७९. मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणोकसायाणमुक्कम्म-अणुभागउदीरणा उदयो च थोवा' ।
५८०. उक्कस्सओ वंधो संक्रमो संतकम्मं च अणंतगुणाणि' ।

५८१. सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमुक्करस-अणुभागउदयो उदीरणा च थोवाणि' ।

५८२. उक्कस्सओ अणुभागसंक्रमो संतकम्मं च अणंतगुणाणि' ।

५८३. एत्तो जहण्णयमप्पावहुअं । ५८४. मिच्छत्त-चारमकसायाणं जहण्णगो

भागसे हीन चार वटे सात (६) सागरोपम हैं ।) इत्यादिपट्टकी जघन्य स्थिति-उदीरणासे उन्हीका जघन्य स्थिति-उदय (एक स्थितिसे) विशेष अधिक हैं ॥५७३-५७६॥

इस प्रकार जघन्य स्थिति-विषयक अल्पवहुत्व नमाप्त हुआ ।

चूर्णिसू०—अब इससे आगे अनुभागकी अपेक्षा अल्पवहुत्व कहेंगे । उसमें पहले उत्कृष्टकी अपेक्षा वर्णन करते हैं । मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नव नोकपायोंकी उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा और उत्कृष्ट उदय वक्ष्यमाण पदोंकी अपेक्षा सबसे कम हैं । (क्योंकि, उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध और उत्कृष्ट अनुभाग-सत्कर्मके अनन्तवे भागकी ही सर्वदा उदय और उदीरणारूप प्रवृत्ति देखी जाती है ।) मिथ्यात्वदिके उत्कृष्ट उदय और उदीरणासे उन्हीका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध, उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम और उत्कृष्ट अनुभाग-सत्कर्म अनन्तगुणा हैं । (क्योंकि, यहाँपर मिथ्यादृष्टिके सर्वोत्कृष्ट संक्लेशसे बंधे हुए उत्कृष्ट अनुभागको निरवशेषरूपसे ग्रहण किया गया है ।) ॥५७७-५८०॥

चूर्णिसू०—सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अनुभाग-उदय और उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा वक्ष्यमाण पदोंकी अपेक्षा सबसे कम हैं । (क्योंकि, इनके उत्कृष्ट अनुभाग-सत्कर्मके चरम स्पर्धकसे अनन्तगुणित हीन-स्वरूपसे ही सर्वकाल उदय और उदीरणाकी प्रवृत्ति देखी जाती है ।) सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभाग-उदय और उदीरणासे उन्हीका उत्कृष्ट अनुभाग-संक्रम और उत्कृष्ट अनुभाग-सत्कर्म अनन्तगुणित हैं । (क्योंकि, विना किसी विघातके स्थित उत्कृष्ट अनुभागको यहाँ ग्रहण किया गया है ।) ॥५८१-५८२॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे अनुभाग-सम्बन्धी जघन्य अल्पवहुत्वको कहते हैं—मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी आदि बारह कपायोंका जघन्य अनुभागबन्ध वक्ष्यमाण पदोंकी

१ केत्तियमेत्तो विसेसो ? एगट्ठदिमेत्तो । जयध०

२ कुदो; उक्कस्साणुभागबंधसतकम्माणमणतिमभागे चैव सव्वकालमुदयोदीरणणं पवुत्तिदसणादो ।
जयध०

३ कुदो; सण्णिपचिदियमिच्छाइट्ठस्स सव्वुक्कस्ससकिलेसेण वधुक्कस्साणुभागास्स अणूणाहियस्स गहणादो । जयध०

४ कुदो, एदेसिमुक्कस्साणुभागसंतकम्मचरिमफहयादो अणतगुणहीणफहयसरुवेण सव्वद्धमुदयोदीरणणं पवुत्तिदसणादो । जयध०

५ कुदो किंचि वि घाटमपावेदूण टिट्ठदसगुक्कस्साणुभागसरुवेण पत्तुक्कस्सभावत्तादो । जयध०

अणुभागबंधो धोवो^१ । ५८५. जहण्यो उदयो उदीरणा च अणंतगुणाणि^२ । ५८६. जहण्यो अणुभागसंक्रमो संतक्रमं च अणंतगुणाणि^३ ।

५८७ सम्मत्तस्स जहण्यणुभागसंतक्रममुदयो च धोवाणि^४ । ५८८. जहणिया अणुभागुदीरणा अणंतगुणा^५ ।

अपेक्षा सबसे कम है । (क्योंकि, यहाँपर संयमके ग्रहण करनेके अभिमुख चरमसमयवर्ती मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयतके उत्कृष्ट विशुद्धिसे बद्ध जघन्य अनुभागका ग्रहण किया गया है ।) मिथ्यात्व और वारह कपायोके जघन्य अनुभागवन्धसे उन्हींके जघन्य उदय और उदीरणा अनन्तगुणित हैं । (क्योंकि, यहाँपर संयमाभिमुख चरम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयतके बद्ध नवीन जघन्य वन्धके समकाल (साथ) 'ही पुरातन बद्ध सत्कर्मोंका भी उदय और उदीरणा होनेसे अनन्तगुणितता देखी जाती है ।) मिथ्यात्व और वारह कपायोके जघन्य अनुभाग-उदयसे उन्हींके जघन्य अनुभाग-संक्रम और जघन्य अनुभाग-सत्कर्म अनन्तगुणित हैं ॥५८३-५८६॥

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि मिथ्यात्व और अप्रत्याख्यानावरणादि आठ कपायोके सूक्ष्म एकेन्द्रिय-सम्बन्धी हतसमुत्पत्तिक जघन्य अनुभागको विषय करनेसे, तथा अनन्तानुबन्धी कपायोके विसंयोजनापूर्वक संयोजनाके प्रथम समय होनेवाले जघन्य नवक बंधको विषय करनेसे उनके अनन्तगुणितपना देखा जाता है ।

चूर्णिसू०—सम्यक्त्वप्रकृतिका जघन्य अनुभाग सत्कर्म और जघन्य उदय वक्ष्यमाण पदोंकी अपेक्षा सबसे कम है ॥५८७॥

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि यहाँपर प्रतिसमय अपवर्तनाघातसे सम्यक्त्व-प्रकृतिका भलीभाँति घात करके स्थित कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टिके चरम समयमें होनेवाले उदय और सत्कर्मकी विवक्षा की गई है ।

चूर्णिसू०—सम्यक्त्वप्रकृतिके जघन्य अनुभाग सत्कर्म और उदयसे उसीकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा अनन्तगुणी है ॥५८८॥

१ कुदो, मिच्छत्ताणताणुवधीण सजमाहिमुहचरिमसमयमिच्छाइट्ठणा सव्वुक्कस्सविसोहीए वद्धजहण्णाणुभागग्गहणादो । अपच्चक्खाण-पच्चक्खाणकसायाण पि सजमाहिमुहचरिमसमयअसजदसग्गमाइट्ठ-सजदासजदाणमुक्कस्स-विसोहिणिवधणाणुभागवधम्मि जहण्णसामित्तावलवणादो । जयध०

२ किं कारण, सजमाहिमुहचरिमसमयमिच्छाइट्ठ-असजद-सजदासंजदेसु जहणवधेण समकालमेव पत्तजहणभावाण पि उदयोदीरणाण चिराणसतरूवेण तत्तो अणतगुणत्तदसणादो । जयध०

३ किं कारण, मिच्छत्त-अट्ठकसायाण सुहुमेइंदियहदसमुप्पत्तियजहण्णाणुभागविसयत्तेण अणताणुवधीण पि विसजोयणापुव्वसजोगपढमसमयजहण्णवकवधविसयत्तेण सकमसतकम्माण जहण्णसामित्तावलवणादो । जयध०

४ कुदो, अणुसमयोवट्टणाघादेण सुट्ठ घाद पावियूण ट्ठदकदकरणिज्जचरिमसमयजहण्णाणुभागसरूवत्तादो । जयध०

५ किं कारण; हेट्ठा समयाहियावलयमेत्तमोसरिदूण पडिलद्धजहणभावत्तादो । जयध०

५८९. जहण्णओ अणुभागसंक्रमो अणंतगुणो' ।

५९०. सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णगो अणुभागसंक्रमो संतकम्मं च थोवाणि' ।

५९१. जहण्णगो अणुभाग-उदयो उदीरणा च अणंतगुणाणि' । ५९२. कोहसंजलणस्स जहण्णगो अणुभागबंधो संक्रमो संतकम्मं च थोवाणि' । ५९३. जहण्णाणुभाग-उदयो

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि कृतकृत्यवेदक होनेसे एक समय अविकृत आवली काल पहले सम्यक्त्वप्रकृतिकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा होती है ।

चूर्णिसू०—सम्यक्त्वप्रकृतिकी जघन्य अनुभाग-उदीरणाने उदीरणा जघन्य अनुभाग संक्रम अनन्तगुणा है ॥५८९॥

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि यद्यपि जघन्य उदीरणके विषयमें ही अप-वर्तनाके वशसे जघन्य अनुभागका संक्रम हुआ है, तथापि उम जघन्य अनुभाग-उदीरणाने यह जघन्य अनुभाग-संक्रम अनन्तगुणा है । क्योंकि, अपकृष्यमाण अनुभागके अनन्तवं भागस्वरूपसे ही उदय और उदीरणाकी संक्रममें प्रवृत्ति देयी जाती है ।

चूर्णिसू०—सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य अनुभागसंक्रम और जघन्य अनुभाग-सत्कर्म वक्ष्यमाण पदोंकी अपेक्षा सबसे कम है ॥५९०॥

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि दर्शनमोहका श्रपण करनेवाले जीवके अपूर्व-करण और अनिवृत्तिकरण परिणामोंके द्वारा सम्यग्मिथ्यात्वका भलीभाँति घात करके स्थित चरम अनुभागखंडको यहाँ ग्रहण किया गया है ।

चूर्णिसू०—सम्यग्मिथ्यात्वके जघन्य अनुभागसंक्रम और जघन्य अनुभाग-सत्कर्मसे उसीके जघन्य अनुभाग उदय और जघन्य अनुभाग-उदीरणा अनन्तगुणित हैं ॥५९१॥

विशेषार्थ—क्योंकि, घातके बिना सम्यक्त्वके अभिमुख चरम समयवर्ती सम्यग्मि-थ्यादृष्टिके तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट विशुद्धिके द्वारा उदीर्यमाण जघन्य अनुभागकी यहाँ विवक्षा की गई है ।

चूर्णिसू०—संज्वलनक्रोधका जघन्य अनुभागबंध, जघन्य संक्रम, और जघन्य सत्कर्म ये तीनों परस्परमें समान होकरके भी वक्ष्यमाण पदोंकी अपेक्षा सबसे कम हैं ।

१ जइ वि जहण्णोदीरणाविसये चेव ओकड्डुणावनेण जहण्णाणुभागसंक्रमो जादो, तो वि तत्तो एसो अणतगुणो । किं कारण, ओकड्डुजमाणुभागस्स अणतभागस्सवेण उदयोदीरणानं तत्थ पवुत्तिदंसणादो । जयध०

२ कुदो; दसणमोहकखवय-अपुच्चाणिवट्टिकरणपरिणामेहि सुट्ठु घाद पावेयूण ट्ठिदचरिमाणुभाग-खडयविसयत्तेण पडिलद्धजहण्णभावत्तादो । जयध०

३ कुदा; वादण विणा सम्मत्ताहिमुहचरिसमयसम्मामिच्छाइट्ठस्स तप्पाओग्गुकस्सविसोहीए उदीरिजमाणजहण्णाणुभागविसयत्तेण पयदजहण्णामित्तावलंघणादो । जयध०

४ कुदा, कोववेदगचरिसमयजहण्णाणुभागबंधविसयत्तेण तिण्हमेदसि जहण्णसामित्तोवलंभादो । जयध०

उदीरणा च अणंतगुणाणि^१ । ५९४. एवं माण-मायासंजलणानं ।

५९५ लोहसंजलणस्स जहण्णगो अणुभाग-उदयो संतयम्मं च थोवाणि^२ ।
५९६. जहणिया अणुभाग-उदीरणा अणंतगुणा^३ । ५९७. जहण्णगो अणुभागसंक्रमो
अणंतगुणो^४ । ५९८. जहण्णगो अणुभागबंधो अणंतगुणो^५ ।

संज्वलनक्रोधके जघन्य अनुभागबन्ध आदिसे उसीके जघन्य अनुभाग-उदय और जघन्य अनुभाग-उदीरणा अनन्तगुणित है ॥५९२-५९३॥

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि संज्वलनक्रोध-वेदककी प्रथम स्थितिके एक समयाधिक आवलीप्रमाण शेष रह जानेपर जघन्य बन्धके समकालमे ही पुरातन सत्कर्मके उदय और उदीरणारूपसे परिणत हो जानेपर उनका परिमाण जघन्य अनुभागबन्ध आदिके परिमाणसे अनन्तगुणा हो जाता है ।

चूर्णिसू०—इसी प्रकार संज्वलन मान और मायाके अनुभागसम्बन्धी सर्व पदोका अल्पबहुत्व जानना चाहिए ॥५९४॥

चूर्णिसू०—संज्वलनलोभका जघन्य अनुभाग-उदय और जघन्य अनुभाग-सत्कर्म वक्ष्यमाण सर्व पदोकी अपेक्षा सबसे कम है । (क्योंकि, ये दोनों सूक्ष्मसाम्परायिक क्षपकके अन्तिम समयमे पाये जाते हैं ।) संज्वलनलोभके जघन्य अनुभाग-उदय और जघन्य अनुभाग-सत्कर्मसे उसीकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा अनन्तगुणी है । (क्योंकि, यहाँ सूक्ष्मसाम्परायके अन्तिम समयसे समयाधिक आवलीकाल पहले होनेवाले उदयस्वरूपसे उदीर्यमाण अनुभागका ग्रहण किया गया है ।) लोभसंज्वलनकी जघन्य अनुभाग-उदीरणासे उसीका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है ॥५९५-५९७॥

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि लोभसंज्वलनके उदयसे बहुत नीचे हटकर पतित अनुभागको ग्रहण करनेकी अपेक्षा तो उदीरणा अनन्तगुणित हो जाती है, और उससे भी अनन्तगुणित अपकृप्यमाण अनुभागको ग्रहणकर होनेवाले संक्रमणकी अपेक्षा संज्वलन लोभका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणित हो जाता है ।

चूर्णिसू०—संज्वलन-लोभके जघन्य अनुभाग-संक्रमसे उसीका जघन्य अनुभागबन्ध अनन्तगुणा है । (क्योंकि, यहाँपर अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमे वादरकृष्टिस्वरूपसे बंधनेवाले अनुभागका ग्रहण किया गया है ॥५९८॥

१ त जहा-कोधवेदगपढमट्टिठदीए ममयाहियावलियमेत्तन्नेसाए जहण्णवधेण समकालमेव उदयो-दीरणाण पि जहण्णसामित्त जाद । त्तित्तु एसो चिराणसतकम्मसरूवो होदूणाणतगुणा जादा । जयध०

२ कुदोः सुहुमसा राइयखवगचरिमसमयम्मि लद्धजहण्णभावनादो । जयध०

३ कि कारण, तत्तो ममयाहियावलियमेत्त हेट्ठा ओसरिदूण तक्कालभाविउदयसरूवेणुदीरिजमाणानुभागस्स गहणादो । जयध०

४ त कथ; उदीरणा णाम उदयसरूवेण सुट्ठु ओहट्टिदूण पदिदाणुभागं धेत्तूण जहण्णा जादा । सकमो पुण तत्तो अणतगुणांकट्टिजमाणानुभाग धेत्तूण जहण्णा जादो । तेण कारणेण तगुणत्तमेदस्स ण विरुज्जद । जयध०

५ कुदो, वादरकिट्टिसरूवेणानियट्टिकरणचरिमसमये वज्जमाणजहण्णाणुभागवधस्स गहणादो । जयध०

५९९. इत्थि-णवुंसयवेदाणं जहण्णगो अणुभाग-उदयो संतकम्मं च थोवाणि^१ ।
 ६००. जहण्णिया अणुभाग-उदीरणा अणंतगुणा^२ । ६०१. जहण्णगो अणुभागवंधो
 अणंतगुणो^३ । ६०२. जहण्णगो अणुभागसंक्रमो अणंतगुणो^४ ।

६०३. पुरिसवेदस्स जहण्णगो अणुभागवंधो संक्रमो संतकम्मं च थोवाणि^५ ।
 ६०४. जहण्णगो अणुभाग-उदयो अणंतगुणो^६ । ६०५. जहण्णिया अणुभाग-उदीरणा
 अणंतगुणा^७ ।

६०६. हस्स-रदि-भय-दुगुछाणं जहण्णाणुभागवंधो थोवो^८ । ६०७. जहण्णगो
 अणुभाग-उदयो उदीरणा च अणंतगुणो^९ । ६०८. जहण्णगो अणुभागसंक्रमो संतकम्मं

चूर्णिसू०—स्त्री और नपुंसक वेदका जघन्य अनुभाग-उदय और जघन्य अनुभाग-
 सत्कर्म वक्ष्यमाण पदोंकी अपेक्षा सबसे कम हैं । स्त्री और नपुंसक वेदके जघन्य अनुभाग-
 उदयसे उन्हींकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा अनन्तगुणी हैं । स्त्री और नपुंसक वेदकी जघन्य
 अनुभाग-उदीरणासे उन्हींका जघन्य अनुभाग-वन्ध अनन्तगुणा है । स्त्री और नपुंसकवेदके
 जघन्य अनुभागवन्धसे उन्हींका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है ॥५९९-६०२॥

चूर्णिसू०—पुरुषवेदका जघन्य अनुभागवन्ध, जघन्य अनुभाग संक्रम और जघन्य
 अनुभाग-सत्कर्म वक्ष्यमाण पदोंकी अपेक्षा सबसे कम है । पुरुषवेदके जघन्य अनुभाग वन्ध
 आदिसे उसीका जघन्य अनुभाग-उदय अनन्तगुणा है । पुरुषवेदके जघन्य अनुभाग-उदयसे
 उसीकी जघन्य अनुभाग-उदीरणा अनन्तगुणी है ॥६०३-६०५॥

चूर्णिसू०—हास्य, रति, भय और जुगुप्साका जघन्य अनुभागवन्ध वक्ष्यमाण पदोंकी
 अपेक्षा सबसे कम है । उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धसे उन्हींका जघन्य अनुभाग-
 उदय और जघन्य अनुभागउदीरणा अनन्तगुणी है । उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभाग-उदयसे

१ कुदो, देसघादिएगट्ठाणियसरुवत्तादो । जयध०

२ एसा वि देसघादिएगट्ठाणियसरुवा चेष, किंतु हेट्ठा समयाहियावलयमेत्तो ओसरियूण जहण्णा
 जादा । तदो उवरिमावलयमेत्तकालमपत्तघाटत्तादो एसा अणतगुणा त्ति सिद्ध । जयध०

३ किं कारणं; विट्ठाणियसरुवत्तादो । जयध०

४ जहण्णसक्रमो णाम अतरकरणे कदे सुहुमेइदियजहण्णाणुभागसत्कम्मादो हेट्ठा अणतगुणहीणो
 होदूण पुणो वि सखेजसट्ठसाणुभागखंडएसु घादिदेसु चरिमफालिसरुवेण जहण्णो जादो । एवविहघादं पत्तो
 वि चिराणसत्कम्म होदूण पुव्वुत्तवघादो संक्रमाणुभागो अणतगुणो जादो । जयध०

५ कुदो, चरिमसमयसवेदजहण्णाणुभागवंध देसघादिएयट्ठाणियसरुव घेत्तूण तिण्हमेदेसिं जहण्ण-
 सामित्तावलवणादो । जयध०

६ कुदो; देसघादिएयट्ठाणियत्ताविसेसे वि सपहि-वंधादो उदयो अणतगुणो त्ति णायमस्सियूण
 पुव्विह्णाणुभागादो एदस्स तद्दामावसिद्धीए णिव्वाहमुवलभादो । जयध०

७ एसा वि देसघादिएयट्ठाणियसरुवा चेष; किंतु समयाहियावलयमेत्तं हेट्ठा ओसरियूण जह-
 ण्णा जादा, तेण पुव्वित्तादो एदिस्से अणतगुणत्त ण विरज्जदे । जयध०

८ कुदो, अपुव्वकरणचरिमसमयणवक्रवधस्स देसघादिविट्ठाणियसरुवस्स गहणादो । जयध०

९ कुदो; एदेसिं पि तत्थेव जहण्णसामित्ते सत्ते वि सपहि-वंधादो सपहि-उदयत्साणंतगुणत्तमस्सियूण
 तद्दामावसिद्धोदो । जयध०

च अणंतगुणाणि^१ ।

६०९. अरदि-सोभाणं जहण्णगो अणुभाग-उदयो उदीरणा च थोवाणि^२ ।
६१०. जहण्णगो अणुभागबंधो अणंतगुणो^३ । ६११. जहण्णाणुभागसंकमो संतकम्मं
च अणंतगुणाणि^४ ।

अणुभागविसयपप्पावहुअं समत्तं ।

६१२. पदेसेहिं उक्कस्समुक्कस्सेण । ६१३. मिच्छत्त-चारसकसाय-छण्णोकसायाण-
मुक्कस्सिया पदेसुदीरणा थोवा^५ । ६१४. उक्कस्सगो बंधो असंखेज्जगुणो^६ । ६१५.
उक्कस्सपदेसुदयो असंखेज्जगुणो^७ । ६१६. उक्कस्सपदेससंकमो असंखेज्जगुणो^८ । ६१७.

उन्हींका जघन्य अनुभाग-संक्रम और जघन्य अनुभाग-सत्कर्म अनन्तगुणित हैं ॥ ६०६-६०८ ॥

चूर्णिसू०—अरति और शोकका जघन्य अनुभाग-उदय और जघन्य अनुभाग-
उदीरणा वक्ष्यमाण पदोंकी अपेक्षा सबसे कम हैं । उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभाग-उदयसे
उन्हींका जघन्य अनुभागबन्ध अनन्तगुणा है । अरति-शोकके जघन्य अनुभागबन्धसे उन्हींका
जघन्य अनुभाग-संक्रम और जघन्य अनुभाग-सत्कर्म अनन्तगुणित है ॥ ६०९-६११ ॥

इस प्रकार अनुभाग-विषयक अल्पवहुत्व समाप्त हुआ ।

चूर्णिसू०—अत्र प्रदेशोंकी अपेक्षा अल्पवहुत्व कहेंगे । उनमें पहले प्रदेशबन्धादि
पाँचों पदोंके उत्कृष्टका उत्कृष्टके साथ कहते हैं—मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी आदि वारह कपाय
और हास्यादि छह नोकपायोंकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा वक्ष्यमाण पदोंकी अपेक्षा सबसे कम
है । मिथ्यात्वादि उक्त प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणासे उन्हींका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध असं-
ख्यातगुणा हैं । मिथ्यात्वादि सूत्रोक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धसे उन्हींका उत्कृष्ट प्रदेश-
उदय असंख्यातगुणा है । मिथ्यात्वादिके उत्कृष्ट प्रदेश-उदयसे उन्हींका उत्कृष्ट प्रदेश-संक्रम

१ किं कारण, खवगसेट्ठिमि चरिमाणुभागखडयचरिमफालीए सव्वघादि-विट्ठाणियसरूवाए पयद-
जहण्णसामित्तोवलमादो । जयध०

२ किं कारण, अपुव्वकरणचरिमसमयमि देसघादि-विट्ठाणियसरूवेण तदुभयसामित्तानलव्वणादो ।
जयध०

३ किं कारण, पमत्तसजदतप्पाओग्गविसोहीए वद्धदेसघादि-विट्ठाणियसरूवणवकवधावलवणेण
पयदजहण्णसामित्तविहासणादो । जयध०

४ कुदो, सव्वघादि-विट्ठाणियचरिमफालिविसयत्तेण पडिलद्ध जहण्णभावत्तादो । जयध०

५ कुदो; अप्पण्णो सामित्तविसये उक्कस्सविसोहीए उदीरिजमाणासखेज्जलोगपडिभागियदव्वस्स गह-
णादो । जयध०

६ कुदो; सण्णिपच्चिदियपजत्ते णुक्कस्सजोगिणा वज्झमाणुक्कस्सस्स समयपन्नदस्स अणूणाहियस्स गह-
णादो । जयध०

७ कुदो, असखेजसमयपवद्धपमाणत्तादो । जयध०

८ किं कारण, किचूणसग-सगुक्कस्सदव्वपमाणत्तादो । जयध०

उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं^१ ।

६१८. सम्मत्तस्स उक्कस्सपदेससंकमो थोवो^२ । ६१९. उक्कस्सपदेसुदीरणा असंखेज्जगुणा^३ । ६२०. उक्कस्सपदेससंकमो असंखेज्जगुणो^४ । ६२१. उक्कस्सपदेससंत-
कम्मं विसेसाहियं^५ ।

६२२. सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेसुदीरणा थोवा^६ । ६२३. उक्कस्सपदेसुदयो असंखेज्जगुणो^७ । ६२४. उक्कस्सपदेससंकमो असंखेज्जगुणो^८ । ६२५. उक्कस्सपदेस-
संतकम्मं विसेसाहियं^९ ।

असंख्यातगुणा है । मिथ्यात्वदिके उत्कृष्ट प्रदेश-संक्रमसे उन्हींका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ॥ ६१२-६१७ ॥

चूर्णिसू०—सम्यक्त्वप्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम वक्ष्यमाण पदोकी अपेक्षा सबसे कम है । सम्यक्त्वप्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमसे उसीकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा असंख्यात-
गुणी है । सम्यक्त्वप्रकृतिकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणासे उसीका उत्कृष्ट प्रदेश-उदय असंख्यात-
गुणा है । सम्यक्त्वप्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेश-उदयसे उसीका उत्कृष्ट प्रदेश-सत्कर्म विशेष अधिक है ॥ ६१८-६२१ ॥

चूर्णिसू०—सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा वक्ष्यमाण पदोकी अपेक्षा सबसे कम है । सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणासे उसीका उत्कृष्ट प्रदेश-उदय असंख्यातगुणा है । सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेश-उदयसे उसीका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है । सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमसे उसीका उत्कृष्ट प्रदेश-सत्कर्म विशेष अधिक है ॥ ६२२-६२५ ॥

१ कुदो, गुणिकम्मसियलक्खणेणुक्कस्ससच्चय कादूणावट्ठिद-चरिमसमयणेरहयम्मि पयदुक्कस्ससामित्त-
विहाणादो । जयध०

२ किं कारण, अधापवत्तसकमेण पडिलद्धुक्कस्सभावत्तादो । जयध०

३ कुदो, दसणमोहक्खवयस्स समयाहियावलयमेत्तट्ठिसत्तकम्मे सेसे उदीरिजमाणद्वस्स किंचूण-
मिच्छत्तुक्कस्सद्व्वमोकडुणभागहारेण खड्डेयूण तत्थेयखड्डपमाणस्स गहणादो । जयध०

४ किं कारणं; उदीरणा णाम गुणसेट्ठिसीसयस्स असंखेज्जदिभागो । उदयो पुण गुणसेट्ठिसीसय सव्वं
चेव भवदि; तेणासंखेज्जगुणत्तमेदस्स ण विरुज्जदे । जयध०

५ केत्तियमेत्तो विसेसो ? हेट्ठा दुचरिमादि-गुणसेट्ठिगोवुच्छासु णट्ठद्व्वमेत्तो । जयध०

६ कुदो, सम्मत्ताहिमुहचरिमसमयसम्मामिच्छाइट्ठणा तप्पाओग्गुक्कस्सविसोहीए उदीरिजमाणा-
संखेज्जलोगपडिभागियद्व्वस्स गहणादो । जयध०

७ किं कारणं, असंखेज्जसमयपवद्वपमाणगुणसेट्ठिगोवुच्छसरुवत्तादो । जयध०

८ कुदो, थोवणदिवडुगुणहाणिमेत्तुक्कस्ससमयपवद्वपमाणत्तादो । जयध०

९ केत्तियमेत्तो विसेसो ? मिच्छत्त सम्मामिच्छत्तम्मि पक्खिविय पुणो सम्मामिच्छत्त खवेमाणो
जाव चरिमफालि ण पावेदि, ताव एदम्मि अतरे गुणसेट्ठीए गुणसकमेण च विणट्ठद्व्वमेत्तो । जयध०

६२६. तिसंजलण-तिवेदाणमुक्कस्सपदेसबंधो थोवो^१ । ६२७. उक्कस्सिया पदेसुदीरणा असंखेज्जगुणा^२ । ६२८. उक्कस्सपदेसुदयो असंखेज्जगुणो^३ । ६२९. उक्कस्सपदेससंक्रमो असंखेज्जगुणो । ६३०. उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं^४ ।

६३१. लोभसंजलणस्स उक्कस्सपदेसबंधो थोवो । ६३२ उक्कस्सपदेससंक्रमो असंखेज्जगुणो^५ । ६३३. उक्कस्सपदेसुदीरणा असंखेज्जगुणा^६ । ६३४. उक्कस्सपदेसुदयो असंखेज्जगुणो^७ । ६३५. उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं^८ ।

चूर्णिसू०—क्रोधादि तीन संज्वलन कपाय और तीनों वेदोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध वक्ष्यमाण पदोंकी अपेक्षा सबसे कम है। संज्वलन क्रोधादि उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धसे उन्हींकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा असंख्यातगुणी है। संज्वलन क्रोधादि सूत्रोक्त प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणासे उन्हींका उत्कृष्ट प्रदेश-उदय असंख्यातगुणा है। संज्वलन क्रोधादिके उत्कृष्ट प्रदेश-उदयसे उन्हींका उत्कृष्ट प्रदेश-संक्रम असंख्यातगुणा है। संज्वलन क्रोधादिके उत्कृष्ट प्रदेश-संक्रमसे उन्हींका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ॥ ६२६-६३० ॥

चूर्णिसू०—लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध वक्ष्यमाण पदोंकी अपेक्षा सबसे कम है। लोभसंज्वलनके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धसे उसीका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है। लोभ-संज्वलनके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमसे उसीकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा असंख्यातगुणी है। लोभ-संज्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणासे उसीका उत्कृष्ट प्रदेश-उदय असंख्यातगुणा है। लोभ-संज्वलनके उत्कृष्ट प्रदेश-उदयसे उसीका उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म विशेष अधिक है ॥ ६३१-६३५ ॥

१ कि कारण, सण्णिपच्चिदियपजत्तेणुक्कस्सजोगेण वद्धसमयपवट्टपमाणत्तादो । जयव०

२ कुदो, खवगसेट्ठीए अप्पण्णो पटमट्ठिदीए समयाहियावलियमेत्तसेसाए उदीरिज्जमाणाणम सखेज्जसमयपवट्टाणमिहग्गहणादो । जयध०

३ को गुणगारो ? पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो । जयव०

४ को गुणगारो ? असंखेज्जाणि पल्लिदोवमपटमवग्गमूलाणि । किं कारण, अप्पण्णो सव्वुक्कस्स-सव्वसकमदव्वस्स गहणादो । जयव०

५ केत्तियमेत्तो विसेसो ? अप्पण्णो टव्वमुक्कस्स कादूण पुणो जाव सव्वसकमण ण परिणमइ, ताव एदम्मि अतराले णट्ठासखेज्जभागमेत्तो । जयव०

६ कुदो, अतरकरणकारयचरिमसमयम्मि अधापवत्तसकमेण सकमताणमसखेज्जाण समयपवट्टाण-मेत्थ सामित्तविसर्इकयाणमुवलभादो । एत्थ गुणगारो असंखेज्जाणि पल्लिदोवमपटमवग्गमूलाणि । जयध०

७ कि कारण; उक्कस्ससकमो णाम अणियट्ठिकरणम्मि अतर करेमाणो से काले लोभस्स असकामगो होहिदि त्ति एत्थुद्देसे अधापवत्तसकमेण जादो । उदीरणा पुण सव्व मोहणीयदव्व पडिच्छिय सुहुम-सापराइयखवगस्स पटमट्ठिदीए समयाहियावलियमेत्तसेसाए उदीरिज्जमाणाए सखेज्जसमयपवट्टे वेत्तणुक्कस्सा जादा, तेणासखेज्जगुणा भणिदा । अधापवत्तभागहार पेक्खिय्युदीरणाहेट्टभूदोक्कहणाभागहारस्सासखेज्ज-गुणहीणत्तादो । जयध०

८ कुदो, सुहुमसापराइयखवगचरिमगुणसेट्ठिसीसयसव्वटव्वस्स गहणादो । एत्थ गुणगारो पल्लिदो-वमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो । जयध०

९ केत्तियमेत्तो विसेसो ? मायादव्व डि चरिमसमयसुहुमसापराइयो ण होइ, ताव एदम्मि अतराले णट्ठदव्वमेत्तो । । जयध०

उक्त्स्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं^१ ।

६१८. सम्मत्तस्स उक्त्स्सपदेससंकमो थोवो^२ । ६१९. उक्त्स्सपदेसुदीरणा असंखेज्जगुणा^३ । ६२०. उक्त्स्सपदेससंकमो असंखेज्जगुणो^४ । ६२१. उक्त्स्सपदेससंत-
कम्मं विसेसाहियं^५ ।

६२२. सम्मामिच्छत्तस्स उक्त्स्सपदेसुदीरणा थोवा^६ । ६२३. उक्त्स्सपदेसुदयो असंखेज्जगुणो^७ । ६२४. उक्त्स्सपदेससंकमो असंखेज्जगुणो^८ । ६२५. उक्त्स्सपदेस-
संतकम्मं विसेसाहियं^९ ।

असंख्यातगुणा है । मिथ्यात्वादिके उत्कृष्ट प्रदेश-संक्रमसे उन्हींका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ॥ ६१२-६१७ ॥

चूर्णिसू०—सम्यक्त्वप्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम वक्ष्यमाण पदोंकी अपेक्षा सबसे कम है । सम्यक्त्वप्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमसे उसीकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा असंख्यात-
गुणी है । सम्यक्त्वप्रकृतिकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणासे उसीका उत्कृष्ट प्रदेश-उदय असंख्यात-
गुणा है । सम्यक्त्वप्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेश-उदयसे उसीका उत्कृष्ट प्रदेश-सत्कर्म विशेष अधिक
है ॥ ६१८-६२१ ॥

चूर्णिसू०—सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा वक्ष्यमाण पदोंकी अपेक्षा सबसे
कम है । सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणासे उसीका उत्कृष्ट प्रदेश-उदय असंख्यातगुणा
है । सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेश-उदयसे उसीका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है ।
सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमसे उसीका उत्कृष्ट प्रदेश-सत्कर्म विशेष अधिक है
॥ ६२२-६२५ ॥

१ कुदो, गुणिकम्मसियलक्खणेणुक्त्स्ससंचय कादूणावट्ठिद-चरिमसमयणेरइयम्मि पयदुक्त्स्ससामित्त-
विहाणादो । जयध०

२ किं कारण, अधापवत्तसक्रमेण पडिलद्धुक्त्स्सभावत्तादो । जयध०

३ कुदो; दसणमोहक्खवयस्स समयाहियावलियमेत्तट्ठिदिसतकम्मे सेसे उदीरिजमाणदव्वत्स किंचूण-
मिच्छत्तुक्त्स्सदव्वमोकङ्कुणभागहारेण खडेयूण तथेयखडपमाणत्स गहणादो । जयध०

४ किं कारण; उदीरणा णाम गुणसेदिसीसयस्स असंखेज्जदिभागो । उदयो पुण गुणसेदिसीसय सव्वं
चेव भवदि; तेणासंखेज्जगुणत्तमेदस्स ण विरुज्जदे । जयध०

५ केत्तियमेत्तो विसेसो ? हेट्ठा हुचरिमादि-गुणसेदिगोवुच्छासु णट्ठदव्वमेत्तो । जयध०

६ कुदो, सम्मत्ताहिमुहचरिमसमयसम्मामिच्छाइट्ठणा तप्पाओग्गुक्त्स्सविसोहीए उदीरिजमाणा-
संखेज्जलोगपडिभागियदव्वत्स गहणादो । जयध०

७ किं कारण, असंखेज्जसमयपवद्वपमाणगुणसेदिगोवुच्छसरुवत्तादो । जयध०

८ कुदो, थोव्णदिवहुगुणहाणिमेत्तुक्त्स्ससमयपवद्वपमाणत्तादो । जयध०

९ केत्तियमेत्तो विसेसो ? मिच्छत्त सम्मामिच्छत्तम्मि पडिलक्खिय पुणो सम्मामिच्छत्त खवेमाणो
जाव चरिमफालि ण पावेदि, ताव एदम्मि अतरे गुणसेदीए गुणसक्रमेण च विणट्ठदव्वमेत्तो । जयध०

६२६. तिसंजलण-तिवेदाणमुक्कस्सपदेसबंधो थोवो^१ । ६२७ उक्कस्सिया पदेसुदीरणा असंखेज्जगुणा^२ । ६२८. उक्कस्सपदेसुदयो असंखेज्जगुणो^३ । ६२९. उक्कस्सपदेससंकमो असंखेज्जगुणो^४ । ६३०. उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं^५ ।

६३१. लोभसंजलणस्स उक्कस्सपदेसबंधो थोवो । ६३२ उक्कस्सपदेससंकमो असंखेज्जगुणो^६ । ६३३. उक्कस्सपदेसुदीरणा असंखेज्जगुणा^७ । ६३४. उक्कस्सपदेसुदयो असंखेज्जगुणो^८ । ६३५. उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं^९ ।

चृणिसू०—क्रोधादि तीन संज्वलन कपाय और तीनों वेदोका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध वक्ष्यमाण पदोंकी अपेक्षा सबसे कम है। संज्वलन क्रोधादि उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धसे उन्हींकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा असंख्यातगुणी है। संज्वलन क्रोधादि सूत्रोक्त प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणासे उन्हींका उत्कृष्ट प्रदेश-उदय असंख्यातगुणा है। संज्वलन क्रोवादिके उत्कृष्ट प्रदेश-उदयसे उन्हींका उत्कृष्ट प्रदेश-संक्रम असंख्यातगुणा है। संज्वलन क्रोवादिके उत्कृष्ट प्रदेश-संक्रमसे उन्हींका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ॥ ६२६-६३० ॥

चृणिसू०—लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध वक्ष्यमाण पदोंकी अपेक्षा सबसे कम है। लोभसंज्वलनके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धसे उसीका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है। लोभ-संज्वलनके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमसे उसीकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणा असंख्यातगुणी है। लोभ-संज्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेश-उदीरणासे उसीका उत्कृष्ट प्रदेश-उदय असंख्यातगुणा है। लोभ-संज्वलनके उत्कृष्ट प्रदेश-उदयसे उसीका उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म विशेष अधिक है ॥ ६३१-६३५ ॥

१ किं कारण, सण्णिपच्चिट्ठियपजत्तेणुक्कस्सजोगेण बद्धसमयपवद्दपमाणत्तादो । जयध०

२ कुटो खवगसेट्ठीए अप्पण्णो पटमट्ठट्ठीए समयाहियावलयमेत्तसेसाए उदीरिज्जमाणाणम सखेज्जसमयपवद्दणमिहग्गहणादो । जयध०

३ को गुणगारो ? पल्लिदोवमस्स असखेज्जदिभागमेत्तो । जयध०

४ को गुणगारो ? असखेज्जाणि पल्लिदोवमपढमवग्गमूलाणि । किं कारण, अप्पण्णो सव्वुक्कस्स-सव्वसकमदव्वस्स गहणादो । जयध०

५ केत्तियमेत्तो विसेसो ? अप्पण्णो ढव्वमुक्कस्स काढूण पुणो जाव सव्वसकमेण ण परिणमइ, ताव एदम्मि अतराले णट्ठासखेज्जभागमेत्तो । जयध०

६ कुटो, अतरकरणकारयचरिमसमयम्मि अधापवत्तसकमेण सकमताणमसखेज्जजाण समयपवद्दण-मेत्थ सामिन्तविसर्दकवाणमुवलभाटो । एत्थ गुणगारो असखेज्जजाणि पल्लिदोवमपढमवग्गमूलाणि । जयध०

७ किं कारण; उक्कस्ससकमो णाम अणियट्ठिकरणम्मि अतर करेमाणो से काले लोभस्स असकामगो होहिदि त्ति एत्थुत्तेसे अधापवत्तसकमेण जादो । उदीरणा पुण सव्व मोहणीयदव्व पडिच्छिय सुहुम-सापराइयखवगस्स पटमट्ठट्ठीए समयाहियावलयमेत्तसेसाए उदीरिज्जमाणाए सखेज्जसमयपवद्दे वेत्तुणुक्कस्सा जादा, तेणासखेज्जगुणा भणिदा । अधापवत्तभागहार पेक्खियूणुदीरणादेहुभूदोक्कहणाभागहारस्सासखेज्ज-गुणहीणत्तादो । जयध०

८ कुटो, सुहुमसापराइयखवगचरिमगुणसेट्ठिसीसयसव्वढव्वस्स गहणादो । एत्थ गुणगारो पल्लिदो-वमस्स असखेज्जदिभागमेत्तो । जयध०

९ केत्तियमेत्तो विसेसो ? मायादव्व पडिच्छियूण जाव चरिमसमयसुहुमसापराइयो ण होइ, ताव एदम्मि अतराले णट्ठदव्वमेत्तो । । जयध०

६३६. जहणयं । ६३७. मिच्छत्त-अट्ठकसायाणं जहणिया पदेसुदीरणा थोवा^१ । ६३८. उदयो असंखेज्जगुणो^२ । ६३९. संक्रमो असंखेज्जगुणो^३ । ६४०. बंधो असंखेज्जगुणो^४ । ६४१. संतकम्ममसंखेज्जगुणं^५ ।

६४२. सम्मत्तस्स जहणिया पदेसुदीरणा थोवा^६ । ६४३. उदयो असंखेज्जगुणो^७ । ६४४. संक्रमो असंखेज्जगुणो^८ । ६४५. संतकम्ममसंखेज्जगुणं । ६४६. एवं सम्मामिच्छत्तस्स ।

चूर्णिसू०—अव प्रदेशीकी अपेक्षा जघन्य अल्पबहुत्व कहते हैं—मिथ्यात्व और अप्रत्यख्यानावरणदि आठ कषायोकी जघन्य प्रदेश-उदीरणा वक्ष्यमाण पदोकी अपेक्षा सबसे कम है । मिथ्यात्वादि उक्त प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेश-उदीरणासे उन्हींका जघन्य प्रदेश-उदय असंख्यातगुणा है । मिथ्यात्वादि सूत्रोक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशोदयसे उन्हींका जघन्य प्रदेश-संक्रम असंख्यातगुणा है । मिथ्यात्वादि पूर्वोक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेश-संक्रमसे उन्हींका जघन्य बन्ध असंख्यातगुणा है । मिथ्यात्वादिके जघन्य बन्धसे उन्हींका जघन्य प्रदेश-सत्कर्म असंख्यातगुणा है ॥ ६३६-६४१ ॥

चूर्णिसू०—सम्यक्त्वप्रकृतिकी जघन्य प्रदेश-उदीरणा वक्ष्यमाण पदोकी अपेक्षा सबसे कम होती है । सम्यक्त्वप्रकृतिकी प्रदेश-उदीरणासे उसीका संक्रम असंख्यातगुणा होता है । सम्यक्त्वप्रकृतिके संक्रमसे उसीका सत्कर्म असंख्यातगुणा होता है । इसीप्रकार सम्यग्मिथ्यात्वका प्रदेशसम्बन्धी जघन्य अल्पबहुत्व जानना चाहिए ॥ ६४२-६४६ ॥

१ कुदो, मिच्छाइट्ठणा सव्वुक्कस्सकिलेसेणुदीरिजमाणसखेज्जलोगपडिभागियदव्वस्स सव्वथोवत्त पडि विरोहाभावादो । जयध०

२ त जहा—मिच्छत्तस्स ताव उवसमसम्माइट्ठी सासणगुण पडिवज्जिय छावलियाथो अञ्छियूण मिच्छत्त गदो । तत्स आवलियमिच्छाइट्ठस्स असखेज्जलोगपडिभागोक्कट्टिय णिसित्तदव्वं वेत्तूण जहणोदयो जादो, जेण सत्थाणमिच्छाइट्ठसव्वुक्कस्सकिलेसादो एत्थतणसकिलेसो अणतगुणहीणो, तेणेद दव्व पुव्विल्लदव्वादो असंखेज्जगुण जाद । अट्ठकसायाणं पुण उवसत्तकसायो कालं कादूण देवेसुववणो, तत्स असंखेज्जलोगपडिभागोणुदयावलियन्भतरे णिसित्तदव्वस्स चरिमणिसेय वेत्तूण जहणसामित्तं जाद । एसो च असजदसम्माइट्ठविसोहिणिवंधणो उदीरणोदयो सत्थाणमिच्छाइट्ठस्स सव्वुक्कस्सकिलेसेणुदीरिददव्वादो असंखेज्जगुणो त्ति णरिथ सदेहो । जयध०

३ पुव्वुत्तुदयो णाम असखेज्जलोगमेत्तभागहारत्तेण जादो । इमो पुण अगुलत्सासखेज्जदिभागमेत्त-भागहारेण जादो । तदो सिद्धमसंखेज्जगुणत्त । जयध०

४ किं कारणं; सुहुमणिगोदजहणोववाटजोगेण वद्धेगसमयपवद्वपमाणत्तादो । जयध०

५ कुदो; खविदकम्मसियलक्खणेणागतूण खवणाए एगट्ठदि-दुसमयकालसेसे असखेज्जपचिदियसमय-पवद्वसजुत्तगुणसेट्ठिगोवुञ्छावलवणेण जहणसामित्तगहणादो । तदो सिद्धमसंखेज्जगुणत्त । जयध०

६ कुदो, मिच्छत्ताहिमुह-असजदसम्माइट्ठणा उक्कस्सकिलेसेणुदीरिजमाणसखेज्जलोग-पडिभागिय-दव्वस्स गहणादो । जयध०

७ किं कारणं; उवसमसम्मत्तपञ्चायद-वेदयसम्माइट्ठस्स पढमावलियचरिमसमये उदीरणोदयदव्वं वेत्तूण जहणसामित्तावलवणादो । जयध०

८ किं कारणं; खविदकम्मसियलक्खणेणागतूणुत्तेलेमाणस्स दुचरिमखडयचरिमफालीए उव्वेल्लण-भागहारेण जहणसामित्तावलवणादो । जयध०

६४७. अणंताणुबंधीणं जहणिया पदेसुदीरणा थोवा' । ६४८. संक्रमो असं-
खेज्जगुणो' । ६४९. उदयो असंखेज्जगुणो । ६५०. बंधो असंखेज्जगुणो । ६५१.
संतकम्ममसंखेज्जगुणो' ।

६५२. क्रोहसंजलणस्स जहणिया पदेसुदीरणा थोवा' । ६५३. उदयो
असंखेज्जगुणो' । ६५४ बंधो असंखेज्जगुणो' । ६५५. संक्रमो असंखेज्जगुणो । ६५६.
संतकम्ममसंखेज्जगुणो' ।

६५७. एवं माण-मायासंजलण-पुरिसवेदाणं वंजणदो च अत्थदो च कायव्वं' ।

चूर्णिसू०—अनन्तानुबन्धी चारो कपायोकी जघन्य प्रदेश-उदीरणा सबसे कम होती
है । अनन्तानुबन्धीकी उदीरणासे उसीका संक्रम असंख्यातगुणा होता है । अनन्तानुबन्धीके
संक्रमसे उसीका उदय असंख्यातगुणा होता है । अनन्तानुबन्धीके उदयसे उसीका बन्ध
असंख्यातगुणा होता है और अनन्तानुबन्धीके बन्धसे इन्हीं चारो कपायोका सत्कर्म
असंख्यातगुणा होता है ॥६४७-६५१॥

चूर्णिसू०—क्रोधसंज्वलनकी जघन्य प्रदेश-उदीरणा सबसे कम होती है । क्रोधसंज्व-
लनकी प्रदेश-उदीरणासे उसीका उदय असंख्यातगुणा होता है । क्रोधसंज्वलनके उदयसे
उसीका बन्ध असंख्यातगुणा होता है । क्रोधसंज्वलनके बन्धसे उसीका संक्रम असंख्यात-
गुणा होता है और क्रोधसंज्वलनके संक्रमसे क्रोधसंज्वलनका सत्कर्म असंख्यातगुणा होता
है ॥६५१-६५६॥

चूर्णिसू०—इसीप्रकार मानसंज्वलन, मायासंज्वलन और पुरुषवेदका प्रदेशसम्बन्धी
जघन्य अल्पबहुत्व व्यंजन अर्थात् शब्दोकी अपेक्षा और अर्थ अर्थात् भाव या तत्त्वकी अपेक्षा

१ कुदो; सव्वसकिलिट्ठमिच्छाइट्ठणा असखेज्जलोगपडिभागोणुदीरिजमाणदव्वस्स गहणादो ।

जयध०

२ कुदो, खविदकम्मसियलङ्गणेणागतूण तसकाइएसुप्पज्जिय सव्वलहुमणताणुबधीण विसंजोयणा-
पुव्वसजोगेणतोमुहुत्तमच्छिय वेदगसम्मत्तपडिवत्तिपुरस्सर वे-च्छावट्ठिसागरोवमकालमि असखेज्जगुणहाणीओ
गालिय पुणो गलिट्ठसेसत्तकम्म विसजोएमाण-अधापवत्तकरणचरिमसमयमि अगुलस्सासखेज्जदिभागमेत्त-
विज्झादभागहारेण सकामिददव्वस्स पुव्विल्लासखेज्जलोगपडिभागियदव्वादो असखेज्जगुणत्त पडि विरोहा-
भावादो । जयध०

३ किं कारण, असखेज्जपचिदियसमयपवद्धसजुत्तगुणसेदिगोवुच्छसरूवत्तादो । जयध०

४ कुदो, मिच्छाइट्ठणा सव्वुक्कस्ससकिलेसेणुदीरिजमाणासखेज्जलोगपडिभागियदव्वस्स गहणादो ।

जयध०

५ कि कारण, उव्वसमसेट्ठीए अतरकरण समाणिय काल कादूण देवेसुप्पणस्स असखेज्जलोगपडि-
भागोणुदयावलियव्भतरे णिसिन्तदव्वस्स चरिमणिसेयमस्सियूण पयदजहण्णसामित्तावलवणादो । जयध०

६ कि कारण, मुहुमेइदियउववादजोगेण वद्धसमयपवद्धस्स गहणादो । जयध०

७ कि कारण, अणियट्ठिखवगमि क्रोधवेदगचरिमसमयघोलमाणजहण्णजोगेण वद्धणवकवधस्स
असखेज्जे भागे वेत्तूण चरिमकालिविसए जहण्णसामित्तावलवणादो । जयध०

८ तं पुण कथ कायव्वमिदि भणिदे 'वजणदो च अत्थदो च कादव्व' इति वुत्त । शब्दतत्त्वार्थतश्च
कर्तव्यमित्यर्थः; न शब्दगतोऽर्थगतो वा कश्चिद्विशेषोऽस्तीत्यभिप्रायः । जयध०

६५८ लोहसंजलणस्म वि एसो चैव आलावो । णवरि अत्थेण णाणत्तं', वंजणदो ण किंचि णाणत्तमत्थि ।

६५९ इत्थि-णत्तुं मयवेद अरइ सोगाणं जहणिया पदेसुदीग्गा थोवा १। ६६०. संक्रमो असंखेज्जगुणो २। ६६१. वंधो असंखेज्जगुणो ३। ६६२. उदयो असंखेज्जगुणो । ६६३ संतकम्ममसंखेज्जगुणं ।

व्याख्यान करना चाहिए । अर्थात् क्रोधसंज्वलनकी अपेक्षा मानसंज्वलनादि प्रकृतियोंके अल्प-वहुत्वमे शब्दगत या अर्थगत कोई भी भेद नहीं है । लोभसंज्वलनका भी यही आलाप है, अर्थात् प्रदेशमन्वन्धी अल्पवहुत्वका क्रम है, परन्तु उसमे अर्थकी अपेक्षा विभिन्नता है, व्यंजन (शब्द) की अपेक्षा कोई विभिन्नता नहीं है ॥ ६५७-६५८ ॥

विशेषार्थ—संज्वलन लोभकी जघन्य प्रदेश-उदीरणा अल्प है, उससे उदय, संक्रम और सत्कर्म उत्तरोत्तर असंख्यातगुणित हैं, इस प्रकारसे यद्यपि अल्पवहुत्वमे शब्दगत कोई विभिन्नता नहीं है, तथापि अर्थगत विभिन्नता है । और वह इस प्रकार है कि संक्रमगत द्रव्यसे यहाँपर क्षपितकर्माशिक लक्षणसे आकरके क्षपणाके लिए उद्यत हुए और अपूर्वकरणकी आवलीके चरम समयमे वर्तमान जीवके अधःप्रवृत्तसंक्रमगत जघन्य द्रव्यका ग्रहण करना चाहिए । यहाँपर गुणकारका प्रमाण पर्योपसका असंख्यातवाँ भाग या पर्योपसके असंख्यात प्रथम वर्गमूल है । लोभसंज्वलनके जघन्य संक्रमसे उसका सत्कर्म असंख्यातगुणित है । यहाँपर उसी उपयुक्त जीवके अधःप्रवृत्तकरणके चरम समयमे द्वयर्धगुणहानिप्रमित एकेन्द्रियके योग्य समयप्रवद्धोका ग्रहण करना चाहिए । यहाँपर गुणकारका प्रमाण अधःप्रवृत्त-भागहार है । इस अर्थगत विशेषताका चूर्णिकारने उक्त सूत्रमे संकेत किया है ।

चूर्णिसू०—स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति और शोक, इन प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेश-उदीरणा वक्ष्यमाण पदोंकी अपेक्षा सबसे कम होती है । इनकी प्रदेश-उदीरणासे उनका संक्रम असंख्यातगुणा होता है । उनके संक्रमसे उनका बन्ध असंख्यातगुणा होता है । उनके बन्धसे उनका उदय असंख्यातगुणा होता है और उनके उदयसे उनका सत्कर्म असंख्यात-गुणा होता है ॥ ६५९-६६३ ॥

१ को गुण सो अत्थगओ विसेसो चे ? जहणसकम सत्कम्मेसु दव्वगओ विसेसो त्ति भणामो । त जहा—लोहसजलण जहणपदेसुदीरणा थोवा, उदयो असंखेज्जगुणो । एत्थ पुव्व व गुणगारो वत्तव्वो विसेसा भावादो । सकमो असंखेज्जगुणो । कुदो, खविदकम्मसियलक्खणेणागतूण खवणाए अब्भुट्ठिदस्स अपुव्वकरणा-वलिय चरिमसमए वट्टमाणस्स अधापवत्तसकम-जहणदव्वग्गहणादो । को गुणगारो ? पल्लिदोवमस्स असं-खेज्जदिभागो असंखेजाणि पल्लिदोवमपटमवग्गमूलाणि । सत्कम्ममसंखेज्जगुण । कुदो खविदकम्मसियलक्ख-णेणागतूण खवगसेट्ठि च्चट्टणुम्महस्स अधापवत्तकरणचरिमसमए दिवड्ढगुणहाणिमेत्ते इदियसमयपवद्धे घेत्तूण जहणसामित्तविहाणादो । एत्थ गुणगारो अधापवत्तभागहारो । एवमेसो अत्थविसेसो एत्थ जाणेव्वो ।

जयध०

२ किं पमाणमेद दव्व ? अमखेज्जलोगपडिभागिय-मिच्छाइट्ठ-उदीरिददव्वमेत्तं । तदो सव्वत्थो-वत्तमेदस्स ण विरुज्झरे । जयध०

३ किं कारण, अप्पपणा पाओग्गखविदकम्मसियलक्खणेणागतूण खवणाए अब्भुट्ठिदस्स अधा-पवत्तकरणचरिमसमये व द्धादसकमेण जहणसामित्तपडिलभादो । जयध०

४ किं कारण, सुहुमणिगोदजहणोववादजोगेण वद्धसमयपवद्धपमाणत्तादो । जयध०

६६४. हस्स-रदि-भय-दुगुं छाणं जहणिया पदेसुदीरणा थोवा^१ । ६६५. उदयो असंखेज्जगुणो^२ । ६६६ वंधो असंखेज्जगुणो^३ । ६६७. संकमो असंखेज्जगुणो^४ । ६६८. संतकम्ममसंखेज्जगुणा^५ ।

एवमप्यावहुए समत्ते 'जो जं संकामेदि य' एदिस्से चउत्थीए सुत्तमाहाए
अत्थो समत्तो होइ ।

तदो वेदगे त्ति समत्तमणिओगद्वारं ।

चूर्णिसू०—हास्य, रति, भय और जुगुप्सा, इन प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेश-उदीरणा सबसे कम है । इनकी उदीरणासे उनका उदय असंख्यातगुणा होता है । उनके उदयसे उनका वन्ध असंख्यातगुणा होता है । उनके वन्धसे उनका संक्रम असंख्यातगुणा होता है और उनके संक्रमसे उनका सत्कर्म असंख्यातगुणा होता है ॥६६४-६६८॥

इस प्रकार प्रदेशवन्ध-सम्बन्धी अल्पबहुत्वके समाप्त होनेके साथ ही 'जो जं संकामेदि य' इस चौथी सूत्रगाथाका अर्थ भी समाप्त होता है ।

इस प्रकार वेदक अनुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

१ कुदो, सवुइस्ससकिलिइमिच्छाइट्ठि-जहणोदीरणदव्वग्गहणादो । जयध०

२ किं कारण, उवसामयपच्छायददेवस्स उदीरणोदयदव्व घेत्तूणावलियचरिमसमये जहणसामित्तावलवणादो । जयध०

३ कुदो, सुट्टमणिगोदुववादजोणेण वद्धजहणसमयवद्धपमाणत्तादो । जयध०

४ किं कारण, अपुव्वकरणावलियपविट्ठचरिमसमये अधापवत्तसममेण जहणभावावलंबणादो । एत्थ गुणगारो असंखेजाणि पल्लिदेवमपटमवग्गमूलाणि, जागुणगारगुणिददिवड्ढगुणहाणीए अधापवत्तभागहारेणोवट्ठिदाए पप्रदगुणगारुपत्तिइसणादो । जयध०

५ को गुणगारा ? अधापवत्तभागहारो । किं कारण, खदिदकम्मसियलक्खणेणागदखवगचरिमफालीए किंचूणदिवड्ढगुणहाणि मेत्तएहदियसमयवद्धपडिबड्ढाए पयदजहणसामित्तावलवणादो । जयध०

७ उवजोग-अत्थाहियारो

१. उवजोगे त्ति अणियोगहारस्स सुत्तं* । २. तं जहा ।

(१०) केवचिरं उवजोगो कम्मि कसायम्मि को व केणहियो ।
को वा कम्मि कसाए अभिक्खमुवजोगमुवजुत्तो ॥६३॥

७ उपयोग-अर्थाधिकार

युगपद् उपयोगद्वयी जिनवरके नमि पाय ।

इस उपयोग-द्वारको भापूं अति उमगाय ॥

चूर्णिसू०—अब कसायपाहुडके पन्द्रह अर्थाधिकारोमेसे जो उपयोग नामका सातवाँ अनुयोगद्वार है, उसके आधार-स्वरूप गाथा-सूत्रोको कहते हैं । वे गाथामूत्र इस प्रकार हैं ॥ १-२ ॥

किस कषायमें एक जीवका उपयोग कितने काल तक होता है ? कौन उपयोग-काल किससे अधिक है और कौन जीव किस कषायमें निरन्तर एक सदृश उपयोगसे उपयुक्त रहता है ? ॥६३॥

विशेषार्थ—यह गाथा तीन अर्थोका निरूपण करती है । (१) 'केवचिरं उवजोगो कम्मि कसायम्मि' अर्थात् किस कषायमे एक जीवका उपयोग कितने काल तक होता है ? क्या सागरोपम, पल्योपम, पल्योपमका असंख्यातवाँ भाग, आवली, आवलीका असंख्यातवाँ भाग, संख्यात समय, अथवा एक समय-प्रमाण काल तक वह उपयोग रहता है ? इस प्रकार-की यह प्रथम पृच्छा है । चूर्णिसूत्रकार आगे चलकर स्वयं इसका उत्तर देगे कि सभी कषायो-का उपयोगकाल निर्व्याघात अवस्थामे जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त-मात्र है । किन्तु व्या-घातकी अपेक्षा एक समय-प्रमाण भी काल है । इस गाथा-द्वारा यह प्रथम अर्थ सूचित किया गया है । (२) 'को व केणहियो' अर्थात् क्रोधादि कषायोका उपयोगकाल क्या परस्पर सदृश है, अथवा असदृश ? यह दूसरी पृच्छा है । इसके द्वारा कषायोके काल-सम्बन्धी अल्प-बहुत्वकी सूचना की गई है । इसका निर्णय चूर्णिसूत्रकार आगे स्वयं करेगे । (३) 'को वा कम्मि कसाए अभिक्खमुवजोगमुवजुत्तो' अर्थात् नरकगति आदि मार्गणाविशेषसे प्रतिबद्ध कौन जीव किस कषायमे निरन्तर एक सदृश उपयोगसे उपयुक्त रहता है ? यह तीसरी पृच्छा है । इसका अभिप्राय यह है कि नारकी आदि जीव अपनी भवस्थितिके भीतर क्या क्रोधोपयोग-से बहुत बार उपयुक्त होते हैं, अथवा मानोपयोगसे, मायोपयोगसे, अथवा लोभोपयोगसे ?

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमे 'उवजोगे त्ति' इतना मात्र ही सूत्र मुद्रित है और आगेके अशको टीकाका अग बना दिया है (देखो पृ० १६१०) । पर टीकासे ही 'अणियोगहारस्स सुत्तं' इस अशके सूत्रता सिद्ध है ।

(११) एकम्हि भवग्रहणे एककसायम्हि कदि च उवजोगा ।

एकम्हि या उवजोगे एककसाए कदि भवा च ॥६४॥

(१२) उवजोगवर्गणाओ कम्मि कसायम्मि केत्तिया होंति ?

कदरिस्से च गदीए केवडिया वर्गणा होंति ॥६५॥

इस प्रश्नका निर्णय भी आगे चूर्णिकार स्वयं करेगे । इस प्रकार यह गाथा उक्त तीन अर्थोंका निरूपण करती है ।

एक भवके ग्रहण-कालमें और एक कपायमें कितने उपयोग होते हैं, तथा एक उपयोगमें और एक कपायमें कितने भव होते हैं ? ॥६४॥

विशेषार्थ—एक भवके ग्रहण-कालमें ऐसा कहनेका अभिप्राय यह है कि नरक आदि चार गति-सम्बन्धी भवोंमेंसे किसी एक विवक्षित भवके ग्रहण करनेपर तत्सम्बन्धी स्थिति-कालके भीतर क्रोधादिक कपायोंमेंसे किसी एक कपाय-सम्बन्धी कालमें कितने उपयोग होते हैं ? क्या वे संख्यात होते हैं, अथवा असंख्यात ? जिस नरकादि विवक्षित भव ग्रहणमें किसी एक विवक्षित कपायके उपयोग संख्यात अथवा असंख्यात होते हैं, वहाँपर शेष कपायोंके उपयोग कितने होते हैं ? क्या तत्प्रमाण ही होते हैं, अथवा उससे हीनाधिक ? इस प्रकारका अर्थ इस गाथाके पूर्वार्धमें निवृद्ध है । ‘एक उपयोगमें और एक कपायमें कितने भव होते हैं,’ इस पृच्छाका अभिप्राय यह है कि यहाँपर क्रोधादि कपाय-सम्बन्धी संख्यात, अथवा असंख्यात उपयोगोंको आधार-स्वरूप मानकर पुनः उनमें अतीतकालिक भव कितने होते हैं ? इस प्रकारसे भवोंको आधेयरूप मानकर उनके अल्पवहुत्व-सम्बन्धी अनुयोगद्वारकी सूचना की गई है । इसका निर्णय आगे चूर्णिसूत्रोंके द्वारा किया जायगा ।

किस कपायमें उपयोग-सम्बन्धी वर्गणाएं कितनी होती हैं ? तथा किस गति-में कितनी वर्गणाएं होती हैं ? ॥६५॥

विशेषार्थ—वर्गणा, विकल्प अथवा भेदको कहते हैं । वे वर्गणाएँ दो प्रकारकी होती हैं—कालोपयोग-वर्गणा और भावोपयोग-वर्गणा । इनमेंसे कालकी अपेक्षा कपायोंके जघन्य उपयोगकालसे लेकर उत्कृष्ट उपयोगकाल तक निरन्तर अवस्थित विकल्पोंको कालोपयोगवर्गणा कहते हैं । भावकी अपेक्षा तीव्र, मन्द आदि भावोंसे परिणत कपायोंके उदयस्थान-सम्बन्धी जघन्य भेदसे लेकर उत्कृष्ट भेद तक पङ्कटि-क्रमसे अवस्थित विकल्पोंको भावोपयोगवर्गणा कहते हैं । इन दोनों प्रकारकी वर्गणाओंके निरूपण करनेके लिए प्ररूपणा, प्रमाण और अल्पवहुत्व ये तीन अनुयोगद्वार इस गाथा-द्वारा सूचित किये गये हैं । उनमेंसे किस कपायमें कितनी उपयोगवर्गणाएँ होती हैं, इस पृच्छाके द्वारा दोनों प्रकारकी वर्गणाओंके प्रमाण-अनुयोगद्वार-सम्बन्धी ओघ-प्ररूपणाकी सूचना की गई है । और, किस गतिमें

(१३) एकम्हि य अणुभागे एककषायम्हि एककालेण ।

उवजुत्ता का च गदी विसरिसमुवजुज्जदे का च ॥६६॥

(१४) केवडिया उवजुत्ता सरिसीसु च वर्गणा-कषाएसु ।

केवडिया च कषाए के के च विसिस्सदे केण ॥६७॥

कितनी वर्गणाएँ होती है, इस पृच्छाके द्वारा उक्त दोनो ही वर्गणाओके प्रमाणकी आदेश-प्ररूपणा सूचित की गई है ।

एक अनुभागमें और एक कषायमें एक कालकी अपेक्षा कौन सी गति सदृश-रूपसे उपयुक्त होती है और कौन-सी गति विसदृशरूपसे उपयुक्त होती है ? ॥६६॥

विशेषार्थ—अनुभाग-संज्ञावाले एक ही कषायमें एक ही समयकी अपेक्षा कौन गति होती है, अर्थात् किस गतिमें सभी जीव क्रोधादि कषायोंमेंसे किसी एक कषायमें एक समयकी अपेक्षा उपयुक्त पाये जाते हैं ? इसी प्रकार दो, तीन अथवा चार कषायोंमें भी एक ही समयकी अपेक्षा कौन गति उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त पाई जाती है । यह 'अप्रवाह्यमान'—परम्पराके अनुसार अर्थ है । 'प्रवाह्यमान'—परम्पराके उपदेशानुसार कषाय और अनुभाग इन दोनोमें भेद है । तदनुसार एक 'अनुभागमें' ऐसा कहने पर 'एक कषाय-उदयस्थानमें' यह अर्थ लेना चाहिए । तथा, 'एक कालसे' ऐसा कहने पर एक समय-सम्बन्धी एक उपयोग-वर्गणाका ग्रहण करना चाहिए । अतएव यह अर्थ हुआ कि क्रोधादि कषायोंमेंसे एक-एक कषायके असंख्यात लोकमात्र कषाय-उदयस्थान होते हैं और संख्यात आवलीप्रमाण कषाय-उपयोगस्थान होते हैं । उनमेंसे एक कषायका एक कषाय-उदयस्थानमें और एक कषाय-उपयोगस्थानमें, विवक्षित एक समयमें ही कौन गति उपयुक्त होती है ? अर्थात् क्या सभी जीवोंके एक ही वार उक्त प्रकारके परिणाम सम्भव है, अथवा नहीं ? इस प्रकारकी पृच्छा की गई है । 'विसरिसमुवजुज्जदे का च' ऐसा कहने पर दो कषाय-उदयस्थानोंमें, तीन कषाय-उदयस्थानोंमें अथवा चार कषाय-उदयस्थानोंमें, इस प्रकार संख्यात और असंख्यात कषाय-उदयस्थानोंमें एक ही कालकी अपेक्षा कौन गति उपयुक्त होती है ? उसी समय दो कालोपयोग-वर्गणाओसे, अथवा तीन कालोपयोग-वर्गणाओसे, इस प्रकार संख्यात और असंख्यात कालोपयोग-वर्गणाओसे प्रतिबद्ध पूर्वोक्त कषाय उदयस्थानोंकी अपेक्षा एक ही वार उपयुक्त कौन गति होती है ? इस प्रकार यह चौथी गाथा दो प्रकारके अर्थोंसे सम्बद्ध है । इन पृच्छाओका समाधान आगे चूर्णिसूत्रोंके द्वारा किया जायगा ।

सदृश कषाय-उपयोगवर्गणाओंमें कितने जीव उपयुक्त हैं, तथा चारों कषायोंसे उपयुक्त सर्व जीवोंका कौन-सा भाग एक एक कषायमें उपयुक्त है और किस किस कषायसे उपयुक्त जीव कौन-कौनसी कषायोंसे उपयुक्त जीवराशिके साथ गुणकार और भागहारकी अपेक्षा हीन अथवा अधिक होते हैं ? ॥६७॥

(१५) जे जे जम्हि कसाए उवजुत्ता किण्णु भूदपुव्वा ते ।

होहिंति च उवजुत्ता एवं सव्वत्थ बोद्धव्वा ॥६८॥

(१६) उवजोगवग्गणाहि च अविरहिदं काहि विरहिदं चावि ।

पढमसमयोवजुत्तेहिं चरिमसए च बोद्धव्वा (७) ॥६९॥

विशेषार्थ—इस गाथाके द्वारा कपायोपयुक्त जीवोंके विशेष परिज्ञानके लिए आठ अनुयोगद्वारोंकी सूचना की गई है। 'केवडिया उवजुत्ता' इस पदके द्वारा द्रव्यप्रमाणानुगम अनुयोगद्वार सूचित किया गया है। तथा इसी पदके द्वारा सत्प्ररूपणाकी भी सूचना की गई है। क्योंकि सत्प्ररूपणाके विना द्रव्यप्रमाणानुगमकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। क्षेत्र-अनुयोगद्वार और स्पर्शन-अनुयोगद्वार भी इसी पदसे संगृहीत समझना चाहिए। क्योंकि, उन दोनों अनुयोगद्वारोंकी प्रवृत्ति द्रव्यप्रमाणानुगम-पूर्वक ही होती है। इस प्रकार गाथासूत्रके इस प्रथम अवयवमे चार अनुयोगद्वार अन्तर्निहित है। 'सरिसीसु च वग्गणा-कसाएसु' इस द्वितीय सूत्रावयवके द्वारा नाना और एक जीव-सम्बन्धी कालानुगम अनुयोगद्वारकी सूचना की गई है। तथा यही पर अन्तरानुगम अनुयोगद्वारका भी अन्तर्भाव जानना चाहिए। क्योंकि, काल और अन्तर ये दोनों अनुयोगद्वार परस्परमे सम्बद्ध ही देखे जाते हैं। 'केवडिया च कसाए' इस तृतीय सूत्रावयवसे भागाभागानुगम अनुयोगद्वार कहा गया है। 'के के च विसिस्सदे केण' इस चतुर्थ सूत्रावयवसे अल्पबहुत्व अनुयोगद्वार सूचित किया गया है। इस गाथामे द्रव्यानुगम, कालानुगम, भागाभागानुगम और अल्पबहुत्वानुगम ये चार अनुयोगद्वार तो स्पष्ट कहे ही गये हैं, तथा शेष चार अनुयोगद्वारोंकी सूचना की गई है।

जो जो जीव वर्तमान समयमें जिस क्रोधादि किसी एक कषायमें उपयुक्त दिखलाई देते हैं, वे सबके सब क्या अतीत कालमें उसी ही कषायके उपयोगसे उपयुक्त थे, अथवा वे सबके सब आगामी कालमें उसी ही कषायरूप उपयोगसे उपयुक्त होंगे ? इसी प्रकार सर्वत्र सर्व मार्गणाओंमे जानना चाहिए ॥६८॥

विशेषार्थ—इस गाथाके द्वारा वर्तमान समयमे क्रोधादि कषायोंसे उपयुक्त अनन्त जीवोंकी अतीत और अनागत कालमे भी विवक्षित कषायोपयोगके परिणमन-सम्बन्धी सम्भव असम्भव भावोंकी गवेषणा की गई है। गाथाके प्रथम तीन चरणोंके द्वारा ओघप्ररूपणा और चतुर्थ चरणके द्वारा आदेशप्ररूपणा सूचित की गई है। इसका निर्णय आगे चूर्णिकार स्वयं करेगे।

कितनी उपयोग-वर्गणाओंके द्वारा कौन स्थान अविरहित पाया जाता है और कौन स्थान विरहित ? तथा प्रथम समयमें उपयुक्त जीवोंके द्वारा और इसी प्रकार अन्तिम समयमें उपयुक्त जीवोंके द्वारा स्थानोंको जानना चाहिये (७) ॥६९॥

१ एत्थ गाहासुत्तपरिसमत्तीए सत्तण्हमकविण्णासो किमट्ठं कदो ? एदाओ सत्त चेव गाहाओ उवजोगाणिओगद्वारे पडिवद्धाओ त्ति जाणावणटठ । जयध०

३. एदाओ सत्त गाहाओ । ४. एदासिं विहासा' कायन्वा । ५. 'केवचिं उवजोगो कस्सि कसायन्हि' ति एदस्स पदस्स अत्थो अद्वापरिमाणं । ६. तं जहा । ७. क्रोधद्वा माणद्वा मायद्वा लोहद्वा जहणियाओ वि उक्कस्सियाओ वि अंतोमुहुत्तं ।

विशेषार्थ—उपयोग-वर्गणाएँ दो प्रकारकी होती हैं—कपाय-उदयस्थानरूप और उपयोग-अध्वस्थानरूप । इन दोनोंमें ही कितने कालोपयोग-वर्गणावाले जीवोंसे और कितने भावोपयोगवर्गणावाले जीवोंसे कौन स्थान अग्रून्य और कौन स्थान ग्रून्य पाया जाता है, इस प्रकारके ग्रून्य-अग्रून्य स्थानोंका आद्य और आदेशकी अपेक्षा निरूपण करनेकी सूचना गाथाके पूर्वार्धसे की गई है । तथा गाथाके उत्तरार्ध-द्वारा नरक आदि गतियोंका आश्रय करके क्रोधादि कपायोपयोगयुक्त जीवोंके तीन प्रकारकी श्रेणियोंके द्वारा अल्पवहुत्वकी सूचना की गई है, जिसका निर्णय चूर्णिसूत्रकार आगे स्वयं करेंगे । इस उपयोग अधिकारमें सात ही सूत्रगाथाएँ निबद्ध हैं, यह सूचित करनेके लिए चूर्णिकारने गाथाके अन्तमें सातका अंक स्थापित किया है ।

चूर्णिसू०—ये सात सूत्र-गाथाएँ कसायपाहुडके उपयोग नामक सातवें अर्थाधिकारमें प्रतिबद्ध हैं । अब इन सातों गाथाओंकी विभाषा करना चाहिए ॥३-४॥

विशेषार्थ—गाथा-सूत्रसे सूचित अर्थका नाना प्रकारसे व्याख्यान, विवरण या विवेचन करनेको विभाषा कहते हैं । चूर्णिकार अब इन गाथासूत्रोंकी विभाषा करेंगे ।

चूर्णिसू०—'किस कपायमें कितने काल उपयोग रहता है' इस पदका अर्थ अद्वा-परिमाण है ॥५॥

विशेषार्थ—अद्वा नाम कालका है । कालके परिमाणको अद्वापरिमाण कहते हैं । जिसका अभिप्राय यह है कि एक जीवका किस कपायमें कितने काल तक उपयोग रहता है ?

चूर्णिसू०—उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—क्रोधकपायका काल, मानकषायका काल, मायाकपायका काल, और लोभकपायका काल जघन्य भी अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त है ॥६-७॥

विशेषार्थ—चारों ही कपायोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त ही बतलाया गया है । इसका कारण यह है कि किसी भी कपायका एक सदृश उपयोग अन्तर्मुहूर्तसे अधिक नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके बाद कषायोंके उपयोग-परिवर्तनके बिना अवस्थान असम्भव है । यद्यपि मरण और व्याघातकी अपेक्षा कषायोंके उपयोगका जघन्यकाल 'जीवस्थान' आदि ग्रन्थोंमें एक समयमात्र भी कहा गया है, किन्तु चूर्णिसूत्रकारके अभिप्रायसे वैसा होना सम्भव नहीं है ।

? का विहासा नाम ? गाहासुत्तस्सिचिदस्स अत्थस्स विसेसियूण भासण विहासा विवरणमिदि सुत्तं होइ । जयध०

८. गदीसु णिक्खमाण-पवेसणेण एगसमयो होज्ज ।

९. 'को व केणहिओ' त्ति एदस्स पदस्स अत्थो अद्धानमप्पावहुअं* । १०. तं जहा । ११. ओघेण माणद्धा जहणिया थोवा' । १२. क्रोधद्धा जहणिया विसे-

चूर्णिसू०—गतियोंमें निष्क्रमण और प्रवेशकी अपेक्षा चारों कपायोंका जघन्यकाल एक समय भी होता है ॥८॥

विशेषार्थ—निष्क्रमणकी अपेक्षा एक समयकी प्ररूपणा इस प्रकार जानना चाहिए—कोई एक नारकी मानादि किसी एक कपायसे उपयुक्त होकर स्थित था, जब आयुका एक समय-मात्र शेष रहा, तब क्रोधोपयोगसे परिणत होकर एक समय नरकमें रहकर निकला और तिर्यच या मनुष्य हो गया । इस प्रकार निष्क्रमणकी अपेक्षा क्रोधोपयोगका एक समय मात्र जघन्यकाल प्राप्त हुआ । अब प्रवेशकी अपेक्षा एक समयकी प्ररूपणा करते हैं—कोई एक तिर्यच अथवा मनुष्य जीव क्रोधकपायसे उपयुक्त होकर स्थित था, जब क्रोधकपायके कालमें एक समय अवशिष्ट रहा, तब मरकर नारकियोंमें उत्पन्न हो प्रथम समयमें क्रोधोपयोगके साथ दिखाई दिया और दूसरे ही समयमें अन्य कपायसे उपयुक्त हो गया । इस प्रकार यह प्रवेशकी अपेक्षा एक समय-प्रमाण क्रोधकपायका जघन्य-काल प्राप्त हुआ । इसी प्रकारसे शेष कपायों तथा शेष गतियोंमें भी निष्क्रमण और प्रवेशकी अपेक्षा एक समयकी प्ररूपणा करना चाहिए ।

चूर्णिसू०—'किस कपायका उपयोगकाल किस कपायके उपयोगकालसे अधिक है' गाथाके इस द्वितीय पदका अर्थ कपायोंके उपयोगकाल-सम्बन्धी अल्पवहुत्व है । वह कपायोंके उपयोगकाल-सम्बन्धी अल्पवहुत्वका क्रम इस प्रकार है—ओघकी अपेक्षा मानकपायका जघन्यकाल सबसे कम है ॥ ९-११ ॥

विशेषार्थ—यद्यपि तिर्यच और मनुष्योंके निर्व्याघातकी अपेक्षा मानकपायके उपयोगका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त-प्रमाण ही है तथापि आगे बताए जानेवाले कपायोंके उपयोगकालसे यह मानकपायका उपयोग-काल सबसे अल्प है, क्योंकि वह संख्यात आवलीप्रमाण ही होता है ।

चूर्णिसू०—क्रोधकपायका जघन्यकाल, मानकपायके जघन्यकालसे विशेष अधिक

❧ ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'को व केणहिओ त्ति' इतना ही सूत्र मुद्रित है और आगेके अशको टीकामें सम्मिलित कर दिया है (देखो पृ० १६१६) । परन्तु टीकासे ही शेष इस अशके सूत्रता सिद्ध है. तथा सूत्र न० ५ से भी ।

१ एत्थ 'माणद्धा जहणिया' त्ति वुत्ते तिरिक्ख-मणुसाण णिन्वाघादेण माणोवजोगजहणकालो अतो-मुहुत्तपमाणो वेत्तव्वो, अण्णत्थ वेप्पमाणे माणजहण्णद्धाए सव्वत्थोवत्ताणुवत्तीदो । तदो जहणिया माणद्धा सखेजावलियमेत्ता होदूण सव्वत्थोवा त्ति सिद्ध । जयध०

साहिया । १३. मायद्धा जहणिया विसेसाहिया । १४. लोभद्धा जहणिया विसेसाहिया । १५. माणद्धा उक्करिसया संखजगुणा । १६. क्रोधद्धा उक्कम्मिया विसेसाहिया । १७. मायद्धा उक्कस्सिया विसेसाहिया । १८. लोभद्धा उक्कम्मिया विसेसाहिया ।

१९. पवाइज्जंतेण^१ उवदेसेण अद्धानं विसेसो अंतोमुहुरं । २०. तेषेव उवदेसेण चउगइसमासेण अपावहुअं भणिदिदि । २१ चदमदिमपामेण जहण्णुअमपदेसेण गिरयगदीए जहणिया लोभद्धा थोवा । २२. देवगदीए जहणिया क्रोधद्धा विसे-
है । माया कपायका जघन्यकाल क्रोधकपायके जघन्यकालमे विशेष अधिक है । लोभकपायका जघन्यकाल मायाकपायके जघन्यकालमे विशेष अधिक है ॥१२-१४॥

चूर्णिसू०—मानकपायका उत्कृष्टकाल लोभकपायके जघन्यकाल से संख्यातगुणा है । क्रोधकपायका उत्कृष्टकाल मानकपायके उत्कृष्टकालमे विशेष अधिक है । मायाकपायका उत्कृष्टकाल क्रोधकपायके उत्कृष्टकालमे विशेष अधिक है । लोभकपायका उत्कृष्टकाल मायाकपायके उत्कृष्टकालसे विशेष अधिक है ॥१५-१८॥

चूर्णिसू०—प्रवाह्यमान उपदेशकी अपेक्षा क्रोधादि कपायोंके कालकी विशेषता अन्तर्मुहूर्त है । ॥१९॥

विशेषार्थ—ऊपर जो ओघकी अपेक्षा कपायोंका काल-सम्बन्धी अल्पबहुत्व बतलाया गया है, वह जिस जिस स्थानपर विशेष अधिक कहा गया है, वहाँ वहाँ पर विशेष अधिकसे अन्तर्मुहूर्तकालकी अधिकता समझना चाहिए । वह अन्तर्मुहूर्त यद्यपि अनेक भेदरूप है, कोई संख्यात आवलीप्रमाण, कोई आवलीके संख्यातवे भागप्रमाण और कोई आवलीके असंख्यातवे भागप्रमाण होता है । किन्तु वहाँ पर प्रवाह्यमान उपदेशके अनुसार आवलीके असंख्यातवे भागमात्र ही विशेष अधिक काल समझना चाहिए । जो उपदेश सर्व आचार्योंसे सम्मत है, चिरकालमे अविच्छिन्न सम्प्रदाय-द्वारा प्रवाहरूपसे आ रहा है, और गुरु-शिष्य-परम्पराके द्वारा प्ररूपित किया जाता है, वह प्रवाह्यमान उपदेश कहलाता है । इससे भिन्न जो सर्व आचार्य-सम्मत न हो और अविच्छिन्न गुरु-शिष्य-परम्परामे नहीं आ रहा हो, ऐसे उपदेशको अप्रवाह्यमान उपदेश कहते हैं । अथवा आर्यसंक्षु आचार्यके उपदेशको अप्रवाह्यमान और नागहस्ति क्षमाश्रमणके उपदेशको प्रवाह्यमान उपदेश समझना चाहिए ।

चूर्णिसू०—उसी प्रवाह्यमान उपदेशकी अपेक्षा अब चारो गतियोंका समुच्चय आश्रय करके कपायोंके काल-सम्बन्धी अल्पबहुत्वको कहते हैं—चतुर्गतिके समाससे जघन्य और उक्कृष्ट पदकी अपेक्षा नरकगतिमे लोभकपायका जघन्यकाल सबसे कम है । (क्योंकि द्वेष-बहुल नारकियोंमे जाति-विशेषसे ही प्रेरणारूप लोभपरिणामका चिरकाल तक रहना अस-

१ को गुण पवाइज्जतोवएसो णाम वुत्तमेद ? सव्वाइरियसम्मदो चिरकालमवोच्छिण्णसग्दायकमेणा-
गच्छमाणो जो सिस्सपरपराए पवाइज्जे पणविज्जे सो पवाइज्जतोवएसो त्ति भण्णदं । अथवा अज्जंखु-
भयचंताणमुवएसो एत्थापवाइज्जमाणो णाम । णागहस्तिखवणाणमुवएसो पवाइज्जतो त्ति वेत्तवो ।
जयघ०

साहिया । २३. देवगदीए जहणिया माणद्धा संखेज्जगुणा । २४ गिरयगदीए जहणिया माणद्धा विसेसाहिया । २५. गिरयगदीए जहणिया माणद्धा संखेज्जगुणा । २६. देवगदीए जहणिया माणद्धा विसेसाहिया ।

२७ मणुस-तिरिक्खजोणियाणं जहणिया माणद्धा संखेज्जगुणा । २८.मणुस-तिरिक्खजोणियाणं जहणिया क्रोधद्धा विसेसाहिया । २९. मणुस-तिरिक्खजोणियाणं जहणिया माणद्धा विसेसाहिया । ३०. मणुस-तिरिक्खजोणियाणं जहणिया लोहद्धा विसेसाहिया ।

३१. गिरयगदीए जहणिया क्रोधद्धा संखेज्जगुणा । ३२. देवगदीए जहणिया लोभद्धा विसेसाहिया । ३३. गिरयगदीए उक्कस्सिया लोभद्धा संखेज्जगुणा । ३४. देवगदीए उक्कस्सिया क्रोधद्धा विसेसाहिया । ३५. देवगदीए उक्कस्सिया माणद्धा संखेज्जगुणा । ३६. गिरयगदीए उक्कस्सिया माणद्धा विसेसाहिया । ३७ गिरयगदीए उक्कस्सिया माणद्धा संखेज्जगुणा । ३८. देवगदीए उक्कस्सिया माणद्धा विसेसाहिया ।

३९. मणुस-तिरिक्खजोणियाणमुक्कस्सिया माणद्धा संखेज्जगुणा । ४०. तेसिं

म्भव है । देवगतिमें क्रोधका जघन्य काल नरकगतिके जघन्य लोभ-कालसे विशेष अधिक है । देवगतिमें मानका जघन्यकाल देवगतिके जघन्य क्रोधकालसे संख्यातगुणा है । नरकगतिमें मायाका जघन्यकाल देवगतिके जघन्य मानकालसे विशेष अधिक है । नरकगतिमें मानका जघन्यकाल नरकगतिके ही जघन्य मायाकालसे संख्यातगुणा है । देवगतिमें मायाका जघन्यकाल नरकगतिके जघन्य मानकालसे विशेष अधिक है ॥२०-२६॥

चूर्णिसू०—मनुष्य और तिर्यच योनिवाले जीवोंके मानका जघन्यकाल देवगतिके जघन्य मायाकालसे संख्यातगुणा है । उन ही मनुष्य और तिर्यच योनियोंके क्रोधका जघन्यकाल उन्हींके जघन्य मानकालसे विशेष अधिक है । मनुष्य और तिर्यच योनियोंके मायाका जघन्यकाल उन्हींके जघन्य क्रोधकालसे विशेष अधिक है । मनुष्य और तिर्यच योनियोंके लोभका जघन्यकाल उन्हींके जघन्य मायाकालसे विशेष अधिक है ॥२७-३०॥

चूर्णिसू०—नरकगतिमें क्रोधका जघन्यकाल मनुष्य और तिर्यचयोनियोंके जघन्य लोभकालसे संख्यातगुणा है । देवगतिमें लोभका जघन्यकाल नरकगतिके जघन्य क्रोधकालसे विशेष अधिक है । नरकगतिमें लोभका उत्कृष्टकाल देवगतिके जघन्य लोभकालसे संख्यातगुणा है । देवगतिमें क्रोधका उत्कृष्टकाल नरकगतिके उत्कृष्ट लोभकालसे विशेष अधिक है । देवगतिमें मानका उत्कृष्टकाल देवगतिके ही उत्कृष्ट क्रोधकालसे संख्यातगुणा है । नरकगतिमें मायाका उत्कृष्टकाल देवगतिके उत्कृष्ट मानकालसे विशेष अधिक है । नरकगतिमें मानका उत्कृष्टकाल नरकगतिके ही उत्कृष्ट मायाकालसे संख्यातगुणा है । देवगतिमें मायाका उत्कृष्टकाल नरकगतिके उत्कृष्ट मानकालसे विशेष अधिक है ॥३१-३८॥

चूर्णिसू०—मनुष्य और तिर्यचयोनियोंके मानका उत्कृष्टकाल देवगतिके उत्कृष्ट माया-

चेव उक्कस्सिया क्रोधद्वा विसेसाहिया । ४१. तेसिं चेव उक्कस्सिया मायद्वा विसेसाहिया ४२. तेसिं चेव उक्कस्सिया लोभद्वा विसेसाहिया । ४३. णिरयगदीए उक्कस्सिया क्रोधद्वा संखेज्जगुणा । ४४. देवगदीए उक्कस्सिया लोभद्वा विसेसाहिया ।

४५. तेसिं चेव उवदेसेण चोदस-जीवसमासेहिं दंडगां भणिहिदि । ४६. चोदसण्हं जीवसमासाणं देव-णेरइयवज्जाणं जहणिया माणद्वा तुल्ला थोवा । ४७. जहणिया क्रोधद्वा विसेसाहिया । ४८. जहणिया मायद्वा विसेसाहिया । ४९. जहणिया लोभद्वा विसेसाहिया ।

५०. सुहुमस्स अपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया माणद्वा संखेज्जगुणा । ५१. उक्कस्सिया क्रोधद्वा विसेसाहिया । ५२. उक्कस्सिया मायद्वा विसेसाहिया । ५३. उक्कस्सिया लोभद्वा विसेसाहिया ।

कालसे संख्यातगुणा है । उन्हींके क्रोधका उत्कृष्टकाल उन्हींके उत्कृष्ट मानकालसे विशेष अधिक है । उन्हीं मनुष्य-तिर्यचयोनियोंके मायाका उत्कृष्टकाल उन्हींके उत्कृष्ट क्रोधकालसे विशेष अधिक है । उन्हीं मनुष्य-तिर्यचयोनियोंके लोभका उत्कृष्टकाल उन्हींके उत्कृष्ट मायाकालसे विशेष अधिक है । नरकगतिमें क्रोधका उत्कृष्टकाल मनुष्य-तिर्यचयोनियोंके उत्कृष्ट लोभकालसे संख्यातगुणा है । देवगतिमें लोभका उत्कृष्टकाल नरकगतिके उत्कृष्ट क्रोधकालसे विशेष अधिक है ॥३९-४४॥

चूर्णिसू०—अब प्रवाह्यमान उपदेशके अनुसार चौदह जीवसमासोंके द्वारा जघन्य और उत्कृष्ट पद-विशिष्ट कपायोंके कालसम्बन्धी अल्पबहुत्व-दंडको कहते हैं—देव और नारकियोंसे रहित शेष चौदह जीवसमासोंके मानका जघन्य काल परस्परमें समान होकरके भी वक्ष्यमाण पदोंकी अपेक्षा सबसे कम है । उन्हीं देव-नारकी-रहित चौदह जीवसमासोंके क्रोधका जघन्यकाल उन्हींके जघन्य मानकालसे विशेष अधिक है । उन्हीं देव-नारकी-रहित चौदह जीवसमासोंके मायाका जघन्यकाल उन्हींके जघन्य क्रोधकालसे विशेष अधिक है । उन्हीं देव-नारकी-रहित चौदह जीवसमासोंके लोभका जघन्य काल उन्हींके जघन्य मायाकालसे विशेष अधिक है ॥४५-४९॥

चूर्णिसू०—सूक्ष्म लब्ध्यपर्याप्त निगोदियाके मानका उत्कृष्टकाल देव-नारकी-रहित चौदह जीवसमासोंके जघन्य लोभकालसे संख्यातगुणा है । सूक्ष्म लब्ध्यपर्याप्त निगोदियाके क्रोधका उत्कृष्टकाल उन्हींके उत्कृष्ट मानकालसे विशेष अधिक है । उन्हीं सूक्ष्म लब्ध्यपर्याप्त निगोदियाके मायाका उत्कृष्टकाल उन्हींके उत्कृष्ट क्रोधकालसे विशेष अधिक है । उन्हीं सूक्ष्म लब्ध्यपर्याप्त निगोदियाके लोभका उत्कृष्ट काल उन्हींके उत्कृष्ट मायाकालसे विशेष अधिक है ॥५०-५३॥

१ तेसिं चेव भयवत्ताणमजमंखु-णागहत्थीण पवाइज्जतेणुवएसेण चोदसजीवसमासेसु जहणुक्कस्सपद-विसेसिदो अप्पावहुअदडओ एत्तो भणिहिदि भणिष्यत् इत्यर्थः । जयध०

पञ्जत्तयस्स उक्कस्सिया कोधद्वा विसेसाहिया । ८३. चउरिंदियपञ्जत्तयस्स उक्कस्सिया कोधद्वा विसेसाहिया ।

८४. वेइंदियपञ्जत्तयस्स उक्कस्सिया मायद्वा विसेसाहिया । ८५. तेइंदिय-पञ्जत्तयस्स उक्कस्सिया मायद्वा विसेसाहिया । ८६. चउरिंदियपञ्जत्तयस्स उक्कस्सिया मायद्वा विसेसाहिया ।

८७. वेइंदियपञ्जत्तयस्स उक्कस्सिया लोभद्वा विसेसाहिया । ८८. तेइंदिय-पञ्जत्तयस्स उक्कस्सिया लोभद्वा विसेसाहिया । ८९. चउरिंदियपञ्जत्तयस्स उक्कस्सिया लोभद्वा विसेसाहिया ।

९०. असण्णि-अपञ्जत्तयस्स उक्कस्सिया माणद्वा संखेज्जगुणा । ९१. तस्सेव उक्कस्सिया कोधद्वा विसेसाहिया । ९२. तस्सेव उक्कस्सिया मायद्वा विसेसाहिया । ९३. तस्सेव उक्कस्सिया लोभद्वा विसेसाहिया ।

९४. असण्णिपञ्जत्तयस्स उक्कस्सिया माणद्वा संखेज्जगुणा । ९५. तस्सेव उक्कस्सिया कोधद्वा विसेसाहिया । ९६. तस्सेव उक्कस्सिया मायद्वा विसेसाहिया ।

पर्याप्त जीवके उत्कृष्ट क्रोधकालसे विशेष अधिक है । चतुरिन्द्रियपर्याप्त जीवके क्रोधका उत्कृष्ट-काल त्रीन्द्रियपर्याप्त जीवके उत्कृष्ट क्रोधकालसे विशेष अधिक है ॥ ८१-८३ ॥

चूर्णिसू०-द्वीन्द्रियपर्याप्त जीवके मायाका उत्कृष्टकाल चतुरिन्द्रियपर्याप्त जीवके उत्कृष्ट क्रोधकालसे विशेष अधिक है । त्रीन्द्रियपर्याप्त जीवके मायाका उत्कृष्टकाल द्वीन्द्रिय-पर्याप्त जीवके उत्कृष्ट मायाकालसे विशेष अधिक है । चतुरिन्द्रियपर्याप्त जीवके मायाका उत्कृष्टकाल त्रीन्द्रियपर्याप्त जीवके उत्कृष्ट मायाकालसे विशेष अधिक है ॥ ८४-८६ ॥

चूर्णिसू०-द्वीन्द्रियपर्याप्त जीवके लोभका उत्कृष्टकाल चतुरिन्द्रियपर्याप्त जीवके उत्कृष्ट मायाकालसे विशेष अधिक है । त्रीन्द्रिय पर्याप्त जीवके लोभका उत्कृष्टकाल द्वीन्द्रिय पर्याप्त जीवके उत्कृष्ट लोभकालसे विशेष अधिक है । चतुरिन्द्रियपर्याप्त जीवके लोभका उत्कृष्टकाल त्रीन्द्रियपर्याप्त जीवके उत्कृष्ट लोभकालसे विशेष अधिक है ॥ ८७-८९ ॥

चूर्णिसू०-असंज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्त जीवके मानका उत्कृष्ट काल चतुरिन्द्रिय पर्याप्त जीवके उत्कृष्ट लोभकालसे संख्यातगुणा है । उसी असंज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्त जीवके क्रोधका उत्कृष्टकाल उसीके उत्कृष्ट मानकालसे विशेष अधिक है । उसी असंज्ञी पंचेन्द्रिय-अपर्याप्त जीवके मायाका उत्कृष्टकाल उसीके उत्कृष्ट क्रोधकालसे विशेष अधिक है । उसी असंज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्त जीवके लोभका उत्कृष्ट काल उसीके उत्कृष्ट मायाकालसे विशेष अधिक है ॥ ९०-९३ ॥

चूर्णिसू०-असंज्ञी पर्याप्त पंचेन्द्रियजीवके मानका उत्कृष्टकाल असंज्ञी अपर्याप्त पंचेन्द्रिय जीवके उत्कृष्ट लोभकालसे संख्यातगुणा है । उसी असंज्ञी पर्याप्त पंचेन्द्रिय जीवके क्रोधका उत्कृष्टकाल उसीके उत्कृष्ट मानकालसे विशेष अधिक है । उसी असंज्ञी पर्याप्त

९७. तस्सेव उक्कस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया ।

९८. सण्णिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया माणद्धा संखेज्जगुणा । ९९. तस्सेव उक्कस्सिया क्रोधद्धा विसेसाहिया । १००. तस्सेव उक्कस्सिया मायद्धा विसेसाहिया ।

१०१. तस्सेव उक्कस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया ।

१०२. सण्णि-पज्जत्तयस्स उक्कस्सिया माणद्धा संखेज्जगुणा । १०३. तस्सेव उक्कस्सिया क्रोधद्धा विसेसाहिया । १०४. तस्सेव उक्कस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया ।

१०५. तस्सेव उक्कस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया ।

तदो पढमगाहाए पुव्वद्धस्स अत्थविहासा समत्ता ।

१०६. 'को वा* कम्हि कसाए अभिक्खमुवजोगमुवजुत्तो' ति एत्थ अभिक्खमुवजोगपरुवणा कायव्वा । १०७. ओघेण ताव लोभो माया क्रोधो माणो ति

पंचेन्द्रिय जीवके मायाका उत्कृष्टकाल उसीके उत्कृष्ट क्रोधकालसे विशेष अधिक है । उसी असंज्ञी पर्याप्त पंचेन्द्रिय जीवके लोभका उत्कृष्टकाल उसीके उत्कृष्ट मायाकालसे विशेष अधिक है ॥९४-९७॥

चूर्णिसू०—संज्ञी लब्धपर्याप्त पंचेन्द्रिय जीवके मानका उत्कृष्टकाल असंज्ञी पर्याप्त पंचेन्द्रिय जीवके उत्कृष्ट लोभकालसे संख्यातगुणा है । उसी संज्ञी लब्धपर्याप्त पंचेन्द्रिय जीवके क्रोधका उत्कृष्टकाल उसीके उत्कृष्ट मायाकालसे विशेष अधिक है । उसी संज्ञी लब्धपर्याप्त पंचेन्द्रिय जीवके मायाका उत्कृष्टकाल उसीके उत्कृष्ट क्रोधकालसे विशेष अधिक है । उसी संज्ञी पर्याप्त पंचेन्द्रिय जीवके लोभका उत्कृष्टकाल उसीके उत्कृष्ट मायाकालसे विशेष अधिक है ॥९८-१०१॥

चूर्णिसू०—संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवके मानका उत्कृष्टकाल संज्ञी पंचेन्द्रिय लब्धपर्याप्त जीवके उत्कृष्ट लोभकालसे संख्यातगुणा है । इससे इसीका उत्कृष्ट क्रोधकाल विशेष अधिक है । इससे इसीका उत्कृष्ट मायाकाल विशेष अधिक है । इससे इसीका उत्कृष्ट लोभकाल विशेष अधिक है ॥१०२-१०५॥

इस प्रकार प्रथम गाथाके पूर्वार्धके अर्थका विवरण समाप्त हुआ ।

चूर्णिसू०—'कौन जीव किस कषायमे निरन्तर एक सदृश उपयोगसे उपयुक्त रहता है' गाथाके इस उत्तरार्धमे निरन्तर होनेवाले उपयोगोकी प्ररूपणा करना चाहिये । (वह इस प्रकार है—) ओघकी अपेक्षा लोभ, माया, क्रोध और मान इस अवस्थित-स्वरूप परि-

ॐ ताम्रपत्रवाली प्रतिमे 'को वा कम्हि'के स्थानपर 'क्रोधम्हि' पाठ मुद्रित है (देखो पृ० १६२२) । पर वह अशुद्ध है, क्योंकि यह इसी अधिकारके प्रथम गाथाका उत्तरार्ध है, जिसमे कि 'को वा कम्हि' पाठ दिया हुआ है ।

१ अभीष्टणमुपयोगो मुहुमुहुत्तरूपयोग इत्यर्थः । एकस्य जीवस्यैकस्मिन् कषाये पौनःपुन्येनोपयोग इति यावत् । जयध०

असंख्येज्जेसु आगरिसेसु गदेसु सइं लोभागरिसां अदिरेगां भवदि । १०८. असंखेज्जेसु लोभागरिसेसु अदिरेगेसु गदेसु क्रोधागरिसेहिं मायागरिसा अदिरेगा होइ । १०९.

पाटीसे असंख्यात अपकर्षों अर्थात् परिवर्तनवारोंके व्यतीत हो जानेपर एक वार लोभकपायके परिवर्तनका वार अतिरिक्त अर्थात् अधिक होता है ॥१०६-१०७॥

विशेषार्थ—यहाँ पर यद्यपि सामान्यसे ही कपायोंके उपयोग-परिवर्तनका क्रम बतलाया जा रहा है, तथापि वह तिर्यच और मनुष्यगतिका ही प्रधानरूपसे कहा गया समझना चाहिए । कपायोंके उपयोगका परिवर्तन इस क्रमसे होता है—मनुष्य-तिर्यचोंके पहले एक अन्तर्मुहूर्त तक लोभकपायरूप उपयोग होगा । पुनः उसके परिवर्तित हो जाने पर एक अन्तर्मुहूर्त तक मायाकपायरूप उपयोग होगा । पुनः उसका काल समाप्त हो जाने पर एक अन्तर्मुहूर्त तक क्रोधकपायरूप उपयोग होगा । पुनः इस उपयोग-कालके भी समाप्त हो जाने पर एक अन्तर्मुहूर्त तक मानकपायरूप उपयोग होगा । इस क्रमसे असंख्यात परिवर्तन-वारोंके व्यतीत हो जाने पर पीछे लोभ, माया, क्रोध और मानरूप होकर पुनः लोभकपायसे उपयुक्त होकर मायाकपायके उपयोगमें अवस्थित जीव उपर्युक्त परिपाटी-क्रमसे क्रोधरूप उपयुक्त नहीं होगा, किन्तु पुनः लौटकर लोभकपायरूप उपयोगके साथ अन्तर्मुहूर्तकाल रहकर पुनः मायाकपायका उल्लंघन कर क्रोधकपायरूप उपयोगको प्राप्त होगा और तत्पश्चात् मानकपायको । इसी प्रकार पूर्वोक्त अवस्थित परिपाटी-क्रमसे चारों कपायोंके असंख्यात उपयोग परिवर्तन-वार व्यतीत हो जाने पर पुनः एक वार लोभकपाय-सम्बन्धी परिवर्तन-वार अधिक होता है ।

चूणिंसू०—उक्त प्रकारसे असंख्यात लोभकपायसम्बन्धी अपकर्षों अर्थात् परिवर्तन-वारोंके अतिरिक्त हो जाने पर क्रोधकपाय-सम्बन्धी परिवर्तन-वारसे मायाकपाय-सम्बन्धी उपयोगका परिवर्तन-वार अतिरिक्त होता है ॥१०८॥

विशेषार्थ—ऊपर जिस अवस्थित लोभ, माया, क्रोध और मानके परिवर्तन क्रमसे असंख्यात अपकर्ष व्यतीत होने पर एक वार लोभ-अपकर्ष अतिरिक्त होता है यह बतलाया गया, उसी प्रकार असंख्यात लोभ अपकर्षोंके अधिक हो जाने पर मायाकपाय-सम्बन्धी अपकर्ष अधिक होगा । अर्थात् उक्त अवस्थित अपकर्ष-परिपाटी-क्रमसे लोभके पश्चात् माया और क्रोधके परिवर्तन हो जानेपर पुनः लौटकर मायाके उपयोगके साथ अन्तर्मुहूर्त तक रहकर तत्पश्चात् क्रोधका उल्लंघन कर मानको प्राप्त होगा । पुनः अवस्थित परिपाटीसे असंख्यात लोभापकर्षोंके व्यतीत हो जाने पर फिर उसी क्रमसे एक वार मायाका अपकर्ष अधिक होगा । इसी बातको बतलानेके लिए सूत्रकारने कहा है कि असंख्यात लोभ-अपकर्षोंके अतिरिक्त हो जाने पर क्रोध-अपकर्षसे माया-अपकर्ष अतिरिक्त होता है । इस प्रकार माया-अपकर्षके असंख्यात अतिरिक्त वार होते हैं, तब वक्ष्यमाण अन्य क्रम प्रारम्भ होता है ।

१ एत्यागरिसा ति वुत्ते परिवट्ठणवाराणि गहेयव्व । जयध०

२ अदिरिक्ता अहिया (अधिकाः) इत्यर्थः । जयध०

असंखेज्जेहि मायागरिसेहिं अदिरेगेहिं गदेहिं माणागरिसेहिं क्रोधागरिसा अदिरेगा होदि ।

११०. एवमोघेण । १११. एवं तिरिक्खजोणिगदीए मणुमगदीए च' । ११२. गिरयगईए कोहो माणो, कोहो माणो त्ति वारसहस्साणि परियत्तिदूण सडं माया

चूर्णिसू०—असंख्यात माया-अपकर्षोंके अतिरिक्त हो जाने पर मान-अपकर्षकी अपेक्षा क्रोध-अपकर्ष अतिरिक्त होता है ॥१०९॥

विशेषार्थ—ऊपर जिस क्रमसे लोभ और मायाकपाय-सम्बन्धी अतिरिक्त अपकर्षका निरूपण किया है, उसी क्रमसे असंख्यात माया-अपकर्षोंके हो जानेपर एक वार क्रोध-अपकर्ष अधिक होता है । अर्थात् अवस्थित परिपाटी-क्रमसे लोभ, माया और क्रोधसे उपयुक्त होनेके पश्चान् क्रम-प्राप्त मानकपायसे उपयुक्त न होगा, किन्तु पुनः लौटकर क्रोधकपायसे उपयुक्त होगा । इस प्रकार क्रोधकपायके अपकर्ष भी असंख्यात होते हैं । विवक्षित मनुष्य या तिर्यचकी असंख्यात वर्षवाली आयुमें ये अतिरिक्त वार लोभकपायके सबसे अधिक होते हैं और माया, क्रोध और मानके उत्तरोत्तर कम होते हैं ।

चूर्णिसू०—इस प्रकार यह कपाय-सम्बन्धी उपयोग परिपाटी-क्रम ओघकी अपेक्षा कहा गया है । इसी प्रकार तिर्यचयोनियोंकी गतिमें और मनुष्यगतिमें जानना चाहिए ॥११०-१११॥

विशेषार्थ—यद्यपि यहाँ सामान्यसे ही तिर्यच और मनुष्योका उल्लेख किया गया है, तथापि उक्त क्रम असंख्यात वर्षकी आयुवाले मनुष्य और तिर्यचोकी अपेक्षासे ही कहा गया जानना चाहिए । इसका कारण यह है कि लोभादि कपायोंके असंख्यात वार सदृश होकर जब तक व्यतीत नहीं हो जाते हैं, तब तक उनके अतिरिक्त वार नहीं होते हैं । इस प्रकार सूत्रका वचन है । अतः यही निष्कर्ष निकलता है कि संख्यात-वर्षायुष्क मनुष्य और तिर्यचोमें कपायोंके परिवर्तन-वार समान ही होते हैं ।

चूर्णिसू०—नरकगतिमें क्रोध, मान, पुनः क्रोध और मान, इस क्रमसे सहस्रो परिवर्तन-वारोंके परिवर्तित हो जाने पर एक वार मायाकपाय-सम्बन्धी उपयोग परिवर्तित होता है ॥११२॥

विशेषार्थ—जिस प्रकार ओघप्ररूपणामे लोभ, माया क्रोध और मान इस अवस्थित परिपाटीसे असंख्यात अपकर्षोंके व्यतीत होनेपर पुनः अन्य प्रकारकी परिपाटी आरंभ होती है, वैसी परिपाटी यहाँ नरकगतिमें नहीं है । किन्तु यहाँपर क्रोधकपाय-सम्बन्धी उपयोगके परिवर्तित होनेपर मानकपायरूप उपयोग होता है । उसके पश्चात् पुनः क्रोध और मानकपायरूप उपयोग होता है । नारकियोका यही अवस्थित उपयोग-परिवर्तन क्रम है । इस

१ एद सच्चं पि असखेज्जवत्साउअतिरिक्ख-मणुस्से अस्सियूण परुविद । सखेज्जवत्साउअतिरिक्ख-मणुस्से अस्सियूण जइ बुच्चइ तो कोहमाणमायालोहाणमागरिसा अण्णोण्ण पेक्खियूण सरिसा चेव हवति । किं कारणं, असखेज्जपरिवत्तणवारा सरिमा होदूण जाव ण गदा ताव लोभादीणमागरिसा अहिया ण होति त्ति सुत्तवयणादा । जयध०

परिवर्तदि' । ११३. मायापरिवर्त्तेहि संखेज्जेहिं गदेहिं सइ' लोहो परिवर्त्तदि' । ११४. देवगदीए लोभो माया लोभो माया त्ति वारसहस्साणि गंतूण तदो सइ' माणो परिवर्त्तदि' । ११५. माणस्स संखेज्जेसु आगरिसेसु गदेसु तदो सइ' कोधो परिवर्त्तदि' ।

अवस्थित-परिपाटी-क्रमसे सहस्रो परिवर्तन-वारोके हो जानेपर तत्पश्चात् एक वार माया-कपायरूप उपयोग होता है । इसका कारण यह है कि अत्यन्त द्वेष-प्रचुर नारकियोमे क्रोध और मानकपाय ही प्रचुरतासे पाये जाते हैं ।

चूर्णिसू०—संख्यात सहस्र मायाकपायसम्बन्धी उपयोग-परिवर्तनोंके व्यतीत हो जानेपर तत्पश्चात् एक वार लोभकपायरूप उपयोग परिवर्तित होता है ॥११३॥

विशेषार्थ—रूपर वतलाई गई नरकगति-सम्बन्धी अवस्थित परिपाटी क्रमसे क्रोध और मानसम्बन्धी सहस्रो उपयोग-परिवर्तनोंके हो जानेपर एक वार मायापरिवर्तन होता है । पुनः इस प्रकारके सहस्रो मायापरिवर्तनोंके व्यतीत हो जानेपर एक वार लोभकपाय-सम्बन्धी उपयोगका परिवर्तन होता है । इसका कारण यह है कि अत्यन्त पाप-बहुल नरकगतिमे प्रेयस्वरूप लोभपरिणामका होना अत्यन्त दुर्लभ है । इस प्रकारका यह क्रम नारकी जीवोके अपनी आयुके अन्तिम समय तक होता रहता है ।

चूर्णिसू०—देवगतिमे लोभ, माया, पुनः लोभ और माया इस क्रमसे सहस्रो परिवर्तन-वारोके व्यतीत हो जानेपर तत्पश्चात् एक वार मानकपाय-सम्बन्धी उपयोगका परिवर्तन होता है ॥११४॥

विशेषार्थ—देवगतिमे नरकगतिसे विपरीत क्रम है । यहाँपर पहले लोभकपायरूप उपयोग होगा, पुनः मायाकपायरूप । पुनः लोभ और पुनः माया । इस अवस्थित परिपाटी-क्रमसे इन दोनों कपाय-सम्बन्धी सहस्रो उपयोग-परिवर्तनोंके हो जानेपर तत्पश्चात् एक वार मानकपाय परिवर्तित होती है । इसका कारण यह है कि देवगतिमें प्रेयस्वरूप लोभ और माया-परिणाम ही बहुलतासे पाये जाते हैं । अतएव लोभ और माया-सम्बन्धी संख्यात सहस्र परिवर्तन-वारोके हो जानेपर पुनः लोभकपायरूप उपयोगसे परिणत होकर क्रम-प्राप्त माया कपायरूप उपयोगका उल्लंघन कर एक वार मानकपायरूप परिवर्तनसे परिणत होता है ।

चूर्णिसू०—मानकपायके उपयोग-सम्बन्धी संख्यात सहस्र परिवर्तन-वारोके व्यतीत हो जानेपर तत्पश्चात् एक वार क्रोधकपायरूप उपयोग परिवर्तित होता है ॥११५॥

विशेषार्थ—देवगति-सम्बन्धी कपायोके अवस्थित उपयोग परिपाटी-क्रमसे सहस्रो मानपरिवर्तन-वारोके व्यतीत हो जानेपर एक वार क्रोधकपायरूप उपयोग परिवर्तित होता

१ किं कारण ? गेरइएसु अच्चतदोसवहुल्लेसु कोह-माणण चेष पउर सभवादो ।

२ कुदो एव चेष ? गिरयगदीए अच्चतपापवहुलाए पेजसरुवलोहपरिणामस्स सुटठु दुल्लहत्तादो । जयध०

३ कुदो एव, पेजसरुवाण लोभ-मायाण तत्थ बहुल सभवदंसणादो । जयध०

४ देवगदीए अप्पसरुवरकोहपरिणामस्स पाएण सभवाणुवलभादो । जयध०

११६. एदीए परूवणाए एकम्हि भवग्गहणे गिरयगदीए संखेज्जवासिगे वा असंखेज्जवासिगे वा भवे लोभागरिसा थोवा । ११७. मायागरिसा संखेज्जगुणा । ११८. माणागरिसा संखेज्जगुणा । ११९. कोहागरिसा विसेसाहिया । १२०. देवगदीए कोधागरिसा थोवा । १२१. माणागरिसा संखेज्जगुणा ।

है । क्योंकि, देवगतिमें अप्रशस्त क्रोधपरिणाम प्रायः सम्भव नहीं है । इस प्रकारसे उक्त परिवर्तन-क्रम देवोंके अपनी आयुके अन्तिम समय-पर्यन्त होता रहता है ।

चूर्णिसू०—इस उपर्युक्त प्ररूपणाके अनुसार एक भवके ग्रहण करनेपर नरकगतिमें संख्यात वर्षवाले अथवा असंख्यात वर्षवाले भवमें लोभकषायके परिवर्तन-वार शेष कषायोंके परिवर्तन-वारोंकी अपेक्षा सबसे कम है ॥११६॥

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि नरकगतिमें लोभकषायके परिवर्तन-वार अत्यन्त कम पाये जाते हैं ।

चूर्णिसू०—मायाकषायसम्बन्धी परिवर्तन-वार, लोभकषायसम्बन्धी परिवर्तन-वारोंसे संख्यातगुणित है ॥११७॥

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि एक-एक लोभपरिवर्तन-वारमें संख्यात सहस्र मायाकषायके परिवर्तन-वार पाये जाते हैं ।

चूर्णिसू०—नरकगतिमें मानकषायसम्बन्धी परिवर्तन-वार, मायाकषायसम्बन्धी परिवर्तन-वारोंसे संख्यातगुणित है ॥११८॥

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि एक-एक मायापरिवर्तन-वारमें संख्यात सहस्र मानकषायके परिवर्तन-वार पाये जाते हैं ।

चूर्णिसू०—नरकगतिमें क्रोधकषायसम्बन्धी परिवर्तन-वार, मानकषायसम्बन्धी परिवर्तन-वारोंसे विशेष अधिक है ॥११९॥

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि मानपरिवर्तन-वारोंकी अपेक्षा लोभ और माया परिवर्तनोंके प्रमाणसे क्रोधपरिवर्तनके वार विशेष अधिक पाये जाते हैं ।

चूर्णिसू०—देवगतिमें क्रोधकषाय-सम्बन्धी उपयोगपरिवर्तन-वार वहाँके शेष कषायोंके परिवर्तन-वारोंकी अपेक्षा सबसे कम है ॥१२०॥

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि देवगतिमें क्रोधकषायके परिवर्तन-वार अत्यन्त अल्प पाये जाते हैं ।

चूर्णिसू०—देवगतिमें मानकषायसम्बन्धी परिवर्तन-वार, क्रोध-कषायसम्बन्धी परिवर्तन-वारोंसे संख्यातगुणित हैं ॥१२१॥

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि एक-एक क्रोध-परिवर्तन-वारमें संख्यात सहस्र मानकषायके परिवर्तन-वार पाये जाते हैं ।

१ कुदो एदेसिं थोवत्तमिदि चे गिरयगदीए लोभपरियहणवाराण सुट्ठु विरलाणमुवलभादो । जयध०

१२२. मायागरिसा संखेज्जगुणा । १२३. लोभागरिसा विसेसाहिया ।

१२४. तिरिकख-मणुसगदीए असंखेज्जवस्सिगे भवग्गहणे माणागरिसा थोवा ।

१२५. कोहागरिसा विसेसाहिया । १२६. मायागरिसा विसेसाहिया । १२७. लोभा-
गरिसा विसेसाहिया ।

१२८. एत्तो विदियगाहाए विभासा । १२९. तं जहा । १३०. 'एकम्मि
भवग्गहणे एककसायम्मि कदि च उवजोगा' त्ति* ।

चूर्णिसू०—देवगतिमें मायाकपायसम्बन्धी परिवर्तन-वार, मानकपायसम्बन्धी परि-
वर्तन-वारोंसे संख्यातगुणित हैं ॥१२२॥

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि एक एक मानपरिवर्तन-वारमें संख्यात सहस्र
मायापरिवर्तन-वार पाये जाते हैं ।

चूर्णिसू०—देवगतिमें लोभकपाय-सम्बन्धी परिवर्तन-वार, मायाकपायके परिवर्तन-
वारोंसे विशेष अधिक हैं ॥१२३॥

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि माया-परिवर्तन-वारोंकी अपेक्षा क्रोध और मान-
परिवर्तनके प्रमाणसे लोभपरिवर्तनके चार विशेष अधिक पाये जाते हैं ।

चूर्णिसू०—तिर्यचगति और मनुष्यगतिमें असंख्यात वर्षवाले भव-ग्रहणके भीतर
मानकपायके परिवर्तन-वार इन दोनों गति-सम्बन्धी शेष कपायोंके परिवर्तन-वारोंकी अपेक्षा
सबसे कम हैं । तिर्यच और मनुष्यगतिमें असंख्यात वर्षवाले भवग्रहणके भीतर क्रोधकपायके
परिवर्तन-वार, मानकपायके परिवर्तन-वारोंसे विशेष अधिक हैं ॥१२४-१२५॥

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि क्रोध और मानसम्बन्धी असंख्यात परिवर्तन-
परिपाटियोंके अवस्थित-स्वरूपसे व्यतीत होनेपर तत्पश्चात् एक वार मानपरिवर्तनकी अपेक्षा
क्रोधपरिवर्तनके अधिकता पाई जाती है ।

चूर्णिसू०—तिर्यच और मनुष्यगतिमें असंख्यात वर्षवाले भवग्रहणके भीतर माया-
कपायके परिवर्तन-वार, क्रोधकपायके परिवर्तन-वारोंसे विशेष अधिक होते हैं । तिर्यच और
मनुष्यगतिमें असंख्यात वर्षवाले भवग्रहणके भीतर लोभकपायके परिवर्तन-वार, मायाकपायके
परिवर्तन-वारोंसे विशेष अधिक होते हैं ॥१२६-१२७॥

इस प्रकार प्रथम गाथाका अर्थ समाप्त हुआ ।

चूर्णिसू०—प्रथम गाथाके व्याख्यान करनेके पश्चात् अब 'एकम्मि भवग्गहणे' इस
द्वितीय गाथाकी विभाषा की जाती है । वह इस प्रकार है—'एक भवके ग्रहण करनेपर और
एक कपायमें कितने उपयोग होते हैं' ? ॥१२८-१३०॥

विशेषार्थ—नरकादि गतियोंमें संख्यात वर्षवाले अथवा असंख्यात वर्षवाले भवको

ॐ ताम्रपत्रवाली प्रतिमें इस चूर्णिसूत्रको 'तं जहा' इस सूत्रकी टीकाका अंग बना दिया है ।
(देखो पृ० १६२८) पर इसकी सूत्रता इस स्थलकी टीकासे स्वतः सिद्ध है ।

१३१. एकस्मि णेरह्यभवग्रहणे कोहोवजोगा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा ।
 १३२. माणोवजोगा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा । १३३. एवं सेसाणं पि । १३४. एवं
 सेसासु वि गदीसु ।

१३५. णिरयगदीएजस्मिह कोहोवजोगा संखेज्जा, तस्मिह माणोवजोगा णियमा
 संखेज्जा । १३६ एवं माया-लोभोवजोगा । १३७. जस्मिह माणोवजोगा संखेज्जा, तस्मिह
 कोहोवजोगा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा । १३८. मायोवजोगा लोहोवजोगा णियमा

आधार करके उस भवग्रहणमे एक एक कपायके कितने उपयोग होते हैं, क्या उपयोगके
 संख्यात वार होते हैं, अथवा असंख्यात ? इस प्रकारकी पृच्छा इस गाथासूत्रसे की गई है ।

अत्र चूर्णिकार उक्त पृच्छाका उत्तर देते हैं—

चूर्णिसू०—एक नारकीके भवग्रहणमे क्रोधकपायसम्बन्धी उपयोगके वार संख्यात
 भी होते हैं और असंख्यात भी होते हैं ॥१३१॥

विशेषार्थ—दस हजार वर्षको आदि लेकर यथायोग्य संख्यात वर्षकी आयुवाले
 नारकीके भवमे क्रोधकपायके उपयोग-वार संख्यात पाये जाते हैं । इससे ऊपर उत्कृष्ट
 संख्यात वर्षवाले अथवा असंख्यात वर्षवाले भवमे क्रोधकपायके उपयोग-वार असंख्यात ही
 होते हैं । इसी व्यवस्थाको ध्यानमे रखकर सूत्रमें कहा गया है कि एक नारकीके भवग्रहणमे
 क्रोधकपायके उपयोग-वार संख्यात भी होते हैं और असंख्यात भी होते हैं ।

चूर्णिसू०—नारकीके एक भवमे मानकपायके उपयोग-वार संख्यात भी होते हैं और
 असंख्यात भी । इसी प्रकारसे नरकगतिमे शेष माया और लोभकपाय सम्बन्धी उपयोगके
 वार भी जानना चाहिए । इसी प्रकार शेष गतियोंमे भी चारो कपायके उपयोग-वारोको जानना
 चाहिए ॥१३२-१३४॥

चूर्णिसू०—नरकगतिके जिस भवग्रहणमे क्रोधकपायके उपयोग वार संख्यात होते हैं,
 उस भवग्रहणमे मानकपायके उपयोग-वार नियमसे संख्यात ही होते हैं । इसी प्रकारसे माया
 और लोभकपाय-सम्बन्धी उपयोग-वार भी जानना चाहिए । नरकगतिके जिस भवग्रहणमे मान-
 कपायके उपयोग-वार संख्यात होते हैं, उस भवग्रहणमे क्रोधकपायके उपयोग-वार संख्यात भी
 होते हैं और असंख्यात भी होते हैं ॥१३५-१३७॥

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि उत्कृष्ट संख्यातमात्र मानकपायके उपयोग-वार
 होनेपर उससे विशेष अधिक क्रोधकपायके उपयोग-वार असंख्यात ही होंगे । किन्तु उत्कृष्ट
 संख्यातसे नीचे यथासम्भव संख्यात-प्रमाण मानकपायके उपयोग-वार होनेपर तो क्रोधकपाय-
 के उपयोग-वार संख्यात ही होंगे ।

चूर्णिसू०—नरकगतिके जिस भवग्रहणमे मानकपायके उपयोग-वार संख्यात होते हैं,
 उस भवग्रहणमें मायाकपायके उपयोग-वार और लोभकपायके उपयोग-वार नियमसे संख्यात
 ही होते हैं । नरकगतिके जिस भवग्रहणमें मायाकपायके उपयोग-वार संख्यात होते हैं, उस

संखेज्जा । १३९. जम्हि मायोवजोगा संखेज्जा तम्हि कोहोवजोगा माणोवजोगा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा । १४०. लोभोवजोगा णियमा संखेज्जा । १४१. जत्थ लोभोवजोगा संखेज्जा तत्थ कोहोवजोगा माणोवजोगा मायोवजोगा भजियव्वा । १४२. जत्थ णियमभवग्गहणे कोहोवजोगा असंखेज्जा. तत्थ सेसा सिया संखेज्जा, सिया असंखेज्जा । १४३. जत्थ माणोवजोगा असंखेज्जा तत्थ कोहोवजोगा णियमा असंखेज्जा । १४४. सेसा भजियव्वा । १४५. जत्थ मायोवजोगा असंखेज्जा तत्थ कोहोवजोगा माणोवजोगा णियमा असंखेज्जा । १४६. लोभोवजोगा भजियव्वा । १४७. जत्थ लोहोवजोगा असंखेज्जा तत्थ कोह-माण-मायोवजोगा णियमा असंखेज्जा ।

भवमे क्रोधकपायके उपयोग-वार और मानकपायके उपयोगवार संख्यात भी होते हैं और असंख्यात भी होते हैं ॥ १३८-१३९

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि मायाकपायके उपयोग-वार उत्कृष्ट संख्यात-प्रमाण होनेपर तां क्रोध और मानकपायके उपयोग-वार असंख्यात ही पाये जावेंगे । किन्तु उससे संख्यात-गुणित-हीन मायाके उपयोग-वार होनेपर क्रोध और मानके उपयोग-वार संख्यात ही पाये जाते हैं ।

चूर्णिसू०—नरकगतिके जिस भवग्रहणमे मायाकपायके उपयोग-वार संख्यात होते हैं, उस भवमे लोभकपायके उपयोग-वार नियमसे संख्यात ही होते हैं । नारकीके जिस भवग्रहणमे लोभकपायके उपयोग-वार संख्यात होते हैं, उस भवमे क्रोधके उपयोग-वार, मानके उपयोगके वार और मायाके उपयोग-वार भाज्य है, अर्थात् संख्यात भी होते हैं और असंख्यात भी होते हैं । नारकीके जिस भवग्रहणमे क्रोधकपायके उपयोग-वार असंख्यात होते हैं, उस भवमे शेष कपायोके उपयोग-वार संख्यात भी होते हैं और असंख्यात भी होते हैं । नारकीके जिस भवग्रहणमे मानकपायके उपयोग-वार असंख्यात होते हैं, उस भवमे क्रोधकपायके उपयोग-वार नियमसे असंख्यात होते हैं । नारकीके जिस भवग्रहणमे मानकपायके उपयोग-वार असंख्यात होते हैं, उस भवमे शेष अर्थात् माया और लोभकपायके उपयोग-वार भाज्य है, अर्थात् संख्यात भी होते हैं और असंख्यात भी होते हैं । नारकीके जिस भवग्रहणमे मायाकपायके उपयोग-वार असंख्यात होते हैं, उस भवमे क्रोधकपायके उपयोग-वार और मानकपायके उपयोग-वार नियमसे असंख्यात होते हैं । नारकीके जिस भवग्रहणमे मायाकपायके उपयोग-वार असंख्यात होते हैं, उस भवमे लोभकपायके उपयोग-वार भाज्य है, अर्थात् संख्यात भी होते हैं और असंख्यात भी । नारकीके जिस भवग्रहणमे लोभकपायके उपयोग-वार असंख्यात होते हैं, उस भवमे क्रोध, मान और मायाकपायके उपयोग-वार नियमसे असंख्यात होते हैं ॥ १४२-१४७ ॥

१४८. जहा णेरइयाणं कोहोवजोगाणं वियप्पा, तहा देवाणं लोभोवजोगाणं वियप्पा । १४९. जहा णेरइयाणं माणोवजोगाणं वियप्पा, तहा देवाणं मायोवजोगाणं वियप्पा । १५०. जहा णेरइयाणं मायोवजोगाणं वियप्पा, तहा देवाणं माणोवजोगाणं वियप्पा । १५१ जहा णेरइयाणं लोभोवजोगाणं वियप्पा, तहा देवाणं कोहोवजोगाणं वियप्पा ।

१५२ जेसु णेरइयभवेसु असंखेज्जा कोहोवजोगा माण-माया-लोभोवजोगा वा जेसु वा संखेज्जा, एदिसिमहुहं पदाणमप्पावहुअं । १५३. तत्थ उवसंदरिसणाए करणं^१ । १५४. एकस्मिह वरसे जत्तियाओ कोहोवजोगद्धाओ तत्तिएण जहण्णासंखेज्जयस्स भागो जं भागलद्धमेत्तियाणि वरसाणि जो भवो तस्मिह असंखेज्जाओ कोहोवजोगद्धाओ ।

चूर्णिसू०—जिस प्रकारसे नारकी जीवोंके क्रोधकपायसम्बन्धी उपयोग वारोकें विकल्प कहे गये हैं, उसी प्रकारसे देवोंके लोभकपायसम्बन्धी उपयोग-वारोकें विकल्प जानना चाहिए । जिस प्रकारसे नारकियोंके मानकपायसम्बन्धी उपयोगवारोकें विकल्प कहे गये हैं, उसी प्रकारसे देवोंके मायाकपायसम्बन्धी उपयोग-वारोंके विकल्प जानना चाहिए । जिस प्रकार नारकियोंके मायाकपायसम्बन्धी उपयोग-वारोकें विकल्प कहे गये हैं, उसी प्रकारसे देवोंके मानकपाय-सम्बन्धी उपयोग-वारोकें विकल्प होते हैं । जिस प्रकारसे नारकियोंके लोभकपायसम्बन्धी उपयोग-वारोकें विकल्प कहे गये हैं, उसी प्रकारसे देवोंके क्रोधकपायसम्बन्धी उपयोग वारोकें विकल्प होते हैं ॥ १४८-१५१ ॥

चूर्णिसू०—नारकी जीवोंके जिन भवोंमें क्रोध, मान, माया और लोभकपायसम्बन्धी उपयोगोंके वार असंख्यात होते हैं, अथवा जिन भवोंमें क्रोध, मान, माया और लोभकपाय-सम्बन्धी उपयोगोंके वार संख्यात होते हैं, तत्सम्बन्धी इन आठों पदोंका अल्पबहुत्व इस प्रकार है । उनमेंसे अब इन क्रोधादि कषायोंके संख्यात अथवा असंख्यात उपयोग-वारवाले भवोंके विषय-विभाग बतलानेका निर्णय करते हैं—एक वर्षमें जितने क्रोधकपायके उपयोगकाल-वार होते हैं, उतनेसे जघन्य असंख्यातको भाग देवे । जो भाग लब्ध हो, उतने वर्ष-प्रमाण जो भव है, उस भवमें क्रोधकपायसम्बन्धी उपयोगकालके वार असंख्यात होते हैं ॥ १५२-१५४ ॥

विशेषार्थ—इस सूत्रके द्वारा क्रोधकपायसम्बन्धी संख्यात उपयोगकाल-वार अथवा असंख्यात उपयोगकालवारवाले भवग्रहणोंका निर्णय किया गया है । वह इस प्रकार जानना चाहिए—एक अन्तर्मुहूर्तके भीतर यदि क्रोधकपायका एक उपयोगकाल-वार पाया जाता है तो एक वर्षके भीतर कितने क्रोधकपायके उपयोगकाल-वार प्राप्त होंगे ? इस प्रकार त्रैराशिक करने-से एक वर्षके भीतर क्रोधके संख्यात सहस्र उपयोगकाल-वार प्राप्त होते हैं । पुनः इन एक वर्ष-सम्बन्धी क्रोधके उपयोगकाल-वारोंसे जघन्य असंख्यातका भाग करना चाहिए । अर्थात् यदि

१ किमुवसंदरिसणाकरण णाम ? उवसंदरिसणाकरण णिदरिसणकरण णिण्णयकरणमिदि एयट्ठो ।
जयध० ।

१५५. एवं माण-माया-लोभोवजोगाणं । १५६. एदेण कारणेण जे असंखेज्ज-लोभोवजोगिगा भवा ते भवा थोवा । १५७. जे असंखेज्जमायोवजोगिगा भवा ते भवा असंखेज्जगुणा । १५८. जे असंखेज्जमाणोवजोगिगा भवा ते भवा असंखेज्जगुणा । १५९. जे असंखेज्जकोहोवजोगिगा भवा ते भवा असंखेज्जगुणा । १६०. जे संखेज्ज-कोहोवजोगिगा भवा ते भवा असंखेज्जगुणा । १६१. जे संखेज्जमाणोवजोगिगा भवा ते भवा विसेसाहिया । १६२. जे संखेज्जमायोवजोगिगा भवा ते भवा विसेसाहिया । १६३. जे संखेज्जलोभोवजोगिगा भवा ते भवा विसेसाहिया ।

संख्यात सहस्र उपयोगकाल-वार एक वर्षके भीतर प्राप्त होते हैं, तो जघन्य परीतासंख्यात-प्रमाण उपयोगके काल-वारके कितने वर्ष प्राप्त होंगे ? इसप्रकार त्रैराशिक करनेसे जघन्य-परीतासंख्यातके संख्यातवे भागप्रमाण वर्ष प्राप्त होते हैं । पुनः इतने अर्थात् जघन्यपरीता-संख्यातके संख्यातवें भागप्रमाण वर्षोंका जो एक भव होगा, उसमें क्रोधकपायसम्बन्धी उपयोगकाल-वार असंख्यात होते हैं । इसका कारण यह है कि यदि एक वर्षके भीतर संख्यात सहस्र क्रोधके उपयोगकाल-वार प्राप्त होते हैं, तो जघन्यपरीतासंख्यातके संख्यातवे भागप्रमाण वर्षोंके भीतर कितने उपयोग-वार प्राप्त होंगे ? इस प्रकार त्रैराशिक करनेपर जघन्यपरीतासंख्यात-प्रमाण क्रोधकपाय-सम्बन्धी उपयोगकाल-वार प्राप्त होते हैं । इस प्रकार इस सूत्रसे क्रोधके संख्यात और असंख्यात उपयोगवाले भवोंका विषय-विभाग बतलाया । सूत्र-निर्दिष्ट कालसे ऊपरकी आयुवाले सब जीवोंके असंख्यात ही उपयोगकाल-वार देखे जाते हैं । तथा इससे अधस्तन प्रमाणवाले वर्षोंके भवमें क्रोधकपायके उपयोगकाल-वार संख्यात ही होते हैं ।

चृणिद्व०—इसीप्रकार मान, माया और लोभकपायसम्बन्धी संख्यात और असंख्यात उपयोगवाले भवोंका विषय-विभाग जानना चाहिये । इसकारणसे जो असंख्यात लोभकपायसम्बन्धी उपयोग-वारवाले भव हैं, वे भव सबसे कम हैं । जो असंख्यात मायाकपाय-सम्बन्धी उपयोग-वारवाले भव हैं वे भव ऊपर बतलाये गये भवोंसे असंख्यातगुणित हैं । जो असंख्यात मानकपायसम्बन्धी उपयोग-वारवाले भव हैं, वे भव ऊपर कहे गये भवोंसे असंख्यातगुणित हैं । जो असंख्यात क्रोधकपायसम्बन्धी उपयोग-वारवाले भव हैं, वे भव ऊपर बतलाए गये मानकपायसम्बन्धी भवोंसे असंख्यातगुणित हैं । जो क्रोधकपायसम्बन्धी संख्यात उपयोग-वारवाले भव हैं, वे भव क्रोधके असंख्यात उपयोग-वारवाले भवोंसे असंख्यातगुणित हैं । जो मानकपायसम्बन्धी संख्यात उपयोगवाले भव हैं, वे भव क्रोधके संख्यात उपयोगवाले भवोंसे विशेष अधिक हैं । जो मायाकपायसम्बन्धी संख्यात उपयोगवाले भव हैं, वे भव मानके संख्यात उपयोगवाले भवोंसे विशेष अधिक हैं । जो लोभकपायसम्बन्धी संख्यात उपयोगवाले भव हैं, वे भव मायाके संख्यात उपयोगवाले भवोंसे विशेष अधिक हैं ॥ १५५-१६३ ॥

१६४. जहा णेरइएसु, तथा देवेसु । णवरि कोहादो आह्वेयच्चो । १६५. तं जहा । १६६. जे असंखेज्जकोहोवजोगिगा भवा ते भवा थोवा । १६७. जे असंखेज्जमाणोवजोगिगा भवा ते भवा असंखेज्जगुणा । १६८. जे असंखेज्जमायोवजोगिगा भवा ते भवा असंखेज्जगुणा । १६९. जे असंखेज्जलोभोवजोगिगा भवा ते भवा असंखेज्जगुणा । १७०. जे संखेज्जलोभोवजोगिगा भवा ते भवा असंखेज्जगुणा । १७१. जे संखेज्जमायोवजोगिगा भवा ते भवा विसेसाहिया । १७२. जे संखेज्जमाणोवजोगिगा भवा ते भवा विसेसाहिया । १७३. जे संखेज्जकोहोवजोगिगा भवा ते भवा विसेसाहिया । १७४. विदियगाहाए अत्थविहासा समत्ता ।

१७५ 'उवजोगवग्गणाओ कम्मिह कसायम्मिह केत्तिया होंति' त्ति एसा सच्चा वि गाहा पुच्छासुत्तं' । १७६. तस्स विहासा । १७७. तं जहा । १७८. उवजोग-

चूर्णिसू०—जिस प्रकारसे नारकियोंमें आठ पद-सम्बन्धी अल्पबहुत्वका कथन किया है, उसी प्रकारसे देवोंमें भी अल्पबहुत्वका कथन जानना चाहिए । विशेष बात यह है कि देवोंके अल्पबहुत्व कहते समय क्रोधकपायसे कथन प्रारम्भ करना चाहिए । वह इस प्रकार है—देवोंमें जो असंख्यात क्रोधकपायसम्बन्धी उपयोगवाले भव हैं, वे भव सबसे कम होते हैं । जो मानकपायसम्बन्धी उपयोगवाले असंख्यात भव हैं, वे भव क्रोधकपायके उपयोगवाले भवोंसे असंख्यातगुणित होते हैं । जो असंख्यात मायाकपाय-सम्बन्धी उपयोगवाले भव हैं, वे भव मानकपायके उपयोगवाले भवोंसे असंख्यातगुणित हैं । जो असंख्यात लोभकपायसम्बन्धी उपयोगवाले भव हैं, वे भव मायाकपायके उपयोगवाले भवोंसे असंख्यातगुणित हैं । जो संख्यात लोभकपायसम्बन्धी उपयोगवाले भव हैं, वे भव असंख्यात लोभकपायके उपयोगवाले भवोंसे असंख्यातगुणित हैं । जो संख्यात मायाकपायसम्बन्धी उपयोगवाले भव हैं, वे भव संख्यात लोभकपायसम्बन्धी उपयोगवाले भवोंसे विशेष अधिक हैं । जो संख्यात मानकपायसम्बन्धी उपयोगवाले भव हैं, वे भव संख्यात मायाकपायके उपयोगवाले भवोंसे विशेष अधिक हैं । जो संख्यात क्रोधकपायसम्बन्धी उपयोगवाले भव हैं, वे भव संख्यात मानकपायके उपयोगवाले भवोंसे विशेष अधिक हैं । इस प्रकार-द्वितीय गाथाकी अर्थविभाषा समाप्त हुई ॥ १६४-१७४ ॥

चूर्णिसू०—'उपयोग-वर्गणाएँ किस कषायमें कितनी होती हैं' यह समस्त गाथा पृच्छासूत्र है । अर्थात् इससे क्रोधादिकपाय-विषयक उपयोगवर्गणाओका ओव और आदेशसे प्रमाण पूछा गया है । उसकी विभाषा कहते हैं । वह इस प्रकार है—उपयोगवर्गणाएँ

१ तस्य गाहापुण्यद्वेण 'उवजोगवग्गणाओ कम्मिह कसायम्मिह केत्तिया होंति' त्ति ओवेण पुच्छाणि-द्वेसो कओ । पच्छद्वेण वि 'कदरिस्ते च गदीए केवडिया वग्गणा होंति' त्ति आदेशविसया पुच्छा णिद्विट्ठा त्ति दट्ठन्वा, गदिमग्गणाविसयस्सेदस्स पुच्छाणिद्वेस्स सेसासेसमग्गणाणं देसामासयभावेणावट्ठाणदस गादो । जयघ०

वर्गणाओ दुविहाओ कालोवजोगवर्गणाओ भावोवजोगवर्गणाओ य^१ । १७९. कालो-
वजोगवर्गणाओ णाम कसायोवजोगद्वट्ठाणाणि^२ । १८०. भावोवजोगवर्गणाओ णाम
कसायोद्वट्ठाणाणि^३ । १८१. एदामिं दुविहारणं पि वर्गणाणं परूवणा पमाणम्पा-
वहुअं च वत्तवं । १८२. तदो तदियाए गाहाए विहासा समत्ता ।

दो प्रकारकी है—कालोपयोगवर्गणाएँ और भावोपयोगवर्गणाएँ । कपायोके उपयोगसम्बन्धी
कालके जघन्य उत्कृष्ट आदि स्थानोंको कालोपयोगवर्गणाएँ कहते हैं ॥ १७५-१७९ ॥

विशेषार्थ—क्रोधआदि कपायोंके साथ जीवके सम्प्रयोग होनेको उपयोग कहते हैं ।
कपायोंके उपयोगको कपोयोपयोग कहते हैं । इसप्रकारके कपायोपयोगके कालको कपायोप-
योगकाल कहते हैं । वर्गणा, विकल्प, स्थान और भेद ये सब एकार्थवाची नाम हैं ।
कपायके जघन्य उपयोगकालके स्थानसे लेकर उत्कृष्ट उपयोगकालके स्थान तक निरन्तर अव-
स्थित भेदोंको कालोपयोगवर्गणा कहते हैं ।

चूर्णिसू०—कपायोंके उदयस्थानोंको भावोपयोगवर्गणा कहते हैं ॥ १८० ॥

विशेषार्थ—भावकी अपेक्षा तीव्र-मन्द आदि भावोंसे परिणत कपायोके जघन्य
विकल्पसे लेकर उत्कृष्ट विकल्प तक पङ्क-वृद्धिक्रमसे अवस्थित उदयस्थानोंको भावोपयोगवर्गणा
कहते हैं । ये कपाय-उदयस्थान असंख्यात लोकोंके जितने प्रदेश हैं, तत्प्रमाण होते हैं । वे
उदयस्थान मानकपायमें सबसे कम हैं, क्रोधकपायमें विशेष अधिक हैं, मायाकपायमें विशेष
अधिक है और लोभकपायमें विशेष अधिक होते हैं ।

चूर्णिसू०—इन दोनों ही प्रकारकी वर्गणाओंकी प्ररूपणा, प्रमाण और अल्पबहुत्व
कहना चाहिए । इस प्रकार तीसरी गाथाकी अर्थविभाषा समाप्त हुई ॥ १८१-१८२ ॥

१ उवजोगो णाम कोहादि-कसाएहि सह जीवस्स सपजोगो, तस्स वर्गणाओ वियप्पा भेदा ति
एयट्ठो । जहणोवजोगट्ठाणप्पहुडि जाव उक्कस्सोवजोगट्ठाणे त्ति गिरतरमवट्ठदाण तव्वियप्पाणमुव-
जोगवर्गणाववएसो त्ति बुत्त होइ । सो च जहणुक्कस्सभावो दोहिं पयागेहि सभवइ कालादो भावदो च ।
तत्थ कालदो जहणोवजोगकालप्पहुडि जावुक्कस्सोवजोगकालो त्ति गिरतरमवट्ठदाण वियप्पाण कालोव-
जोगवर्गणा त्ति सण्णा; कालविसयादो उवजोगवर्गणाओ कालोवजोगवर्गणाओ त्ति गहणादो । भावदो
तिव्व मदादिभावपरिणदाण कसायुदयट्ठाणाण जहणवियप्प-पहुडि जावुक्कस्सवियप्पो त्ति छत्रडिडकमेणाव-
ट्ठयाण भावोवजोगवर्गणा त्ति ववएसो, भावविसेसिदाओ उवजोगवर्गणाओ भावोवजोगवर्गणाओ त्ति
विवक्खियत्तादो । जयध०

२ कोहादिकसायोवजोगजहणकालमुक्कस्सकालादो सोहिय सुद्वसेसम्मि एगरुवे पक्खित्ते कसायो-
वजोगद्वट्ठाणाणि हँति । जयध०

३ कोहादिकसायाणमेक्केक्कस्स कसायस्स असखेल्लोगमेत्ताणि उदयट्ठाणाणि अत्थि । ताणि पुण
माणे थोवाणि, कोहे विसेसाहियाणि, मायाए विसेसाहियाणि, लोभे विसेसाहियाणि । एदाणि सव्वाण
समुदिदाणि सग-सगरुसायपडिवद्वाणि भावोवजोगवर्गणाओ णाम; तिव्वमदादिभावणिवधणत्तादो
त्ति । जयध०

१८३. चउत्थीए गाहाए विहासा ।

एकस्मिह दु अणुभागे एककसायग्मि एककालेण ।

उवजुत्ता का च गदी विसरिससुवजुज्जदे का च ॥ त्ति

१८४. एदं सव्वं पुच्छासुत्तं । १८५. एत्थ विहासाए दोण्णि उवएसा ।

१८६. एक्केण उवएसेण^१ जो कसायो सो अणुभागो । १८७. क्रोधो क्रोधाणुभागो ।

१८८ एवं माण-माया-लोभाणं । १८९. तदो का च गदी एगसमएण एगकसायोव-

जुत्ता वा दुक्कसायोवजुत्ता वा तिकसायोवजुत्ता वा चदुक्कसायोवजुत्ता वा त्ति एदं

पुच्छासुत्तं । १९०. तदो णिदरिसणं । १९१. तं जहा । १९२. णिरय-देवगदीणमेदे

वियप्पा अत्थि, सेसाओ गदीओ णियमा चदुक्कसायोवजुत्ताओ ।

चूर्णिसू०—अब चौथी गाथाकी अर्थविभाषा की जाती है “एक कपाय-सम्बन्धी एक अनुभागसे और एक ही कालमें कौन गति उपयुक्त होती है, अथवा कौन गति विसदृश अर्थात् विपरीत-क्रमसे उपयुक्त होती है ।” यह समस्त गाथा पृच्छसूत्र है । इस गाथाकी अर्थविभाषा-में दो उपदेश पाये जाते हैं । एक अर्थात् अप्रवाह्यमान उपदेशके अनुसार जो कपाय है, वही अनुभाग है । अतएव जो क्रोधकपाय है वही क्रोधानुभाग है । इसी प्रकारसे जो मानकपाय है, वही मानानुभाग है । जो मायाकपाय है, वही मायानुभाग है और जो लोभकपाय है, वही लोभानुभाग है । इसलिए कौन गति एक समयमें एक कपायसे उपयुक्त है, अथवा कौन गति एक समयमें दो कपायोसे उपयुक्त है, अथवा तीन कपायोसे उपयुक्त है, अथवा चार कपायोसे उपयुक्त है ? इस प्रकार यह सर्व पृच्छासूत्र है ॥१८३-१८९॥

विशेषार्थ—कौन गति एक समयमें एक कपायसे उपयुक्त है, यह प्रथम पृच्छा है और कौन गति दो, तीन अथवा चार कपायोसे उपयुक्त है, यह द्वितीय पृच्छा है । जो कि ‘कौन गति विसदृश क्रमसे उपयुक्त होती है, इस अन्तिम चरणसे उत्पन्न हुई है ।

चूर्णिसू०—अब इन दोनों पृच्छाओके अनन्तर उनका निदर्शन अर्थात् निर्णय करते हैं । वह इस प्रकार है—नरकगति और देवगतिमें ये उपर्युक्त विकल्प होते हैं । किन्तु शेष दोनों गतियाँ नियमसे चारों कपायोसे उपयुक्त होती हैं ॥१९०-१९२॥

विशेषार्थ—नरक और देवगतिमें एक कपायसे उपयुक्त, अथवा दो कपायसे उपयुक्त, अथवा तीन कपायसे उपयुक्त, अथवा चारों कपायोसे उपयुक्त जीव पाये जाते हैं । इसके कारण यह है कि नरकगतिमें क्रोधकपायसे उपयुक्त जीवराशि कालकी अधिकतासे सबसे अधिक पाई जाती है । इसी प्रकार देवगतिमें भी लोभकपायसे उपयुक्त जीवराशि सबसे अधिक पाई जाती है । इसलिए इन दोनों गतियोंमें एक कपायसे उपयुक्त विकल्प पाया जाता है ।

१ एक्केण उवएसेण अपवाह्यतेणुवएसेणेत्ति वुत्त होइ । जयध०

१९३. गिरयगर्दिए जइ एको कसायो, गियमा कोहो । १९४. जदि दुकसायो, कोहेण सह अण्णदरो दुसंजोगो । १९५. जदि तिकसायो, कोहेण सह अण्णदरो तिसंजोगो । १९६. जदि चउकसायो सव्वे चैव कसाया । १९७. जहा गिरयगदीए कोहेण, तहा देवगदीए लोभेण कायव्वा । १९८. एककेण उवएसेण चउत्थीए गाहाए विहासा समत्ता भवदि ।

१९९. पवाइज्जंतेण उवएसेण चउत्थीए गाहाए विहासा । २००. 'एकम्मि दु अणुभागे' त्ति, जं कसाय-उदयट्ठाणं सो अणुभागो णाम ? २०१. 'एगकालेणेत्ति' कसायोवजोगद्धट्ठाणेत्ति भणिदं होदि । २०२. एसा सण्णा । २०३. तदो पुच्छा । २०४ का च गदी एकम्मिह कसाय-उदयट्ठाणे एकम्मिह वा कसायुवजोगद्धट्ठाणे भवे ?

तथा उस एक कपायके साथ यथासम्भव मान, माया आदि कपायोके पाये जानेसे दो, तीन और चारो कपायोसे उपयुक्त जीव पाये जाते हैं । किन्तु शेष तिर्यच और मनुष्यगतिमें चारो कपायोंमें उपयुक्त ही जीवराशि ध्रुवहूपसे पाई जाती है, इसलिये उनमें शेष विकल्प सम्भव नहीं है ।

चूर्णिसू०—नरकगतिमें यदि एक कपाय हो, तो वह नियमसे क्रोधकपाय होती है । यदि दो कपाय हों, तो क्रोधके साथ शेष कपायोंमेंसे कोई एक कपाय संयुक्तरूपसे रहती है । जैसे—क्रोध और मान, क्रोध और माया, अथवा क्रोध और लोभ । यदि तीन कपाय हो, तो क्रोधके साथ शेष कपायोंमेंसे कोई दो कपाय रहेंगी । जैसे क्रोध-मान, माया; अथवा क्रोध, मान, लोभ, अथवा क्रोध माया और लोभ । यदि चारों कपाय हो, तो क्रोध, मान, माया और लोभ ये सभी कपाय रहेंगी ॥१९४-१६४॥

चूर्णिसू०—जिस प्रकार नरकगतिमें क्रोधके साथ शेष विकल्पोंका निर्णय किया है, उसी प्रकार देवगतिमें लोभकपायके साथ शेष विकल्पोंका निर्णय करना चाहिए । इसप्रकार एक अर्थान् अप्रवाह्यमान उपदेशसे चौथी गाथाकी अर्थविभाषा समाप्त होती है ॥१९७-१९८॥

चूर्णिसू०—अव प्रवाह्यमान उपदेशके अनुसार चौथी गाथाकी अर्थविभाषा की जाती है 'एक अनुभागमें' ऐसा कहनेपर जो कपाय-उदयस्थान है, उसीका नाम अनुभाग है ॥२००॥

विशेषार्थ—अप्रवाह्यमान उपदेशके अनुसार 'जो कपाय है, वही अनुभाग है' इस प्रकार व्याख्यान किया था । किन्तु प्रवाह्यमान उपदेशानुसार 'जो कपायोके उदयस्थान है, वह अनुभाग है, ऐसा अर्थ समझना चाहिए ।

चूर्णिसू०—'एक कालसे' इस पदका अर्थ कपायोपयोग कालस्थान इतना लेना चाहिए । यह संज्ञा है । अर्थान् अनुभाग यह संज्ञा कपायोपयोगकालस्थानकी जानना चाहिए । इसलिए इस संज्ञा-विशेषका आलम्बन लेकर गाथासूत्रानुसार पृच्छा करना चाहिए ॥२०१-२०३॥

चूर्णिसू०—एक कपाय-उदयस्थानमें अथवा एक कपाययोगकालस्थानमें कौन गति

२०५. अधवा अणेगेसु कसाय-उदयट्ठाणेसु अणेगेसु वा कसाय-उवजोगद्धट्ठाणेसु ।
 २०६. एसा पुच्छा । २०७ अयं णिदेसो । २०८. तसा एककेक्कम्मि कसायुदयट्ठाणे
 आवलियाए असंखेज्जदिभागो । २०९. कसाय-उवजोगद्धट्ठाणेसु पुण उक्कस्सेण
 असंखेज्जाओ सेहीओ । २१०. एवं भणिदं होइ सव्वाओ गदीओ णियमा अणेगेसु
 कसायुदयट्ठाणेसु अणेगेसु च कसायउवजोगद्धट्ठाणेसु त्ति ।

२११. तदो एवं परूवणं कादूण णवहिं पदेहिं^१ अप्पावहुअं । २१२. तं जहा ।
 २१३. उक्कस्सेए कसायुदयट्ठाणे उक्कस्सियाए माणोवजोगद्धाए जीवा थोवा^२ । २१४

उपयुक्त होती है, अथवा अनेक कषाय-उदयस्थानोमे और अनेक कषायोपयोगकालस्थानोमे
 कौन गति उपयुक्त होती है ? यह पृच्छा है । उसके निर्णय-करनेके लिये अब यह निर्देश
 किया जाता है । वह इस प्रकार है—एक एक कषायके उदयस्थानमे त्रसकायिक जीव उत्कर्ष-
 से आवलीके असंख्यातवे भागमात्र होते है ॥२०४-२०८॥

विशेषार्थ—यहाँपर 'एक कषाय-उदयस्थानमे कौन गति उपयुक्त है' इस पृच्छाका
 निर्णय त्रसजीवोके आश्रयसे किया जा रहा है । जिसका अभिप्राय यह है कि यदि आवली-
 के असंख्यातवे भागमात्र त्रसजीवोका एक कषाय-उदयस्थान पाया जाता है, तो जगत्प्रतरके
 असंख्यातवे भागप्रमाण त्रसजीवराशिके भीतर कितने कषाय-उदय-स्थान प्राप्त होंगे ? इस
 प्रकार त्रैराशिक करनेपर असंख्यात जगच्छ्रेणीप्रमाण कषाय-उदयस्थान उपलब्ध होते है ।
 यद्यपि सभी कषायोदयस्थानोमे त्रसजीवोका अवस्थान सदृशरूपसे सम्भव नहीं है, तो भी
 समीकरण करनेके लिए इस प्रकारसे त्रैराशिक किया गया है ।

चूर्णिसू०—किन्तु एक एक कषायके उपयोगकाल-स्थानमे उत्कर्षसे असंख्यात जग-
 च्छ्रेणी प्रमाण त्रसजीव रहते हैं । इस प्रकार उपयुक्त व्याख्यानसे यह अर्थ निकलता है कि
 सभी गतिवाले जीव नियमसे अनेक कषाय-उदयस्थानोमे और अनेक कषायोपयोग-काल-
 स्थानोमे उपयुक्त रहते है ॥२०९-२१०॥

चूर्णिसू०—इस प्रकार गाथाके अर्थका प्ररूपण करके अब गाथासे सूचित अल्प-
 बहुत्वको नौ पदोके द्वारा कहते है । वह अल्पबहुत्व इस प्रकार है—उत्कृष्ट कषायोदयस्थानमे
 और उत्कृष्ट मानकषायोपयोगकालमे जीव सबसे कम होते है । इससे उत्कृष्ट कषायोदयस्थानमे

१ काणि ताणि णव पदाणि ? माणादीणमेक्केक्कस्स कसायस्स जहण्णुक्कस्साजहण्णाणुक्कस्सभेयभिण्ण-
 कसायुदयट्ठाणपडिवट्ठाण तिण्ह पदाण कसायोवजोगद्धाट्ठाणेहि तहा चेव तिहाविहत्तेहि सजोगेण समुप-
 ण्णाणि णव पदाणि होति । जयध०

२ उक्कस्सकसायोदयट्ठाण णाम उक्कस्साणुभागोदयजणिदो कसायपरिणामो असखेजलोयभेय-
 भिण्णाणमत्तवसाणट्ठाणाण चरिमज्जवसाणट्ठाणमिदि वुत्त होदि । उक्कस्सियाए माणोवजोगद्धाए त्ति
 वुत्ते माणकसायत्त उक्कस्सकालोवजोगवग्गणाए गहण कावव्व । तदो एदेहिं दोहि उक्कस्सपदहि माण-
 कसायपडिवट्ठेहि अण्णोणसजुत्तेहि परिणदा तसजीवा थोवा त्ति सुत्तत्थसवधो । कुदो ? × × दोण्ह पि
 उक्कस्सभावेण परिणमंताणं नुट्ठ विरलाणमुवएसादो । जयध०

जहणियाए माणोवजोगद्वाए जीवा असंखेज्जगुणा । २१५. अणुक्कस्समजहण्णासु माणोवजोगद्वासु जीवा असंखेज्जगुणा । २१६. जहण्णाए कसायुदयद्वाणे उक्कस्सियाए माणोवजोगद्वाए जीवा असंखेज्जगुणा । २१७. जहणियाए माणोवजोगद्वाए जीवा असंखेज्जगुणा । २१८. अणुक्कस्समजहण्णासु माणोवजोगद्वासु जीवा असंखेज्जगुणा । २१९. अणुक्कस्समजहण्णेसु अणुभागद्वाणेषु उक्कस्सियाए माणोवजोगद्वाए जीवा असंखेज्जगुणा । २२०. जहणियाए माणोवजोगद्वाए जीवा असंखेज्जगुणा । २२१. अणुक्कस्समजहण्णासु माणोवजोगद्वासु जीवा असंखेज्जगुणा । २२२. एवं सेसाणं कसायाणं । २२३. एत्तो छत्तीसपदेहि अप्पावहुअं कायव्वं ।

और जघन्य मानकषायोपयोगकालमें जीव असंख्यातगुणित होते हैं । इससे उत्कृष्ट कषायोदयस्थानमें और अनुत्कृष्ट-अजघन्य मानकषायोपयोगकालमें जीव उपर्युक्त पदसे असंख्यातगुणित होते हैं । इससे जघन्य कषायोदयस्थानमें और उत्कृष्ट-मानकषायोपयोगकालमें जीव असंख्यातगुणित होते हैं । इससे जघन्य कषायोदयस्थानमें और जघन्य मानकषायोपयोगकालमें जीव असंख्यातगुणित होते हैं । इससे अनुत्कृष्ट-अजघन्य अनुभागस्थानमें और उत्कृष्ट मानकषायोपयोगकालमें जीव असंख्यातगुणित होते हैं । इससे अनुत्कृष्ट-अजघन्य अनुभागस्थानमें और उत्कृष्ट मानकषायोपयोगकालमें जीव असंख्यातगुणित होते हैं । इससे अनुत्कृष्ट-अजघन्य अनुभागस्थानमें और अनुत्कृष्ट-अजघन्य मानकषायोपयोगकालमें जीव असंख्यातगुणित होते हैं ॥२११-२२१॥

चूर्णिसू०—जिस प्रकारसे उपर्युक्त नौ पदोंके द्वारा मानकषायोपयोगसे परिणत जीवोंका निर्णय किया गया है, उसी प्रकारसे क्रोध माया और लोभ, इन शेष तीन कषायोपयोगोंसे परिणत जीवोंके अल्पवहुत्वका भी निर्णय करना चाहिए ॥२२२॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे इसी उपर्युक्त स्वस्थानपदसम्बन्धी अल्पवहुत्वसे परस्थानपदसम्बन्धी अल्पवहुत्व भी छत्तीस पदोंके द्वारा सिद्ध करना चाहिए ॥२२३॥

विशेषार्थ—वह छत्तीस पदगत अल्पवहुत्व इसप्रकार है—उत्कृष्ट कषायोदयस्थानमें और उत्कृष्ट मानोपयोगकालमें उपर्युक्त जीव सबसे कम होते हैं । इससे उत्कृष्ट कषायोदयस्थानमें और उत्कृष्ट क्रोधोपयोगकालसे परिणत जीव विशेष अधिक होते हैं । इससे उत्कृष्ट कषायोदयस्थानमें उत्कृष्ट माया-कषायके उपयोगकालसे परिणत जीव विशेष अधिक होते हैं । इससे उत्कृष्ट कषायोदयस्थानमें उत्कृष्ट लोभकषायके उपयोगकालसे परिणत जीव विशेष अधिक होते हैं । इससे उत्कृष्ट कषायोदयस्थानमें जघन्य मानकषायके उपयोगकालसे परिणत जीव असंख्यातगुणित होते हैं । इससे उत्कृष्ट कषायोदयस्थानमें जघन्य क्रोधोपयोगकालसे परिणत जीव विशेष अधिक होते हैं । इससे उत्कृष्ट कषायोदयस्थानमें जघन्य मायाकषायके उपयोगकालसे परिणत जीव विशेष अधिक होते हैं । इससे उत्कृष्ट कषायोदय-

२२४. एवं चउत्थीए गाहाए विहासा समत्ता ।

२२५. 'केवडिगा उवजुत्ता सरिसीसु च वग्गणाकसाएसु' चेति एदिस्से गाहाए अत्थविहासा । २२६. एसा गाहा सूचनासुत्तं । २२७. एदीए सूचिदाणि अट्ठ अणिओगद्वाराणि । २२८. तं जहा । २२९. संतपरुवणा, दव्वपमाणं खेत्तपमाणं फोसणं कालो अंतरं भागाभागो अप्पावहुअं च । २३०. 'केवडिगा उवजुत्ता' ति दव्वपमाणाणुगमो । २३१. 'सरिसीसु च वग्गणाकसाएसु' ति कालाणुगमो । २३२. 'केवडिगा च कमाए' ति भागाभागो । २३३. 'के के च विसिस्सदे केणेत्ति' अप्पावहुअं । २३४. एवमेदाणि चत्तारि अणिओगद्वाराणि सुत्तणिवद्दाणि । २३५. सेसाणि सूचनाणुमाणेण कायव्वाणि ।

गुणित होते हैं । इससे अजघन्य-अनुत्कृष्ट कपायोदयस्थानमे और अजघन्य-अनुत्कृष्ट क्रोधकपायके उपयोगकालमे जीव विशेष अधिक होते हैं । इससे अजघन्य-अनुत्कृष्ट कपायोदय-स्थानमे और अजघन्य-अनुत्कृष्ट मायाकपायके उपयोगकालमे जीव विशेष अधिक होते हैं । इससे अजघन्य-अनुत्कृष्ट कपायोदयस्थानमे और अजघन्य-अनुत्कृष्ट लोभकपायके उपयोग-कालमे जीव विशेष अधिक होते हैं । इस प्रकारसे ओघकी अपेक्षा परस्थानपद-सम्बन्धी अल्पवहुत्वका निरूपण किया ।

चूर्णिसू०—इस प्रकार चौथी सूत्रगाथाकी अर्थविभाषा समाप्त हुई ॥२२४॥

चूर्णिसू०—अब 'सट्ठश कपायोपयोग-वर्गणाओमे कितने जीव उपयुक्त है' इस पाँचवीं गाथाकी अर्थविभाषा कहते हैं । यह गाथा सूचनासूत्र है, क्योंकि, इस गाथासे आठ अनुयोगद्वार सूचित किये गये हैं । वे आठ अनुयोगद्वार इस प्रकार हैं—सत्प्ररूपणा, द्रव्यप्रमाणाणुगम, क्षेत्रप्रमाणाणुगम, स्पर्शनानुगम, कालानुगम, अन्तरानुगम, भागाभागानुगम और अल्पवहुत्वानुगम । 'कितने जीव उपयुक्त है', गाथाके इस प्रथम चरणसे द्रव्यप्रमाणाणुगम नामक अनुयोगद्वार सूचित किया गया है । 'सट्ठश अर्थात् एक कपायसे प्रतिवद्ध कपायोपयोगवर्गणाओमे जीव कितने काल तक उपयुक्त रहते हैं' गाथाके इस द्वितीय चरणसे कालानुगम नामक अनुयोगद्वार सूचित किया गया है । 'किस कपायमे कपायोपयुक्त सर्व जीवोका कितनेवां भाग उपयुक्त है' गाथाके इस तृतीय चरणसे भागाभागानुगम नामक अनुयोगद्वार सूचित किया गया है । 'किस-किस विवक्षित कपायसे उपयुक्त जीव किस अविचक्षित कपायसे उपयुक्त जीवोसे विशिष्ट अधिक होते हैं' गाथाके इस अन्तिम चरणसे अल्पवहुत्व अनुयोगद्वार सूचित किया गया है । इसप्रकार द्रव्यप्रमाणाणुगम, कालानुगम, भागाभागानुगम और अल्पवहुत्व, ये चार अनुयोगद्वार तो गाथासूत्रमे ही निबद्ध हैं । शेष अर्थात् सत्प्ररूपणा, क्षेत्रानुगम, स्पर्शनानुगम और अन्तरानुगम ये चार अनुयोगद्वार सूचनारूप अनुमानसे ग्रहण करना चाहिए ॥२२५-२३५॥

२३६. कमायोवजुत्ते अट्टहिं अणि ओगदारेहिं गदि-इंदिय-काय-जोग-वेद-णाण-संजम-दंसण लेस्म-भविय-सम्मत्त-सण्णि-आहारा त्ति एदेसु तेरससु अणुगमेसु मग्गियूण* ।

२३७. महादंडयं च कादूण समत्ता पंचमी गाहा ।

चूर्णिसू०-उक्त आठो अनुयोगद्वारोसे कपायोपयुक्त जीवोंका गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेख्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञित्व और आहार, इन तेरह मार्गणास्थानरूप अनुगमोके द्वारा अन्वेषण करके और पुनः चतुर्गति-सम्बन्धी अल्प-वहुत्वविषयक महादंडकका निरूपण करनेपर पाँचवीं गाथाकी अर्थविभाषा समाप्त होती है ॥२३६-२३७॥

विशेषार्थ-उक्त समर्पणसूत्रसे चूर्णिकारने प्रथम गति आदि सर्व मार्गणास्थानोंमें सत्प्ररूपणा आदि आठो अनुयोगद्वारोसे क्रोधादि कपायोपयुक्त जीवोंके अन्वेषण करनेकी सूचना की है । पुनः गति, इन्द्रिय आदि मार्गणा-विषयक कपायोपयुक्त जीवोंके अल्पवहुत्वके निरूपणकी सूचना की है । इस अल्पवहुत्वदंडकको महादंडक कहनेका कारण यह है कि जिस प्रकार चारो कषायोंसे उपयुक्त जीवोंका गतिमार्गणा-सम्बन्धी एक अल्पवहुत्व-दंडक होगा, उसी प्रकार, इन्द्रियमार्गणा-सम्बन्धी भी दूसरा अल्पवहुत्व-दंडक होगा, कायमार्गणा-सम्बन्धी तीसरा अल्पवहुत्व-दंडक होगा । इस प्रकार सर्व मार्गणाओंके अल्पवहुत्वदंडकोंके समुदायरूप इस अल्पवहुत्वदंडकको 'महादंडक' इस नामसे सूचित किया है । इस महादंडककी दिशा बतलानेके लिए यहाँपर गतिमार्गणा-सम्बन्धी अल्पवहुत्व-दंडकका निरूपण किया जाता है-मनुष्यगतियं मानरूपायसं उपयुक्त जीव सवसे कम हैं, क्रोधकपायसे उपयुक्त जीव विशेष अधिक हैं, मायाकपायसे उपयुक्त जीव विशेष अधिक है, और लोभकपायसे उपयुक्त जीव विशेष अधिक है । मनुष्यगतिके लोभकषायोपयुक्त जीवोंसे नरकगतिमें लोभकषायोपयुक्त जीव असंख्यातगुणित है, मायाकषायोपयुक्त जीव संख्यातगुणित हैं, मानकषायोपयुक्त जीव संख्यातगुणित हैं और क्रोधकषायोपयुक्त जीव संख्यातगुणित है । नरकगतिके क्रोधकषायोपयुक्त जीवोंसे देवगतिमें क्रोधरूपायोपयुक्त जीव असंख्यातगुणित हैं, मानकषायोपयुक्त जीव संख्यातगुणित हैं, मायाकषायोपयुक्त जीव संख्यातगुणित है और लोभकषायोपयुक्त जीव संख्यातगुणित है । देवगतिके लोभकषायोपयुक्त जीवोंसे तिर्यग्गतिके मानकषायोपयुक्त जीव अनन्तगुणित है । क्रोधकषायोपयुक्त जीव विशेष अधिक है, मायाकषायोपयुक्त जीव विशेष अधिक हैं और लोभकषायोपयुक्त जीव विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार इन्द्रिय, काय, आदि शेष मार्गणाओंकी अपेक्षा पृथक् पृथक् अल्पवहुत्व-दंडकोंके द्वारा चारो कषायोंसे उपयुक्त जीवोंके अल्पवहुत्वका निर्णय करना चाहिए, ऐसा उक्त समर्पणसूत्रका अभिप्राय है ।

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमें-'एदेसु तेरससु अणुगमेसु मग्गियूण' इतने सूत्रागको टीकामें सम्मिलित कर दिया है (देखो पृ० १६४९) । परन्तु इस सूत्रकी टीकासे ही उक्त अशके सूत्रता सिद्ध होती है ।

२३८ 'जे जे जग्गि कमाए उवजुत्ता किण्णु भूदपुव्वा ते' ति एदिस्से छट्ठीए गाहाए कालजोणी' कायव्वा । २३९ तं जहा । २४०. जे अस्सिम समए माणोवजुत्ता, तेसिं तीदे काले माणकालो णोमाणकालो मिस्सयकालो इदि एवं तिविहो कालो^२ । २४१. कांहे च तिविहो कालो । २४२ मायाए तिविहो कालो । २४३. लोभे तिविहो कालो । २४४. एवमेसो कालो माणोवजुत्ताणं वारमविहो ।

चूर्णिसू०—'जो जो जीव जिस कषायमें वर्तमानकालमें उपयुक्त है, क्या वे जीव अतीतकालमें उसी कषायसे उपयुक्त थे' इस छठी गाथाकी काल-योनि अर्थात् काल-मूलक प्ररूपणा करना चाहिए । वह काल-मूलक प्ररूपणा इस प्रकार है—जो जीव इस वर्तमान-समयमें मानकषायसे उपयुक्त हैं, उनका अतीतकालमें मानकाल, नोमानकाल और मिश्रकाल, इस प्रकारसे तीन प्रकारका काल व्यतीत हुआ है ॥ २३८-२४० ॥

विशेषार्थ—जिस कालविशेषमें त्रिविधित वर्तमानकालिक मानकषायोपयुक्त समस्त जीवराशि एकमात्र मानकषायोपयोगसे ही परिणत पाई जाती है, उस कालको 'मानकाल' कहते हैं । इसी त्रिविधित जीवराशिमेंसे जिस काल विशेषमें एह भी जीव मानकषायमें उपयुक्त न होकर क्रोध, माया और लोभकषायोंमें ही यथाविभाग परिणत हो, उस कालको 'नोमानकाल' कहते हैं । इसका कारण यह है कि त्रिविधित मानकषायके अतिरिक्त शेष कषाय 'नोमान' इस नामसे व्यवहृत किये जाते हैं । पुनः इसी त्रिविधित जीवराशिमेंसे जिस कालमें थोड़ी जीवराशि मानकषायमें उपयुक्त हो और थोड़ी जीवराशि क्रोध, माया अथवा लोभकषायमें यथासंभव उपयुक्त होकर परिणत हो, उस कालको 'मिश्रकाल' कहते हैं । मानकषायसे उपयुक्त जीवोंका उक्त तीन प्रकारका काल व्यतीत हुआ है ।

चूर्णिसू०—क्रोधकषायमें तीन प्रकारका काल होता है । मायाकषायमें तीन प्रकारका काल होता है । लोभकषायमें तीन प्रकारका काल होता है । इस प्रकार मानकषायसे उपयुक्त जीवोंका यह काल वारह प्रकारका है ॥ २४१-२४४ ॥

विशेषार्थ—ऊपर जिस प्रकार वर्तमान समयमें मानकषायोपयुक्त जीवराशिका अतीतकालमें मानकाल, नोमानकाल और मिश्रकाल, यह तीन प्रकारका काल व्यतीत हुआ घतलाया गया है, उसी प्रकारसे उसी मानकषायसे उपयुक्त जीवराशिका अतीत कालमें क्रोधकषायसम्बन्धी क्रोधकाल, नोक्रोधकाल और मिश्रकाल यह तीन प्रकारका काल व्यतीत हुआ

१ कालो चैव जोणी आमयो पयदपरुवणाए कायव्वो ति वुत्तं होइ । जयध०

२ तस्य जग्गि कालविसेसे एमो आदिटठो (त्रिविधितदो) वट्टमाणसमयमाणोवजुत्तजीवरासी अणूणादिओ होदूण माणोवजोणेणव परिणदो लव्वह, सा माणकालो ति भण्णह । एमा चैव गिरुद्धजीवरासी जग्गि कालविसेसे एगो वि माणे अहोदूण कोह-माया लोभेसु चैव जहा पविभाग परिणादा सो ण माणकालो ति भण्णदे, माणनदिरित्तंसकमायाण णोमाणववएसा रहतेणावलवणादो । पुणो इमो चैव गिरुद्धजीवरासी जग्गि काले थावो माणोवजुत्तो, थोवो कोह-माया लोभेसु जहासभवमुवजुत्तो होदूण परिणदो दिट्ठो; सो मिस्सयकालो णाम । जयध०

२४५. अस्सि समये कोहोवजुत्ता तेसिं तीदे काले माणकालो णत्थि, णोमाण-
कालो पिस्सयकालो य । २४६. अवसेसाणं णवविहो कालो । २४७. एवं कोहोवजुत्ता-
णपेक्कारसविहो कालो विदिक्कंते । २४८. जे अस्सि समये मायोवजुत्ता तेसिं तीदे काले
माणकालो दुविहो, कोहकालो दुविहो, मायाकालो तिविहो, लोभकालो तिविहो ।

है । उसी मानकपायसे उपयुक्त जीवराशिका अतीतकालमें मायाकपाय-सम्बन्धी मायाकाल,
नोमायाकाल और मिश्रकाल, तथा लोभकपाय-सम्बन्धी लोभकाल, नोलोभकाल और मिश्र-
काल, इस प्रकारसे तीन तीन प्रकारका और भी काल व्यतीत हुआ है । इस प्रकारसे उप-
युक्त चारो कपाय-सम्बन्धी तीनों कालोंके भेद मिलाकर मानकपायसे उपयुक्त जीवोंका यह
काल वारह प्रकारका हो जाता है ।

चूर्णिंस्सु०—जो जीव इस वर्तमान समयमें क्रोधकपायसे उपयुक्त हैं, उनका अतीत
कालमें मानकाल नहीं है, किन्तु नोमानकाल और मिश्रकाल, ये दो ही प्रकारके काल होते
है ॥२४५-२४६॥

विशेषार्थ—वर्तमान समयमें क्रोधकपायसे उपयुक्त जीवोंके अतीतकालमें मानकाल न
होनेका कारण यह है कि क्रोधकपायका काल अधिक होनेसे क्रोधकपायसे उपयुक्त जीवराशि
बहुत है, किन्तु मानकपायका काल अल्प होनेसे मानकपायसे उपयुक्त जीवराशि कम है ।
इसलिए वर्तमान समयमें क्रोधकपायसे उपयुक्त होकर यदि कोई विवक्षित जीवराशि अवस्थित
है, तो अतीतकालमें एक ही समयमें वही सबकी सब जीवराशि मानकपायसे उपयुक्त होकर
नहीं रह सकती है । इसलिए यहाँपर 'मानकाल नहीं है' ऐसा कहा है । नोमानकाल और
मिश्रकाल होते हैं । इसका कारण यह है कि विवक्षित जीवराशिका मानव्यतिरिक्त शेष कपायोंमें
अवस्थान पाये जानेसे नोमानकाल बन जाता है, तथा मान तथा मानसे भिन्न माया और
लोभादि कपायोंमें यथासंभव अवस्थान पाये जानेसे मिश्रकाल बन जाता है ।

चूर्णिंस्सु०—उन्हीं वर्तमान समयमें क्रोधकपायसे उपयुक्त जीवोंके अतीत कालमें मान-
कपायके अतिरिक्त अवशेष कपायोंका नौ प्रकारका काल होता है । इस प्रकार क्रोधकपायसे
उपयुक्त जीवोंके अतीतकालमें ग्यारह प्रकारका काल व्यतीत हुआ है ॥२४६-२४७॥

विशेषार्थ—क्रोधकाल, नोक्रोधकाल, मिश्रकाल, इस प्रकारसे प्रत्येक कपायके तीन-
तीन प्रकारके काल होते हैं । अतएव चारो कपायोंके कालसम्बन्धी वारह भेद होते हैं । इनमेंसे
वर्तमान समयमें क्रोधकपायसे उपयुक्त जीवोंके अतीतकालमें 'मानकाल' नहीं होता है, इसका
कारण ऊपर बतला आये हैं । अतः उस एक भेदको छोड़कर शेष ग्यारह भेदरूप काल क्रोध-
कपायसे वर्तमान समयमें उपयुक्त जीवोंके अतीतकालमें व्यतीत हुआ है, ऐसा कहा है ।

चूर्णिंस्सु०—जो जीव वर्तमान समयमें मायाकपायके उपयोगसे उपयुक्त है, उनके
अतीतकालमें दो प्रकारका मानकाल, दो प्रकारका क्रोधकाल, तीन प्रकारका माया और तीन
प्रकारका लोभकाल व्यतीत हुआ है ॥२४८॥

२४९. एवं मायोवजुत्ताणं दसविहो कालो ।

२५०. जे अस्सि समए लोभोवजुत्ता तेसिं तीदे काले माणकालो दुविहो, कोह-कालो दुविहो, मायाकालो दुविहो, लोभकालो त्रिविहो । २५१. एवमेसो कालो लोहोवजुत्ताणं णवविहो । २५२ एवमेदाणि सन्वाणि पदाणि वादालीसं भवन्ति । २५३. एत्तो वारस मत्थाणपदाणि गहियाणि ।

२५४. ऋधं सत्थाणपदाणि भवन्ति ? २५५. माणोवजुत्ताणं माणकालो णोमाणकालो मिससयकालो । २५६. कोहोवजुत्ताणं कोहकालो णोकोहकालो मिससय-कालो । २५७. एवं मायोवजुत्त-लोहोवजुत्ताणं पि ।

विशेषार्थ—यहाँपर मान और क्रोधकपाय-सम्बन्धी दो दो प्रकारके ही काल बतलाये गये हैं, अर्थात् मानकाल और क्रोधकालको नहीं बतलाया गया है, इसका कारण यह है कि वर्तमान समयमें मायाकपायसे उपयुक्त जीवराशिका काल मान और क्रोधकपायसे उपयुक्त जीवराशिके कालसे अधिक पाया जाता है ।

चूर्णिसू०—इस प्रकार वर्तमान समयमें मायाकपायसे उपयुक्त जीवोंके अतीतकालमें चारों कपायसम्बन्धी दृश प्रकारका काल पाया जाता है । जो जीव वर्तमानसमयमें लोभकपायके उपयोगसे उपयुक्त हैं, उनके अतीतकालमें मानकाल दो प्रकारका, क्रोधकाल दो प्रकारका, मायाकाल दो प्रकारका और लोभकाल तीन प्रकारका पाया जाता है ॥२४९-२५०॥

विशेषार्थ—ऊपर बतलाये गये चारों कपायोंके काल-सम्बन्धी वारह भेदोंमेंसे मानकाल, क्रोधकाल और मायाकाल, ये तीन भेद नहीं होते हैं । इसका कारण यह है कि वर्तमान-समयमें लोभकपायसे उपयुक्त जीवराशिका काल क्रोध, मान और मायाकपायके कालसे अधिक है ।

चूर्णिसू०—इस प्रकार वर्तमानसमयमें लोभकपायसे उपयुक्त जीवोंके अतीतकालमें चारों कपायसम्बन्धी यह उपयोगका काल नौ प्रकारका होता है । इस प्रकारसे ये ऊपर बतलाये गये चारों कपायोंके कालसम्बन्धी पद व्यालीस होते हैं ॥२५१-२५२॥

विशेषार्थ—ऊपर मानकपायके कालसम्बन्धी वारह भेद, क्रोधकपायके ग्यारह भेद, मायाकपायके दश भेद और लोभकपायके नौ भेद बतलाये गये हैं । उन सब भेदोंको मिलानेसे (१२+११+१०+९=४२) व्यालीस भेद हो जाते हैं ।

चूर्णिसू०—इन उक्त व्यालीस भेदोंमेंसे वारह स्वस्थानपदोंको अल्पवहुत्वके कहनेके लिए ग्रहण करना चाहिए ॥२५३॥

शंका—ये वारह स्वस्थानपद कैसे होते हैं ? ॥२५४॥

समाधान—मानकपायसे उपयुक्त जीवोंका मानकाल, नोमानकाल और मिश्रकाल, क्रोधकपायसे उपयुक्त जीवोंका क्रोधकाल, नोक्रोधकाल और मिश्रकाल, इसी प्रकार मायाकपायसे उपयुक्त जीवोंका मायाकाल, नोमायाकाल और मिश्रकाल, तथा लोभकपायसे उपयुक्त जीवोंका लोभकाल, नोलोभकाल और मिश्रकाल, इस प्रकार ये वारह स्वस्थानपद होते हैं ॥२५५-२५७॥

२५८. एदेसिं चारसण्हं पदाणमप्पावहुअं । २५९. तं जहा । २६०. लोभोव-
जुत्ताणं लोभकालो थोवो । २६१. मायोवजुत्ताणं मायकालो अणंतगुणो । २६२.
कोहोवजुत्ताणं क्रोधकालो अणंतगुणो । २६३. माणोवजुत्ताणं माणकालो अणंतगुणो ।
२६४. लोभोवजुत्ताणं णोलोभकालो अणंतगुणो । २६५. मायोवजुत्ताणं णोमायकालो
अणंतगुणो । २६६. कोहोवजुत्ताणं णोकोधकालो अणंतगुणो । २६७. माणोवजुत्ताणं
णोमाकालो अणंतगुणो । २६८. माणोवजुत्ताणं मिस्सयकालो अणंतगुणो । २६९. कोहो-
वजुत्ताणं मिस्सयकालो विसैसाहियां । २७०. मायोवजुत्ताणं मिस्सयकालो विसैमाहियां ।
२७१. लोभोवजुत्ताणं मिस्सयकालो विसैमाहियां ।

२७२. एत्तो वादालीसपदप्पावहुअं कायव्वं ।

चूर्णिसू०—अब इन चारह स्वस्थानपदोंका अल्पबहुत्व कहते हैं । यह अल्पबहुत्व इस प्रकार है वर्तमानसमयमें लोभरूपायसे उपयुक्त जीवोंके अतीतकालसम्बन्धी लोभका काल सबसे कम है । वर्तमानसमयमें मायारूपायसे उपयुक्त जीवोंके अतीतकालसम्बन्धी मायाका काल उपर्युक्त लोभकालसे अनन्तगुणा है । वर्तमानसमयमें क्रोधरूपायसे उपयुक्त जीवोंके अतीतकालसम्बन्धी क्रोधका काल उपर्युक्त मायाकालसे अनन्तगुणा है । वर्तमानसमयमें मानरूपायसे उपयुक्त जीवोंके अतीतकालसम्बन्धी मानका काल उपर्युक्त क्रोधकालसे अनन्तगुणा है । वर्तमानसमयमें लोभरूपायसे उपयुक्त जीवोंके अतीतकालसम्बन्धी नोलोभकाल उपर्युक्त मानकालसे अनन्तगुणा है । वर्तमानसमयमें मायारूपायसे उपयुक्त जीवोंके अतीतकालसम्बन्धी नोमायाकाल उपर्युक्त नोलोभकालसे अनन्तगुणा है । वर्तमानसमयमें क्रोधरूपायसे उपयुक्त जीवोंके अतीतकालसम्बन्धी नोकोधकाल उपर्युक्त नोमायाकालसे अनन्तगुणा है । वर्तमानसमयमें मानरूपायसे उपयुक्त जीवोंके अतीतकालसम्बन्धी नोमानकाल उपर्युक्त नोकोधकालसे अनन्तगुणा है । वर्तमानसमयमें मानरूपायसे उपयुक्त जीवोंके अतीतकालसम्बन्धी मिश्रकाल उपर्युक्त नोमानकालसे अनन्तगुणा है । वर्तमानसमयमें क्रोधरूपायसे उपयुक्त जीवोंके अतीतकालसम्बन्धी मिश्रकाल उपर्युक्त मिश्रकालसे विशेष अधिक है । वर्तमानसमयमें मायारूपायसे उपयुक्त जीवोंके अतीतकालसम्बन्धी मिश्रकाल उपर्युक्त मिश्रकालसे विशेष अधिक है । वर्तमानसमयमें लोभरूपायसे उपयुक्त जीवोंके अतीतकालसम्बन्धी मिश्रकाल उपर्युक्त मिश्रकालसे विशेष अधिक है ॥२५८-२७१॥

चूर्णिसू०—इस स्वस्थानपद-सम्बन्धी अल्पबहुत्वकी प्ररूपणाके पश्चात् पूर्वमें बतलाये गये व्यालीस पदोंके कालसम्बन्धी अल्पबहुत्वका प्ररूपण करना चाहिए ॥२७२॥

विशेषार्थ—इस सूत्रकी टीका करते हुए जयधवलकार लिखते हैं कि आज वर्तमान

१ एत्तो वादालीसपदणिबद्ध परत्याणप्पावहुअ पि त्तिथि णेद्वमिदि हुत्तं होइ । त पुण वादालीस-
पदमप्पावहुअ सपहियकाले विसिट्ठोवएसामावादो ण सम्मवगम्मदि त्ति ण तत्त्विवरणं कीरदे । जयध०

२७३. तदो छट्टी गाहा समत्ता भवदि ।

२७४. 'उवजोगवर्गणाहि य अविरहिदं काहि विरहियं वा वि' त्ति एदम्मि अद्धे एक्को अत्थो, विदिये अद्धे एक्को अत्थो, एवं दो अत्था ।

२७५. पुरिमद्धस्स विहासा । २७६. एत्थ दुविहाओ उवजोगवर्गणाओ कसाय-उदयट्टाणाणि च उवजोगद्धट्टाणाणि च । २७७. एदाणि दुविहाणि वि ट्टाणाणि उव-जोगवर्गणाओ त्ति वुच्चंति । २७८. उवजोगद्धट्टाणेहि* ताव केत्तिएहिं विरहिदं, केहिं

कालमे विशिष्ट उपदेशका अभाव होनेसे वह व्यालीस पद-सम्बन्धी अल्पवहुत्व सम्यक् ज्ञात नहीं है, इसीलिए उसका प्ररूपण नहीं किया गया है ।

चूर्णिसू०—इस प्रकार छठी गाथाकी अर्थ विभाषा समाप्त हुई ॥२७३॥

चूर्णिसू०—'कितनी उपयोग-वर्गणाओसे कौन स्थान अविरहित पाया जाता है, और कौन स्थान विरहित' ? इस गाथाके पूर्वार्धमें एक अर्थ कहा गया है और गाथाके उत्तरार्धमें एक अर्थ । इस प्रकार इस गाथामें दो अर्थ सम्वद्ध है ॥२७४॥

विशंपार्थ—गाथाके पूर्वार्धमें दो प्रकारकी वर्गणाओको लेकर उनमें जीवोंसे रहित अथवा भरित (सहित) स्थानोंकी प्ररूपणा करनेवाला प्रथम अर्थ निवद्ध है । तथा गाथाके उत्तरार्धमें कपायोपयुक्त जीवोंकी गतियोंका आश्रय लेकर तीन प्रकारकी श्रेणियोंका अल्पवहुत्व सूचित किया गया है । यह दूसरा अर्थ है । इस प्रकारसे इस गाथामें दो अर्थ सम्वद्ध है, ऐसा कहा गया है । उपयोग-वर्गणास्थानोंका तथा तीनों प्रकारकी श्रेणियोंका वर्णन आगे चूर्णिकार स्वयं करेगे ।

चूर्णिसू०—अब इस गाथासूत्रके पूर्वार्धकी अर्थविभाषा की जाती है—इस गाथामें कही गई उपयोगवर्गणाएँ दो प्रकारकी होती हैं—कपायोदयस्थान रूप और उपयोगकाल-स्थान रूप ॥२७५-२७६॥

विशेषार्थ—क्रोधादि प्रत्येक कपायके जो असंख्यात लोकोंके प्रदेश-प्रमाण उदय-अनुभाग-सम्बन्धी विकल्प है, उन्हें कपायोदय-स्थान कहते हैं । क्रोधादि प्रत्येक कपायके जो जवन्य उपयोगकालसे लेकर उत्कृष्ट उपयोगकाल तकके भेद है, उन्हें उपयोगकाल-स्थान कहते हैं ।

चूर्णिसू०—इन दोनों ही प्रकारके स्थानोंको 'उपयोगवर्गणा' इस नामसे कहते हैं ॥२७७॥

शंका—किन जीवोंसे किस गतिमें अविच्छिन्नरूपसे उपयोगकालस्थानोंके द्वारा कौन स्थान विरहित अर्थात् शून्य पाया जाता है, और कौन स्थान अविरहित अर्थात् परिपूर्ण पाया जाता है ? ॥२७८॥

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'उवजोगद्धट्टाणेहिं' के स्थानपर 'उवजोगट्टाणि' ऐसा पाठ मुद्रित है । (देखो पृ० १६५८) पर वह इसी सूत्रकी टीकाके अनुसार अशुद्ध है ।

कम्हि अविरहिदं ? २७९. एत्थ मग्गणा । २८०. णिरयमदीए एग्गस्स जीवस्स कोहोवजोगद्धट्ठाणेषु णाणाजीवाणं जवमज्झं । २८१. तं जहा टाणाणं संखेज्जदिभागो २८२. एग्गुणवद्धि-हाणिट्ठाणंतरमावलियवग्गमूलस्स^१ असंखेज्जदिभागो ।

२८३. हेट्ठा जवमज्झस्स सव्वाणि गुणहाणि-ट्ठाणंतराणि आवुण्णाणि सदा ।

२८४. सव्व-अद्धट्ठाणाणं पुण असंखेज्ज भागा आवुण्णा । २८५. उवरिम-जवमज्झस्स जहण्णेण गुणहाणिट्ठाणंतराणं संखेज्जदिभागो आवुण्णा । उक्कस्सेण मव्वाणि गुणहाणि-ट्ठाणंतराणि आवुण्णाणि । २८६ जहण्णेण अद्धट्ठाणाणं संखेज्जदिभागो आवुण्णो । उक्क-स्सेण अद्धट्ठाणाणमसंखेज्जा भागा आउण्णा । २८७. एसो उवएसो पवाइज्जइ । २८८. अण्णो उवदसो सव्वाणि गुणहाणिट्ठाणंतराणि अविरहियाणि त्रीवेहिं उवजोगद्धट्ठाणाण-

समाधान—इस शंकाके उत्तरस्वरूप आगे कहे जानेवाली मार्गणा की जाती है । नरकगतिमे एक जीवके क्रोवसम्बन्धी उपयोग-अद्धास्थानोमे नानाजीवोंकी अपेक्षा यवमध्य होता है । वह यवमध्य सम्पूर्ण उपयोग-अद्धास्थानोके संख्यातवे भागमे होता है । यवमध्यके ऊपर और नीचे एक गुणवृद्धि और एक गुणहानिरूप स्थान आवलीके प्रथम वर्गमूलके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

चूर्णिसू०—यवमध्यके अधस्तनवर्ती सर्व गुणहानिस्थानान्तर (कषायोदय-स्थान) आपूर्ण हैं, अर्थात् जीवोंसे भरे हुए हैं । किन्तु सर्व-अद्धास्थानो अर्थात् उपयोगकाल स्थानोका असंख्यात बहुभाग ही आपूर्ण है । अर्थात् उपयोगकाल-स्थानोका असंख्यात एक भाग जीवोंसे गून्य पाया जाता है । यवमध्यके ऊपरवाले गुणहानिस्थानान्तरोंका जघन्यसे संख्यातवाँ भाग जीवोंसे परिपूर्ण है और उत्कर्षसे सर्वगुणहानिस्थानान्तर जीवोंसे परिपूर्ण है । जघन्यसे यवमध्यके उपरिम उपयोगकालस्थानोका संख्यातवाँ भाग जीवोंसे परिपूर्ण है और उत्कर्षसे अद्धास्थानोका असंख्यात बहुभाग जीवोंसे आपूर्ण है ॥२७९-२८६॥

चूर्णिसू०—यह उपर्युक्त सर्व कथन प्रवाह्यमान उपदेशकी अपेक्षा किया गया है । किन्तु अप्रवाह्यमान उपदेश तो यह है कि सभी यवमध्यके अर्थात् ऊपर और नीचेके सर्व गुणहानिस्थानान्तर सर्वकाल जीवोंसे परिपूर्ण ही पाये जाते हैं । उपयोगकाल-स्थानोका असंख्यात बहुभाग तो जीवोंसे परिपूर्ण रहता है, किन्तु शेष असंख्यात एक भाग जीवोंसे विरहित पाया जाता है । इन दोनों ही उपदेशोंकी अपेक्षा त्रसजीवोंके कषायोदयस्थान जानना चाहिए ॥२८७-२८८॥

विशेषार्थ—ऊपर जिस प्रकार नरकगतिकी अपेक्षा कषायोदयस्थानोका निरूपण किया है, उसी प्रकार अन्य मार्गणाओंकी अपेक्षा त्रसजीवोंके कषायोदयस्थानोका वर्णन जानना चाहिए । इस विषयमे दोनों उपदेशोंकी अपेक्षा कोई भेद नहीं है ।

१ आवलिया णाम पमाणविसेसो, तिस्से वग्गमूलमिदि वुत्ते तप्पदमवग्गमूलस्स गहण कायव्वं ।

मसंखेज्जा भागा अविग्रहिदा* । २८९. एदेहिं देहिं उचदेसेहिं कसाय-उदयट्टाणाणि णेद-
व्वाणि तसाणं । २९०. तं जहा । २९१. कसायुदयट्टाणाणि असंखेज्जा लोगा ।
२९२. तेषु जत्तिया तसा तत्तियमेत्ताणि आवुण्णाणि ।

२९३. कसायुदयट्टाणेषु जवमज्जेण जीवा रांति । २९४. जहण्णए कसायु-
दयट्टाणे तसा थोवा । २९५. विदिए वि तत्तिया चेव । २९६. एवमसंखेज्जेसु लोग-
ट्टाणेषु तत्तिया चेव । २९७. तदो पुणो अण्णम्हि ट्टाणे एको जीवो अब्भहिओ । २९८.
तदो पुण असंखेज्जेसु लोकेसु ट्टाणे तत्तिया चेव । २९९. तदो अण्णम्हि ट्टाणे एको
जीवो अब्भहिओ । ३००. एवं गंतूण उक्कस्सेण जीवा एकम्हि ट्टाणे आवलियाए असं-
खेज्जदिभागो ।

चूर्णिं०—वह इस प्रकार है—कपायोंके उदयस्थान असंख्यात लोकप्रमाण हैं । उनमें
जितने त्रस जीव हैं, उतने कपायोदयस्थान त्रस जीवोंसे आपूर्ण है ॥ २९०-२९२ ॥

विशेषार्थ—असंख्यात लोकोंके जितने प्रदेश हैं उतने त्रसजीवोंके कपायोदयस्थान
होते हैं । उनमेंसे एक-एक कपायोदयस्थानपर एक-एक त्रसजीव रहता है, यह अवस्था किसी
काल-विशेषमें ही संभव है, क्योंकि उत्कर्षसे आवलीके असंख्यातवे भागमात्र ही कपायोदय-
स्थान त्रस जीवोंसे भरे हुए पाये जाते हैं, ऐसा उपदेश है, यह जयधवलाकार कहते हैं ।
अतः प्रस्तुत सूत्रका ऐसा अर्थ लेना चाहिए कि सान्तर या निरन्तर क्रमसे त्रसजीवोंका जितना
प्रमाण है उतने कपायोदयस्थान त्रस जीवोंसे सदा भरे हुए पाये जाते हैं । यह कथन वर्त-
मान कालकी अपेक्षा जानना चाहिए ।

अब अतीत कालकी अपेक्षासे कपायोदयस्थानोपर जीवोंके अवस्थान-क्रमको बत-
लानेके लिए उत्तरसूत्र कहते हैं—

चूर्णिं०—अतीतकालकी अपेक्षा कपायोदयस्थानोपर त्रस जीव यवमध्यके आकारसे
रहते हैं । उनमें जघन्य कपायोदयस्थानपर त्रस जीव सबसे कम रहते हैं । दूसरे कपायोदय-
स्थानपर भी त्रस जीव उतने ही रहते हैं । इस प्रकार लगातार असंख्यात लोकमात्र स्थानोपर
जीव उतने ही रहते हैं । तदनन्तर पुनः आगे आनेवाले स्थानपर एक जीव पूर्वोक्त प्रमाणसे
अधिक रहता है । तदनन्तर पुनः असंख्यात लोकप्रमाण कपायोदय-स्थानोपर इतने ही
जीव रहते हैं । तत्पश्चात् प्राप्त होनेवाले अन्य स्थानपर एक जीव अधिक रहता है । इस
प्रकार एक-एक जीव बढ़ते हुए जानेपर उत्कर्षसे एक कपायोदयस्थानपर आवलीके असंख्यातवें
भागप्रमाण त्रस जीव पाये जाते हैं ॥ २९३-३०० ॥

१ असंखेज्जाण लोगाणजत्तिया आगासपदेसा अत्थि, तत्तियमेत्ताणि चेव कसायुदयट्टाणाणि हींति
त्ति भण्णिद होइ । जयध०

२ कुदो ? सब्वजहण्णसकिलेसेण परिणममाणजीवाणं बहूणमणुवलभाटो । जयध०

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'जीवहि उवजोगट्टाणाणमसंखेज्जा भागा अविग्रहिदा' इतने
सूत्रांगको टीकामें सम्मिलित कर दिया है (देखो पृ० १६६१) । पर इस अंगकी सूत्रता टीकासे ही प्रमा-
णित होती है ।

३०१. जत्तिया एकस्मिं ढाणे उक्कस्सेण* जीवा तत्तिया चैव अण्णम्हि ढाणे । एवमसंखेज्जलोगढाणि । एदेसु असंखेज्जेसु लोगेसु ढाणेसु जवमज्झं । ३०२. तदो अण्णं ढाणमेक्केण जीवेण हीणं । ३०३. एवमसंखेज्जलोगढाणाणि तुल्लजीवाणि । ३०४. एवं सेसंसु वि ढाणेसु जीवा णेदव्वा ।

३०५. जहण्णए कसायुदयढाणे चत्तारि जीवा, उक्कस्सेए कसायुदयढाणे दो जीवा । ३०६. जवमज्झजीवा आवलियाए असंखेज्जदिभागो* । ३०७. जवमज्झजीवाणं जत्तियाणि अद्धच्छेदणाणि तेसिमसंखेज्जदिभागो हेद्वा जवमज्झस्स गुणहाणिढाणंतगाणि । तेसिमसंखेज्जभागमेत्ताणि उवरि जवमज्झस्स गुणहाणिढाणंतराणि । ३०८. एवं पदुप्पणं तस्साणं जवमज्झं ।

चूर्णिसू०—एक कषायोदयस्थानपर उत्कर्षसे जितने जीव होते हैं, उतने ही जीव दूसरे अन्य स्थानपर भी पाये जाते हैं । इस प्रकार यह क्रम असंख्यात लोकप्रमाण कषायोदयस्थानो तक चला जाता है । इन असंख्यात लोकप्रमाण स्थानोपर यवमध्य होता है । तदनन्तर अन्य स्थान एक जीवसे हीन उपलब्ध होता है । इस प्रकार असंख्यात लोकप्रमाण कषायोदयस्थान तुल्य जीववाले होते हैं । अर्थात् उन स्थानोपर समान जीव पाये जाते हैं । इसी प्रकार शेष स्थानोपर भी जीवोका अवस्थान ले जाना चाहिए । अर्थात् जघन्य स्थानसे लेकर यवमध्यतक जिस क्रमसे वृद्धि होती है, उसी प्रकार यवमध्यसे ऊपर हानिका क्रम जानना चाहिए ॥ ३०१-३०४ ॥

अब इसी अर्थ-विशेषको संदृष्टि द्वारा बतलानेके लिए चूर्णिकार उत्तर सूत्र कहते हैं—

चूर्णिसू०—जघन्य कषायोदयस्थानपर चार जीव हैं और उत्कृष्ट कषायोदयस्थानपर दो जीव हैं ॥ ३०५ ॥

भावार्थ—यद्यपि जघन्य भी कषायोदयस्थानपर वस्तुतः आवलीके असंख्यातवे भागप्रमाण जीव हैं और उत्कृष्ट कषायोदयस्थानपर भी । पर यहाँ अंकसंदृष्टिमे उक्त अर्थका बोध करानेके लिए चार और दोकी कल्पना की गई है ।

चूर्णिसू०—यवमध्यवर्ती जीव आवलीके असंख्यातवे भागप्रमाण है । यवमध्यवर्ती जीवोके जितने अर्धच्छेद होते हैं, उनके असंख्यातवे भागप्रमाण यवमध्यके अधस्तनवर्ती गुणहानिस्थानान्तर है और उन अर्धच्छेदोके असंख्यात बहुभागप्रमाण यवमध्यके ऊपर गुणहानिस्थानान्तर होते हैं । इस प्रकार त्रसजीवोके कषायोदयस्थानसम्बन्धी यवमध्य निष्पन्न हो जाता है ॥ ३०६-३०८ ॥

१ जइ वि जहण्णए कसायुदयढाणे आवलियाए असंखेज्जदिभागमेत्ता जीवा होति; तो वि सदिट्ठीए तेसिं पमाणं चत्तारिख्वमेत्तमिदि वेत्तव्वं । उक्कस्सेए वि कसायुदयढाणे दो जीवा ति सदिट्ठीए गहेयव्वा । जघध०

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमे 'उक्कस्सेण' के स्थानपर 'उक्कस्सिया' पाठ मुद्रित है ।

• ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'असंखेज्जदिभागा' पाठ मुद्रित है ।

३०९. एसा सुत्तविहासा । ३१०. सत्तमीए गाहाए पहमस्स अद्धस्स अत्थ-विहासा समत्ता भवदि ।

३११. एत्तो विदियद्धस्स अत्थविहासा कायव्वा । ३१२. तं जहा । ३१३. 'पहमममयोवजुत्तेहिं चरिमसमए च त्तोद्धव्वा' त्ति एत्थ तिणिण संहाओ । ३१४. तं जहा । ३१५. विदियादिया पहमादिया चरिमादिया (३) ।

विशेषार्थ—यहाँ यह आशंका नहीं करना चाहिए कि त्रसजीवोंके समान स्थावर-जीवोंमें भी यवमध्यरचना क्यों नहीं बतलाई ? इसका समाधान यह है कि स्थावरजीवोंके योग्य बताने गये कपायोदयस्थानोंमेंसे एक-एक कपायोदयस्थानपर अनन्त जीव पाये जाते हैं, इसलिए उनकी यवमध्यरचना अन्य प्रकारसे होती है । अतएव मूलगाथासूत्रमें जो कपायो-दयस्थानोंके विरहित-अविरहितका वर्णन है, वह त्रसजीवोंकी अपेक्षासे जानना चाहिए ।

चूर्णिसू०—यह मूलगाथासूत्रकी विभाषा है इस प्रकार इस उपयोग अधिकारकी सातवीं गाथाके पूर्वार्धकी अर्थ-व्याख्या समाप्त होती है ॥३०९-३१०॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे उक्त सातवीं गाथाके द्वितीय-अर्ध अर्थात् उत्तरार्धकी अर्थ-विभाषा करना चाहिए । वह इस प्रकार है ।—'प्रथम समयमें उपयुक्त जीवोंके द्वारा और अन्तिम समयमें उपयुक्त जीवोंके द्वारा स्थानोंको जानना चाहिए' सातवीं गाथाके इस उत्तरार्धमें तीन श्रेणियाँ प्रतिपादन की गई हैं । वे इस प्रकार हैं द्वितीयादिका श्रेणी, प्रथमादिका श्रेणी और चरमादिका श्रेणी ॥३११-३१५॥

विशेषार्थ—श्रेणी नाम एक प्रकारकी पंक्ति या क्रम-परिपाटी का है । प्रकृतमें यहाँ श्रेणी पदसे अल्पबहुत्व पद्धतिका अर्थ ग्रहण किया गया है । जिस अल्पबहुत्व-परिपाटीमें मान संज्ञित दूसरी कपायसे उपयुक्त जीवोंको आदि लेकर अल्पबहुत्वका वर्णन किया गया है, उसे द्वितीयादिका श्रेणी कहते हैं । यह मनुष्य और तिर्यगोकी अपेक्षा वर्णन की गई है, क्योंकि इनमें ही मानकपायसे उपयुक्त जीव सबसे कम पाये जाते हैं । जिस अल्पबहुत्व परिपाटीमें क्रोधनामक प्रथम कपायसे उपयुक्त जीवोंको आदि लेकर अल्पबहुत्वका वर्णन किया गया है, उसे प्रथमादिका श्रेणी कहते हैं । यह देवोंके ही सम्भव है, क्योंकि, वहाँ ही क्रोधकपायसे उपयुक्त जीव सबसे कम पाये जाते हैं । तथा जिस अल्पबहुत्वश्रेणीका लोभनामक अन्तिम कपायसे प्रारम्भ किया गया है, उसे चरमादिका श्रेणी कहते हैं । यह नारकियोंकी अपेक्षा जानना चाहिए, क्योंकि नरकगतिमें ही लोभकपायसे उपयुक्त जीव सबसे कम पाये जाते हैं । इस प्रकार इन तीनों श्रेणियोंका वर्णन इस सूत्र-गाथाके उत्तरार्धमें किया गया है । दो श्रेणियोंका नामोल्लेख तो सूत्रमें किया ही गया है और गाथा पठित 'च' शब्दसे द्वितीयादिका श्रेणीकी सूचना की गई है, ऐसा अर्थ यहाँ समझना चाहिए ।

३१६. विदियादियाए साहणं । ३१७. माणोवजुत्ताणं पवेसणमं थोवं ।
 ३१८. कोहोवजुत्ताणं पवेसणमं विसेसाहियं । ३१९. [एवं माया-लोभोवजुत्ताणं] ।
 ३२०. एसो विसेसो एककेण उवदेसेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदि-भागपडिभागो ।
 ३२१. पवाइज्जत्तेण उवदेसेण आवलियाए असंखेज्जदिभागो ।

एवमुवजोगो त्ति समत्तमणिआंगदारं ।

चूणिसू०—अत्र द्वितीयादिका श्रेणी-सम्बन्धी अल्पबहुत्वका साधन करते हैं—मानकपायसे उपयुक्त जीवोंका प्रवेशन-काल सबसे कम है । क्रोधकपायसे उपयुक्त जीवोंका प्रवेशन-काल विशेष अधिक है । इसीप्रकार मायाकपायसे उपयुक्त जीवोंका प्रवेशन-काल विशेष अधिक है और लोभकपायसे उपयुक्त जीवोंका प्रवेशन-काल विशेष अधिक है ॥ ३१६-३१९ ॥

विशेषार्थ—यह द्वितीयादिका श्रेणी-सम्बन्धी अल्पबहुत्व मनुष्य-तिर्यचांकी अपेक्षासे जानना चाहिए, क्योंकि वह उर्ध्वमे संभव है । प्रथमादिका श्रेणीका अल्पबहुत्व इस प्रकार है—देवगतिमे क्रोधकपायसे उपयुक्त जीव सबसे कम हैं, मानकपायसे उपयुक्त जीव संख्यातगुणित है, मायाकपायसे उपयुक्त जीव संख्यातगुणित है और लोभकपायसे उपयुक्त जीव संख्यातगुणित हैं । इस प्रकार उत्तरोत्तर संख्यातगुणित होनेका कारण यह है कि उनका काल और प्रवेश उत्तरोत्तर संख्यातगुणित पाया जाता है । चरमादिका श्रेणी-सम्बन्धी अल्पबहुत्व नारकी जीवोंकी अपेक्षा जानना चाहिए । उसका क्रम इस प्रकार है—नारकियोमे लोभकपायसे उपयुक्त जीव सबसे कम है । उनकी अपेक्षा मायाकपायसे उपयुक्त जीव संख्यातगुणित हैं । उनकी अपेक्षा मानकपायसे उपयुक्त जीव संख्यातगुणित है । उनकी अपेक्षा क्रोधकपायसे उपयुक्त जीव संख्यातगुणित है ।

चूणिसू०—यह विशेष एक उपदेशकी अपेक्षा अर्थात् अप्रवाह्यमान उपदेशसे पल्योपमके असंख्यातवे भागके प्रतिभागरूप है । किन्तु प्रवाह्यमान उपदेशकी अपेक्षा आवलीके असंख्यातवे भागप्रमाण है ॥ ३२०-३२१ ॥

इस प्रकार उपयोग नामक सातवाँ अधिकार समाप्त हुआ ।

१ कथं पुनः प्रवेशनशब्देन प्रवेशकालो गृहीतुं शक्यत इति नाशकनीयम् ; प्रविशन्त्यस्मिन् काले इति प्रवेशनशब्दस्य व्युत्पादनात् । जयध०

८ चउट्टाण-अत्थाहियारो

१. चउट्टाणेत्ति अणियोगद्वारे पुब्बं गमणिज्जं सुत्तं । २. तं जहा ।

(१७) कोहो चउव्विहो वुत्तो माणो वि चउव्विहो भवे ।

माया चउव्विहा वुत्ता लोहो वि य चउव्विहो ॥७०॥

(१८) णग-पुढवि-वालुगादयरार्इसरिसो चउव्विहो कोहो ।

सेलघण-अट्टि-दारुअ लदासमाणो हवदि माणो ॥७१॥

८ चतुःस्थान अर्थाधिकार

चूर्णिसू०—कसायपाहुडके चतुःस्थान नामक अनुयोगद्वारमे पहले गाथा-सूत्र अन्वेपण करना चाहिए । वे इस प्रकार है ॥१-२॥

क्रोध चार प्रकारका कटा गया है । मान भी चार प्रकारका होता है । माया भी चार प्रकारकी कही गई है और लोभ भी चार प्रकारका है ॥७०॥

विशेषार्थ—चतुःस्थान-अधिकारकी गुणधराचार्य-मुखकमल-विनिर्गत यह प्रथम सूत्र-गाथा है । इनमें क्रोधादि प्रत्येक कपायके चार-चार भेद होनेका निर्देश किया गया है । यहाँपर अनन्तानुबन्धी आदिकी अपेक्षासे क्रोधादिके चार-चार भेदोंका वर्णन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उन भेदोंका तो प्रकृतिविभक्ति आदिमें पहले ही निर्णय कर चुके हैं । अतएव इस चतुःस्थान अधिकारमें लता, दारु आदि अनुभागकी अपेक्षा बतलाये गये एक-स्थान, द्विस्थान आदिकी अपेक्षासे कपायोंके स्थानोंका वर्णन किया जा रहा है । इस प्रकारका अर्थ ग्रहण करनेपर ही आगे कही जानेवाली गाथाओंका अर्थ सुसंगत बैठता है, अन्यथा नहीं, क्योंकि अनन्तानुबन्धी आदि तीन कपायोंमें एक-स्थानीयता सम्भव नहीं है । लता, दारु आदि चार प्रकारके स्थानोंके समाहारको चतुःस्थान कहते हैं । इस प्रकारके चतुःस्थानके प्ररूपण करनेवाले अनुयोगद्वारको चतुःस्थान अनुयोगद्वार कहते हैं ।

अब क्रोधादिकपायोंके उक्त चार-चार भेदोंका गुणधराचार्य स्वयं गाथासूत्रोंके द्वारा निरूपण कहते हैं—

क्रोध चार प्रकारका है—नगराजिसदृश, पृथिवीराजिसदृश, वालुकाराजिसदृश और उदकराजिसदृश । इसी प्रकार मानके भी चार भेद हैं—शैलघनसमान, अस्थिसमान, दारुसमान और लतासमान ॥७१॥

विशेषार्थ—इस गाथामें कालकी अपेक्षा क्रोधके और भावकी अपेक्षा मानके चार-चार

प्रकार बतलाये गये हैं । उनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—जैसे किसी पर्वतके गिलाखंडमें किसी कारणसे यदि भेद हो जाय, तो वह कभी भी किसी भी प्रयोग आदिसे पुनः मिल नहीं सकता है, किन्तु तदवस्थ ही बना रहता है । इसी प्रकार जो क्रोधपरिणाम किसी निमित्त-विशेषसे किसी जीव-विशेषमे उत्पन्न हो जाय, तो वह किसी भी प्रकारसे उपशमको प्राप्त न होगा, किन्तु निष्प्रतीकार होकर उस भवमे व्योका त्यो बना रहेगा । इतना ही नहीं, किन्तु जिसका संस्कार जन्म-जन्मान्तर तक चला जाय, इस प्रकारके दीर्घकालस्थायी क्रोधपरिणामको नगराजिसदृश क्रोध कहते हैं । पृथ्वीके रेखाके समान क्रोधको पृथ्वीराजिसदृश क्रोध कहते हैं । यह शैलरेखा-सदृश क्रोधकी अपेक्षा अल्पकालस्थायी है, अर्थात् चिरकालतक अवस्थित रहनेके पश्चात् किसी-न-किसी प्रयोगसे शान्त हो जाता है । पृथ्वीकी रेखाका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार ग्रीष्मकालमे गर्मीकी अधिकतासे पृथ्वीका रस सूख जानेके कारण पृथ्वीमे बड़ी-बड़ी दरारे हो जाती हैं, वे तबतक बराबर बनी रहती हैं जबतक कि वर्षाऋतुमे लगा-तार वर्षा होनेसे जलप्रवाह-द्वारा मिट्टी गीली होकर उनमे न भर जाय । गीली मिट्टीके भर जानेपर पृथ्वीकी वह रेखा मिट जाती है । इसी प्रकार जो क्रोध किसी कारण-विशेषसे उत्पन्न होकर बहुत दिनोतक बना भी रहे, पर समय आनेपर गुरुके उपदेश आदिका निमित्त मिलनेसे दूर हो जाय, उसे पृथ्वीराजिसदृश क्रोध कहते हैं । वालुकी रेखाके समान क्रोधको वालुगजिसदृश क्रोध कहते हैं । जिस प्रकार नदीके पुलिन (वालुका मय) प्रदेशमे किसी पुरुषके प्रयोगसे, जलके पूरसे या अन्य किसी कारण-विशेषसे कोई रेखा उत्पन्न हो जाय तो वह तब तक बनी रहती है जब तक कि पुनः जोरका जल प्रवाह न आवे । जोरके जलपूर आनेपर, या प्रचंड आँधीके चलनेपर या इसी प्रकारके किसी कारण-विशेषके मिलने-पर वह वालुकी रेखा मिट जाती है । इसी प्रकार जो क्रोध-परिणाम गुरुके उपदेशरूप जलके पूरसे शीघ्र ही उपशान्त हो जाय, उसे वालुगजिसदृश क्रोध कहते हैं । यह पृथ्वीकी रेखाकी अपेक्षा और भी अल्पकालस्थायी होता है । जलकी रेखाके समान और भी अल्प कालस्थायी क्रोधको उदकराजिसदृश क्रोध कहते हैं । यह पूर्वोक्त क्रोधकी अपेक्षा और भी कम कालतक रहता है । जैसे जलमे किसी निमित्त-विशेषसे एक ओर रेखा होती जाती है और दूसरी ओर तुरन्त मिटती जाती है, इसी प्रकार जो कषाय अन्तर्मुहूर्तके भीतर ही तुरन्त उपशान्त हो जाती है, उसे जलराजिसमान क्रोध जानना चाहिए । मानकषायके चारो निदर्शनोका इसी प्रकारसे अर्थ करना चाहिए । अर्थात् जिस प्रकार शैलघन-शिलास्तम्भ या पत्थरका खम्भा कभी भी किसी उपायसे कोमल नहीं हो सकता, इसी प्रकार जो मानकषाय कभी भी किसी गुरु आदिके उपदेश मिलनेपर भी दूर न हो सके, उसे शैलघन-सदृश मानकषाय जानना चाहिए । जैसे पापाणसे अस्थि (हड्डी) कुछ कोमल होती है, वैसे ही जो मानकषाय शैलसमान मानसे मन्द अनुभागवाली हो, उसे अस्थि के समान जानना चाहिए । जैसे अस्थिसे काष्ठ और भी मृदु होता है, इसी प्रकार जो मानकषाय

(१९) वंसीजण्डुगसरिसी मेंढविसाणसरिसी य गोमुत्ती ।
अवलेहणीसमाणा माया वि चउव्विहा भणिदा ॥७२॥

(२०) किमिरागरत्तसमगो अक्खमलसमो य पंसुलेवसमो ।
हालिद्वत्थसमगो लोभो वि चउव्विहो भणिदा ॥७३॥

अस्थिसे भी मन्द अनुभागवाली हो और प्रयत्नसे कोमल हो सके, उसे काष्ठके समान मान कहा है। जो मान लताके समान मृदु हो, अर्थात् शीघ्र दूर हो जाय, उसे लता-समान मान जानना चाहिए। इस प्रकार कालकी हीनाधिकताकी अपेक्षा क्रोध और परिणामोकी तीव्र-मन्दताकी अपेक्षा मानके चार-चार भेद कहे गये हैं।

माया भी चार प्रकारकी कही गई है—वाँसकी जड़के सदृश, मेंढके सींगके सदृश, गोमूत्रके सदृश और अवलेखनीके समान ॥७२॥

विशेषार्थ—जिस प्रकार वाँसके जड़की कुटिलता पानीमें गलाकर, मोड़कर या किसी भी अन्य उपायसे दूर नहीं की जा सकती है, इसी प्रकार जो मायारूप कुटिल परिणाम किसी भी प्रकारसे दूर न किये जा सके, ऐसे अत्यन्त वक्र या कुटिलतम भावोकी परिणतिरूप मायाको वाँसकी जड़के समान कहा गया है। जो माया कपाय उपर्युक्त मायासे तो मन्द अनुभागवाली हो, फिर भी अत्यन्त वक्रता या कुटिलता लिये हुए हो, उसे मेंढके सींग सदृश कहा है। जैसे मेंढके सींग अत्यन्त कुटिलता लिये होते हैं, तथापि उन्हें अग्निके ताप आदि द्वारा सीधा किया जा सकता है। इसी प्रकार जो मायापरिणाम वर्तमानमें तो अत्यन्त कुटिल हो, किन्तु भविष्यमें गुरु आदिके उपदेश-द्वारा सरल बनाये जा सकते हो, उन्हें मेंढके सींग समान जानना चाहिए। जैसे चलते हुए मूतनेवाली गायकी मूत्र-रेखा वक्रता लिए हुए होती है उसी प्रकार जो मायापरिणाम मेंढके सींगसे भी कम कुटिलता लिये हुये हो, उन्हें गोमूत्रके समान कहा गया है। जिन माया-परिणामोंमें कुटिलता अपेक्षाकृत सबसे कम हो, उन्हें अवलेखनीके समान कहा गया है। अवलेखनी नाम दाँतुन या जीभका मैल साफ करनेवाली जीभीका है, इसमें औरोकी अपेक्षा वक्रपना सबसे कम होता है और वह सरलतासे सीधी की जा सकती है। इसी प्रकार जिस मायामें कुटिलता सबसे कम हो और जो बहुत आसानीसे सरल की जा सकती हो, उसे अवलेखनीके समान जानना चाहिए।

लोभ भी चार प्रकारका कहा गया है—कृमिरागके समान, अक्षमलके समान, पांशुलेपके समान और हाग्निद्रवत्तके समान ॥७३॥

विशेषार्थ—कृमि नाम एक विशेष जातिके छोटेसे कीड़ेका है। उसका ऐसा स्वभाव है कि वह जिस रंगका आहार करता है, उसी रंगका अत्यन्त सूक्ष्म चिकना सूत्र (डोरा) अपने मलद्वारसे बाहर निकालता है। उस सूत्रसे तन्तुवाय (जुलाहे या बुनकर) नाना प्रकारके बहुमूल्य वस्त्र बनाते हैं। उन वस्त्रोंका रंग प्राकृतिक होनेसे, इतना पक्का होता है कि तीक्ष्णसे

(२१) एदेसिं द्वाणाणं चदुसु कसाणसु सोलसण्हं पि ।

कं केण होइ अहियं द्विदि-अणुभागे पदेसग्गे ॥७४॥

तीक्ष्ण क्षार देकर भट्टीमें पकानेपर और वर्षोतक जलवारामें प्रक्षालन करनेपर भी वह नहीं दूर होता है, अर्थात् वह बच भले ही सड़-गलकर नष्ट हो जाय, पर उमका रंग कभी नहीं उतगता । यहाँतक कि उस वस्त्रको अग्निमें जला देनेपर भी उमकी भस्म (राग) भी उनी वस्त्रके ही रंगकी बनी रहती है । उसी प्रकार जो जीवोत्त हृदयवर्ती लोभपरिणाम अत्यन्त तीव्रता हो, किसी भी उपायसे दूर न सके, 'चमड़ी चली जाय, पर चमड़ी न जाय,' इस जातिका हो, उस लोभपरिणामको कृमिरागके समान कहा गया है । उमने मन्द अनुभागवाला लोभपरिणाम अक्षमलके समान बतलाया गया है । अक्षनाम रस, शकट नांगा आदिके चक्र (चक्रा, पहिया) का है, उसमें जो सरलतासे मृमनेके लिए काले रंगका गाढ़ा तेल (ऑंगन) लगाया जाता है, उसे अक्षमल कहते हैं । वह चक्रके परिभ्रमणका निमित्त पाकर और भी चिकना और गाढ़ा हो जाता है । वह यदि किसी वस्त्रके लग जाय, तो उमका दूर होना बड़ा कठिन होता है, अत्यन्त तीक्ष्ण क्षार आदिका निमित्त मिलनेपर ही बहुत दिनोंमें वह दूर हो पाता है, इसी प्रकार जो लोभपरिणाम कृमिरागसे तो मन्द अनुभागवाला हो, पर फिर भी सरलतासे दूर न हो सके, उसे अक्षमलके समान लोभ कहा गया है । पांशुनाम धूलिका है । जिस प्रकार पैरोंमें लगी हुई धूलि तैल पसीना आदिका निमित्त पाकर यद्यपि जम जाती है, फिर भी वह गर्म जल आदिके द्वारा सरलतासे दूर ही जाती है, उसी प्रकार जो लोभ-परिणाम सरलतासे दूर किये जा सके, उन्हें पांशु-लेपके समान कहा गया है । जो लोभ इसमें भी मन्द अनुभागवाला होता है, उसे हारिद्र वस्त्रकी उपमा दी गई है । जैसे हारिद्रा (हल्दी) से रंगा गया वस्त्र देखनेमें तो पीले रंगका मात्स्य होता है, पर पानीसे धोते ही उसका रंग बहुत शीघ्र सरलतासे दूर जाता है, या धूप आदिके निमित्तसे भी जल्दी उड़ जाता है । इसी प्रकार जो लोभ सरलतासे दूर जाय बहुत कालतक आत्मामें अवस्थित न रहे, अत्यन्त मन्द जातिका हो, उसे हारिद्रवस्त्रके समान कहा गया है । इस प्रकार अनुभागकी हीनाधिकताके तारतम्यसे लोभके चार भेद कहे गये हैं, ऐसा जानना चाहिए ।

अब इन ऊपर कहे गये सोलह भेदरूप स्थानोंका अल्पबहुत्व निर्णय करनेके लिए गुणधराचार्य गाथासूत्र कहते हैं—

इन अनन्तर-निर्दिष्ट चारों कपायों सम्बन्धी सोलहों स्थानोंमें स्थिति, अनु-भाग और प्रदेशकी अपेक्षा कौन स्थान किस स्थानसे अधिक होता है, (और कौन किससे कम होता है) ? ॥७४॥

विशेषार्थ—यह गाथा प्रश्नात्मक है और इसके द्वारा ग्रन्थकारने अल्पबहुत्वसम्बन्धी प्रश्न उठाकर वक्ष्यमाण क्रमसे समाधान करनेके लिए उपक्रम किया है । गाथामें यद्यपि स्थिति-की अपेक्षा भी अल्पबहुत्व करनेका निर्देश किया गया है, तथापि स्थितिकी अपेक्षा अल्पबहुत्व

(२२) माणे लतासमाणे उक्कस्सा वर्गणा जहणादो ।
हीणा च पदेशग्गे गुणेण णियमा अणंतेण ॥७५॥

(२३) णियमा लतासमादो दारुसमाणो अणंतगुणहीणो ।
सेसा कमेण हीणा गुणेण णियमा अणंतेण ॥७६॥

संभव नहीं है, क्योंकि कपायोकी उत्कृष्ट स्थितिमें भी एक-स्थानीय अनुभाग पाया जाता है और जघन्य स्थितिमें भी चतुःस्थानीय अनुभाग पाया जाता है । गुणधराचार्यने आगे अनु-भाग और प्रदेशकी अपेक्षासे ही सोलहस्थानोका अल्पवहुत्व कहा है, स्थितिकी अपेक्षा नहीं, इसीसे उक्त अर्थ फलित होता है ।

लता-समान मानमें उत्कृष्ट वर्गणा अर्थात् अन्तिम स्पर्धककी अन्तिम वर्गणा, जघन्य वर्गणासे अर्थात् प्रथम स्पर्धककी पहली वर्गणासे प्रदेशोंकी अपेक्षा नियमसे अनन्तगुणी हीन है । (किन्तु अनुभागकी अपेक्षा जघन्य वर्गणासे उत्कृष्ट वर्गणा निश्चयसे अनन्तगुणी अधिक जानना चाहिए ।) ॥७५॥

विशेषार्थ—इस गाथाके द्वारा स्वस्थान-अल्पवहुत्वकी सूचना की गई है । इसलिए जिस प्रकार लतास्थानीय मानकी उत्कृष्ट और जघन्य वर्गणाओंमें अनुभाग और प्रदेशकी अपेक्षा अल्पवहुत्व बतलाया गया है, उसी प्रकारसे शेष पन्द्रह स्थानोंमें भी लगा लेना चाहिए ।

अब मानकपायके चारों स्थानोंका परस्थान-सम्बन्धी अल्पवहुत्व कहनेके लिए उत्तर गाथासूत्र कहते हैं—

लतासमान मानसे दारुसमान मान प्रदेशोंकी अपेक्षा नियमसे अनन्तगुणित हीन है । इसी क्रमसे शेष अर्थात् दारुसमान मानसे अस्थिसमान मान और अस्थिसमान मानसे शैलसमान मान नियमसे अनन्तगुणित हीन है ॥७६॥

विशेषार्थ—‘लतासमान मानसे दारुसमान मान अनन्तगुणित हीन है’ इसका अभिप्राय यह है कि लतास्थानीय मानके सर्व प्रदेश-पिंडसे दारुस्थानीय मानका सर्व प्रदेश-पिंड अनन्तगुणा हीन होता है । इसका कारण यह है कि लतासमान मानकी जघन्य वर्गणासे दारुसमान मानकी जघन्य वर्गणा प्रदेशोंकी अपेक्षा अनन्तगुणी हीन होती है । इसी प्रकार लतास्थानीय मानकी दूसरी वर्गणासे दारुस्थानीय मानकी दूसरी वर्गणा भी अनन्तगुणी हीन होती है । इसी क्रमसे आगे जाकर लतास्थानीय मानकी उत्कृष्ट वर्गणासे दारुस्थानीय मानकी उत्कृष्ट वर्गणा भी अनन्तगुणी हीन होती है, अतएव लतासमान मानके सर्व प्रदेश-पिंडसे दारुसमान मानका सर्व प्रदेश-पिंड अनन्तगुणित हीन स्वतः सिद्ध हो जाता है । इसी प्रकार दारुसमान मानके सर्व प्रदेश-पिंडसे अस्थिसमान मानका सर्व प्रदेशपिंड और अस्थिसमान मानसे शैलसमान मानका सर्व प्रदेशपिंड अनन्तगुणित हीन जानना चाहिए ।

(२४) णियमा लदासमादो अणुभागग्गेण वग्गणग्गेण^१ ।

सेसा कमेण अहिया गुणेण णियमा^२ अणंतेण ॥७७॥

(२५) संधीदा संधीं पुण अहिया णियमा च होइ अणुभागो ।

हीणा च पदेसग्गे दो वि य णियमा विसेसेण ॥७८॥

उक्त प्रकारसे प्रदेशोंकी अपेक्षा अल्पवहुत्व बता करके अब अनुभागकी अपेक्षा अल्प-वहुत्व कहनेके लिए आचार्य उत्तर गाथा-सूत्र कहते हैं—

लतासमान मानसे शेष स्थानीय मान अनुभागाग्रकी अपेक्षा और वर्गणाग्र-की अपेक्षा क्रमशः नियमसे अनन्तगुणित अधिक होते हैं ॥७७॥

विशेषार्थ—यहाँ पर 'अग्र' शब्द समुदायवाचक है, अतः 'अनुभागाग्रसे' अभि-प्राय अनुभागसमुदायसे है और 'वर्गणाग्र'से 'वर्गणासमूह' यह अर्थ लेना चाहिए । तद-नुसार यह अर्थ होता है कि लतास्थानीय मानके अनुभाग-समुदायसे दारुस्थानीय मानका अनुभाग-समूह अनन्तगुणित है, दारुस्थानीय अनुभाग-समूहसे अस्थिस्थानीय अनुभाग-समूह अनन्तगुणित है और अस्थिस्थानीय अनुभाग-समूहसे शैलस्थानीय अनुभाग-समूह अनन्त-गुणित है । अथवा अनुभाग ही अनुभागाग्र है, इस अपेक्षा 'अग्र' शब्दका अविभागप्रति-च्छेद भी अर्थ होता है, इसलिए ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं कि लतास्थानीय मानके अनु-भागसम्बन्धी अविभागप्रतिच्छेदोके समुदायसे दारुस्थानीय मानके अनुभागसम्बन्धी अवि-भागप्रतिच्छेदोका समूह अनन्तगुणित होता है, दारुस्थानीय मानके अविभागप्रतिच्छेदोंसे अस्थिसम्बन्धी और अस्थिसे शैलसम्बन्धी अविभाग-प्रतिच्छेद अनन्तगुणित होते हैं । इसी प्रकार 'वर्गणाग्र'के 'अग्र' शब्दका भी 'वर्गणासमूह अथवा वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेदोका समूह' ऐसा अर्थ ग्रहण करके उपर्युक्त विधिसे उनमें अनन्तगुणितता समझना चाहिए ।

अब लतासमान चरम सन्धिसे दारुसमान प्रथम सन्धि अनुभाग या प्रदेशोंकी अपेक्षा-हीन या अधिक किस प्रकारकी होती है, इस शंकाके निवारण करनेके लिए आचार्य उत्तर गाथा सूत्र कहते हैं—

विवक्षित सन्धिसे अग्रिम सन्धि अनुभागकी अपेक्षा नियमसे अनन्तभागरूप विशेषसे अधिक होती है और प्रदेशोंका अपेक्षा नियमसे अनन्तभागसे हीन होती है ॥७८॥

१ एत्थ अग्गसदो समुदायत्थगच्चओ, अणुभागसमूहो अणुभागग्गः; वग्गणासमूहो वग्गणग्गमिदि । अथवा अणुभागो चैव अणुभागग्गं, वग्गणाओ चैव वग्गणग्गमिदि वेत्तव्व । जयध०

२ एत्थ दोवार णियमसद्दुच्चारणं किं फलमिदि चे बुच्चदे-लदासमाणट्ठणादो सेसाण जहाकम-मणुभाग-वग्गणग्गेहिं अहियत्तमेत्तावहारणफलो पढमो णियमसदो । विदियो तेसिमणत्तगुणव्वमहियत्तमेव, न विसेसाहियत्त, पावि सत्तेजासंखेत्तगुणव्वमहियत्तमिदि अवहारणफलो । जयध०

३ लतासमानचरिमवग्गणा दारुअसमाणपढमवग्गणा च दो वि सवि त्ति बुच्चंति । एवं सेससंधीणां अस्थो वत्तव्वो । जयध०

(२६) सव्वावरणीयं पुण उक्कस्सं होइ दारुअममाणे ।

हेट्ठा देसावरणं सव्वावरणं च उवरित्तलं ॥७९॥

(२७) एसो कप्पा च माणे मायाए णियममा तु लोभे वि ।

सव्वं च काहकम्मं चटुसु ट्ठाणेषु वाद्धव्वं ॥८०॥

विशेषार्थ—विवक्षित कपायकी विवक्षित स्थानीय अन्तिम वर्गणा और तदग्रिम स्थानीय आदि वर्गणाको सन्धि कहते हैं, अर्थात्, जहाँपर विवक्षित लतादि स्थानीय अनुभागकी समाप्ति हो और दारु आदि स्थानवाले अनुभागका प्रारम्भ हो, उम स्थलको सन्धि कहते हैं। इस प्रकार लता, दारु, अस्थि आदि सभी स्थानोंकी अन्तिम वर्गणा और उससे आगेके स्थानवाले अनुभागकी आदि वर्गणाको सन्धि जानना चाहिए। विवक्षित पूर्व सन्धिसे तदग्रिम सन्धि अनुभागकी अपेक्षा नियमसे अनन्तभागसे अधिक होती है और प्रदेशोंकी अपेक्षा नियमसे अनन्तवें भागसे हीन होती है। जैसे मानकपायके लतास्थानीय अन्तिम वर्गणारूप सन्धिसे दारुस्थानीय आदि वर्गणारूप सन्धि अनुभागकी अपेक्षा तो अनन्तवें भागसे अधिक है और प्रदेशोंकी अपेक्षा अनन्तवें भागसे हीन है। यही नियम चारों कपायोंके सोलह स्थान-सम्बन्धी प्रत्येक सन्धिपर लगाना चाहिए।

अब लता आदि चारों स्थानोंमें देशघाती और सर्वघातीका विभाग बतलानेके लिए उत्तर गाथासूत्र कहते हैं—

दारुसमान स्थानमें जो उत्कृष्ट अनुभाग अंश है, वह सर्वावरणीय अर्थात् सर्वघाती है। उससे अधस्तन भाग देशघाती है और उपरितन भाग सर्वघाती है ॥७९॥

विशेषार्थ—लता, दारु, अस्थि और शैल इन चार स्थानोंमेंसे अस्थि और शैल-स्थानीय अनुभाग तो सर्वघाती हैं ही। किन्तु दारुसमान अनुभागमें उत्कृष्ट अंश अर्थात् उपरितन अनन्त बहुभाग तो सर्वघाती है और अधस्तन एक अनन्तवें भाग देशघाती है। तथा लतासमान अनुभाग भी देशघाती है।

अब यह उपर्युक्त क्रम क्रोधादि चारों कपायोंके चारों स्थानोंमें समान है, यह बतलानेके लिए उत्तर गाथासूत्र कहते हैं—

यही क्रम नियमसे मान, माया, लोभ और क्रोधकपायसम्बन्धी चारों स्थानोंमें निरवशेष रूपसे जानना चाहिए ॥८०॥

विशेषार्थ—क्रोधादि चारों कपायोंके नगराजि, पृथिवीराजि आदि चार-चार स्थानोंका वर्णन पहले किया जा चुका है। उनमेंसे प्रत्येक कपायके द्वितीय स्थानसम्बन्धी अनुभागका उपरितन बहुभाग सर्वघातिरूप है और अधस्तन एक भाग देशघातिरूप है। तृतीय और चतुर्थ स्थानसम्बन्धी सर्व अनुभाग सर्वघाती ही है और प्रथमस्थानीय सर्व अनुभाग देश-

- (२८) एदेसिं ट्ठाणाणं कदमं ठाणं गदीए कदमिस्से ।
 वद्धं च वज्झमाणं उवसंतं वा उदिण्णं वा ॥८१॥
- (२९) सण्णीसु असण्णीसु य पज्जत्ते वा तथा अपज्जत्ते ।
 सम्मत्ते मिच्छत्ते य मिस्सगे चेय वोद्धव्वा ॥८२॥
- (३०) विरदीय अविरदीए विरदाविरदे तथा अणागारे ।
 सागारे जोगग्धि य लेस्साए चव वोद्धव्वा ॥८३॥

वाती ही है । यह व्यवस्था चारो कषायोके स्थानोमे समान ही है, इसी बातके बतलानेके लिए इस गाथाकी स्वतंत्र रचना की गई है ।

गति आदि मार्गणाओमे इन उपर्युक्त स्थानोके बन्ध, सत्त्व आदिकी अपेक्षा विशेष निर्णयके लिए आचार्य आगेके गाथा-सूत्रोको कहते हैं—

इन उपर्युक्त स्थानोंमेंसे कौन स्थान किस गतिमें बद्ध, बध्यमान, उपशान्त या उदीर्ण रूपसे पाया जाता है ? ॥८१॥

इस गाथामे उठाये गये सर्व प्रश्नोका समाधान आगे कही जानेवाली गाथाओके आधारपर किया जायगा ।

उपर्युक्त सोलह स्थान यथासंभव संज्ञियोंमें, असंज्ञियोंमें, पर्याप्तमें, अपर्याप्तमें सम्यक्त्वमें मिथ्यात्वमे और सम्यग्मिथ्यात्वमें जानना चाहिए ॥८२॥

विशेषार्थ—उपर्युक्त सोलह स्थान संज्ञी आदि मार्गणाओमे पाये जाते हैं, यह बतलानेके लिए गाथापठित संज्ञी आदि पदोके द्वारा कई मार्गणाओकी सूचना की गई है । जैसे संज्ञी-असंज्ञी पदोसे संज्ञिमार्गणाकी, पर्याप्त-अपर्याप्त पदोसे काय और इन्द्रियमार्गणाकी और सम्यक्त्व, मिथ्यात्व आदि पदोसे सम्यक्त्वमार्गणाकी सूचना की गई है । जेप मार्गणाओकी सूचना आगेकी गाथामेकी गई है । तदनुसार यह अर्थ होता है कि वे सोलह स्थान यथासंभव गति आदि चौदह मार्गणाओमे पाये जाते हैं ।

वे ही सोलह स्थान अविरतिमें, विरतिमें, विरताविरतमें, अनाकार उपयोगमें, साकार उपयोगमें, योगमें और लेश्यामें भी जानना चाहिए ॥८३॥

विशेषार्थ—गाथा-पठित विरति आदि पदोसे संयममार्गणाकी, अनाकार पदसे दर्शनमार्गणाकी, साकार पदसे ज्ञानमार्गणाकी, योग पदसे योगमार्गणाकी और लेश्या पदसे लेश्या मार्गणाकी सूचना की गई है । इस प्रकार इन दोनो गाथाओसे उपर्युक्त नौ मार्गणाओंकी तो स्पष्टतः ही सूचना की गई है । जेप पाँच मार्गणाओका समुच्चय गाथा-पठित 'च' या 'चैव' पदसे किया गया है ।

(३१) कं ठाणं वेदंतो कस्स व ट्ठाणस्स बंधगो होइ ।

कं ठाणमवेदंतो अवंधगा कस्स ट्ठाणस्स ॥८४॥

(३२) असण्णी खलु वंधइ लदासमाणं च दारुयसमग च ।

सण्णी❁ चटुसु विभज्जो एवं सव्वत्थ कायव्वं (१६) ॥८५॥

किस स्थानका वेदन करता हुआ कौन जीव किस स्थानका बंधक होता है और किस स्थानका अवेदन करता हुआ कौन जीव किस स्थानका अवंधक रहता है ? ॥८४॥

इस गाथाके द्वारा ओष और आदेगकी अपेक्षा चारो कपायोके सोलहो स्थानोका बन्ध और उदयके साथ सन्निकर्ष करनेकी सूचना की गई है । जिसका विशेष विवरण जयधवलासे जानना चाहिए ।

असंज्ञी जीव नियमसे लतासमान और दारुसमान अनुभागस्थानको बाँधता है । संज्ञी जीव चारों स्थानोंमें भजनीय है । इसी प्रकारसे सभी मार्गणाओंमें बन्ध और अवन्धका अनुगम करना चाहिए (१६) ॥८५॥

विशेषार्थ—इस गाथा-सूत्रके द्वारा देशामर्शकरूपसे उपर्युक्त सभी प्रश्नोंका उत्तर दिया गया है । जिसका थोड़ासा वर्णन यहाँ जयधवलाके आधारपर किया जाता है—‘असंज्ञी जीव लता और दारुसमान अनुभाग-स्थानको बाँधता है’, इस वाक्यसे यह भी अर्थ सूचित किया गया है कि अस्थि और शैल समान स्थानोका बन्ध नहीं करता है । इसका कारण यह है कि असंज्ञी जीवोंमें अस्थि और शैलस्थानीय अनुभागको बाँधनेके कारणभूत उत्कृष्ट संक्षेपका अभाव है । यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि असंज्ञियोंमें दोनों स्थानोका अविभक्तरूपसे ही बन्ध होता है, क्योंकि विभक्तरूपसे उनमें उक्त दोनो स्थानोका बन्ध असंभव है । संज्ञियोंमें किस प्रकारसे उक्त स्थानोंका बन्ध होता है, इस शंकाका समाधान यह है कि संज्ञी जीव चारो स्थानोंमें भजनीय है’ । अर्थात् स्यात् एकस्थानीय अनुभागका बंध करता है, स्यात् द्विस्थानीय अनुभागका बंध करता है, स्यात् त्रिस्थानीय अनुभागका और स्यात् चतुःस्थानीय अनुभागका बन्ध करता है । इसका कारण यह है कि संज्ञी जीवोंमें चारो स्थानोके बन्धके कारणभूत संक्षेप और विशुद्धिकी हीनाधिकता पाई जाती है । जिस प्रकार संज्ञिमार्गणाका आश्रय लेकर बन्ध-त्रिपयक प्रश्नका निर्णय किया गया है, उसी प्रकारसे उदय, उपशम और सत्त्वकी अपेक्षा भी उक्त स्थानोका निर्णय करना चाहिए । जैसे—असंज्ञी जीवोंमें उदय द्विस्थानीय ही होता है, क्योंकि उनमें शेष स्थानीय अनुभाग-उदयके कारणभूत परिणाम नहीं पाये जाते हैं । असंज्ञियोंमें उपशम एकस्थानीय, द्विस्थानीय, त्रिस्थानीय और चतुःस्थानीय पाया जाता है । केवल इतना विशेष जानना चाहिए कि असं-

३. एदं सुत्तं । ४. एत्थ अत्थविहासा । ५. चउट्ठाणेत्ति एकगणिकखेवो च ट्ठाण-
णिकखेवो च । ६. एकगं पुव्वणिकखित्तं पुव्वपरुविदं च ।

त्रियोमे शुद्ध या विभक्त एकस्थानीय उपशम नहीं पाया जाता है । किन्तु संज्ञियोसे उपशम, सत्त्व और उदयकी अपेक्षा सभी स्थान पाये जाते हैं । अब 'किस स्थानका वेदन करता हुआ जीव किस स्थानका वन्द्य करता है' इस प्रश्नका संज्ञिमार्गणाकी अपेक्षा निर्णय क्रिया जाता है—असंज्ञी जीव द्विस्थानीय अनुभागका वेदन करता हुआ नियमसे द्विस्थानीय अनु-
भागको ही बाँधता है । किन्तु संज्ञी जीव एकस्थानीय अनुभागका वेदन करता हुआ नियमसे एकस्थानीय ही अनुभागको बाँधता है, शेष स्थानोको नहीं । द्विस्थानीय अनुभागका वेदन करनेवाला संज्ञी द्विस्थानीय, त्रिस्थानीय और चतुःस्थानीय अनुभागको बाँधता है । त्रिस्थानीय अनुभागका वेदन करनेवाला त्रिस्थानीय और चतुःस्थानीय अनुभागको बाँधता है । किन्तु चतुःस्थानीय अनुभागका वेदन करनेवाला नियमसे चतुःस्थानीय अनुभागको ही बाँधता है, शेष स्थानोका अवन्धक रहता है । इसी वर्णनसे 'किस स्थानका अवेदन करता हुआ किस स्थानका अवन्धक रहता है । इस प्रश्नका भी समाधान क्रिया गया समझना चाहिए । क्योंकि, एकस्थानीय अनुभागका अवेदन करता हुआ जीव एकस्थानीय अनुभागका अवन्धक रहता है, इस प्रकार व्यतिरेक मुखसे उसका प्रतिपादन हो ही जाता है । जिस प्रकार संज्ञिमार्गणाकी अपेक्षा उक्त प्रश्नोका समाधान क्रिया गया है, उसी प्रकार गति आदि मार्गणाओकी अपेक्षा भी जानना चाहिए, ऐसी सूचनाके लिए ग्रन्थकारने गाथासूत्रमे 'एवं सव्वत्थ कायव्वं' पद दिया है । अर्थात् तिर्यग्गतिमे तो संज्ञी और असंज्ञी मार्गणाके समान अनुभाग स्थानोका वन्धावन्ध आदि जानना चाहिए । तथा नरक, देव और मनुष्य गतिमे संज्ञिमार्गणाके समान वन्धावन्ध आदि जानना चाहिए । केवल इतना विशेष ध्यानमे रखना चाहिए कि मनुष्यगतिके सिवाय अन्य गतियोमे एकस्थानीय अनुभागके शुद्ध वन्ध और उदय संभव नहीं है । इसी प्रकारसे इन्द्रियमार्गणा आदिकी प्ररूपणा भी कर लेना चाहिए ।

चूर्णिसू०—चतुःस्थान नामक अधिकारके ये सोलह गाथासूत्र हैं । अब इनकी अर्थ-
विभाषा की जाती है । 'चतुःस्थान' इस अनुयोग द्वारके विषयमे एकैकनिक्षेप और स्थान-
निक्षेप करना चाहिए । उनसेसे एकैकनिक्षेप पूर्व-निक्षिप्त है और पूर्व-प्ररूपित भी है ॥ ३-६ ॥

विशेषार्थ—चतुःस्थान पदका क्या अर्थ है, यह जाननेके लिए निक्षेप करना आवश्यक है । इस विषयमें दो प्रकारसे निक्षेप क्रिया जा सकता है—एकैकरूपसे और स्थान-
रूपसे । इनमेसे पहले एकैकनिक्षेपका अर्थ कहते हैं—चतुःशब्दके अर्थरूपसे विवक्षित लता,

१ तत्थ एक्केगणिकखेवो णाम चट्ठसद्धस्स अत्थभावेण विवक्खियाण ल्हासमाणादिट्ठाणाण कोहादि-
कसायाण वा एक्के वेत्तूण णाम इवणाभेदेण णिकखेवरूपवणा । ट्ठाणणिकखेवो णाम तेसि अव्वोगाढसत्त
वेण विवक्खियाणं वाचओ जो ट्ठाणसद्धो, तस्स अत्थविसयणिणयजणणट्ठ णाम-ट्ठवणादिभेदेण परूवणा ।

७. द्वाणं णिक्षिद्विद्व्यं । ८. तं जहा । ९. णामद्वाणं द्वुवणद्वाणं द्द्वुवद्वाणं खेत्त-
द्वाणं अद्द्वुवद्वाणं पलिवीचिद्वाणं उच्चद्वाणं संजमद्वाणं पयोगद्वाणं भावद्वाणं च । १०. णेगमो
सच्चाणि ठाणाणि इच्छइ । ११. संगह-ववहारा पलिवीचिद्वाणं उच्चद्वाणं च अवणंति ।

दारु आदि स्थानोकी, अथवा क्रोधादि कपायोकी एक-एक करके नाम, स्थापना आदिके द्वारा प्ररूपणा करनेको एकैकनिक्षेप कहते हैं । तथा इन्हीं लता, दारु आदि विभिन्न अनु-
भाग-शक्तियोंके समुदायरूपसे वाचक 'स्थान' शब्दकी नाम, स्थापना आदिके द्वारा प्ररूपणा करनेको स्थाननिक्षेप कहते हैं । इनमेंसे एकैकनिक्षेपका अर्थात् क्रोधादि कपायोका ग्रन्थके आदिमें 'कसाय-पाहुड' या 'पेज्जदोस-पाहुड' का अर्थ-निरूपण करते समय पहले विस्तारसे कई बार निक्षेपण और प्ररूपण किया जा चुका है, इसलिए यहाँ पुनः नहीं कहते हैं ।

अब चूर्णिकार स्थाननिक्षेपका वर्णन करते हैं—

चूर्णिसू०—स्थानका निक्षेप करना चाहिए । वह इस प्रकार है—नामस्थान, स्थापना-
स्थान, द्रव्यस्थान, क्षेत्रस्थान, अद्वास्थान, पलिवीचिस्थान, उच्चस्थान, संयमस्थान, प्रयोग-
स्थान और भावस्थान ॥७-९॥

विशेषार्थ—जीव, अजीव और तदुभयके संयोगसे उत्पन्न हुए आठ भंगोकी निमि-
त्तान्तर-निर्गपेक्ष 'स्थान' ऐसी संज्ञा करनेको नामस्थान कहते हैं । यह स्थान है, इस प्रकार सद्भाव या असद्भावरूपसे जिस किसी पदार्थमें स्थापना करना स्थापनास्थान है । द्रव्य-
स्थान आगम और नोआगमके भेदसे दो प्रकारका है । इनमें आगम द्रव्यस्थान, तथा नो
आगमद्रव्यस्थानके ज्ञायकशरीर और भाविभेद पूर्वमें अनेक बार प्ररूपित होनेसे सुगम हैं ।
भूमि आदिमें रखे हुये हिरण्य-मुवर्ण आदिके अवस्थानको नोआगम द्रव्यस्थान कहते हैं ।
ऊर्ध्व-शोक, मध्यलोक आदिके अपने-अपने अकृत्रिम संस्थानरूपसे अवस्थानको क्षेत्रस्थान कहते
हैं । समय, आवली, मुहूर्त आदि कालके भेदोको अद्वास्थान कहते हैं । स्थितिवन्धके वीचार-
स्थान, सोपानस्थान या अध्यवसायस्थानोको पलिवीचिस्थान कहते हैं । पर्वत आदिके उच्च-
प्रदेशको या मान्य स्थानको उच्चस्थान कहते हैं । सामायिक, छेदोपरस्थापना आदि संयमके
लट्ठिस्थानोका, अथवा संयमविशिष्ट प्रसत्तसंयत आदि गुणस्थानोको संयमस्थान कहते हैं ।
मन, वचन, कायकी चंचलतारूप योगोको प्रयोगस्थान कहते हैं । भावस्थान आगम नोआगम-
के भेदसे दो प्रकारका है । आगमभावस्थानका अर्थ सुगम है । कपायोके लता, दारु आदि
अनुभाग-जनित उदयस्थानोको, या औदयिक आदि भावोको नो आगमभावस्थान कहते हैं ।

अब चूर्णिकार इन अनेक प्रकारके स्थाननिक्षेपोका तय-विभागद्वारा वर्णन करते हैं—

चूर्णिसू०—नैगमनय उपर्युक्त सभी स्थानोंको स्वीकार करता है, क्योंकि वह सामान्य
और विशेषरूप पदार्थको ग्रहण करता है । संग्रह और व्यवहारनय पलिवीचिस्थान और
उच्चस्थानका अपनयन करते हैं, अर्थात् शेष स्थानोको ग्रहण करते हैं ॥१०-११॥

१ वे आठ भग इस प्रकार हैं—एक जीव, एक अजीव, अनेक जीव, अनेक अजीव, एक जीव-
अनेक अजीव, अनेक जीव-एक अजीव, एक जीव-एक अजीव और अनेक जीव-अनेक अजीव ।

१२. उजुमुदो एदाणि च ठवणं च अद्दुड्डाणं च अवणेइ । १३. सदणयो णामड्डाणं संजमड्डाणं खेत्तड्डाणं भावड्डाणं च इच्छदि । १४. एत्थ भावड्डाणे पयदं ।

१५. एत्तो सुत्तविहासा । १६. तं जहा । १७. आदीदो चत्तारि सुत्तगाहाओ एदेसिं सोलसण्हं ड्डाणाणं णिदरिसण-उवणये* । १८. कोहड्डाणाणं चउण्हं पि कालेण णिदरिसण-उवणओ कओ । १९. सेसाणं कसायाणं वारसण्ह ड्डाणाणं भावदो णिदरिसण-उवणओ कओ ।

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि संग्रहनय पदार्थको संग्रहात्मक संक्षिप्त रूपसे ग्रहण करता है, अतः पलिवीचिस्थानका तो कषायपरिणामोके तारतम्यकी अपेक्षा अद्दास्थानमे अन्तर्भाव हो जाता है, अथवा सोपानस्थानकी अपेक्षा क्षेत्रस्थानमें प्रवेश हो जाता है । तथा उच्चस्थानका क्षेत्रस्थानमे अन्तर्भाव हो जाता है, अतः संग्रहनय पृथक् रूपसे इन दोनों स्थानोका अस्तित्व स्वीकार नहीं करता है । व्यवहारनय तो संग्रहनयका ही अनुगामी है, संगृहीत अर्थको ही अपना विषय बनाता है, अतः वह भी पलिवीचिस्थान और उच्चस्थानको ग्रहण नहीं करता है ।

चूर्णिसू०—ऋजुसूत्रनय पलिवीचिस्थान, उच्चस्थान, स्थापनास्थान और अद्दास्थानको छोड़कर शेष स्थानोको ग्रहण करता है । इसका कारण यह है कि ऋजुसूत्र नय एक समयस्थायी पदार्थको ग्रहण करता है और ये सब स्थान भूत और भविष्यत् कालके ग्रहण किये बिना संभव नहीं है । शब्दनय—नामस्थान, संयमस्थान क्षेत्रस्थान और भावस्थानको स्वीकार करता है । क्योंकि, ये स्थान शब्दनयके विषयकी मर्यादामे आते हैं । पर शेष स्थान स्थूल अर्थात्मक या संग्रहात्मक होनेसे शब्दनयकी मर्यादासे बाहिर पड़ जाते हैं, अतः शब्दनय उन्हें विषय नहीं करता है ॥ १२-१३ ॥

ऊपर जिन अनेक प्रकारके स्थानोका वर्णन किया गया है, उनमेसे यहाँ किससे प्रयोजन है, इस शंकाका समाधान करनेके लिए चूर्णिकार उत्तरसूत्र कहते हैं—

चूर्णिसू०—यहाँपर भावस्थानसे प्रयोजन है ॥ १४ ॥

विशेषार्थ—यद्यपि चूर्णिकारने सामान्यसे भावस्थानको प्रकृत कहा है, तथापि यहाँपर भावस्थानका दूसरा भेद जो नोआगम-भावस्थान है, उसीका ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि लता दारु आदि अनुभागस्थानोका इसीमे ही अवस्थान माना गया है ।

चूर्णिसू०—अब गाथा-सूत्रोकी विभाषा की जाती है । वह इस प्रकार है—आदिसे चार सूत्र-गाथाएँ इन उपर्युक्त सोलह स्थानोका निदर्शन (दृष्टान्त) पूर्वक अर्थ-साधन करती हैं । इनमेसे क्रोध कषायके चारो स्थानोका निदर्शन कालकी अपेक्षा किया गया है और शेष तीन मानादि कषायोके वारह स्थानोका निदर्शन भावकी अपेक्षा किया गया है ॥ १५-१९ ॥

*ताम्रपत्रवाली प्रतिमे 'एदेसिं सोलसण्हं ड्डाणाणं णिदरिसण-उवणये' इतने सूत्रागको टीकाका अंग बना दिया है । तथा अग्रिम सूत्रकी उत्थानिकाके अनन्तर 'एदेसिं सोलसड्डाणाणं णिदरिसणोवणये पडिवद्धाओ त्ति पढमगाहा' इस टीकाके अंशको सूत्र बना दिया गया है । (देखो पृ० १६८७)

२०. जो अंतोमुहुत्तिगं निधाय कोहं वेदयदि सो उदयराइसमाणं कोहं वेद-
यदि । २१. जो अंतोमुहुत्तादीदमंतो अद्रमासस्स कोधं वेदयदि सो वालुवराइसमाणं
कोहं वेदयदि । २२. जो अद्रमासादीदमंतो छण्हं मासाणं कोधं वेदयदि सो पुह्विराइ-

विशेषार्थ—क्रोधकपायके जो नगराजि, पृथ्वीराजि आदि चार स्थान ऊपर बत-
लाये गये हैं, वे कालकी अपेक्षा जानना चाहिए । जैसे नग (पापाण) की रेखा बहुत लम्बा
काल व्यतीत हो जानेपर भी ब्यां की त्यों बनी रहती है, पृथ्वीकी रेखा उससे कम समय तक
अवस्थित रहती है, इसी प्रकार क्रोधकपायके संस्कार या वासनारूप स्थान भी तर-तमभावको
लिये हुए अल्प या अधिक काल तक पाये जाते हैं इसलिए इन्हे कालकी अपेक्षा कहा गया
है । मान आदि तीनों कपायोंके स्थानोंको जो लता, दारु, आदि रूप दृष्टान्त दिये गये हैं,
उन्हे भावकी अपेक्षा जानना चाहिए । अर्थात् लताके समान कोमल या मृदु भाववाले स्थान-
को लतासमान कहा । इससे कठोर भाववाले स्थानको दारु (काठ) के सदृश कहा और
उससे भी कठोर भावको अस्थि या शैलके समान कहा । मायाके चारो दृष्टान्त भी परिणामो-
की सरलता या वक्रताकी हीनाविक्रतासे कहे गये हैं । लोभके चारो उदाहरण भी तृष्णा-
जनित कृपणभावकी अधिकता या हीनताकी अपेक्षा कहे गये हैं । इस प्रकार चूर्णिकारने इन
तीनों कपायोंके सभी स्थानोंको भावकी अपेक्षा कहा है ।

अब चूर्णिकार कालकी अपेक्षा ऊपर बतलाये गये क्रोधकपायके चारो स्थानोंका
विशेष निरूपण करते हैं—

चूर्णिसू०—जो जीव अन्तर्मुहूर्त तक रोपभावको धारण कर क्रोधका वेदन करता
है, वह उदकराजिसमान क्रोधका वेदन करता है ॥२०॥

विशेषार्थ—जल-रेखा अन्तर्मुहूर्तसे अधिक ठहर नहीं सकती है । अन्तर्मुहूर्तके
पश्चात् जिस प्रकार जल-रेखाका अस्तित्व संभव नहीं है, उसी प्रकार जल-रेखाके सदृश
क्रोध भी अन्तर्मुहूर्तसे अधिक नहीं ठहर सकता । यह जलरेखाके सदृश क्रोध संयमका घातक
तो नहीं है, फिर भी संयममे मल, दोष या अतिचार अवश्य उत्पन्न करता है ।

चूर्णिसू०—जो अन्तर्मुहूर्तके पश्चात् अर्ध मास तक क्रोधका वेदन करता है, वह
वालुकाराजिसमान क्रोधका वेदन करता है ॥२१॥

विशेषार्थ—जिस प्रकार वालुमे उत्पन्न हुई रेखा एक पक्षसे अधिक नहीं ठहर सकती,
उसी प्रकार जो कपायोदय-जनित कलुप परिणाम अन्तर्मुहूर्तसे लेकर अर्ध मास तक आत्माके
शल्यरूपसे या बदला लेनेकी भावनासे अवस्थित रहता है, उसे वालुकाराजिके समान कहा
गया है । यह वालुकाराजि-सदृश कपायपरिणाम संयमका घातक है, अर्थात् इस जातिकी
कपायके उदयमे जीव संयमको नहीं धारण कर सकता है, किन्तु संयमासंयमको ग्रहण भी
कर सकता है और पालन भी ।

चूर्णिसू०—जो अर्ध माससे लेकर छह मास तक क्रोधका वेदन करता है, वह
पृथिवीराजिसमान क्रोधका वेदन करता है ॥२२॥

समाप्तं क्रोहं वेदयदि । २३. जो सञ्चेसिं [संखेज्जासंखेज्जाणंतेहि] भवेहिं उवसमं
ण गच्छइ, सो पव्वदराइसमाणं क्रोहं वेदयदि (४) । २४. एदाणुमाणियं सेसाणं पि
कसायाणं कायव्वं । २५. एवं चत्तारि सुत्तगाहाओ विहासिदाओ भवंति ।

एवं चउट्टाणे त्ति समत्तमणिओगहारं ।

विशेषार्थ—जिस प्रकार हलके जोतनेसे या गर्मीकी अधिकतासे पृथिवीमें उत्पन्न हुई
रेखा अधिकसे अधिक छह मास तक बनी रह सकती है, उसी प्रकार जो रोपपरिणाम प्रति-
शोधकी भावनाको लिए हुए अर्ध माससे लेकर छह मास तक बना रहे, उसे पृथिवीकी रेखाके
सदृश जानना चाहिए । इस जातिके कषायोदय-कालमें जीव संयमासंयमको भी नहीं धारण
कर सकता है । हाँ, सम्यक्त्वको अवश्य धारण कर लेता है ।

चूर्णिसू०—जो जीव संख्यात, असंख्यात या अनन्त भवोंके द्वारा भी उपजामको
प्राप्त नहीं होता है, वह पर्वतराजिसमान क्रोधका वेदन करता है ॥२३॥

विशेषार्थ—जिस प्रकार पर्वत-शिलामें उत्पन्न हुआ भेद कर्मा भी संधानको प्राप्त
नहीं होता है, इसी प्रकार किसी कारणसे उत्पन्न होकर जो रोपपरिणाम किसी जीवमें अव-
स्थित रहता हुआ संख्यात, असंख्यात या अनन्त भव तक भी उपशान्त न हो, प्रत्युत इतने
लम्बे कालके व्यतीत हो जानेपर भी अपने प्रतिपक्षी जीवको देखकर बदला लेनेके लिए उद्यत
हो जाय, उसे पर्वतराजिसदृश कहा गया है । इस जातिकी कषायके उदय होनेपर जीव
सम्यक्त्वको भी ग्रहण नहीं कर सकता है, किन्तु मिथ्यात्वमें ही पड़ा रहता है । यह क्रोध
कषायका चौथा भेद है, यह बतलानेके लिए उक्त सूत्रके अन्तमें चूर्णिकारने (४) का अंक
दिया है । ऊपर जो पृथिवीराजि आदिके सदृश क्रोधका पक्ष, छह मास आदि काल बतलाया
गया है, और पहले उपयोग-अधिकारमें प्रत्येक कषायका अन्तर्मुहूर्त ही उत्कृष्ट काल बत-
लाया है, सो इसमें विरोध नहीं समझना चाहिए । वास्तवमें किसी भी कषायका उपयोग
अन्तर्मुहूर्तसे अधिक नहीं रह सकता है । तथापि यहाँपर उक्त काल तक उन-उन कषायोंके
अवस्थानका जो वर्णन किया गया है, वह प्रतिशोधकी भावनासे अवस्थित शल्य, वासना या
संस्कारकी अपेक्षासे किया गया जानना चाहिए ।

चूर्णिसू०—इसी प्रकारके अनुमानका आश्रय लेकर शेष कषायोंके स्थानोंका भी
उपनय अर्थात् दृष्टान्तपूर्वक अर्थका प्रतिपादन करना चाहिए । इस प्रकार चार सूत्रगाथाओ-
की विभाषा की गई है । इसी दिशासे शेष बारह गाथाओकी भी विभाषा कर लेना
चाहिए ॥२४-२५॥

इस प्रकार चतुःस्थान नामक आठवाँ अनुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

समाणं क्रोहं वेदयदि । २३. जो सव्येसि [संखेज्जासंखेज्जाणंतेहि] भवेहि उवसमं
ण गच्छइ, सो पव्वदराइसमाणं क्रोहं वेदयदि (४) । २४. एदाणुमाणियं सेसाणं पि
कसायाणं कायव्वं । २५. एवं चत्तारि सुत्तगाहाओ विहासिदाओ भवंति ।

एवं चउट्टाणे त्ति समत्तमणिओगदारं ।

विशेषार्थ—जिस प्रकार हलके जोतनेसे या गर्मीकी अधिकतासे पृथिवीमें उत्पन्न हुई
रेखा अधिकसे अधिक छह मास तक बनी रह सकती है, उसी प्रकार जो रोषपरिणाम प्रति-
शोधकी भावनाको लिए हुए अर्ध माससे लेकर छह मास तक बना रहे, उसे पृथिवीकी रेखाके
सदृश जानना चाहिए । इस जातिके कषायोदय-कालमें जीव संयमासंयमको भी नहीं धारण
कर सकता है । हाँ, सम्यक्त्वको अवश्य धारण कर लेता है ।

चूर्णिसू०—जो जीव संख्यात, असंख्यात या अनन्त भवोंके द्वारा भी उपशमको
प्राप्त नहीं होता है, वह पर्वतराजिसमान क्रोधका वेदन करता है ॥२३॥

विशेषार्थ—जिस प्रकार पर्वत-शिलामें उत्पन्न हुआ भेद कर्मा भी संधानको प्राप्त
नहीं होता है, इसी प्रकार किसी कारणसे उत्पन्न होकर जो रोषपरिणाम किसी जीवमें अव-
स्थित रहता हुआ संख्यात, असंख्यात या अनन्त भव तक भी उपशान्त न हो, प्रत्युत इतने
लम्बे कालके व्यतीत हो जानेपर भी अपने प्रतिपक्षी जीवको देखकर बदला लेनेके लिए उद्यत
हो जाय, उसे पर्वतराजिसदृश कहा गया है । इस जातिकी कषायके उदय होनेपर जीव
सम्यक्त्वको भी ग्रहण नहीं कर सकता है, किन्तु मिथ्यात्वमें ही पड़ा रहता है । यह क्रोध
कषायका चौथा भेद है, यह बतलानेके लिए उक्त सूत्रके अन्तमें चूर्णिकारने (४) का अंक
दिया है । ऊपर जो पृथिवीराजि आदिके सदृश क्रोधका पक्ष, छह मास आदि काल बतलाया
गया है, और पहले उपयोग-अधिकारमें प्रत्येक कषायका अन्तर्मुहूर्त ही उत्कृष्ट काल बत-
लाया है, सो इसमें विरोध नहीं समझना चाहिए । वास्तवमें किसी भी कषायका उपयोग
अन्तर्मुहूर्तसे अधिक नहीं रह सकता है । तथापि यहाँपर उक्त काल तक उन-उन कषायोंके
अवस्थानका जो वर्णन किया गया है, वह प्रतिशोधकी भावनासे अवस्थित शल्य, वासना या
संस्कारकी अपेक्षासे किया गया जानना चाहिए ।

चूर्णिसू०—इसी प्रकारके अनुमानका आश्रय लेकर शेष कषायोंके स्थानोंका भी
उपनय अर्थात् दृष्टान्तपूर्वक अर्थका प्रतिपादन करना चाहिए । इस प्रकार चार सूत्रगाथाओं-
की विभाषा की गई है । इसी दिशासे शेष बारह गाथाओंकी भी विभाषा कर लेना
चाहिए ॥२४-२५॥

इस प्रकार चतुःस्थान नामक आठवाँ अनुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

राग-युक्त प्रणिधानको स्नेह कहते हैं। स्नेहके आधिक्यको अनुराग कहते हैं। अविद्यमान पदार्थकी आकांक्षा करनेको आशा कहते हैं। अथवा 'आङ्गति' अर्थात् आत्माको जो कृश करे, उसे आशा कहते हैं। बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रहकी अभिलाषाको इच्छा कहते हैं। परिग्रह रखनेकी अत्यन्त तीव्र मनोवृत्ति (अभिध्वंग)को मूर्च्छा कहते हैं। इष्ट परिग्रहके निरन्तर वृद्धि या अतिवृष्णा रखनेको गृद्धि कहते हैं। आशा-युक्त परिणाम या स्पृहाको साशता कहते हैं। अथवा शस्वत् (नित्य) के भावको शास्वत कहते हैं। अर्थात् जो लोभपरिणाम सदा काल बना रहे उसे शास्वत कहते हैं। लोभको शास्वत कहनेका कारण यह है कि परिग्रहकी प्राप्तिके पहिले और पीछे लोभपरिणाम सर्वकाल वीतराग होनेतक बराबर बना रहता है। धन-प्राप्तिकी अत्यन्त इच्छाको प्रार्थना कहते हैं। परिग्रह-प्राप्तिकी आन्तरिक वृद्धिको लालसा कहते हैं। परिग्रहके त्यागके परिणाम न होनेको अविरति कहते हैं। अथवा अविरति नाम असंयम-का भी है। लोभ ही सब प्रकारके असंयमका प्रधान कारण है, इसलिये अविरतिको भी लोभका पर्यायवाची कहा। विषय-पिपासाको वृष्णा कहते हैं। "वेद्यते वेदनं वा विद्या" अर्थात् जिसका निरन्तर पूर्वसंस्कार-वश वेदन या अनुभवन होता रहे, उसे विद्या कहते हैं। इस प्रकारके निरुक्त्यर्थकी अपेक्षा संसारी जीवोको परिग्रहके अर्जन, संरक्षण आदिकी अपेक्षा लोभकषायका निरन्तर संवेदन होता रहता है, इसलिये लोभकी विद्या यह संज्ञा सार्थक है। अथवा जो विद्याके समान दुराराध्य हो। जिसप्रकार विद्याकी प्राप्ति अत्यन्त कष्ट-साध्य हैं, उसी प्रकार धनकी प्राप्ति भी अत्यन्त परिश्रमसे होती है। जिह्वा भी लोभका पर्यायवाची नाम है। लोभको जिह्वा ऐसा नाम देनेका कारण यह है कि जिस प्रकार जिह्वा (जीभ) नाना प्रकारके सुन्दर और सुस्वादु व्यंजनोंको देखकर या नाम श्रवण कर उनके खानेके लिये लालायित रहती है, उसी प्रकार सांसारिक उत्तमोत्तम भोगोपभोग साधक वस्तुओंको देखकर या उनकी कथा सुनकर जीवोके उसकी प्राप्तिके लिए अत्यन्त लोलुपता बनी रहती है। इसप्रकार 'जिह्वेव जिह्वा' उपमार्थके साधर्म्यकी अपेक्षा लोभको जिह्वा संज्ञा दी गई है। लोभके ये बीस नाम जानना चाहिये।

इस प्रकार व्यंजन नामका नवौं अर्थाधिकार समाप्त हुआ

१० सम्मत्त-अत्थाहियारो

१. कसायपाहुडे सम्मत्ते त्ति अणिभोगदारे अधापवत्तकरणे इयाओ चत्तारि सुत्तगाहाओ परूवेयव्वाओ । २. तं जहा ।

(३८) दंसणमोह-उवसामगस्स परिणामो केरिसो भवे ।

जामे कसाय उवजामे लेस्सा वेदो य का भवे ॥९१॥

(३९) काणि वा पुव्ववद्धाणि के वा अंसे णिवंधदि ।

कदि आवलियं पविसंति कदिण्हं वा पवेसगो ॥९२॥

१० सम्यक्त्व-अर्थाधिकार

जिनवर गणधरको प्रणमि, सन्नकितमें मन लाय ।

इस सम्यक्त्व-द्वारको, भाषूँ अति हर्षाय ॥

चूर्णिसू०—कसायपाहुडके इस सम्यक्त्वनामक अनुयोगद्वारमे अधःप्रवृत्तकरणके विषयमे ये वक्ष्यमाण चार सूत्र-गाथाएँ प्ररूपण करना चाहिए । वे इसप्रकार है ॥१-२॥

दर्शनमोहके उपशामकका परिणाम कैसा होता है, किस योग, कषाय और उपयोगमें वर्तमान, किस लेश्यासे युक्त और कौनसे वेदवाला जीव दर्शनमोहका उपशामक होता है ? ॥९१॥

इस गाथाके द्वारा उपशमसम्यक्त्वके उत्पन्न करनेवाले जीवके चौदह मार्गणा-स्थानोमे संभव भावोंके अन्वेषणकी सूचना की गई है, जिसका निर्णय आगे चूर्णिसूत्रोंके आधारपर किया जायगा ।

दर्शनमोहके उपशम करनेवाले जीवके पूर्व-वद्ध कर्म कौन-कौनसे हैं और अब कौन-कौनसे नवीन कर्माशोंको बंधता है । उपशामकके कौन-कौन प्रकृतियों उदयावलीमें प्रवेश करती है और यह कौन-कौन प्रकृतियोंका प्रवेशक है, अर्थात् उदीरणारूपसे उदयावलीमें प्रवेश कराता है ? ॥९२॥

निशेषार्थ—इस गाथाके प्रथम चरणके द्वारा दर्शनमोहके उपशमसे पूर्ववर्ती प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशसम्बन्धी सत्त्वकी पृच्छा की गई है, क्योंकि, पूर्ववद्ध कर्मको ही सत्त्व कहते हैं । गाथाके द्वितीय चरणसे नवीन बंधनेवाले कर्मोंके विषयमे प्रश्न किया गया है । तृतीय चरणसे उपशमन कालमे उदयमे आनेवाले कर्मोंकी पृच्छा की गई है और अन्तिम चरणसे उस समय किस-किस प्रकृतिकी उदीरण होती है, यह प्रश्न पूछा गया है । इन चारों पृच्छाओंका निर्णय आगे चूर्णिसूत्रों द्वारा किया जायगा ।

२८. 'कदिण्हं वा पवेसगो'त्ति विहासा' । २९. मूलपयडीणं सव्वासिं पवेसगो ।
 ३०. उत्तरपयडीणं पंच णाणावरणीय-चटुदंसणावरणीय-मिच्छत्त-पंचिदियजादि-तेजा-
 कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुगलहुग-उवघाद-परघादुस्सास-तस-वादर-पज्जत्त-
 पत्तेयसरीर-धिराधिर-सुभासुभ-णिमिण-पंचंतराइयाणं णियमा पवेसगो । ३१. सादासादा-
 णमण्णदरस्स पवेसगो* । ३२. चटुण्हं कसायाणं तिण्हं वेदाणं दोण्हं जुगलाणधण्णदरस्स
 पवेसगो । ३३. भय-दुगुंछाणं सिया पवेसगो । ३४. चउण्हमाउआणमण्णदरस्स पवेसगो ।
 ३५. चटुण्हं गइणामाणं दोण्हं सरीराणं छण्हं संठाणाणं दोण्हमंगोवंगणमण्णदरस्स
 पवेसगो । ३६. छण्हं संवडणाणं अण्णदरस्स सिया । ३७. उज्जोवस्स सिया । ३८.
 दोविहायगइ-सुभग-दुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज-जसगित्ति-अजसगित्ति-अण्ण-
 दरस्स पवेसगो । ३९. उच्चाणीचागोदाणमण्णदरस्स पवेसगो ।

४०. 'के अंसे झीयदे पुव्वं वंधेण उदएण वा' त्ति विहासा । ४१. असादावेद-

चूर्णिसू०—'कदिण्हं वा पवेसगो' दूसरी गाथाके इस अन्तिम पदकी विभाषा इस प्रकार है—दर्शनमोहका उपशामक जीव सभी मूल प्रकृतियोंकी उदीरणा करता है । उत्तर प्रकृतियोंमेसे पाँचो ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, पंचेन्द्रियजाति, तैजस-कर्मण-शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्माण और अन्तरायकी पाँचो प्रकृतियोंका उदीरणाद्वारा नियमसे उद्यावलीमे प्रवेश करता है । सातावेदनीय और असातावेदनीयमेसे किसी एकका प्रवेश करता है । चारो कपायोंमेसे किसी एक कपायका, तीनों वेदोंमेसे किसी एक वेदका और हास्यादि दो युगलोंमेसे किसी एक युगलका प्रवेश करता है । भय और जुगुप्साका स्यात् प्रवेश करता है । चारो आयुमेसे किसी एकका प्रवेश करता है । चारो गतिनामोंमेसे किसी एकका, औदारिक और वैक्रियिक इन दो शरीरोंमेसे किसी एकका, छहों संस्थानोंमेसे किसी एकका, तथा औदारिकांगोपांग और वैक्रियिकांगोपांगमेसे किसी एकका प्रवेश करता है । छहों संहननोंमेसे किसी एकका स्यात् प्रवेश करता है । उद्योतका स्यात् प्रवेश करता है । दोनों विहायोगति, सुभग-दुर्भग, सुस्वर-दुःस्वर, आदेय-अनादेय, यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति इन युगलोंमेसे किसी एक-एकका प्रवेश करता है । उच्चगोत्र और नीचगोत्रमेसे किसी एकका प्रवेश करता है ॥ २८-३९ ॥

चूर्णिसू०—अत्र तीसरी गाथाके 'के अंसे झीयदे पुव्वं वंधेण उदएण वा' इस पूर्वार्धकी विभाषा करते हैं—दर्शनमोहनीयकर्मका उपशाम करनेवाले जीवके असातावेदनीय, स्त्री-

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमे यह सूत्र इस प्रकारसे मुद्रित है—[सादासादावेदणीयाणमण्णदरस्स पवेसगो] (देखो पृ० १७००)

† ताम्रपत्रवाली प्रतिमे 'सिया' पदको टीकामे सम्मिलित कर दिया है (देखो पृ० १७०१) । पर टीकाके अनुसार इसे सूत्रका अंश होना चाहिए ।

ओरालियकायजोगो वा वेउव्वियकायजोगो वा । ११. 'कसाए'त्ति विहासा । १२. अण्णदरो कसायो । १३. किं सो वड्डमाणो हायमाणो त्ति ? णियमा हायमाणकसायो । १४. 'उवजोगे' त्ति विहासा । १५. णियमा सागारुवजोगो । १६. 'लेस्सा'त्ति विहासा । १७. तेउ-पम्म-सुकलेस्साणं णियमा वड्डमाणलेस्सा । १८. 'वेदो य को भवे'त्ति विहासा । १९. अण्णदरो वेदो ।

२०. 'काणि वा पुव्ववद्वाणि'त्ति विहासा । २१. एत्थ पयडिसंतकम्मं द्विदि-संतकम्ममणुभागसंतकम्मं पदेससंतकम्मं च मग्गियव्वं ।

२२. 'के वा अंसे णिवंधदि'त्ति विहासा । २३. एत्थ पयडिवंधो द्विदिवंधो अणुभागवंधो पदेसवंधो च मग्गियव्वो ।

२४. 'कदि आवलियं पविसंति'त्ति विहासा । २५. मूलपयडीओ सव्वाओ पविसंति । २६. उत्तरपयडीओ वि जाओ अत्थि ताओ पविसंति । २७. णवरि जइ परभवियाउअमत्थि, तं ण पविसदि ।

करता है। 'कपाय' इस पदकी विभाषा इस प्रकार है—चारो कपायोमेसे किसी एक कपायसे उपयुक्त जीव दर्शनमोहके उपशमका प्रारम्भ करता है ॥९-१२॥

शंका—क्या वह वर्धमान कपाय-युक्त होता है, या हीयमान ?

समाधान—नियमसे हीयमान कपाय-युक्त होता है ॥१३॥

चूर्णिसू०—'उपयोग' इस पदकी विभाषा इस प्रकार है—दर्शनमोहका उपशामक जीव नियमसे साकारोपयोगी होता है। 'लेश्या' इसकी विभाषा इस प्रकार है—दर्शनमोह-उपशामकके तेज, पद्म और शुक्ल लेश्याओंमेसे नियमसे कोई एक वर्धमान लेश्या होती है। 'कौनसा वेद होता है' इस अन्तिम पदकी विभाषा इस प्रकार है—तीनों वेदोंमेसे कोई एक वेदवाला जीव दर्शनमोहका उपशामक होता है ॥१४-१९॥

इस प्रकार प्रथम गाथाकी अर्थ विभाषा समाप्त हुई ।

चूर्णिसू०—अब दूसरी गाथाके 'काणि वा पुव्ववद्वाणि' इस प्रथम पदकी विभाषा करते हैं—यहाँपर प्रकृतिसत्कर्म, स्थितिसत्कर्म, अनुभागसत्कर्म और प्रदेशसत्कर्मका अनु-मार्गण करना चाहिए। अर्थात् उपशम-सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले जीवके सत्तायोग्य प्रकृतियोंके संभवासंभवका विचार करना चाहिए ॥२०-२१॥

चूर्णिसू०—'के वा अंसे णिवंधदि' इस दूसरे पदकी विभाषा करते हैं—इस विषयमे प्रकृतिवन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध, और प्रदेशबन्धकी मार्गणा करना चाहिए ॥२२-२३॥

चूर्णिसू०—'कदि आवलियं पविसंति' इस तीसरे पदकी विभाषा इस प्रकार है—दर्शनमोहका उपशमन करनेवाले जीवके सभी मूल प्रकृतियाँ उद्यावलीमे प्रवेश करती हैं। उत्तरप्रकृतियोंमेसे भी जो होती हैं, अर्थात् जिनका सत्त्व पाया जाता है, वे प्रवेश करती है, अन्य नहीं। विशेष इतना जानना कि यदि पर-भव-सम्बन्धी आयुका अस्तित्व हो, तो वह उद्यावलीमे प्रवेश नहीं करती है ॥२४-२७॥

२८. 'कदिण्हं वा पवेसगो'त्ति विहासा'। २९. मूलपयडीणं सव्वासिं पवेसगो।
 ३०. उत्तरपयडीणं पंच णाणावरणीय-चटुदंसणावरणीय-मिच्छत्त-पंचिंदियजादि-तेजा-
 कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फ्लास-अगुरुगलहुग-उववाद्-परघादुस्सास-तस-वाद्दर-पज्जत्त-
 पत्तेयसरीर-धिराधिर-सुभासुभ-णिमिण-पंचंतराइयाणं णियमा पवेसगो। ३१. सादासादा-
 णमण्णदरस्स पवेसगो*। ३२. चटुण्हं कसायाणं तिण्हं वेदाणं दोण्हं जुगलाणमण्णदरस्स
 पवेसगो। ३३. भय-दुगुंछाणं सिया पवेसगो। ३४. चउण्हमाउआणमण्णदरस्स पवेसगो।
 ३५. चटुण्हं गइणामाणं दोण्हं सरीराणं छण्हं संठाणाणं दोण्हमंगोवंग्गाणमण्णदरस्स
 पवेसगो। ३६. छण्हं संघडणाणं अण्णदरस्स सिया। ३७ उज्जोवस्स सिया। ३८.
 दोविहायगइ-सुभग-दुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज-जसगित्ति-अजसगित्ति-अण्ण-
 दरस्स पवेसगो। ३९. उच्चाणीचागोदाणमण्णदरस्स पवेसगो।

४०. 'के अंसे झीयदे पुव्वं वंधेण उदएण वा' त्ति विहासा। ४१. असादावेद-

चूर्णिसू०—'कदिण्हं वा पवेसगो' दूसरी गाथाके इस अन्तिम पदकी विभाषा इस प्रकार है—दर्शनमोहका उपशामक जीव सभी मूल प्रकृतियोंकी उद्दीरणा करता है। उत्तर प्रकृतियोंमेसे पाँचो ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, पंचेन्द्रियजाति, तैजस-कर्मण-शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्माण और अन्तरायकी पाँचो प्रकृतियोंका उद्दीरणाद्वारा नियमसे उदयावलीमे प्रवेश करता है। सातावेदनीय और असातावेदनीयमेसे किसी एकका प्रवेश करता है। चारो कषायोमेसे किसी एक कषायका, तीनों वेदोमेसे किसी एक वेदका और हास्यादि दो युगलोमेसे किसी एक युगलका प्रवेश करता है। भय और जुगु'साका स्यात् प्रवेश करता है। चारो आयुमेसे किसी एकका प्रवेश करता है। चारो गतिनामोमेसे किसी एकका, औदारिक और वैक्रियिक इन दो शरीरोमेसे किसी एकका, छहो संस्थानोमेसे किसी एकका, तथा औदारिकांगोपांग और वैक्रियिकांगोपांगमेसे किसी एकका प्रवेश करता है। छहो संहननोमेसे किसी एकका स्यात् प्रवेश करता है। उद्योतका स्यात् प्रवेश करता है। दोनो विहायोगति, सुभग-दुर्भग, सुस्वर-दुःस्वर, आदेय-अनादेय, यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति इन युगलोमेसे किसी एक-एकका प्रवेश करता है। उच्चगोत्र और नीचगोत्रमेसे किसी एकका प्रवेश करता है ॥२८-३९॥

चूर्णिसू०—अब तीसरी गाथाके 'के अंसे झीयदे पुव्वं वंधेण उदएण वा' इस पूर्वार्धकी विभाषा करते हैं—दर्शनमोहनीयकर्मका उपशाम करनेवाले जीवके असातावेदनीय, स्त्री-

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमे यह सूत्र इस प्रकारसे मुद्रित है—[सादासादवेदणीयाणमण्णदरस्स पवेसगो] (देखो पृ० १७००)

† ताम्रपत्रवाली प्रतिमे 'सिया' पदको टीकामें सम्मिलित कर दिया है (देखो पृ० १७०१)। पर टीकाके अनुसार इसे सूत्रका अंश होना चाहिए।

गीय-इन्ध्रि-णवुंमयवेद-अरदि-सोग-चदुआउ-णिरयगदि-चदुजादि-पंचसंठाण-पंचसंधडण -
णिरयगइपाश्रंगगाणुपुच्चि आदाव-अप्पसत्थविहायगइ-थावर सुहुम-अप्पज्जत्त - साहारण-
अथिर-असुभ-दुभग-दुस्सर-अणादंउत्त-अजसगित्तिणामाणि एदाणि वधेण वांच्छिण्णाणि।

वेद, अरति, शोक, चारो आयु, नरकगति, पंचेन्द्रियजातिके विना चार जाति, प्रथम संस्थानके विना पाँच सस्थान, प्रथम सहननके विना पाँच संहनन, नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, अप्रशस्तविहायोगति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और अयशःकीर्ति, ये प्रकृतियों बंधसे पहले ही व्युच्छिन्न हो जाती हैं ॥४०-४१॥

विशेषार्थ—दर्शनमोहके उपशम होनेसे पूर्व ही इन उपर्युक्त प्रकृतियोंकी बन्ध-व्युच्छित्ति इस क्रमसे होती है—दर्शनमोहके उपशमनके लिए उद्यत सातिशय मिथ्यादृष्टि जीवके अभव्योके बंधने योग्य अन्तकोडा कोड़ी-प्रमाण स्थितिवन्धकी अवस्था तक तो एक भी कर्म-प्रकृतिका बन्ध-विच्छेद नहीं होता है। इससे अन्तर्मुहूर्त ऊपर जाकर सागरोपमशत-पृथक्त्वप्रमाण स्थितिवन्धापसरण होनेपर अन्य स्थितिको बाँधनेके कालमे सबसे पहले नरकायुकी बन्ध व्युच्छित्ति होती है। इसमे आगे सागरोपमपृथक्त्व स्थितिवन्धापसरण होनेपर तिर्यगायुकी बन्ध-व्युच्छित्ति होती है। इससे आगे सागरोपमपृथक्त्व स्थितिवन्धापसरण होनेपर मनुष्यायुकी बन्ध-व्युच्छित्ति होती है। इससे आगे सागरोपमपृथक्त्व स्थितिवन्धापसरण होनेपर देवायुकी बन्ध-व्युच्छित्ति होती है। इससे आगे सागरोपमपृथक्त्व स्थितिवन्धापसरण होनेपर नरकगति और नरकगत्यानुपूर्वीका एक साथ बन्ध-व्युच्छेद होता है। इससे आगे सागरोपमपृथक्त्व स्थितिवन्धापसरण होनेपर सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणशरीर इन तीन अन्योन्यानुगत प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध-विच्छेद होता है। तत्पश्चात् सागरोपम-शतपृथक्त्व स्थितिवन्धापसरण होनेपर सूक्ष्म, अपर्याप्त और प्रत्येकशरीर इन तीन अन्योन्यानुगत प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध-विच्छेद होता है। तत्पश्चात् सागरोपमपृथक्त्व स्थितिवन्धापसरण होनेपर वादर, अपर्याप्त और साधारणशरीर इन तीन अन्योन्यानुगत प्रकृतियोंका एकसाथ बन्ध-विच्छेद होता है। तत्पश्चात् सागरोपमपृथक्त्व स्थितिवन्धापसरण होनेपर वादर, अपर्याप्त और प्रत्येकशरीर, इन तीन अन्योन्यानुगत प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध-विच्छेद होता है। पुनः सागरोपमपृथक्त्व स्थितिवन्धापसरण होनेपर द्वीन्द्रियजाति और अपर्याप्तनामका परस्पर-संयुक्त रूपसे बन्ध-विच्छेद होता है। पुनः सागरोपमपृथक्त्व स्थितिवन्धापसरण होनेपर त्रीन्द्रियजाति और अपर्याप्तनामका परस्पर-संयुक्तरूपसे बन्ध-विच्छेद होता है। पुनः सागरोपमपृथक्त्व स्थितिवन्धापसरण होनेपर चतुरिन्द्रियजाति और अपर्याप्तनामका परस्पर संयुक्तरूपसे बन्ध-विच्छेद होता है। पुनः सागरोपमपृथक्त्व स्थितिवन्धापसरण होनेपर असंज्ञिपंचेन्द्रियजाति और अपर्याप्तनामका परस्पर-संयुक्तरूपसे बन्ध विच्छेद होता है। पुनः सागरोपमपृथक्त्व स्थितिवन्धापसरण होनेपर संज्ञिपंचेन्द्रियजाति और अपर्याप्तनामका परस्पर-संयुक्तरूपसे बन्ध-विच्छेद होता है। पुनः सागरोपमपृथक्त्व स्थितिवन्धापसरण होनेपर

सूक्ष्म, पर्याप्त और साधारणशरीर, इन तीनोंका परस्पर संयुक्तरूपमे बन्ध विच्छेद होता है । पुनः सागरोपमपृथक्त्व स्थितिवन्धापसरण होनेपर सूक्ष्म, पर्याप्त और प्रत्येकशरीर, इन तीनोंका परस्पर-संयुक्तरूपसे बन्ध-विच्छेद होता है । पुनः सागरोपमपृथक्त्व स्थितिवन्धा-पसरण होनेपर वादर, पर्याप्त और साधारणशरीर, इन तीनोंका परस्पर संयुक्तरूपसे बन्ध-विच्छेद होता है । पुनः सागरोपमपृथक्त्व स्थितिवन्धापसरण होनेपर वादर, पर्याप्त, प्रत्येक-शरीर, एवंन्द्रिय, आताप, और स्थावरनाम, इन छह प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध-विच्छेद होता है । पुनः सागरोपमपृथक्त्व स्थितिवन्धापसरण होनेपर द्वान्द्रियजाति और पर्याप्त-नामका बन्ध विच्छेद होता है । पुनः सागरोपमपृथक्त्व स्थितिवन्धापसरण होनेपर त्रीन्द्रिय-जाति और पर्याप्तनामका बन्ध-विच्छेद होता है । पुनः सागरोपमपृथक्त्व स्थितिवन्धापसरण होनेपर चतुरिन्द्रियजाति और पर्याप्तनामका बन्ध-विच्छेद होता है । पुनः सागरोपमपृथक्त्व स्थितिवन्धापसरण होनेपर असज्जिपंचेन्द्रिय जाति और पर्याप्तनामका बन्ध-विच्छेद होता है । पुनः सागरोपमपृथक्त्व स्थितिवन्धापसरण होनेपर तिर्यग्गति, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और उद्योत इन तीन प्रकृतियोंका एकसाथ बन्ध-विच्छेद होता है । पुनः सागरोपमपृथक्त्व स्थितिवन्धा-पसरण होनेपर नीचगोत्रका बन्ध-विच्छेद होता है । यहाँ इतना विशेष जानना कि सातवीं पृथिवीके नारकीकी अपेक्षा तिर्यग्गति, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत और नीचगोत्र, इन प्रकृतियोंका बन्ध-विच्छेद नहीं होता है, इसीलिए चूर्णिमूत्रमे इन प्रकृतियोंके बन्ध-विच्छेदका निर्देश नहीं किया गया । पुनः सागरोपमपृथक्त्व स्थितिवन्धापसरण होनेपर अपशस्तविहा-योगति, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेय, इन प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध विच्छेद होता है । पुनः सागरोपमपृथक्त्व स्थितिवन्धापसरण होनेपर हुंडकसंस्थान और असप्राप्तासृपाटिका संहनन, इन दोनों प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध विच्छेद होता है । पुनः सागरोपमपृथक्त्व स्थितिवन्धापसरण होनेपर नपुंसकवेदका बन्ध-विच्छेद होता है । पुनः सागरोपमपृथक्त्व स्थितिवन्धापसरण होनेपर वामनसंस्थान और कीलकसंहनन इन दोनों प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध-विच्छेद होता है । पुनः सागरोपमपृथक्त्व स्थितिवन्धापसरण होनेपर कुब्जकसंस्थान और अर्धनाराचसंहनन इन दो प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध-विच्छेद होता है—पुनः साग-रोपमपृथक्त्व स्थितिवन्धापसरण होनेपर स्त्रीवेदका बन्ध विच्छेद होता है । पुनः सागरोपम-पृथक्त्व स्थितिवन्धापसरण होनेपर स्वातिसंस्थान और नाराचसंहनन इन दो प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध विच्छेद होता है । पुनः सागरोपमपृथक्त्व स्थितिवन्धापसरण होनेपर न्यग्रोधपविमंडलसंस्थान और वज्रनाराचसंहनन, इन दो प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध-विच्छेद होता है । पुनः सागरोपमपृथक्त्व स्थितिवन्धापसरण होनेपर मनुष्यगति, औदारिक-शरीर, औदारिकअंगोपांग, वज्रवृषभनाराचसंहनन, और मनुष्यगति-प्रायोग्यानुपूर्वी, इन पाँच प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध-विच्छेद होता है । यह सब बन्धविच्छेदका वर्णन तिर्यक् और मनुष्योंकी अपेक्षासे किया है । क्योंकि, देव और नारकियोंमे इन प्रकृतियोंका बन्ध-

४२. पंचदंशणावरणीय-चदुजादिणामाणि चदुआणुपुच्चिणामाणि आदाव-
थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीरणामाणि एदाणि उदएण वोच्छिणाणि ।

४३. 'अंतरं वा कहिं किच्चा के के उवसामगो कहिं' ति विहासा । ४४. ण
ताव अंतरं, उवसामगो वा; पुरदो होहिदि ति ।

एवं तदियगाहाए अत्थविहासा समत्ता ।

४५. 'किं ठिदियाणि कम्माणि अणुभागेषु केषु वा । ओवट्टेयूण सेसाणि कं
ठाणं पडिवज्जदि' ति विहासा । ४६. द्विदिघादो* संखेज्जा भागे घादेदूण संखेज्जदि-

विच्छेद नहीं पाया जाता है, इसीलिए सूत्रमे इन उक्त प्रकृतियोंके बन्ध-विच्छेदका निर्देश
नहीं किया गया है । बन्ध-प्रकृतियोंके विच्छेदका निर्देशक यह चूर्णिसूत्र चतुर्गति-सामान्य-
की अपेक्षासे प्रवृत्त हुआ है । पुनः सागरोपमपृथक्त्व स्थितिवन्धापसरण होनेपर असाता-
वेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्ति, इन प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध-
विच्छेद होता है । इस प्रकार चौतीस बन्धापसरणोंके द्वारा उपर्युक्त प्रकृतियाँ बन्धसे व्यु-
च्छिन्न होती हैं, अर्थात् उपशमसम्यक्त्वके अभिमुख सात्तिशय मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रक-
तियोंका बन्ध नहीं करता है ।

इस प्रकार दर्शनमोहके उपशमनके पूर्व होनेवाले प्रकृतिबन्ध-व्युच्छेदको बतलाकर
अत्र चूर्णिकार प्रकृति-विषयक उदय-व्युच्छेदका निरूपण करनेके लिए उत्तरसूत्र कहते हैं—

चूर्णिसू०—पाँच दर्शनावरणीय, एकेन्द्रियादि चार जातिनामकर्म, चारो आनुपूर्व्य-
नामकर्म, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणगरीरनामकर्म, इतनी प्रकृतियाँ
उदयसे व्युच्छिन्न होती हैं ॥४२॥

विशेषार्थ—यहाँपर दर्शनावरणीयकी पाँच प्रकृतियोंमेसे पाँचो निद्राकर्मोंका ग्रहण
करना चाहिए, क्योंकि दर्शनमोहका उपशमन करनेवाले जीवके साकार-उपयोग और जागृत-
अवस्था बतलाई गई है, जो कि किसी भी प्रकारके निद्राकर्मके उदयमे संभव नहीं है । यही
घात चार जाति आदि शेष प्रकृतियोंके उदय-विच्छेदके विषयमे जानना चाहिए ।

चूर्णिसू०—अत्र 'अंतरं वा कहिं किच्चा के के उवसामगो कहिं' तीसरी गाथाके इस
उत्तरार्धकी विभाषा करते हैं—अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमे न अन्तरकरण होता है और
न यहाँ पर वह मोहकर्मका उपशामक ही होता है, किन्तु आगे जाकर अनिवृत्तिकरणके कालमे
ये दोनों ही कार्य होंगे ॥४३-४४॥

इस प्रकार तीसरी गाथाकी अर्थ-विभाषा समाप्त हुई ।

चूर्णिसू०—अत्र 'किं ठिदियाणि कम्माणि' इस चौथी गाथाकी विभाषा की जाती
है । स्थितिगत संख्यात बहुभागोंका घात करके संख्यातवें भागको प्राप्त होता है । अनुभाग-
गत अनन्त बहुभागोंका घात करके अनन्तवें भागको प्राप्त होता है । इसलिए इस अधः-

* तावन्नववाली प्रतिमे 'द्विदिघादो'के स्थानपर 'द्विदियादो' पाठ मुद्रित है (देखो पृ० १७०६) ।

भागं पडिवज्जइ । ४७. अणुभागवादो अणंते भागे वादिदूण अणंतभागं पडिवज्जइ । ४८. तदो इपस्स चरिमसमय-अधापवत्तकरणे वट्टमाणस्स गत्थि द्विदिघादो वा, अणु-भागवादो वा । से काले दो वि वादा पवत्तीहिंति ।

४९. एदाओ चत्तारि सुत्तगाहाओ अधापवत्तकरणस्स पढमसमए परूविदाओ । ५०. दंसणमोहउवसाभगस्स तिविहं करणं । ५१. तं जहा । ५२. अधापवत्तकरणम-पुव्वकरणमणियट्ठिकरणं च । ५३. चउत्थी उवसामणद्धा ।

प्रवृत्तकरणके चरम समयमें वर्तमान जीवके न तो स्थितिघात होता है और न अनुभागघात होता है । किन्तु तदनन्तर समयमें अर्थात् अपूर्वकरणके कालमें ये दोनों ही घात प्रारम्भ होंगे ॥४५-४८॥

चूर्णिमू०—इस प्रकार उक्त चारों सूत्र-गाथाएँ अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें प्ररूपित की गईं । दर्शनमोहका उपशमन करनेवाले जीवके तीन प्रकारके करण अर्थात् परिणाम-विशेष होते हैं । वे इस प्रकार हैं—अधःप्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण । उक्त जीवके चौथी उपशामनाद्धा भी होती है ॥४९-५३॥

विशेषार्थ—जिन परिणामविशेषोंके द्वारा मोहकर्मका, उपशम, क्षय या क्षयोपशम किया जाता है उन्हें करण कहते हैं । वे परिणामविशेष तीन प्रकारके होते हैं—अधःप्रवृत्त-करण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण । चूर्णिकार आगे स्वयं ही तीनों करणोंका विस्तृत विवेचन करेंगे । यहाँ इनका इतना अभिप्राय समझ लेना चाहिए कि जिस भावमें वर्तमान जीवोंके उपरितनसमयवर्ती परिणाम अधस्तनसमयवर्ती जीवोंके साथ संख्या और विशुद्धिकी अपेक्षा सदृश होते हैं, उन भावोंके समुदायको अधःप्रवृत्तकरण कहते हैं । इस अधःप्रवृत्त-करणका काल अन्तर्मुहूर्त है । अधःप्रवृत्तकरणके कालके संख्यातवे भागप्रमाण अपूर्वकरणका काल है और अपूर्वकरण कालके संख्यातवे भागप्रमाण अनिवृत्तकरणका काल है । इन तीनों परिणामोंका समुदायात्मक काल भी अन्तर्मुहूर्त ही है । जिस कालमें प्रतिसमय अनन्तगुणी विशुद्धिको लिए हुए अपूर्व-अपूर्व परिणाम होते हैं, उन परिणामोंको अपूर्वकरण कहते हैं । अपूर्व-करणके विभिन्न समयोंमें वर्तमान जीवोंके परिणाम सदृश नहीं होते, किन्तु विसदृश या असमान और अनन्तगुणी विशुद्धितासे युक्त पाये जाते हैं । अधःप्रवृत्तकरणके परिणाम असंख्यात लोकप्रमाण हैं । यद्यपि अधःप्रवृत्तकरणके कालसे अपूर्वकरणका काल अल्प है, तथापि परिणामोंके संख्याकी अपेक्षा अधःप्रवृत्तकरणके परिणामोंसे अपूर्वकरणके परिणाम असंख्यात लोकगुणित होते हैं । अनिवृत्तिकरणके परिणामोंकी संख्या उसके कालके समयोंके समान है । अर्थात् एक समयवर्ती जीवके एक ही परिणाम पाया जाता है और एक समयवर्ती अनेक जीवोंके भी एक सदृश ही परिणाम पाये जाते हैं । एक कालवर्ती जीवोंके परिणामोंमें निवृत्ति, भेद या विसदृशता नहीं पाई जाती है, इसीलिए उन्हें अनिवृत्तिकरण कहते हैं । चौथी उपशामनाद्धा होती है । अद्धा नाम कालका है, जिस कालविशेषमें दर्शनमोहनीय कर्म

५४. एदेसिं करणाणं लक्षणं* । ५५. अधापवत्तकरणपहपसमए जहणिया विसोही थोवा । ५६. विदियसमए जहणिया विसोही अणंतगुणा । ५७. एवमंतोमुहुत्तं । ५८. तदो पहपसमए उक्कस्सिया विसोही अणंतगुणा । ५९. जम्हिह जहणिया विसोही णिड्ढिदा, तदो उवरिमसमए जहणिया विमोही अणंतगुणा । ६०. विदियसमए उक्कस्सिया विमोही अणंतगुणा । ६१. एवं णिव्वग्गणखडयमंतोमुहुत्तद्वमेत्तं अधापवत्तकरणचरिमसमयो त्ति । ६२. तदो अतोमुहुत्तयांसरियूण जम्हिह उक्कस्सिया विसोही णिड्ढिदा, तत्तो[†] उवरिमसमए उक्करिसया विसोही अणंतगुणा । ६३. एवमुक्कस्सिया विसोही णेदव्वा जाव अधापवत्तकरणचरिमसमयो त्ति । ६४. एदमधापवत्तकरणसम लक्षणं ।

उपशम अवस्थाको प्राप्त होकर अवस्थित रहता है, उसे उपशामनाद्धा या उपशमकाल कहते हैं ।

चूणिसू०—अब इन तीनों करणोंका लक्षण कहते हैं—अधः प्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें जघन्य विशुद्धि सबसे कम होती है। प्रथम समयसे द्वितीय समयमें जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणी होती है । (द्वितीय समयसे तृतीय समयमें जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणी होती है ।) इस प्रकार यह क्रम अन्तर्मुहूर्त तक चलता है । तत्पश्चात् प्रथम समयमें उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी होती है । जिस समयमें जघन्य विशुद्धि समाप्त हो जाती है, उससे उपरिम समयमें, अर्थात् प्रथम निर्वर्गणाकांडकके अन्तिम समयके आगेके समयमें जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणी होती है । प्रथम समयकी उत्कृष्ट विशुद्धिसे द्वितीय समयकी उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी होती है । इस प्रकार यह क्रम निर्वर्गणाकांडकमात्र अन्तर्मुहूर्तकालप्रमाण अधः प्रवृत्तकरणके अन्तिम समय तक चलता है । तत्पश्चात् अन्तर्मुहूर्तकाल अपसरण करके त्रिम समयमें उत्कृष्ट विशुद्धि समाप्त होती है, उससे अर्थात् द्विचरमनिर्वर्गणाकांडकके अन्तिम समयसे उपरिम समयमें अर्थात् अन्तिम निर्वर्गणाकांडकके प्रथम समयमें उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी होती है । इस प्रकारसे उत्कृष्ट विशुद्धिका यह क्रम अधः प्रवृत्तकरणके अन्तिम समय तक ले जाना चाहिए । यह अधः प्रवृत्तकरणका लक्षण है ॥५४-६४॥

विशेषार्थ—अधः प्रवृत्तकरणके स्वरूपको और ऊपर बतलाये गये अल्पबहुत्वको एक दृष्टान्त-द्वारा स्पष्ट करते हैं—दो जीव एक साथ अधःकरणपरिणामको प्राप्त हुए । उनमें एक तो सर्व-जघन्य विशुद्धिके साथ अधः प्रवृत्तकरणको प्राप्त हुआ और दूसरा सर्वोत्कृष्ट विशुद्धिके साथ । प्रथम जीवके प्रथम समयमें परिणामोकी विशुद्धि सबसे मन्द होती है । इससे दूसरे समयमें उसके जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणी होती है । इससे तीसरे समयमें उसके जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणी होती है । यह क्रम तब तक चलता रहता है, जब तक कि अधः प्रवृत्त-

* ताप्रपत्रवाली प्रतिमें इस सूत्रको ५३ न० के सूत्रकी टीकामें सम्मिलित कर दिया है (देखो पृ० १७०८ पक्ति-पक्ति) । पर ताडग्रीय प्रतिसे इसके सूत्रकी पुष्टि हुई है ।

† ताप्रपत्रवाली प्रतिमें 'तत्तो'के स्थानपर 'तदो' पाठ सुदृढ है (देखो पृ० १७१२) ।

६५. अपुव्वकरणसम पहमसमए जहणिया विसोही थोवा । ६६. तत्थेव उक्कस्सिया विसोही अणंतगुणा । ६७. विदिप्रसमए जहणिया विसोही अणंतगुणा । ६८. तत्थेव उक्कस्सिया विसोही अणंतगुणा । ६९. समये समये असंखेज्जा लोणा परिणामट्टाणाणि* । ७०. एवं णिव्वग्गणा च† । ७१. एदं अपुव्वकरणरस लक्षणं ।

करणका संख्यातवों भाग अर्थात् निर्वर्गणाकांडकका अन्तिम समय न प्राप्त हो जाय । इस प्रकार अधःप्रवृत्तकरणके संख्यातवों भागको प्राप्त प्रथम जीवके जो विशुद्धि होगी, उससे अनन्तगुणी विशुद्धि उस दूसरे जीवके प्रथम समयमें होगी जो कि उत्कृष्ट विशुद्धिके साथ अधःकरणको प्राप्त हुआ था । इस दूसरे जीवके प्रथम समयमें जितनी विशुद्धि होती है, उससे अनन्तगुणी विशुद्धि उस प्रथम जीवके होती है जो कि एक निर्वर्गणाकांडक या अधःप्रवृत्तकरणके संख्यातवों भागसे ऊपर जाकर दूसरे निर्वर्गणाकांडकके प्रथम समयमें जघन्य विशुद्धिसे वर्तमान है । इस प्रथम जीवके इस स्थानपर जितनी विशुद्धि है, उससे अनन्तगुणी विशुद्धि उस दूसरे जीवके दूसरे समयमें होगी । इससे अनन्तगुणी विशुद्धि प्रथम जीवके एक समय ऊपर चढ़नेपर होगी । इस प्रकार इन दोनों जीवोंको आश्रय करके यह अनन्तगुणित विशुद्धिका क्रम अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समय-सम्बन्धी जघन्य विशुद्धिके प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए । उससे ऊपर उत्कृष्ट विशुद्धिके स्थान अनन्तगुणित क्रमसे होते हैं । इस प्रकार अधःप्रवृत्तकरणमें विद्यमान जीवके परिणामोंकी विशुद्धि उत्तरोत्तर समयोंमें अनन्तगुणित क्रमसे बढ़ती जाती है ।

अत्र अपूर्वकरणका लक्षण कहते हैं—

चूर्णिसू०—अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जघन्य विशुद्धि वक्ष्यमाण पदोंकी अपेक्षा सबसे कम होती है । इसी प्रथम समयमें जघन्य विशुद्धिसे उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी होती है । प्रथम समयकी उत्कृष्ट विशुद्धिसे द्वितीय समयकी जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणी होती है । द्वितीय समयकी जघन्य विशुद्धिसे द्वितीय समयकी ही उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी होती है । (इसप्रकार यह क्रम अपूर्वकरण-कालके अन्तिम समय तक चलता है ।) अपूर्वकरणके कालमें समय-समय अर्थात् प्रतिसमय असंख्यात लोका-प्रमाण परिणामस्थान होते हैं । इस प्रकार वह क्रम निर्वर्गणाकांडक तक चलता है । यह अपूर्वकरणका लक्षण है ॥ ६५-७१ ॥

विशेषार्थ—अधःप्रवृत्तकरणके कालमें जिस प्रकार अनुकृष्टि रचना होती है उस

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमें इस सूत्रको सूत्र न० ६८ की टीकामें सम्मिलित कर दिया है (देखो पृ० १७१३, पक्ति १४) । पर उक्त स्थलकी टीकासे तथा ताडपत्रीय प्रतिसे उसको सूत्रता सिद्ध है ।

† ताम्रपत्रवाली प्रतिमें यह सूत्र इस प्रकार मुद्रित है—'एवं णिव्वग्गणा च जत्तियमद्धानमुच्चरि गंतूण णिरुद्धसमयपरिणामाणमणुकट्टी वोच्छिज्जदि, तमेव णिव्वग्गणखंडय णाम' । (देखो पृ० १७१३) पर 'जत्तिय' पदसे आगेका अश टीकाका अंग है, जिसमें कि निर्वर्गणाकांडकका स्वरूप बतलाया गया है ।

७२. अणियद्विकरणे समए समए एकेकपरिणामट्टाणाणि अणंतगुणाणि च ।
 ७३. एदमणियद्विकरणस्स लक्खणं । ७४. अणादियमिच्छादिद्विस्स उवसामगस्स
 परूवणं वत्तइस्सामो । ७५. तं जहा । ७६. अधापवत्तकरणे द्विदिखंडयं वा अणुभाग-
 खंडयं वा गुणसेही वा गुणसंक्रमो वा णत्थि, केवलमणंतगुणाए विसोहीए विसुज्झदि ।
 ७७. अप्पसत्थकम्मंसे जे वंधइ ते दुट्टाणिये अणंतगुणहीणे च । पसत्थकम्मंसे जे वंधइ
 ते चउट्टाणिए अणंतगुणे च समये समये* । ७८. द्विदिवंधे पुण्णे पुण्णे अण्णं द्विदिवंधं
 पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागहीणं वंधदि ।

प्रकारसे अपूर्वकरणके कालमे अनुकृष्टिरचना नहीं होती है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक समयमे ही जघन्य विशुद्धिसे उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी होती है । फिर भी यह क्रम निर्वर्गणाकांडक तक चलता है, ऐसा कहनेका अभिप्राय यह है कि यहाँपर प्रत्येक समयमे ही निर्वर्गणाकांडक जानना चाहिए । इसका कारण यह है कि विवक्षित किसी भी समयके परिणाम उपरितन किसी भी समयके साथ समान नहीं होते हैं, किन्तु असमान या अपूर्व ही अपूर्व होते हैं । निर्वर्गणाकांडक किसे कहते हैं ? इस शंकाका समाधान यह है कि जितने काल आगे जाकर निरुद्ध या विवक्षित समयके परिणामोंकी अनुकृष्टि विच्छिन्न हो जाती है, उसे निर्वर्गणाकांडक कहते हैं ।

अथ अनिवृत्तिकरणका लक्षण कहते हैं—

चूणिसू०—अनिवृत्तिकरणके कालमे समय-समयमे अर्थात् प्रत्येक समयमे एक-एक ही परिणामस्थान होते हैं अर्थात् अनिवृत्तिकरणकालके जितने समय है, उतने ही उसके परिणामोंकी संख्या है । तथा वे उत्तरोत्तर अनन्तगुणित होते हैं । अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयके परिणामसे द्वितीय समयका परिणाम अनन्तगुणी विशुद्धिसे युक्त होता है । यह क्रम अन्तिम समय तक जानना चाहिए । यह अनिवृत्तिकरणका लक्षण है ॥७२-७३॥

चूणिसू०—अथ उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले अनादिमिथ्यादृष्टि जीवकी प्ररूपणा करते हैं । वह इस प्रकार है—अनादिमिथ्यादृष्टिके अधःप्रवृत्तकरणमे स्थितिकांडकघात, अनुभागकांडकघात, गुणश्रेणी और गुणसंक्रम नहीं होता है । वह केवल प्रतिसमय अनन्तगुणी विशुद्धिसे विशुद्ध होता हुआ चला जाता है । यह जीव जिन अप्रशस्त कर्माशोंको बाँधता है, उन्हें द्विस्थानीय अर्थात् निम्न और काजीररूप और समय-समय अनन्तगुणहीन अनुभागशक्तिसे युक्त ही बाँधता है । जिन प्रशस्त कर्माशोंको बाँधता है, उन्हें गुड़, खांड आदि चतुःस्थानीय और समय-समय अनन्तगुणी अनुभागशक्तिसे युक्त बाँधता है । अधः-प्रवृत्तकरणकालमे स्थितिवन्धका काल अन्तर्मुहूर्तमात्र है । एक एक स्थितिवन्धकालके पूर्ण-पूर्ण होनेपर पल्योपमके संख्यातवे भागसे हीन अन्य स्थितिवन्धको बाँधता है । इस प्रकार

ॐ ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'समये समये' इतने सूत्राशको टीकामे सम्मिलित कर दिया है (देखो पृ० १७१५ पक्ति २) ।

७९. अपुव्वकरणपढमसमये द्विदिखंडयं जहण्णगं पलिदोवमस्स संखेज्जदि-
भागो उक्कस्सगं सागरोवमपुधत्तं । ८०. द्विदिवंधो अपुव्वो । ८१. अणुभागखंडय-
मप्पसत्थकम्मंसाणमणंता भागा । ८२. तस्स पदेसगुणहाणिट्ठाणतरफदयाणि
थोवाणि । ८३. अच्च्छावणाफदयाणि अणंतगुणाणि । ८४. णिक्खेवफदयाणि
अणंतगुणाणि । ८५. आगाइदफदयाणि अणंतगुणाणि । ८६. अपुव्वकरणस्स
चेव पढमसमए आउमवज्जाणं कम्माणं गुणसेठ्ठिणिक्खेवो अणियद्विअद्वादो अपुव्व-
करणद्वादो च विसेसाहिओ । ८७. तस्मिं द्विदिखंडयद्वा ठिदिवंधगद्वा च तुल्ला । ८८.
एकस्मिं द्विदिखंडए अणुभागखंडयसहस्साणि वादेदि । ८९. ठिदिखंडगे समत्ते

संख्यात सहस्र स्थितिवन्धापसरणोंके होनेपर अधःप्रवृत्तकरणका काल समाप्त हो जाता है ॥७४-७८॥

चूर्णिसू०—अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जघन्य स्थितिखंड पल्योपमका संख्यातवाँ भाग है और उत्कृष्ट स्थितिखंड सागरोपमपृथक्त्व है । अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें होनेवाले स्थितिवन्धसे पल्योपमके संख्यातवे भागसे हीन अपूर्व स्थितिवन्ध अपूर्वकरणके प्रथम समयमें होता है । अपूर्वकरणके प्रथम समयमें अनुभागकांडकघात अप्रशस्त प्रकृतियोंका अनन्त बहुभाग होता है । विगुद्विके बढ़नेसे प्रशस्त कर्मोंके अनुभागकी वृद्धि तो होती है, पर अनुभागका घात नहीं होता है ॥७९-८१॥

अब चूर्णिकार अनुभागकांडकघातका माहात्म्य बतलानेके लिए अल्पबहुत्व कहते हैं—

चूर्णिसू०—अनुभागके एक प्रदेशगुणहानिस्थानान्तरमें जो अनुभागसम्बन्धी स्पर्धक हैं, वे वक्ष्यमाण पदोंकी अपेक्षा सबसे कम हैं । उनसे अतिस्थापनाके स्पर्धक अनन्तगुणित होते हैं, (क्योंकि जघन्य भी अतिस्थापनाके भीतर अनन्त गुणहानिस्थानान्तर पाये जाते हैं ।) अतिस्थापनाके स्पर्धकोसे निक्षेप सम्बन्धी स्पर्धक अनन्तगुणित होते हैं । निक्षेप-सम्बन्धी स्पर्धकोसे अनुभागकांडकरूपसे ग्रहण किये गये स्पर्धक अनन्तगुणित होते हैं, (क्योंकि, यहाँपर संभव द्विस्थानीय अनुभागसत्त्वके अनन्तवे भागको छोड़कर शेष अनन्त बहुभागको कांडकस्वरूपसे ग्रहण किया गया है ।) अपूर्वकरणके ही प्रथम समयमें आयु-को छोड़कर शेष कर्मोंका गुणश्रेणीनिक्षेप अनिवृत्तिकरणके कालसे और अपूर्वकरणके कालसे विशेष अधिक है । अपूर्वकरणमें स्थितिकांडकका उत्कीरणकाल और स्थितिवंधका काल, ये दोनों तुल्य होते हैं । (क्योंकि इन दोनोंका काल अन्तर्मुहूर्तमात्र है । इतना विशेष है कि प्रथम स्थितिकांडकके उत्कीरणकाल और स्थितिवन्धके काल यथाक्रमसे विशेष हीन होते जाते हैं ।) एक स्थितिकांडकके कालमें सहस्रो अनुभागकांडकोका घात करता है, (क्योंकि, स्थितिकांडकके उत्कीरण-कालसे अनुभागकांडकका उत्कीरण-काल संख्यातगुणित हीन होता है ।) स्थितिकांडक-घातके समाप्त होनेपर अनुभागकांडक-घात और स्थितिवन्धकका काल

अणुभागखंडयं च द्विदिवंधगद्वा च समत्ताणि भवन्ति । ९०. एवं टिदिसंखंडयसहस्मेहिं बहुएहिं गदेहिं अपुव्वकरणद्वा समत्ता भवदि । ९१. अपुव्वकरणस्स पढमसमए द्विदिसंतकम्मादो चरिमसमए द्विदिसंतकम्मं संखेज्जगुणहीणं ।

९२. अणियद्विस्म पढमसमए अण्णं द्विदिसंखंडयं, अण्णो द्विदिवंधो, अण्णमणु-भागखंडयं । ९३. एवं द्विदिसंखंडयसहस्मेहिं अणियद्विअद्वाए संखेज्जेमु भागेमु गदेमु अंतरं करोदि । ९४. जा तम्हि द्विदिवंधगद्वा तत्तिएण कालेण अंतरं करमाणो गुण-

समाप्त हो जाता है । इस प्रकार अनेक सहस्र स्थितिकांडक-वातांके व्यतीत हो जानेपर अपूर्वकरणका काल समाप्त हो जाता है । अपूर्वकरणके प्रथम समयमें होनेवाले स्थितिसत्त्वसे (और स्थितिवन्धसे) अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें स्थितिसत्त्व (और स्थितिवन्ध) संख्यात-गुणित हीन होता है । इस प्रकार अपूर्वकरणका काल समाप्त होता है ॥८२-९१॥

चूर्णिमू०—अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें अन्य स्थितिकंड, अन्य स्थितिवन्ध और अन्य अनुभागकांडक-वात प्रारम्भ होता है । (किन्तु गुणश्रेणि, निक्षेप अपूर्वकरणके समान ही प्रतिसमय असंख्यातगुणित प्रदेशोके विन्याससे विशिष्ट और गलितावशेषरूप ही रहता है ।) इस प्रकार सहस्रो स्थितिकांडक-वातोके द्वारा अनिवृत्तिकरण-कालके संख्यात बहु-भागोके व्यतीत होनेपर उक्त जीव मिथ्यात्वकर्मका अन्तर करता है ॥९२-९३॥

विशेषार्थ—विवक्षित कर्मोंकी अधस्तन और उपरिम स्थितियोंको छोड़कर मव्यवर्ती अन्तर्मुहूर्तप्रमाण स्थितियोंके निपेकोका परिणामविशेषसे अभाव करनेको अन्तरकरण कहते हैं । जब अनादिमिथ्यादृष्टि जीव क्रमशः अधःकरण और अपूर्वकरणका काल समाप्त करके अनिवृत्तिकरणकालके भी संख्यात बहु भाग व्यतीत कर लेता है, उस समय मिथ्यात्व कर्मका अन्तर्मुहूर्त काल तक अन्तरकरण करता है । अर्थात् अन्तरकरण प्रारम्भ करनेके समयसे पूर्व उद्यमे आनेवाले मिथ्यात्वकर्मकी अन्तर्मुहूर्त-प्रमाण स्थितिके निपेकोका उत्कीर्ण कर कुछ कर्म-प्रदेशोको प्रथमस्थितिमें क्षेपण करता है और कुछको द्वितीयस्थितिमें । अन्तरकरणसे नीचेकी अन्तर्मुहूर्त-प्रमित स्थितिको प्रथमस्थिति कहते हैं और अन्तरकरणसे ऊपरकी स्थिति-को द्वितीयस्थिति कहते हैं । इस प्रकार प्रतिसमय अन्तरायाम-सम्बन्धी कर्म-प्रदेशोको ऊपर-नीचेकी स्थितियोंमें तब तक क्षेपणकरता रहता है, जबतक कि अन्तरायाम-सम्बन्धी समस्त निपेकोका अभाव नहीं हो जाता है । यह क्रिया एक अन्तर्मुहूर्त काल तक जारी रहती है । इस प्रकार अन्तरायामके समस्त निपेकोके प्रथमस्थिति और द्वितीयस्थितिमें देनेको अन्तर-करण कहते हैं ।

चूर्णिमू०—उस समय जितना स्थितिवन्धका काल है, उतने कालके द्वारा अन्तरको करता हुआ गुणश्रेणिनिक्षेपके अग्राग्रसे अर्थात् गुणश्रेणीशीर्षसे लेकर (नीचे) संख्यातवें

१ किमतरकरण णाम ? विवक्खियकम्माण हेट्ठमोवरिमट्ठदीओ सोत्तूण मज्जे अतोमुहुत्तमेत्ताणं ट्ठिदीणं परिणामविसेयेण णिसेगाणमभावीकरणमतरकरणमिदि भण्णदे । जयध०

सेद्विणिक्रखेवस्स अग्गग्गादो [हेट्ठा] संखेज्जदिभागं खंडेदि । ९५. तदो अंतरं कीरमाणं कदं । ९६. तदोप्पहुडि उवसामगो त्ति भण्णइ ।

९७. पढमट्ठिदीदो वि विदियट्ठिदीदो वि आगाल-पडिआगालो' ताव, जाव आवलियपडिआवलियाओ' सेसाओ त्ति । ९८. आवलिय-पडिआवलियासु सेसासु तदो-प्पहुडि मिच्छत्तस्स गुणसेही णत्थि । ९९. सेसाणं कम्मणं गुणसेही अत्थि । १००.

भागप्रमाण प्रदेशाप्रको खंडित करता है । (गुणश्रेणीशीर्षसे ऊपर संख्यातगुणी उपरिम स्थितियोंको खंडित करता है । तथा अन्तरके लिए वहाँपर उत्कीर्ण किये गये प्रदेशाप्रको उस समय बंधनेवाले मिथ्यात्वकर्ममें उसकी आवाधाकालहीन द्वितीयस्थितिमें स्थापित करता है और प्रथमस्थितिमें भी देता है, किन्तु अन्तरकाल-सम्बन्धी स्थितियोंमें नहीं देता है ।) इस प्रकार किया जानेवाला कार्य किया गया, अर्थात् अन्तरकरणका कार्य सम्पन्न हुआ । अन्तरकरण समाप्त होनेके समयसे लेकर वह जीव 'उपशामक' कहलाता है ॥९४-९६॥

विशेषार्थ—यद्यपि अन्तरकरण समाप्त करनेसे पूर्व भी वह जीव 'उपशामक' ही था, किन्तु चूर्णिकारने यहाँ यह पद मध्यदीपकन्यायसे दिया है, तदनुसार यह अर्थ होता है कि अधःप्रवृत्तकरण प्रारम्भ करनेके समयसे लेकर अन्तरकरण करनेके समय तक भी वह उपशामक था और आगे भी मिथ्यात्वके तीन खंड करने तक उपशामक कहलायगा ।

चूर्णिसू०—प्रथमस्थितिसे भी और द्वितीयस्थितिसे भी तत्र तक आगाल-प्रत्यागाल होते रहते हैं, जबतक कि आवली और प्रत्यावली शेष रहती है ॥९७॥

विशेषार्थ—प्रथमस्थिति और द्वितीयस्थितिका अर्थ पहले बतला आये हैं । अप-कर्षणके निमित्तसे द्वितीयस्थितिके कर्म-प्रदेशोंके प्रथमस्थितिमें आनेको आगाल कहते हैं । तथा उत्कर्षणके निमित्तसे प्रथमस्थितिके कर्म-प्रदेशोंके द्वितीयस्थितिमें जानेको प्रत्यागाल कहते हैं । सूत्रमें 'आवली' ऐसा सामान्य पद होनेपर भी प्रकरणवश उसका अर्थ 'उदयावली' करना चाहिए । उदयावलीमें ऊपरके आवलीप्रमाण कालको प्रत्यावली या द्वितीयावली कहते हैं । जब अन्तरकरण करनेके पश्चात् मिथ्यात्वकी स्थिति आवलि-प्रत्यावलीमात्र रह जाती है, तब आगाल प्रत्यागालरूप कार्य बन्द हो जाते हैं ।

चूर्णिसू०—आवली और प्रत्यावलीके शेष रह जानेपर उससे आगे मिथ्यात्वकी गुणश्रेणी नहीं होती है, (क्योंकि उस समयमें उदयावलीसे बाहिर कर्म-प्रदेशोंका निक्षेप नहीं होता है ।) किन्तु शेष कर्मोंकी गुणश्रेणी होती है । (यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि आयुर्कर्मकी भी उस समय गुणश्रेणी नहीं होती है ।) उस समय प्रत्यावलीसे

१ आगालमागालो, विदियट्ठिदिपदेसाण पढमट्ठिदीए ओकड्डुणावसेणागमणमिदि वुत्त होइ । प्रत्यागलन प्रत्यागालः, पटमट्ठिदिपदेसाण विदियट्ठिदीए उक्कड्डुणावसेण गमणमिदि भण्णिद होइ । तदो पढम विदियट्ठिदिपदेसाणमुक्कड्डुणोक्कड्डुणावसेण परोप्परविसयसकमो आगाल पडिआगालो त्ति वेत्तव्वो । जयध०

२ तत्थावलिया त्ति वुत्ते उदयावलिया वेत्तव्वा । पडिआवलिया त्ति एदेण वि उदयावलियादो उवरिमविदियावलिया गहेव्ववा । जयध०

पडिआवलियादो चैव उदीरणा । १०१. आवलियाए सेसाए मिच्छत्तस्स वादो णत्थि ।

१०२. चरिमसमयमिच्छाङ्गी से काले उवसंतदंसणमोहणीओ^१ । १०३. ताथे चैव तिण्णि कम्मसां उप्पादिदां । १०४. पढमसमयउवसंतदंसणमोहणीओ मिच्छत्तादो सम्मामिच्छत्ते बहुगं पदेसग्गं देदि । सम्मत्ते असंखेज्जगुणहीणं पदेसग्गं* देदि । १०५. विदियसमए सम्मत्ते असंखेज्जगुणं देदि । १०६. सम्मामिच्छत्ते असंखेज्जगुणं देदि । १०७. तदियसमए सम्मत्ते असंखेज्जगुणं देदि । १०८. सम्मामिच्छत्ते असंखेज्जगुणं देदि । १०९. एवमतोमुहुत्तद्धं गुणसंक्रमो णाम । ११०. तत्तो परमंगुलस्स असंखेज्जदि-

ही मिध्यात्वकर्मकी उदीरणा होती है । आवली अर्थात् उद्यावलीमात्र प्रथमस्थितिके शेष रह जानेपर मिध्यात्वकर्मके स्थिति-अनुभागका उदीरणाल्पसे घात नहीं होता है ॥१८-१०१॥

विशेषार्थ—मिध्यात्वका स्थितिकांडकघात और अनुभागकांडकघात तो प्रथमस्थितिके अन्तिम समय तक संभव है, क्योंकि, चरमस्थितिके बन्धक साथ ही उनकी समाप्ति देखी जाती है । इसलिए यहाँ उदीरणाघातका ही निषेध किया गया है, ऐसा जानना चाहिए ।

चूणिंमू०—उपर्युक्त विधानसे आवलीमात्र अवशिष्ट मिध्यात्वकी प्रथमस्थितिको क्रमसे वेदन करता हुआ उक्त जीव चरमसमयवर्ती मिध्यादृष्टि होता है और तदनन्तर समयमें अर्थात् मिध्यात्वकी सर्व प्रथमस्थितिको गला देनेपर वह दर्शनमोहनीयकर्मका उपशम करके प्रथमोपशमसम्यक्त्वको उत्पन्न करता है । तभी ही वह अर्थात् दर्शनमोहनीयकर्मका उपशमन करनेके प्रथम समयमें ही, मिध्यात्वकर्मके मिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृति नामके तीन कर्मांश अर्थात् खंड उत्पन्न करता है । प्रथमसमयवर्ती उपशम-सम्यग्दृष्टि जीव मिध्यात्वसे प्रदेशाय अर्थात् उदीरणाको प्राप्त कर्म-प्रदेशोको लेकर उनका वहु भाग सम्यग्मिध्यात्वमें देता है और उससे असंख्यातगुणित हीन प्रदेशाय सम्यक्त्वप्रकृतिमें देता है । इससे द्वितीय समयमें सम्यक्त्वप्रकृतिमें असंख्यातगुणित प्रदेशाय देता है । इससे तीसरे समयमें सम्यक्त्व-प्रकृतिमें असंख्यातगुणित प्रदेशाय देता है और इससे भी असंख्यातगुणित प्रदेशाय सम्यग्मिध्यात्वमें देता है । इस प्रकार अन्तर्मुहूर्तकाल तक गुणसंक्रमण होता है । अर्थात् गुणश्रेणीके द्वारा सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकर्मको गुणसंक्रमणके अन्तिम समय तक पूरित करता है । असंख्यातगुणित क्रमसे कर्म-प्रदेशोके संक्रमणको गुणसंक्रमण कहते हैं । इस

१ को एत्थ दसणमोहणीयत्स उवसमो णाम ? करणपरिणामेहिं णित्सत्तीकयत्स दसणमोहणीयत्स उदयपजाएण विणा अवट्ठाणमुवसमो त्ति मण्णदे । जयध०

२ मिच्छत्त-सम्मत्त सम्मामिच्छत्तसण्णिदा । जयध०

३ कुदो एवमेदेसिमुप्पत्ती चै ण, अणियट्ठिकरणपरिणामेहिं पेल्लिजमाणत्स दंसणमोहणीयत्स जतेण दल्लिजमाणकोद्वरात्तित्सेव तिण्हं भेदाणमुप्पत्तीए विरोहाभावादो । जयध०

४ ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'पदेसग्गं' पाठ नहीं है । (देखो पृ० १७२३)

भागपडिभागेण संक्रमेदि, सो विज्झादसंक्रमो णाम । १११. जाव गुणसंक्रमो ताव मिच्छत्तवज्जाणं कम्माणं ठिदिघादो अणुभागघादो गुणसेही च ।

११२. एदिस्से परूवणाए णिट्ठिदाए इमो दंडओ षणुवीसपडिगो । ११३. सव्वत्थोवा उवसामगस्स जं चरिम-अणुभागखंडयं तस्स उक्कीरणद्वा । ११४. अपुव्व-करणस्स पढमस्स अणुभागखंडयस्स उक्कीरणकालो विसेसाहियो । ११५. चरिमट्ठिदि-खंडयउक्कीरणकालो तम्हि चेव ट्ठिदिबंधकालो च दो वि तुल्ला संखेज्जगुणा । ११६. अंतरकरणद्वा तम्हि चेव ट्ठिदिबंधगद्वा च दो वि तुल्लाओ विसेसाहियाओ । ११७. अपुव्वकरणे ट्ठिदिखंडयउक्कीरणद्वा ट्ठिदिबंधगद्वा च दो वि तुल्लाओ विसेसाहियाओ । ११८. उवसामगो जाव गुणसंक्रमेण सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणि पूरेदि सो कालो संखेज्ज-गुणो । ११९. पढमसमयउवसामगस्स गुणसेदिसीसयं संखेज्जगुणं । १२०. पढमट्ठिदी संखेज्जगुणा । १२१. उवसामगद्वा विसेसाहिया । १२२. [विसेसो पुण] वे आवलियाओ समयूणाओ । १२३. अणियट्ठि-अद्वा संखेज्जगुणा । १२४. अपुव्वकरणद्वा संखेज्जगुणा ।

गुणसंक्रमणके पश्चात् सूच्यंगुलके असंख्यातवें भागरूप प्रतिभागके द्वारा संक्रमण करता है । इसीका नाम विध्यातसंक्रमण है । जब तक गुणसंक्रमण होता है, तब तक मिथ्यात्व (और आयु) कर्मको छोड़कर शेष कर्मोंका स्थितिघात, अनुभागघात और गुणश्रेणीरूप कार्य होते रहते हैं ॥१०२-१११॥

चूर्णिसू०—इस दर्शनमोहोपशामकर्त्री प्ररूपणाके समाप्त होनेपर यह पच्चीस पदिक अर्थान् पदोंवाला अल्पवहुत्व-दंडक जानने योग्य है—दर्शनमोहनीयके उपशमन करनेवाले जीवके मिथ्यात्व कर्मका जो अन्तिम अनुभाग खंड है, उसके उत्कीरणका काल वक्ष्यमाण पदोंकी अपेक्षा सबसे कम है (१) । इससे अपूर्वकरणके प्रथम समयमें होनेवाले अनु-भाग खंडका उत्कीरण काल विशेष अधिक है (१) । इससे अनिवृत्तिकरणके अन्तिम स्थिति-कांडकका उत्कीरणकाल और इसी समयमें संभव स्थितिवन्धका काल ये दोनों परस्परमें समान होते हुए भी संख्यातगुणित होते हैं (३-४) । इससे अन्तरकरणका काल और वहींपर संभव स्थितिवन्धका काल ये दोनों परस्पर तुल्य होते हुए भी विशेष अधिक है (५-६) । इससे अपूर्वकरणके प्रथम समयमें होनेवाले स्थितिखंडका उत्कीरणकाल और स्थितिवन्धका काल ये दोनों परस्पर समान होते हुए भी विशेष अधिक हैं (७-८) । इससे दर्शनमोहका उपशामक जीव जब तक गुणसंक्रमणसे सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मि-थ्यात्वको पूरता है, वह काल संख्यातगुणा है (९) । इससे प्रथम समयवर्ती उपशामकका गुणश्रेणीशीर्षक संख्यातगुणा है (१०) । इससे मिथ्यात्वकी प्रथमस्थिति संख्यातगुणी है (११) । इससे उपशामकाद्वा अर्थात् दर्शनमोहके उपशमानेका काल विशेष अधिक है । (१२) वह विशेष एक समय कम दो आवलीप्रमाण है । इससे अनिवृत्तिकरणका काल संख्यातगुणा है (१३) । इससे अपूर्वकरणका काल संख्यातगुणा है (१४) । इससे गुण-

१२५. गुणसेठ्ठिणिकखेवो विसेसाहिओ। १२६. उवसंतद्धा^१ संखेज्जगुणा। १२७. अंतरं संखेज्जगुणं। १२८. जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा। १२९. उक्कस्सिया आवाहा संखेज्जगुणा। १३०. जहणयं द्विदिखंडयमसंखेज्जगुणं। १३१. उक्कस्सयं द्विदिखंडयं संखेज्जगुणं। १३२. जहणगो द्विदिवंधो संखेज्जगुणो। १३३. उक्करसगो द्विदिवंधो संखेज्जगुणो। १३४. जहणयं द्विदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं। १३५. उक्कस्सयं द्विदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं। १३६. एवं पणुवीसदिपडिगो दंडगो समत्तो।

१३७. एत्तो सुत्तफासो कायव्वो भवदि।

(४२) दंसणमोहस्सुवसामगो दु चटुसु वि गदीसु वोद्धव्वो।

पंचिदिओ य सण्णी^२ णियमा सो होइ पज्जत्तो ॥९५॥

(४३) सव्वणिरय-भवणेषु दीव-समुद्दे गह [गुह] जोदिसि-विमाणे।

अधिजोग्ग-अणभिजोग्गो उवसामो होइ वोद्धव्वो ॥९६॥

श्रेणीका निक्षेप अर्थात् आयाम विशेष अविक है (१५)। इससे उपशमसम्यक्त्वका काल संख्यातगुणा है (१६)। इससे अन्तर-सम्बन्धी आयाम संख्यातगुणा है (१७)। इससे जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है (१८)। इससे उत्कृष्ट आवाधा संख्यातगुणी है (१९)। इससे (अपूर्वकरणके प्रथम समयमें संभव) जघन्य स्थितिखंड असंख्यातगुणा है (२०)। इससे अपूर्वकरणके प्रथम समयमें होनेवाला उत्कृष्ट स्थितिखंड संख्यातगुणा है (२१)। इससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है (२२)। इससे अपूर्वकरणके प्रथम समयमें संभव उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है (२३)। इससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिसत्त्व संख्यातगुणा है (२४)। इससे मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिसत्त्व संख्यातगुणा है (२५)। यह जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिसत्त्व अपूर्वकरणके प्रथम समयमें ही जानना चाहिए। इस प्रकार यह पच्चीस पदवाला अल्पवहुत्व-दंडक समाप्त हुआ ॥११२-१३६॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे गाथा सूत्रोंका अर्थ प्रकट करने योग्य है ॥१३७॥

दर्शनमोहनीय कर्मका उपशम करनेवाला जीव चारों ही गतियोंमें जानना चाहिए। वह जीव नियमसे पंचेन्द्रिय, संज्ञी और पर्याप्तक होता है ॥९५॥

उक्त गाथाके द्वारा सम्यग्दर्शनके उत्पन्न करनेकी योग्यतारूप प्रायोग्यलब्धिका निरूपण किया गया है। ग्रन्थकार उसीका और भी स्पष्टीकरण करनेके लिए उत्तरगाथासूत्र कहते हैं—

इन्द्रक, श्रेणीवद्ध आदि सर्व नरकोंमें, सर्व प्रकारके भवनवासी देवोंमें, सर्व-

१ जन्म काले भिच्छत्तमुवसतभावेणच्छदि सो उवसमसम्मत्तकालो उवसतद्धा त्ति भण्णदे। जयध०

२ ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'पंचिदियसण्णी [पुण-]' ऐसा पाठ मुद्रित है। (देखो पृ० १७२८)

३ ताम्रपत्रवाली प्रतिमें '-मणभिजोग्गो' पाठ मुद्रित है। (देखो पृ० १७२९)

(४४) उवसामगो च सव्वो णिब्वाधादो तहा णिरासाणो ।
उवसंते भजियव्वो णीरासाणो य खीणम्मि ॥९७॥

द्वीप और समुद्रोंमें, सर्व गुह्य अर्थात् व्यन्तर देवोंमें, समस्त ज्योतिष्क देवोंमें, सौधर्म कल्पसे लेकर नव ग्रैवेयक तकके सर्व विमानवासी देवोंमें, आभियोग्य अर्थात् वाहनादि कुत्सित कर्ममें नियुक्त वाहन देवोंमें, उनसे भिन्न किल्बिषिक आदि अनुत्तम, तथा पारिषद आदि उत्तम देवोंमें दर्शनमोहनीय कर्मका उपशम होता है ॥९६॥

विशेषार्थ—यहाँ यह शंका की जा सकती है कि अढ़ाई द्वीप-समुद्रवर्ती संख्यात या असंख्यात वर्षायुक्त गर्भज मनुष्य-तिर्यचोके तो प्रथमोपशम सम्यग्दर्शनके उत्पन्न करनेकी योग्यता है । किन्तु अढ़ाई द्वीपसे परवर्ती जो असंख्यात द्वीप-समुद्र है और जिनमें कि त्रस जीवोका अभाव बतलाया गया है, वहाँपर भी दर्शनमोहके उपशम होनेका विधान इस गाथा-में कैसे किया गया है ? इसका समाधान यह है कि जो अढ़ाई द्वीपवर्ती तिर्यच वहाँपर प्रथमोपशमसम्यक्त्वके उत्पन्न करनेके लिए प्रयत्न-शील थे, उन्हें यदि पूर्व भवका वैरी कोई देव उठाकर उन असंख्यात द्वीप या समुद्रोंमें जहाँ कहीं भी फेक आवे, तो उन जीवोंको वहाँ पर प्रथमोपशमसम्यक्त्व उत्पन्न हो सकता है । अतीत कालकी अपेक्षा ऐसा कोई द्वीप और समुद्र नहीं बचा है कि जहाँपर पूर्व-वैरी देवोंके द्वारा अपहृत तिर्यचोके दर्शनमोहका उपशम न हुआ हो । अतः सर्व द्वीप-समुद्रोंमें अपहरणकी अपेक्षा दर्शनमोहके उपशमका विधान किया गया है ।

दर्शनमोहके उपशामक सर्व जीव निर्व्याघात तथा निरासान होते हैं । दर्शनमोहके उपशान्त होनेपर सासादनभाव भजितव्य है । किन्तु क्षीण होनेपर निरासान ही रहता है ॥९७॥

विशेषार्थ—दर्शनमोहके उपशमन करनेवाले जीवके जिस समय 'उपशामक' संज्ञा प्राप्त हो जाती है, उस समयके पश्चात् जब तक दर्शनमोहका उपशम नहीं हो जाता है, तब तक वह निर्व्याघात रहता है । अर्थात् सर्व प्रकारके उपद्रव, उपसर्ग या घोरसे घोर विघ्न-वाधाएँ आनेपर भी उसके दर्शनमोहका उपशम हो करके ही रहता है । अपूर्वकरण और अनिवृत्ति-करण परिणामोंके प्रारंभ हो जानेके पश्चात् संसारकी कोई भी शक्ति उसके सम्यक्त्वोत्पत्तिमें व्याघात नहीं कर सकती है । न उसका उस अवस्थामें मरण ही होता है । दर्शनमोहके उपशामकको निरासान कहनेका अर्थ यह है कि दर्शनमोहनीयका उपशमन करते हुए वह सासादन गुणस्थानको नहीं प्राप्त होता है । किन्तु दर्शनमोहके उपशान्त हो जानेपर भजितव्य है अर्थात् यदि उपशमसम्यक्त्वके कालमें कुछ समय शेष रहा है, तो वह सासादनगुणस्थानको प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं । इसीको स्पष्ट करनेके लिए कहा गया है कि उपशमसम्यक्त्वका काल क्षीण अर्थात् समाप्त हो जानेपर निरासान अर्थात् सासादनगुण स्थानको नहीं प्राप्त होता

(४५) सागारे पट्टवगो णिट्टवगो मज्झिमो य भजियव्वो ।
जोगे अण्णदरम्हि य जहण्णगो तेउल्लेस्साए ॥९८॥

(४६) मिच्छत्तवेदणीयं कम्मं उवसामगस्स वोद्धव्वं ।
उवसंते आसाणे तेण परं होइ भजियव्वो ॥९९॥

है । जयधवलाकारने 'अथवा' कहकर गाथाके इस चतुर्थ चरणका यह भी अर्थ किया है कि दर्शनमोहनीयके क्षीण हो जानेपर अर्थात् क्षायिकसम्यक्त्वके उत्पन्न हो जानेपर जीव सासादनगुणस्थानको नहीं प्राप्त होता है ।

साकारोपयोगमें वर्तमान जीव ही दर्शनमोहनीयकर्मके उपशमनका प्रस्थापक होता है । किन्तु निष्ठापक और मध्य अवस्थावर्ती जीव भजितव्य है । तीनों योगोंमें से किसी एक योगमें वर्तमान और तेजोलेश्याके जघन्य अंशको प्राप्त जीव दर्शनमोहका उपशमन करता है ॥९८॥

विशेषार्थ—दर्शनमोहका उपशम प्रारम्भ करनेवाला जीव अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयसे लेकर अन्तर्मुहूर्त काल तक प्रस्थापक कहलाता है । मति, श्रुत या विभंगमेसे किसी एक ज्ञानोपयोगसे उपयुक्त जीव ही दर्शनमोहके उपशमको प्रारम्भ कर सकता है, दर्शनोपयोगसे उपयुक्त जीव नहीं कर सकता । क्योंकि, अवीचारात्मक या निर्विकल्पक दर्शनोपयोगसे दर्शनमोहके उपशमका होना संभव नहीं है । गाथाके इस प्रथम चरणसे यह अर्थ ध्वनित किया गया कि जागृत-अवस्था-परिणत जीव ही सम्यक्त्वोत्पत्तिके योग्य है, निर्विकल्प, सुत्त, या मत्त आदि नहीं । दर्शनमोहके उपशमनाकरणको सम्पन्न करनेवाला जीव निष्ठापक कहलाता है । दर्शनमोहका उपशामक जब सर्व प्रथमस्थितिको क्रमसे गलाकर अन्तर-प्रवेशके अभिमुख होता है, उस समय उसे निष्ठापक कहते हैं । दर्शनमोहोपशमनके प्रस्थापन और निष्ठापन कालके मध्यवर्ती जीवको यहाँ मध्यम पदसे विवक्षित किया गया है । यह मध्यवर्ती और निष्ठापक जीव भजितव्य है, अर्थात् साकारोपयोगी भी हो सकता है और अनाकारोपयोगी भी । दर्शनमोहनीयके उपशमका प्रस्थापक चारो मनोयोगोमेसे किसी एक मनोयोगमें, चारो वचनयोगोमेसे किसी एक वचनयोगमें तथा औदारिककाययोग और वैक्रियिककाययोगमेसे किसी एक काययोगमें वर्तमान होना चाहिए । इसी प्रकार उसे जघन्य तेजोलेश्यासे परिणत होना आवश्यक है । तेजोलेश्याका यह नियम मनुष्य-तिर्यचोकी अपेक्षासे कहा गया जानना चाहिए । मनुष्य-तिर्यचोमे कोई भी जीव कितनी ही मन्द विशुद्धिसे परिणत क्यों न हो, उसे कमसे कम तेजोलेश्याके जघन्य अंशसे युक्त हुए बिना सम्यक्त्वकी उत्पत्ति असंभव है । उक्त नियम देव और नारकियोमे संभव इसलिए नहीं है कि देवोके सदा काल शुभ लेश्या और नारकियोके अशुभ लेश्या ही पाई जाती है ।

उपशामकके मिथ्यात्ववेदनीयकर्मका उदय जानना चाहिए । किन्तु उपशान्त अवस्थाके विनाश होनेपर तदनन्तर उसका उदय भजितव्य है ॥९९॥

(४७) सव्वेहिं द्विदिविसेसेहिं उवसंता होंति तिण्णि कम्मंसा ।

एकमिह य अणुभागे णियमा सव्वे द्विदिविसेसा ॥१००॥

(४८) मिच्छत्तपच्चयो खलु वंधो उवसाभगस्स बोद्धव्वो ।

उवसंते आसाणे तेण परं होइ भजियव्वो ॥१०१॥

विशेषार्थ—दर्शनमोहनीयका उपशमन करनेवाला जीव जब तक अन्तर-प्रवेश नहीं करता है, तब तक उसके नियमसे मिथ्यात्वकर्मका उदय बना रहता है। किन्तु दर्शनमोहके उपशान्त हो जानेपर उपशमसम्यक्त्वके कालमें मिथ्यात्वका उदय नहीं होता है। जब उपशमसम्यक्त्वका काल नष्ट हो जाता है, तब उसके पश्चात् मिथ्यात्वका उदय भजनीय है, अर्थात् मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाले जीवके उसका उदय होता है, किन्तु सासादन, मिश्र या वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले जीवके मिथ्यात्वका उदय नहीं होता है। जयध्वलाकारने अथवा कह कर और 'णत्थि' पदका अध्याहार करके गाथाके तृतीय चरणका यह अर्थ भी किया है कि उपशमसम्यक्त्वके कालके भीतर और सासादनकालके भीतर मिथ्यात्वका उदय नहीं होता है।

दर्शनमोहके मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृति, ये तीनों कर्मांश, दर्शनमोहकी उपशान्त अवस्थामें सर्वस्थितिविशेषोंके साथ उपशान्त रहते हैं, अर्थात् उस समय तीनों प्रकृतियोंमेंसे किसी एककी भी किसी स्थितिका उदय नहीं रहता है। तथा एक ही अनुभागमें उन तीनों कर्मांशोंके सभी स्थिति-विशेष नियमसे अवस्थित रहते हैं ॥१००॥

विशेषार्थ—यहाँ यद्यपि एक ही अनुभागमें सर्व स्थितिविशेष रहते हैं, अर्थात् अन्तरसे बाहिर अनन्तरवर्ती जघन्य स्थितिविशेषमें जो अनुभाग होता है, वही अनुभाग उत्कृष्ट स्थितिपर्यन्त उससे ऊपरके समस्त स्थितिविशेषोंमें होता है, उससे भिन्न प्रकारका नहीं होता, ऐसा सामान्यसे कहा है, तथापि मिथ्यात्वके द्विस्थानीय सर्ववाती अनुभागसे सम्यग्मिथ्यात्वका अनुभाग अनन्तगुणित हीन होता है और सम्यग्मिथ्यात्वके अनुभागसे सम्यक्त्वप्रकृतिका देशवाती द्विस्थानीय अनुभाग अनन्तगुणित हीन होता है, इतना विशेष अर्थ जानना चाहिए।

उपशामकके मिथ्यात्वप्रत्ययक अर्थात् मिथ्यात्वके निमित्तसे मिथ्यात्वका और ज्ञानावरणादि कर्मोंका बन्ध जानना चाहिए। किन्तु दर्शनमोहनीयकी उपशान्त अवस्थामें मिथ्यात्व-प्रत्ययक बन्ध नहीं होता है। उपशान्त अवस्थाके समाप्त होनेपर उसके पश्चात् मिथ्यात्वनिमित्तक बन्ध भजनीय है ॥१०१॥

विशेषार्थ—दर्शनमोहके उपशम करनेवाले जीवके अन्तरसे पूर्ववर्ती प्रथम स्थितिके अन्तिम समय तक मिथ्यात्व-निमित्तक बन्ध होता है, क्योंकि यहाँ तक वह मिथ्यादृष्टि है

(४९) सम्भामिच्छाइट्टी दंसणमोहस्सऽवंधगो होइ ।
वेदयसम्भाइट्टी खीणो वि अवंधगो होइ ॥१०२॥

(५०) अंतोमुहुत्तमद्दं सव्वोवसमेण होइ उवसंतो ।
ततो परमुदयो खलु तिण्णेकदरस्स कम्मस्स ॥१०३॥

और उसके मिथ्यात्वका, तथा मिथ्यात्वके निमित्तसे बंधनेवाले अन्य कर्मोंका बन्ध होता रहता है। यद्यपि यहाँपर असंयम, कपाय आदि अन्य प्रत्ययोसे भी कर्मोंका बन्ध होता है, तथापि उनकी यहाँ विवक्षा नहीं की गई है, क्योंकि जहाँपर मिथ्यात्वप्रत्यय विद्यमान है वहाँ पर असंयमादि शेष प्रत्ययोका अस्तित्व स्वतः सिद्ध है। अन्तरमें प्रवेश करनेके प्रथम समयसे लेकर उपशमसम्यक्त्वके कालके भीतर मिथ्यात्वनिमित्तक बन्ध नहीं होता है। किन्तु जब उपशमसम्यक्त्वका काल समाप्त हो जाता है, तब मिथ्यात्वनिमित्तक बन्ध मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाले जीवके तो होता है, किन्तु सम्यग्मिथ्यात्व या सम्यक्त्वप्रकृतिके उदयको प्राप्त होनेवाले जीवके नहीं होता है। जयधवलाकारने 'आसाणे' पदका अर्थ 'णत्थि' पदका अध्याहार करके यह किया है कि सासादनसम्यग्दृष्टिके भी मिथ्यात्व-निमित्तक बन्ध नहीं होता है।

सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव दर्शनमोहका अवन्धक होता है। इसी प्रकार वेदक-सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, तथा 'अपि' शब्दसे सूचित उपशमसम्यग्दृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि जीव भी दर्शनमोहका अवन्धक होता है ॥१०२॥

विशेषार्थ—जयधवलाकारने 'अथवा' कहकर इस गाथासूत्रके एक और भी अर्थ-विशेषको व्यक्त किया है। वह यह कि जिस प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव मिथ्यात्वकर्मके उदयसे मिथ्यात्वकर्मका बन्ध करता है, उस प्रकार क्या सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव सम्यग्मिथ्यात्वके उदय होनेसे सम्यग्मिथ्यात्वकर्मका और वेदकसम्यग्दृष्टि जीव सम्यक्त्वप्रकृतिका उदय होनेसे सम्यक्त्वप्रकृतिका बन्ध करता है? इस प्रश्नका उत्तर यह है कि सम्यग्मिथ्यादृष्टि न तो सम्यग्मिथ्यात्वका बन्ध करता है और न वेदकसम्यग्दृष्टि सम्यक्त्वप्रकृतिका बन्ध करता है। इसका कारण यह है कि इन दोनों प्रकृतियोंको कर्मसिद्धान्तमें बन्धप्रकृतियोंमें नहीं गिनाया गया है। क्षायिकसम्यग्दृष्टि तो दर्शनमोहका अवन्धक होता ही है, क्योंकि वह तो तीनों ही प्रकृतियोंका क्षय कर चुका है।

उपशमसम्यग्दृष्टि जीवके दर्शनमोहनीयकर्म अन्तर्मुहूर्तकाल तक सर्वोपशमसे उपशान्त रहता है। इसके पश्चात् नियमसे उसके मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृति इन तीन कर्मोंमेंसे किसी एक कर्मका उदय हो जाता है ॥१०३॥

विशेषार्थ—गाथासूत्रमें पठित 'अन्तर्मुहूर्तकाल' इस पदसे अन्तर-कालकी दीर्घताके संख्यातवे भागका ग्रहण करना चाहिए। सर्वोपशमका अभिप्राय यह है कि उपशमसम्यक्त्वके कालमें दर्शनमोहनीयकी तीनों प्रकृतियोंका प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश-सम्बन्धी उदय सर्वथा नहीं पाया जाता है। उपशमसम्यक्त्वका काल समाप्त होनेपर तीनों

(५१) सम्मत्तपढमलंभो सव्वोवसमेण तह वियट्ठेण ।

भजियव्वो य अभिक्खं सव्वोवसमेण देसेण ॥१०४॥

(५२) सम्मत्तपढमलंभस्सऽणंतरं पच्छदो य भिच्छत्तं ।

लंभस्स अपढमस्स दु भजियव्वो पच्छदो होदि ॥१०५॥

कर्मोंसे किसी एक कर्मका नियमसे उदय हो जाता है । यदि सम्यक्त्वप्रकृतिका उदय होता है तो वह वेदकसम्यग्दृष्टि बन जाता है, यदि सम्यग्मिथ्यात्वकर्मका उदय होता है तो सम्यग्मिथ्यादृष्टि बन जाता है और यदि मिथ्यात्वका उदय होता है तो मिथ्यादृष्टि बन जाता है ।

अनादिमिथ्यादृष्टि जीवके सम्यक्त्वका प्रथम वार लाभ सर्वोपशमसे होता है । सादिमिथ्यादृष्टियोंमें जो विप्रकृष्ट जीव है, वह भी सर्वोपशमसे ही प्रथमोपशम-सम्यक्त्वको प्राप्त करता है । किन्तु जो अविप्रकृष्ट सादि मिथ्यादृष्टि है, और जो अभीक्षण अर्थात् चार-चार सम्यक्त्वको ग्रहण करता है, वह सर्वोपशम और देशोपशमसे भजनीय है, अर्थात् दोनों प्रकारसे प्रथमोपशमसम्यक्त्वको प्राप्त होता है ॥१०४॥

विशेषार्थ—दर्शनमोहकी मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृति, इन तीनों ही प्रकृतियोंका अधःकरणादि तीनों परिणाम-विशेषोंके द्वारा उदयाभाव करनेको सर्वोपशम कहते हैं । मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वके उदयाभावरूप उपशमके साथ सम्यक्त्वप्रकृति-सम्बन्धी देशवाती स्पर्धकोंके उदयको देशोपशम कहते हैं । अनादिमिथ्यादृष्टि जीव प्रथम वार जो उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त करता है, वह नियमतः सर्वोपशमसे ही करता है । जो जीव एक वार भी सम्यक्त्वको पाकर पुनः मिथ्यादृष्टि होता है, उसे सादिमिथ्यादृष्टि कहते हैं । सादिमिथ्यादृष्टि भी दो प्रकारके हांते है—विप्रकृष्ट सादिमिथ्यादृष्टि और अविप्रकृष्ट सादि-मिथ्यादृष्टि । जो सम्यक्त्वसे गिरकर और मिथ्यात्वको प्राप्त होकर वहाँपर सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिकी उद्वेलेना कर पल्योपमके असंख्यातवे भागमात्र कालतक, अथवा इससे भी ऊपर देशोन अर्धपुद्गलपरिवर्तन काल तक संसारमें परिभ्रमण करते हैं, उन्हें विप्रकृष्ट सादिमिथ्यादृष्टि कहते हैं । जो मिथ्यात्वमे पहुँचनेके पश्चात् पल्योपमके असंख्यातवे भागके भीतर ही भीतर सम्यक्त्व ग्रहण करनेके अभिमुख होते हैं, उन्हें अवि-प्रकृष्ट सादिमिथ्यादृष्टि कहते हैं । इनमेंसे विप्रकृष्ट सादिमिथ्यादृष्टि तो नियमसे सर्वो-पशमके द्वारा ही प्रथमोपशमसम्यक्त्वका लाभ करता है । किन्तु अविप्रकृष्ट सादिमिथ्यादृष्टि सर्वोपशमसे भी और देशोपशमसे भी प्रथमोपशमसम्यक्त्वको प्राप्त करता है । इसका कारण यह है कि जो सम्यक्त्वसे गिरकर पुनः पुनः अल्पकालके द्वारा वेदक-प्रायोग्यकालके भीतर ही सम्यक्त्वको ग्रहण करनेके अभिमुख होता है, वह तो देशोपशमके द्वारा सम्यक्त्वका लाभ करता है, अन्यथा सर्वोपशमसे सम्यक्त्वका लाभ करता है ।

सम्यक्त्वकी प्रथम वार प्राप्तिके अनन्तर और पश्चात् मिथ्यात्वका उदय होता है । किन्तु अग्रथम वार सम्यक्त्वकी प्राप्तिके पश्चात् वह भजितव्य है ॥१०५॥

(५३) कम्माणि जस्स तिण्णि ढु णियमा सो संकमेण भजियव्वो ।
एवं जस्स ढु कम्मं संकमणे सो ण भजियव्वो ॥१०६॥

विशेषार्थ—अनादिमिध्यादृष्टि जीवके जो सम्यक्त्वका प्रथम वार लाभ होता है, उसके पूर्व क्षणमे अर्थात् मिध्यात्वके अन्तरके पूर्ववर्ती प्रथम-स्थितिके अन्तिम समयमे और उपशमकाल समाप्त होनेके पश्चात् मिध्यात्वका उदय माना गया है । किन्तु अप्रथम अर्थात् दूसरी, तीसरी आदि वार जो सम्यक्त्वका लाभ होता है, उसके पश्चात् मिध्यात्वका उदय भजितव्य है, अर्थात् वह कदाचित् मिध्यादृष्टि होकर वेदकसम्यक्त्व अथवा उपशम-सम्यक्त्वको प्राप्त करता है और कदाचित् सम्यग्मिध्यादृष्टि होकर वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त करता है ।

जिस जीवके मिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृति, ये तीन कर्म सत्तामें होते हैं; अथवा गाथा-पठित 'तु' शब्दसे मिध्यात्व या सम्यक्त्वप्रकृतिके विना शेष दो कर्म सत्तामें होते हैं, वह नियमसे संक्रमणकी अपेक्षा भजितव्य है । जिस जीवके एक ही कर्म सत्तामे होता है, वह संक्रमणकी अपेक्षा भजितव्य नहीं है ॥१०६॥

विशेषार्थ—जिस मिध्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि जीवमें दर्शनमोहकी तीनों प्रकृतियोंकी सत्ता होती है, उसके सम्यग्मिध्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृति तथा मिध्यात्व और सम्यग्मिध्यात्वका यथाक्रमसे संक्रमण देखा जाता है । किन्तु सासादनसम्यग्दृष्टि या सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवमे उक्त तीनों प्रकृतियोंकी सत्ता होते हुए भी उसके दर्शनमोहकी किसी भी प्रकृतिका संक्रमण नहीं होता है, क्योंकि दूसरे या तीसरे गुणस्थानवर्ती जीवके दर्शनमोहके संक्रमण करनेकी शक्तिका अत्यन्त अभाव माना गया है । इसी प्रकार सम्यक्त्वप्रकृतिकी उद्वेलना करनेवाले मिध्यादृष्टि जीवके जिस समय वह आवली-प्रविष्ट रहती है, उस समय उसके तीनोंकी सत्ता होकरके भी एक ही प्रकृतिका संक्रमण होता है । अथवा मिध्यात्वका क्षपण करनेवाले सम्यग्दृष्टि जीवके जिस समय उदयावली बाह्य-स्थित सर्व द्रव्य क्षपण कर दिया जाता है, उस समय उसके तीनोंकी सत्ता होकरके भी एकका ही संक्रमण होता है । इसकारण दर्शनमोहकी तीनों प्रकृतियोंकी सत्तावाला जीव स्यात् दो प्रकृतियोंका और स्यात् एक ही प्रकृतिका संक्रमण करनेवाला होता है और स्यात् किसीका भी संक्रमण नहीं करता है, इस प्रकार उसके भजनीयता सिद्ध हो जाती है । अब दर्शनमोहकी दो प्रकृतिकी सत्ता रखनेवाले जीवके संक्रमणकी अपेक्षा भजनीयताका निरूपण करते हैं—जिसने मिध्यात्वका क्षपण कर दिया है, ऐसे वेदकसम्यग्दृष्टिमे, अथवा सम्यक्त्वप्रकृतिकी उद्वेलना करके स्थित मिध्यादृष्टिमे दो प्रकृतियोंकी सत्ता होकरके भी एक ही प्रकृतिका तब तक संक्रमण होता है जब तक कि क्षय किया जाता हुआ, या उद्वेलना किया जाता हुआ सम्यग्मिध्यात्व अनावली-प्रविष्ट रहता है । किन्तु जब वह सम्यग्मिध्यात्व आवली-प्रविष्ट होता है, तब दो प्रकृतियोंकी सत्तावाले सम्यग्दृष्टि

(५४) सम्माइट्टी सहहदि पवयणं णियमसा दु उवइट्टं ।

सहहदि असव्भावं अजाणमाणो गुरुणिओगा ॥१०७॥

(५५) मिच्छाइट्टी णियमा उवइट्टं पवयणं ण सहहदि ।

सहहदि असव्भावं उवइट्टं वा अणुवइट्टं ॥१०८॥

या मिथ्यादृष्टि जीवके एक भी प्रकृतिका संक्रमण नहीं होता है । इसलिए दो प्रकृतियोंकी सत्ता रखनेवाले जीवके भी भजनीयता सिद्ध हो जाती है । जिस सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि जीवके क्षपणा या उद्वेष्टनाके वशसे एक ही सम्यक्त्वप्रकृति या मिथ्यात्वप्रकृति अवशिष्ट रही है, वह संक्रमणकी अपेक्षा भजनीय नहीं है, क्योंकि वहाँ संक्रमण-शक्तिका अत्यन्त अभाव माना गया है, इसलिए वह असंक्रामक ही होता है, ऐसा कहा गया है ।

सम्यग्दृष्टि जीव सर्वज्ञके द्वारा उपदिष्ट प्रवचनका तो नियमसे श्रद्धान करता ही है, किन्तु कदाचित् अज्ञानवश सद्भूत अर्थको स्वयं नहीं जानता हुआ गुरुके नियोगसे असद्भूत अर्थका भी श्रद्धान करता है ॥१०७॥

विशेषार्थ—प्रकर्ष या अतिशययुक्त वचनको प्रवचन कहते हैं । प्रवचन, सर्वज्ञो-पदेश, परमागम और सिद्धान्त, ये सब एकार्थक नाम हैं । सम्यग्दृष्टि जीव सर्वज्ञके उपदेशका तो श्रद्धान असंदिग्धरूपसे करता ही है । किन्तु यदि किसी गहन एवं सूक्ष्म तत्त्वको स्वयं समझनेमें असमर्थ हो और परमागममें उसका स्पष्ट उल्लेख मिल नहीं रहा हो, तो वह गुरुके वचनोंको ही प्रमाण मानकर गुरुके नियोगसे असत्यार्थ अर्थका भी श्रद्धान कर लेता है, तथापि उसके सम्यग्दृष्टिपनेमें कोई दोष नहीं आता है, इसका कारण यह है कि उसकी दृष्टि इस स्थलपर परीक्षा-प्रधान न होकर आज्ञा-प्रधान है । किन्तु जब कोई अविश्ववादी सूत्रान्तरसे उसे यथार्थ वस्तु-स्वरूप दिखा देता है और उसके देख लेनेपर भी यदि वह अपना दुराग्रह नहीं छोड़ता है, तो वह जीव उसी समयसे मिथ्यादृष्टि माना जाता है । ऐसा परमागममें कहा गया है । अतएव सम्यग्दृष्टिको वस्तु-स्वरूपका यथार्थ श्रद्धानी होना आवश्यक है ।

मिथ्यादृष्टि जीव नियमसे सर्वज्ञके द्वारा उपदिष्ट प्रवचनका तो श्रद्धान नहीं करता है, किन्तु असर्वज्ञ पुरुषोंके द्वारा उपदिष्ट या अनुपदिष्ट असद्भावका, अर्थात् पदार्थके विपरीत स्वरूपका श्रद्धान करता है ॥१०८॥

विशेषार्थ—मिथ्यादृष्टि जीव दर्शनमोहके उदय होनेके कारण वस्तु-स्वरूपका विपरीत ही श्रद्धान करता है । उसका यह विपरीत श्रद्धान कदाचित् इसी भवका गृहीत होता है और कदाचित् पूर्वभवसे चला आया हुआ अर्थात् अगृहीत होता है, इन दोनों बातोंके बतलानेके लिए सूत्रमें 'उपदिष्ट, और अनुपदिष्ट' ये दो पद दिये हैं ।

(५६) सम्मामिच्छाइट्ठी सागारो वा तहा अणागारो ।

अथ वंजणोग्गहम्मि दुं सागारो होइ वोद्धव्वो (१५) ॥१०९॥

१३८. एसो सुत्तप्फासो विहासिदो । १३९. तदो उवसमसम्माइट्ठि-वेदय-सम्माइट्ठि-सम्मामिच्छाइट्ठीहिं एयज्जीवेण सामित्तं कालो अंतरं णाणाजीवेहिं भंगविचओ कालो अंतरं अप्पावहुअं चेदि । १४०. एदेसु अणियोगदारेसु वण्णिदेसु दंसणमोह-उवसामणे त्ति समत्तमणियोगदारं ।

सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव साकारोपयोगी भी होता है और अनाकारोपयोगी भी होता है । किन्तु व्यंजनावग्रहमें, अर्थात् विचारपूर्वक अर्थको ग्रहण करनेकी अवस्थामें साकारोपयोगी ही होता है, ऐसा जानना चाहिए ॥१०९॥

विशेषार्थ—जयधवलाकारने इस गाथाके पूर्वार्धके दो अर्थ किये हैं । प्रथम तो यह कि कोई भी जीव साकारोपयोगसे भी सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानको प्राप्त हो सकता है और अनाकारोपयोगसे भी । इसके लिए दर्शनमोहके उपशमन करनेवाले जीवके समान साकारोपयोगी होनेका एकान्त नियम नहीं है । दूसरा अर्थ यह किया है कि सम्यग्मिथ्यात्व-गुणस्थानके कालके भीतर दोनो ही उपयोगोका परावर्तन संभव है, जिससे एक यह अर्थ-विशेष सूचित होता है कि छद्मस्थके ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोगके कालसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानका काल अधिक होता है । गाथाके उत्तरार्ध-द्वारा इस बातको प्रकट किया गया है कि जब वही सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव विचार-पूर्वक तत्त्व-ग्रहण करनेके अभिमुख हो, तब उस अवस्थामे उसके साकारोपयोगका होना आवश्यक है, क्योंकि पूर्वापर-परामर्शसे शून्य सामान्य-मात्रके अवग्राहक दर्शनोपयोगसे तत्त्व-निश्चय नहीं हो सकता है । चूर्णिकारने इस अन्तिम गाथाके अन्तमे (१५) का अंक स्थापित किया है, जो यह प्रकट करता है कि सम्यक्त्वके इस दर्शनमोहोपशमना अर्थाधिकारमे पन्द्रह ही सूत्रगाथाएँ हैं, हीन या अधिक नहीं हैं ।

चूर्णिसू०—इस प्रकार यह गाथासूत्रोका स्पर्श अर्थात् स्वरूप-निर्देश प्ररूपण किया । तदनन्तर उपशमसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि-विषयक एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल, अन्तर, नाना जीवोकी अपेक्षा भंगविचय, काल, अन्तर और अल्पबहुत्व, इतने अनुयोगद्वार जानने योग्य है । इन अनुयोगद्वारोके वर्णन कर दिये जानेपर 'दर्शनमोह-उपशमना' नामका अनुयोगद्वार समाप्त हो जाता है ॥१३८-१४०॥

भावार्थ—उपशमसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोका स्वामित्व, काल आदि सूत्र-प्रतिपादित अनुयोगद्वारोसे विशेष अनुगम करना आवश्यक है, तभी प्रकृत विषयका पूर्ण परिज्ञान हो सकेगा । अतएव विशेष जिज्ञासु जनोको परमागमके आधार-से उनका विशेष निर्णय करना चाहिए ।

इस प्रकार सम्यक्त्व-अर्थाधिकारमे दर्शनमोह-उपशमना नामक दशवां अर्थाधिकार समाप्त हुआ ।

११ दंसणमोहकखवणा-अत्थाहियारो

१. दंसणमोहकखवणाए पुव्वं गमणिज्जाओ पंच सुत्तगाहाओ । २. तं जहा ।

(५७) दंसणमोहकखवणापट्टवगो कम्मभूमिजादो दु ।

णियमा मणुसगदीए णिट्टवगो चावि सव्वत्थ ॥११०॥

११ दर्शनमाहक्षपणा-अर्थाधिकार

चूर्णिसू०-दर्शनमोहकी क्षपणके विषयमे पहले ये पाँच सूत्रगाथाएँ प्ररूपण करना चाहिए । वे इस प्रकार हैं ॥१-२॥

नियमसे कर्मभूमिमें उत्पन्न हुआ और मनुष्यगतिमें वर्तमान जीव ही दर्शनमोहकी क्षपणाका प्रस्थापक (प्रारम्भ करनेवाला) होता है । किन्तु उसका निष्ठापक (पूर्ण करनेवाला) चारों गतियोंमें होता है ॥११०

विशेषार्थ-दर्शनमोहकी क्षपणाका प्रारम्भ कर्मभूमिज वेदकसम्यग्दृष्टि मनुष्य ही कर सकता है, अन्य नहीं । क्योंकि अन्य गतियोंमें उत्पन्न हुए जीवोंके दर्शनमोहकी क्षपणाके योग्य परिणामोका होना असंभव है, इस बातको बतलानेके लिए ही गाथासूत्रमे 'नियमसे' यह पद दिया गया है । वह कर्मभूमिज मनुष्य भी सुपम-दुपमा और दुपम-सुपमा-कालमें उत्पन्न होना चाहिए । वह भी तीर्थकर-केवली, सामान्य-केवली या श्रुत-केवलीके पादमूलमे दर्शनमोहका क्षपण प्रारम्भ कर सकता है, अन्यत्र नहीं । इसका कारण यह है कि तीर्थकरादिके माहात्म्य आदिके देखनेपर ही दर्शनमोहकी क्षपणाके योग्य विशुद्ध परिणामो होना संभव है । यद्यपि इस गाथामे केवली आदिके पादमूलका उल्लेख नहीं है, तथापि पट्खंडागमकी सम्यक्त्व-चूलिकामें श्री भूतबलि आचार्यने 'जम्हि जिणा केवली तित्थयरा तम्हि आढवेदि' ऐसा स्पष्ट कथन किया है । इस प्रकार दर्शनमोहका क्षपण प्रारम्भ करनेवाला मनुष्य यदि बद्धायुक्त है, अर्थात् चारो गति-सम्बन्धी आयुमेसे किसी भी एक आयुको बाँध चुका है, और दर्शनमोहका क्षपण प्रारम्भ करनेके पश्चात् कृतकृत्यवेदक कालके भीतर ही मरणको प्राप्त करता है, तो वह चारो ही गतियोंमे दर्शनमोहका क्षपण पूर्ण करता है । यहाँ इतना विशेष जानना कि नरकोमेसे प्रथम नरकके भीतर, तिर्यचोमेसे भोगभूमियाँ पुरुषवेदी तिर्यचोमे, मनुष्योंमेसे भोगभूमियाँ पुरुषोमे और देवोमेसे सौधर्मादि कल्पवासी देवोमे ही उत्पन्न होकर दर्शनमोहकी क्षपणा पूर्ण करेगा, अन्यत्र नहीं । इस अर्थविशेषको बतलानेके लिए गाथासूत्रमे 'निष्ठापक चारो गतियोंमे होता है' ऐसा कहा है ।

(५८) मिच्छत्तवेदणीए कम्मे ओवट्टिदग्मि सम्मत्ते ।

खवणाए पट्टवगो जहण्णगो तेउलेस्साए ॥१११॥

(५९) अंतोमुहुत्तमद्धं दंसणमोहस्स णियमसा खवगो ।

खीणे देव-मणुस्से सिया वि णामाउगो वंधो ॥११२॥

मिथ्यात्ववेदनीयकर्मके सम्यक्त्वप्रकृतिमें अपवर्तित अर्थात् संक्रमित कर देने पर जीव दर्शनमोहकी क्षपणाका प्रस्थापक कहलाता है । दर्शनमोहकी क्षपणाके प्रस्थापकको जवन्य तेजोलेश्यामें वर्तमान होना चाहिए ॥१११॥

विशेषार्थ—दर्शनमोहकी क्षपणा करनेको उद्यत हुए जीवके 'प्रस्थापक' संज्ञा कव प्राप्त होती है, इस बातके बतलानेके लिए इस गाथासूत्रका अवतार हुआ है । दर्शनमोहकी क्षपणाके लिए उद्यत जीव जब मिथ्यात्वप्रकृतिके सर्व द्रव्यको सम्यग्मिथ्यात्वमें संक्रमण कर देता है और उसके पश्चात् जब सम्यग्मिथ्यात्वके सर्व द्रव्यको सम्यक्त्वप्रकृतिने संक्रमण करता है, तब उसे 'प्रस्थापक' यह संज्ञा प्राप्त होती है । गाथासूत्रमें सम्यग्मिथ्यात्वके पृथक् उल्लेख न होनेका कारण यह है कि मिथ्यात्वके संक्रान्त द्रव्यको अपने भीतर धारण करनेवाले सम्यग्मिथ्यात्वको ही यहाँपर 'मिथ्यात्ववेदनीय' नामसे कहा गया है । यद्यपि अवःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयसे ही 'प्रस्थापक' संज्ञा प्रारंभ हो जाती है, तथापि यहाँ अन्तर्दीपककी अपेक्षा उक्त संज्ञाका निर्देश समझना चाहिए, अर्थात् यहाँतक वह प्रस्थापक कहलाता है । गाथाके चतुर्थ चरण-द्वारा लेश्याका विधान किया गया है, जिसका अभिप्राय यह है कि तीनों शुभ लेश्याओमें वर्तमान जीव दर्शनमोहकी क्षपणाका प्रारंभ करते हैं । यदि कोई अत्यन्त मंद विशुद्धिवाला जीव भी दर्शनमोहका क्षपण प्रारंभ करे तो उसे भी कमसे कम तेजोलेश्याके जवन्य अंशमें तो वर्तमान होना ही चाहिए, क्योंकि कृष्णादि अशुभ लेश्याओमें क्षपणाका प्रारंभ सर्वथा असंभव है ।

अन्तर्मुहूर्तकाल तक दर्शनमोहका नियमसे क्षपण करता है । दर्शनमोहके क्षीण हो जानेपर देव और मनुष्यगति-सम्बन्धी नामकर्मकी प्रकृतियोंका और आयुर्कर्मका स्यात् बन्ध करता है और स्यात् बन्ध नहीं भी करता है ॥११२॥

विशेषार्थ—इस गाथाके पूर्वार्धसे यह सूचित किया गया है कि दर्शनमोहनीयकर्मकी क्षपणाका काल अन्तर्मुहूर्त ही है, न इससे कम है और न अधिक है । गाथाके उत्तरार्धसे यह सूचित किया गया है कि दर्शनमोहके क्षीण हो जानेपर वह किन-किन कर्मप्रकृतियोंका बन्ध करता है । दर्शनमोहके क्षीण हो जानेपर यदि वह तिर्यच या मनुष्यगतिमें वर्तमान है, तो देवगति-सम्बन्धी ही नामकर्मकी प्रकृतियोंका तथा देवायुका बन्ध करता है । और यदि वह देव या नरकगतिमें वर्तमान है, तो मनुष्यगति-सम्बन्धी ही नामकर्मकी प्रकृतियोंका तथा मनुष्यायुका बन्ध करता है । गाथा-पठित 'स्यात्' पदसे यह सूचित किया गया है

(६०) खवणाए पट्टवगो जम्हि भवे णियमसा तदो अण्णो ।

णाधिच्छदि तिण्णि भवे दंसणमोहम्मि खीणम्मि ॥११३॥

(६१) संखेज्जा च यणुस्सेसु खीणमोहा सहस्ससो णियमा ।

सेसासु खीणमोहा गदीसु णियमा असंखेज्जा (५) ॥११४॥

कि यदि वह मनुष्य चरम भवमें वर्तमान है, तो आयुकर्मका तो सर्वथा ही बन्ध नहीं करेगा। तथा नामकर्मकी प्रकृतियोंका स्व-प्रायोग्य गुणस्थानोंमें बन्ध-व्युच्छित्ति हो जानेके पश्चात् बन्ध नहीं करेगा।

दर्शनमोहका क्षपण प्रारम्भ करनेवाला जीव जिस भवमें क्षपणका प्रस्थापक होता है, उससे अन्य तीन भवोंको नियमसे उल्लंघन नहीं करता है। दर्शनमोहके क्षीण हो जानेपर तीन भवमें नियमसे मुक्त हो जाता है ॥११३॥

विशेषार्थ—दर्शनमोहका क्षपण प्रारंभ करनेवाला जीव संसारमें अधिकसे अधिक कितने काल तक रहता है, यह वतलानेके लिए इस गाथाका अवतार हुआ है। इसका अभिप्राय यह है कि सम्यग्दृष्टि जीव जिस भवमें दर्शनमोहका क्षपण प्रारंभ करता है, उस भवको छोड़कर वह तीन भव और संसारमें रह सकता है, तत्पश्चात् वह नियमसे सर्व कर्मोंका नाशकर सिद्धपदको प्राप्त करेगा। इसका खुलासा यह है कि दर्शनमोहका क्षपण प्रारंभ कर यदि वह जीव बद्धायुके वशसे देव या नारकियोंमें उत्पन्न हुआ, तो वहाँ दर्शनमोहके क्षपणकी पूर्ति करके वहाँसे आकर मनुष्य भवको धारण कर तीसरे ही भवमें सिद्ध पदको प्राप्त कर लेगा। यदि वह पूर्ववद्बद्ध आयुके वशसे भोगभूमियों तिर्यच या मनुष्योंमें उत्पन्न होवे, तो वहाँसे मरण कर वह देवोंमें उत्पन्न होगा, पुनः वहाँसे च्युत होकर मनुष्योंमें उत्पन्न होकर सिद्ध पदको प्राप्त करेगा। इस जीवके क्षपण-प्रस्थापनके भवको छोड़कर तीन भव और भी संभव होते हैं, अतः गाथाकारने यह ठीक कहा है कि दर्शनमोहके क्षीण हो जानेपर प्रस्थापन-भवको छोड़ कर तीन भवसे अधिक संसारमें नहीं रहता है।

मनुष्योंमें क्षीणमोही अर्थात् क्षायिकसम्यग्दृष्टि नियमसे संख्यात सहस्र होते हैं। शेष गतियोंमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव नियमसे असंख्यात होते हैं ॥११४॥

विशेषार्थ—यद्यपि इस गाथामें प्रधानरूपसे चारों गति-सम्बन्धी क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंकी संख्या वतलाई गई है, तथापि देशामर्शक रूपसे क्षेत्र, स्पर्शन आदि आठों ही अनुयोग-द्वारोंकी सूचना की गई है, अतएव पट्खंडागममें वर्णित आठों प्ररूपणाओंके द्वारा यहाँपर क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंका वर्णन करना चाहिए, तभी दर्शनमोह-क्षपणासम्बन्धी सर्व कथन पूर्ण होगा।

३. पच्छा सुत्तविहासा^१ । तत्थ ताव पुव्वं गमणिज्जा परिहासां । ४. तं जहा ।
 ५. तिण्हं कम्मणं द्विदीओ ओट्टिदव्वाओ । ६. अणुभागफुदयाणि च ओट्टियव्वाणि ।
 ७. तदो अणमधापवत्तकरणं पढमं, अपुव्वकरणं त्रिदियं, अणियट्टिकरणं तदियं । ८.
 एदाणि ओट्टेदूण अधापवत्तकरणस्स लक्खणं भाणियव्वं । ९. एवमपुव्वकरणस्स वि,
 अणियट्टिकरणस्स वि । १०. एदेसिं लक्खणाणि जारिसाणि उवसामगस्स, तारिसाणि चेव ।
 ११. अधापवत्तकरणस्स चरिमसमए इमाओ चत्तारि सुत्तगाहाओ परूवेयव्वाओ ।
 १२. तं जहा । १३. दंसणमोहक्खवगस्स०१ । १४. काणि वा पुव्ववद्दाणि०२ । १५.

चूर्णिसू०—इस प्रकार गाथासूत्रोकी समुत्कीर्तनाके पश्चात् सर्व-प्रथम सूत्रोकी विभाषा अर्थात् पदच्छेद आदिके द्वारा अर्थकी परीक्षा करना चाहिए । उसमे भी पहले परिभाषा जानने योग्य है ॥३॥

विशेषार्थ—गाथासूत्रमे निवद्ध या अनिवद्ध प्रकृतोपयोगी समस्त अर्थ-समुदायको लेकर उसके विस्तारसे वर्णन करनेको परिभाषा कहते हैं ।

चूर्णिसू०—वह परिभाषा इस प्रकार है—मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृति, इन तीनों कर्मोकी स्थितियाँ पृथक्-पृथक् स्थापित करना चाहिए । तथा उन्हीं तीनों कर्मोके अनुभाग-स्पर्धक भी तिरछी रचनारूपसे स्थापित करना चाहिए । तत्पश्चात् प्रथम अधःप्रवृत्त-करण, द्वितीय अपूर्वकरण और तृतीय अनिवृत्तिकरण, इनके समयोकी क्रमशः रचना करना चाहिए । इन तीनोंकी रचना करके सर्वप्रथम अधःप्रवृत्तकरणका लक्षण कहना चाहिए । इसीप्रकार अपूर्वकरणका और अनिवृत्तिकरणका भी लक्षण कहना चाहिए । इन तीनों करणो-के लक्षण जिस प्रकारसे दर्शनमोहके उपशामककी प्ररूपणामे कहे हैं, उसीप्रकारसे यहाँपर भी जानना चाहिए ॥४-१०॥

चूर्णिसू०—अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमे ये चार सूत्र-गाथाएँ प्ररूपण करना चाहिए । वे इस प्रकार हैं—“दर्शनमोहके क्षपण करनेवाले जीवका परिणाम कैसा होता है, किस योग, कपाय और उपयोगमे वर्तमान, किस लेश्यासे युक्त और कौनसे वेदवाला जीव दर्शनमोहका क्षपण करता है ? (१) दर्शनमोहके क्षपण करनेवाले जीवके पूर्व-वद्ध कर्म कौन-कौनसे हैं और अब कौन-कौनसे नवीन कर्मांशोको वॉधता है । दर्शनमोह-क्षपणके कौन-कौन प्रकृतियाँ उदयावलीमे प्रवेश करती हैं और कौन-कौन प्रकृतियोकी वह उदीरणा करता है ? (२) । दर्शनमोहके क्षपण-कालसे पूर्व बन्ध अथवा उदयकी अपेक्षा कौन-कौनसे कर्मांश क्षीण होते हैं ? अन्तरको कहाँपर करता है और कहाँपर तथा किन कर्मोका यह क्षपण

१ का सुत्तविहासा णाम ? गाहासुत्ताणमुच्चारणं कादूण तेतिं पदच्छेदाहिमुहेण जा अत्थपरिक्खत्ता सा सुत्तविहासा त्ति भण्णदे । २ सुत्तपरिहासा पुण गाहासुत्तणिबद्धमणिबद्ध च पयदोवजोगि जमतथजाद त सब्ब घेत्तूण वित्थरदो अत्थपररूवणा । ३ द्विदिं पडि तिरिच्छेण विरचेयव्वाणि । जयध०

के अंसे झीयदे पुच्चं०३ । १६. किं ठिदियाणि कम्माणि०४ ।

करता है ? (३) दर्शनमोहका क्षपण करनेवाला जीव किस-किस स्थिति-अनुभागविशिष्ट कौन-कौनसे कर्मोंका अपवर्तन करके किस स्थानको प्राप्त करता है और अवशिष्ट कर्म किस स्थिति और अनुभागको प्राप्त होते हैं ? (४)” ॥११-१६॥

विशेषार्थ—यद्यपि ये चारो सूत्र-गाथाएँ पहले दर्शनमोहकी उपशमनाका वर्णन करते हुए कही गई हैं, तथापि ये चारो ही गाथाएँ साधारणरूपसे दर्शनमोहकी क्षपणा, तथा चारित्रमोहकी उपशमना और क्षपणाके समय भी व्याख्यान करने योग्य हैं, ऐसा चूर्णिकारका मत है। अतएव यहाँपर संक्षेपसे प्रकरणके अनुसार उनके अर्थका व्याख्यान किया जाता है—दर्शनमोहके क्षपण करनेवाले जीवका परिणाम अन्तर्मुहूर्त पूर्वसे ही विशुद्ध होता हुआ आरहा है। वह चारो मनोयोगोमेसे किसी एक मनोयोगसे, चारो वचनयोगोमेसे किसी एक वचनयोगसे और औदारिकक्राययोगसे युक्त होता है। चारो कपायोमेसे किसी एक हीयमान कपायसे युक्त होता है। उपयोगकी अपेक्षा दो मत है—एक मतकी अपेक्षा नियमसे साकारोपयोगी ही होता है। दूसरे मतकी अपेक्षा मतिज्ञान या श्रुतज्ञानसे और चक्षुदर्शन या अचक्षुदर्शनसे उपयुक्त होता है। लेश्याकी अपेक्षा तेज, पद्म और शुक्ल, इन तीनोंमेंसे किसी एक वर्धमान लेश्यासे परिणत होना चाहिए। वेदकी अपेक्षा तीनों वेदोमेसे किसी एक वेदसे युक्त होता है। इस प्रकार प्रथम गाथाकी विभाषा समाप्त हुई। दर्शनमोहकी क्षपणा के सम्मुख हुए जीवके कौन-कौन कर्म पूर्ववद्ध हैं, इस पदकी विभाषा करते हुए प्रकृतिसत्त्व, स्थितिसत्त्व, अनुभागसत्त्व और प्रदेशसत्त्वका अनुमार्गण करना चाहिए। इसमेसे प्रकृतिसत्त्व उपशामकके समान ही है, केवल विशेषता यह है कि दर्शनमोहकी क्षपणा करनेवालेके अनन्तानुबन्धी-चतुष्कका सत्त्व नहीं होता है। सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका नियमसे सत्त्व होता है। भुज्यमान मनुष्यके साथ परभव-सम्बन्धी चारो ही आयुक्रमोंका सत्त्व भजनीय है। नामकर्मकी अपेक्षा उपशामकके समान ही सत्त्व जानना चाहिए। हाँ, तीर्थकर और आहारकट्टिक स्यात् सभव हैं। इसी प्रकार स्थिति, अनुभाग और प्रदेशकी अपेक्षा सर्व प्रकृतियोंका सत्त्व उपशामकके समान ही जानना चाहिए। केवल इतनी विशेषता है कि उपशामकके स्थितिसत्त्वसे क्षपकका स्थितिसत्त्व असंख्यातगुणित हीन होता है और उपशामकके अनुभागसत्त्वसे क्षपकका अनुभाग सत्त्व अनन्तगुणित हीन होता है। ‘के वा अंसे णिवंधदि’ इस दूसरे चरणकी व्याख्या करते समय प्रकृतिवन्ध, स्थितिवन्ध अनुभागवन्ध और प्रदेशवन्धका अनुमार्गण करना चाहिए। यह दूसरी गाथाकी विभाषा है। दर्शनमोहकी क्षपणासे पूर्व वन्ध अथवा उदयकी अपेक्षा कौन कौनसे कर्मांश क्षीण होते हैं, इसका निर्णय वंधने और उदयमे आनेवाली प्रकृतियोंकी अपेक्षा करना चाहिए। दर्शनमोहकी क्षपणा करनेवाले जीवके अन्तरकरण नहीं होता है किन्तु दर्शनमोहकी तीनों प्रकृतियोंका आगे जाकरके क्षय होगा। यह तीसरी गाथाकी विभाषा है। दर्शनमोहका क्षपण करनेवाला जीव किस-

१७. एदाओ चत्तारि सुत्तगाहाओ विहासियुण अपुव्वकरणपहमसमए आहवे-
यव्वो । १८. अधापवत्तकरणे ताव णत्थि द्विदिवादो वा, अणुभागवादो वा, गुणसेढी
वा, गुणसंक्रमो वा । १९. णवरि विसोहीए अणंतगुणाए वडुदि । सुहाणं कम्मंसाणमणंत-
गुणवडुविंधो, असुहाणं कम्माणमणंतगुणहाणिवंधो । वंधे पुण्णे पलिदोवमस्स संखेज्जदि-
भागेण हायदि । २०. एसा अधापवत्तकरणे परूवणा ।

२१. अपुव्वकरणस्स पहमसमए दोण्हं जीवाणं द्विदिसंतकम्मादो द्विदिसंतकम्मं
तुल्लं वा, विसेसाहियं वा, संखेज्जगुणं वा । द्विदिखंडयादो वि द्विदिखंडयं दोण्हं जीवाणं
तुल्लं वा विसेसाहियं वा संखेज्जगुणं वा । २२. तं जहा । २३. दोण्हं जीवाणमेक्को
कसाए उवसामेयूण खीणदंसणमोहणीयो जादो । एक्को कसाए अणुवसामेयूण खीणदंसण-
मोहणीओ जादो । जो अणुवसामेयूण खीणदंसणमोहणीओ जादो तस्स द्विदिसंतकम्मं
संखेज्जगुणं । २४ जो पुव्वं दंसणमोहणीयं खवेदूण पच्छा कसाए उवसामेदि वा, जो

किस स्थिति-अनुभाग-विशिष्ट कौन-कौनसे कर्मोंका अपवर्तन करके किस-किस स्थानको प्राप्त करता है, तथा अवशिष्ट कर्म किस स्थिति और अनुभागको प्राप्त होते हैं, इन प्रश्नोंका निर्णय भी उपशामकके समान ही करना चाहिए । यह चौथी गाथाकी विभाषा है ।

चूर्णिसू०-इन उपर्युक्त चारों सूत्रगाथाओंकी विभाषा करके अपूर्वकरणके प्रथम समयमें प्रकृत प्ररूपणा आरम्भ करना चाहिए । अधःप्रवृत्तकरणमें किसी भी कर्मका स्थिति-घात, अनुभागघात, गुणश्रेणी या गुणसंक्रमण नहीं होता है । वह केवल अनन्तगुणी विशुद्धि-से प्रतिसमय बढ़ता रहता है । उस समय वह शुभ कर्म-प्रकृतियोंका अनन्तगुणित वृद्धिसे युक्त अनुभागको वॉधता है और अशुभ कर्म-प्रकृतियोंके अनुभागको अनन्तगुणित हीन वॉधता है । अन्तर्मुहूर्त-प्रमाण एक-एक स्थितिवन्धके पूर्ण होनेपर दूसरा-दूसरा स्थितिवन्ध पल्यो-पमके संख्यातवे भागसे हीन वॉधता है । यह सब प्ररूपणा अधःप्रवृत्तकरणके कालमें जानना चाहिए ॥ १७-२० ॥

अब अपूर्वकरणकी प्ररूपणा दो जीवोंके एक साथ अपूर्वकरणमें प्रवेश करनेकी अपेक्षा की जाती है-

चूर्णिसू०-अपूर्वकरणके प्रथम समयमें वर्तमान दो जीवोंमेंसे किसी एकके स्थिति-सत्कर्मसे दूसरे जीवका स्थितिसत्कर्म तुल्य भी हो सकता है, विशेष अधिक भी हो सकता है और संख्यातगुणित भी हो सकता है । उन्हीं दोनों जीवोंमें एकके स्थितिखंडसे दूसरे जीवका स्थितिखंड तुल्य भी हो सकता है, विशेष अधिक भी हो सकता है और संख्यात-गुणित भी हो सकता है । इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-उपर्युक्त दोनों जीवोंमेंसे एक तो उपशमश्रेणीपर चढ़कर और कपायोका उपशमन करके दर्शनमोहकी क्षपणाके लिए समुद्यत हुआ । दूसरा कपायोका उपशमन नहीं करके दर्शनमोहकी क्षपणाके लिए अभ्युद्यत हुआ । इनमेंसे जो कपायोका उपशमन नहीं करके दर्शनमोहकी क्षपणाके लिए अभ्युद्यत हुआ है,

दंसणमोहणीयमखवेदूण कसाए उवसामेइ, तेसिं दोण्हं पि जीवाणं कसायेसु उवसंतेसु तुल्लकाले समधिच्छिदे तुल्लं ठिदिसंतकम्मं । २५. जो पुव्वं कसाए उवसामेयूण पच्छा दंसणमोहणीयं खवेइ, अण्णो पुव्वं दंसणमोहणीयं खवेयूण पच्छा कसाए उवसामेइ, एदेसिं दोण्हं पि खीणदंसणमोहणीयाणं खवणकरणेसु उवसमकरणेसु च णिट्ठिदेसु तुल्ले काले विदिकंते जेण पच्छा दंसणमोहणीयं खविदं तस्स ट्ठिदिसंतकम्मं थोवं । जेण पुव्वं दंसणमोहणीयं खवेयूण पच्छा कसाया उवसामिदा, तस्स ट्ठिदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं ।

२६. अपुव्वकरणस्स पहमसमए जहण्णगेण कम्मेण उवट्ठिदरस्स ट्ठिदिखंडगं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो । [उक्कस्सेण उवट्ठिदस्स सागरोवमपुधत्तं ।] २७. ट्ठिदिवंधादो जाओ ओसरिदाओ ट्ठिदीओ ताओ पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो । २८. अप्पसत्थाणं कम्माणमणुभागखंडयपमाणमणुभागफदयाणमणंता भागा आगाइदा । २९. शुणसेही उदयावलियवाहिरा । ३०. विदियसमए तं चेव ट्ठिदिखंडयं, तं चेव

उसका स्थितिसत्कर्म प्रथम जीवकी अपेक्षा संख्यातगुणित अधिक है । जो जीव पहले दर्शन-मोहनीयका क्षपण करके पीछे कषायोका उपशमन करता है, अथवा जो दर्शनमोहनीयका क्षपण नहीं करके कषायोका उपशमन करता है, इन दोनों ही जीवोंके कषायोके उपशान्त होकर समान कालमें अवस्थित होनेपर दोनोंका स्थितिसत्कर्म समान होता है । जो जीव पहले कषायोका उपशमन करके पीछे दर्शनमोहनीयका क्षय करता है, और दूसरा पहले दर्शनमोहनीयका क्षय करके पीछे कषायोका उपशमन करता है, इन दोनों ही दर्शनमोहके क्षपण करनेवाले जीवोंके क्षपणा-सम्बन्धी कार्योंके और उपशमना-सम्बन्धी कार्योंके सम्पन्न होनेपर, तथा समान कालके व्यतीत होनेपर जिसने पीछे दर्शनमोहनीयकर्मका क्षय किया है, उसके स्थितिसत्कर्म अल्प होता है । किन्तु जिसने पहले दर्शनमोहनीयका क्षय करके पीछे कषायोका उपशमन किया है, उसके स्थितिसत्कर्म संख्यातगुणित होता है ॥२१-२५॥

चूर्णिसू०—अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जघन्य स्थितिसत्कर्मसे उपस्थित जीवका स्थितिकांडक पल्योपमके संख्यातवे भागप्रमाण है । यह जघन्य सत्त्व पहले कषायोका उपशमन करके क्षपणाके लिए उद्यत जीवके होता है । [अपूर्वकरणके प्रथम समयमें उत्कृष्ट स्थितिसत्कर्मसे उपस्थित जीवका स्थितिकांडक सागरोपमपृथक्त्व-प्रमाण होता है । यह उत्कृष्ट स्थितिसत्त्व कषायोका उपशमन न करके क्षपणाके लिए समुद्यत जीवके होता है ।], पूर्व स्थितिवन्धसे अर्थात् अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें होनेवाले तत्प्रायोग्य अन्तःकोडा-कोडीप्रमाण स्थितिवन्धसे जो स्थितियाँ इस समय अपसरण की गई हैं, वे पल्योपमके संख्या-तवे भागप्रमाण हैं । अप्रशस्त कर्मोंके अनुभागकांडकका प्रमाण अनुभागसत्त्वके स्पर्धकोके अनन्त बहुभाग है, जो कि घातके लिए ग्रहण किये गये हैं । अपूर्वकरणके प्रथम समयमें ही गुणश्रेणी भी प्रारंभ हो जाती है, वह गुणश्रेणी उदयावलीसे बाह्य गलितशेष-प्रमाण है । अपूर्वकरणके द्वितीय समयमें वही स्थितिकांडक है, वही अनुभागकांडक है और वही

अणुभागखंडयं, सो चेव द्विदिवंधो । गुणसेही अण्णा । ३१. एवमंतोमुहुत्तं जाव अणु-
भागखंडयं पुण्णं । ३२. एवमणुभागखंडयसहस्सेसु पुण्णेसु अण्णं द्विदिवंधयं, द्विदिवंध-
मणुभागखंडयं च पट्टवेइ । ३३. पढमं द्विदिवंधयं बहुअं, विदियं द्विदिवंधयं त्रिसेसहीणं,
तदियं द्विदिवंधयं त्रिसेसहीणं । ३४. एवं पढमादो द्विदिवंधयादो अंतो अपुव्वकरणद्वाए
संखेज्जगुणहीणं पि अत्थि ।

३५ एदेण कमेण द्विदिवंधयसहस्सेहिं बहुएहिं गदेहिं अपुव्वकरणद्वाए
चरिमसमयं पत्तो । ३६. तत्थ अणुभागखंडयउत्कीरणकालो द्विदिवंधयउत्कीरणकालो
द्विदिवंधकालो च समगं समत्तो । ३७. चरिमसमय-अपुव्वकरणे द्विदिसंतकम्मं योवं ।
३८. पढमसमय-अपुव्वकरणे द्विदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं । ३९. द्विदिवंधो वि पढमसमय-
अपुव्वकरणे बहुगो, चरिमसमय-अपुव्वकरणे संखेज्जगुणहीणो ।

४०. पढमसमय-अणियट्टिकरणपविट्टस्स अपुव्वं द्विदिवंधयमपुव्वमणुभागखंडय-
मपुव्वो द्विदिवंधो, तथा चेव गुणसेही । ४१. अणियट्टिकरणस्स पढमसमये दसणमोह-
णीयमप्पसत्थपुव्वसामणाएँ अणुवसंतं, सेसाणि कम्माणि उवसंताणि च अणुवसंताणि च ।

स्थितिवन्ध है, किन्तु गुणश्रेणी अन्य होती है । इस प्रकार अन्तर्मुहूर्त काल तक एक अनु-
भागकांडक पूर्ण होता है । इस क्रमसे सहस्रो अनुभागकांडकोके पूर्ण होनेपर अन्य स्थिति-
कांडको, अन्य स्थितिवन्धको और अन्य अनुभागकांडको प्रारम्भ करता है । प्रथम
स्थितिकांडकका आयाम बहुत है, द्वितीय स्थितिकांडकका आयाम विशेष हीन है, तृतीय
स्थितिकांडकका आयाम विशेष हीन है । इस प्रकार अपूर्वकरण-कालके भीतर प्रथम स्थिति-
कांडकसे संख्यातगुणित हीन भी स्थिति कांडक होता है ॥२६-३४॥

चूर्णिसू०—इसी क्रमसे अनेक सहस्र स्थितिकांडकवातोके व्यतीत होनेपर अपूर्व-
करणके कालका अन्तिम समय प्राप्त हो जाता है । उस अन्तिम समयमे चरम अनुभाग-
कांडकका उत्कीरणकाल, स्थितिकांडकका उत्कीरणकाल और स्थितिवन्धका काल एक साथ
समाप्त हो जाता है । अपूर्वकरणके अन्तिम समयमे स्थितिसत्त्व अल्प है । इससे इसी अपूर्व-
करणके प्रथम समयमे स्थितिसत्त्व संख्यातगुणित है । स्थितिवन्ध भी अपूर्वकरणके प्रथम
समयमे बहुत है और उससे अपूर्वकरणके अन्तिम समयमे संख्यातगुणित हीन है ॥३५-३९॥

इस प्रकार अपूर्वकरणकी प्ररूपणा समाप्त हुई ।

चूर्णिसू०—अनिवृत्तिकरणमे प्रवेश करनेके प्रथम समयमे दर्शनमोहनीयकर्मका अपूर्व
स्थितिकांडक होता है, अपूर्व अनुभागकांडक होता है और अपूर्व स्थितिवन्ध होता है ।
किन्तु गुणश्रेणी अपूर्वकरणके समान ही प्रतिसमय असंख्यातगुणी रहती है । अनिवृत्तिकरण-
के प्रथम समयमें दर्शनमोहनीयकर्म अप्रशस्तोपशामनाके द्वारा अनुपशान्त रहता है । शेष
कर्म उपशान्त भी रहते हैं और अनुपशान्त भी रहते हैं ॥४०-४१॥

१ का अप्पसत्थ-उवसामणा णाम ? कम्मपरमाणूण वज्जतरगकारणवत्तेण केत्तियाण पि उदीरणा-
वसेण उदयाणागमणपइणा अप्पसत्थ-उवसामणा त्ति भण्णदे । जयघ०

४२. अणियट्टिकरणस्स पढमसमए दंसणमोहणीयस्स ट्टिदिसंतकम्मं सागरोवम-सदसहस्सपुधत्तमंतो कोडीए* । सेसाणं कम्माणं ट्टिदिसंतकम्मं कोडिसदसहस्सपुधत्त-मंतोकोडाकोडीए । ४३. तदो ट्टिदिखंडयसहस्सेहिं अणियट्टिअद्वाए संखेज्जेसु भागेसु गदेसु असण्णिट्टिदिवंधेण दंसणमोहणीयस्स ट्टिदिसंतकम्मं समगं । ४४. तदो ट्टिदिखंडय-पुधत्तेण चउरिदियबंधेण ट्टिदिसंतकम्मं समगं । ४५. तदो ट्टिदिखंडयपुधत्तेण तीइंदिय-बंधेण ट्टिदिसंतकम्मं समगं । ४६. तदो ट्टिदिखंडयपुधत्तेण वीइंदियबंधेण ट्टिदिसंतकम्मं समगं । ४७. तदो ट्टिदिखंडयपुधत्तेण एइंदियबंधेण ट्टिदिसंतकम्मं समगं । ४८. तदो ट्टिदिखंडयपुधत्तेण पलिदोवमट्टिदिगं जादं दंसणमोहणीयट्टिदिसंतकम्मं । ४९. जाव पलिदोवमट्टिदिसंतकम्मं ताव पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो ट्टिदिखंडयं, पलिदोवमे

विशेषार्थ—कितने ही कर्म-परमाणुओंका वाह्य और अन्तरंग कारणके वशसे, तथा कितने ही कर्म-परमाणुओंका उदीरणाके वशसे उदयमे नहीं आनेको अप्रशस्तोपशामना कहते हैं । इसीको देशोपशामना तथा अगुणोपशामना भी कहते हैं । दर्शनमोहसम्बन्धी यह अप्र-शस्तोपशामना अपूर्वकरणके अन्तिम समय तक बराबर चली आ रही थी, किन्तु अनिवृत्ति-करणके प्रथम समयमें ही वह नष्ट हो जाती है । पर शेष कर्मोंकी अप्रशस्तोपशामना यथा-संभव होती भी है और नहीं भी होती है, उसके लिए कोई एकान्त नियम नहीं है ।

चूणिंमू०—अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें दर्शनमोहनीयकर्मका स्थितिसत्त्व अन्तः-कोडी अर्थात् सागरोपमशतसहस्रपृथक्त्व, तथा शेष कर्मोंका स्थितिसत्त्व अन्तःकोडाकोडी अर्थात् सागरोपमकोटिशतसहस्रपृथक्त्व होता है । इसके पश्चात् सहस्रो स्थितिकांडक-घातोंके द्वारा अनिवृत्तिकरण-कालके संख्यात भागोंके व्यतीत होनेपर दर्शनमोहनीयकर्मका स्थितिसत्त्व असंज्ञी जीवोंके स्थितिवन्धके सदृश अर्थात् सागरोपमसहस्रप्रमाण हो जाता है । पुनः स्थितिकांडकघातपृथक्त्वके द्वारा दर्शनमोहनीयकर्मका स्थितिसत्त्व चतुरिन्द्रिय-जीवके स्थितिवन्धके सदृश अर्थात् सौ सागरोपमप्रमाण हो जाता है । पुनः स्थितिकांडक-घातपृथक्त्वके द्वारा दर्शनमोहनीयकर्मका स्थितिसत्त्व त्रीन्द्रियजीवके स्थितिवन्धके सदृश अर्थात् पचास सागरोपमप्रमाण हो जाता है । पुनः स्थितिकांडकघातपृथक्त्वके द्वारा दर्शन-मोहनीयकर्मका स्थितिसत्त्व द्वीन्द्रिय जीवके स्थितिवन्धके सदृश अर्थात् पच्चीस सागरोपम-प्रमाण हो जाता है । पुनः स्थितिकांडकघातपृथक्त्वके द्वारा दर्शनमोहनीयकर्मका स्थिति-सत्त्व एकेन्द्रिय जीवके स्थितिवन्धके सदृश अर्थात् एक सागरोपमप्रमाण हो जाता है । पुनः स्थितिकांडकघातपृथक्त्वके द्वारा दर्शनमोहनीयकर्मका स्थितिसत्त्व एक पल्योपम-प्रमाण स्थितिवाला हो जाता है । जब तक दर्शनमोहनीयकर्मका स्थितिसत्त्व एक पल्योपम-प्रमाण रहता है, तत्रतक स्थितिकांडकका आयाम पल्योपमका संख्यातर्वां भाग रहता है । पुनः दर्शन-

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमें '—मंतो कोडाकोडीए' ऐसा पाठ सूत्र और टीका दोनोंमें मुद्रित है । (देखो पृ० १७५०) । पर वह अशुद्ध है (देखो ध्वला भा० ६ पृ० २५४, पंक्ति ८)

ओलुत्ते* तदो पलिदोवमस्स संखेज्जा भागा आगाइदा । ५०. तदो सेसस्स संखेज्जा भागा आगाइदा । ५१. एवं द्विदिसंखंडयसहस्सेसु गदेसु दूरावकड्डी पलिदोवमस्स संखेज्जे भागे द्विदिसंतकम्म्ये सेसे तदो सेसस्स असंखेज्जा भागा आगाइदा ।

मोहके स्थितिसत्त्वके पल्योपमप्रमाण अवशिष्ट रह जानेपर स्थितिकांडकके आयामका प्रमाण पल्योपमका संख्यात बहुभाग हो जाता है । तदनन्तर शेष स्थितिसत्त्वके संख्यात बहुभाग स्थितिकांडकघातके लिए ग्रहण करता है । इस प्रकार सहस्रो स्थितिकांडकोके व्यतीत होनेपर और पल्योपमके संख्यातवें भागमात्र दर्शनमोहनीयकर्मके स्थितिसत्त्व शेष रह जानेपर दूरापकृष्टि नामकी स्थिति होती है । तत्पश्चात् शेष बचे हुए स्थितिसत्त्वके असंख्यात बहुभागको स्थितिकांडकरूपसे घात करनेके लिए ग्रहण करता है ॥४१-५१॥

विशेषार्थ—दर्शनमोहको क्षपणा करनेवाले जीवके अनिवृत्तिकरणके कालमें दर्शनमोहनीयकर्मके स्थितिसत्त्वके चार पर्व या विभाग होते हैं, जिनमें क्रमशः स्थितिसत्त्व कमती होता हुआ चला जाता है । इनमेंसे प्रथम पर्वमें दर्शनमोहका स्थितिसत्त्व सागरोपमलक्ष-पृथक्त्व रहता है । दूसरे पर्वमें घटकर पल्योपमप्रमाण रहता है । तीसरे पर्वमें दूरापकृष्टि-प्रमाण अर्थात् पल्योपमके असंख्यातवे भागमात्र स्थितिसत्त्व रह जाता है और चौथे पर्वमें आवलीमात्र स्थितिसत्त्व अवशिष्ट रह जाता है । ऊपर बतलाये गये क्रमसे संख्यातसहस्र स्थितिकांडकघातोंके होनेपर दूसरे पर्वमें पल्योपमप्रमाण दर्शनमोहका स्थितिसत्त्व बतला आये हैं । उसके पश्चात् पुनः अनेक सहस्र स्थितिकांडकघातोंके होनेपर तीसरे पर्वमें दूरापकृष्टिप्रमाण स्थितिसत्त्व रह जाता है । दूरापकृष्टिका अर्थ यह है कि पल्यप्रमाण स्थितिसत्त्वसे अत्यन्त दूर तक अपकर्षणकर अर्थात् स्थितिको घटाते-घटाते जब वह पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण रह जाय, ऐसे सबसे अन्तिम स्थितिसत्त्वको दूरापकृष्टि कहते हैं । दूरापकृष्टिका दूसरा अर्थ यह भी किया गया है कि इस स्थलसे आगे अवशिष्ट स्थितिसत्त्वके असंख्यात-बहुभागको ग्रहण करके एक-एक स्थितिकांडकघात होता है । यह दूरापकृष्टिरूप स्थिति-कांडकघात एक-विकल्परूप है या अनेक-विकल्परूप है, इस प्रश्नका उत्तर कितने ही आचार्योंके मतसे एक-विकल्परूप दिया गया है, अर्थात् वे कहते हैं कि आगे आवलीप्रमाण स्थिति-सत्त्व रहनेतक स्थितिकांडकघातका प्रमाण सर्वत्र समान ही रहता है । परन्तु जयधवलाकारने इस मतका खंडन करके यह सयुक्तिक सिद्ध किया है कि दूरापकृष्टि अनेक-विकल्परूप है । दूरापकृष्टिके पश्चात् पल्यको असंख्यात का भाग देनेपर बहुभागमात्र आयामवाले संख्यात-सहस्र स्थितिकांडकघात होनेपर सम्यक्त्वप्रकृतिके असंख्यात समयप्रवद्धोकी उदीरणा होती है । पुनः अनेको स्थितिकांडकघातोंके होनेपर मिथ्यात्वके आवलीप्रमाण निपेक अवशिष्ट रहते हैं, शेष सर्व द्रव्य सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिरूपसे परिणमित हो जाता है । इस अवशिष्ट आवलीप्रमाण सत्त्वको ही उच्छिष्टावली कहते हैं ।

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'ओलुत्ते'के स्थान पर सूत्र और टीका दोनोंमें ही 'ओसुलुत्ते' पाठ मुद्रित है । (देखो पृ० १७५१)

५२. एवं पलिदोवमस्स असंखेज्जभागिगेषु बहुएसु द्विदिखंडयसहस्सेसु गदेसु तदो सम्मत्तस्स असंखेज्जाणं समयपवद्वाणमृदीरणा । ५३. तदो बहुसु द्विदिखंडएसु गदेसु मिच्छत्तस्स आवलियवाहिरंसव्वमागाइदं । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो सेसो । ५४. तदो द्विदिखंडए णिट्ठायमाणे णिट्ठिदे मिच्छत्तस्स जहण्णओ द्विदिसंकमो, उक्कस्सओ पदेससंकमो । ताथे सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्सगं पदेस-संतकम्मं । ५५. तदो आवलियाए दुसमयूणाए गदाए मिच्छत्तस्स जहण्णयं द्विदिसंत-कम्मं । ५६. मिच्छत्ते पढमसमयसंकंते सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमसंखेज्जा भागा आगा-इदा । ५७ एवं संखेज्जेहिं द्विदिखंडएहिं गदेहिं सम्मामिच्छत्तमावलियवाहिरंसव्व-मागाइदं ।

५८. ताथे सम्मत्तस्स दोण्णि उवदेसा । के वि भणंति संखेज्जाणि वस्ससह-

चूर्णिसू०—इस प्रकार पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाणवाले अनेक सहस्र स्थिति-कांडक-घातोंके व्यतीत होनेपर तत्पश्चात् सम्यक्त्वप्रकृतिके असंख्यात समयप्रवृद्धोकी उदी-रणा आरम्भ होती है । तदनन्तर बहुतसे स्थितिकांडक-घातोंके व्यतीत हो जानेपर उदया-वलीसे वाहिर स्थित मिथ्यात्वका स्थितिसत्त्वरूप सर्व द्रव्य घात करनेके लिए ग्रहण किया गया । (तथा, सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वके पल्योपमके असंख्यात बहुभागोंको घात करनेके लिए ग्रहण करता है ।) तब सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका स्थिति-सत्त्व पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण शेष रहता है । तत्पश्चात् मिथ्यात्वके समाप्त होने योग्य अन्तिम स्थितिकांडकके क्रमसे समाप्त होनेपर उसी कालमें मिथ्यात्वका जघन्य स्थिति-संक्रम और उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है । तथा उसी समय सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेश-सत्त्व होता है । तत्पश्चात् दो समय कम आवली-प्रमाणकाल बीतनेपर मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिसत्त्व होता है, अर्थात् जब वह दो समय कम आवली-प्रमाण मिथ्यात्वकी स्थितियोंको क्रमसे गलाकर जिस समय दो समय कालवाली एक स्थिति अवशिष्ट रह जाती है उस समय मिथ्यात्वकर्मका सर्व-जघन्य स्थितिसत्त्व होता है । सर्वसंक्रमणके द्वारा मिथ्यात्वके संक्रमण करनेपर प्रथम समयमें सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वके असंख्यात बहुभागोंको घात करनेके लिए ग्रहण करता है, अर्थात् मिथ्यात्वकर्मके द्रव्यका सर्वसंक्रमण हो जानेपर सम्यग्मि-थ्यात्व और सग्यक्त्वप्रकृतिका स्थितिकांडक-घात प्रारंभ करता है । इस प्रकार वह क्रमशः घात करता हुआ संख्यात स्थितिकांडकोंके द्वारा सम्यग्मिथ्यात्वके उदयावलीसे वाहिर स्थित सर्व द्रव्यको घात करनेके लिए ग्रहण करता है, अर्थात् उस समय सम्यग्मिथ्यात्वकी केवल एक उदयावली ही शेष रहती है ॥५२-५७॥

चूर्णिसू०—उस समय अर्थात् सम्यग्मिथ्यात्वके एक आवलीप्रमाण स्थितिसत्त्व शेष रह जानेपर सम्यक्त्वप्रकृतिके स्थितिसत्त्वके विषयमें दो प्रकारके उपदेश मिलते हैं । अप्रवाह्यमान-परम्पराके क्लृप्तने ही आचार्य कहते हैं कि उस समय सम्यक्त्वप्रकृतिकी स्थिति संख्यातसहस्र-

स्ताणि द्विदाणि त्ति । पवाइज्जंतेण उवदेसेण अट्ट वस्साणि सम्मत्तस्स सेसाणि, सेसाओ द्विदीओ आगाइदाओ त्ति । ५९. एदम्मि द्विदिखंडए णिद्विदे ताथे जहणणगो सम्मामिच्छत्तस्स द्विदिसंक्रमो, उक्कस्सगो पदेससंक्रमो । सम्मत्तस्स उक्कस्सपदेससंतकम्मं ।

६०. अट्टवस्स-उवदेसेण परूविज्जिहिदि । ६१. तं जहा । ६२. अपुच्चकरणस्स पहमसमए पलिदोवमस्स संखेज्जभागिगं द्विदिखंडयं ताव जाव पलिदोवमद्विदिसंतकम्मं जादं । पलिदोवमे ओलुत्ते पलिदोवमस्स संखेज्जा भागा आगाइदा । तम्मिह गदे सेसस्स संखेज्जा भागा आगाइदा । एवं संखेज्जाणि द्विदिखंडयसहस्साणि गदाणि । तदो दूरावकिट्ठी पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागे संतकम्मे सेसे तदो द्विदिखंडयं सेमस्स असंखेज्जा भागा । एवं ताव सेसस्स असंखेज्जा भागा जाव मिच्छत्तं खविदं ति । सम्मामिच्छत्तं पि खवेतस्स सेसस्स असंखेज्जा भागा जाव सम्मामिच्छत्तं पि खविज्जमाणं खविदं, संखुब्भमाणं सखुद्धं । ताथे चेव सम्मत्तस्स संतकम्ममट्टवस्सद्विदिगं जादं । ६३. ताथे चेव दंसणमोहणीयक्खवगो त्ति भण्णइ ।

वर्ष अवशिष्ट रहती है । किन्तु प्रवाह्यमान उपदेशसे सम्यक्त्वप्रकृतिकी स्थिति आठ वर्षप्रमाण शेष रहती है, शेष सर्व स्थितियाँ स्थितिकांडकघातोसे नष्ट हो जाती हैं । सम्यग्मिथ्यात्वके इस अन्तिम स्थितिकांडकघातके सम्पन्न होनेपर उस समय सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिसंक्रम, और उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है । तथा उसी समय सम्यक्त्वप्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशसत्त्व होता है ॥५८-५९॥

चूर्णिसू०—सम्यक्त्वप्रकृतिकी आठ वर्षप्रमाण स्थितिका निरूपण करनेवाले प्रवाह्यमान उपदेशके अनुसार आगेकी प्ररूपणा की जायगी । वह इस प्रकार है—अपूर्वकरणके प्रथम समय-मे आरम्भ होनेवाला, पल्योपमके संख्यातवे भागप्रमाणका धारक स्थितिकांडकघात मिथ्यात्व-कर्मके पल्योपमप्रमाण स्थितिसत्त्व होनेतक प्रारम्भ रहता है । पल्योपमप्रमाण स्थितिसत्त्वके अवशिष्ट रह जानेपर पल्योपमके संख्यात बहुभाग स्थितिकांडकरूपसे घात करनेके लिए ग्रहण किये जाते हैं । उसके भी व्यतीत होनेपर पल्योपमके शेष रहे हुए एक भागके भी बहुभाग स्थितिकांडकरूपसे घात करनेके लिए ग्रहण किये जाते हैं । इस प्रकार संख्यात-सहस्र स्थितिकांडक व्यतीत होते हैं । तत्पश्चात् पल्योपमके संख्यातवे भागप्रमाण मिथ्यात्व-की स्थितिके शेष रहनेपर दूरापकृष्टि नामक स्थिति आती है । तब स्थितिकांडकका प्रमाण-पल्योपमके अवशिष्ट एक भागके असंख्यात बहुभाग-प्रमाण है । इस प्रकार स्थितिकांडकका यह पल्योपमके अवशिष्ट भागके असंख्यात बहुभागरूप प्रमाण मिथ्यात्वके क्षय होनेतक जारी रहता है । तत्पश्चात् सम्यग्मिथ्यात्वको भी क्षय करते हुए अवशिष्ट स्थितिसत्त्वके असंख्यात बहुभाग स्थितिकांडकरूपसे घात करनेके लिए तब तक ग्रहण करता है, जब तक कि क्षपण किया जानेवाला सम्यग्मिथ्यात्व भी क्षय कर दिया जाता है और उद्यावली को छोड़कर संक्रान्त्यमाण द्रव्य सर्वसंक्रमणके द्वारा सम्यक्त्वप्रकृतिमे संक्रान्त किया जाता है । उस समय

६४. एत्तो पाए अंतोमुहुत्तिगं द्विदिखंडयं । ६५. अपुव्वकरणस्स पढमसमयादो पाए जाव चरिमं पलिदोवमस्स असंखेज्जभागट्ठि दिखंडयं ति एदम्मि काले जं पदेसग्ग-मोऱ्हमाणो सव्वरहस्साए आवलियवाहिरट्ठिदीए पदेसग्गं देदि तं थोवं । समयु-त्तराए ट्ठिदीए जं पदेसग्गं देदि तमसंखेज्जगुणं । एवं जाव गुणसेहिसीसयं ताव असंखेज्जगुणं, तदो गुणसेहिसीसयादो उवरिमाणंतरट्ठिदीए पदेसग्गमसंखेज्जगुणहीणं, तदो विसेसहीणं । सेसायु वि ट्ठिदीसु विसेसहीणं चेव, णत्थि गुणगारपरावती' । ६६. जाथे अट्ठवासट्ठिदिगं संतकम्मं सम्पत्तरस्स ताथे पाए सम्पत्तरस्स अणुभागस्स अणुसमय-ओवट्ठणा । एसो ताव एक्को किरियापरिवत्तो* । ६७. अंतोमुहुत्तिगं चरिम-ट्ठिदिखंडयं । ६८. ताथे पाए ओवट्ठिज्जमाणासु ट्ठिदीसु उदये थोवं पदेसग्गं दिज्जदे ।

ही सम्यक्त्वप्रकृतिका स्थितिसत्त्व आठ वर्षप्रमाण होता है । इसी समय वह 'दर्शनमोहनीय-क्षपक' कहलाता है ॥ ६०-६३ ॥

चूर्णिसू०-उस पाये पर अर्थात् 'दर्शनमोहनीय-क्षपक' यह संज्ञा प्राप्त होनेपर अन्त-मुहूर्त प्रमाणवाला स्थितिकांडक आरम्भ होता है । अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर पल्यो-पमके असंख्यातवे भागवाले स्थितिकांडक तक इस कालमें जिस प्रदेशाग्रका अपकर्षण करता हुआ सबसे ह्रस्व उदयावलीसे बाहिरी स्थितिमें जो प्रदेशाग्र देता है, वह सबसे कम है । इससे एक समय अधिक स्थितिमें जिस प्रदेशाग्रको देता है, वह असंख्यातगुणित है । (इससे दो समय अधिक स्थितिमें असंख्यातगुणित प्रदेशाग्रको देता है ।) इस प्रकार गुणश्रेणीशीर्ष तक असंख्यातगुणित प्रदेशाग्रको देता है । तत्पश्चात् गुणश्रेणीशीर्षकसे उपरिम-अनन्तर स्थितिमें असंख्यातगुणित हीन प्रदेशाग्रको देता है । तत्पश्चात् विशेष हीन प्रदेशाग्रको देता है । इस प्रकार शेष सर्व स्थितियोंमें भी विशेष-हीन विशेष-हीन ही प्रदेशाग्रको देता है । यहाँपर कहीं भी गुणकारमें या किसी क्रियाविशेषमें कोई परिवर्तन नहीं होता है । जिस समय सम्यक्त्वप्रकृतिका स्थितिसत्त्व आठ वर्षप्रमाण रह जाता है, उस समय सम्यक्त्वप्रकृतिके अनुभागकी प्रतिसमय अपवर्तना होती है । तब यह एक क्रियाविशेषरूप परिवर्तन होता है । इसी समय अन्तिम स्थितिकांडकका आयाम अन्तर्मुहूर्तप्रमाण होता है, अर्थात् जो पहले-से दूरापकृष्टिसे लेकर इतनी दूर तक पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाणवाला स्थितिकांडक चला आ रहा था, वह स्थितिकांडक इस समय संख्यात आवली आयामवाले अन्तर्मुहूर्त-प्रमाण हो जाता है । यह एक दूसरा क्रिया-परिवर्तन है । उस समय अपवर्तन की जाने-वाली स्थितियोंमेंसे उदयमें अल्प प्रदेशाग्रको देता है । उससे अनन्तर समयमें असंख्यात-

१ एदम्मि निरुद्धकाले दिज्जमाणस्स दिस्समाणस्स वा पदेसग्गस्स अणतरपरुविदो चेव गुणगारकमो, णत्थि तस्य अण्णारिण्ण क्रमेण गुणगारपवुत्ति त्ति ज वुत्त होइ । गुणगारो णाम किरियाभेदो, सो णत्थि त्ति वा जाणावणट्ठ 'णत्थि गुणगारपरावत्ती' इदि सुत्ते णिदिट्ठ । जयध०

२ ताम्रपत्रवाले प्रतिमें 'किरियापरिवत्तो' इस पदसे आगे 'जं सम्पत्ताणुभागस्स पुव्वं विट्ठाणियसरूवस्स एण्हिमेगट्ठाणियसरूवेणाणुसमयोवट्ठणा पारद्धा त्ति' इतना अर्थ और भी सूत्र रूपसे मुद्रित है (देखो पृ० १७५८) । पर वस्तुतः यह टीकाका अर्थ है, यह इसी स्थलकी टीकासे सिद्ध है ।

से काले असंखेज्जगुणं जाव गुणसेहिसीसयं ताव असंखेज्जगुणं । तदो उवरिमाणंतर-
ट्टिदीए वि असंखेज्जगुणं देदि । तदो विसेसहीणं । ६९. एवं जाव दुचरिमट्टिदि-
खंडयं ति ।

७०. सम्मत्तस्स चरिमट्टिदिखंडए णिट्टिदे जाओ ट्टिदीओ सम्मत्तस्स सेसाओ
ताओ ट्टिदीओ थोवाओ । ७१. दुचरिमट्टिदिखंडयं संखेज्जगुणं । ७२. चरिमट्टिदिखंडयं
संखेज्जगुणं । ७३. चरिमट्टिदिखंडयमागाएंतो गुणसेहीए संखेज्जे भागे आगाएदि,
अण्णाओ च उवरि संखेज्जगुणाओ ट्टिदीओ ।

७४. सम्मत्तस्स चरिमट्टिदिखंडए पहमसमयमागाइदे ओवट्टिज्जमाणासु ट्टिदीसु
जं पदेसग्गमुदए दिज्जदि तं थोवं । से काले असंखेज्जगुणं ताव* जाव ठिदिखंडयस्स
जहणियाए ट्टिदीए चरिमसमय-अपत्तो त्ति । ७५. सा चेव ट्टिदी गुणसेहिसीसयं
जादं । ७६. जमिदाणिं गुणसेहिसीसयं तदो उवरिमाणंतराए ट्टिदीए असंखेज्जगुणहीणं ।
तदो विसेसहीणं जाव पोरणगुणसेहिसीसयं ताव । तदो उवरिमाणंतरट्टिदीए

गुणित प्रदेशाग्रको देता है । इस प्रकार गुणश्रेणीके शीर्ष तक असंख्यातगुणित प्रदेशाग्रको देता
है । इससे ऊपरकी अनन्तर स्थितिमे भी असंख्यातगुणित प्रदेशाग्रको देता है । तत्पश्चात्
विशेष-हीन देता है । इस प्रकार यह क्रम द्विचरम स्थितिकांडकके अन्तिम समय तक ले जाना
चाहिए ॥ ६४-६९ ॥

चूर्णिसू०—सम्यक्त्वप्रकृतिके अन्तिम स्थितिकांडकके समाप्त होनेपर जो स्थितियाँ
सम्यक्त्वप्रकृतिकी शेष रही है, वे स्थितियाँ अल्प है । उनसे द्विचरम स्थितिकांडक संख्यात-
गुणित है । उससे अन्तिम स्थितिकांडक संख्यातगुणित है । सम्यक्त्वप्रकृतिके अन्तिम स्थिति-
कांडकको घात करनेके लिए ग्रहण करता हुआ इस समयमे पाये जानेवाले गुणश्रेणी आयामके
संख्यात बहुभागो तथा संख्यातगुणित अन्य उपरिम स्थितियोंको भी ग्रहण करता है ॥ ७०-७३ ॥

चूर्णिसू०—सम्यक्त्वप्रकृतिके अन्तिम स्थितिकांडकके प्रथम समयमे घात करनेके लिए
ग्रहण करनेपर अपवर्तन की जानेवाली स्थितियोंमेसे जो प्रदेशाग्र उदयमे दिया जाता है, वह
अल्प है । अनन्तर समयमे असंख्यातगुणित प्रदेशाग्रको देता है । इस क्रमसे तब तक असं-
ख्यातगुणित प्रदेशाग्रको देता है जब तक कि स्थितिकांडककी जघन्य अर्थात् आदि स्थितिका
अन्तिम समय नहीं प्राप्त होता है । वह स्थिति ही गुणश्रेणी-शीर्ष कहलाती है । जो इस
समय गुणश्रेणी-शीर्ष है उससे उपरिम अनन्तर स्थितिमे असंख्यातगुणित हीन प्रदेशाग्रको देता
है । इसके पश्चात् तब तक विशेष हीन प्रदेशाग्रको देता है जब तक कि पुरातन गुणश्रेणी-शीर्ष

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमे 'ताव' पदके आगे 'असंखेज्जगुणं' इतना अधिक पाठ और मुद्रित है ।

असंखेज्जगुणहीणं । तदो विसेसहीणं । सेसासु वि विसेसहीणं । ७७. विदियसमए जमुकीरदि पदेसग्गं तं पि एदेणेव कमेण दिज्जदि । एवं ताव, जाव द्विदिखंडय-उकीरणद्वाए दुचरिमसमयो त्ति । ७८. ठिदिखंडयस्स चरिमसमये ओकहुमाणो उदये पदेसग्गं थोवं देदि, से काले असंखेज्जगुणं देदि, एवं जाव गुणसेहिंसीसयं ताव असंखेज्जगुणं । ७९ गुणगारो वि दुचरिमाए द्विदीए पदेसग्गादो चरिमाए ठिदीए पदेसग्गस्स असंखेज्जाणि पलिदोवमवग्गमूलाणि । ८० चरिमे द्विदिखंडए णिद्विदे कदकरणिज्जो त्ति भण्णदे ।

८१. ताधे मरणं पि होज्ज* । ८२. लेस्सापरिणामं पि परिणामेज्ज । ८३. काउ-तेउ-पम्म-सुकलेस्साणमण्णदरो । ८४. उदीरणा पुण संकिलिद्वस्सदु वा विसुज्झदु वा तो वि असंखेज्जसमयपवद्वा असंखेज्जगुणाए सेहीए जाव समयाहिया आवलिया

न प्राप्त हो जाय । उससे उपरिम-अनन्तर स्थितिमें असंख्यातगुणित हीन प्रदेशाग्रको देता है और उससे ऊपर विशेष हीन प्रदेशाग्रको देता है । इसी प्रकार शेष भी स्थितियोंमें विशेष हीन प्रदेशाग्रको देता है । द्वितीय समयमें जिस प्रदेशाग्रको उत्कीर्ण करता है, उसे भी इस ही क्रमसे देता है । इस प्रकार यह क्रम तब तक जारी रहता है, जब तक कि स्थितिकांडकके उत्कीरण-कालका द्विचरम समय प्राप्त होता है । स्थितिकांडकके अन्तिम समयमें अपकर्षण किये गये द्रव्यमेंसे उदयमें अल्प प्रदेशाग्रको देता है और उसके अनन्तर-कालमें असंख्यातगुणित प्रदेशाग्रको देता है । इस प्रकार गुणश्रेणी-शीर्ष प्राप्त होने तक असंख्यातगुणित प्रदेशाग्रको देता है । द्विचरम स्थितिके प्रदेशाग्रसे चरिम स्थितिके प्रदेशाग्रका गुणकार भी पर्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है । अन्तिम स्थितिकांडकके समाप्त होने पर वह 'कृतकृत्य वेदक' कहलाता है ॥७४-८०॥

विशेषार्थ—सम्यक्त्वप्रकृतिका अन्तिम स्थितिकांडक समाप्त होनेके समयसे लेकर जब तक सम्यक्त्वप्रकृतिकी अन्तर्मुहूर्त-प्रमाण गुणश्रेणी-गोपुच्छाएँ क्रमसे गलाता है, तब तक उसकी 'कृतकृत्य वेदक' यह संज्ञा है, अर्थात् इसने दर्शनमोहनीयके क्षपण-सम्बन्धी सर्व कार्य कर लिए हैं, अब कोई काम करना उसे अवशिष्ट नहीं रहा है ।

चूर्णिसू०—उस समय अर्थात् कृतकृत्यवेदक-कालके भीतर उसका मरण भी हो सकता है और लेज्या-परिणाम भी परिवर्तित हो सकता है, अर्थात् कपोत, तेज, पद्म और शुक्ललेश्यामेसे कोई एक लेश्यारूप परिणाम हो सकता है । वह कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि जीव भले ही संकलेशको प्राप्त हो, अथवा विशुद्धिको प्राप्त हो, तो भी उसके असंख्यातगुण-श्रेणीके द्वारा जब तक एक समय अधिक आवलीकाल शेष रहता है, तबतक बराबर असं-

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'होज्ज' पदसे आगे 'तदद्वाए पढमसमयप्पहुडि जाव चरिमसमयो त्ति' इतना अक्ष और भी सूत्ररूपसे मुद्रित है (देखो पृ० १७६६) । पर यह टीकाका अक्ष है, जिसमें कि 'ताधे' पदका अर्थ ही स्पष्ट किया गया है ।

सेसा ति । ८५. उदयस्स पुण असंखेज्जदिभागो उक्कस्सिया वि उदीरणा ।

८६. पलिदोवमस्स असंखेज्जभागियमपच्छिमं ठिदिखंडयं तस्स ठिदिखंडयस्स चरिमसमए गुणगारपरावत्ती तदो आढत्ता ताव गुणगारपरावत्ती जाव चरिमस्स ट्ठिदिखंडयस्स दुचरिमसमयो ति । सेसेसु समएसु णत्थिय गुणगारपरावत्ती । ८७. पढमसमय-कदकरणिज्जो जदि मरदि देवेषु उववज्जदि णियमा । ८८. जइ णेग्इएसु वा तिरिक्खज्जोणिएसु वा मणुसेसु वा उववज्जदि, णियमा अंतोमुहुत्तकदकरणिज्जो । ८९. जइ तेउ-पम्प-सुक्के वि अंतोमुहुत्तकदकरणिज्जो ।

ख्यात समयप्रवद्धोकी उदीरणा होती रहती है । उत्कृष्ट भी उदीरणा उदयके असंख्यातवें भागप्रमाण होती है ॥८१-८५॥

चूर्णिसू०—अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर पल्योपमके असंख्यातवें भागवाले अन्तिम स्थितिकांडककी द्विचरम फाली तक तो गुणकार-परावृत्ति या क्रियामे परिवर्तन नहीं है । किन्तु पल्योपमके असंख्यातवे भाग प्रमाणवाला जो अपश्चिम स्थितिकांडक है, उस स्थितिकांडकके अन्तिम समयमे गुणकार-परावृत्ति होती है । वहाँसे आरंभ कर यह गुणकार-परावृत्ति अन्तिम स्थितिकांडकके द्विचरम समय तक होती है । इसके अतिरिक्त शेष समयोंमें गुणकार-परावृत्ति नहीं होती है ॥८६॥

चूर्णिसू०—प्रथम समयवर्ती कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि यदि मरता है, तो नियमसे देवोंमें उत्पन्न होता है । (क्योंकि, अन्य गतियोंमे उत्पत्तिकी कारणभूत लेश्याका परिवर्तन उस समय असंभव है ।) यदि वह नारकियोंमें, अथवा तिर्यग्योनियोंमे, अथवा मनुष्योंमे उत्पन्न होता है, तो नियमसे अन्तर्मुहूर्तकाल तक वह कृतकृत्यवेदक रह चुका है । (क्योंकि, अन्तर्मुहूर्तकालके विना उक्त गतियोंमे उत्पत्तिके योग्य लेश्याका परिवर्तन उस समय संभव नहीं है ।) यदि वह तेज, पद्म और शुक्ललेश्यामे भी परिणमित होता है, तो भी वह अन्तर्मुहूर्त तक कृतकृत्यवेदक रहता है ॥८७-८९॥

विशेषार्थ—दर्शनमोहके क्षपणके लिए समुद्यत जीवके अधःकरण प्रारंभ करते हुए तेज, पद्म और शुक्लमेंसे जो लेश्या थी, कृतकृत्यवेदक होनेके समय उसी लेश्याका उत्कृष्ट अंश होता है । क्योंकि, उसके उत्तरोत्तर परिणामोमे विशुद्धिके बढ़नेसे लेश्याका जघन्य अंश भी बढ़कर उत्कृष्ट अंशको प्राप्त हो जाता है । अतएव कृतकृत्यवेदक होनेपर यदि लेश्याका परिवर्तन होगा, तो भी पूर्वसे चली आई हुई लेश्यामें वह अन्तर्मुहूर्त तक रहेगा, तत्पश्चात् ही लेश्याका परिवर्तन हो सकेगा । कुछ आचार्य इस सूत्रका अन्य प्रकारसे अर्थ करते हैं । उनका कहना है कि यदि कोई जीव तेजोलेश्याके जघन्य अंशसे युक्त होकर भी दर्शनमोहका क्षपण प्रारंभ करता है, तो भी उसके कृतकृत्यवेदक होनेतक उत्तरोत्तर विशुद्धिकी वृद्धिके कारण शुक्ललेश्या नियमसे हो जाती है । अतएव यदि उसके कृतकृत्यवेदक होनेके पश्चात् लेश्याका परिवर्तन होगा, तो भी वह उक्त तीनों लेश्याओंमें अन्तर्मुहूर्तकाल तक रहेगा,

९०. एवं परिभासा समत्ता ।

९१. दंसणमोहणीयदखवगस्स पहमसमए अपुव्वकरणमादिं कादूण जाव पहमसमयकदकरणिज्जो त्ति एदमिह अंतरे अणुभागखंडय-ट्टिदिखंडय-उक्कीरणद्धाणं जहण्णुक्कस्सियाणं ट्टिदिखंडयट्टिदिवंध-ट्टिदिसंतकम्माणं जहण्णुक्कस्सियाणं आवाहाणं च जहण्णुक्कस्सियाणमण्णेसिं च पदाणमप्पावहुअं वत्तइस्सामो । ९२. तं जहा । ९३. सव्वत्थोवा जहणिया अणुभागखंडय-उक्कीरणद्धा । ९४. उक्कस्सिया अणु-भागखंडयउक्कीरणद्धा विमेषाहिया । ९५ ट्टिदिखंडय-उक्कीरणद्धा ट्टिदिवंधगद्धा च जहणियाओ दो वि तुल्लाओ संखेज्जगुणाओ । ९६. ताओ उक्कस्सियाओ दो वि तुल्लाओ विमेषाहियाओ । ९७. कदकरणिज्जस्स अद्धा संखेज्जगुणा । ९८. सम्मत्तवखणद्धा संखेज्जगुणा । ९९. अणियट्टिअद्धा संखेज्जगुणा । १००. अपुव्व-

तत्पश्चात् ही लेश्याका परिवर्तन होगा, इसके पूर्व नहीं । शुभ लेश्याके परिवर्तित होनेके पश्चात् पूर्ववद् आयुके कारण वह यथायोग्य अशुभ लेश्यासे परिणत होकर यदि मरण कर मनुष्यगतिमें जायगा, तो नियमसे भोगभूमियाँ मनुष्योमे उत्पन्न होगा । यदि तिर्यग्गतिमें जायगा तो भोगभूमियाँ तिर्यचोमे उत्पन्न होगा और यदि नरकगतिमें जायगा, तो प्रथम पृथिवीमे ही उत्पन्न होगा, अन्यत्र नहीं ।

चूर्णिसू०—इस प्रकार गाथामूत्रोकी परिभाषा समाप्त हुई ॥९०॥

विशेषार्थ—सूत्र-द्वारा उक्त या सूचित अर्थके व्याख्यान करनेको विभाषा कहते हैं । तथा जो अर्थ सूत्रमें उक्त या अनुक्त हो, अथवा देशामर्शकरूपसे सूचित किया गया हो उसके व्याख्यान करनेको परिभाषा कहते हैं । दर्शनमोहक्षपणा-सम्बन्धी पाँचो गाथा-सूत्रो-में जो अर्थ कहा गया है, अथवा नहीं कहा गया है, अथवा सूचित किया गया है, वह सब उपर्युक्त चूर्णिसूत्रोंके द्वारा व्याख्यान कर दिया गया, ऐसा इस चूर्णिसूत्रका अभिप्राय जानना चाहिए । यहाँ इतना विशेष ज्ञातव्य है कि यहाँतक चार गाथामूत्रोकी परिभाषा की गई है, क्योंकि पाँचवें गाथामूत्रकी परिभाषा चूर्णिकारने आगे की है ।

चूर्णिसू०—दर्शनमोहनीयक्षपकके प्रथम समयमें अपूर्वकरणको आदि करके जब तक प्रथम समयवर्ती कृतकृत्यवेदक होता है, तब तक इस अन्तरालमें अनुभागकांडक और स्थिति-कांडक-उत्कीरण कालोके, जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिकांडक, स्थितिवन्ध और स्थितिसत्त्वोके, जघन्य वा उत्कृष्ट आवाधाओके, तथा जघन्य और उत्कृष्ट अन्य भी पदोंके अल्पवहुत्वको कहेंगे । वह इस प्रकार है । जघन्य अनुभागकांडकका उत्कीरणकाल सबसे कम है । इससे उत्कृष्ट अनुभागकांडकका उत्कीरणकाल विशेष अधिक है । इससे जघन्य स्थितिकांडकका उत्कीरणकाल और जघन्य स्थितिवन्धकाल, ये दोनो परस्पर तुल्य होते हुए भी संख्यातगुणित हैं । इनसे इन्हीं दोनोके उत्कृष्टकाल परस्पर तुल्य होते हुए भी विशेष अधिक है । इससे कृतकृत्यवेदकका काल संख्यातगुणित है । कृतकृत्यवेदकके कालसे सम्यक्त्व-प्रकृतिके क्षपणका काल संख्यातगुणित है । सम्यक्त्वप्रकृतिके क्षपणके कालसे अति-

करणद्वा संखेज्जगुणा । १०१. गुणसेट्टिणिकखेवो विसेसाहिओ । १०२. सम्मत्तस्स
 दुचरिमट्टिदिखंडयं संखेज्जगुणं । १०३. तस्सेव चरिमट्टिदिखंडयं संखेज्जगुणं । १०४.
 अट्टवस्सट्टिदिगे संतकम्मसे जं पढमं ट्टिदिखंडयं तं संखेज्जगुणं । १०५. जहणिया
 आवाहा संखेज्जगुणा । १०६. उक्कस्सिया आवाहा संखेज्जगुणा । १०७. पढमसमय-
 अणुभागं अणुसमयोवट्टमाणस्स अट्ट वस्साणि ट्टिदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं । १०८.
 सम्मत्तस्स असंखेज्जवस्सियं चरिमट्टिदिखंडयं असंखेज्जगुणं । १०९. सम्मामिच्छत्तस्स
 चरिमसंखेज्जवस्सियं ट्टिदिखंडयं विसेसाहियं । ११०. मिच्छत्ते खविदे सम्मत्त-सम्मा-
 पिच्छत्ताणं पढमट्टिदिखंडयमसंखेज्जगुणं । १११. मिच्छत्तसंतकम्मियस्स सम्मत्त-सम्मा-
 पिच्छत्ताणं चरिमट्टिदिखंडयमसंखेज्जगुणं । ११२. मिच्छत्तस्स चरिमट्टिदिखंडयं विसे-
 साहियं । ११३. असंखेज्जगुणहाणिट्टिदिखंडयाणं पढमट्टिदिखंडयं मिच्छत्त-सम्मत्त-
 सम्मामिच्छत्ताणमसंखेज्जगुणं । ११४. संखेज्जगुणहाणिट्टिदिखंडयाणं चरिमट्टिदिखंडयं
 जं तं संखेज्जगुणं । ११५. पल्लिदोवमट्टिदिसंतकम्मादो विदियं ट्टिदिखंडयं संखेज्जगुणं ।

वृत्तिकरणका काल संख्यातगुणित है । अनिवृत्तिकरणके कालसे अपूर्वकरणका काल संख्यात-
 गुणित है । अपूर्वकरणके कालसे गुणश्रेणीनिक्षेप विशेष अधिक है । गुणश्रेणीनिक्षेपसे सम्य-
 क्त्वप्रकृतिका द्विचरम स्थितिकांडक संख्यातगुणित है । सम्यक्त्वप्रकृतिके द्विचरम स्थिति-
 कांडकसे सम्यक्त्वप्रकृतिका ही अन्तिम स्थितिकांडक संख्यातगुणित है । सम्यक्त्वप्रकृतिके
 अन्तिम स्थितिकांडकसे सम्यक्त्वप्रकृतिके आठ वर्षप्रमाण स्थितिसत्त्वके शेष रहनेपर जो प्रथम
 स्थितिकांडक होता है, वह संख्यातगुणित है । इससे कृतकृत्यवेदकके प्रथम समयमे संभव
 सर्व कर्म-सम्बन्धी जघन्य आवाधा संख्यातगुणित है । इस जघन्य आवाधासे अपूर्वकरणके
 प्रथम समयमे बंधनेवाले कर्मोंकी उत्कृष्ट आवाधा संख्यातगुणित है । इस उत्कृष्ट आवाधासे
 अनुभागको प्रतिसमय अपवर्तन करनेवाले जीवके प्रथम समयमे होनेवाला आठ वर्षप्रमाण
 सम्यक्त्वप्रकृतिका स्थितिसत्त्व संख्यातगुणा है । इस आठ वर्षप्रमाण सम्यक्त्वप्रकृतिके
 स्थितिसत्त्वसे सम्यक्त्वप्रकृतिका असंख्यात वर्षवाला अन्तिम स्थितिकांडक असंख्यातगुणा
 है । सम्यक्त्वप्रकृतिके अन्तिम स्थितिकांडकसे सम्यग्मिध्यात्वका असंख्यात वर्षवाला अन्तिम
 स्थितिकांडक विशेष अधिक है । (यहाँ विशेष अविकका प्रमाण एक आवलीसे कम आठ
 वर्षप्रमाण जानना चाहिए ।) सम्यग्मिध्यात्वके अन्तिम स्थितिकांडकसे मिध्यात्वके क्षयण
 करनेपर सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका प्रथम स्थितिकांडक असंख्यातगुणा है ।
 इससे मिध्यात्वप्रकृतिकी सत्तावाले जीवके सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्व-सम्बन्धी
 अन्तिम स्थितिकांडक असंख्यातगुणित है । इससे मिध्यात्वका अन्तिम स्थितिकांडक
 विशेष अधिक है । मिध्यात्वके अन्तिम स्थितिकांडकसे असंख्यात गुणहानिरूप स्थिति-
 कांडकवाले, मिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिका प्रथम स्थितिकांडक असं-
 ख्यातगुणित है । इससे संख्यात गुणहानिरूप स्थितिकांडकवाले उपयुक्त तीनों
 कर्मोंका जो अन्तिम स्थितिकांडक है, यह संख्यातगुणित है । प्रत्येकप्रमाण स्थिति-
 सत्त्वसे मिध्यात्वादि तीनों कर्मोंका द्वितीय स्थितिकांडक संख्यातगुणित है । इससे जिस

११६. जम्हि द्विदिखंडए अवगदे दंसणमोहणीयस्स पलिदोवममेत्तं द्विदिसंतकम्मं होइ, तं द्विदिखंडयं संखेज्जगुणं । ११७. अपुव्वकरणे पढमद्विदिखंडयं संखेज्जगुणं । ११८. पलिदोवममेत्ते द्विदिसंतकम्मे जादे तदो पढमं द्विदिखंडयं संखेज्जगुणं । ११९. पलिदोवमद्विदिसंतकम्मं विसेसाहियं । १२०. अपुव्वकरणे पढमस्स उक्कस्सगद्विदिखंडयस्स विसेसो संखेज्जगुणो । १२१. दंसणमोहणीयस्स अणियद्विपढमसमयं पविट्ठस्स द्विदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं । १२२. दंसणमोहणीयवज्जाणं कम्माणं जहण्णओ द्विदिवंधो संखेज्जगुणो । १२३. तेसिं चेव उक्कस्सओ द्विदिवंधो संखेज्जगुणो । १२४. दंसणमोहणीयवज्जाणं जहण्णयं द्विदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं । १२५. तेसिं चेव उक्कस्सयं द्विदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं । १२६. एदम्हि दंडए समत्ते सुत्तगाहाओ अणुसंवण्णेदव्वाओ ।

१२७. संखेज्जा च मणुस्सेसु खीणमोहा सहस्ससो णियमा त्ति एदिस्से गाहाए अट्ठ अणियोगदाराणि । तं जहा-संतपरुवणा दव्वपमाणं खेत्तं फोसणं कालो अंतरं भागाभागो अप्पावहुअं च । १२८. एदेसु अणिओगदारेसु वण्णिदेसु दंसण-मोहक्खवणा त्ति समत्तमणिओगदारं ।

स्थितिकांडकके नष्ट होनेपर दर्शनमोहनीयकर्मका पल्योपमप्रमाण स्थितिसत्त्व रहता है, वह स्थितिकांडक संख्यातगुणित है । इससे अपूर्वकरणमे होनेवाला प्रथम स्थितिकांडक संख्यात-गुणित है । अपूर्वकरणमे होनेवाले प्रथम स्थितिकांडकसे पल्योपममात्र स्थितिसत्त्वके होने-पर तत्पश्चान् होनेवाला प्रथम स्थितिकांडक संख्यातगुणित है । इससे पल्योपमप्रमाण स्थिति-सत्त्व विशेष अधिक है । पल्योपमप्रमाण स्थितिसत्त्वसे अपूर्वकरणमे होनेवाले प्रथम उत्कृष्ट स्थितिकांडकका विशेष संख्यातगुणित है । (क्योंकि उसका प्रमाण सागरोपम-पृथक्त्व है ।) इससे अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमे प्रविष्ट हुए जीवके दर्शनमोहनीय कर्मका स्थितिसत्त्व संख्यातगुणित है । (क्योंकि, उसका प्रमाण सागरोपमशतसहस्र-पृथक्त्व है । अनिवृत्तिकरण-प्रविष्ट प्रथम-समयवर्ती जीवके दर्शनमोहनीयके स्थितिसत्त्वसे दर्शनमोहनीयको छोड़कर शेष कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणित है । (क्योंकि, कृतकृत्यवेदकका प्रथमसमयसम्बन्धी स्थितिवन्ध अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरोपम माना गया है ।) इस जघन्य स्थितिवन्धसे उन्हीं कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणित है । उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धसे दर्शनमोह-नीयके विना शेष कर्मोंका जघन्य स्थितिसत्त्व संख्यातगुणित है । इस जघन्य स्थितिसत्त्वसे उन्हीं कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिसत्त्व संख्यातगुणित है ॥ १११-१२५ ॥

चूर्णिसू०—इस अल्पवहुत्व-दंडकके समाप्त होनेपर सूत्र-गाथाओंका अचयवार्थ-परामर्शपूर्वक सन्यक् प्रकारसे व्याख्यान करना चाहिए ॥ १२६ ॥

चूर्णिसू०—‘संखेज्जा च मणुस्सेसु खीणमोहा सहस्ससो णियमा’ इस पाँचवी गाथामें आठ अनुयोगद्वार ज्ञातव्य हैं । वे इस प्रकार हैं—सत्पररूपणा, द्रव्यप्रमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शानुगम, कालानुगम, अन्तरानुगम, भागाभागानुगम और अल्पवहुत्व । इन अनुयोग-द्वारोंके वर्णन करनेपर दर्शनमोहक्षपणा नामका अधिकार समाप्त होता है ॥ १२७-१२८ ॥

१२ संजमासंजमलद्धि-अत्याहियारो

१. देसविरदे त्ति अणिओगदारे एया सुत्तगाहा । २. तं जहा ।

(६२) लद्धी य संजमासंजमस्स लद्धी तहा चरित्तस्स ।

वड्ढावड्ढी उवसामणा य तह पुव्ववड्ढाणं ॥११५॥

१२ संयमासंयमलद्धि-अर्थाधिकार

चूर्णिसू०—देशविरत नामक संयमासंयमलद्धि अनुयोगद्वारमें एक सूत्रगाथा है । वह इस प्रकार है ॥१-२॥

संयमासंयम अर्थात् देशसंयमकी लद्धि, तथा चारित्रि अर्थात् सकलसंयमकी लद्धि, परिणामांकी उत्तरोत्तर वृद्धि, और पूर्व-वद्ध कर्मोंकी उपशामना इस अनुयोग-द्वारमें वर्णन करने योग्य है ॥११५॥

विशेषार्थ—वास्तवमें यह गाथा संयमासंयमलद्धि और संयमलद्धि नामक दो अधिकारोंमें निबद्ध है, जैसा कि गाथासूत्रकार स्वयं ही ग्रन्थके प्रारम्भमें कह आये हैं । परन्तु यहाँपर संयमासंयमलद्धिके स्वतन्त्र अधिकारमें कहनेकी विवक्षासे चूर्णिकारने सामान्यसे ऐसा कह दिया है कि इस अनुयोगद्वारमें एक गाथा प्रतिबद्ध है, क्योंकि दोनो अनुयोगद्वारोंका एक साथ वर्णन किया नहीं जा सकता था । हिसादि पापोंके एक देश त्यागको संयमासंयम कहते हैं । संयमासंयमके वातक अप्रत्याख्यानावरण कषायके उदयाभावसे प्राप्त होनेवाली परिणामोंकी विशुद्धिको संयमासंयमलद्धि कहते हैं । हिसादि सर्व पापोंके सर्वथा त्यागको सकलसंयम कहते हैं । सकलसंयमके वातक प्रत्याख्यानावरण कषायके उदयाभावसे उपलब्ध होनेवाली विशुद्धिको संयमलद्धि कहते हैं । इन दोनोंमेंसे प्रकृत अनुयोगद्वारमें केवल संयमासंयमलद्धिका ही वर्णन किया जायगा । अलद्धि-पूर्व संयमासंयम या संयमलद्धिके प्राप्त होनेके प्रथम समयसे लेकर अन्तर्मुहूर्त काल तक प्रतिसमय उत्तरोत्तर अनन्तगुणित क्रमसे परिणामोंकी विशुद्धि-वृद्धिको 'वड्ढावड्ढी' वृद्धापवृद्धि या 'वड्ढावड्ढी' कहते हैं । देशचारित्रि या सकलचारित्रिके प्रतिबन्धक, पूर्व-वद्ध कर्मोंके अनुदयरूप अभावको यहाँ 'उपशामना' नामसे ग्रहण किया गया है । इसके चार भेद हैं—प्रकृति-उपशामना, स्थिति-उपशामना, अनुभाग-उपशामना और प्रदेशोपशामना । देशसंयम और सकलसंयमके वात करनेवाली प्रकृतियोंकी उपशामनाको प्रकृति-उपशामना कहते हैं । इन्हीं प्रकृतियोंकी, अथवा सभी कर्मोंकी अन्तःकोड़ाकोड़ीसे ऊपरकी स्थितियोंके उदयाभावको स्थिति-उपशामना कहते हैं । चारित्रिके अवरोधक

३. एदस्स अणिओगद्दारस्स पुव्वं गमणिज्जा परिभासा । ४. तं जहा । ५. एत्थ अधापवत्तकरणद्दा अपुव्वकरणद्दा च अत्थि, अणियट्ठिकरणं णत्थि । ६. संजमा-संजममंतोमुहुत्तेण लभिहिदि त्ति तदोप्पहुडि सव्वो जीवो आउगवज्जाणं कम्माणं ट्ठिद्विबंधं ट्ठिदिसंतकम्मं च अंतोकोडाकोडीए करेदि । सुभाणं कम्माणमणुभागबंधमणु-भागसंतकम्मं च चहुट्ठाणियं करेदि । असुभाणं कम्माणमणुभागबंधमणुभागसंतकम्मं च हुट्ठाणियं करेदि । ७. तदो अधापवत्तकरणं णाम अणंतगुणाए विमोहीए विसुज्झदि । णत्थि ट्ठिदिसंडयं वा अणुभागखंडयं वा । केवलं ट्ठिदिवंधे पुण्णे पल्लिदोवमस्स संखेज्जदि-

कपायोके द्विस्थानीय, त्रिस्थानीय और चतुःस्थानीय अनुभागके उदयाभावको, तथा उदयमें आनेवाले भी कपायोके सर्वघाती स्पर्धकोंके उदयाभावको अनुभागोपशामना कहते हैं । अनुदय-प्राप्त कपायोके प्रदेशोंके उदयाभावको प्रदेशोपशामना कहते हैं । इन चारों प्रकारकी उपशामनाओका इस अधिकारमें वर्णन किया जायगा । जयधवलाकारने संयमासंयमलट्ठिध और 'वड्ढावड्ढी' का एक और भी अर्थ किया है । वह यह कि लट्ठिधस्थान तीन प्रकारके होते हैं—प्रतिपातस्थान, प्रतिपद्यमानस्थान और अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमानस्थान । इन तीनों प्रकारके स्थानोंकी प्ररूपणा उक्त दोनों अनुयोगद्वारोंमें निवद्ध समझना चाहिए । 'वड्ढावड्ढी' यह पद वृद्धि और अपवृद्धिके संयोगसे बना है, अतएव यहाँ वृद्धिपदसे संयमासंयम या संयमको प्राप्त होनेवाले जीवके निरन्तर विशुद्धिरूपसे बढ़ते ही रहनेवाले एकान्तानुवृद्धिरूप परिणामोंका ग्रहण करना चाहिए । इसी प्रकार संक्लेशके वशसे प्रतिसमय अनन्तगुणी हानिके द्वारा संयमासंयम या संयमलट्ठिधके पतनशील परिणामोंको 'अपवृद्धि' कहते हैं । इस प्रकारके वृद्धि-हानिरूप परिणामोंका भी इस अधिकारमें वर्णन किया जायगा । इसी प्रकार 'उपशामना' पदसे भी यह सूचित किया गया है कि जिस प्रकार प्रथमोपशमसम्यक्त्वको प्राप्त होने वाले जीवके दर्शनमोहकी उपशामनाका विधान किया गया है, उसी प्रकारसे यहाँपर भी उपशमसम्यक्त्वके साथ संयमासंयम या संयमलट्ठिधको प्राप्त करनेवाले जीवके उप-शामनाका निरूपण करना चाहिए । इस प्रकार उक्त सर्व अर्थोंका निरूपण इस अधिकारमें किया जायगा ।

चूर्णिसू०—इस अनुयोगद्वारमें पहले गाथासूत्रसे सूचित अर्थकी परिभाषा जानने योग्य है । उसे इस प्रकार जानना चाहिए—यहाँपर, अर्थात् संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले वेदक-सम्यग्दृष्टिके अथवा वेदक-प्रायोग्य मिथ्यादृष्टिके अधःप्रवृत्तकरणकाल और अपूर्वकरणकाल होता है, अनिवृत्तिकरण नहीं होता है । (क्योंकि, कर्मोंकी सर्वोपशामना या क्षपणा करनेके लिए समुद्यत जीवके ही अनिवृत्तिकरण होता है ।) संयमासंयमको अन्तर्मुहूर्त कालसे प्राप्त करेगा, इस कारण वहाँसे लेकर सर्व जीव आयुर्कर्मको छोड़कर शेष सात कर्मोंके स्थितिवन्ध-को और स्थितिसत्त्वको अन्तःकोड़ाकोड़ीके प्रमाण करते हैं । शुभ कर्मोंके अनुभागबन्धको और अनुभागसत्त्वको चतुःस्थानीय करते हैं । तथा अशुभ कर्मोंके अनुभागबन्धको और

भागहीणेण द्विदिं बंधदि । जे सुभा कम्मंसा ते अणुभागेहिं अणंतगुणेहिं बंधदि । जे असुहकम्मंसा, ते अणंतगुणहीणेहिं* बंधदि ।

८. विसोहीए तिव्व-मंदं वत्तइस्सामो । ९. अधापवत्तकरणस्स जदोप्पहुडि विसुद्धो तस्स पढमसमए जहणिया विसोही थोवा । १०. विदियसमए जहणिया विसोही अणंतगुणा । ११. तदियसमए जहणिया विसोही अणंतगुणा । १२. एवमंतो-सुहुत्तं जहणिया चेव विसोही अणंतगुणेण गच्छइ । १३. तदो पढमसमए उक्कस्सिया विसोही अणंतगुणा । १४. सेस-अधापवत्तकरणविसोही जहा दंसणमोह-उवसामगस्स अधापवत्तकरणविसोही तथा चेव कायच्चा† ।

अनुभागसत्त्वको द्विस्थानीय करते हैं । तत्पश्चात् अधःप्रवृत्तकरण नामकी अनन्तगुणी विशुद्धिके द्वारा विशुद्ध होता है । यहाँपर न स्थितिकांडकघात होता है और न अनुभागकांडकघात होता है । (न गुणश्रेणी होती है ।) केवल स्थितिवन्धके पूर्ण होनेपर पर्योपमके संख्यातवें भागसे हीन स्थितिवन्धके द्वारा नवीन कर्मोंकी स्थितिको वॉधता है । जो शुभ कर्मरूप प्रकृतियाँ हैं, उन्हें अनन्तगुणित अनुभागोके साथ वॉधता है और जो अशुभ कर्मरूप प्रकृतियाँ हैं, उन्हें अनन्तगुणित हीन अनुभागोके साथ वॉधता है ॥ ३-७ ॥

चूणिसू०—अव संयमासंयमलब्धिको प्राप्त करनेवाले जीवके विशुद्धिकी तीव्र-मन्दता कहते हैं—अधःप्रवृत्तकरणके जिस समयसे विशुद्ध हुआ है, उसके प्रथम समयमे जघन्य विशुद्धि सबसे कम है । उससे द्वितीय समयमे जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणी है । उससे तृतीय समयमे जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणी है । इस प्रकार अन्तर्मुहूर्त तक जघन्य विशुद्धि ही अनन्त-गुणित क्रमसे बढ़ती जाती है । इसके पश्चात् अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमे उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी होती है । शेष अधःप्रवृत्तकरण-सम्बन्धी विशुद्धियाँ, जिस प्रकार दर्शनमोहोपशामकके अधःप्रवृत्तकरणमे बतलाई गई है, उसी प्रकारसे यहाँपर भी उनका निरूपण करना चाहिए ॥ ८-१४ ॥

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमे 'अणंतगुणहीणेहिं' इस पाठके स्थानपर 'अणंतगुणेहिं [हीणा-]' ऐसा पाठ मुद्रित है । (देखो पृ० १७७८)

† ताम्रपत्रवाली प्रतिमे सूत्राक १४ के अनन्तर निम्नलिखित चार सूत्र और मुद्रित हैं—
'सज्जमासज्ज पडिवज्जमाणस्स परिणामो केरिसो भवे १ । [जोगे कसाय उवजोगे लेस्सा वेदो य को ह्वे ॥—]
काणि वा पुव्ववद्दाणि० २ [के वा असे गिवधदि । कदि आवल्लिबं पविसति कदिण्ह वा पवेसगो ॥—]
के असे क्षीयदे पुव्व० ३ [वधेण उदएण वा । अतर वा कहिं किच्चा के के खवगो कहिं ॥—]
कि ठिदियाणि कम्माणि० ४ [अणुभागेसु केसु वा । ओवट्टिदूण सेसाणि क ठाण पडिवज्जदि' ॥—]

इस उद्धरणमें कोष्ठकान्तर्गत पाठको सम्पादकने अपनी ओरसे पूर्व-निर्दिष्ट गाथासूत्रोंके अनुसार जोड़ा है । शेष अंश टीकाका अंग है । जो कि प्रकृत स्थलपर उद्धरणके रूपसे निर्दिष्ट किया गया है ।

(देखो पृ० १७७९) ।

१५. अपुव्वकरणस्स पहमसमए जहण्णयं ठिदिखंडयं पलिदोवपस्स संखेज्जदि-
भागो, उक्कस्सयं ठिदिखंडयं सागरोवमपुधत्तं । १६. अणुभागखंडयमसुहाणं कम्माणमणु-
भागस्स अणंता भागा आगाइदा । सुभाणं कम्माणमणुभागघादो णत्थि । १७. गुणसेठी
च णत्थि ।

१८. द्विदिवंधो पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण* हीणो । १९. अणुभागखंडय-
सहस्सेसु गदेसु द्विदिखंडय-उत्कीरणकालो द्विदिवंधकालो च अण्णो च अणुभागखंडय-
उत्कीरणकालो समगं समत्ता भवन्ति । २०. तदो अण्णं द्विदिखंडयं पलिदोवमस्स संखेज्ज-
भागिगं अण्णं द्विदिवंधमण्णमणुभागखंडयं च पट्टवेह । २१. एवं द्विदिखंडयसहस्सेसु
गदेसु अपुव्वकरणद्धा समत्ता भवदि ।

विशेषार्थ—जिस प्रकारसे दर्शनमोह-उपशामनाके प्रारम्भ करनेवाले जीवके विषयमें
गाथासूत्राङ्क ९१ से लेकर ९४ तककी चार प्रस्थापक-गाथाओंके द्वारा परिणाम, योग, कपाय,
लेश्या आदिका, पूर्व-वद्ध और नवीन बंधनेवाले कर्मोंका, तथा कर्मोंकी उदय-अनुदय, बन्ध-
अबन्ध और अन्तर, उपशम आदिका विस्तृत विवेचन क्रिया गया है, उसी प्रकारसे यहाँपर भी
अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें संयमासंयमलब्धिके प्रस्थापक जीवके परिणाम, योग, लेश्या
आदिका विवेचन करनेकी चूर्णिकारने सूचना की है । दर्शनमोहोपशामना-प्रस्थापककी प्ररूपणा-
से संयमासंयमलब्धि-प्रस्थापककी इस प्ररूपणामे कोई विशेष भेद न होनेसे चूर्णिकारने उसे
स्वयं नहीं कहा है । अतः विषयके स्पष्टीकरणार्थ यहाँ उसका प्ररूपण करना आवश्यक है ।

चूर्णिसू०—अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जवन्य स्थितिकांडक पल्योपमका संख्यातवों
भाग हैं और उत्कृष्ट स्थितिकांडक सागरोपमपृथक्त्व-प्रमाण है । अनुभागकांडक अशुभ कर्मों-
के अनुभागका अनन्त बहुभाग घात क्रिया जाता है । शुभ कर्मोंका अनुभागघात नहीं होता
है । यहाँपर गुणश्रेणीरूप निर्जरा भी नहीं होती है ॥ १५-१७ ॥

विशेषार्थ—संयमासंयमलब्धिको प्राप्त करनेवाली जीवके गुणश्रेणीरूप निर्जरा नहीं
होती है । इसका कारण यह है कि वेदकसम्यक्त्वके साथ संयमासंयमलब्धिको प्राप्त करनेवाले
जीवके गुणश्रेणी निर्जराका निषेध किया गया है । हाँ, उपशमसम्यक्त्वके साथ संयमासंयम-
लब्धिको प्राप्त करनेवाले जीवके गुणश्रेणी निर्जरा होती है, किन्तु यहाँपर चूर्णिकारने
उसकी विवक्षा नहीं की है ।

चूर्णिसू०—अपूर्वकरणके प्रथम समयमें अधःप्रवृत्तकरणकी अपेक्षा स्थितिवन्ध
पल्योपमके संख्यातवे भागसे हीन होता है । सहस्रो अनुभागकांडकोंके व्यतीत होनेपर
अर्थात् घात कर दिये जानेपर स्थितिकांडकका उत्कीरणकाल, स्थितिवन्धका काल और अनु-
भागकांडकका उत्कीरणकाल, ये तीनों एक साथ समाप्त होते हैं । तत्पश्चात् पल्योपमके
संख्यातवों भागवाला अन्य स्थितिकांडक, अन्य स्थितिवन्ध और अन्य अनुभागकांडकको
एक साथ आरम्भ करता है । इस प्रकार सहस्रो स्थितिकांडकघातोंके हो जानेपर अपूर्वकरणका
काल समाप्त होता है ॥ १८-२१ ॥

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'पलिदोवमसंखेज्जभागेण' ऐसा पाठ मुद्रित है । (देखो पृ० १७८०)

२२. तदो से काले पढमसमयसंजदासंजदो जादो । २३. ताधे अपुव्वं ट्टिदि-
खंडयमपुव्वमणुभागखंडयमपुव्वं ट्टिदिवंधं च पट्टवेदि । २४. असंखेज्जे समयपव्वद्धे
ओकट्टियुण गुणसेहीए उदयावलियवाहिरे रचेदि । २५. से काले तं चेव ट्टिदिखंडयं,
तं चेव अणुभागखेडयं सो चेव ट्टिदिवंधो । गुणसेही असंखेज्जगुणा । २६ गुणसेहि-
णिकखेवो अवट्टिदगुणसेही तत्तिगो चेव । २७. एवं ठिदिखंडएसु वहुएसु गदेसु तदो
अधापवत्तसंजदासंजदो' जायदे ।

२८. अधापवत्तसंजदासंजदस्स ठिदिघादो वा अणुभागघादो वा णत्थि । २९.
जदि संजमासजमादो परिणामपच्चएण णिग्गदो, पुणो वि परिणामपच्चएण अंतोमुहुत्तेण

चूर्णिसू०—तदनन्तर कालमे वह प्रथम समयवर्ती संयतासंयत हो जाता है । उस
समय वह अपूर्व स्थितिकांडकघात, अपूर्व अनुभागकांडकघात और अपूर्व स्थितिवन्धको
आरम्भ करता है । तथा असंख्यात समयप्रवद्धोका अपकर्षण कर उदयावलीके वाहिर गुणश्रेणी-
को रचता है । उसके अनन्तर समयमे वही पूर्वोक्त स्थितिकांडकघात होता है, वही अनुभाग-
कांडकघात होता है और वही स्थितिवन्ध होता है । केवल गुणश्रेणी असंख्यातगुणी होती है ।
गुणश्रेणीनिक्षेप और अवस्थित गुणश्रेणी उतनी ही अर्थात् पूर्व-प्रमाण ही रहती है । इस
प्रकार बहुतसे स्थितिकांडकघातोके व्यतीत होनेपर तत्पश्चात् उक्त जीव अधःप्रवृत्त संयता-
संयत होता है ॥२२-२७॥

विशेषार्थ—संयमासंयमको ग्रहण करनेके प्रथम समयसे लेकर अन्तर्मुहूर्त काल तक
प्रतिसमय अनन्तगुणी विशुद्धिसे बढ़ता हुआ, सहस्रो स्थितिकांडकघात, अनुभागकांडकघात
और स्थितिवन्धापसरणोको करता हुआ यह जीव एकान्तानुवृद्धिसे वृद्धिगत संयतासंयत कह-
लाता है । क्योंकि संयतासंयत होनेके प्रथम समयसे लेकर इस समय तक उसके एकान्तसे
अर्थात् निश्चयतः अविच्छिन्नरूपसे प्रतिसमय अनन्तगुणी विशुद्धि होती रहती है । इस
अन्तर्मुहूर्त कालके पूरा होनेपर वह विशुद्धिताकी वृद्धिसे पतित हो आता है, अतः उसे अधः-
प्रवृत्त संयतासंयत कहते हैं । इसीका दूसरा नाम स्वस्थानसंयतासंयत भी है । अधःप्रवृत्त-
संयतासंयतकी दशामे वह स्वस्थान-प्रायोग्य अर्थात् पंचम गुणस्थानके योग्य संक्लेश और
विशुद्धिको भी प्राप्त करता है, ऐसा यहाँ अभिप्राय जानना चाहिए ।

चूर्णिसू०—अधःप्रवृत्त-संयतासंयतके स्थितिघात या अनुभागघात नहीं होता है ।
वह यदि संक्लेश परिणामोके योगसे संयमासंयमसे गिर जाय, अर्थात् असंयत हो जाय,

? एतदुक्त भवति—सजमासजमग्गहणपढमसमयप्पहुडि जाव अतोमुहुत्तचरिमसमया त्ति ताव पडि-
समयमणतगुणाए विसोहीए वड्ढमाणो ट्टिदि-अणुभागखडय-ट्टिदिवंधोसरणसहस्साणि कुणमाणो तदवत्थाए
एयंताणुवड्ढसजदासजदो त्ति भण्णदे । एहिं पुण तक्कालपरिसमत्तीए सत्थाणविसोहीए पदिदो अधापवत्त-
सजदासजदववएसारिहो जादो त्ति । अधापवत्तसजदासजदो त्ति वा सत्थाणसजदासजदो त्ति वा एयट्ठो ।
तदो एत्तो पाए सत्थाणपाओग्गाओ सकिल्लेस विसोहीओ समयविरोहेण परावत्तेदुमेसो लहदि त्ति वेत्तव्वं ।

आणीदो संजमासंजमं पडिवज्जइ, तस्स वि णत्थि ङ्घिदिघादो वा अणुभागघादो वा ।
३०. जाव संजदासंजदो ताव गुणसेहिं समए समए करेदि । ३१. विसुज्झंतो* असंखे-
ज्जगुणं वा संखेज्जगुणं वा संखेज्जभागुत्तरं असंखेज्जभागुत्तरं वा करेदि । संकिलिस्संतो
एवं चेव गुणहीणं वा चिसेसहीणं वा करेदि । ३२. जदि संजमासंजमादो पडिवदिदूण
आगुंजाए' मिच्छत्तं गंतूण तदो संजमासंजमं पडिवज्जइ, अंतोमुदुत्तेण वा, विप्पकट्टेण

तो फिर भी वह विशुद्धिरूप परिणामोके योगसे लघु अन्तर्मुहूर्तके द्वारा वापिस आकर
संयमासंयमको प्राप्त हो जाता है । उस समय भी उसके स्थितिघात या अनुभागघात नहीं
होता है । (क्योंकि, उस समय अधःप्रवृत्तादि करणोका अभाव रहता है ।) जब तक वह
संयतासंयत है, तब तक समय-समय गुणश्रेणीको करता है । विशुद्धिको प्राप्त होता हुआ वह
असंख्यातगुणित, संख्यातगुणित, संख्यात भाग अधिक या असंख्यात भाग अधिक (द्रव्यको
अपकर्षित कर अवस्थित गुणश्रेणीको) करता है । संक्लेशको प्राप्त होता हुआ वह इस
ही प्रकारसे असंख्यातगुणहीन, संख्यातगुणहीन अथवा विशेषहीन गुणश्रेणीको करता
है ॥२८-३१॥

विशेषार्थ—स्वस्थानसंयतासंयतका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल
अन्तर्मुहूर्त और आठ वर्ष कम एक पूर्वकोटी वर्ष है । यदि कोई जीव संयमासंयमको ग्रहण
करनेके पश्चात् उत्कृष्ट काल तक संयतासंयत बना रहता है, तो भी उसके प्रति समय
असंख्यातगुणी निर्जरा होती रहती है । हाँ, इतना भेद अवश्य हो जाता है कि जब वह
उक्त समयके भीतर जितने काल तक जैसी हीनाधिक विशुद्धिको प्राप्त होगा, तब उतने
समय तक उसके तदनुसार असंख्यातगुणित, संख्यातगुणित या विशेष अधिक कर्म-
निर्जरा होगी । इसी प्रकार जब वह तीव्र या मन्द संक्लेशको प्राप्त होगा, तब उसके
तदनुसार असंख्यातगुणहीन, संख्यातगुणहीन या विशेषहीन कर्म-निर्जरा होगी । परन्तु
सम्पूर्ण संयतासंयत-कालमें ऐसा कोई समय नहीं है, जब कि उसके हीनाधिक रूपसे कर्म-
निर्जरा न होती रहे । कहनेका सारांश यह है कि संयतासंयतके उस उत्कृष्ट या यथासंभव
अनुत्कृष्ट कालके भीतर सर्वदा विशुद्धि या संक्लेशके निमित्तसे पङ्गुणी हानि या वृद्धि होती
रहती है । अतएव उसके अनुसार ही सूत्रोक्त चार प्रकारकी वृद्धि या हानिको लिए
हुए कर्म-निर्जरा भी होती रहती है । संयतासंयतका कोई भी समय कर्म-निर्जरासे
शून्य नहीं होता है । गुणश्रेणीका आयाम सर्वत्र अवस्थित एक सट्टश ही रहता है, इतना
विशेष जानना चाहिए ।

चूर्णिमू०—यदि कोई जीव आगुज्जासे अर्थात् अन्तरङ्गमे अति संक्लेशसे प्रेरित
होनेके कारण संयमासंयमसे गिरकर और मिथ्यात्वको प्राप्त होकर तत्पश्चात् अन्तर्मुहूर्तकालसे

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'विसुज्झंतो वि' पाठ है । (देखो पृ० १७८३)

१ आगुजनमागुंजा, संक्लेशभरेणातराघूर्णनमित्यर्थः । जयध०

वा कालेण; तस्स वि संजमासंजमं पडिवज्जमाणयस्स एदाणि चेव करणाणि कादव्वाणि ।

३३. तदो एदिस्से परूवणाए समत्ताए संजमासंजमं पडिवज्जमाणगस्स पहम-
समयअपुव्वकरणादो जाव संजदासंजदो एयंताणुवड्डीए चरित्ताचरित्तलड्डीए वड्ढदि,
एदस्सिह काले द्विदिवंध-द्विदिसंतकम्म-द्विदिखंडयाणं जहण्णुकस्सयाणभावहाणं जहण्णुक-
स्सियाणमुक्कीरणद्वाणं जहण्णुकस्सियाणं अण्णेसिं च पदाणमप्पावहुअं वत्तइस्सामो ।
३४. तं जहा । ३५. सव्वत्थोवा जहण्णिया अणुभागखंडय-उक्कीरणद्वा । ३६. उक्-
स्सिया अणुभागखंडय-उक्कीरणद्वा विसेसाहिया । ३७. जहण्णिया द्विदिखंडय-उक्कीरणद्वा
जहण्णिया द्विदिवंधगद्वा च दो वि तुल्लाओ संखेज्जगुणाओ । ३८. उक्स्सियाओ
विसेसाहियाओ । ३९. पहमसमयसंजदासंजदप्पहुडि जं एगंताणुवड्डीए वड्ढदि चरित्ता-
चरित्तपज्जएहिं एसो वड्ढिकालो संखेज्जगुणो । ४०. अपुव्वकरणद्वा संखेज्जगुणा । ४१.
जहण्णिया संजमासंजमद्वा सम्भत्तद्वा मिच्छत्तद्वा संजमद्वा असंजमद्वा सम्मामिच्छत्तद्वा

या (अविनष्ट वेदक-प्रायोग्यरूप) विप्रकृष्ट कालसे संयमासंयमको प्राप्त होता है, तो संयमा-
संयमको प्राप्त होनेवाले उस जीवके अधःकरण और अपूर्वकरण ये दो ही करण होते हैं,
ऐसा अर्थ करना चाहिए ॥३२॥

चूर्णिसू०—इस उपर्युक्त प्ररूपणाके समाप्त होनेपर तत्पश्चात् संयमासंयमको प्राप्त
होनेवाले जीवके अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर जब तक संयतासंयत एकान्तानुवृद्धिके
द्वारा चारित्राचारित्र अर्थात् संयमासंयम लब्धिसे बढ़ता है, तब तक इस मध्यवर्ती कालमे
जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिवन्ध, स्थितिसत्त्व, स्थितिकांडकका, तथा जघन्य और उत्कृष्ट
आवावाओका जघन्य और उत्कृष्ट उत्कीरणकालोका, तथा अन्य भी पदोका अल्पबहुत्व कहते
हैं । वह इस प्रकार है—एकान्तानुवृद्धिकालके अन्तमे संभव जघन्य अर्थात् अन्तिम अनुभाग-
कांडकका उत्कीरणकाल वक्ष्यमाण पदोकी अपेक्षा सबसे अल्प है । इससे अपूर्वकरणके प्रथम-
समयमे संभव अनुभागकांडकका उत्कृष्टकाल विशेष अधिक है (२) । इससे एकान्तानुवृद्धिके
अन्तमे संभव जघन्य स्थितिकांडकका उत्कीरणकाल और जघन्य स्थितिवन्धका काल, ये
दोनों ही परस्पर तुल्य और संख्यातगुणित है (३) । इससे उपर्युक्त दोनोंके ही उत्कृष्टकाल
अर्थात् अपूर्वकरणके प्रथम स्थितिकांडकका उत्कीरणकाल और स्थितिवन्धका काल, ये दोनों
परस्पर तुल्य और विशेष अधिक हैं (४) । इससे प्रथमसमयवर्ती संयतासंयतसे लेकर
जब तक एकान्तानुवृद्धिके द्वारा संयमासंयमरूप पर्यायसे बढ़ता है, तब तकका यह एकान्तानु-
वृद्धिरूप काल संख्यातगुणा है (५) । इससे अपूर्वकरणका काल संख्यातगुणा है (६) । अपूर्व-
करणके कालसे जघन्य संयमासंयमका काल, जघन्य सम्यक्त्वप्रकृतिका उदयकाल, जघन्य
मिथ्यात्वका उदय-काल, जघन्य संयम-काल, जघन्य असंयम-काल और जघन्य सन्यग्मिध्या-

च एदाओ छपि अद्दाओ तुल्लाओ संखेज्जगुणाओ । ४२. गुणसेही संखेज्जगुणा ।
 ४३. जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा । ४४. उक्कस्सिया आवाहा संखेज्जगुणा । ४५.
 जहण्यं द्विदिखंडयमसंखेज्जगुणं । ४६. अपुव्वकरणस्स पढमं जहण्यं द्विदिखंडयं
 संखेज्जगुणं । ४७. पलिदोवमं संखेज्जगुणं । ४८. उक्कस्सयं द्विदिखंडयं संखेज्जगुणं ।
 ४९. जहणओ द्वि दिवंधो संखेज्जगुणो । ५०. उक्कस्सओ द्वि दिवंधो संखेज्जगुणो । ५१.
 जहण्यं द्विदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं । ५२. उक्कस्सयं द्विदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं ।

५३. संजदासंजदाणमद्द अणियोगदाराणि । तं जहा । संतपरूवणा दव्वपमाणं
 खेतं फोसणं कालो अंतरं भागाभागो अप्पावहुअं च । ५४. एदेसु अणिओगदारेसु
 समत्तेसु तिव्व-मंददाए सामित्तमप्पावहुअं च कायव्वं ।

५५. सामित्तं । ५६. उक्कस्सिया लद्धी कस्स ? ५७. संजदस्स सव्वविसु-
 द्दस्स से काले संजमग्गाहयस्स ।

त्वका उद्यकाल ये छहो परस्पर तुल्य और संख्यातगुणित है (७) । इससे संयतासंयत-
 सम्बन्धी गुणश्रेणी-आयाम संख्यातगुणित है (८) । इससे एकान्तानुवृद्धिकालके अन्तिम
 समयमें होनेवाली चरम स्थितिवन्धकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणित है (९) । इससे
 अपूर्वकरणके प्रथम समय-सम्बन्धी स्थितिवन्धकी उत्कृष्ट आवाधा संख्यातगुणित है (१०) ।
 इससे एकान्तानुवृद्धिके अन्तिम समयका जघन्य स्थितिकांडक असंख्यातगुणित है । (क्योकि,
 वह पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण होता है) (११) । इससे अपूर्वकरणका प्रथम जघन्य
 स्थितिकांडक संख्यातगुणित है (१२) । इससे पल्योपम संख्यातगुणित है (१३) । पल्यो-
 पमसे अपूर्वकरणका प्रथम उत्कृष्ट स्थितिकांडक संख्यातगुणित है । (क्योकि वह सागरोपम-
 पृथक्त्वप्रमाण होता है) (१४) । इससे एकान्तानुवृद्धिके अन्तमे संभव जघन्य स्थितिवन्ध
 संख्यातगुणित है (१५) । इससे अपूर्वकरणके प्रथम समयका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणित
 है (१६) । इससे एकान्तानुवृद्धिके अन्तिम समयका जघन्य स्थितिसत्त्व संख्यातगुणित है
 (१७) । इससे अपूर्वकरणके प्रथम समयमे होनेवाला उत्कृष्ट स्थितिसत्त्व संख्यातगुणित है
 (१८) (क्योकि उसका प्रमाण अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरोपम माना गया है ।) ॥३३-५२॥

चूर्णिसू०—संयतासंयतोके विशेष परिज्ञानार्थ आठ अनुयोगद्वार ज्ञातव्य हैं । वे
 इस प्रकार हैं—सत्परूपणा, द्रव्यप्रमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शानुगम, कालानुगम, अन्तरा-
 नुगम, भागाभाग और अल्पबहुत्व । इन आठों अनुयोगद्वारोका निरूपण समाप्त होनेपर
 तीव्र-मन्दताके विशेष ज्ञानके लिए स्वामित्व और अल्पबहुत्व इन दो अनुयोगद्वारोका वर्णन
 करना चाहिए ॥५३-५४॥

चूर्णिसू०—उनमेंसे पहले स्वामित्व कहते हैं ॥५५॥

शंका—उत्कृष्ट संयमासंयमलब्धि किसके होती है ? ॥५६॥

समाधान—अनन्तर समयमे ही सकलसंयमको ग्रहण करनेवाले सर्व-विशुद्ध संयता-
 संयत मनुष्यके होती है ॥५७॥

५८. जहणिया लद्धी कस्स ? ५९. तप्पाओग्गसंकिलिडुस्स से काले मिच्छत्तं गाहिदि त्ति ।

६०. अप्पावहुअं । ६१. तं जहा । ६२. जहणिया संजमासंजमलद्धी थोवा । ६३. उक्कस्सिया संजमासंजमलद्धी अणंतगुणा ।

६४. एत्तो संजदासंजदस्स लद्धिड्डाणाणि वत्तइस्सामो । ६५. तं जहा । ६६. जहणयं लद्धिड्डाणमणंताणि फहयाणि । ६७. तदो विदियलद्धिड्डाणमणंत-भागुत्तरं । ६८ एवं छड्डाणपदिदलद्धिड्डाणाणि । ६९. असंखेज्जा लोगा । ७०. जहणए लद्धिड्डाणे संजमासजमं ण पडिवज्जदि । ७१. तदो असंखेज्जे लोगे अइच्छि-दूण* जहणयं पडिवज्जमाणस्स पाओग्गं लद्धिड्डाणमणंतगुणं ।

७२. तिव्व-मंददाए अप्पावहुअं । ७३. सव्वमंदाणुभागं जहणगं संजमासंज मस्स लद्धिड्डाणं । ७४. मणुसस्स पडिवदमाणयस्स जहणयं लद्धिड्डाणं तत्तियं चव । ७५. तिरिक्खजोणियस्स पडिवदमाणयस्स जहणयं लद्धिड्डाणमणंतगुणं । ७६. तिरि-

शंका—जघन्य संयमासंयमलब्धि किसके होती है ? ॥५८॥

समाधान—जघन्य संयमासंयमलब्धिके योग्य संक्लेशको प्राप्त और अनन्तर समयमे मिथ्यात्वको ग्रहण करनेवाले संयतासंयतके जघन्य संयमासंयमलब्धि होती है ॥५९॥

चूर्णिसू०—अव अल्पवहुत्व कहते हैं । वह इस प्रकार है—जघन्य संयमासंयमलब्धि अल्प है और उससे उत्कृष्ट संयमासंयमलब्धि अनन्तगुणित है ॥६०-६३॥

चूर्णिसू०—अव इससे आगे संयतासंयतके लब्धि-स्थान कहेंगे । वे इस प्रकार हैं—जघन्य संयमासंयमलब्धिस्थान अनन्त स्पर्धरूप है । इससे द्वितीय संयमासंयमलब्धिस्थान अनन्तवें भागसे अधिक है । इस प्रकार पट्स्थानपतित संयमासंयम-लब्धिस्थान होते हैं । उनका प्रमाण असंख्यात लोक है । जघन्य संयमासंयम लब्धिस्थानमे कोई भी तिर्यंच या मनुष्य संयमासंयमको नहीं प्राप्त करता है । (क्योंकि यह सर्व जघन्य स्थान ऊपरसे गिरने-वाले जीवके ही संभव है ।) इसके पश्चात् असंख्यात लोकप्रमाण संयमासंयम-लब्धिस्थानो-को उल्लंघन करके प्रतिपद्यमान अर्थात् संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले जीवके प्राप्त करनेके योग्य जघन्य लब्धिस्थान होता है ॥६४-७१॥

चूर्णिसू०—अव इन लब्धिस्थानोकी तीव्र-मन्दताका अल्पवहुत्व कहते हैं । वह इस प्रकार है—संयमासंयमका जघन्य लब्धिस्थान सबसे मन्द अनुभागवाला है । (यह महान् संक्लेशको प्राप्त होकर मिथ्यात्वमे जानेवाले संयतासंयतके अन्तिम समयमें होता है ।) नीचे गिरनेवाले मनुष्यका जघन्य लब्धिस्थान उतना ही है । इससे नीचे गिरनेवाले तिर्यग्योनिक जीवका जघन्य लब्धिस्थान अनन्तगुणित है । इससे प्रतिपद्यमान तिर्यग्योनिकका

-- ताम्रपत्रवाली प्रतिमे 'अच्छिदूण' पाठ मुद्रित है । (देखो पृ० १७९०) । पर वह अशुद्ध है, क्योंकि यहाँपर 'उल्लंघन करके' ऐसा अर्थ अपेक्षित है । 'रह करके' यह अर्थ नहीं ।

कखजोणियस्स पडिवदमाणयस्स उक्कस्सयं लद्धिट्ठाणमणंतगुणं । ७७. मणुससंजदासंज-
दस्स पडिवदमाणगस्स उक्कस्सयं लद्धिट्ठाणमणंतगुणं । ७८. मणुसस्स पडिवज्जमाणगस्स
जहण्णयं लद्धिट्ठाणमणंतगुणं । ७९. तिरिक्खजोणियस्स पडिवज्जमाणगस्स जहण्णयं
लद्धिट्ठाणमणंतगुणं । ८०. तिरिक्खजोणियस्स पडिवदमाणयस्स उक्कस्सयं लद्धिट्ठा-
णमणंतगुणं । ८१. मणुमस्स पडिवज्जमाणगस्स उक्कस्सयं लद्धिट्ठाणमणंतगुणं । ८२.
मणुमस्स अपडिवज्जमाणअपडिवदमाणयस्स जहण्णयं लद्धिट्ठाणमणंतगुणं । ८३.
तिरिक्खजोणियस्स अपडिवज्जमाणअपडिवदमाणयस्स जहण्णयं लद्धिट्ठाणमणंतगुणं ।
८४. तिरिक्खजोणियस्स अपडिवज्जमाणअपडिवदमाणयस्स उक्कस्सयं लद्धिट्ठाणमणंत-
गुणं । ८५. मणुमस्स अपडिवज्जमाणअपडिवदमाणयस्स उक्कस्सयं लद्धिट्ठाणमणंतगुणं ।

८६. संजदासंजदो अपच्चक्खाणकसाए ण वेदयदि । ८७. पच्चक्खाणावरणीया
वि संजमासंजमस्स ण किंचि आवरंतिः । ८८. सेसा चटुकसाया णवणोकसायवेदणी-
याणि च उदिण्णाणि देमयादिं करंति संजमासंजमं । ८९ जइ पच्चक्खाणावरणीयं वेदंती
सेसाणि चरित्तमोहणीयाणि ण वेदेज्ज तदो संजमासंजमलद्धी खइया होज्ज ? ९०.
एक्केण वि उदिण्णेण खओवसमलद्धं भवदि ।

उत्कृष्ट लब्धिस्थान अनन्तगुणित है । इससे प्रतिपत्तमान मनुष्य संयतासंयतका उत्कृष्ट लब्धि-
स्थान अनन्तगुणित है । इससे प्रतिपद्यमान अर्थात् संयमासंयमको प्राप्त करनेवाले मनुष्य-
का जघन्य लब्धिस्थान अनन्तगुणित है । इससे प्रतिपद्यमान तिर्यग्योनिक जीवका जघन्य
लब्धिस्थान अनन्तगुणित है । इसमें प्रतिपद्यमान तिर्यग्योनिक जीवका उत्कृष्ट लब्धिस्थान
अनन्तगुणित है । इससे प्रतिपद्यमान मनुष्यका उत्कृष्ट लब्धिस्थान अनन्तगुणित है । इससे
अप्रतिपद्यमान-अप्रतिपत्तमान मनुष्यका जघन्य लब्धिस्थान अनन्तगुणित है । इससे अप्रति-
पद्यमान-अप्रतिपत्तमान तिर्यग्योनिक जीवका जघन्य लब्धिस्थान अनन्तगुणित है । इससे
अप्रतिपद्यमान-अप्रतिपत्तमान तिर्यग्योनिक जीवका उत्कृष्ट लब्धिस्थान अनन्तगुणित है ।
इससे अप्रतिपद्यमान-अप्रतिपत्तमान मनुष्यका उत्कृष्ट लब्धिस्थान अनन्तगुणित है ॥७२-८५॥

चूर्णिसू०—संयतासंयत जीव अप्रत्याख्यानावरण कपायका वेदन नहीं करता है ।
प्रत्याख्यानावरणीय कपाय भी संयमासंयमका कुछ भी आवरण नहीं करती है । शेष चार
संज्वलन कपाय और नव नोकपायवेदनीय, ये उदयको प्राप्त होकर संयमासंयमको देशघाती
करती हैं । यदि प्रत्याख्यानावरणीय कपायको वेदन करता हुआ संयतासंयत शेष चारित्र-
मोहनीय-प्रकृतियोंका वेदन न करे, तो संयमासंयमलब्धि क्षायिक हो जाय । अतएव चार
संज्वलन और नव नोकपाय, इनमेंसे एक भी कपायके उदय होनेसे संयमासंयमलब्धि क्षायो-
पशमिक सिद्ध होती है । (फिर जहाँ तेरह कपायोंका उदय होवे, वहाँ तो नियमसे वह
क्षायोपशमिक ही होगी ।) ॥८६-९०॥

॥ ता.म.पत्रवाली प्रतिमें 'करेदि' पाठ मुद्रित है (देखो पृ० १७९४) 'ता.म.पत्रवाली प्रतिमें 'तदा'
पाठ मुद्रित है । (देखो पृ० १९७४)

लट्ठी च संजमासंजमस्सेत्ति समत्तमणिओगदारं ।

विशेषार्थ—संयमासंयमलट्ठि क्षायिकभाव है, क्षायोपशमिकभाव है, अवत्रा औदयिक भाव है ? इस प्रकारकी शंकाका उपर्युक्त सूत्रोंसे ऊहापोह-पूर्वक समाधान किया गया है । उसका खुलासा यह है कि संयतासंयतके अप्रत्याख्यानावरण कषायका तो उदय होता नहीं है, अतः संयमासंयमलट्ठिको औदयिकभाव नहीं माना जा सकता है । यदि कहा जाय कि संयतासंयतके प्रत्याख्यानावरण कषायका उदय रहता है, अतः उसे औदयिक मान लेना चाहिए ? तो चूर्णिकार इस आशंकाका समाधान करते हैं कि प्रत्याख्यानावरण कषाय तो संयमासंयमका आवरण या वात आदि कुछ भी करनेमें असमर्थ है, क्योंकि उसका कार्य संयमका घात करना है, न कि संयमासंयमका । इसलिए उसके उदय होनेपर भी संयमासंयमलट्ठिको औदयिक नहीं माना जा सकता है । यहाँ अनन्तानुबन्धीके उदयकी तो संभावना ही नहीं है, क्योंकि उसका उदय दूसरे गुणस्थानमें ही विच्छिन्न हो चुका है । अतएव पारिशेषन्यायसे संयतासंयतके चारो संज्वलनों और नवो नोकषायोंका उदय रहता है । ये सभी कषाय देशघाती हैं, अतएव उनका उदय संयमासंयमलट्ठिको भी देशघाती बना देता है । यहाँ देशघाती संज्वलनादि कषायोंके उदयसे उत्पन्न होनेवाले संयमासंयम-लट्ठिवरूप कार्यमें संज्वलनादि कषायरूप कारणका उपचार करके उसे देशघाती कहा गया है । इस प्रकार चार संज्वलन और नव नोकषायोंके सर्वघाती स्पर्धकोंके उदयाभावी क्षयसे, तथा इन्हींके देशघाति-स्पर्धकोंके उदयसे संयमासंयम लट्ठिको क्षायोपशमिक माना गया है । यदि संयतासंयत प्रत्याख्यानावरणकषायका वेदन करते हुए संज्वलनादि शेष कषायोंका वेदन न करे, तो संयमासंयमलट्ठिको क्षायिक मानना पड़ेगा ? ऐसा कहनेका अभिप्राय यह है कि संयतासंयतके संयमासंयमको घात करनेवाले अप्रत्याख्यानावरण कषायका तो उदय है ही नहीं । और प्रत्याख्यानावरण कषायका उदय है, सो वह संयमका भले ही घात करे, पर संयमासंयमका वह उपघात या अनुग्रह कुछ भी न करनेमें समर्थ नहीं है । अतः प्रत्याख्यानावरणकषायका वेदन करते हुए यदि संज्वलनादि कषायोंका उदय न माना जाय, तो संयमासंयमलट्ठि क्षायिक सिद्ध होती है । किन्तु आगममें उसे क्षायिक माना नहीं गया है, अतः असंदिग्धरूपसे वह क्षायोपशमिक ही सिद्ध होती है ।

इस प्रकार संयमासंयमलट्ठि नामक चारहवाँ अर्थाधिकार समाप्त हुआ ।

१३-संजमलद्धि-अस्थाहियारो

१. लद्धी तथा चरित्तस्सेत्ति अणिओगदारे पुव्वं गमणिज्जं सुत्तं । २. तं जहा । ३. जा चेव संजमासंजमे भणिदा गाहा सा चेव एत्थ वि कायव्वा । ४. चरिम-समयअधापवत्तकरणे चत्तारि गाहाओ । ५. तं जहा । ६. संजमं पडिवज्जमाणस्स परिणामो केरिसो भवे० (१) । ७. काणि वा पुव्वज्जद्वणि० (२) । ८. के अंसे झीयदे पुव्वं० (३) । ९. किं ट्ठिदियाणि कम्माणि० (४) । १०. एदाओ सुत्तगाहाओ विहासियूण तदो सजमं पडिवज्जमाणगस्स उवकमविधिविहासा ।

१३ संयमलद्धि-अर्थाधिकार

चूर्णिसू०-चारित्रकी लद्धि अर्थात् संयमलद्धि नामक अनुयोगद्वारमे पहले गाथारूप सूत्र ज्ञातव्य है । वह इस प्रकार है-जो गाथा पहले संयमासंयमलद्धि नामक अनुयोगद्वारमे कही गई है, वही यहाँ भी प्ररूपण करना चाहिए ॥१-३॥

विशेषार्थ-श्रीगुणधराचार्यने संयमासंयम और संयमलद्धि इन दोनों अनुयोगद्वारोंका वर्णन करनेवाली वह एक ही गाथा कही है । उस गाथामे संयमलद्धिकी सूचना-मात्र देकर परिणामोकी उत्तरोत्तर वृद्धि और पूर्ववद्ध कर्मोंकी उपशामनाका उल्लेख कर उनकी प्ररूपणाका संकेत किया गया है । अतएव संयमासंयमलद्धिमे वर्णित प्रकारसे यहाँ भी उनका वर्णन करना चाहिए । यहाँपर केवल संयमासंयमलद्धिके स्थानपर संयमलद्धिके नामका उल्लेख करना आवश्यक है ।

चूर्णिसू०-संयमको ग्रहण करनेके लिए उद्यत जीवके अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें पूर्वोक्त चारो प्रस्थापन-गाथाएँ ज्ञातव्य है । वे इस प्रकार हैं संयमको प्राप्त करनेवाले जीवका परिणाम कैसा होता है, उसके कौनसा योग, कपाय, उपयोग, लेश्या और वेद होता है ? (१) । संयमको प्राप्त करनेवाले जीवके पूर्ववद्ध कर्म कौन-कौनसे हैं और कौन-कौनसे नवीन कर्म बाँधता है ? उसके कितने कर्म उदयमे आ रहे हैं और कितनोंकी उदीरणा करता है ? (२) । कौन-कौन कर्म उसके बंध या उदयसे व्युच्छिन्न होते हैं और कब कहाँपर अन्तर करके वह संयमलद्धिको प्राप्त करता है ? (३) । उसके किस किस स्थितिवाले कर्म होते हैं और वह किस किस अनुभागमे किसका अपवर्तन करके किस स्थानको प्राप्त करता है ? (४) । इन चारो सूत्र-गाथाओंकी विभाषा करके तत्पश्चात् संयमको प्राप्त होनेवाले जीवके उपक्रमविधिकी विभाषा करना चाहिए ॥४-१०॥

११. तं जहा । १२. जो संजमं पढमदाए पडिवज्जदि तस्स दुविदा अद्दा,
अधापवत्तकरणद्दा च अपुव्वकरणद्दा च ।

१३. अधापवत्तकरण-अपुव्वकरणाणि जहा संजमासंजमं पडिवज्जमाणयस्स
परुविदाणि तथा संजमं पडिवज्जमाणयस्स वि कायव्वाणि । १४. तदो पढमसमए संजम-
प्पहुडि अंतोमुहत्तमणंतगुणाए चरित्तलद्धीए वड्ढदि । १५. जाव चरित्तलद्धीए एगंताणु-
वड्ढीए वड्ढदि ताव अपुव्वकरणसण्णिदो भवदि । १६. एयंतरवड्ढीदो से काले चरित्त-
लद्धीए सिया वड्ढेज्ज वा, हाएज्ज वा, अवट्टाएज्ज वा ।

१७. संजमं पडिवज्जमाणयस्स वि पढमसमय-अपुव्वकरणमादिं कादूण जाव
ताव अधापवत्तसंजदो त्ति एदम्हि काले इमेसिं पदाणमप्पावहुअं कादव्वं । १८.
तं जहा । १९. अणुभागखंडय-उत्कीरणद्दाओ द्विदिखंडयुत्कीरणद्दाओ जहण्णुक-

विशेषार्थ—उक्त चारो प्रस्थापन-गाथाओकी विभाषा संयमासंयमलब्धि के समान ही
करना चाहिए । हाँ, यहाँपर संयमासंयमके स्थानपर संयम कहना चाहिए । यतः संयम-
लब्धि मनुष्यके ही होती है, अतः बन्ध-उदय-सत्त्वसम्बन्धी प्रकृतियोंको गिनाते हुए मनुष्य-
गतिमें संभव बन्धादिके योग्य प्रकृतियोंकी परिगणना करना चाहिए । इसके अतिरिक्त जो
और भी थोड़ा-बहुत भेद है, वह जयधवला टीकासे जानना चाहिए ।

चूर्णिसू०—वह विभाषा इस प्रकार है—जो संयमको प्रथमतासे अर्थात् बहुलतासे प्राप्त
होता है, उसके अधःप्रवृत्तकरणकाल और अपूर्वकरणकाल, ये दो काल होते हैं ॥ ११-१२ ॥

विशेषार्थ—पुनः पुनः संयमको प्राप्त करनेवाले वेदकसम्यग्दृष्टि या वेदक-प्रायोग्य
मिथ्यादृष्टिके अनिवृत्तिकरण नहीं होता है । अनादि-मिथ्यादृष्टिके उपशमसम्यक्त्वके साथ
संयमके प्राप्त होते समय यद्यपि तीनों करण होते हैं, परन्तु यहाँ उसकी विवक्षा नहीं की
गई है, क्योंकि, वह दर्शनमोहकी उपशमनाके ही अन्तर्गत आ जाता है ।

चूर्णिसू०—अधःप्रवृत्तकरण और अनिवृत्तिकरण जिस प्रकार संयमासंयमको प्राप्त
होनेवाले जीवके प्ररूपण किये गये हैं, उसी प्रकार संयमको प्राप्त होनेवाले जीवके भी प्ररूपण
करना चाहिए । तत्पश्चात् प्रथम समयमें संयमके ग्रहण करनेसे लेकर अन्तर्मुहूर्त काल तक
वह जीव अनन्तगुणी चारित्रलब्धिसे वृद्धिको प्राप्त होता है । जब तक यह जीव एकान्ता-
नुवृद्धिरूप चारित्रलब्धिसे बढ़ता रहता है, तब तक वह 'अपूर्वकरण' संज्ञावाला रहता है ।
एकान्तानुवृद्धिके पश्चात् अनन्तर कालमें वह चारित्रलब्धिसे कदाचित् वृद्धिको प्राप्त हो सकता
है, कदाचित् हानिको प्राप्त हो सकता है और कदाचित् तदवस्थ भी रह सकता है ॥ १३-१६ ॥

चूर्णिसू०—संयमको प्राप्त होनेवाले जीवके अपूर्वकरणके प्रथम समयसे आदि करके
जब तक वह अधःप्रवृत्तसंयत अर्थात् स्वस्थानसंयत रहता है, तब तक इस मध्यवर्ती कालमें
वक्ष्यमाण पदोका अल्पबहुत्व करना चाहिए । वक्ष्यमाण पद इस प्रकार हैं—जघन्य अनुभाग-
कांडक-उत्कीरणकाल, उत्कृष्ट अनुभागकांडक-उत्कीरणकाल, उत्कृष्ट स्थितिकांडक-उत्कीरणकाल

स्सियाओ इच्चेवमादीणि पदाणि । २०. सव्वत्थोवा जहणिया अणुभागखंडय-उक्की-
रणद्धा । २१. सा चेव उक्कस्सिया विसेसाहिया । २२. जहणिया द्विदिखंडय-उक्की-
रणद्धा ठिदिवंधगद्धा च दो वि तुल्लाओ संखेज्जगुणाओ । २३. तेसिं चेव उक्कस्सिया
विसेसाहिया । २४. पढमसमयसंजदमादिं कादूण जं कालमेयंताणुवड्डीए वड्ढदि, एसा
अद्धा संखेज्जगुणा । २५. अपुव्वकरगद्धा संखेज्जगुणा । २६. जहणिया संजमद्धा
संखेज्जगुणा । २७. गुणसेठिणिकखेवो संखेज्जगुणो । २८. जहणिया आवाहा संखेज्ज-
गुणा । २९. उक्कस्सिया आवाहा संखेज्जगुणा । ३०. जहणयं द्विदिखंडयमसंखेज्ज-
गुणं । ३१. अपुव्वकरणस्स पढमसमए जहणणद्विदिखंडयं संखेज्जगुणं । ३२. पलि-
दोवमं संखेज्जगुणं । ३३. पढमस्स द्विदिखंडयस्स विसेसो सागरोवमपुधत्तं संखेज्जगुणं ।
३४. जहणणओ द्विदिवंधो संखेज्जगुणो । ३५. उक्कस्सओ द्विदिवंधो संखेज्जगुणो
३६. जहणणयं द्विदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं । ३७. उक्कस्सयं द्विदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं ।

३८. संजमादो णिग्गदो असंजमं गंतूण जो द्विदिसंतकम्मेण अणवड्ढिदेणः

इत्यादि । अनुभागकांडका जघन्य उत्कीरणकाल वक्ष्यमाण पदोकी अपेक्षा सबसे कम है ।
इससे इसीका, अर्थात् अनुभागकांडका उत्कृष्ट उत्कीरणकाल विशेष अधिक है । स्थिति-
कांडका जघन्य उत्कीरणकाल और स्थितिवन्धका जघन्य काल, ये दोनों परस्परमे तुल्य
और पूर्वोक्त पदसे संख्यातगुणित हैं । इनसे इन्हीं दोनोंके उत्कृष्टकाल विशेष अधिक हैं ।
इससे प्रथम समयवर्ती संयतको आदि लेकर जिस कालमें एकान्तानुवृद्धिसे बढ़ता है, वह
काल संख्यातगुणित है । इससे अपूर्वकरणकाल संख्यातगुणित है । इससे जघन्य संयम-
काल संख्यातगुणित है । इससे गुणश्रेणीनिक्षेप संख्यातगुणित है । इससे जघन्य आवाधा
संख्यातगुणित है । इससे उत्कृष्ट आवाधा संख्यातगुणित है । इससे जघन्य स्थितिकांडक
असंख्यातगुणित है । इससे अपूर्वकरणके प्रथम समयमें संभव जघन्य स्थितिकांडक संख्यात-
गुणित है । इससे पत्योपम संख्यातगुणित है । इससे प्रथमस्थितिकांडका सागरोपमपृथ-
क्त्वप्रमाण विशेष संख्यातगुणित है । इससे जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणित है । इससे
उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणित है । इससे जघन्य स्थितिसत्त्व संख्यातगुणित है और
इससे उत्कृष्ट स्थितिसत्त्व संख्यातगुणित है ॥१७-३७॥

चूर्णिसू०—जो जीव संयमसे निकलकर और असंयमको प्राप्त होकर यदि अवस्थित
या अनवर्धित स्थितिसत्त्वके साथ पुनः संयमको प्राप्त होता है तो संयमको प्राप्त होनेवाले
उस जीवके न अपूर्वकरण होता है, न स्थितिघात होता है और न अनुभागघात होता है ।

ःताम्रपत्रवाली प्रतिमे 'अणुवड्ढिदेण' पाठ मुद्रित है (देखो पृ० १८००) । पर अर्थकी दृष्टिसे वह
अशुद्ध है ।

पुणो संजमं पडिवज्जदि तस्स संजमं पडिवज्जमाणगस्स णत्थि अपुव्वकरणं, णत्थि ट्ठिदि-
घादो, णत्थि अणुभागघादो ।

३९. एत्तो चरित्तलद्धिगणं जीवाणं अट्ठ अणिओगदाराणि । ४०. तं जहा ।
संतपरूवणा दव्वं खेत्तं पोसणं कालो अंतरं भागाभागो अप्पावहुअं च अणुगंतव्वं ।
४१. लद्धीए तिव्व-मंददाए सामित्तमप्पावहुअं च । ४२. एत्तो जाणि ट्ठाणाणि ताणि
तिविहाणि । तं जहा-पडिवादट्ठाणाणि उप्पादयट्ठाणाणि लद्धिट्ठाणाणि ३ । ४३. पडि-
वादट्ठाणं णाम [जहा] जम्हि ट्ठाणे मिच्छत्तं वा असंजमसम्मत्तं वा संजमासंजमं वा
जच्छइ तं पडिवादट्ठाणं । ४४. उप्पादयट्ठाणं णाम जहा जम्हि ट्ठाणे संजमं पडिवज्जइ
तमुप्पादयट्ठाणं णाम । ४५. सव्वाणि चैव चरित्तट्ठाणाणि लद्धिट्ठाणाणि ।

(किन्तु जो जीव संयमसे निकलकर संक्लेशके भारसे मिथ्यात्वसे अनुविद्ध असंयतपरिणामको
प्राप्त होकर अन्तर्मुहूर्तसे या विप्रकृष्ट अन्तरकालसे पुनः संयमको प्राप्त होता है उसके पूर्वोक्त
दोनों ही करण होते हैं और उसी प्रकार स्थितिघात और अनुभागघात होते हैं ।) ॥ ३८ ॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे चारित्रलब्धिको प्राप्त होने वाले जीवोके सत्प्ररूपणा,
द्रव्यप्ररूपणा, क्षेत्रप्ररूपणा, स्पर्शनप्ररूपणा, कालप्ररूपणा, भागाभाग और अल्पवहुत्व ये
आठ अनुयोगद्वार अनुगन्तव्य अर्थात् जानने योग्य हैं । चारित्रलब्धिकी तीव्रता और
मन्दताके परिज्ञानके लिए स्वामित्व और अल्पवहुत्व भी ज्ञातव्य हैं ॥ ३९-४१ ॥

विशेषार्थ—संयमलब्धि दो प्रकारकी होती है—उत्कृष्ट संयमलब्धि और जघन्य संयम-
लब्धि । कषायोके तीव्र अनुभागके उदयसे उत्पन्न होनेवाली मंद विशुद्धिसे युक्त लब्धिको जघन्य
संयमलब्धि कहते हैं । कषायोके मन्दतर अनुभागसे उत्पन्न हुई विपुलतर विशुद्धिसे युक्त लब्धि-
को उत्कृष्ट संयमलब्धि कहते हैं । इनमेसे जघन्य संयमलब्धि सर्व-संक्लिष्ट तथा अनन्तर
समयमे मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाले अन्तिमसमयवर्ती संयतके होती है । उत्कृष्ट संयमलब्धि
सर्व विशुद्ध स्वस्थानसंयतके होती है । किन्तु सर्वोत्कृष्ट संयमलब्धि तो उपशान्तमोही या
क्षीणमोही जीवोके होती है । इस प्रकार तीव्र-मंद चारित्रलब्धिके स्वामित्वका वर्णन किया ।
अब उनका अल्पवहुत्व कहते हैं—जघन्य लब्धिस्थान सबसे कम हैं । इससे उत्कृष्ट लब्धि-
स्थान अनन्तगुणित है, क्योंकि जघन्य लब्धिस्थानसे असंख्यात लोकमात्र षट्स्थानपतित
लब्धिस्थान ऊपर जाकर उत्कृष्ट लब्धिस्थानकी उत्पत्ति होती है ।

चूर्णिसू०—इससे आगे जो संयम लब्धिस्थान हैं, वे तीन प्रकारके हैं—प्रतिपातस्थान,
उत्पादकस्थान और लब्धिस्थान । (३) उनमेसे पहले प्रतिपातस्थानको कहते हैं—जिस
लब्धिस्थानपर स्थित जीव मिथ्यात्वको, अथवा असंयमसम्यक्त्वको, अथवा संयमासंयमको
प्राप्त होता है, वह प्रतिपातस्थान है । अब उत्पादकस्थानका स्वरूप कहते हैं—जिस स्थानपर
जीव संयमको प्राप्त होता है, वह उत्पादकस्थान है । इसीको प्रतिपद्यमानस्थान भी कहते हैं ।
सर्व ही चारित्रस्थानोको लब्धिस्थान कहते हैं ॥ ४२-४५ ॥

४६. एदेसिं लद्धिद्वाणाणमप्पावहुअं३ । ४७. तं जहा । ४८. सव्वत्थोवाणि पडिवादद्वाणाणि । ४९. उप्पादयद्वाणाणि असंखेज्जगुणाणि । ५०. लद्धिद्वाणाणि असंखेज्जगुणाणि । ५१. तिव्व-मंददाए सव्वमंदाणुभागं मिच्छत्तं गच्छमाणस्स जहण्णयं संजमद्वाणं । ५२. तस्सेवुकस्सयं संजमद्वाणमणंतगुणं । ५३. असंजदसम्मत्तं गच्छमाणस्स जहण्णयं संजमद्वाणमणंतगुणं । ५४. तस्सेवुकस्सयं संजमद्वाणमणंतगुणं । ५५. संजमासंजमं गच्छमाणस्स जहण्णयं संजमद्वाणमणंतगुणं । ५६. तस्सेवुकस्सयं संजमद्वाणमणंतगुणं । ५७. कम्मभूमियस्स पडिवज्जमाणयस्स जहण्णयं संजमद्वाणमणंतगुणं । ५८. अकम्मभूमियस्स पडिवज्जमाणयस्स जहण्णयं संजमद्वाणमणंतगुणं ।

विशेषार्थ—यहाँ सर्व ही पदसे असंख्यात लोकप्रमाण भेदवाले सभी प्रतिपातस्थान, प्रतिपद्यमानस्थान और अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमानस्थानोका ग्रहण करना चाहिए । अथवा प्रतिपात और प्रतिपद्यमानस्थानोको छोड़कर शेष सर्व अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमान स्थानोको लब्धिस्थान जानना चाहिए ।

चूर्णिसू०—अब इन लब्धिस्थानोका अल्पवहुत्व कहते हैं । वह इस प्रकार है—संयम-लब्धिके प्रतिपातस्थान सबसे कम है । प्रतिपातस्थानोसे उत्पादकस्थान असंख्यातगुणित हैं और उत्पादकस्थानोसे लब्धिस्थान असंख्यातगुणित हैं ॥४६-५०॥

चूर्णिसू०—अब लब्धिस्थानोका तीव्र-मन्दता-विषयक अल्पवहुत्व कहते हैं—मिथ्यात्वको जानेवाले चरम समयवर्ती संयतके जघन्य संयमस्थान सबसे मन्द अनुभागवाला होता है । इससे उसके ही, अर्थात् मिथ्यात्वको जानेवाले जीवके उत्कृष्ट लब्धिस्थान अनन्तगुणित है । इससे असंयतसम्यक्त्वको प्राप्त करनेवाले जीवका जघन्य संयमस्थान अनन्तगुणित है । इससे उसका ही उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणित है । इससे संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले जीवका जघन्य संयमस्थान अनन्तगुणित है । इससे उसका ही उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणित है । इससे संयमको प्राप्त करनेवाले कर्मभूमिज मनुष्यका जघन्य संयमस्थान अनन्तगुणित है । इससे संयमको प्राप्त करनेवाले अकर्मभूमिज मनुष्यका जघन्य संयमस्थान अनन्तगुणित है ॥५१-५८॥

विशेषार्थ—ऊपर जो अकर्मभूमिज मनुष्यके संयमलब्धिस्थान वतलाये गये हैं, सो वहाँपर अकर्मभूमिजका अर्थ भोगभूमिज न करके म्लेच्छखंडज करना चाहिए, क्योंकि म्लेच्छोमें साधारणतः धर्म-कर्मकी प्रवृत्ति न पाई जानेसे उन्हें अकर्मभूमिज कहा गया है । अतएव यहाँ भरत, ऐरावत या विदेहसम्बन्धी कर्मभूमिके मध्यवर्ती सर्व म्लेच्छखंडोका ग्रहण करना चाहिए । यहाँ यह शंका की जा सकती है कि जब 'धर्म-कर्मवहिर्भूता' इत्यमी

ताम्रपत्रवाली प्रतिमे इससे आगे 'एत्थ दुविहमप्पावहुअं लद्धिद्वाणसंखाविसयं तिव्व-मंददाविसयं च । तत्थ तिव्व-मंददाए अप्पावहुअमुवरि कस्सामो' इतना टीकाका अंश भी सूत्ररूपसे मुद्रित है । (देखो पृ० १८०२-१८०३)

५९. तस्सेवुकस्सयं पडिवज्जमाणयस्स संजमट्ठाणमणंतगुणं । ६० कम्मभूमियस्स पडिवज्जमाणयस्स उक्कस्सयं संजमट्ठाणमणंतगुणं । ६१. परिहारसुद्धिसंजदस्स जहण्णयं संजमट्ठाणमणंतगुणं । ६२. तस्सेव उक्कस्सयं संजमट्ठाणमणंतगुणं । ६३. सामाइयच्छेदो-
वट्ठावणियाणमुक्कस्सयं संजमट्ठाणमणंतगुणं । ६४. सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदस्स जहण्णयं संजमट्ठाणमणंतगुणं । ६५. तस्सेवुकस्सयं संजमट्ठाणमणंतगुणं । ६६. वीयरायस्स अजहण्णमणुकस्सयं चरित्तलद्धिट्ठाणमणंतगुणं ।

न्लेच्छका मताः । अन्यथाऽन्यैः समाचारैरार्यावर्तेन ते समाः ॥ (आदिपु० पर्व ३१ श्लो० १४३) इस प्रमाणके आधारसे म्लेच्छोको धर्म-कर्म-परान्मुख माना गया है, तो उनके संयमका ग्रहण कैसे संभव हो सकता है ? इसका समाधान जयधवलकाकारने यह किया है कि दिग्विजयके लिए गये हुए चक्रवर्तीके स्कन्धावार (कटक-सेना) के साथ जो म्लेच्छराजा-दिक आर्यखंडमे आजाते हैं और उनका जो यहाँवालोंके साथ विवाहादि सम्बन्ध हो जाता है, उनके संयम ग्रहण करनेमे कोई विरोध नहीं है । अथवा दूसरा समाधान यह भी किया गया है कि चक्रवर्ती आदिको विवाही गई म्लेच्छ-कन्याओंके गर्भसे उत्पन्न हुई सन्तान-की मातृपक्षकी अपेक्षा यहाँ 'अकर्मभूमिज' पदसे विवक्षा की गई है, क्योंकि इस प्रकारकी अकर्मभूमिज सन्तानको दीक्षा लेनेकी योग्यताका निषेध नहीं पाया जाता है ।

चूणिंसू०—संयमको प्राप्त होनेवाले अकर्मभूमिजके जघन्य संयमस्थानसे संयमको प्राप्त होनेवाले उसका ही अर्थात् अकर्मभूमिज मनुष्यका उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणित है । इससे संयमको प्राप्त करनेवाले कर्मभूमिजका उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणित है । इससे परि-
हारविशुद्धि-संयतका जघन्य संयमस्थान अनन्तगुणित है । इससे उसका ही उत्कृष्ट संयम-
स्थान अनन्तगुणित है । इससे सामायिक-छेदोपस्थापनाशुद्धि-संयतोका उत्कृष्ट संयमस्थान
अनन्तगुणित है । इससे सूक्ष्मसाम्परायशुद्धि-संयतोका जघन्य संयमस्थान अनन्तगुणित है ।
इससे सूक्ष्मसाम्परायशुद्धि-संयतोका उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणित है । इससे वीतराग-
छद्मस्थ और केवलीका अजघन्य-अनुत्कृष्ट चारित्र लविधस्थान अनन्तगुणित है ॥५९-६६॥

विशेषार्थ—वहाँ यह शंका की जा सकती है कि वीतरागके जघन्य और उत्कृष्ट चारित्रलविध क्यो नहीं बतलाई गई ? इसका समाधान यह है कि कषायोंके अभाव हो जानेसे उनकी चारित्र लविधमे जघन्यपना या उत्कृष्टपना संभव नहीं है । अतएव वीतरागके सर्वदा एक रूपसे अवस्थित ही चारित्रलविध पाई जाती है । यदि कहा जाय कि उपशान्तकषायवीतराग-
छद्मस्थका पतन अवश्य ही होता है, अतएव पतनकालमे उसके यथाख्यातचारित्रलविधका जघन्य अंश क्यो न माना जाय ? और इसी प्रकारसे क्षीणकषाय या केवलीके ऊपर चढ़नेकी अवस्थामे चारित्रलविधका उत्कृष्टअंश क्यो न माना जाय ? तो इसका समाधान यह है कि परिणामोंकी तीव्रता-मन्दताका कारण कषायोंका उदय है । उपशान्तकषाय, क्षीणकषाय और केवलीके कषायोंका सर्वथा अभाव है, अतएव उनके परिणामोमे तीव्रता या मन्दताका होना

लद्धी तथा चरित्तस्से त्ति समत्तमणिओगदारं ।

संभव नहीं है । परिणामोकी तीव्रता-मन्दताके विना चारित्र्यलब्धिका जघन्य या उत्कृष्ट अंश होना संभव नहीं है । इसलिए भले ही एक समय पश्चात् उपशान्तकपायवीतरागसंयत नीचे गिर जाय, परन्तु अपने कालके अन्तिम समय तक उसके परिणामोकी विशुद्धिमें कोई कमी नहीं आती । अतः पतनावस्थामे उनके यथाख्यातलब्धिका जघन्य अंश नहीं माना जा सकता । यही बात तेरहवें गुणस्थानके अभिमुख क्षीणकपायके या चौदहवें गुणस्थानके अभिमुख सयोगिकेवलीके विषयमें है, अर्थात् उनकी लब्धिको भी उत्कृष्ट अंशरूप नहीं माना जा सकता । अतएव यह सिद्ध हुआ कि कपायके अभावसे सभी वीतरागोके यथाख्यात-संयमरूप लब्धि एकरूप होती है, उसमें कोई भेद नहीं होता । यही कारण है कि उनकी लब्धिको यहाँपर अजघन्य-अनुत्कृष्ट अर्थात् जघन्यपना और उत्कृष्टपनासे रहित बतलाया गया है ।

इस प्रकार संयमलब्धि नामक तेरहवाँ अनुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

१४ चरित्तमोहोवसामणा-अत्थाहियारो

१. चरित्तमोहणीयस्सा उवसामणाए पुच्चं गमणिज्जं सुत्तं । २. तं जहा ।
- (६३) उवसामणा कदिविधा उवसामो कस्स कस्स कम्मस्स ।
कं कम्मं उवसंतं अणउवसंतं च कं कम्मं ॥ ११६ ॥
- (६४) कदिभागुवसामिज्जदि संक्रमणमुदीरणा च कदिभागो ।
कदिभागं वा बंधदि द्विदि-अणुभागे पदेसग्गे ॥ ११७ ॥
- (६५) केच्चिरमुवसामिज्जदि संक्रमणमुदीरणा च केवचिरं ।
केवचिरं उवसंतं अणउवसंतं च केवचिरं ॥ ११८ ॥
- (६६) कं करणं वोच्छिज्जदि अव्वोच्छिण्णं च होइ कं करणं ।
कं करणं उवसंतं अणउवसंतं च कं करणं ॥ ११९ ॥

१४ चारित्रमोहोपशामना-अर्थाधिकार

चूर्णिसू०—चारित्रमोहनीयकी उपशामनामे पहले गाथासूत्र जानने योग्य है । वह इस प्रकार है ॥१-२॥

उपशामना कितने प्रकारकी होती है ? उपशम किस-किस कर्मका होता है ? किस-किस अवस्था-विशेषमें कौन-कौन कर्म उपशान्त रहता है और कौन-कौन कर्म अनुपशान्त रहता है ? ॥११६॥

चारित्रमोहनीयकर्मकी स्थिति, अनुभाग और प्रदेशाग्रोंका किस समय कितना भाग उपशमित करता है, कितना भाग संक्रमण और उदीरणा करता है, तथा कितना भाग बाँधता है ? ॥११७॥

चारित्रमोहनीयकर्मकी प्रकृतियोंका कितने काल तक उपशमन करता है, संक्रमण और उदीरणा कितने काल तक होती है, तथा कौन कर्म कितने काल तक उपशान्त या अनुपशान्त रहता है ? ॥११८॥

किस अवस्थामें कौन करण व्युच्छिन्न हो जाता है और कौन करण अव्युच्छिन्न रहता है ? तथा किस अवस्था-विशेषमें कौन करण उपशान्त या अनुपशान्त रहता है ? ॥११९॥

- (६७) पडिवादो च कदिविधो कम्हि कसायम्हि होइ पडिवदिदो ।
केसिं कम्मंसाणं पडिवदिदो वंधगो होइ ॥ १२० ॥
- (६८) दुविहो खलु पडिवादो भवक्खयादुवसमक्खयादो दु ।
सुहुमे च संपराए वादररागे च वोद्धव्वा ॥ १२१ ॥
- (६९) उवसामणाखणण दु पडिवदिदो होइ सुहुमरागम्हि ।
वादररागे णियमा भवक्खया होइ परिवदिदो ॥ १२२ ॥
- (७०) उवसामणाक्खणण दु अंसे वंधदि जहाणुपुव्वीए ।
एमेव य वेदयदे जहाणुपुव्वीय कम्मंसे ॥ १२३ ॥

३. चरित्तमोहणीयस्स उवसामणाए पुव्वं गमणिज्जा उवकमपरिभासा । ४.

चारित्रमोहनीयकर्मका उपशम करनेवाले जीवका प्रतिपात कितने प्रकारका होता है, वह प्रतिपात सर्वप्रथम किस कपायमें होता है ? वह गिरते हुए किन-किन कर्म-प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला होता है ? ॥१२०॥

वह प्रतिपात दो प्रकारका होता है एक भवक्षयसे और दूसरा उपशमकालके क्षयसे । तथा वह प्रतिपात सूक्ष्मसाम्परायनामक दशवें गुणस्थानमें और वादरराग नामक नवें गुणस्थानमें होता है; ऐसा जानना चाहिए ॥२२१॥

उपशमकालके क्षय होनेसे जो प्रतिपात होता है वह सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमें होता है । किन्तु भवक्षयसे जो प्रतिपात होता है, वह नियमसे वादरसाम्परायनामक नवें गुणस्थानमें ही होता है ॥१२२॥

उपशमकालके क्षय होनेसे गिरनेवाला जीव यथानुपूर्वीसे कर्म-प्रकृतियोंको बाँधता है । तथा इसी प्रकार यथानुपूर्वीसे कर्म-प्रकृतियोंका वेदन भी करता है (किन्तु भवक्षयसं गिरनेवाले जीवके देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें ही सर्व करण प्रकट हो जाते हैं (८) ॥१२३॥

विशेषार्थ—उपशामना-अधिकारमे उपयुक्त आठ गाथाएँ निबद्ध हैं । इनमेसे प्रारम्भकी चार गाथाएँ तो चारित्रमोहनीयकर्मकी उपशमनावस्थाका क्रमशः वर्णन करनेके लिए पृच्छा-सूत्ररूप हैं, जिनका समाधान आगे चूर्णिसूत्रोके आधारपर विस्तारसे किया जायगा । अन्तिम चार गाथाएँ ग्यारहवें गुणस्थानसे गिरनेवाले जीवकी अवस्थाका वर्णन करती है । उनमेसे प्रथम गाथासे किये गये प्रश्नोका शेष तीन गाथाओंमें उत्तर दिया गया है । आठों गाथाओसे सूचित-अर्थकी प्ररूपणा आगे चूर्णिकार स्वयं ही करेंगे ।

चूर्णिसू०—चारित्रमोहनीयकी उपशामनामें पहले उपक्रम-परिभाषा जानने योग्य है । वह इस प्रकार है—वेदकसम्यग्दृष्टि जीव अनन्तानुबन्धी कपायचतुष्कके विसंयोजन किये बिना

वेद्यसम्माइड्डी अणंताणुबंधी अविंसंजोएदूण कसाए उवसामेदुं णो उवडादि । ५. सो ताव पुव्वमेव अणंताणुबंधी विसंजोएदि । ६. तदो अणंताणुबंधी विसंजोएतस्स जाणि करणाणि ताणि सव्वाणि परूवेयव्वाणि । ७. तं जहा । ८. अधापवत्तकरणमपुव्वकरणमणियट्टिकरणं च । ९. अधापवत्तकरणे णत्थि ट्टिदिघादो [अणुभागघादो] वा गुणसेही वा । [गुणसंक्रमो वा] १०. अपुव्वकरणे अत्थि ट्टिदिघादो अणुभागघादो गुणसेही च गुणसंक्रमो वि । ११. अणियट्टिकरणे वि एदाणि चेव, अंतरकरणं णत्थि । १२. एसा ताव जो अणंताणुबंधी विसंजोएदि तस्स समासपरूवणा ।

१३. तदो अणंताणुबंधी विसंजोइदे अंतोमुहुत्तमधापवत्तो जादो असाद-अरदि-सोग-अजसगित्थियादीणि ताव कम्माणि वंधदि । १४. तदो अंतोमुहुत्तेण दंसणमोहणीयमुवसामेदि, तदो (ताधे) ण अंतरं* । १५. तदो दंसणमोहणीयमुवसामेतस्स जाणि करणाणि पुव्वपरूविदाणि ताणि सव्वाणि इमस्स वि परूवेयव्वाणि । १६. तहा ट्टिदिघादो अणुभागघादो गुणसेही च अत्थि ।

शेष कषायोके उपशम करनेके लिए प्रवृत्त नहीं हो सकता है । अतः वह प्रथम ही अनन्तानुबन्धीकषायका विसंयोजन करता है । अतएव अनन्तानुबन्धी कषायका विसंयोजन करनेवाले जीवके जो करण होते हैं, वे सर्व करण प्ररूपण करना चाहिए । वे इस प्रकार हैं—अवःप्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण । अधःप्रवृत्तकरणमे स्थितिघात [अनुभागघात] गुणश्रेणी और [गुणसंक्रमण] नहीं है, किन्तु अपूर्वकरणमे स्थितिघात, अनुभागघात, गुणश्रेणी और गुणसंक्रमण होते हैं । ये ही कार्य अनिवृत्तिकरणमे भी होते हैं, किन्तु यहाँपर अन्तरकरण नहीं होता है । जो अनन्तानुबन्धी कषायका विसंयोजन करता है, उसकी यह संक्षेपसे प्ररूपणा है ॥ ३-१२ ॥

तत्पश्चात् अनन्तानुबन्धीकषायका विसंयोजन करनेपर अन्तर्मुहूर्तकाल तक अधःप्रवृत्तसंयत होता है, अर्थात्, संक्लेश और विशुद्धिके वशसे प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानो-मे सहस्रो परिवर्तन करता है । तभी प्रमत्तसंयतावस्थामे वह असातावेदनीय, अरति, शोक, अयशःकीर्ति तथा आदि पदसे सूचित अस्थिर और अशुभ इन छह प्रकृतियोंको बाँधता है । तत्पश्चात् एक अन्तर्मुहूर्तके द्वारा दर्शनमोहनीयकर्मको उपशमाता है । इस समय उसके अन्तरकरण नहीं होता है । तदनन्तर दर्शनमोहनीयकर्मका उपशमन करनेवाले जीवके जो जो करणरूप कार्य-विशेष पहले प्ररूपण किये गये हैं, वे सर्व कार्य इसके भी प्ररूपण करना चाहिए । दर्शनमोहके उपशमनाके समान ही स्थितिघात, अनुभागघात और गुणश्रेणी भी होती है ॥ १३-१६ ॥

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमे 'तदो ण अंतरं' इतने सूत्राशको टीकामे सम्मिलित कर दिया गया है । (देखो पृ० १८१२) ।

† ताम्रपत्रवाली प्रतिमे 'पुव्वपरूविदाणि' पद सूत्रमे नहीं है । किन्तु वह होना चाहिए; क्योंकि टीकासे उसकी पुष्टि प्रमाणित है । (देखो पृ० १८१३) ।

१७. अपुञ्जकारणस्स जं पढमसमए ढ्ढिदिसंतकम्मं तं चरिमसमए संखेज्जगुण-
हीणं । १८. दंसणमोहणीयउवसामणअणियड्ढिअद्वाए संखेज्जेसु भागेसु गदेसु सम्मत्तस्स
असंखेज्जाणं समयपवद्वाणमुदीरणा । १९. तदो अंतोमुहुत्तेण दंसणमोहणीयस्स अंतरं
करेदि ।

चूणिसू०—अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जो स्थितिसत्त्व होता है, वह अपूर्वकरणके
अन्तिम समयमें उससे संख्यातगुणित हीन हो जाता है । (इसी प्रकार अनिवृत्तिकरणके
प्रथम समयमें जो स्थितिसत्त्व होता है, उससे अन्तिम समयमें वह संख्यातगुणित हीन हो
जाता है ।) दर्शनमोहनीयके उपशमन करनेवाले जीवके अनिवृत्तिकरणकालके संख्यात भागोंके
व्यतीत होनेपर सम्यक्त्वप्रकृतिके असंख्यात समयप्रवद्धोकी उदीरणा होती है । तत्पश्चात्
एक अन्तर्मुहूर्तके द्वारा दर्शनमोहनीयका अन्तर करता है ॥ १७-१९ ॥

विशेषार्थ—दर्शनमोहका अन्तरकरणको करनेवाला जीव सम्यक्त्वप्रकृतिकी अन्त-
र्मुहूर्तप्रमाण स्थितिको छोड़कर, तथा मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उदयावलीको छोड़कर
शेष स्थितिका अन्तर करता है । इस अन्तरकालीन स्थितियोंके उत्कीरण किये जानेवाले
प्रदेशाग्रको बन्वका अभाव हो जानेसे द्वितीय स्थितिमें संक्रमण नहीं करता है, किन्तु सर्व
द्रव्यको लाकर सम्यक्त्वप्रकृतिकी प्रथमस्थितिमें निक्षिप्त करता है । तथा सम्यक्त्वप्रकृतिके
द्वितीय स्थितिसम्बन्धी प्रदेशाग्रका उत्कीरण कर अपनी प्रथमस्थितिमें गुणश्रेणीके रूपसे
निक्षिप्त करता है । इसी प्रकार मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वके भी द्वितीयस्थितिके प्रदेशाग्र-
को उत्कीरण कर सम्यक्त्वप्रकृतिकी प्रथमस्थितिमें देता है, तथा अनुत्कीर्यमाण स्थितियोंमें भी
देता है, किन्तु अपनी अन्तर-स्थितियोंमें नहीं देता है । सम्यक्त्वप्रकृतिकी प्रथमस्थितिके
समान स्थितियोंमें स्थित मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतियोंके उदयावलीके बाहिर स्थित
प्रदेशाग्रको सम्यक्त्वप्रकृतिकी प्रथम स्थितियोंमें संक्रमण करता है । इस प्रकारसे यह क्रम
अन्तरकरणकी द्विचरम फालीके प्राप्त होने तक रहता है । पुनः अन्तिम फालीके निपतनकालमें
मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी सब अन्तरस्थितियोंके प्रदेशाग्रको सम्यक्त्वप्रकृतिकी प्रथम-
स्थितिमें संक्रमण करता है । इसी प्रकार सम्यक्त्वप्रकृतिके चरमफालिसम्बन्धी द्रव्यको अन्यत्र
संक्रमित नहीं करता है, किन्तु अपनी प्रथमस्थितिमें ही संक्रमित करता है । द्वितीयस्थितिके
प्रदेशाग्रको भी प्रथमस्थितिमें ही तब तक निक्षिप्त करता है, जब तक कि प्रथमस्थितिमें आवली
और प्रत्यावली शेष रहती हैं । इसके पश्चात् आगाल और प्रत्यागालका कार्य समाप्त हो
जाता है । इस समय गुणश्रेणीरूप विन्यास नहीं होता है, किन्तु प्रत्यावलीसे ही उदीरणा
होती रहती है । एक समय-अधिक आवलीके शेष रह जानेपर सम्यक्त्वप्रकृतिकी जघन्य
स्थिति-उदीरणा होती है । तत्पश्चात् प्रथमस्थितिके अन्तिम समयमें अनिवृत्तिकरणका काल
समाप्त हो जाता है और तदनन्तर समयमें वह सम्यग्दृष्टि हो जाता है । उस समय प्रथमो-
पशमसम्यक्त्वकी प्राप्तिके समान अन्तर्मुहूर्तकाल तक क्या मिथ्यात्वका गुणसंक्रमण यहाँ भी

२०. सम्मत्तस्स पढमड्ढिदीए झीणाए जं तं मिच्छत्तस्स पदेसग्गं सम्मत्त-
सम्पामिच्छत्तेसु गुणसंक्रमेण [ण] संक्रमदि । २१. पढमदाए सम्मत्तमुप्पादयमाणस्स
जो गुणसंक्रमेण पूरणकालो तदो संखेज्जगुणं कालमिमो उवसंतदंसणमोहणीओ विसोहीए
वड्ढुदि । २२. तेण परं हायदि वा वड्ढुदि वा अवड्ढायदि वा । २३. तथा चेव ताव
उवसंतदंसणमोहणिज्जो असाद-अरदि-सोग-अजसगित्ति-आदीसु बंधपरावत्तसहस्साणि
कादूण* तदो कसाए उवसामेहुं कच्चे अधापवत्तकरणस्स परिणामं परिणमइं । २४.
जं अणंताणुबंधी विसंजोएतेण हदं दंसणमोहणीयं च उवसामेतेण हदं कम्मं तमुवरिहदं ।

२५. इदाणि कसाए उवसामेत्तस्स जमधापवत्तकरणं तम्मिह णत्थि ड्ढिदिघादो
अणुभागघादो गुणसेही च । णवरि विसोहीए अणंतगुणाए वड्ढुदि । २६. तं चेव इमस्स
होता है, अथवा उसमें कोई अन्य विशेषता है, इस शंकाका समाधान चूर्णिकारने वक्ष्यमाण-
सूत्रोंसे किया है ।

चूर्णिसू०-सम्यक्त्वप्रकृतिकी प्रथम स्थितिके क्षीण होनेपर जो मिध्यात्वका प्रदेशाग्र
अवशिष्ट रहता है, वह सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वमे गुणसंक्रमणसे संक्रान्त नहीं
करता है, अर्थात् जिस प्रकार प्रथम वार सम्यक्त्वके उत्पादन करनेवाले जीवके गुणसंक्रमण
होता है, उस प्रकारसे यहाँपर गुणसंक्रमण नहीं होता है, किन्तु इसके केवल विध्यातसंक्रमण
ही होता है । प्रथम वार सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेवाले जीवका जो गुणसंक्रमणसे पूरणकाल है,
उससे संख्यातगुणित काल तक यह उपशान्तदर्शनमोहनीय जीव विशुद्धिसे बढ़ता है । इसके
पश्चात् वह (संक्लेश और विशुद्धिरूप परिणामोंके योगसे) कभी विशुद्धिसे हीनताको प्राप्त
होता है, कभी वृद्धिको प्राप्त होता है और कभी अवस्थित परिणामरूप रहता है । पुनः वही
उपशान्तदर्शनमोहनीय जीव असाता, अरति, शोक, और अयशःकीर्त्ति आदि प्रकृतियोंमे
सहस्रों बन्ध-परावर्तन करके अर्थात् सहस्रों वार प्रमत्तसंयतसे अप्रमत्तसंयत और अप्रमत्त-
संयतसे प्रमत्तसंयत हो करके, तत्पश्चात् कथायोंके उपशमानेके लिए अधःप्रवृत्तकरणके परिणामसे
परिणत होता है । जो कर्म अनन्तानुबन्धी कषायके विसंयोजन करनेवालेने नष्ट किया; वह
'हत' कहलाता है और जो कर्म दर्शनमोहनीयके उपशमन करनेवालेके द्वारा नष्ट किया जाता
है, वह उपरि-हत कर्म कहलाता है ॥२०-२४॥

चूर्णिसू०-इस समय कषायोंके उपशमन करनेवाले जीवके जो अधःप्रवृत्तकरण होता
है, उसमें स्थितिघात, अनुभागघात और गुणश्रेणी नहीं होती है । केवल अनन्तगुणी विशुद्धिसे
प्रतिसमय बढ़ता रहता है । इस अधःप्रवृत्तकरणका भी वही लक्षण है, जो कि पहले दर्शन-
मोहकी उपशमनाके समय प्ररूपण कर आये हैं । तत्पश्चात् अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमे

ॐ ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'कादूण' पदसे आगे 'जहा अणंताणुबंधी विसंजोएदूण सत्थाणे
पदिदो असादादिवंधपाओग्गो होदि' इतना टीकाश भी सूत्ररूपसे मुद्रित है । (देखो पृ० १८१५) ।

† जयवल्काकारने अपनी व्याख्याकी सुविधायर्थ इस सूत्रको दो भागोंमें विभक्त किया है, पर वस्तुतः
यह एक ही सूत्र है ।

वि अधापवत्तकरणस्त लक्खणं जं पुव्वं परूविदं । २७. तदो अधापवत्तकरणस्त चरिम-
समये इमाओ चत्तारि सुत्तगाहाओ । २८. तं जहा । २९. कसायउवसामणपडुवगस्स०
(१) । ३०. काणि वा पुव्ववद्वाणि० (२) । ३१. के अंसे झीयदे० (३) ।
३२. किं ङ्घिदियाणि० (४) । ३३. एदाओ चत्तारि सुत्तगाहाओ विहासियूण तदो
अपुव्वकरणस्त पढमसमए [इमाणि आवासयाणि] परूवेदव्वाणि ।

३४. जो खीणदंसणमोहणिज्जां कसाय-उवसामणो तस्स खीणदंसणमोह-
णिज्जस्स कसाय-उवसामणाए अपुव्वकरणे पढमङ्घिदिखंडयं णियमा पलिदोवमस्स संखे-
ज्जदिभागो । ३५. ङ्घिदिवंधेण जमोसरदि सो वि पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो ।
३६. असुभाणं कम्माणमणंता भागा अणुभागखंडयं । ३७. ङ्घिदिसंतकम्ममंतोकोडा-
कोडीए, ङ्घिदिवंधो वि अंतोकोडाकोडीए । ३८. गुणसेठी च अंतोमुहुत्तमेत्ता*

ये चार सूत्रगाथाएँ प्ररूपण करना चाहिए । वे इस प्रकार हैं—“कपायोंका उपशम करनेवाले जीवका परिणाम कैसा होता है ? किस योग, कपाय और उपयोगमें वर्तमान, किस लक्ष्यसे युक्त और कौनसे वेदवाला जीव कपायोंका उपशम करता है ? (१) । कपायोंके उपशमन करनेवाले जीवके पूर्व-वद् कर्म कौन-कौनसे हैं और अब कौन-कौनसे नवीन कर्मांशोंको बाँधता है । कपायोंके उपशामकके कौन-कौन प्रकृतियाँ उदयावलीमें प्रवेश करती हैं और कौन-कौन प्रकृतियोंकी वह उदीरणा करता है ? (२) । कपायोंके उपशमनकालसे पूर्व बन्ध अथवा उदयकी अपेक्षा कौन-कौनसे कर्मांश क्षीण होते हैं ? अन्तरको कहाँपर करता है और कहाँपर तथा किन कर्मोंका यह उपशम करता है ? (३) । कपायोंका उपशमन करनेवाला जीव किस-किस स्थिति-अनुभागविशिष्ट कौन-कौनसे कर्मोंका अपवर्तन करके किस स्थानको प्राप्त करता है और अवशिष्ट कर्म किस स्थिति और अनुभागको प्राप्त होते हैं ?” (४) । इन चारो सूत्रगाथाओंकी पूर्वके समान ही यहाँपर सम्भव विशेषताओंके साथ विभाषा करके तत्पश्चात् अपूर्वकरणके प्रथम समयमें ये वक्ष्यमाण स्थितिकांडक आदि आवश्यक कार्य होते हैं । उनमेंसे पहले स्थितिकांडकका प्रमाण बतलाते हैं ॥२५-३३॥

चूर्णिसू०—जो क्षीणदर्शनमोहनीय पुरुष कपायोंका उपशामक होता है, उस क्षीण-दर्शनमोहनीय पुरुषके कषाय-उपशामनाके अपूर्वकरणकालमें प्रथम स्थितिकांडकका प्रमाण नियमसे पल्योपमका संख्यातवाँ भाग होता है । स्थितिवन्धके द्वारा जो अपसरण करता है, वह भी पल्योपमका संख्यातवाँ भाग होता है । अनुभागकांडकका प्रमाण अशुभ कर्मोंके अनन्त बहुभाग-प्रमाण है । उस समय स्थितिसन्ध अन्तःकोडाकोडी सागरोपम है और स्थितिवन्ध भी अन्तः-कोडाकोडी सागरोपम है, तथा गुणश्रेणी अन्तर्मुहूर्तमात्र निक्षिप्त करता है । तत्पश्चात् अनु-

णिद्धिदाणि । ३९. तदो अणुभागखंडयपुधत्ते गदे अणुमणुभागखंडयं पढमं ढ्ढिदि-
खंडयं जो च अपुव्वकरणस्स पढमो ढ्ढिदिवंधो एदाणि समगं णिद्धिदाणि । ४०.
तदो ढ्ढिदिखंडयपुधत्ते गदे णिदा-पयलाणं वंधवोच्छेदो । ४१. तदो अंतोमुहुत्ते गदे
पर भवियणामा-गोदाणं वंधवोच्छेदो* ।

४२. अपुव्वकरणपविट्टस्स जम्हि णिदा-पयलाओ वोच्छिण्णाओ सो कालो
थोवो । ४३. परभवियणामाणं वोच्छिण्णकालो संखेजगुणो । ४४. अपुव्वकरणद्वा विसे-
साहिया । ४५. तदो अपुव्वकरणद्वाए चरिमसमए ढ्ढिदिखंडयमणुभागखंडयं ढ्ढिदिवंधो
च समगं णिद्धिदाणि । ४६. एदम्हि चेत्र समए हस्स-रइ-भय-दुगुंछाणं वंधवोच्छेदो ।
४७. हस्स रइ-अरइ-सोग-भय-दुगुंछाणमेदेसिं छण्हं कम्माणमुदयवोच्छेदो च । ४८. तदो
से काले पढमसमय-अणियट्ठी जादो† । ४९. पढमसमय-अणियट्ठिकरणस्स ढ्ढिदिखंडयं
पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो । ५०. अपुव्वो ढ्ढिदिवंधो पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण
हीणो । ५१. अणुभागखंडयं सेसस्स अणंता भागा । ५२. गुणसेढी असंखेज्जगुणाए सेढीए

भागकांडक-पृथक्त्वके व्यतीत होनेपर दूसरा अनुभागकांडक प्रथम स्थितिकांडक और अपूर्व-
करणका प्रथम स्थितिवन्ध ये सब आवश्यक कार्य एक साथ ही निष्पन्न होते हैं । तत्पश्चात्
स्थितिकांडकपृथक्त्वके व्यतीत होनेपर निद्रा और प्रचलाप्रकृतिका वन्ध-विच्छेद होता है ।
तत्पश्चात् अन्तर्मुहूर्त व्यतीत होनेपर पर-भवसम्बन्धी नामकर्म संज्ञावाली प्रकृतियोंका वन्ध-
विच्छेद होता है ॥ ३४-४१ ॥

चूर्णिसू०—अपूर्वकरण गुणस्थानमे प्रविष्ट संयत पुरुषके जिस भागमें निद्रा और
प्रचलाप्रकृति वन्धसे व्युच्छिन्न होती है, वह काल सबसे कम है । इससे परभवसम्बन्धी
नामकर्मकी प्रकृतियोंके वन्धसे व्युच्छिन्न होनेका काल संख्यातगुणा है । इससे अपूर्वकरणका
काल विशेष अधिक है । तत्पश्चात् अपूर्वकरणकालके अन्तिम समयमे स्थितिकांडक, अनुभाग-
कांडक और स्थितिवन्ध, ये सब एक साथ निष्पन्न होते हैं । इसी समयमे ही हास्य, रति, भय
और जुगुप्सा, इन चार प्रकृतियोंका वन्ध-विच्छेद होता है और वहाँ ही हास्य, रति, अरति,
शोक, भय और जुगुप्सा इन छह कर्मोंका उदयसे विच्छेद होता है । इसके अनन्तर समयमे
वह प्रथमसमयवर्ती अनिवृत्तिकरणसंयत हो जाता है । अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमे स्थिति-
कांडक पत्त्योपमका संख्यातवर्ती भागप्रमाण होता है । अपूर्व अर्थात् नवीन स्थितिवन्ध पत्त्यो-

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमें इस सूत्रके अनन्तर 'एसो एत्थ सुत्तत्थसम्भावो' यह एक और भी
सूत्र मुद्रित है (देखो पृ० १८२१) । पर वस्तुतः यह इसी सूत्रकी टीकाका उपसहारात्मक वाक्य है ।
क्योंकि, इससे भी आगे इसी सूत्राङ्ककी टीका पाई जाती है ।

† ताम्रपत्रवाली प्रतिमें इस सूत्रके अनन्तर 'एवमणियट्ठिकरणं पविट्टस्स' यह एक और भी सूत्र
मुद्रित है (देखो पृ० १८२२) । पर वस्तुतः यह सूत्र नहीं है, अपितु आगंके सूत्रकी उत्थानिकाका प्रार-
म्भिक अंग है, यह बात प्रकृत स्थलकी टीकासे ही सिद्ध है । (देखो पृ० १८२२ की अन्तिम पंक्ति और
पृ० १८२३ की प्रथम पंक्ति)

सेसे सेसे णिकखेवो । ५३. तिस्से चेव अणियद्धि-अद्वाए पढमसमए अप्पसत्थ-उवसा-
मणाकरणं णिवत्तीकरणं णिकाचनाकरणं' च वोच्छिण्णाणि ।

५४. आउमवज्जाणं कम्मणं ठिदिसंतकम्ममंतोकोडाकोडीए । ५५. ठिदिवंधो
अंतोकोडीए* सदसहस्सपुधत्तं । ५६. तदो ठिदिखंडयसहस्सेसु गदेसु ठिदिवंधो सहस्स-
पुधत्तं । ५७. तदो अणियद्धिअद्वाए संखेज्जेसु भागेसु गदेसु अमण्णिद्धिदिवंधेण समगो
ठिदिवंधो । ५८. तदो ठिदिवंधपुधत्ते गदे चदुरिंदियद्धिदिवंधसमगा ढ्धिदिवंधो ।

पमके संख्यातवें भागसे हीन होता है । अनुभागकांडक अनुभागसत्त्वके अनन्त बहुभागप्रमाण
है । गुणश्रेणी असंख्यातगुणित श्रेणिरूपसे होती है और शेष शेष द्रव्यमे निक्षेप होता है ।
अर्थात् जिस प्रकारसे अपूर्वकरणमे प्रतिसमय असंख्यातगुणित श्रेणीके द्वारा उदयावलीके बाहिर
गलित-शेषायामके रूपसे गुणश्रेणीकी रचना होती है, उसी प्रकार यहाँपर भी गुणश्रेणीकी रचना
होती है । उसी अनिवृत्तिकरणकालके प्रथम समयमें अप्रशस्तोपगमनाकरण, निधत्तीकरण और
निकाचनाकरण ये तीनों ही करण एक साथ व्युच्छिन्न हो जाते हैं ॥४२-५३॥

विशेषार्थ—जो कर्म उत्कर्षण, अपकर्षण और पर-प्रकृति-संक्रमणके योग्य होकरके
भी उदयस्थितिमें अपकर्षित करनेके लिए शक्य न हो, अर्थात् जिसकी उदीरणा न की जा
सके उसे अप्रशस्तोपशामनाकरण कहते हैं । जिस कर्मका उत्कर्षण और अपकर्षण तो किया
जा सके, किन्तु उदीरणा अर्थात् उदयस्थितिमें अपकर्षण और पर प्रकृतिमे संक्रमण न किया
जा सके, उसे निधत्तीकरण कहते हैं । जिस कर्मका उत्कर्षण, अपकर्षण, उदीरणा और पर-
प्रकृति-संक्रमण ये चारों ही कार्य न किये जा सकें, किन्तु जिस रूपसे उसे बाँधा था,
उसी रूपसे वह सत्तामें तदवस्थ रहे, उसे निकाचनाकरण कहते हैं । ये तीनों करण अपूर्व-
करणके अन्तिम समय तक होते रहते हैं, किन्तु अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमे ये तीनों
वन्द हो जाते हैं ।

चूर्णिसू०—उस अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें आयुर्कर्मको छोड़कर शेष-सात कर्मों-
का स्थितिसत्त्व अन्तःकांडाकोड़ी सागरोपमप्रमाण और स्थितिवन्ध अन्तःकोड़ी अर्थात् साग-
रोपमलक्षपृथक्त्व-प्रमाण होता है । तत्पश्चात् सहस्रो स्थितिकांडकोके व्यतीत होनेपर स्थिति-
वन्ध सागरोपम सहस्रपृथक्त्व रह जाता है । तत्पश्चात् अनिवृत्तिकरणकालके संख्यात भागोंके
व्यतीत होनेपर असंज्ञी जीवोंकी स्थितिके बन्धके समान सहस्र सागरोपमप्रमाण स्थितिवन्ध
होता है । तत्पश्चात् स्थितिवन्धपृथक्त्वके बीत जानेपर चतुरिन्द्रिय जीवके स्थितिवन्धके

१ तस्य ज कम्ममोक्कड्डुक्कण परपयडिसकमाण पाओग्ग होदूण पुणो णोसकमुदयट्ठिदिमोक्कड्डु-
दु; उदीरणाविरुद्धसहावेण परिणदत्तादो । त तहाविहपइण्णाए पडिग्गहियमप्पसत्थ उवसामणाए उवसत-
मिदि भण्णदे । तस्स सो पजायो अप्पसत्थ-उवसामणाकरणं णाम । एव ज कम्ममोक्कड्डुक्कणसु अविरुद्ध-
सचरण होदूण पुणो उदय परपयडि-सकमाणमणागमणपइण्णाए पडिग्गहिय तस्स सो अवस्थाविसेसो
णिवत्तीकरण णाम । जयघ०

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'अंतो कोडाकोडीए' पाठ मुद्रित है (देखो पृ० १८२४) । पर वह
अशुद्ध है । (देखो घवला भा० ६ पृ० २९५) ।

५९. एवं तीइंदिय-वीइंदियट्टिदिवंधसमगो ठिदिवंधो । ६०. एइंदियठिदिवंधसमगो ठिदिवंधो । ६१. तदो ट्टिदिवंधपुधत्तेण णामा-गोदाणं पलिदोवम-ट्टिदिगो ट्टिदिवंधो । ६२. णाणावरणीय-दंसणवरणीय-वेदणीय-अंतराइयाणं च दिवड्डुपलिदोवममेत्त-ट्टिदिगो वंधो । ६३. मोहणीयस्स वेपलिदोवमट्टिदिगो वंधो । ६४. एदम्हि काले अदिच्छिदे* सव्वम्हि पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण ठिदिवंधेण ओसरदि । ६५. णामा-गोदाणं पलिदोवमट्टिदिगादो वंधादो अण्णं जं ट्टिदिवंधं वंधहिदि सो ट्टिदिवंधो संखेज्जगुणहीणो । ६६. सेसाणं कम्मणं ट्टिदिवंधो पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागहीणो†।

६७. तदोप्पहुडि णामा-गोदाणं ट्टिदिवंधे पुण्णे संखेज्जगुणहीणो ट्टिदिवंधो होइ । सेसाणं कम्मणं जाव पलिदोवमट्टिदिगं वंधं ण पावदि ताव पुण्णे ट्टिदिवंधे पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागहीणो ट्टिदिवंधो । ६८ एवं ट्टिदिवंधसहस्सेसु गदेसु णाणा-

सदृश सौ सागरोपमप्रमाण स्थितिवन्ध होता है । पुनः स्थितिवन्धपृथक्त्वके वीतनेपर त्रीन्द्रिय-जीवके स्थितिवन्धके सदृश पचास सागरोपमप्रमाण स्थितिवन्ध होता है । पुनः स्थितिवन्ध-पृथक्त्वके वीतनेपर द्वीन्द्रियजीवके स्थितिवन्धके सदृश पच्चीस सागरप्रमाण स्थितिवन्ध होता है । पुनः स्थितिवन्धपृथक्त्वके वीतनेपर एकेन्द्रियजीवके स्थितिवन्धके सदृश एक सागरोपम-प्रमाण स्थितिवन्ध होता है । तत्पश्चात् स्थितिवन्धपृथक्त्वके व्यतीत होनेपर नाम और गोत्रकर्मका पल्योपमस्थितिवाला वन्ध होता है । उस समय ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तरायका डेढ़ पल्योपमप्रमाण स्थितिवन्ध होता है और मोहनीयकर्मका दो पल्योपमकी स्थितिवाला वन्ध होता है । इस कालमें और इससे पूर्व अतिक्रान्त सर्व कालमें पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण स्थितिवन्धसे अपसरण करता है, अर्थात् यहाँ तक सर्व कर्मोंके स्थितिवन्धापसरणका प्रमाण पल्योपमका संख्यातवाँ भाग है । पल्योपमकी स्थितिवाले वन्धसे जो नाम और गोत्र कर्मके अन्य वन्धको बाँधेगा, वह स्थितिवन्ध संख्यातगुणित हीन है । शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध पूर्व स्थितिवन्धसे पल्योपमका संख्यातवाँ भाग हीन है ॥५४-६६॥

विशेषार्थ—इस स्थल पर सर्व कर्मोंके स्थितिवन्धका अल्पवहुत्व इस प्रकार जानना चाहिए—नाम और गोत्रकर्मका स्थितिवन्ध सबसे कम है । इससे ज्ञानावरणादि चार कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे मोहनीयकर्मका स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।

चूर्णिम्ह०—यहाँसे लेकर नाम और गोत्रके स्थितिवन्धके पूर्ण होनेपर संख्यातगुणा हीन अन्य स्थितिवन्ध होता है । शेष कर्मोंका जब तक पल्योपमकी स्थितिवाला वन्ध नहीं प्राप्त होता है, तब तक एक स्थितिवन्धके पूर्ण होनेपर जो अन्य स्थितिवन्ध होता है, वह पल्योपमके संख्यातवें भागसे हीन है । इस प्रकार सहस्रो स्थितिवन्धोंके वीतनेपर ज्ञानावरणीय, दर्शना-

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'अहिच्छिदे' पाठ मुद्रित है । (देखो पृ० १८२५)

† ताम्रपत्रवाली प्रतिमें इसके अनन्तर [ट्टिदिवंधो] इतना पाठ और भी मुद्रित है । (देखो पृ० १८२५)

वरणीय-दंशणावरणीय-वेदणीय-अंतराह्याणं* पलिदोवमट्टिदिगो बंधो । ६९. मोहणीयस्स तिभागुत्तरं पलिदोवमट्टिदिगो बंधो । ७०. तदो जो अण्णो गाणावरणादि-चदुण्हं पि ट्टिदिवंधो सो संखेज्जगुणहीणो । ७१. मोहणीयस्स ट्टिदिवंधो विसेसहीणो ।

७२. तदो ट्टिदिवंधपुधत्तेण गदेण मोहणीयस्स वि ट्टिदिवंधो पलिदोवमं । ७३. तदो जो अण्णो ट्टिदिवंधो सो आउगवज्जाणं कम्माणं ट्टिदिवंधो पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो । ७४. तस्स अप्पावहुअं । ७५. तं जहा । ७६. गामा-गोदाणं ट्टिदिवंधो थोवो । ७७. मोहणीयवज्जाणं कम्माणं ट्टिदिवंधो तुल्लो संखेज्जगुणो । ७८. मोहणीयस्स ट्टिदिवंधो संखेज्जगुणो । ७९. एदेण अप्पावहुअविहिणा ट्टिदिवंध सहस्साणि बहूणि गदाणि । ८०. तदो अण्णो ट्टिदिवंधो गामा-गोदाणं थोवो । ८१. इदरेसिं चउण्हं पि तुल्लो असंखेज्जगुणो । ८२. मोहणीयस्स ट्टिदिवंधो संखेज्जगुणो । ८३. एदेण अप्पावहुअविहिणा ट्टिदिवंधसहस्साणि बहूणि गदाणि ।

वरणीय, वेदनीय और अन्तराय, इन कर्मोंका स्थितिवन्ध पल्योपमप्रमाण है । तथा मोहनीय-कर्मका त्रिभाग-अधिक पल्योपमप्रमाण स्थितिवन्ध है । तत्पश्चात् ज्ञानावरणादि चार कर्मोंका जो अन्य स्थितिवन्ध होता है वह पूर्व स्थितिवन्धसे संख्यातगुणित हीन है और मोहनीय-कर्मका स्थितिवन्ध विशेष हीन होता है ॥६७-७१॥

विशेषार्थ—इस स्थलपर कर्मोंके स्थितिवन्धका अल्पबहुत्व इस प्रकार है—नाम और गोत्रकर्मका स्थितिवन्ध सबसे कम है । इससे चार कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यातगुणित है । इससे मोहनीयकर्मका स्थितिवन्ध संख्यातगुणित है ।

चूर्णिसू०—तत्पश्चात् स्थितिवन्धपृथक्त्वके वीतनेसे मोहनीयकर्मका भी स्थितिवन्ध पल्योपमप्रमाण हो जाता है । तदनन्तर जो अन्य स्थितिवन्ध है, वह आयुर्कर्मको छोड़कर शेष कर्मोंका पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण है । इस स्थलमें सम्भव स्थितिवन्धका अल्पबहुत्व कहते हैं । वह इस प्रकार है—नाम और गोत्र कर्मका स्थितिवन्ध सबसे कम है । इससे मोहनीयको छोड़कर शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध परस्पर तुल्य और संख्यातगुणा है । इससे मोहनीयका स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इस अल्पबहुत्व-विधिसे बहुतसे स्थितिवन्ध-सहस्र व्यतीत होते हैं । (जवतक कि नाम और गोत्र कर्मका अपश्चिम और दूरापकृष्टि संज्ञावाला, पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण स्थितिवन्ध प्राप्त होता है, तवतक यही उपर्युक्त अल्पबहुत्वका क्रम चला जाता है ।) तत्पश्चात् अन्य प्रकारका स्थितिवन्धसम्बन्धी अल्पबहुत्व प्रारम्भ होता है । वह इस प्रकार है—नाम और गोत्र कर्मका स्थितिवन्ध सबसे कम है । इनसे इतर चार कर्मोंका स्थितिवन्ध परस्पर तुल्य और असंख्यातगुणा है । इससे मोहनीयका स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इस अल्पबहुत्वकी विधिसे अनेक सहस्र स्थितिवन्ध व्यतीत होते हैं ॥७२-८३॥

- ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'वेदणीय' के आगे 'मोहणीय' पद भी मुद्रित है । वह नहीं होना चाहिए; क्योंकि, आगे सूत्राङ्क ६९ में उसके स्थितिवन्धका स्पष्ट निर्देश किया गया है ।

ताम्रपत्रवाली प्रतिमें '[अ-] संखेज्जगुणो' ऐसा पाठ मुद्रित है । (देखो पृ० १८२८)

८४. तदो अण्णो द्विदिवंधो णामा-गोदाणं थोवो । ८५. इदरेसिं चदुहं पि कम्माणं द्विदिवंधो असंखेज्जगुणो । ८६. मोहणीयस्स द्विदिवंधो असंखेज्जगुणो । ८७. एदेण कपेण द्विदिवंधसहस्साणि बहूणि गदाणि । ८८. तदो अण्णो द्विदिवंधो णामा-गोदाणं थोवो । ८९. मोहणीयस्स द्विदिवंधो असंखेज्जगुणो । ९०. णाणावरणीय-दंस-णावरणीय-वेदणीय-अंतराइयाणं द्विदिवंधो असंखेज्जगुणो । ९१. एकसराहेण मोहणीयस्स द्विदिवंधो णाणावरणादि-द्विदिवंधादो हेडुदो जादो असंखेज्जगुणहीणो च । णत्थि अण्णो त्रियप्पो । ९२. जाव मोहणीयस्स द्विदिवंधो उवरि आसी, ताव असंखेज्जगुणो आसी, असंखेज्जगुणादो* असंखेज्जगुणहीणो जादो । ९३. तदो जो एसो द्विदिवंधो णामा-गोदाणं थोवो । ९४. मोहणीयस्स द्विदिवंधो असंखेज्जगुणो । ९५. इदरेसिं चदुहं पि कम्माणं द्विदिवंधो तुल्लो असंखेज्जगुणो ।

९६. एदेण अप्पावहुअविहिणा द्विदिवंधसहस्साणि जाधे बहूणि गदाणि । ९७. तदो अण्णो द्विदिवंधो एकसराहेण मोहणीयस्स थोवो । ९८. णामा-गोदाणमसं-

तत्पश्चात् ज्ञानावरणादि कर्मोका दूरापकृष्टिनामक स्थितिवन्ध प्राप्त होनेपर तदनन्तर उसके असंख्यात बहुभाग स्थितिवन्धरूपसे अपसरण करनेवाले जीवके उस समयमें संभव अल्पबहुत्वको कहते हैं—

चूर्णिसू०—तदनन्तर अन्य प्रकारका स्थितिवन्ध होता है । नाम और गोत्रकर्मका सबसे कम स्थितिवन्ध होता है । इससे चारो ही कर्मोका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है । इससे मोहनीयका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है । इस क्रमसे बहुतसे स्थितिवन्ध-सहस्र व्यतीत होते हैं । तत्पश्चात् अन्य प्रकारका स्थितिवन्ध होता है । यथा—नाम और गोत्र-कर्मका सबसे कम स्थितिवन्ध होता है । इससे मोहनीयकर्मका स्थितिवन्ध असंख्यातगुण होता है । इससे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तरायकर्मका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है । तत्पश्चात् एक शराघातसे अर्थात् एक साथ मोहनीयकर्मका स्थितिवन्ध ज्ञाना-वरणादि कर्मोके स्थितिवन्धसे नीचे आजाता है और वह ज्ञानावरणादि कर्म चतुष्कके स्थिति-वन्धसे असंख्यातगुणित हीन होता है, इसमें कोई अन्य विकल्प संभव नहीं है । जब तक मोहनीयकर्मका स्थितिवन्ध ज्ञानावरणादिके स्थितिवन्धसे ऊपर था, तब तक वह असंख्यात-गुणा था । इसलिए यहाँपर वह असंख्यातगुणित वृद्धिसे असंख्यातगुणित हीन हो गया है । तब यहाँ जो स्थितिवन्ध होता है, वह इस प्रकार है—नाम और गोत्रकर्मका स्थितिवन्ध सबसे कम है । इससे मोहनीयकर्मका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है । इससे इतर शेष चारो ही कर्मोका स्थितिवन्ध परस्पर तुल्य और असंख्यातगुणा है ॥ ८४-९५ ॥

चूर्णिसू०—इस अल्पबहुत्वके क्रमसे जिस समय अनेको स्थितिवन्ध-सहस्र व्यतीत होते हैं उसके पश्चात् अन्य प्रकारका स्थितिवन्ध प्रारम्भ होता है । वह इस प्रकार है—मोहनीयकर्मका स्थितिवन्ध एक शराघातसे अर्थात् एकदम सबसे कम हो जाता है । इससे

खेज्जगुणो । ९९. इदरेसिं चदुण्हं पि कम्माणं तुल्लो असंखेज्जगुणो । १००. एदेण कमेण संखेज्जाणि ठिदिबंधसहस्साणि बहूणि गदाणि । १०१. तदो अण्णो ङ्घिदिबंधो । १०२. एकसराहेण मोहणीयस्स ङ्घिदिबंधो थोवो । १०३. णामा-गोदाणं पि कम्माणं ठिदिबंधो तुल्लो असंखेज्जगुणो । १०४. णाणावरणीय-दंसणावरणीय-अंतराइयाणं तिण्हं पि कम्माणं ङ्घिदिबंधो तुल्लो असंखेज्जगुणो । १०५. वेदणीयस्स ङ्घिदिबंधो असंखेज्जगुणो । १०६. तिण्हं पि कम्माणं णत्थिं वियप्पो संखेज्जगुण-हीणो वा विसेसहीणो वा, एकसराहेण असंखेज्जगुणहीणो १०७. एदेण अप्पावहुअ-विहिणा संखेज्जाणि ङ्घिदिबंध-सहस्साणि बहूणि गदाणि ।

१०८. तदो अण्णो ङ्घिदिबंधो । १०९. एकसराहेण मोहणीयस्स ङ्घिदिबंधो थोवो । ११०. णाणावरणीय-दंसणावरणीय-अंतराइयाणं तिण्हं पि कम्माणं ङ्घिदिबंधो तुल्लो असंखेज्जगुणो । १११. णामा-गोदाणं ङ्घिदिबंधो असंखेज्जगुणो । ११२. वेद-णीयस्स ङ्घिदिबंधो विसेसाहिओ । ११३. एत्थ वि णत्थि वियप्पो, तिण्हं पि कम्माणं ङ्घिदिबंधो णामा-गोदाणं ङ्घिदिबंधादो हेडुदो जायमाणो एकसराहेण असंखेज्जगुणहीणो

नाम और गोत्रकर्मका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा होता है । इससे इतर ज्ञानावरणादि चारो ही कर्मका स्थितिवन्ध परस्पर तुल्य और असंख्यातगुणा होता है । इसी क्रमसे बहुतसे संख्यात-सहस्र स्थितिवन्ध व्यतीत होते हैं । तत्पश्चात् अन्य प्रकारका स्थितिवन्ध प्रारम्भ होता है । वह इस प्रकार है—एक शराघातसे मोहनीय कर्मका स्थितिवन्ध सबसे कम हो जाता है । इससे नाम और गोत्र कर्मका स्थितिवन्ध परस्पर तुल्य और असंख्यातगुणा होता है । इससे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय, इन तीनों ही कर्मका स्थितिवन्ध परस्पर तुल्य और असंख्यातगुणा होता है । इससे वेदनीयकर्मका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा होता है । वेदनीय कर्मके स्थितिवन्धसे अपसरण करनेवाले ज्ञानावरणादि तीनों ही कर्मके स्थितिवन्धके संख्यातगुणा हीन या विशेष-हीन रूप कोई अन्य विकल्प नहीं है, किन्तु एक शराघातसे ही असंख्यातगुणा हीन हो जाता है । इस अल्पबहुत्वके क्रमसे अनेक संख्यात-सहस्र स्थितिवन्ध व्यतीत होते हैं ॥९६-१०७॥

चूर्णिसू०—तत्पश्चात् अन्य प्रकारका स्थितिवन्ध होता है, अर्थात् एक साथ ही मोहनीयकर्मका स्थितिवन्ध और भी कम हो जाता है । इससे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, और अन्तराय, इन तीनों ही कर्मका स्थितिवन्ध परस्पर तुल्य और असंख्यातगुणा होता है । इससे नाम और गोत्रकर्मका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा होता है । इससे वेदनीय कर्मका स्थितिवन्ध विशेष अधिक होता है । यहाँ पर भी अन्य कोई विकल्प नहीं है । जब ज्ञानावरणादि तीनों ही कर्मका स्थितिवन्ध नाम-गोत्रकर्मके स्थितिवन्धसे नीचे होता

जादो वेदणीयस्स ढिदिवंधो ताधे चैव णामा-गोदाणं ढिदिवंधो विसेसाहिओ जादो । ११४. एदेण अप्पावहुअविहिणा संखेज्जाणि ढिदिवंधसहस्साणि कादूण जाणि पुण कम्माणि वज्झंति ताणि पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । ११५. तदो असंखेज्जाणं समयपवद्धान्णुदीरणा च । ११६ तदो संखेज्जेसु ठिदिवंधसहस्सेसु मणपज्जवणाणा-वरणीय-दाणंतराइयाणमणुभागो वंधेण देसघादी होइ ।

११७. तदो संखेज्जेसु ढिदिवंधेसु गदेसु ओहिणाणावरणीयं ओहिदंसणावरणीयं लाभंतराइयं च वंधेण देसघादिं करेदि । ११८. तदो संखेज्जेसु ढिदिवंधेसु गदेसु सुदणाणावरणीयं अचक्खुदंसणावरणीयं भोगंतराइयं च वंधेण देसघादिं करेदि । ११९. तदो संखेज्जेसु ढिदिवंधेसु गदेसु चक्खुदंसणावरणीयं वंधेण देसघादिं करेदि । १२०. तदो संखेज्जेसु ढिदिवंधेसु गदेसु आभिणिओहियणाणावरणीयं परिभोगंतराइयं च वंधेण देसघादिं करेदि । १२१. तदो संखेज्जेसु ठिदिवंधेसु गदेसु वीरियंतराइयं वंधेण देसघादिं करेदि । १२२. एदेसिं कम्माणमखवगो अणुवसामगो सव्वो सव्वघादिं वंधदि । १२३. एदेसु कम्मेसु देसघादीसु जादेसु वि ढिदिवंधो मोहणीये थोवो । १२४. णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइएसु ठिदिवंधो असंखेज्जगुणो । १२५. णामा-गोदेसु ठिदिवंधो असंखेज्जगुणो । १२६. वेदणीयस्स ढिदिवंधो विसेसाहिओ ।

हुआ एक साथ असंख्यातगुणित हीन हो जाता है, तभी नाम और गोत्रकर्मका स्थितिवन्ध विशेष हीन हो जाता है । इस अल्पवहुत्वके क्रमसे संख्यात सहस्र स्थितिवन्धोको करके पुनः जो कर्म बंधते हैं, वे पल्योपमके संख्यातवे भागप्रमाण होते हैं । तत्पश्चात् असंख्यात समय प्रवद्धोकी उदीरणा होती है । तत्पश्चात् संख्यात सहस्र स्थितिवन्धोके व्यतीत होनेपर मनः-पर्ययज्ञानावरणीय और दानान्तराय कर्मका अनुभाग वन्धकी अपेक्षा देशघाती हो जाता है ॥ १०८-११६ ॥

चूर्णिसू०—तत्पश्चात् संख्यात स्थितिवन्धोके वीतने पर अवधिज्ञानावरणीय, अवधि-दर्शनावरणीय और लाभान्तरायकर्मको वन्धकी अपेक्षा देशघाती करता है । तत्पश्चात् संख्यात स्थितिवन्धोके वीतने पर श्रुतज्ञानावरणीय, अचक्षुदर्शनावरणीय और भोगान्तराय कर्मको वन्धकी अपेक्षा देशघाती करता है । तत्पश्चात् संख्यात स्थितिवन्धोके वीतने पर चक्षुदर्शनावरणीय कर्मको वन्धकी अपेक्षा देशघाती करता है । तत्पश्चात् संख्यात स्थितिवन्धोके व्यतीत होनेपर आभिनिवोधिक ज्ञानावरणीय और परिभोगान्तराय कर्मको वन्धकी अपेक्षा देशघाती करता है । तत्पश्चात् संख्यात स्थितिवन्धोके वीतने पर वीर्यान्तराय कर्मको वन्धकी अपेक्षा देशघाती करता है । सर्व अक्षपक और अनुपशामक इन कर्मोंके सर्वघाती अनुभागको बंधते हैं । इन कर्मोंके देशघाती हो जानेपर भी मोहनीयकर्मका स्थितिवन्ध सबसे कम होता है । इससे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा होता है । इससे नाम और गोत्रकर्मका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा होता है । इससे वेदनीय कर्मका स्थितिवन्ध विशेष अधिक होता है ॥ ११७-१२६ ॥

१२७. तदो देसघादिकरणादो संखेज्जेसु ठिदिवंधसहस्सेसु गदेसु अंतरकरणं करेदि । १२८. वारसण्हं कसायाणं णवण्हं णोकसायवेदणीयाणं च । णत्थि अण्णस्स कम्मस्स अंतरकरणं । १२९. जं संजलणं वेदयदि, जं च वेदं वेदयदि, एदेसिं दोण्हं कम्माणं पढमड्ढिदीओ अंतोमुहुत्तिगाओ ठवेदूण अंतरकरणं करेदि । १३०. पढमड्ढिदीओ संखेज्जगुणाओ ड्ढिदीओ आगाइदाओ अंतरहुं । १३१. सेसाणमेकारसण्हं कसायाण-मट्ठण्हं च णोकसायवेदणीयाणमुदयावलियं मोत्तूण अंतरं करेदि । १३२. उवरि समड्ढिदि-अंतरं, हेट्ठा विसमड्ढिदि-अंतरं ।

१३३. जाधे अंतरमुक्कीरदि ताधे अण्णो ड्ढिदिवंधो* पयद्धो, अण्णं ड्ढिदिखंडय-मण्णमणुभागखंडयं च जेण्हदि । १३४. अणुभागखंडयसहस्सेसु गदेसु अण्णमणुभाग-खंडयं, तं चेव ड्ढिदिखंडयं, सो चेव ड्ढिदिवंधो, अंतरस्स उक्कीरणद्धा च समगं पुण्णाणि ।

चूर्णिसू०—पुनः सर्वघाती प्रकृतियोंको देशघाती करनेके पश्चात् संख्यात सहस्र स्थितिवन्धोके व्यतीत होने पर अन्तरकरण करता है । यह अन्तरकरण अप्रत्याख्यानादि वारह कपायोका और नवो नोकषायवेदनीयोका होता है । अन्य किसी भी कर्मका अन्तर-करण नहीं होता है । अन्तरकरण करनेके लिए उच्चत उपशामक जिस संज्वलनकपायका वेदन करता है और जिस वेदका वेदन करता है उन दोनो ही कर्मोंकी अन्तर्मुहूर्तप्रमाण प्रथम स्थितियोंको स्थापित करके अन्तरकरण करता है । प्रथम स्थितिसे संख्यातगुणी स्थितियों अन्तरकरण करनेके लिए गुणश्रेणी शीर्षकके साथ ग्रहण की जाती है । शेष अनुदय-प्राप्त ग्यारह कपायोको और आठ नोकषाय-वेदनीयोकी उदयावलीको छोड़कर अन्तर करता है । ऊपर समस्थिति अन्तर है और नीचे विषमस्थिति अन्तर है ॥ १२७-१३२ ॥

विशेषार्थ—उदय या अनुदयको प्राप्त सभी कषाय और नोकषायवेदनीय कर्म-प्रकृतियोंकी अन्तरसे ऊपरकी स्थिति तो समान ही होती है, क्योंकि द्वितीयस्थितिके प्रथम निषेकका सर्वत्र सदृशरूपसे अवस्थान देखा जाता है, इसलिए 'ऊपर समस्थिति अन्तर है,' ऐसा कहा गया है । किन्तु अन्तरसे नीचेकी स्थिति विषम होती है, इसका कारण यह है कि अनुदयवती सभी प्रकृतियोंके सदृश होनेपर भी उदयको प्राप्त किसी एक संज्वलन कषाय और किसी एक वेदकी अन्तर्मुहूर्तमात्र प्रथमस्थितिसे परे अन्तर की प्रथमस्थितिका ही अवस्थान देखा जाता है । इसलिए प्रथमस्थितिकी विसदृशताके आश्रयसे 'नीचे विषम-स्थिति अन्तर है' ऐसा कहा गया है ।

चूर्णिसू०—जब अन्तर उत्कीर्ण करता है, अर्थात् जिस समय अन्तरकरण आरम्भ करता है, उसी समयमे ही अन्य स्थितिवन्ध बाधता है, तथा अन्य स्थितिकांडक और अन्य अनुभागकांडकको ग्रहण करता है । इस प्रकार सहस्रो अनुभागकांडकोके व्यतीत होनेपर अन्य अनुभागकांडक, तथा वही स्थितिकांडक, वही स्थितिवन्ध और अन्तरका उत्कीरणकाल,

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'ड्ढिदिवंधपबंधो' ऐसा पाठ मुद्रित है । (देखो पृ० १८३५)

१३५. अंतरं करेमाणस्स जे कम्मंसा वज्झंति, वेदिज्जंति, तेसिं कम्माणमंतरड्ढिदीओ उक्कीरंतो तासिं ड्ढिदीणं पदेसग्गं वंधपयडीणं पढमड्ढिदीए च देदि, विदियड्ढिदीए च देदि ।
 १३६. जे कम्मंसा ण वज्झंति, ण वेदिज्जंति, तेसिमुक्कीरमाणं पदेसग्गं सत्थाणे ण देदि; वज्झमाणीणं पयडीणमणुक्कीरमाणीसु ड्ढिदीसु देदि । १३७. जे कम्मंसा ण वज्झंति, वेदज्जंति च; तेसिमुक्कीरमाणयं पदेसग्गं अप्पणो पढमड्ढिदीए च देदि, वज्झमाणीणं पयडीणमणुक्कीरमाणीसु च ड्ढिदीसु देदि । १३८. जे कम्मंसा ण वज्झंति, ण वेदिज्जंति, तेसिमुक्कीरमाणं पदेसग्गं वज्झमाणीणं पयडीणमणुक्कीरमाणीसु ड्ढिदीसु देदि । १३९. एदेण कमेण अंतरमुक्कीरमाणमुक्किणं ।

१४०. ताधे चैव मोहणीयस्स आणुपुव्वीसंक्रमो, लोभस्स असंक्रमो, मोहणीयस्स एगट्ठाणिओ वंधो, णवुंसयवेदस्स पढमसमय-उपशामगो, छसु आवलियासु गदासु उदीरणा, मोहणीयस्स एगट्ठाणिओ उदयो, मोहणीयस्स संखेज्जवस्सड्ढिदिओ वंधो एदाणि सत्तविधाणि करणाणि अंतरकदपढमसमए होंति ।

ये सब एक साथ पूर्णताको प्राप्त होते हैं । अन्तरको करनेवाले जीवके जो कर्मांश बँधते हैं और जो वेदन किये जाते हैं, उन कर्मोंकी अन्तर-सम्बन्धी स्थितियोंको उत्कीरण करता हुआ उन स्थितियोंके प्रदेशाग्रको बँधनेवाली प्रकृतियोंकी प्रथमस्थितिमें भी देता है और द्वितीय स्थितिमें भी देता है । जो कर्मांश न बँधते हैं और न उदयको ही प्राप्त होते हैं, उनके उत्कीर्ण किये जानेवाले प्रदेशाग्रको स्वस्थानमें नहीं देता है, किन्तु बध्यमान प्रकृतियोंकी उत्कीरण की जानेवाली स्थितियोंमें देता है । जो कर्मांश बँधते नहीं हैं, किन्तु वेदन किये जाते हैं उनके उत्कीरण किये जानेवाले प्रदेशाग्रको अपनी प्रथम स्थितिमें देता है और बध्यमान प्रकृतियोंकी उत्कीरण न की जानेवाली स्थितियोंमें देता है । जो कर्मांश बँधते हैं, किन्तु वेदन नहीं किये जाते हैं उनके उत्कीरण किये जानेवाले प्रदेशाग्रको बध्यमान प्रकृतियोंकी नहीं उत्कीरण की जानेवाली स्थितियोंमें देता है । इस क्रमसे उत्कीरण किया जानेवाला अन्तर उत्कीर्ण किया गया, अर्थात् चरम फालीके निरवशेषरूपसे उत्कीर्ण किये जानेपर अन्तर-करणका कार्य सम्पन्न हो जाता है । इस प्रकार अन्तरकी स्थितियोंका सर्व द्रव्य प्रथम और द्वितीय स्थितिमें संक्रमित कर दिया गया ॥१३३-१३९॥

चूर्णिसू०—उसी समय अर्थात् अन्तरकरणके समकाल ही मोहनीयका आनुपूर्वी-संक्रमण (१) लोभका संक्रमण (२) मोहनीयका एकस्थानीय बन्ध (३) नपुंसकवेदका प्रथम समय-उपशामक (४) छह आवलियोंके व्यतीत होनेपर उदीरणा (५) मोहनीयका एकस्थानीय उदय (६) और मोहनीयका संख्यात वर्षकी स्थितिवाला बन्ध (७) ये सात प्रकारके करण अन्तर कर चुकनेके पश्चात् प्रथम समयमें प्रारम्भ होते हैं ॥१४०॥

विशेषार्थ—अन्तरकरणके अनन्तर प्रथम समयमें ये सात करण अर्थात् कार्यविशेष एक साथ प्रारम्भ होते हैं । इनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—मोहनीयकर्मके एक निश्चित

१४१. छह आवलियासु गदासु उदीरणा णाम किं भणितं होइ ? १४२. विहासा । १४३. जहा णाम समयपवद्धो वद्धो आवलियादिकंतो सको उदीरेदुमेवमंतरादो

क्रमके अनुसार द्रव्यके संक्रमण करनेको आनुपूर्वी-संक्रम कहते हैं । पुरुषवेदके उदयसे चढ़ा हुआ जीव स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके प्रदेशाग्रको नियमसे पुरुषवेदमें संक्रान्त करता है । इसी प्रकार क्रोधकषायके उदयसे चढ़ा हुआ जीव पुरुषवेद, छह नोकषाय, प्रत्याख्यानावरण और अप्रत्याख्यानावरण क्रोधके प्रदेशाग्रको क्रोधसंज्वलनके ऊपर संक्रान्त करता है और कहीं नहीं । पुनः क्रोधसंज्वलन और दोनो मध्यम मानकषायके प्रदेशाग्रको नियमसे मानसंज्वलनमें संक्रान्त करता है, अन्यत्र कहीं नहीं । मानसंज्वलनको और द्विविध मध्यम मायाके प्रदेशाग्रको नियमसे मायासंज्वलनमें निक्षिप्त करता है । मायासंज्वलन और द्विविध मध्यम लोभके प्रदेशाग्रको नियमसे लोभसंज्वलनमें संक्रान्त करता है । इस प्रकारके क्रमसे होनेवाले संक्रमणको आनुपूर्वी-संक्रमण कहते हैं । इस स्थलके पूर्व अनानुपूर्वीसे प्रवर्तमान चारित्रमोहनीयकी प्रकृतियोंका संक्रमण इस समय इस उपर्युक्त प्रतिनियत आनुपूर्वीसे प्रवृत्त होता है, ऐसा यहाँ अभिप्राय जानना चाहिए (१) । 'लोभका असंक्रम' यह दूसरा करण है । सूत्रमें 'लोभ' ऐसा सामान्य निर्देश होनेपर भी यहाँ लोभसे संज्वलनलोभका ही ग्रहण करना चाहिए । लोभके असंक्रमणका अर्थ यह है कि इससे पूर्व अनानुपूर्वीसे लोभसंज्वलनका शेष संज्वलनकषायोंमें और पुरुषवेदमें प्रवर्तमान संक्रमण इस समय वन्द हो जाता है (२) । 'मोहनीयका एकस्थानीय बन्ध' यह तीसरा करण है, इसका अर्थ यह है कि इससे पूर्व मोहनीयकर्मका अनुभाग देशवाती द्विस्थानीयरूपसे बँधता था, वह इस समय परिणामोकी विशुद्धिके योगसे हट कर एकस्थानीय हो जाता है (३) । 'नपुंसकवेदका प्रथम समय-उपशामक' यह चतुर्थ करण है । इसका अभिप्राय यह है कि तीनों वेदोंमेंसे नपुंसकवेदकी ही सर्वप्रथम इस स्थलपर आयुक्तकरणके द्वारा उपशामन-क्रियामें प्रवृत्ति होती है (४) । 'छह आवलियोंके व्यतीत होनेपर उदीरणा' यह पंचम करण है । इसका अर्थ आगे चूर्णिकार स्वयं ही करेगे (५) । 'मोहनीयका एकस्थानीय उदय' यह षष्ठ करण है । इसका अर्थ यह है कि इससे पूर्व लता और दारुरूप द्विस्थानीय देशवातिस्वरूपसे प्रवर्तमान अनुभागका उदय अन्तरकरणके अनन्तर ही एकस्थानीय लतारूपसे परिणत हो जाता है (६) । 'मोहनीयका संख्यातवर्षीय स्थितिवन्ध' यह सप्तम करण है । इसका अर्थ यह है कि इससे पूर्व मोहनीयकर्मका स्थितिवन्ध असंख्यात वर्षोंका होता था । वह कषायोकी मन्दता या परिणामोकी विशुद्धिताके प्रभावसे एकदम घटकर संख्यात वर्षप्रमाण रह जाता है । किन्तु शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध इस समय भी असंख्यात वर्षोंका ही होता है (७) ।

शंका—छह आवलियोंके व्यतीत होनेपर उदीरणा होती है, इसका क्या अभिप्राय है ? ॥१४१॥

समाधान—छह आवलीकालके व्यतीत होनेपर उदीरणा होती है, इसका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार इससे पूर्व अधस्तन सर्वत्र संसारावस्थामें बँधा हुआ समयप्रवद्ध

पहमसमयकदादो पाए जाणि कम्माणि वज्झंति मोहणीयं वा मोहणीयवज्जाणि वा, ताणि कम्माणि छसु आवलियासु गदासु सकाणि उदीरेदुं; ऊणिगासु छसु आवलियासु ण सकाणि उदीरेदुं । १४४. एसा छसु आवलियासु गदासु उदीरणा त्ति सण्णा ।

१४५. केण कारणेण छसु आवलियासु गदासु उदीरणा भवदि ? १४६. णिदरिसणं* । १४७. जहा णाम वारस किट्ठीओ भवे पुरिसवेदं च वंधइ, तस्स जं पदेसग्गं पुरिसवेदे वद्धं ताव आवलियं अच्छदि^१ । १४८. आवलियादिकंतं कोहस्स पहमकिट्ठीए विदियकिट्ठीए च संकामिज्जदि^२ । १४९. विदियकिट्ठीदो तम्हि आवलियादिकंतं तं कोहस्स तदियकिट्ठीए च माणस्स पहम-विदियकिट्ठीसु च संकामिज्जदि^३ । १५०. माणस्स विदियकिट्ठीदो तम्हि आवलियादिकंतं माणस्स च तदियकिट्ठीए मायाए

आवलीप्रमाण कालके अतिक्रान्त होनेपर ही उदीरणा करनेके लिए शक्य है, उस प्रकार अन्तर करनेके प्रथम समयसे लेकर इस स्थल तक मोहनीय या मोहनीयके अतिरिक्त जो कर्म बंधते हैं, वे कर्म छह आवलीप्रमाण कालके व्यतीत होनेपर ही उदीरणा करनेके लिए शक्य है, छह आवलियोमे कुछ न्यूनता होनेपर उदीरणाके लिए शक्य नहीं हैं । यह 'छह आवलियोके व्यतीत होनेपर उदीरणा होती है' ऐसा कहनेका अभिप्राय है ॥१४२-१४४॥

शंका—किस कारणसे छह आवलियोके व्यतीत होनेपर ही उदीरणा होती है ? इसके पूर्व उदीरणा होना क्यों सम्भव नहीं है ? ॥१४५॥

समाधान—इस शंकाका समाधानात्मक निदर्शन इस प्रकार है—जिस वारह कृष्टिवाले भवमे जो पुरुषवेदको बंधता है, उसके जो प्रदेशाय पुरुषवेदमे वद्ध हुआ है, वह एक आवलीकाल तक अचलरूपसे रहता है । अर्थात् यह एक आवली स्वस्थानमे ही उदीरणा-वस्थासे परान्मुख प्राप्त होती है । उक्त चन्धावलीकालके अतिक्रान्त होनेपर पुरुषवेदके वद्ध प्रदेशायको संज्वलनक्रोधकी प्रथम कृष्टि और द्वितीय कृष्टिमे संक्रान्त करता है, अतएव वहाँपर वह कर्म-प्रदेशाय संक्रमणावलीमात्र काल तक अविचलितरूपसे अवस्थित रहता है, इसलिए यह दूसरी आवली उदीरणा-पर्यायसे विमुख उपलब्ध होती है । वह पुरुषवेदका संक्रान्त प्रदेशाय संज्वलनक्रोधकी प्रथम या द्वितीय कृष्टिमे एक आवली तक रहकर तत्पश्चात् द्वितीय कृष्टिसे क्रोधकी तृतीय कृष्टिमे और संज्वलनमानकी प्रथम और द्वितीय कृष्टिमे संक्रान्त किया जाता है, अतः यह संक्रमणरूप तीसरी आवली भी उदीरणाके अयोग्य है । पुरुषवेदका वह संक्रान्त प्रदेशाय एक आवली तक वहाँ रहकर पुनः मानकी द्वितीय कृष्टिसे मानकी तृतीय कृष्टिमें, तथा संज्वलन मायाकी प्रथम और द्वितीय कृष्टिमे संक्रान्त

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमे इससे आगे 'छसु आवलियासु गदासु उदीरणा त्ति' इतना टीकाश्र भी स्वरूप से मुद्रित है । (देखो पृ० १८६०-४१)

१ एसा ताव एका आवलिया उदीरणावत्थापरमुही समुवल्लभदे । जयध०

२ तम्हा एसा विदिया आवलिया उदीरणपज्जायविमुही समुवल्लभदि । जयध०

३ एसो तदियावलियविसयो दट्ठव्वो । जयध०

पहम-विदियकिट्टीसु च संकामिज्जदे' । १५१. मायाए विदियकिट्टीदो तम्हि आवलि-
यादिकंतं मायाए तदियकिट्टीए लोभस्स च पहम-विदियकिट्टीसु संकामिज्जदि । १५२.
लोभस्स विदियकिट्टीदो तम्हि आवलियादिकंतं लोभस्स तदियकिट्टीए संकामिज्जदि ।
१५३. एदेण कारणेण समयपवद्धो छसु आवलियासु गदासु उदीरिज्जदे ।

१५४. जहा एवं पुरिसवेदस्स समयपवद्धादो छसु आवलियासु गदासु उदीरणा
त्ति कारणं णिदरिसिदं, तथा एवं सेसाणं कम्माणं जदि वि एसो विधी णत्थि, तथा वि
अंतरादो पहमसमयकदादो पाए जे कम्मंसा वज्झंति तेसिं कम्माणं छसु आवलियासु
गदासु उदीरणा । १५५. एदं णिदरिसणमेत्तं तं पमाणं काहुं णिच्छयदो गेण्हियव्वंक्खी।

१५६. अंतरादो पहमसमयकदादो पाए णवुंसयवेदस्स आउत्तकरणं-उवसामगो

किया जाता जाता है । वह कर्म-प्रदेशाग्र यहाँ पर भी इस संक्रमणावलीमात्र कालतक
उदीरणाके अयोग्य है । अतः इस चौथी आवलीके भीतर भी उसकी उदीरणा नहीं हो
सकती है । वही पूर्वोक्त पुरुषवेदका संक्रान्त कर्म-प्रदेशाग्र उक्त कृष्टियोमे एक आवली तक
रहकर पुनः मायाकी द्वितीय कृष्टिसे मायाकी तृतीय कृष्टिमे और संज्वलन लोभकी प्रथम
वा द्वितीय कृष्टिमे संक्रान्त किया जाता है । उसकी यहाँ पर भी एक आवली कालतक
उदीरणा नहीं हो सकती है । यह पाँचवी आवली उदीरणाके अयोग्य है । पुरुष-
वेदका वही संक्रान्त हुआ कर्म-प्रदेशाग्र उक्त कृष्टियोमे एक आवली तक रहकर पुनः लोभ-
की द्वितीय कृष्टिसे लोभकी तीसरी कृष्टिमें संक्रान्त किया जाता है । वह यहाँ पर भी एक
आवली तक उदीरणाके योग्य नहीं होता । अतः यह छठी आवली भी उदीरणाके अयोग्य
बतलाई गई है । इस कारण नवीन बंधा हुआ समयप्रवद्ध छह आवलियोंके व्यतीत होने-
पर उदीरणाको प्राप्त किया जाता है । अतएव यह कहा गया है कि छह आवलियोंके व्यतीत
होनेपर ही उदीरणा होती है ॥ १४५-१५३ ॥

चूर्णिसू०—जिस प्रकारसे पुरुषवेदकी नवीन बंधे हुए समयप्रवद्धसे छह आव-
लियोंके व्यतीत हो जानेपर उदीरणा होती है, इस विषयका सकारण निदर्शन किया, उस
ही प्रकारसे यद्यपि शेष कर्मोंके संक्रमणादिकी यह विधि नहीं है, तथापि प्रथम समय किये
गये अन्तरसे इस स्थलपर जो कर्म-प्रकृतियाँ बंधती हैं, उन कर्म-प्रकृतियोंकी उदीरणा छह
आवलियोंके व्यतीत होनेपर ही होती है, ऐसा नियम है । यह उपर्युक्त वर्णन निदर्शन
अर्थात् दृष्टान्तमात्र है, सो उसे प्रमाण मानकर निश्चयसे यथार्थ रूपमे ग्रहण करना
चाहिए ॥ १५४-१५५ ॥

चूर्णिसू०—अन्तरकरणके प्रथम समयसे लेकर इस स्थल तक अर्थात् अन्तर्मुहूर्त

१ एसो चउत्थावलियविसयो । जयघ०

२ किमाउत्तकरण नाम ? आउत्तकरणमुज्जत्तकरण पारंभकरणमिदि एयट्ठो । तात्पर्येण नपु सक-
वेदमितः प्रभवत्युपशमयतीत्यर्थः । जयघ०

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमे इससे आगे 'सिस्समइचित्थारणट्ठं' इतना टीकाश भी सूत्ररूपसे
सुद्धित है । (देखो पृ० १८४२)

सेसाणं कम्माणं ण किञ्चि उवसामेदि । १५७. जं पडमसमये पदेसग्गमुवसामेदि, तं थोवं । जं विदियसमए उवसामेदि तमसंखेज्जगुणं । एवमसंखेज्जगुणाए सङ्गीए उवसामेदि जाव उवसंतं । १५८. णवुंसयवेदस्स पडमसमयउवसामगस्स जस्स वा तस्स वा कम्मस्स पदेसग्गस्स उदीरणा थोवा । १५९. उदयो असंखेज्जगुणो । १६०. णवुंसयवेदस्स पदेसग्गमण्णपयडिसंक्कामिज्जमाणयमसंखेज्जगुणं । १६१. उवसामिज्जमाणयमसंखेज्जगुणं । १६२. एवं जाव चरिमसमय-उवसंते त्ति ।

१६३. जाधे पाए मोहणीयस्स वंधो संखेज्जवस्स-ट्टिदिगो जादो, ताधे पाए ठिदिवंधे पुण्णे पुण्णे अण्णो संखेज्जगुणहीणो ट्टिदिवंधो* । १६४. मोहणीयवज्जाणं कम्माणं णवुंसयवेदमुवसामंतस्स ट्टिदिवंधे पुण्णे पुण्णे अण्णो ट्टिदिवंधो असंखेज्जगुण-हीणो । १६५. एवं संखेज्जेसु ट्टिदिवंधसहस्सेसु गदेसु णवुंसयवेदो उवसामिज्जमाणो उवसंतो ।

१६६. णवुंसयवेदे उवसंते से काले इत्थिवेदस्स उवसामगो । १६७. ताधे

तक अनिष्टवृत्तिकरणसयत नपुंसकवेदका आयुक्तकरण उपशामक होता है, अर्थात् यहाँसे आगे नपुंसकवेदका उपशमन प्रारम्भ करता है । शेष कर्मोंका किञ्चिन्मात्र भी उपशमन नहीं करता है । जिस प्रदेशाग्रको प्रथम समयमे उपशान्त करता है, वह अल्प है । जिसे द्वितीय समयमे उपशमित करता है, वह असंख्यातगुणा है । इस प्रकार असंख्यातगुणित श्रेणीसे नपुंसकवेदके उपशान्त होने तक उपशमाता है । प्रथमसमयवर्ती नपुंसकवेद-उपशामकके जिस किसी भी वेद्यमान कर्म-प्रकृतिके प्रदेशाग्रकी उदीरणा उपरिम पदोंकी अपेक्षा थोड़ी होती है । उससे जिस किसी भी वेद्यमान कर्मका उदय असंख्यातगुणा होता है । इससे अन्य प्रकृतिरूप संक्रमण किया जानेवाला नपुंसकवेदका प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है । इससे, उपशममान नपुंसकवेदका प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है । इस प्रकार नपुंसकवेदके उपशान्त होनेके अन्तिम समय तक अल्पबहुत्वका यही क्रम जानना चाहिए ॥ १५६-१६२ ॥

चूर्णिसू०—जिस स्थलपर मोहनीयकर्मका स्थितिवन्ध संख्यात वर्षकी स्थितिवाला होता है, वहाँसे लेकर प्रत्येक स्थितिवन्धके पूर्ण होनेपर अन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा हीन होता है । पुनः नपुंसकवेदका उपशमन करनेवाले जीवके मोहनीयके अतिरिक्त शेष कर्मोंके प्रत्येक स्थितिवन्धके पूर्ण होनेपर अन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा हीन होता है । इस प्रकार संख्यात सहस्र स्थितिवन्धोके व्यतीत होनेपर प्रतिसमय असंख्यातगुणित श्रेणीके द्वारा उपशमन किया जानेवाला नपुंसकवेद उपशान्त हो जाता है ॥ १६३-१६५ ॥

चूर्णिसू०—नपुंसकवेदके उपशान्त हो जानेपर तदनन्तरकालमे स्त्रीवेदका उपशामक होता है, अर्थात् स्त्रीवेदका उपशमन प्रारम्भ करता है । उस समयमें ही अपूर्व स्थितिकांडक

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमे 'ट्टिदिवंधे'के स्थानपर 'ट्टिदिवंधेण' और 'संखेज्जगुणहीणो'के स्थानपर 'असंखेज्जगुणहीणो' पाठ मुद्रित है । (देखो पृ० १८४४)

चेव अपुर्व्वं द्विदिखंडयमपुर्व्वमणुभागखंडयं द्विदिवंधो च पत्थिदो* । १६८ जहा णवुंसयवेदो उवसामिदो तेणेव क्रमेण इत्थिवेदं पि गुणसेढीए उवसामेदि । १६९. इत्थिवेदस्स उवसामणद्धाए संखेज्जदिभागो[†] गदे तदो णाणावरणीय-दंसणावरणीय-अंतराइयाणं संखेज्जवस्स-द्विदिगो वंधो भवदि । १७०. जाधे संखेज्जवस्स-द्विदिओ वधो, तस्समए चेव एदासिं तिण्हं मूलपयडीणं केवलणाणावरण-केवलदंसणावरणवज्जाओ सेसाओ जाओ उत्तरपयडीओ तासिमेगड्ढाणिओ वंधो । १७१. जत्तो पाए णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणं संखेज्जवस्सद्विदिओ वंधो तम्हि पुण्णे जो अण्णो द्विदिवंधो सो संखेज्जगुणहीणो । १७२. तम्हि समए सव्वकम्ममाणमप्पावहुअं भवदि । १७३ तं जहा । १७४. मोहणीयस्स सव्वत्थोवो द्विदिवंधो । १७५. णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणं द्विदिवंधो संखेज्जगुणो । १७६. णामा-गोदाणं द्विदिवंधो असंखेज्जगुणो । १७७. वेदणीयस्स द्विदिवंधो त्रिसेसाहिओ । १७८. एदेण क्रमेण संखेज्जेसु द्विदिवंधसहस्सेसु गदेसु इत्थिवेदो उवसामिज्जमाणो उवसामिदो ।

अपूर्व अनुभागकांडक और अपूर्व स्थितिवन्ध प्रारम्भ होता है । जिस क्रमसे नपुंसकवेदका उपशमन किया है, उसी क्रमसे गुणश्रेणीके द्वारा स्त्रीवेदको भी उपशमाता है । स्त्रीवेदके उपशमनकालके संख्यात भाग वीत जानेपर तत्पश्चात् ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय कर्मका वन्ध संख्यात वर्षकी स्थितिवाला हो जाता है । अर्थात् इस स्थलपर उक्त कर्मोंका स्थितिवन्ध असंख्यात वर्षसे घटकर संख्यात वर्ष-प्रमाण रह जाता है । (किन्तु शेष तीनों अघातिया कर्मोंका स्थितिवन्ध अव भी असंख्यात वर्षका होता है ।) जिस समय संख्यात वर्षकी स्थितिवाला वन्ध होता है, उसी समय ही इन तीनों घातिया मूल प्रकृतियोंकी केवलज्ञानावरण और केवलदर्शनावरण प्रकृतियोंको छोड़कर जो शेष उत्तर प्रकृतियाँ हैं, उनका एक-स्थानीय अनुभाग वन्ध होने लगता है । जिस स्थलपर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मका संख्यात वर्षकी स्थितिवाला वन्ध है, उसके पूर्ण होनेपर जो अन्य वन्ध होता है, वह पूर्वसे संख्यातगुणित हीन होता है । (किन्तु तीनों अघातिया कर्मोंका अभी भी असंख्यात वर्ष-प्रमाण ही स्थितिवन्ध होता है ।) उस समय सर्व कर्मोंके स्थितिवन्धका जो अल्पबहुत्व है, वह इस प्रकार है—मोहनीयका स्थितिवन्ध सबसे कम है । इससे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायका स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे नाम और गोत्रकर्मका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है । इससे वेदनीय कर्मका स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इस क्रमसे संख्यात सहस्र स्थितिवन्धोके वीत जानेपर उपशमन किया जानेवाला स्त्रीवेद उपशमित हो जाता है ॥ १६६-१७८ ॥

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमें इससे आगे 'जाधे इत्थिवेदमुवसामेदुमाढत्तो' इतना टीकाश भी स्वरूपसे मुद्रित है । (देखो पृ० १८४५)

† ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'संखेज्जदिभागो'के स्थानपर 'संखेज्जे भागो' पाठ मुद्रित है । (देखो पृ० १८४६)

१७९. इत्थिवेदे उवसंते [से] काले सत्तण्हं णोकसायाणं उवसामगो । १८०. ताथे चेत्र अण्णं द्विदिखंडयमण्णमणुभागखंडयं च आगाइदं । अण्णो च द्विदिवंधो पत्रद्धो । १८१. एवं संखेज्जेसु द्विदिवंधसहस्सेसु गदेसु सत्तण्हं णोकसायाणमुवसामणट्ठाए संखेज्जदिभागे* गदे तदो णामागोदवेदणीयाणं कम्ममाणं संखेज्जवस्सद्विदिगो वंधो । १८२. ताथे द्विदिवंधस्स अप्पावहुअं । १८३. तं जहा । १८४. सच्चत्थोवो मोहणीयस्स द्विदिवंधो । १८५. णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणं द्विदिवंधो संखेज्जगुणो । १८६. णामा-गोदाणं द्विदिवंधो संखेज्जगुणो । १८७. वेदणीयस्स द्विदिवंधो विसेसाहिओ ।

१८८. एदम्मि द्विदिवंधो पुण्णो जो अण्णो द्विदिवंधो सो सच्चकम्मणं पि अप्पण्णो द्विदिवंधादो संखेज्जगुणहीणो । १८९. एदेण कमेण द्विदिवंधसहस्सेसु गदेसु सत्त णोकसाया उवसंता । १९०. णवरि पुरिसवेदस्स वे आवलिया वंधा समयूणा अणुवसंता । १९१. तस्समए पुरिसवेदस्स द्विदिवंधो सोलस वस्साणि । १९२. संजलणाणं द्विदिवंधो वत्तीस वस्साणि । १९३. सेसाणं कम्मणं द्विदिवंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । १९४. पुरिसवेदस्स पहमद्विदीए जाथे वे आवलियाओ सेसाओ ताथे आगाल-पडिआगालो वोच्छिण्णो ।

चूर्णिसू०—स्त्रीवेदके उपशम हो जानेपर तदनन्तरकालमें शेष सातों नोकपायोका उपशामक होता है, अर्थात् उनका उपशमन प्रारम्भ करता है। उसी समयमें ही अन्य स्थितिकांडक और अन्य अनुभागकांडक घातके लिए ग्रहण करता है, तथा अन्य स्थितिवन्धको वॉधता है। इस प्रकार संख्यात सहस्र स्थितिवन्धोके वीतने पर और सातों नोकपायोके उपशमनकालका संख्यातवाँ भाग वीतने पर नाम, गोत्र और वेदनीय, इन तीनों अघातिया कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात वर्षोंका होने लगता है। उस समय स्थितिवन्धका अल्पवहुत्व इस प्रकार है—मोहनीयका स्थितिवन्ध सबसे कम है। इससे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायका स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे नाम और गोत्रका स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे वेदनीयका स्थितिवन्ध विशेष अधिक होता है ॥१७९-१८७॥

चूर्णिसू०—इस स्थितिवन्धके पूर्ण होनेपर जो अन्य स्थितिवन्ध होता है, वह सर्वा कर्मोंका अपने-अपने पूर्व स्थितिवन्धसे संख्यातगुणा हीन होता है। इस क्रमसे सहस्रों स्थितिवन्धोके व्यतीत होनेपर (उपशमन की जानेवाली) सातों नोकपाय भी उपशान्त हो जाती हैं, अर्थात् उनका उपशम सम्पन्न हो जाता है। केवल पुरुषवेदके एक समय कम दो आवर्तीमात्र समयप्रवद्ध अभी अनुपशान्त रहते हैं। उस समयमें पुरुषवेदका स्थितिवन्ध सोलह वर्ष है, चारों संज्वलनकपायोका स्थितिवन्ध वत्तीस वर्ष है और शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात सहस्र वर्ष है। पुरुषवेदकी प्रथमस्थितिमें जब दो आवलियाँ शेष रहती हैं, तब आगाल और प्रत्यागाल व्युच्छिन्न हो जाते हैं ॥१८८-१९४॥

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'संखेज्जदिभागे'के स्थानपर 'संखेज्जे भागे' ऐसा पाठ मुद्रित है। (देखो पृ० १८४७)

१९५. अंतरकदादो पाए छण्णोकसायाणं पदेसग्गं ण संखुहदि पुरिसवेदे, कोहसंजलणे संखुहदि । १९६. जो पढमसमय-अवेदो तस्स पढमसमय-अवेदस्स संतं पुरिसवेदस्स दो आवलियबंधा दुसमयूणा अणुवसंता । १९७. जे दो आवलियबंधा दुसमयूणा अणुवसंता तेसिं पदेसग्गमसंखेज्जगुणाए सेहीए उवसायिज्जदि । १९८. पर-पयडीए चुण अघापवत्तसंक्रमेण संकामिज्जदि । १९९. पढमसमय-अवेदस्स संकामिज्जदि बहुअं । से काले विसेसहीणं । २००. एस क्रमो एयसमयपवद्धस्स चेव ।

२०१. पढमसमय-अवेदस्स संजलणाणं ठिदिबंधो वत्तीस वस्साणि अंतोसुहुत्तु-

विशेषार्थ—द्वितीय स्थितिके प्रदेशाग्रका प्रथमस्थितिमे आना 'आगाल' कहलाता है और प्रथमस्थितिके प्रदेशाग्रके द्वितीयस्थितिमे जानेको प्रत्यागाल कहते हैं । इसप्रकार उत्कर्षण-अपकर्षणके वशसे प्रथम-द्वितीयस्थितिके प्रदेशाग्रोका परस्पर विषय-संक्रमण होनेरूप आगाल-प्रत्यागाल पुरुषवेदकी प्रथमस्थितिके समयाधिक दो आवलीकाल शेष रहने तक ही होते हैं । जब पूरा दो आवलीकाल पुरुषवेदकी प्रथमस्थितिका अवशिष्ट रह जाता है, तब आगाल और प्रत्यागालका होना बन्द हो जाता है, ऐसा अभिप्राय यहाँ जानना चाहिए । अथवा उत्पादानुच्छेदका आश्रय लेकर जयधवलाकार सूत्रानुसार ऐसा भी अर्थ करनेकी प्रेरणा करते हैं कि आवली-प्रत्यावली काल तक तो आगाल-प्रत्यागाल होते हैं, किन्तु तदनन्तर समयमे उनका विच्छेद हो जाता है । इसी स्थलपर पुरुषवेदकी गुणश्रेणीका होना भी बन्द हो जाता है । केवल प्रत्यावलीसे ही असंख्यात समयप्रवद्धोकी प्रतिक्षण उदीरणा होती है ।

चूणिंसू०—अन्तर करनेके पश्चात् हास्यादि छह नोकपायोके प्रदेशाग्रको पुरुषवेद-मे संक्रमण नहीं करता है, किन्तु संज्वलनक्रोधमे संक्रमण करता है । (क्योकि, यहाँ आनु-पूर्वी संक्रमण पाया जाता है ।) जो प्रथम-समयवर्ती अपगतवेदवाला जीव है, उस प्रथम समयवाले अपगतवेदीके पुरुषवेदका नवक समयप्रवद्धरूप सत्त्व दो समय कम दो आवली-प्रमाण है, वह यहाँ अनुपशान्त रहता है । जो दो समय कम दो आवली-प्रमाण नवक समयप्रवद्ध अनुपशान्त रहते हैं, उनके प्रदेशाग्रको वह यहाँपर असंख्यातगुणित श्रेणीके द्वारा उपशान्त करता है । अर्थात् वन्वावलीके अतिक्रांत होनेपर पुरुषवेदके नवीन वद्ध समय-प्रवद्धोका उपशमन-काल आवलीमात्र है, ऐसा अभिप्राय यहाँ जानना चाहिए । वह उनके प्रदेशाग्रको स्वस्थानमे ही उपशान्त नहीं करता है, किन्तु अधःप्रवृत्तसंक्रमणके द्वारा पर-प्रकृतिमे अर्थात् संज्वलनक्रोधमे संक्रमण करता है । (क्योकि पुरुषवेदके द्रव्यका संक्रमण अन्यत्र हो ही नहीं सकता है ।) प्रथमसमयवर्ती अपगतवेदी जीवके संक्रमण किया जानेवाला प्रदेशाग्र बहुत है और तदनन्तरकालमें विशेष हीन है । यह क्रम एक समयप्रवद्धका ही है । (क्योकि नाना समयप्रवद्धकी विवक्षामे वृद्धि-हानिके योगमे चतुर्विध वृद्धि और चतुर्विध हानिरूप भी क्रम देखा जाता है ।) ॥१९५-२००॥

चूणिंसू०—प्रथमसमयवर्ती अपगतवेदीके चारो संज्वलन कपायोका स्थितिवन्ध

णाणि । सेसाणं कम्माणं ढ्ढिदिवंधो संखेज्जाणि वस्समहस्साणि । २०२. पढमसमय-
अवेदो तिविहं कोहमुवसापेइ । २०३. मा चेव पोगणिया पढमढ्ढिदी हवदि । २०४.
ढ्ढिदिवंधे पुण्णे पुण्णे संजलणाणं ढ्ढिदिवंधो विसेसहीणां । २०५. सेसाणं कम्माणं ढ्ढिदि-
बंधो संखज्जगुणहीणां । २०६. एदेण कमेण जाथे आवलि-पडिआवलियाओ सेमाओ
कोहसंजलणस्स ताथे विदियढ्ढिदीदो पढमढ्ढिदीदो आगाल-पडिआगालो वाच्छिण्णो ।
२०७. पडिआवलियादो चेव उदीरणा कोहसंजलणस्स । २०८. पडिआवलियाए
एकमिह समए सेसे कोहसंजलणस्स जहणिया ढ्ढिदि-उदीरणा । २०९. चदुण्हं संजल-
णाणं ढ्ढिदिवंधो चतारि मामा । २१०. सेसाणं कम्माणं ढ्ढिदिवंधो संखेज्जाणं वस्स-
सहस्साणि । २११. पडिआवलिया उदयावलियं पविममाणा पविट्ठा^१ । २१२. ताथे
चेव कोहसंजलणे दो आवलियवथे दुमपयूणे मोत्तूण सेसा तिविहकोधपदेसा उवसामिज्ज-
माणा उवसंता । २१३. कोहसंजलणं दुविहो कोहा ताव संखुहदि जाव कोहसंजलणस्स

अन्तर्मुहूर्त कम वत्तीस वर्ष है । शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात सहस्र वर्ष है । प्रथम-
समयवर्ती अपगतवेदी जीव प्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण और संज्वलनरूप तीन
प्रकारके क्रोधको उपशमाता है, अर्थात् यहाँपर तीनों क्रोधोंका उपशमन प्रारंभ करता है ।
वही पुरानी प्रथमस्थिति होती है, अर्थात् अन्तर प्रारम्भ करते हुए जो पहले क्रोधसंज्व-
लनकी प्रथमस्थिति थी, वही यहाँ पर अवस्थित रहती है, कोई अपूर्व स्थिति यहाँ नहीं
की जाती है । प्रत्येक स्थितिवन्धके पूर्ण होने पर संज्वलन-चतुष्कका अन्य स्थितिवन्ध
विशेष हीन होता है और शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणित हीन होता है । इस
क्रमसे जब संज्वलनक्रोधकी आवली और प्रत्यावली ही शेष रहती है, तब द्वितीयस्थिति
और प्रथमस्थितिसे आगाल-प्रत्यागाल व्युच्छिन्न हो जाते हैं । उस समय प्रत्यावलीसे अर्थात्
उदयावलीसे बाहिरी दूसरी आवलीसे ही संज्वलनक्रोधकी उदीरणा होती है । प्रत्यावलीमें
एक समय शेष रहने पर संज्वलनक्रोधकी जघन्य स्थिति-उदीरणा होती है । इस समय
चारों संज्वलनकपायोंका स्थितिवन्ध चार भास है । तथा शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात
सहस्र वर्ष है । इस समय प्रत्यावली उदयावलीमें प्रवेश करती हुई प्रविष्ट हो चुकी ।
अर्थात् क्रोधसंज्वलनकी प्रथमस्थिति उदयावलीमात्र अवशिष्ट रह जाती है । इसे ही
उच्छिष्टावली कहते हैं । उसी समय ही दो समय कम दो आवलीमात्र संज्वलनक्रोधके समय-
प्रवद्धोंको छोड़कर प्रतिसमय असंख्यातगुणित श्रेणिके द्वारा उपशान्त किये जानेवाले तीन
प्रकारके क्रोध-प्रदेशाद्य प्रशस्तोपशमनासे उपशान्त होते हैं । संज्वलनक्रोधमें प्रत्याख्यानावरण
और अप्रत्याख्यानावरणरूप दो प्रकारके क्रोधको तब तक संक्रमण करता है, जब तक कि
संज्वलनक्रोधकी प्रथमस्थितिमें तीन आवलियाँ अवशिष्ट रहती हैं । एक समय कम तीन

१ णवरि पडिआवलियाए उदयावलियं पविट्ठाए आवलियमेत्ती च कोहसंजलणस्स पढमढ्ढिदी
परिसिट्ठा । एसा च उच्छिट्ठावलिया णाम । जयध०

पहमट्टिदीए तिण्णि आवलियाओ सेसाओ त्ति । २१४ तिसु आवलियासु समयूणासु सेसासु तत्तो पाए दुविहो कोहो कोहसंजलणे* ण संखुभदि ।

२१५ जाधे कोहसंजलणस्स पहमट्टिदीए समयूणावलिया सेसा, ताधे चेव कोहसंजलणस्स बंधोदया वोच्छिण्णा । २१६. माणसंजलणस्स पहमसमयवेदगो पहमट्टिदिकारओ च । २१७. पहमट्टिदिं करेमाणो उदये पदेसग्गं थोवं देदि, से काले असंखेज्जगुणं । एवमसंखेज्जगुणाए सेठीए जाव पहमट्टिदिचरिमसमओ त्ति । २१८ विदियट्टिदीए जा आदिट्टिदी निस्से असंखेज्जगुणहीणं तदो विसेसहीणं चेव । २१९. जाधे कांधस्स बंधोदया वोच्छिण्णा ताधे पाये माणस्स तिविहस्स उवसामगो । २२०. ताधे संजलणाणं ट्टिदिवंधो चत्तारि मासा अंतामुहुत्तेण ऊणया । सेसाणं कम्मणं ट्टिदिवधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि ।

२२१. माणसंजलणस्स पहमट्टिदीए तिसु आवलियासु समयूणासु सेसासु दुविहो माणो माणसंजलणे ण संखुभदि । २२२. पडिआवलियाए सेसाए आगाल-

आवलियोंके शेष रहने पर उस स्थल पर दो प्रकारके क्रोधको संज्वलनक्रोधमे संक्रान्त नहीं करता है । (किन्तु संज्वलनमानमे संक्रान्त करता है ।) ॥२००-२१४॥

चूर्णिसू०—जिस समय संज्वलनक्रोधकी प्रथमस्थितिमे केवल एक समय कम आवलीकाल शेष रहता है, उस समय संज्वलनक्रोधका बन्ध और उदय व्युच्छिन्न हो जाता है । उसी समय वह संज्वलनमानका प्रथम समयवेदक और प्रथमस्थितिका कारक भी होता है । प्रथमस्थितिको करता हुआ वह उदयमें अल्प प्रदेशाग्रको देता है और तदनन्तर कालमे असंख्यातगुणित प्रदेशाग्रको देता है । इस प्रकार असंख्यातगुणित श्रेणीके द्वारा प्रथमस्थितिके अन्तिम समय तक देता चला जाता है । द्वितीयस्थितिकी जो आदि स्थिति है उसमे असंख्यातगुणित हीन प्रदेशाग्रको देता है । तदनन्तर विशेष हीन प्रदेशाग्र नो देता है । (यह क्रम चरम स्थितिमें अतिस्थापनावली कालके अवशिष्ट रहने तक जारी रहता है ।) जिस स्थलपर संज्वलनक्रोधके बन्ध और उदय व्युच्छिन्न होते हैं, उस स्थलपर ही वह तीनों प्रकारके मानका उपशामक होता है, अर्थात् उनका उपशमन प्रारम्भ करता है । उस समय चारो संज्वलनोका स्थितिवन्ध अन्तर्मुहूर्त कम चार मास है । शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात सहस्र वर्षप्रमाण है ॥२१५-२२०॥

चूर्णिसू०—संज्वलनमानकी प्रथमस्थितिमे एक समय कम तीन आवलियोंके शेष रहनेपर दो प्रकारके मानको संज्वलनमानमे संक्रान्त नहीं करता है । (किन्तु संज्वलनमायाकपायमे संक्रान्त करता है । यहाँपर भी प्रत्यावलीके शेष रह जानेपर आगाल और प्रत्यागाल

* ताम्रपत्रगली प्रतिमे 'दुविहो कोहो काहसंजलणे' के स्थानपर 'दुविह कोह (हो) संजलणे' ऐसा पाठ मुद्रित है । (देखो पृ० १८५३)

* ताम्रपत्रगली प्रतिमे 'माणसंजलणे'के स्थानपर केवल 'संजलणे' पाठ मुद्रित है । (देखो पृ० १८५४)

पडिआगालो वोच्छिण्णो । २२३. पडिआवलियाए एकम्हि समए सेसे माणसंजलणस्स दो आवलियसमयूणवंधे मोत्तूण सेसं तिविहस्स मागस्स पदेससंतकम्मं चरिमसमय-उवसंतं । २२४. ताथे माण-माया-लोभसंजलणाणं दुमासड्ढिदिगो वंधो । २२५. सेसाणं कम्मणं ढ्ढिदिवंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि ।

२२६. तदो से काले मायासंजलणमोक्कड्डियूण मायासंजलणस्स पहमड्ढिदिं करेदि । २२७. ताथे पाए तिविहाए मायाए उवसामगो । २२८. माया-लोभसं-जलणाणं ढ्ढिदिवंधो दो मासा अंतोमुहुत्तेण ऊणया । २२९. सेसाणं कम्मणं ढ्ढिदि-बंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । २३०. सेसाणं कम्मणं ढ्ढिदिखंडयं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो । २३१. जं तं माणसंतकम्ममुदयावलियाए समयूणाए तं मायाए त्थिवुकसंकमेण उदए विपच्चिहिदि ।

२३२. जे माणसंजलणस्स दोण्हमावलियाणं दुसमयूणाणं समयपवद्धा अणुवसंता ते गुणसेहीए उवसामिज्जमाणा दोहिं आवलियाहिं दुसमयूणाहिं उवसामिज्जिहंति ।

व्युच्छिन्न हो जाते हैं । प्रत्यावलीमें एक समय शेष रहनेपर संज्वलनमानके एक समय कम दो आवलीप्रमाण समयप्रवद्धोको छोड़कर शेष तीन प्रकारके मानका प्रदेशसत्त्व अन्तिम समयमें उपशान्त हो जाता है । अर्थात् इस स्थलपर तीनो प्रकारके मानका स्थितिसत्त्व, अनुभाग-सत्त्व और प्रदेशसत्त्व संज्वलनमानके नवकवद्ध उच्छिष्टावलीको छोड़कर सर्वोपशमनाके द्वारा उपशमको प्राप्त हो जाता है । उस समय संज्वलनमान, माया और लोभकषायका स्थितिवन्ध दो मास है और शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात सहस्र वर्ष है ॥२२१-२२५॥

चूर्णिसू०—इसके एक समय पश्चात् संज्वलनमायाका अपकर्षण कर संज्वलन-मायाकी प्रथमस्थितिको करता है, अर्थात् मायाकषायका वेदक हो जाता है । इस स्थल पर वह तीन प्रकारकी मायाका उपशामक होता है, अर्थात् मायाका उपशमन प्रारम्भ करता है । उस समय संज्वलनमाया और संज्वलनलोभका स्थितिवन्ध एक अन्तर्मुहूर्तसे कम दो मास है । शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात सहस्र वर्ष है । इसी समय शेष कर्मोंका स्थितिकांडक पल्योपमका संख्यातवाँ भाग है । चरमसमयवर्ती मानवेदकके द्वारा जो मान-कषायका स्थितिसत्त्व एक समय कम उदयावलीप्रमाण अवशिष्ट रहा था, वह स्तिवुक-संक्रमणके द्वारा मायाकषायके उदयमें विपाकको प्राप्त होगा ॥२२६-२३१॥

विशेषार्थ—विवक्षित प्रकृतिका उदयस्वरूपसे समान स्थितिवाली अन्य प्रकृतिमें जो संक्रमण होता है, उसे स्तिवुकसंक्रमण कहते हैं ।

चूर्णिसू०—संज्वलनमानके जो दो समय कम दो दो आवलीप्रमाण समयप्रवद्ध अनुपशान्त है, वे गुणश्रेणीके द्वारा उपशमको प्राप्त होते हुए दो समय कम दो आवली-प्रमाणकालसे उपशमको प्राप्त हो जावेंगे । जो कर्म-प्रदेशाग्र संज्वलन मायाकषायमें संक्रमण

? जो त्थिवुकसंकमो णाम ? उदयसरुवेण समट्ठदीए जो संक्रमो सो त्थिवुकसंकमो त्ति भण्णदे ।
जयध०

२३३. जं पदेसगं मायाए संक्रमदि तं विसेसहीणाए सेडीए संक्रमदि । २३४. एसा परूवणा मायाए पढमसमग-उवसामगस्स । २३५. एत्तो ङ्खिखंडयसहस्साणि बहूणि गदाणि । तदो मायाए पहमङ्खिदीए तिसु आवलियासु समयूणासु सेसासु दुविहा माया मायासंजलणे ण संखुहदि, लोहसंजलणे च संखुहदि । २३६. पडिआवलियाए सेसाए आगाल-पडिआगालो वोच्छिणो ।

२३७. समयाहियाए आवलियाए सेसाए मायाए चरिमसमय-उवसामगो मोत्तूण दो आवलियवंधे समयूणे । २३८. ताथे माया-लोभसंजलणाणं ङ्खिदिवंधो मासो । २३९. सेसाणं कम्मणं ङ्खिदिवंधो संखेज्जाणि वस्साणि । २४०. तदो से काले माया-संजलणस्स वंधोदया वोच्छिणणा । २४१. मायासंजलणस्स पहमङ्खिदीए समयूणा आव-लिया सेसा त्थिवुकसंक्रमेण लोभे विपच्चिहिदि ।

२४२. ताथे चेव लोभसंजलणमोक्खियुण लोभस्स पहमङ्खिदिं करेदि । २४३. एत्तो पाए जा लोभवेदगद्दा होदि, तिस्से लोभवेदगद्दाए वेत्तिभागा एत्थियमेत्ती लोभ-स्स पहमङ्खिदी कदा । २४४. ताथे लोभसंजलणस्स ङ्खिदिवंधो मासो अंतोमुहुत्तेण उणो । २४५. सेसाणं कम्मणं ङ्खिदिवंधो संखेज्जाणि वस्साणि २४६. तदो संखेजेहि

करता है, वह विशेष हीन श्रेणीके द्वारा संक्रमण करता है । यह प्ररूपणा मायाकपायके प्रथमसमयवर्ती उपशामककी है । इसके पश्चात् अनेक सहस्र स्थितिकाडक व्यतीत होते हैं । तब मायामंज्वलनकी प्रथमस्थितिमें एक समय कम तीन आवलियोंके शेष रह जाने-पर दो प्रकारकी मायाको संज्वलनमायामें संक्रान्त नहीं करता है, किन्तु संज्वलनलोभमें संक्रान्त करता है । यहाँ पर भी प्रत्यावलीके शेष रह जानेपर आगाल और प्रत्यागाल व्युच्छिन्न हो जाते हैं ॥२३२-२३६॥

चूर्णिसू०—एक समय अधिक आवलीके शेष रहनेपर, एक समय कम दो आवली-प्रमाण नवकवद्ध समयप्रवट्टोको छोड़कर शेष तीनों प्रकारकी मायाका चरमसमयवर्ती उप-शामक होता है । उस समय संज्वलनमाया और लोभका स्थितिवन्ध एक मास है । शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात वर्ष है । तदनन्तर समयमें संज्वलनमायाके वन्ध और उदय व्युच्छिन्न हो जाते हैं । संज्वलनमायाकी प्रथमस्थितिमें जो एक समय कम एक आवली शेष रही है, वह स्तियुकसंक्रमणके द्वारा संज्वलनलोभमें विपाकको प्राप्त होगी ॥२३७-२४१॥

चूर्णिसू०—उसी समय संज्वलनलोभका अपकर्षण कर लोभकी प्रथम स्थितिको करता है, अर्थात् उसका वेदन करता है । इस स्थलपर जो लोभका वेदककाल है, उस लोभ-वेदक-कालके दो त्रिभाग (३) प्रमाण लोभकी प्रथमस्थिति की जाती है । अर्थात् लोभकी प्रथमस्थितिका प्रमाण लोभवेदककालके दो-घटे तीन भाग है । उस समय संज्वलनलोभका स्थितिवन्ध एक अन्तर्मुहूर्त कम एक मास है । शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात वर्ष है । तत्पश्चात् संख्यात सहस्र स्थितिवन्धोंके वीतनेपर उस लोभकी प्रथमस्थितिका अर्ध भाग

द्विदिवंधसहस्सेहिं गदेहिं तिस्से लोभस्स पहमद्विदीए अद्धं गदं । २४७. तदो अद्धस्स चरिमसमए लोहसंजलणस्स द्विदिवंधो दिवसपुधत्तं । २४८. सेसाणं कम्माणं द्विदिवंधो वस्ससहस्सपुधत्तं । २४९. ताधे पुण फद्दयगदं संतकम्मं ।

२५०. से काले विदिय-तिभागस्स पहमसमए लोभसंजलणाणुभागसंतकम्मस्स जं जहण्णफद्दयं तस्स हेडुदो अणुभागकिट्ठीओ करेदि । २५१. तासिं पमाणमेयफ-द्दयवग्गणाणमणंतभागोः । २५२. पहमसमए बहुआओ किट्ठीओ कदाओ, से काले अपुव्वाओ असंखेज्जगुणहीणाओ । एवं जाव विदियस्स तिभागस्स चरिमसमओ त्ति असंखेज्जगुणहीणाओ । २५३. जं पदेसग्गं पहमसमए किट्ठीओ करंतेण किट्ठीसु णिक्खित्तं त थावं, से काले असंखेज्जगुणं । एवं जाव चरिमसमया त्ति असंखेज्जगुणं । २५४. पहमसमए जहण्णियाए किट्ठीए पदेसग्गं बहुअं, विदियाए पदेसग्गं विसेसहीणं । एवं जाव चरिमाए किट्ठीए पदेसग्गं तं विसेसहीणं । २५५. विदियसमए जहण्णियाए किट्ठीए पदेसग्गमसखेज्जगुणं, विदियाए विसेसहीणं । एवं जाव ओधुकस्सियाए विसेस-

व्यतीत हो जाता है । उस अर्ध भागके अन्तिम समयमें संज्वलनलोभका स्थितिवन्ध दिवस-पृथक्त्व होता है । तथा शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध सहस्र वर्षपृथक्त्व होता है । उस समय अनुभागसम्बन्धी सत्त्व स्पर्धकगत है । इससे आगे कृष्टिगत सत्त्व होता है ॥२४२-१४९॥

चूर्णिसू०—तदनन्तर कालमें द्वितीय त्रिभागके प्रथम समयमें संज्वलनलोभके अनु-भागसत्त्वका जो जघन्य स्पर्धक है, उसके नीचे अनन्तगुणहानिरूपसे अपवर्तित कर अनुभाग-सम्बन्धी सूक्ष्म कृष्टियोंको करता है । (क्योकि उपशमश्रेणीमें वादरकृष्टियाँ नहीं होती है ।) उन अनुभागकृष्टियोंका प्रमाण एक स्पर्धककी वर्गणाओका अनन्तवाँ भाग है । प्रथम समयमें बहुत अनुभागकृष्टियाँ की जाती है । दूसरे समयमें होनेवाली अपूर्व कृष्टियाँ असंख्यातगुणित हीन है । इस प्रकार द्वितीय त्रिभागके अन्तिम समय तक असंख्यातगुणी हीन होती जाती है । कृष्टियोंको करते हुए प्रथम समयमें जिस प्रदेशाग्रको कृष्टियोंमें निक्षिप्त करता है, वह सबसे कम है । इसके अनन्तरकालमें असंख्यातगुणित प्रदेशाग्र निक्षिप्त करता है । इस प्रकारसे अन्तिम समय तक असंख्यातगुणित प्रदेशाग्रको निक्षिप्त करता जाता है । प्रथम समयमें जघन्य कृष्टिमें बहुत प्रदेशाग्रको देता है, उससे ऊपरकी द्वितीय कृष्टिमें विशेष हीन प्रदेशाग्र-को देता है, इस प्रकार अन्तिम कृष्टि तक विशेष हीन प्रदेशाग्रको देता है । द्वितीय समयमें जघन्य कृष्टिमें प्रदेशाग्र (प्रथम समयमें की गई प्रथम कृष्टिके प्रदेशाग्रसे) असंख्यातगुणित देता है, द्वितीय कृष्टिमें विशेष हीन देता है । इस प्रकार द्वितीय समय-सम्बन्धी समस्त कृष्टियोंमें ओघ-उत्कृष्ट वर्गणा तक विशेष हीन देता है । [तदनन्तर जघन्य स्पर्धककी आदि

-- ताम्रपत्रवाली प्रतिमें इससे आगे 'अभवसिद्धिपहितो अणंतगुणं सिद्धाणंतभाणवग्गणाहिं पगं फद्दयं होदि' इतना टीकाश भी सूत्ररूपसे मुद्रित है । (देखो पृ० १८५९)

हीणं । [२५६. तदो जहण्णफहयादिवग्गणाए अणंतगुणहीणं, तत्तो विसेसहीणं ।]
२५७. जहा विदियसमए तथा सेसेसु समएसु ।

२५८ तिक्व मंददाए जहण्णिया किट्ठी थोवा । विदियकिट्ठी अणंतगुणा ।
तदिया किट्ठी अणंतगुणा । एवमणंतगुणाए सेहीए गच्छदि जाव चरिमकिट्ठि त्ति ।
२५९. एमो विदिय-तिभागो किट्ठीकरणद्वा णाम । २६०. किट्ठीकरणद्वासंखेज्जेसु
भागेषु गदेषु लोभसंजलणस्स अतोप्पुहुत्तट्ठिदिगो वंधो । २६१. तिण्हं घादिकम्माणं
ठिदिवंधा दिवसपुधत्तं । २६२. जाव किट्ठीकरणद्वाए दुचरिमो ठिदिवंधो ताधे णामा-
गोद-वेदणीयाणं संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि ठिदिवंधो । २६३. किट्ठीकरणद्वाए चरिमो
ठिदिवंधो लोहसंजलणस्स अंतोप्पुहुत्तिओ । २६४. णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाण-
महोरत्तस्संतो । २६५. णामा-गोद-वेदणीयाणं वेण्हं वस्साणमंतो । २६६. तिससे किट्ठी-
करणद्वाए तिसु आवलियासु समयूणासु सेसासु दुविहो लोहो लोहसंजलणे ण संका-
मिज्जदि, सत्थाणे चैव उवसामिज्जदि ।

२६७ किट्ठीकरणद्वाए आवलिय-पडिआवलियाए सेसाए आगाल-पडिआ-
गालो वोच्छिण्णो । २६८. पडिआवलियाए एकम्हि समए ऐसे लोहसंजलणस्स जह-
ण्णिया ट्ठिदि-उदीरणा । २६९. ताधे चैव जाओ दो आवलियाओ समयूणाओ एत्तिय-
वर्गणामें अनन्तगुणित हीन देता है, तत्पश्चात् विशेष हीन देता है ।] जैसा क्रम द्वितीय
समयमें है, वैसा ही क्रम शेष रामयामे भी जानना चाहिए ॥२५०-२५७॥

चूर्णिसू०—अथ कृष्टियोकी तीव्रता-मन्दतासम्बन्धी अल्पवहुत्व कहते हैं—जघन्य
कृष्टि स्तोक है । द्वितीय कृष्टि अनन्तगुणी है । तृतीय कृष्टि अनन्तगुणी है । इस प्रकार
अन्तिम कृष्टि तक अनन्तगुणित श्रेणीका यह क्रम चला जाता है । इस द्वितीय त्रिभागका
नाम कृष्टिकरणकाल है । कृष्टिकरणकालके संख्यात भागोंके वीत जानेपर संज्वलनलोभका
स्थितिवन्ध अन्तर्मुहूर्त-प्रमाण होता है । तीन घातिया कर्मोंका स्थितिवन्ध दिवसपृथक्त्व-
प्रमाण होता है । कृष्टिकरणकालके द्विचरम स्थितिवन्ध तक नाम, गोत्र और वेदनीय कर्म-
का स्थितिवन्ध संख्यात सहस्र वर्ष होता है । कृष्टिकरणकालके अन्तिम समयमें संज्वलन-
लोभका स्थितिवन्ध अन्तर्मुहूर्तमात्र होता है । ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायका
स्थितिवन्ध कुछ कम अहो-रात्रप्रमाण होता है । नाम, गोत्र और वेदनीयका स्थितिवन्ध
कुछ कम दो वर्ष-प्रमाण होता है । उस कृष्टिकरणके कालमें एक समय कम तीन आव-
लियोंके शेष रहने पर दोनों मध्यम लोभ, संज्वलनलोभमें संक्रमण नहीं करते हैं, किन्तु
स्वस्थानमें ही उपशमको प्राप्त होंगे ॥२५८-२६६॥

चूर्णिसू०—कृष्टिकरणकालमें आवली और प्रत्यावलीके शेष रहने पर आगाल
और प्रत्यागाल व्युच्छिन्न हो जाते हैं । प्रत्यावलीमें एक समय शेष रहने पर संज्वलन-
लोभकी जघन्य स्थिति-उदीरणा होती है । उसी समयमें जो एक समय कम दो आवलियाँ

मेत्ता लोहसंजलणस्स समयपवद्धा अणुवसंता; ❀ किट्ठीओ सव्वाओ चेव अणुवसंताओ । तव्वदिरित्तं लोहसंजलणस्स पदेसग्गं उवसंतं दुव्विहो लोहो सव्वो चेव उवसंतो गवक-
वंधुच्छिद्धावलियवज्जं २७०. एसो चेव चरिमसमयवादरसांपराइयो ।

२७१. से काले पढमसमयसुहुमसांपराइयो जादो । २७२. तेण पढमसमय-
सुहुमसांपराइएण अण्णा पढमट्ठिदी कदा । २७३. जा पढमसमयलोभवेदगस्स पढम-
ट्ठिदी तिस्से पढमट्ठिदीए इमा सुहुमसांपराइयस्स पढमट्ठिदी दुभागो थोवूणओ । २७४.
पढमसमयसुहुमसांपराइयो किट्ठीणमसंखेज्जे भागे वेदयदि । २७५ जाओ अपढम-
अचरिमेसु समएसु अपुव्वाओ किट्ठीओ कदाओ ताओ सव्वाओ पढमसमए उदिण्णाओ ।
२७६. जाओ पढमसमए कदाओ किट्ठीओ तासिमग्गगादो असंखेज्जदिभागं मोत्तूण ।
२७७. जाओ चरिमसमए कदाओ किट्ठीओ तासिं च जहण्णकिट्ठीप्पहुडि असंखेज्ज-
दिभागं मोत्तूण सेसाओ सव्वाओ किट्ठीओ उदिण्णाओ । २७८. ताधे चेव सव्वासु
किट्ठीसु पदेसग्गमुवसामेदि गुणसेवीए ।

है, एतावन्मात्र संज्वलनलोभके समयप्रवद्ध अनुपशान्त रहते हैं और कृष्टियाँ सर्व ही अनुपशान्त रहती है । इनके अतिरिक्त नवकप्रवद्ध और उच्छिष्टप्रावलीको छोड़कर संज्वलन-लोभका सर्व प्रदेशाग्र उपशान्त हो जाता है । प्रत्याख्यानावरणीय और अप्रत्याख्यानावरणीय दोनों प्रकारका सर्व लोभ उपशान्त हो जाता है । यह ही अन्तिमसमयवर्ती वादर साम्परायिक संयत है ॥२६७-२७०॥

चूर्णिषु०—इसके पश्चात् अनन्तर समयमे वह प्रथमसमयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिक संयत हो जाता है । उस प्रथमसमयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिकसंयतके द्वारा अन्य प्रथम-स्थिति की जाती है । प्रथमसमयवर्ती लोभवेदकके जो समस्त लोभ वेदककालके दो त्रिभागसे कुछ अधिक प्रमाणवाली प्रथमस्थिति थी, उस प्रथमस्थितिके कुछ कम दो भाग प्रमाण यह प्रथम स्थिति सूक्ष्मसाम्परायिककी होती है । प्रथमसमयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिक संयत कृष्टियोंके असख्यात बहु भागोका वेदन करता है । अप्रथम-अचरिम समयोमे अर्थात् प्रथम और अन्तिम समयको छोड़कर शेष समयोमे जो अपूर्व कृष्टियों की है, वे सब प्रथम समयमे उदीर्ण हो जाती है । जो कृष्टियाँ प्रथम समयमे की गई है उनके अग्राग्रसे अर्थात् ऊपरसे असंख्यातवे भागको छोड़कर और जो कृष्टियाँ अन्तिम समयमे की गई है, उनके जघन्य कृष्टिसे लेकर असंख्यातवे भागको छोड़कर शेष सब कृष्टियाँ उदीर्ण हो जाती हैं । उसी समयमे असंख्यातगुणित श्रेणीके द्वारा सर्व कृष्टियोमें स्थित प्रदेशाग्रको उपशान्त करता है ॥२७१-२७८॥

❀ ताम्रपत्रवाली प्रतिमे किट्ठीओ सव्वाओ' से लेकर आगेके समस्त सूत्राशको टीकामे सम्मिलित कर दिया गया है । (देखो पृ० १८६४)

† ताम्रपत्रवाली प्रतिमे 'थोवूणओ'पदसे आगे 'कोहोदएणुवट्ठिदस्स पढमसमयलोभवेदगस्स वादरसांपराइयस्स' इतने टीकाशको भी सूत्रमे सम्मिलित कर दिया गया है । (देखो पृ० १८६५)

२७९. जे दो आवलियबंधा दुसमयूणा ते वि उवसामेदि । २८०. जा उदया-
वलिया छंडिदा सा स्थिवुक्कसंकमेण किट्टीसु विपच्चिहिदि । २८१. विदियसमए उदि-
ण्णाणं किट्टीणमग्गादो असंखेज्जदिभागं मुंचदि हेट्टदो अपुव्वमसंखेज्जदि-पडिभाग-
माफुंददि । एवं जाव चरिमसमयसुहुमसांपराइयोत्ति । २८२. चरिमसमयसुहुमसांपरा-
इयस्स णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणमंतोमुहुत्तिओ द्विदिवंधो । २८३. णामा-
गोदाणं द्विदिवंधो सोलस मुहुत्ता । २८४. वेदणीयस्स द्विदिवंधो चउवीस मुहुत्ता ।
२८५. से काले सव्वं मोहणीयमुवसंतं ।

२८६. तदो पाए अंतोमुहुत्तमुवसंतकसायवीदरागो । २८७. सव्विस्से उवसंत-
द्वाए अवट्टिदपरिणामो । २८८. गुणसेट्ठिणिकखेवो उवसंतद्वाए संखेज्जदिभागो । २८९.
सव्विस्से उवसंतद्वाए गुणसेट्ठिणिकखेवेण वि पदेसग्गेण वि अवट्टिदा । २९०. पहमे
गुणसेट्ठिसीसए उदिण्णे उक्कसओ पदेसुदओ । २९१. केवलणाणावरण-केवलदंसणावर-

चूर्णिसू०—असंख्यातगुणित श्रेणीमे जो दो समय कम दो आवलीप्रमाण समयप्रवद्ध
थे, उन्हें भी उपशान्त करता है । जो स्पर्धकगत उच्छिष्टावली वादरसाम्परायिकके द्वारा
पहले छोड़ दी गई थी, वह अब कृष्टिरूपसे परिणमित होकर स्तिवुकसंक्रमणके द्वारा कृष्टियो-
में विपाकको प्राप्त होगी । द्वितीय समयमें, वह प्रथम समयमे उदीर्ण कृष्टियोके अग्राग्रसे,
अर्थात् सर्वोपरिम कृष्टिसे लेकर अधस्तन असंख्यातवें भागको छोड़ता है, अर्थात् उतनी
कृष्टियाँ उदयको प्राप्त नहीं होती हैं, किन्तु अवस्तन बहुभागप्रमाण कृष्टियोका वेदन करता
है । तथा अधस्तनवर्ती और प्रथम समयमे उदयको नहीं प्राप्त हुई कृष्टियोके असंख्यातवे
प्रतिभागप्रमाण अपूर्व कृष्टियोका सम्यक् प्रकारसे स्पर्श या वेदन करता है, अर्थात् उतनी कृष्टियाँ
उदयको प्राप्त होती हैं । इस प्रकारसे यह क्रम चरमसमयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिक संयत होने-
तक जारी रहता है । चरमसमयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिकके ज्ञानावरण, दर्शनावरण और
अन्तरायका स्थितिवन्ध अन्तर्मुहूर्तमात्र है । नाम और गोत्रकर्मका स्थितिवन्ध सोलह मुहूर्त
है । वेदनीयका स्थितिवन्ध चौबीस मुहूर्त है । इसके एक समय परचात् सम्पूर्ण मोहनीय-
कर्म उपशान्त हो जाता है ॥ २७९-२८५ ॥

चूर्णिसू०—उस समयसे लेकर अन्तर्मुहूर्त तक वह उपशान्तकपायवीतराग रहता
है । तब समस्त उपशान्तकालमे अर्थात् ग्यारहवें गुणस्थानमे अवस्थित परिणाम होता है ।
उस समय ज्ञानावरणादि कर्मोंका गुणश्रेणीरूप निक्षेप उपशान्तकालके संख्यातवे भागप्रमित
आयामवाला है । सम्पूर्ण उपशान्तकालमें किये जानेवाले गुणश्रेणीनिक्षेपरूप आयामसे और
अपकर्षण किये जानेवाले प्रदेशाग्रसे भी वह अवस्थित रहता है । प्रथम गुणश्रेणीशीर्षकके
उदय होनेपर उत्कृष्ट प्रदेशोदय होता है । सर्व उपशान्तकालमे केवलज्ञानावरण और केवल-

णीयाणमणुभागुदण सव्व-उवसंतद्वाए अवट्टिद्वेदगो । २९२. णिहा-पयलाणं पि जाव वेदगो, ताव अवट्टिद्वेदगो । २९३. अंतराइयस्स अवट्टिद्वेदगो । २९४. सेसाणं लद्धिकम्मंसाणमणुभागुदयो वड्डी वा हाणी वा अवट्टाणं वा ।

२९५. णामाणि गोदाणि जाणि परिणामपच्चयाणि तेसिमवट्टिद्वेदगो अणुभा-

दर्शनावरणका अनुभागोदयकी अपेक्षा अवस्थित वेदक है । निद्रा और प्रचलाका भी जब तक वेदक है, तब तक अवस्थित वेदक ही है । अन्तराय कर्मका अवस्थित वेदक है । शेष लब्धि-कर्मशोका अर्थात् क्षयोपशमको प्राप्त होनेवाली चार ज्ञानावरणीय और तीन दर्शनावरणीय प्रकृतियोंका अनुभागोदय वृद्धिरूप भी है, हानिरूप भी है और अवस्थितस्वरूप भी है ॥२८६-२९४॥

विशेषार्थ—सर्वोपशमनाके द्वारा समस्त कपायोके सम्पूर्ण रूपसे उपशान्त हो जानेपर उपशान्तकपायवीतरागके उपशमकाल पूरा होने तक परिणामोकी विशुद्धि एक रूपसे अवस्थित रहती है, फिर भी जो यहाँपर जिन लब्धि-कर्मशोके अनुभागोदयको वृद्धि, हानि या अवस्थित रूप बतलाया, उसका कारण यह है कि मतिज्ञानावरण अदि चार ज्ञानावरणीय प्रकृतियों और चक्षुदर्शनावरणादि तीन दर्शनावरणीय प्रकृतियों, ये सात क्षयोपशमिक कर्मांश कहलाते हैं, क्योंकि ज्ञानावरण और दर्शनावरणके क्षयोपशमविशेषको लब्धि कहते हैं । उक्त सात प्रकृतियोंका ही क्षयोपशम होता है, शेषका नहीं, क्योंकि केवलज्ञानावरण और केवलदर्शनावरणके सर्वघाती होनेसे उनका क्षयोपशम नहीं, किन्तु क्षय ही होता है । उक्त सात लब्धि-कर्मोंसे एक अवधिज्ञानावरणीय कर्मको दृष्टान्तरूपसे लेकर वृद्धि, हानि और एक रूप अवस्थानका स्पर्शीकरण करते हैं—उपशान्तकपायवीतरागके यदि अवधिज्ञानावरणका क्षयोपशम नहीं है, तो उसके अनुभागका अवस्थित उदय होता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी अनवस्थितताका कोई कारण नहीं पाया जाता है । यदि उपशान्तकपायवीतरागके अवधिज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम है, तो वहाँपर छह प्रकार की वृद्धिरूप, या हानिरूप या अवस्थितरूप अनुभागका उदय पाया जायगा । इसका कारण यह है कि देशावधि और परमावधि ज्ञानवाले जीवोके अवधिज्ञानावरण कर्मका जो क्षयोपशम होता है, उसके असंख्यात लोकप्रमाण भेद होते हैं, अतएव बाह्य और अन्तरंग कारणोकी अपेक्षासे उनके परिणाम वृद्धि, हानि या अवस्थितरूप पाये जाते हैं । अर्थात् अवधिज्ञानावरणके सर्वोत्कृष्ट क्षयोपशमसे परिणत सर्वावधिज्ञानीके अवधिज्ञानावरणका अवस्थित अनुभागोदय पाया जायगा । तथा देशावधि और परमावधि ज्ञानवालोके क्षयोपशमके प्रकर्षाप्रकर्षसे वृद्धि या हानिरूप अनुभागोदय पाया जायगा । जो बात अवधिज्ञानावरणके विषयमे कही गई है, वही बात शेष लब्धिकर्मोंके वृद्धि, हानि या अवस्थित अनुभागोदयके विषयमे भी आगमाविरोधसे लगा लेना चाहिए ।

चूर्णिंशु०—जो नामकर्म और गोत्रकर्म परिणाम-प्रत्यय हैं, उनका अनुभागोदयकी अपेक्षा अवस्थित वेदक है ॥२९५॥

गोदण । २९६. एवमुवसामगस्स परूवणा विहासा सपत्ता ।

२९७. एत्तो सुत्तविहासा । २९८. तं जहा । २९९. 'उवसामणा कदिविधा' ति ? उवसामणा दुविहा करणोवसामणा अकरणोवसामणा च । ३००. जा सा अकरणोवसामणा तिस्से दुवे णामधेयाणि अकरणोवसामणा ति वि अणुदिण्णोवसामणा ति वि । ३०१. एसा कम्मपवादे' । ३०२. जा सा करणोवसामणा सा दुविहा देसकरणोवसामणा'

विशेषार्थ—जो प्रकृतियाँ शुभ-अशुभ परिणामोके द्वारा बन्ध या उदयको प्राप्त होती हैं, उन्हें परिणाम-प्रत्यय कहते हैं । इसीका दूसरा नाम गुण-प्रत्यय भी है । जो कर्मप्रकृतियाँ भवके निमित्तसे उदयमें आती हैं, उन्हें भव-प्रत्यय कहते हैं । सूत्रमें 'नाम' ऐसा सामान्य-पद कहनेपर भी यहाँ उदयमें आनेवाली अर्थात् वेदन की जानेवाली प्रकृतियोंका ग्रहण करना चाहिए । उपशान्तकपायवीतरागके मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, छह संस्थानोमेंसे कोई एक संस्थान, औदारिकशरीर-आंगोपांग, आदिके तीन संहननोमेंसे कोई एक संहनन, रूप, रस, गंध, वर्णमेंसे कोई एक-एक, अगुरुलघु, उपघात परघात, उच्छ्वास, दोनों विहायोगतियोंमेंसे कोई एक, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर अस्थिर, शुभ-अशुभ और सुस्वर-दुःस्वर, इन तीन युगलोंमेंसे एक-एक, आदेय, यशःकीर्त्ति और निर्माण, इन प्रकृतियोंका उदय रहता है । इनमें तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्ण, गंध, रस, शीत, उष्ण और स्निग्ध-रुक्ष स्पर्श, अगुरुलघु, स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ, सुभग, आदेय, यशःकीर्त्ति और निर्माण नामकर्म, इतनी प्रकृतियाँ परिणाम-प्रत्यय हैं । सूत्र-पठित 'गोत्र' पदसे यहाँ उच्चगोत्रका ग्रहण करना चाहिए । इन सब परिणाम-प्रत्ययवाली नामकर्म और गोत्रकर्मकी प्रकृतियोंका अनुभागोदयकी अपेक्षा उपशान्तकपायवीतराग अवस्थित वेदक होता है । किन्तु जो सातावेदनीय आदि भवप्रत्ययवाली प्रकृतियाँ हैं, उसके अनुभागको यह उपशान्तकपायवीतराग पट्ट्युद्धि हानिके क्रमसे वेदन करता है, ऐसा अनुक्त अर्थ भी 'परिणामप्रत्यय' पदसे सूचित किया गया है ।

चूर्णिसू०—इस प्रकार उपशामककी परूपणा-विभाषा समाप्त हुई ॥ २९६ ॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे गाथा-सूत्रोंकी विभाषा की जाती है । वह इस प्रकार है 'उपशामना कितने प्रकारकी है' ? उपशामना दो प्रकारकी है—एक करणोपशामना और दूसरी अकरणोपशामना । इनमें जो अकरणोपशामना है, उसके दो नाम हैं—अकरणोपशामना और अनुदीर्णोपशामना । यह अकरणोपशामना कर्मप्रवाद नामक आठवें पूर्वमें विस्तारसे वर्णन की गई है । जो करणोपशामना है वह भी दो प्रकारकी है—देशकरणोपशामना और

१ कम्मपवादो णाम अट्ठमो पुव्वाहियारो, जत्थ सव्वेसिं कम्माण मूलुत्तरपयडिभेयभिण्णाण दव्व-खेत्त काल भावे समस्सियूण विवागपरिणामो अविवागपज्जाओ च बहुवित्थरो अणुवण्णिदो, तत्थ एसा अकरणोवसामणा दट्ठव्वा, तत्थेदिस्से पव्वेण परूवणोवलभादो । जयध०

२ दसणमोहणीये उवसामिदे उदयादिकरणेषु काणि वि करणाणि उवसताणि, काणि वि करणाणि अणुवसंताणि तेणेषा देसकरणोवसामणा ति भण्णदे । जयध०

त्ति वि, सव्वकरणोवसामणा^१ त्ति वि । ३०३. देसकरणोवसामणाए दुवे णामाणि-
 देसकरणोवसामणा त्ति वि अप्पसत्थ-उवसामणा^२ त्ति वि । ३०४. एसा कम्मपयडीसु^३ ।
 ३०५. जा सा सव्वकरणोवसामणा तिस्से वि दुवे णामाणि-सव्वकरणोवसामणा त्ति
 वि पसत्थकरणोवसामणा त्ति वि । ३०६. एदाए एत्थ पयदं ।

सर्वकरणोपशामना । देशकरणोपशामनाके दो नाम हैं—देशकरणोपशामना और अप्रशस्तोप-
 शामना । यह देशकरणोपशामना कम्मपयडी (कर्मप्रकृतिप्राभृत) नामक ग्रन्थमें विस्तारसे वर्णन
 की गई है । जो सर्वकरणोपशामना है, उसके भी दो नाम हैं—सर्वकरणोपशामना और प्रशस्त-
 करणोपशामना । यहाँपर इस सर्वकरणोपशामनासे ही प्रयोजन है । (इस प्रकार यह 'उप-
 शामना कितने प्रकारकी है' इस प्रथम पदकी विभाषा समाप्त हुई ।) ॥२९७-३०६॥

विशेषार्थ—उदय, उदीरणा आदि परिणामोके विना कर्मों के उपशान्तरूपसे अवस्थान-
 को उपशामना कहते हैं । उसके करण और अकरणके भेदसे दो भेद हैं । प्रशस्त और अप्र-
 शस्त परिणामोके द्वारा कर्मप्रदेशोका उपशान्तभावसे रहना करणोपशामना है । अथवा करणो-
 की उपशामनाको करणोपशामना कहते हैं । अर्थात् निधत्ति, निकाचित आदि आठ करणोका
 प्रशस्त-उपशामनाके द्वारा उपशान्त करनेको करणोपशामना कहते हैं । इससे भिन्न लक्षणवाली
 अकरणोपशामना होती है । अर्थात् प्रशस्त-अप्रशस्त परिणामोके विना ही अप्राप्तकालवाले
 कर्म-प्रदेशोका उदयरूप परिणामके विना अवस्थित करनेको अकरणोपशामना कहते हैं । इसी-
 का दूसरा नाम अनुदीर्णोपशामना है । इसका स्पष्टीकरण यह है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव-
 का आश्रय लेकर कर्मोंके होनेवाले विपाक-परिणामको उदय कहते हैं । इस प्रकारके उदयसे
 परिणत कर्मको 'उदीर्ण' कहते हैं । इस उदीर्ण दशासे भिन्न अर्थात् उदयावस्थाको नहीं प्राप्त
 हुए कर्मको 'अनुदीर्ण' कहते हैं । इस प्रकारके अनुदीर्ण कर्मकी उपशामनाको अनुदीर्णोप-
 शामना कहते हैं । इस अनुदीर्णोपशामनामें करण-परिणामोकी अपेक्षा नहीं होती है, इसलिए
 इसे अकरणोपशामना भी कहते हैं । इस अकरणोपशामनाका विस्तृत वर्णन कर्मप्रवाद नामक
 आठवें पूर्वमें किया गया है । करणोपशामनाके भी दो भेद हैं—देशकरणोपशामना और सर्व-
 करणोपशामना । अप्रशस्तोपशामनादि करणोके द्वारा कर्मप्रदेशोके एक देश उपशान्त करनेको
 देशकरणोपशामना कहते हैं । कुछ आचार्य इसका ऐसा भी अर्थ करते हैं कि दर्शनमोहनीय-
 कर्मके उपशमित हो जानेपर अप्रशस्तोपशामना, निधत्ति, निकाचित, बन्धन, उत्कर्षण, उदी-
 रणा और उदय ये सात करण उपशान्त हो जाते हैं, तथा अपकर्षण और परप्रकृतिसंक्रमण

१ सव्वेसि करणणमुवसामणा सव्वकरणोवसामणा । जयध०

२ ससारपाओग्ग-अप्पसत्थपरिणामणिब्रघणत्तादो एसा अप्पसत्थोवसामणा त्ति भण्णदे । जयध०

३ कम्मपयडीओ णाम विदियपुव्व-पचमवत्थुपडिबद्धो चउत्थो पाहुडसण्णिदो अहियारो अत्थि,
 तत्तेसा देसकरणोवसामणा दट्ठव्वा, सवित्थरमेदिस्से तत्थ पववेण परुविदत्तादो । कथमेत्थ एगस्स कम्म-
 पयडिपाहुडस्स 'कम्मपयडीसु'त्ति बहुवयणणिहेसो त्ति णासंक्रणिज्ज; एक्कस्स वि तस्स कदि-वेदणादि-अवंतरा-
 हियारमेदावेक्खाए बहुवयणणिहेसाविरोदादो । जयध०

३०७. उवसामो कस्स कस्स कम्मस्सेत्ति विहासा । ३०८. तं जहा । ३०९. मोहणीयवज्जाणं कम्माणं णत्थि उवसामो । ३१०. दंसणमोहणीयस्स वि णत्थि उवसामो । ३११. अणंताणुवंधीणं पि णत्थि उवसामो । ३१२ वारसकसाय-णवणोकसायवेदणी-याणमुवसामो ।

३१३. 'कं कम्मं उवसंतं अणुवसंतं च कं कम्मं' त्ति विहासा । ३१४. तं जहा । ३१५. पुरिसवेदेण उवट्ठिदस्स पढमं ताव णवुंसयवेदो उवसमेदि । सेसाणि कम्माणि अणुवसंताणि* । ३१६. तदो इत्थिवेदो उवसमेदि । ३१७. तदो सत्त णोकसाए उव-

ये दो करण अनुपशान्त रहते हैं, इसलिए कुछ करणोंके उपशम होनेसे और कुछ करणोंके अनुपशम होनेसे इसे देशकरणोपशामना कहते हैं । अथवा इसका ऐसा भी अर्थ किया जाता है कि उपशमश्रेणीपर चढ़नेवाले जीवके अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें अप्रशस्तोपशामना, निधत्ति और निकाचित ये तीन करण अपने-अपने स्वरूपसे विनष्ट हो जाते हैं और अप-कर्षण आदि करण होते रहते हैं, इसलिए इसे देशकरणोपशामना कहते हैं । अथवा नपुंसक-वेदके प्रदेशाग्रीका उपशमन करते हुए जब तक उसका सर्वोपशम नहीं हो जाता है, तब तक उसका नाम देशकरणोपशामना है । अथवा वह भी अर्थ किया गया है कि नपुंसकवेदके उपशान्त होने और शेष करणोंके अनुपशान्त रहनेकी अवस्था-विशेषको देशकरणोपशामना कहते हैं । किन्तु जयधवलाकारका कहना है कि यहाँपर पूर्वोक्त अर्थ ही प्रधानरूपसे ग्रहण करना चाहिए । सर्व करणोंके उपशमनको सर्वकरणोपशामना कहते हैं । अर्थात् उदीरणा, निधत्ति, निकाचित आदि आठों करणोंका अपनी-अपनी क्रियाओंको छोड़कर जो प्रशस्तोप-शामनाके द्वारा सर्वोपशम होता है, उसे सर्वकरणोपशामना कहते हैं । कपायोंके उपशमनका प्रकरण होनेसे प्रकृतमें यही सर्वकरणोपशामना विवक्षित है ।

चूर्णिसू०—अब 'किस किस कर्मका उपशम होता है' इस पदकी विभाषा की जाती है । वह इस प्रकार है—मोहनीयको छोड़कर शेष सात कर्मोंका उपशम नहीं होता है । दर्शनमोहनीयकर्मका भी उपशम नहीं होता है । (क्योंकि, वह उपशमश्रेणीपर चढ़नेके पूर्व उपशान्त या क्षीण हो चुका है ।) अनन्तानुवन्धी कपायकी चारों प्रकृतियोंका भी उपशम नहीं होता है । (क्योंकि, उपशमश्रेणीपर चढ़नेसे पहले ही उनका विसंयोजन किया जा चुका है ।) किन्तु अप्रत्याख्यानावरणादि वारह कपाय और हास्यादि नव नोकषायवेदनीय, इन इक्कीस प्रकृतियोंका उपशम होता है । (क्योंकि, चारित्रमोहोपशमनाधिकारमें इन्हींके उपशमसे प्रयोजन है ।) ॥ ३०७-३१२ ॥

चूर्णिसू०—अब 'कौन कर्म उपशान्त होता है और कौन कर्म अनुपशान्त रहता है, प्रथम गाथाके डम उत्तरार्धकी विभाषा की जाती है । वह इस प्रकार है—पुरुषवेदके उदयके साथ उपशमश्रेणीपर चढ़नेवाले जीवके सबसे पहले नपुंसकवेद उपशमको प्राप्त होता है ।

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'अणुवसंताणि'के स्थानपर 'अणुवसमाणि' पाठ है । (देखो पृ० १८७६)

सामेदि । ३१८. तदो तिविहो कोहो उवसमदि । ३१९. तदो तिविहो माणो उवसमदि ।
 ३२०. तदो तिविहा माया उवसमदि । ३२१. तदो तिविहो लोहो उवसमदि किट्ठी-
 वज्जो । ३२२. किट्ठीसु लोभसंजलणमुवसमदि । ३२३. तदो सव्वं मोहणीयमुवसंतं भवदि ।

३२४. कदिभागुवमामिज्जदि संक्रमणमुदीरणा च कदिभागो त्ति विहासा ।
 ३२५. तं जहा । ३२६. जं कम्ममुवसामिज्जदि तमंतोमुहुत्तेण उवसामिज्जदि । तस्सां
 जं पढमसमए उवसामिज्जदि पदेसग्गं तं थोवं । विदियसमए उवसामिज्जदि पदेसग्ग-
 मसंखेज्जगुणं । एवं गंतूण चरिमसमए पदेसग्गस्स असंखेज्जा भागा उवसामिज्जंति ।
 ३२७. एवं सव्वकम्मणं ।

३२८. ट्ठिदीओ उदयावलियं वंधावलियं च मोत्तूण सेसाओ सव्वाओ समये
 समये उवसामिज्जंति । ३२९. अणुभागणं सव्वाणि फहयाणि सव्वाओ वग्गणाओ
 उवसामिज्जंति । ३३०. णवुंसयवेदस्स पढमसमय-उवसामग्गस्स जाओ ट्ठिदीओ वज्जंति
 ताओ थोवाओ । ३३१. जाओ संकामिज्जंति ताओ असंखेज्जगुणाओ । ३३२. जाओ

उस समय शेष कर्म अनुपशान्त रहते हैं । नपुंसकवेदके उपशमके पश्चात् स्त्रीवेद उपशमको प्राप्त होता है । स्त्रीवेदके उपशमके पश्चात् सात नोकपाय उपशमको प्राप्त होते हैं । सात नोकपायोंके उपशमके पश्चात् तीन प्रकारका क्रोध उपशमको प्राप्त होता है । तत्पश्चात् तीन प्रकारका मान उपशमको प्राप्त होता है । तदनन्तर तीन प्रकारकी माया उपशमको प्राप्त होती है । तदनन्तर कृष्टियोंको छोड़कर तीन प्रकारका लोभ उपशमको प्राप्त होता है । पुनः कृष्टियोंमें प्राप्त संज्वलन लोभ उपशमको प्राप्त होता है । तत्पश्चात् सर्व मोहनीयकर्म उपशान्त हो जाता है ॥ ३१३-३२३ ॥

चूर्णिसू०—‘चारित्रमोहनीय कर्मका कितना भाग उपशमको प्राप्त करता है, कितना भाग संक्रमण और उदीरणा करता है, इस द्वितीय गाथाकी विभाषा की जाती है । वह इस प्रकार है—जो कर्म उपशमको प्राप्त कराया जाता है, वह अन्तर्मुहूर्तके द्वारा उपशान्त किया जाता है । उस कर्मका जो प्रदेशाग्र प्रथम समयमें उपशमको प्राप्त कराया जाता है, वह सबसे कम है । द्वितीय समयमें जो उपशान्त किया जाता है, वह असंख्यातगुणा है । इस क्रमसे जाकर अन्तिम समयमें कर्मप्रदेशाग्रके असंख्यात बहुभाग उपशान्त किये जाते हैं । इस प्रकार सर्व कर्मोंका क्रम जानना चाहिए ॥ ३२४-३२७ ॥

चूर्णिसू०—उदयावली और वन्धावलीको छोड़कर शेष सर्व स्थितियाँ समय-समय, अर्थात् प्रतिसमय उपशान्त की जाती हैं । अनुभागोंके सर्व स्पर्धक और सर्व वर्गणाएँ उपशान्त की जाती हैं । नपुंसकवेदका उपशमन करनेवाले प्रथमसमयवर्ती जीवके जो स्थितियाँ बँधती हैं वे सबसे कम हैं । जो स्थितियाँ संक्रान्त की जाती हैं वे असंख्यातगुणी

उदीरिज्जंति ताओ तत्तियाओ चैव । ३३३. उदिण्णाओ विसेसाहियाओ । ३३४. जट्टिदि-उदयो उदीरणा संतकम्मं च विसेसाहियाओ ।

३३५. अणुभागेण वंधो थोवो । ३३६. उदयो उदीरणा च अणंतगुणा । ३३७. संकमो संतकम्मं च अणंतगुणं । ३३८. किट्टीओ वेदंतस्स वंधो णत्थि । ३३९. उदयो उदीरणा च थोवा । ३४०. संकमो अणंतगुणो । ३४१. संतकम्मणंतगुणं ।

३४२ एत्तो पदेसेण णवुंसयवेदस्स पदेसउदीरणा अणुकस्स-अजहण्णा थोवा । ३४३. जहण्णओ उदओ असंखेज्जगुणो । ३४४. उक्कस्सओ उदयो विसेसाहियो । ३४५. जहण्णओ संकमो असंखेज्जगुणो । ३४६. जहण्णयं उवसामिज्जदि असंखेज्जगुणं । ३४७. जहण्णयं संतकम्ममसंखेज्जगुणं । ३४८. उक्कस्सयं संकामिज्जदि असंखेज्जगुणं । ३४९. उक्कस्सगं उवसामिज्जदि असंखेज्जगुणं । ३५०. उक्कस्सयं संतकम्ममसंखेज्जगुणं । ३५१. एदं सव्वं अंतरदुसमयकदे णवुंसयवेदपदेसगस्स अप्पात्रहुअं ।

३५२. इत्थिवेदस्स वि णिरवयवमेदमप्पात्रहुअमणुगंतव्वं । ३५३. अट्टकसाय-छण्णोकसायाणमुदयमुदीरणं च मोत्तूण एव चैव वत्तव्वं । ३५४. पुरिसवेद-चदुसंजलणाणं च जाणिदूण णेदव्वं । ३५५. णवरि वंधपदस्स तत्थ सव्वत्थोवत्तं दट्टव्वं ।

हैं । जो स्थितियाँ उदीरणा की जाती हैं, वे उतनी ही हैं । उदीर्ण स्थितियाँ विशेष अधिक हैं । यत्स्थितिक-उदय, उदीरणा और सत्कर्म विशेष अधिक है ॥ ३२८-३३४ ॥

चूर्णिसू०—अनुभागकी अपेक्षा बन्ध सबसे कम है । बन्धसे उदीरणा और उदय अनन्तगुणा है । उदयसे संक्रमण और सत्कर्म अनन्तगुणा है । कृष्टियोंको वेदन करनेवाले जीवके लोभकपायका बन्ध नहीं होता है । उसके उदय और उदीरणा सबसे कम होती है । इससे संक्रमण अनन्तगुणा होता है । संक्रमणसे सत्कर्म अनन्तगुणा होता है ॥ ३३५-३४१ ॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे प्रदेशकी अपेक्षा वर्णन करेंगे—नपुंसकवेदकी अनुत्कृष्ट-अजघन्य प्रदेश-उदीरणा सबसे कम होती है । इससे जघन्य उदय असंख्यातगुणित है । इससे उत्कृष्ट उदय विशेष अधिक है । इससे जघन्य संक्रमण असंख्यातगुणित है । इससे उपशान्त किया जानेवाला जघन्य द्रव्य असंख्यातगुणित है । इससे जघन्य सत्कर्म असंख्यात-गुणित है । इससे संक्रान्त किया जानेवाला उत्कृष्ट द्रव्य असंख्यातगुणित है । इससे उत्कृष्ट सत्कर्म असंख्यातगुणित है । यह सब अन्तरकरणके दो समय पश्चात् होनेवाले नपुंसकवेदके प्रदेशायका अल्पबहुत्व कहा ॥ ३४२-३५१ ॥

चूर्णिसू०—स्त्रीवेदका भी यही अल्पबहुत्व अविकलरूपसे जानना चाहिए । आठो मध्यम कपाय और हास्यादि छह नौ कपायोका अल्पबहुत्व भी उदय और उदीरणाको छोड़-कर इसी प्रकारसे कहना चाहिए । पुरुषवेद और चारो संज्वलन-कपायोका अल्पबहुत्व जान करके लगाना चाहिए । उनके अल्पबहुत्वमें बन्धपद सबसे कम होता है, इतनी विशेषता जानना चाहिए ॥ ३५२-३५५ ॥

३५६. 'कं करणं वोच्छिञ्जदि अव्योच्छिष्णं च होइ कं करणं' त्ति विहासा ।
 ३५७. तं जहा । ३५८. अट्टविहं ताव करणं । जहा-अप्पसत्थउवसामणाकरणं निधत्ती-
 करणं णिकाचणाकरणं वंधणकरणं उदीरणाकरणं ओकट्टणाकरणं उकट्टणाकरणं संक्रमण-
 करणं च । ८ । एवमट्टविहं करणं* ।

३५९. एदेसिं करणाणमणियट्टिपढमसमए सव्वकम्माणं पि अप्पसत्थउवसाम-
 णाकरणं विधत्तीकरणं णिकाचणाकरणं च वोच्छिष्णाणि । ३६०. सेसाणि ताये आउग-
 वेदणीयवज्जाणं पंच वि करणाणि अत्थि । ३६१. आउगस्स ओवट्टणाकरणमत्थि,

अब क्रमप्राप्त 'केचिरमुवसामिञ्जदि' इस तीसरी गाथाकी विभाषा छोड़कर 'कं
 करणं वोच्छिञ्जदि' इस चौथी गाथाकी विभाषा करनेके लिए चूर्णिकार प्रतिज्ञा करते हैं ।
 ऐसा करनेका कारण यह है कि चौथी गाथाकी विभाषा कर देनेपर तीसरी गाथाके अर्थका
 व्याख्यान प्रायः हो ही जाता है ।

चूर्णिसू०—'कहाँपर कौन करण व्युच्छिन्न हो जाता है और कहाँपर कौन करण
 अव्युच्छिन्न रहता है' इस चौथी गाथाकी विभाषा की जाती है । वह इस प्रकार है—करण
 आठ प्रकारके हैं—अप्रशस्तोपशामनाकरण, निधत्तीकरण, निकाचनाकरण, वन्धनकरण, उदीरणा-
 करण, अपकर्षणाकरण (अपवर्तनाकरण), उत्कर्षणाकरण (उद्वर्तनाकरण) और संक्रमण-
 करण (८) । इस प्रकारसे आठ करण होते हैं ॥ ३५६-३५८ ॥

विशेषार्थ—इस सूत्र-द्वारा करणके आठ भेद बतलाये गये हैं । कर्मवन्धादिके
 कारणभूत जीवके शक्ति-विशेषरूप परिणामोको करण कहते हैं । उनमेंसे अप्रशस्तोपशामना-
 करण, निधत्तीकरण और निकाचितकरणका स्वरूप पहले बतला आये हैं । शेष करणोका
 स्वरूप इस प्रकार है—मिथ्यात्वादि परिणामोसे पुद्गल द्रव्यको ज्ञानवरणादिरूप परिणामाकर प्रकृति,
 स्थिति, अनुभाग और प्रदेशरूपसे बाँधनेको वन्धनकरण कहते हैं । उदयावलीसे बाहिर स्थित
 कर्मद्रव्यका अपकर्षण करके उदयावलीमे लानेको उदीरणाकरण कहते हैं । कर्मोंकी स्थिति
 और अनुभागके घटानेको अपकर्षणाकरण और उनके बढ़ानेको उत्कर्षणाकरण कहते हैं ।
 विवक्षित कर्मके प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोका अन्य प्रकृतिरूपसे परिणामन करने-
 को संक्रमणकरण कहते हैं ।

चूर्णिसू०—इन आठो करणोमेसे अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयसे सभी कर्मोंके अप्र-
 शस्तोपशामनाकरण, निधत्तीकरण और निकाचनाकरण व्युच्छिन्न हो जाते हैं । उस समय
 आयु और वेदनीकर्मको छोड़कर शेष कर्मोंके अवशिष्ट पाँचो ही करण होते हैं । आयुकर्मका

* वंधण-संक्रमणव्वट्टणा य अववट्टणा उदीरण्या ।

उवसामणा निधत्ती निकाचणा च त्ति करणाइ ॥ २ ॥ कम्मपयडो

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमे 'एवमट्टविहं करणं' इस सूत्राशको टोकामे सम्मिलित कर दिया है ।
 (देखो पृ० १८८४)

सेसाणि सत्त करणाणि णत्थि । ३६२. वेदणीयस्स वंधणाकरणमोवट्टणा करणमुव्वट्टणा-
करणसंक्रमणाकरणं एदाणि चत्तारि करणाणि अत्थि, सेसाणि चत्तारि करणाणि णत्थि ।

३६३. मूलपयडीओ पडुच्च एस कमो ताव जाव चरिमसमयवादरसांपराइयो
त्ति । ३६४. सुहुमसांपराइयस्स मोहणीयस्स दो करणाणि ओवट्टणाकरणमुदीरणाकरणं
च । सेसाणं कम्मणं ताणि चेव करणाणि । ३६५. उवसंतकसायवीयरायस्स मोहणीयस्स
वि णत्थि किंचि वि करणं, मोत्तूण दंसणमोहणीयं । दंसणमोहणीयस्स वि ओवट्टणाकरणं
संक्रमणाकरणं च अत्थि । ३६६. सेसाणं कम्मणं पि ओवट्टणाकरणमुदीरणा च अत्थि ।
णवरि आउग-वेदणीयाणमोवट्टणा चेव । ३६७. कं करणं उवसंतं अणुवसंतं च कं करणं
त्ति एसा सव्वा वि गाहा विहासिदा भवदि ।

३६८. केचिरमुवसामिज्जदि संक्रमणमुदीरणा च केवचिरं त्ति एदम्हि सुत्ते
विहासिज्जमाणे एदाणि चेव अट्ट करणाणि उत्तरपयडीणं पुध पुध विहासियव्वाणि ।

३६९. केवचिरमुवसंतं'ति विहासा । ३७०. तं जहा । ३७१. उवसंतं णिव्वा-
वादेण अंतोमुहुत्तं ।

केवल उद्वर्तनाकरण (उत्कर्षणाकरण) होता है, शेष सात करण नहीं होते हैं । वेदनीयकर्मके
बन्धनकरण, अपवर्तनाकरण, उद्वर्तनाकरण और संक्रमणकरण, ये चार करण होते हैं, शेष
चार करण नहीं होते हैं ॥ ३५९-३६२ ॥

चूर्णिसू०—मूल प्रकृतियोंकी अपेक्षा यह क्रम वादरसाम्पराय गुणस्थानके अन्तिम
समय तक जानना चाहिए । सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमें मोहनीयकर्मके अपवर्तनाकरण और
उदीरणाकरण ये दो ही करण होते हैं । शेष कर्मोंके वे ही उपर्युक्त करण होते हैं । उप-
शान्तकपायवीतरागके मोहनीयकर्मका कोई भी करण नहीं होता है, केवल दर्शनमोहनीयको
छोड़कर । क्योंकि, उपशान्तकपायवीतरागके दर्शनमोहनीयकर्मके अपवर्तनाकरण और संक्र-
मणकरण होते हैं । उपशान्तकपायके शेष कर्मोंके भी अपवर्तनाकरण और उदीरणाकरण होते
हैं । केवल आयु और वेदनीय कर्मका अपवर्तनाकरण ही होता है । इस प्रकार चौथी गाथा-
के पूर्वार्धकी विभाषाके द्वारा ही 'कौन करण कहाँ उपशान्त रहता है और कौन करण कहाँ
अनुपशान्त रहता है' इस उत्तरार्धकी भी विभाषा हो जाती है और इस प्रकार यह सर्व
गाथा ही विभाषित हो जाती है ॥ ३६३-३६७ ॥

चूर्णिसू०—'चारित्रमोहकी विवक्षित प्रकृति कितने काल तक उपशान्त रहती है, तथा
संक्रमण और उदीरणा कितने कालतक होती है' इस तीसरे गाथासूत्रके (पूर्वार्धकी) विभाषा
करनेपर उत्तर-प्रकृतियोंके ये उपर्युक्त आठों ही करण पृथक्-पृथक् रूपसे व्याख्यान करना
चाहिए ॥ ३६८ ॥

चूर्णिसू०—'अब कौन कर्म कितनी देर तक उपशान्त रहता है' तीसरी गाथाके इस
तीसरे चरणकी विभाषा की जाती है । वह इस प्रकार है—निर्व्याघात अर्थात् मरण आदि
व्याघातसे रहित अवस्थाकी अपेक्षा नपुंसकवेदादि मोहप्रकृतियाँ अन्तर्मुहूर्त तक उपशान्त

३७२ अणुवसंतं च केवचिरंति विहासा । ३७३. तं जहा । ३७४. अप्प-
सत्थउवसामणाए अणुवसंताणि कम्माणि णिव्वावादेण अंतोमुहुत्तं ।

३७५. एत्तो पडिवदमाणगस्स विहासा । ३७६. परूवणा-विहासा तात्र, पच्छा
सुत्तविहासा^१ । ३७७. परूवणा-विहासा । ३७८. तं जहा । ३७९. दुविहो पडिवादो
भवक्खएण च उवसामणक्खएणं च । ३८०. भवक्खएण पडिदस्स सव्वाणि करणाणि
एगसमएण उग्वादिदाणि^२ । ३८१. पहमसमए चैव जाणि उदीरिज्जंति कम्माणि
ताणि उदयावलियं पवेसिदाणि, जाणि ण उदीरिज्जंति ताणि वि ओकाट्टियुण आवलिय-
वाहिरे गोपुच्छाए सेहीए णिक्खित्ताणि ।

रहती हैं । (किन्तु व्याघातकी अपेक्षा एक समय भी पाया जाता है ।) ॥३६९-३७१॥

चूर्णिसू०—‘अब कौन कर्म कितनी देर तक अनुपशान्त रहता है’ तीसरी गायकें
इस चौथे चरणकी विभाषा की जाती है । वह इस प्रकार है—अप्रशस्तोपशामनाके द्वारा
निर्व्याघातकी अपेक्षा कर्म अन्तर्मुहूर्त तक अनुपशान्त रहते हैं । (किन्तु व्याघातकी अपेक्षा
एक समय तक ही अनुपशान्त रहते हैं ।) ॥३७२-३७४॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे प्रतिपत्तमान अर्थान् उपशम-श्रेणीसे गिरनेवाले जीवकी
विभाषा की जाती है । पहले प्ररूपणा-विभाषा करना चाहिए, पीछे सूत्र-विभाषा करना
चाहिए ॥३७५-३७६॥

विशेषार्थ—विभाषा दो प्रकारकी होती है—एक प्ररूपणा-विभाषा, दूसरी सूत्र-
विभाषा । जो सूत्रके पदोंका उच्चारण न करके सूत्र-द्वारा सूचित किये गये समस्त अर्थकी
विस्तारसे प्ररूपणा की जाती है, उसे प्ररूपणा-विभाषा कहते हैं । जो गाथा-सूत्रके अवयव-
भूत पदोंके अर्थका परामर्श करते हुए सूत्र-स्पर्श किया जाता है, उसे सूत्र-विभाषा कहते हैं ।

चूर्णिसू०—यहाँ पहले प्ररूपणा-विभाषा की जाती है । वह इस प्रकार है—प्रतिपात
दो प्रकारसे होता है—भवक्षयसे और उपशमनकालके क्षयसे । भवक्षयसे गिरनेवाले जीवके
सभी करण एक समयमें ही उद्धाटित हो जाते हैं, अर्थात् अपने-अपने स्वरूपसे पुनः प्रवृत्त
हो जाते हैं । प्रतिपातके प्रथम समयमें ही जो कर्म उदीरणाको प्राप्त किये जाते हैं, वे सब
उदयावलीमें प्रवेश कराये जाते हैं । जो कर्म उदीरणाको प्राप्त नहीं कराये जाते हैं, वे भी
अपकर्षण करके उदयावलीके बाहिर गोपुच्छारूप श्रेणीसे निक्षिप्त किये जाते हैं ॥३७७-३८१॥

१ विहासा दुविहा होदि परूवणविहासा सुत्तविहासा चेदि । तत्थ परूवणविहासा णाम सुत्तपदाणि
अणुच्चारिय सुत्तसूचिदासेसत्थस्स वित्थरपरूवणा । सुत्तविहासा णाम गाहासुत्ताणमवयवत्थपरामरसमुहेण
सुत्तफासो । जयघ०

२ तत्थ भवक्खयणिवधणो णाम उवसगवेडिसिहरमारुदस्स तत्थेव झीणाउअत्स काल कादूण
कसायेसु पडिवादो । जो उण सते वि आउए उवसामगद्धाखएण कसाएसु पडिवादिदो सो उवसामणक्खय-
णिवधणो णाम । जयघ०

३ अप्पणो सरूवेण पुणो वि पवड्ढाणि त्ति भणिद होइ । जयघ०

३८२. जो उवसामणकखण पडिवदि तस्स विहासा । ३८३. केण कारणेण पडिवदि अवट्टिदपरिणामो संतो । ३८४. सुणु कारणं जधा अद्धाकखण सो लोभे पडिवदिदो होइ । ३८५. तं परुवइस्सामो । ३८६. पढमसमयसुहुमसांपराइएण तिविहं लोभमोकड्डियूण संजलणस्स उदयादिगुणसेही कदा । ३८७ जा तस्स किट्ठीलोभवेदगद्धा, तदो विसेसुत्तरकालो गुणसेढिणिकखेवो । ३८८. दुविहस्स लोहस्स तत्तिओ चैव णिकखेवो । णवरि उदयावलियाए णत्थि । ३८९. सेसाणमाउमवज्जाणं कम्मणं गुणसेढिणिकखेवो अणियट्टिकरणद्धादो अपुव्वकरणद्धादो च विसेसाहिओ । सेसे सेसे च णिकखेवो । ३९०. तिविहस्स लोहस्स तत्तियो चैव णिकखेवो । ३९१. ताधे चैव तिविहो लोभो एगसमएण पसत्थउवसामणाए अणुवसंतो । ३९२ ताधे तिण्हं वादिकम्माणमंतोमुहुत्तडिदिगो वंधो । ३९३. णामा-गोदाणं ट्टिदिवंधो वत्तीस मुहुत्ता । ३९४. वेदणीयस्स ट्टिदिवंधो अड्ढा-लीस मुहुत्ता । ३९५. से काले गुणसेही असंखेज्जगुणहीणा । ३९६. ट्टिदिवंधो सो चैव । ३९७ अणुभागबंधो अप्पसत्थाणमणंतगुणो । ३९८. पसत्थाणं कम्मसाणमणंतगुणहीणो ।

चूर्णिसू०—अब जो उपशमनकालके क्षय हो जानेसे गिरता है, उसकी विभाषा की जाती है ॥ ३८२॥

शंका—उपशान्तकपायवीतराग छद्मस्थ जीव तो अवस्थित परिणामवाला होता है, फिर वह किस कारणसे गिरता है ? ॥ ३८३॥

समाधान—सुनो, उपशान्तकपायवीतरागके गिरनेका कारण उपशमन-कालका क्षय हो जाना है, अतएव वह सूक्ष्मसाम्परायगुणस्थानमे गिरता है ॥ ३८४॥

चूर्णिसू०—अब हम उसकी (विस्तारसे) प्ररूपणा करते हैं—प्रथम समयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिकके द्वारा तीन प्रकारके लोभका अपकर्षण करके संज्वलनकी उदयादि गुणश्रेणी की गई । जो उसके कृष्टिगत लोभके वेदनका काल है, उससे विशेष अधिक कालवाला गुणश्रेणी निक्षेप है । दो प्रकार अर्थात् प्रत्याख्यानावरण और अप्रत्याख्यानावरण लोभका भी उतना ही निक्षेप है । विशेष बात यह है कि उनका निक्षेप उदयावलीके भीतर नहीं, किन्तु बाहिर ही होता है । आयुको छोड़कर शेष कर्मोंका गुणश्रेणीनिक्षेप अनिवृत्तिकरणके कालसे और अपूर्वकरणके कालसे विशेष अधिक है । शेष-शेषमे निक्षेप है, अर्थात् इससे आगे उदयावलीके बाहिर ज्ञानावरणादि कर्मोंका गलित-शेषायामरूप गुणश्रेणीनिक्षेप प्रवृत्त होता है । तीन प्रकारके लोभका उतना उतना ही निक्षेप है । उसी समयमें ही तीन प्रकारका लोभ एक समयमे प्रशस्तोपशामनाके द्वारा अनुपशान्त हो जाता है । उस समय तीन घातिया कर्मोंका बन्ध अन्तर्मुहूर्त-स्थितिवाला है । नाम और गोत्रकर्मका स्थितिवन्ध वत्तीस मुहूर्त है, और वेदनीयका स्थितिबन्ध अड्डतालीस मुहूर्त है । तदनन्तर कालमे गुणश्रेणी असंख्यातगुणी हीन होती है । स्थितिवन्ध वही होता है । अनुभागबन्ध अप्रशस्त कर्मोंका अनन्तगुणा और प्रशस्त कर्मोंका अनन्तगुणा हीन होता है । (इस प्रकार यह क्रम सूक्ष्मसाम्परायिकके अन्तिम समय तक प्रतिसमय ले जाना चाहिए ।) ॥ ३८५-३९८॥

३९९. लोभं वेदयमाणस्स इमाणि आवासयाणि । ४००. तं जहा । ४०१. लोभवेदगद्दाए पहमतिभागो किट्ठीणमसंखेज्जा भागा उदिण्णा । ४०२. पहमसमए उदिण्णाओ किट्ठीओ थोवाओ । ४०३. विदियसमए उदिण्णाओ किट्ठीओ विसेसाहियाओ । ४०४. सव्वसुहुमसांपराइयद्दाए विसेसाहियवड्डीए किट्ठीणमुदयो* ।

४०५ किट्ठीवेदगद्दाए गदाए पहमसमयवादरसांपराइयो जादो । ४०६. ताहे चेव सव्वमोहणीयस्स अणाणुपुच्चिओ संकमो । ४०७. ताहे चेव दुच्चिहो लोहो लोहसंजलणे संलुहदि । ४०८. ताहे चेव फ्दयगदं लोभं वेदेदि । ४०९. किट्ठीओ सव्वाओ णट्ठाओ । ४१०. णवरि जाओ उदयावलियव्भंतराओ ताओ त्थिवुकसंकमेण फ्दएसु विपच्चिहिति ।

४११. पहमसमयवादरसांपराइयस्स लोभसंजलणस्स ट्ठिदिवंधो अंतोमुहुत्तो । ४१२. तिण्हं वादिकम्माणं ट्ठिदिवंधो दो अहोरत्ताणि देसूणाणि । ४१३. वेदणीय-णामा-गोदाणं ट्ठिदिवंधो चत्तारि वस्साणि देसूणाणि । ४१४. एदम्हि पुण्णे ट्ठिदिवंधे जो अण्णो वेदणीय-णामा-गोदाणं ट्ठिदिवंधो सो संखेज्जवस्ससहस्साणि । ४१५. तिण्हं वादिकम्माणं ट्ठिदिवंधो अहोरत्तपुधत्तिगो । ४१६. लोभसंजलणस्स ट्ठिदिवंधो पुव्वबंधादो

चूर्णिसू०—लोभको वेदन करनेवाले जीवके ये वक्ष्यमाण आवश्यक होते हैं । वे इस प्रकार है—लोभ-वेदककालका अर्थात् सूक्ष्म-वादरलोभके वेदन करनेके कालका जो प्रथम त्रिभाग है अर्थात् सूक्ष्मलोभके वेदनका काल है, उसमें कृष्टियोंका असंख्यात बहुभाग उदयको प्राप्त होता है । प्रथम समयमें उदय-प्राप्त कृष्टियाँ स्तोक है । द्वितीय समयमें उदय-प्राप्त कृष्टियाँ विशेष अधिक है । इस प्रकार सर्व सूक्ष्मसाम्परायिक-कालमें प्रतिसमय विशेषाधिक वृद्धिसे कृष्टियोंका उदय होता है ॥३९९-४०४॥

चूर्णिसू०—कृष्टियोंके वेदककालके व्यतीत होनेपर वह प्रथमसमयवर्ती वादरसाम्परायिक हो जाता है । उस ही समयमें मोहनीयकर्मका अनानुपूर्वी अर्थात् आनुपूर्वी-रहित संक्रमण प्रारम्भ हो जाता है । उसी समयमें दो प्रकारका लोभ संज्वलनलोभमें संक्रमण करता है । उस ही समयमें स्पर्धकगत लोभका वेदन करता है । उस समय सब कृष्टियाँ नष्ट हो जाती है । विशेष वात इतनी है कि जो कृष्टियाँ उदयावलीके भीतर है, वे स्तिवुक-संक्रमणके द्वारा स्पर्धकोमें विपाकको प्राप्त होती है ॥४०५-४१०॥

चूर्णिसू०—प्रथमसमयवर्ती वादरसाम्परायिकसंयतके संज्वलनलोभका स्थितिवन्ध अन्तमुहूर्तमात्र है । तीन घातिया कर्मोंका स्थितिवन्ध देशोन दो अहोरात्र है । वेदनीय, नाम और गोत्र इन कर्मोंका स्थितिवन्ध देशोन चार वर्ष है । इस स्थितिवन्धके पूर्ण होनेपर जो वेदनीय, नाम, और गोत्रकर्मोंका अन्य स्थितिवन्ध होता है, वह संख्यात सहस्र वर्ष है । तीन घातिया कर्मोंका स्थितिवन्ध अहोरात्र पृथक्त्वप्रमाण होता है । संज्वलन लोभका स्थितिवन्ध पूर्व वन्धसे विशेष अधिक होता है । लोभ-वेदककालके द्वितीय त्रिभागके

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'सव्वसुहुमसांपराइयद्दाए विसेसाहियवड्डीए किट्ठीणमुदयो' इस सूत्रको टीकामें सम्मिलित कर दिया है । (देखो पृ० १८९५)

विसेसाहिओ । ४१७. लोभवेदगद्वाए विदियस्स तिभागस्स संखेज्जदिभागं गंतूण मोहणीयस्स द्विदिवंधो मुहुत्तपुधत्तं । ४१८. णामा-गोद-वेदणीयाणं द्विदिवंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । ४१९. तिण्हं घादिकम्माणं द्विदिवंधो अहोरत्तपुधत्तिगादो द्विदिवंधादो वस्ससहस्सपुधत्तिगो द्विदिवंधो जादो । ४२०. एवं द्विदिवंधसहस्सेसु गदेसु लोभवेदगद्वा पुण्णा ।

४२१. से काले मायं तिविहमोकड्डियूण मायासंजलणस्स उदयादि-गुणसेही कदा । दुविहाए मायाए आवलियवाहिरा गुणसेही कदा । ४२२. पढमसमयमायावेदगस्स गुणसेहिणिकखेवो तिविहस्स लोहस्स तिविहाए मायाए च तुल्लो । मायावेदगद्वादो विसेसाहिओ । ४२३. सव्वमायावेदगद्वाए तत्तिओ तत्तिओ चैव णिकखेवो । ४२४. सेसाणं कम्माणं जो वुण पुव्विल्लो णिकखेवो तस्स सेसे सेसे चैव णिकखिखवदि गुणसेहिं* । ४२५. मायावेदगस्स लोभो तिविहो, माया दुविहा, मायासंजलणे संक्रमदि । माया तिविहा लोभो च दुविहो । लोभसंजलणे संक्रमदि । ४२६. पढमसमयमायावेदगस्स दोण्हं संजलणाणं दुमासड्डिदिगो वंधो । ४२७. सेसाणं कम्माणं द्विदिवंधो संखेज्जवस्ससहस्साणि । ४२८. पुण्णे पुण्णे द्विदिवंधे मोहणीयवज्जाणं कम्माणं संखेज्जगुणो द्विदिवंधो । ४२९.

संख्यातवे भाग आगे जाकर मोहनीय कर्मका स्थितिवन्ध मुहूर्तपृथक्त्व होता है । नाम, गोत्र और वेदनीय कर्मका स्थितिवन्ध संख्यात सहस्र वर्ष होता है । तीन घातिया कर्मका स्थितिवन्ध अहोरात्र-पृथक्त्वरूप स्थितिवन्धसे वर्षसहस्र पृथक्त्व-प्रमाण स्थितिवन्ध हो जाता है । इस प्रकार सहस्रो स्थितिवन्धोके व्यतीत होनेपर लोभका वेदककाल पूर्ण हो जाता है ॥४११-४२२॥

चूर्णिसू०—तदनन्तर कालमे तीन प्रकारकी मायाका अपकर्षण करके संज्वलन मायाकी तो उदयादि गुणश्रेणी करता है तथा शेष दो प्रकारके मायाकी उदयावलीके बाहिर गुणश्रेणी करता है । प्रथम समयवर्ती मायावेदकके तीन प्रकारके लोभका और तीन प्रकारकी मायाका गुणश्रेणीनिक्षेप तुल्य है, तथा मायावेदक-कालसे विशेष अविक है । सम्पूर्ण मायावेदककालमे उतना उतना ही निक्षेप होता है । पुनः शेष कर्मका जो पूर्वका निक्षेप है, उसके शेष शेषमे ही गुणश्रेणीका निक्षेप करता है । मायावेदकके तीन प्रकारका लोभ और दो प्रकारकी माया संज्वलनमायामे संक्रमण करती है । तथा तीन प्रकारकी माया और दो प्रकारका लोभ संज्वलनलोभमे संक्रमण करता है । प्रथम समयवर्ती मायावेदकके दोनो संज्वलन कपायोंका दो मासकी स्थितिवाला बन्ध होता है । शेष कर्मका स्थितिवन्ध संख्यात सहस्र वर्षप्रमाण होता है । प्रत्येक स्थितिवन्धके पूर्ण होनेपर मोहनीयको छोड़कर

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'गुणसेहिं' इतना अश टीकाके प्रारम्भमे [गुणसेहि] इस प्रकारसे मुद्रित है । (देखो पृ० १८९९)

† ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'च दुविहो' इस पाठके स्थानपर 'चउव्विहो' पाठ मुद्रित है । (देखो पृ० १८९९)

मोहणीयस्स द्विदिवंधो विसेसाहिओ । ४३०. एदेण कमेण संखेज्जेसु द्विदिवंधसहस्सेसु गदेसु चरिमसमयमायावेदगो जादो । ४३१. ताथे दोण्हं संजलणाणं द्विदिवंधो चत्तारि मासा अंतोमुहुत्तणा । ४३२. सेमाणं कम्माणं ठिदिवंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि ।

४३३. तदो से काले तिविहं माणमोकड्डियूण माणसंजलणस्स उदयादिगुणसेहिं करेदि । ४३४. दुविहस्स माणस्स आवलियवाहिरे गुणसेहिं करेदि । ४३५. णवविहस्स वि कसायरस गुणसेहिणिक्खेवो । ४३६. जा तस्स पडिवदमाणगस्स माणवेदगद्दा, तत्तो विसेसाहिओ णिक्खेवो । ४३७. मोहणीयवज्जाणं कम्माणं जो पढमसमयसुहुमसां-पराइएण णिक्खेवो णिक्खित्तो तस्स णिक्खेवस्स सेसे सेसे णिक्खिवदि । ४३८. पढम-समयमाणवेदगस्स णवविहो वि कसायो संक्रमदि । ४३९. ताथे तिण्हं संजलणाणं द्विदिवंधो चत्तारि मासा पडियुण्णा । ४४०. सेसाणं कम्माणं द्विदिवंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । ४४१. एवं द्विदिवंधसहस्साणि वट्टणि गंतूण माणस्स चरिमसमय-वेदगस्स तिण्हं संजलणाणं द्विदिवंधो अट्ट मासा अंतोमुहुत्तणा । ४४२. सेसाणं कम्माणं द्विदिवंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । ४४३. से काले तिविहं कोहमोकड्डियूण कोह-संजलणस्स उदयादि-गुणसेहिं करेदि । दुविहस्स कोहस्स आवलियवाहिरे करेदि* ।

शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यातगुणा होता है । मोहनीयका स्थितिवन्ध विशेष अधिक होता है । इस क्रमसे संख्यात सहस्र स्थितिवन्धोके वीतनेपर वह चरमसमयवर्ती मायावेदक होता है । उस समय दो संज्वलनोका स्थितिवन्ध अन्तर्मुहूर्त कम चार मास होता है और शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात सहस्र वर्ष होता है ॥४३१-४३२॥

चूर्णिसू०—तत्पश्चात् अनन्तर समयमे तीन प्रकारके मानका अपकर्षण करके संज्वलनमानकी उदयादि गुणश्रेणी करता है । दो प्रकारके मानकी उदयावलीके वाहिर गुण-श्रेणी करता है । अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलनसम्बन्धी लोभ, माया और मानरूप नौ प्रकारकी कपायका गुणश्रेणीनिक्षेप होता है । श्रेणीसे नीचे गिरनेवाले उस जीवका जो मानवेदककाल है, उससे विशेष अधिक निक्षेप होता है । मोहनीयको छोड़कर शेष कर्मोंका जो निक्षेप प्रथमसमयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिकके द्वारा निक्षिप्त किया गया है, उसके शेष शेषमे निक्षेपण करता है । प्रथमसमयवर्ती मानवेदकके नवो प्रकारका कपाय संक्रमणको प्राप्त होता है । उस समय तीन संज्वलनोका स्थितिवन्ध पूरे चार मास होता है । शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात सहस्र वर्षप्रमाण होता है । इस प्रकार बहुतसे स्थिति-वन्ध-सहस्र व्यतीत होते हैं, तब अन्तिम समयमे मानका वेदन करनेवाले जीवके तीन संज्वलनोका स्थितिवन्ध अन्तर्मुहूर्त कम आठ मास होता है और शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात सहस्र वर्षप्रमाण होता है । तदनन्तरकालमे तीन प्रकारके क्रोधका अपकर्षण करके संज्वलनक्रोधकी उदयादि-गुणश्रेणी करता है । अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, इन दोनों प्रकारके क्रोधकी उदयावलीके वाहिर गुणश्रेणी करता है ॥४३३-४४३॥

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'दुविहस्स कोहस्स आवलियवाहिरे करेदि' इतने सूत्राशको टीकामें सम्मिलित कर दिया है । (देखो पृ० १९०१)

४४४. एण्हि गुणसेहिणिकखेवो केत्तियो कायव्वो ? ४४५. पहमसमयकोध-वेदगस्स वारसण्हं पि कसायाणं गुणसेहिणिकखेवो३ सेसाणं कम्माणं गुणसेहिणिकखेवेण सरिसो होदि । ४४६ जहा मोहणीयवज्जाणं कम्माणं सेसे सेसे गुणसेहिं णिक्खिखविदि तम्हा एत्तो पाए वारसण्हं कसायाणं सेसे सेसे गुणसेही णिक्खिखविदव्वा । ४४७. पहम-समयकोहवेदगस्स वारसविहस्स वि कसायस्स संकमो होदि । ४४८. ताधे द्विदिवंधो चउण्हं संजलणाणमट्ट मासा पडिचुण्णा । ४४९. सेसाणं कम्माणं द्विदिवंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । ४५०. एदेण कमेण संखेज्जेसु द्विदिवंधसहस्सेसु गदेसु मोहणीयस्स चरिमसमयचउव्विहवंधगो जादो । ४५१. ताधे मोहणीयस्स द्विदिवंधो चदुसद्विवस्साणि अंतोमुहुत्तृणाणि । ४५२. संसाणं कम्माणं द्विदिवंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि ।

४५३. तदो से काले पुरिसवेदस्स वंधगो जादो । ४५४. ताधे चेव सत्तण्हं कम्माणं पदेसग्गं पसत्थ-उवसामणाए सव्वमणुवसंतं । ४५५. ताधे चेव सत्तकम्मसे ओकद्वियूण पुरिसवेदस्स उदयादिगुणसेहिं करेदि । ४५६ छण्हं कम्मसाणमुदया-वलियवाहिरे गुणसेहिं करेदि । ४५७. गुणसेहिणिकखेवो वारसण्हं कसायाणं सत्तण्हं

शंका—इस समय, अर्थात् क्रोधवेदकके प्रथम समयमे कितना गुणश्रेणी-निक्षेप करने योग्य है ? ॥४४४॥

समाधान—प्रथमसमयवर्ती क्रोधवेदकके वारहो ही कपायोका गुणश्रेणीनिक्षेप शेष कर्मोंके गुणश्रेणीनिक्षेपके सदृश होता है ॥४४५॥

चूर्णिसू०—जिस प्रकार मोहनीयकर्मको छोड़कर शेष कर्मोंकी गुणश्रेणीको शेष शेषमे निक्षेपण करता है उसी प्रकार यहाँसे लेकर वारह कपायोकी गुणश्रेणी शेष शेषमे निक्षेपण करना चाहिए । प्रथमसमयवर्ती क्रोधवेदकके वारह प्रकारके कपायका संक्रमण होता है । उस समय चारो संज्वलनोका स्थितिवन्ध पूरे आठ मास है । शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात महस्र वर्ष हैं । इस क्रमसे संख्यात सहस्र स्थितिवन्धोके वीत जानेपर मोहनीयके चतुर्विध वन्धका अन्तिम समयवर्ती वन्धक होता है । उस समय मोहनीयका स्थितिवन्ध अन्तर्मुहूर्त कम चौंसठ वर्ष है । शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात सहस्र वर्ष है ॥४४६-४५२॥

चूर्णिसू०—तदनन्तर कालमे वह पुरुषवेदका वन्धक हो जाता है । उसी समयमे ही सात कर्मोंका सर्व प्रदेशाग्र प्रशस्तोपशामनासे अनुपशान्त हो जाता है । उस समय हास्यादि सात कर्मांशोका अपकर्षण करके पुरुषवेदकी उदयादि-गुणश्रेणीको करता है और शेष छह कर्मांशोकी उदयावलीके बाहिर गुणश्रेणी करता है । वारह कपाय और सात नोकषाय-वेदनीयोका गुणश्रेणीनिक्षेप आयुर्कर्मको छोड़कर शेष कर्मोंके गुणश्रेणी-निक्षेपके तुल्य

३ ताम्रपत्रवाली प्रतिमे इस पदके प्रारम्भमे 'जो' और अन्तमे 'सो' पठ और भी मुद्रित है । (देखा पृ० १९०१)

४ ताम्रपत्रवाली प्रतिमे 'उदयादिगुणसेहिं' के स्थानपर 'उदयादिगुणसेहिसीसयं' पाठ मुद्रित है । (देखो पृ० १९०३)

णोकसायवेदणीया उसेसाण च आउगवज्जाणं कम्माणं गुणसेढिणिकखेवेण तुल्लो सेसे सेसे च णिकखेवो* । ४५८. ताधे चेव पुरिसवेदस्स ट्टिदिवंधो वत्तीस वस्साणि पडि-
बुण्णाणि । ४५९. संजलणाणं ट्टिदिवंधो चदुसट्टिवस्साणि । ४६०. सेसाणं कम्माणं
ठिदिवंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । ४६१. पुरिसवेदे अणुवसंते जाव इत्थिवेदो
उवसंतो एदिस्से अद्वाए संखेज्जेसु भागेषु गदेसु णामा-गोद-वेदणीयाणमसंखेज्जवस्सिय-
ट्टिदिगो वंधो ।

४६२ ताधे अप्पावहुअं कायव्वं । ४६३. सव्वत्थोवो मोहणीयस्स ट्टिदिवंधो ।
४६४. तिण्हं घादिकम्माणं ठिदिवंधो संखेज्जगुणो । ४६५ णामा-गोदाणं ठिदिवंधो
असंखेज्जगुणो । ४६६. वेदणीयस्स ट्टिदिवंधो विसेसाहिओ । ४६७. एत्तो ट्टिदिवंध-
सहस्सेसु गदेसु इत्थिवेदयेगसमएण अणुवसंतं करेदि । ४६८. ताधे चेव तमोकड्डियूण
आवलियवाहिरे गुणसेढिं करेदि । ४६९. इदरसिं कम्माणं जो गुणसेढिणिकखेवो तत्तियो
चेव इत्थिवेदस्स वि, सेसे सेसे च णिकखिचदि ।

४७०. इत्थिवेदे अणुवसंते जाव णवुंसयवेदो उवसंतो एदिस्से अद्वाए संखेज्जेसु
भागेषु गदेसु णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणमसंखेज्जवस्सियट्टिदिवंधो जादो । ४७१.
ताधे मोहणीयस्स ट्टिदिवंधो थोवो । ४७२. तिण्हं घादिकम्माणं ट्टिदिवंधो असंखेज्ज-

होता है । शेष शेषमे निक्षेप होता है । उसी समयमे पुरुषवेदका स्थितिवन्ध पूरे वत्तीस वर्ष
होता है । संज्वलनकपायोका स्थितिवन्ध चौसठ वर्ष होता है और शेष कर्मोका स्थितिवन्ध
संख्यात सहस्र वर्ष होता है । पुरुषवेदके अनुपशान्त होनेपर जब तक स्त्रीवेद उपशान्त रहता
है, तब तक इस मध्यवर्ती कालके सख्यात बहुभागोके वीत जानेपर नाम, गोत्र और वेदनीय
कर्मका स्थितिवन्ध असंख्यात वर्षप्रमाण होता है ॥४५३-४६१॥

चूर्णिसू०—उस समय इस प्रकार अल्पवहुत्व करना चाहिए—मोहनीयका स्थितिवन्ध
सबसे कम होता है । तीन घातिया कर्मोका स्थितिवन्ध संख्यातगुणा होता है । नामकर्म और
गोत्रकर्मका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा होता है । इससे वेदनीय कर्मका स्थितिवन्ध विशेष
अधिक होता है । इससे आगे सहस्रो स्थितिवन्धोके व्यतीत होनेपर स्त्रीवेदको एक समयमे
अनुपशान्त करता है । उसी समयमे ही स्त्रीवेदका अपकर्षण करके उदयावलीके वाहिर
गुणश्रेणी करता है । अन्य कर्मोका जो गुणश्रेणीनिक्षेप है, उतना ही स्त्रीवेदका भी होता है ।
शेष शेषमे निक्षेप करता है ॥४६२-४६९॥

चूर्णिसू०—स्त्रीवेदके अनुपशान्त होनेपर जब तक नपुंसकवेद उपशान्त रहता है, तब
तक इस मध्यवर्ती कालके संख्यात बहुभागोके वीतनेपर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय
कर्मका स्थितिवन्ध असंख्यात वर्षप्रमाण हो जाता है । उस समयमे मोहनीयकर्मका स्थिति-
वन्ध सबसे कम है । तीन घातिया कर्मोका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है । इससे नाम

* ताम्रवाली प्रतिमें 'णिकखेवो' के स्थानपर 'णिकखिचदि पाठ मुद्रित है । (देखो पृ० १९०३)

गुणो । ४७३. णामा-गोदाणं द्विदिवंधो असंखेज्जगुणो । ४७४. वेदणीयस्स द्विदिवंधो विसेसाहिओ । ४७५. जाधे वादिकम्माणमसंखेज्जवस्सद्विदिगो वंधो नाधे चेव एणसम-
एण णाणावरणीयं चउच्चिहं दंसणावरणीयं तिविहं पंचंतराइयाणि एदाणि दुट्ठाणियाणि
बंधेण जादाणि । ४७६. तदो संखेज्जेसु द्विदिवंधसहस्सेसु गदेसु णवुंसयवेदमणुवसंतं
करेदि । ४७७. ताधे चेव णवुंसयवेदमोकड्डियूण आवलियावाहिरे गुणसेडिं णिक्खिवादि ।
४७८. इदरेसिं कम्माणं गुणसेडिणिकखेवेण सरिसो गुणसेडिणिकखेवो । सेसे सेसे च
णिकखेवो ।

४७९. णवुंसयवेदे अणुवसंते जाव अंतरकरणद्वारं ण पावदि एदिस्से अट्टाए
संखेज्जेसु भागेसु गदेसु मोहणीयस्स असंखेज्जवस्सिओ द्विदिवंधो जादो । ४८०. ताधे
चेव दुट्ठाणिया वंधोदया । ४८१. सच्चस्स पडिवदमाणगस्स छसु आवलियासु गदासु
उदीरणा इदि णत्थि णियमो, आवलियादिकंतमुदीरिज्जंति ।

और गोत्र कर्मका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है । इससे वेदनीय कर्मका स्थितिवन्ध विशेष
अधिक होता है । जिस समय तीन वातिया कर्मोंका असंख्यात वर्षकी स्थितिवाला वन्ध होता
है, उस समय ही एक समयमें चार प्रकारका ज्ञानावरणीय, तीन प्रकारका दर्शनावरणीय और
पाँचों अन्तराय कर्म, ये अनुभागवन्धकी अपेक्षा द्विस्थानीय अर्थात् लता और दारुरूप अनु-
भाग वन्धवाले हां जाते हैं । तत्पश्चात् संख्यात सहस्र स्थितिवन्धोके व्यतीत होनेपर नपुंसक-
वेदको अनुपशांत करता है । उसी समयमें नपुंसकवेदका अपकर्षण करके उद्यावलीके वाहिर
गुणश्रेणी रूपसे निक्षिप्त करता है । यह गुणश्रेणीनिक्षेप अन्य कर्मोंके गुणश्रेणीनिक्षेपके सदृश
होता है । जेव शेषमें गुणश्रेणी निक्षेप होता है ॥४७०-४७८॥

चूर्णिसू०—नपुंसकवेदके अनुपशान्त होनेपर जब तक अन्तरकरण-कालको नहीं
प्राप्त करता है, तब तक इस मध्यवर्ती कालके संख्यात बहुभागोके वीत जानेपर मोहनीय
कर्मका स्थितिवन्ध असंख्यात वर्षप्रमाण होने लगता है । उसी समय ही मोहनीय कर्मका
वन्ध और उद्य अनुभागकी अपेक्षा द्विस्थानीय हो जाता है । ग्यारहवें गुणस्थानसे गिरनेवाले
सभी जीवोंके छह आवलियोंके वीत जानेपर ही उदीरणा हो, ऐसा नियम नहीं है, किन्तु
वन्धावलीके व्यतीत होनेपर उदीरणा होने लगती है ॥४७९-४८१॥

विशेषार्थ—उपशमश्रेणी चढ़नेवाले जीवके लिए यह नियम बतलाया गया था कि
नवीन बंधनेवाले कर्मोंकी उदीरणा वन्धावलीके छह आवलीकालके पश्चात् ही हो सकती है,
उससे पूर्व नहीं । किन्तु श्रेणीसे उतरनेवालोके लिए यह नियम नहीं है । उनके वन्धावलीके
पश्चात् ही बंधे हुए कर्मकी उदीरणा होने लगती है । कुछ आचार्य इस चूर्णिसूत्रका ऐसा
व्याख्यान करते हैं कि ग्यारहवें गुणस्थानसे गिरते समय भी जब तक मोहनीय कर्मका संख्यात
वर्षप्रमाण स्थितिवन्ध होता है, तब तक तो छह आवलियोंके वीतनेपर ही उदीरणाका नियम
रहता है । किन्तु जब मोहनीयकर्मका स्थितिवन्ध असंख्यात वर्षप्रमाण होने लगता है ।

४८२. अणियट्टिप्पहुडि मोहणीयस्स अणाणुपुव्विसंक्रमो, लोभरस वि संक्रमो ।
 ४८३. जाधे असंखेज्जवस्सिओ ट्टिदिवंधो मोहणीयस्स, ताधे मोहणीयस्स ट्टिदिवंधो
 थोवो । ४८४. घादिकम्माणं ट्टिदिवंधो असंखेज्जगुणो । ४८५. णामागोदाणं ट्टिदिवंधो
 असंखेज्जगुणो । ४८६. वेदणीयस्स ट्टिदिवंधो विसेसाहिओ । ४८७. एदेण कमेण
 संखेज्जेसु ट्टिदिवंधसहस्सेसु गदेसु अणुभागवंधेण वीरियंतराइयं सव्वघादी जादं । ४८८.
 तदो ठिदिवंधपुधत्तेण आभिणिवोधियणाणावरणीयं परिभोगंतराइयं च सव्वघादीणि
 जादाणि । ४८९. तदो ठिदिवंधपुधत्तेण चक्खुदंसणावरणीयं सव्वघादी जादं । ४९०.
 तदो ठिदिवंधपुधत्तेण सुदणाणावरणीयमचक्खुदंसणावरणीयं भोगंतराइयं च सव्वघादीणि
 जादाणि । ४९१. तदो ठिदिवंधपुधत्तेण ओधिणाणावरणीयं ओधिदंसणावरणीयं लाभं-
 तराइयं च सव्वघादीणि जादाणि । ४९२. तदो ट्टिदिवंधपुधत्तेण मणपज्जवणाणावरणीयं
 दाणंतराइयं च सव्वघादीणि जादाणि ।

४९३. तदो ट्टिदिवंधसहस्सेसु गदेसु असंखेज्जाणं समयपवद्धानमुदीरणा पडि-

तव छह आवलीकालके पश्चात् उदीरणाका नियम नहीं रहता । इस पर जयधवलाकारका मत यह है कि यदि ऐसा माना जाय, तो 'सव्वस्स पडिवदमाणगस्स' इस चूर्णिसूत्रमे जो 'सर्व' पदका प्रयोग किया गया है, वह निष्फल हो जायगा । अतएव पूर्वोक्त अर्थ ही प्रधानरूपसे मानना चाहिए ।

चूर्णिसू०—अनिवृत्तिकरणके कालसे लेकर (सर्व उतरनेवाले जीवोंके) मोहनीय-
 कर्मका अनानुपूर्वी-संक्रमण होने लगता है और लोभका भी संक्रमण प्रारम्भ हो जाता है ।
 जब मोहनीय कर्मका स्थितिवन्ध असंख्यात वर्षप्रमाण होता है, तब मोहनीय कर्मका स्थिति-
 वन्ध सबसे कम होता है और शेष घातिया कर्मोंका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा होता है ।
 इससे नामकर्म और गोत्रकर्मका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा होता है । इससे वेदनीयकर्मका
 स्थितिवन्ध विशेष अधिक होता है । इस क्रमसे संख्यात सहस्र स्थितिवन्धोंके व्यतीत हो
 जानेपर वीर्यान्तरायकर्म अनुभागवन्धकी अपेक्षा सर्वघाती हो जाता है । तत्पश्चात् स्थिति-
 वन्धपृथक्त्वसे आभिनिवोधिक ज्ञानावरणीय और परिभोगान्तराय कर्म सर्वघाती हो जाते
 हैं । तदनन्तर स्थितिवन्धपृथक्त्वसे चक्षुदर्शनावरणीयकर्म सर्वघाती हो जाता है । तदनन्तर
 स्थितिवन्धपृथक्त्वसे श्रुतज्ञानावरणीय, अचक्षुदर्शनावरणीय और भोगान्तराय कर्म सर्वघाती
 हो जाते हैं । तदनन्तर स्थितिवन्धपृथक्त्वसे अवधिज्ञानावरणीय, अवधिदर्शनावरणीय
 और लाभान्तराय कर्म सर्वघाती हो जाते हैं । तदनन्तर स्थितिवन्धपृथक्त्वसे मनःपर्ययज्ञाना-
 वरणीय और दानान्तराय कर्म सर्वघाती हो जाते हैं ॥४८२-४९२॥

चूर्णिसू०—तत्पश्चात् सहस्रो स्थितिवन्धोंके वीत जानेपर असंख्यात समयप्रवद्धोंकी
 उदीरणा नष्ट हो जाती है और समयप्रवद्धके असंख्यात लोकभागी अर्थात् असंख्यातलोकसे

हम्मदि असंखेज्जलोगभागो समयपवद्धस्स उदीरणा पवत्तदि* । ४९४. जाधे असंखेज्ज-
लोगपडिभागो समयपवद्धस्स उदीरणा, ताधे मोहणीयस्स द्विदिवंधो थोवो । ४९५.
घादिकम्माणं द्विदिवंधो असंखेज्जगुणो । ४९६. गामा गोदाणं द्विदिवंधो असंखेज्जगुणो ।
४९७. वेदणीयस्स द्विदिवंधो विसेसाहिओ । ४९८. एदेण कमेण द्विदिवंधसहस्सेसु गदेसु
तदो एकसराहेण मोहणीयस्स द्विदिवंधो थोवो । ४९९. गामा-गोदाणं द्विदिवंधो असंखे-
खेज्जगुणो । ५००. घादिकम्माणं द्विदिवंधो विसेसाहिओ । ५०१ वेदणीयस्स द्विदि-
वंधो विसेसाहिओ । ५०२. एवं संखेज्जाणि ठिदिवंधसहस्साणि कादूण तदो एकसराहेण
मोहणीयस्स द्विदिवंधो थोवो । ५०३ गामा-गोदाणं द्विदिवंधो असंखेज्जगुणो । ५०४.
णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेदणीय-अंतराइयाणं द्विदिवंधो तुल्लो विसेसाहिओ ।

५०५. एवं संखेज्जाणि द्विदिवंधसहस्साणि गदाणि । ५०६. तदो अण्णो
द्विदिवंधो एकसराहेण गामा-गोदाणं द्विदिवंधो थोवो । ५०७. मोहणीयस्स द्विदिवंधो
विसेसाहिओ । ५०८. णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेदणीय-अंतराइयाणं द्विदिवंधो तुल्लो
विसेसाहिओ । ५०९. एदेण कमेण द्विदिवंधसहस्साणि बहूणि गदाणि । ५१०. तदो

भाजित करनेपर एक भागमात्र उदीरणा प्रवृत्त होती है । जिस समय समयप्रवृद्धकी
असंख्यातलोक प्रतिभागी उदीरणा प्रवृत्त होती है उस समय मोहनीयका स्थितिवन्ध सबसे
कम है । शेष घातिया कर्मोंका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है । इससे नाम और गोत्रकर्म-
का स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है । इससे वेदनीयका स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसी
क्रमसे स्थितिवन्ध-सहस्रोंके वीत जानेपर एक साथ मोहनीयका स्थितिवन्ध सबसे कम
होता है । नाम और गोत्रकर्मका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा हो जाता है । इससे तीन
घातिया कर्मोंका स्थितिवन्ध विशेष अधिक होता है और वेदनीयका स्थितिवन्ध विशेष
अधिक होता है । इस प्रकार संख्यात सहस्र स्थितिवन्ध करके तत्पश्चात् एक साथ मोह-
नीयका स्थितिवन्ध सबसे कम होता है । इससे नाम और गोत्रकर्मका स्थितिवन्ध असंख्यात-
गुणा होता है । इससे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय कर्मका स्थिति-
वन्ध परस्परमे समान होते हुए विशेष अधिक होता है ॥४९३-५०४॥

चूर्णिसू०—इस प्रकार संख्यात सहस्र स्थितिवन्ध व्यतीत होते हैं । तत्पश्चात्
अन्य स्थितिवन्ध प्रारम्भ होता है और एक साथ नामकर्म और गोत्रकर्मका स्थितिवन्ध
सबसे कम हो जाता है । इससे मोहनीयका स्थितिवन्ध विशेष अधिक होता है । इससे
ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय, इनका स्थितिवन्ध परस्पर तुल्य और
विशेष अधिक होता है । इस क्रमसे बहुतसे स्थितिवन्ध-सहस्र वीत जाते हैं । तत्पश्चान्
अन्य प्रकारका स्थितिवन्ध प्रारम्भ होता है और एक साथ नाम और गोत्रकर्मका स्थितिवन्ध

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमे 'असंखेज्जलोगभागो समयपवद्धस्स उदीरणा पवत्तदि' इतना
अगको ठीकामे सम्मिलित कर दिया है । (देखो पृ० १९०८)

अण्णो ङ्घिदिवंधो एकसराहेण णामा-गोदाणं ङ्घिदिवंधो थोवो । ५११. चदुण्हं कम्मणं ङ्घिदिवंधो तुल्लो विसेसाहिओ । ५१२. मोहणीयस्स ङ्घिदिवंधो विसेसाहिओ । ५१३. जत्तो पाए असंखेज्जवस्सङ्घिदिवंधो, तत्तो पाए पुण्णे पुण्णे ङ्घिदिवंधे अण्णं ङ्घिदिवंधम-संखेज्जगुणं वंधइ । ५१४. एदेण कमेण सत्तण्हं पि कम्मणं पलिदोवमस्स असंखेज्जदि-भागियादो ङ्घिदिवंधादो एकसराहेण सत्तण्हं पि कम्मणं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागिओ ङ्घिदिवंधो जादो* । ५१५. एत्तो पाए पुण्णे पुण्णे ङ्घिदिवंधे अण्णं ङ्घिदिवंधं संखेज्ज-गुणं वंधइ ।

५१६. एवं संखेज्जाणं ङ्घिदिवंधसहस्साणमपुव्वा वड्डी पलिदोवमस्स संखेज्जदि-भागो । ५१७. तदो मोहणीयस्स जाधे अण्णस्स ङ्घिदिवंधस्स अपुव्वा वड्डी पलिदोवमस्स संखेज्जा भागा । ५१८. ताधे चदुण्हं कम्मणं ङ्घिदिवंधस्स वड्डी पलिदोवमं चदुव्भागेण सादिरेगेण ऊणयं । ५१९. ताधे चेव णामा-गोदाणं ङ्घिदिवंधपरिवड्डी अद्वपलिदोवमं संखेज्जदिभागूणं । ५२०. जाधे एसा परिवड्डी ताधे मोहणीयस्स जङ्घिदिगो वंधो पलि-दोवमं । ५२१. चदुण्हं कम्मणं जङ्घिदिगो वंधो पलिदोवमं चदुण्हं भागूणं । ५२२. णामा-गोदाणं जङ्घिदिगो वंधो अद्वपलिदोवमं । ५२३. एत्तो पाए ङ्घिदिवंधे पुण्णे पुण्णे

सबसे कम होता है । इससे चार कर्मोंका स्थितिवन्ध परस्पर तुल्य और विशेष अधिक होता है । इससे मोहनीयकर्मका स्थितिवन्ध विशेष अधिक होता है । जिस स्थलसे असंख्यात वर्षकी स्थितिवाला बन्ध होता है, उस स्थलसे प्रत्येक स्थितिवन्धके पूर्ण होनेपर असंख्यात-गुणित अन्य स्थितिवन्धको बाँधता है । इस क्रमसे सातो ही कर्मोंकी प्रकृतियोंका पल्यो-पमके असंख्यातवे भागप्रमित स्थितिवन्धसे एक साथ सातो ही कर्मोंका पल्योपमके संख्या-तवे भागप्रमाण स्थितिवन्ध होने लगता है । इस स्थलसे लेकर आगे प्रत्येक स्थितिवन्धके पूर्ण होनेपर अन्य संख्यातगुणित स्थितिवन्धको बाँधता है ॥५०५-५१५॥

चूर्णिसू०—इस प्रकार संख्यात सहस्र स्थितिवन्धोंकी अपूर्व वृद्धि पल्योपमके संख्यातवे भागमात्र होती है । तत्पश्चात् जिस समय मोहनीयकर्मके अन्य स्थितिवन्धकी अपूर्व वृद्धि पल्योपमके संख्यात बहुभाग-प्रमाण होती है, उस समय चार कर्मोंके स्थिति-वन्धकी वृद्धि सातिरेक चतुर्थ भागसे हीन पल्योपमप्रमाण होती है । उसी समयमें नाम और गोत्रकर्मके स्थितिवन्धकी परिवृद्धि संख्यातवे भागसे हीन अर्धपल्योपम होती है । जिस समय यह वृद्धि होती है, उस समय मोहनीयका यत्स्थितिकवन्ध पल्योपमप्रमाण है । चार कर्मोंका यत्स्थितिकवन्ध चतुर्थभागसे हीन पल्योपमप्रमाण है । नाम और गोत्रका यत्स्थि-तिकवन्ध अर्धपल्योपमप्रमाण है । इस स्थलसे प्रत्येक स्थितिवन्धके पूर्ण होनेपर तब तक

:- ताम्रपत्रवाली प्रतिमें इस सूत्रके 'पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागियादो ङ्घिदिवंधादो एकसराहेण सत्तण्हं पि कम्मणं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागिओ ङ्घिदिवंधो जादो' इतने अक्षरों कीकामे सम्मिलित कर दिया है । तथा 'कम्मणं'के स्थानपर 'कम्मपयडीणं' पाठ मुद्रित है ।

पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण वड्डइ जत्तिया अणियट्ठिअद्धा सेसा, अपुव्वकरणद्धा सव्वा च तत्तियं* । ५२४. एदेण कमेण पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागपरिवड्डीए ट्ठिदिवंधसहस्सेसु गदेसु अण्णो एइंदियट्ठिदिवंधसमगो ट्ठिदिवंधो जादो । ५२५. एवं वीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय-असण्णिट्ठिदिवंधसमगो ट्ठिदिवंधो । ५२६ तदो ट्ठिदिवंधसहस्सेसु गदेसु चरिमसमयअणियट्ठि जादो । ५२७ चरिमसमयअणियट्ठिस्स ट्ठिदिवंधो सागरो-वमसदसहस्सपुधत्तमंतोकोडीए† ।

५२८. से काले अपुव्वकरणं पविट्ठो । ५२९. ताथे चेव अप्पसत्थ-उवसामणा-करणं णिधत्तीकरणं णिकाचनाकरणं च उग्घादिदाणि । ५३० ताथे चेव मोहणीयस्स णवविहबंधगो जादो । ५३१ ताथे चेव हस्स-रदि-अरदि-सोगाणमेकदरस्स संवादयस्स उदीरगो, सिया भय-हुगुंछाणमुदीरगो । ५३२. तदो अपुव्वकरणद्धाए संखेज्जदिभागे गदे तदो परभवियणामाणं वंधगो जादो । ५३३. तदो ट्ठिदिवंधसहस्सेइं गदेहिं अपुव्वकरणद्धाए संखेज्जेसु भागेसु गदेसु णिदा-पयलाओ वंधइ । ५३४. तदो संखेज्जेसु ट्ठिदिवंधसहस्सेसु गदेसु चरिमसमयअपुव्वकरणं पत्तो ।

पल्योपमके संख्यातवे भागसे अधिक वृद्धि होती है जब तक कि जितना अनिवृत्तिकरणका काल शेष है और सर्व अपूर्वकरणका काल है । इस क्रमसे पल्योपमके संख्यातवे भागप्रमाण वृद्धिके साथ सहस्रो स्थितिवन्धोके वीत जानेपर अन्य स्थितिवन्ध एकेन्द्रिय जीवोके स्थितिवन्धके समान हो जाता है । इस प्रकार क्रमशः स्थितिवन्ध सहस्रोके व्यतीत होनेपर द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंज्ञीपंचेन्द्रियके स्थितिवन्धके समान स्थितिवन्ध हो जाता है । तत्पश्चात् स्थितिवन्ध-सहस्रोके वीतने पर यह चरमसमयवर्ती अनिवृत्तिकरणसंयत होता है । चरमसमयवर्ती अनिवृत्तिकरणसंयतके स्थितिवन्ध अन्तःकोटी सागरोपम अर्थात् लक्षपृथक्त्व सागरप्रमाण होता है ॥५१६-५२७॥

चूर्णिसू०—उसके अनन्तर समयमें वह अपूर्वकरण गुणस्थानमें प्रविष्ट होता है । उसी समय ही अप्रशस्तोपशामनाकरण, निधत्तिकरण, और निकाचनाकरण प्रगट हो जाते हैं । उसी समयमें नौ प्रकारके मोहनीयकर्मका वन्धक होता है । उसी समय हास्य-रति और अरति-शोक, इन दोनोंमेंसे किसी एक युगलका उदीरक होता है । भय और जुगुप्सा युगलका उदीरक होता भी है और नहीं भी होता है । तत्पश्चात् अपूर्वकरणके कालका संख्यातवाँ भाग व्यतीत होनेपर तब वह परभव-सम्बन्धी नामकर्मकी प्रकृतियोंका वन्धक होता है । तत्पश्चात् स्थितिवन्ध-सहस्रोके व्यतीत होनेपर और अपूर्वकरणकालके संख्यात बहुभागोके व्यतीत होनेपर निद्रा और प्रचला इन दो प्रकृतियोंको बाँधता है । तत्पश्चात् संख्यात् सहस्र स्थितिवन्धोके व्यतीत होनेपर अपूर्वकरणके अन्तिम समयको प्राप्त होता है ॥५२८-५३४॥

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'जत्तिया अणियट्ठिअद्धा सेसा अपुव्वकरणद्धा सव्वा च तत्तियं' इतने सजागको टीकामें सम्मिलित कर दिया है । (देखो पृ० १९१२)

† ताम्रपत्रवाली प्रतिमें '-मंतोकोडीए'के स्थानपर 'मंतोकोडाकोडीए' पाठ मुद्रित है । (देखो पृ० १९१२)

५३५ से काले पढमसमयअधापवत्तो जादो । ५३६. तदो पढमसमयअधाप-
वत्तस्स अण्णो गुणसेदिणिकखेवो पोरणगादो णिकखेवादो संखेज्जगुणो । ५३७. जाव
चरिमसमयअपुव्वकरणादो त्ति सेसे सेसे णिकखेवो । ५३८. जो पढमसमयअधापवत्त-
करणे णिकखेवो सो अंतोमुहुत्तिओ तत्तिओ चेव । ५३९. तेण परं सिया वडुदि, सिया
हायदि, सिया अवडुयादि । ५४०. पढमसमयअधापवत्तकरणे गुणसंक्रमो वोच्छिण्णो ।
सव्वकम्मणमधापवत्तसंक्रमो जादो । णवरि जेसिं विज्झादसंक्रमो अत्थि तेसिं विज्झाद-
संक्रमो चेव* । ५४१. उवसामगस्स पढमसमयअपुव्वकरणप्पहुडि जाव पडिवदमाणगस्स
चरिमसमयअपुव्वकरणो त्ति तदो एत्तो संखेज्जगुणं कालं पडिणियत्तो अधापवत्तकरणेण
उवसमसम्मत्तद्धमणुपालेदि ।

५४२. एदिस्से उवसमसम्मत्तद्वाए अब्भंतरदो असंजमं पि गच्छेज्ज, संजमा-
संजमं पि गच्छेज्ज, दो वि गच्छेज्ज । ५४३. छसु आवलियासु सेसासु आसाणं पि

चूर्णिसू०—तदनन्तर समयमे वह प्रथमसमयवर्ती अधःप्रवृत्तकरणसंयत अर्थात्
अप्रमत्तसंयत हो जाता है । तब अधःप्रवृत्तकरणसंयतके प्रथम समयमे अन्य गुणश्रेणी-
निक्षेप पुराने गुणश्रेणी-निक्षेपसे संख्यातगुणा होता है । (उतरनेवाले सूक्ष्मसाम्परायिक
संयतके प्रथम समयसे लेकर) अपूर्वकरणके अन्तिम समय तक शेष-शेषमे निक्षेप होता है ।
अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमे जो अन्तर्मुहूर्तमात्र निक्षेप होता है, उतना ही अन्तर्मुहूर्त तक
रहता है । उससे आगे कदाचित् बढ़ता है, कदाचित् हानिको प्राप्त होता है और कदाचित्
अवस्थित रहता है । अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें गुणसंक्रमण व्यच्छिन्न हो जाता है
और सर्व कर्मोंका अधःप्रवृत्तसंक्रमण प्रारम्भ होता है । विशेषता केवल यह है कि जिन
कर्मोंका विध्यातसंक्रमण होता है उनका विध्यातसंक्रमण ही होता है । अर्थात् जिन प्रकृ-
तियोंका बन्ध होता है उनका तो अधःप्रवृत्तकरण होता है और जिन नपुंसकवेदादि अप्र-
शस्त प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता है उनका विध्यातसंक्रमण होता है । उपशामकके श्रेणी
चढ़ते समय अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर सर्वोपशम करके उतरते हुए अपूर्वकरणके
अन्तिम समय तक जो काल है, उससे संख्यातगुणित काल तक लौटता हुआ यह जीव अधः-
प्रवृत्तकरणके साथ उपशमसम्यक्त्वके कालको विताता है । अर्थात् उपशमश्रेणीके चढ़नेके
प्रथम समयसे लेकर लौटनेके अपूर्वकरण-संयतके अंतिम समयके पश्चात् भी अप्रमत्त गुणस्थान-
वर्ती अधःप्रवृत्तकरण संयत रहने तक द्वितीयोपशमसम्यक्त्वका काल है ॥५३५-५४१॥

चूर्णिसू०—इस उपशमसम्यक्त्वकालके भीतर वह असंयमको भी प्राप्त हो सकता है,
संयमासयमको भी प्राप्त हो सकता है और दोनोंको भी प्राप्त हो सकता है । छह आवलियोंके
शेष रहनेपर सासादनसम्यक्त्वको भी प्राप्त हो सकता है । पुनः सासादनको प्राप्त होकर यदि

* तात्पर्यवाली प्रतिमें इस समस्त सूत्रको इससे पूर्ववर्ती सूत्रकी टीकामे सम्मिलित कर दिया है ।
(देखो पृ० १०१५, पंक्ति ११-१२) । पर इसके सूत्रत्वकी पुष्टि ताडपत्रीय प्रतिमे हुई है ।

गच्छेज्ज । ५४४. आसाणं पुण गदो जदि मरदि, ण सक्को गिरयगदिं तिरिक्खगदिं मणुसगदिं वा गंतुं । णियमा देवगदिं गच्छदि । ५४५. हंदि तिसु आउएसु एक्केण वि वद्वेण आउगेण ण सक्को कसाए उवसामेहुं । ५४६. एदेण कारणेण गिरयगदि-तिरिक्खजोणि-मणुस्सगदीओ ण गच्छदि ।

५४७. एसा सव्वा परूवणा पुरिसवेदस्स कोहेण उवट्ठिदस्स । ५४८. पुरिसवेदस्स चैव माणेण उवट्ठिदस्स णाणत्तं । ५८९. तं जहा । ५५०. जाव सत्तणोकसायाणमुवसामणा ताव णत्थि णाणत्तं । ५५१. उवरि माणं वेदंतो कोहमुवसामेदि । ५५२. जदेही कोहेण उवट्ठिदस्स कोहस्स उवसामणद्धा तदेही चैव माणेण वि उवट्ठिदस्स कोहस्स उवसामणद्धा । ५५३. कोधस्स पढमट्ठिदी णत्थि । ५५४. जदेही कोहेण उवट्ठिदस्स कोधस्स च माणस्स च पढमट्ठिदी, तदेही माणेण उवट्ठिदस्स माणस्स पढमट्ठिदी । ५५५. माणे उवसंतं एत्तो सेसस्स उवसामेयव्वस्स मायाए लोभस्स च जो कोहेण उवट्ठिदस्स उवसामणविधी सो चैव कायव्वो* । ५५६. माणेण उवट्ठिदो उवसामेयूण तदो पडिव-

मरता है, तो नरकगति, तिर्यचगति अथवा मनुष्यगतिको नहीं जा सकता, किन्तु नियमसे देवगतिको जाता है । क्योंकि, ऐसा नियम है कि नरकायु, तिर्यगायु और मनुष्यायु इन तीनों आयुक्रमोंमें से एक भी आयुको बाँधनेवाला जीव कपायोका उपशम करनेके लिए समर्थ नहीं हो सकता । इस कारणसे उपशमश्रेणीसे उतरकर सासादनगुणस्थानको प्राप्त जीव नरकगति, तिर्यग्योनि और मनुष्यगतिको नहीं जाता है ॥५४२-५४६॥

चूर्णिसू०—यह सब प्ररूपणा क्रोधकपायके उदयके साथ उपशमश्रेणीपर चढ़नेवाले पुरुषवेदी जीवकी है । मानकपायके उदयके साथ श्रेणीपर चढ़नेवाले पुरुषवेदी जीवके कुछ विभिन्नता होती है, जो इस प्रकार है—जब तक सात नोकपायोकी उपशमना होती है, तब तक तो कोई विभिन्नता नहीं है । ऊपर विभिन्नता है जो इस प्रकार है—मानकपायका वेदन करनेवाला जीव पहले क्रोधकपायको उपशमाता है । क्रोधकपायके उदयसे श्रेणी चढ़नेवाले जीवके जितना क्रोधका उपशमनकाल है, उतना ही मानकपायके उदयसे श्रेणी चढ़नेवाले जीवके क्रोधका उपशमनकाल है । इसके क्रोधकी प्रथमस्थिति नहीं होती है । क्रोधकपायके साथ चढ़नेवाले जीवके जितनी क्रोध और मानकी प्रथमस्थिति है, उतनी ही मानकपायके साथ चढ़नेवाले जीवके मानकी प्रथमस्थिति होती है । मानकपायके उपशम हो जानेपर इससे अवशिष्ट वचे हुए उपशमनके योग्य माया और लोभकी जो उपशमनविधि क्रोधकपायके साथ चढ़नेवाले जीवकी है, वही यहाँ भी प्ररूपणा करना चाहिए । मानकपायके साथ श्रेणी चढ़नेवाले जीवके कपायोका उपशमन करके और वहाँसे गिरकर लोभकपायका

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'कायव्वो' पदसे आगे 'माणेण उवट्ठिदस्स माणे उवसंतं जादे' इतना टीकाश भी सूत्ररूपसे मुद्रित है । (देखो पृ० १९१८)

दिदूण लोभं वेदयमाणस्स जो पुव्वपरूविदो विधी सो चेव विधी कायव्वो । ५५७. एवं मायं वेदमाणस्स ।

५५८. तदो माणं वेदयंतस्स णाणत्तं । ५५९. तं जहा । ५६०. गुणसेहिणिक्खेवो ताव णवण्हं कसायाणं सेसाणं कम्माणं गुणसेहिणिक्खेवेण तुल्लो । सेसे सेसे च णिक्खेवो । ५६१. कोहेण उवड्ढिदस्स उवसामगस्स पुणो पडिवदमाणगस्स जदेही माणवेदगद्दा एत्तियमेत्तेणेव कालेण माणवेदगद्दाए अधिच्छिदाए ताथे चेव माणं वेदंतो एगसमएण तिविहं क्रोहमणुवसंतं करेदि । ५६२. ताथे चेव ओकड्डियूण क्रोहं तिविहं पि आवलियवाहिरे गुणसेहीए इदरेसिं कम्माणं गुणसेहिणिक्खेवेण सरिसीए गिक्खिखवदि, तदो सेसे सेसे णिक्खिखवदि । ५६३. एदं णाणत्तं माणेण उवड्ढिदस्स उवसामगस्स, तस्स चेव पडिवदमाणगस्स ।

५६४. एदं ताव वियासेण णाणत्तं । एत्तो समासणाणत्तं वत्तइस्सामो । ५६५. तं जहा । ५६६. पुरिसवेदयस्स माणेण उवड्ढिदस्स उवसामगस्स अधापवत्तकरणमादिं कादूण जाव चरिमसमयपुरिसवेदो त्ति णत्थि णाणत्तं । ५६७. पहमसमयअवेदगप्पहुडि जाव क्रोहस्स उवसामणद्दा ताव णाणत्तं । ५६८. माण-माया-लोभाणशुवसामणद्दाए णत्थि णाणत्तं । ५६९. उवसंतेदाणि णत्थि चेव णाणत्तं । ५७०. तस्स चेव माणेण

वेदन करते हुए जो विधि पूर्वमे प्ररूपित की गई है, वही विधि यहाँ भी प्ररूपण करना चाहिए । इसी प्रकार मायाकपायका वेदन करनेवालेके भी कहना चाहिए ॥५४७-५५७॥

चूर्णिसू०—इससे आगे मानकपायका वेदन करनेवाले जीवके विभिन्नता होती है, जो कि इस प्रकार है—नवो कपायोका गुणश्रेणीनिक्षेप शेष कर्मोंके गुणश्रेणीनिक्षेपके तुल्य होता है और शेष शेषमे निक्षेप होता है । क्रोधके साथ चढ़े हुए उपशामकके पुनः गिरते हुए जितना मानवेदककाल है, उतनेमात्र कालसे मानवेदककालके अतिक्रमण करनेपर उसी समयमे ही मानका वेदन करता हुआ एक समयके द्वारा तीन प्रकारके क्रोधको अनुपशान्त करता है । उसी समयमे ही तीन प्रकारके क्रोधका अपकर्षण करके उदयावलीके बाहिर इतर कर्मोंके गुणश्रेणीनिक्षेपके सदृश गुणश्रेणीमे निक्षेप करता है और शेष शेषमे निक्षिप्त करता है । मानकपायके साथ चढ़नेवाले उपशामकके और गिरनेवाले उसी पुरुषवेदीके यह उपयुक्त विभिन्नता है ॥५५८-५६३॥

चूर्णिसू०—ऊपर यह विभिन्नता विस्तारसे कही । अब इससे आगे संक्षेपसे विभिन्नता कहते हैं । वह इस प्रकार है—मानकपायके साथ श्रेणी चढ़नेवाले पुरुषवेदी उपशामकके अधःप्रवृत्तकरणको आदि लेकर पुरुषवेदके अन्तिम समय तक कोई भी विभिन्नता नहीं है । प्रथमसमयवर्ती अवेदकसे लेकर जब तक क्रोधका उपशमनकाल है, तब तक विभिन्नता है । मान, माया और लोभके उपशमनकालमे कोई विभिन्नता नहीं है । कपायोके उपशान्त होनेके समयमे भी कोई विभिन्नता नहीं है । उसी जीवके मानकपायके साथ चढ़कर और

उवड्विषूण तदो पड्विदिदूण लोभं वेदंतस्स णत्थि णाणत्तं । ५७१. मायं वेदंतस्स णत्थि णाणत्तं । ५७२. माणं वेदयमाणस्स ताव णाणत्तं—जाव कोहो ण ओकड्विज्जदि, कोहे ओकड्विदे क्रोधस्स उदयादिगुणसेही णत्थि, माणो चेव वेदिज्जदि* । ५७३. एदाणि दोणिण णाणत्ताणि कोधादो ओकड्विदादो पाए जाव अथापवत्तसंजदो जादो ति ।

५७४. मायाए उवड्विदस्स उवसामगस्स केदेही मायाए पढमड्विदी ? ५७५. जाओ कोहेण उवड्विदस्स क्रोधस्स च चहमाणस्स च मायाए च पढमड्विदीओ ताओ तिणिण पढमड्विदीओ सपिड्विदाओ मायाए उवड्विदस्स मायाए पढमड्विदी । ५७६. तदो मायं वेदंतो कोहं च माणं च मायं च उवसामेदि । ५७७ तदो लोभमुवसामंतस्स णत्थि णाणत्तं । ५७८. मायाए उवड्विदो उवसामेयूण पुणो पड्विदमाणगस्स लोभं वेदयमाणस्स णत्थि णाणत्तं । ५७९. मायं वेदंतस्स णाणत्तं । ५८०. तं जहा । ५८१. तिविहाए मायाए तिविहस्स लोहस्स च गुणसेडिणिकखेवो इदरेहिं कम्मोहिं सरिसो, सेसे सेसे च णिकखेवो । ५८२. सेसे च कसाए मायं वेदंतो ओकड्विहिदि । ५८३. तत्थ

वहाँसे गिरकर लोभकपायका वेदन करनेवाले जीवके भी कोई विभिन्नता नहीं है । माया-को वेदन करनेवालेके भी विभिन्नता नहीं है । मानको वेदन करनेवालेके तब तक विभिन्नता है—जब तक क्रोधका अपकर्षण नहीं करता है । क्रोधके अपकर्षण करनेपर क्रोधकी उदयादि गुणश्रेणी नहीं होती है । वह मानको ही वेदन करता है । क्रोधके अपकर्षणसे लगाकर जब तक अधःप्रवृत्तसंयत होता है तब तक ये दो विभिन्नताएँ होती हैं ॥५६४-५७३॥

शंका—मायाकपायके साथ उपशमश्रेणी चढ़नेवाले उपशामकके मायाकी प्रथमस्थिति कितनी होती है ? ॥५७४॥

समाधान—क्रोधकपायके साथ उपशमश्रेणी चढ़नेवाले जीवके क्रोध, मान और मायाकी जितनी प्रथमस्थितियाँ हैं, वे तीनों प्रथमस्थितियाँ यदि सम्मिलित कर दी जायँ, तो उतनी मायाकपायके साथ उपशमश्रेणी चढ़नेवाले जीवके मायाकपायकी प्रथमस्थिति होती है । अतएव मायाका वेदन करनेवाला क्रोध, मान और मायाको एक साथ उपशमाता है ॥५७५॥

चूर्णिसू०—तत्पश्चात् लोभका उपशमन करनेवाले जीवके कोई विभिन्नता नहीं है । मायाकपायके साथ चढ़ा हुआ और कपायोका उपशम करके पुनः गिरता हुआ लोभकपाय-का वेदन करनेवाला जो जीव है, उसके कोई विभिन्नता नहीं है । तत्पश्चात् मायाका वेदन करनेवालेके विभिन्नता होती है जो कि इस प्रकार है—तीन प्रकारकी माया और तीन प्रकारके लोभका गुणश्रेणी—निक्षेप इतर कर्मोंके सदृश है और शेष शेषमे निक्षेप होता है । मायाका

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमे 'कोहे ओकड्विदे क्रोधस्स उदयादि गुणसेही णत्थि, माणो चेव वेदिज्जदि' इतने सूत्राशको टीकामे सम्मिलित कर दिया है । (देखो पृ० १९२१)

† ताम्रपत्रवाली प्रतिमे 'अंतरकदमेत्ते चेव मायाए पढमड्विदिमेसो द्वेदि' इतना टीकाश भी मूलरूपसे मुद्रित है । (देखो पृ० १९२१)

गुणसेढिणिकखेवविधिं च इदरकम्मगुणसेढिणिकखेवेण सरिसं काहिदि ।

५८४. लोभेण उवट्टिदस्स उवसामगस्स णाणत्तं वत्तइस्सामो । ५८५. तं जहा ।

५८६. अंतरकदमेत्ते लोभस्स पढमट्टिदिं करेदि । जदेही कोहेण उवट्टिदस्स कोहस्स पढमट्टिदी, माणस्स च पढमट्टिदी, मायाए च पढमट्टिदी, लोभस्स च सांपराइयपढमट्टिदी, तदेही लोभस्स पढमट्टिदी* । ५८७ सुहुमसांपराइयं पडिवण्णस्स णत्थि णाणत्तं ।

५८८. तस्सेव पडिवदमाणगस्स सुहुमसांपराइयं वेदंतस्स णत्थि णाणत्तं ।

५८९. पढमसमयवादरसांपराइयप्पहुडि णाणत्तं वत्तइस्सामो । ५९०. तं जहा ।

५९१. तिविहस्स लोभस्स गुणसेढिणिकखेवो इदरेहिं कम्महिं सरिसो । ५९२. लोभं वेदमाणो सेसे कसाए ओकट्टिहिदि । ५९३. गुणसेढिणिकखेवो इदरेहिं कम्महिं गुणसेढिणिकखेवेण सव्वेसिं कम्माणं सरिसो, सेसे सेसे च णिक्खिवदि । ५९४. एदाणि

णाणत्ताणि जो कोहेण उवसामेदुमुवट्टादि तेण सह सण्णिकासिज्जमाणाणि । ५९५. एदे पुरिसवेदेण उवट्टिदस्स वियप्पा ।

वेदन करनेवाला शेष कपायोका अपकर्षण करता है और वहाँपर गुणश्रेणी-निक्षेपको भी इतर कर्मोंके गुणश्रेणी-निक्षेपके सदृश करेगा ॥५७६-५८३॥

चूर्णिसू०—लोभकषायके साथ श्रेणी चढ़नेवाले उपशामककी विभिन्नता कहते हैं । वह इस प्रकार है—अन्तरकरण करनेके प्रथम समयमें लोभकी प्रथमस्थितिको करता है । क्रोधके साथ श्रेणी चढ़नेवाले जीवके जितनी क्रोधकी प्रथमस्थिति है, जितनी मानकी प्रथमस्थिति है, जितनी मायाकी प्रथमस्थिति है और जितनी वादरसाम्परायिकलोभकी प्रथमस्थिति है, उतनी सब मिलाकर लोभकी प्रथमस्थिति होती है । पुनः सूक्ष्मसाम्परायिकलोभको प्राप्त होनेवाले जीवके कोई विभिन्नता नहीं है । उसीके नीचे गिरते समय सूक्ष्मसाम्परायका वेदन करते हुए कोई विभिन्नता नहीं है ॥५८४-५८८॥

चूर्णिसू०—अब प्रथमसमयवर्ती वादरसाम्परायिकसंयतसे लेकर आगे जो विभिन्नता है उसे कहते हैं । वह इस प्रकार है—तीन प्रकारके लोभका गुणश्रेणीनिक्षेप इतर कर्मोंके सदृश है । लोभका वेदन करते हुए शेष कपायोका अपकर्षण करता है । सब कर्मोंका गुणश्रेणीनिक्षेप इतर कर्मोंके गुणश्रेणीनिक्षेपके सदृश है । शेष शेषमें निक्षेपण करता है । क्रोधकषायके उदयके साथ जो कषायोके उपशमन करनेके लिए समुद्यत हुआ है, उसके ये उपर्युक्त विभिन्नताएँ होती हैं । अतः उसके साथ सन्निकर्षण करके इन विभिन्नताओंको जानना चाहिए । (यहाँ इतना विशेष ज्ञातव्य है कि जो जीव जिस कषायके उदयके साथ श्रेणी चढ़ता है, वह उसी कषायके अपकर्षण करनेपर अन्तरको पूर्ण करता है ।) ये पुरुषवेदके साथ श्रेणी चढ़नेवाले पुरुषके विभिन्नता-सम्बन्धी विकल्प जानना चाहिए ॥५८९-५९५॥

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'जदेही कोहेण उवट्टिदस्स' इसे आदि लेकर आगेके समस्त सूत्राशको टीकामें सम्मिलित कर दिया गया है । (देखो पृ० १९२२-२३)

† ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'जो कोहेण उवसामेदुमुवट्टादि तेण सह सण्णिकासिज्जमाणाणि' इतने सूत्रागको टीकामें सम्मिलित कर दिया गया है । (देखो पृ० १९२४)

५९६. इत्थिवेदेण उवट्टिदस्स णाणत्तं वत्तइस्सामो । ५९७. तं जहा । ५९८. अवेदो सत्तकम्मसे उवसामेदि । सत्तण्हं पि य उवसामणद्धा तुल्ला । ५९९. एदं णाणत्तं । सेसा सव्वे वियप्पा पुरिसवेदेण सह सरिसाः ।

६००. णवुंसयवेदेणोवट्टिदस्स उवसामगस्स णाणत्तं वत्तइस्सामो । ६०१. तं जहा । ६०२. अंतरदुसमयकदे णवुंसयवेदमुवसामेदि । जा पुरिसवेदेण उवट्टिदस्स णवुंसयवेदस्स उवसामणद्धा तदेही अद्धा गदा ण ताव णवुंसयवेदमुवसामेदि । तदो इत्थिवेदं उवसामेदि, णवुंसयवेदं पि उवसामेदि चेव । तदो इत्थिवेदस्स उवसामणद्धाए पुण्णाए इत्थिवेदो च णवुंसयवेदो च उवसामिदा भवन्ति । ताथे चेव चरिमसमए सवेदो भवदि । तदो अवेदो सत्त कम्माणि उवसामेदि । तुल्ला च सत्तण्हं पि कम्माणमुवसामणा । ६०३. एदं णाणत्तं णवुंसयवेदेण उवट्टिदस्स । सेसा वियप्पा ते चेव कायव्वा ।

६०४. एत्तो पुरिसवेदेण सह कोहेण उवट्टिदस्स उवसामगस्स पढमसमयअपुव्वकरणमादिं कादूण जाव पडिवदमाणगस्स चरिमसमयअपुव्वकरणो त्ति एदिस्से अद्धाए जाणि कालसंजुत्ताणि पदाणि तेसिमप्पावहुअं वत्तइस्सामो । ६०५. तं जहा । ६०६.

चूर्णिसू०—अव स्त्रीवेदसे श्रेणी चढ़नेवाले जीवकी विभिन्नता कहते हैं । वह इस प्रकार है—स्त्रीवेदके उदयके साथ श्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव अपगतवेदी होकर सात कर्म-प्रकृतियोंको उपशमाता है । सातोका ही उपशमनकाल तुल्य है । यहाँ इतनी ही विभिन्नता है, शेष सर्व विकल्प पुरुषवेदके सदृश है ॥५९६-५९९॥

चूर्णिसू०—अव नपुंसकवेदसे श्रेणी चढ़नेवाले उपशामककी विभिन्नता कहते हैं । वह इस प्रकार है—अन्तर करनेके पश्चात् दूसरे समयमे नपुंसकवेदको उपशमाता है । पुरुषवेदके उदयसे श्रेणी चढ़नेवाले जीवके जो नपुंसकवेदका उपशामनकाल है, उतना काल बीत जाता है, तत्र तक नपुंसकवेदको नहीं उपशमाता है । तत्पश्चात् स्त्रीवेदको उपशामता है और नपुंसकवेदको भी उपशमाता है । पुनः स्त्रीवेदके उपशामनकालके पूर्ण होनेपर स्त्रीवेद और नपुंसकवेद दोनों ही उपशान्त हो जाते हैं । तभी ही यह चरमसमयवर्ती सवेदी होता है । पुनः अपगतवेदी होकर सात कर्मोंको उपशामता है । सातो कर्मोंकी उपशामना समान है । यह नपुंसकवेदसे श्रेणी चढ़नेवाले जीवकी विभिन्नता है । शेष विकल्प वे ही अर्थात् पुरुषवेदके सदृश ही निरूपण करना चाहिए ॥६००-६०३॥

चूर्णिसू०—अव इससे आगे पुरुषवेदके साथ क्रोधके उदयसे श्रेणी चढ़नेवाले उपशामकके अपूर्वकरणके प्रथम समयको आदि लेकर गिरते हुए अपूर्वकरणके अन्तिम समय तक इस मध्यवर्ती कालमे जो कालसंयुक्त पद है उनके अल्पबहुत्वको कहते हैं । वह इस

❖ ताम्रपत्रवाली प्रतिमें इस सूत्रके 'सरिसा' पदके आगे 'एत्तियमेत्तो चेव पत्थतणो विसेसो' इतना टीकाश भी सूत्ररूपसे मुद्रित है । (देखो पृ० १९२४)

सव्वत्थोवा जहणिया अणुभागखंडय-उत्कीरणद्वा । ६०७. उक्कस्सिया अणुभागखंडय-उत्कीरणद्वा विसेसाहिया । ६०८. जहणिया द्विदिवंधगद्वा ठिदिखंडय-उत्कीरणद्वा च तुल्लाओ संखेज्जगुणाओ । ६०९. पडिवदमाणगस्स जहणिया द्विदिवंधगद्वा विसेसाहिया । ६१०. अंतरकरणद्वा विसेसाहिया । ६११. उक्कस्सिया द्विदिवंधगद्वा द्विदिखंडय-उत्कीरणद्वा च विसेसाहिया । ६१२. चरिमसमयसुहुमसांपराइयस्स गुणसेट्ठिणिक्खेवो संखेज्जगुणो । ६१३. तं चेव गुणसेट्ठिसीसयं ति भण्णदि । ६१४. उवसंतकसायस्स गुणसेट्ठिणिक्खेवो संखेज्जगुणो । ६१५. पडिवदमाणयस्स सुहुमसांपराइयद्वा संखेज्जगुणा । ६१६. तस्सेव लोभस्स गुणसेट्ठिणिक्खेवो विसेसाहियो ।

६१७. उवसामगस्स सुहुमसांपराइयद्वा किट्ठीणमुवसामणद्वा सुहुमसांपराइयस्स पढमट्ठिदी च तिण्णि वि तुल्लाओ विसेसाहियाओ । ६१८. उवसामगस्स किट्ठीकरणद्वा विसेसाहिया । ६१९. पडिवदमाणगस्स वादरसांपराइयस्स लोभवेदगद्वा संखेज्जगुणा । ६२०. तस्सेव लोहस्स तिविहस्स वि तुल्लो गुणसेट्ठिणिक्खेवो विसेसाहियो । ६२१. उवसामगस्स वादरसांपराइयस्स लोभवेदगद्वा विसेसाहिया । ६२२. तस्सेव पढमट्ठिदी विसेसाहिया । ६२३. पडिवदमाणयस्स लोभवेदगद्वा विसेसाहिया । ६२४. पडिवदमाणगस्स मायावेदगद्वा विसेसाहिया । ६२५. तस्सेव मायावेदगस्स छण्णं कम्मणं गुणसेट्ठिणिक्खेवो विसेसाहियो ।

प्रकार है—अनुभागकांडकका जघन्य उत्कीरणकाल सबसे कम है (१) । अनुभागकांडकका उत्कृष्ट उत्कीरणकाल विशेष अधिक है (२) । जघन्य स्थितिवन्धकाल और स्थितिकांडक-उत्कीरणकाल परस्पर तुल्य और संख्यातगुणित है (३) । गिरनेवालेका जघन्य स्थितिवन्धकाल विशेष अधिक है (४) । अन्तरकरणका काल विशेष अधिक है (५) । उत्कृष्ट स्थितिवन्धकाल और स्थितिकांडकोत्कीरणकाल विशेष अधिक है (६) । चरमसमयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिकका गुणश्रेणीनिक्षेप संख्यातगुणा है (७) । यही गुणश्रेणीनिक्षेप 'गुणश्रेणी शीर्षक' भी कहा जाता है । उपशान्तकषायका गुणश्रेणी निक्षेप संख्यातगुणा है (९) । उसी गिरनेवाले सूक्ष्मसाम्परायिकके लोभका गुणश्रेणी-निक्षेप विशेष अधिक है (१०) ॥ ६०४-६१६ ॥

चूर्णिसू०—लोभके गुणश्रेणीनिक्षेपसे उपशामकके सूक्ष्मसाम्परायिकका काल, कृष्टियोंके उपशामनेका काल और सूक्ष्मसाम्परायिककी प्रथमस्थिति ये तीनों ही परस्पर तुल्य और विशेष अधिक है (११) । उपशामकका कृष्टिकरणकाल विशेष अधिक है (१२) । गिरनेवाले वादरसाम्परायिकका लोभवेदककाल संख्यातगुणा है (१३) । उसके ही तीनों प्रकारके लोभका गुणश्रेणी-निक्षेप परस्पर तुल्य और विशेष अधिक है (१४) । उपशामक वादरसाम्परायिकका लोभवेदककाल विशेष अधिक है (१५) । उसीके वादर लोभकी प्रथमस्थिति विशेष अधिक है (१६) । गिरनेवालेका लोभवेदककाल विशेष अधिक है (१७) । गिरनेवालेका मायावेदककाल विशेष अधिक है (१८) । उसी मायावेदकके छह कर्मोंका गुणश्रेणी-निक्षेप विशेष अधिक है (१९) ॥ ६१७-६२५ ॥

६२६. पडिवदमाणगस्स माणवेदगद्धा विसेसाहिया । ६२७. तस्सेव पडिवदमाणगस्स माणवेदगस्स णवण्हं कम्माणं गुणसेट्ठिणियखेवो विसेसाहियो । ६२८. उवसामगरस मायावेदगद्धा विसेसाहिया । ६२९. मायाए पढमट्ठिदी विसेसाहिया । ६३०. मायाए उवसामणद्धा विसेसाहिया । ६३१. उवसामगरस माणवेदगद्धा विसेसाहिया । ६३२. माणस्स पढमट्ठिदी विसेसाहिया । ६३३. माणस्स उवसामणद्धा विसेसाहिया । ६३४. क्रोहस्स उवसामणद्धा विसेसाहिया । ६३५. छण्णो-कसायाणमुवसामणद्धा विसेसाहिया । ६३६. पुरिसवेदरस उवसामणद्धा विसेसाहिया । ६३७. इत्थिवेदस्स उवसामणद्धा विसेसाहिया । ३६८. णवुंसयवेदस्स उवसामणद्धा विसेसाहिया । ६३९. खुदाभवग्गहणं विसेसाहियं ।

६४०. उवसंतद्धा दुगुणा । ६४१. पुरिसवेदस्स पढमट्ठिदी विसेसाहिया । ६४२. क्रोहस्स पढमट्ठिदी विसेसाहिया । ६४३. मोहणीयस्स उवसामणद्धा विसेसाहिया । ६४४. पडिवदमाणगस्स जाव असंखेज्जाणं समयपवद्धाणमुदीरणा सो कालो संखेज्जगुणो । ६४५. उवसामगस्स असंखेज्जाणं समयपवद्धाणमुदीरणकालो विसेसाहियो । ६४६. पडिवदमाणयस्स अणियट्ठिअद्धा संखेज्जगुणा । ६४७. उवसामगस्स अणियट्ठिअद्धा विसेसाहिया । ६४८. पडिवदमाणयस्स अपुव्वकरणद्धा संखेज्जगुणा । ६४९. उवसामगस्स अपुव्वकरणद्धा विसेसाहिया । ६५०. पडिवदमाणगस्स उक्कस्सओ

चूर्णिसू०—छह कर्मोंके गुणश्रेणी-निक्षेपसे गिरनेवालेके मानका वेदककाल विशेष अधिक है (२०)। उसी गिरनेवाले मानवेदकके नवों कर्मोंका गुणश्रेणीनिक्षेप अधिक है (२१)। उपशामकका मायावेदककाल विशेष अधिक है (२२)। मायाकी प्रथमस्थिति विशेष अधिक है (२३)। मायाका उपशामनकाल विशेष अधिक है (२४)। उपशामकका मानवेदककाल विशेष अधिक है (२५)। मानकी प्रथमस्थिति विशेष अधिक है (२६)। मानका उपशामनकाल विशेष अधिक है (२७)। क्रोधका उपशामनकाल विशेष अधिक है (२८)। छह नोकपायोका उपशामनकाल विशेष अधिक है (२९)। पुरुषवेदका उपशामनकाल विशेष अधिक है (३०)। स्त्रीवेदका उपशामनकाल विशेष अधिक है (३१)। नपुंसकवेदका उपशामनकाल विशेष अधिक है (३२)। क्षुद्रभवग्रहण विशेष अधिक है (३३) ॥ ६२५-६३९ ॥

चूर्णिसू०—क्षुद्रभवके ग्रहणकालसे उपशान्तकाल दुगुना है (३४)। पुरुषवेदकी प्रथमस्थिति विशेष अधिक है (३५)। क्रोधकी प्रथमस्थिति विशेष अधिक है (३६)। मोहनीयका उपशामनकाल विशेष अधिक है (३७)। गिरनेवालेके जब तक असंख्यात समय-प्रवद्धोंकी उदीरणा होती है, तब तकका वह काल संख्यातगुणा है (३८)। उपशामकके असंख्यात समयप्रवद्धोंकी उदीरणाका काल विशेष अधिक है (३९)। गिरनेवालेके अनिवृत्तिकरणका काल संख्यातगुणा है (४०)। उपशामकके अनिवृत्तिकरणका काल विशेष अधिक है (४१)। गिरनेवालेके अपूर्वकरणका काल संख्यातगुणा है (४२)। उपशामकके

६८४. उवसामगस्स चरिमो असंखेज्जवस्सट्ठिदिगो वंधो मोहणीयस्स असंखे-
ज्जगुणो । ६८५. पडिवदमाणगस्स पढमो असंखेज्जवस्सट्ठिदिगो वंधो मोहणीयस्स
असंखेज्जगुणो । ६८६. उवसामगस्स घादिकम्माणं चरिमो अगंखेज्जवस्सट्ठिदिगो वंधो
असंखेज्जगुणो । ६८७. पडिवदमाणयस्स पढमो असंखेज्जवस्सट्ठिदिगो वंधो घादिकम्मा-
णमसंखेज्जगुणो । ६८८. उवसामगस्स णामा-गोद-वेदणीयाणं चरिमो असंखेज्जवस्सट्ठि-
दिगो वंधो असंखेज्जगुणो । ६८९. पडिवदमाणगस्स णामा-गोद-वेदणीयाणं पढमो
असंखेज्जवस्सट्ठिदिगो वंधो असंखेज्जगुणो । ६९०. उवसामगस्स णामा-गोदाणं पल्लिदो-
वमस्स संखेज्जदिभागिओ पढमो ट्ठिदिवंधो असंखेज्जगुणो ।

६९१ णाणावरण-दंसणावरण-वेदणीय-अंतराइयाणं पल्लिदोवमस्स संखेज्जदि-
भागिओ पढमो ट्ठिदिवंधो विसेसाहिओ । ६९२. मोहणीयस्स पल्लिदोवमस्स संखेज्जदि-
भागिओ पढमो ट्ठिदिवंधो विसेसाहिओ । ६९३. चरिमट्ठिदिखंडयं संखेज्जगुणं । ६९४.
जाओ ट्ठिदीओ परिहाइदूण पल्लिदोवमट्ठिदिगो वंधो जादो, ताओ ट्ठिदीओ संखेज्ज-
गुणाओ । ६९५. पल्लिदोवमं संखेज्जगुणं । ६९६. अणियट्ठिस्स पढमसमये ठिदिवंधो
संखेज्जगुणो । ६९७. पडिवदमाणयस्स अणियट्ठिस्स चरिमसमये ट्ठिदिवंधो संखेज्जगुणो ।

चूणिसू०—उपशामकके असख्यात वर्षकी स्थितिवाला मोहनीयका अन्तिम स्थिति-
वन्ध असंख्यातगुणा है (७८) । गिरनेवालेके असंख्यात वर्षकी स्थितिवाला मोहनीयका
प्रथम स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है (७९) । उपशामकके असंख्यात वर्षकी स्थितिवाला
घातिया कर्मोंका अन्तिम स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है (८०) । गिरनेवालेके असंख्यात
वर्षकी स्थितिवाला घातिया कर्मोंका प्रथम स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है (८१) उपशामक-
के नाम, गोत्र और वेदनीयका असंख्यातवर्षकी स्थितिवाला अन्तिम स्थितिवन्ध असंख्यात-
गुणा है (८२) । गिरनेवालेके नाम, गोत्र और वेदनीय कर्मका असंख्यातवर्षकी स्थिति-
वाला प्रथम स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है (८३) । उपशामकके नाम और गोत्रकर्मका
पल्लोपमके संख्यातवे भागप्रमाण प्रथम स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है (८४) ॥ ६८४-६९० ॥

चूणिसू०—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तरायका पल्लोपमका संख्या-
तवे भागप्रमाण प्रथम स्थितिवन्ध विशेष अधिक है (८५) । मोहनीयका पल्लोपमके संख्या-
तवे भागप्रमाण प्रथम स्थितिवन्ध विशेष अधिक है (८६) । सूक्ष्मसाम्परायिकके अन्तिम
समयमे होनेवाला ज्ञानावरणादि कर्मोंका चरम स्थितिकांडक और मोहनीयका अन्तरकरणके
समकालभावी चरम स्थितिकांडक संख्यातगुणा है (८७) । जिन स्थितियोंको कम करके
पल्लोपमकी स्थितिवाला वन्ध हुआ है, वे स्थितियाँ संख्यातगुणी है (८८) । पल्लोपम
संख्यातगुणा है (८९) । अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमे स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है (९०) ।
गिरनेवालेके अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमे स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है (९१) । अपूर्व-

६९८. अपुव्वकरणस्स पढमसमए ढ्ढिदिवंधो संखेज्जगुणो । ६९९. पडिवदमाणयस्स अपुव्वकरणस्स चरिमसमए ढ्ढिदिवंधो संखेज्जगुणो ।

७००. पडिवदमाणयस्स अपुव्वकरणस्स चरिमसमए ठिदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं । ७०१. पडिवदमाणयस्स अपुव्वकरणस्स पढमसमये ठिदिसंतकम्मं विसेसाहियं । ७०२. पडिवदमाणयस्स अणियड्ढिस्स चरिमसमये ठिदिसंतकम्मं विसेसाहियं । ७०३. उवसामगस्स अणियड्ढिस्स पढमसमये ठिदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं । ७०४. उवसामगस्स अपुव्वकरणस्स चरिमसमए ठिदिसंतकम्मं विसेसाहियं । ७०५. उवसामगस्स अपुव्वकरणस्स पढमसमए ठिदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं ।

७०६. एत्तो पडिवदमाणयस्स चत्तारि सुत्तगाहाओ अणुभासियव्वाओ । तदो उवसामणा समत्ता भवदि ।

करणके प्रथम समयमे स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है (९२) । गिरनेवालेके अपूर्वकरणके अन्तिम समयमे स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है (९३) ॥ ६९१-६९९ ॥

चूर्णिसू०—गिरनेवालेके अपूर्वकरणके अन्तिम समयमे स्थितिसत्त्व संख्यातगुणा है (९४) । गिरनेवालेके अपूर्वकरणके प्रथम समयमे स्थितिसत्त्व विशेष अधिक है । (९५) । गिरनेवालेके अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमे स्थितिसत्त्व विशेष अधिक है (९६) । उपशामकके अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमे स्थितिसत्त्व संख्यातगुणा है (९७) । उपशामकके अपूर्वकरणके अन्तिम समयमे स्थितिसत्त्व विशेष अधिक है (९८) । उपशामकके अपूर्वकरणके प्रथम समयमें स्थितिसत्त्व संख्यातगुणा है (९९) ॥ ७००-७०५ ॥

चूर्णिसू०—इस प्रकार उपशामक-सम्बन्धी अल्पबहुत्वके पश्चात् उपशान्तमोहसे गिरनेवाले जीवके 'पडिवादो कदिविधो' इत्यादि चार सूत्रगाथाओकी विभाषा करना चाहिए । उनकी विभाषा करनेपर उपशामना समाप्त होती है ॥ ७०६ ॥

इस प्रकार चारित्रमोह-उपशामना नामक चौदहवाँ अर्थाधिकार समाप्त हुआ ।

१५ चरित्तमोहकखवणा-अस्थाहियारो

१. चरित्तमोहणीयस्स खवणाए अधापवत्तकरणद्वा अपुव्वकरणद्वा अणियट्टि-
करणद्वा च एदाओ तिण्णि वि अद्वाओ एगसंवद्वाओ एगावलियाए ओट्टिदव्वाओ ।
२. तदो जाणि कम्मणि अत्थि तेसिं ठिदीओ ओट्टिदव्वाओ । ३. तेसिं चेव अणु-
भागफद्दयाणं जहणफद्दयप्पहुडि एगफद्दयआवलिया ओट्टिदव्वा ।

४. तदो अधापवत्तकरणस्स चरिमसमये अप्पा इदि कट्ट इमाओ चत्तारि सुत्त-
गाहाओ विहासियव्वाओ । ५. तं जहा । ६. संक्रामणपट्टवगस्स परिणामो केरिमो
भवदि त्ति विहासा । ७ तं जहा । ८. परिणामो विसुद्धो पुव्वं पि अंतोमुहुत्तप्पहुडि
विसुद्धमाणो आगदो अणंतगुणाए विसोहीए । ९ जोगे त्ति विहासा । १०. अण्णदरो
मणजोगो, अण्णदरो वचिजोगो, ओरालियकायजोगो वा* । ११. कसाये त्ति विहासा ।

१५ चारित्रमोहक्षपणा-अर्थाधिकार

कर्म-क्षय कर जो वने, शुद्ध बुद्ध अविकार ।

भाषूँ तिनको नमन कर, यह क्षपणा अधिकार ॥

चूर्णिसू०—चारित्रमोहनीयकी क्षपणामे अधःप्रवृत्तकरणकाल, अपूर्वकरणकाल और
अनिवृत्तिकरणकाल, ये तीनों काल परस्पर सम्बद्ध और एकावली अर्थात् ऊर्ध्व एक श्रेणीके
आकारसे विरचित करना चाहिए । तदनन्तर जो कर्म सत्तामे विद्यमान हैं, उनकी स्थितियों-
की पृथक्-पृथक् रचना करना चाहिए । उन्हीं कर्मोंके अनुभागसम्बन्धी स्पर्धकोंकी जघन्य
स्पर्धकसे लेकर उत्कृष्ट स्पर्धक तक एक स्पर्धकावली रचना चाहिए ॥ १-३॥

चूर्णिसू०—तत्पश्चात् अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमे 'आत्मा विशुद्धिके द्वारा बढ़ता
है' इसे आदि करके इन वक्ष्यमाण प्रस्थापनासम्बन्धी चार सूत्र गाथाओकी विभाषा करना
चाहिए । वह इस प्रकार है—'संक्रामण-प्रस्थापकके अर्थात् कषायोका क्षपण प्रारम्भ करनेवालेके
परिणाम किस प्रकारके होते हैं' इस प्रथम गाथाकी विभाषा की जाती है । वह इस प्रकार है
परिणाम विशुद्ध होते है और कषायोका क्षपण प्रारम्भ करनेके भी अन्तर्मुहूर्त पूर्वसे अनन्त-
गुणी विशुद्धिके द्वारा विशुद्ध होते हुए आरहे है । 'योग' इस पदकी विभाषा की जाती है—
कषायोका क्षपण करनेवाला जीव चारो मनोयोगोमेसे किसी एक मनोयोगवाला, चारो वचन-
योगोमेसे किसी एक वचनयोगवाला और औदारिककाययोगी होता है । 'कषाय' इस पदकी
विभाषा की जाती है—चारो कषायोमेसे किसी एक कषायके उदयसे संयुक्त होता है । क्या

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'अण्णदरो ओरालियकायजोगो वा' ऐसा पाठ है । (देखो पृ० १९४२)

१२. अण्णदरो कसायो । १३. किं वड्डमाणो हायमाणो ? णियमा हायमाणो । १४. उवज्जोनेत्ति विहासा । १५. एको उवएसो णियमा सुदोवजुत्तो होदूण खवगसेहिं चहदि त्ति । १६. एको उवदेमो सुदेण वा, मदीए वा, चक्खुदंसणेण वा, अचक्खुदंसणेण वा । १७. लेस्मा त्ति विहासा । १८. णियमा सुक्कलेस्सा । १९. णियमा वड्डमाणलेस्सा । २०. वेदो व को भवे त्ति विहासा । २१. अण्णदरो वेदो ।

२२. काणि वा पुव्ववद्दाणि त्ति विहासा । २३. एत्थ पयडिसंतकम्मं द्विदि-संतकम्मपणुभागसंतकम्मं पदेमसंतकम्मं च मग्गियव्वं । २४. के वा अंसे णिवंधदि त्ति विहासा । २५. एत्थ पयडिवंधो ठिदिवंधो अणुभागबंधो पदेसबंधो च मग्गियव्वो । २६. कदि आवलियं पविसंति त्ति विहासा । २७. मूलपयडीओ सव्वाओ पविसंति । उत्तरपयडीओ वि जाओ अत्थि, ताओ पविसति । २८. कदिण्हं वा पवेसगो त्ति विहासा । २९. आउग-वंदणीयवज्जाणं वेदिज्जमाणानं कम्माणं पवेसगो ।

३०. के अंसे झीयदे पुव्वं बंधेण उदएण वा त्ति विहासा । ३१. थीणगिद्धि-

वर्धमान कपाय होती है, अथवा हीयमान ? नियमसे हीयमान कपाय होती है । 'उपयोग' इस पदकी विभाषा की जाती है—इस त्रिपयमें एक उपदेश तो यह है कि नियमसे श्रुतज्ञान-रूप उपयोगसे उपयुक्त होकर ही क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है । एक दूसरा उपदेश यह है कि श्रुतज्ञानसे, अथवा मतिज्ञानसे, चक्षुदर्शनसे अथवा अचक्षुदर्शनसे उपयुक्त होकर क्षपकश्रेणी-पर चढ़ता है । 'लेश्या' इस पदकी विभाषा की जाती है—चारित्र्यमोहकी क्षपणा प्रारम्भ करने-वालेके नियमसे शुक्कलेश्या होती है । वह भी वर्धमान लेश्या होती है । 'कौन-सा वेद होता है' इस पदकी विभाषा की जाती है—क्षपकश्रेणीपर चढ़नेवाले जीवके तीनो वेदोमेसे कोई एक वेद होता है ॥४-२१॥

चूर्णिसू०—'कौन कौन कर्म पूर्ववद्ध हैं' इस दूसरी प्रस्थापन-गाथाके प्रथम पदकी विभाषा की जाती है—यहाँपर अर्थात् क्षपणा प्रारम्भ करनेवालेके प्रकृतिसत्त्व, स्थितिसत्त्व, अनुभागसत्त्व और प्रदेशसत्त्वका अनुमार्गण करना चाहिए । 'कौन कौन कर्मांशोको बाँधता है' दूसरी गाथाके इस दूसरे पदकी विभाषा की जाती है—यहाँपर प्रकृतिवन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्धका अनुमार्गण करना चाहिए । 'कितनी प्रकृतियाँ उदयावलीमें प्रवेश करती हैं' दूसरी गाथाके इस तीसरे पदकी विभाषा की जाती है—क्षपणा प्रारम्भ करने-वाले जीवके उदयावलीमें मूलप्रकृतियाँ तो सभी प्रवेश करती हैं । उत्तरप्रकृतियाँ भी जो सत्तामें विद्यमान हैं, वे प्रवेश करती हैं । 'कितनी प्रकृतियोंका उदयावलीमें प्रवेश करता है' इस चौथे पदकी विभाषा की जाती है—आयु और वेदनीय कर्मको छोड़कर वेदन किये जाने-वाले सर्व कर्मोंको प्रवेश करता है ॥२२-२९॥

चूर्णिसू०—'कौन कौन कर्मांश बन्ध अथवा उदयकी अपेक्षा पहले निर्जाणि होते हैं' तीसरी गाथाके इस पूर्वार्धकी विभाषा की जाती है—स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, बारह कपाय,

तियमसाद-मिच्छत्त-वारसकसाय-अग्नि-मोग-इन्धिवेद-शुभमवद-मन्त्राणि च आउ-
आणि परियचमाणियाओ णामाओ अमुडाओ मन्त्राओ चैव मणुमगा-ओरालियसरी-
ओरालियसरीरंगोवंग-वज्जमिहसंघउण-मणुमगाओओग्गाणुपुन्नी आदापुज्जोयणामाओ
च सुहाओ णीचागोदं च एदाणि कम्माणि वंधण वोच्छिष्णाणि । ३२. थीणमिद्धिनिय
मिच्छत्त-सम्पत्त-सम्पामिच्छत्त-वारसकभाव मणुमगाउमवज्जाणि आउगाणि शिरयगद-
तिरिक्कगइ-देवगइयाओग्गणामाओ आदारदुगं च वज्जमिहसंघउणवज्जाणि नेमाणि
संघउणाणि मणुमगाओओग्गाणुपुन्नी अपज्जत्तणामं अमुद्धिनियं निन्धयणापं च भिया,
णीचागोदं एदाणि कम्माणि उदण्ण वोच्छिष्णाणि । ३३ अंतरं वा क्कंदि किष्वा के
के संकामगो क्कंदि चि विहामा । ३४. ण ताव अंतरं करंदि, पुग्गो क्कंदिदि नि अंतरं ।

३५. किं द्विदियाणि कम्माणि अणुभागमु केगु वा । ओउट्टेषुण नेमाणि कं
ठाणं पडिवज्जदि चि विहासा । ३६. एदीण गाहाण द्विदिवादो अणुभागवादो च
सूचिदो भवदि । ३७. तदो इमस्स चरिमममयअधापवत्तकरणं वट्टमाणम्म णन्थि द्विदि-
वादो अणुभागवादो वा । से काले दो वि वादा पवत्तिदिति ।

अरति, शोक, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, सभी आयुर्कर्म, परिवर्तमान सभी अशुभ नाम-प्रकृतियाँ,
मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदारिकशरीर-अगोपण, वज्रपुत्रनायाचसंहनन, मनुष्यगति-
प्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, और उद्योत नामकर्म, ये शुभ प्रकृतियाँ, तथा नीचगोत्र, इतने कर्म
क्षपणा प्रारम्भ करनेवालेके बन्धसे व्युच्छिन्न हो जाते हैं । न्त्यानगुद्विचिक, मिथ्यात्व,
सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व, चारद कपाय, मनुष्यायुहो ओइकर शेष आयु, नरकगति,
तिर्यचगति और देवगतिके प्रायोग्य नामकर्मकी प्रकृतियाँ, आहारदिक, वज्रपुत्रनायाचसंहननके
अतिरिक्त शेष संहनन, मनुष्यगति-प्रायोग्यानुपूर्वी, अपर्याप्तनाम, अशुभत्रिक, कदाचिन् तीर्थकर-
नामकर्म और नीचगोत्र, इतने कर्म क्षपणा प्रारम्भ करनेवालेके उदयसे व्युच्छिन्न हो जाते हैं ।
'कहाँपर अन्तर करके किन-किन कर्मोंको कहाँ संक्रमण करता है' तीसरी गाथाके इस
उत्तरार्धकी विभाषा की जाती है—यह अधःप्रवृत्तकरणसंयत यहाँपर अन्तर नहीं करता है, किन्तु
आगे अनिवृत्तिकरणकालके संख्यात बहुभाग व्यतीत होनेपर अन्तर करेगा ॥३०-३४॥

चूर्णिसू०—कपायोकी क्षपणा करनेवाला जीव 'किस-किस स्थिति और अनुभाग-
विशिष्ट कौन-कौनसे कर्मोंका अपवर्तन करके किस-किस स्थानको प्राप्त करता है और शेष
कर्म किस स्थिति तथा अनुभागको प्राप्त होते हैं ।' इस चौथी प्रस्थापन-गाथाकी विभाषा की
जाती है—इस गाथाके द्वारा स्थितिघात और अनुभागघात सूचित किया गया है । इसलिए
अधःप्रवृत्तकरणके चरम समयमें वर्तमान कर्म-क्षपणार्थ समुद्यत इस जीवके न तो स्थितिघात
होता है और न अनुभागघात होता है । किन्तु तदनन्तरकालमें ये दोनों ही घात प्रारम्भ
होगे ॥३५-३७॥

३८. पहमसमयअपुव्वकरणं पविट्ठेण द्विदिखंडयमागाइदं । ३९. अणुभागखंडयं च आगाइदं । ४०. तं पुण अप्पसत्थाणं कम्माणमणंता भागा । ४१. कसायकखवगस्स अपुव्वकरणे पहमद्विदिखंडयस्स पमाणाणुगमं वत्तइस्सामो । ४२. तं जहा । ४३. अपुव्वकरणे पहमद्विदिखंडयं जहण्णयं थोवं । ४४. उक्कस्सयं संखेज्जगुणं । ४५. उक्कस्सयं पि पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो ।

४६. जहा दंसणमोहणीयस्स उवसामणाए च दंसणमोहणीयस्स खवणाए च कसायाणमुवसामणाए च एदेसिं तिण्हमावासयाणं जाणि अपुव्वकरणाणि तेषु अपुव्वकरणेषु पहमद्विदिखंडयं जहण्णयं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो, उक्कस्सयं सागरोवम-पुधत्तं । एत्थ पुण कसायाणं खवणाए जं अपुव्वकरणं तम्हि अपुव्वकरणे पहमद्विदिखंडयं जहण्णयं पि उक्कस्सयं पि पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो ।

४७ दो कसायकखवगा अपुव्वकरणं समगं पविट्ठा । एकस्स पुण द्विदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं, एकस्स द्विदिसंतकम्मं संखेज्जगुणहीणं । जस्स संखेज्जगुणहीणं द्विदिसंतकम्मं, तस्स द्विदिखंडयादो पहमादो संखेज्जगुणद्विदिसंतकम्मियस्स द्विदिखंडयं पहमं संखेज्जगुणं । विदियादो विदियं संखेज्जगुणं । एवं तदियादो तदियं । एदेण कमेण सव्वम्हि

चूर्णिसू०—अपूर्वकरणके प्रथम समयमे प्रवेश करनेवाले क्षपकके द्वारा स्थितिकांडक घात करनेके लिए ग्रहण किया गया और अनुभागकांडक भी घात करनेके लिए ग्रहण किया गया । यह अनुभागकांडक अप्रशस्त कर्मोंके अनन्त बहुभागप्रमाण है । कपायोका क्षपण करनेवाले जीवके अपूर्वकरण गुणस्थानमें प्रथम स्थितिकांडकके प्रमाणानुगमको कहते हैं । वह इस प्रकार है—अपूर्वकरणमे जघन्य प्रथम, स्थितिकांडक सबसे कम है । उत्कृष्ट स्थितिकांडक संख्यातगुणा है । वह उत्कृष्ट भी पल्योपमके संख्यातवे भागप्रमाण है ॥३८-४५॥

चूर्णिसू०—जिस प्रकार दर्शनमोहनीयकी उपशामनामे, दर्शनमोहनीयकी क्षपणामे और कपायोकी उपशामनामे इन तीनों आवश्यकोंके जो अपूर्वकरण-काल हैं, उन अपूर्वकरणोंमें जघन्य प्रथम स्थितिकांडक पल्योपमके संख्यातवें भाग है और उत्कृष्ट सागरोपम-पृथक्त्व-प्रमाण है, उस प्रकार यहाँ नहीं है । किन्तु यहाँपर कपायोकी क्षपणामे जो अपूर्वकरण-काल है, उस अपूर्वकरणमे जघन्य और उत्कृष्ट दोनों ही प्रथम स्थितिकांडक पल्योपमके संख्यातवे भागप्रमाण हैं ॥४६॥

चूर्णिसू०—कपायोका क्षपण करनेके लिए समुद्यत दो क्षपक अपूर्वकरण गुणस्थानमे एक साथ प्रविष्ट हुए । इनमेसे एकका तो स्थितिसत्त्व संख्यातगुणा है और एकका स्थितिसत्त्व संख्यातगुणित हीन है । जिसका स्थितिसत्त्व संख्यातगुणा हीन है, उसके प्रथम स्थितिकांडकसे संख्यातगुणित स्थितिसत्त्ववाले क्षपकका प्रथम स्थितिकांडक संख्यातगुणा है । इसी प्रकार प्रथमके दूसरे स्थितिकांडकसे द्वितीयका दूसरा स्थितिकांडक संख्यातगुणा है । इसी प्रकार तीसरेसे तीसरा स्थितिकांडक संख्यातगुणा है । इस क्रमसे अपूर्वकरणके

अपुव्वकरणे जाव चरिमादो ठिदिखंडयादो त्ति तदिमादो तदिमं संखेज्जगुणं । ४८. एसा द्विदिखंडयपरूवणा अपुव्वकरणे ।

४९. अपुव्वकरणस्स पढमसमये जाणि आवासयाणि ताणि वत्तइस्सामो । ५०. तं जहा । ५१. द्विदिखंडयमागाइदं पलिदांयमस्स संखेज्जदिभागो अप्पसत्थाणं कम्माणमणंता भागा अणुभागखंडयमागाइदं । ५२. पलिदांयमस्स संखेज्जदिभागो द्विदिवंधेण ओसग्गिदो । ५३. गुणसेही उदयावलियवाहिरे णिविखत्ता अपुव्वकरणद्वादं अणियट्टिकरणद्वादो च विसेसुत्तरकालो । ५४. जे अप्पसत्थकम्मसा ण वज्झंति, तेसिं कम्माणं गुणसंक्रमो जादो । ५५. तदो द्विदिसंतकम्मं द्विदिवधो च सागरोवमकोडिसदसहस्स-पुधत्तमंतोकोडाकोडीए । वंधादो पुण संतकम्मं संखेज्जगुणं । ५६. एसा अपुव्वकरणपढमसमए परूवणा ।

५७. एत्तो विदियसमए णाणत्तं । ५८. तं जहा । ५९. गुणमेही असंखेज्जगुणा । सेसे च णिकखेवो । विसोही च अणंतगुणा । मंसेसु आवासएसु णत्थि णाणत्तं । ६०. एवं जाव पढमाणुभागखंडयं समत्तं ति । ६१. से काले अणमणुभागखंडयमागाइदं सेसस्स अणंता भागा । ६२. एवं संखेज्जेसु अणुभागखंडयसहस्सेसु गदंसु अणमणु-सर्व कालमे अन्तिम स्थितिकांडक तक एकसे दूसरा संख्यातगुणित जानना चाहिए । इस प्रकार यह अपूर्वकरणमे स्थितिकांडककी प्ररूपणा की गई ॥४७-४८॥

चूर्णिसू०—अपूर्वकरणके प्रथम समयमे जो आवश्यक होते हैं, उन्हें कहेंगे । वे इस प्रकार हैं—आयुर्कर्मको छोड़कर शेष कर्मोंके स्थितिकांडक पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण ग्रहण करता है । अनुभागकांडक अप्रशस्त कर्मोंके अनन्त बहुभागप्रमाण ग्रहण करता है । पल्योपमका संख्यातवाँ भाग स्थितिवन्धसे घटाता है । उदयावलीके वाहिर निक्षिप्त गुणश्रेणी अपूर्वकरणकाल और अनिवृत्तिकरणकालसे विशेष अधिक है । जो अप्रशस्त कर्म नहीं बंधते हैं, उस कर्मोंका गुणसंक्रमण होता है । तदनन्तर स्थितिसत्त्व और स्थितिवन्ध अन्तःकोड़ा-कोड़ी अर्थान् सागरोपमकोटिशतसहस्रप्रमाण होता है । किन्तु वन्धसे सत्त्व संख्यातगुणा होता है । यह अपूर्वकरणके प्रथम समयमे आवश्यकोकी प्ररूपणा हुई ॥४९-५६॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे द्वितीय समयमें जो विभिन्नता है, उसे कहते हैं । वह इस प्रकार है—यहाँ गुणश्रेणी असंख्यातगुणी है । शेषमे निक्षेप करता है और विशुद्धि अनन्त-गुणी है । शेष आवश्यकोमे कोई विभिन्नता नहीं है । यह क्रम प्रथम अनुभागकांडकके समाप्त होने तक जानना चाहिए । तदनन्तरकालमे अन्य अनुभागकांडकको ग्रहण करता है जो कि घात करनेसे शेष रहे अनुभागके अनन्त बहुभागप्रमाण है । इस प्रकार संख्यात सहस्र

✽ ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'अपुव्वकरणद्वादो अणियट्टिकरणद्वादो च विसेसुत्तरकालो' इतने सूत्रवाको टीकाका अग वना दिया गया है । (देखो पृ० १९५१)

† ताम्रपत्रवाली प्रतिमें यह पूरा सूत्र सूत्राङ्क ५३ की टीकाके अन्तर्गत मुद्रित है (देखो पृ० १९५१) । पर दस सलकी टीकाते ही उसकी सूत्रता सिद्ध है ।

भागखंडयं पृथमद्विदिखंडयं च, जो च पृथमसमए अपुव्वकरणे द्विदिवंधो पवद्धो एदाणि तिणिण वि समगं णिद्विदाणि । ६३. एवं द्विदिवंधसहस्सेहिं गदेहिं अपुव्वकरणद्वाए संखेज्जदिभागे गदे तदो णिदा-पयलाणं वंधवोच्छेदो । ६४ ताधे चेव ताणि गुणसंक्रमेण संक्रमंति । ६५. तदो द्विदिवंधसहस्सेसु गदेषु परभवियणामाणं वंधवोच्छेदो जादो । ६६ तदो द्विदिवंधसहस्सेसु गदेषु चरिमसमयअपुव्वकरणं पत्तो । ६७. से काले पृथम-समयअणियट्ठी जादो ।

६८. पृथमसमयअणियट्ठिस्स आवासयाणि वत्तइस्सामो । ६९. तं जहा । ७०. पृथमसमयअणियट्ठिस्स अण्णं द्विदिखंडयं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो । ७१. अण्ण-मणुभागखंडय सेमस्स अणंता भागा । ७२. अण्णो द्विदिवंधो पलिदावमस्स संखेज्जदि-भागेण हीणो । ७३. पृथमद्विदिखंडयं विसमं जहण्णयादो उक्कस्सयं संखेज्जभागुत्तरं ।

७४. पृथमे द्विदिखंडये हदं सव्वस्स तुल्लकाले अणियट्ठिपविट्ठस्स द्विदिसंतकम्मं तुल्लं द्विदिखंडयं पि सव्वस्स अणियट्ठिपविट्ठस्स त्रिदियट्ठिदिखंडयादो विदियट्ठिदि-खंडयं तुल्लं । तदोपपहृडि तदियादो तदियं तुल्लं । ७५. द्विदिवंधो सागरोवमसहस्स-

अनुभागकांडकोके व्यतीत होनेपर अन्य अनुभागकांडक, प्रथम स्थितिकांडक और जो अपूर्व-करणके प्रथम समयमें स्थितिवन्ध बांधा था वह, ये तीनों ही एक साथ समाप्त हो जाते हैं । इस प्रकार स्थितिवन्ध-सहस्रोंके द्वारा अपूर्वकरणके कालका संख्यातवाँ भाग व्यतीत होनेपर निद्रा और प्रचलाका वन्धव्युच्छेद हो जाता है । उसी समयमें ही ये दोनों प्रकृतियों गुण-संक्रमणके द्वारा अन्य प्रकृतियोंमें संक्रमण करती हैं । तदनन्तर स्थितिवन्ध-सहस्रोंके व्यतीत होनेपर पर-भवसम्बन्धी नामकर्मकी प्रकृतियोंकी वन्ध-व्युच्छित्ति हो जाती है । तदनन्तर स्थितिवन्धसहस्रोंके व्यतीत होनेपर अपूर्वकरणका चरम समय प्राप्त होता है । तदनन्तर कालमें वह प्रथम समयवर्ती अनिवृत्तिकरणसंयत हो जाता है ॥५७-६७॥

चूर्णिसू०—प्रथमसमयवर्ती अनिवृत्तिकरणसंयतके जो आवश्यक होते हैं, उन्हें कहते हैं । वे इस प्रकार हैं—अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें पर्योपमके संख्यातवे भागप्रमाण अन्य स्थितिकांडक होता है, अन्य अनुभागकांडक होता है, जो कि घातसे शेष रहे अनु-भगके अनन्त बहुभागप्रमाण है । पर्योपमके संख्यातवे भागसे हीन अन्य स्थितिवन्ध होता है । (अनिवृत्तिकरणके प्रथमसमयवर्ती नानाजीवोंके परिणाम सदृश होते हुए भी) प्रथम स्थितिकांडक विपम ही होता है और जघन्य प्रथम स्थितिकांडकसे उत्कृष्ट प्रथम स्थितिकांडक पर्योपमके संख्यातवे भागसे अधिक होता है ॥६८-७३॥

चूर्णिसू०—प्रथम स्थितिकांडकके नष्ट होनेपर अनिवृत्तिकरणमें समानकालमें वर्तमान सब जीवोंका स्थितिसत्त्व और स्थितिकांडक भी समान होता है । अनिवृत्तिकरणमें प्रविष्ट हुए सब जीवोंका द्वितीय स्थितिकांडकसे द्वितीय स्थितिकांडक समान होता है, और उससे आगे तृतीय स्थितिकांडकसे तृतीय स्थितिकांडक समान होता है । (यही क्रम आगे

पुधत्तमंतो सदसहस्ससस । ७६. द्विदिसंतकम्मं सागरोवमसदसहस्सपुधत्तमंतोकोडीए ।
 ७७. गुणसेढिणिक्खेवो जो अपुव्वकरणे णिक्खेवो तस्स सेसे सेसे च भवदि । ७८.
 सव्वकम्मणं पि तिण्णि करणाणि वोच्छिण्णाणि । जहा—अप्पसत्थउवसामणकरणं णिध-
 चीकरणं णिकाचनाकरणं च । ७९. एदाणि सव्वाणि पढमसमयअणियट्टिस्स आवासयाणि
 परूचिदाणि ।

८०. से काले एदाणि चेव । णवरि गुणसेढी असंखेज्जगुणा । सेसे सेसे च
 णिक्खेवो । विसोही च अणंतगुणा । ८१. एवं संखेज्जेसु द्विदिवंधसहस्सेसु गदेसु तदो
 अण्णो द्विदिवंधो असण्णिद्विदिवंधसमगो जादो । ८२. तदो संखेज्जेसु द्विदिवंधसहस्सेसु
 गदेसु चउरिंदियद्विदिवंधसमगो द्विदिवंधो जादो । ८३. एवं तीइंदियसमगो वीइंदिय-
 समगो एइंदियसमगो जादो । ८४. तदो एइंदिय-द्विदिवंधसमगादो द्विदिवंधादो
 संखेज्जेसु द्विदिवंधसहस्सेसु गदेसु णामा-गोदाणं पलिदोवमट्टिदिगो वंधो जादो । ८५.
 ताथे णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेदणीय-अंतराइयाणं दिवड्डुपलिदोवमट्टिदिगो वंधो ।
 ८६ मोहणीयस्स वेपलिदोवमट्टिदिगो वंधो । ८७. ताथे द्विदिसंतकम्मं सागरोवम-
 सदसहस्सपुधत्तं ।

भी जानना चाहिए ।) अनिवृत्तिकरणमे स्थितिवन्ध सागरोपम-सहस्रपृथक्त्व अर्थात् लक्ष-
 सागरोपमके अन्तर्गत रहता है । स्थितिसत्त्व सागरोपम-शतसहस्रपृथक्त्व अर्थात् अतःकोडी
 सागरोपम रहता है । गुणश्रेणीनिक्षेप, जो अपूर्वकरणमे निक्षेप था, उसके शेष शेषमे ही
 निक्षेप होता है । अनिवृत्तिकरणमे सभी कर्मोंके अप्रशस्तोपशामनाकरण, निधत्तीकरण और
 निकाचनाकरण, ये तीनों ही करण व्युच्छिन्न हो जाते हैं । ये सब प्रथमसमयवर्ती अनि-
 वृत्तिकरणके आवश्यक कहे ॥७४-७९॥

चूर्णिसू०—तदनन्तर कालमे ये उपर्युक्त ही आवश्यक होते हैं, विशेषता केवल यह
 है कि यहाँ गुणश्रेणी असंख्यातगुणी होती है । शेष शेषमे निक्षेप होता है । विशुद्धि भी
 अनन्तगुणी होती है । इस प्रकार संख्यात सहस्र स्थितिवन्धोके व्यतीत होनेपर तब अन्य
 स्थितिवन्ध असंखी जीवके स्थितिवन्धके सदृश होता है । पुनः संख्यात सहस्र स्थितिवन्धोके
 व्यतीत होनेपर चतुरिन्द्रियके स्थितिवन्धके सदृश स्थितिवन्ध होता है । इस प्रकार क्रमशः
 त्रीन्द्रियके सदृश, द्वीन्द्रियके सदृश और एकेन्द्रियके सदृश स्थितिवन्ध होता है । तत्पश्चात्
 एकेन्द्रियके स्थितिवन्धके समान स्थितिवन्धसे संख्यात सहस्र स्थितिवन्धोके व्यतीत होनेपर
 नाम और गोत्र कर्मका पल्योपमकी स्थितिवाला वन्ध होता है । उसी समय ज्ञानावरणीय,
 दर्शनावरणीय और अन्तराय कर्मका डेढ़ पल्योपमप्रमाण स्थितिवन्ध होता है । मोहनीयका
 दो पल्योपमप्रमाण स्थितिवन्ध होता है । उस समयमे सर्व कर्मोंका स्थितिसत्त्व सागरोपमशत-
 सहस्रपृथक्त्व है ॥८०-८७॥

८८. जाधे णामा-गोदाणं पलिदोवमट्टिदिगो वंधो ताधे अप्पावहुअं वत्तइ-
स्सामो । ८९. तं जहा । ९०. णामा-गोदाणं ठिदिबंधो थोवो । ९१. णाणावरणीय-
दंसणावरणीय-वेदणीय-अंतराइयाणं ठिदिबंधो विसेसाहिओ । ९२. मोहणीयस्स ट्टिदि-
बंधो विसेसाहिओ । ९३. अदिकंता सन्वे ट्टिदिबंधा एदेण अप्पावहुअविहिणा गदा ।

९४. तदो णामा-गोदाणं पलिदोवमट्टिदिगे बंधेः पुण्णे जो अण्णो ठिदिबंधो,
सो संखेज्जगुणहीणो । ९५. सेसाणं कम्माणं ठिदिबंधो विसेसहीणो । ९६. ताधे अप्पा-
वहुअं । णामा-गोदाणं ठिदिबंधो थोवो । ९७. चटुण्हं कम्माणं ठिदिबंधो तुल्लो
संखेज्जगुणो । ९८. मोहणीयस्स ठिदिबंधो विसेसाहिओ । ९९. एदेण कमेण संखेज्जाणि
ट्टिदिबंधसहस्साणि गदाणि । १०० तदो णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेदणीय-अंत-
राइयाणं पलिदोवमट्टिदिगो बंधो जादो । १०१. ताधे मोहणीयस्स तिभागुत्तरपलिदो-
वमट्टिदिगो बंधो जादो । १०२. तदो अण्णो ठिदिबंधो चटुण्हं कम्माणं संखेज्जगुण-
हीणं । १०३. ताधे अप्पावहुअं । णामा-गोदाणं ठिदिबंधो थोवो । १०४. चटुण्हं
कम्माणं ठिदिबंधो संखेज्जगुणो । १०५. मोहणीयस्स ठिदिबंधो संखेज्जगुणो ।
१०६. एदेण कमेण संखेज्जाणि ठिदिबंधसहस्साणि गदाणि ।

चूर्णिसू०—जिस समय नाम और गोत्रका पल्योपमकी स्थितिवाला बन्ध होता है,
उस समयका अल्पबहुत्व कहते हैं । वह इस प्रकार है—नाम और गोत्रका स्थितिवन्ध सबसे
कम है । ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तरायका स्थितिवन्ध विशेष अधिक
है । मोहनीयका स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । अतिक्रान्त अर्थात् इससे पूर्वमें वर्णित सभी
स्थितिवन्ध इसी अल्पबहुत्वविधानसे व्यतीत हुए हैं ॥८८-९३॥

चूर्णिसू०—पुनः नाम और गोत्रका पल्योपमकी स्थितिवाला बन्ध पूर्ण होनेपर जो
अन्य स्थितिवन्ध होता है, वह संख्यातगुणा हीन होता है । शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध विशेष
हीन होता है । उस समय अल्पबहुत्व इस प्रकार है—नाम और गोत्रका स्थितिवन्ध सबसे
कम है । ज्ञानावरणादि चार कर्मोंका स्थितिवन्ध परस्पर तुल्य और संख्यातगुणा है । मोह-
नीय कर्मका स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इस क्रमसे संख्यात सहस्र स्थितिवन्ध व्यतीत
होते हैं । तत्र ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय कर्मका स्थितिवन्ध पल्योपम-
प्रमाण होता है । उसी समय मोहनीयका त्रिभागसे अधिक, पल्योपमप्रमाण स्थितिवन्ध
होता है । तत्पश्चात् ज्ञानावरणादि चार कर्मोंका जो अन्य स्थितिवन्ध है वह संख्यातगुणा-
हीन है । उस समय अल्पबहुत्व इस प्रकार है—नाम और गोत्रका स्थितिवन्ध सबसे कम है ।
ज्ञानावरणादि चार कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । मोहनीयका स्थितिवन्ध संख्यात-
गुणा है । इस क्रमसे संख्यात सहस्र स्थितिवन्ध व्यतीत होते हैं ॥९४-१०६॥

* ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'पलिदोवमट्टिदिगो बंधो' ऐसा पाठ मुद्रित है । (देखो पृ० १९५७)

† ताम्रपत्रवाली प्रतिमें 'असंखेज्जगुणो' पाठ मुद्रित है । (देखो पृ० १९५८)

१०७. तदो मोहणीयस्स पलिदोवमड्ढिदिगो वंधो । १०८. सेसाणं कम्माणं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो ठिदिबंधो । १०९. एदम्हि ठिदिबंधे पुण्णे मोहणीयस्स ठिदिबंधो पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो । ११०. तदो सव्वेसिं कम्माणं ठिदिबंधो पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो चैव । १११. ताधे वि अप्पावहुअं । णामा-गोदाणं ठिदिबंधो थोवो । ११२. णाणावरण-दंसणावरण वेदणीय-अंतराइयाणं ठिदिबंधो संखेज्जगुणो । ११३. मोहणीयस्स ठिदिबंधो संखेज्जगुणो । ११४. एदेण क्रमेण संखेज्जाणि ठिदिबंधसहस्साणि गदाणि ।

११५. तदो अण्णो ठिदिबंधो जाधे णामा-गोदाणं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ताधे सेसाणं कम्माणं ठिदिबंधो पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो । ११६. ताधे अप्पावहुअं णामा-गोदाणं ठिदिबंधो थोवो । ११७. चदुण्हं कम्माणं ठिदिबंधो असंखेज्जगुणो । ११८. मोहणीयस्स ठिदिबंधो संखेज्जगुणो । ११९. तदो संखेज्जेसु ठिदिबंधसहस्सेसु गदेसु तिण्हं वादिकम्माणं वेदणीयस्स च पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ठिदिबंधो जादो । १२०. ताधे अप्पावहुअं णामा-गोदाणं ठिदिबंधो थोवो । १२१. चदुण्हं कम्माणं ठिदिबंधो असंखेज्जगुणो । १२२. मोहणीयस्स ठिदिबंधो असंखेज्जगुणो ।

चूर्णिसू०—तत्पश्चात् मोहनीयका स्थितिवन्ध पल्योपमप्रमाण होता है और शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण होता है । इस स्थितिवन्धके पूर्ण होनेपर मोहनीयका स्थितिवन्ध पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण होता है । तत्पश्चात् सब कर्मोंका स्थितिवन्ध पल्योपमके संख्यातवे भागमात्र ही होता है । उस समय भी अल्पबहुत्व इस प्रकार है—नाम और गोत्रका स्थितिवन्ध सबसे कम है । ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तरायका स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । मोहनीयका स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इस क्रमसे संख्यात सहस्र स्थितिवन्ध व्यतीत होते हैं ॥१०७-११४॥

चूर्णिसू०—तत्पश्चात् अन्य प्रकारका स्थितिवन्ध होता है । जिस समय नाम और गोत्रकर्मका पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण स्थितिवन्ध होता है, उस समय शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध पल्योपमके संख्यातवे भागप्रमाण होता है । उस समय अल्पबहुत्व इस प्रकार है—नाम और गोत्रकर्मका स्थितिवन्ध सबसे कम होता है । चार कर्मोंका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा होता है और मोहनीयका स्थितिवन्ध संख्यातगुणा होता है । तत्पश्चात् संख्यात सहस्र स्थितिवन्धोंके व्यतीत होनेपर तीन वातिया कर्मोंका और वेदनीय कर्मका स्थितिवन्ध पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण हो जाता है । उस समय अल्पबहुत्व इस प्रकार है—नाम और गोत्रकर्मका स्थितिवन्ध सबसे कम होता है । ज्ञानावरणादि चार कर्मोंका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा होता है । मोहनीय कर्मका स्थितिवन्ध असंख्यात गुणा होता है ॥११५-१२२॥

१२३. तदो संखेज्जेषु ठिदिवंधसहस्सेसु गदेसु मोहणीयस्स वि पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ठिदिवंधो जादो । १२४. ताधे सव्वेसिं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ठिदिवंधो जादो । १२५. ताधे ठिदिसंतकम्मं सागरोवमसहस्सपुधत्तमंतोसदसहस्सस्स । १२६. जाधे पढमदाए मोहणीयस्स पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ठिदिवंधो जादो, ताधे अप्पावहुअं । १२७. णामा-गोदाणं ठिदिवंधो थोवो । १२८. चउण्हं कम्माणं ठिदिवंधो तुल्लो असंखेज्जगुणो । १२९. मोहणीयस्स ठिदिवंधो असंखेज्जगुणो ।

१३०. एदेण कमेण संखेज्जाणि ठिदिवंधसहस्साणि गदाणि । १३१. तदो जम्हि अण्णो ठिदिवंधो तम्हि एकसराहेण णामा-गोदाणं ठिदिवंधो थोवो । १३२. मोहणीयस्स ठिदिवंधो असंखेज्जगुणो । १३३. चउण्हं कम्माणं ठिदिवंधो तुल्लो असंखेज्जगुणो । १३४. एदेण कमेण संखेज्जाणि ठिदिवंधसहस्साणि गदाणि । तदो जम्हि अण्णो ठिदिवंधो तम्हि एकसराहेण मोहणीयस्स ठिदिवंधो थोवो । १३५. णामा-गोदाणं ठिदिवंधो असंखेज्जगुणो । १३६. चउण्हं कम्माणं ठिदिवंधो तुल्लो असंखेज्जगुणो ।

१३७. एदेण कमेण संखेज्जाणि ठिदिवंधसहस्साणि गदाणि । तदो जम्हि अण्णो ठिदिवंधो तम्हि एकसराहेण मोहणीयस्स ठिदिवंधो थोवो । १३८. णामा-गोदाणं

चूर्णिसू०—तत्पश्चात् संख्यात सहस्र स्थितिवन्धोके व्यतीत होनेपर मोहनीयका भी पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण स्थितिवन्ध हो जाता है । उसी समय शेष सर्व कर्मोंका भी स्थितिवन्ध पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण हो जाता है । उस समय सर्व कर्मोंका स्थितिसत्त्व सागरोपम-सहस्रपृथक्त्व है, जो कि सागरोपम-लक्षके अन्तर्गत है । जिस समय प्रथम वार मोहनीयका स्थितिवन्ध पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है, उस समय अल्पवहुत्व इस प्रकार है—नाम और गोत्रका स्थितिवन्ध सबसे कम है । चार कर्मोंका स्थितिवन्ध परस्पर समान और असंख्यातगुणा है । मोहनीय कर्मका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है ॥१२३-१२९॥

चूर्णिसू०—इस क्रमसे संख्यात सहस्र स्थितिवन्ध व्यतीत होते हैं । तत्पश्चात् जिस समयमें अन्य प्रकारका स्थितिवन्ध प्रारम्भ होता है, उस समयमें एक साथ नाम और गोत्रका स्थितिवन्ध सबसे कम होता है । मोहनीयका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा होता है । चार कर्मोंका स्थितिवन्ध परस्पर समान और असंख्यातगुणा होता है । इस क्रमसे संख्यात सहस्र स्थितिवन्ध व्यतीत होते हैं । तत्पश्चात् जिस समयमें अन्य स्थितिवन्ध प्रारम्भ होता है, उस समयमें एक साथ ही मोहनीयका स्थितिवन्ध सबसे कम हो जाता है । नाम और गोत्रका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा होता है और शेष चार कर्मोंका स्थितिवन्ध परस्पर तुल्य और असंख्यातगुणा होता है ॥१३०-१३६॥

चूर्णिसू०—इस उपयुक्त क्रमसे संख्यात सहस्र स्थितिवन्ध व्यतीत होते हैं । तत्पश्चात् जिस समयमें अन्य स्थितिवन्ध प्रारम्भ होता है, उस समय एक साथ मोहनीयका

ठिदिवंधो असंखेज्जगुणो । १३९. तिण्हं घादिकम्माणं ठिदिवंधो असंखेज्जगुणो । १४०. वेदणीयस्स ठिदिवंधो असंखेज्जगुणो । १४१. एवं संखेज्जाणि ठिदिवंधसहस्साणि गदाणि । १४२. तदो अण्णो ठिदिवंधो एकसराहेण मोहणीयस्स ठिदिवंधो थोवो । १४३. तिण्हं घादिकम्माणं ठिदिवंधो असंखेज्जगुणो । १४४. णामा-गोदाणं ठिदिवंधो असंखेज्जगुणो । १४५. वेदणीयस्स ठिदिवंधो विसेसाहिओ ।

१४६. एदेणेव क्रमेण संखेज्जाणि ठिदिवंधसहस्साणि गदाणि । १४७. तदो ठिदिसंतकम्ममसण्णिठिदिवंधेण समगं जादं । १४८. तदो संखेज्जेसु ठिदिवंधसहस्सेसु गदेसु चउरिंदियठिदिवंधेण समगं जादं । १४९. एवं तीइंदिय-त्रीइंदियठिदिवंधेण समगं जादं । १५०. तदो संखेज्जेसु ठिदिखंडयसहस्सेसु गदेसु एइंदियठिदिवंधेण समगं ठिदिसंतकम्मं जादं । १५१. तदो संखेज्जेसु ठिदिखंडयसहस्सेसु गदेसु णामा-गोदाणं पलिदोवमट्ठिदिसंतकम्मं जादं ।

१५२. ताथे चटुण्हं कम्माणं दिवड्डुपलिदोवमट्ठिदिसंतकम्मं । १५३. मोहणीयस्स वि वेपलिदोवमट्ठिदिसंतकम्मं । १५४. एदम्मि ठिदिखंडए उक्किण्णे णामा-गोदाणं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागियं ठिदिसंतकम्मं । १५५. ताथे अप्पावहुअं । सच्चत्थोवं

स्थितिवन्ध सबसे कम हो जाता है । नाम और गोत्रका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा होता है । तीन घातिया कर्मोंका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा होता है । वेदनीयका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा होता है । इस प्रकार संख्यात सहस्र स्थितिवन्ध व्यतीत होते हैं । तत्पश्चात् अन्य स्थितिवन्ध प्रारम्भ होता है । उस समय एक साथ मोहनीयका स्थितिवन्ध सबसे कम होता है । तीन घातिया कर्मोंका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा होता है । नाम और गोत्र कर्मका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा होता है । वेदनीयका स्थितिवन्ध विशेष अधिक होता है ॥ १३७-१४५ ॥

चूर्णिसू०—इस ही क्रमसे संख्यात सहस्र स्थितिवन्ध व्यतीत होते हैं । तब सब कर्मोंका स्थितिसत्त्व असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीवके स्थितिवन्धके समान हो जाता है । तत्पश्चात् संख्यात सहस्र स्थितिवन्धोके वीत जानेपर चतुरिन्द्रियके स्थितिवन्धके समान स्थितिसत्त्व हो जाता है । इसी प्रकार क्रमशः त्रीन्द्रिय और द्वीन्द्रियके स्थितिवन्धके सदृश स्थितिसत्त्व होता है । पुनः संख्यात सहस्र स्थितिकांडकोके व्यतीत होनेपर एकेन्द्रियके स्थितिवन्धके सदृश स्थितिसत्त्व हो जाता है । तत्पश्चात् संख्यात सहस्र स्थितिकांडकोके व्यतीत होनेपर नाम और गोत्र कर्मका स्थितिसत्त्व पल्योपमप्रमाण हो जाता है ॥ १४६-१५१ ॥

चूर्णिसू०—उस समय ज्ञानावरणादि चार कर्मोंका स्थितिसत्त्व डेढ़ पल्योपम-प्रमाण है । मोहनीयका भी स्थितिसत्त्व दो पल्योपम-प्रमाण है । इस स्थितिकांडके उत्कीर्ण होनेपर नाम और गोत्र कर्मका स्थितिसत्त्व पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण हो जाता है । उस समयमे अल्पवहुत्व इस प्रकार है—नाम और गोत्रका स्थितिसत्त्व सबसे कम है । चार कर्मोंका स्थिति-

णामा-गोदाणं ठिदिसंतकम्मं । १५६. चउण्हं कम्माणं ठिदिसंतकम्मं तुल्लं संखेज्जगुणं । १५७ मोहणीयस्स ठिदिसंतकम्मं विसेसाहियं । १५८. एदेण कमेण ठिदिखंडयपुधत्ते गदे तदो चउण्हं कम्माणं पलिदोवमड्ढिदिसंतकम्मं । १५९. ताथे मोहणीयस्स पलिदोवमं तिभागुत्तरं ठिदिसंतकम्मं ।

१६०. तदो ड्ढिदिखंडए पुण्णे चउण्हं कम्माणं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो ड्ढिदिसंतकम्मं । १६१. ताथे अप्पावहुअं । सच्चत्थोवं णामा-गोदाणं ड्ढिदिसंतकम्मं । १६२. चउण्हं कम्माणं ड्ढिदिसंतकम्मं तुल्लं संखेज्जगुणं । १६३. मोहणीयस्स ड्ढिदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं । १६४. तदो ड्ढिदिखंडयपुधत्तेण मोहणीयस्स ड्ढिदिसंतकम्मं पलिदोवमं जादं ।

१६५. तदो ड्ढिदिखंडए पुण्णे सत्तण्हं कम्माणं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो ड्ढिदिसंतकम्मं जादं । १६६. तदो संखेज्जेसु ड्ढिदिखंडयसहस्सेसु गदेसु णामा-गोदाणं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ड्ढिदिसंतकम्मं जादं । १६७. ताथे अप्पावहुअं । सच्चत्थोवं णामा-गोदाणं ड्ढिदिसंतकम्मं । १६८. चउण्हं कम्माणं ड्ढिदिसंतकम्मं तुल्लमसंखेज्जगुणं । १६९. मोहणीयस्स ड्ढिदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं । १७०. तदो ड्ढिदिखंडयपुधत्तेण चउण्हं कम्माणं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ड्ढिदिसंतकम्मं जादं । १७१. ताथे अप्पावहुअं । णामा-गोदाणं ड्ढिदिसंतकम्मं थोवं । १७२. चउण्हं कम्माणं ड्ढिदि-

सत्त्व परस्पर तुल्य और संख्यातगुणा है । मोहनीयका स्थितिसत्त्व विशेष अधिक है । इस क्रमसे स्थितिकांडकप्रथक्त्वके व्यतीत होनेपर चार कर्मोंका स्थितिसत्त्व पल्योपमप्रमाण होता है । उमी समय मोहनीयका स्थितिसत्त्व त्रिभागसे अधिक पल्योपमप्रमाण होता है ॥ १५२-१५९ ॥

चूर्णिसू०—तत्पश्चात् स्थितिकांडकके पूर्ण होनेपर चार कर्मोंका स्थितिसत्त्व पल्योपमके संख्यातवे भागप्रमाण होता है । उस समय अल्पवहुत्व इस प्रकार है—नाम और गोत्रका स्थितिसत्त्व सबसे कम है । चार कर्मोंका स्थितिसत्त्व परस्पर समान और संख्यातगुणा है । मोहनीयका स्थितिसत्त्व संख्यातगुणा है । तत्पश्चात् स्थितिकांडक-प्रथक्त्वसे मोहनीयका स्थितिसत्त्व पल्योपमप्रमाण हो जाता है ॥ १६०-१६४ ॥

चूर्णिसू०—तदनन्तर स्थितिकांडकके पूर्ण होनेपर सात कर्मोंका स्थितिसत्त्व पल्योपमके संख्यातवे भागप्रमाण हो जाता है । पुनः संख्यात महस्र स्थितिकांडकोंके व्यतीत होनेपर नाम और गोत्रका स्थितिसत्त्व पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण हो जाता है । उस समय अल्पवहुत्व इस प्रकार है—नाम और गोत्रका स्थितिसत्त्व सबसे कम है । चार कर्मोंका स्थितिसत्त्व परस्पर समान और असंख्यातगुणा है । मोहनीयका स्थितिसत्त्व संख्यातगुणा है । पुनः स्थितिकांडकप्रथक्त्वके पश्चात् चार कर्मोंका स्थितिसत्त्व पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण हो जाता है । उस समय अल्पवहुत्व इस प्रकार है—नाम और गोत्रका स्थितिसत्त्व सबसे कम है । चार कर्मोंका स्थितिसत्त्व परस्पर तुल्य और असंख्यातगुणा है ।

संतकर्मं तुल्लमसंखेज्जगुणं । १७३. मोहणीयस्स द्विदिसंतकम्ममसंखेज्जगुणं । १७४. तदो द्विदिखंडयपुधत्तेण मोहणीयस्स वि पलिदोचमस्स असंखेज्जदिभागो द्विदिसंतकम्मं जादं । १७५. ताधे अप्पावहुअं । जधा-णामा-गोदाणं द्विदिसंतकम्म थोवं । १७६. चउण्हं कम्माणं द्विदिसंतकम्मं तुल्लमसंखेज्जगुणं । १७७. मोहणीयस्स द्विदिसंतकम्मं असंखेज्जगुणं ।

१७८. एदेण क्रमेण संखेज्जाणि द्विदिखंडयसहस्साणि गदाणि । १७९. तदो णामा-गोदाणं द्विदिसंतकम्मं थोवं । १८०. मोहणीयस्स द्विदिसंतकम्ममसंखेज्जगुणं । १८१. चउण्हं कम्माणं द्विदिसंतकम्मं तुल्लमसंखेज्जगुणं । १८२. तदो द्विदिखंडयपुधत्तेण गदे एकसराहेण मोहणीयस्स द्विदिसंतकम्मं थोवं । १८३. णामा-गोदाणं द्विदिसंतकम्ममसंखेज्जगुणं । १८४. चउण्हं कम्माणं द्विदिसंतकम्मं तुल्लमसंखेज्जगुणं ।

१८५. तदो द्विदिखंडयपुधत्तेण मोहणीयस्स द्विदिसंतकम्मं थोवं । १८६. णामा-गोदाणं द्विदिसंतकम्मं असंखेज्जगुणं । १८७. तिण्हं घादिकम्माणं द्विदिसंतकम्ममसंखेज्जगुणं । १८८. वेदणीयस्स द्विदिसंतकम्ममसंखेज्जगुणं । १८९. तदो द्विदिखंडय-पुधत्तेण मोहणीयस्स द्विदिसंतकम्मं थोवं । १९०. तिण्हं घादिकम्माणं द्विदिसंतकम्ममसंखेज्जगुणं । १९१. णामा-गोदाणं द्विदिसंतकम्ममसंखेज्जगुणं । १९२. वेदणीयस्स

मोहनीयका स्थितिसत्त्व असंख्यातगुणा है । पुनः स्थितिकांडकपृथक्त्वके पश्चात् मोहनीयका भी स्थितिसत्त्व पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण हो जाता है । उस समय अल्पवहुत्व इस प्रकार है—नाम और गोत्रकर्मका स्थितिसत्त्व सबसे कम है । चार कर्मों का स्थितिसत्त्व परस्पर तुल्य और असंख्यातगुणा है । मोहनीयका स्थितिसत्त्व असंख्यातगुणा है ॥ १६५-१७७ ॥

चूर्णिसू०—इस क्रमसे संख्यातसहस्र स्थितिकांडक व्यतीत होते हैं । तब नाम और गोत्रका स्थितिसत्त्व सबसे कम होता है । मोहनीयका स्थितिसत्त्व असंख्यातगुणा होता है । चार कर्मों का स्थितिसत्त्व परस्पर तुल्य और असंख्यातगुणा होता है । तत्पश्चात् स्थितिकांडक पृथक्त्वके व्यतीत होनेपर एक साथ मोहनीयका स्थितिसत्त्व सबसे कम हो जाता है । नाम और गोत्रका स्थितिसत्त्व असंख्यातगुणा होता है । चार कर्मों का स्थितिसत्त्व परस्पर तुल्य और असंख्यातगुणा होता है ॥ १७८-१८४ ॥

चूर्णिसू०—तदनन्तर स्थितिकांडक-पृथक्त्वके पश्चात् मोहनीयका स्थितिसत्त्व सबसे कम हो जाता है । नाम और गोत्रका स्थितिसत्त्व असंख्यातगुणा होता है । तीन घातिया कर्मों का स्थितिसत्त्व असंख्यातगुणा होता है । वेदनीयका स्थितिसत्त्व असंख्यातगुणा होता है । पुनः स्थितिकांडकपृथक्त्वके पश्चात् मोहनीयका स्थितिसत्त्व सबसे कम होता है । तीन घातिया कर्मों का स्थितिसत्त्व असंख्यातगुणा होता है । नाम और गोत्रकर्मका स्थितिसत्त्व असंख्यातगुणा होता है । वेदनीयका स्थितिसत्त्व विशेष अधिक होता है । इस क्रमसे

द्विदिसंतकम्मं विसेसादियं । १९३. एदेण कमेण संखेज्जाणि द्विदिसंखंडयसहस्साणि गदाणि ।
१९४. तदो असंखेज्जाणं समयपवट्ठाणमुदीरणा ।

१९५. तदो संखेज्जेसु द्विदिसंखंडयसहस्सेसु गदेसु अट्ठण्हं कसायाणं संकामगो ।
१९६. तदो अट्ठकसाया द्विदिसंखंडयपुधत्तेण संकामिज्जंति । १९७. अट्ठण्हं कसायाणम-
पच्छिमद्विदिसंखंडए उक्किण्णे तेसि संतकम्ममावलियपविट्ठं सेसं । १९८ तदो द्विदिसंखंडय-
पुधत्तेण णिदाणिदा-पयलापयला-थीणगिद्धीणं णिरयगदि-तिरिक्खमदिपाओग्गणामाणं
संतकम्मस्स संकामगो । १९९. तदो द्विदिसंखंडयपुधत्तेण अपच्छिमं द्विदिसंखंडए उक्किण्णे
एदेसि सोलसण्हं कम्माणं द्विदिसंतकम्ममावलियमंतरं सेसं ।

२००. तदो द्विदिसंखंडयपुधत्तेण मणपज्जवणाणावरणीय-दानंतराइयाणं च
अणुभागो वंधेण देसवादी जादो । २०१. तदो द्विदिसंखंडयपुधत्तेण ओहिणाणावरणीय-
ओहिदंसणावरणीय-लाहंतराइयाणमणुभागो वंधेण देसवादी जादो । २०२. तदो द्विदि-
संखंडयपुधत्तेण सुदणाणावरणीय-अचक्खुदंसणावरणीय-भोगंतराइयाणमणुभागो वंधेण
देसवादी जादो । २०३. तदो द्विदिसंखंडयपुधत्तेण चक्खुदंसणावरणीय-अणुभागो वंधेण
देसवादी जादो । २०४. तदो द्विदिसंखंडयपुधत्तेण आभिणिओहिगणाणावरणीय-परिभो-

संख्यात सहस्र स्थितिकांडक व्यतीत होते हैं । तत्पश्चात् असंख्यात समयप्रवट्टांकी उदीरणा
होती है ॥ १८५-१९४ ॥

चूर्णिसू०—तत्पश्चात् संख्यात सहस्र स्थितिकांडकोके व्यतीत होनेपर आठ मध्यम
कपायोंका संक्रामक अर्थात् क्षपणाका प्रारम्भक होता है । तत्पश्चात् स्थितिकांडकपृथक्त्वसे
आठ कपाय मंक्रान्त की जाती हैं । आठ कपायोंके अन्तिम स्थितिकांडकके उत्कीर्ण होनेपर
उनका स्थितिमत्त्व आवली-प्रविष्ट शेष अर्थात् उदयावलीप्रमाण रहता है । पुनः स्थितिकांडक-
पृथक्त्वके पश्चात् निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला और स्त्यानगृद्धि तथा नरकगति और तिर्यचगति-
के प्रायोग्य नामकर्मकी तेरह प्रकृतियोंके स्थितिसत्त्वका संक्रामक होता है । (वे तेरह प्रकृ-
तियाँ ये हैं—नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, तिर्यगति, तिर्यगत्यानुपूर्वी, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय,
त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रियजाति, आताप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण ।) पुनः स्थिति-
कांडकपृथक्त्वसे अपश्चिम स्थितिकांडकके उत्कीर्ण होनेपर इन उपर्युक्त सोलह कर्मोंका
स्थितिसत्त्व उदयावली-प्रविष्ट शेष रहता है ॥ १९५-१९९ ॥

चूर्णिसू०—तत्पश्चात् स्थितिकांडकपृथक्त्वके द्वारा मनःपर्ययज्ञानावरणीय और दाना-
न्तरायकर्मका अनुभाग वन्धकी अपेक्षा देशघाती हो जाता है । पुनः स्थितिकांडकपृथक्त्वके
द्वारा अवधिज्ञानावरणीय, अवधिदर्शनावरणीय और लाभान्तराय कर्मका अनुभाग वंधकी
अपेक्षा देशघाती हो जाता है । पुनः स्थितिकांडकपृथक्त्वके द्वारा श्रुतज्ञानावरणीय, अचक्षु-
दर्शनावरणीय और भोगान्तराय कर्मका अनुभाग वन्धकी अपेक्षा देशघाती हो जाता है । पुनः
स्थितिकांडकपृथक्त्वके द्वारा चक्षुदर्शनावरणीय कर्मका अनुभाग वन्धकी अपेक्षा देशघाती हो

गंतराइयाणमणुभागो वंधेण देसघादी जादो । २०५. तदो द्विदिखंडयपुधत्तेण वीरियं-तराइयस्स अणुभागो वंधेण देसघादी जादो ।

२०६. तदो द्विदिखंडयसहस्सेसु गदेसु अण्णं द्विदिखंडयमण्णमणुभागखंडय-मण्णो द्विदिवंधो अंतरद्विदीओ च उक्कीरिदुं चत्तारि वि एदाणि करणाणि समगमाहत्ता । २०७. चउण्हं संजलणाणं णवण्हं णोकसायवेदणीयाणमेदसिं तेरसण्हं कम्ममाणमंतरं । २०८. सेसाणं कम्मणं णत्थि अंतरं । २०९. पुरिसवेदस्स च कोहसंजलणाणं च पढम-द्विदिमंतोमुहुत्तमेत्तं मोत्तूणमंतरं करेदि । सेसाणं कम्मणमावलियं मोत्तूण अंतरं करेदि । २१०. जाओ अंतरद्विदीओ उक्कीरंति तासिं पदेसग्गमुक्कीरमाणियासु द्विदीसु ण दिज्जदि । २११. जासिं पयडीणं पढमद्विदी अत्थि तिस्से पढमद्विदीए जाओ संपहि-द्विदीओ उक्कीरंति तमुक्कीरमाणं पदेसग्गं संलुहदि । २१२. अथ जाओ वज्झंति पयडीओ तासिमात्राहाम-धिच्छियूण जा जहणिया णिसेगठिदी तमादिं कादूण वज्झमाणियासु द्विदीसु उक्कद्विज्जदे । २१३. संपहि अवद्विदअणुभागखंडयसहस्सेसु गदेसु अण्णमणुभागखंडयं जो च अंतरे

जाता है । पुनः स्थितिकांडकपृथक्त्वके द्वारा आभिनित्वाधिक ज्ञानावरणीय और परिभोगान्तराय कर्मका अनुभाग वन्धकी अपेक्षा देशघाती हो जाता है । पुनः स्थितिकांडकपृथक्त्वके द्वारा वीर्यान्तरायकर्मका अनुभाग वन्धकी अपेक्षा देशघाती हो जाती है ॥ २००-२०६ ॥

चूर्णिसू०—तत्पश्चात् सहस्रो स्थितिकांडकोके वीत जानेपर अन्य स्थितिकांडक, अन्य अनुभागकांडक, अन्य स्थितिवन्ध और उत्कीरण करनेके लिए अन्तर-स्थितियाँ, इन चारो करणोको एक साथ आरम्भ करता है । चारो संज्वलन और नवो नोकपाय वेदनीय, इन तेरह कर्मोका अन्तर करता है । शेष कर्मोका अन्तर नहीं होता है । पुरुषवेद और संज्वलनकी अन्तर्मुहूर्तप्रमाण प्रथमस्थितिको छोड़कर अन्तर करता है । (क्योकि यहाँ इनका उदय पाया जाता है ।) शेष कर्मोकी आवलीप्रमाण प्रथमस्थितिको छोड़कर अन्तर करता है । (क्योकि यहाँ उनका उदय नहीं है ।) जिन अन्तर-स्थितियोको उत्कीर्ण किया जाता है, उनके प्रदेशाग्रको उत्कीर्ण की जानेवाली स्थितियोमे नहीं देता है । किन्तु जिन उदयप्राप्त प्रकृतियोकी प्रथमस्थिति है, उस प्रथमस्थितिमे और जो इस समय स्थितियाँ उत्कीर्ण की जा रही हैं, उनमे उस उत्कीर्ण किये जानेवाले प्रदेशाग्रको यथासंभव समस्थिति-संक्रमणके द्वारा संक्रान्त करता है । तथा जो प्रकृतियाँ बंधती है, उनकी आवाधाका अतिक्रमण कर जो जघन्य निषेकस्थिति है, उसे आदि करके वध्यमान स्थितियोमे अनन्तर-स्थितियोमे उत्कीर्ण किये जानेवाले उस प्रदेशाग्रको उत्कर्षणके द्वारा संक्रान्त करता है । इस प्रकार अवस्थित रूपसे सहस्रो अनुभागकांडकोके व्यतीत होनेपर अन्य अनुभागकांडक, अन्तरकरणमे स्थितियोके उत्कीर्ण करते समय जो स्थितिवन्ध बाँधा था,

१ तत्थ किमतरकरण णाम ? अतर विरहो सुण्णभावो त्ति एयट्ठो । तस्स करणमंतरकरणं, हेट्ठो उवरिं च केत्तियाओ द्विद्विदीओ मोत्तूण मज्झल्लणं दिट्ठदीण अंतोमुहुत्तपमाणाण णिसेगे सुण्णत्तसपादण-मंतरकरणमिदि भणिदं होइ । जयघ०

उक्तीरिञ्जमाणे द्विदिवंधो पत्रद्वो जं च ठिदिखंडयं जाव अंतरकरणद्वा एदाणि समगं णिड्डाणियमाणाणि णिड्डिदाणि । २१४. से काले [अंतर-] पहमसमय-दुसमयकदं ।

२१५. ताधे चैव णवुंसयवेदस्स आजुत्तकरणसंकामगो, मोहणीयस्स संखेज्जवस्सद्विदिगो वंधो, मोहणीयस्स एगड्डाणिया वंधोदधा, जाणि कम्माणि वज्झंति तेसिं छसु आवलियासु गदासु उदीरणा, मोहणीयस्स आणुपुव्वीसंकमो, लोहसंजलणस्स असंकमो एदाणि सत्त करणाणि अंतर-दुसमयकदे आरद्दाणि । २१६. तदो संखेज्जेसु द्विदिखंडयसहस्सेसु गदेसु णवुंसयवेदो संकामिज्जमाणो संकामिदो ।

२१७. तदो से काले इत्थिवेदस्स पहमसमयसंकामगो । २१८. ताधे अण्णं द्विदिखंडयमण्णमणुभागखंडयमण्णो द्विदिवंधो च आरद्दाणि । २१९. तदो द्विदिखंडय-पुधत्तेण इत्थिवेदकखवणद्वाए संखेज्जदिभागो गदे णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणं तिण्हं वादिकम्माणं संखेज्जवस्सद्विदिगो वंधो । २२०. तदो द्विदिखंडयपुधत्तेण इत्थिवेदस्स जं द्विदिसंतकम्मं तं सव्वमागाइदं । २२१. सेसाणं कम्माणं द्विदिसंतकम्मस्स

तत्सम्बन्धी स्थितिकांडक और अन्तरकरणकाल, समाप्त किये जानेवाले ये सब एक साथ समाप्त हो जाते हैं । तदनन्तर कालमें अन्तर-प्रथमसमयकृत और अन्तर-द्विसमयकृत होता है ॥२०७-२१४॥

विशेषार्थ—जिस समयमें अन्तरसम्बन्धी चरमफाली नष्ट होती है, उस समय उसे प्रथमसमयकृत-अन्तर कहते हैं और तदनन्तर समयमें उसे द्विसमयकृत-अन्तर कहते हैं ।

चूर्णिसू०—उसी समय ही अर्थात् अन्तरसम्बन्धी चरमफालीके पतन होनेपर नपुंसक वेदका आयुक्तकरण-संक्रामक होता है, अर्थात् नपुंसकवेदकी क्षपणामे प्रवृत्त होता है (१) । उसी समय मोहनीयका संख्यात वर्षवाला स्थितिवन्ध (२), मोहनीयका एकस्थानीय वन्ध और उदय (३-४), जो कर्म वधते है, उनकी छह आवलियोंके व्यतीत होनेपर उदीरणा (५), मोहनीयका आनुपूर्वी-संक्रमण (६) और लोभके संक्रमणका अभाव (७), ये सात करण द्विसमयकृत-अन्तरमें एक साथ प्रारम्भ होते है । तत्पश्चात् संख्यात सहस्र स्थितिकांडकोके व्यतीत हो जानेपर संक्रमणको प्राप्त कराया जानेवाला नपुंसकवेद पुरुषवेदमें संक्रान्त हो जाता है ॥२१५-२१६॥

चूर्णिसू०—तदनन्तर समयमें वह स्त्रीवेदका प्रथमसमयवर्ती संक्रामक होता है । उस समय अन्य स्थितिकांडक, अन्य अनुभागकांडक और अन्य स्थितिवन्ध प्रारम्भ होते है । पुनः स्थितिकांडकपृथक्त्वके द्वारा स्त्रीवेदके क्षपणा-कालका संख्यातवाँ भाग व्यतीत होनेपर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय, इन तीन घातिया कर्मोंका संख्यात वर्षकी स्थितिवाला वन्ध होता है । पुनः स्थितिकांडकपृथक्त्वके द्वारा स्त्रीवेदका जो स्थितिसत्त्व है, वह सब क्षपण करनेके लिए ग्रहण कर लिया जाता है । तथा शेष कर्मोंके स्थितिसत्त्वका असंख्यात बहुभाग भी क्षपणाके लिए ग्रहण कर लिया जाता है । उस स्थितिकांडकके पूर्ण होनेपर संक्रम्यमाण

असंखेज्जा भागा आगाइदा । २२२. तम्हि द्विदिखंडए पुण्णे इत्थिवेदो संखुञ्जमाणो संखुद्धो । २२३. ताधे चैव मोहणीयस्स द्विदिसंतकम्मं संखेज्जाणि वस्साणि ।

२२४. से काले सत्तण्हं णोकसायाणं पढमसमयसंक्रामगो । २२५. सत्तण्हं णोकसायाणं पढमसमयसंक्रामगस्स द्विदिवंधो मोहणीयस्स थोवो । २२६. णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणं द्विदिवंधो संखेज्जगुणो । २२७. णामा-गोदाणं द्विदिवंधो असं-खेज्जगुणो । २२८. वेदणीयस्स द्विदिवंधो विसेसाहिओ । २२९. ताधे द्विदिसंतकम्मं मोहणीयस्स थोवं । २३०. त्तिण्हं घादिकम्माणं द्विदिसंतकम्ममसंखेज्जगुणं । २३१. णामा-गोदाणं द्विदिसंतकम्ममसंखेज्जगुणं । २३२. वेदणीयस्स द्विदिसंतकम्मं विसेसाहियं । २३३. पढमद्विदिखंडए पुण्णे मोहणीयस्स द्विदिसंतकम्मं संखेज्जगुणहीणं । २३४. सेसाणं द्विदिसंतकम्मं असंखेज्जगुणहीणं । २३५. द्विदिवंधो णामा-गोद-वेदणीयाणं असंखेज्जगुणहीणो । २३६. घादिकम्माणं द्विदिवंधो संखेज्जगुणहीणो ।

२३७. तदो द्विदिखंडयपुधत्ते गदे सत्तण्हं णोकसायाणं खवणद्वाए संखेज्जदि-भागे गदे णामा-गोद-वेदणीयाणं संखेज्जाणि वस्साणि द्विदिवंधो । २३८. तदो द्विदि-खंडयपुधत्ते गदे सत्तण्हं णोकसायाणं खवणद्वाए संखेज्जेसु भागेषु गदेषु णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणं संखेज्जवस्सद्विदिसंतकम्मं जादं । २३९. तदो पाए [घादि-

स्त्रीवेद संक्रान्त हो जाता है । उसी समयमे मोहनीयका स्थितिसत्त्व संख्यात वर्षप्रमाण हो जाता है ॥ २१७-२२३ ॥

चूर्णिसू०—तदनन्तर कालमे वह सात नोकपायोका प्रथम समयवर्ती संक्रामक होता है । सात नोकपायोके प्रथम-समयवर्ती संक्रामकके मोहनीयका स्थितिवन्ध सबसे कम होता है । ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायकर्मका स्थितिवन्ध संख्यातगुणा होता है । नाम और गोत्र कर्मका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा होता है और वेदनीयका स्थितिवन्ध विशेष अधिक होता है । उस समय मोहनीयका स्थितिसत्त्व सबसे कम है । तीन घातिया कर्मोंका स्थितिसत्त्व असंख्यातगुणा है । नाम और गोत्रका स्थितिसत्त्व असंख्यातगुणा है । वेदनीयका स्थितिसत्त्व विशेष अधिक है । प्रथम स्थितिकांडकके पूर्ण होनेपर मोहनीयका स्थितिसत्त्व संख्यातगुणा हीन हो जाता है । शेष कर्मोंका स्थितिसत्त्व असंख्यातगुणा हीन होता है । तभी नाम, गोत्र और वेदनीयका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा हीन होता है और घातिया कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यातगुणा हीन होता है ॥ २२४-२३६ ॥

चूर्णिसू०—तत्पश्चात् स्थितिकांडकपृथक्त्वके वीतनेपर सात नोकपायोके क्षपणकालके संख्यातवे भागके वीत जानेपर नाम, गोत्र और वेदनीयका स्थितिवन्ध संख्यात वर्षप्रमाण हो जाता है । तत्पश्चात् स्थितिकांडकपृथक्त्वके वीतनेपर और सात नोकपायोके क्षपणाकालके संख्यात बहुभागोंके व्यतीत होनेपर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायका स्थितिसत्त्व संख्यात वर्षकी स्थितिवाला हो जाता है । इस स्थलसे लेकर घातिया कर्मोंके प्रत्येक स्थितिवन्ध

कम्माणं] ठिदिवंधे ठिदिखंडए च पुण्णे पुण्णे ठिदिवंध-ठिदिसंतकम्माणि संखेज्जगुण-
हीणाणि । २४०. णामा-गोद-वेदणीयाणं पुण्णे ठिदिखंडए असंखेज्जगुणहीणं ठिदि-
संतकम्मं । २४१. एदेसिं चैव ठिदिवंधे पुण्णे अण्णो ठिदिवंधो संखेज्जगुणहीणो ।
२४२. एदेण कमेण ताव जाव सत्तण्हं णोकसायाणं संकामयस्स चरिमट्ठिदिवंधो त्ति ।

२४३ सत्तण्हं णोकसायाणं संकामयस्स चरिमो ठिदिवंधो पुरिसवेदस्स अट्ठ
वस्साणि । २४४. संजलणाणं सोलस वस्साणि । २४५ सेसाणं कम्माणं संखेज्जाणि
वस्ससहस्साणि ठिदिवंधो । २४६. ठिदिसंतकम्मं पुण्ण वादिकम्माणं चट्ठण्हं पि संखे-
ज्जाणि वस्ससहस्साणि । २४७. णामा-गोद-वेदणीयाणमसंखेज्जाणि वस्साणि । २४८.
अंतरादो दुसमयकदादो पाए छण्णोकसाए कोधे संखुहदि, ण अण्णम्मिह कम्मिह वि ।
२४९. पुरिसवेदस्स दो आवलियासु पढमट्ठिदीए सेसासु आगाल-पडिआगालो वोच्छिण्णो ।
पढमट्ठिदीदो चैव उदीरणा । २५०. समयाहियाए आवलियाए सेसाए जहण्णिया ठिदि
उदीरणा । २५१. तदो चरिमसमयसवेदो जादो । २५२. ताधे छण्णोकसाया संखुद्धा ।
२५३. पुरिसवेदस्स जाओ दो आवलियाओ समयूणाओ एत्तिगा समयपवद्धा विदिय-
ठिदीए अत्थि, उदयट्ठिदी च अत्थि । सेमं पुरिसवेदस्स संतकम्मं सव्वं संखुद्धं । २५४.
से काले अस्सकण्णकरणं* पवत्तिहिदि ।

और स्थितिकांडकके पूर्ण होनेपर स्थितिवन्ध और स्थितिसत्त्व संख्यातगुणित हीन होते जाते
हैं । स्थितिकांडकके पूर्ण होनेपर नाम, गोत्र और वेदनीयका अन्य स्थितिसत्त्व असंख्यात-
गुणा हीन हो जाता है । तथा इन्हीं कर्मोंके स्थितिवन्धके पूर्ण होनेपर अन्य स्थितिवन्ध
संख्यातगुणा हीन हो जाता है । इस क्रमसे तब तक जाते हैं, जब तक कि सात नोकपायो-
के संक्रामकका अन्तिम स्थितिवन्ध प्राप्त होता है ॥ २३७-२४२ ॥

चूर्णिसू०—सात नोकपायोके संक्रामकके पुरुषवेदका अन्तिम स्थितिवन्ध आठ वर्ष
है । संज्वलन कपायोका स्थितिवन्ध सोलह वर्षप्रमाण है । शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात
सहस्र वर्ष है । किन्तु चारो ही वातिया कर्मोंका स्थितिसत्त्व संख्यात सहस्र वर्ष है । नाम,
गोत्र और वेदनीयका असंख्यात वर्ष है । द्विसमयकृत अन्तरके स्थलसे आगे छह नोकपायोको
क्रोधमें संक्रान्त करता है, अन्य किसी प्रकृतिमें नहीं । पुरुषवेदकी प्रथमस्थितिमें दो आव-
लियोंके शेष रह जानेपर आगाल और प्रत्यागाल व्युच्छिन्न हो जाते हैं । प्रथमस्थितिसे ही
उदीरणा होती है । एक समय अतिक आवलीके शेष रहनेपर जघन्य स्थिति-उदीरणा
होती है । तत्पश्चात् वह चरमसमयवर्ती सवेदी हो जाता है । उस समय छह नोकपाय
संक्रान्त हो जाते हैं । पुरुषवेदकी एक समय कम दो आवलियाँ हैं, उतने मात्र समयप्रवद्ध
द्वितीयस्थितिमें है और उदयस्थिति भी है, शेष सब पुरुषवेदका स्थितिसत्त्व संक्रान्त हो
जाता है । तदनन्तरकालमें वह अश्वकर्णकरणमें प्रवृत्त होगा ॥ २४३-२५४ ॥

* अश्वस्य कर्णः अश्वकर्णः, अश्वकर्णवत्करणमश्वकर्णकरणम् । यथाश्वकर्णः अग्रात्प्रभृत्यामूलात्

२५८. एदिस्से पंच भासगाहाओ' । २५९. तं जहा । २६०. भासगाहाओ परुविज्जंतीओ चव भणिदं होंति गंथगउरवपरिहरणडं । २६१. मोहणीयस्स अंतरदु-समयकदे संकामगपट्टवगो होदि । एत्थ सुत्तं ।

(७२) संकामगपट्टवगस्स मोहणीयस्स दो पुण ट्टिदीओ ।

किंचूणियं मुहुत्तं णियमा से अंतरं होइ ॥१२५॥

२६२. किंचूणमं मुहुत्तं ति अंतोमुहुत्तं ति णादव्वं । २६३. अंतरदुसमयकदादो आवलियं समयुणमधिच्छियुण इमा गाहा । २६४. यथा ।

(७३) झीणट्टिदिकम्मंसे जे वेदयदे दु दोसु वि ट्टिदीसु ।

जे चावि ण वेदयदे विदियाए ते दु बोद्धव्वा ॥१२६॥

चूर्णिसू०—इस मूलगाथाके अर्थको प्रकट करनेवाली पाँच भाष्यगाथाएँ हैं । वे इस प्रकार हैं—ग्रन्थ-गौरवके परिहार करनेके लिए पृथक्-पृथक् अर्थ प्ररूपण की गई भाष्य-गाथाएँ ही मूलगाथाके अर्थका व्याख्यान करती हैं ॥२५८-२६०॥

विशेषार्थ—प्रश्नरूप अर्थका उत्तररूप अर्थ-व्याख्यान करनेवाली गाथाओंको भाष्य-गाथा कहते हैं । विभाषाके नियमसे पहले गाथाओंकी समुत्कीर्तना करना चाहिए । पीछे उनके पदोंका आश्रय लेकर अर्थकी प्ररूपणा करना चाहिए । परन्तु ऐसा करनेसे ग्रन्थका विस्तार हो जाता है, अतः चूर्णिकार उस नियमका उल्लंघन कर समुत्कीर्तना और अर्थ-विभाषाको एक साथ कहेंगे, ऐसा अभिप्राय जानना चाहिए ।

चूर्णिसू०—अन्तरकरणको समाप्त करके द्वितीय समयमें वर्तमान जीव मोहनीयका संक्रमण-प्रस्थापक होता है । इस विषयमें यह गाथासूत्र है ॥२६१॥

संक्रमण-प्रस्थापकके मोहनीय कर्मकी दो स्थितियाँ होती हैं—एक प्रथमस्थिति और दूसरी द्वितीयस्थिति । इन दोनों स्थितियोंका प्रमाण कुछ कम मुहूर्त है । तत्पश्चात् नियमसे अन्तर होता है ॥१२५॥

चूर्णिसू०—'कुछ कम मुहूर्त' इसका अर्थ अन्तर्मुहूर्त जानना चाहिए ॥२६२॥

चूर्णिसू०—द्विसमयकृत अन्तरसे लेकर एक समय कम आवली प्रमाण काल तक ठहर कर, अर्थात् अवेद्यमान ग्यारह प्रकृतियोंकी समयोन आवलीमात्र प्रथमस्थितिका पालन कर और वेद्यमान अन्यतर वेद और किसी एक संज्वलन प्रकृतिकी अन्तर्मुहूर्तप्रमाण प्रथम-स्थितिकी करके अवस्थित जीवके उस अवस्थाविशेषमें यह दूसरी वक्ष्यमाण भाष्यगाथा जानने योग्य है । वह इस प्रकार है ॥२६३-२६४॥

जो उदय या अनुदयरूप कर्म प्रकृतियाँ परिक्षीण स्थितिवाली हैं, उन्हें उप-र्युक्त जीव दोनों ही स्थितियोंमें वेदन करता है । किन्तु वह जिन कर्मांशोंको वेदन नहीं करता है, उन्हें तो द्वितीयस्थितिमें ही जानना चाहिए ॥१२६॥

२६५. एत्तो द्विदिसंतकम्मे च अणुभागसंतकम्मे च तदियगाहा कायव्या ।
२६६. तं जहा ।

(७४) संकामगपट्टवगस्स पुव्ववद्धाणि मज्झिमद्विदीसु ।

साद-सुहणाम-गोदा तहाणुभागेषुदुक्कस्सा ॥१२७॥

२६७ मज्झिमद्विदीसु त्ति अणुक्कस्स-अजहण्णद्विदीसु त्ति भणिदं होइ ।
२६८. साद-सुभणाम-गोदा तहाणुभागेषुदुक्कस्सा त्ति ण चेदे ओघुक्कस्सा, तस्समय-
पाओग-उक्कस्सगा एदे अणुभागेण ।

विशेषार्थ—अन्तरकरणके दूसरे समयसे लेकर एक समय कम आवली कालके भीतरी अवस्थित जीव जिन वेद्यमान या अवेद्यमान प्रकृतियोंकी प्रथम स्थितिको गलाता है, उनक सत्ता तो प्रथमस्थिति और द्वितीयस्थिति इन दोनोमें ही पाई जाती है । किन्तु वह जिन कर्म-प्रकृतियोंको नहीं गलाता है, उनकी सत्ता द्वितीयस्थितिमें पाई जाती है । जयववलाकार 'झीणद्विदिकम्मंसे' पदको, 'अथवा' कहकर और उसे सप्तमी विभक्ति मानकर इस प्रकार भी अर्थ करते हैं कि वेद्यमान किसी एक वेद और किसी एक संज्वलनकषायके अतिरिक्त अवेद्यमान जेप ग्यारह प्रकृतियोंके समयोन आवलीप्रमाण प्रथमस्थितिके क्षीण हो जानेपर जिन कर्मोंका वेदन करता है, वे तो दोनो ही स्थितियोंमें पाये जाते हैं, किन्तु जिन्हे वेदन नहीं करता है वे उसकी द्वितीयस्थितिमें ही पाये जाते हैं । इस प्रकार ये दो भाष्यगाथाएँ मूल-गाथाके पूर्वार्धका अर्थ-व्याख्यान करती हैं ।

अव मूलगाथाके उत्तरार्धका अर्थ कहनेके लिए चूर्णिकार उत्तरसूत्र कहते हैं—

चूर्णिसू०—इससे आगे स्थितिसत्त्व और अनुभागसत्त्वके विषयमें तीसरी भाष्य-गाथाको कहना चाहिए । वह इस प्रकार है ॥२६५-२६६॥

संक्रमण-प्रस्थापकके पूर्व-वद् कर्म मध्यम स्थितियोंमें पाये जाते हैं । तथा अनु-भागोंमें सातावेदनीय, शुभ नामकर्म और उच्चगोत्र उत्कृष्ट रूपसे पाये जाते हैं ॥१२७॥

चूर्णिसू०—यहाँ 'मध्यम स्थितियोंमें' इस पदका अर्थ 'अनुत्कृष्ट-अजघन्य स्थितियोंमें' ऐसा कहा गया समझना चाहिए । 'सातावेदनीय, शुभ नामकर्म प्रकृतियों और उच्च-गोत्र कर्म, ये अनुभागोंमें उत्कृष्ट पाये जाते हैं' गाथाके इस उत्तरार्धमें जो 'उत्कृष्ट' पद है, उससे ये सातावेदनीय आदि कर्म अनुभागकी अपेक्षा ओघरूपसे उत्कृष्ट नहीं ग्रहण करना चाहिए, किन्तु आदेशकी अपेक्षा तत्समय-प्रायोग्य उत्कृष्ट ग्रहण करना चाहिए ॥२६७-२६८॥

विशेषार्थ—गाथामें सातावेदनीय आदि जिन पुण्य-प्रकृतियोंके अनुभागको 'उत्कृष्ट' बताया गया है, उसका स्पष्टीकरण इस चूर्णिसूत्रके द्वारा किया गया है । जिसका अभि-प्राय यह है कि उत्कृष्ट अनुभाग दो प्रकारका होता है ओघ-उत्कृष्ट और आदेश-उत्कृष्ट । यहाँ पर ओघ-उत्कृष्ट अनुभाग संभव नहीं है, क्योंकि वह तो चरमसमयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिक संयतके होता है, अतः यहाँपर अनिवृत्तिकरण-परिणामोंके द्वारा संभव 'तत्समय-प्रायोग्य'

(७५) अथ थीणगिद्धि कम्मं णिद्दाणिद्दा य पयलपयला य ।

तह णिरय-तिरियणामा झीणा संछोहणादीसु ॥१२८॥

२६९. एदाणि कम्माणि पुव्वमेव झीणाणि । एदेणेव सूचिदा अट्ट वि कसाया पुव्वमेव खचिदा त्ति ।

(७६) संकंतमिह य णियमा णामा-गोदाणि वेयणीयं च ।

वस्सेसु असंखेज्जेसु सेसगा होंति संखेज्जे ॥१२९॥

२७०. एसा गाहा छसु कम्मसेसु पढमसमयसंकंतेसु तमिह समये ट्ठिदिसंतकम्म-पमाणं भणइ ।

अर्थात् अन्तरकरणके अनन्तर द्वितीय समयमें उत्पन्न होनेवाली विशुद्धिसे जो अधिकसे अधिक उत्कृष्ट अनुभाग हो सकता है, उसे ग्रहण करना चाहिए । इस प्रकार तीसरी भाष्यगाथाकी विभाषा समाप्त हो जाती है ।

अब मूलगाथाके 'संकंतं वा असंकंतं' इस चतुर्थ चरणकी विशेष व्याख्या करनेके लिए ग्रन्थकार चौथी भाष्यगाथाका अवतार कहते हैं—

अथ अर्थात् आठ मध्यम कपायोंकी क्षपणाके पश्चात् स्त्यानगृद्धि, निद्रानिद्रा और प्रचलाप्रचला, तथा नरकगति और तिर्यग्गति-सम्बन्धी नामकर्मकी तेरह प्रकृतियाँ, इस प्रकार ये सोलह प्रकृतियाँ संक्रमण-प्रस्थापकके द्वारा अन्तर्मुहूर्त पूर्व ही सर्व-संक्रमण आदिमें क्षीण की जा चुकी हैं ॥१२८॥

चूर्णिमू०—ये स्त्यानगृद्धि आदि सोलह कर्म संक्रामकके द्वारा पहले ही नष्ट कर दिये गये हैं । गाथामें आये हुये 'अथ' इस पदके द्वारा सूचित आठ मध्यम कपाय भी पहले ही अर्थात् उक्त सोलह प्रकृतियोंके क्षीण होनेके पूर्व ही क्षय कर दिये गये, ऐसा जानना चाहिए ॥२६९॥

मूलगाथाके उक्त-चतुर्थ चरणका अवलम्बन करके इस समय होनेवाले स्थितिसत्त्वका प्रमाण-निर्धारण करनेके लिए पाँचवीं भाष्यगाथाका अवतार करते हैं—

हास्यादि छह नोकपायके पुरुषवेदके चिरंतन सत्त्वके साथ संक्रामक होनेपर अनयमसे नाम, गोत्र और वेदनीय ये तीनों ही अघातिया कर्म असंख्यात वर्षप्रमाण अपने-अपने स्थितिसत्त्वमें प्रवृत्त होते हैं । शेष ज्ञानावरणादि चार घातिया कर्म संख्यात-वर्षप्रमाण स्थिति सत्त्ववाले होते हैं ॥१२९॥

चूर्णिमू०—यह गाथा हास्यादि छह कर्मोंके प्रथम समय संक्रान्त होनेपर उस कालमें स्थितिसत्त्वके प्रमाणको कहती है, अर्थात् उस समय मोह बिना तीन अघातिया कर्मोंका स्थिति-सत्त्व असंख्यात वर्ष और घातिया कर्मोंका स्थितिसत्त्व संख्यात वर्षप्रमाण होता है ॥२७०॥

१ सञ्छोहणा णाम परपवडिसकमो सव्वसकमपज्जवसाणो । आदिसद्देणट्ठिदि-अणुभागखडय-गुणसेदि-णिज्जराण गहण कायव्व । जयध०

२७१. एत्तो विदिया मूलगाहा । २७२. तं जहा ।

(७७) संक्रामगपट्टवगो के बंधदि के व वेदयदि अंसे ।

संक्रामेदि व के के केसु असंक्रामगो होइ ॥१३०॥

२७३. एदिस्से तिणिण अत्था । २७४. तं जहा । २७५. के बंधदि ति पहमो अत्थो । २७६. के व वेदयदि ति विदिओ अत्थो । २७७. पच्छिमद्वे तदिओ अत्थो । २७८. पहमे अत्थे तिणिण भासगाहाओ । २७९. विदिये अत्थे वे भासगाहाओ । २८०. तदिये अत्थे छव्भासगाहाओ । २८१. पहमस्स अत्थस्स तिण्हं भासगाहाणं समुक्कित्तणं^१ विहासणं च एकदो वत्तइस्सामो । २८२. तं जहा ।

(७८) वस्ससदसहस्साइं द्विदिसंखाए दु मोहणीयं तु ।

बंधदि च सदसहस्सेसु असंखेज्जेसु सेसाणि ॥१३१॥

२८३. एसा गाहा अंतर-दुसमयकदे द्विदिवंधपमाणं भणइ ।

(७९) भय-सोगमरदि-रदिगं हस्स-दुगुंछा-णवुंसगित्थीओ ।

असादं णीचागोदं अजसं सारीरगं णाम ॥१३२॥

इस प्रकार पहली मूलगाथाका पाँच भाष्यगाथाओके द्वारा अर्थ-व्याख्यान किया गया ।

चूर्णिसू०—अब दूसरी मूलगाथा कहते हैं । वह इस प्रकार है ॥२७१-२७२॥

संक्रमण-प्रस्थापक जीव किन-किन कर्मांशोंको बांधता है, किन-किन कर्मांशोंका वेदन करता है और किन-किन कर्मांशोंका असंक्रामक रहता है ॥१३०॥

चूर्णिसू०—इस मूलगाथाके तीन अर्थ हैं । वे इस प्रकार हैं—‘किन कर्मांशोंको बाँधता है । यह बन्ध-विषयक प्रथम अर्थ है । ‘किन कर्मांशोंका वेदन करता है’ यह उदयसम्बन्धी द्वितीय अर्थ है और गाथाके पश्चिमार्धमें संक्रमण-असंक्रमण सम्बन्धी तृतीय अर्थ निहित है । इनमेंसे प्रथम अर्थमें तीन भाष्यगाथाएँ प्रतिबद्ध हैं । द्वितीय अर्थमें दो भाष्यगाथाएँ और तृतीय अर्थमें छह भाष्यगाथाएँ निबद्ध हैं । प्रथम अर्थका व्याख्यान करनेवाली तीनों भाष्यगाथाओकी समुक्तीर्तना और विभाषा एक साथ कहेंगे । वह इस प्रकार है ॥२७३-२८२॥

द्विसमयकृत-अन्तरावस्थामें वर्तमान संक्रमण-प्रस्थापकके मोहनीय कर्म तो वर्षशत-सहस्र स्थितिसंख्यारूप बंधता है और शेष कर्म असंख्यात शतसहस्र वर्षप्रमाण स्थितियोंमें बंधते हैं ॥१३१॥

चूर्णिसू०—यह गाथा द्विसमयकृत अन्तरमें स्थितिवन्धके प्रमाणको कहती है । अर्थात् अन्तरकरणके दो समय पश्चात् संक्रामकके मोहनीय कर्मका स्थितिवन्ध संख्यात लाख वर्षप्रमाण और शेष कर्मोंका असंख्यात लाख वर्षप्रमाण होता है ॥२८३॥

अब दूसरी भाष्यगाथाका अवतार करते हैं—

भय, शोक, अरति, रति, हास्य, जुगुप्सा, नपुंसकवेद, स्त्रीवेद, असातावेदनीय, नीचगोत्र, अयशःकीर्ति और शरीर नामकर्म ॥१३२॥

१ समुक्कित्तणं णाम उच्चारणविहासणं णामविचरण । जयध०

२८४. एदाणि णियमा ण वंधइ ।

(८०) सव्वावरणीयाणं जेसिं ओवट्टणा दु णिहाए ।

पयलायुगस्स अ तथा अवंधगो वंधगो सेसे ॥१३३॥

२८५. जेसिमोवट्टणा त्ति का सण्णा ? २८६. जेसिं कम्माणं देसघादिफहयाणि अत्थि तेसिं कम्माणमोवट्टणा अत्थि त्ति सण्णा । २८७. एदीए सण्णाए सव्वावरणीयाणं जेसिमोवट्टणा दु त्ति एदस्स पदस्स विहासा । २८८. तं जहा । २८९. जेसिं कम्माणं देसघादिफहयाणि अत्थि, ताणि कम्माणि सव्वघादीणि ण वंधदि; देसघादीणि वंधदि । २९०. तं जहा । २९१. णाणावरणं चउच्चिहं, दंसणावरणं त्तिविहं अंतराइयं पंचविहं, एदाणि कम्माणि देसघादीणि वंधदि ।

चूर्णिसू०—इतने कर्मोंको नियमसे नहीं बांधता है ॥२८४॥

विशेषार्थ—द्विसमयकृत अन्तरवाला संक्रमण-प्रस्थापक जीव पुरुषवेदको छोड़कर शेष आठ नोकपायोंका नियमसे बन्ध नहीं करता है । इसी प्रकार असातावेदनीय, नीचगोत्र, अयशःकीर्त्ति और शरीर-नामकर्मको भी नहीं बांधता है । यहाँ गाथा-पठित 'अयशःकीर्त्ति' से सभी अशुभ नामकर्मकी प्रकृतियोंका ग्रहण करना चाहिए । इसी प्रकार 'शरीर-नामकर्मसे वैक्रियिकशरीरादि सभी शरीरनामकर्म और उनसे सम्बन्ध रखनेवाले आंगोपांग नामकर्म आदि तथा यशःकीर्त्तिके सिवाय सभी शुभनाम-प्रकृतियोंका भी ग्रहण करना चाहिए । अर्थात् द्विसमयकृत-अन्तरवर्ती संक्रामक एकमात्र यशःकीर्त्ति नामकर्मको छोड़कर शेष समस्त शुभाशुभ नामकर्मकी प्रकृतियोंको नहीं बांधता है । इनके अतिरिक्त जिनकी अपवर्तना होती है, ऐसे सर्वघातिया कर्मोंका और निद्रा, प्रचला तथा आयुर्कर्मका भी वह बन्ध नहीं करता है, इनके सिवाय जो प्रकृतियाँ शेष रहती हैं, उनका बन्ध करता है । यह बात आगेकी गाथामे बतलाई गई है ।

जिन सर्वावरणीय अर्थात् सर्वघातिया कर्मोंकी अपवर्तना होती है, उनका और निद्रा, प्रचला तथा आयुर्कर्मका भी अवन्धक रहता है; इनके अतिरिक्त शेष कर्मोंका बन्ध करता है ॥१३३॥

शंका—'जिनकी अपवर्तना होती है' इस वाक्य-द्वारा प्रगट की गई यह अपवर्तना संज्ञा किसकी है ? ॥२८५॥

समाधान—जिन कर्मोंके देशघाती स्पर्धक होते हैं, उन कर्मोंकी 'अपवर्तना' यह संज्ञा है ॥२८६॥

चूर्णिसू०—इस संज्ञाके द्वारा जिन सर्वावरणीय अर्थात् सर्वघातिया ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय कर्मोंकी अपवर्तना होती है, इस पदकी विभाषा की गई । वह इस प्रकार है—जिन कर्मोंके देशघाती स्पर्धक होते हैं, उन सर्वघातिया कर्मोंको नहीं बांधता है, किन्तु देश-घातिया कर्मोंको बांधता है । जैसे—मतिज्ञानावरणादि चार ज्ञानावरण, चक्षुदर्शनावरणादि चार-दर्शनावरण और पाँच प्रकारका अन्तराय, इन देशघातिया कर्मोंको बांधता है ॥२८७-२९१॥

२९२. एत्तिमं मूलगाथाय पदमो अर्थो भवति ।

(८१) निद्रा य नीचगोदं प्रचला णियमा अगि ति णामं च ।

छन्नेय णोकसाया अंसेसु अवेदगो होदि ॥१३४॥

चूर्णिसू०—इस प्रकार तीन भाष्यगाथाओं के द्वारा इनके अर्थों के व्याख्यान करनेपर मूलगाथाका प्रथम अर्थ समाप्त होता है ॥२९२॥

मूलगाथाके द्वितीय अर्थमें प्रतिपाद्य दोनों भाष्यगाथाओं ही तथा इनमें व्याख्या करनेके लिए एक साथ समुत्कर्तना और विभाषा करने हैं—

निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्थानगृद्धि, नीचगोत्र, अयशःकीर्त्ति और नोकपाय, इतने कर्मांका तो संक्रमण-प्रस्थापक नियममें प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेशरूप सर्व अंशोंमें अवेदक रहता है ॥१३४॥

विशेषार्थ—यह मूलगाथाके 'के च वेदगदि असे' अर्थात् 'द्वितीये कर्मांशोका वेदन करता हैं, इस द्वितीय अर्थका व्याख्यान करनेवाली प्रथम भाष्यगाथा है । वह संक्रमण-प्रस्थापक संयत गाथामें कही गई उक्त प्रकृतियोंका वेदन नहीं करता है, अर्थात् उसके उक्त प्रकृतियोंका उदय नहीं है । गाथामें यद्यपि 'निद्रा' ऐसा सामान्य ही पद है, पर उससे 'निद्रानिद्रा'का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि नामके एक देशके निर्देशसे भी पूरे नामका बोध हो जाता है । इसी प्रकार 'प्रचला' इस पदसे प्रचलाप्रचलाका ग्रहण करना चाहिए । इन दोनों पदोंके बीचमें पठित 'च' शब्द अनुक्त-समुच्चयार्थक है, अतः उससे स्थानगृद्धिका ग्रहण किया गया है । 'अगि' यह शब्द 'अजसगिति' अर्थात् अयशःकीर्त्तिका बोधक है । यहाँपर इस पदको उपलक्षण मानकर अवेद्यमान सभी प्रशस्त-अप्रशस्त प्रकृतियोंका ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि मनुष्यगति, पचेन्द्रियजाति आदि तीस प्रकृतियोंको छोड़कर शेषका यहाँ पर उदय नहीं पाया जाता । यहाँ यह शंका की जा सकती है कि जब गाथामें 'निद्रा और प्रचला' ये दो नाम ही स्पष्टरूपमें कहे गये हैं, तब निद्रासे निद्रानिद्राका और प्रचलासे प्रचलाप्रचलाका क्यों ग्रहण किया जाय ? इसी प्रकार स्थानगृद्धि' यह नाम गाथामें कहीं दृष्टिगोचर भी नहीं होता, फिर क्यों 'च' पदसे उसका ग्रहण किया जाय ? इसका समाधान यह है, कि निद्रा और प्रचलाका उदय बारहवें गुणस्थानके द्वि-चरम समय तक पाया जाता है, अतः वैसा माननेमें आगमसे विरोध आता है । दूसरे, गाथामें इनके साथ जिन नीचगोत्र आदि प्रकृतियोंका उल्लेख किया गया है, उनमेंसे अयशः-कीर्त्तिका चौथे गुणस्थानमें, नीचगोत्रका पांचवें गुणस्थानमें, तथा निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला और स्थानगृद्धिका छठे गुणस्थानमें तथा हास्यादि छहका आठवें गुणस्थानमें ही उदय-व्युच्छेद हो जाता है, जिससे उनका यहाँ उदय संभव ही नहीं है । अतः वही उक्त अर्थ आगम तथा युक्तिसे सुसंगत जानना चाहिए । इसी अभिप्रायको स्पष्ट करनेके लिए गाथामें

२९३. एदाणि कम्माणि सव्वत्थ णियमा ण वेदेदि । २९४. एस अत्थो एदिस्से गाहाए ।

(८२) वेदे च वेदणीए सव्वावरणे तथा कसाए च ।

भयणिज्जो वेदंतो अभज्जगो सेसगो होदि ॥१३५॥

२९५. विहासा । २९६. तं जहा । २९७. वेदे च ताव तिण्हं वेदाण-
मण्णदरं वेदेज्ज । २९८ वेदणीये सादं वा असादं वा । २९९ सव्वावरणे आभि-
णिवोहियणाणावरणादीणमणुभागं सव्वघादिं वा देसघादिं वा । ३००. कसाये
चउण्हं कसायाणमण्णदरं । ३०१. एवं भजिदव्वो वेदे च वेदणीये सव्वावरणे कसाए

‘णियमा’ पद दिया गया है । यदि कहा जाय कि स्त्यानगृद्धिन्निकका संक्रमणप्रस्थापन-अवस्थाके पूर्व ही सत्त्व-विच्छेद हो चुका है, तब फिर यहाँपर उनके उदय-व्युच्छेदका निर्देश सार्थक नहीं माना जा सकता है ? दूसरे, गाथामें स्त्यानगृद्धि आदि तीनों पदोंमेंसे किसी एकका भी निर्देश नहीं है, ऐसी दशामें ‘णिदा’ पदसे निद्राका, तथा ‘पयला’ पदसे प्रचलाका ही ग्रहण करना चाहिए ? और संक्रमण-प्रस्थापक इन दोनों ही प्रकृतियोंका अवेदक रहता है, ऐसा ही गाथासूत्रका अर्थ करना चाहिए । अन्यथा वारहवे गुणस्थानके द्विचरम समयमें निद्रा और प्रचलाका उदय-व्युच्छेद कहना शक्य नहीं है ? तो इसका उत्तर यह है कि इस संक्रमण-प्रस्थापकदशाके पूर्व और उत्तरकालीन अवस्थामें अव्यक्तस्वरूपसे यद्यपि निद्रा और प्रचलाका उदय विद्यमान रहता है तथापि इस मध्यवर्ती अवस्थामें ध्यानके उपयोगविशेषसे उनकी शक्ति प्रतिहत होजानेके कारण उनका उदयाभाव माननेमें कोई विरोध नहीं है । अथवा क्षपक श्रेणीमें सर्वत्र निद्रा और प्रचलाका उदय नहीं होता है, ऐसा ही गाथासूत्रका अर्थ ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ध्यानकी उपयुक्त दशामें निद्रा और प्रचलाका उदय संभव नहीं है ।

चूर्णिसू०—इन गाथा-पठित कर्मोंको संक्रमण-प्रस्थापक जीव अपनी सर्व अवस्था-
ओंमें नियमसे वेदन नहीं करता है । यह इस भाष्यगाथाका अर्थ है ॥२९३-२९४॥

अब दूसरी मूलगाथाके द्वितीय अर्थ-निबद्ध दूसरी भाष्यगाथाका अवतार करते हैं—
वह संक्रमण-प्रस्थापक वेदोंको, वेदनीयकर्मको, सर्वघातिया प्रकृतियोंको, तथा
कपायोंको वेदन करता हुआ भजनीय है । उक्त कर्म-प्रकृतियोंके अतिरिक्त शेष प्रकृ-
तियोंका वेदन करता हुआ अभजनीय है ॥१३५॥

चूर्णिसू०—इस गाथाकी विभाषा करते हैं । वह इस प्रकार है—वह संक्रमण-प्रस्था-
पक तीनों वेदोंमेंसे किसी एक वेदका वेदन करता है, अर्थात् जिस वेदके उदयसे श्रेणी चढ़ता
है, उस वेदका ही वेदन करता है । सातावेदनीय और असातावेदनीय इन दोनोंमेंसे किसी
एकका वेदन करता है । आभिनिवोधिकज्ञानावरणीय आदि सर्व आवरणीय कर्मोंके सर्वघाती
या देशघाती अनुभागका वेदन करता है और चारो कपायोंमेंसे किसी एक कपायका अनुभव
करता है । इस प्रकार वेद, वेदनीय, सर्व आवरण कर्म और कपायोंकी अपेक्षा वह संक्रमण-

च । ३०२. विदियाए मूलणाहाए विदियो अत्थो समत्तो भवदि ।

३०३. तदिये अत्थे छुम्भासगाहाओ ।

(८३) सव्वस्स मोहणीयस्स आणुपुव्वीय संकमो होदि ।

लोभकसाये णियमा असंकमो होइ णायव्वो ॥१३६॥

३०४. विहासा । ३०५. तं जहा । ३०६. अंतरदुसमयकदप्पहुडि मोहणीयस्स आणुपुव्वीसंकमो । ३०७. आणुपुव्वीसंकमो णाम किं ? ३०८. कोह-माण-माया-लोभा एसा परिवाडी आणुपुव्वीसंकमो णाम । ३०९. एस अत्थो चउत्थीए भासगाहाए भणिहिदि । ३१०. एत्तो विदियभासगाहा ।

(८४) संक्रामगो च क्रोधं माणं मायं तहेव लोभं च ।

सव्वं जहाणुपुव्वी वेदादी संछुहदि कम्मं ॥१३७॥

प्रस्थापक जीव भजितव्य है । इस प्रकार इस दूसरी भाष्यगाथाकी विभाषा करनेपर दूसरी मूलगाथाका दूसरा अर्थ समाप्त होता है ॥२९५-३०२॥

चूर्णिसू०—दूसरी मूलगाथाके तीसरे अर्थमें छह भाष्यगाथाएँ निबद्ध हैं ॥३०३॥ उनमेंसे प्रथम भाष्यगाथाकी विभाषा करनेके लिए उसका अवतार किया जाता है—

मोहनीय कर्मकी सर्व प्रकृतियोंका आनुपूर्वीसे संक्रमण होता है, किन्तु लोभ-कषायका संक्रमण नहीं होता है, ऐसा नियमसे जानना चाहिए ॥१३६॥

चूर्णिसू०—अब उक्त गाथाकी विभाषा करते हैं । वह इस प्रकार है—संक्रमण-प्रस्थापकके अन्तरकरणके दूसरे समयसे लेकर आगे मोहकर्मका सर्वथा विनाश होने तक उसका आनु-पूर्वीसंक्रमण होता है ॥३०४-३०६॥

शंका—आनुपूर्वीसंक्रमण नाम किसका है ? ॥३०७॥

समाधान—क्रोध, मान, माया और लोभ इस परिपाटीसे संक्रमण होना आनुपूर्वी-संक्रमण कहलाता है । आनुपूर्वीसंक्रमणका यह अर्थ चौथी भाष्यगाथामें कहेंगे ॥३०८-३०९॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे दूसरी भाष्यगाथाका अवतार करते हैं ॥३१०॥

नव नोकषाय और चार संज्वलन इन तेरह प्रकृतियोंका संक्रमण करनेवाला क्षपक नपुंसकवेदको आदि करके क्रोध, मान, माया और लोभ, इन सब कर्मोंको यथानुपूर्वीसे संक्रान्त करता है ॥१३७॥

विशेषार्थ—उक्त तेरह प्रकृतियोंका संक्रम करनेवाला जीव सबसे सबसे पहले नपुंसकवेद और स्त्रीवेदका पुरुषवेदमें संक्रमण करता है । पुनः पुरुषवेद और हास्यादि छहका क्रोधसंज्वलनमें संक्रमण करता है । तदनन्तर क्रोधसंज्वलनका मानसंज्वलनमें, मानसंज्वलनका मायासंज्वलनमें और मायासंज्वलनका लोभसंज्वलनमें संक्रमण करता है । यहाँ संक्रमणसे परप्रकृतिरूप संक्रमणका अभिप्राय है ।

३११. वेदादि त्ति विहासा । ३१२. णवुंसयवेदादी संछुहदि त्ति अत्थो ।

(८५) संछुहदि पुरिसवेदे इत्थीवेदं णवुंसयं चैव ।

सत्तेव णोकसाये णियमा कोहम्हि संछुहदि ॥१३८॥

३१३. एदिस्से तदियाए गाहाए विहासा । ३१४. जहा । ३१५. इत्थीवेदं णवुंसयवेदं च पुरिसवेदे संछुहदि, ण अण्णत्थ । ३१६. सत्त णोकसाये कोधे संछुहदि, ण अण्णत्थ ।

(८६) कोहं च छुहइ माणे माणं मायाए णियमसा छुहइ ।

मायं च छुहइ लोहे पडिलोमो संकमो णत्थि ॥१३९॥

३१७ एदिस्से सुत्तपवंधो चैव विहासा ।

(८७) जो जम्हि संछुहंतो णियमा वंधसरिसम्हि संछुहइ ।

बंधेण हीणदरगे अहिए वा संकमो णत्थि ॥१४०॥

चूर्णिसू०—उपर्युक्त गाथासे आये हुये 'वेदादि' इस पदकी विभाषा इस प्रकार है—नपुंसकवेदको आदि करके तेरह प्रकृतियोंको संक्रान्त करता है, अर्थात् पर-प्रकृतिरूपसे संक्रमण करता है ॥३११-३१२॥

अब उक्त अर्थको ही दो भाष्यगाथाओंके द्वारा विशेष रूपसे स्पष्ट करते हैं—

स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका नियमसे पुरुषवेदमें संक्रमण करता है । पुरुषवेद और हास्यादि छह, इन सात नोकपायोंका नियमसे संज्वलनक्रोधमें संक्रमण करता है ॥१३८॥

चूर्णिसू०—इस तीसरी भाष्यगाथाकी विभाषा इस प्रकार है—स्त्रीवेद और नपुंसकवेदको पुरुषवेदमें ही संक्रान्त करता है, अन्यत्र नहीं । सात नोकपायोंको संज्वलनक्रोधमें ही संक्रान्त करता है, अन्यत्र नहीं ॥३१३-३१६॥

संज्वलनक्रोधको नियमसे संज्वलनमानमें संक्रान्त करता है, संज्वलनमानको संज्वलनमायामें संक्रान्त करता है, संज्वलनमायाको संज्वलनलोभमें संक्रान्त करता है । इस प्रकार उक्त तेरह प्रकृतियोंका आनुपूर्वी-संक्रमण जानना चाहिए । इनका प्रतिलोम अर्थात् विपरीतक्रमसे अथवा यद्वा-तद्वा क्रमसे संक्रमण नहीं होता है ॥१३९॥

चूर्णिसू०—इस भाष्यगाथाकी विभाषा सूत्र-प्रबन्ध ही है, अर्थात् गाथासूत्र इतना सरल और स्पष्ट है कि उसके विषयमें अन्य कुछ वक्तव्य शेष नहीं है ॥३१७॥

अब मूलगाथाके तीसरे अर्थके विषयमें ही कुछ अन्य विशेषताको बतलानेके लिए पांचवी भाष्यगाथाका अवतार करते हैं—

जो जीव जिस बन्धमान प्रकृतिमें संक्रमण करता है, वह नियमसे बन्ध-सदृश प्रकृतिमें ही संक्रमण करता है; अथवा बन्धकी अपेक्षा हीनतर स्थितिवाली प्रकृतिमें संक्रमण करता है । किन्तु अधिक स्थितिवाली प्रकृतिमें संक्रमण नहीं होता ॥१४०॥

३१८. विहासा । ३१९. तं जहा । ३२०. जो जं पयडिं संखुहदि णियमा
वज्झमाणीए ङ्खिदीसु संखुहदि । ३२१. एसा पुरिमद्वस्स विहासा । ३२२. पच्छिमद्वस्स
विहासा । ३२३. जहा । ३२४. जं वंधदि ङ्खिदिं तिस्से वा तत्तो हीणाए वा संखुहदि ।
३२५. अवज्झमाणासु ङ्खिदीसु ण उक्खिज्जदि । ३२६. समङ्खिदिगं तु संकामेज्ज ।

चूर्णिसू०—अब इस भाष्यगाथाकी विभाषा करते हैं, वह इस प्रकार है—जो जीव जिस प्रकृतिको संक्रमित करता है, वह नियमसे वध्यमान स्थितिमे संक्रान्त करता है । यह गाथाके पूर्वार्धकी विभाषा है । पश्चिमार्धकी विभाषा इस प्रकार है—जिस स्थितिको बाँधता है, उसमे, अथवा उससे हीन स्थितिमे संक्रान्त करता है । किन्तु अवध्यमान स्थितियोंमे उत्कीर्ण कर संक्रान्त नहीं करता है । हाँ, समान स्थितिमे संक्रान्त करता है ॥ ३१८-३२६ ॥

विशेषार्थ—यह पाँचवीं भाष्यगाथा वध्यमान प्रकृतियोंमे संक्रमण किये जानेवाली वध्यमान या अवध्यमान प्रकृतियोंका किस प्रकारसे संक्रमण होता है, इस अर्थविशेषके बतलानेके लिए अवतीर्ण हुई है । इसके अर्थका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—क्षपकश्रेणीमें अथवा उससे पूर्व संसारावस्थामे वर्तमान जो जीव जिस विवक्षित प्रकृतिके कर्म-प्रदेशोको उत्कीर्ण कर जिस प्रकृतिमे संक्रमण करता है, उसे क्या बिना किसी विशेषताके सर्व-स्थितियोंमे संक्रमण करता है, अथवा उसमे कोई विशेषता है, इस प्रकारकी शंकाके समाधान-के लिए ग्रन्थकारने गाथाका यह द्वितीय चरण कहा कि 'नियमसे बन्ध-सदृशमे संक्रान्त करता है ।' यहाँपर 'बन्ध' इस पदसे साम्प्रतिक बन्धकी अग्रस्थितिका ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि स्थितिवन्धके प्रति उसकी ही प्रधानता है । अतएव यह अर्थ होता है कि इस समय बंधनेवाली प्रकृतिकी जो स्थिति हैं, उसमे उसके समान प्रमाणवाली विवक्षित संक्रम्यमाण प्रकृतिके प्रदेशाग्रको उत्कीर्ण कर संक्रान्त करता है । यह कथन उत्कर्षणसंक्रमणकी प्रधानता-से किया गया है । 'बंधेण हीणदरगे' इस तीसरे चरणका अभिप्राय यह है कि बंधनेवाली अग्रस्थितिसे एक समय आदि कम अधस्तन बन्धस्थितियोंमे भी—जो कि आवाधाकालसे बाहिर स्थित हैं—अधस्तन प्रदेशाग्रको स्वस्थान या परस्थानसे उत्कीर्ण कर संक्रमण करता है । किन्तु वर्तमानमे बंधनेवाली स्थितिसे उपरिम सत्त्व-स्थितियोंमे उत्कर्षणसंक्रमण नहीं होता है, यह 'अहिए वा संकमो णत्थि' इस चतुर्थ चरणका अर्थ है । यहाँपर पठित 'वा' शब्द समुच्च-यार्थक है, अतएव बन्धसे हीनतर किसी भी स्थितिविशेषमे उत्कर्षणसंक्रमण नहीं होता है, ऐसा अर्थ करना चाहिए, क्योंकि, आवाधाकालके भीतरकी स्थितियोंमे बद्ध प्रथम निषेकसे हीनतर स्थितियोंमे उत्कर्षणसंक्रमणका सर्वथा अभाव माना गया है । अतएव आवाधाकाल-का उल्लंघन करके नवकवद्ध समयप्रवद्धके प्रथम निषेकको आदि लेकर नवकवद्ध समयप्रवद्धकी अन्तिम स्थिति तककी स्थितियोंमे उत्कर्षणसंक्रमणका प्रतिषेध नहीं है, किन्तु इससे ऊपरकी स्थितियोंमे और आवाधाकालकी भीतरी स्थितियोंमें उत्कर्षणसंक्रमण नहीं होता है । पर-प्रकृतिरूप संक्रमण तो समस्थितिमे प्रवृत्त होता हुआ वध्यमान प्रकृतिके उदयावलीसे बाहिर

(८८) संक्रामकपट्टवगो माणकसायस्स वेदगो कोधं ।

संछुहदि अवेदंतो माणकसाये क्को सेसे ॥१४१॥

३२७ विहासा । ३२८. जहा । ३२९. माणकसायस्स संक्रामकपट्टवगो माणं
चेव वेदंतो कोहस्स जे दो आवलियबंधा दुसमयूणा ते माणे संछुहदि । ३३०. विदिय-
मूलगाहा त्ति विहासिदा समत्ता भवदि ।

स्थितिको आदि करके अंतिम स्थिति तक बंधकस्थितिसे उपरिम स्थितियोंमें भी प्रतिपिद्ध नहीं है, यह अर्थ चतुर्थ चरणमें पठित 'वा' शब्दसे संगृहीत किया गया है । समस्थितिमें प्रवर्तमान पर-प्रकृतिरूप संक्रमण बंधकस्थितिसे अधस्तन-उपरितन समस्त स्थितियोंमें किस प्रकार प्रवृत्त होता है, इसका उदाहरण इस प्रकार जानना चाहिए । जैसे सातावेदनीय आदि प्रकृतियोंको बँवते हुए किसी जीवके असातावेदनीय आदिका स्थितिसत्त्व अपने उत्कृष्ट स्थितिवन्धसे कुछ कम होता है । पुनः वध्यमान सातावेदनीयकी जो अन्तःकोड़ा-कोड़ीसे लगाकर पन्द्रह कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण तक की उत्कृष्ट स्थिति है, उसके ऊपर असातावेदनीयकी स्थितिको संक्रमण करता हुआ बन्धस्थितियोंमें भी संक्रमण करता है और बन्धसे उपरिम स्थितियोंमें भी समयाविरोधसे संक्रमण करता है अन्यथा एक आवलीसे कम तीस कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण उत्कृष्ट स्थितिका होना असंभव हो जायगा । इस प्रकार यह सामान्यसे संसारावस्थामें विवक्षित प्रकृतिके स्थितिवन्धके ऊपर इतर प्रकृतिके संक्रमणका दृष्टान्त दिया । इसी प्रकार क्षपकश्रेणीमें भी बध्यमान और अबध्यमान प्रकृतियोंको यथासंभव संक्रमण करता हुआ बध्यमान प्रकृतियोंके प्रत्यप्रबन्धस्थितिसे अधस्तन और उपरितन स्थितियोंमेंसे समस्थितिमें संक्रमण करता है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए ।

मानकपायका वेदन करनेवाला वही संक्रमण-प्रस्थापक जीव क्रोधसंज्वलनको नहीं वेदन करते हुए ही उसे मानकपायमें संक्रान्त करता है । यही क्रम शेष कपायमें भी जानना चाहिए ॥१४१॥

चूर्णिसू०—इस भाष्यगाथाकी विभाषा इस प्रकार है—मानकपायका संक्रमण-प्रस्थापक मानको ही वेदन करता हुआ क्रोधसंज्वलनके जो दो समय कम दो आवलीप्रमाण नवक-वद्ध समयप्रवद्ध हैं, उन्हें मानसंज्वलनमें संक्रान्त करता है । इस प्रकार दूसरी मूलगाथा और उससे सम्बद्ध भाष्यगाथाओंकी विभाषा समाप्त होती है ॥३२७-३३०॥

विशेषार्थ—अन्तर-द्विसमयकृत अवस्थामें वर्तमान वही संक्रमण-प्रस्थापक जीव यथाक्रमसे नव नोकपायोंका संक्रमण कर और तत्पश्चात् अश्वकर्णकरण आदि क्रियाओंको यथावसर ही करके संज्वलनक्रोधके चिरन्तन सत्त्वको सर्वसंक्रमणके द्वारा संक्रान्त करके जिस समय मानकपायका संक्रमण-प्रस्थापक हुआ, उस समय संज्वलनक्रोधके जो दो समय कम दो आवलीप्रमाण नवकवद्ध समयप्रवद्ध हैं, उन्हें संज्वलनमानमें संक्रमण करता हुआ

३३१. एत्तो तदियमूलगाहा । ३३२. जहा ।

(८९) बंधो व संक्रमो वा उदयो वा तह पदेस-अणुभागे ।

अधिगो समो व हीणो गुणेण किं वा विसेसेण ? ॥१४२॥

३३३. एदिस्से चत्तारि भासगाहाओ । ३३४. भासगाहा समुक्कित्तणा ।
समुक्कित्तिदाए व अत्थविभासं भणिस्सामो । ३३५. तं जहा ।

क्रोधको नहीं वेदन करते हुए और मानका वेदन करते हुए ही संक्रमण करता है । क्योंकि जब मानकपायके वेदनकालमें दो समय कम दो आवलीमात्र काल रह जाता है, उसके भीतर ऐसी ही प्रवृत्ति देखी जाती है । जैसा यह क्रम मानकपायके संक्रमण-प्रस्थापककी सन्धिमें नवकवद्ध समयप्रवद्धोके संक्रमणका कहा है, वैसा ही क्रम शेष कपायोके भी संक्रमण-प्रस्थापकोकी सन्धिके समय प्ररूपण करना चाहिए । इस प्रकार यह अर्थ निकलता है कि मानका वेदन करता हुआ क्रोधसंज्वलनके दो समय कम दो आवलीमात्र नवकवन्धका संक्रमण करता है । मायाका वेदन करता हुआ मानसंज्वलनके नवकवन्धका संक्रमण करता है और लोभका वेदन करनेवाला मायासंज्वलनके नवकवन्धका संक्रमण करता है । इस प्रकार दूसरी मूलगाथाके तीनों अर्थोंमें प्रतिवद्ध ग्यारह भाष्यगाथाओंकी विभाषा समाप्त होनेके साथ ही दूसरी मूलगाथाका अर्थ व्याख्यान भी सम्पन्न हो जाता है ।

चूर्णिसू०—अब इससे आगे तीसरी मूलगाथा अवतीर्ण होती है । वह इस प्रकार है ॥३३१-३३२॥

संक्रमण-प्रस्थापकके अनुभाग और प्रदेश-सम्बन्धी बन्ध, उदय और संक्रमण परस्परमें क्या समान हैं, अथवा अधिक हैं, अथवा हीन हैं ? इसी प्रकार प्रदेशोंकी अपेक्षा वे संख्यात, असंख्यात या अनन्तगुणितरूप विशेषसे परस्पर हीन हैं, या अधिक हैं ? ॥१४३॥

विशेषार्थ—संक्रमण-प्रस्थापकके अनुभाग और प्रदेश-विषयक बन्ध, उदय और संक्रमण-सम्बन्धी अल्पवहुत्वका निरूपण करनेके लिए इस मूलगाथासूत्रका अवतार हुआ है । यह समस्त गाथा प्रश्नात्मक है । इसमें दो प्रकारकी पृच्छाएँ की गई हैं । प्रथम तो यह कि संक्रमण-प्रस्थापकके अनुभागसम्बन्धी बन्ध, उदय और संक्रमण परस्पर समान है, अथवा हीन या अधिक है । दूसरी पृच्छा प्रदेशबन्धके विषयमें की गई है कि उसी संक्रमण-प्रस्थापकके प्रदेशबन्ध-सम्बन्धी बन्ध, उदय और संक्रमण परस्पर समान है या हीनाधिक ? तथा उनके प्रदेश भी परस्पर संख्यात, असंख्यात और अनन्तगुणित रूपसे हीन है, अथवा अधिक, अथवा कुछ विशेष अधिक हैं ? इन दोनों पृच्छाओंका समाधान आगे भाष्यगाथाओंके द्वारा किया जायगा ।

चूर्णिसू०—इस तीसरी मूलगाथाकी चार भाष्यगाथाएँ हैं । उन भाष्यगाथाओंका उच्चारण करना ही समुत्कीर्तना है । इस प्रकार उनकी समुत्कीर्तना करनेपर अर्थ-विभाषा कहेंगे । वह इस प्रकार है ॥३३३-३३५॥

(१०) बंधेण होइ उदओ अहिओ उदएण संकमो अहिओ ।

गुणसेठि अणंतगुणा वोद्धवा होइ अणुभागे ॥१४३॥

३३६. विहासा । ३३७. अणुभागेण बंधो थोवो । ३३८. उदओ अणंत-
गुणो । ३३९. संकमो अणंतगुणो ।

३४०. विदियाए भासगाहाए समुक्कित्तणा ।

(११) बंधेण होइ उदओ अहिओ उदएण संकमो अहिओ ।

गुणसेठि असंखेज्जा च पदेसग्गेण वोद्धवा ॥१४४॥

३४१. विहासा । ३४२. जहा । ३४३. पदेसग्गेण बंधो थोवो । ३४४.
उदयो असंखेज्जगुणो । ३४५. संकमो असंखेज्जगुणो ।

बन्धसे उदय अधिक होता है और उदयसे संक्रमण अधिक होता है । इस प्रकार अनुभागके विषयमें गुणश्रेणी अनन्तगुणी जानना चाहिए ॥१४३॥

चूर्णिसू०—इस भाष्यगाथाकी विभाषा इस प्रकार है—अनुभागकी अपेक्षा बन्ध अल्प है, (क्योंकि, यहाँपर तत्काल होनेवाले बन्धको ग्रहण किया गया है ।) बन्धसे उदय अनन्तगुणा है । (क्योंकि, वह चिरंतन सत्त्वके अनुभागस्वरूप है ।) उदयसे संक्रमण अनन्तगुणा है । (इसका कारण यह है कि अनुभागसत्त्व उदयमे तो अनन्तगुणा हीन होकरके आता है किन्तु चिरंतनसत्त्वका संक्रमण तदवस्थरूपसे ही परप्रकृतिमे संक्रमित होता है ॥३३६-३३९॥

चूर्णिसू०—अब दूसरी भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना करते हैं ॥३४०॥

बन्धसे उदय अधिक होता है और उदयसे संक्रमण अधिक होता है । इस प्रकार प्रदेशाग्रकी अपेक्षा गुणश्रेणी असंख्यातगुणी जानना चाहिए ॥१४४॥

चूर्णिसू०—इस भाष्यगाथाकी विभाषा इस प्रकार है—प्रदेशोकी अपेक्षा बन्ध अल्प है । बन्धसे उदय असंख्यातगुणा है और उदयसे संक्रमण असंख्यातगुणा है ॥३४१-३४५॥

विशेषार्थ—इस दूसरी भाष्यगाथाके द्वारा प्रदेश-विषयक अल्पबहुत्व बतलाया गया है । अनिवृत्तिकरण गुणस्थानके उक्त स्थलपर पुरुषवेद आदि जिस किसी भी कर्मका नवक-बन्ध होता है वह एक समयप्रबद्धमात्र होनेसे ब्रक्ष्यमाण पदोंसे प्रदेशोकी अपेक्षा सबसे कम है । इस बन्धसे उदय प्रदेशोकी अपेक्षा असंख्यातगुणा है, क्योंकि, आयुर्कर्मको छोड़कर वेद्यमान जिस किसी भी कर्मका उदय गुणश्रेणी-गोपुच्छाके माहात्म्यसे असंख्यातगुणा हो जाता है । उदयरूप प्रदेशोसे संक्रमणरूप प्रदेश भी असंख्यातगुणित होते हैं, इसका कारण यह है कि जिन कर्मोंका गुणसंक्रमण होता है, उन कर्मोंका गुणसंक्रमण-द्रव्य और जिनका अधःप्रवृत्तसंक्रमण होता है, उनका अधःप्रवृत्तसंक्रमण-द्रव्य असंख्यात समयप्रबद्धप्रमाण होनेसे उदयकी अपेक्षा असंख्यातगुणा हो जाता है ।

३४६. तदियाए भासगाहाए समुक्किचणा ।

(९२) उदओ च अणंतगुणो संपहि-बंधेण होइ अणुभागो ।

से काले उदयादो संपहि-बंधो अणंतगुणो ॥१४५॥

३४७ विहासा । ३४८. जहा । ३४९. मे काले अणुभागबंधो थोवो ।

३५०. से काले चेव उदओ अणंतगुणो । ३५१. अस्सि समए बंधो अणंतगुणो ।

३५२. अस्सि वेम समए उदओ अणंतगुणो ।

३५३. चउत्तीए भासगाहाए समुक्किचणा ।

(९३) गुणसेढि अणंतगुणेणूणाए वेदगो ढु अणुभागो ।

गणणादियंतसेढी पदेस-अग्गेण वाद्धव्वा ॥१४६॥

३५४. विहासा । ३५५. जहा । ३५६. अस्सि समए अणुभागुदयो बहुगो ।

से काले अणंतगुणहीणो । एवं सव्वत्थ । ३५७. पदेसुदयो अस्सि समये थोवो । से

चूर्णिसू०—अव तीसरी भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना करते हैं ॥३४६॥

अनुभागकी अपेक्षा साम्प्रतिक-बन्धसे साम्प्रतिक-उदय अनन्तगुणा होता है ।

इसके अनन्तरकालमें होनेवाले उदयसे साम्प्रतिक-बन्ध अनन्तगुणा है ॥१४५॥

चूर्णिसू०—इस गाथाकी विभाषा इस प्रकार है—विवक्षित समयके अनन्तरकालमें होनेवाला अनुभागबन्ध अल्प है । इस अनुभागबन्धसे तदनन्तरकालमें ही होनेवाला अनुभाग-उदय अनन्तगुणा है । अनन्तर-समयभावी अनुभाग-उदयसे इस समयमें होनेवाला अनुभाग-बन्ध अनन्तगुणा है और इस समयमें होनेवाले अनुभागबन्धसे इसी समयमें ही होनेवाला अनुभाग-उदय अनन्तगुणा है ॥३४७-३५२॥

विशेषार्थ—भाष्यगाथामें जो बात पूर्वानुपूर्वीके क्रमसे कही है, चूर्णिसूत्रोंमें वही बात पश्चादानुपूर्वीके क्रमसे कही है । अनन्तरकाल भावी उदयसे साम्प्रतिक-बन्धके अनन्त-गुणित होनेका कारण यह है कि समय-समय बढ़नेवाली अनन्तगुणी विशुद्धिके माहात्म्यसे आगे आगे प्रतिक्षण अनुभागका उदय क्षीण होता हुआ चला जाता है ।

चूर्णिसू०—अव चौथी भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना करते हैं ॥३५३॥

यह सक्रामक संयत अप्रशस्त प्रकृतियोंके अनुभागका प्रतिसमय अनन्तगुणित हीन गुणश्रेणीरूपसे वेदक होता है । किन्तु प्रदेशाप्रकी अपेक्षा गणनातिक्रान्त अर्थात् असंख्यातगुणित श्रेणीरूपसे वेदक जानना चाहिए ॥१४६॥

चूर्णिसू०—उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा इस प्रकार है—इस वर्तमान समयमें अनु-भागका उदय बहुत होता है । इसके अनन्तरकालमें अनुभागका उदय अनन्तगुणा हीन होता है । इस प्रकार सर्वत्र अर्थात् आगे आगेके समयोंमें अनुभागका उदय अनन्तगुणा हीन जानना चाहिए । प्रदेशोदय इस वर्तमान समयमें अल्प होता है । इसके अनन्तरकालमें

काले असंखेज्जगुणो । एवं सन्वत्थ ।

३५८. एत्तो चउत्थी मूलगाहा । ३५९. तं जहा ।

(१४) बंधो व संक्रमो वा उदओ वा किं सगे सगे ट्ठाणे ।

से काले से काले अधिओ हीणो समो वा पि ॥१४७॥

असंख्यातगुणा होता है । इसी प्रकार उत्तरोत्तर समयोमे सर्वत्र असंख्यातगुणा प्रदेशोदय जानना चाहिए ॥३५४-३५७॥

चूर्णिसू०-अब इससे आगे चौथी मूलगाथाका अवतार किया जाता है । वह इस प्रकार है ॥३५८-३५९॥

वन्ध, संक्रम और उदय स्वक स्वक स्थानपर तदनन्तर तदनन्तर कालकी अपेक्षा क्या अधिक हैं, हीन हैं, अथवा समान हैं ? ॥१४७॥

विशेषार्थ-यह चौथी मूलगाथा अनुभाग और प्रदेशसम्बन्धी वन्ध, उदय और संक्रमण-विषयक स्वस्थान-अल्पवहुत्वकी प्ररूपणा करनेके लिए अवतीर्ण हुई है । इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-साम्प्रतिक या वर्तमान समय-सम्बन्धी वन्ध, उदय और संक्रमणसे तदनन्तर काल-सम्बन्धी वन्ध, उदय और संक्रमण अपने-अपने स्थानपर क्या अधिक होकर प्रवृत्त होते हैं, या हीन होकर प्रवृत्त होते हैं, अथवा समान होकर प्रवृत्त होते हैं ? इस प्रकारके प्रश्नों-द्वारा यह गाथा वन्ध आदि पदोंका तदनन्तर कालके साथ भेद-आश्रय करके स्वस्थानअल्पवहुत्वका निरूपण करती है । यहाँपर पूर्व गाथासूत्रसे अनुभाग और प्रदेश पदकी, तथा 'गुणेण कि वा विसेसेण' इस पदकी अनुवृत्ति करना चाहिए । तदनुसार गाथाका अर्थ इस प्रकार करना चाहिए-अनुभाग-विषयक साम्प्रतिकवन्धसे तदनन्तर समयभावी वन्ध षड्गुणी वृद्धि और हानिकी अपेक्षा क्या अधिक है, हीन है या समान है ? साम्प्रतिक-उदयसे तदनन्तर-समयसम्बन्धी उदय षड्गुणी वृद्धि और हानिकी अपेक्षा क्या अधिक है, हीन है, या समान है ? तथा साम्प्रतिक-संक्रमणसे तदनन्तर-काल-भावी संक्रमण षड्गुणी वृद्धि और हानिकी अपेक्षा सन्निकर्ष किये जानेपर क्या अधिक है, हीन है अथवा समान है ? इसी प्रकार प्रदेशोकी अपेक्षा भी साम्प्रतिक वन्ध, उदय और संक्रमणसे तदनन्तर-समय-सम्बन्धी वन्ध, उदय और संक्रमण अनन्तगुणी वृद्धि और हानिकी छोड़कर शेष चतुःस्थान-पतित वृद्धि और हानिकी अपेक्षा अधिक हैं, हीन है या समान हैं ? प्रदेशोकी अपेक्षा अनन्तगुणी वृद्धि और हानिकी छोड़नेका यह अभिप्राय है कि विवक्षित समयसे तदनन्तर समयमें कर्म-प्रदेशोकी अनन्तगुणी वृद्धि या हानि वन्ध, उदय या संक्रमणमें कहीं भी संभव नहीं है । इस मूल गाथा-द्वारा उठाये गये प्रश्नोंका उत्तर वक्ष्यमाण तीन भाष्यगाथाओंके द्वारा स्वयं ही ग्रन्थकारने दिया है । विवक्षित अर्थकी पृच्छाओंके द्वारा सूचना करना ही मूलगाथाका उद्देश्य होता है ।

३६०. एदिस्से गाहाए तिणि भासगाहाओ । ३६१. तामि समुक्कित्तणा तहेव विहासा च । ३६२. जहा ।

(१५) वंधोदएहिं गियमा अणुभागो होदि णंतगुणहीणो ।

से काले से काले भज्जो पुण संकमो होदि ॥१४८॥

३६३. विहासा । ३६४. जहा । ३६५. अस्सि समए अणुभागबंधो बहुओ । ३६६. से काले अणंतगुणहीणो । ३६७. एवं समए समए अणंतगुणहीणो । ३६८. एव-
मुदयो वि कायव्वो । ३६९. संकमो जाव अणुभागखंडयमुक्कीरेदि ताव तत्तिगो तत्तिगो
अणुभागसंकमो । अण्णम्मिह अणुभागखंडये आढत्ते अणंतगुणहीणो अणुभागसंकमो ।

३७०. एत्तो विदियाए गाहाए समुक्कित्तणा ।

(१६) गुणसेठि असंखेज्जा च पदेसग्गेण संकमो उदओ ।

से काले से काले भज्जो वंधो पदेसग्गे ॥१४९॥

३७१. विहासा । ३७२. पदेसुदयो अस्सि समए थोवो । से काले असंखेज्ज-
गुणो । एवं सव्वत्थ । ३७३. जहा उदयो तथा संकमो वि कायव्वो । ३७४. पदेस-

चूर्णिसू०—इस मूलगाथाके अर्थका व्याख्यान करनेवाली तीन भाष्यगाथाएँ हैं ।
उनकी समुत्कीर्तना और विभाषा इस प्रकार है ॥३६०-३६२॥

अनुभाग, बन्ध और उदयकी अपेक्षा तदनन्तर-काल तदनन्तर-कालमें नियम-
से अनन्तगुणित हीन होता है । किन्तु संक्रमण भजनीय है ॥१४८॥

चूर्णिसू०—उक्त गाथाकी विभाषा इस प्रकार है—इस वर्तमान समयमें अनुभागबन्ध
बहुत होता है और तदनन्तर कालमें अनन्तगुणित हीन होता है । इस प्रकार समय-समयमें
अनन्तगुणित हीन होता जाता है । इसी प्रकार अनुभाग-उदयकी भी प्ररूपणा करना चाहिए ।
अर्थात् वर्तमान क्षणमें अनुभागोदय बहुत होता है और तदुत्तर क्षणमें अनन्तगुणा हीन होता
जाता है । संक्रमण जब तक एक अनुभागकांडकका उत्कीरण करता है, तब तक तो अनुभाग-
संक्रमण उतना-उतना ही होता रहता है । परन्तु अन्य अनुभागकांडकके आरम्भ करनेपर
उत्तरोत्तर-क्षणोंमें अनुभागसंक्रमण अनन्तगुणा हीन होता जाता है ॥३६३-३६९॥

अब इससे आगे दूसरी भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना करते हैं ॥३७०॥

प्रदेशाग्रकी अपेक्षा संक्रमण और उदय उत्तरोत्तर कालमें असंख्यातगुणित
श्रेणिरूप होते हैं । किन्तु बन्ध प्रदेशाग्रमें भजनीय है ॥१४९॥

चूर्णिसू०—इस भाष्यगाथाकी विभाषा इस प्रकार है—प्रदेशोदय इस समयमें अल्प
होता है, तदनन्तर समयमें असंख्यातगुणित होता है । इसी प्रकार सर्वत्र अर्थात् आगे
आगेके समयोंमें जानना चाहिए । जैसी उदयकी प्ररूपणा की है, वैसी ही संक्रमणकी भी

बंधो चउच्चिहाए वड्डीए चउच्चिहाए हाणीए अवट्टाणे च भजियव्वो ।

३७५. एत्तो तदियाए गाहाए समुक्कित्तणा ।

(१७) गुणदो अणंतगुणहीणं वेदयदि णियमसा दु अणुभागे ।

अहिया च पदेसग्गे गुणेण गणणादियंतेण ॥१५०॥

३७६. एदिस्से अत्थो पुव्वभणिदो ।

३७७. एत्तोपंचमी मूलगाहा । ३७८. तिस्से समुक्कित्तणा । ३७९. जहा ।

(१८) किं अंतरं करंतो वड्ढदि हायदि ट्ठिदी य अणुभागे ।

णिरुक्कमा च वड्ढी हाणी वा केच्चिरं कालं ॥१५१॥

करना चाहिए। अर्थात् प्रदेशोका संक्रमण वर्तमान कालमें कम होता है और तदुत्तर समयमें असंख्यातगुणा होता जाता है। प्रदेशबन्ध चतुर्विध वृद्धि, चतुर्विध हानि और अवस्थानमें भजितव्य है अर्थात् वर्तमान समयके प्रदेशबन्धसे तदुत्तर समय-सम्बन्धी प्रदेशबन्ध कदाचित् चतुर्विध वृद्धिसे बढ़ भी सकता है, कदाचित् चतुर्विध हानिरूपसे घट भी सकता है और कदाचित् तदवस्थ भी रह सकता है। इसका कारण यह है कि क्षपकश्रेणी चढ़ते हुए भी योगों की वृद्धि, हानि और अवस्थान तीनों ही संभव हैं ॥३७१-३७४॥

चूर्णिसू०—अब तीसरी भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना करते हैं ॥३७५॥

अनुभागमें गुणश्रेणीकी अपेक्षा नियमसे अनन्तगुणा हीन वेदन करता है। किन्तु प्रदेशाग्रमें गणनातिक्रान्त गुणितरूप श्रेणीके द्वारा अधिक है ॥१५०॥

चूर्णिसू०—इस गाथाका अर्थ पहले कहा जा चुका है। अर्थात् यह गाथा पूर्वोक्त अर्थका ही उपसंहार करती है ॥३७६॥

विशेषार्थ—इस तीसरी भाष्यगाथाके चतुर्थ चरणमें पठित 'गणणादियंतेण' पदका गणनातिक्रान्त अर्थके अतिरिक्त 'एयादीया गणना वीयादीया ह्वेज्ज संखेज्जा' के नियमसे एक और विशिष्ट अर्थ इस प्रकार किया जा सकता है—गणना अर्थात् एक, सवा, डेढ़, आदिसे अतिक्रान्त अर्थात् रहित ऐसे दो, तीन आदि संख्यात और संख्यातीत असंख्यातरूप गुणश्रेणीके द्वारा प्रदेशबन्ध उत्तरोत्तर समयमें वृद्धि और हानि अवस्थासे परिणत होता है, किन्तु अनुभाग उत्तरोत्तर क्षणोंमें अनन्तगुणित हीन होता जाता है।

चूर्णिसू०—अब इससे आगे पाँचवी मूलगाथा अवतीर्ण होती है, उसकी समुत्कीर्तना इस प्रकार है ॥३७७-३७९॥

अन्तरको करता हुआ वह कर्मांकी स्थिति और अनुभागको क्या बढ़ाता है, अथवा घटाता है? तथा स्थिति और अनुभागको बढ़ाते और घटाते हुए निरूपक्रम अर्थात् अन्तर-रहित वृद्धि अथवा हानि कितने काल तक होती है? ॥१५१॥

विशेषार्थ—प्रकृत गाथा-संक्रमण-सम्बन्धी गाथाओंमें तो पाँचवी है और अप-

३८०. एत्थ तिण्णि भासगाहाओ । ३८१. तासिं समुक्कित्तणं विहासणं च वत्तइस्सामो । ३८२. तं जहा । ३८३. पढमाए गाहाए समुक्कित्तणा ।

(९९) ओवट्टणा जहण्णा आवलिया अणिया तिभागेण ।

एसा द्विदीसु जहण्णा तहाणुभागे सणंतेसु ॥१५२॥

३८४. विहासा । ३८५. जा समयाहिया आवलिया उदयादो एवमादिद्विदी ओक्कड्डिज्जदि समयुणाए आवलियाए वेत्तिभागे एत्तिगे अइच्छावेदूण णिक्खिवदि

वर्तना-सम्बन्धी मूलगाथाओंमें पहली है । यह द्विसमयकृत-अन्तरावस्थाको आदि करके छह नोकपायोके क्षपणाकालके अन्तिम समय तक इस मध्यवर्ती अवस्थामें वर्तमान क्षपकके स्थिति-अनुभाग-विषयक उत्कर्षण-अपकर्षण-सम्बन्धी प्रवृत्तिके क्रमको बतलानेके लिए, तथा उन घटाये-बढ़ाये गये स्थिति, अनुभागयुक्त प्रदेशोंके निरूपक्रमरूपसे अवस्थानकालका प्रमाण अवधारण करनेके लिए अवतीर्ण हुई है । इस गाथासे यह भी ध्वनि निकलती है कि उत्कर्षित या अपकर्षित स्थिति-अनुभाग-सम्बन्धी इस प्रवृत्तिक्रमका विचार केवल क्षपकश्रेणीके प्रस्तुत स्थलपर ही नहीं करना चाहिए, किन्तु इसके पूर्व संसारावस्थामें भी उसका विचार करना चाहिए । गाथामें यद्यपि शब्दतः वृद्धि और हानिरूप उत्कर्षण और अपकर्षणका ही उल्लेख है, तथापि अर्थतः पर-प्रकृति-संक्रमणको भी ग्रहण करना चाहिए और तदनुसार यह भी एक पृच्छा करना चाहिए कि पर-प्रकृतियोंमें संक्रान्त हुआ प्रदेशाग्र कितने काल तक निरूपक्रमरूपसे अवस्थित रहता है । यहाँ ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए कि गाथामें अपठित यह अर्थ विशेष क्यों ग्रहण किया जाय ? क्योंकि प्रथम तो यह गाथासूत्र ही देशामर्शक है । दूसरे उत्तरार्धमें पठित 'च' शब्द अनुक्तका समुच्चय करता है । इस गाथाके द्वारा उठाई गई पृच्छाओंका उत्तर आगे कही जानेवाली भाष्यगाथाओंके द्वारा दिया जायगा ।

चूर्णिसू०—इस मूलगाथाके अर्थका व्याख्यान करनेवाली तीन भाष्यगाथाएँ हैं, उनकी समुत्कीर्तना और विभाषा एक साथ कहेंगे । वह इस प्रकार है । उनमें प्रथम भाष्यगाथा की यह समुत्कीर्तना है ॥३८०-३८३॥

जघन्य अपवर्तनाका प्रमाण त्रिभागसे हीन आवली है । यह जघन्य अपवर्तना स्थितियोंके विषयमें ग्रहण करना चाहिए । किन्तु अनुभाग-विषयक जघन्य अपवर्तना अनन्त स्पर्धकोंसे प्रतिबद्ध है । अर्थात् जब तक अनन्त स्पर्धक अतिस्थापनारूपसे निक्षिप्त नहीं हो जाते हैं, तब तक अनुभाग-विषयक-अपवर्तनाकी प्रवृत्ति नहीं होती है ॥१५२॥

चूर्णिसू०—इस गाथाकी विभाषा कहते हैं—उद्यसे अर्थात् उदयावलीसे लेकर एक समय अधिक आवली, दो समय-अधिक आवली आदिरूप जो स्थिति अपकृष्ट की जाती है, वह एक समय कम आवलीके दो त्रिभाग इतने प्रमाणकालमें अतिस्थापना करके निक्षिप्त करता

णिकखेवो समयूणाए आवलियाए तिभागो समयुत्तरो । ३८६. तदो जा अणंतर-उवरिमद्धिदी तिस्से णिकखेवो तत्तिगो चव । अइच्छावणा समयाहिया । ३८७. एवं ताव अइच्छावणा वडुदि जाव आवलिया अधिच्छावणा जादा त्ति । ३८८. तेण परमधिच्छावणा आवलिया, णिकखेवो वडुदि । ३८९. उक्कस्सओ णिकखेवो कम्मद्धिदी दोहिं आवलियाहिं समयाहियाहिं ऊणिगा । ३९०. जहण्णओ णिकखेवो थोवो । ३९१. जहण्णिया अइच्छावणा समयूणाए आवलियाए वेत्तिभागा विसेसाहिया । ३९२. उक्कस्सिया अइच्छावणा विसेसाहिया । ३९३. उक्कस्सओ णिकखेवो असंखेज्जगुणो ।

है । उस निक्षेपका प्रमाण समयोन आवलीका समयाधिक त्रिभाग है । तत्पश्चात् जो अनन्तर-उपरिम स्थिति है, उसका निक्षेप तो उतना ही होता है, किन्तु अतिस्थापना एक समय अधिक होती है । इस प्रकार तब तक अतिस्थापना बढ़ती जाती है, जब तक कि अतिस्थापना पूर्ण आवलीप्रमाण होती है । इससे परे अतिस्थापना तो आवलीप्रमाण ही रहती है, किन्तु निक्षेप बढ़ने लगता है । इस निक्षेपका उत्कृष्ट प्रमाण समयाधिक दो आवलियोंसे हीन कर्मस्थिति है । इस प्रकार जघन्य निक्षेप अल्प है । जघन्य अतिस्थापना समयोन आवलीके विशेषाधिक दो त्रिभागप्रमाण हैं । उत्कृष्ट अतिस्थापना विशेष अधिक है और उत्कृष्ट अतिस्थापनासे उत्कृष्ट निक्षेप असंख्यातगुणा है ॥ ३८४-३९३ ॥

विशेषार्थ—अपवर्तन क्रिया हुआ द्रव्य जिन निपेकोमें मिलाते हैं, वे निपेक निक्षेपरूप कहलाते हैं । उक्त द्रव्य जिन निपेकोमें नहीं मिलाया जाता है, वे निपेक अतिस्थापनारूप कहलाते हैं । निक्षेप और अतिस्थापनाका क्रम यह है कि उदयावली-प्रमाण निपेकोमेंसे एक कम कर तीनका भाग दीजिए । इनमें एक रूप-सहित प्रथम त्रिभाग तो निक्षेपरूप है अर्थात् वह अपवर्तित द्रव्य एकरूप-सहित प्रथम त्रिभागमें मिलाया जाता है और अन्तिम दो भाग अतिस्थापनारूप हैं, अर्थात् उनमें वह अपवर्तित द्रव्य नहीं मिलाया जाता है । यह स्थूल कथन है । उक्त अर्थको सूक्ष्मरूपसे सरलतासे समझनेके लिए उदयावलीके सोलह (१६) निपेकोकी कल्पना कीजिए और तदनुसार सत्तरहसे लेकर बत्तीस तकके निपेक दूसरी आवलीके कल्पना कीजिए । इस कल्पनाके अनुसार दूसरी आवलीके सत्तरहवें निपेकका द्रव्य अपकर्षण करके नीचे उदयावलीमें देना है, तो उक्त क्रमके अनुसार १६ मेंसे एक कम करनेपर १५ रहे, उसमें ३ का भाग देनेपर प्रथम त्रिभाग पाँच हुआ । उसमें एकके मिलाने पर ६ होते हैं । प्रारम्भके इन ६ निपेकोमें उस अपवर्तित द्रव्यका निक्षेप होगा, इसलिए वे निपेक निक्षेपरूप कहे जाते हैं । शेष ७ से लेकर १६ तकके जो प्रथमावलीके निपेक हैं, उनमें उक्त द्रव्यका निक्षेप नहीं होगा, अतएव वे अतिस्थापनारूप कहे जाते हैं । यह जघन्य निक्षेप और जघन्य अतिस्थापनाका प्रमाण है । इससे ऊपर, दूसरी आवलीके दूसरे निपेकका अपकर्षण क्रिया, तब इसके नीचे एक समय अधिक आवलीमात्र सर्व निपेक हैं,

३९४. विदियाए गाहाए समुक्त्तिणा । ३९५. जहा ।

उनमे निक्षेप तो एक समय कम आवलीका एक अधिक त्रिभागमात्र ही रहेगा, किन्तु अति-स्थापनाका प्रमाण पहलेसे एक समय अधिक हो जायगा । पुनः उसी दूसरी आवलीके तीसरे निषेकको अपकर्षण कर नीचे दिया, तब भी निक्षेपका प्रमाण वही रहेगा, किन्तु अति-स्थापना एक समय और अधिक हो जावेगी । पुनः उसी दूसरी आवलीके चौथे निषेकका अपकर्षण कर नीचे देनेपर भी निक्षेपका तो प्रमाण पूर्वोक्त ही रहेगा, किन्तु अतिस्थापनाका प्रमाण एक समय अधिक हो जायगा । इस प्रकार ऊपर-ऊपरके निषेकोको अपकर्षण कर नीचे देनेपर निक्षेपका प्रमाण तब तक वही रहेगा, जब तक कि अतिस्थापनाका प्रमाण एक-एक समय बढ़ते हुए पूरा एक आवलीप्रमाण काल न हो जाय । जब अतिस्थापना आवली-प्रमाण हो जाती है, तब उससे ऊपर निक्षेपका ही प्रमाण एक एक समयकी अधिकतासे तब तक बढ़ता जाता है, जब तक कि उत्कृष्ट निक्षेप प्राप्त न हो जावे । चूर्णिकारने उत्कृष्ट निक्षेपका प्रमाण प्रकृत प्रकरणमे उत्कृष्ट अतिस्थापनासे असंख्यातगुणा ही सामान्यरूपसे कहा है, पर जयधवलाकारने उसका प्रमाण एक समय अधिक दो आवलीसे हीन उत्कृष्ट कर्म स्थितिप्रमाण बतलाया है । एक समय अधिक दो आवलीसे हीन करनेका कारण यह है कि विवक्षित कर्मका बन्ध होनेके पश्चात् एक आवली तक तो उसकी उदीरणा हो नहीं सकती है, अतः वह एक अचलावलीकाल तो आवाधाकालरूप रहा । और अन्तिम आवली अति-स्थापनारूप है, अतः उसका भी द्रव्य अपकर्षण नहीं किया जा सकता । तथा अन्तिम निषेक-का द्रव्य अपकर्षण कर नीचे निक्षिप्त किया ही जा रहा है, अतः उसे ग्रहण नहीं किया । इस प्रकार एक समय अधिक दो आवलीसे हीन शेष समस्त उत्कृष्ट कर्मस्थितिमात्र उत्कृष्ट निक्षेपका प्रमाण जानना चाहिए । यहाँ उत्कृष्ट कर्मस्थितिसे सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपमका ग्रहण न करके चालीस कोड़ाकोड़ी सागरका ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि चारित्रमोहनीयकी उत्कृष्ट स्थिति इतनी ही बतलाई गई है । और चारित्रमोहका क्षपण करनेवाला दर्शन-मोहकी क्षपणा पूर्वमे ही कर चुका है, अतः उसके अपवर्तनाकी यहाँ संभावना ही नहीं है । जयधवलाकार कहते हैं कि यहाँ ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए कि क्षपकश्रेणी-विषयक प्ररूपणा करते हुए संसारावस्थामें संभव यह उत्कृष्ट निक्षेपका प्ररूपण यहाँपर असंबद्ध है ? क्योंकि उत्कर्षणाके सम्बन्धसे उसका प्रसंगवश प्ररूपणा करनेमे कोई असंगति या दोष नहीं है । किन्तु यथार्थतः प्रस्तुत स्थलपर तो चारित्रमोहनीयकी अवशिष्ट प्रकृतियोंकी तत्रक बन्धस्थिति तो अत्यन्त अल्प है ही, साथ ही सत्त्वस्थिति भी बहुत कम है । वह कितनी है, इसका प्रमाण यहाँ बतलाया नहीं गया है, तथापि प्रकृत प्रकरणके उक्त अल्पबहुत्वसे इतना स्पष्ट है कि उसकी प्रमाण उत्कृष्ट अविस्थापनाकालसे जो कि पूर्ण आवलीप्रमाण है—असंख्यातगुणा है ।

चूर्णिसू०—अब दूसरी भाष्यगाथाकी समुक्तीर्तना की जाती है । वह इस प्रकार है ॥ ३९४-३९५ ॥

(१००) संकामेदुक्कडुदि जे अंसे ते अवट्टिदा होंति ।

आवलियं से काले तेण परं होंति भजिदव्वा ॥१५३॥

३९६. विहासा । ३९७. जं पदेसग्गं परपयडीए संकमिज्जदि ठिदीहिं वा अणुभागेहिं वा उक्कडुज्जदि तं पदेसग्गमावलियं ण सको ओकडुडुं वा, उक्कडुडुं वा, संकामेदुं वा ।

३९८. एत्तो तदियाए भासगाहाए समुक्कित्तणा ।

(१०१) ओकडुदि जे अंसे से काले ते च होंति भजियव्वा ।

वड्डीए अवट्टाणे हाणीए संकमे उदए ॥१५४॥

३९९. विहासा । ४००. ठिदीहिं वा अणुभागेहिं वा पदेसग्गमोकडुज्जदि, तं पदेसग्गं से काले चेव ओकडुज्जेज्ज वा, उक्कडुज्जेज्ज वा, संकामिज्जेज्ज वा, उदी-रिज्जेज्ज वा ।

४०१. एत्तो छट्ठीए मूलगाहाए समुक्कित्तणा । ४०२ तं जहा ।

जो कर्मरूप अंश संक्रमित, अपकर्षित, या उत्कर्षित किये जाते हैं, वे आवली-प्रमित काल तक अवस्थित रहते हैं, अर्थात् उनमें हानि, वृद्धि आदि कोई क्रिया नहीं होती है। उसके पश्चात् तदनन्तर समयमें वे भजितव्य हैं। अर्थात् संक्रमणावलीके व्यतीत होनेपर उनमें वृद्धि, हानि आदि अवस्थाएँ कदाचित् हो भी सकती हैं और कदाचित् नहीं भी हो सकती हैं ॥१५३॥

चूर्णिसू०—उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा इस प्रकार है—जो प्रदेशाग्र परप्रकृतिमें संक्रान्त किया जाता है, अथवा स्थिति या अनुभागके द्वारा अपवर्तित किया जाता है, वह प्रदेशाग्र एक आवलीकाल तक अपकर्षण करनेके लिए, उत्कर्षण करनेके लिए या संक्रमण करनेके लिए शक्य नहीं है ॥३९६-३९७॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे तीसरी भाष्यगाथाकी विभाषा की जाती है ॥३९८॥

जो कर्मांश अपकर्षित किये जाते हैं वे अनन्तर कालमें स्थिति आदिकी वृद्धि, अवस्थान, हानि, संक्रमण और उदय, इनकी अपेक्षा भजितव्य हैं। अर्थात् जिन कर्मांशोंका अपकर्षण किया जाता है, उनके अपकर्षण किये जानेके दूसरे ही समयमें ही वृद्धि, हानि आदि अवस्थाओंका होना संभव है ॥१५४॥

चूर्णिसू०—उक्त गाथाकी विभाषा इस प्रकार है जो कर्म-प्रदेशाग्र स्थिति अथवा अनुभागकी अपेक्षा अपकर्षित किया जाता है, वह कर्म-प्रदेशाग्र तदनन्तरकालमें ही अपकर्षणको भी प्राप्त किया जा सकता है, उत्कर्षणको भी प्राप्त किया जा सकता है, संक्रमणको भी प्राप्त किया जा सकता है और उदीरणाको भी प्राप्त किया जा सकता है ॥३९९-४००॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे छठी मूलगाथाकी समुत्कीर्तना की जाती है। वह इस प्रकार है ॥४०१-४०२॥

(१०२) एकं च द्विदिविसेसं तु द्विदिविसेसेसु कदिसु वड्ढेदि ।
हरसेदि कदिसु एगं तहाणुभागसु वोद्धव्वं ॥१५५॥

४०३. एदिस्से एका भासगाहा । ४०४. तिस्से समुक्कित्तणा च विहासा च कायव्वा । ४०५. तं जहा ।

(१०३) एकं च द्विदिविसेसं तु असंखेज्जेसु द्विदिविसेसेसु ।
वड्ढेदि हरस्सेदि च तहाणुभागे सणंतेसु ॥१५६॥

एक स्थितिविशेषको कितने स्थितिविशेषोंमें बढ़ाता है और एकस्थितिविशेषको कितने स्थितिविशेषोंमें घटाता है ? इसी प्रकारकी पृच्छाएँ अनुभागविशेषोंमें जानना चाहिए ॥१५५॥

विशेषार्थ—यह छठी मूलगाथा स्थिति-अनुभागविषयक उत्कर्षण-अपकर्षणसम्बन्धी जघन्य-उत्कृष्ट निक्षेपके प्रमाणका अवधारण करनेके लिए अवतीर्ण हुई है । यह मूलगाथा होनेसे केवल पृच्छारूपसे ही वक्तव्य अर्थकी सूचना करती है । एक स्थितिविशेषको कितनी स्थितिविशेषोंमें बढ़ाता है ? इसका अभिप्राय यह है कि किसी विवक्षित एक स्थितिका उत्कर्षण करता हुआ क्या एक स्थितिविशेषमें बढ़ाता है, अथवा दो स्थितिविशेषोंमें बढ़ाता है, अथवा तीन स्थितिविशेषोंमें बढ़ाता है, अथवा संख्यात स्थितिविशेषोंमें बढ़ाता है, या असंख्यात स्थितिविशेषोंमें बढ़ाता है, इस प्रकार गाथाके पूर्वार्ध-द्वारा स्थिति-उत्कर्षणके विषयमें जघन्य उत्कृष्ट निक्षेपके प्रमाणकी पृच्छा की गई है । इसी पूर्वार्ध-पठित 'च' और 'तु' शब्दके द्वारा उत्कर्षण-विषयक जघन्य और उत्कृष्ट अतिस्थापनाके संग्रहकी भी सूचना की गई समझना चाहिए । 'हरसेदि कदिसु एगं' गाथाके उत्तरार्धके इस प्रथम अवयवके द्वारा अपकर्षण-विषयक जघन्य-उत्कृष्ट निक्षेपके प्रमाणका निर्णय करनेके लिए पृच्छा की गई है । उत्तरार्धके अन्तिम अवयव-द्वारा अनुभाग-विषयक उत्कर्षण-अपकर्षणसम्बन्धी जघन्य और उत्कृष्ट निक्षेपके विषयमें तथा जघन्य और उत्कृष्ट अतिस्थापनाके प्रमाण-सम्बन्धमें पृच्छा की गई समझना चाहिए । इस प्रकार इस मूलगाथाके द्वारा की गई पृच्छाओका उत्तर वक्ष्यमाण भाष्य-गाथाओंके द्वारा स्वयं ग्रन्थकार ही देगे ।

चूर्णिसू०—इस मूलगाथाके अर्थका व्याख्यान करनेवाली एक भाष्यगाथा है । उसकी समुत्कीर्तना और विभाषा एक साथ करना चाहिए । वह इस प्रकार है ॥४०३-४०५॥

एक स्थितिविशेषको असंख्यात स्थितिविशेषोंमें बढ़ाता है और घटाता भी है । इसी प्रकार अनुभागविशेषको अनन्त अनुभागस्पर्धकोंमें बढ़ाता और घटाता है ॥१५६॥

विशेषार्थ—उपर्युक्त मूलगाथामें जिन पृच्छाओका उद्भावन किया गया था, उनका

४०६. विहासा । ४०७. जहा । ४०८. द्विदिसंतकम्मस्स अग्गट्टिदीदो सम-
युत्तरट्टिदिं वंधमाणो तं द्विदिसंतकम्म-अग्गट्टिदिं ण उक्कड्ढदि । ४०९. दुसमयुत्तरट्टिदिं
बंधमाणो वि ण उक्कड्ढदि । ४१०. एवं गंतूण आवलियुत्तरट्टिदिं वंधमाणो ण उक्कड्ढदि ।
४११. जइसंतकम्म-अग्गट्टिदीदो वड्ढमाणिया ट्टिदी अदिरित्ता आवलियाए आवलियाए
असंखेज्जदिभागेण च तदो सो संतकम्म-अग्गट्टिदिं सक्को उक्कड्ढिदुं । ४१२. तं पुण
उक्कड्ढियूण आवलियमधिच्छावेयूण आवलियाए असंखेज्जदिभागे णिक्खिवदि । ४१३.
णिकखेवो आवलियाए असंखेज्जदिभागमादिं कादूण समयुत्तराए वड्ढीए णिरंतरं जाव

उत्तर इस भाष्यगाथाके द्वारा दिया गया है । मूलगाथाकी प्रथम पृच्छा यह थी कि एक
स्थितिविशेषको कितने स्थितिविशेषोमे बढ़ाता अथवा घटाता है ? इसका उत्तर इस भाष्य-
गाथाके प्रथम तीन चरणोमे दिया गया है कि एक स्थितिविशेषका उत्कर्षण या अपकर्षण
करनेवाला नियमसे उस स्थितिको असंख्यात स्थितिविशेषोमे बढ़ाता अथवा घटाता है ।
मूलगाथाके चतुर्थ चरण-द्वारा अनुभाग-विषयक उत्कर्षण और अपकर्षणके सम्बन्धमे प्रश्न
किया गया था, उसका उत्तर इस भाष्यगाथाके चतुर्थ चरण-द्वारा दिया गया है कि एक
अनुभागविशेषको अनन्त अनुभाग-स्पर्धकोमे बढ़ाता अथवा घटाता है । मूलगाथा-पठित
'च' और 'तु' शब्दके द्वारा जिन और नवीन पृच्छाओकी सूचना की गई थी, उनका उत्तर
भी इस भाष्यगाथा-पठित 'च और तु' शब्दके द्वारा ही दिया गया है, अर्थात् एक स्थिति-
का उत्कर्षण-विषयक जघन्य निक्षेप आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण और उत्कृष्ट निक्षेप
एक समय-अधिक आवलीसे ऊन और चार हजार वर्षोंसे हीन चालीस कोड़ाकोड़ी सागर-
प्रमाण है । अपकर्षण करनेमे जघन्य निक्षेपका प्रमाण एक समय कम आवलीके त्रिभागसे
एक समय अधिक है । तथा उत्कृष्ट निक्षेप एक समय और दो आवली कम उत्कृष्ट स्थिति-
प्रमाण है । अनुभागसम्बन्धी जघन्य और उत्कृष्ट निक्षेप अनन्त स्पर्धक-प्रमाण है ।

चूर्णिसू०—उक्त गाथाकी विभाषा इस प्रकार है—स्थिति-सत्कर्मकी अग्रस्थितिसे
एक समय-अधिक स्थितिको बाँधता हुआ उस स्थिति-सत्कर्मकी अग्रस्थितिका उत्कर्षण नहीं
करता है । दो समय-अधिक स्थितिको बाँधता हुआ भी स्थितिसत्त्वकी अग्रस्थितिका उत्कर्षण
नहीं करता है । इस प्रकार तीन समय-अधिक, चार समय-अधिक आदिके क्रमसे जाकर
एक आवली-अधिक स्थितिको बाँधता हुआ भी विवक्षित स्थितिसत्कर्मकी अग्रस्थितिका
उत्कर्षण नहीं करता है । यदि स्थितिसत्त्वकी अग्रस्थितिसे बाँधी जानेवाली स्थिति आवलीसे
और आवलीके असंख्यात भागसे अतिरिक्त (अधिक) हो तो वह उस स्थितिसत्त्वकी
अग्रस्थितिका उत्कर्षण कर सकता है । क्योंकि वह उस अग्रस्थितिका उत्कर्षण कर आवली-
प्रमाण (जघन्य) अतिस्थापना करके आवलीके असंख्यातवे भागमे अर्थात् तत्प्रमाण जघन्य
निक्षेपमे निक्षिप्त करता है । वह निक्षेप आवलीके असंख्यातवे भागको आदि करके एक
समय अधिक वृद्धिसे निरन्तर उत्कृष्ट निक्षेप प्राप्त होनेतक बढ़ता जाता है । अर्थात् जघन्य

उक्कस्सगो णिकखेवो त्ति सव्वाणि ढाणाणि अत्थि ।

४१४. उक्कस्सओ पुण णिकखेवो केत्तिओ ? ४१५. कसायाणं ताव उक्कड्ढि-
ज्जमाणियाए ढ्ढिदीए उक्कस्सगं णिकखेवं वत्तइस्सामो । ४१६. चत्तालीसं सागरोवम-
कोडाकोडीओ चट्ठहि वस्ससहस्सेहिं आवलियाए समयुत्तराए च ऊणिगाओ, एसो
उक्कस्सगो णिकखेवो ।

४१७. जाओ आवाहाए उवरि ढ्ढिदीओ तासिमुक्कड्ढिज्जमाणीणमइच्छावणा
सव्वत्थ आवलिया । ४१८. जाओ आवाहाए हेट्ठा संतकम्मढ्ढिदीओ तासिमुक्कड्ढिज्ज-
माणीणमइच्छावणा किस्से वि ढ्ढिदीए आवलिया, किस्से वि ढ्ढिदीए समयुत्तरा, किस्से
वि ढ्ढिदीए दुसमयुत्तरा, किस्से वि ढ्ढिदीए तिसमयुत्तरा । एवं णिरंतरमइच्छावणाट्ठा-

निक्षेपसे लेकर उत्कृष्ट निक्षेप तक सर्व स्थान निक्षेपरूप हैं ॥४०६-४१३॥

शंका—उत्कृष्ट निक्षेपका प्रमाण कितना है ? ॥४१४॥

समाधान—कषायोकी उत्कर्षण की जानेवाली स्थितिका उत्कृष्ट निक्षेप कहेंगे ।
अर्थात् सर्व कर्मोंके उत्कृष्ट निक्षेपका प्रमाण तो भिन्न भिन्न है, अतः हम उदाहरणके रूपमें
कषायोके उत्कृष्ट निक्षेपका प्रमाण कहेंगे । एक समय अधिक आवली और चार हजार वर्षों-
से हीन चालीस कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण यह उत्कृष्ट निक्षेप होता है ॥४१५-४१६॥

विशेषार्थ—निक्षेपका यह प्रमाण इस प्रकार संभव है कि कोई जीव कषायोकी
चालीस कोड़ाकोड़ी सागर-प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिको बाँधकर और बन्धावली व्यतीत होनेके
अनन्तरसमयमें ही उस प्रदेशाग्रको अपवर्तित कर नीचे निक्षिप्त करता है । इस प्रकारसे
निक्षेप करनेवाला उद्यावलीके बाहिर द्वितीय स्थितिमें निक्षिप्त प्रदेशाग्रको क्षपण करनेके लिए
ग्रहण करता है । पुनः उस प्रदेशाग्रको तदनन्तर समयमें बन्ध होनेवाली चालीस कोड़ाकोड़ी
सागरप्रमाण उत्कृष्ट स्थितिके ऊपर उत्कर्षण करता हुआ चार हजार वर्षप्रमाण उत्कृष्ट
आवाधाकालका उल्लंघन करके इससे उपरिम निषेकस्थितियोंमें ही निक्षिप्त करता है । इस
प्रकार उत्कृष्ट आवाधाकालसे हीन चारित्रमोहनीय कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति ही उत्कर्षणसम्बन्धी
उत्कृष्ट निक्षेपका प्रमाण होता है । हाँ, इतनी बात विशेष है कि एक समय अधिक बन्धा-
वली कालसे उक्त कर्मस्थितिको कम करना चाहिए, क्योंकि निरुद्ध समयप्रवृद्धकी सत्त्व-
स्थितिका समयाधिक बन्धावली-प्रमित काल नीचे ही गल चुका है । इस प्रकार समयाधिक
आवली और चार हजार वर्षोंसे हीन चालीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम उत्कृष्ट निक्षेपका प्रमाण
जानना चाहिए ।

चूर्णिसू०—आवाधाकालसे उपरिवर्ती जो स्थितियाँ हैं, उत्कर्षण की जानेवाली उन
स्थितियोंकी अतिस्थापना सर्वत्र आवलीप्रमाण है । आवाधाकालसे अधस्तनवर्ती जो सत्कर्म-
स्थितियाँ हैं, उत्कर्षण की जानेवाली उन स्थितियोंकी अतिस्थापना किसी स्थितिकी तो एक
आवली, किसी स्थितिकी एक समय-अधिक आवली, किसी स्थितिकी दो समय अधिक

णाणि जाव उक्स्सिगा अइच्छावणा त्ति । ४१९. उक्स्सिया पुण अइच्छावणा केत्तिगा ?
४२०. जा जस्स उक्स्सिगा आवाहा सा उक्स्सिया आवाहा समयाहियावलियूणाए
उक्स्सिया अइच्छावणा ।

४२१. उक्कड्डिज्जमाणियाए ट्ठिदीए जहण्णगो णिक्खेवो थोवो । ४२२.
ओक्कड्डिज्जमाणियाए ट्ठिदीए जहण्णगो णिक्खेवो असंखेज्जगुणो । ४२३. ओक्कड्डिज्ज-
माणियाए ट्ठिदीए जहण्णिया अधिच्छावणा थोवूणा दुगुणा । ४२४ ओक्कड्डिज्जमाणि-
याए ट्ठिदीए उक्स्सिया अइच्छावणा णिन्वावादेण उक्कड्डिज्जमाणाए ट्ठिदीए जहण्णिया
अइच्छावणा च तुल्लाओ विसेसाहियाओ । ४२५. आवलिया तत्तिया चेव । ४२६.
उक्कड्डुणा उक्स्सिया अधिच्छावणा संखेज्जगुणा । ४२७. ओक्कड्डुणादो वाघादेण
उक्कस्सिया अधिच्छावणा असंखेज्जगुणा । ४२८ उक्कड्डुणादो उक्कस्सगो णिक्खेवो

आवली, किसी स्थितिकी तीन समय अधिक आवली है । इस प्रकार निरन्तर एक-एक समय
अधिक बढ़ते हुए उत्कृष्ट अतिस्थापनाका प्रमाण प्राप्त होनेतक सर्व अतिस्थापना-स्थान जानना
चाहिए ॥४१७-४१८॥

शंका—उत्कृष्ट अतिस्थापनाका प्रमाण कितना है ? ॥४१९॥

समाधान—जिस कर्मकी जो उत्कृष्ट आवाधा है वह एक समय-अधिक आवलीसे
हीन आवाधा उस कर्मकी उत्कृष्ट अतिस्थापनाका प्रमाण है ॥४२०॥

जिस प्रकार उत्कर्षण-विषयक जघन्य उत्कृष्ट निक्षेप और अतिस्थापनाका प्रमाण
बतलाया है, उसी प्रकार अपकर्षण-सम्बन्धी निक्षेप और अतिस्थापनाका भी जान लेना
चाहिए । अब इन्हीं उत्कर्षण-अपकर्षण-सम्बन्धी अल्पबहुत्वको कहते हैं—

चूर्णिसू०—उत्कर्षण की जानेवाली स्थितिका जघन्य निक्षेप सबसे कम है, (क्योंकि
वह आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।) इससे अपकर्षण की जानेवाली स्थितिका जघन्य
निक्षेप असंख्यातगुणा है, (क्योंकि उसका प्रमाण एक समय अधिक आवलीका त्रिभाग
है ।) इससे अपकर्षण की जानेवाली स्थितिकी जघन्य अतिस्थापना कुछ कम दुगुनी है ।
(क्योंकि उसका प्रमाण आवलीके एक समय कम दो त्रिभाग-प्रमाण है ।) अपकर्षण की
जानेवाली स्थितिकी उत्कृष्ट अतिस्थापना और निर्व्याघातकी अपेक्षा उत्कर्षणकी जानेवाली
स्थितिकी जघन्य अतिस्थापना ये दोनों परस्पर तुल्य और विशेष अधिक हैं । आवलीका
प्रमाण उतना ही है । इससे उत्कर्षण-सम्बन्धी उत्कृष्ट अतिस्थापना संख्यातगुणी है ।
(क्योंकि उसका प्रमाण एक समय अधिक आवलीसे हीन उत्कृष्ट आवाधाकाल है ।)
व्याघातकी अपेक्षा अपकर्षण-सम्बन्धी उत्कृष्ट अतिस्थापना असंख्यातगुणी है । (क्योंकि वह
एक समय कम उत्कृष्ट स्थितिकांडकप्रमाण है ।) उत्कर्षणविषयक उत्कृष्ट निक्षेप विशेष अधिक
है । (यहाँ विशेष अधिकका प्रमाण अन्तःकोड़ाकोड़ी जानना चाहिए, इसका कारण यह है

विसेसाहिओ । ४२९. ओकड्डणादो उक्कस्सगो णिक्खेवो विसेसाहिओ । ४३०. उक्कस्सयं
ट्ठिदिसंतकम्मं विसेसाहियं । ४३१. दो आवलियाओ समयुत्तराओ विसेसो ।

४३२. एत्तो सत्तमी मूलगाहा । ४३३. तं जहा ।

(१०४) ट्ठिदि अणुभागे अंसे के के वड्ढदि के व हरस्सेदि ।

केसु अवट्ठणं वा गुणेण किं वा विसेसेण ॥१५७॥

४३४. एदिस्से चत्तारि भासगाहाओ । ४३५. तासिं समुक्किक्कत्तणा च विहासा
च । ४३६. पढमभासगाहाए समुक्किक्कत्तणा ।

(१०५) ओवट्ठेदि ट्ठिदिं पुण अधिगं हीणं च वंधसमगं वा ।

उक्कड्ढदि वंधसमं हीणं अधिगं ण वड्ढेदि ॥१५८॥

कि यहाँपर एक समय अधिक आवली-सहित उत्कृष्ट आवाधासे हीन चालीस कोड़ाकोड़ी सागरोपममात्र उत्कृष्ट स्थिति उत्कृष्ट निक्षेपरूपसे विवक्षित है ।) अपकर्षणविषयक उत्कृष्ट निक्षेप विशेष अधिक है । (यहाँपर विशेषका प्रमाण संख्यात आवली है, क्योंकि यहाँपर एक आवलीसे हीन उत्कृष्ट आवाधाका प्रवेश सम्मिलित हो जाता है ।) उत्कृष्ट स्थितिसत्कर्म विशेष अधिक है । वह विशेष एक समय अधिक दो आवलीप्रमाण है । (क्योंकि यहाँपर समयाधिक अतिस्थापनावलीके साथ वन्धावली भी सम्मिलित हो जाती है ।) ॥४२१-४३१॥

इस प्रकार अपवर्तना-सम्बन्धी मूलगाथाकी अर्थविभाषा समाप्त हुई ।

चूर्णिसू०—अब इससे आगे सातवीं मूलगाथा अवतरित होती है । वह इस प्रकार है ॥४३२-४३३॥

स्थिति और अनुभाग-सम्बन्धी कौन-कौन अंश अर्थात् कर्म-प्रदेशोंको बढ़ाता अथवा घटाता है ? अथवा किन-किन अंशोंमें अवस्थान करता है ? और यह वृद्धि, हानि और अवस्थान किस-किस गुणसे विशिष्ट होता है ? ॥१५७॥

चूर्णिसू०—इस सातवीं मूलगाथाके अर्थका व्याख्यान करनेवाली चार भाष्यगाथाएँ हैं । अब उनकी समुत्कीर्तना और विभाषा की जाती है । उसमें प्रथम भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना इस प्रकार है ॥४३४-४३६॥

स्थितिका अपकर्षण करता हुआ कदाचित् अधिक स्थितिका भी अपकर्षण करता है, कदाचित् हीन स्थितिका भी, और कदाचित् बन्ध-समान स्थितिका भी । स्थितिका उत्कर्षण करता हुआ बन्ध-समान या बन्धसे अल्प स्थितिका ही उत्कर्षण करता है, किन्तु अधिक स्थितिको नहीं बढ़ाता है ॥१६८॥

१ का पुण ओवट्ठणा गाम ? ट्ठिदि-अणुभागदुवारेण कम्मपदेसाणमोकड्डणा उक्कड्डणासहभाविणी ओवट्ठणा त्ति भण्णदे । जयघ०

४३७. विहासा । ४३८. जा द्विदी ओक्कड्डिज्जदि सा द्विदी वज्झमाणियादो अधिगा वा हीणा वा तुल्ला वा । उक्कड्डिज्जमाणिया द्विदी वज्झमाणियादो द्विदीदो तुल्ला हीणा वा, अहिया णत्थि ।

४३९. एत्तो विदियभासगाहा । ४४०. जहा ।

(१०६) सव्वे वि य अणुभागे ओक्कड्डि जे ण आवलियपविट्ठे ।

उक्कड्डि वन्धसमं गिरुवक्कम होदि आवलिया ॥१५९॥

४४१. विहासा । ४४२. एदिस्से गाहाए अण्णो वन्धाणुलोमेण अत्थो अण्णो सब्भावदो । ४४३. वन्धाणुलोमं ताव वत्तइस्सामो । ४४४. उदयावलियपविट्ठे अणुभागे मोत्तूण सेसे सव्वे चेव अणुभागे ओक्कड्डि । एवं चेव उक्कड्डि ।

चूर्णिसू०—इस भाष्यगाथाकी विभाषा इस प्रकार है—जो स्थिति अपकर्षित की जाती है, वह स्थिति वध्यमान स्थितिसे अविक्र, हीन या तुल्य होती है । किन्तु उत्कर्षण की जानेवाली स्थिति वध्यमान स्थितिसे तुल्य या हीन होती है, अधिक नहीं होती ॥४३७-४३८॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे दूसरी भाष्यगाथा अवतरित होती है । वह इस प्रकार है ॥४३९-४४०॥

उदयावलीके बाहिर स्थित सभी अर्थात् वन्ध-सदृश या उससे अधिक अनुभागका अपकर्षण करता है । किन्तु जो अनुभाग आवली-प्रविष्ट हैं, अर्थात् उदयावलीके अन्तःस्थित है, वह अपकर्षित नहीं करता है । वन्धसदृश अनुभागका उत्कर्षण करता है, उससे अधिकका नहीं । आवली अर्थात् वन्धावली निरूपक्रम होती है, क्योंकि वह उत्कर्षण-अपकर्षणके बिना निर्व्याघातरूपसे अवस्थित रहती है ॥१५९॥

चूर्णिसू०—इस गाथाका वन्धानुलोमसे अन्य अर्थ है और सद्भावकी अपेक्षा अन्य अर्थ है । इनमेसे पहले वन्धानुलोम अर्थको कहेंगे ॥४४१-४४३॥

विशेषार्थ—गाथासूत्रमें निबद्ध पदोंके अनुसार जो अर्थ किया जाता है, उसे वन्धानुलोम अर्थात् स्थूल अर्थ कहते हैं और जो गाथाके सद्भाव अर्थात् अभिप्राय, आशय या तत्त्व-निबोधकी अपेक्षा अर्थ किया जाता है, उसे सद्भाव अर्थात् सूक्ष्म अर्थ कहते हैं । अथवा स्थितिकी अपेक्षा किये जानेवाले अर्थकी वन्धानुलोम और अनुभागकी अपेक्षा किये जानेवाले अर्थकी सद्भावसंज्ञा जानना चाहिए । चूर्णिकार इनमेसे पहले गाथाके वन्धानुलोम अर्थका व्याख्यान करेंगे ।

चूर्णिसू०—उदयावलीमें प्रविष्ट अनुभागोंको छोड़कर शेष सर्व ही अनुभागोंका अपकर्षण करता है और इसी प्रकार उत्कर्षण करता है ॥४४४॥

४४५. सम्भावसण्णं वत्तइस्सामो । ४४६. तं जहा । ४४७. पढपफद-
यप्पहुडि अणंताणि फदयाणि ण ओकड्डिज्जंति । ४४८. ताणि केत्तियाणि ? ४४९.
जत्तियाणि जहण्णअधिच्छावणफदयाणि जहण्णणिकखेवफदयाणि च तत्तियाणि । ४५०.
तदो एत्तियमेत्तियाणि फदयाणि अधिच्छिदूण तं फदयमोकड्डिज्जदि । एवं जाव चरिम-
फदयं ति ओकड्डिदि अणंताणि फदयाणि । ४५१. चरिमफदयं ण उक्कड्डिदि । ४५२.
एवमणंताणि फदयाणि चरिमफदयादो ओसक्कियूण तं फदयमुक्कड्डिदि ।

विशेषार्थ—उदयावलीसे बाहिरी समस्त स्थितियोंमें स्थित सभी अनुभाग-स्पर्धकोका उत्कर्षण और अपकर्षण हो सकता है, इस प्रकारका यह बन्धानुलोमी स्थूल अर्थ है, वास्तविक नहीं, क्योंकि, अनुभाग-विषयक उत्कर्षण-अपकर्षणकी प्रवृत्ति जघन्य अतिस्थापना-निक्षेपप्रमाण स्पर्धकोको छोड़कर शेष स्पर्धकोकी ही होती है । यहाँ यह शंका की जा सकती है कि इस प्रकारका यह उपदेश गाथाकारने क्यों दिया ? इसका उत्तर यह है कि उनका यह उपदेश स्थितिकी अपेक्षा जानना चाहिए, क्योंकि, उदयावलीसे लेकर सभी स्थितिविशेषोंमें सभी अनु-
भागस्पर्धक पाये जाते हैं । इसलिए उन स्थितियोंके अपकर्षण या उत्कर्षण किये जानेपर उनमें स्थित सभी अनुभाग-स्पर्धक भी अपकर्षित या उत्कर्षित होते हैं । दूसरे, स्थितियोंमें अवस्थित परमाणुओंसे पृथग्भूत अनुभागस्पर्धक नहीं पाये जाते हैं । इस अभिप्रायकी अपेक्षा उदयावलीमें प्रविष्ट अनुभागोंको छोड़कर शेष सभी अनुभाग स्थितिकी अपेक्षा उत्कर्षित या अपकर्षित होते हैं, ऐसा ग्रन्थकारने कहा है ।

चूर्णिसू०—अब सद्भावसंज्ञक सूक्ष्म अर्थको कहेंगे । वह इस प्रकार है—प्रथम स्पर्धकसे लेकर अनन्त स्पर्धक अपकर्षित नहीं किये जाते हैं । वे स्पर्धक कितने हैं ? जितने जघन्य अतिस्थापना-स्पर्धक हैं और जितने जघन्य निक्षेप-स्पर्धक हैं, उतने हैं । इसलिए एतावन्मात्र अतिस्थापनारूप स्पर्धकोको छोड़कर तदुपरिम स्पर्धक अपकर्षित किया जाता है । इस प्रकार क्रमशः बढ़ते हुए अन्तिम स्पर्धक तक अनन्त स्पर्धक अपकर्षित किये जाते हैं । (इस प्रकार अपकर्षण-सम्बन्धी सूक्ष्म अर्थ कहकर अब उत्कर्षण-सम्बन्धी सूक्ष्म अर्थ कहते हैं—) चरम स्पर्धक उत्कर्षित नहीं किया जाता है, उपचरिम स्पर्धक नहीं उत्कर्षित किया जा सकता है । इस प्रकार अन्तिम स्पर्धकसे नीचे अनन्त स्पर्धक उतरकर अर्थात् चरम स्पर्धकसे जघन्य अति-
स्थापनानिक्षेपप्रमाण स्पर्धक छोड़कर जो स्पर्धक प्राप्त होता है, वह स्पर्धक उत्कर्षित किया जाता है और उसे आदि लेकर उससे नीचेके शेष सर्व स्पर्धक उत्कर्षित किये जाते हैं ॥४४५-४५२॥

अब अनुभाग-सम्बन्धी उत्कर्षण-अपकर्षण-विषयक जघन्य, उत्कृष्ट अतिस्थापनानिक्षेप आदि पदोंके अल्पबहुत्वको कहते हैं—

? टिठदिविक्खमकादृण अणुभाग चेव पहानभावेण घेत्तूण तव्विसयाणमोकड्डुक्कड्डुणाण पवुत्ति-
क्कमणिरूवण सम्भावसण्णा णाम । जयघ०

४५३. उक्कड्डणादो ओकड्डणादो च जहणणगो णिकखेवो थोवो । ४५४. जहण्णिणया अधिच्छावणा ओकड्डणादो च उक्कड्डणादो च तुल्ला अणंतगुणा । ४५५. वाघादेण ओकड्डणादो उक्कस्सिया अधिच्छावणा अणंतगुणा । ४५६. अणुभागखंडयमेगाए वग्गणाए अदिरित्तं । ४५७. उक्कस्सयमणुभागसंतकम्मं वंधो च विसेसाहिया ।

४५८. एत्तो तदियभासगाहाए समुक्कित्तणा विहासा च ।

(१०७) वड्डीदु होदि हाणी अधिगा हाणीदु तह अवट्टाणं ।

गुणसेटि असंखेज्जा च पदेसग्गेण वोद्धव्वा ॥१६०॥

४५९. विहासा । ४६० जं पदेसग्गमुक्कड्डिज्जदि सा वड्ढि त्ति सण्णा । ४६१. जमोक्कड्डिज्जदि सा हाणि त्ति सण्णा । ४६२. जं ण ओक्कड्डिज्जदि, ण उक्कड्डिज्जदि पदेसग्गं तमवट्टाणं त्ति सण्णा । ४६३. एदीए सण्णाए एक्कं ट्ठिदिं वा पडुच्च सव्वाओ वा ट्ठिदीओ पडुच्च अप्पावहुअं । ४६४. तं जहा । ४६५. वड्ढी थोवा । ४६६. हाणी असंखेज्जगुणा । ४६७. अवट्टाणमसंखेज्जगुणं । ४६८. अवखवगाणुवसामगस्स पुण सव्वाओ ट्ठिदीओ एगट्ठिदिं वा पडुच्च वड्ढीदो हाणी तुल्ला वा, विसेसाहिया वा, विसेसहीणा वा । अवट्टाणमसंखेज्जगुणं ।

चूर्णिसू०—उत्कर्षण और अपकर्षणकी अपेक्षा जघन्य निक्षेप स्तोक है । इससे जघन्य अतिस्थापना अपकर्षण और उत्कर्षणकी अपेक्षा परस्पर समान होते हुए भी अनन्तगुणी है । व्याघातसे अपकर्षणकी अपेक्षा उत्कृष्ट अतिस्थापना अनन्तगुणी है । इससे अनुभाग-कांडक एक वर्गणासे अधिक है । उससे उत्कृष्ट अनुभागसत्त्व और बन्ध विशेष अधिक हैं ॥४५३-४५७॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे तीसरी भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना और विभाषा एक साथ करते हैं ॥४५८॥

वृद्धि अर्थात् उत्कर्षणसे हानि अर्थात् अपकर्षण अधिक होता है और हानिसे अवस्थान अधिक है । यह अधिकका प्रमाण प्रदेशाग्रकी अपेक्षा असंख्यातगुणित श्रेणीरूप जानना चाहिए ॥१६०॥

चूर्णिसू०—उक्त गाथाकी विभाषा इस प्रकार है—जो प्रदेशाग्र उत्कर्षित किये जाते हैं, उनकी 'वृद्धि' यह संज्ञा है । जो प्रदेशाग्र अपकर्षित किये जाते हैं, उनकी 'हानि' यह संज्ञा है । जो प्रदेशाग्र न अपकर्षित किये जाते हैं और न उत्कर्षित किये जाते हैं, उनकी 'अवस्थान' यह संज्ञा है । इस संज्ञाके अनुसार एक स्थितिकी अपेक्षा, अथवा सर्व स्थितियोंकी अपेक्षा अल्पवहुत्व होता है । वह इस प्रकार है—वृद्धि अल्प होती है, उससे हानि असंख्यातगुणी होती है और उससे अवस्थान असंख्यातगुणा होता है । (यह उपर्युक्त अल्पवहुत्व क्षपक और उपशामककी अपेक्षा जानना चाहिए ।) किन्तु अक्षपक और अनुपशामकके तो सभी स्थितियोंकी अपेक्षा अथवा एक स्थितिकी अपेक्षा वृद्धिसे हानि तुल्य भी है, अथवा विशेष अधिक भी है, अथवा विशेष हीन भी है । किन्तु अवस्थान असंख्यातगुणा है ॥४५९-४६८॥

४६९. एत्तो चउत्थीए भासगाहाए समुक्कित्तणा ।

विशेषार्थ—उपर्युक्त भाष्यगाथा उत्कर्षण-अपकर्षण-सम्बन्धी अल्पबहुत्वके प्रमाणका निर्देश करती है। इसका अभिप्राय यह है कि क्षपक या उपशामक जीवोमें जिस किसी भी स्थितिविशेषका उत्कर्षण किया जानेवाला प्रदेशाग्र कम होता है और इससे अपकर्षण किया जानेवाला प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा होता है, क्योंकि स्थिति-अपकर्षणके समय विशुद्धि प्रधान है, अर्थात् उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। अपकर्षण किये जानेवाले प्रदेशाग्रसे अवस्थानरूप रहनेवाला अर्थात् उत्कर्षण-अपकर्षणके विना स्वस्थानमें ही अवस्थित प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा होता है। इसका कारण यह है कि जिस किसी एक स्थितिके या नाना स्थितियोंके प्रदेशाग्रमें पल्योपमके असंख्यातवें भागका भाग देनेपर एक भागप्रमाण प्रदेशाग्र तो उत्कर्षणको प्राप्त होते हैं और शेष बहुभाग प्रदेशोका अपकर्षण किया जाता है, अतः उनका असंख्यातगुणा होना स्वाभाविक ही है। किन्तु जिन स्वस्थान-स्थित असंख्यात बहुभाग-प्रमाण प्रदेशोका उत्कर्षण-अपकर्षण ही नहीं होता है और इसीलिए जिनकी 'अवस्थान' यह संज्ञा है, वे प्रदेशाग्र अपकर्षण किये जानेवाले प्रदेशाग्रसे भी असंख्यातगुणित होते हैं, अतः उन्हें इस अल्प-बहुत्वमें असंख्यातगुणा बतलाया गया है। यह अल्पबहुत्व उपशामक या क्षपककी अपेक्षा कहा गया है। इससे नीचे संसारावस्थाके अर्थात् सातवे गुणस्थान तकके जीवोके उत्कर्षण-अपकर्षणसम्बन्धी अल्पबहुत्वमें भेद है। जो कि इस प्रकार है—अक्षपक या अनुपशामक जीवोके वृद्धि या उत्कर्षणकी अपेक्षा हानि या अपकर्षण कदाचित् तुल्य भी होता है, कदाचित् विशेष अधिक भी होता है और कदाचित् विशेष हीन भी हो सकता है। किन्तु अवस्थान असंख्यातगुणित ही होता है। इसका अभिप्राय यह है कि मिथ्यादृष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत तक सभी जीवोके एक या नाना स्थितिकी अपेक्षा प्रकृत अल्पबहुत्वके करनेपर पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण भागहारसे गृहीत प्रदेशाग्रका यदि संक्लेश-विशुद्धि-रहित मध्यम परिणाम कारण होता है तो नीचे या ऊपर निषिच्यमान उत्कर्षण-अपकर्षणरूप द्रव्य सदृश ही होता है, क्योंकि उसमें विसदृशताका कोई कारण ही नहीं पाया जाता है। यदि परिणाम विशुद्ध होते हैं तो नीचे अपकर्षण किया जानेवाला द्रव्य अधिक होता है और ऊपर उत्कर्षण किया जानेवाला द्रव्य अल्प होता है। और यदि परिणाम संक्लिष्ट होते हैं, तो ऊपर निषिच्यमान द्रव्य बहुत होता है और नीचे अपकर्षण किये जानेवाला द्रव्य अल्प होता है। इसलिए यह कहा गया है कि वृद्धिसे हानि कदाचित् सदृश भी पाई जाती है, कदाचित् विशेष अधिक और कदाचित् विशेष हीन भी। इसी प्रकारका क्रम हानिसे वृद्धिमें भी जानना चाहिए। यहाँपर वृद्धि या हानिके हीन या अधिकका प्रमाण असंख्यातभागमात्र ही जानना चाहिए। किन्तु अवस्थान नियमसे असंख्यातगुणा ही होता है; क्योंकि, उसमें दूसरा प्रकार संभव ही नहीं है। हाँ, यहाँ इतना विशेष अवश्य है कि करण-परिणामोके अभिमुख जीवके अपकर्षणरूप किये जानेवाले द्रव्यसे उत्कर्षणरूप द्रव्य असंख्यातगुणा होता है।

चूर्णिस०—अब इससे आगे चौथी भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना की जाती है ॥४६९॥

(१०८) ओवट्टणमुव्वट्टण किट्टीवज्जेसु होदि कम्मेषु ।

ओवट्टणा च णियमा किट्टीकरणमिह वोद्धव्वा ॥१६१॥

४७०. एदिस्से गाहाए अत्थविहासा कायव्वा । ४७१. सत्तसु मूलगाहासु विहासिदासु तदोअस्सकण्णकरणस्स परूवणा । ४७२ अस्सकण्णकरणे त्ति वा आदोलकरणे त्ति ओवट्टण-उव्वट्टणकरणे त्ति वा तिण्णि णामाणि अस्सकण्णकरणस्स ।

४७३. छसु कम्मेषु संलुद्धेषु से काले पहमसमयअवेदो । ताथे चेव पहमसमय-

अपवर्तन अर्थात् अपकर्षण और उद्वर्तन अर्थात् उत्कर्षण कृष्टि-वर्जित कर्मोंमें होता है । किन्तु अपवर्तना नियमसे कृष्टिकरणमें जानना चाहिए ॥१६१॥

चूर्णिसू०—इस गाथाकी अर्थ-विभाषा करना चाहिए ॥४७०॥

विशेषार्थ—यह उपर्युक्त गाथा उद्वर्तन और अपवर्तन इन दोनों करणोंका विभाग प्रतिपादन करनेके लिए अवतरित हुई है । जिसका अभिप्राय यह है कि कृष्टिकरण-कालके पहले पहले तो दोनों ही करण होते हैं, किन्तु कृष्टिकरणके समय और उससे ऊपर सर्वत्र केवल अपवर्तनकरण ही होता है, उद्वर्तनकरण नहीं । यह व्यवस्था या विधानरूप उपदेश क्षपकश्रेणीकी अपेक्षा जानना चाहिए । क्योंकि उपशमश्रेणीमें कुछ विशेषता है और वह यह कि उतरनेवाले सूक्ष्मसाम्परायिकके प्रथम समयसे लेकर अनिवृत्तिकरणके प्रथम समय तक मोहनीय कर्मकी केवल अपवर्तना ही होती है । पुनः अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयसे लगाकर नीचे सर्वत्र अपवर्तना और उद्वर्तना ये दोनों ही होती हैं । इस प्रकार इस भाष्यगाथाका अर्थ सरल समझ कर चूर्णिकारने उसपर चूर्णिसूत्रों-द्वारा विभाषा न करके केवल यह सूचना कर दी कि मन्दबुद्धि शिष्योंके लिए व्याख्यानार्थ्य इस गाथासे सम्बद्ध अर्थ-विशेषकी व्याख्या करे ।

चूर्णिसू०—इस प्रकार संक्रमण-प्रस्थापक-सम्बन्धी सातो मूलगाथाओंकी विभाषा कर दिये जानेपर तत्पश्चात् अब अश्वकर्णकरणकी प्ररूपणा करना चाहिए । अश्वकर्णकरण, अथवा आदोलकरण, अथवा अपवर्तनोद्वर्तनकरण, ये अश्वकर्णकरणके तीन नाम हैं ॥४७१-४७२॥

विशेषार्थ—अश्वकर्णकरण, आदोलकरण और अपवर्तनोद्वर्तनाकरण, ये तीनों एक-अर्थक नाम हैं । अश्व अर्थात् घोड़ेके कानके समान जो करण-परिणाम क्रमसे हीयमान होते हुए चले जाते हैं, उन परिणामोंको अश्वकर्णकरण कहते हैं । आदोल नाम हिंडोलाका है । जिस प्रकार हिंडोलेका स्तम्भ और रस्सीका अन्तरालमें त्रिकोण आकार घोड़ेके कान सरीखा दिखता है, इसी प्रकार यहाँपर भी क्रोधादि संज्वलनकषायके अनुभागका सन्निवेश भी क्रमसे घटता हुआ दिखता है, इसलिए इसे आदोलकरण भी कहते हैं । क्रोधादि कषायोंका अनु-भाग हानि-वृद्धि रूपसे दिखाई देनेके कारण इसको अपवर्तनोद्वर्तनाकरण भी कहते हैं ।

चूर्णिसू०—हास्यादि छह कर्मोंके संक्रान्त होनेपर तदनन्तर समयमें उपर्युक्त जीव प्रथमसमयवर्ती अवेदी होता है । उस ही समयमें प्रथमसमयवर्ती अश्वकर्णकरण-कारक

अस्सकृष्णकरणकारगो । ४७४. ताधे ङ्घिसंतकम्मं संजलणाणं संखेज्जाणि वस्ससह-
रसाणि । ४७५. ठिदित्रंधो सोलस वस्साणि अंतोमुहुत्तूणाणि ।

४७६. अणुभागसंतकम्मं सह आगाइदेण माणे थोवं । ४७७. कोहे विसेसा-
हियं । ४७८. मायाए विसेसाहियं । ४७९. लोभे विसेसाहियं । ४८०. वंधो वि एव-
मेव । ४८१. अणुभागखंडयं पुण जमागाइदं तस्स अणुभागखंडयस्स फद्दयाणि कोधे
थोवाणि । ४८२. माणे फद्दयाणि विसेसाहियाणि । ४८३. मायाए फद्दयाणि विसेसा-
हियाणि । ४८४. लोभे फद्दयाणि विसेसाहियाणि । ४८५. आगाइदसेसाणि पुण फद्दयाणि
लोभे थोवाणि । ४८६. मायाए अणंतगुणाणि । ४८७. माणे अणंतगुणाणि । ४८८.
कोधे अणंतगुणाणि । ४८९. एसा परूवणा पढमसमयअस्सकृष्णकरणकारयस्स ।

होता है । अर्थात् अवेदी होनेके प्रथम समयमें ही अश्वकर्णकरण करता है । उस समय संज्व-
लन कपायोका स्थितिसत्त्व संख्यात सहस्र वर्ष होता है और स्थितिवन्ध अन्तर्मुहूर्त कम सोलह
वर्ष होता है ॥४७३-४७५॥

विशेषार्थ—यद्यपि सात नोकपायोके क्षपण-कालमें सर्वत्र संज्वलनकपायोका स्थिति-
सत्त्व संख्यात सहस्र वर्षप्रमाण ही था, किन्तु इस समय अर्थात् अश्वकर्णकरण करनेके
प्रथम समयमें वह संख्यात सहस्र स्थितिकांडकोसे संख्यातगुणित हानिके द्वारा पर्याप्तरूपसे
घटकर उससे संख्यातगुणित हीन जानना चाहिए । उक्त कपाय-चतुष्कका स्थितिवन्ध पहले
पूरे सोलह वर्षप्रमाण था, वह अब अन्तर्मुहूर्त कम सोलह वर्ष होता है । इस समय शेष तीन
घातिया कर्मोंका स्थितिवन्ध और स्थितिसत्त्व संख्यात सहस्र वर्ष है । नाम, गोत्र और वेदनीय-
का स्थितिवन्ध संख्यात सहस्र वर्ष और स्थितिसत्त्व असंख्यात सहस्र वर्षप्रमाण होता है ।

इस प्रकार अश्वकर्णकरणकारकके स्थितिवन्ध और स्थितिसत्त्वका निर्णय करके अब
उसीके अनुभागसत्त्वका निर्णय करते हैं—

चूर्णिसू०—अश्वकर्णकरणका आरम्भ करनेवाले जीवने अनुभागकांडकका घात
करनेके लिए जिस अनुभागसत्त्वको ग्रहण किया है वह मानसंज्वलनमें सबसे कम है, उससे
क्रोधसंज्वलनमें विशेष अधिक है, उससे मायासंज्वलनमें विशेष अधिक है और उससे लोभ-
संज्वलनमें विशेष अधिक है । (यहाँ सर्वत्र विशेष अधिकका प्रमाण अनन्त स्पर्धक है ।)
अनुभागवन्ध-सम्बन्धी अल्पबहुत्व भी इसी प्रकार ही जानना चाहिए । किन्तु जो अनुभाग-
कांडक ग्रहण किया है, उस अनुभागकांडकके स्पर्धक क्रोधमें सबसे कम हैं, इससे मानमें
विशेष अधिक स्पर्धक हैं, इससे मायामें विशेष अधिक स्पर्धक हैं और लोभमें विशेष अधिक
स्पर्धक हैं । घात करनेके लिए ग्रहण किये गये स्पर्धकोसे अवशिष्ट अनुभाग-स्पर्धक लोभमें
अल्प हैं, मायामें उससे अनन्तगुणित हैं, मानमें उससे अनन्तगुणित है और क्रोधमें उससे
अगिनन्तगुणित हैं । यह प्रथमसमयवर्ती अश्वकर्णकरणकारककी प्ररूपणा है ॥४७६-४८९॥

४९०. तम्मि चैव पहमसमए अपुव्वफदयाणि^१ णाम करेदि । ४९१. तेसिं परूवणं वत्तइस्सामो । ४९२. तं जहा । ४९३. सव्वस्स अक्खवगस्स सव्वकम्माणं देसघादिफदयाणमादिवग्गणा तुल्ला । सव्वघादीणं पि मोत्तूण मिच्छत्तं सेसाणं कम्माणं सव्वघादीणमादिवग्गणा तुल्ला । एदाणि पुव्वफदयाणि णाम । ४९४. तदो चदुण्हं संजलणाणमपुव्वफदयाइ^१ णाम करेदि ।

४९५. ताणि कथं करेदि ? ४९६. लोभस्स ताव लोहसंजलणस्स पुव्वफद-
एहितो पदेसग्गस्स असंखेज्जदिभागं वेत्तूण पहमस्स देसघादि रुदयस्स हेट्ठा अणंतभागे
अण्णाणि अपुव्वफदयाणि णिव्वत्तयदि । ४९७. ताणि पग्गणादो अणंताणि पदेसगुण-
हाणिट्ठाणंतरं रुदयाणमसंखेज्जदिभागो एत्तियमेत्ताणि ताणि अपुव्वफदयाणि ।

चूर्णिसू०—अश्वकर्णकरण करनेके उसी ही प्रथम समयमें चारो संज्वलन-कपायोके अपूर्वस्पर्धक करता है ॥४९०॥

विशेषार्थ—जिन स्पर्धकोको पहले कभी प्राप्त नहीं किया, किन्तु जो क्षपकश्रेणीमे ही अश्वकर्णकरणके कालमे प्राप्त होते हैं और जो संसारावस्थामे प्राप्त होनेवाले पूर्वस्पर्धकोसे अनन्तगुणित हानिके द्वारा क्रमशः हीयमान स्वभाववाले हैं, उन्हें अपूर्व-स्पर्धक कहते हैं ।

चूर्णिसू०—अब उन अपूर्वस्पर्धकोकी प्ररूपणा कहेंगे । वह इस प्रकार है—सर्व अक्ष-
पक जीवोके सभी कर्मोके देशवाती स्पर्धकोकी आदिवर्गणा तुल्य है । सर्वघातियोम भी केवल मिथ्यात्वको छोड़कर शेष सर्ववाती कर्मोकी आदि वर्गणा तुल्य है । इन्हीका नाम पूर्वस्पर्धक है । तत्पश्चात् वही प्रथमसमयवर्ती अवेदी जीव उन पूर्वस्पर्धकोसे चारो संज्वलन-
कपायोके अपूर्वस्पर्धकोको करता है ॥४९१-४९४॥

शंका—उन अपूर्वस्पर्धकोको किस प्रकार करता है ? ॥४९५॥

समाधान—यद्यपि यह प्रथमसमयवर्ती अवेदक क्षपक चारो ही कपायोके अपूर्व-
स्पर्धकोको एक साथ ही निर्वृत्त करता है, तथापि (सबका एक साथ कथन अशक्य है, अतः)
पहले लोभके अपूर्वस्पर्धक करनेका विधान कहेंगे—संज्वलनलोभके पूर्वस्पर्धकोसे प्रदेशाकके
असंख्यातवें भागको ग्रहणकर प्रथम देशवाती स्पर्धकके नीचे अनन्तवे भागमे अन्य अपूर्व-
स्पर्धक निर्वृत्त करता है । वे यद्यपि गणनाकी अपेक्षा अनन्त हैं, तथापि प्रदेशगुणहानिस्था-
नान्तरके स्पर्धकोके असंख्यातवें भागका जितना प्रमाण है, उतने प्रमाण वे अपूर्वस्पर्धक
होते हैं ॥४९६-४९७॥

१ काणि अपुव्वफदयाणि णाम ? ससारावस्थाए पुव्वमलद्वप्पसरूवाणि खवगसेट्ठीए चैव अस्सकण-
करणद्वाए समुवल्लभमाणसरूवाणि पुव्वफदएहितो अणतगुणहाणीए ओवट्ठिज्जमाणसहावाणि जाणि फदयाणि
ताणि अपुव्वफदयाणि त्ति भण्णते । जयव० । वर्धमान मत पूर्वं हीयमानमपूर्वकम् । स्पर्धक द्विविध ज्ञेय
स्पर्धकक्रमकोचिदैः ॥ पत्रस० १,४६ ।

२ पुव्वफदयाणमादिवग्गणा एगोवग्गणविसेसेण हीयमाणा जम्हि उद्देसे दुगुणहीणा होदि तमद्धान-
मेगं गुणहाणिट्ठाणतर णाम । जयध०

४९८. पढमसमए जाणि अपुव्वफहयाणि तत्थ पढमस्स फहयस्स आदिवग्गणाए अविभागपडिच्छेद्दग्गं थोवं । ४९९. चिदियस्स फहयस्स आदिवग्गणाए अविभागपडिच्छेद्दग्गमणंतभागुत्तरं । ५००. एवमणंतराणंतरेण गंतूण दुचरियस्स फहयस्स आदिवग्गणाए अविभागपडिच्छेद्दादो चरियस्स अपुव्वफहयस्स आदिवग्गणा विसेसाहिया अणंतभागेण ।

विशेषार्थ—यहाँ यह शंका की गई है कि वह प्रथमसमयवर्ती अवेदी जीव पूर्व-स्पर्धकोसे अपूर्वस्पर्धक कैसे बनाता है ? उसका समाधान इस प्रकार किया गया है कि उस क्षपकके उस समय जो डेढ़ गुणहानिप्रमाण समयप्रवद्ध हैं और जो कि पूर्वस्पर्धकोमे यथायोग्य विभागके अनुसार अवस्थित हैं, उन्हें उत्कर्षणापकर्षण भागहारके प्रतिभाग-द्वारा असंख्यातवें भागका अपकर्षण कर, अपूर्वस्पर्धक बनानेके लिए ग्रहण करता है । पुनः उन्हें अनन्त गुण-हानिके द्वारा हीन शक्तिवाले करके पूर्वस्पर्धकोके प्रथम देशवाती स्पर्धकोके नीचे उनके अनन्तवें भागमे अपूर्वस्पर्धक बनाता है । इसका अभिप्राय यह है कि प्रथम देशवाती स्पर्धककी आदिवर्गणामें जितने अविभाग-प्रतिच्छेद होते हैं, उन अविभागप्रतिच्छेदोके अनन्तवें भागमात्र ही अविभागप्रतिच्छेद सबसे अन्तिम अपूर्वस्पर्धककी अन्तिमवर्गणामें होते हैं । इस प्रकारसे निर्वृत्त किये गये अपूर्वस्पर्धकोका प्रमाण प्रदेशगुणहानिस्थानान्तरके भीतर जितने स्पर्धक होते हैं उनके असंख्यातवे भागमात्र बतलाया गया है । पूर्वस्पर्धकोकी आदिवर्गणा एक एक वर्गणा-विशेषसे हीन होती हुई जिस स्थानपर दुगुण हीन होती है, उसे एक प्रदेशगुणहानि-स्थानान्तर कहते हैं ।

अब उपर्युक्त अर्थके ही विशेष निर्णय करनेके लिए अल्पबहुत्व कहते हैं—

चूर्णिसू०—प्रथम समयमे जो अपूर्वस्पर्धक निर्वृत्त किये गये हैं उनमे प्रथम स्पर्धककी आदि वर्गणामे अविभाग-प्रतिच्छेदाग्र अल्प है । द्वितीय स्पर्धककी आदि वर्गणामे अविभाग-प्रतिच्छेदाग्र अनन्त बहुभागसे अधिक है । इस प्रकार अनन्तर अनन्तररूपसे जाकर द्विचरम स्पर्धककी आदि वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेदोकी अपेक्षा चरम अपूर्वस्पर्धककी आदि वर्गणा अनन्त भागसे विशेष अधिक है ॥४९८-५००॥

विशेषार्थ—द्वितीय स्पर्धककी आदि वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेदोसे तृतीय स्पर्धककी आदि वर्गणाके अविभाग-प्रतिच्छेद अनन्त बहुभागसे अधिक होते हुए भी कुछ कम द्वितीय भागसे अधिक है, तृतीय स्पर्धककी आदि वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेदोसे चतुर्थ स्पर्धककी आदि वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेद कुछ कम तृतीय भागसे अधिक है । इस प्रकार जब तक जघन्य परीतासंख्यात-प्रमाण स्पर्धकोकी अन्तिम स्पर्धकवर्गणा अपने अनन्तर नीचेके स्पर्धककी आदि वर्गणासे उत्कृष्ट संख्यातवें भागसे अधिक होकर संख्यात भागवृद्धिके अन्तको न प्राप्त हो जावे, तब तक इसी प्रकार चतुर्थ-पंचमादि भागाधिक क्रमसे से ले जाना चाहिए । इससे आगे जब तक आदिसे लेकर जघन्य परीतानन्तप्रमाण स्पर्धकोमें अन्तिम

५०१ जाणि पढमसमये अपुव्वफद्दयाणि णिव्वत्तिदाणि तत्थ पढमस्स फद्दयस्स आदिवग्गणा थोवा । ५०२ चरिमस्स अपुव्वफद्दयस्स आदिवग्गणा अणंतगुणा । ५०३. पुव्वफद्दयस्सादिवग्गणा अणंतगुणा । ५०४. जहा लोभस्स अपुव्वफद्दयाणि परूविदाणि पढमसमये, तथा मायाए माणस्स कोधस्स परूवेयव्वाणि ।

५०५. पढमसमए जाणि अपुव्वफद्दयाणि णिव्वत्तिदाणि तत्थ कोधस्स थोवाणि । ५०६. माणस्स अपुव्वफद्दयाणि विसेसाहियाणि । ५०७. मायाए अपुव्वफद्दयाणि विसेसाहियाणि । ५०८. लोभस्स अपुव्वफद्दयाणि विसेसाहियाणि । ५०९. विसेसो अणंतभागो ।

५१०. तेसिं चेव पढमसमए णिव्वत्तिदाणमपुव्वफद्दयाणं लोभस्स आदिवग्गणाए अविभागपडिच्छेदग्गं थोवं । ५११. मायाए आदिवग्गणाए अविभागपडिच्छेदग्गं विसेसाहियं । ५१२. माणस्स आदिवग्गणाए अविभागपडिच्छेदग्गं विसेसाहियं । ५१३. कोधस्स आदिवग्गणाए अविभागपडिच्छेदग्गं विसेसाहियं । ५१४. एवं चट्ठण्हं

स्पर्धककी प्रथमवर्गणा अपने अनन्तर नीचेके स्पर्धककी प्रथम वर्गणासे उत्कृष्ट असंख्यातासंख्या-तवे भागसे अधिक होकर असख्यात भागवृद्धिके अन्तको न प्राप्त हो जावे, तब तक असंख्यात भागोत्तर वृद्धिका क्रम चालू रहता है । इसके आगे अन्तिम स्पर्धक तक अनन्त भाग-वृद्धिका क्रम जानना चाहिए ।

चूर्णिसू०—प्रथम समयमे जो अपूर्वस्पर्धक निर्वर्तित किये गये, उनमे प्रथम स्पर्धक-की आदि वर्गणा अल्प है । इससे अन्तिम अपूर्वस्पर्धककी आदि वर्गणा अनन्तगुणी है । इससे पूर्वस्पर्धककी आदि वर्गणा अनन्तगुणी है । अश्वकर्णकरणके प्रथम समयमें जिस प्रकार संज्वलन लोभके अपूर्वस्पर्धकोकी प्ररूपणा की गई है, उसी प्रकार संज्वलन माया, मान और क्रोधके अपूर्वस्पर्धकोकी भी प्ररूपणा करना चाहिए ॥५०१-५०४॥

अब प्रथम समयमे निर्वृत्त चारो संज्वलन-कपायोके अपूर्वस्पर्धक-सम्बन्धी अल्प-बहुत्वको कहते हैं—

चूर्णिसू०—प्रथम समयमे जो अपूर्वस्पर्धक निर्वृत्त किये हैं, उनमे क्रोधके अपूर्व-स्पर्धक सबसे कम हैं । इससे मानके अपूर्व स्पर्धक विशेष अधिक है । इससे मायाके अपूर्व-स्पर्धक विशेष अधिक हैं और लोभके अपूर्वस्पर्धक विशेष अधिक है । यहाँ सर्वत्र विशेषका प्रमाण अनन्तवाँ भाग है ॥५०५-५०९॥

चूर्णिसू०—प्रथम समयमे निर्वर्तित उन्हीं अपूर्वस्पर्धकोके लोभकी आदि वर्गणामे अविभागप्रतिच्छेदाग्र अल्प हैं । इससे मायाकी आदिवर्गणामे अविभागप्रतिच्छेदाग्र विशेष अधिक है । इससे मानकी आदि वर्गणामे अविभागप्रतिच्छेदाग्र विशेष अधिक है और इससे क्रोधकी आदि वर्गणामे अविभागप्रतिच्छेदाग्र विशेष अधिक हैं । इस प्रकार चारो ही

पि कसायाणं जाणि अपुव्वफहयाणि तत्थ चरिमस्स अपुव्वफहयस्स आदिवग्गणाए अविभागपडिच्छेदग्गं चटुण्हं पि कसायाणं तुल्लमणंतगुणं ।

५१५. पढमसमयअस्सकणकरणकारयस्स जं पदेसग्गमोक्कड्डिज्जदि तेण कम्मस्स अवहारकालो थोवो । ५१६. अपुव्वफहएहिं पदेसगुणहाणिट्ठाणंतरस्स अवहारकालो असंखेज्जगुणो । ५१७. पलिदोवमवग्गमूलमसंखेज्जगुणं । ५१८. पढमसमये णिव्वत्तिज्जमाणेसु अपुव्वफहएसु पुव्वफहएहिंतो ओक्कड्डिपूण पदेसग्गमपुव्वफहयाणमादिवग्गणाए वहुअं देदि । विदियाए वग्गणाए विसेसहीणं देदि । एवमणंतराणंतरेण गंतूण

कपायोके जो अपूर्वस्पर्धक है उनमें अन्तिम अपूर्वस्पर्धककी आदिवर्गणामे अविभागप्रतिच्छेदाग्र चारो ही कपायोके परस्पर तुल्य और अनन्तगुणित हैं ॥५१०-५१४॥

विशेषार्थ—उक्त कथनको स्पष्टरूपसे समझनेके लिए चारो संज्वलन कपायोंकी जो आदि वर्गणाए है, उनका प्रमाण अंकसंदृष्टिमें १०५।८४।७०।६०। तथा क्रोध संज्वलनादिके अपूर्वस्पर्धकोकी शलाकाओंका प्रमाण क्रमशः १६।२०।२४।२८। यथाक्रमसे कल्पना करना चाहिये । आदिवर्गणाको अपनी अपनी अपूर्वस्पर्धक-शलाकाओंसे गुणा करनेपर प्रत्येक कपायके अन्तिम स्पर्धककी आदि वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेदोका प्रमाण आ जाता है, जो परस्परमें तुल्य होते हुए भी अपने आदिवर्गणाकी अपेक्षा अनन्तगुणित होता है । यथा—

	क्रोध	मान	माया	लोभ
आदिवर्गणाके अविभागप्रतिच्छेद	१०५	८४	७०	६०
अपूर्वस्पर्धकशलाका	× १६	× २०	× २४	× २८
अन्तिमस्पर्धककी आदिवर्गणाके अविभागप्रतिच्छेद	१६८०	१६८०	१६८०	१६८०

अब अपूर्वस्पर्धकोका प्रमाण निकालनेके लिए एक प्रदेशगुणहानिस्थानान्तर-स्थापित भागहारका प्रमाण जाननेके लिए उपरिम अल्पवहुत्व कहते हैं—

चूर्णिसू०—प्रथमसमयवर्ती अश्वकर्णकरण-कारकके जो प्रदेशाग्र अपकृष्ट किये जाते हैं उससे कर्मका अवहारकाल अल्प है । अपूर्वस्पर्धकोकी अपेक्षा प्रदेशगुणहानिस्थानान्तरका अवहारकाल असंख्यातगुणा है और इससे पल्योपमका वर्गमूल असंख्यातगुणा है ॥५१५-५१७॥

विशेषार्थ—उक्त अल्पवहुत्वका आशय यह है कि उत्कर्षण-अपकर्षण भागहारसे असंख्यातगुणित और पल्योपमके प्रथम वर्गमूलसे असंख्यातगुणित हीन पल्योपमके असंख्यातवे भागसे एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तरके स्पर्धकोके अपवर्तित करनेपर जो भाग लब्ध हो, तावन्मात्र क्रोधादिके अपूर्वस्पर्धक होते हैं ।

अब पूर्व-अपूर्वस्पर्धकोमें तत्काल अपकर्षित द्रव्यके निषेकविन्यासक्रमको बतलाते हैं—

चूर्णिसू०—प्रथम समयमे निर्वर्तित किये जानेवाले अपूर्वस्पर्धकोसे अपकर्षण करके अपूर्वस्पर्धकोकी आदिवर्गणामे बहुत प्रदेशाग्रको देता है । द्वितीय वर्गणामे विशेष हीन देता है । इस प्रकार अनन्तर-अनन्तररूपसे जाकर अपूर्वस्पर्धककी अन्तिम वर्गणामे विशेष हीन देता है ।

चरिमाए अपुव्वफदयवग्गणाए विसेसहीणं देदि । ५१९. तदो चरिमादो अपुव्वफदय-
वग्गणादो पहमस्स पुव्वफदयस्स आदिवग्गणाए असंखेज्जगुणहीणं देदि । तदो विदियाए
पुव्वफदयवग्गणाए विसेसहीणं देदि । सेसासु सव्वासु पुव्वफदयवग्गणासु विसेसहीणं
देदि । ५२०. तम्हि चेव पहमसमए जं दिस्सदि पदेसग्गं तमपुव्वफदयाणं पहमाए
वग्गणाए बहुअं । पुव्वफदयआदिवग्गणाए विसेसहीणं । ५२१. जहा लोहस्स, तहा
मायाए माणस्स कोहस्स च ।

५२२. उदयपरूवणा । ५२३. जहा । ५२४ पहमसमए चेव अपुव्वफदयाणि
उदिण्णाणि च अणुदिण्णाणि च । अपुव्वफदयाणं पि आदीदो अणंतभागो उदिण्णो च
अणुदिण्णो च । उवरि अणंता भागा अणुदिण्णा ।

उस अन्तिम अपूर्वस्पर्धक-वर्गणासे प्रथम पूर्वस्पर्धक-आदि वर्गणामें असंख्यातगुणित हीन
प्रदेशाग्र देता है, उससे द्वितीय पूर्वस्पर्धक-वर्गणाओमें विशेष हीन देता है । इस प्रकार शेष
सर्व पूर्वस्पर्धक-वर्गणाओमें उत्तरोत्तर विशेष हीन देता है । उस ही प्रथम समयमें जो प्रदे-
शाग्र दिखता है, वह अपूर्वस्पर्धकोकी प्रथम वर्गणामें बहुत और पूर्वस्पर्धकोकी आदि वर्ग-
णामें विशेष हीन है । पूर्व और अपूर्वस्पर्धकोमें दिये जानेवाले प्रदेशाग्रकी यह प्ररूपणा
जैसी संज्वलन लोभकी की गई है, उसी प्रकारसे संज्वलन माया, मान और क्रोधकी भी
जानना चाहिए ॥५१८-५२१॥

चूर्णिसू०—अब उसी अश्वकर्णकरणकालके प्रथम समयमें चारों संज्वलन कपायोके
अनुभागोदयकी प्ररूपणा की जाती है । वह इस प्रकार है—प्रथम समयमें ही अपूर्वस्पर्धक
उदीर्ण भी पाये जाते हैं और अनुदीर्ण भी पाये जाते हैं । इसी प्रकार पूर्वस्पर्धकोका भी
आदिसे लेकर अनन्तवाँ भाग उदीर्ण ओर अनुदीर्ण पाया जाता है । तथा उपरिम अनन्त
बहुभाग अनुदीर्ण रहता है ॥५२२-५२४॥

विशेषार्थ—इस चूर्णिसूत्रके द्वारा यह विशेष बात सूचित की गई है कि अश्वकर्ण-
करणके प्रथम समयमें लतासमान-अनन्तिम भाग प्रतिबद्ध पूर्वस्पर्धकरूपसे और उससे अध-
स्तन सर्व अपूर्वस्पर्धकस्वरूपसे संज्वलन कपायोके अनुभागकी उदय-प्रवृत्ति होती है, इससे
उपरिम स्पर्धकोकी उदयरूपसे प्रवृत्ति नहीं होती है । इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि
अपूर्वस्पर्धकस्वरूपसे तत्काल ही परिणमित होनेवाले अनुभागसत्त्वसे प्रदेशाग्रके असंख्यातवें
भागका अपकर्षण करके उदीरण करानेवाले जीवके उदयस्थितिके भीतर सभीका अपूर्वस्पर्धको-
के स्वरूपसे अनुभागसत्त्व पाया जाता है । इस प्रकार पाये जानेवाले सभी अपूर्वस्पर्धक उदीर्ण
कहे जाते हैं । किन्तु सभी अनुभागसत्त्व तो अपूर्वस्पर्धक-स्वरूपसे उदयमें आया नहीं है,
अतः उनकी अपेक्षा वे अनुदीर्ण भी पाये जाते हैं । यही बात पूर्वस्पर्धकोके विषयमें भी
जानना चाहिए ।

अब उसी अश्वकर्णकरणके प्रथम समयमें चारों संज्वलनोका अनुभागबन्ध किस
प्रकार होता है, यह बतलाते हैं—

५२५. बंधेण णिव्वत्तिज्जंति अपुव्वफ्हदयं पढममादिं कादृण जात्र लदासनाण-
फ्हद्याणमणंतभागेत्ति । ५२६. एमा सव्वा परूवणा पढमसमयअस्सकण्णकरणकारयस्स ।

५२७. एत्तो विदियसमए तं चेव द्विदिखंडयं, तं चेव अणुभागखंडयं, सो चेव
द्विदिवंधो । ५२८. अणुभागबंधो अणंतगुणहीणो । ५२९. गुणसेही असंखेज्जगुणा ।
५३०. अपुव्वफ्हद्याणि जाणि पढमसमए णिव्वत्तिदाणि विदियसमये ताणि च णिव्व-
त्तयदि अण्णाणि च अपुव्वाणि तदो असंखेज्जगुणहीणाणि ।

५३१. विदियसमये अपुव्वफ्हदएसु पदेसग्गस्स दिज्जमाणयस्स सेडिपरूवणं
वत्तइस्सामो । ५३२. तं जहा । ५३३. विदियसमए अपुव्वफ्हद्याणमादिवग्गणाए पदेसग्गं
वहुअं दिज्जदि । विदियाए वग्गणाए विसेसहीणं । एवमणंतरोपणिधाए विसेसहीणं दिज्जदि
तात्र जात्र जाणि विदियसमए अपुव्वाणि अपुव्वफ्हद्याणि कदाणि । ५३४. तदो चरिमादो
वग्गणादो पढमसमए जाणि अपुव्वफ्हद्याणि कदाणि तेसिमादिवग्गणाए दिज्जदि पदे-
सग्गमसंखेज्जगुणहीणं । ५३५ तदो विदियाए वग्गणाए विसेसहीणं दिज्जदि । तत्तो पाए
अणंतरोपणिधाए सव्वत्थ विसेसहीणं दिज्जदि । पुव्वफ्हद्याणमादिवग्गणाए विसेसहीणं
दिज्जदि । सेसासु त्रि विसेसहीणं दिज्जदि । ५३६. विदियसमये अपुव्वफ्हदएसु वा

चूणिसू०—बन्धकी अपेक्षा प्रथम अपूर्वस्पर्धकोको आदि करके लता समान स्पर्धकोके
अनन्तवे भागतक स्पर्धक निर्वृत्त होते हैं । (हाँ, इतना विशेष है कि उदय-स्पर्धकोकी अपेक्षा
ये बन्ध-स्पर्धक अनन्तगुणित हीन अनुभाग शक्तिवाले होते हैं ।) यह सब प्ररूपणा अत्र-
कर्णकरणके प्रथम समयकी है ॥५२५-५२६॥

चूणिसू०—अब इससे आगे अत्रकर्णकरणके दूसरे समयकी प्ररूपणा करते हैं—
द्वितीय समयमें वही स्थितिकांडक होता है, वही अनुभागकांडक होता है और वही स्थिति-
बन्ध होता है । अनुभागबन्ध अनन्तगुणा हीन होता है और गुणश्रेणी असंख्यातगुणी
होती है । जिन अपूर्वस्पर्धकोको प्रथम समयमें निर्वृत्त किया था, द्वितीय समयमें उन्हें भी
निर्वृत्त करता है और उनसे असंख्यातगुणित हीन अन्य भी अपूर्वस्पर्धकोको निर्वृत्त करता
है ॥५२७-५३०॥

चूणिसू०—अब द्वितीय समयमें अपूर्वस्पर्धकोमें दिये जानेवाले प्रदेशाग्रकी श्रेणीप्ररू-
पणाको कहेंगे । वह इस प्रकार है—द्वितीय समयमें अपूर्वस्पर्धकोकी आदिवर्गणामें बहुत प्रदेशाग्र
को देता है । द्वितीय वर्गणामें विशेष हीन प्रदेशाग्रको देता है । इस प्रकार अनन्तरोपनिरूप
क्रमसे विशेष हीन प्रदेशाग्र तब तक दिया जाता है जब तक कि द्वितीय समयमें निर्वृत्त किये
गये अपूर्वस्पर्धकोकी अन्तिम वर्गणा प्राप्त न हो जाय । पुनः उस अन्तिम वर्गणासे प्रथम
समयमें जो अपूर्वस्पर्धक किये हैं उनकी आदिवर्गणामें असंख्यातगुणित हीन प्रदेशाग्रको देता
है । उससे द्वितीय वर्गणामें विशेष हीन प्रदेशाग्रको देता है । इस स्थलपर यहाँसे लेकर
आगे सर्वत्र अनन्तरोपनिवासे सर्व वर्गणाओंमें विशेष हीन प्रदेशाग्रको देता है । पूर्वस्पर्धको-
की आदिवर्गणामें विशेष हीन प्रदेशाग्र देता है और जो वर्गणाओंमें भी विशेष हीन प्रदेशाग्र-

पुव्वफदएसु वा एक्केकिरसे वग्गणाए जं दिरसदि पदेसग्गं तमपुव्वफदय-आदिवग्गणाए बहुअं । सेसासु अणंतरोवणिधाए सव्वासु विसेसहीणं ।

५३७. तदियसमए वि एसेव क्रमो । णवरि अपुव्वफदयाणि ताणि च अण्णाणि च णिव्वत्तयदि । ५३८. तस्स वि पदेसग्गस्स दिज्जमाणयस्स सेट्ठिपरूवणं । ५३९. तदियसमए अपुव्वाणमपुव्वफदयागमादिवग्गणाए पदेसग्गं बहुअं दिज्जदि । विदियाए वग्गणाए विसेसहीणं । एनमणंतरोवणिधाए विसेसहीणं ताव जाव जाणि य तदियसमये अपुव्वाणमपुव्वफदयाणं चरिमादो वग्गणादो त्ति । तदो विदियसमए अपुव्वफदयाणमादिवग्गणाए पदेसग्गमसंखेज्जगुणहीणं । तत्तो पाए सव्वत्थ विसेसहीणं । ५४०. जं दिरसदि पदेसग्गं तमादिवग्गणाए बहुअं । उवरिमणंतरोवणिधाए सव्वत्थ विसेसहीणं । ५४१. जहा तदियत्तमए एस क्रमो ताव जाव पहममणुभागखंडयं चरिमसमयअणुक्किणं त्ति ।

५४२. तदो से काले अणुभागसंतक्रमे णाणत्तं । ५४३. तं जहा । ५४४. लोभे अणुभागसंतक्रमं थोवं । ५४५. मायाए अणुभागसंतक्रममणंतगुणं । ५४६. माणसा अणुभागसंतक्रममणंतगुणं । ५४७. कोहस्स अणुभागरांतक्रममणंतगुणं । ५४८.

को देता है । द्वितीय समयमें अपूर्वस्पर्धकोमें अथवा पूर्वस्पर्धकोमें एक-एक वर्गणामे जो प्रदेशाग्र दिखता है वह अपूर्वस्पर्धकोकी आदि वर्गणामे बहुत है और शेष सर्व वर्गणामे अनन्तरोपनिधाके क्रमसे विशेष हीन है ॥५३१-५३६॥

चूर्णिसू०—तृतीय समयमें भी यही क्रम है । विशेषता केवल यह है कि उन्हीं अपूर्वस्पर्धकोको तथा अन्य भी अपूर्वस्पर्धकोको निर्वृत्त करता है । अब उन अपूर्वस्पर्धकोको दिये जानेवाले प्रदेशाग्रकी श्रेणीप्ररूपणा करते हैं—तृतीय समयमें अपूर्व अपूर्वस्पर्धकोकी आदि-वर्गणामे बहुत प्रदेशाग्र दिया जाता है । द्वितीय वर्गणामे विशेष हीन प्रदेशाग्र दिया जाता है । इस प्रकार अनन्तरोपनिधासे विशेष हीन प्रदेशाग्र तब तक दिया जाता है, जब तक कि तृतीय समयमें निर्वृत्त अपूर्व अपूर्वस्पर्धकोकी अन्तिम वर्गणा नहीं प्राप्त हो जाती है । उससे द्वितीय समयमें निर्वृत्त अपूर्वस्पर्धकोकी आदि वर्गणामे असंख्यातगुणित हीन प्रदेशाग्र दिया जाता है । यहाँसे लेकर इस स्थलपर सर्वत्र द्वितीयादि वर्गणामे विशेष हीन ही प्रदेशाग्र दिया जाता है । जो प्रदेशाग्र दिखाई देता है वह प्रथम वर्गणामे बहुत है और इससे आगे अनन्तरोपनिधासे सर्वत्र विशेष हीन है । जिस प्रकार तृतीय समयमें यह क्रम निरूपण किया गया है, उसी प्रकार प्रथम अनुभागकांडकका अन्तिम समय जब तक उत्कीर्ण न हो जाय, तब तक यही क्रम जानना चाहिए ॥५३७-५४१॥

चूर्णिसू०—अब इसके अनन्तरकालमें अनुभागसत्त्वमें जो विशेषता है, वह कहेगे । वह इस प्रकार है—संज्वलन लोभमें अनुभागसत्त्व सबसे कम है । इससे संज्वलन मायामे अनुभागसत्त्व अनन्तगुणा है । इसमें संज्वलनमानमें अनुभागसत्त्व अनन्तगुणा है । इससे

तेण परं सव्वम्हि अस्सकण्णकरणे एस क्कमो । ५४९. पढमसमए अपुव्वफद्दयाणि णिव्वत्तिदाणि बहुआणि । ५५०. विदियसमए जाणि अपुव्वाणि अपुव्वफद्दयाणि कदाणि ताणि असंखेज्जगुणहीणाणि । ५५१. तदियसमए अपुव्वाणि अपुव्वफद्दयाणि कदाणि ताणि असंखेज्जगुणहीणाणि । ५५२. एवं समए समए जाणि अपुव्वाणि अपुव्वफद्दयाणि कदाणि ताणि असंखेज्जगुणहीणाणि । ५५३. गुणगारो पलिदोवमवग्गमूलस्स असंखेज्जदिभागो ।

५५४. चरिमसमए लोभस्स अपुव्वफद्दयाणमादिवग्गणाए अविभागपलिच्छेदग्गं थोवं । ५५५. विदियस्स अपुव्वफद्दयस्स आदिवग्गणाए अविभागपडिच्छेदग्गं दुगुणं । ५५६. तदियस्स अपुव्वफद्दयस्स आदिवग्गणाए अविभागपलिच्छेदग्गं तिगुणं । ५५७. एवं मायाए माणस्स क्रोहस्स च ।

५५८. अस्सकण्णकरणस्स पढमे अणुभागखंडए हदे अणुभागस्स अप्पावहुअं वत्तइस्सामो । ५५९. तं जहा । ५६०. सव्वत्थोवाणि क्रोहस्स अपुव्वफद्दयाणि । ५६१. माणस्स अपुव्वफद्दयाणि विसेसाहियाणि । ५६२. मायाए अपुव्वफद्दयाणि विसेसाहियाणि । ५६३. लोभस्स अपुव्वफद्दयाणि विसेसाहियाणि । ५६४. एयपदेसगुणहाणिट्ठाणंतरफद्दयाणि असंखेज्जगुणाणि । ५६५. एयफद्दयवग्गणाओ अणंतगुणाओ । ५६६. क्रोधस्स अपुव्वफद्दयवग्गणाओ अणंतगुणाओ । ५६७. माणस्स अपुव्वफद्दयवग्गणाओ विसेसा-

संज्वलन क्रोधमे अनुभागसत्त्व अनन्तगुणा है । इससे आगे सम्पूर्ण अश्वकर्णकरणके कालमे भी यही क्रम है । अश्वकर्णकरणके प्रथम समयमे निर्वृत्त अपूर्वस्पर्धक बहुत हैं । द्वितीय समयमे जिन अपूर्व अपूर्वस्पर्धकोंको निर्वृत्त किया है, वे असंख्यातगुणित हीन हैं । तृतीय समयमे जो अपूर्व अपूर्वस्पर्धक निर्वृत्त किये हैं, वे असंख्यातगुणित हीन हैं । इस प्रकार उत्तरोत्तर समयमें जो अपूर्व अपूर्वस्पर्धक निर्वृत्त किये है वे उत्तरोत्तर असंख्यातगुणित हीन हैं । यहाँपर गुणकार पल्योपमके वर्गमूलका असंख्यातवर्ग भाग है ॥५४२-५५३॥

चूर्णिसू०—अश्वकर्णकरणके अन्तिम समयमें लोभके अपूर्वस्पर्धकोंकी आदि वर्गणामें अविभागप्रतिच्छेदाग्र अल्प हैं । इससे द्वितीय अपूर्वस्पर्धककी आदिवर्गणामे अविभागप्रतिच्छेदाग्र दुगुने है । इससे तृतीय अपूर्व स्पर्धककी आदि वर्गणामे अविभागप्रतिच्छेदाग्र तिगुने है । (इस प्रकार चतुर्थ-पंचमादि अपूर्वस्पर्धकोंके चौगुने पंचगुने आदि अविभागप्रतिच्छेदाग्र जानना चाहिए ।) इसी प्रकार माया, मान और क्रोधके अपूर्वस्पर्धकोंमे अविभागप्रतिच्छेदाग्र-सम्बन्धी अल्पबहुत्वको जानना चाहिए ॥५५४-५५७॥

चूर्णिसू०—अव अश्वकर्णकरणके प्रथम अनुभागकांडकके नष्ट होनेपर अनुभागका अल्पबहुत्व कहेंगे । वह इस प्रकार है—क्रोधके अपूर्वस्पर्धक सबसे कम हैं । इससे मानके अपूर्वस्पर्धक विशेष अधिक हैं । इससे मायाके अपूर्वस्पर्धक विशेष अधिक हैं । इससे लोभके अपूर्वस्पर्धक विशेष अधिक हैं । इससे एक प्रदेशगुणहानिस्थानान्तरके स्पर्धक असंख्यातगुणित हैं । इससे एक स्पर्धककी वर्गणाएँ अनन्तगुणी हैं । इससे क्रोधकी अपूर्व स्पर्धक-वर्गणाएँ

हियाओ । ५६८. मायाए अपुव्वफद्दयवग्गणाओ विसेसाहियाओ । ५६९. लोभस्स अपुव्वफद्दयवग्गणाओ विसेसाहियाओ ।

५७०. लोभस्स पुव्वफद्दयाणि अणंतगुणाणि । ५७१. तेसिं चेव वग्गणाओ अणंतगुणाओ । ५७२. मायाए पुव्वफद्दयाणि अणंतगुणाणि । ५७३. तेसिं चेव वग्गणाओ अणंतगुणाओ । ५७४. माणस्स पुव्वफद्दयाणि अणंतगुणाणि । ५७५. तेसिं चेव वग्गणाओ अणंतगुणाओ । ५७६. कोहस्स पुव्वफद्दयाणि अणंतगुणाणि । ५७७. तेसिं चेव वग्गणाओ अणंतगुणाओ । ५७८. एवमंतोमुहुत्तमस्सकण्णकरणं ।

५७९. अस्सकण्णकरणस्स चरिमसमए संजलणाणं द्विदिवंधो अट्ठ वस्साणि । ५८०. सेसाणं कम्मणं द्विदिवंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । ५८१. णामा-गोद-वेदणीयाणं द्विदिसंतकम्ममसंखेज्जाणि वस्साणि । ५८२. चउण्हं घादिकम्मणं द्विदिसंतकम्मं संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि ।

५८३. एत्तो से कालप्पहुडि किट्ठीकरणद्धा । ५८४. छसु कम्पेसु संछुद्धेसु जो क्रोधवेदगद्धा तिस्से क्रोधवेदगद्धाए तिण्णि भागा । जो तत्थ पढमतिभागो अस्स-कण्णकरणद्धा, विदियो तिभागो किट्ठीकरणद्धा, तदियतिभागो किट्ठीवेदगद्धा । ५८५. अस्सकण्णकरणे णिट्ठिदे तदो से काले अण्णो द्विदिवंधो । ५८६. अण्णमणुभागखंडय-

अनन्तगुणी हैं । इससे मानकी अपूर्वस्पर्धक वर्गणाएँ विशेष अधिक है । इससे मायाकी अपूर्वस्पर्धक-वर्गणाएँ विशेष अधिक है । इससे लोभकी अपूर्वस्पर्धक-वर्गणाएँ विशेष अधिक हैं ॥५५८-५६९॥

चूर्णिसू०—लोभकी अपूर्वस्पर्धक-वर्गणाओसे लोभके पूर्वस्पर्धक अनन्तगुणित है । लोभके पूर्वस्पर्धकोसे उन्हींकी वर्गणाएँ अनन्तगुणी है । लोभके पूर्वस्पर्धकोकी वर्गणाओसे मायाके पूर्वस्पर्धक अनन्तगुणित है । मायाके पूर्वस्पर्धकोसे उन्हींकी वर्गणाएँ अनन्तगुणित हैं । मायाके पूर्वस्पर्धकोकी वर्गणाओसे मानके पूर्वस्पर्धक अनन्तगुणित है । मानके पूर्वस्पर्धकोसे उन्हींकी वर्गणाएँ अनन्तगुणी है । मानके पूर्वस्पर्धकोकी वर्गणाओसे क्रोधके पूर्वस्पर्धक अनन्तगुणित है । क्रोधके पूर्वस्पर्धकोसे उन्हींकी वर्गणाएँ अनन्तगुणी है । इस प्रकार अन्तर्मुहूर्तकालतक अश्वकर्णकरण प्रवर्तमान रहता है ॥५७०-५७८॥

चूर्णिसू०—अश्वकर्णकरणके अन्तिम समयमे चारो संज्वलनोका स्थितिवन्ध आठ वर्ष और शेष कर्मोका स्थितिवन्ध संख्यात सहस्र वर्ष है । नाम, गोत्र और वेदनीय कर्मोका स्थितिसत्त्व असंख्यात वर्ष है और चारो घातिया कर्मोका स्थितिसत्त्व संख्यात सहस्र वर्ष है । इस प्रकार अश्वकर्णकरणका काल समाप्त होता है ॥५७९-५८२॥

चूर्णिसू०—यहाँसे आगे अनन्तर समयसे लेकर कृष्टिकरणकाल है । हास्यादि छह कर्मोके संक्रमणको प्राप्त होनेपर जो क्रोधवेदककाल है उस क्रोधवेदककालके तीन भाग हैं । उनमे जो प्रथम त्रिभाग है, वह अश्वकर्णकरणकाल, द्वितीय त्रिभाग कृष्टिकरणकाल और तृतीय त्रिभाग कृष्टिवेदककाल है । अश्वकर्णकरणके समाप्त होनेपर तदनन्तरकालमे अन्य

मस्सकण्णकरणेण आगाइदं । ५८७. अण्णं द्विदिखंडयं चदुण्हं घादिकम्माणं संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । ५८८. णामा-गोद-वेदणीयाणमसंखेज्जा भागा । ५८९. पढमसमय-क्किट्ठीकारणो कोधादो पुच्चफदएहिंतो च अपुच्चफदएहिंतो च पदेसग्गमोक्कट्टियूण कोह-क्किट्ठीओ करेदि । माणादो ओक्कट्टियूण माणक्किट्ठीओ करेदि । मायादो ओक्कट्टियूण मायाक्किट्ठीओ करेदि । लोभादो ओक्कट्टियूण लोभक्किट्ठीओ करेदि । ५९०. एटाओ सव्वाओ वि चउत्विहाओ क्किट्ठीओ एयफदयवग्गणाणमणंतभागो पग्गणादो ।

५९१. पढमसमए णिव्वत्तिदाणं क्किट्ठीणं तिव्व-मंददाए अप्पावहुअं वत्तइस्सामो । ५९२. तं जहा । ५९३. लोभस्स जहणिया क्किट्ठी थोवा । ५९४. विदिया क्किट्ठी अणंतगुणा । ५९५. एवमणंतगुणाए सेढीए जाव पढमाए संगहक्किट्ठीए चरिमक्किट्ठी त्ति । ५९६ तदो विदियाए संगहक्किट्ठीए जहणिया क्किट्ठी अणंतगुणा । ५९७ एस गुणमारो वारसण्हं पि संगहक्किट्ठीणं सत्थाणगुणमारेहिं अणंतगुणो । ५९८. विदियाए संगहक्किट्ठीए सो चेव क्कमो जा पढमाए संगहक्किट्ठीए । ५९९. तदो पुण विदियाए च तदियाए च संगहक्किट्ठीणमंतरं तारिसं चेव । ६००. एवमेदाओ लोभस्स तिण्णि संगहक्किट्ठीओ ।

स्थितिवन्ध होता है । (यहाँपर चारो संज्वलनोका स्थितिवन्ध अन्तर्मुहूर्त कम आठ वर्ष है और शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध पूर्वके स्थितिवन्धसे संख्यातगुणा हीन है ।) अन्य अनुभाग-काडक अउवकर्णकरणकारकके द्वारा ही ग्रहण किया गया है । उस समय अन्य स्थिति-काडक होता है जो कि चारो घातिया कर्मोंका संख्यात सहस्र वर्ष है और नाम, गोत्र तथा वेदनीयका असंख्यात बहुभाग है । प्रथमसमयवर्ती कृष्टिकारक क्रोधके पूर्वस्पर्धकोसे और अपूर्वस्पर्धकोसे प्रदेशाग्रका अपकर्षण कर क्रोध-कृष्टियोंको करता है । मानसे प्रदेशाग्रका अप-कर्षण कर मान-कृष्टियोंको करता है । मायासे प्रदेशाग्रका अपकर्षण कर माया-कृष्टियोंको करता है और लोभसे प्रदेशाग्रका अपकर्षण कर लोभ-कृष्टियोंको करता है । ये सब चारो ही प्रकारकी कृष्टियाँ गणनाकी अपेक्षा एक स्पर्धकत्री वर्गणाओके अनन्तवे भागप्रमाण है ॥५८३-५९०॥

चूर्णिसू०—अब प्रथम समयमे निर्वृत्त हुई कृष्टियोंकी तीव्र-मन्दताके अल्पबहुत्वको कहेंगे । वह इस प्रकार है—(यहाँपर संज्वलन क्रोधादि प्रत्येक कषायकी तीन-तीन कृष्टियोंकी रचना करना चाहिए । इस प्रकार चारो कषायोंकी वारह कृष्टियाँ होती हैं ।) लोभकी जवन्य कृष्टि वक्ष्यमाण कृष्टियोंकी अपेक्षा सबसे अल्प है । द्वितीय कृष्टि अनन्तगुणी है । इस प्रकार अनन्तगुणित श्रेणीसे प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तिम कृष्टि तक जानना चाहिए । पुनः उस प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तिम कृष्टिसे द्वितीय संग्रहकृष्टिकी जवन्य कृष्टि अनन्तगुणी है । यह गुणकार वारहो ही संग्रह-कृष्टियोंके स्वस्थानगुणकारोंसे अनन्तगुणा है । प्रथम संग्रहकृष्टिमे जो क्रम है वही क्रम द्वितीय संग्रहकृष्टिमे भी है । पुनः इससे आगे द्वितीय और तृतीय संग्रह-कृष्टियोंका तादृश ही क्रम है अर्थात् प्रथम और द्वितीय संग्रहकृष्टियोंके अन्तरके सद्ग ही

६०१. लोभस्स तदियाए संगहकिट्ठीए जा चरिमा किट्ठी तदो मायाए जहण्णाकिट्ठी अणंतगुणा । ६०२. मायाए वि तेणेव क्रमेण तिण्णि संगहकिट्ठीओ । ६०३. मायाए जा तदिया संगहकिट्ठी तिस्से चरिमादो किट्ठीदो माणस्स जहण्णिया किट्ठी अणंतगुणा । ६०४. माणस्स वि तेणेव क्रमेण तिण्णि संगहकिट्ठीओ । ६०५. माणस्स जा तदिया संगहकिट्ठी तिस्से चरिमादो किट्ठीदो क्रोधस्स जहण्णिया किट्ठी अणंतगुणा । ६०६. क्रोधस्स वि तेणेव क्रमेण तिण्णि संगहकिट्ठीओ । ६०७. क्रोधस्स तदियाए संगहकिट्ठीए जा चरिमकिट्ठी तदो लोभस्स अपुव्वकह्याणमादिवग्गणा अणंतगुणा ।

६०८. किट्ठीअंतराणमप्पावहुअं वत्तइस्सामो । ६०९. अप्पावहुअस्स लहुआ-लाव-संखेवपदत्थसण्णाणिअखेवो ताव काथव्वो । ६१०. तं जहा । ६११. एक्केक्किस्से संगहकिट्ठीए अणंताओ किट्ठीओ । तासिं अंतराणि वि अणंताणि । तेसिमंतराणं सण्णा किट्ठी-अंतराइं णाम । संगहकिट्ठीए च संगहकिट्ठीए च अंतराणि एकारस । तेसिं सण्णा संगहकिट्ठी-अंतराइं णाम । ६१२. एदीए णामसण्णाए किट्ठीअंतराणं संगहकिट्ठीअंतराणं च अप्पावहुअं वत्तइस्सामो । ६१३. तं जहा । ६१४. लोभस्स पढमाए संगहकिट्ठीए जहण्णयं किट्ठीअंतरं थोवं । ६१५. विदियं किट्ठीअंतरमणंतगुणं । ६१६. एवमणंतराणं-

है । इस प्रकार ये लोभकी तीन संग्रहकृष्टियाँ हैं । लोभकी तृतीय संग्रहकृष्टिकी जो अन्तिम कृष्टि है उससे मायाकी जघन्य कृष्टि अनन्तगुणी है । मायाकी भी उसी ही क्रमसे तीन संग्रह-कृष्टियाँ होती हैं । मायाकी जो तृतीय संग्रहकृष्टि है उसकी अन्तिम कृष्टिसे मानकी जघन्य कृष्टि अनन्तगुणी होती है । मानकी भी उसी ही क्रमसे तीन संग्रह कृष्टियाँ होती हैं । मानकी जो तृतीय संग्रहकृष्टि है उसकी अन्तिम कृष्टिसे क्रोधकी जघन्य कृष्टि अनन्तगुणी होती है । क्रोधकी भी उसी क्रमसे तीन संग्रहकृष्टियाँ होती हैं । क्रोधकी तृतीय संग्रहकृष्टिकी जो अन्तिम कृष्टि है उससे लोभके अपूर्वस्पर्धकोकी आदिवर्गणा अनन्तगुणी होती है ॥५९१-६०७॥

चूर्णिसू०—अब कृष्टियोंके अन्तरोका अर्थात् कृष्टि-सम्बन्धी गुणकारोका अल्पवहुत्व कहेंगे । प्रकृत अल्पवहुत्वके लघु-आलाप करनेके लिए संक्षेप पदोंका अर्थ-संज्ञारूप निक्षेप पहले करना चाहिए । अर्थात् प्रस्तुत किये जानेवाले विस्तृत अल्पवहुत्वको संक्षेपमें कहनेके लिए पदोंकी संक्षेपरूपमें अर्थ-संज्ञा कर लेना चाहिए जिससे प्रकृत कथनका सुगमतासे बोध हो सके । वह संज्ञा इस प्रकार करना चाहिए—एक-एक संग्रहकृष्टिकी अनन्त कृष्टियाँ होती हैं और उनके अन्तर भी अनन्त होते हैं । उन अन्तरोकी 'कृष्टि-अन्तर' यह संज्ञा है । संग्रह-कृष्टियोंके और संग्रह-कृष्टियोंके अधस्तन-उपरिम अन्तर ग्यारह होते हैं, उनकी संज्ञा 'संग्रह-कृष्टि-अन्तर' ऐसी है । इस प्रकारसे की गई नामसंज्ञाके द्वारा कृष्टि-अन्तरोका और संग्रह-कृष्टि-अन्तरोका अल्पवहुत्व कहेंगे । वह इस प्रकार है—लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें जघन्य कृष्टि-अन्तर अर्थात् जिस गुणकारसे गुणित जघन्य कृष्टि अपने द्वितीय कृष्टिका प्रमाण प्राप्त करती है, वह गुणकार सबसे कम है । इससे द्वितीय कृष्टिका अन्तर अनन्तगुणा है । इस

तरेण गंतूण चरिमक्खिड्डीअंतरमणंतगुणं । ६१७. लोभस्स चैव विदियाए संगहक्खिड्डीए पढमक्खिड्डीअंतरमणंतगुणं । ६१८. एवमणंतराणंतरेण जाव चरिमादो त्ति अणंतगुणं । ६१९. लोभस्स चैव तदियाए संगहक्खिड्डीए पढमक्खिड्डीअंतरमणंतगुणं । ६२०. एवमणंतराणंतरेण गंतूण चरिमक्खिड्डीअंतरमणंतगुणं ।

६२१. एत्तो मायाए पढमसंगहक्खिड्डीए पढमक्खिड्डीअंतरमणंतगुणं । ६२२. एवमणंतराणंतरेण मायाए वि तिण्हं संगहक्खिड्डीणं किड्डीअंतराणि जहाकमेण अणंतगुणाए सेढीए णेदव्वाणि । ६२३. एत्तो माणस्स पढमाए संगहक्खिड्डीए पढमक्खिड्डीअंतरमणंतगुणं । ६२४. माणस्स वि तिण्हं संगहक्खिड्डीणमंतराणि जहाकमेण अणंतगुणाए सेढीए णेदव्वाणि । ६२५. एत्तो क्रोधस्स पढमसंगहक्खिड्डीए पढमक्खिड्डीअंतरमणंतगुणं । ६२६. क्रोहस्स वि तिण्हं संगहक्खिड्डीणमंतराणि जहाकमेण जाव चरिमादो अंतरादो त्ति अणंतगुणाए सेढीए णेदव्वाणि ।

६२७. तदो लोभस्स पढमसंगहक्खिड्डीअंतरमणंतगुणं । ६२८. विदियसंगहक्खिड्डीअंतरमणंतगुणं । ६२९. तदियसंगहक्खिड्डीअंतरमणंतगुणं । ६३०. लोभस्स मायाए च अंतरमणंतगुणं । ६३१. मायाए पढमसंगहक्खिड्डीअंतरमणंतगुणं । ६३२. विदियसंगहक्खिड्डीअंतरमणंतगुणं । ६३३. तदियसंगहक्खिड्डीअंतरमणंतगुणं । ६३४. मायाए माणस्स

प्रकार अनन्तर-अनन्तररूपसे जाकर अन्तिम कृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है । लोभकी ही द्वितीय संग्रहकृष्टिमे प्रथम कृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है । इस प्रकार अनन्तर-अनन्तररूपसे अन्तिम कृष्टि-अन्तर तक अनन्तगुणा अन्तर जानना चाहिए । पुनः लोभकी ही तृतीय संग्रहकृष्टिमे प्रथम कृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है । इस प्रकार अनन्तर-अनन्तर रूपसे जाकर अन्तिम कृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है ॥ ६०८-६२० ॥

चूर्णिसू०—यहाँसे आगे मायाकी प्रथम संग्रहकृष्टिमे प्रथम कृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है । इस प्रकार अनन्तर-अनन्तररूपसे मायाकी भी तीनों संग्रह-कृष्टियोंके कृष्टि-अन्तर यथाक्रमसे अनन्तगुणित श्रेणीके द्वारा ले जाना चाहिए । यहाँसे आगे मानकी प्रथम संग्रह-कृष्टिमे प्रथम कृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है । इस प्रकार मानकी भी तीनों संग्रहकृष्टियोंके कृष्टि-अन्तर यथाक्रमसे अनन्तगुणित श्रेणीके द्वारा ले जाना चाहिए । यहाँसे आगे क्रोधकी प्रथम संग्रह-कृष्टिमे प्रथम कृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है । इस प्रकार क्रोधकी भी तीनों संग्रहकृष्टियोंके अन्तर यथाक्रमसे अन्तिम अन्तर तक अनन्तगुणित श्रेणीके द्वारा ले जाना चाहिए ॥ ६२१-६२६ ॥

चूर्णिसू०—उससे, अर्थात् स्वस्थानगुणकारोके अन्तिम गुणकारसे लोभकी प्रथम-संग्रहकृष्टिका अन्तर अनन्तगुणा है । इससे द्वितीय संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है और इससे तृतीय संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है । लोभका और मायाका अन्तर अनन्तगुणा है । मायाका प्रथम संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है । इससे द्वितीय संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है । इससे तृतीय संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है । मायाका और मानका

च अंतरमणंतगुणं । ६३५. माणस्स पढमसंगहकिट्ठीअंतरमणंतगुणं । ६३६. विदिय-संगहकिट्ठीअंतरमणंतगुणं । ६३७. तदियसंगहकिट्ठीअंतरमणंतगुणं । ६३८. माणस्स कोहस्स च अंतरमणंतगुणं । ६३९. कोहस्स पढमसंगहकिट्ठीअंतरमणंतगुणं । ६४०. विदियसंगहकिट्ठीअंतरमणंतगुणं । ६४१. तदियसंगहकिट्ठीअंतरमणंतगुणं । ६४२ कोधस्स चरिमादो किट्ठीदो लोभस्स अपुव्वफद्दयाणमादिवग्गणाए अंतरमणंतगुणं ।

६४३. पढमसमए किट्ठीसु पदेसग्गस्स सेट्ठिपरूवणं वत्तइस्सामो । ६४४. तं जहा । ६४५. लोभस्स जहणियाए किट्ठीए पदेसग्गं बहुअं । ६४६. विदियाए किट्ठीए विसेसहीणं । ६४७. एवमणंतरोवणिधाए विसेसहीणमणंतभागेण जाव कोहस्स चरिमकिट्ठि ति । ६४८ परंपरोवणिधाए जहणियादो लोभकिट्ठीदो उक्कस्सियाए कोधकिट्ठीए पदेसग्गं विसेसहीणमणंतभागेण । ६४९. विदियसमए अण्णाओ अपुव्वाओ किट्ठीओ करेदि पढम-समये णिव्वत्तिदकिट्ठीणमसंखेज्जदिभागमेत्ताओ । ६५०. एक्केक्किस्से संगहकिट्ठीए हेट्ठा अपुव्वाओ किट्ठीओ करेदि ।

६५१. विदियसमए दिज्जमाणयस्स पदेसग्गस्स सेट्ठिपरूवणं वत्तइस्सामो । ६५२. तं जहा । ६५३. लोभस्स जहणियाए किट्ठीए पदेसग्गं बहुअं दिज्जदि । ६५४. विदियाए किट्ठीए विसेसहीणमणंतभागेण । ६५५. ताव अणंतभागहीणं जाव अपुव्वाणं

अन्तर अनन्तगुणा है । मानका प्रथम संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है । इससे द्वितीय संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है । इससे तृतीय संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है । मानका और क्रोधका अन्तर अनन्तगुणा है । क्रोधका प्रथम संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है । इससे द्वितीय संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है । इससे तृतीय संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है । क्रोधकी अन्तिम कृष्टिसे लोभके अपूर्वस्पर्धकोकी आदिवर्गणाका अन्तर अनन्तगुणा है ॥ ६२७-६४२ ॥

चूर्णिसू०—अत्र प्रथम समयमे निर्वृत्त हुई कृष्टियोंमे दिये जानेवाले प्रदेशाग्रकी श्रेणीप्ररूपणा कहेंगे । वह इस प्रकार है—लोभकी जघन्य कृष्टिमें प्रदेशाग्र बहुत है । द्वितीय कृष्टिमें प्रदेशाग्र अनन्तवे भागसे विशेष हीन है । इस प्रकार अनन्तरोपनिधाके द्वारा अनन्त-भागसे विशेष हीन प्रदेशाग्र क्रोधकी अन्तिम कृष्टि तक जानना चाहिए । परंपरोपनिधाके द्वारा जघन्य लोभकृष्टिसे उत्कृष्ट लोभकृष्टिके प्रदेशाग्र अनन्तवे भागसे विशेष हीन है । द्वितीय समयमे, प्रथम समयमे निर्वृत्त कृष्टियोंके असंख्यातत्रै भागमात्र अन्य अपूर्व कृष्टियोंको करता है । एक-एक संग्रहकृष्टिके नीचे अपूर्व कृष्टियोंको करता है ॥ ६४३-६५० ॥

चूर्णिसू०—अत्र द्वितीय समयमे दिये जानेवाले प्रदेशाग्रकी श्रेणीप्ररूपणा कहेंगे । वह इस प्रकार है—लोभकी जघन्यकृष्टिमें प्रदेशाग्र बहुत दिया जाता है । द्वितीय कृष्टिमें विशेष हीन अर्थात् अनन्तवे भागसे हीन दिया जाता है । इस प्रकार तत्र तक अनन्तवे भागसे हीन दिया जाता है जत्र तक कि द्वितीय समयमे लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिके नीचे

चरिमादो त्ति । ६५६. तदो षडमसमए णिव्वत्तिदाणं जहणियाए किट्ठीए विसेसहीण-
मसंखेज्जदिभागेण । ६५७ तदो विदियाए अणंतभागहीणं तेण परं षडमसमयणिव्वत्ति-
दासु लोभस्स षडमसंगहकिट्ठीए किट्ठीसु अणंतराणंतरेण अणंतभागहीणं दिज्जमाणगं
जाव षडमसंगहकिट्ठीए चरिमकिट्ठि त्ति । ६५८. लोभरस चव विदियसमए विदियसंगह-
किट्ठीए तिस्से जहणियाए किट्ठीए दिज्जमाणगं विसेसाहियमसंखेज्जदिभागेण । ६५९.
तेण परमणंतभागहीणं जाव अपुव्वाणं चरिमादो त्ति । ६६०. तदो षडमसमयणिव्वत्ति-
दाणं जहणियाए किट्ठीए विसेसहीणमसंखेज्जदिभागेण । ६६१. तेण परं विसेसहीण-
मणंतभागेण जाव विदियसंगहकिट्ठीए चरिमकिट्ठि त्ति ।

६६२. तदो जहा विदियसंगहकिट्ठीए विधी तहा चव तदियसंगहकिट्ठीए विधी
च । ६६३. तदो लोभस्स चरिमादो किट्ठीदां मायाए जा विदियसमए जहणिया किट्ठी
तिस्से दिज्जदि पदेसगं विसेसाहियमसंखेज्जदिभागेण । ६६४ तदो पुण अणंतभाग-
हीणं जाव अपुव्वाणं चरिमादो त्ति । ६६५. एवं जम्हि जम्हि अपुव्वाणं जहणिया
किट्ठी तम्हि तम्हि विसेसाहियमसंखेज्जदिभागेण अपुव्वाणं चरिमादो असंखेज्जदिभाग-

निर्वर्त्तमान अपूर्वकृष्टियोंकी अन्तिम कृष्टि प्राप्त होती है । उससे प्रथम समयमें निर्वर्त्तित
लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तर-कृष्टियोमेंसे जघन्य कृष्टिमें विशेष हीन अर्थात् असं-
ख्यातवें भागसे हीन प्रदेशाग्र दिया जाता है । उससे द्वितीय कृष्टिमें अनन्तभागसे हीन
प्रदेशाग्र दिया जाता है । उसके आगे प्रथम समयमें निर्दत्तित लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिकी
अन्तरकृष्टियोमें अनन्तर-अनन्तररूपसे प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तिम अन्तरकृष्टि तक अनन्तभाग-
हीन प्रदेशाग्र दिया जाता है । उससे लोभकी ही द्वितीय समयमें निर्वर्त्तमान उस द्वितीय
संग्रहकृष्टिकी जघन्य कृष्टिमें दीयमान प्रदेशाग्र असंख्यातवें भागसे विशेष अधिक है । उसके
आगे द्वितीय संग्रहकृष्टिके नीचे निर्वर्त्तमान अपूर्व कृष्टियोंकी अन्तिम कृष्टि तक अनन्तभाग-
हीन प्रदेशाग्र दिया जाता है । उससे, प्रथम समयमें निर्वर्त्तित पूर्वकृष्टियोंकी जघन्य कृष्टिमें
असंख्यातभागप्रमाण विशेष हीन प्रदेशाग्र दिया जाता है । इससे आगे द्वितीय संग्रहकृष्टिकी
अन्तिम कृष्टि तक अनन्तवे भागसे विशेष हीन प्रदेशाग्र दिया जाता है ॥ ६५१-६६१ ॥

चूर्णिसू०—तत्पश्चात् द्वितीय संग्रहकृष्टिमें जैसी विधि बतलाई गई है वैसी ही विधि
तृतीय संग्रहकृष्टिमें भी जानना चाहिए । तदनन्तर लोभकी अन्तिम कृष्टिसे मायाकी प्रथम
संग्रहकृष्टिके नीचे द्वितीय समयमें निर्वर्त्तमान अपूर्वकृष्टियोमें जो जघन्य कृष्टि है उसमें असं-
ख्यातवें भागसे विशेष अधिक प्रदेशाग्र दिया जाता है । पुनः इसके आगे अपूर्वकृष्टियोंकी
अन्तिम कृष्टि तक अनन्तभागसे हीन प्रदेशाग्र दिया जाता है । इस प्रकार उपर्युक्त क्रमसे
जहाँ जहाँ पर पूर्वकृष्टियोंकी अन्तिम कृष्टिसे अपूर्व कृष्टियोंकी जघन्य कृष्टि कही गई है,
वहाँ वहाँपर असंख्यातवें भागसे विशेष अधिक प्रदेशाग्र दिया जाता है और जहाँ जहाँपर
अपूर्वकृष्टियोंकी अन्तिम कृष्टिसे पूर्व कृष्टियोंकी जघन्य कृष्टि कही गई है वहाँ वहाँपर असं-

हीणं । ६६६. एदेण कमेण विदियसमए णिदिखवमाणगस्स पदेसग्गस्स वारससु किट्ठि-
ट्ठाणेसु असंखेज्जदिभागहीणं । एकारससु किट्ठिट्ठाणेसु असंखेज्जदिभागुत्तरं दिज्जमाण-
गस्स पदेसग्गस्स । ६६७. सेसेसु किट्ठिट्ठाणेसु अणंतभागहीणं दिज्जमाणगस्स पदेस-
ग्गस्स । ६६८. विदियसमए दिज्जमाणयस्स पदेसग्गस्स एसा उट्टुकूटसेही ।

६६९ जं पुण विदियसमए दीसदि किट्ठिसु पदेसग्गं तं जहणियाए बहुअं,
सेसासु सच्चासु अणंतरोवणिधाए अणंतभागहीणं । ६७०. जहा विदियसमए किट्ठीसु
पदेसग्गं तथा सच्चिस्से किट्ठीकरणद्वाए दिज्जमाणगस्स पदेसग्गस्स तेवीसमुट्टुकूटाणि ।
६७१. दिस्समाणयं सच्चिह्मिह्मि अणंतभागहीणं । ६७२ जं पदेसग्गं सच्चसमासेण पढम-
समए किट्ठीसु दिज्जदि तं थोवं । विदियसमए असंखेज्जगुणं । तदियसमए असंखेज्ज-
गुणं । एवं जात्र चरिमादो त्ति असंखेज्जगुणं ।

६७३. किट्ठीकरणद्वाए चरिमसमए संजलणाणं ट्ठिदिवंधो चत्तारि मासा अंतो-
मुहूत्तव्भहिया । ६७४. सेसाणं कम्माणं ट्ठिदिवंधो संखेज्जाणि चस्ससहस्साणि । ६७५.

ख्यातवे भागसे हीन प्रदेशाग्र दिया जाता है । इस क्रमसे द्वितीय समयमे निक्षिप्यमान प्रदे-
शाग्रका वारह कृष्टि-स्थानोमे असंख्यातवें भागसे हीन और ग्यारह कृष्टिस्थानोमे दीयमान
प्रदेशाग्रका असंख्यातवे भागसे अधिक अवस्थान है । शेष कृष्टिस्थानोमे दीयमान प्रदेशाग्रका
अनन्तवें भागसे हीन अवस्थान है । द्वितीय समयमे दीयमान प्रदेशाग्रकी यह उट्टुकूटश्रेणी
है ॥ ६६२-६६८ ॥

भावार्थ—जिस प्रकार ऊँटकी पीठ पिछले भागमें पहले ऊँची होती है पुनः
मध्यमे नीची होती है, फिर आगे नीची ऊँची होती है, उसी प्रकार यहाँपर भी प्रदेशोका
निपेक आदिमें बहुत होकर फिर थोड़ा रह जाता है । पुनः सन्धिविशेषोमे अधिक और हीन
होता हुआ जाता है, इस कारणसे यहाँपर होनेवाली प्रदेशश्रेणीकी रचनाको उट्टुकूटश्रेणी
कहा है ।

चूर्णिसू०—द्वितीय समयमे कृष्टियोमे जो प्रदेशाग्र दिखता है वह जघन्य कृष्टिमे बहुत
है और शेष सर्व कृष्टियोमे अनन्तरोपनिधासे अनन्तभाग हीन है । जिस प्रकार द्वितीय समय-
मे कृष्टियोमे दीयमान प्रदेशाग्रकी प्ररूपणा की है उसी प्रकार सम्पूर्ण कृष्टिकरणकालमें दीयमान
प्रदेशाग्रके तेईस उट्टुकूटोकी प्ररूपणा करना चाहिए । किन्तु दृश्यमान प्रदेशाग्र सर्वकालमे
अनन्तभाग हीन जानना चाहिए । जो प्रदेशाग्र सर्वसमास अर्थात् सामस्त्यरूपसे प्रथम समय-
में कृष्टियोमे दिया जाता है वह सबसे कम है । द्वितीय समयमें दिया जानेवाला प्रदेशाग्र
असंख्यातगुणा है । तृतीय समयमे दिया जानेवाला प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है । इस प्रकार
(कृष्टिकरण कालके) अन्तिम समय तक उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा प्रदेशाग्र दिया जाता
है ॥ ६६९-६७२ ॥

चूर्णिसू०—कृष्टिकरणकालके अन्तिम समयमे चारो संज्वलनोका स्थितिवन्ध अन्त-
र्मुहूर्तसे अधिक चार मास है । शेष कर्मोका स्थितिवन्ध संख्यात सहस्र वर्ष है । उसी

तस्मिन् चैव किङ्कीकरणद्वाए चरिमसमए मोहणीयस्स ट्ठिदिसंतकम्मं संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि हाइदूण अडुवस्सिगमंतोमुहुत्तव्वभहियं जादं । ६७६. तिण्हं वादिकम्माणं ठिदिसंतकम्मं संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । ६७७. गामा-गोद-वेदणीयाणं ट्ठिदिसंतकम्ममसंखेज्जाणि वस्ससहस्साणि ।

६७८. किङ्कीओ करंतो पुव्वफहयाणि अपुव्वफहयाणि च वेदेदि, किङ्कीओ ण वेदयदि । ६७९. किङ्कीकरणद्वा णिड्डायदि पढमट्ठिदीए आवलियाए सेसाए । ६८०. से काले किङ्कीओ पवेसेदि । ६८१. ताधे संजलणाणं ट्ठिदिवंधो चत्तारि मासा । ६८२. ट्ठिदिसंतकम्ममट्ठ वस्साणि । ६८३. तिण्हं वादिकम्माणं ट्ठिदिवंधो ट्ठिदिसंतकम्मं च संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । ६८४. [वेदणीय-] गामा-गोदाणं ट्ठिदिवंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । ६८५. ट्ठिदिसंतकम्ममसंखेज्जाणि वस्ससहस्साणि ।

६८६. अणुभागसंतकम्मं क्रोहसंजलणस्स जं संतकम्मं समयूणाए उदयावलियाए च्छट्ठिदल्लिगाए तं सव्वघादी । ६८७. संजलणाणं जे दो आवलियवंधा दुसमयूणा ते देसघादी । तं पुण फहयगदं । ६८८. सेसं किङ्कीगदं । ६८९. तस्मिन् चैव पढमसमए कोहस्स पढमसंगहकिङ्कीदो पदेसग्गमोकड्डियूण पढमट्ठिदिं करेदि । ६९०. ताहे कोहस्स पढमाए संगहकिङ्कीए असंखेज्जा भागा उदिण्णा । ६९१. एदिस्से चैव कोहस्स पढमाए संगहकिङ्कीए असंखेज्जा भागा वज्झंति । ६९२. सेसाओ दो संगहकिङ्कीओ ण

कृष्टिकरणकालके अन्तिम समयमे मोहनीयकर्मका स्थितिसत्त्व संख्यात सहस्र वर्षोंसे घटकर अन्तर्मुहूर्तसे अधिक आठ वर्षप्रमाण हो जाता है । शेष तीन वातिया कर्मोंका स्थितिसत्त्व संख्यात सहस्र वर्ष है । तथा नाम, गोत्र और वेदनीय कर्मका स्थितिसत्त्व असंख्यात सहस्र वर्ष है ॥ ६७३-६७७ ॥

चूर्णिसू०—कृष्टियोंको करनेवाला पूर्व-स्पर्धको और अपूर्व-स्पर्धकोका वेदन करता है, किन्तु कृष्टियोंका वेदन नहीं करता । संज्वलन क्रोधकी प्रथमस्थितिमे आवलीमात्र शेष रहनेपर कृष्टिकरणकाल समाप्त हो जाता है । कृष्टिकरणकालके समाप्त होनेपर अनन्तर समयमे कृष्टियोंको द्वितीय स्थितिसे अपकर्षण कर उदयावलीके भीतर प्रवेश करता है । उस समयमे चारो संज्वलनोंका स्थितिवन्ध चार मास है और स्थितिसत्त्व आठ वर्ष है । शेष तीन वातिया कर्मोंका स्थितिवन्ध और स्थितिसत्त्व संख्यात सहस्र वर्ष है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका स्थितिवन्ध संख्यात सहस्र वर्ष और स्थितिसत्त्व असंख्यात सहस्र वर्ष है ॥ ६७८-६८५ ॥

चूर्णिसू०—संज्वलनक्रोधका जो अनुभागसत्त्व समयोन उदयावलीके भीतर उच्छिष्टावलीके रूपसे अवशिष्ट अवस्थित है वह सत्त्व सर्वघाती है । संज्वलन कषायोंके जो दो समय कम दो आवली-प्रमाण नवक-वद्ध समयप्रवद्ध हैं, वे देशघाती है । उनका वह अनुभागसत्त्व स्पर्धकस्वरूप है । शेष सर्व अनुभागसत्त्व कृष्टिस्वरूप है । उसी कृष्टिवेदक-कालके प्रथम समयमे ही क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिसे प्रदेशाग्रका अपकर्षण करके प्रथमस्थितिको करता है । उस समयमे क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिके असंख्यात बहुभाग उदीर्ण अर्थात् उदयको प्राप्त होते हैं । तथा इसी क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिके असंख्यात बहुभाग वन्धको प्राप्त होते हैं । शेष

वज्झंति, ण वेदिज्जंति । ६९३. पहमाए संगहकिट्ठीए हेट्ठदो जाओ किट्ठीओ ण वज्झंति, ण वेदिज्जंति, ताओ थोवाओ । ६९४. जाओ किट्ठीओ वेदिज्जंति, ण वज्झंति ताओ विसेसाहियाओ । ६९५. तिस्से चेव पहमाए संगहकिट्ठीए उवरि जाओ किट्ठीओ ण वज्झंति, ण वेदिज्जंति ताओ विसेसाहियाओ । ६९६. उवरि जाओ वेदिज्जंति, ण वज्झंति ताओ विसेसाहियाओ । ६९७. मज्झे जाओ किट्ठीओ वज्झंति च वेदिज्जंति च ताओ असंखेज्जगुणाओ ।

६९८. किट्ठीवेदगद्धा ताव थवणिज्जा । ६९९. किट्ठीकरणद्वाए ताव सुत्त-फासो । ७००. तत्थ एकारस मूलगाहाओ । ७०१. पहमाए मूलगाहाए समुक्कित्तणा ।
(१०९) केवदिया किट्ठीओ कम्हि कसायम्हि कदि च किट्ठीओ ।
किट्ठीए किं करणं लक्खणमथ किं च किट्ठीए ॥१६२॥

७०२. एदिस्से गाहाए चतारि अत्था । ७०३. तिण्णि भासगाहाओ । ७०४. पहमभासगाहा वेसु अत्थेसु णिवद्धा । तिस्से समुक्कित्तणा ।

दो संग्रहकृष्टियाँ न बंधती हैं और न उदयको प्राप्त होती हैं । प्रथम संग्रहकृष्टिकी अधस्तन जो कृष्टियाँ न बंधती हैं और न उदयको प्राप्त होती हैं, वे अल्प हैं । जो कृष्टियाँ उदयको प्राप्त होती हैं, किन्तु बंधती नहीं है, वे विशेष अधिक है । उस ही प्रथम संग्रहकृष्टिके ऊपर जो कृष्टियाँ न बंधती हैं और न उदयको प्राप्त होती है, वे विशेष अधिक हैं । इससे ऊपर जो उदयको प्राप्त होती हैं, परन्तु बंधती नहीं है, वे विशेष अधिक है । मध्यमे जो कृष्टियाँ बंधती हैं और उदयको प्राप्त होती है वे असंख्यातगुणी हैं ॥६८६-६९७॥

चूर्णिसू०—यहाँपर कृष्टिवेदक-कालको स्थगित रखना चाहिए । (क्योंकि कृष्टिकरण-कालसे प्रतिबद्ध गाथासूत्रोंके अर्थका निरूपण किये बिना उसका सम्यक् प्रकारसे विवेचन नहीं हो सकता ।) कृष्टिकरणकालमें पहले गाथा-सूत्रोंके अर्थका स्पर्श करना चाहिए । इस विषयमें ग्यारह मूलगाथाएँ हैं । उनमेंसे प्रथम मूलगाथाकी समुत्कीर्तना की जाती है ॥६९८-७०१॥

कृष्टियाँ कितनी होती हैं, और किस कपायमें कितनी कृष्टियाँ होती हैं ? कृष्टि करनेमें कौनसा करण होता है और कृष्टिका लक्षण क्या है ? ॥१६२॥

चूर्णिसू०—इस गाथाके चार अर्थ हैं ॥७०२॥

विशेषार्थ—चारो कपायोंकी समुदायरूपसे सर्व कृष्टियाँ कितनी हैं, यह प्रथम अर्थ है । पृथक्-पृथक् एक-एक कपायमें कितनी कृष्टियाँ होती हैं, यह दूसरा अर्थ है । कृष्टि-कालमें उत्कर्षण-अपकर्षण आदि कौनसा करण होता है, यह तीसरा अर्थ है और कृष्टिका क्या लक्षण है, यह चौथा अर्थ है ॥

चूर्णिसू०—उपर्युक्त मूलगाथाके अर्थका व्याख्यान करनेवाली तीन भाष्यगाथाएँ हैं । उनमें प्रथम भाष्यगाथा दो अर्थोंमें निबद्ध है । उसकी समुत्कीर्तना करते हैं ॥७०३-७०४॥

(११०) वारस णव छ तिण्णि य किट्ठीओ होंति अथ व अणंताओ ।

एकेकम्हि कसाये तिग तिग अधवा अणंताओ ॥१६३॥

७०५. विहासा । ७०६. जइ कोहेण उवट्ठायदि तदो वारस संगहकिट्ठीओ होंति । ७०७. माणेण उवट्ठिदस्स णव संगहकिट्ठीओ । ७०८. मायाए उवट्ठिदस्स छ संगहकिट्ठीओ । ७०९. लोभेण उवट्ठिदस्स तिण्णि संगहकिट्ठीओ । ७१०. एवं वारस णव छ तिण्णि च । ७११. एकेकिस्से संगहकिट्ठीए अणंताओ किट्ठीओ त्ति एदेण कारणेण अधवा अणंताओ त्ति । ७१२. केवडियाओ किट्ठीओ त्ति अत्थो समत्तो । ७१३. कम्हि कसायम्हि क्खदि च किट्ठीओ त्ति एदं सुत्तं । ७१४. एकेकम्हि कसाये तिण्णि तिण्णि संगहकिट्ठीओ त्ति एवं तिग तिग । ७१५. एकेकिस्से - संगहकिट्ठीए अणंताओ किट्ठीओ त्ति एदेण अधवा अणंताओ जादा ।

७१६. किट्ठीए किं करणं ति एत्थ एक्का भासगाहा । ७१७. तिस्से समुक्खित्तणा ।

संज्वलनक्रोधादि कषायोंकी चारह, नौ, छह और तीन कृष्टियाँ होती हैं, अथवा अनन्त कृष्टियाँ होती हैं । एक एक कषायमें तीन तीन कृष्टियाँ होती हैं, अथवा अनन्त कृष्टियाँ होती हैं ॥१६३॥

चूर्णिसू०—उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा की जाती है—यदि क्रोधकषायके उदयके साथ क्षपकश्रेणी चढ़ता है, तो उसके चारह संग्रहकृष्टियाँ होती हैं । मानकषायके उदयके साथ क्षपकश्रेणी चढ़नेवाले जीवके नौ संग्रहकृष्टियाँ होती हैं । मायाकषायके उदयके साथ उपस्थित होनेवाले जीवके छह संग्रहकृष्टियाँ होती हैं और लोभकषायके उदयके साथ उपस्थित होनेवाले जीवके तीन संग्रहकृष्टियाँ होती हैं । इस प्रकार यह भाष्यगाथाके प्रथम चरण 'चारह, नौ, छह, तीन' का अर्थ है । एक एक संग्रहकृष्टिकी अवयव या अन्तरकृष्टियाँ अनन्त होती हैं इस कारणसे गाथामें 'अथवा अनन्त होती हैं' ऐसा पद कहा है । इस प्रकार मूलगाथाके 'कृष्टियाँ कितनी होती हैं' इस प्रथम प्रश्नका अर्थ समाप्त हो जाता है । अब 'किस कषायमें कितनी कृष्टियाँ होती हैं' मूलगाथाके इस दूसरे पदका अर्थ करते हैं—एक एक कषायमें तीन तीन संग्रहकृष्टियाँ होती हैं, अतएव भाष्यगाथामें 'तीन तीन' ऐसा पद कहा गया है । एक एक संग्रहकृष्टिकी अनन्त अवयवकृष्टियाँ होती हैं, इस कारणसे भाष्यगाथामें 'अथवा अनन्त होती हैं' ऐसा पद कहा है ॥७०५-७१५॥

चूर्णिसू०—कृष्टि करनेकी अवस्थामें कौनसा करण होता है, मूलगाथा-द्वारा उठाए गये इस तीसरे प्रश्नरूप अर्थमें एक भाष्यगाथा निबद्ध है । उसकी समुत्कीर्तना की जाती है ॥७१६-७१७॥

(१११) किट्टी करेदि णियमा ओवट्टंतो ठिदी य अणुभागे ।
वड्ढंतो किट्टीए अकारगो होदि वोद्धव्वो ॥१६४॥

७१८. विहासा । ७१९ जहा । ७२०. जो किट्टीकारगो सो पदेसग्गं ठिदीहिं वा अणुभागेहिं वा ओकडुदि, ण उक्कडुदि । ७२१. खवगो किट्टीकारगप्पहुडि जाव संक्रमो ताव ओकडुगो पदेसग्गस्स, ण उक्कडुगो । ७२२. उवसामगो पुण पढमसमय-किट्टीकारगपादि कादूण जाव चरिमसमयसकसायो ताव ओकडुगो, ण पुण उक्कडुगो । ७२३. पड्विदमाणगो पुण पढमसमयसकसायप्पहुडि ओकडुगो वि, उक्कडुगो वि ।

७२४. लक्खणमध किं च किट्टीए त्ति एत्थ एका भासगाहा । ७२५. तिस्से समुक्कित्तणा ।

(११२) गुणसेठि अणंतगुणा लोभादी कोधपच्छिमपदादो ।
कम्मस्स य अणुभागे किट्टीए लक्खणं एदं ॥१६५॥

चारों संज्वलनकपायोंकी स्थिति और अनुभागका नियमसे अपवर्तन करता हुआ ही कृष्टियोंको करता है । स्थिति और अनुभागका बढ़ानेवाला कृष्टिका अकारक होता है ऐसा नियम जानना चाहिए ॥१६४॥

चूणिसू०—इस भाष्यगाथाकी विभाषा करते हैं । वह इस प्रकार है—जो जीव कृष्टियोंका करनेवाला है, वह प्रदेशाग्रको स्थिति अथवा अनुभागकी अपेक्षा अपवर्तन या अपकर्षण ही करता है; उद्वर्तन या उत्कर्षण नहीं करता । कृष्टियोंको करनेवाला क्षपक संयत कृष्टिकरणके प्रथम समयसे लेकर जब तक चरमसमयवर्ती संक्रामक है, तब तक मोहनीयकर्मके प्रदेशाग्रका अपकर्षक ही है, उत्कर्षक नहीं । अर्थात् जब तक वह एक समय-अधिक आवलीवाला सूक्ष्मसाम्परायिक संयत है, तब तक अपवर्तना करणमे प्रवृत्त रहता है । किन्तु कृष्टियोंका करनेवाला उपशमक संयत कृष्टिकारकके प्रथम समयको आदि करके जब चरमसमयवर्ती सकपाय रहता है, तब तक वह अपकर्षक रहता है, उत्कर्षक नहीं रहता । किन्तु उपशम श्रेणीसे गिरनेवाला जीव प्रथमसमयवर्तीसे सकपाय अर्थात् सूक्ष्मसाम्परायिक होनेके प्रथम समयसे लेकर नीचे सर्वत्र अपकर्षक भी है और उत्कर्षक भी ॥७१८-७२३॥

भावार्थ—उपशमश्रेणी चढ़नेवाले जीवके कृष्टिकरणके प्रथम समयसे लेकर सूक्ष्म-साम्परायिकके अन्तिम समय तक अपकर्षणकरण ही होता है, उत्कर्षणकरण नहीं होता । किन्तु गिरनेवाले जीवके सूक्ष्मसाम्परायिकके प्रथम समयसे दोनों ही करण प्रवृत्त हो जाते हैं ।

चूणिसू०—‘कृष्टिका लक्षण क्या है’ मूलगाथाके इस चौथे प्रश्नके अर्थरूपमे एक भाष्यगाथा निवद्ध है, अब यहाँपर उसकी समुत्कीर्तना की जाती है ॥७२४-७२५॥

लोभकपायकी जघन्य कृष्टिको आदि लेकर क्रोधरूपायकी सर्व पश्चिम पद

७२६. विहासा । ७२७. लोभस्स जहणिया किट्ठी अणुभागेहिं थोवा । ७२८. विदियकिट्ठी अणुभागेहिं अणंतगुणा । ७२९. तदिया किट्ठी अणुभागेहिं अणंतगुणा । ७३०. एवमणंतराणंतरेण सव्वत्थ अणंतगुणा जाव कोधस्स चरिमकिट्ठि त्ति । ७३१. उक्कस्सिया वि किट्ठी आदिफ्दयआदिवग्गणाए अणंतभागो । ७३२. एवं किट्ठीसु थोवो अणुभागो । ७३३. क्किसं कम्मं कदं जम्हा, तम्हा किट्ठी । ७३४. एदं लक्खणं । ७३५. एत्तो विदियमूलगाहा । ७३६. तं जहा ।

(११३) कदिसु च अणुभागेसु च द्विदीसु वा केत्तियासु का किट्ठी ।
सव्वासु वा द्विदीसु च आहो सव्वासु पत्तेयं ॥१६६॥

अर्थात् अन्तिम उत्कृष्ट कृष्टि तक यथाक्रमसे अवस्थित चारों संज्वलन कपायरूप कर्मके अनुभागमें गुणश्रेणी अनन्तगुणित है, यह कृष्टिका लक्षण है ॥१६५॥

विशेषार्थ—गाथामे कृष्टिका लक्षण पश्चादानुपूर्वीसे कहा गया है । जिसके द्वारा संज्वलन कपायोका अनुभाग सत्त्व उत्तरोत्तर कृश अर्थात् अल्पतर किया जाय, उसे कृष्टि कहते हैं । पूर्वानुपूर्वीकी अपेक्षा संज्वलन क्रोधकी उत्कृष्ट कृष्टिसे लेकर लोभकपायकी जघन्य कृष्टि तक कपायोका अनुभाग उत्तरोत्तर अनन्तगुणित हानिरूपसे कृश होता जाता है, इस बातको गाथाकारने पश्चादानुपूर्वीकी अपेक्षा कहा है कि लोभ कपायकी जघन्य कृष्टिसे लेकर क्रोधकपायकी उत्कृष्ट कृष्टि तक कपायोका अनुभाग अनन्तगुणित वृद्धिरूप है । इस प्रकार इस गाथाके द्वारा कृष्टिका लक्षण कहा गया है ।

चूर्णिसू०—अब उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा करते हैं—लोभकी जघन्य कृष्टि अनुभागकी अपेक्षा सबसे कम है । द्वितीय कृष्टि अनुभागकी अपेक्षा अनन्तगुणी है । तीसरी कृष्टि अनुभागकी अपेक्षा अनन्तगुणी है । इस प्रकार अनन्तर-अनन्तर क्रमसे सर्वत्र तब तक कृष्टियोंका अनुभाग अनन्तगुणित जानना चाहिए, जबतक कि क्रोधकी अन्तिम उत्कृष्ट कृष्टि प्राप्त हो । संज्वलन क्रोधकी उत्कृष्ट भी कृष्टिप्रथम अपूर्व स्पर्धककी आदि वर्गणाके अनन्तवे भाग है । इस प्रकार कृष्टियोंमें अनुभाग उत्तरोत्तर अल्प है । यतः जिसके द्वारा संज्वलन कपायरूप कर्म कृश किया जाता है, अतः उसकी कृष्टि यह संज्ञा सार्थक है । यह कृष्टिका लक्षण है ॥७२६-७३४॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे दूसरी मूलगाथा अवतरित होती है । वह इस प्रकार है ॥७३५-७३६॥

कितने अनुभागोंमें और कितनी स्थितियोंमें कौन कृष्टि वर्तमान है ? यदि प्रथम, द्वितीयादि सभी स्थितियोंमें सभी कृष्टियाँ संभव हैं, तो क्या उनकी सभी अवयवस्थितियोंमें भी अविशेषरूपसे सभी कृष्टियाँ संभव हैं, अथवा प्रत्येक स्थितिपर एक-एक कृष्टि संभव है ? ॥१६६॥

७३७. एदिस्से वे भासगाहाओ । ७३८. मूलगाहापुरिमद्धे एका भासगाहा ।

७३९. तिस्से समुक्कित्तणा ।

(११४) किट्टी च द्विदिविसेसेसु असंखेज्जेसु णियमसा होदि ।

णियमा अणुभागेषु च होदि हु किट्टी अणंतेसु ॥१६७॥

७४०. विहासा । ७४१. क्रोधस्स पढमसंगहकिट्टिं वेदंतस्स तिस्से संगहकिट्टीए एकेका किट्टी विदियट्टिदीसु सव्वासु पढमट्टिदीसु च उदयवज्जासु एकेका किट्टी सव्वासु ट्टिदीसु ।

चूर्णिसू०—इस मूलगाथाका अर्थ-व्याख्यान करनेवाली दो भाष्यगाथाएँ हैं । उनमेंसे मूलगाथाके पूर्वार्धके अर्थमें एक भाष्यगाथा निवद्ध है । उसकी समुत्कीर्तना इस प्रकार है ॥७३७-७३९॥

सभी कृष्टियाँ सर्व असंख्यात स्थिति-विशेषोंपर नियमसे होती हैं । तथा प्रत्येक कृष्टि नियमसे अनन्त अनुभागोंमें होती है ॥१६७॥

विशेषार्थ—सभी कृष्टियाँ सर्व असंख्यात स्थिति-विशेषोंपर नियमसे होती हैं, इसका अभिप्राय यह है कि चारों संज्वलनोंकी द्वितीयस्थिति संख्यात आवलीप्रमाण होती है । उनमें एक-एक स्थितिपर सर्व संग्रहकृष्टियाँ और उनकी अवयवकृष्टियाँ पाई जाती हैं । यहाँ इतना विशेष और जानना चाहिए कि वेद्यमान संग्रहकृष्टि और उसकी अवयवकृष्टियाँ प्रथमस्थिति-सम्बन्धी सर्व स्थितियोंमें भी संभव हैं । इसीप्रकार प्रत्येक संग्रहकृष्टि और उनकी अवयवकृष्टियाँ अनन्त अविभागप्रतिच्छेदवाले सर्व अनुभागोंमें पाई जाती हैं, इसलिए जघन्य भी कृष्टि अविभाग प्रतिच्छेदोंके गणनाकी अपेक्षा अनन्त संख्यावाले अनुभागसे समन्वित होती है । इसी प्रकार शेष भी कृष्टियाँ अनन्त अविभागप्रतिच्छेद शक्ति-समन्वित अनुभाग-वाली जानना चाहिए ।

चूर्णिसू०—अब उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा की जाती है—क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टि-को वेदन करनेवाले जीवके उस संग्रहकृष्टिकी एक-एक अवयवकृष्टि द्वितीयस्थिति-सम्बन्धी सर्व अवयवस्थितियोंमें और प्रथमस्थिति-सम्बन्धी केवल एक उदयस्थितिको छोड़कर शेष सर्व स्थितियोंमें पाई जाती हैं ॥७४०-७४१॥

विशेषार्थ—क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिको वेदन करनेवाले जीवके उस अवस्थामें क्रोध संज्वलनकी प्रथमस्थिति और द्वितीय-स्थितिसंज्ञावाली दो स्थितियाँ होती हैं । उनमें द्वितीय स्थिति-सम्बन्धी एक-एक समयरूप जितनी अवयवस्थितियाँ हैं, उन सबमें वेदनकी जानेवाली क्रोध-प्रथम संग्रहकृष्टिकी जितनी अवयव-कृष्टियाँ हैं, वे सब पाई जाती हैं । किन्तु प्रथमस्थिति-सम्बन्धी जितनी अवान्तर-स्थितियाँ हैं, उनमें केवल एक उदयस्थितिको छोड़कर शेष सर्व अवान्तर-स्थितियोंमें क्रोधकपायसम्बन्धी प्रथम संग्रहकृष्टिकी सर्व अवयवकृष्टियाँ पाई जाती

७४२. उदयट्टिदीए पुण वेदिज्जमाणियाए संगहकिट्ठीए जाओ किट्ठीओ तासिमसंखेज्जा भागा । ७४३. सेसाणमवेदिज्जमाणिगाणं संगहकिट्ठीणमेक्केका किट्ठी सव्वासु विदियट्टिदीसु पढमट्टिदीसु णत्थि । ७४४. एक्केका किट्ठी अणुभागेसु अणंतेसु । ७४५. जेसु पुण एक्का ण तेसु विदिया ।

७४६. विदियाए भासगाहाए समुक्कित्तणा ।

(११५) सव्वाओ किट्ठीओ विदियट्टिदीए दु हंति सन्विस्से ।

जं किट्ठिं वेदयदे तिस्से अंसो च पढमाए ॥१६८॥

७४७. एदिस्से विहासा बुत्ता चेव पढमभासगाहाए ।

है । सूत्रमे जो 'एक-एक कृष्टि' ऐसा कहा है उसका अभिप्राय यह है कि क्रोध संञ्चलनकी जघन्य कृष्टि इन विवक्षित स्थितियोमे होती है । इसी प्रकार द्वितीय कृष्टि, तृतीय कृष्टिको आदि देकर अन्तिम कृष्टि तक प्रथम संग्रहकृष्टिकी सर्व अवयवकृष्टियाँ उन स्थितिविशेषोंमें होती हैं, जिनकी कि संख्या असंख्यात है ।

अब ऊपर 'उदयस्थितिको छोड़कर' ऐसा जो कहा है, उसका चूर्णिकार स्वयं ही स्पष्टीकरण करते हैं—

चूर्णिसू०—किन्तु उदयस्थितिमे वेद्यमान संग्रहकृष्टिकी जितनी अवयव-कृष्टियाँ हैं, उनका असंख्यात बहुभाग पाया जाता है । (क्योंकि, विवक्षित संग्रहकृष्टिके अधस्तन-उपरिम असंख्यात एक भागप्रमाण अवयवकृष्टियोंको छोड़कर मध्यवर्ती असंख्यात बहुभाग-प्रमाण कृष्टियोंके रूपसे ही उदयानुभाग परिणमित होता है ।) शेष अवेद्यमान ग्यारहों संग्रहकृष्टियोंकी एक-एक अवयवकृष्टि सर्व द्वितीयस्थितिसम्बन्धी अवान्तर-स्थितियोमे पाई जाती हैं, प्रथम स्थितिसम्बन्धी अवान्तर स्थितियोमे नहीं पाई जाती । (इस प्रकार भाष्य-गाथाके पूर्वार्धकी विभाषा करके अब उत्तरार्धकी विभाषा करते हैं—) एक-एक संग्रहकृष्टि अथवा उनकी अवयवकृष्टि (नियमसे) अनन्त अनुभागोमे रहती है । (क्योंकि, सर्व जघन्य भी कृष्टिमे सर्व जीवोसे अनन्तगुणित अविभागप्रतिच्छेद पाये जाते हैं ।) जिन अनन्त अनुभागोमे एक विवक्षित कृष्टि वर्तमान है, उनमे दूसरी अन्य कृष्टि नहीं रहती है । (किन्तु वह उनसे भिन्न स्वभाववाले अनुभागोमे ही रहती है ।) ॥७४२-७४५॥

चूर्णिसू०—अब दूसरी भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना की जाती है ॥७४६॥

सभी संग्रहकृष्टियाँ और उनकी अवयवकृष्टियाँ समस्त द्वितीयस्थितिमें होती हैं । किन्तु वह जिस कृष्टिका वेदन करता है, उसका अंश प्रथमस्थितिमें होता है । (क्योंकि, अवेद्यमान कृष्टियोंका प्रथमस्थितिमें होना संभव नहीं है ।) ॥१६८॥

चूर्णिसू०—इस भाष्यगाथाकी विभाषा प्रथम भाष्यगाथाकी विभाषा करते हुए कही जा चुकी है । अर्थात् वेद्यमान संग्रहकृष्टिका अंश उदय-वर्ज्य सर्व स्थितियोमे अविशेषरूपसे पाया जा जाता है । किन्तु उदयस्थितिमे वेद्यमान कृष्टिके असंख्यात बहुभाग ही पाये जाते हैं ॥७४७॥

७४८. एतो तदियाए मूलगाहाए समुक्चित्तणा ।

(११६) किट्टी च पदेसग्गेणणुभागग्गेण का च कालेण ।

अधिगा समा च हीणा गुणेण किं वा विसेसेण ॥१६९॥

७४९. एदिस्से तिण्णि अत्था । ७५०. किट्टी च पदेसग्गेणेत्ति पढमो अत्थो । एदम्मि पंच भासगाहाओ । ७५१. अणुभागग्गेणेत्ति विदियो अत्थो । एत्थ एका भासगाहा । ७५२. का च कालेणेत्ति तदिओ अत्थो । एत्थ छब्भासगाहाओ । ७५३. तासिं समुक्चित्तणं विहासणं च । ७५४. पढमे अत्थे भासगाहाणं समुक्चित्तणा ।

(११७) विदियादो पुण पढभा संखेज्जगुणा भवे पदेसग्गे ।

विदियादो पुण तदिया कमेण सेसा विसेसहिया ॥१७०॥

७५५. विहासा । ७५६. तं जहा । ७५७. कोहस्स विदियाए संगहकिट्टीए पदेसग्गं थोवं । ७५८. पढमाए संगहकिट्टीए पदेसग्गं संखेज्जगुणं तेरसगुणमेत्तं ।

चूर्णिसू०—अब इससे आगे तीसरी मूलगाथाकी समुत्कीर्तना की जाती है ॥७४८॥

कौन कृष्टि किस कृष्टिसे प्रदेशाग्रकी अपेक्षा, अनुभागाग्रकी अपेक्षा और कालकी अपेक्षा अधिक है, हीन है, अथवा समान है ? इस प्रकार गुणोंकी अपेक्षा एक कृष्टिसे दूसरी कृष्टिमें क्या विशेषता है ? ॥१६९॥

चूर्णिसू०—इस मूलगाथाके तीन अर्थ हैं । 'कौन कृष्टि किस कृष्टिसे प्रदेशाग्रकी अपेक्षा समान है, हीन है या अधिक है, यह प्रथम अर्थ है । इस प्रथम अर्थमें पाँच भाष्यगाथाएँ निबद्ध हैं । 'कौन कृष्टि किस कृष्टिसे अनुभागाग्रकी अपेक्षा समान है, हीन है या अधिक है,' यह द्वितीय अर्थ है । इस द्वितीय अर्थमें एक भाष्यगाथा निबद्ध है । 'कौन कृष्टि किस कृष्टिसे कालकी अपेक्षा समान है, हीन है या अधिक है' यह तृतीय अर्थ है । इस तृतीय अर्थमें छह भाष्यगाथाएँ निबद्ध हैं । 'गुणेण किं वा विसेसेण' यह पद प्रदेशादि तीनों अर्थोंके विशेषणरूपसे निर्दिष्ट किया गया है ॥७४९-७५२॥

चूर्णिसू०—अब उन भाष्यगाथाओकी समुत्कीर्तना और विभाषा एक साथ की जाती है । उनमेंसे पहले प्रथम अर्थमें निबद्ध भाष्यगाथाओकी समुत्कीर्तना करते हैं ॥७५३-७५४॥

क्रोधकी द्वितीय संग्रहकृष्टिसे उसकी ही प्रथम संग्रहकृष्टि प्रदेशाग्रकी अपेक्षा संख्यातगुणी होती है । किन्तु द्वितीय संग्रहकृष्टिसे तृतीय संग्रहकृष्टि विशेष अधिक होती है । इस प्रकार यथाक्रमसे शेष अर्थात् मान, माया और लोभसम्बन्धी तीनों तीनों संग्रहकृष्टियाँ विशेष अधिक होती हैं ॥१७०॥

चूर्णिसू०—अब उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा करते हैं । वह इस प्रकार है—क्रोधकी द्वितीय संग्रहकृष्टिमें प्रदेशाग्र अल्प है । इससे प्रथम संग्रहकृष्टिमें प्रदेशाग्र संख्यातगुणित हैं, जिनका कि प्रमाण तेरहगुणा है ॥७५५-७५८॥

७५९. माणस्स पढमाए संगहक्किट्ठीए पदेसग्गं थोवं । ७६०. विदियाए संगहक्किट्ठीए पदेसग्गं विसेसाहियं । ७६१. तदियाए संगहक्किट्ठीए पदेसग्गं विसेसाहियं । ७६२. विसेसो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागपडिभागो । ७६३. कोहस्स विदियाए संगहक्किट्ठीए पदेसग्गं विसेसाहियं । ७६४. तदियाए संगहक्किट्ठीए पदेसग्गं विसेसाहियं । ७६५. मायाए पढमसंगहक्किट्ठीए पदेसग्गं विसेसाहियं । ७६६. विदियाए संगहक्किट्ठीए पदेसग्गं विसेसाहियं । ७६७. तदियाए संगहक्किट्ठीए पदेसग्गं विसेसाहियं । ७६८.

विशेषार्थ—क्रोधकी द्वितीय संग्रहकृष्टिसे प्रथम संग्रहकृष्टिमे प्रदेशाग्र तेरहगुणा कैसे संभव है, इसका स्पष्टीकरण यह है कि मोहनीयकर्मका सर्वप्रदेशरूप द्रव्य अंकसंघट्टिकी अपेक्षा ४९ कल्पित कीजिए । इसके दो भागोमेसे असंख्यातवें भागसे अधिक एक भाग (२५) तो कपायरूप द्रव्य है और असंख्यातवें भागसे हीन शेष दूसरा भाग (२४) नोकपायरूप द्रव्य है । अब यहाँपर कपायरूप द्रव्य क्रोधादि चार कपायोकी वारह संग्रहकृष्टियोमे विभाग करनेपर क्रोध प्रथमसंग्रहकृष्टिका द्रव्य २ अंकप्रमाण रहता है जो कि मोहनीयकर्मके सकल (४९) द्रव्यकी अपेक्षा कुछ अधिक चौबीसवाँ भागप्रमाण है । प्रकृत कृष्टिकरणकालमे नोकपायोका सर्व द्रव्य भी संज्वलनक्रोधमे संक्रमित हो जाता है जो कि सर्व ही द्रव्य कृष्टि करनेवालेके क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिस्वरूपसे ही परिणत होकर अवस्थित रहता है । इसका कारण यह है कि वेदन की जानेवाली प्रथम संग्रहकृष्टिरूपसे ही उसके परिणमनका नियम है । इस प्रकार क्रोध की प्रथम संग्रहकृष्टिके प्रदेशाग्रका स्वभाग (२) इस नोकपायद्रव्य (२४) के साथ मिलकर $(२+२४=२६)$ क्रोधकी द्वितीय संग्रहकृष्टिके दो अंकप्रमाण द्रव्यकी अपेक्षा तेरहगुणा $(२ \times १३ = २६)$ सिद्ध हो जाता है । अतएव चूर्णिकारने उसे तेरहगुणा बतलाया है ।

इस प्रकार उपर्युक्त सूत्रसे सूचित स्वस्थान-अल्पबहुत्व इस प्रकार जानना चाहिए—क्रोधकी द्वितीय संग्रहकृष्टिमे प्रदेशाग्र सबसे कम है । तृतीय संग्रहकृष्टिमे विशेष अधिक हैं । क्रोधकी तृतीय संग्रहकृष्टिसे ऊपर उसकी ही प्रथम संग्रहकृष्टिमे प्रदेशाग्र संख्यातगुणित हैं । मानका स्वस्थान-अल्पबहुत्व इस प्रकार है—मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिमे प्रदेशाग्र सबसे कम हैं । द्वितीय संग्रहकृष्टिमे विशेष अधिक है । तृतीय संग्रहकृष्टिमे विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार माया और लोभसम्बन्धी स्वस्थान-अल्पबहुत्व जानना चाहिए ।

अब परस्थान-अल्पबहुत्व कहते हैं—

चूर्णिसू०—मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिमे प्रदेशाग्र सबसे कम हैं । द्वितीय संग्रहकृष्टिमे प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । तृतीय संग्रहकृष्टिमे प्रदेशाग्र विशेष अधिक हैं । यहाँ सर्वत्र विशेषका प्रमाण पल्योपमके असंख्यातवे भागका प्रतिभागी है । मानकी तृतीय संग्रहकृष्टिसे क्रोधकी द्वितीय संग्रहकृष्टिमे प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । इससे इसीकी तृतीय संग्रहकृष्टिमे प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । क्रोधकी तृतीय संग्रहकृष्टिसे मायाकी प्रथम संग्रहकृष्टिमे प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । द्वितीय संग्रहकृष्टिमे प्रदेशाग्र विशेष अधिक हैं । तृतीय संग्रहकृष्टि-

लोभस्स पढमाए संगहकिड्डीए पदेसग्गं विसेसाहियं । ७६९. विदियाए संगहकिड्डीए पदेसग्गं विसेसाहियं । ७७० तदियाए संगहकिड्डीए पदेसग्गं विसेसाहियं । ७७१. कोहस्स पढमाए संगहकिड्डीए पदेसग्गं संखेज्जगुणं ।

७७२. विदियाए भासगाहाए समुक्कित्तणा । ७७३. तं जहा ।

(११८) विदियादो पुण पढमा संखेज्जगुणा दु वग्गणग्गेण ।

विदियादो पुण तदिया कमेण सेसा विसेसहिया ॥१७१॥

७७४. विहासा । ७७५. जहा पदेसग्गेण विहासिदं तथा वग्गणग्गेण विहासिद्व्वं । ७७६. एत्तो तदियाए भासगाहाए समुक्कित्तणा । ७७७. तं जहा ।

में प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । मायाकी तृतीय संग्रहकृष्टिसे लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । द्वितीय संग्रहकृष्टिमें प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । तृतीय संग्रहकृष्टिमें प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । लोभकी तृतीय संग्रहकृष्टिसे क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें प्रदेशाग्र संख्यातगुणित हैं ॥७५९-७७१॥

विशेषार्थ—यहाँ सर्वत्र स्वस्थानमें विशेष अधिकका प्रमाण पल्योपमके असंख्यातवे भागका प्रतिभागी और परस्थानमें आवलीके असंख्यातवे भागका प्रतिभागी जानना चाहिए । क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें प्रदेशाग्र संख्यातगुणित बतलाया है, सो वहाँपर संख्यातगुणितका अभिप्राय तेरहगुणा लेना चाहिए, जैसा कि ऊपर बतला आये है ।

चूर्णिसू०—अब दूसरी भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना की जाती है । वह इस प्रकार है ॥७७२-७७३॥

क्रोधकी द्वितीय संग्रहकृष्टिसे प्रथम संग्रहकृष्टि वर्गणाओंके समूहकी अपेक्षा संख्यातगुणी है । किन्तु क्रोधकी द्वितीय संग्रहकृष्टिसे तृतीय संग्रहकृष्टि विशेष अधिक है । इसी क्रमसे शेष अर्थात् मान, माया और लोभकी संग्रहकृष्टियाँ विशेष-विशेष अधिक जानना चाहिए ॥१७१॥

चूर्णिसू०—अब उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा कहते हैं—जिस प्रकार प्रदेशाग्रकी अपेक्षा कृष्टियोंके अल्पवहुत्वकी प्रथम भाष्यगाथाके द्वारा विभाषा की गई है, उसी प्रकार वर्गणाग्रकी अपेक्षासे इस भाष्यगाथाकी विभाषा करना चाहिए ॥७७४-७७५॥

विशेषार्थ—इसका कारण यह है कि दोनों अपेक्षाओंसे अल्पवहुत्वके निरूपण-क्रममें कोई भेद नहीं है । दूसरी बात यह है कि प्रदेशोंकी हीनाधिकताके अनुसार ही वर्गणाओंमें भी हीनाधिकता होती है । यहाँपर वर्गणा पदसे अनन्त परमाणुओंके समुदायात्मक एक अन्तर-कृष्टिका ग्रहण करना चाहिए । वर्गणाओंके समुदायको वर्गणाग्र कहते हैं ।

चूर्णिसू०—अब इससे आगे तीसरी भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना करते हैं । वह इस प्रकार है ॥७७६-७७७॥

(११९) जा हीणा अनुभागेणहिया सा वर्गणा पदेसग्गे ।

भागेणऽणंतिमेण दु अधिगा हीणा च वोद्धव्वा ॥१७२॥

७७८. विहासा । ७७९ तं जहा । ७८०. जहणियाए वर्गणाए पदेसग्गं
बहुअं । ७८१. विदियाए वर्गणाए पदेसग्गं विसेसहीणमणंतभागेण । ७८२. एवमणं-
तराणंतरेण विसेसहीणं सव्वत्थ ।

७८३. एत्तो चउत्थी भासगाहा ।

(१२०) क्रोधादिवर्गणादो सुद्धं क्रोधस्स उत्तरपदं तु ।

सैसो अणंतभागो णियमा तिस्से पदेसग्गे ॥१७३॥

जो वर्गणा अनुभागकी अपेक्षा हीन है, वह प्रदेशाग्रकी अपेक्षा अधिक है ।
ये वर्गणाए अनन्तवे भागसे अधिक या हीन जानना चाहिए ॥१७२॥

विशेषार्थ—यह तीसरी भाष्यगाथा वारहो ही संग्रहकृष्टियोंकी जघन्य कृष्टिसे लेकर
उत्कृष्ट कृष्टि तक यथाक्रमसे अवस्थित अन्तर-कृष्टियोंके प्रदेशाग्रकी हीनाधिकताको अनन्त-
रोपनिधाके द्वारा बतलानेके लिए अवतीर्ण हुई है । इसका अर्थ यह है कि जो वर्गणा अनु-
भागकी अपेक्षा अधिक अनुभाग-युक्त होती है उसमें प्रदेश कम पाये जाते हैं और जो प्रदेशो-
की अपेक्षा अधिक प्रदेश-समन्वित होती है उसमें अनुभागशक्ति हीन पाई जाती है । यहाँ
जघन्यकृष्टिगत सद्ग-सदनतावाले सर्व परमाणुओके समूहकी 'एक वर्गणा' यह संज्ञा दी गई
है । इस प्रकार जघन्यसे लेकर उत्कृष्ट कृष्टि तक क्रमसे अवस्थित कृष्टियोंके सर्व-अधस्तन
वर्गणा अनुभागकी अपेक्षा हीन है और उपरिम-उपरिम वर्गणाए क्रमशः अनन्तशुणित वृद्धि-
रूपसे अधिक अनुभागसे युक्त हैं । जिस प्रकार उपरिम-उपरिम वर्गणाए अनुभागकी अपेक्षा
अधिक हैं । उसी प्रकार वे प्रदेशोकी अपेक्षा ऊपर-ऊपर हीन हैं, क्योंकि वर्गणाओंका ऐसा
ही स्वभाव है कि जिनमें अनुभाग अधिक होगा, उनमें प्रदेशाग्र कम होगा और जिनमें
प्रदेश-समुदाय अधिक होगा, उनमें अनुभाग कम होगा । इस प्रकार यह गाथाके पूर्वार्धका
अर्थ हुआ । गाथाके उत्तरार्ध-द्वारा यह सूचित किया गया है कि यह उपर्युक्त हीनाधिकता
अनन्तवे भागप्रमाण जानना चाहिए । अर्थात् एक अन्तर-कृष्टिसे दूसरी अन्तर-कृष्टि अनु-
भाग या प्रदेशाग्रकी अपेक्षा एक वर्गणासे हीन या अधिक होती है ।

चूर्णिसू०—अब उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा की जाती है । वह इस प्रकार है—
जघन्य वर्गणामे प्रदेशाग्र बहुत हैं । द्वितीय वर्गणामे प्रदेशाग्र विशेष हीन अर्थात् अनन्तवे
भागसे हीन होते हैं । इस प्रकार अनन्तर-अनन्तर क्रमसे सर्वत्र विशेष हीन प्रदेशाग्र जानना
चाहिए ॥७७८-७८१॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे चौथी भाष्यगाथा अवतरित होती है ॥७८३॥

क्रोधकपायका उत्तरपद अर्थात् चरम कृष्टिका प्रदेशाग्र क्रोधकपायकी आदि
अर्थात् जघन्य वर्गणामेंसे घटाना चाहिए । इस प्रकार घटानेपर जो शेष अनन्तवाँ
भाग बचता है, वह नियमसे क्रोधकी जघन्य वर्गणाके प्रदेशाग्रमें अधिक है ॥१७३॥

७८४. विहासा । ७८५. एदीए गाहाए परंपरोवणिधाए सेठीए भणिदं होदि ।
७८६. कोहसस जहणियादो वग्गणादो उक्कस्सियाए वग्गणाए पदेसग्गं विसेसहीण-
मणंतभागेण ।

७८७. एत्तो पंचमीए भासगाहाए सघुक्कित्तणा । ७८८. तं जहा ।

(१२१) एसो कमो च कोधे माणे णियमा च होदि मायाए ।

लोभमिह च किट्टीए पत्तेगं होदि वोद्धव्वो ॥१७४॥

७८९. विहासा । ७९०. जहा कोहे चउत्थीए गाहाए विहासा, तहा माण-
माया-लोभाणं पि णेदव्वा । ७९१. माणादिवग्गणादो सुद्धं माणस्स उत्तरपदं तु ।
सेसो अणंतभागो णियमा तिस्से पदेसग्गे ॥ ७९२ एवं चेव मायादिवग्गणादो० ।
७९३. लोभादिवग्गणादो० ।

७९४. मूलगाहाए विदियपदमणुभागग्गेणेत्ति, एत्थ एक्का भासगाहा ।
७९५. तं जहा ।

चूर्णिसू०—अब इस गाथाकी विभाषा की जाती है—इस गाथाके द्वारा परम्परोप-
निवारूप श्रेणीकी अपेक्षा प्रदेशाग्र कहे गए हैं । क्रोधकी जघन्य वर्गणासे उसकी उत्कृष्ट
वर्गणामे प्रदेशाग्र विशेष हीन अर्थात् अनन्तर्वे भागसे हीन है ॥७८४-७८६॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे पाँचवीं भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना की जाती है ।
वह इस प्रकार है ॥७८७-७८८॥

क्रोधसंज्वलनकी कृष्टिके विषयमे जो यह क्रम कहा गया है, वही क्रम
नियमसे मानसंज्वलन, मायासंज्वलन और लोभसंज्वलनकी कृष्टिमें भी प्रत्येकका है,
ऐसा जानना चाहिए ॥१७४॥

चूर्णिसू०—अब इस भाष्यगाथाकी विभाषा की जाती है—जिस प्रकार क्रोधसंज्वलन-
मे चौथी भाष्यगाथाकी विभाषा की है, उसी प्रकार मान, माया और लोभसंज्वलनमे भी
करना चाहिए । वह इस प्रकार जानना चाहिए—मानकषायका उत्तरपद मानकषायकी आदि-
वर्गणामेंसे घटाना चाहिए । जो शेष अनन्तर्वो भाग बचता है वह नियमसे मानकी जघन्य
वर्गणाके प्रदेशाग्रमे अधिक है । इसी प्रकार मायासंज्वलन और लोभसंज्वलनका उत्तरपद
उनकी आदिवर्गणामेंसे घटाना चाहिए । जो शेष अनन्तर्वो भाग अवशिष्ट रहे, वह नियमसे
उनकी जघन्य वर्गणाके प्रदेशाग्रमे अधिक है ॥७८९-७९३॥

इस प्रकार पाँच भाष्यगाथाओके द्वारा मूलगाथाके 'किट्टी च पदेसग्गेण' इस
प्रथम पदका अर्थ समाप्त हुआ ।

चूर्णिसू०—मूलगाथाके 'अणुभागग्गेण' इस द्वितीय पदके अर्थमे एक भाष्यगाथा
है, वह इस प्रकार है ॥७९४-७९५॥

(१२२) पढमा च अणंतगुणा विदियादो णियमसा ढु अणुभागो ।
तदियादो पुण विदिया क्रमेण सेसा गुणेणऽहिया ॥१७५॥

७९६. विहासा । ७९७. संगहकिट्टि पडुच्च कोहस्स तदियाए संगहकिट्टीए अणुभागो थोवो । ७९८ विदियाए संगहकिट्टीए अणुभागो अणंतगुणो । ७९९. पढमाए संगहकिट्टीए अणुभागो अणंतगुणो । ८००. एवं माण-माया-लोभाणं पि ।

८०१. मूलगाहाए तदियपदं का च कालेणेत्ति एत्थ छ भासगाहाओ ।
८०२. तासिं समुक्कित्तणा च विहासा च ।

(१२३) पढमसमयकिट्टीणं कालो वस्सं व दो व चत्तारि ।

अट्ट च वस्साणि ट्टिदी विदियट्टिदीए समा होदि ॥१७६॥

८०३. विहासा । ८०४. जदि कोधेण उवड्ढिदो किट्टीओ वेदेदि, तदो तस्स पढमसमए वेदगस्स मोहणीयस्स ट्टिदिसंतकम्ममट्ट वस्साणि । ८०५. माणेण उवड्ढिदस्स पढमसमयकिट्टीवेदगस्स ट्टिदिसंतकम्मं चत्तारि वस्साणि । ८०६. मायाए उवड्ढिदस्स

क्रोधसंज्वलनकी प्रथम संग्रहकृष्टि द्वितीय संग्रहकृष्टिसे अनुभागकी अपेक्षा नियमसे अनन्तगुणी है । पुनः तृतीय संग्रहकृष्टिसे द्वितीय संग्रहकृष्टि भी अनन्तगुणी है । इसी क्रमसे मान, माया और लोभ संज्वलनकी तीनों तीनों संग्रहकृष्टियों तृतीय-से द्वितीय और द्वितीयसे प्रथम उत्तरोत्तर अनन्तगुणी जानना चाहिए ॥१७५॥

चूर्णिसू०—अव उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा की जाती है—संग्रहकृष्टिकी अपेक्षा क्रोधसंज्वलनकी तृतीय संग्रहकृष्टिमें अनुभाग अल्प है । द्वितीयसंग्रहकृष्टिमें अनुभाग अनन्तगुणा है । प्रथम संग्रहकृष्टिमें अनुभाग अनन्तगुणा है । इसी प्रकार मान, माया और लोभसंज्वलनकी तीनों संग्रहकृष्टियोंमें अनुभागका क्रम जानना चाहिए ॥७९६-८००॥

चूर्णिसू०—मूलगाथाका तृतीयपद 'का च कालेण' है, इसके अर्थमें छह भाष्य-गाथाएँ हैं । उनकी समुत्कीर्तना और विभाषा की जाती है ॥८०१-८०२॥

प्रथम समयमें कृष्टियोंका स्थितिकाल एक वर्ष, दो वर्ष, चार वर्ष और आठ वर्ष है । द्वितीयस्थिति और अन्तर स्थितियोंके साथ प्रथमस्थितिका यह काल कहा गया है ॥१७६॥

चूर्णिसू०—अव इसकी विभाषा करते हैं—यदि क्रोधसंज्वलनके उदयके साथ उपस्थित हुआ कृष्टिओको वेदन करता है, तो उसके प्रथम समयमें कृष्टिवेदकके मोहनीयकर्मका स्थितिसत्त्व आठ वर्ष है । मानसंज्वलनके उदयके साथ उपस्थित प्रथम समय कृष्टिवेदकके मोहनीयकर्मका स्थितिसत्त्व चार वर्ष है । मायासंज्वलनके उदयके साथ उपस्थित प्रथम समय

पढमसमयकिट्टीवेदगस्स वे वस्साणि मोहणीयस्स ट्टिदिसंतकम्मं । ८०७. लोभेण उवट्टि-
दस्स पढमसमयकिट्टीवेदगस्स मोहणीयस्स ट्टिदिसंतकम्ममेकं वस्सं ।

८०८. एत्तो विदियाए भासगाहाए समुक्कित्तणा ।

(१२४) जं किट्टिं वेदयदे जवमज्झं सांतरं दुसु ट्टिदीसु ।

पढमा जं गुणसेठी उत्तरसेठी य विदिया हु ॥१७७॥

८०९. विहासा । ८१०. जहा । ८११. जं किट्टिं वेदयदे तिस्से उदयट्टिदीए
पदेसग्गं थोवं । ८१२ विदियाए ट्टिदीए पदेसग्गमसंखेज्जगुणं । ८१३. एवमसंखेज्ज-
गुणं जाव पढमट्टिदीए चरिमट्टिदि ति । ८१४. तदो विदियट्टिदीए जा आदिट्टिदी
तिस्से असंखेज्जगुणं । ८१५. तदो सव्वत्थ विसेसहीणं । ८१६. जवमज्झं पढमट्टिदीए
चरिमट्टिदीए च, विदियट्टिदीए आदिट्टिदीए च । ८१७. एदं तं जवमज्झं सांतरं
दुसु ट्टिदीसु ।

८१८. एत्तो तदिथाए भासगाहाए समुक्कित्तणा ।

कृष्टिवेदकके मोहनीयकर्मका स्थितिसत्त्व दो वर्ष है और लोभसंज्वलनके उदयके साथ
उपस्थित प्रथम समय कृष्टिवेदकके मोहनीयकर्मका स्थितिसत्त्व एक वर्ष है ॥८०३-८०७॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे द्वितीय भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना करते हैं ॥८०८॥

जिस कृष्टिको वेदन करता है, उसमें प्रदेशाग्रका अवस्थान यवमध्यरूपसे
होता है और वह यवमध्य प्रथम तथा द्वितीय इन दोनों स्थितियोंमें वर्तमान हो
करके भी अन्तर-स्थितियोंसे अन्तरित होनेके कारण सान्तर है । जो प्रथमस्थिति है,
वह गुणश्रेणीरूप है अर्थात् उत्तरोत्तर समयोंमें प्रदेशाग्र असंख्यातगुणित क्रमसे उसमें
अवस्थित हैं और जो द्वितीयस्थिति है, वह उत्तर श्रेणीरूप है अर्थात् आदि समयमें
स्थूलरूप होकर भी वह उत्तरोत्तर समयोंमें विशेष हीनरूपसे अवस्थित है ॥१७७॥

चूर्णिसू०—अब उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा की जाती है—जिस कृष्टिको वेदन
करता है, उसकी उदयस्थितिमें प्रदेशाग्र अल्प है । द्वितीय स्थितिमें प्रदेशाग्र असंख्यातगुणित
है । इस प्रकार असंख्यातगुणित क्रमसे प्रदेशाग्र प्रथम स्थितिके चरम समय तक बढ़ते हुए
पाये जाते हैं । तदनन्तर द्वितीय स्थितिकी जो आदि स्थिति है, उसमें प्रदेशाग्र असंख्यात-
गुणित है । तत्पश्चात् सर्वत्र अर्थात् उत्तरोत्तर सर्व स्थितियोंमें विशेष हीन क्रमसे प्रदेशाग्र
अवस्थित हैं । यह प्रदेशाग्रके विन्यासरूप यवमध्य प्रथम स्थितिके चरम स्थितिमें द्वितीय
स्थितिके आदि स्थितिमें पाया जाता है । वह यह यवमध्य दोनो स्थितियोंके अन्तिम और
आदिम समयोंमें वर्तमान है, अतएव सान्तर है ॥८०९-८१८॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे तृतीय भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना की जाती है ॥८१८॥

(१२५) विदियद्विदि आदिपदा सुद्धं पुण होदि उत्तरपदं तु ।
सेसो असंखेज्जदिमो भागो तिस्से पदेसग्गे ॥१७८॥

८१९. विहासा । ८२० विदियाए द्विदीए उक्कस्सियाए पदेसग्गं तिस्से चव
जहणियादो द्विदीदो सुद्धं सुद्धसेसं पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागपडिभागियं ।

८२१. एत्तो चउत्थीए भासगाहाए समुक्कित्तणा । ८२२. तं जहा ।

(१२६) उदयादि या द्विदीओ गिरंतरं तासु होइ गुणसेठी ।
उदयादि पदेसग्गं गुणेण गणणादियंतेण ॥१७९॥

८२३. विहासा । ८२४ उदयद्विदिपदेसग्गं थोवं । ८२५. विदियाए द्विदीसु
पदेसग्गमसंखेज्जगुणं । ८२६. एवं सव्विस्से पढमद्विदीए ।

द्वितीय स्थितिके आदिपद अर्थात् प्रथम निपेकके प्रदेशाग्रमेंसे उसके उत्तर पद
अर्थात् चरम निपेकके प्रदेशाग्रको घटाना चाहिए। इस प्रकार घटानेपर जो असंख्या-
तवाँ भाग शेष रहता है, वह उस प्रथम निपेकके प्रदेशाग्रमें अधिक है ॥१७८॥

चूर्णिसू०—अब इस भाष्यगाथाकी विभाषा की जाती है—द्वितीय स्थितिकी उत्कृष्ट
अर्थात् चरम स्थितिमें प्रदेशाग्र उस ही द्वितीय स्थितिकी जघन्य अर्थात् आदि स्थितिमेंसे
शोधित करना चाहिए। वह शुद्ध शेष पल्योपमके असंख्यातवे भागका प्रतिभागी है ॥८१९-८२०

विशेषार्थ—इस तीसरी भाष्यगाथामें द्वितीय स्थितिके उत्तरश्रेणी रूपसे अवस्थित
प्रदेशाग्रका परम्परोपनिधारूपसे वर्णन किया गया है। जिसका अभिप्राय यह है कि द्वितीय
स्थितिका आयाम यतः वर्षपृथक्त्वप्रमाण है, अतः उसके चरम निपेकके प्रदेशाग्रसे प्रथम
निपेकका प्रदेशपिंड संख्यातगुणा, असंख्यातगुणा या अन्य प्रकारका न होकर नियमसे असं-
ख्यातवाँ भाग अधिक होता है। यह असंख्यातवाँ भाग पल्योपमके असंख्यातवे भागके
बराबर जानना चाहिए।

चूर्णिसू०—अब इससे आगे चौथी भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना की जाती है। वह इस
प्रकार है ॥८२१-८२२॥

उदयकालसे आदि लेकर प्रथमस्थितिसम्बन्धी जितनी स्थितियाँ हैं, उनमें
निरन्तर गुणश्रेणी होती है। उदयकालसे लेकर उत्तरोत्तर समयवर्ती स्थितियोंमें प्रदे-
शाग्र गणनाके अन्त अर्थात् असंख्यातगुणितरूपसे अवस्थित हैं ॥१७९॥

चूर्णिसू०—अब उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा की जाती है—उदयस्थितिमें प्रदेशाग्र
अल्प है। द्वितीय स्थितिमें प्रदेशाग्र असंख्यातगुणित हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण प्रथमस्थितिमें
उत्तरोत्तर असंख्यातगुणित प्रदेशाग्र जानना चाहिए ॥८२३-८२६॥

विशेषार्थ—चौथी भाष्यगाथाके द्वारा पूर्वोक्त यवमध्यका स्पष्टीकरण करते हुए प्रथम-
स्थितिके प्रदेशाग्रका अवस्थान-क्रम सूचित किया गया है, जिसका अभिप्राय यह है कि

८२७. एत्तो पंचमीए भासगाहाए समुक्चित्तणा । ८२८. तं जहा ।

(१२७) उदयादिसु द्विदीसु य जं कम्मं णियमसा दु तं हरस्सं ।

पविसदि द्विदिक्खएण दु गुणेण गणणादियंतेण ॥१८०॥

८२९. विहासा । ८३०. तं जहा । ८३१. जं अस्सि समए उदिण्णं पदेसग्गं तं थोवं । ८३२. से काले द्विदिक्खएण उदयं पविसदि पदेसग्गं तमसंखेज्जगुणं । ८३३. एवं सव्वत्थ ।

८३४. एत्तो छ्ठीए भासगाहाए समुक्चित्तणा । ८३५. तं जहा ।

(१२८) वेदगकालो किट्ठीय पच्छिमाए दु णियमसा हरस्सो ।

संखेज्जदिभागेण दु सेसग्गाणं कमेणऽधिगो ॥१८१॥

८३६. विहासा । ८३७ पच्छिमकिट्ठिमंतोमुहुत्तं वेदयदि तिस्से वेदगकालो

प्रथम स्थितिके प्रथम समयमें उदय आनेवाले प्रदेशाग्र सबसे कम हैं और आगे-आगेके समयोंमें उदय आनेवाले प्रदेशाग्र असंख्यातगुणित हैं ।

चूर्णिसू०—अब इससे आगे पाँचवीं भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना की जाती है । वह इस प्रकार है ॥८२७-८२८॥

उदयको अदि लेकर यथाक्रमसे अवस्थित प्रथमस्थितिकी अवयवस्थितियोंमें जो कर्मरूप द्रव्य है, वह नियमसे आगे आगे ह्रस्व अर्थात् कम-कम है । उदयस्थितिसे ऊपर अनन्तर स्थितिमें जो प्रदेशाग्र स्थितिके क्षयसे प्रवेश करते हैं, वे असंख्यातगुणित रूपसे प्रवेश करते हैं ॥१८०॥

चूर्णिसू०—उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा की जाती है । वह इस प्रकार है—जो प्रदेशाग्र इस वर्तमान समयमें उदयको प्राप्त होता है, वह सबसे कम है । जो प्रदेशाग्र स्थितिके क्षयसे अनन्तर समयमें उदयको प्राप्त होगा, वह असंख्यातगुणा है । इसी प्रकार सर्वत्र अर्थात् कृष्टिवेदक-कालके सर्व समयोंमें उदयको प्राप्त होनेवाले प्रदेशाग्रका अल्पवहुत्व जानना चाहिए ॥८२९-८३३॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे छठी भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना की जाती है । वह इस प्रकार है ॥८३४-८३५॥

पश्चिम कृष्टि अर्थात् संज्वलन लोभकी सूक्ष्मसाम्परायिक नामवाली अन्तिम वारहवीं कृष्टिका वेदककाल नियमसे अल्प है, अर्थात् सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानका जितना काल है, वही वारहवीं कृष्टिके वेदनका काल है । पश्चादानुपूर्वीसे शेष ग्यारह कृष्टियोंका वेदनकाल क्रमशः संख्यातवें भागसे अधिक है ॥१८१॥

चूर्णिसू०—अब इस भाष्यगाथाकी विभाषा की जाती है—(यद्यपि) पश्चिम अर्थात् अन्तिम वारहवीं कृष्टिको अन्तर्मुहूर्त तक वेदन करता है, (तथापि) उसका वेदककाल सबसे

थोवो । ८३८. एकारसमीए किट्टीए वेदगकालो विसेसाहिओ । ८३९. दसमीए किट्टीए वेदगकालो विसेसाहिओ । ८४०. णवमीए किट्टीए वेदगकालो विसेसाहिओ । ८४१. अट्टमीए किट्टीए वेदगकालो विसेसाहिओ । ८४२. सत्तमीए किट्टीए वेदगकालो विसेसाहिओ । ८४३. छट्टीए किट्टीए वेदगकालो विसेसाहिओ । ८४४. पंचमीए किट्टीए वेदगकालो विसेसाहिओ । ८४५. चउत्थीए किट्टीए वेदगकालो विसेसाहिओ । ८४६. तदियाए किट्टीए वेदगकालो विसेसाहिओ । ८४७. विदियाए किट्टीए वेदगकालो विसेसाहिओ । ८४८. पढमाए किट्टीए वेदगकालो विसेसाहिओ । ८४९. विसेसो संखेज्जदिभागो ।

८५०. एत्तो चउत्थीए मूलगाहाए समुक्कित्तणा । ८५१. तं जहा ।

(१२९) कदिसु गदीसु भवेसु य ट्ठिदि-अणुभागेषु वा कसाएसु ।
कम्माणि पुव्ववद्धाणि कदीसु किट्टीसु च ट्ठिदीसु ॥१८२॥

कम हैं । ग्यारहवीं कृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है । दशवीं कृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है । नवमी कृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है । आठवीं कृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है । सातवीं कृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है । छठी कृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है । पाँचवीं कृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है । चौथी कृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है । तीसरी कृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है । दूसरी कृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है । प्रथम कृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है । यहाँ सर्वत्र विशेषका प्रमाण (स्वकृष्टि वेदककालके) संख्यातवे भाग है, अर्थात् संख्यात आवली है ॥८३६-८४९॥

विशेषार्थ—इन चूर्णिसूत्रोंके द्वारा भाष्यगाथोक्त वारह कृष्टियोंके वेदनकालका प्रमाण बताया गया है । गाथाके उत्तरार्धमें पठित 'तु' शब्दसे जयधवलाकारने अश्वकर्णकरणकाल, पण्णोकपायक्षपणकाल, स्त्रीवेदक्षपणकाल, नपुंसकवेदक्षपणकाल, अन्तरकरणकाल और अष्टकपायक्षपणकाल इनका भी अल्पवहुत्व बताया है । वह इस प्रकार है—क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिके वेदककालसे कृष्टिकरणका काल संख्यातगुणा है अर्थात् साधिक तिगुना है । कृष्टिकरणकालसे अश्वकरणकाल आदि शेष सब काल विशेष-विशेष अधिक है । केवल अन्तरकरणकालसे अष्टकपायक्षपणकाल संख्यातगुणा है ।

चूर्णिसूत्र—अब इससे आगे चौथी मूलगाथाकी समुत्कीर्तना की जाती है । वह इस प्रकार है ॥८५०-८५१॥

कितनी गतियोंमें, भवोंमें, स्थितियोंमें, अनुभागोंमें और कषार्योंमें पूर्ववद्ध कर्म कितनी कृष्टियोंमें और उनकी कितनी स्थितियोंमें पाये जाते हैं ? ॥१८२॥

विशेषार्थ—इस और इससे आगे कही जानेवाली दो और मूलगाथाओंके द्वारा कृष्टिवेदकके गति आदि मार्गणाओंसे पूर्ववद्ध कर्मोंका भजनीय-अभजनीयरूपसे अस्तित्व

८५२. एदिस्से तिण्णि भासगाहाओ । ८५३. तं जहा ।

(१३०) दोसु गदीसु अभजाणि दोसु भजाणि पुव्ववद्धाणि ।

एहंदिय कायेसु च पंचसु भजा ण च तसेसु ॥१८३॥

८५४. विहासा । ८५५. एदस्स खवगस्स दुगदिसमज्जिदं कम्मं णियमा अत्थि । तं जहा—तिरिक्खगदिसमज्जिदं च मणुसगदिसमज्जिदं च । ८५६. देवगदिसमज्जिदं च णिरयगदिसमज्जिदं च भजियव्वं । ८५७. पुहविकाइय-आउकाइय-तेउकाइय-वाउकाइय-वणप्फदिकाइएसु एत्तो एक्केकेण काएण समज्जिदं भजियव्वं । ८५८. तस-काइयं समज्जिदं णियमा अत्थि ।

अन्वेषण किया गया है । प्रस्तुत गाथामें गति, इन्द्रिय, काय और कपायमार्गणामे उत्कृष्ट अनुकृष्ट स्थिति-अनुभाग-संयुक्त संचित पूर्ववद्ध कर्मोंके संभव-असंभवताका निर्णय करनेके लिए प्रश्न उपस्थित किये गये हैं, जिनका कि उत्तर आगे कही जानेवाली तीन भाष्यगाथाओंके द्वारा दिया जायगा । गाथा-पठित 'गति' पदसे गतिमार्गणा ग्रहण की गई है । 'भव' पदसे इन्द्रिय और कायमार्गणा सूचित की गई है, क्योंकि भव एकेन्द्रियादि जाति और स्थावरादिकायरूप ही होता है । 'कपाय' पदसे कपायमार्गणाका ग्रहण किया गया है । इस प्रकार समग्र गाथाका यह अर्थ निकलता है कि गति आदि मार्गणाओमें संचित पूर्ववद्ध कर्म किन-किन कृष्टियोंमें और उनकी किन-किन स्थितियोंमें संभव है और किन-किनमें नहीं ? इसका स्पष्टीकरण आगे कही जानेवाली भाष्यगाथाओंमें किया गया है ।

चूर्णिसू०—उपर्युक्त मूलगाथाके अर्थका व्याख्यान करनेवाली तीन भाष्यगाथाएँ हैं । वे इस प्रकार हैं ॥८५२-८५३॥

पूर्ववद्ध कर्म दो गतियोंमें अभजनीय है और दो गतियोंमें भजनीय हैं । तथा एक एकेन्द्रियजाति और पाँच स्थावरकायोंमें भजनीय हैं, शेष चार जातियोंमें और त्रसकायमें भजनीय नहीं हैं ॥१८३॥

चूर्णिसू०—अब इस भाष्यगाथाकी विभाषा की जाती है—इस कृष्टिवेदक क्षपकके दो गतियोंमें समुपार्जित कर्म नियमसे होता है । वह इस प्रकार है—तिर्यग्गतिसमुपार्जित कर्म भी है और मनुष्यगति समुपार्जित कर्म भी है । देवगतिसमुपार्जित और नरकगतिसमुपार्जित कर्म भजितव्य है । पृथिवीकायिक, अप्कायिक, तैजस्कायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक इन पाँचोंमेंसे एक-एक कायके साथ समुपार्जित कर्म भजितव्य है । त्रसकायिक समुपार्जित कर्म नियमसे पाया जाता है ॥८५४-८५८॥

विशेषार्थ—कृष्टिवेदक क्षपकके पूर्व भवमें तिर्यग्गति और मनुष्यगतिमें उत्पन्न होकर बाँधे हुए कर्मोंका अस्तित्व नियमसे रहता है, अतएव उनके संचयको संभव या असंभव की

अपेक्षा गाथाकारने अभजितव्य कहा है । इसी बातको चूर्णिकारने 'नियम' पदसे द्योतित किया है । जिसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—जो जीव तिर्यग्गतिसे आकर और मनुष्योमे ही उत्पन्न होकर क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है, उसके नियमसे तिर्यग्गतिमे बाँधे हुए कर्मोंका संचय पाया जाता है । किन्तु जो तिर्यग्गतिसे निकलकर और शेष नरक-देवादि गतियोंमें सागरोपम-शतपृथक्त्वकाल तक परिभ्रमण कर क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है, उसके भी तिर्यग्गतिमे संचय किया हुआ कर्म नियमसे पाया जाता है । इसका कारण यह है कि तिर्यग्गतिमे उपार्जित कर्मस्थितिप्रमाण संचयका सागरोपमशतपृथक्त्वकालके भीतर सर्वथा निर्जीर्ण होना असंभव है । इस प्रकार जहाँ कहीं भी कर्मस्थिति-प्रमाणकाल तक रह कर आये हुए क्षपकके मनुष्यगति-उपार्जित पूर्वभव संचित कर्मका सद्भाव नियमसे पाया जाता है । इस कारण 'दो गतियोंमे पूर्ववद्ध कर्म अभजितव्य' कहे गये हैं । किन्तु कृष्टिवेदक क्षपकके देवगति-उपार्जित और नरकगति-उपार्जित पूर्ववद्ध कर्मका संचय भजितव्य कहा गया है । इसका कारण यह है कि देव या नरकगतिसे आकर तिर्यच या मनुष्योमे ही कर्मस्थितिप्रमाण काल तक रहकर तदनन्तर क्षपकश्रेणीपर चढ़नेवाले जीवके देवगति-उपार्जित और नरकगति-उपार्जित कर्म नियमसे नहीं होता है । तथा जो देव-नारकियोमे उत्पन्न होकर और वहाँ कितने ही काल तक रहकर तदनन्तर तिर्यचोमे उत्पन्न होकर वहाँ कर्मस्थिति-प्रमित या उससे अधिक काल तक रहकर और वहाँ नरक-देवगति-संचित कर्मपुंजको गलाकर तत्पश्चात् मनुष्योमे उत्पन्न होकर क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है, उसके भी नरक और देवगतिमे उपार्जित पूर्ववद्ध कर्मका एक भी परमाणु नहीं पाया जाता, क्योंकि, कर्मस्थितिकाल व्यतीत हो जानेके पश्चात् उससे पहले बाँधे हुए कर्मके संचयका रहना असंभव है । किन्तु जो नरक और देवगतिमें प्रवेश करके वहाँ कुछ काल तक रहकर और फिर वहाँसे निकलकर कर्मस्थितिप्रमित कालके भीतर ही उस पूर्वोपार्जित कर्मसंचयके नष्ट हुए बिना ही क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है, उसके नरकगति-संचित और देवगति-संचित कर्म नियमसे पाया जाता है, क्योंकि वह पूर्व-भव-संचित कर्मके गलाये बिना ही क्षपकश्रेणीपर चढ़ा है । इस प्रकार देव और नरकगति-संचित पूर्ववद्ध कर्मकी भजनीयता सिद्ध हो जाती है । जिसप्रकार गतिमार्गणाकी अपेक्षासे पूर्ववद्ध कर्म-संचयके अस्तित्व-नास्तित्वका विचार किया गया है, इसी प्रकार इन्द्रिय और कायमार्गणाका आश्रय लेकरके भी पूर्ववद्ध संचित कर्मकी भजनीयता-अभजनीयताका निर्णय कर लेना चाहिए । त्रसकायिकोमे इतनी बात विशेष जानना चाहिए कि संज्ञिपंचेन्द्रिय जीवोमे समुपार्जित पूर्ववद्ध कर्म भजनीय नहीं है, किन्तु द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंज्ञिपंचेन्द्रियोमे तथा लब्धपर्याप्तक-संज्ञिपंचेन्द्रियोमे पूर्ववद्ध कर्म भजनीय ही हैं, ऐसा जयधवलकाकारका कहना है । जहाँ जिन पूर्ववद्ध कर्मोंकी संभवता है, वहाँ उनके एक परमाणुको आदि लेकर अनन्त-कर्म-परमाणुओं तकका अस्तित्व संभव है, और जहाँ जिनकी संभवता नहीं है, वहाँ उनके एक भी परमाणुका अस्तित्व शेष नहीं समझना चाहिए ।

८५९. एत्तो एकेकाए गदीए काएहि च समज्जिदङ्गसस जहणुणकरसपदेस-
ग्गसस पमाणाणुगमो च अप्पावहुअं च कायव्वं ।

८६०. एत्तो विदियाए भासगाहाए समुक्कित्तणा ।

(१३१) एद्दियभवग्गहणेहि असंखेज्जेहि णियमसा वद्धं ।
एगादेगुत्तरियं संखेज्जेहि य तसभवेहि ॥१८४॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे एक-एक गति और एक-एक कायके साथ समुपार्जित पूर्ववद्ध कर्मके जघन्य और उत्कृष्ट प्रदेशाग्रका प्रमाणानुगम और अल्पवहुत्वानुगम करना चाहिए ॥८५९॥

विशेषार्थ—उक्त चूर्णिसूत्रसे सूचित प्रमाणानुगमका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—जिन गति और कायोमे समुपार्जित कर्म भजनीय है, उनमें समुपार्जित प्रदेशपिंडका जघन्य प्रमाण एक परमाणु है, और उत्कृष्ट प्रमाण अनन्त कर्म-परमाणु है । किन्तु जिन गति और कायो-मे संचित द्रव्य नियमसे पाया जाता है, उनमें जघन्य और उत्कृष्ट दोनोंकी ही अपेक्षा समु-पार्जित कर्मप्रदेशोका प्रमाण अनन्त होता है । अब अल्पवहुत्वका स्पष्टीकरण करते हैं—भजनीय पूर्ववद्ध संचित कर्मद्रव्यके जघन्य प्रदेशाग्र अल्प है । उत्कृष्ट प्रदेशाग्र अनन्तगुणित है । अभजनीय कर्मोंका जघन्य प्रदेशपिंड अल्प है । उत्कृष्ट प्रदेशपिंड असंख्यातगुणा है । किस कृष्टिवेदकके जघन्य और किसके उत्कृष्ट संचित द्रव्य पाया जाता है, इसका उत्तर यह है—जो जीव एकेन्द्रियोमे क्षपित-कर्मांशिक होकर कर्मस्थिति कालतक रहा । पुनः वहाँसे निकल-कर और शेष गतियोमे सागरोपम शतपृथक्त्व तक परिभ्रमण कर अन्तिम भवमे कर्म-क्षपण-के लिए उद्यत होता हुआ श्रेणी चढ़ा, ऐसे कृष्टिवेदक क्षपकके वे तिर्यग्गति-संचित जघन्य कर्मद्रव्य पाया जाता है । किन्तु जो तिर्यचोमे गुणित-कर्मांशिक होकर कर्मस्थिति कालतक रहा और वहाँसे निकलकर अन्य गतियोमे परिभ्रमण करके क्षपकश्रेणीपर चढ़ा, उसके तिर्यग्गति-संचित उत्कृष्ट कर्मद्रव्य पाया जाता है । मनुष्यगति-समुपार्जित जघन्य कर्म-संचय उस जीव-के पाया जाता है, जो कि अन्य गतिसे मनुष्योमे आकर वर्ष-पृथक्त्वके पश्चात् अतिशीघ्र क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है । किन्तु जो अन्य गतिसे आकर मनुष्यगतिमे पूर्वकोटीपृथक्त्वसे अधिक तीन पल्योपम-प्रमित भवस्थितिका प्रतिपालन कर समयाविरोधसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है, उसके मनुष्यगति-समुपार्जित उत्कृष्टसंचित कर्मद्रव्य पाया जाता है । इसी प्रकार स्थावर-कायसे आकर त्रसकायिकोमे वर्षपृथक्त्व रहकर क्षपकश्रेणीपर चढ़नेवाले जीवके त्रसकाय-संचित जघन्य कर्मद्रव्य पाया जाता है । किन्तु जो गुणितकर्मांशिक होकर त्रसकायस्थिति-प्रमित काल तक त्रसोमे परिभ्रमण कर क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है, उसके त्रसकाय-समुपार्जित उत्कृष्ट कर्मद्रव्य पाया जाता है ।

चूर्णिसू०—अब इससे आगे दूसरी भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना करते हैं ॥८६०॥

कृष्टिवेदक क्षपकके असंख्यात एकेन्द्रिय-भवग्रहणोंके द्वारा वद्ध कर्म नियमसे पाया जाता है । तथा एकको आदि लेकर दो, तीन आदि संख्यात भवोंके द्वारा संचित कर्म पाया जाता है ॥१८४॥

८६१. एदिस्से गाहाए विहासा चेव कायव्वा ।

८६२. एत्तो तदियाए भासगाहाए समुक्कित्तणा ।

(१३२) उक्कस्सय अणुभागे द्विदि उक्कस्साणि पुव्ववद्दाणि ।

अजियव्वाणि अभज्जाणि होंति णियमा कसाएसु ॥१८५॥

८६३. विहासा । ८६४. उक्कस्सद्विदिवद्दाणि उक्कस्सअणुभागवद्दाणि च भजिदव्वाणि । ८६५. क्रोह-माण-माया-लोभोवजुत्तेहिं वद्दाणि अभजियव्वाणि ।

८६६. एत्तो पंचमीए मूलगाहाए समुक्कित्तणा । ८६७. तं जहा ।

चूर्णिसू०—इस गाथाकी विभाषा ही करना चाहिए । (गाथाके सुगम होनेसे चूर्णिकारने पृथक् विभाषा नहीं की है) ॥८६१॥

विशेषार्थ—इस भाष्यगाथाके द्वारा इन्द्रिय और कायमार्गणाकी अपेक्षा भव-संचित पूर्ववद्द कर्मका निरूपण किया गया है, जिसका अभिप्राय यह है कि कृष्टिवेदक क्षपकके असंख्यात एकेन्द्रिय-भवोमे संचित कर्मोंका सद्भाव पाया जाता है । इसका कारण यह है कि कर्मस्थितिके भीतर कमसे कम पत्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण एकेन्द्रियोके भव-ग्रहण पाये जाते हैं । तथा एक, दो को आदि लेकर संख्यात त्रस-भवोमे संचित कर्मोंका अस्तित्व पाया जाता है ।

चूर्णिसू०—अब इससे आगे तीसरी भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना करते हैं ॥८६२॥

उत्कृष्ट अनुभागविशिष्ट और उत्कृष्ट स्थितिविशिष्ट पूर्ववद्द कर्म भजितव्य हैं । कषायोंमें पूर्ववद्द कर्म नियमसे अभाव्य हैं ॥१८५॥

चूर्णिसू०—उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा इस प्रकार है—कृष्टिवेदक क्षपकके उत्कृष्ट स्थितिवद्द और उत्कृष्ट अनुभागवद्द कर्म भजितव्य है । क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार कषायोंके उपयोगके साथ वद्द कर्म अभजितव्य है ॥८६३-८६५॥

विशेषार्थ—उत्कृष्ट स्थिति और अनुभागसंयुक्त वद्द कर्म भजितव्य है अर्थात् स्यात् होते हैं और स्यात् नहीं भी होते हैं । इसका कारण यह है कि उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्ट अनुभागको बाँधकर कर्मस्थितिके भीतर ही क्षपकश्रेणीपर चढ़नेवाले जीवके तो उत्कृष्ट स्थिति-अनुभाग-विशिष्ट कर्मप्रदेशोका पाया जाना संभव है । किन्तु कर्मस्थितिके भीतर सर्वत्र ही अनुत्कृष्ट स्थिति और अनुत्कृष्ट अनुभागको बाँधकर आये हुए क्षपकके उत्कृष्ट स्थिति-अनुभाग-विशिष्ट कर्मप्रदेशोका पाया जाना संभव नहीं है । कषायमार्गणाकी अपेक्षा चारो कषायोंके उपयोगके साथ पूर्वमे बाँधे हुए कर्म नियमसे अभाव्य है, अर्थात् पाये ही जाते हैं । इसका कारण यह है कि चारो कषायरूप उपयोग अन्तर्मुहूर्तमे परिवर्तित होता रहता है, अतएव भजनीयता संभव नहीं है ।

चूर्णिसू०—अब इससे आगे पाँचवीं मूलगाथाकी समुत्कीर्तना की जाती है । वह इस प्रकार है ॥८६६-८६७॥

(१३३) पञ्जत्तापञ्जत्तेण तथा त्थीपुण्णवुंसयमिस्सेण ।

सम्मत्ते मिच्छत्ते केण व जोगोवजोगेण ॥१८६॥

८६८. एत्थ चत्तारि भासगाहाओ । ८६९. तं जहा ।

(१३४) पञ्जत्तापञ्जत्ते मिच्छत्त णवुंसए च सम्मत्ते ।

कम्माणि अभज्जाणि दु त्थी-पुरिसे मिस्सगे भज्जा ॥१८७॥

८७०. विहासा । ८७१. पञ्जत्तेण अपञ्जत्तेण मिच्छाइट्ठिणा सम्माइट्ठिणा णवुंसयवेदेण च एवंभावभूदेण वद्दाणि णियमा अत्थि । ८७२. इत्थीए पुरिसेण सम्मा-मिच्छाइट्ठिणा च एवंभावभूदेण वद्दाणि भज्जाणि ।

८७३. एत्तो विदियाए भासगाहाए सद्युक्कित्ताणा । ८७४. तं जहा ।

(१३५) ओरालिये सररी ओरालियमिस्सए च जोगे दु ।

चदुविधमण-वचिजोगे च अभज्जा सेसगे भज्जा ॥१८८॥

पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्थाके साथ, तथा स्त्री, पुरुष और नपुंसकवेदके साथ, मिश्रप्रकृति, सम्यक्त्वप्रकृति और मिथ्यात्वप्रकृतिके साथ, तथा किस योग और किस उपयोगके साथ पूर्व वद्ध कर्म कृष्टिवेदक क्षपकके पाये जाते हैं ? ॥१८६॥

भावार्थ—इस मूलगाथाके द्वारा पर्याप्त-अपर्याप्त अवस्थामें तथा वेद, सम्यक्त्व, योग और उपयोग रूप-ज्ञान और दर्शनमार्गणामें पूर्ववद्ध कर्मकी भजनीयता-अभजनीयता पृच्छारूपसे वर्णन की गई है, जिसका उत्तर आगे कही जानेवाली भाष्यगाथाओंके द्वारा दिया जायगा ।

चूर्णिसू०—उक्त मूलगाथाके अर्थकी विभाषा करनेवाली चार भाष्यगाथाएँ हैं । वे इस प्रकार हैं ॥८६८-८६९॥

पर्याप्त-अपर्याप्त दशामे, मिथ्यात्व, नपुंसकवेद और सम्यक्त्व अवस्थामें बाँधे हुए कर्म अभाज्य हैं । तथा स्त्रीवेद, पुरुषवेद और सम्यग्मिथ्यात्व अवस्थामें बाँधे हुए कर्म भाज्य हैं ॥१८७॥

चूर्णिसू०—इसकी विभाषा इस प्रकार है—पर्याप्त, अपर्याप्त, मिथ्यादृष्टि, सम्यग्दृष्टि-और नपुंसकवेदके भावरूपसे परिणत जीवके द्वारा बाँधे हुए कर्म नियमसे पाये जाते हैं, अतः अभाज्य है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और देशामर्शकरूपसे सूचित सासादनसम्यग्दृष्टिके भावरूपसे परिणत जीवके द्वारा बाँधे हुए कर्म भाज्य है, अर्थात् स्यात् पाये जाते हैं और स्यात् नहीं भी पाये जाते हैं ॥८७०-८७२॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे दूसरी भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना की जाती है । वह इस प्रकार है ॥८७३-८७४॥

औदारिककाययोग, औदारिकमिश्रकाययोग, चतुर्विध मनोयोग और चतुर्विध वचनयोगमें बाँधे हुए कर्म अभाज्य हैं । शेष योगोंमें बाँधे हुए कर्म भाज्य हैं ॥१८८॥

८७५. विहासा । ८७६. ओरालिएण ओरालियमिस्सएण चउच्चिहणेण मणजोगेण चउच्चिहणेण वचिजोगेण वद्धाणि अभज्जाणि । ८७७. संसजोगेसु वद्धाणि भज्जाणि ।

८७८. एत्तो तदियभासगाहा । ८७९. तं जहा ।

(१३६) अध सुद-मदिउवजोगे हांति अभज्जाणि पुव्ववद्धाणि ।

भज्जाणि च पच्चवखेसु दोसु छदुमत्थणाणेसु ॥१८९॥

८८०. विहासा । ८८१. सुदणाणे अण्णाणे, मदिणाणे अण्णाणे, एदेसु चदुसु उवजोगेसु पुव्ववद्धाणि णियमा अत्थि । ८८२. ओहिणाणे अण्णाणे मणपच्चवणाणे एदेसु तिसु उवजोगेसु पुव्ववद्धाणि भजियव्वाणि ।

८८३. एत्तो चउत्थीए भासगाहाए समुक्किचणा ।

(१३७) कम्माणि अभज्जाणि तु अणगार-अचवखुदंसणुवजोगे ।

अध ओहिदंसणे पुण उवजोगे हांति भज्जाणि ॥१९०॥

चूर्णिसू०—उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा इस प्रकार है—औदारिककाययोग, औदारिक-मिश्रकाययोग, चतुर्विध मनोयोग और चतुर्विध वचनयोगके साथ बंधे हुए कर्म कृष्टिवेदक क्षपकके अभाज्य हैं, अर्थात् नियमसे पाये जाते हैं । शेष अर्थात् वैक्रियिककाययोग, वैक्रियिकमिश्रकाययोग, आहारककाययोग, आहारकमिश्रकाययोग और कार्मणकाययोग इन पाँच योगोंके साथ बंधे हुए कर्म भजितव्य हैं, अर्थात् हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं ॥८७५-८७७॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे तीसरी भाष्यगाथा कही जाती है । वह इस प्रकार है ॥८७८-८७९॥

मति और कुमतिरूप उपयोगमें तथा श्रुत और कुश्रुतरूप उपयोगमें पूर्व वद्ध कर्म अभाज्य हैं । किन्तु दोनों प्रत्यक्ष छद्मस्थ-ज्ञानोंमें पूर्व वद्ध कर्म भाज्य हैं ॥१८९॥

चूर्णिसू०—श्रुतज्ञान, कुश्रुतज्ञान, मतिज्ञान, कुमतिज्ञान, इन चारों ज्ञानोपयोगोंमें पूर्ववद्ध कर्म क्षपकके नियमसे पाये जाते हैं, अतः अभाज्य हैं । अवधिज्ञान विभंगावधि और मनःपर्ययज्ञान इन तीनों ज्ञानोपयोगोंमें पूर्ववद्ध कर्म भजितव्य है, अर्थात् किसीके पाये जाते हैं और किसीके नहीं पाये जाते ॥८८०-८८२॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे चौथी भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना की जाती है ॥८८३॥

अनाकार अर्थात् चक्षुदर्शनोपयोग और अचक्षुदर्शनोपयोगमें पूर्ववद्ध कर्म अभाज्य हैं । किन्तु अवधिदर्शनोपयोगमें पूर्ववद्ध कर्म कृष्टिवेदक क्षपकके भाज्य हैं ॥१९०॥

८८४. विहासा एसा । ८८५. एत्तो छुडी मूलगाहा ।

(१३८) किलेस्साए वद्धाणि केसु कम्मेषु वट्टमाणेण ।

सादेण असादेण च लिंगेण च कम्मि खेतम्मि ॥१९१॥

८८६. एदिस्से दो भासगाहाओ । ८८७. तासिं समुक्कित्तणा ।

(१३९) लेस्सा साद् असादे च अभज्जा कम्म-सिप्प-लिंगे च ।

खेतम्मि च भज्जाणि दु समाविभागे अभज्जाणि ॥१९२॥

८८८ विहासा । ८८९. तं जहा । ८९०. छसु लेस्सासु सादेण असादेण च वद्धाणि अभज्जाणि । ८९१. कम्म-सिप्पेसु भज्जाणि । ८९२. कम्माणि जहा—अंगारकम्मं वण्णकम्मं पव्वदकम्ममेदेसु कम्मेषु भज्जाणि । ८९३. सब्वलिंगेसु च भज्जाणि । ८९४. खेतम्मि सिया अधोलोगिगं, सिया उड्डलोगिगं; णियमा तिरियलोगिगं । ८९५. अधो-लोगमुड्डलोगिगं च सुद्धं णत्थि । ८९६. ओसप्पिणीए च उस्सप्पिणीए च सुद्धं णत्थि ।

चूर्णिसू०—इस गाथाकी यह समुत्कीर्तना ही उसकी विभाषा है । अर्थात् उक्त गाथाके अति सुबोध होनेसे उसकी विभाषा नहीं की गई है ॥८८४॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे छठी मूलगाथा अवतरित होती है ॥८८५॥

किस लेश्यामें, किन-किन कर्मोंमें तथा किस क्षेत्रमें (और किस कालमें) वर्तमान जीवके द्वारा बाँधे हुए, तथा साता, असाता और किस लिंगके द्वारा बाँधे हुए कर्म कृष्टिवेदक क्षपकके पाये जाते हैं ॥१९१॥

चूर्णिसू०—इस मूलगाथाके अर्थको व्याख्यान करनेवाली दो भाष्यगाथाएँ हैं । उनकी समुत्कीर्तना की जाती है ॥८८६-८८७॥

सर्व लेश्याओंमें, तथा साता और असातामें वर्तमान जीवके पूर्ववद्ध कर्म अभाज्य हैं । असि, मषि आदिक सभी कर्मोंमें, सभी शिल्पकार्योंमें, सभी पाखण्डी लिंगोंमें, और सर्व क्षेत्रमें बाँधे हुए कर्म भाज्य हैं । समा अर्थात् उत्सर्पिणी-अवसर्पिणीरूप कालके सर्व विभागोंमें पूर्ववद्ध कर्म अभाज्य हैं ॥१९२॥

चूर्णिसू०—उक्त गाथाकी विभाषा इस प्रकार है—छहो लेश्याओमें, तथा सातावेदनीय और असातावेदनीयके उदयमें वर्तमान जीवके द्वारा पूर्ववद्ध कर्म अभाज्य हैं, अर्थात् कृष्टिवेदक क्षपकके नियमसे पाये जाते हैं । सर्व कर्मोंमें और सर्व शिल्पोंमें पूर्ववद्ध कर्म भाज्य है । वे कर्म इस प्रकार हैं—अंगारकर्म, वर्णकर्म और पर्वतकर्म (आदिक) । इन कर्मोंमें बाँधे हुए कर्म भाज्य हैं । क्षेत्रमेंसे अधोलोक और ऊर्ध्वलोकमें बाँधे हुए कर्म स्यात् पाये जाते हैं । किन्तु तिर्यग्लोकमें वद्ध कर्म नियमसे पाये जाते हैं । अधोलोक और ऊर्ध्वलोकमें संचित कर्म शुद्ध नहीं पाया जाता, किन्तु तिर्यग्लोकके संचयसे सम्मिश्रित ही पाया जाता है । पर तिर्यग्लोकका संचय शुद्ध भी पाया जाता है । अवसर्पिणी और उत्सर्पिणीमें संचित कर्म शुद्ध नहीं पाया जाता, किन्तु सम्मिश्रित पाया जाता है ॥८८८-८९६॥

८९७. एत्तो विदियाए भासगाहाए समुत्तिण्णा ।

(१४०) एदाणि पुव्ववद्दाणि हांति सव्वेसु द्विदिविसेसेसु ।

सव्वेसु चाणुभागेसु णियमसा सव्वकिट्ठीसु ॥१९३॥

८९८ विहासा । ८९९. जाणि अभज्जाणि पुव्ववद्दाणि ताणि णियमा सव्वेसु द्विदिविसेसेसु णियमा सव्वासु किट्ठीसु ।

विशेषार्थ—छठी मूलगाथामें जितने प्रश्न उठाये गये थे, उन सबका उत्तर प्रस्तुत भाष्यगाथामें दिया गया है और उसीका स्पष्टीकरण प्रस्तुत चूर्णिमूत्रोंमें किया गया है । गाथा-पठित 'कर्म' शब्दसे अभिप्राय अंगारकर्म आदि पाप-प्रचुर आर्जाविकाससे लिया गया है, अतएव चूर्णिकारने जिनका उल्लेख नहीं किया ऐसे असि मणि आदिका ग्रहण स्वतःसिद्ध है । अंगार-उत्पादनके लिए जो काष्ठ-वृक्षरूप कार्य किया जाता है उसे अंगारकर्म कहते हैं । कुछ आचार्य ऐसा भी अर्थ करते हैं कि अंगार अर्थात् ज्ञेयत्वाके द्वारा जो कार्य किया जाता है, वह सब अंगारकर्म कहलाता है । जैसे मुनार, लुहार आदिके कार्य । नाना प्रकारके रंग-विरंगे चित्र बनाना, विविध वर्णके वस्त्र रंगना, दीवाल आदि पर कारीगरी करना, हरिताल, हिंगुल आदिके सम्मिश्रणसे विभिन्न प्रकारके रंग तैयार करना वर्णकर्म कहलाता है । पत्थरोंको काटना, उनमें नाना प्रकारके चित्रोंको उकेरना, मूर्तियों बनाना, स्तम्भ, तोरण आदि बनाना पर्वतकर्म है । इन तीन प्रकारके कर्मोंका उल्लेख उपलक्षणमात्र है, अतएव साँचे ढालना, विविध प्रकारके यंत्र बनाना, इसी प्रकारसे नक्काशीके काम करना, कसीदा काढ़ना, लकड़ीके विविध प्रकारके आसन, शय्या बनाना इत्यादिक जितने भी हस्तनैपुण्यके कार्य हैं, उन सबको शिल्प पदसे ग्रहण किया गया है । इन विविध शिल्प और कर्मरूप कार्य करते हुए जिन कर्मोंका बन्ध होता है, उनका अस्तित्व कृष्टिवेदकके स्यात् हो भी सकता है और स्यात् नहीं भी, अतएव उन्हें भाज्य कहा गया है । भाष्यगाथा और चूर्णिमूत्रमें यद्यपि सामान्यसे 'सर्व लिंगोंमें पूर्ववद्ध कर्म भाज्य' बतलाये गये हैं, तथापि यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि जिनवेपेरूप निर्ग्रन्थलिंगकी दशामें बाँधे गये कर्मोंका सद्भाव तो कृष्टिवेदक क्षपकके नियमसे ही पाया जाता है, अतएव अन्य विकार-युक्त सर्व पाखंडी वेपोंका ही यहाँ लिंग पदसे ग्रहण करना चाहिए । ऐसे पाखंडी लिंगोंमें समुपार्जित कर्म भाज्य है, किसीके उनका अस्तित्व पाया जाता है और किसीके नहीं ।

चूर्णिसू०—अब इससे आगे दूसरी भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना करते हैं ॥८९७॥

ये पूर्ववद्ध (अभाज्य) कर्म सर्व स्थितिविशेषोंमें, सर्व अनुभागोंमें और सर्व कृष्टियोंमें नियमसे होते हैं ॥१९३॥

चूर्णिसू०—उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा इस प्रकार है—जो अभाज्य पूर्ववद्ध कर्म हैं, वे नियमसे सर्व स्थितिविशेषोंमें और नियमसे सर्वकृष्टियोंमें पाये जाते हैं ॥८९८-८९९॥

९००. एतो सत्तर्माए मूलगाहाए समुक्चित्तणा ।

(१४१) एगसमयप्पवद्धा पुण अच्चुत्ता केत्तिगा कहिं ढिदीसु ।

भववद्धा अच्चुत्ता ढिदीसु कहिं केत्तिया होति ॥१९४॥

९०१. एदिस्से चत्तारि भासगाहाओ । ९०२. तासिं समुक्चित्तणा ।

(१४२) छण्हं आवलियाणं अच्चुत्ता णियमसा समयप्पवद्धा ।

सव्वेसु ढिदिविसेसाणुभागेसु च चउण्हं पि ॥१९५॥

विशेषार्थ—ऊपर जो अभजनीय पूर्ववद्ध कर्म तीन मूलगाथाओमे वताये गये हैं, वे नियमसे सर्वकर्मोंकी जघन्य स्थितिसे लेकर उत्कृष्ट स्थिति तक सर्वस्थितियोंमे पाये जाते हैं । 'सर्व अनुभागोमे' इस पदसे चारों संज्वलनकपायोकी सर्व सदृश सघन कृष्टियोंका ग्रहण करना चाहिए । 'सर्वकृष्टियोंमे' इस पदसे अभिप्राय समस्त संग्रहकृष्टियों और उनकी अवयवकृष्टियोंकी एक ओली (पंक्ति या श्रेणी) से है । अतएव संज्वलनक्रोधदिकी एक एक कृष्टिमें संभव अनन्त सदृश सघन कृष्टियोंमे पूर्ववद्ध अभाज्य कर्म नियमसे पाये जाते हैं, ऐसा समझना चाहिए । इसी प्रकार भजनीय संभव कर्मोंका भी एकादि-उत्तरक्रमसे सर्वस्थिति-विशेषोंमें, सर्व अनुभागोंमें और सर्व कृष्टियोंमें संभव अवस्थिति जान लेना चाहिए ।

चूर्णिसू०—अब इससे आगे रातर्वाँ मूलगाथाकी समुत्कीर्तना की जाती है ॥९००॥

एक समयमें बाँधे हुए कितने कर्मप्रदेश किन किन स्थितियोंमें अछूते अर्थात् उदयस्थितिको अप्राप्त रहते हैं । इसी प्रकार कितने भववद्ध कर्म-प्रदेश किन-किन स्थितियोंमें असंक्षुब्ध रहते हैं ॥१९४॥

भावार्थ—इस मूलगाथामे अन्तरकरणके प्रथम समयसे लगाकर उपरिम अवस्थामे वर्तमान क्षपकके समयप्रवद्ध और भववद्ध कर्म-प्रदेशोंकी उदय और अनुदयरूपताकी पृच्छा की गई है, जिसका उत्तर आगे कही जानेवाली भाष्यगाथाओके द्वारा दिया जायगा । एक समयमे बाँधे हुए कर्मपुंजको एक समयप्रवद्ध कहते हैं । अनेक भवोंमे बाँधे हुए कर्मपुंजको भववद्ध कहते हैं । अलुत्तपदका अर्थ अस्पृष्ट अर्थात् उदयस्थितिको अप्राप्त अर्थ होता है । जयधवलाकारने अथवा कहकर असंक्षुब्ध अर्थ भी किया है, जिसका अभिप्राय यह है कि जिनका संक्रमण संभव नहीं है, ऐसे कितने कर्म-प्रदेश किन-किन स्थितियोंमे पाये जाते हैं ।

चूर्णिसू०—इस मूलगाथाके अर्थको व्याख्यान करनेवाली चार भाष्यगाथाएँ हैं । उनकी क्रमशः समुत्कीर्तना की जाती है ॥९०१-९०२॥

अन्तरकरण करनेसे उपरिम अवस्थामें वर्तमान क्षपकके छह आवलियोंके भीतर बाँधे हुए समयप्रवद्ध नियमसे अछूते हैं । (क्योंकि अन्तरकरणके पश्चात् छह आवलीके भीतर उदीरणा नहीं होती है ।) वे अछूते समयप्रवद्ध चारों ही संज्वलन-कपायसम्बन्धी सभी स्थिति-विशेषोंमें और सभी अनुभागोंमें अवस्थित रहते हैं ॥१९५॥

९०३. विहासा । ९०४. जत्तो पाए अंतरं कदं, तत्तो पाए समयप्रवद्धो छसु आवलियासु गदासु उदीरिज्जदि । ९०५. अंतरादो कदादो तत्तो छसु आवलियासु गदासु तेण परं छण्हमावलियाणं समयप्रवद्धा उदये अच्छुद्धा भवन्ति । ९०६. भववद्धा पुण णियमा सव्वे उदये संछुद्धा भवन्ति ।

९०७. एत्तो विदियभासगाहा ।

चूर्णिसू०—जिस पाये (स्थल) पर अन्तर किया है, उस पायेपर वँधा हुआ समयप्रवद्ध छह आवलियोंके व्यतीत होनेपर उदीरणाको प्राप्त होगा । अतएव अन्तरकरण समाप्त करनेके अनन्तर समयसे लेकर छह आवलियोंके व्यतीत होनेपर उससे परे सर्वत्र छह आवलियोंके समयप्रवद्ध उदयमें अछूते रहते हैं । किन्तु भववद्ध सभी समयप्रवद्ध नियमसे उदयमें संक्षुब्ध रहते हैं ॥९०३-९०६॥

विशेषार्थ—अन्तरकरण करनेके प्रथम समयमें आवलीप्रमाण नवकवद्ध समयप्रवद्ध उदयमें अछूते रहते हैं । पुनः द्वितीय समयमें भी इतने ही समयप्रवद्ध उदयमें अछूते रहते हैं । इस प्रकार अन्तरकरणके प्रथम समयसे लेकर आवलीप्रमितकालके चरम समय तक आवलीप्रमाण नवकवद्ध समयप्रवद्ध उदयमें अछूते रहते हैं । प्रथम आवलीके व्यतीत होनेपर अनन्तर समयमें एक-एक समयप्रवद्ध यथाक्रमसे तब तक अधिक होता जाता है जब तक कि अन्तरकरणसे लेकर दो आवलीप्रमाण काल व्यतीत न हो जाय । दो आवलीकाल पूरा होनेपर दो आवलीप्रमित नवकवद्ध समयप्रवद्ध उदयमें अछूते रहते हैं । तदनन्तर तीसरी आवलीके प्रथम समयसे लेकर उसके पूरे होने तक एक-एक समयप्रवद्ध अधिक होता हुआ चला जाता है और तीसरे आवलीके अन्तिम समयमें तीन आवलियोंके नवकवद्ध समयप्रवद्ध अनुदीरित या उदयमें अछूते पाए जाते हैं । इसी प्रकार चौथी आवलीके प्रथम समयसे लेकर उसके अन्तिम समय तक एक एक समयप्रवद्ध बढ़ता हुआ चला जाता है और चौथी आवलीके अन्तिम समयमें चार आवलियोंके समयप्रवद्ध अनुदीरित पाये जाते हैं । पुनः प्रतिसमय एक एक समयप्रवद्ध बढ़ता हुआ पाँचवी आवलीके अन्तिम समय तक चला जाता है और इस प्रकार पाँचवी आवलीके अन्तिम समयमें पाँच आवलियोंके नवकवद्ध समयप्रवद्ध उदीरणा-रहित पाये जाते हैं । पुनः उक्त क्रमसे एक-एक समयप्रवद्ध बढ़ता हुआ छठी आवलीके अन्तिम समय तक चला जाता है और छठी आवली पूर्ण होनेपर छह आवलियोंके नवकवद्ध समयप्रवद्ध उदयमें अछूते अर्थात् उदीरणावस्थासे रहित पाये जाते हैं । इस कारण चूर्णिकारने ठीक ही कहा है कि अन्तरकरणसे लगाकर छह आवलीकालके व्यतीत होनेपर उससे परे छह आवलियोंके नवकवद्ध सर्व समयप्रवद्ध उदयमें अछूते या अनुदीरित पाये जाते हैं । इसका अभिप्राय यह समझना चाहिए कि इन नवकवद्ध समयप्रवद्धोंके अतिरिक्त जेप सर्व समयप्रवद्ध उदयमें संक्षुब्ध अर्थात् उदय या उदीरणा पर्यायसे परिणत पाये जाते हैं । परन्तु भववद्ध समस्त ही समयप्रवद्ध नियमसे उदयमें संक्षुब्ध पाये जाते हैं ।

चूर्णिसू०—अब इससे आगे द्वितीय भाष्यगाथा अवतीर्ण होती है ॥९०७॥

(१४३) जा चावि वज्जमाणी आवलिया होदि पढमकिट्टीए ।

पुव्वावलिया णियमा अणंतरा चटुसु किट्टीसु ॥१९६॥

१०८. विहासा । १०९. जं पदेसग्गं वज्जमाणयं कोधस्स तं पदेसग्गं सव्वं वंधावलियं कोहस्स पढमसंगहकिट्टीए दिस्सइ । ११०. तदो आवलियादिकंतं तिसु वि कोहकिट्टीसु दीसइ । १११. एवं विदियावलिया चटुसु किट्टीए दीसइ माणस्स च पढमकिट्टीए । ११२. तदो जं पदेसग्गं कोहादो माणस्स पढमकिट्टीए गदं तं पदेसग्गं तदो आवलियाए पुण्णाए माणस्स विदिय-तदियासु मायाए च पढमसंगहकिट्टीए संकमदि । ११३. एवं तदिया आवलिया सत्तसु किट्टीसु त्ति भण्णइ ।

११४. जं कोहपदेसग्गं संलुब्भमाणयं मायाए पढमकिट्टीए संपत्तं तं पदेसग्गं तत्तो आवलियादिकंतं मायाए विदिय-तदियासु च किट्टीसु लोभस्स च पढमकिट्टीए संकमदि । ११५. एवं चउत्थी आवलिया दससु किट्टीसु त्ति भण्णइ । ११६. जं कोह-पदेसग्गं संलुब्भमाणं लोभस्स पढमकिट्टीए संपत्तं तदो आवलियादिकंतं लोभरस विदिय-तदियासु किट्टीसु दीसइ । ११७. एवं पंचमी आवलिया सव्वासु किट्टीसु त्ति भण्णइ ।

जो वध्यमान आवली है, उसके कर्मप्रदेश क्रोधसंज्वलनकी प्रथम कृष्टिमे पाये जाते हैं । इस पूर्व आवलीके अनन्तर जो उपरिम अर्थात् द्वितीयावली है, उसके कर्म-प्रदेश नियमसे क्रोधसंज्वलनकी तीन और मानसंज्वलनकी प्रथम, इन चार संग्रह-कृष्टियोंमें पाये जाते हैं ॥१९६॥

चूर्णिसू०—अब उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा की जाती है—संज्वलन क्रोधके जो वध्यमान प्रदेशाग्र है, वे सर्व वन्धावलीके प्रदेशाग्र कहलाते हैं और वे क्रोधसंज्वलनकी प्रथम संग्रहकृष्टिमे दिखाई देते हैं । इसके पश्चात् एक आवली व्यतीत होनेपर वे कर्मप्रदेशाग्र क्रोधकी तीनों संग्रहकृष्टियोंमे भी दिखाई देते हैं और मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिमे भी । इस प्रकार द्वितीय आवली चार कृष्टियोंमे दिखाई देती है । तदनन्तर जो कर्मप्रदेशाग्र क्रोधसे मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिमे गया है, वह प्रदेशाग्र आवलीके पूर्ण हो जानेपर मानकी दूसरी और तीसरी तथा मायाकी प्रथम संग्रहकृष्टिमे संक्रमित होता है । इस प्रकार तृतीय आवली सात संग्रहकृष्टियोंमे दिखाई देती है, ऐसा कहा जाता है ॥१०८-११३॥

चूर्णिसू०—जो संज्वलनक्रोधके प्रदेशाग्र संक्रमित होते हुए संज्वलनमायाकी प्रथम संग्रहकृष्टिको प्राप्त हुए है, वह प्रदेशाग्र उससे आगे एक आवली अतिक्रान्त होनेपर संज्वलन-मायाकी द्वितीय और तृतीय संग्रहकृष्टिमे तथा संज्वलनलोभकी प्रथमसंग्रहकृष्टिमे संक्रान्त होता है । इस प्रकार चौथी आवली दश कृष्टियोंमे दिखाई देती है, ऐसा कहा जाता है । जो संज्वलनक्रोधके प्रदेशाग्र संक्रमित होते हुए संज्वलनलोभकी प्रथमसंग्रहकृष्टिको प्राप्त हुए हैं, वह प्रदेशाग्र उससे आगे एक आवली व्यतीत होनेपर संज्वलनलोभकी द्वितीय और तृतीय संग्रहकृष्टिमे दिखाई देते हैं । इस प्रकार पाँचवी आवली सर्व कृष्टियोंमे दिखाई देती है, ऐसा कहा जाता है ॥११४-११७॥

९१८. तदियाए वि भासगाहाए अत्थो एत्थेव परुविदो । णवरि समुक्कित्तणा कायव्वा । ९१९. तं जहा ।

(१४४) तदिया सत्तसु किट्ठीसु चउत्थी दससु होइ किट्ठीसु ।
तेण परं सेसाओ भवन्ति सव्वासु किट्ठीसु ॥१९७॥

९२०. एत्तो चउत्थीए भासगाहाए समुक्कित्तणा ।

(१४५) एदे समयपवद्धा अच्छुत्ता णियमसा इह भवन्निह ।
सेसा भववद्धा खलु संखुद्धा होंति वोद्धव्वा ॥१९८॥

९२१. एदिस्से गाहाए अत्थो पहमभासगाहाए चेव परुविदो ।

९२२. एत्तो अट्ठीए मूलगाहाए समुक्कित्तणा ।

(१४६) एगसमयपवद्धाणं सेसाणि च कदिसु द्विदिविसेसेसु ।
भवसेसगाणि कदिसु च कदि कदि वा एगसमएण ॥१९९॥

चूणिसू०—इस प्रकार तीसरी भाष्यगाथाका अर्थ भी इसी दूसरी भाष्यगाथाकी विभाषामें कह दिया गया । अब केवल समुत्कीर्तना करना चाहिए । वह इस प्रकार है ॥१९८-१९९॥

तीसरी आवली सात कृष्टियोंमें, चौथी आवली दश कृष्टियोंमें और उससे आगेकी शेष सर्व आवलियाँ सर्व कृष्टियोंमें पाई जाती हैं ॥१९७॥

चूणिसू०—अब इससे आगे चौथी भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना की जाती है ॥१२०॥

ये ऊपर कहे गये छहों आवलियोंके इस वर्तमान भवमें ग्रहण किये गये समय-प्रवद्ध नियमसे असंशुद्ध रहते हैं, अर्थात् उदय या उदीरणाको प्राप्त नहीं होते हैं । किन्तु शेष भववद्ध अर्थात् कर्मस्थितिके भीतर होनेवाले भवोंमें बँधे हुए सर्व समयप्रवद्ध उदयमें संशुद्ध होते हैं ॥१९८॥

चूणिसू०—इस चौथी भाष्यगाथाका अर्थ पहली भाष्यगाथाकी विभाषामें कहा जा चुका है ॥१२१॥

चूणिसू०—अब इससे आगे आठवीं मूलगाथाकी समुत्कीर्तना की जाती है ॥१२२॥

एक समयमें बँधे हुए और नाना समयोंमें बँधे हुए समयप्रवद्धोंके शेष कितने कर्म-प्रदेश कितने स्थितिविशेषोंमें और अनुभागविशेषोंमें पाये जाते हैं ? इसी प्रकार एक भव और नाना भवोंमें बँधे हुए कितने कर्मप्रदेश कितने स्थितिविशेषोंमें और अनुभागविशेषोंमें पाये जाते हैं ? तथा एक समयरूप एक स्थितिविशेषमें वर्तमान कितने कर्मप्रदेश एक-अनेक समयप्रवद्ध और भववद्धोंके शेष पाये जाते हैं ? ॥१९९॥

९२३. एत्थ चत्तारि भासगाहाओ । ९२४. तासिं समुक्कित्ताणा ।
(१४७) एकम्मि द्विदिविसेसे भवसेसगसमयपवद्धसेसाणि ।

णियमा अणुभागेषु य भवन्ति सेसा अणन्तेसु ॥२००॥

९२५. विहासा । ९२६. समयपवद्धसेसयं णाम किं ? ९२७. जं समयपवद्धस्स वेदिदसेसग्गं पदेसग्गं दिस्सइ, तम्मि अपरिसेसिदम्मि एगसमएण उदयमागदम्मि तस्स समयपवद्धस्स अण्णो कम्मपदेसो वा णत्थि तं समयपवद्धसेसग्गं णाम ।

९२८. एवं चेव भववद्धसेसयं । ९२९. एदीए सण्णापरूवणाए पढ्माए भासगाहाए विहासा । ९३०. तं जहा । ९३१. एकम्मि द्विदिविसेसे कदिण्हं समयपवद्धाणं सेसाणि होज्जासु ? ९३२. एकस्स वा समयपवद्धस्स दोण्हं वा तिण्हं वा, एवं गंतूण उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्ताणं समयपवद्धाणं ।

चूर्णिसू०—इस मूलगाथाके अर्थकी विभाषा करनेवाली चार भाष्यगाथाएँ हैं । उनकी समुत्कीर्तना इस प्रकार हैं ॥९२३-९२४॥

एक स्थितिविशेषमें नियमसे एक-अनेक भववद्धोंके समयप्रवद्ध-शेष और एक-अनेक समयोंमें बँधे हुए कर्मोंके समयप्रवद्ध-शेष असंख्यात होते हैं । और वे समय-प्रवद्ध-शेष नियमसे अनन्त अनुभागोंमें वर्तमान होते हैं ॥२००॥

चूर्णिसू०—अब उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा की जाती है ॥९२५॥

शंका—समयप्रवद्ध-शेष नाम किसका है ? ॥९२६॥

समाधान—समयप्रवद्धका वेदन करनेसे अवशिष्ट जो प्रदेशाग्र दिखाई देता है उसके अपरिशेषित अर्थात् सामस्त्यरूपसे एक समयमें उदय आनेपर उस समयप्रवद्धका फिर कोई अन्य कर्मप्रदेश अवशिष्ट नहीं रहता है, उसे समयप्रवद्ध-शेष कहते हैं ॥९२७॥

चूर्णिसू०—इसी प्रकारसे भववद्ध-शेष भी जानना चाहिए ॥९२८॥

विशेषार्थ—समयप्रवद्ध-शेषमें तो एक समयप्रवद्धके कर्मपरमाणुओंको ही ग्रहण किया जाता है । किन्तु भववद्ध-शेषमें कमसे कम अन्तर्मुहूर्तमात्र एक भववद्ध समयप्रवद्धोंके कर्म-परमाणुग्रहण किये जाते हैं । यह समयप्रवद्ध-शेष और भववद्ध-शेषमें अन्तर जानना चाहिए ।

चूर्णिसू०—इस संज्ञाप्ररूपणाके द्वारा प्रथम भाष्यगाथाकी विभाषा की जाती है । वह इस प्रकार है ॥९२९-९३०॥

शंका—एक स्थितिविशेषमें कितने समयप्रवद्धोंके शेष बचे हुए कर्म-परमाणु होते हैं ? ॥९३१॥

समाधान—एक स्थितिविशेषमें एक समयप्रवद्धके शेष कर्मपरमाणु रहते हैं, दो समयप्रवद्धोंके भी शेष रहते हैं, तीन समयप्रवद्धोंके भी शेष रहते हैं, इस प्रकार एक-एक समयप्रवद्धके बढ़ते हुए क्रमसे अधिकसे अधिक पल्योपमके असंख्यातवे भागमात्र समयप्रवद्धोंके कर्म-परमाणु शेष रहते हैं ॥९३२॥

९३३. भववद्वसेसयाणि वि एकम्मि द्विदिविसेसे एकस्स वा भववद्वस्स दोण्हं वा तिण्हं वा एवं गंतूण उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्ताणं भववद्व्राणं ।

९३४. णियमा अणतेसु अणुभागेसु भववद्वसेसगं वा समयपवद्वसेसगं वा ।

९३५. एत्तो विदियाए भासगाहाए समुक्कित्तणा । ९३६. तं जहा ।

(१४८) द्विदि-उत्तरसेठीए भवसेस-समयपवद्वसेसाणि ।

एगुत्तरमेगादी उत्तरसेठी असंखेज्जा ॥२०१॥

९३७. विहासा । ९३८. तं जहा । ९३९. समयपवद्वसेसयमेकम्मि द्विदिविसेसे दोसु वा तीसु वा एगादिएगुत्तरमुक्कस्सेण विदियद्विदीए सव्वासु द्विदीसु पढमद्विदीए च समयाहियउदयावलयं मोत्तूण सेसासु सव्वासु ठिदीसु णाणासमयपवद्वसेसाणं णाणेग-भववद्वसेसयाणं च ।

९४०. एत्तो तदियाए भासगाहाए समुक्कित्तणा ।

(१४९) एकम्मि द्विदिविसेसे सेसाणि ण जत्थ हांति सामण्णा ।

आवलिगासंखेज्जदिभागो तहिं तारिसो समयो ॥२०२॥

चूर्णिसू०—इसी प्रकार भववद्व-शेष भी जानना चाहिए । अर्थात् एक स्थितिविशेषमे एक भववद्वके, दो भववद्वके, तीन भववद्वके इस प्रकार बढ़ते हुए उत्कर्षसे पल्योपमके असंख्यातवे भागमात्र भववद्वके शेष कर्मपरमाणु पाये जाते हैं । वह भववद्व-शेष या समय-प्रवद्व-शेष कर्म-परमाणु नियमसे अनन्त अविभागप्रतिच्छेदरूप अनुभागोमे वर्तमान रहता है ॥९३३-९३४॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे दूसरी भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना की जाती है । वह इस प्रकार है ॥९३५-९३६॥

एकको आदि लेकर एक-एक बढ़ाते हुए जो स्थितियोंकी वृद्धि होती है, उसे स्थिति-उत्तरश्रेणी कहते हैं । इस प्रकारकी स्थिति-उत्तरश्रेणीमे भववद्व-शेष और समयप्रवद्व-शेष असंख्यात होते हैं ॥२०१॥

चूर्णिसू०—अब उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा की जाती है । वह इस प्रकार है—समयप्रवद्वशेष एक स्थितिविशेषमें पाया जाता है, दो स्थितिविशेषोमे भी पाया जाता है, तीन स्थितिविशेषोमे भी पाया जाता है । इस प्रकार एकको आदि लेकर एकोत्तर वृद्धिके क्रमसे उत्कर्षसे द्वितीयस्थितिकी सर्व स्थितियोमे पाया जाता है और प्रथमस्थितिकी समयाविक उदयावलीको छोड़कर शेष सर्व स्थितियोमें पाया जाता है । इसी प्रकार नाना समयप्रवद्व-शेषोकी तथा नाना और एक भववद्व-शेषोकी प्ररूपणा करना चाहिए ॥९३७-९३९॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे तीसरी भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना की जाती है ॥९४०॥

जिस किसी एक स्थितिविशेषमे समयप्रवद्व-शेष और भववद्व-शेष सम्भव हैं, वह सामान्यस्थिति और जिसमें वे सम्भव नहीं वह असामान्यस्थिति कहलाती है । उम क्षपकके वर्षपृथक्त्वमात्र स्थितिविशेषमें तादृश अर्थात् भववद्व और समयप्रवद्व-

९४१. विहासा । ९४२. सामणसण्णा ताव । ९४३. एककम्हि ठिदिविसेसे जम्हि समयप्रवद्धसेसयमत्थि सा द्विदी सामण्णा चि णादव्वा । ९४४. जम्मि णत्थि सा द्विदी असामण्णा चि णादव्वा । ९४५. एवमसामण्णाओ द्विदीओ एकका वा दो वा उक्कस्सेण अणुवद्धाओ आवलियाए असंखेज्जदिभागमेत्तीओ ।

९४६. एककेककेण असामण्णाओ थोवाओ । ९४७. दुगेण विसेसाहियाओ । ९४८. तिगेण विसेसाहियाओ । आवलियाए असंखेज्जदिभागे दुगुणाओ ।

शेषसे विरहित असामान्य स्थितियाँ अधिकसे अधिक आवलीके असंख्यातवे भागप्रमाण पाई जाती हैं ॥२०२॥

चूर्णिसू०—अब उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा की जाती है । उसमें सबसे पहले सामान्यसंज्ञाका अर्थ करते हैं—जिस एक स्थितिविशेषमें समयप्रवद्ध-शेष (और भववद्ध-शेष) पाये जाते हैं, वह स्थिति 'सामान्य' संज्ञावाली जानना चाहिए । जिस स्थितिविशेषमें समयप्रवद्ध-शेष (और भववद्ध-शेष) नहीं पाये जाते हैं, वह 'असामान्य' संज्ञावाली जानना चाहिए । इस प्रकार असामान्यस्थितियाँ एक, दोको आदि लेकर अधिकसे अधिक अनुवद्ध अर्थात् निरन्तररूपसे आवलीके असंख्यातवे भागमात्र पाई जाती हैं ॥९४१-९४५॥

अब इन्हीं असामान्य स्थितियोंके जघन्य और उत्कृष्ट प्रमाणका निर्देश करते हैं—

चूर्णिसू०—एक-एक रूपसे पाई जानेवाली असामान्य स्थितियाँ थोड़ी हैं । द्विक अर्थात् दो-दो रूपसे पाई जानेवाली असामान्य स्थितियाँ विशेष अधिक हैं । त्रिक अर्थात् तीन-तीन रूपसे पाई जानेवाली असामान्य स्थितियाँ विशेष अधिक हैं । इस प्रकार विशेष अधिक रूप यह क्रम आवलीके असंख्यातवे भागपर दुगुना हो जाता है ॥९४६-९४८॥

विशेषार्थ—इस उपयुक्त अर्थका स्पष्टीकरण करनेके लिए उस कृष्टिवेदक क्षपकके किसी एक संव्वलनप्रकृतिकी वर्षपृथक्त्वप्रमाण स्थितिकी काल्पनिक रचना कीजिए । पुनः उस स्थितिके भीतर सान्तर या निरन्तररूपसे अवस्थित सर्व असामान्य स्थितियोंको बुद्धिसे पृथक् करके क्रमशः स्थापित कीजिए । इस प्रकार क्रमसे स्थापित की गई इन असामान्य स्थितियोंपर दृष्टिपात कीजिए, तब ज्ञात होगा कि उस वर्षपृथक्त्वप्रमाण अन्यतर संव्वलनकी स्थितिमें एक-एक रूपसे पाई जानेवाली असामान्य स्थितियाँ सबसे कम हैं । द्विकरूपसे पाई जानेवाली विशेष अधिक हैं, त्रिकरूपसे पाई जानेवाली विशेष अधिक हैं, चतुष्क रूपसे पाई जानेवाली विशेष अधिक हैं । इस प्रकार यह क्रम आवलीके असंख्यातवे भाग तक चला जाता है । आवलीके असंख्यातवे भागपर पाई जानेवाली असामान्यस्थितियोंका प्रमाण, प्रारम्भके प्रमाणसे दुगुना हो जाता है । यहाँ जो एक एकरूपसे, द्विक या त्रिक आदिके रूपसे वर्तमान असामान्य स्थितियोंका उल्लेख किया गया है, उसके विषयमें जयधवलाकारने दो प्रकारका अर्थ किया है । उनमें प्रथम अर्थके अनुसार—'एक-एक रूपसे अर्थात् सामान्य स्थितियोंसे

९४९. आवलियाए असंखेज्जदिभागे जवमज्झं । ९५०. समयपवद्धस्स एक्के-
क्कस्स सेसगमेक्किस्से द्विदीए ते समयपवद्धा थोवा । ९५१. जे दोसु द्विदीसु ते समय-
पवद्धा विसेसाहिया । ९५२. आवलियाए असंखेज्जदिभागे दुगुणा । ९५३. आवलियाए
असंखेज्जदिभागे जवमज्झं । ९५४. तदो हायमाणट्टाणाणि वासपुधत्तं ।

९५५. एत्तो चउत्थीए भासगाहाए समुक्कित्तणा ।

(१५०) एद्वेण अंतरेण दु अपच्छिमाए दु पच्छिमे समए ।

भव-समयसेसगाणि दु णियमा तम्हि उत्तरपदाणि ॥२०३॥

अन्तरित जो एक-एक असामान्य स्थिति पाई जाती है, उसका ग्रहण करना चाहिए । इसी प्रकार 'द्विकरूप' का अर्थ सामान्यस्थितियोंसे अन्तरित लगातार दो-दोके रूपसे पाई जाने-
वाली असामान्य स्थितियोंको ग्रहण करना चाहिए । इसी प्रकार त्रिक आदिका भी अर्थ जानना । द्वितीय अर्थके अनुसार—'एक-एक रूपसे' अर्थात् एक-एक सामान्य स्थितिसे अन्तरित असामान्य स्थितियों सबसे कम हैं । द्विक अर्थात् दो-दो सामान्य स्थितियोंसे अन्तरित असामान्यस्थितियों विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार त्रिक, चतुष्क आदिका अर्थ तीन-तीन या चार-चार आदि सामान्य स्थितियोंसे अन्तरित असामान्य स्थितियोंका ग्रहण करना चाहिए ।

चूर्णिसू०—आवलीके असंख्यातवे भागमें यवमध्य होता है ॥९४९॥

विशेषार्थ—ऊपर बतलाये हुए क्रमसे दुगुण दुगुण वृद्धिरूप आवलीके असंख्यातवें भागप्रमित स्थानोके व्यतीत होनेपर इस वृद्धिरूप रचनाका यवमध्य प्राप्त होता है । इस यवमध्यके ऊपर जिस क्रमसे पहले वृद्धि हुई थी, उसी क्रमसे हानि होती हुई तब तक चली जाती है, जब तक कि यवरचनाके प्रथम विकल्पके समान प्रमाणवाला अन्तिम विकल्प उपलब्ध न हो जाय । यहाँ इतना और विशेष ज्ञातव्य है कि जिस प्रकार चूर्णिकारने असा-
मान्य स्थितियोंकी यह यवमध्यरचना बताई है, उसी प्रकार सामान्य स्थितियोंकी भी यव-
मध्यप्ररूपणा करना चाहिए ।

चूर्णिसू०—जिन एक-एक समयप्रवद्धका शेष एक-एक स्थितिमे पाया जाता है, वे समयप्रवद्ध अल्प है । जिन समयप्रवद्धोके शेष दो स्थितियोंमे पाये जाते है, वे समयप्रवद्ध विशेष अधिक है । (जिन समयप्रवद्धोके शेष तीन स्थितियोंमे पाये जाते हैं, वे समयप्रवद्ध विशेष अधिक हैं ।) इस प्रकारसे बढ़ता हुआ यह क्रम आवलीके असंख्यातवे भाग पर दुगुणा हो जाता है । (यह एक दुगुणवृद्धिस्थान है ।) इस प्रकारके आवलीके असंख्यातवें भागप्रमित दुगुण वृद्धिस्थानोके होनेपर यवमध्य प्राप्त होता है । तदनन्तर हायमान स्थान वर्षपृथक्त्वप्रमाण है । (तब घटते हुए क्रमका अन्तिम विकल्प प्राप्त होता है) ॥९५०-९५४॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे चौथी भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना की जाती है ॥९५५॥

इस अनन्तर-प्ररूपित आवलीके असंख्यातवें भागप्रमित उत्कृष्ट अन्तरसे उपलब्ध होनेवाली अपश्चिम (अन्तिम) असामान्य स्थितिके समयमें अर्थात् तदनन्तर समयमें पाई जानेवाली उपरिम स्थितिमें भववद्ध-शेष और समयप्रवद्ध-शेष नियमसे

९५६. विहासा । ९५७. समयप्रवद्धसेसयं जिस्से द्विदीए णत्थि तदो विदियाए
द्विदीए ण होज्ज, तदियाए द्विदीए ण होज्ज, तदो चउत्थीए ण होज्ज । एवमुक्कस्सेण
आवल्याए असंखेज्जदिभागमेत्तीसु द्विदीमु ण होज्ज समयप्रवद्धसेसयं । ९५८. आव-
ल्याए असंखेज्जदिभागं गंतूण णियमा समयप्रवद्धसेसएण अविरहिदाओ द्विदीओ ।
९५९. जाओ ताओ अविरहिदद्विदीओ ताओ एगसमयप्रवद्धसेसएण अविरहिदाओ
थोवाओ । ९६०. अणेमाणं समयप्रवद्धाणं सेसएण अविरहिदाओ असंखेज्जगुणाओ ।
९६१. पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्ताणं समयप्रवद्धाणं सेसएण अविरहिदाओ असं-
खेज्जा भागा ।

पाये जाते हैं और उसमें अर्थात् उस क्षपककी अष्टवर्षप्रमित स्थितिके भीतर उत्तरपद
जाते हैं ॥२०३॥

विशेषार्थ—तीसरी भाष्यगाथामें सामान्यस्थितियोंके अन्तर्गत असामान्य स्थितियों
प्रधानरूपसे कही गई थीं । इस चौथी गाथामें असामान्य स्थितियोंमेंसे अन्तरित सामान्य
स्थितियोंका निरूपण किया गया है । इस गाथाका अभिप्राय यह है कि सामान्य स्थितियोंके
अन्तररूपसे असामान्य स्थितियाँ पाई जाती हैं । वे कमसे कम एकसे लगाकर दो, तीन
आदिके क्रमसे बढ़ते हुए अधिक से अधिक आवलीके असंख्यातवे भागप्रमाण निरन्तररूपसे
पाई जाती हैं, यह बात पहले बतलाई जा चुकी है । इस प्रकारसे पाई जानेवाली उन असा-
मान्य स्थितियोंकी चरिमस्थितिसे ऊपर जो अनन्तर समयवर्ती स्थिति पाई जाती है, उसमें
भी नियमसे समयप्रवद्ध-शेष और भववद्ध-शेष पाये जाते हैं । ये भववद्धशेष और समय-
प्रवद्धशेष कितने और किस रूपसे पाये जाते हैं, इस बातके बतलानेके लिए गाथा-सूत्रकारने
'उत्तरपदाणि' यह पद दिया है, जिसका भाव यह है कि वे भववद्धशेष और समयप्रवद्ध-
शेष एक, दो आदिके क्रमसे बढ़ते हुए अधिकसे अधिक पल्योपमके असंख्यातवे भाग-
प्रमाण भववद्धशेष और समयप्रवद्धशेष उस एक अनन्तर-उपरिम स्थितिमें ही नहीं पाये जाते
हैं, अपि तु एक आदिके क्रमसे बढ़ते हुए उत्कृष्टतः वर्षपृथक्त्वप्रमाणवाली स्थितियोंमें सर्वत्र
क्रमशः अवस्थित रूपसे पाये जाते हैं ।

चूर्णिसू०—अब इस चौथी भाष्यगाथाकी विभाषा की जाती है—समयप्रवद्धशेष
जिस स्थितिमें नहीं है, उससे उपरिम द्वितीय स्थितिमें न हो, तृतीय स्थितिमें न हो, उससे
आगे चतुर्थ स्थितिमें न हो, इस प्रकार उत्कर्षसे आवलीके असंख्यातवे भागमात्र स्थितियोंमें
भी समयप्रवद्धशेष नहीं पाये जा सकते हैं । किन्तु आवलीके असंख्यातवे भागकाल आगे
जाकर नियमसे समयप्रवद्धशेषसे अविरहित (संयुक्त) स्थितियाँ प्राप्त होंगी । जो वे समय-
प्रवद्धशेषसे अविरहित स्थितियाँ पाई जाती हैं, उनमें एक समयप्रवद्ध-शेषसे अविरहित
स्थितियाँ थोड़ी हैं । अनेक समयप्रवद्धशेषसे अविरहित स्थितियाँ असंख्यातगुणी हैं ।
पल्योपमके असंख्यातवे भागमात्र समयप्रवद्धशेषसे अविरहित स्थितियाँ असंख्यात बहुभाग
प्रमाण हैं ॥९५६-९६१॥

९६२. एसा सच्चा चटुहिं गाहाहिं खवगस्स पख्खणा कदा । ९६३. एदाओ चैव चत्तारि वि गाहाओ अभवसिद्धियपाओग्गे' णेद्व्वाओ । ९६४. तत्थ पुव्वं गम-णिज्जा' णिल्लेवणट्ठाणाणमुवदेसपरूवणा । ९६४. एत्थ द्रुविहो उवएसो । ९६६. एककेण उवदेसेण कम्मट्ठिदीए असंखेज्जा भागा णिल्लेवणट्ठाणाणि । ९६७. एककेण उवएसेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । ९६८. जो पवाइज्जइ उवएसो तेण उवदेसेण पलि-दोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि वग्गमूलाणि णिल्लेवणट्ठाणाणि ।

चूर्णिसू०—इन उपर्युक्त चार भाष्यगाथाओंके द्वारा यह सब कृष्टिचेदक क्षपककी प्ररूपणा की गई । अब ये चारों ही भाष्यगाथाएँ अभव्यसिद्धिक जीवकी योग्यतान्पसे भी विभाषा या व्याख्या करनेके योग्य हैं ॥९६२-९६३॥

विशेषार्थ—अभव्य जीवोंके कर्म-बन्धके योग्य परिणामोंको अभव्यसिद्धिक-प्रायोग्य परिणाम कहते हैं । अर्थात् जिस स्थानपर भव्य जीव और अभव्य जीवोंके स्थिति-अनुभागा-बन्धादिके परिणाम सदृशरूपसे प्रवृत्त होते हैं, या एकसे रहते हैं, उन्हें अभव्यसिद्धिक-प्रायोग्य जानना चाहिए । ऊपर जिस प्रकारसे चार भाष्यगाथाओंके द्वारा कृष्टिचेदक क्षपकके भववद्वशेष और समयप्रवद्वशेषकी प्ररूपणा की गई है, उसी प्रकारसे अभव्यसिद्धिकोंके कर्मोंके बँधने योग्य स्थलपर भी भववद्वशेष और समयप्रवद्वशेष की प्ररूपणा करना चाहिए । वह किस प्रकार करना चाहिए, यह चूर्णिकार आगे स्वयं कहेंगे ।

चूर्णिसू०—इस विषयमें सर्वप्रथम निर्लेपनस्थानोंके उपदेशकी प्ररूपणा जाननेके योग्य है । इस विषयमें दो प्रकारके उपदेश पाये जाते हैं । एक उपदेशके अनुसार तो निर्लेपनस्थान कर्मस्थितिके असंख्यात बहुभागप्रमाण होते हैं । एक उपदेशसे पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण होते हैं । अर्थात् जो उपदेश प्रवाहरूपसे चल रहा है, उस उपदेशके अनुसार निर्लेपनस्थान पल्योपमके असंख्यातवे भाग हैं, जिनका कि प्रमाण पल्योपमके असंख्यात वर्गमूलप्रमाण है ॥९६४-९६८॥

विशेषार्थ—कर्म-लेपके दूर होनेके स्थानको निर्लेपनस्थान कहते हैं । अर्थात् एक समयमें बँधे हुए कर्म-परमाणु बन्धावलीके पश्चात् क्रमशः उदयमें प्रविष्ट होकर और सान्तर या निरन्तररूपसे अपना फल देते हुए जिस समयमें सभी निःशेषरूपसे निर्जर्णि होते हैं, उसे निर्लेपनस्थान कहते हैं । विभिन्न समयोंमें बँधे हुए कर्म विभिन्न समयोंमें ही निःशेषरूपसे निर्लेपको प्राप्त होते हैं, अतः उनकी संख्या बहुत होती है । उन निर्लेपनस्थानोंकी संख्या कितनी होती है, इस विषयमें दो प्रकारके उपदेश पाये जाते हैं—एक प्रवाह्यमान उपदेश और

१ को अभवसिद्धियपाओग्गविसयो णाम ? भवसिद्धियाणमभवसिद्धियाण च जत्थ ठिदि-अणुभागा-वधादिपरिणामा सरिसा होदूण पयट्ठ ति, सो अभवसिद्धियपाओग्गविसयो त्ति भण्णदे । जयव०

२ तत्थ किं णिल्लेवणट्ठाण णाम ? एगसमवे वदकम्मपरमाणवो ववावलियमेत्तकाले वोलिदे पच्छा उदय पविसमाणा केत्तियं पि कालं सातरणिरतररख्खेणुदयमागतूण जम्हि समयम्हि सत्त्वे चैव णिस्सेसमुदबं कादूण गच्छंति तेसिं णिरुद्धभवसमयपवद्वपदेसाणं तण्णिणिल्लेवणट्ठाणमिदि भण्णदे ।

९६९. अदीदे काले एगजीवस्स जहण्णए णिल्लेवणट्ठाणे णिल्लेविदुण्वाणं समयपवट्ठाणमेसो कालो थोवो । ९७०. समयुत्तरे विसेसाहिओ । ९७१. पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्ते दुगुणो । ९७२. ठाणाणमसंखेज्जदिभागे जवमज्झं ।

९७३. णाणादुगुणहाणिट्ठाणंतराणि पलिदोवमच्छेदणाणमसंखेज्जदिभागो । ९७४. णाणागुणहाणिट्ठाणंतराणि थोवाणि । ९७५. एयगुणहाणिट्ठाणंतरमसंखेज्जगुणं । ९७६. एकम्मिह ट्ठिदिविसेसे एकस्स वा समयपवट्ठस्स सेसयं दोण्हं वा तिण्हं वा, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्ताणं समयपवट्ठाणं । ९७७. एवं चैव

दूसरा अप्रवाह्यमान उपदेश । प्रवाह्यमान उपदेशके अनुसार निर्लेपनस्थानोका प्रमाण पल्योपमके असंख्यातवें भाग है । किन्तु अप्रवाह्यमान उपदेशके अनुसार निर्लेपनस्थानोकी संख्या कर्मस्थितिके असंख्यात बहुभागप्रमाण है ।

अब प्रवाह्यमान उपदेशका अवलम्बन करके प्रत्येक जीवने अतीतकालमे जघन्य निर्लेपनस्थानसे लेकर उत्कृष्ट निर्लेपनस्थान तक एक-एक स्थान पर जो अनन्तानन्त वार किये हैं, उनमे प्रत्येक स्थानका अतीतकालसम्बन्धी समुदित निर्लेपनकाल यद्यपि अनन्तसमयप्रमाण है, तथापि उनमे परस्पर जो हीनाधिकता है, उसके वतलानेके लिए निर्लेपन किये गए समय-प्रवट्टोके समुच्चयकालका अल्पवहुत्व कहते हैं—

चूर्णिसू०—अतीतकालमे एक जीवके जघन्य निर्लेपनस्थानपर अवस्थित होकर निर्लेपित पूर्व अर्थात् पहले निर्लेपन किये गये समयप्रवट्टोका जो समुदित काल है, वह अनन्तप्रमाण होकरके भी वक्ष्यमाण कालोकी अपेक्षा सबसे कम है । समयोत्तर अर्थात् अनन्तरसमयवर्ती दूसरे निर्लेपनस्थानपर निर्लेपितपूर्व समयप्रवट्टोका समुदित काल विशेष अधिक है । (तीसरे निर्लेपनस्थानपर विशेष अधिक है । इस प्रकार विशेष अधिकके क्रमसे बढ़ता हुआ वह समुदित काल) पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमित निर्लेपनस्थानोके व्यतीत होनेपर दुगुना हो जाता है । उक्त क्रमसे निर्लेपनस्थानोके असंख्यातवें भागपर काल-सम्बन्धी यवमध्य प्राप्त होता है ॥ ९६९-९७२ ॥

अब इस यवमध्यसे अधस्तन और उपरितन नानागुणहानिशलाका आदिका प्रमाण कहते हैं—

चूर्णिसू०—नाना दुगुण-हानिस्थानान्तर पल्योपमके अर्धच्छेदोके असंख्यातवें भाग है । नाना गुणहानिस्थानान्तर अल्प हैं । एक गुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणित हैं ॥ ९७३-९७५ ॥

अब अभव्यसिद्धोकी अपेक्षा उपर्युक्त चार भाष्यगाथाओमेसे प्रथम भाष्यगाथाकी विभाषा करते हैं—

चूर्णिसू०—एक स्थितिविशेषमे एक समयप्रवट्टका शेष होता है, दो समयप्रवट्टोके भी शेष होते हैं, तीन समयप्रवट्टोके भी शेष होते हैं, इस प्रकार बढ़ते हुए उत्कर्षसे पल्योपमके असंख्यातवे भाग-प्रमित समयप्रवट्टोके शेष होते हैं । इस ही प्रकार भववट्टोके भी

भवद्भ्रसेसाणि । ९७८. पढमाए गाहाए अत्थो समत्तो भवदि । ९७९. जवमज्झं कायव्वं, विस्सरिदं लिहिदुं ।

शेष जानना चाहिए । इस प्रकार प्रथम भाष्यगाथाका अर्थ समाप्त हो जाता है । यहाँपर यवमध्यकी प्ररूपणा करना चाहिए । (पहले क्षपकप्रायोग्यप्ररूपणाके अवसरमें) हम लिखना भूल गये ॥ ९७६-९७९ ॥

विशेषार्थ—अभव्यसिद्धोके योग्य की जानेवाली इस प्ररूपणामे प्रथम भाष्यगाथाकी विभाषा करते हुए यवमध्यकी प्ररूपणा करना आवश्यक है । क्षपक-प्रायोग्यप्ररूपणामे भी इस यवमध्यप्ररूपणाका किया जाना आवश्यक था, पर चूर्णिकार कहते हैं, कि वहाँपर हम लिखना भूल गये, इसलिए यहाँपर उसकी सूचना कर रहे हैं । वह इस प्रकार जानना चाहिए—अतीतकालकी अपेक्षा एक जीवके एक स्थितिविशेषमे एक-एक रूपसे रहकर उदयको प्राप्त होकर निर्लेपित हुए जो समयप्रवद्ध-शेष है, ये अनन्त होकर भी वक्ष्यमाण समय-प्रवद्धोकी अपेक्षा सबसे कम है । पुनः दो दोके रूपमे रहकर उदयको प्राप्त होकर निर्लेपित हुए जो समयप्रवद्ध-शेष है, वे विशेष अधिक है । तीन-तीनके रूपमे रहकर उदयको प्राप्त होकर निर्लेपित हुए जो समयप्रवद्ध-शेष है, वे विशेष अधिक है । इस प्रकार चार, पाँच आदि-के क्रमसे बढ़कर पल्योपमका असंख्यातवाँ भाग प्राप्त होने तक एक स्थितिविशेषमे रहकर और उदयको प्राप्त होकर निर्लेपित हुए समयप्रवद्ध-शेष दुगुने होते है । पुनः पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमित विशेष अधिक स्थान जानेपर उदयको प्राप्त होकर निर्लेपित होनेवाले समयप्रवद्ध-शेष दुगुने प्राप्त होते है । इस प्रकार पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमित दुगुण वृद्धियोंके व्यतीत होनेपर समयप्रवद्ध-शेषोकी वृद्धिका यवमध्य प्राप्त होता है । उस यवमध्यसे ऊपर सर्वत्र विशेषहीनके क्रमसे स्थान प्राप्त होते हैं । समयप्रवद्ध-शेषोके ये विशेषहीन स्थान तब तक प्राप्त होते हुए चले जाते है, जब तक कि पल्योपमका उत्कृष्ट असंख्यातवाँ भाग न प्राप्त हो जाय । समयप्रवद्ध-शेषोकी यवमध्यप्ररूपणाके समान भवद्भ्र-शेषोकी भी यवमध्यप्ररूपणा करना चाहिए । कितने ही आचार्य इस यवमध्यप्ररूपणाका नाना स्थितिविशेषोको आश्रय लेकरके व्याख्यान करते है । उनका कहना है कि एक स्थितिविशेषमे शेषरूपसे रहकर अपवर्तनाके द्वारा उदयको प्राप्त होकर निर्लेपनभावको प्राप्त होनेवाले समयप्रवद्ध थोड़े है । दो स्थिति-विशेषोमे शेषरूपसे रहकर अपवर्तनाके वशसे उदयको प्राप्त होकर निर्लेपित होनेवाले समय-प्रवद्ध विशेष अधिक है । इस प्रकार विशेष अधिकके क्रमसे तीन, चार आदिको लेकर पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमित स्थितिविशेषोमे शेषरूपसे रहकर अपवर्तनाके वशसे उदयको प्राप्त कर निर्लेपनपर्यायको प्राप्त होनेवाले समयप्रवद्धोकी शलाकाएँ दुगुनी होती हैं । इस प्रकार दुगुणवृद्धिरूप पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमित स्थान जानेपर यवमध्य प्राप्त होता है । पुनः विशेष हानिका क्रम अन्तिम विकल्प प्राप्त होने तक चलता है । पर जय-ववलाकार इस व्याख्यानको असमीचीन ठहराते है । उनका कहना है कि प्रथम भाष्यगाथा एकस्थितिविशेष-विषयक है, उस समय नानास्थिति-विषयक समयप्रवद्धशेषोकी प्ररूपणा

९८०. विद्याए भासगाहाए अत्थो जहावसरपत्तो । ९८१. तं जहा । ९८२. समयप्रवद्धसेसयमेविरुस्से द्विदीए होज्ज, दोसु तीसु वा, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जभागेसु ।

९८३. णिल्लेवण्हाणाणमसंखेज्जदिभागे समयप्रवद्धसेसयाणि । ९८४. समय-
प्रवद्धसेसयाणि एककम्मि द्विदिविसेसे जाणि ताणि थोवाणि । ९८५. दोसु द्विदिविसेसेसु
विसेसाहियाणि । ९८६. तिसु द्विदिविसेसेसु विसेसाहियाणि । ९८७ पलिदोवमस्स
असंखेज्जदिभागे जवमज्झं । ९८८. णाणंतराणि थोवाणि । ९८९. एगंतरमसंखेज्जगुणं ।

करना असंगत है । हाँ, यह नानास्थितिविशेष-विषयक प्ररूपणा द्वितीय भाष्यगाथामे निबद्ध
दृष्टिगोचर होती है, अतः वहाँपर की जा सकती है । इसलिए यहाँपर तो हमारे द्वारा कही
गई एकस्थितिविशेष-विषयक यवमध्यप्ररूपणा ही करना चाहिए ।

चूर्णिसू०—अत्र अभव्यसिद्धोकी अपेक्षा दूसरी भाष्यगाथाके अर्थका अवसर
प्राप्त हुआ है । वह इस प्रकार है—समयप्रवद्ध-शेष एक स्थितिविशेषमे हो सकता है, दो
स्थितिविशेषोंमे भी हो सकता है, तीन स्थितिविशेषोंमे भी हो सकता है, इस प्रकार एक-
एकके क्रमसे बढ़ते हुए उत्कर्षसे पल्योपमके असंख्यात भागप्रमित स्थितिविशेषोंमें हो सकता
है ॥ ९८०-९८२ ॥

विशेषार्थ—यहाँ इतना विशेष ज्ञातव्य है कि भव्यसिद्धोके उत्कर्षसे वर्षपृथक्त्व-
प्रमित स्थितियोंमे समयप्रवद्ध-शेष पाये जाते हैं और अभव्यसिद्धोके उत्कर्षसे पल्योपमके
असंख्यातवें भागप्रमित स्थितियोंमे समयप्रवद्ध-शेष पाये जाते हैं । एक बात यह भी जानने
योग्य है कि यह सूत्र एकसमयप्रवद्ध-शेषकी प्रधानतासे कहा गया है, क्योंकि नानासमय-
प्रवद्ध-शेषोंकी प्रधानता करनेपर तो जवन्वतः एक स्थितिमे उनका रहना असंभव है ।

अब इन पल्योपमके असंख्यात-भागप्रमित स्थितिविशेषोंका निर्लेपनस्थानोंकी अपेक्षा
अल्पबहुत्व कहते हैं—

चूर्णिसू०—निर्लेपनस्थानोंका जितना प्रमाण है, उनके असंख्यातवें भागमें समय-
प्रवद्ध-शेष पाये जाते हैं । (इसका अभिप्राय यह है कि नाना समयप्रवद्ध-शेष और एक समय-
प्रवद्ध-शेषसे अविरहित सर्व स्थितिविशेषोंका प्रमाण निर्लेपनस्थानोंके असंख्यातवे भागप्रमाण है,
इससे अधिक नहीं है ।) जो समयप्रवद्ध-शेष एक स्थितिविशेषमे पाये जाते हैं, वे सबसे कम
हैं । दो स्थितिविशेषोंमे पाये जानेवाले समयप्रवद्ध शेष विशेष अधिक है । तीन स्थितिविशेषों-
में पाये जानेवाले समयप्रवद्ध-शेष विशेष अधिक है । इस प्रकार विशेष अधिकके क्रमसे बढ़ते
हुए पल्योपमके असंख्यातवे भागमें समयप्रवद्ध शेषोंका यवमध्य प्राप्त होता है । यवमध्यसे
अधस्तन और उपरिम भागमें नाना गुणहानिस्थानान्तर अल्प है । (क्योंकि, उनका प्रमाण
पल्योपमके अर्धच्छेदोंके असंख्यातवे भागप्रमाण है । एक गुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणित
हैं । (क्योंकि, उनका प्रमाण असंख्यात पल्योपमोंके प्रथम वर्गमूलप्रमाण है ।) इस समय-

९९० एवं भववद्धसेसयाणि । ९९१. विदियाए गाहाए अत्थो समत्तो भवदि ।

९९२. तदियाए गाहाए अत्थो । ९९३. असामण्णाओ ङ्घिदीओ एक्का वा, दो वा, तिण्णि वा; एवमणुवद्धाओ उत्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । ९९४. एवं तदियाए गाहाए अत्थो समत्तो ।

९९५. एत्तो चउत्थीए गाहाए अत्थो । ९९६. सामण्णङ्घिदीओ एकंतरिदाओ थोवाओ । ९९७. दुअंतरिदा विसेसाहिया । ९९८. एवं गंतूण पलिदोवमस्स असंखे-ज्जदिभागे [जवमज्झं] । ९९९. णाणागुणहाणिसलागाणि थोवाणि । १०००. एकं-तरमसंखेज्जगुणं ।

प्रवद्ध-शेषकी प्ररूपणाके समान भववद्ध-शेषोकी प्ररूपणा भी करना चाहिए । इस प्रकार दूसरी भाष्यगाथाका अर्थ समाप्त होता है ॥९८३-९९१॥

चूर्णिसू०—अब तीसरी भाष्यगाथाका अर्थ अभव्यसिद्धोकी अपेक्षासे करते हैं । असामान्य स्थितियाँ एक, दो, तीन आदिके अनुक्रमसे बढ़ती हुई अनुवद्ध-परम्परारूपमे उत्कर्षसे पल्योपमके असंख्यातवे भाग होती है । इस प्रकार तीसरी भाष्यगाथाका अर्थ समाप्त होता है ॥९९२-९९४

विशेषार्थ—असामान्य स्थिति और सामान्य स्थितिका स्वरूप पहले बताया जा चुका है । उनमेसे इस गाथामे असामान्य स्थितियोंके प्रमाणको बतलाया गया है । उसे इस प्रकार जानना चाहिए—समयप्रवद्ध और भववद्ध-शेषकी अपेक्षा जघन्यसे सामान्यस्थितियोंसे निरुद्ध एक भी असामान्य स्थिति पाई जाती है, दो भी पाई जाती है, तीन भी पाई जाती है । इस प्रकार एक-एकके क्रमसे निरन्तर बढ़ते हुए उत्कर्षसे पल्योपमके असंख्यातवें भाग-मात्र असामान्य स्थितियाँ अभव्यसिद्ध जीवोके सामान्य स्थितियोंसे परस्परमे सम्बद्ध पाई जाती है । तथा जिस प्रकार क्षपक-प्रायोग्यप्ररूपणामे असामान्यस्थितियोंका अल्पवहुत्व यव-मध्य-प्ररूपणा-गर्भित बतलाया गया है, उसी प्रकार यहाँ अभव्यसिद्धिक जीवोकी अपेक्षासे भी उसका प्ररूपण करना चाहिए । केवल इतनी बात विशेष ज्ञातव्य है कि यहाँपर पल्यो-पमके असंख्यातवे भागमात्र असामान्यस्थितिकी शलाकाओसे दुगुण वृद्धि होती है और क्षपक-प्रायोग्यप्ररूपणामे आवलीके असंख्यातवें भागमात्र अध्वान आगे जाकर दुगुण वृद्धि होती है । यहाँपर यवमध्यसे अधस्तन और उपरितन अध्वानका प्रमाण आवलीके असंख्या-तवें भागमात्र है, किन्तु यहाँपर उसका प्रमाण पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमित है ।

चूर्णिसू०—अब इससे आगे चौथी भाष्यगाथाका अर्थ कहते हैं । यवमध्यके उभय-पार्श्वमे एकान्तरित सामान्य स्थितियाँ अल्प है । दो-अन्तरित सामान्य स्थितियाँ विशेष अधिक हैं । इस क्रमसे बढ़ते हुए जाकर पल्योपमके असंख्यातवें भागपर यवमध्य प्राप्त होता है । यहाँपर नाना गुणहानिशलाकाएँ अल्प है और एकान्तर असंख्यात-गुणित है ॥९९५-१०००॥

१००१. एदमक्खवगस्स णादव्वं । १००२. खवगस्स आवलियाए असंखे-
ज्जदिभागो अंतरं । १००३. इमस्स पुण सामण्णाणं द्विदीणमंतरं पलिदोवमस्स असं-
खेज्जदिभागो ।

विशेषार्थ—इम चौथी भाष्यगाथामे असामान्यस्थितियोसे अन्तरित सामान्य-
स्थितियोकी संख्याका निर्णय क्रिया गया है । यवमध्यके दोनो ओर एक-एक असामान्य
स्थितिसे अन्तरित अर्थात् अन्तर या विभागको प्राप्त होनेवाली जितनी सामान्यस्थितियो पाई
जाती है, उन सबके समुदायको एक शलाका जानना चाहिए । पुनरपि इमी प्रकार दोनो
ही पार्श्वभागोंमें एक-एक असामान्य स्थितिसे अन्तरित जितनी सामान्यस्थितियो पाई जावें,
उनकी दूसरी शलाका ग्रहण करना चाहिए । पुनरपि उभय पार्श्वमें एक-एक असामान्यस्थिति-
से अन्तरित जितनी सामान्यस्थितियो पाई जावें, उन सबके समूहकी तीसरी शलाका ग्रहण
करना चाहिए । इस प्रकार दोनो ओर आगे-आगे बढ़ने पर एक-एक असामान्यस्थितिसे
अन्तरित सामान्यस्थितियोकी समस्त शलाकाएँ यद्यपि पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण
होती हैं, तथापि वे उपरि-वक्ष्यमाण विकल्पोकी अपेक्षा सबसे कम होती है । 'दो-अन्तरित
सामान्य स्थितियो विशेष अधिक हैं,' इसका अभिप्राय यह है कि यवमध्यके उभय पार्श्व-
भागोंमें दो-दो असामान्य स्थितियांसे अन्तरको प्राप्त होकर पाई जानेवाली सामान्यस्थितियो-
की शलाकाएँ भी यद्यपि पल्योपमके असंख्यातवें भाग है, तथापि एकान्तरित शलाकाओकी
अपेक्षा विशेष अधिक हैं । यहाँ विशेषका प्रमाण पल्योपमके असंख्यातवे भागसे भाजित एक
भागप्रमाण जानना चाहिए । पुनः तीन-तीन असामान्यस्थितियोसे अन्तरित सामान्य
स्थितिशलाकाओका प्रमाण विशेष अधिक है । पुनः चार-चार असामान्यस्थितियोसे अन्त-
रित सामान्य स्थितिशलाकाओका प्रमाण विशेष अधिक है । इस प्रकार विशेष अधिकके
क्रमसे बढ़ती हुई पाँच-पाँच, छह-छह आदि असामान्यस्थितियोसे अन्तरित सामान्य स्थिति-
शलाकाओका प्रमाण पल्योपमके असंख्यातवें भाग आगे जानेपर दुगुना हो जाता है । तदनन्तर
इसी क्रमसे असंख्यात दुगुण-वृद्धियोंके व्यतीत होनेपर यवमध्य उत्पन्न होता है । इस यव-
मध्य से ऊपर और नीचे पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण ही नाना गुणवृद्धि-हानिरूप
शलाकाएँ पाई जाती है और इनसे एक गुणवृद्धि-हानिरूप स्थानान्तर असंख्यातगुणित
होता है । जयधवलाकार इसी प्रकारसे सामान्यस्थितियोसे अन्तरित असामान्य स्थितियोकी
यवमध्यप्ररूपणाका भी संकेत इसी गाथाके द्वारा कर रहे है ।

चूर्णिसू०—यह पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण सामान्य स्थितियोका उत्कृष्ट
अन्तर अभव्यसिद्धोके योग्य स्थितिमें वर्तमान भव्य अक्षपक जीवका जानना चाहिए ।
क्षपकके सामान्यस्थितियोका उत्कृष्ट अन्तर आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण है । किन्तु इस
उपयुक्त अक्षपकके सामान्य स्थितियोका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण
है ॥ १००१-१००३ ॥

१००४. जहा समयप्रवद्धसेसयाणि, तथा भववद्धसेसाणि काद्व्याणि । १००५. एवं चउत्थीए गाहाए अत्थो समत्तो भवदि । १००६. अट्टमीए मूलगाहाए विहासा समत्ता भवदि ।

१००७. इमा अण्णा अभवसिद्धियपाओग्गे परूवणा । १००८. तं जहा । १००९. भववद्धाणं^१ णिल्लेवणट्ठाणं जहण्णमं समयप्रवद्धस्स णिल्लेवणट्ठाणं जहण्णयादो असंखेज्जाओ ट्ठिदीओ अब्भुस्सरिदूण ।

चूर्णिसू०—जिस प्रकारसे समयप्रवद्ध-शेषोकी यह प्ररूपणा की है, इसी प्रकारसे भववद्धशेषोकी भी सामान्य असामान्य स्थितियोंके अन्तर आदिकी प्ररूपणा करनी चाहिए । इस प्रकार चौथी भाष्यगाथाका अर्थ समाप्त होता है । और उसके साथ ही आठवीं मूलगाथाकी विभाषा भी समाप्त होती है ॥१००४-१००६॥

चूर्णिसू०—अब अभव्यसिद्ध जीवोके योग्य विषयमे यह अन्य प्ररूपणा की जाती है । वह इस प्रकार है—भववद्ध समयप्रवद्धोका जघन्य निर्लेपनस्थान प्रथम समय-वद्ध समयप्रवद्धके जघन्य निर्लेपनस्थानसे असंख्यात स्थितियाँ आगे जाकर प्राप्त होता है ॥१००७-१००९॥

विशेषार्थ—पहले यह बताया जा चुका है कि अभव्यसिद्ध जीवोके योग्य निर्लेपनस्थानोका प्रमाण पत्योपमके असंख्यातवें भाग है । अब यह बताया जाता है कि जिस समय समयप्रवद्धका जघन्य निर्लेपनस्थान होता है, उस समय भववद्धका भी जघन्य निर्लेपनस्थान नहीं होता है किन्तु उससे असंख्यात स्थितियाँ आगे जाकर होता है । इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—अन्तर्मुहूर्तकी आयुवाले किसी सम्मूर्च्छिम अनुष्य या तिर्यचके उत्पन्न होनेके प्रथम समयसे लेकर अन्तिम समय तक प्रति समय बँधनेवाले समयप्रवद्धोके समुदायको भववद्ध समयप्रवद्ध कहते हैं । इन भववद्ध समयप्रवद्धोका प्रमाण अन्तर्मुहूर्तके जितने समय होते हैं, तत्प्रमाण है । उक्त जीवके उस भवमे जन्म लेनेके प्रथम समयमे जो सर्वजघन्य कर्म-प्रदेशपिड बंधा, वह क्रमशः कर्मस्थितिके असंख्यात भागोमे आगमाविरोधसे निजीर्ण होता हुआ जिस समयमे निःशेषरूपसे गलित होता है, वह प्रथम समय-वद्ध समयप्रवद्धका जघन्य निर्लेपनस्थान कहलाता है । उस समय भववद्ध समयप्रवद्धोका प्रमाण एक समयप्रवद्ध कम अन्तर्मुहूर्तप्रमित भववद्ध समयप्रवद्ध-प्रमाण है । तदनन्तर प्रथम समयमे बँधे हुए समय-प्रवद्धके निर्लेपित होनेपर पुनः शेष समयोन अन्तर्मुहूर्तमात्र समयप्रवद्ध जिस समयमे निःशेषरूपसे गलकर निर्लेपित हो जायेगे, उस समयमे भववद्धका जघन्य निर्लेपनस्थान होगा । अतएव दोनोके जघन्य निर्लेपनस्थान एक साथ नहीं होते हैं । इसलिए यह निष्कर्ष निकला

? तिरिक्खस्स मणुस्स वा अतोमुहुत्ताउगभवे उप्पज्जिदूण ववमाणस्स जाव तमाउअ समप्पइ ताव तम्मि भवम्मि वद्धसमयप्रवद्धा अतोमुहुत्तमेत्ता भवति । तदो एत्तियमेत्तसमयप्रवद्धाण समूहमेकदो कादूण गहिदे एग भववद्धयं णाम भण्णदे । जयव०

१०१०. तदो जवमज्झं कायच्चं । १०११. जम्हि चेव समयपवद्धणिल्ले-
वणट्टाणाणं जवमज्झं, तम्हि चेव भववद्धणिल्लेवणट्टाणाणं जवमज्झं ।

१०१२. अदीदे काले जे समयपवद्धा एकेण पदेसग्गेण णिल्लेविदा ते थोवा ।
१०१३. वेहिं पदेसेहिं विसेसाहिया । १०१४. एवमणतरोवणिधाए अणंताणि ट्टाणाणि
विसेसाहियाणि । १०१५. ठाणाणं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागपडिभागे जवमज्झं ।
१०१६. गाणंतरं थोवं । १०१७. एगंतरमणंतगुणं । १०१८. अंतराणि अंतरट्टुदाए

कि समयप्रवद्धके जघन्य निर्लेपनस्थानसे ऊपर नियमतः अन्तर्मुहूर्तमात्र स्थितियोंके जानेपर भववद्धका जघन्य निर्लेपनस्थान होता है, ऐसा निश्चय करना चाहिए ।

चूर्णिसू०—तदनन्तर यवमध्यप्ररूपणा करना चाहिए । जिस ही समयमे समय-
प्रवद्धके निर्लेपनस्थानोंका यवमध्य प्राप्त होता है, उस ही समयमे भववद्धके निर्लेपन-
स्थानोंका यवमध्य प्राप्त होता है ॥१०१०-१०११॥

विशेषार्थ—इस यवमध्यप्ररूपणाको इस प्रकार जानना चाहिए— जघन्य निर्लेपन-
स्थानसे लगाकर उत्कृष्ट निर्लेपनस्थान तक निर्लेपित हुए समयप्रवद्ध और भववद्धोंकी अतीत
काल-विषयक शलाकाओंको ग्रहण करके यह यवमध्यप्ररूपणा की गई है । उसका स्पष्टीकरण
यह है कि जघन्य निर्लेपनस्थान पर पूर्वमे निर्लेपित हुए समयप्रवद्ध और भववद्ध सबसे कम
हैं । समयोत्तर निर्लेपनस्थानपर विशेष अधिक है । द्विसमयोत्तर निर्लेपनस्थानपर विशेष
अधिक है । इस प्रकार निरन्तर समय-समय प्रति विशेष अधिकके क्रमसे बढ़ते हुए पल्योपम-
के असंख्यातवे भाग आगे जानेपर दुगुनी वृद्धि हो जाती है । इन दुगुण वृद्धिरूप भी
स्थानोंके पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमित आगे जाकर निर्लेपनस्थानोंके असंख्यातवे
भागके प्राप्त होनेपर यवमध्य प्राप्त होता है । तत्पश्चात् विशेष हीन क्रमसे उत्कृष्ट निर्लेपन-
स्थानके प्राप्त होने तक इसी प्रकारकी प्ररूपणा करना चाहिए । यहाँ इतना विशेष जानना
चाहिए कि सर्व निर्लेपनस्थानोंपर पूर्वमे निर्लेपित हुए समयप्रवद्ध और भववद्धोंका प्रमाण
अनन्त है; क्योंकि अतीतकालकी अपेक्षा उनका अनन्त होना स्वाभाविक ही है ।

चूर्णिसू०—अतीतकालमे जो समयप्रवद्ध एक-एक प्रदेशाग्ररूपसे निर्लेपित हुए है,
वे सबसे कम है । जो समयप्रवद्ध दो-दो प्रदेशाग्ररूपसे निर्लेपित हुए है, वे विशेष अधिक
है । इस प्रकार अनन्तरोपनिधारूप श्रेणीकी अपेक्षा अनन्त स्थान विशेष-विशेष अधिक होते
है । इन समयप्रवद्धशेषस्थानोंके पल्योपमके असंख्यातवे भागके प्रतिभागमे यवमध्यस्थान
प्राप्त होता है । यवमध्यसे अधस्तन और उपरिम नानान्तर अर्थात् समस्त नानागुणहानि-
शलाकाएँ अल्प हैं । एकान्तर अर्थात् एकगुणहानिस्थानकी शलाकाएँ अनन्तगुणित है ।
क्योंकि अन्तरके लिए अर्थात् एक-एक गुणहानिस्थानका अन्तर निकालनेके लिए अवस्थापित
अन्तर अर्थात् नानागुणहानिशलाकाओंका प्रमाण पल्योपमके अर्धच्छेदोंके भी असंख्यातवें

पलिदोवमच्छेदणाणं पि असंखेज्जदिभागो । १०१९. णाणंतराणि थोवाणि । १०२०. एवकंतरमणंतगुणं ।

१०२१. खवगस्स वा अखवगस्स वा समयपवद्धाणं वा भववद्धाणं वा अणु-
समयणिल्लेवणकालो एगसमइओ बहुगो । १०२२. दुसमइओ विसेसहीणो । १०२३.
एवं गंतूण आवलियाए असंखेज्जदिभागे दुगुणहीणो । १०२४. उक्कस्सओ वि अणु-
समयणिल्लेवणकालो आवलियाए असंखेज्जदिभागो ।

१०२५. अखवगस्स एगसमइएण अंतरेण णिल्लेविदा समयपवद्धा वा भववद्धा
वा थोवा । १०२६. दुसमएण अंतरेण णिल्लेविदा विसेसाहिया । १०२७ एवं गंतूण
पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागे दुगुणा । १०२८. द्वाणाणमसंखेज्जदिभागे जवमज्झं ।
१०२९. उक्कस्सयं पि णिल्लेवणंतरं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।

१०३०. एककेण समएण णिल्लेविज्जंति समयपवद्धा वा भववद्धा वा एकको

भाग है । अतएव नानागुणहानिस्थानान्तर अल्प हैं और एकगुणहानिस्थानान्तर अनन्तगुणित
हैं । (इसी प्रकारसे भववद्धशेषोंकी भी यवमध्यप्ररूपणा जानना चाहिए ।) ॥ १०१२-१०२० ॥

अव मव्यसिद्ध और अभव्यसिद्ध जीवोंके योग्य जो समान प्ररूपणा है, उसका
निरूपण करते हैं—

चूर्णिसू०—क्षपकके अथवा अक्षपकके समयप्रवद्धोंका अथवा भववद्धोंका एकसमयिक
अनुसमयनिर्लेपनकाल बहुत है । द्विसमयिक अनुसमयनिर्लेपनकाल विशेष हीन है । इस
प्रकार विशेष हीन क्रमसे जाकर अनुसमयनिर्लेपनकाल आवलीके असंख्यातवें भागपर दुगुण
हीन है । उक्कट भी अनुसमयनिर्लेपनकाल आवलीका असंख्यातवाँ भाग है ॥ १०२१-१०२४ ॥

अव एकको आदि लेकर एकोत्तरके क्रमसे परिवर्धित अनिलेपित स्थितियोंके द्वारा
अन्तरित निर्लेपनस्थितियोंका उदयकी अपेक्षा निर्लेपित-पूर्व भववद्ध और समयप्रवद्धोंका
अतीतकालविषयक अल्पवहुत्व अक्षपककी दृष्टिसे कहते हैं—

चूर्णिसू०—अक्षपकके एकसमयिक अन्तरसे निर्लेपित समयप्रवद्ध और भववद्ध
अल्प हैं । द्विसमयिक अन्तरसे निर्लेपित समयप्रवद्ध और भववद्ध विशेष अधिक हैं ।
इस प्रकार विशेष अधिकके क्रमसे आगे जाकर पल्योपमके असंख्यातवें भागपर उनका
प्रमाण दुगुना होता है । दुगुणवृद्धिरूप स्थानोंको पल्योपमके असंख्यातवें भागपर
यवमव्य प्राप्त होता है । उक्कट भी निर्लेपन-अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण
है ॥ १०२५-१०२९ ॥

अव आचार्य एक समयमे निर्लेपमान समयप्रवद्ध और भववद्धोंका प्रमाण वतलाने-
के लिए उत्तरसूत्र कहते हैं—

चूर्णिसू०—एक समयके द्वारा जो समयप्रवद्ध या भववद्ध निर्लेपित किये जाते हैं,

१ अणुसमयणिल्लेवणकालो णाम समयपवद्धाण वा भवपवद्धाणं वा अणु संततं णिल्लेवणकालो । जयध०

वा दो वा तिणिण वा, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । १०३१. एदेण विज्वमज्जं । १०३२ एककेक्केण णिल्लेविज्जंति ते थोवा । १०३३. दोणिण णिल्लेविज्जंति विसेसाहिया । १०३४ तिणिण णिल्लेविज्जंति विसेसाहिया । १०३५. एवं गंतूण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागे दुगुणा ।

१०३६. णाणंतराणि थोवाणि । १०३७. एकंतरच्छेदणाणि वि असंखेज्जगुणाणि ।

१०३८. अप्पावहुअं । सव्वत्थोवमणुसमयणिल्लेवणकंडयमुक्कस्सयं । १०३९. जे एगसमएण णिल्लेविज्जंति भववद्धा ते असंखेज्जगुणा । १०४० समयपवद्धा एगसमएण णिल्लेविज्जंति असंखेज्जगुणा । १०४१ समयपवद्धसेसएण विरहिदाओ णिरं-

वे एक भी होते हैं, दो भी होते हैं, तीन भी होते हैं । (इस प्रकार एक-एक कर बढ़ते हुए) उत्कर्षसे पल्योपमके असंख्यातवें भाग तक होते हैं । (यह प्ररूपणा क्षपक और अक्षपक दोनोंके लिए समान जानना चाहिए ।) इस प्ररूपणामे भी यवमध्यरचना होती है । (वह इस प्रकार है—) जो समयप्रवद्ध या भववद्ध एक-एकके रूपसे निर्लेपित किये गये हैं, वे सबसे कम हैं । जो समयप्रवद्ध या भववद्ध दो-दोके रूपसे निर्लेपित किये गए हैं, वे विशेष अधिक हैं । जो समयप्रवद्ध या भववद्ध तीन-तीनके रूपसे निर्लेपित किये गये हैं, वे विशेष अधिक हैं । इस प्रकार विशेष अधिककी वृद्धिसे निर्लेपित किये गये समयप्रवद्धो या भववद्धोका प्रमाण पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमित काल आगे जानेपर दुगुना हो जाता है ॥१०३०-१०३५॥

विशेषार्थ—इस प्रकार पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमित दुगुण-वृद्धिरूप स्थानोके व्यतीत होनेपर यवमध्य प्राप्त होता है । उससे ऊपर विशेष हीनके क्रमसे असंख्यात गुणहानिरूप स्थान जानेपर प्रकृत यवमध्यप्ररूपणाका चरम विकल्प प्राप्त होता है । यवमध्यके अधस्तन सकल अध्वानोसे उपरिम सकल अध्वान असंख्यातगुणित होते हैं । तथा अधस्तन दुगुणवृद्धिशलाकाओसे उपरिम दुगुणवृद्धिशलाकाएँ भी असंख्यातगुणी होती है, इतना विशेष जानना चाहिए ।

अब इस यवमध्यप्ररूपणा-सम्बन्धी नानागुणहानिशलाकाओका और एकगुणहानि-स्थानान्तरका प्रमाण बतलाते हैं—

चूर्णिसू०—नानान्तर अर्थात् नानागुणहानिशलाकाएँ (पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमित होकरके भी वक्ष्यमाणपदकी अपेक्षा) अल्प है । इनसे एकान्तरच्छेद अर्थात् एक गुणहानिस्थानान्तरकी अर्धच्छेद-शलाकाएँ असंख्यातगुणित है ॥१०३६-१०३७॥

चूर्णिसू०—अब उपर्युक्त समस्त पदोका अल्पवहुत्व कहते हैं—उत्कृष्ट अनुसमय निर्लेपनकाण्डक अर्थात् प्रतिसमय निर्लेपित होनेवाले समयप्रवद्धो या भववद्धोका उत्कृष्ट निर्लेपनकाल (आवलीके असंख्यातवे भागप्रमित होकरके भी वक्ष्यमाण पदोकी अपेक्षा) सबसे कम है । जो भववद्ध एक समयके द्वारा निर्लेपित किये जाते हैं वे असंख्यातगुणित

तराओ द्विदीओ असंखेज्जगुणाओ । १०४२. पलिदोवमवग्गमूलमसंखेज्जगुणं । १०४३. णिसेगगुणहाणिङ्काणंतरमसंखेज्जगुणं । १०४४. भववद्धानं णिल्लेवणट्ठाणाणि असंखेज्जगुणाणि । १०४५. समयपवद्धानं णिल्लेवणट्ठाणाणि विसेसाहियाणि । १०४६. समयपवद्धस्स कम्मद्विदीए अंतो अणुसमय-अवेदककालो असंखेज्जगुणो । १०४७. समयपवद्धस्स कम्मद्विदीए अंतो अणुसमयवेदककालो असंखेज्जगुणो । १०४८. सव्वो अवेदककालो असंखेज्जगुणो । १०४९. सव्वो वेदककालो असंखेज्जगुणो । १०५०. कम्मद्विदी विसेसाहिया ।

१०५१. णवमीए मूलगाहाए समुक्कित्तणा ।

(१५१) किट्ठीकदम्मि कम्मे द्विदि-अणुभागेषु केषु सेसाणि ।

कम्माणि पुव्ववद्धानि वज्झमाणाणुदिण्णाणि ॥२०४॥

१०५२. एदिस्से दो भासगाहाओ । १०५३. तासिं समुक्कित्तणा ।

है । (क्योंकि उनका प्रमाण पल्योपमके असंख्यातवे भाग है ।) जो समयप्रवद्ध एक समयके द्वारा निर्लेपित किये जाते हैं, वे असंख्यातगुणित है । समयप्रवद्ध-शेषसे विरहित (उपलब्ध होनेवाली) निरन्तर स्थितियों असंख्यातगुणित है । पल्योपमका प्रथम वर्गमूल असंख्यातगुणित है । निपेकोका गुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणित है । (क्योंकि, वह असंख्यात पल्योपम-प्रथमवर्गमूल प्रमाण है ।) भववद्धोके निर्लेपनस्थान असंख्यातगुणित है । समयप्रवद्धोके निर्लेपनस्थान विशेष अधिक है । (इस विशेष अधिकका प्रमाण अन्तर्मुहूर्तमात्र ही है, क्योंकि समयप्रवद्धोंके जघन्य निर्लेपनस्थानसे ऊपर अन्तर्मुहूर्तप्रमित स्थितियोंके पश्चात् ही भववद्धोका जघन्य निर्लेपनस्थान प्राप्त होता है ।) समयप्रवद्धकी कर्मस्थितिके भीतर अनुसमय अवेदककाल असंख्यातगुणित है । समयप्रवद्धकी कर्मस्थितिके भीतर अनुसमय वेदककाल असंख्यातगुणित है । सर्व अवेदककाल असंख्यातगुणित है । इससे सर्व वेदककाल असंख्यातगुणित है । (क्योंकि वह कर्मस्थितिके असंख्यात बहुभागप्रमाण है ।) सर्ववेदककालसे कर्मस्थिति असंख्यातगुणित है ॥१०२८-१०५०॥

चूर्णिसू०—अव नवमी मूलगाथाकी समुत्कीर्तना की जाती है ॥१०५१॥

मोहनीय कर्मके निरवशेष अनुभागसत्कर्मके कृष्टिकरण करनेपर अर्थात् अकृष्टिरूपसे अवस्थित अनुभागको कृष्टिरूपसे परिणमित कर देने पर कृष्टिवेदनके प्रथम समयमें वर्तमान जीवके पूर्व वद्धज्ञानावरणीयादि कर्म किन स्थितियोंमें और किन अनुभागोंमें शेष अर्थात् अवशिष्ट रूपसे पाये जाते हैं ? तथा बध्यमान अर्थात् वर्तमान समयमें बंधनेवाले और उदीर्ण अर्थात् वर्तमानमें उदय आनेवाले कर्म किन-किन स्थितियों और अनुभागोंमें पाये जाते हैं ? ॥२०४॥

चूर्णिसू०—इस प्रश्नात्मक मूलगाथाके अर्थकी विभाषा करनेवाली दो भाष्यगाथाएँ हैं । अव उनकी समुत्कीर्तना की जाती है ॥१०५२-१०५३॥

(१५२) किट्टीकदम्भि कम्मे णामा-गोदाणि वेदणीयं च ।

वस्सेसु असंखेज्जेसु सेसगा होंति संखेजा ॥२०५॥

१०५४. विहासा । १०५५. किट्टीकरणे णिट्टिदे किट्टीणं पढमसमयवेदगस्स णामा-गोद-वेदणीयाणं ट्टिदिसंतकम्मपसंखेज्जाणि वस्साणि । १०५६. मोहणीयस्स ट्टिदिसंतकम्ममड्ड वस्साणि । १०५७. तिण्हं घादिकम्माणं ट्टिदिसंतकम्मं संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि ।

१०५८. एत्तो विदियाए भासगाहाए समुक्कित्तणा ।

(१५३) किट्टीकदम्भि कम्मे सादं सुहणाममुच्चगोदं च ।

वंधदि च सदसहस्से ट्टिदिमणुभागसुदुक्कस्सं ॥२०६॥

१०५९. विहासा । १०६०. किट्टीणं पढमसमयवेदगस्स संजलणाणं ठिदिवंधो चत्तारि मासा । १०६१. णामा-गोद-वेदणीयाणं तिण्हं चैव घादिकम्माणं ठिदिवंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । १०६२. णामा-गोद-वेदणीयाणमणुभागवंधो तस्समय-उक्कस्सगो ।

मोहनीयकर्मके कृष्टिकरण कर देने पर नाम, गोत्र और वेदनीय ये तीन कर्म असंख्यात वर्षोंवाले स्थितिसत्त्वोंमें पाये जाते हैं । शेष चार घातिया कर्म संख्यात वर्षप्रमित स्थितिसत्त्वरूप पाये जाते हैं ॥२०५॥

चूर्णिसू०—उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा इस प्रकार है—कृष्टिकरणके निष्पन्न होनेपर प्रथम समयमें कृष्टियोंका वेदन करनेवाले जीवके नाम, गोत्र और वेदनीय इन तीन कर्मोंका स्थितिसत्कर्म असंख्यात वर्षप्रमाण है । मोहनीयकर्मका स्थितिसत्त्व आठ वर्षप्रमाण है । शेष तीन घातिया कर्मोंका स्थितिसत्त्व संख्यात सहस्र वर्षप्रमाण है ॥१०५४-१०५७॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे दूसरी भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना की जाती है ॥१०५८॥

मोहनीयकर्मके कृष्टिकरण कर देनेपर वह कृष्टिवेदक क्षपक सातावेदनीय, यज्ञःकीर्तिनामक शुभनामकर्म और उच्चगोत्र ये तीन अघातिया कर्म संख्यात शतसहस्र वर्षप्रमाणमें स्थितिको बाँधता है । तथा वह कृष्टिवेदक इन तीनों कर्मोंके स्वयोग्य उत्कृष्ट अनुभागको बाँधता है ॥२०६॥

चूर्णिसू०—उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा इस प्रकार है—कृष्टियोंके प्रथम समयमें वेदन करनेवाले क्षपकके चारों संव्वलनकपायोंका स्थितिवन्ध चार मास है । नाम, गोत्र और वेदनीय इन तीन अघातिया कर्मोंका तथा शेष तीनों घातिया कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात सहस्र वर्ष है । नाम, गोत्र और वेदनीय इन तीनों अघातिया कर्मोंका अनुभागवन्ध तत्समय-उत्कृष्ट है, अर्थात् उस प्रथमसमयवर्ती कृष्टिवेदक क्षपकके यथायोग्य जितना उत्कृष्ट अनुभागवन्ध होना चाहिए, उतना होता है ॥१०५९-१०६२॥

१०६३. एतां ताव दो मूलमाहाश्रो श्रवणिज्जाशो । १०६४. क्रिड्डीवेदगस्म ताव परुवणा कायव्वा । १०६५. तं जहा । १०६६. क्रिड्डीणं पद्ममपगवेदगस्म संजलणाणं द्विदिसंतकम्ममडु वस्साणि । १०६७. तिण्हं वादिक्कभाणं द्विदिसंतकम्मं संवेज्जाणि वस्मसहस्साणि । १०६८. णामा-गोद-वेदणीयाणं द्विदिसंतकम्ममसंवेज्जाणि वस्ससहस्साणि । १०६९. संजलणाणं द्विदिवंधो चत्तारि मासा । १०७०. सेमाणं कम्माणं द्विदिवंधो संखेज्जाणि वस्मसहस्साणि ।

१०७१. क्रिड्डीणं पद्मसमयवेदगस्पद्दुटि गोहणीयस्म अणुभागाणमणुसमयो-वट्टणा । १०७२. पद्मसमयक्रिड्डीवेगस्स कोहक्रिड्डी उदये उक्कस्सिया वट्टणी । १०७३. वंधे उक्कस्सिया अणंतगुणहीणा । १०७४. विदियसमये उदये उक्कस्सिया अणंत-

चूर्णिमू०—अब इससे आगे अर्थात् नवमी मूलगाथाके पश्चात् कर्मागत एवं कथन करने योग्य दो मूलगाथाएँ स्थापनीय हैं, अर्थात् उनकी समुत्कीर्तना स्वगित की जाती है । (क्योंकि, उनका अर्थ सरलतासे समझनेके लिए कुछ अन्य कथन आवश्यक है ।) अतएव पहले कृष्टिवेदकी प्ररूपणा करनी चाहिए । वह इस प्रकार है—कृष्टियोंके प्रथम समयमें वेदन करनेवाले क्षपकके चारो संज्वलन कपायोंका स्थितिसत्त्व आठ वर्ष है । शेष तीन वातिया कर्मोंका स्थितिसत्त्व संख्यातसहस्र वर्ष है । नाम, गोत्र और वेदनीय, इन तीन अवातिया कर्मोंका स्थितिसत्त्व असंख्यात सहस्र वर्ष है । चारो संज्वलनोका स्थितिवन्ध चार मास है । शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात सहस्र वर्ष है ॥ १०६३-१०७० ॥

चूर्णिमू०—कृष्टियोंके प्रथमसमयवर्ती वेदक होनेके कालसे लेकर कृष्टिवेदक क्षपकके मोहनीय कर्मके अनुभागोंकी प्रतिसमय अपवर्तना होती है ॥ १०७१ ॥

विशेषार्थ—इससे पूर्व अर्थात् अश्वकर्णकरणकालमें और कृष्टिकरणकालमें अन्त-मुहूर्तमात्र उत्कीर्णनाकालप्रतिबद्ध अनुभागघात संज्वलनप्रकृतियोंका अश्वकर्णकरणके आकारसे हो रहा था, किन्तु वह इस समय अर्थात् कृष्टिवेदकके प्रथम समयसे लेकर आगे प्रति समय अनन्तगुणहानिरूपसे प्रवृत्त होता है । इसका अभिप्राय यह है कि कृष्टिकरणकालमें मोहनीयके चारो संज्वलनकपायोंका जो अनुभाग संग्रहकृष्टिके रूपसे बारह भेदोंमें विभक्त किया था, उसकी एक-एक संग्रह-कृष्टिके अग्रकृष्टिसे लगाकर असंख्यातवे भाग समयप्रवृत्तोंके अनुभागको छोड़कर शेष अनुभागकी समय-समयमें अनन्तगुणहानिके रूपमें अपवर्तना होने लगती है । किन्तु ज्ञानावरणादि शेष कर्मोंका पूर्वोक्त क्रमसे ही अन्तमुहूर्तप्रमित अनुभागघात होता है । तथा उसी पूर्वोक्त क्रमसे ही सभी कर्मोंका स्थितिघात जारी रहता है, उसमें कोई भेद नहीं पड़ता है ।

चूर्णिमू०—प्रथमसमयवर्ती कृष्टिवेदकके अनन्त मध्यम कृष्टियोंमेंसे जो क्रोधकृष्टि उदय में उत्कृष्ट अर्थात् सर्वोपरिरूपसे प्रवेश कर रही है वह तीव्र अनुभागवाली है । परन्तु बन्धको प्राप्त होनेवाली उत्कृष्ट क्रोधकृष्टि अनन्तगुणी हीन अनुभागवाली है । द्वितीय समयमें उदयमें प्रवेश करनेवाली उत्कृष्ट क्रोधकृष्टि अनन्तगुणी हीन अनुभागवाली है, तथा बन्धको प्राप्त

गुणहीणा । १०७५. वंधे उक्कस्सिया अणंतगुणहीणा । १०७६. एवं सव्विस्से किट्ठीवेदगद्दाए ।

१०७७. पढमसमये वंधे जहणिया किट्ठी तिव्वाणुभागा । १०७८. उदये जहणिया किट्ठी अणंतगुणहीणा । १०७९. विदियसमये वंधा जहणिया किट्ठी अणंतगुणहीणा । १०८०. उदये जहणिया अणंतगुणहीणा । १०८१. एवं सव्विस्से किट्ठीवेदगद्दाए । १०८२. समये समये णिव्वग्गणाओ जहणियाओ वि य । १०८३. एसा कोहकिट्ठीए परूवणा ।

१०८४. किट्ठीणं पढमसमयवेदगस्स माणस्स पढमाए संगहकिट्ठीए किट्ठीणमसंखेज्जा भागा वज्झंति । १०८५. सेसाओ संगहकिट्ठीओ ण वज्झंति । १०८६ एवं मायाए । १०८७. एवं लोभस्स वि ।

होनेवाली उत्कृष्ट क्रोधकृष्टि अनन्तगुणी हीन अनुभागवाली है । इसी प्रकार अर्थात् जिस प्रकारसे प्रथम और द्वितीय समयमे वन्ध और उदयकी अपेक्षा क्रोधकृष्टिका अल्पबहुत्वरूपसे अनुभाग कहा है, उसी प्रकार सर्व कृष्टिवेदककालमे कृष्टियोंके अनुभागका हीनाधिक क्रम जानना चाहिए ॥ १०७२-१०७६ ॥

अव वध्यमान तथा उदयको प्राप्त होनेवाली कृष्टियोंका अनुभागसम्बन्धी अल्पबहुत्व कहते हैं—

चूर्णिसू०—प्रथम समयमे वन्धमे अर्थात् वध्यमानकालमे वंधनेवाली जघन्य क्रोधकृष्टि तीव्र अनुभागवाली है और उदयमे प्रवेश करनेवाली जघन्य क्रोधकृष्टि अनन्तगुणी हीन अनुभागवाली है । द्वितीय समयमे वध्यमान जघन्य क्रोधकृष्टि अनन्तगुणी हीन अनुभागवाली है और उदयमे प्रवेश करनेवाली जघन्य क्रोधकृष्टि अनन्तगुणी हीन अनुभागवाली है । इसी प्रकार सम्पूर्ण कृष्टिवेदककालमे वन्ध और उदयकी अपेक्षा जघन्य कृष्टियोंका अनुभागसम्बन्धी अल्पबहुत्व जानना चाहिए । समय-समयमे अर्थात् कृष्टिवेदनकालमें प्रतिसमय जघन्य भी निर्वर्गणाएँ उत्तरोत्तर अनन्तगुणी हीन अनुभागवाली होती हैं । (वध्यमान और उदीयमान कृष्टियोंके अनन्तगुणित हानिके रूपसे प्राप्त होनेवाले अपसरण विकल्पोको निर्वर्गणा कहते हैं ।) यह सब संज्वलनक्रोधसम्बन्धी प्रथमसंग्रहकृष्टिकी जघन्य-उत्कृष्ट अनुभागकी अपेक्षा प्ररूपणा की गई है ॥ १०७७-१०८३ ॥

चूर्णिसू०—कृष्टियोंका प्रथम समयमे वेदन करनेवाले क्षपकके संज्वलनमानकी प्रथम संग्रहकृष्टिमे कृष्टियोंके असंख्यात बहुभाग वंधते हैं । शेष संग्रहकृष्टियाँ नहीं वंधती हैं । इसी प्रकार संज्वलनमाया और संज्वलनलोभकी भी प्ररूपणा जानना चाहिए, अर्थात् प्रथम संग्रहकृष्टिमे कृष्टियोंके असंख्यात बहुभाग वंधते हैं और शेष संग्रहकृष्टियाँ नहीं वंधती हैं ॥ १०८४-१०८७ ॥

१०८८. किङ्कीणं पढमसमयवेदगो वारसण्हं पि संगहकिङ्कीणमग्गकिङ्कीमादिं कादूण एककेक्किस्से संगहकिङ्कीए असंखेज्जदिभागं विणासेदि । १०८९. कोहस्स पढमसंगहकिङ्की मोत्तूण सेसाणमेक्कारसण्हं संगहकिङ्कीणं अण्णाओ अपुच्चाओ किङ्कीओ णिव्वत्तेदि । १०९० ताओ अपुच्चाओ किङ्कीओ कदमादो पदेसग्गादो णिव्वत्तेदि ? १०९१. वज्झमाणयादो च संकामिज्जमाणयादो च पदेसग्गादो णिव्वत्तेदि ।

१०९२. वज्झमाणयादो थोवाओ णिव्वत्तेदि । संकामिज्जमाणयादो असंखेज्ज-गुणाओ । १०९३. जाओ ताओ वज्झमाणयादो पदेसग्गादो णिव्वत्तिज्जंति ताओ चदुसु पढमसंगहकिङ्कीसु । १०९४. ताओ कदमम्मि ओगासे ? १०९५. एककेक्किस्से संगह-किङ्कीए किङ्कीअंतरेसु । १०९६. किं सव्वेसु किङ्कीअंतरेसु, आहो ण सव्वेसु ? १०९७. ण सव्वेसु । १०९८. जइ ण सव्वेसु, कदमेसु अंतरेसु अपुच्चाओ णिव्वत्तयदि ? १०९९.

चूर्णिसू०—कृष्टियोंका प्रथम समयवेदक वारहों ही संग्रहकृष्टियोंके अग्रकृष्टिको आदि करके एक-एक संग्रहकृष्टिके असंख्यातवें भागको विनाश करता है, अर्थात् उतनी कृष्टियोंकी शक्तियोंको अपवर्तनावात्से प्रतिसमय अपवर्तन करके अधस्तन कृष्टिरूपसे स्थापित करता है । (इसी प्रकार द्वितीयादि समयोंमें भी अपवर्तनावात् जानना चाहिए । केवल इतना भेद है कि प्रथम समयमें विनाश की गई कृष्टियोंसे द्वितीयादि समयमें विनाश की जानेवाली कृष्टियाँ उत्तरोत्तर असंख्यातगुणित हीन होती हैं ।) ॥१०८८॥

चूर्णिसू०—सञ्चलनकोवकी प्रथम संग्रहकृष्टिको छोड़कर शेष ग्यारह संग्रहकृष्टियोंके नीचे और अन्तरालमें अन्य अपूर्व कृष्टियोंको बनाता है ॥१०८९॥

शंका—उन अपूर्व कृष्टियोंको किस प्रदेशाग्रसे बनाता है ? ॥१०९०॥

समाधान—वध्यमान और संक्रम्यमाण प्रदेशाग्रसे उन अपूर्व कृष्टियोंको बनाता है ॥१०९१॥

चूर्णिसू०—वध्यमान प्रदेशाग्रसे थोड़ी अपूर्व कृष्टियोंको बनाता है । किन्तु संक्रम्य-माण प्रदेशाग्रसे असंख्यातगुणी अपूर्व कृष्टियोंको बनाता है । वे जो अपूर्व कृष्टियाँ वध्यमान प्रदेशाग्रसे निर्वर्तित की जाती हैं, चारों ही प्रथम संग्रहकृष्टियोंमेंसे निर्वर्तित की जाती हैं ॥१०९२-१०९३॥

शंका—उन अपूर्व कृष्टियोंको किस अवकाशमें अर्थात् किस अन्तरालमें निर्वृत्त करता है ? ॥१०९४॥

समाधान—उन अपूर्व कृष्टियोंको एक-एक संग्रहकृष्टिकी अवयवकृष्टियोंके अन्तरालोंमें निर्वृत्त करता है ॥१०९५॥

शंका—क्या सब कृष्टि-अन्तरालोंमें उन अपूर्व कृष्टियोंको रचता है ? अथवा सब कृष्टि-अन्तरालोंमें नहीं रचता है ? ॥१०९६॥

समाधान—सब कृष्टि-अन्तरालोंमें अपूर्व कृष्टियोंको नहीं रचता है ॥१०९७॥

शंका—यदि सब कृष्टि-अन्तरालोंमें अपूर्व कृष्टियोंको नहीं रचता है, तो फिर किन अन्तरालोंमें उन अपूर्वकृष्टियोंको रचता है ? ॥१०९८॥

उवसंदरिसणा' । ११००. वज्जमाणियाणं जं पढमं किट्ठीअंतरं, तत्थ णत्थि । ११०१. एवमसंखेज्जाणि किट्ठीअंतराणि अधिच्छिदूण । ११०२. किट्ठीअंतराणि अंतरड्डाए असंखेज्जाणि पलिदोवमपहमवग्गमूलाणि । ११०३. एत्तियाणि किट्ठीअंतराणि गंतूण अपुव्वा किट्ठी णिव्वत्तिज्जदि । ११०४. पुणो वि एत्तियाणि किट्ठीअंतराणि गंतूण अपुव्वा किट्ठी णिव्वत्तिज्जदि । ११०५. वज्जमाणयस्स पदेसग्गस्स णिसेगसेट्ठिपरूवणं वत्तइस्सामो । ११०६. तत्थ जहणियाए किट्ठीए वज्जमाणियाए बहुअं । ११०७. विदियाए किट्ठीए विसेसहीणमणंतभागेण । ११०८. तदियाए विसेसहीणमणंतभागेण । ११०९. चउत्थीए विसेसहीणं । १११०. एवमणंतरोवणिधाए ताव विसेसहीणं जाव अपुव्वकिट्ठिमपत्तो त्ति । ११११. अपुव्वाए किट्ठीए अणंतगुणं । १११२. अपुव्वादो किट्ठीदो जा अणंतरकिट्ठी, तत्थ अणंतगुणहीणं । १११३, तदो पुणो अणंतभागहीणं । १११४. एवं सेसासु सव्वासु ।

समाधान—उक्त शंकाका स्पष्टीकरण यह है—वर्धमान संग्रहकृष्टियोंका जो प्रथम कृष्टि-अन्तर है, वहाँपर अपूर्वकृष्टियोंको नहीं रचता है । इस प्रकार असंख्यात कृष्टि-अन्तरालोको लॉवकर आगे अभीष्ट कृष्टि-अन्तरालमे अपूर्व कृष्टियोंको रचता है । अन्तररूपसे प्रवृत्त ये कृष्टि-अन्तराल असंख्यात पल्योपमके प्रथम वर्गमूलप्रमाण है । इतने कृष्टि-अन्तरालोको लॉवकर अपूर्व कृष्टि रची जाती है । पुनः इतने ही अर्थात् असंख्यात कृष्टि-अन्तरालोको उहंवन कर दूसरी अपूर्वकृष्टि रची जाती है । (इस प्रकार असंख्यात पल्योपमके प्रथम वर्गमूलप्रमाण असंख्यात कृष्टि-अन्तरालोको छोड़-छोड़कर तृतीय-चतुर्थ आदि अपूर्व कृष्टिकी रचना होती है । और यह क्रम तब तक चला जाता है जब तक कि अन्तिम अपूर्वकृष्टि निष्पन्न होती है ॥१०९९-११०४॥

चूर्णिसू०—अब वर्धमान प्रदेशाग्रके निपेकोकी श्रेणिप्ररूपणाको कहेंगे । उनमेसे वर्धमान जघन्य कृष्टिमें बहुत प्रदेशाग्र देता है । द्वितीय कृष्टिमे अनन्तवें भागसे विशेष हीन प्रदेशाग्र देता है । तृतीय कृष्टिमे अनन्तवें भागसे विशेष हीन प्रदेशाग्र देता है । चतुर्थ कृष्टिमे अनन्तवे भागसे विशेष हीन प्रदेशाग्र देता है । इस प्रकार अनन्तरोपनिधारूप श्रेणीके क्रमसे विशेष हीन, विशेष हीन प्रदेशाग्र अपूर्वकृष्टिके प्राप्त होने तक दिया जाता है । पुनः अपूर्वकृष्टिमे अनन्तगुणा प्रदेशाग्र दिया जाता है । अपूर्वकृष्टिसे जो अनन्तरकृष्टि है, उसमे अनन्तगुणा हीन प्रदेशाग्र दिया जाता है । तदनन्तर प्राप्त होनेवाली कृष्टिमे अनन्त भागहीन प्रदेशाग्र दिया जाता है । इसी प्रकार शेष सर्वकृष्टियोंमे जानना चाहिए ॥११०५-१११४॥

चूर्णिसू०—जो संक्रम्यमाण प्रदेशाग्रसे अपूर्वकृष्टियों रची जाती है, वे दो अवकाशो अर्थात् स्थलोपर रची जाती हैं । यथा—कृष्टि-अन्तरालोमे भी और संग्रहकृष्टि-अन्तरालोमे भी

१ एत्तियाणि किट्ठी-अंतराणि उत्लघियूण पुणो एत्तियमेत्तेसु किट्ठी-अतरेसु तासि णिव्वत्ती होदि त्ति एदस्स अत्थविसेसस्स फ़ुडीकरणमुवसंदरिसणा णाम । जयध०

१११५. जाओ संकामिज्जमाणियादो पदेसग्गादो अपुव्वाओ किट्ठीओ णिव्वत्तिज्जंति ताओ दुसु ओगासेसु । १११६. जं जहा । १११७. किट्ठीअंतरेसु च, संगहकिट्ठीअंतरेसु^१ च । १११८. जाओ संगहकिट्ठीअंतरेसु ताओ योवाओ । १११९. जाओ किट्ठीअंतरेसु ताओ असंखेज्जगुणाओ । ११२०. जाओ संगहकिट्ठीअंतरेसु तासिं जहा किट्ठीकरणे अपुव्वाणं णिव्वत्तिज्जमाणियाणं किट्ठीणं विधी तहा कायव्वो । ११२१. जाओ किट्ठीअंतरेसु तासिं जहा वज्जमाणेण पदेसग्गेण अपुव्वाणं णिव्वत्तिज्जमाणियाणं किट्ठीणं विधी तहा कायव्वो । ११२२. णवरि थोवदरगाणि किट्ठीअंतराणि गंतूण संलुब्धमाणपदेसग्गेण अपुव्वा किट्ठी णिव्वत्तिज्जमाणिया दिस्सदि । ११२३. ताणि किट्ठीअंतराणि पगणणादो पलिदोवमवग्गमूलस्स असंखेज्जदिभागो ।

११२४. पढमसमयकिट्ठीवेदग्गस्स जा कोहपढमसंगहकिट्ठी तिस्से असंखेज्जदिभागो विणासिज्जदि । ११२५. किट्ठीओ जाओ पढमसमये विणासिज्जंति ताओ बहुगीओ । ११२६. जाओ विदियसमये विणासिज्जंति ताओ असंखेज्जगुणहीणाओ । ११२७. एवं

रची जाती है । जो अपूर्वकृष्टियों संग्रहकृष्टि-अन्तरालोमे रची जाती हैं, वे अल्प हैं और जो कृष्टि-अन्तरालोमे रची जाती हैं वे असंख्यातगुणी हैं । जो अपूर्वकृष्टियों संग्रहकृष्टि-अन्तरालोमे रची जाती हैं, उनका जैसा विधान कृष्टिकरणमे निर्वर्त्यमान अपूर्वकृष्टियोंका किया गया है वैसा ही प्ररूपण यहाँ करना चाहिए । और जो अपूर्वकृष्टियों कृष्टि-अन्तरालोमे रची जाती हैं, उनका जैसा विधान वध्यमान प्रदेशाग्रसे निर्वर्त्यमान अपूर्वकृष्टियोंका किया गया है, वैसा ही विधान यहाँ करना चाहिए । केवल इतनी विशेषता है कि यहाँपर स्तोक्तर कृष्टि-अन्तरोको लॉघकर संक्रम्यमाण प्रदेशाग्रसे निर्वर्त्यमान अपूर्वकृष्टि दृष्टिगोचर होती है । वे कृष्टि-अन्तर प्रगणनासे अर्थात् संख्याकी अपेक्षा पल्योपमके प्रथम वर्गमूलके असंख्यातवे भागप्रमाण हैं । (इस प्रकार कृष्टिवेदकके प्रथम समयकी यह सब प्ररूपणा द्वितीयादिक समयोमे भी जानना चाहिए ।) ॥१११५-११२३॥

अब कृष्टिवेदकके प्रथम समयसे लेकर प्रति समय विनाश की जानेवाली कृष्टियोंका अल्पवहुत्व कहते हैं—

चूर्णिसू०—प्रथम समयवर्ती कृष्टिवेदकके जो क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टि है, उसका असंख्यातवाँ भाग प्रतिसमय अपवर्तनाघातसे विनाश किया जाता है । जो कृष्टियाँ प्रथम समयमे विनाश की जाती है, वे बहुत हैं । जो कृष्टियाँ द्वितीय समयमे विनाश की जाती हैं, वे असंख्यातगुणी हीन है । इस प्रकार यह क्रम अपने विनाशकालके द्विचरम समयमे अविनष्ट क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टि तक चला जाता है ॥११२४-११२७॥

१ कोहपढमसंगहकिट्ठी मोत्तूण सेसाणमेक्कारसण्हं संगहकिट्ठीण हेट्ठा तासिमसंखेज्जदिभागपमाणेण जाओ णिव्वत्तिज्जंति अपुव्वकिट्ठीओ, ताओ संगहकिट्ठीअंतरेसु त्ति भण्णंति । तासिं चेव एक्कारसण्हं संगहकिट्ठीण किट्ठीअंतरेसु पलिदोवमस्सासंखेज्जदिभागमेत्तद्वाणं गतूण अतरतरे जाओ अपुव्वकिट्ठीओ णिव्वत्तिज्जंति ताओ किट्ठीअंतरेसु त्ति वुच्चति । जयघ०

ताव द्रुचरिमसमयभविण्डुकोद्दपहमसंगठकिट्टि चि । ११२८. एदेण सव्वेण तिचरिम-
समयमेत्तीओ मय्यकिट्टीसु पढम-विदियसमयवेदगस्त क्रोधस्त पढमकिट्टीए अचज्झमाणि-
याणं किट्टीणमसखेज्जदिनाओ ।

११२९. कोहम्म पढमकिट्टि वेदयमाणस्त जा पढमट्टिदी तिस्से पढमट्टिदीए
समयाद्विवाए आवलियाए सेमाए एदम्मि गमये जो विही, तं विहि वत्तइस्सामो ।
११३०. तं जहा । ११३१. ताधे चेव कोहस्त जहण्णमो ट्टिदिउदीरगो [१] । ११३२.
कोहपढमकिट्टीए चरिमसमयवेदगो जादो [२] । ११३३. जा पुव्वपवता संजलणाणुभाग-
मंतकम्मपन्न अणुममयपोवट्टणा ना तथा चेव [३] । ११३४. चट्टमंजलणाणं ट्टिदिवंधो वे
मामा चत्तालीसं च दिनमा अंतोमट्टणणा [४] । ११३५. संजलणाणं ट्टिदिरांतकम्मं छ
वस्साणि अट्ट च मामा अंतोमट्टणणा [५] । ११३६. तिण्हं घादिकम्माणं ट्टिदिवंधो दस
वस्साणि अंतोमट्टणणाणि [६] ११३७. घादिकम्माणं ट्टिदिरांतकम्मं मंखेज्जाणि वस्साणि
[७] । ११३८. सेमाणं कम्माणं ट्टिदिमंतकम्मपसंखेज्जाणि वस्साणि [८] ।

११३९. से काले कोहस्त विदियकिट्टीए पदेसग्गमो रुट्टियुण कोहस्त पढमट्टिदि
अव ट्टिवेदकके प्रथम मनयसे उगाहर निन्द प्रथम संग्रहकृष्टिके विनाश करनेके
कालके ट्टिचरम समय तक विनष्ट हो गई समस्त कृष्टियोंका प्रमाण बतलाते हैं—

चूणिसू०—इस नर्व कालके द्वारा जो त्रिचरम समयमात्र कृष्टियां (विनष्ट की जाती)
हैं, वे सर्व कृष्टियोंमें प्रथम और द्वितीय मनयवेदकके क्रोधकी प्रथम कृष्टिकी अव्यमान
कृष्टियोंके असंख्यताके भागमात्र हैं ॥११२८॥

विशेषार्थ—प्रथम मनयवर्ती कृष्टिवेदकके क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिके ऊपर और
नीचे अवस्थित कृष्टियां प्रव्यमान कृष्टियां कहलाती हैं ।

चूणिसू०—क्रोधकी प्रथमकृष्टिका वेदन करनेवालेकी जो प्रथमस्थिति है, उस प्रथम-
स्थितिमें एक समय अधिक आवलीके शेष रहनेपर इस समयमें जो विधि होती है, उस
विधिको कहेंगे । वह इस प्रकार है—उस ही समयमें क्रोधकी जघन्य स्थितिका उदीरक होता
है (१) और क्रोधकी प्रथम कृष्टिका चरम समयवेदक होता है (२) । संज्वलनचतुष्कके
अनुभागसत्त्वकी जो पूर्व-प्रवृत्त अनुसमय अपवर्तना है, वह उसी प्रकारसे होती रहती है
(३) । चारों संज्वलनोंका स्थितिवन्ध अन्तर्मुहूर्त कम दो मास और चालीस दिवसप्रमाण
होता है (४) । चारों संज्वलनोंका स्थितिसत्त्व अन्तर्मुहूर्त कम छह वर्ष और आठ मासप्रमाण
होता है (५) । शेष तीन वातिया क्रमोंका स्थितिवन्ध अन्तर्मुहूर्त कम दश वर्षप्रमाण होता
है (६) । वातिया क्रमोंका स्थितिसत्त्व संख्यात वर्षप्रमाण होता है (७) । शेष क्रमोंका
स्थितिसत्त्व असंख्यात वर्षप्रमाण होता है (८) ॥११२९-११३८॥

चूणिसू०—तदनन्तर समयमें क्रोधकी द्वितीय कृष्टिके प्रदेशाप्रको अपकर्षणकर क्रोधकी
प्रथमस्थितिको करता है । उस समय क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें सत्त्वरूप जो दो समय कम दो

करेदि । ११४०. ताधे क्रोधस्स पढपसंगहकिट्ठीए संतकम्मं दो आवलियबंधा दुसमयूणा सेसा, जं च उदयावलियं पविट्ठं तं च सेसं पढमकिट्ठीए । ११४१. ताधे क्रोधस्स विदियकिट्ठीवेदगो । ११४२. जो क्रोधस्स पढमकिट्ठिं वेदयमाणस्स विधी सो चेव क्रोधस्स विदियकिट्ठिं वेदयमाणस्स विधी कायव्वो । ११४३. तं जहा । ११४४. उदिण्णाणं किट्ठीणं वज्जमाणीणं किट्ठीणं, विणासिज्जमाणीणं अपुव्वाणं णिव्वत्तिज्जमाणियाणं वज्जमाणेण च पदेसग्गेण संछुव्वमाणेण च पदेसग्गेण णिव्वत्तिज्जमाणियाणं ।

११४५. एत्थ संक्रममाणयस्स पदेसग्गस्स विधिं वत्तइस्सामो । ११४६. तं जहा । ११४७ क्रोधविदियकिट्ठीदो पदेसग्गं क्रोहतदियं च माणपढमं च गच्छदि । ११४८. क्रोधस्स तदियादो किट्ठीदो माणस्स पढमं चेव गच्छदि । ११४९ माणस्स पढमादो किट्ठीदो माणस्स विदियं तदियं, मायाए पढमं च गच्छदि । ११५०. माणस्स विदियकिट्ठीदो माणस्स तदियं च मायाए पढमं च गच्छदि । ११५१. माणस्स तदिय-किट्ठीदो मायाए पढमं गच्छदि । ११५२. मायाए पढमादो पदेसग्गं मायाए विदियं तदियं च, लोभस्स पढमकिट्ठिं च गच्छदि । ११५३. मायाए विदियादो किट्ठीदो पदेसग्गं मायाए तदियं लोभस्स पढमं च गच्छदि । ११५४. मायाए तदियादो किट्ठीदो पदेसग्गं लोभस्स पढमं गच्छदि । ११५५. लोभस्स पढमादो किट्ठीदो पदेसग्गं लोभस्स विदियं च तदियं च गच्छदि । ११५६. लोभस्स विदियादो पदेसग्गं लोभस्स तदियं गच्छदि ।

आवलीप्रमित नवकवद्ध प्रदेशाग्र शेष हैं, वे और उदयावलीमे प्रविष्ट जो प्रदेशाग्र है वे प्रथम कृष्टिमे शेष रहते हैं । उस समय क्रोधकी द्वितीय कृष्टिका प्रथम समयवेदक होता है । क्रोधकी प्रथम कृष्टिको वेदन करनेवालेकी जो विधि कही गई है, वही विधि क्रोधकी द्वितीय कृष्टिको वेदन करनेवालेकी भी कहना चाहिए । वह इस प्रकार है—उदीर्ण कृष्टियोंकी, वध्यमान कृष्टियोंकी, विनाशकी जानेवाली कृष्टियोंकी, वध्यमान प्रदेशाग्रसे निर्वर्त्यमान अपूर्व-कृष्टियोंकी तथा संक्रम्यमाण प्रदेशाग्रसे भी निर्वर्त्यमान अपूर्वकृष्टियोंकी विधि प्रथम संग्रह-कृष्टिकी प्ररूपणाके समान कहना चाहिए ॥११३९-११४४॥

चूर्णिमू०—अब यहाँपर संक्रम्यमाण प्रदेशाग्रकी विधिको कहेंगे । वह विधि इस प्रकार है—क्रोधकी द्वितीय कृष्टिसे प्रदेशाग्र क्रोधकी तृतीय और मानकी प्रथम कृष्टिको प्राप्त होता है । क्रोधकी तृतीय कृष्टिसे प्रदेशाग्र मानकी प्रथम कृष्टिको ही प्राप्त होता है । मानकी प्रथम कृष्टिसे प्रदेशाग्र मानकी द्वितीय और तृतीय तथा मायाकी प्रथम कृष्टिको प्राप्त होता है । मानकी द्वितीय कृष्टिसे प्रदेशाग्र मानकी तृतीय और मायाकी प्रथम कृष्टिको प्राप्त होता है । मानकी तृतीय कृष्टिसे प्रदेशाग्र मायाकी प्रथम कृष्टिको प्राप्त होता है । मायाकी प्रथम कृष्टिसे प्रदेशाग्र मायाकी द्वितीय और तृतीय तथा लोभकी प्रथम कृष्टिको प्राप्त होता है । मायाकी द्वितीय कृष्टिसे प्रदेशाग्र मायाकी तृतीय और लोभकी प्रथम कृष्टिको प्राप्त होता है । मायाकी तृतीय कृष्टिसे प्रदेशाग्र लोभकी प्रथम कृष्टिको प्राप्त होता है । लोभकी प्रथम कृष्टिसे प्रदेशाग्र

११५७. जहा क्रोधस्स पढमकिट्ठिं वेदयमाणो चटुण्हं कसायाणं पढमकिट्ठीओ वंधदि किमेवं चेव क्रोधस्स विदियकिट्ठिं वेदेमाणो चटुण्हं कसायाणं विदियकिट्ठीओ वंधदि, आहो ण, वत्तच्चं ? ११५८. किथ खु' । ११५९. समासलक्षणं भणिस्सामो । ११६०. जस्स जं किट्ठिं वेदयदि तस्स कसायस्स तं किट्ठिं वंधदि, सेसाणं कसायाणं पढमकिट्ठीओ वंधदि ।

११६१. क्रोधविदियकिट्ठीए पढमसमए वेदगस्स एकारससु संगहकिट्ठीसु अंतर-किट्ठीणमप्पाग्रहुअं वत्तइस्सामो । ११६२. तं जहा । ११६३. सव्वत्थोवाओ माणस्स पढमाए संगहकिट्ठीए अंतरकिट्ठीओ । ११६४. विदियाए संगहकिट्ठीए अंतरकिट्ठीओ विसेसाहियाओ । ११६५. तदियाए संगहकिट्ठीए अंतरकिट्ठीओ विसेसाहियाओ । ११६६. क्रोधस्स तदियाए संगहकिट्ठीए अंतरकिट्ठीओ विसेसाहियाओ । ११६७. मायाए पढमाए संगहकिट्ठीए अंतरकिट्ठीओ विसेसाहियाओ । ११६८. विदियाए संगहकिट्ठीए अंतरकिट्ठीओ विसेसाहियाओ । ११६९. तदियाए संगहकिट्ठीए अंतरकिट्ठीओ विसेसाहियाओ । ११७०. लोभस्स पढमाए संगहकिट्ठीए अंतरकिट्ठीओ विसेसाहियाओ । ११७१. विदियाए संगहकिट्ठीए अंतरकिट्ठीओ विसेसाहियाओ । ११७२. तदियाए

लोभकी द्वितीय और तृतीय कृष्टिको प्राप्त होता है । लोभकी द्वितीय कृष्टिसे प्रदेशाग्र लोभकी तृतीय कृष्टिको ही प्राप्त होता है ॥११४५-११५६॥

शंका—जिस प्रकार क्रोधकी प्रथम कृष्टिका वेदन करनेवाला चारो कषायोकी प्रथम कृष्टियोंको बाँधता है, उसी प्रकार क्रोधकी द्वितीय कृष्टिका वेदन करनेवाला क्या चारो ही कषायोकी द्वितीय कृष्टियोंको बाँधता है, अथवा नहीं बाँधता है ? इसका उत्तर क्या है, कहिए ? ॥११५७-११५८॥

समाधान—उक्त आशंकाका संक्षेप समाधान कहेंगे—जिस कषायकी जिस कृष्टिका वेदन करता है उस कषायकी उस कृष्टिको बाँधता है । तथा शेष कषायोकी प्रथम कृष्टियोंको बाँधता है ॥११५९-११६०॥

चूर्णिसू०—अब क्रोधकी द्वितीय कृष्टिको वेदन करनेवाले क्षपकके प्रथम समयमे दिखाई देनेवाली ग्यारह संग्रहकृष्टियोंमे अन्तरकृष्टियोंके अल्पबहुत्वको कहेंगे । वह इस प्रकार है—मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिमे अन्तरकृष्टियाँ सबसे कम हैं । इससे मानकी द्वितीय संग्रहकृष्टिमे अन्तरकृष्टियाँ विशेष अधिक हैं । इससे मानकी तृतीय संग्रहकृष्टिमे अन्तरकृष्टियाँ विशेष अधिक हैं । इससे क्रोधकी तृतीय संग्रहकृष्टिमे अन्तरकृष्टियाँ विशेष अधिक हैं । इससे मायाकी प्रथम संग्रहकृष्टिमे अन्तरकृष्टियाँ विशेष अधिक हैं । इससे मायाकी द्वितीय संग्रहकृष्टिमे अन्तरकृष्टियाँ विशेष अधिक हैं । इससे मायाकी तृतीय संग्रहकृष्टिमे अन्तरकृष्टियाँ विशेष अधिक हैं । इससे लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिमे अन्तरकृष्टियाँ विशेष अधिक हैं । इससे लोभकी द्वितीय संग्रहकृष्टिमे अन्तरकृष्टियाँ विशेष अधिक हैं । इससे

१ कथं खलु स्यात्, कोन्वन्न निर्णय इति ? जयध०

संगहक्रिड्डीए अंतरक्रिड्डीओ विसेसाहियाओ । ११७३. क्रोहस्स विदियाए संगहक्रिड्डीए अंतरक्रिड्डीओ संखेज्जगुणाओ । ११७४. पदेसग्गस्स वि एवं चेव अप्पावहुअं ।

११७५. क्रोहस्स विदियक्रिड्डी वेदयमाणस्स जा पढमड्ढिदी तिस्से पढमड्ढिदीए आवलिय-पडिआवलियाए सेसाए आगालपडिआगालो वोच्छिण्णो । ११७६. तिस्से चेव पढमड्ढिदीए समयाहियाए आवलियाए सेसाए ताहे क्रोहस्स विदियक्रिड्डीए चरिम-समयवेदगो । ११७७. ताधे संजलणाणं ड्ढिदिवंधो वे मासा वीसं च दिवसा देसूणा । ११७८. तिण्हं घादिकम्माणं ड्ढिदिवंधो वासपुघत्तं । ११७९. सेसाणं क्रम्माणं ठिदिवंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । ११८०. संजलणाणं ड्ढिदिसंतक्रमं पंच वस्साणि चत्तारि मासा अंतोमुहुत्तूणा । ११८१. तिण्हं घादिकम्माणं ठिदिसंतक्रमं संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । ११८२. णामा-गोद-वेदणीयाणं ठिदिसंतक्रममसंखेज्जाणि वस्साणि ।

११८३. तदो से काले क्रोहस्स तदियक्रिड्डीदो पदेसग्गमोकड्ढियूण पढमड्ढिदिं करेदि । ११८४. ताधे क्रोहस्स तदियसंगहक्रिड्डीए अंतरक्रिड्डीणमसंखेज्जा भागा उदिण्णा । ११८५. तासिं चेव असंखेज्जा भागा वज्झंति । ११८६. जो विदियक्रिड्डी वेदयमाणस्स विधी सो चेव विधी तदियक्रिड्डी वेदयमाणस्स वि कायव्वो ।

लोभकी तृतीय संग्रहकृष्टिमे अन्तरकृष्टियाँ विशेष अधिक है । इससे क्रोधकी द्वितीय संग्रह-कृष्टिमें अन्तरकृष्टियाँ संख्यातगुणी हैं । इन अन्तरकृष्टियोंके प्रदेशाग्रका भी अल्पबहुत्व इसी प्रकार जानना चाहिए ॥११६१-११७४॥

चूर्णिसू०—क्रोधकी द्वितीय कृष्टिका वेदन करनेवाले क्षपकके जो प्रथम स्थिति है, उस प्रथम स्थितिमें आवली और प्रत्यावलीकालके शेष रह जानेपर आगाल और प्रत्यागाल व्युच्छिन्न हो जाते हैं । उस ही प्रथमस्थितिमें एक समय अधिक आवलीके शेष रहनेपर उस समय क्रोधकी द्वितीय कृष्टिका चरमसमयवर्ती वेदक होता है । उस समयमें चारो संव्व-लन कपायोका स्थितिवन्ध दो मास और कुछ कम वीस दिवसप्रमाण है । शेष तीनों घातिया कर्मोंका स्थितिवन्ध वर्षपृथक्त्वप्रमाण है । शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात सहस्र वर्षप्रमाण है । उस समय चारो संव्वलनोका स्थितिसत्त्व पाँच वर्ष और अन्तर्मुहूर्त कम चार मास-प्रमाण है । शेष तीन घातिया कर्मोंका स्थितिसत्त्व संख्यात सहस्र वर्षप्रमाण है । नाम, गोत्र और वेदनीय कर्मका स्थितिसत्त्व असंख्यात वर्षप्रमाण है ॥११७५-११८२॥

चूर्णिसू०—तदनन्तर समयमें क्रोधकी तृतीय कृष्टिसे प्रदेशाग्रका अपकर्षण करके प्रथमस्थितिको करता है । उस समयमें क्रोधकी तृतीय संग्रहकृष्टिकी अन्तरकृष्टियोंके असं-ख्यात बहुभाग उद्दीर्ण होते हैं और उन्हींके असंख्यात बहुभाग वँधते है । (इतना विशेष है कि उद्दीर्ण होनेवाली अन्तरकृष्टियोंसे वँधनेवाली अन्तरकृष्टियोंका परिमाण विशेष हीन होता है ।) जो विधि द्वितीय कृष्टिको वेदन करनेवालेकी कही गई है; वही विधि तृतीय कृष्टिको वेदन करनेवालेकी भी प्ररूपणा करना चाहिए ॥११८३-११८६॥

११८७. तद्विक्रिष्टिं वेदेमाणस्स जा पढमड्ढिदी तिससे पढमड्ढिदीए आवलियाए समयहियाए सेसाए चरिमसमयकोधवेदगो । ११८८. जहण्णगो ठिदिउदीरगो । ११८९. ताधे ड्ढिदिबंधो संजलणाणं दो मासा पडिबुणा । ११९०. संतकम्मं चत्तारि वस्साणि पुण्णाणि ।

११९१. से काले माणस्स पढमकिष्टिमोकड्ढियूण पढमड्ढिदिं करेदि । ११९२. जा एत्थ सव्वमाणवेदगद्दा तिससे वेदगद्दाए तिभागमेता पढमड्ढिदी । ११९३. तदो माणस्स पढमकिष्टिं वेदेमाणो तिससे पढमकिष्टीए अंतरकिष्टीणमसंखेज्जे भागे वेदयदि । ११९४. तदो उदिण्णाहितो विससेहीणाओ बंधदि । ११९५. सेसाणं कसायाणं पढमसंगहकिष्टीओ बंधदि । ११९६. जेणेव विहिणा कोधस्स पढमकिष्टी वेदिदा, तेणेव विधिणा माणस्स पढमकिष्टिं वेदयदि । ११९७. किष्टीविणासणे वज्झमाणएण संकामिज्जमाणएण च पदेसग्गेण अपुव्वाणं किष्टीणं करणे किष्टीणं बंधोदयणिव्वग्गणकरणे एदेसु करणेषु णत्थि णाणत्तं, अण्णेषु च अभणिदेसु । ११९८. एदेण कमेण माणपढमकिष्टिं वेदयमाणस्स जा पढमड्ढिदी तिससे पढमड्ढिदीए जाधे समयहियावलियसेसा ताधे तिण्हं संजलणाणं ठिदिबंधो मासा वीसं च दिवसा अंतोमुहुत्तूणा । ११९९. संतकम्मं तिण्णि वस्साणि चत्तारि मासा च अंतोमुहुत्तूणा ।

चूर्णिसू०—तृतीय कृष्टिको वेदन करनेवालेकी जो प्रथम स्थिति है, उस प्रथम स्थितिमें एक समय अधिक आवलीके शेष रह जानेपर चरमसमयवर्ती क्रोधवेदक होता है और उसी समयमें ही संज्वलनक्रोधकी जघन्य स्थितिका उदीरक होता है । उस समय चारो संज्वलन कषायोंका स्थितिवन्ध परिपूर्ण दो मास है और स्थितिसत्त्व परिपूर्ण चार वर्षप्रमाण है ॥११८७-११९०॥

चूर्णिसू०—तदनन्तर समयमें मानकी प्रथम कृष्टिका अपकर्षण करके प्रथमस्थितिको करता है । यहाँपर जो संज्वलनमानका सर्ववेदककाल है, उस वेदककालके त्रिभागमात्र प्रथमस्थिति है । तब मानकी प्रथम कृष्टिको वेदन करनेवाला उस प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तरकृष्टियोंके असंख्यात बहुभाग वेदन करता है और तभी उन उदीर्ण हुई कृष्टियोंसे विशेष हीन कृष्टियोंको बाँधता है । तथा शेष कषायोंकी प्रथम संग्रहकृष्टियोंको ही बाँधता है । जिस विधिसे क्रोधकी प्रथम कृष्टिका वेदन किया है उस ही विधिसे मानकी प्रथम कृष्टिका वेदन करता है । कृष्टियोंके विनाश करनेमें, वध्यमान और संक्रम्यमाण प्रदेशाप्रसे अपूर्वकृष्टियोंके करनेमें, तथा कृष्टियोंके बन्ध और उदयसम्बन्धी निर्वर्गणाकरणमें अर्थात् अनन्त गुणहानिरूप अपसरणोंके करनेमें, इतने करणोंमें तथा अन्य नहीं कहे गये करणोंमें कोई विभिन्नता नहीं है । इस क्रमसे मानकी प्रथम कृष्टिको वेदन करनेवालेकी जो प्रथम स्थिति है, उस प्रथम स्थितिमें जब एक समय अधिक आवली शेष रहती है, तब तीनों संज्वलन कषायोंका स्थितिवन्ध एक मास और अन्तर्मुहूर्त कम वीस दिवस है, तथा स्थितिसत्त्व तीन वर्ष और अन्तर्मुहूर्त कम चार मास है ॥११९१-११९९॥

१२०० से काले माणस्स विदियकिट्ठीदो पदेसग्गमोकड्डियूण पढमट्ठिदिं करेदि ।
 १२०१. तेणेव विहिणा संपत्तो माणस्स विदियकिट्ठिं वेदयमाणस्स जा पढमट्ठिदी तिस्से
 समयाहियावलियसेसा त्ति । १२०२. ताधे संजलणाणं ट्ठिदिवंधो मासो दस च दिवसा
 देसूणा । १२०३. संतकम्मं दो वस्साणि अट्ठ च मासा देसूणा ।

१२०४. से काले माणतदियकिट्ठीदो पदेसग्गमोकड्डियूण पढमट्ठिदिं करेदि ।
 १२०५. तेणेव विहिणा संपत्तो माणस्स तदियकिट्ठिं वेदयमाणस्स जा पढमट्ठिदी तिस्से
 आवलिया समयाहियमेत्ती सेसा त्ति । १२०६ ताधे माणस्स चरिमसमयवेदगो ।
 १२०७. ताधे त्तिण्हं संजलणाणं ट्ठिदिवंधो मासो षड्बुण्णो । १२०८. संतकम्मं वे
 वस्साणि षड्बुण्णाणि ।

१२०९. तदो से काले मायाए पढमकिट्ठीए पदेसग्गमोकड्डियूण पढमट्ठिदिं
 करेदि । १२१०. तेणेव विहिणा संपत्तो मायापढमकिट्ठिं वेदयमाणस्स जा पढमट्ठिदी
 तिस्से समयाहियावलिया सेसा त्ति । १२११. ताधे ठिदिवंधो दोण्हं संजलणाणं पणुवीसं
 दिवसा देसूणा । १२१२. ट्ठिदिसंतकम्मं वस्समट्ठ च मासा देसूणा ।

१२१३. से काले मायाए विदियकिट्ठीदो पदेसग्गमोकड्डियूण पढमट्ठिदिं करेदि

चूर्णिसू०—तदनन्तर कालमे मानकी द्वितीय संग्रहकृष्टिसे प्रदेशाग्रका अपकर्षण करके
 प्रथम स्थितिको करता है और उसी ही विधिसे, मानकी द्वितीय कृष्टिको वेदन करनेवालेकी
 जो प्रथम स्थिति है, उसमे एक समय अधिक आवली शेष रहने तक संग्राप्त होता है,
 अर्थात् पूर्वोक्त विधिसे सर्व कार्य करता हुआ चला जाता है । उस समय तीनों संज्वलनोका
 स्थितिवन्ध एक मास और कुछ कम दश दिवस है । तथा स्थितिसत्त्व दो वर्ष और कुछ
 कम आठ मास है ॥ १२००-१२०३ ॥

चूर्णिसू०—तदनन्तर कालमे मानकी तृतीय कृष्टिसे प्रदेशाग्रका अपकर्षण करके
 प्रथमस्थितिको करता है । और उसी ही विधिसे मानकी तृतीय कृष्टिको वेदन करनेवालेकी
 जो प्रथमस्थिति है, उसमे एक समय अधिक आवली शेष रहने तक सर्व कार्य करता हुआ
 चला जाता है । उस समय वह मानका चरमसमयवेदक होता है । तब तीनों संज्वलनोका
 स्थितिवन्ध परिपूर्ण एक मास है और स्थितिसत्त्व परिपूर्ण दो वर्ष है ॥ १२०४-१२०८ ॥

चूर्णिसू०—तदनन्तर कालमे मायाकी प्रथम कृष्टिसे प्रदेशाग्रका अपकर्षण कर प्रथम-
 स्थितिको करता है और उसी ही विधिसे, मायाकी प्रथमकृष्टिको वेदन करनेवालेकी जो
 प्रथमस्थिति है, उसमे एक समय अधिक आवली शेष रहने तक सर्व कार्य करता हुआ
 चला जाता है । उस समय दोनो संज्वलनोका स्थितिवन्ध कुछ कम पच्चीस दिवस है । तथा
 स्थितिसत्त्व एक वर्ष और कुछ कम आठ मास है ॥ १२०९-१२१२ ॥

चूर्णिसू०—तदनन्तर कालमे मायाकी द्वितीय कृष्टिसे प्रदेशाग्रका अपकर्षण करके
 प्रथमस्थितिको करता है । वह मायाकी द्वितीय कृष्टिका वेदक भी उसी ही विधिसे मायाकी

१२१४. सो वि मायाए विदियकिष्टिवेदगो तेणेव विहिणा संपत्तो मायाए विदियकिष्टिं वेदयमाणस्स जा पहमड्ढिदी तिस्से पहमड्ढिदीए आवलिया समयाहिया सेसा त्ति ।

१२१५. ताथे ढ्ढिदिवंधो वीसं दिवसा देवणा । १२१६. ढ्ढिदिसंतकम्मं सोलस मासा देसूणा ।

१२१७ से काले मायाए तदियकिष्टीदो पदेसग्गमोक्कड्डियुण पहमड्ढिदिं करेदि ।

१२१८. तेणेव विहिणा संपत्तो मायाए तदियकिष्टिं वेदगस्स पहमड्ढिदीए समयाहिया-

वलिया सेसा त्ति । १२१९. ताथे मायाए चरिससमयवेदगो । १२२०. ताथे दोण्हं

संजलणाणं ढ्ढिदिवंधो अद्धमासो पडिचुण्णो । १२२१. ढ्ढिदिसंतकम्ममेकं वस्सं पडि-

चुण्णं । १२२२. तिण्हं वादिकम्मणं ढ्ढिदिवंधो मामपुनत्तं । १२२३ तिण्हं वादि-

कम्मणं ढ्ढिदिसंतकम्मं संखेजाणि वस्समहस्साणि । १२२४. इदरेसिं कम्मणं [ढ्ढिदि-

वंधो संखेजाणि वस्साणि] ढ्ढिदिसंतकम्मं असंखेजाणि वस्साणि ।

१२२५. तदो से काले लोभस्स पहमकिष्टीदो पदेसग्गमोक्कड्डियुण पहमड्ढिदिं

करेदि । १२२६. तेणेव विहिणा संपत्तो लोभस्स पहमकिष्टिं वेदयमाणस्स पहमड्ढिदीए

समयाहियावलिया सेसा त्ति । १२२७. ताथे लोभसंजलणस्स ढ्ढिदिवंधो अंतोमुहुत्तं

१२२८. ढ्ढिदिसंतकम्मं पि अंतोमुहुत्तं । १२२९. तिण्हं वादिकम्मणं ढ्ढिदिवंधो दिवस-

पुवत्तं । १२३०. सेमाणं कम्मणं वासपुवत्तं । १२३१. वादिकम्मणं ढ्ढिदिसंतकम्मं

द्वितीय कृष्टिसे वेदन करनेवालेकी जो प्रथमस्थिति है उस प्रथमस्थितिसे एक समय अधिक

आवली शेष रहने तक सर्व कार्य करता हुआ चला जाता है । उस समय दोनो संज्वलनो-

का स्थितिवन्ध कुछ कम वीस दिवसप्रमाण है । तथा स्थितिसत्त्व कुछ कम सोलह मास

है ॥ १२१३-१२१६ ॥

चूर्णिसं०-तदनन्तर कालमें मायाकी तृतीय कृष्टिसे प्रदेशाप्रका अपकर्षण करके

प्रथम स्थितिको करता है । और उसी ही विधिसे मायाकी तृतीय कृष्टिको वेदन करनेवाले-

की प्रथमस्थितिके एक समय अधिक आवली शेष रहने तक सर्व कार्य करता हुआ चला

जाता है । तब वह मायाका चरमसमयवेदक होता है । उस समयमें दोनो संज्वलनोका

स्थितिवन्ध परिपूर्ण अर्ध मास है । स्थितिसत्त्व परिपूर्ण एक वर्ष है । शेष तीनों वातिया

कर्मोंका स्थितिवन्ध मासपृथक्त्व तथा स्थितिसत्त्व संख्यात सहस्र वर्ष है । इतर अर्थात्

आयुके विना शेष तीन अवातिया कर्मोंका (स्थितिवन्ध संख्यात वर्ष है और) स्थितिसत्त्व

असंख्यात वर्ष है ॥ १२१७-१२२४ ॥

चूर्णिसं०-तदनन्तर कालमें लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिसे प्रदेशाप्रका अपकर्षण करके

प्रथम स्थितिको करता है और उसी ही विधिसे लोभकी प्रथम कृष्टिको वेदन करनेवालेकी प्रथम

स्थितिके एक समय अधिक आवली शेष रहने तक सर्व कार्य करता हुआ चला जाता है ।

उस समय संज्वलन लोभका स्थितिवन्ध अन्तर्मुहूर्त है । तथा स्थितिसत्त्व भी अन्तर्मुहूर्त है ।

तीनों वातिया कर्मोंका स्थितिवन्ध दिवसपृथक्त्व है । शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध वर्षपृथक्त्व

संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । १२३२. सेसाणं कम्प्राणं असंखेज्जाणि वस्साणि ।

१२३३. ततो से काले लोभस्स विदियकिट्ठीदो पदेसग्गमोकड्डियूण पढम-
ट्टिदिं करेदि । १२३४. ताथे चेव लोभस्स विदियकिट्ठीदो च तदियकिट्ठीदो च पदे-
सग्गमोकड्डियूण सुहुमसांपराइयकिट्ठीओ' णाम करेदि । १२३५. तासिं सुहुमसांपराइय-
किट्ठीणं कम्हि ट्ठाणं ? १२३६. तासिं ट्ठाणं लोभस्स तदियाए संगहकिट्ठीए हेट्ठदो ।

१२३७. जारिसी कोहस्स पढमसंगहकिट्ठी, तारिसी एसा सुहुमसांपराइयकिट्ठी ।

है । वातिया कर्मोंका स्थितिसत्त्व संख्यात सहस्र वर्ष है । शेष कर्मोंका स्थितिसत्त्व असंख्यात वर्ष है ॥१२२५-१२३२॥

चूर्णिसू०—तत्पश्चात् अनन्तरकालमे लोभकी द्वितीय कृष्टिसे प्रदेशाग्रका अपकर्षण करके प्रथम स्थितिको करता है । उस ही समयमे लोभकी द्वितीय कृष्टिसे और तृतीय कृष्टिसे भी प्रदेशाग्रका अपकर्षण करके सूक्ष्मसाम्परायिक नामवाली कृष्टियोंको करता है ॥१२३३-१२३४॥

शंका—उन सूक्ष्मसाम्परायिक-कृष्टियोंका अवस्थान कहाँ है ? ॥१२३५॥

समाधान—उनका अवस्थान लोभकी तृतीय संग्रहकृष्टिके नीचे है ॥१२३६॥

विशेषार्थ—संज्वलन लोभकषायके अनुभागको वादरसाम्परायिक कृष्टियोंसे भी अनन्तगुणित हानिके रूपसे परिणमित कर अत्यन्त सूक्ष्म या मन्द अनुभागरूपसे अवस्थित करनेको सूक्ष्मसाम्परायिक-कृष्टिकरण कहते हैं । सर्व-जघन्य वादरकृष्टिसे सर्वोत्कृष्ट सूक्ष्म-साम्परायिककृष्टिका भी अनुभाग अनन्तगुणित हीन होता है । इसी बातको चूर्णिकारने उक्त शंका-समाधानसे स्पष्ट किया है कि सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंका स्थान लोभकी तृतीय संग्रहकृष्टिके नीचे है । इन सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंकी रचना संज्वलन-लोभकी द्वितीय और तृतीय कृष्टिके प्रदेशाग्रको लेकर होती है । लोभकी द्वितीय संग्रहकृष्टिका वेदन करनेवाला उस कृष्टि वेदनके प्रथम समयमे ही सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंकी रचना करना प्रारंभ करता है । यदि संज्वलनलोभके द्वितीय त्रिभागमे सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंकी रचना प्रारम्भ न करे, तो तृतीय त्रिभागमे सूक्ष्मकृष्टिके वेदकरूपसे परिणमन नहीं हो सकता है ।

अब चूर्णिकार सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंके आयाम विशेषको वतलाते हुए उसका और भी स्पष्टीकरण करते हैं—

चूर्णिसू०—जैसी संज्वलन क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टि है, वैसी ही यह सूक्ष्म-साम्परायिक-कृष्टि भी है ॥१२३७॥

विशेषार्थ—इस सूत्रका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टि शेष संग्रहकृष्टियोंके आयामको देखते हुए अपने आयामसे द्रव्यमाहात्म्यकी अपेक्षा संख्यात-गुणी थी, उसी प्रकार यह सूक्ष्मसाम्परायिककृष्टि भी क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिको छोड़कर

१ सुहुमसांपराइयकिट्ठीण किं लक्खणमिदि चे वादरसांपराइयकिट्ठीहितो अणतगुणहाणीए परिणमिय लोभसजलणाणुभागस्सावट्ठाण सुहुमसांपराइयकिट्ठीणं लक्खणमवहारेयत्वं । जयध०

१२३८. क्रोधस्स पढमसंगहकिट्ठीए अंतरकिट्ठीओ थोवाओ । १२३९. क्रोहे संखुद्धे माणस्स पढमसंगहकिट्ठीए अंतरकिट्ठीओ विसेसाहियाओ । १२४०. माणे संखुद्धे मायाए पढमसंगहकिट्ठीए अंतरकिट्ठीओ विसेसाहियाओ । १२४१. मायाए संखुद्धाए लोभस्स पढमसंगहकिट्ठीए अंतरकिट्ठीओ विसेसाहियाओ । १२४२. सुहुमसांपराइय-किट्ठीओ जाओ पढमसमये कदाओ ताओ विसेसाहियाओ । १२४३. एसो विसेसो अणंतराणंतरेण संखेज्जदिभागो ।

शेष सर्व संग्रहकृष्टियोंके कृष्टिकरणकालमें समुपलब्ध आयामसे संख्यातगुणित आयामवाली जानना चाहिए । इसका कारण यह है कि मोहनीयकर्मका सर्व द्रव्य इसके आधाररूपसे ही परिणमन करनेवाला है । अथवा जैसे लक्षणवाली क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टि अपूर्व स्पर्धकोंके अधस्तनभागमें अनन्तगुणित हीन की गई थी, उसी प्रकारके लक्षणवाली यह सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टि भी लोभकी तृतीय वादरसाम्परायिक कृष्टिके अधस्तनभागमें अनन्तगुणित हीन की जाती है । अथवा जिस प्रकार क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टि जघन्य कृष्टिसे लगाकर उत्कृष्ट कृष्टिपर्यन्त अनन्तगुणी होती गई थी, उसी प्रकारसे यह सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टि भी अपनी जघन्यकृष्टिसे लगाकर उत्कृष्ट कृष्टि तक अनन्तगुणित होती जाती है । यहाँ चूर्णिकारने जिस किसी भी कृष्टिके साथ सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिकी समानता न बताकर क्रोधकी प्रथम कृष्टिके साथ बतलाई, उसका कारण सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिका आयाम विशेष-बतलाना है ।

अब चूर्णिकार इसी सूक्ष्मसाम्परायिक-कृष्टिके आयामविशेष-जनित माहात्म्यको बतलानेके लिए अल्पबहुत्वका कथन करते हैं—

चूर्णिसू०—क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तरकृष्टियाँ सबसे कम हैं । (क्योंकि, उनके आयामका प्रमाण तेरह-बटे चौबीस (३३) है ।) क्रोधके संक्रमित होनेपर अर्थात् क्रोधकी तृतीय संग्रहकृष्टिको मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें प्रक्षिप्त करनेपर मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तरकृष्टियाँ विशेष अधिक हैं । (क्योंकि, उनका प्रमाण सोलह बटे चौबीस (३६) है ।) मानके संक्रमित होनेपर मायाकी प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तर कृष्टियाँ विशेष अधिक हैं । (उनका प्रमाण उन्नीस बटे चौबीस (३९) है ।) मायाके संक्रमित होनेपर लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तर कृष्टियाँ विशेष अधिक हैं । (क्योंकि उनका प्रमाण वीस बटे चौबीस (३३) है ।) जो सूक्ष्मसाम्परायिक-कृष्टियाँ प्रथम समयमें की गई हैं वे विशेष अधिक हैं । (क्योंकि उनके आयामका प्रमाण चौबीस बटे चौबीस (३९) है ।) यह विशेष अनन्तर अनन्तररूपसे संख्यातवें भाग है ॥ १२३८-१२४३ ॥

विशेषार्थ—इस उपर्युक्त अल्पबहुत्वमें क्रोधादि कषायोंकी प्रथम संग्रहकृष्टि-सम्बन्धी अन्तरकृष्टियोंकी हीनाधिकता बतलानेके लिए जो अंक-संख्या दी गई है, उसका स्पष्टीकरण यह है कि प्रदेशबन्धकी अपेक्षा आये हुए समयप्रवृद्धके द्रव्यका जो पृथक्-पृथक् कर्मोंमें विभाग होता है, उसके अनुसार मोहनीय कर्मके हिस्सेमें जो भाग आता है, उसका भी

१२४४. सुहृत्संपराइयकिट्टीओ जाओ षडमसमए कदाओ ताओ बहुगाओ ।
 १२४५. विदियसमए अपुच्चाओ कीरंति असंखेज्जगुणहीणाओ । १२४६. अणंतरोवणि-

दर्शनमोहनीय, चारित्रमोहनीय आदि अवान्तर प्रकृतियोंमें विभाग होता है, तदनुसार मोहनीय कर्मको प्राप्त द्रव्यका आठवाँ भाग संज्वलनक्रोधको मिलता है । पुनः संज्वलनक्रोधका यह आठवाँ भाग भी उसकी तीनों संग्रहकृष्टियोंमें विभक्त होता है, अतएव क्रोधकी प्रथम-संग्रहकृष्टिका द्रव्य मोहनीय कर्मके सकल द्रव्यकी अपेक्षा चौबीसवाँ भाग पड़ता है । नोकपायका सत्त्वरूपसे अवस्थित सर्व द्रव्य भी क्रोधकी इस प्रथम संग्रहकृष्टिमें ही पाया जाता है । उसके साथ इसका द्रव्य मिलानेपर तेरह-वटे चौबीस भाग (३ $\frac{३}{४}$) हो जाते हैं, अतः क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिके अन्तर्गत रहनेवाली अन्तरकृष्टियोंका प्रमाण भी उतना ही सिद्ध हुआ । तेरह-वटे चौबीस भाग प्रमाणवाली क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टि जिस समय क्रोधकी द्वितीय संग्रहकृष्टिमें संक्रमित की, उस समय उसकी अन्तरकृष्टिका प्रमाण चौदह-वटे चौबीस (३ $\frac{१}{२}$) होता है । पुनः क्रोधकी द्वितीय संग्रहकृष्टिको तृतीय संग्रहकृष्टिमें संक्रान्त करनेपर उसका प्रमाण पन्द्रह-वटे चौबीस (३ $\frac{३}{४}$) होता है । पुनः क्रोधकी तृतीय संग्रहकृष्टिको मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें संक्रान्त करनेपर उसका प्रमाण सोलह-वटे चौबीस (३ $\frac{३}{४}$) हो जाता है । इस प्रकार तेरह-वटे चौबीस (३ $\frac{३}{४}$) भागप्रमाणवाली क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिकी अपेक्षा सोलह-वटे चौबीस (३ $\frac{३}{४}$) भागप्रमाणवाली मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिका प्रमाण विशेष अधिक सिद्ध हो जाता है, क्योंकि इसमें उसकी अपेक्षा तीन-वटे चौबीस (३ $\frac{३}{४}$) और अधिक मिल गये हैं । मानके मायाकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें संक्रान्त होनेपर उसकी अन्तरकृष्टियोंका प्रमाण विशेष अधिक अर्थात् उन्नीस-वटे चौबीस (३ $\frac{३}{४}$) हो जाता है, क्योंकि मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिकी अपेक्षा मायाकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें मानकी द्वितीय, तृतीय संग्रहकृष्टिका एक-एक भाग, तथा अपना एक भाग इस प्रकार तीन वटे चौबीस (३ $\frac{३}{४}$) भाग और उसमें मिल जाते हैं, इस कारणसे मायाकी प्रथमसंग्रहकृष्टिसम्बन्धी अन्तरकृष्टियोंका प्रमाण विशेष अधिक सिद्ध हो जाता है । मायाके संक्रान्त होनेपर लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टियोंका प्रमाण विशेष अधिक अर्थात् वाईस-वटे चौबीस (३ $\frac{३}{४}$) भाग हो जाता है, क्योंकि उसमें मायाकी द्वितीय, तृतीय संग्रहकृष्टिका एक-एक भाग, तथा अपना एक भाग, ऐसे तीन भाग और उसमें अधिक बढ़ जाते हैं । जो सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियाँ प्रथम समयमें की जाती हैं, उनका प्रमाण विशेष अधिक अर्थात् चौबीस-वटे चौबीस (३ $\frac{३}{४}$) भागप्रमाण हो जाता है, क्योंकि उनमें लोभकी द्वितीय और तृतीय संग्रहकृष्टिसम्बन्धी दो भाग और मिल जाते हैं । इस प्रकारसे उत्तरोत्तर अधिक होनेवाले इस विशेषका प्रमाण अपने पूर्ववर्ती प्रमाणके संख्या-तवें भागप्रमित सिद्ध हो जाता है ।

चूर्णिसू०—प्रथम समयमें जो सूक्ष्मसाम्परायिककृष्टियाँ की जाती हैं, वे बहुत हैं । द्वितीय समयमें जो अपूर्वकृष्टियाँ की जाती हैं, वे असंख्यातगुणी हीन होती हैं । इस प्रकार

धाए सच्चिस्से सुहृमसांपराइयकिट्टीकरणद्वाए अपुच्चाओ सुहृमसांपराइयकिट्टीओ असं-
खेज्जगुणहीणाए सेहीए कीरंति । १२४७ सुहृमसांपराइयकिट्टीसु जं पढमसमये पदेसग्गं
दिज्जदि तं थोवं । १२४८ विदियसमये असंखेज्जगुणं । १२४९ एवं जाव चरिम-
समयादो त्ति असंखेज्जगुणं ।

१२५०. सुहृमसांपराइयकिट्टीसु पढमसमये दिज्जमाणग्गस्स पदेसग्गस्स
सेट्ठिपरुवणं वत्तइस्सामो । १२५१ त जहा । १२५२. जहणियाए किट्टीए पदेसग्गं
वहुअं । विदियाए विसेसहीणमणंतभागेण । तदियाए विसेसहीणं । एवमणंतरोवणि-
धाए गंतूण चरियाए सुहृमसांपराइयकिट्टीए पदेसग्गं विसेसहीणं । १२५३ चरिमादो
सुहृमसांपराइयकिट्टीदो जहणियाए वादरसांपराइयकिट्टीए दिज्जमाणगं पदेसग्गम-
संखेज्जगुणहीणं । १२५४. तदा विसेसहीणं । १२५५. सुहृमसांपराइयकिट्टीकारगो
विदियसमये अपुच्चाओ सुहृमसांपराइयकिट्टीओ करंदि असंखेज्जगुणहीणाओ ।
१२५६. ताओ दोसु ट्ठाणेषु करंदि । १२५७. तं जहा । १२५८. पढमसमये कदाणं
हेट्ठा च अंतरे च । १२५९. हेट्ठा थोवाओ । १२६०. अंतरेसु अरांखेज्जगुणाओ ।

१२६१. विदियसमये दिज्जमाणग्गस्स पदेसग्गस्स सेट्ठिपरुवणा । १२६२.

अनन्तरोपनिधारूप श्रेणीकी अपेक्षा सम्पूर्ण सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिकरणके कालमें अपूर्व
सूक्ष्मसाम्प्रायिक कृष्टियाँ असंख्यातगुणित हीन श्रेणीके क्रमसे की जाती हैं । प्रथम समयमें
सूक्ष्मसाम्प्रायिक कृष्टियोंके भीतर जो प्रदेशाग्र दिया जाता है, वह स्तोक है । द्वितीय
समयमें दिया जानेवाला प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है । इस प्रकार सूक्ष्मसाम्प्रायिक कृष्टिकरण-
कालके अन्तिम समय तक असंख्यातगुणा प्रदेशाग्र दिया जाता है ॥ १२४४-१२४९ ॥

चूर्णिसू०—अब सूक्ष्मसाम्प्रायिक कृष्टियोंमें प्रथम समयमें दिये जानेवाले प्रदेशाग्रकी
श्रेणीप्ररूपणा करेंगे । वह इस प्रकार है—जघन्य कृष्टिमें प्रदेशाग्र बहुत दिया जाता है ।
द्वितीय कृष्टिमें अनन्तर्वे भागसे विशेष हीन प्रदेशाग्र दिया जाता है । तृतीय कृष्टिमें अनन्तर्वे
भागसे विशेष हीन प्रदेशाग्र दिया जाता है । इस प्रकार अनन्तरोपनिधारूप श्रेणीके क्रमसे
लगाकर अन्तिम सूक्ष्मसाम्प्रायिक कृष्टि तक प्रदेशाग्र विशेष-हीन विशेष-हीन दिया जाता है ।
अन्तिम सूक्ष्मसाम्प्रायिक कृष्टिसे जघन्य वादरसाम्प्रायिक कृष्टिमें दिया जानेवाला प्रदेशाग्र
असंख्यातगुणित हीन है । पुनः इसके आगे अन्तिम वादरसाम्प्रायिक कृष्टि तक सर्वत्र
अनन्तर्वे भागसे विशेष हीन प्रदेशाग्र दिया जाता है । सूक्ष्मसाम्प्रायिक कृष्टि-कारक द्वितीय
समयमें असंख्यातगुणित हीन अपूर्व सूक्ष्मसाम्प्रायिक कृष्टियोंको करता है । उन कृष्टियोंको
वह दो स्थानोंमें करता है । यथा—प्रथम समयमें की गई कृष्टियोंके नीचे और अन्तरालमें
भी । कृष्टियोंके नीचे की जानेवाली कृष्टियाँ थोड़ी होती हैं और अन्तरालोंमें की जानेवाली
कृष्टियाँ असंख्यातगुणी होती हैं ॥ १२५०-१२६० ॥

चूर्णिसू०—अब द्वितीय समयमें दिये जानेवाले प्रदेशाग्रकी श्रेणीप्ररूपणा करते हैं—

जा विदियसमये जहणिया सुहुमसांपराइयकिट्टी तिससे पदेसग्गं दिज्जदि बहुअं । १२६३ विदियाए किट्टीए अणंतभागहीणं । १२६४. एवं गंतूण पढमसमये जा जहणिया सुहुमसांपराइयकिट्टी तत्थ असंखेज्जदिभागहीणं । १२६५. तत्तो अणंतभागहीणं जाव अपुव्वं णिव्वत्तिज्जमाणगं ण पावदि । १२६६. अपुव्वाए णिव्वत्तिज्जमाणिगाए किट्टीए असंखेज्जदिभागुत्तरं । १२६७ पुव्वणिव्वत्तिदं पडिव्वज्जमाणगस्स पदेसग्गस्स असंखेज्जदिभागहीणं । १२६८ परं परं पडिव्वज्जमाणगस्स अणंतभागहीणं । १२६९. जो विदियसमए दिज्जमाणगस्स पदेसग्गस्स विधी सो चेव विधी सेसेसु वि समएसु जाव चरिमसमयवादरसांपराइयो त्ति ।

१२७०. सुहुमसांपराइयकिट्टीकारगस्स किट्टीसु दिस्समाणपदेसग्गस्स सेट्ठिपरूवणं । १२७१. तं जहा । १२७२ जहणियाए सुहुमसांपराइयकिट्टीए पदेसग्गं बहुअं । तत्तो अणंतभागहीणं जाव चरिमसुहुमसांपराइयकिट्टि त्ति । १२७३. तदो जहणियाए वादरसांपराइयकिट्टीए पदेसग्गमसंखेज्जगुणं । १२७४. एसा सेट्ठिपरूवणा जाव चरिमसमयवादरसांपराइओ त्ति । १२७५. पढमसमयसुहुमसांपराइयस्स वि किट्टीसु दिस्समाणपदेसग्गस्स सा चेव सेट्ठिपरूवणा । १२७६. णवरि सेचीयादो' जदि

द्वितीय समयमे जो जघन्य सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टि है, उसमे बहुत प्रदेशाग्र दिया जाता है । द्वितीय कृष्टिमे अनन्तवे भागसे हीन दिया जाता है । इस क्रमसे जाकर प्रथम समयमे जो जघन्य सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टि है, उसमे असंख्यातवें भागसे हीन प्रदेशाग्र दिया जाता है । और इसके आगे निर्वर्त्यमान अपूर्वकृष्टि जब तक प्राप्त नहीं होती है, तब तक अनन्तवे भागसे हीन प्रदेशाग्र दिया जाता है । अपूर्व निर्वर्त्यमान कृष्टिमे असंख्यातवे भाग अधिक प्रदेशाग्र दिया जाता है । पूर्वं निर्वर्तित कृष्टिको प्रतिपद्यमान प्रदेशाग्रका असंख्यातवाँ भाग हीन दिया जाता है । इससे आगे उत्तरोत्तर प्रतिपद्यमान प्रदेशाग्रका अनन्तवाँ भाग हीन दिया जाता है । द्वितीय समयमे दिये जानेवाले प्रदेशाग्रकी जो विधि पहले कही गई है, वही विधि शेष समयोमे भी जानना चाहिए । और यह क्रम वादरसाम्परायिकके चरम समय तक ले जाना चाहिए ॥ १२६१-१२६९ ॥

चूर्णिसू०—अब सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टि-कारककी कृष्टियोमे दृश्यमान (दिखाई देने वाले) प्रदेशाग्रकी श्रेणीप्ररूपणा की जाती है । वह इस प्रकार है—जघन्य सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिमे दृश्यमान प्रदेशाग्र बहुत है । इससे आगे चरम सूक्ष्मसाम्परायिककृष्टि तक वह दृश्यमान प्रदेशाग्र अनन्तवे भागसे हीन है । तदनन्तर जघन्य वादरसाम्परायिक कृष्टिमे प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है । यह श्रेणीप्ररूपणा (सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टि-कारकके प्रथम समयसे लगाकर) चरमसमयवर्ती वादरसाम्परायिक तक करना चाहिए ॥ १२७०-१२७४ ॥

चूर्णिसू०—प्रथमसमयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिककी भी कृष्टियोमें दृश्यमान प्रदेशाग्रकी

१ सेचीयादो सेचीयसभवमत्तिसयूण, सभवसच्चमत्तिसयूण । जयव०

वादरसांपराइयकिट्टीओ धरेदि तत्थ पदेसग्गं विसेसहीणं होज्ज । १२७७. सुहुमसांप-
राइयकिट्टीसु कीरमाणीसु लोभस्स चरिमादो वादरसांपराइयकिट्टीदो सुहुमसांपराइय-
किट्टीए संकमदि पदेसग्गं थोवं । १२७८. लोभस्स विदियकिट्टीदो चरिमवादरसांप-
राइयकिट्टीए संकमदि पदेसग्गं संखेज्जगुणं । १२७९. लोभस्स विदियकिट्टीदो
सुहुमसांपराइयकिट्टीए संकमदि पदेसग्गं संखेज्जगुणं ।

१२८०. पढमसमयकिट्टीवेदगस्स कोहस्स विदियकिट्टीदो माणस्स पढम-
संगहकिट्टीए संकमदि पदेसग्गं थोवं । १२८१ कोहस्स तदियकिट्टीदो माणस्स
पढमाए संगहकिट्टीए संकमदि पदेसग्गं विसेसाहियं । १२८२. माणस्स पढमादो
[संगह-] किट्टीदो मायाए पढमकिट्टीए संकमदि पदेसग्गं विसेसाहियं । १२८३.
माणस्स विदियादो संगहकिट्टीदो मायाए पढमसंगहकिट्टीए संकमदि पदेसग्गं विसे-
साहियं । १२८४. माणस्स तदियादो संगहकिट्टीदो मायाए पढमसंगहकिट्टीए संक-
मदि पदेसग्गं विसेसाहियं । १२८५. मायाए पढमसंगहकिट्टीदो लोभस्स पढमसंगह-
किट्टीए संकमदि पदेसग्गं विसेसाहियं । १२८६. मायाए विदियादो संगहकिट्टीदो
लोभस्स पढमाए [संगहकिट्टीए] संकमदि पदेसग्गं विसेसाहियं । १२८७. मायाए
तदियादो संगहकिट्टीदो लोभस्स पढमाए संगहकिट्टीए संकमदि पदेसग्गं विसेसाहियं ।

यह उपर्युक्त ही श्रेणीप्ररूपणा है । केवल इतनी विशेषता है कि यदि वह सेचीयसे अर्थात्
संभावना-सत्यसे वादरसाम्परायिक-कृष्टियोको धारण करता है, तो वहाँपर प्रदेशाग्र विशेष
हीन होगा । की जानेवाली सूद्धमसाम्परायिक कृष्टियोमे लोभकी चरम वादरसाम्परायिक
कृष्टिसे सूद्धमसाम्परायिककृष्टिमे अल्प प्रदेशाग्र संक्रमण करता है । लोभकी द्वितीय कृष्टिसे
चरम वादरसाम्परायिक कृष्टिमे संख्यातगुणित प्रदेशाग्र संक्रमण करता है । (इसका कारण
यह है कि लोभकी तृतीय संग्रहकृष्टिके प्रदेशाग्रसे द्वितीय संग्रहकृष्टिके प्रदेशाग्रसंख्यातगुणित
हैं ।) लोभकी द्वितीय संग्रहकृष्टिसे सूद्धमसाम्परायिक कृष्टिमे संख्यातगुणित प्रदेशाग्र संक्रमण
करता है ॥ १२७५-१२७९ ॥

चूर्णिसू०—प्रथम समयवर्ती कृष्टिवेदकके अर्थात् कृष्टिकरणकालके समाप्त होनेपर
अनन्तर कालमे क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिका अपकर्षण कर उसका वेदन करनेवालेके क्रोधकी
द्वितीय संग्रहकृष्टिसे मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिमे अल्प प्रदेशाग्र संक्रमण करता है । क्रोधकी
तृतीय संग्रहकृष्टिसे मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिमे विशेष अधिक प्रदेशाग्र संक्रमण करता है ।
मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिसे मायाकी प्रथम संग्रहकृष्टिमे विशेष अधिक प्रदेशाग्र संक्रमण करता
है । मानकी द्वितीय संग्रहकृष्टिसे मायाकी प्रथम संग्रहकृष्टिमे विशेष अधिक प्रदेशाग्र संक्रमण
करता है । मानकी तृतीय संग्रहकृष्टिसे मायाकी प्रथम संग्रहकृष्टिमे विशेष अधिक प्रदेशाग्र
संक्रमण करता है । मायाकी प्रथम संग्रहकृष्टिसे लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिमे विशेष अधिक
प्रदेशाग्र संक्रमण करता है । मायाकी द्वितीय संग्रहकृष्टिसे लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिमे विशेष

१२८८. लोभस्स पढमक्किट्ठीदो लोभस्स चेव विदियसंगहक्किट्ठीए संकमदि पदेसग्गं विसेसाहियं । १२८९. लोभस्स चेव पढमसंगहक्किट्ठीदो तस्स चेव तदियसंगहक्किट्ठीए संकमदि पदेसग्गं विसेसाहियं । १२९०. कोहस्स पढमसंगहक्किट्ठीदो माणस्स पढमसंगहक्किट्ठीए संकमदि पदेसग्गं संखेज्जगुणं । १२९१. कोहस्स चेव पढमसंगहक्किट्ठीदो कोहस्स चेव तदियसंगहक्किट्ठीए संकमदि पदेसग्गं विसेसाहियं । १२९२. कोहस्स पढम [संगह-] क्किट्ठीदो कोहस्स चेव विदियसंगहक्किट्ठीए संकमदि पदेसग्गं संखेज्जगुणं । १२९३. एसो पढेससंकमो अइकंतो वि उवखेदिदो सुहुमसांपराइयक्किट्ठीसु कीरमाणीसु आसओ त्ति कादूण ।

१२९४. सुहुमसांपराइयक्किट्ठीसु पढमसमये दिज्जदि पदेसग्गं थोवं । विदियसमये असंखेज्जगुणं जाव चरिमसमयादो त्ति ताव असंखेज्जगुणं । १२९५. एदेण कमेण लोभस्स विदियक्किट्ठी वेदयमाणस्स जा पढमट्ठीदी तिस्से पढमट्ठीदीए आवलिया समयाहिया सेसा त्ति तम्हि समये चरिमसमयवादरसांपराइओ । १२९६. तम्हि चेव समये लोभस्स चरिमवादरसांपराइयक्किट्ठी संखुब्भमाणा संखुट्ठा । १२९७. लोभस्स

अधिक प्रदेशाग्र संक्रमण करता है । मायाकी तृतीय संग्रहकृष्टिसे लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें विशेष अधिक प्रदेशाग्र संक्रमण करता है । लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिसे लोभकी ही द्वितीय संग्रहकृष्टिमें विशेष अधिक प्रदेशाग्र संक्रमण करता है । लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिसे उसकी ही तृतीय संग्रहकृष्टिमें विशेष अधिक प्रदेशाग्र संक्रमण करता है । क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिसे मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें संख्यातगुणित प्रदेशाग्र संक्रमण करता है । क्रोधकी ही प्रथम संग्रहकृष्टिसे क्रोधकी ही तृतीय संग्रहकृष्टिमें विशेष अधिक प्रदेशाग्र संक्रमण करता है । क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिसे क्रोधकी ही द्वितीय संग्रहकृष्टिमें संख्यातगुणित प्रदेशाग्र संक्रमण करता है । यह वादरकृष्टि-सम्बन्धी प्रदेशाग्र-संक्रमण यद्यपि अतिक्रान्त हो चुका है, तथापि की जानेवाली सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोमें आश्रयभूत मान करके पुनः कहा गया है ॥ १२८०-१२९३ ॥

चूर्णिसू०—सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोमें प्रथम समयमें अल्प प्रदेशाग्र दिया जाता है । द्वितीय समयमें असंख्यातगुणित प्रदेशाग्र दिया जाता है । इस प्रकार वादरसाम्परायिकके अन्तिम समय तक असंख्यातगुणित प्रदेशाग्र दिया जाता है । इस क्रमसे लोभकी द्वितीय कृष्टिको वेदन करनेवालेके जो प्रथमस्थिति है उस प्रथमस्थितिमें जिस समय एक समय अधिक आवली शेष रहती है, उस समयमें वह चरमसमयवर्ती वादरसाम्परायिक होता है । उस ही समयमें अर्थात् अनिवृत्तिकरण गुणस्थानके अन्तिम समयमें लोभकी संक्रम्यमाण चरम वादरसाम्परायिककृष्टि सामस्त्यरूपसे सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोमें संक्रान्त हो जाती है । लोभकी

विदियकिट्टीए वि दो आवलियबंधे समयूणे मोत्तूण उदयावलयपविट्टं च मोत्तूण सेसाओ विदियकिट्टीए अंतरकिट्टीओ संखुभमाणीओ संखुद्धाओ ।

१२९८. त्तिह चैव लोभसंजलणस्स ट्टिदिबंधो अंतोमुहुत्तं । १२९९. तिण्हं वादिकम्माणं ट्टिदिबंधो अहोरत्तस्स अंतो । १३०० णामा-गोद-वेदणीयाणं वादर-सांपराइयस्स जो चरिमो ट्टिदिबंधो सो संखेज्जेहिं वस्सतहस्सेहिं हाइदूण वस्सस्स अंतो जादो । १३०१. चरिमसमयवादरमांपराइयस्स मोहणीयस्स ट्टिदिसंतकम्ममंतोमुहुत्तं । १३०२. तिण्हं वादिकम्माणं ट्टिदिसंतकम्मं संखेज्जाणि वस्ससहरसाणि । १३०३. णामा-गोद-वेदणीयाणं ट्टिदिसंतकम्ममसंखेज्जाणि वस्साणि ।

१३०४. से काले पढमसमयसुहुमसांपराइयो जादो । १३०५ ताधे चैव सुहुम-सांपराइयकिट्टीणं जाओ ट्टिदीओ तदो ट्टिदिखंडयमागाइदं । १३०६. तदो पदेसग्ग-मोक्कड्डियूण उदये थोवं दिण्णं । १३०७. अंतोमुहुत्तद्धमेत्तमसंखेज्जगुणाए सेडीए [देदि] । १३०८. गुणसेट्ठिणिक्खेवो सुहुमसांपराइयद्वादो विसेसुत्तरो । १३०९. गुणसेट्ठिसीसगादो जा अणंतरट्टिदी तत्थ असंखेज्जगुणं । १३१० ततो विसेसहीणं ताव जाव पुव्वसमयं अंतरमासी, तस्स अंतरस्स चरिमादो अंतरट्टिदीदो त्ति । १३११.

द्वितीय कृष्टिके भी एक समय कम दो आवलीप्रमित नवकवद्ध समयप्रवद्धोको छोड़कर, तथा उदयावली-प्रविष्ट द्रव्यको छोड़कर शेष द्वितीयकृष्टिकी संक्रम्यमाण अन्तरकृष्टियाँ सक्षुब्ध अर्थात् संक्रमणको प्राप्त हो जाती है ॥ १२९४-१२९७ ॥

चूर्णिसू०—उस ही समयमें संज्वलनलोभका स्थितिवन्ध अन्तर्मुहूर्तप्रमाण होता है । शेष तीनों वातिया कर्मोंका स्थितिबन्ध अन्तः अहोरात्र अर्थात् कुछ कम एक दिन-रातप्रमाण होता है । नाम, गोत्र और वेदनीय, इन तीन कर्मोंका वादरसाम्परायिकके जो चरम स्थिति-बन्ध था, वह संख्यात वर्षसहस्रोसे घटकर अन्तःवर्ष अर्थात् कुछ कम एक वर्षमात्र रह जाता है । चरमसमयवर्ती वादरसाम्परायिकके मोहनीय कर्मका स्थितिसत्त्व अन्तर्मुहूर्त है । शेष तीनों वातिया कर्मोंका स्थितिसत्त्व संख्यात सहस्र वर्ष है । नाम, गोत्र और वेदनीय इन तीन अवातिया कर्मोंका स्थितिसत्त्व असंख्यात वर्ष है ॥ १२९८-१३०३ ॥

चूर्णिसू०—तदनन्तर कालमें वह प्रथमसमयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिकसंयत हो जाता है । उस ही समयमें सूक्ष्मसाम्परायिककी जो अन्तर्मुहूर्तप्रमित स्थितियाँ हैं, उनसे स्थितिकांडकरूपसे घात करनेके लिए ग्रहण करता है, अर्थात् उन स्थितियोंके संख्यातवे भागको ग्रहण करके स्थितिकांडघात प्रारम्भ करता है । तदनन्तर सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंकी उत्कीर्यमाण और अनुत्कीर्यमाण स्थितियोंसे प्रदेशाग्रका अपकर्षण कर उदयमें अल्प प्रदेशाग्रको देता है । पुनः अन्तर्मुहूर्तकाल तक असंख्यातगुणित श्रेणीसे देता है । गुणश्रेणिनिक्षेपका आयाम सूक्ष्मसाम्परायिककालसे विशेष अधिक है । गुणश्रेणिशीर्षसे जो अनन्तर स्थिति है उसमें असंख्यात-गुणित प्रदेशाग्रको देता है । इससे आगे अन्तरस्थितियोंमें उत्तरोत्तर विशेष-हीन क्रमसे प्रदे-शाग्र तब तक देता चला जाता है, जब तक कि पूर्व समयमें जो अन्तर था उस अन्तरकी

चरिमादो अंतरद्विदीदो पुव्वसमये जा विदियद्विदी तिस्से आदिद्विदीए दिज्जमाणं पदेसग्गं संखेज्जगुणहीणं १३१२. तत्तो विसेसहीणं ।

१३१३. पढमसमयसुहुमसांपराइयस्स जमाकडिज्जदि पदेसग्गं तमदीए सेढीए णिक्खिवदि । १३१४. विदियसमए वि एवं चेव, तदियसमए वि एवं चेव । एस क्रमो ओकडिदूण णिसिंचमाणगस्स पदेसग्गस्स ताव जाव सुहुमसांपराइयस्स पढम-द्विदिखंडयं णिल्लेविदं ति । १३१५. विदियादो ठिदिखंडयादो ओकडिगूण [जं] पदेसग्ग-सुदये दिज्जदि तं थोवं । १३१६. तदो दिज्जदि असंखेज्जगुणाए सेढीए ताव जाव गुणसेहिसीसयादो उवरिमाणंतरा एका द्विदि ति । १३१७ तदो विसेसहीणं । १३१८. एत्तो पाए सुहुमसांपराइयस्स जाव मोहणीयस्स द्विदिवादो ताव एस क्रमो ।

१३१९. पढमसमयसुहुमसांपराइयस्स जं दिस्सदि पदेसग्गं तस्स सेढिपरूवणं वचइस्सामो । १३२०. तं जहा । १३२१. पढमसमयसुहुमसांपराइयस्स उदये दिस्सदि पदेसग्गं थोवं । विदियाए द्विदीए असंखेज्जगुणं दीसदि । (एवं) ताव जाव (गुणसेहिसीसयं ति ।) गुणसेहिसीसयादो अण्णा च एका द्विदि ति । १३२२ तत्तो विसेस-हीणं ताव जाव चरिमअंतरद्विदि ति । १३२३ तत्तो असंखेज्जगुणं । १३२४. तत्तो

अन्तिम स्थिति नहीं प्राप्त हो जाती है । चरम अन्तरस्थितिसे पूर्व समयमे जो द्वितीय स्थिति है, उसकी प्रथम स्थितिमे दीयमान प्रदेशाग्र संख्यातगुणित हीन है । इससे आगे उपरिम स्थितिमे दीयमान प्रदेशाग्र विशेष हीन है ॥१३०४-१३१२॥

चूर्णिसू०—प्रथमसमयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिक जिस प्रदेशाग्रका अपकर्षण करता है, उसे इसी श्रेणीके क्रमसे देता है । द्वितीय समयमे भी इसी क्रमसे देता है और तृतीय समयमे भी इसी क्रमसे देता है । इस प्रकार अपकर्षण करके निपिच्यमान प्रदेशाग्रका यह क्रम तब तक जारी रहता है, जब तक कि सूक्ष्मसाम्परायिकका प्रथम स्थितिकांडक निर्लेपित (समाप्त) होता है । द्वितीय स्थितिकांडकसे अपकर्षण कर जो प्रदेशाग्र उदयमे दिया जाता है, वह अल्प है । इससे आगे असंख्यातगुणित श्रेणीके क्रमसे तब तक प्रदेशाग्र दिया जाता है, जब तक कि गुणश्रेणीशीर्षसे उपरिम एक अनन्तर स्थिति प्राप्त होती है । इससे आगे विशेष हीन प्रदेशाग्र दिया जाता है । इस स्थलसे लगाकर सूक्ष्मसाम्परायिकके जब तक मोहनीयकर्मका स्थितिघात होता है, तब तक यह क्रम जारी रहता है ॥१३१३-१३१८॥

चूर्णिसू०—प्रथमसमयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिकके जो प्रदेशाग्र दिखाई देता है, उसकी श्रेणीप्ररूपणाको कहेगे । वह इस प्रकार है—प्रथम समयमे सूक्ष्मसाम्परायिकके उदयमे अल्प प्रदेशाग्र दिखाई देता है । द्वितीय स्थितिमे असंख्यातगुणित प्रदेशाग्र दिखाई देता है । इस प्रकार यह क्रम गुणश्रेणीशीर्ष तक जारी रहता है । तथा गुणश्रेणीशीर्षसे आगे अन्य एक स्थिति तक जारी रहता है । इससे आगे चरम अन्तर-स्थिति तक विशेष हीन प्रदेशाग्र दिखाई देता है । तदनन्तर असंख्यातगुणित प्रदेशाग्र दिखाई देता है । तत्पश्चात् विशेष हीन प्रदे-

विसेसहीणं । १३२५ एस कमो ताव जाव सुहुमसांपराइयस्स पढमड्ढिदिखंडयं चरिम-
समयअणिल्लेविदं ति । १३२६. पढमे ड्ढिदिखंडए णिल्लेविदे [जं] उदये पदेसग्गं
दिस्सदि तं थोवं । विदियाए ड्ढिदीए असंखेज्जगुणं । एवं ताव जाव गुणसेहिंसीसयं ।
गुणसेहिंसीसयादो अण्णा च एक्का ड्ढिदि ति असंखेज्जगुणं दिस्सदि । १३२७. तत्तो
विसेसहीणं जाव उक्कस्सिया मोहणीयस्स ड्ढिदि ति ।

१३२८ सुहुमसांपराइयस्स पढमड्ढिदिखंडए पढमसमयणिल्लेविदे गुणसेहिं
मोत्तूण केण कारणेण सेसिगासु ड्ढिदीसु एयगोवुच्छा सेही जादा ति ? एदस्स साह-
णड्ढिमिमाणि अप्पावहुअपदाणि । १३२९. तं जहा । १३३०. सव्वत्थोवा सुहुमसांप-
राइयद्वा । १३३१ पढमसमयसुहुमसांपराइयस्स मोहणीयस्स गुणसेहिंणिक्खेवो विसे-
साहिओ । १३३२ अंतरड्ढिदीओ संखेज्जगुणाओ । १३३३. सुहुमसांपराइयस्स पढम-
ड्ढिदिखंडयं मोहणीये संखेज्जगुणं । १३३४. पढमसमयसुहुमसांपराइयस्स मोहणीयस्स
ड्ढिदिसंतक्कम्पं संखेज्जगुणं । १३३५. लोभस्स विदियकिड्ढिं वेदयमाणस्स जा पढमड्ढिदी
तिस्से पढमड्ढिदीए जाव तिण्णि आवलियाओ सेसाओ ताव लोभस्स विदियकिड्ढिदी
लोभस्स तदियकिड्ढिदीए संखुव्भदि पदेसग्गं, तेण परं ण संखुव्भदि; सव्वं सुहुमसांप-
राइयकिड्ढिदीसु संखुव्भदि । १३३६. लोभस्स विदियकिड्ढिं वेदयमाणस्स जा पढम-

शाग्र दिखाई देता है । यह क्रम तब तक जारी रहता है, जब तक कि सूक्ष्मसाम्परायिकके
प्रथम स्थितिकांडके समाप्त होनेका चरम समय नहीं प्राप्त होता है । प्रथम स्थितिकांडके
निलेंपित होनेपर जो प्रदेशाग्र उदयमे दिखाई देता है, वह अल्प है । द्वितीय स्थितिमे जो
प्रदेशाग्र दिखाई देता है, वह असंख्यातगुणित है । इस प्रकार यह क्रम तब तक जारी रहता
है, जब तक कि गुणश्रेणीशीर्ष प्राप्त होता है । गुणश्रेणीशीर्षसे आगे एक अन्य स्थिति प्राप्त
होने तक असंख्यातगुणित प्रदेशाग्र दिखाई देता है । तत्पश्चात् मोहनीयकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति-
तक विशेष हीन प्रदेशाग्र दिखाई देता है ॥ १३१९-१३२७ ॥

चूर्णिसू०—सूक्ष्मसाम्परायिकके प्रथम स्थितिकांडके उत्कीर्ण होनेके पश्चात् प्रथम
समयमें गुणश्रेणीको छोड़कर शेष स्थितियोंमे किस कारणसे एक गोपुच्छारूप श्रेणी हुई है, इस
वाक्यके साधनार्थ ये वक्ष्यमाण अल्पवहुत्व-पद जानने योग्य है । वे इस प्रकार हैं—सूक्ष्म-
साम्परायिकका काल सबसे कम है । प्रथम समयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिकके मोहनीयका गुण-
श्रेणीनिक्षेप विशेष अविक है । अन्तरस्थितियाँ संख्यातगुणी हैं । सूक्ष्मसाम्परायिकके मोह-
नीयका प्रथम स्थितिकांडक संख्यातगुणा है । प्रथमसमयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिकके मोहनीयका
स्थितिसत्त्व संख्यातगुणा है ॥ १३२८-१३३४ ॥

चूर्णिसू०—लोभकी द्वितीय कृष्टिको वेदन करनेवालेके जो प्रथम स्थिति है, उस
प्रथम स्थितिकी जब तक तीन आवलियाँ शेष हैं, तब तक लोभकी द्वितीय कृष्टिसे लोभकी
तृतीय कृष्टिमे प्रदेशाग्रको संक्रमित करता है । उसके पश्चात् तृतीय कृष्टिमें संक्रमित नहीं

द्विती तिस्रे पढमद्वितीए आवलियाए समयाहियाए सेसाए ताथे जा लोभस्स तदिय-
किट्ठी सा सव्वा णिरवयवा सुहुमसांपराइयकिट्ठीसु संकंता । १३३७ जा विदिय-
किट्ठी तिस्रे दो आवलिया योत्तूण समयुणे उदयावलयपविट्ठं च सेसं सव्वं सुहुमसांप-
राइयकिट्ठीसु संकंतं । १३३८ ताथे चरिसमयवादरसांपराइओ मोहणीयस्स चरिम-
समयबंधगो ।

१३३९. से काले पढमसमयसुहुमसांपराइओ । १३४०. ताथे सुहुमसांपराइय-
किट्ठीणमसंखेज्जा भागा उदिण्णा । १३४१. हेट्ठा अणुदिण्णाओ थोवाओ । १३४२.
उवरि अणुदिण्णाओ विसेसाहियाओ । १३४३. यज्जे उदिण्णाओ सुहुमसांपराइयकिट्ठी-
ओ असंखेज्जगुणाओ १३४४. सुहुमसांपराइयस्स संखेज्जेसु द्विदिखंडयसहस्सेसु गदेसु
जमपच्छिमं द्विदिखंडयं मोहणीयस्स तम्मि द्विदिखंडए उक्कीरमाणे जो मोहणीयस्स
गुणसेट्ठिणिक्खेवो तस्स गुणसेट्ठिणिक्खेवस्स अग्गगादो संखेज्जदिभागो आगाइदो ।
१३४५. तम्मि द्विदिखंडए उक्किणे तदोप्पहुडि मोहणीयस्स णत्थि द्विदिवादो । १३४६.
जत्तियं सुहुमसांपराइयद्वाए सेसं तत्तियं मोहणीयस्स द्विदिसंतकम्मं सेसं १३४७. एत्तिगे ।

करता, किन्तु सर्व प्रदेशाग्रको सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोमे संक्रमित करता है । लोभकी द्वितीय
कृष्टिको वेदन करनेवालेके जो प्रथम स्थिति है, उस प्रथम स्थितिमे एक समय अधिक आवली-
के शेष रहने पर उस समय जो लोभकी तृतीय कृष्टि है वह सब निरवयव रूपसे सूक्ष्मसाम्प-
रायिक कृष्टियोमे संक्रान्त होती है । जो द्वितीय कृष्टि है, उसके एक समय कम दो आवली-
प्रमित नवकवद्ध समयप्रवद्धको छोड़कर, और उदयावलीप्रविष्ट द्रव्यको भी छोड़कर शेष सर्व-
प्रदेशाग्र सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोमे संक्रान्त हो जाता है । उस समय यह क्षपक चरम समय-
वर्ती वादरसाम्परायिक और मोहनीयकर्मका चरमसमयवर्ती बन्धक होता है ॥ १३३५-१३३८ ॥

चूर्णिसू०—तदनन्तरकालमे वह क्षपक प्रथमसमयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिक होता है ।
उस समयमे सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोके असंख्यात बहुभाग उदीर्ण होते हैं । अधस्तनभागमे
जो कृष्टियाँ अनुदीर्ण है, वे अल्प है । उपरिम भागमे जो कृष्टियाँ अनुदीर्ण है, वे विशेष
अधिक है । मध्यमे जो उदीर्ण सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियाँ है, वे असंख्यातगुणित है । सूक्ष्म-
साम्परायिकके संख्यात सहस्र स्थितिकांडकोके व्यतीत हो जानेपर जो मोहनीयकर्मका अन्तिम
स्थितिकांडक है, उस स्थितिकांडकके उत्कीर्ण किये जानेपर जो मोहनीयकर्मका गुणश्रेणीनिक्षेप
है, उस गुणश्रेणीनिक्षेपके उत्तरोत्तर अग्र-अग्र प्रदेशाग्रसे संख्यातवे भाग घात करनेके लिए
ग्रहण करता है । उस स्थितिकांडकके उत्कीर्ण हो जानेपर आगे मोहनीयका स्थितिघात नहीं
होता है । (केवल अधःस्थितिके द्वारा ही अवशिष्ट रही अन्तर्मुहूर्तप्रमित स्थितियाँ निर्जीर्ण
होती है । किन्तु ज्ञानावरणादिकर्मोंके अनुभागघात इससे ऊपर भी होते रहते हैं ।) सूक्ष्म-
साम्परायिकगुणस्थानके कालमे जितना समय शेष है, उतना ही मोहनीयकर्मका स्थितिसत्त्व
शेष है । (और उस स्थितिसत्त्वको अधःस्थितिके द्वारा निर्जीर्ण करता है ।) इतनी प्ररू-
पणा करनेपर सूक्ष्मसाम्परायिक क्षपककी प्ररूपणा समाप्त हो जाती है ॥ १३३९-१३४७ ॥

१३४८. इदाणिं सेसाणं गाहाणं सुत्तफासो' कायच्चो । १३४९. तत्थ ताव दसमी मूलगाहा ।

(१५४) किट्टीकदम्मि कम्मो के वंधदि के व वेदयदि अंसे ।

संकायेदि च के के केसु असंक्रामगो होदि ॥२०७॥

१३५०. एदिस्से पंच भासगाहाओ । १३५१. तासिं समुक्किताणा ।

(१५५) दससु च वस्सस्संतो बंधदि णियमा दु सेसगो अंसे ।

देसावरणीयाइं जेसिं ओवट्टणा अत्थि ॥२०८॥

१३५२. एदिस्से गाहाए विहासा । १३५३. एदीए गाहाए तिण्हं घादि-
कम्माणं द्विदिवंधो च अणुभागवंधो च णिदिट्ठो । १३५४. तं जहा । १३५५. कोहस्स

चूर्णिसू०—अव शेष गाथाओका सूत्रस्पर्श करना चाहिए ॥१३४८॥

विशेषार्थ—पूर्वमें अर्थरूपसे विभाषित गाथासूत्रोका उच्चारण करके गाथाके पदरूप अवयवोंका शब्दार्थ कर लेनेको सूत्रस्पर्श कहते हैं । वह सूत्रस्पर्श इस समय करना आवश्यक है । इसका अभिप्राय यह है कि कृष्टि-सम्बन्धी जो ग्यारह मूलगाथाएँ हैं—उनमेंसे प्रारम्भकी नौ गाथाओकी तो विभाषा की जा चुकी है । अन्तिम दो गाथाओकी विभाषा स्थगित कर दी गई थी, सो वह अव की जाती है ।

चूर्णिसू०—उनमेंसे यह दशवी मूलगाथा है ॥१३४९॥

मोहनीय कर्मके कृष्टि रूपसे परिणाम देनेपर कौन-कौन कर्मको बंधता है और कौन-कौन कर्मोंके अंशोंका वेदन करता है ? किन-किन कर्मोंका संक्रमण करता है और किन-किन कर्मोंमें असंक्रामक रहता है, अर्थात् संक्रमण नहीं करता है ? ॥२०७॥

इस मूल गाथाके अर्थका व्याख्यान करनेवाली पाँच भाष्य-गाथाएँ हैं । उनकी समुत्कीर्तना इस प्रकार है ॥१३५०-१३५१॥

क्रोध-प्रथम कृष्टिवेदकके चरम समयमें शेष कर्मांशोंकी अर्थात् मोहनीयको छोड़कर शेष तीन घातिया कर्मोंकी नियमसे अन्तर्मुहूर्त कम दश वर्षप्रमाण स्थितिका बन्ध करता है । घातिया कर्मोंमें जिन-जिन कर्मोंकी अपवर्तना संभव है, उनका देश-घातिरूपसे ही बन्ध करता है । (तथा जिनकी अपवर्तना संभव नहीं है, उनका सर्वघातिरूपसे ही बन्ध करता है ।) ॥२०८॥

चूर्णिसू०—अव इस भाष्यगाथाकी विभाषा की जाती है—इस गाथाके द्वारा मोहनीय-कर्मको छोड़कर शेष तीनों घातिया कर्मोंका स्थितिवन्ध और अनुभागवन्ध निर्दिष्ट किया

१ को सुत्तफासो नाम ? सूत्रस्य स्पर्शः सूत्रस्पर्शः, पुव्वमत्तयमुत्तेण विहासिदाणं गाहासुत्ताणमेण्दि-
मुच्चारणपुरस्सरमवयवत्थपरामरसो सुत्तफासो त्ति भणिद होइ । जयध०

पढमक्किट्टिचरिमसमयवेदगस्स तिण्हं वादिकम्माणं द्विदिवंधो संखेज्जेहिं वस्ससहस्संहिं परिहाइदूण दसण्हं वस्साणमंतो जादो ।

१३५६. अथाणुभागबंधो-तिण्हं वादिकम्माणं किं सव्वघादी देसघादि त्ति ? १३५७. एदेसिं वादिकम्माणं जेसिमोवट्टणा अत्थि ताणि देसघादीणि बंधदि, जेसिमोवट्टणा णत्थि, ताणि सव्वघादीणि बंधदि । १३५८. ओवट्टणा सण्णा पुव्वं परू-विदा ।

१३५९. एत्तो विदियाए भासगाहाए समुक्कित्तणा । १३६०. तं जहा ।
(१५६) चरिमो वादररागो णामा-गोदाणि वेदणीयं च ।

वस्सस्संतो बंधदि दिवसस्संतो य जं सेसं ॥२०९॥

१३६१. विहासा । १३६२. जहा । १३६३. चरिमसमय-वादरसांपराइयस्स णामा-गोद-वेदणीयाणं द्विदिवंधो वासं देसणं । १३६४. तिण्हं वादिकम्माणं मुहुत्त-पुधत्तो द्विदिवंधो ।

१३६५. एत्तो तदियाए भासगाहाए समुक्कित्तणा । १३६६. तं जहा ।

गया है । वह इस प्रकार है—क्रोधकी प्रथम कृष्टिके चरमसमवर्ती वेदकके शेष तीनों घातिया कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात-सहस्र वर्षोंसे घटकर दश वर्षोंके अन्तर्वर्ती हो जाता है, अर्थात् अन्तर्मुहूर्त कम दश वर्षप्रमाण उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होता है ॥१३५२-१३५५॥

शंका—तीनों घातिया कर्मोंका अनुभागवन्ध क्या सर्वघाती होता है, अथवा देश-घाती होता है ? ॥१३५६॥

समाधान—इन घातिया कर्मोंसे जिनकी अपवर्तना संभव है, उनका देशघाती अनुभागवन्ध करता है और जिनकी अपवर्तना संभव नहीं है, उनको सर्वघातिरूपसे बाँधता है । अपवर्तना संज्ञाका अर्थ पहले प्ररूपण किया जा चुका है ॥१३५७-१३५८॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे दूसरी भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना की जाती है । वह इस प्रकार है ॥१३५९-१३६०॥

चरमसमयवर्ती वादरसाम्परायिक क्षपक नाम, गोत्र और वेदनीय कर्मको वर्षके अन्तर्गत बाँधता है । तथा शेष जो तीन घातिया कर्म हैं, उन्हें एक दिवसके अन्तर्गत बाँधता है ॥२०९॥

चूर्णिसू०—इस भाष्यगाथाकी विभाषा इस प्रकार है—चरमसमयवर्ती वादर-साम्परायिकके नामकर्म, गोत्रकर्म और वेदनीय कर्मका स्थितिवन्ध कुछ कम एक वर्षप्रमाण होता है । शेष तीनों घातिया कर्मोंका स्थितिवन्ध मुहूर्तपृथक्त्वप्रमाण होता है ॥१३६१-१३६४॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे तीसरी भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना की जाती है । वह इस प्रकार है ॥१३६५-१३६६॥

(१५७) चरिमो य सुहुमरागो णामा-गोदाणि वेदणीयं च ।
दिवसस्संतो बंधदि भिण्णमुहुत्तं तु जंसेसं ॥२१०॥

१३६७. विहासा । १३६८. चरिमसमयसुहुमसांपराइयस्स णामा-गोदाणं
द्विदिवंधो अंतोमुहुत्तं (अट्ट मुहुत्ता) । १३६९. वेदणीयस्स द्विदिवंधो वारस मुहुत्ता ।
१३७०. तिण्हं घादिकम्माणं द्विदिवंधो अंतोमुहुत्तो ।

१३७१. एत्तो चउत्थीए भासगाहाए समुक्कित्तणा ।

(१५८) अथ सुदमदि-आवरणे च अंतराइए च देसमावरणं ।
लद्धी यं वेदयदे सव्वावरणं अलद्धी य ॥२११॥

१३७२. लद्धीए विहासा । १३७३. जदि सव्वेसिमक्खराणं खओवसमो गदो
तदो सुदावरणं मदिआवरणं च देसघादिं वेदयदि । १३७४. अथ एकस्स वि अक्खरस्स
ण गदो खओवसमो तदो सुद-मदि-आवरणाणि सव्वघादीणि वेदयदि । १३७५. एव-
मेदेसिं तिण्हं घादिकम्माणं जासिं पयडीणं खओवसमो गदो तासिं पयडीणं देसघादि-

चरमसमयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिक क्षपक नाम, गोत्र और वेदनीय कर्मको
एक दिवसके अन्तर्गत बाँधता है । शेष जो घातिया कर्म हैं, उन्हें भिन्नमुहूर्त-प्रमाण
बाँधता है ॥२१०॥

चूर्णिसू०—उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा इस प्रकार है—चरमसमयवर्ती सूक्ष्मसाम्प-
रायिक क्षपकके नाम और गोत्र कर्मका स्थितिवन्ध आठ मुहूर्तप्रमाण होता है । वेदनीयकर्मका
स्थितिवन्ध वारह मुहूर्तप्रमाण होता है । शेष तीनों घातिया कर्मोंका स्थितिवन्ध अन्तर्मुहूर्त-
प्रमाण होता है । ॥१३६७-१३७०॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे चौथी भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना की जाती है ॥१३७१॥

मतिज्ञानावरण और श्रुतज्ञानावरण कर्ममें जिनकी लब्धि अर्थात् क्षयोपशम-
विशेषको वेदन करता है, उनके देशघाति-आवरणरूप अनुभागका वेदन करता है ।
जिनकी अलब्धि है, अर्थात् क्षयोपशमविशेष सम्पन्न नहीं हुआ है उनके सर्वघाति
आवरणरूप अनुभागका वेदन करता है । अन्तराय कर्मका देशघाति-अनुभाग वेदन
करता है ॥२११॥

चूर्णिसू०—‘लब्धि’ इस पदकी विभाषा की जाती है—यदि सर्व अक्षरोका क्षयोपशम
प्राप्त हुआ है, तो वह श्रुतज्ञानावरण और मतिज्ञानावरणको देशघातिरूपसे वेदन करता है ।
यदि एक भी अक्षरका क्षयोपशम नहीं हुआ अर्थात् अवशिष्ट रह गया, तो मति-श्रुतज्ञाना-
वरण कर्मोंको सर्वघातिरूपसे वेदन करता है । इसी प्रकार ज्ञानावरण, दर्शनावरण और
अन्तराय इन तीनों घातिया कर्मोंकी जिन प्रकृतियोंका क्षयोपशम प्राप्त हुआ है, उन

उदयो । जासिं पयडीणं सओवरामो ण गदो, तासिं पयडीणं सब्वघादि-उदयो ।

प्रकृतियोंका देशघाति-अनुभागोदय होता है । तथा जिन प्रकृतियोंका क्षयोपशम प्राप्त नहीं हुआ है, उन प्रकृतियोंका सर्वघाति-अनुभागोदय होता है ॥ १३७२-१३७५ ॥

विशेषार्थ—मतिज्ञानावरणीय आदि कर्मोंके क्षयोपशमविशेषको लब्धि कहते हैं । क्षयोपशमशक्तिके प्राप्त न होनेको अलब्धि कहते हैं । क्षपकश्रेणीपर चढ़नेके समय जिसके मतिज्ञानावरण और श्रुतज्ञानावरणकर्मका सर्वोत्कृष्ट क्षयोपशम प्राप्त है, अर्थात् जो चौदह पूर्वरूप श्रुतज्ञानका धारक है, और कोष्ठबुद्धि, बीजबुद्धि, संभिन्नसंशोच्यबुद्धि और पदानुसारित्व इन चार मतिज्ञानावरणकर्मोंके क्षयोपशमविशेषसे उत्पन्न होनेवाली ऋद्धि या लब्धियोंसे सम्पन्न है, वह नियमसे इन प्रकृतियोंके देशघातिरूप अनुभागका वेदन करता है । किन्तु जिसके कोष्ठबुद्धि आदि चार मतिज्ञान लब्धियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं, और जिसके द्वादशांग श्रुतके अक्षरोमेसे एक भी अक्षरका क्षयोपशमका होना शेष है, वह इन प्रकृतियोंके सर्वघातिरूप अनुभागका वेदन करता है । क्षपकश्रेणीपर चढ़नेवाले जीव दोनों प्रकारके देखे जाते हैं, अतः उनके तदनुसार ही देशघाति-अनुभागका उदय सूत्रकारने 'लब्धि' पदसे और सर्वघाति-अनुभागका उदय 'अलब्धि' पदसे सूचित किया है । इस विवेचनसे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि दशवें गुणस्थानके पूर्व मतिज्ञानावरण और श्रुतज्ञानावरण कर्मका सम्पूर्ण या सर्वोत्कृष्ट क्षयोपशम हो भी सकता है और नहीं भी । किन्तु इसके अनन्तर नियमसे दोनों कर्मोंका सम्पूर्ण क्षयोपशम प्राप्त हो जाता है, और तब वह क्षपक चतुरमल्लबुद्धि-ऋद्धि-धारी एवं पूर्ण द्वादशांग श्रुतज्ञानका पारगामी बन जाता है । यहाँ इतना और विशेष जानना चाहिए कि श्रेणीपर चढ़ते समय मति-श्रुतज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम जितना होता है, उससे आगे-आगेके गुणस्थानोंमें उसका क्षयोपशम उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है और इसी कारण उसका मतिज्ञान वा श्रुतज्ञान उत्तरोत्तर विस्तृत एवं विशुद्ध होता जाता है । किन्तु यदि कोई क्षपक एक अक्षरके क्षयोपशमसे हीन सकल श्रुतका धारक होकरके भी क्षपकश्रेणीपर चढ़ना प्रारंभ करता है, तो भी उसके उक्त दोनों कर्मोंके सर्वघाति आवरणरूप अनुभागका उदय दशवें गुणस्थानके अन्त तक पाया जाता है । इसी प्रकार क्षपकश्रेणीपर चढ़ते समय जिनके अवधि-ज्ञानावरण आदि कर्मोंका क्षयोपशम होगा उनके उसका देशघाति-अनुभागोदय पाया जायगा, अन्यथा सर्वघाति-अनुभागोदय पाया जायगा । दर्शनावरणीयकर्मकी चक्षुदर्शनावरणीय आदि उत्तर प्रकृतियोंके क्षयोपशमकी संभवता-असंभवतां भी यही क्रम जानना चाहिए । क्योंकि सभी जीवोंमें इन सभी प्रकृतियोंके समान क्षयोपशमका नियम नहीं देखा जाता है । इसी प्रकार अन्तरायकर्मके विषयमें भी जानना चाहिए । अर्थात् जिसके श्रेणी चढ़ते समय अन्तरायकर्मका सर्वोत्कृष्ट क्षयोपशम हो गया है, और जो उत्कृष्ट मनोबललब्धिसे सम्पन्न है, वह अन्तरायकर्मके देशघाति-अनुभागको वेदन करता है । किन्तु जिसके पूर्ण क्षयोपशम नहीं प्राप्त हुआ है, तो वह उसके सर्वघाति-अनुभागको ही वेदन करता है ।

१३७६. एत्तो पंचमीए भासगाहाए समुक्कित्तणा ।

(१५९) जसणाममुच्चगोदं वेदयदि णियमसा अणंतगुणं ।

गुणहीणमंतरायं से काले सेसगा भज्जा ॥२१२॥

१३७७. विद्वामा । १३७८. जसणाममुच्चगोदं च अणंतगुणाए सेहीए वेद-
यदि । १३७९. सेसाओ णामाओ क्वं वेदयदि ? १३८०. जसणामं परिणामपच्चइयं
मणुस-तिरिक्खज्जोणियाणं । १३८१. जाओ असुभाओ परिणामपच्चइगाओ ताओ अणंत-
गुणहीणाए सेहीए वेदयदि त्ति ।

१३८२ अंतगइयं सव्वमणंतगुणहीणं वेदयदि । १३८३. भवोपग्गहियाओ
णामाओ छव्विहाए वड्डीए छव्विहाए हाणीए मज्जिदव्वाओ । १३८४. केवलणाणावर-
णीयं केवलदंसणावरणीयं च अणंतगुणहीणं वेदयदि । १३८५. सेसं चउच्चिहं णाणा-
वरणीयं जदि सव्ववादिं वेदयदि णियमा अणंतगुणहीणं वेदयदि । १३८६. अध देस-

चूर्णिसू०—अब इससे आगे पाँचवीं भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना की जाती है ॥ १३७६ ॥

कृष्टिवेदक क्षपक यशःकीर्ति नामकर्म और उच्चगोत्र कर्म इन दोनों कर्मोंके
अनन्तगुणित वृद्धि रूप अनुभागका नियमसे वेदन कर्ता है । अन्तराय कर्मके अनन्त-
गुणित हानिरूप अनुभागका वेदन करता है । अनन्तर समयमें शेष कर्मोंके अनुभाग
भजनीय हैं ॥२१२॥

चूर्णिसू०—उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा इस प्रकार है—यशःकीर्ति नामकर्म और
उच्चगोत्रकर्मको अनन्तगुणित श्रेणीसे वेदन करता है । (सातावेदनीयको भी अनन्तगुणित-
श्रेणीसे वेदन करता है ।) ॥ १३७७-१३७८ ॥

शंका—नामकर्मकी शेष प्रकृतियोंको किस प्रकार वेदन करता है ? ॥ १३७९ ॥

समाधान—मनुष्य और तिर्यग्योनिवाले जीवोंके यशःकीर्ति नामकर्म परिणाम-प्रत्य-
यिक है । (अतएव जिननी परिणाम-विषाकी सुभग, आदेय आदि शुभ नामकर्म-प्रकृतियों
हैं उन सबको अनन्तगुणित श्रेणीके रूपसे वेदन करता है ।) जो दुर्भग, अनादेय आदि
अशुभ परिणाम-प्रत्ययिक प्रकृतियों हैं उन्हें अनन्तगुणित हीन श्रेणीके द्वारा वेदन करता
है ॥ १३८०-१३८१ ॥

चूर्णिसू०—अन्तरायकर्मकी सर्व प्रकृतियोंको अनन्तगुणित हीन श्रेणीके रूपसे वेदन
करता है । भवोपग्रहिक अर्थात् भवविषाकी नामकर्मकी प्रकृतियोंका छह प्रकारकी वृद्धि और
छह प्रकारकी हानिके द्वारा अनुभागोदय भजितव्य है । केवलज्ञानावरणीय और केवलदर्शना-
वरणीय कर्मको अनन्तगुणित हीन श्रेणीके रूपसे वेदन करता है । शेष चार प्रकारका ज्ञाना-
वरणीय कर्म यदि सर्वघातिरूपसे वेदन करता है, तो नियमसे अनन्तगुणित हीन वेदन करता
है । यदि देशघातिरूपसे वेदन करता है, तो यहाँपर उनका अनुभागोदय छह प्रकारकी वृद्धि

घादिं वेदयदि, एत्थ छव्विहाए वड्डीए छव्विहाए हाणीए भज्जिदव्वं । १३८७. एवं चेव दंसणावरणीयस्स जं सव्वघादिं वेदयदि तं णियमा अणंतगुणहीणं । १३८८. जं देसघादिं वेदयदि तं छव्विहाए वड्डीए छव्विहाए हाणीए भजियव्वं । १३८९. एवमेसा दसमी मूलगाथा किट्ठीसु विहासिदा समत्ता ।

१३९०. एत्तो एकारसमी मूलगाथा ।

(१६०) किट्ठीकदम्मि कम्मो के वीचारा^१ दु मोहणीयस्स ।

सेसाणं कम्माणं तहेव के के दु वीचारा ॥२१३॥

१३९१. एदिस्से भासगाथा णत्थि । १३९२. विहासा । १३९३. एसा गाथा पुच्छासुत्तं । १३९४. तदो मोहणीयस्स पुव्वमणिदं । १३९५. तदो वि पुण इमिस्से गाहाए फस्सकण्णकरणमणुसंवण्णेयव्वं । १३९६. ठिदिघादेण १ ट्ठिदिसंतकम्मण २ उदएण ३ उदीरणए ४ ट्ठिदिखंडगेण ५ अणुभागघादेण ६ ट्ठिदिसंतकम्मण । ७ अणु-भागसंतकम्मण ८ वंधेण ९ वंधपरिहाणीए १० ।

और छह प्रकारकी हानिके रूपसे भजितव्य है । इसी प्रकार दर्शनावरणीय कर्मकी प्रकृतियोंको यदि सर्वघातिरूपसे वेदन करता है, सो नियमसे अनन्तगुणित हीन रूपसे वेदन करता है । और यदि देशघातिरूपसे वेदन करता है तो दर्शनावरणीय कर्मका अनुभागोदय छह प्रकारकी वृद्धिसे और छह प्रकारकी हानिसे भजितव्य है ॥ १३८२-१३८८ ॥

चूर्णिसू०—इस प्रकार यह दशमी मूलगाथा कृष्टियोंके विषयमे विभाषिता की गई ॥ १३८९ ॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे ग्यारहवीं मूलगाथाकी समुत्कीर्तिना की जाती है ॥ १३९० ॥

संज्वलनकपायरूप कर्मके कृष्टिरूपसे परिणत हो जाने पर मोहनीयकर्मके कौन-कौन वीचार अर्थात् स्थितिघातादि लक्षणवाले क्रियाविशेष होते हैं ? इसी प्रकार ज्ञानावरणादि शेष कर्मोंके भी कौन कौन वीचार होते हैं ? ॥ २१३ ॥

चूर्णिसू०—(सुगम होनेसे) इस मूलगाथाकी भाष्यगाथा नहीं है । उक्त मूलगाथा की विभाषा इस प्रकार है— यह मूलगाथा पृच्छासूत्ररूप है । अतएव यद्यपि मोहनीयकर्मका स्थिति-अनुभागघातादि-विषयक सर्व वक्तव्य पहले कहा जा चुका है, तथापि पुनः इस गाथाके अर्थव्याख्यानके अवसरमे उक्त विधानोका स्पर्शकर्णकरण अर्थात् कुछ संक्षेप प्ररूपण कर लेना आवश्यक है । यहाँपर ये दश वीचार ज्ञातव्य हैं—१ स्थितिघात, २ स्थितिसत्त्व, ३ उदय, ४ उदीरण, ५ स्थितिकांडक, ६ अनुभागघात, ७ स्थितिसत्कर्म या स्थितिसंक्रमण ८ अनुभागसत्कर्म, ९ वन्ध और १० वन्धपरिहाणि ॥ १३९१-१३९६ ॥

विशेषार्थ—स्थितिघात यह पहला वीचार है, इसमे अन्तर्मुहूर्तप्रमित एक स्थिति-कांडकघातकालके द्वारा स्थितिके घातका विचार किया जाता है । स्थितिसत्त्व यह दूसरा वीचार है, इसके द्वारा स्थितियोंके सत्त्वका अवधारण किया जाता है । उदय नामका

१ वीचारा किरियावियप्पा ट्ठिदिघादादिलक्खणा । जयध०

१३९७. सेसाणि कम्माणि एदेहिं वीचारेहिं अणुमग्गियव्वाणि । १३९८. अणुमग्गिदे समत्ता एकारसमी मूलगाहा भवदि । १३९९. एकारस होंति किट्ठीए त्ति पदं समत्तं ।

१४००. एत्तो चत्तारि कखवणाए त्ति । १४०१. तत्थ पढममूलगाहा ।

(१६१) किं वेदंतो किट्ठिं खवेदि किं चावि संछुहंतो वा ।

संछोहणमुदएण च अणुपुव्वं अणुपुव्वं वा ॥२१४॥

१४०२. एदिस्से एक्का भासगाहा । १४०३. तं जहा ।

तीसरा वीचार है, इसके द्वारा प्रतिसमय अनन्तगुणित हानिके रूपसे कृष्टियोंके उदयकी प्ररूपणा की जाती है। उदीरणा यह चौथा वीचार है, इसके द्वारा प्रयोगसे वलात् अप-कर्षण कर उदीर्यमाण स्थिति और अनुभागका विचार किया जाता है। स्थितिकांडक यह पाँचवाँ वीचार है, इसके द्वारा स्थितिकांडकघातके आयामके प्रमाणका विचार किया जाता है। अनुभागवात यह छठा वीचार है, इसके द्वारा कृष्टिगत अनुभागके प्रतिसमय अपवर्तनाका विचार किया जाता है। स्थितिसत्कर्म यह सातवाँ वीचार है, इसके द्वारा कृष्टिवेदकके सर्व संधियोंमे घातसे अवशिष्ट स्थितिके सत्त्वका प्रमाण अन्वेपण किया जाता है। अथवा इसके द्वारा स्थितिके संक्रमणका विचार किये जानेसे इसे स्थितिसंक्रमण-वीचार भी कहते हैं। अनुभागसत्कर्म नामक आठवे वीचारमे चारों संज्वलन कपायोके अनुभागसत्त्वका निर्देश किया गया है। बन्ध नामक नवमें वीचारमे कृष्टिवेदकके सर्व सन्धिगत स्थितिवन्ध और अनुभागबन्धके प्रमाणका विचार किया गया है। बन्ध-परिहाणि नामक दशवे वीचारके द्वारा स्थितिवन्ध और अनुभागबन्धकी क्रमशः परिहाणिका विचार किया जाता है। इस प्रकार उक्त दश वीचारोंसे मोहनीय कर्मकी प्ररूपणाका निर्देश सूत्रकारने इस मूलगाथामे पृच्छारूपसे किया है सो आगमानुसार इनका यहाँ विचार करना चाहिए।

चूर्णिसू०—शेष कर्म भी इन वीचारोंके द्वारा अन्वेपणीय है। उनके अनुमार्गण कर चुकने पर ग्यारहवीं मूलगाथाकी विभाषा समाप्त हो जाती है। इस प्रकार कृष्टियोंके विषयमे ग्यारह मूलगाथाएँ हैं, इस पदका अर्थ समाप्त हुआ ॥१३९७-१३९९॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे क्षपणामें प्रतिबद्ध चार मूलगाथाओंकी समुत्कीर्तना की जाती है। उनमे यह प्रथम मूलगाथा है ॥१४००-१४०१॥

क्या यह क्षपक कृष्टियोंको वेदन करता हुआ क्षय करता है? अथवा वेदन न कर संक्रमण करता हुआ ही क्षय करता है? अथवा वेदन और संक्रमण दोनोंको करता हुआ क्षय करता है, कृष्टियोंको क्या आनुपूर्वीसे क्षय करता है, अथवा अनानुपूर्वीसे क्षय करता है? ॥२१४॥

चूर्णिसू०—इस मूलगाथाकी एक भाष्यगाथा है। वह इस प्रकार है ॥१४०२-१४०३॥

(१६२) पढमं विदियं तदियं वेदंतो वायि संछुहंतो वा ।

चरिमं वेदयमाणो खवेदि उभय्ण सेसाओ ॥२१५॥

१४०४. विहासा । १४०५. तं जहा । १४०६. पढमं कोहस्म किट्ठिं वेदंतो वा खवेदि, अथवा अवेदंतो संछुहंतो । १४०७. जे दो आवलियबंधा दुसमयूणा तं अवेदंतो खवेदि, केवलं संछुहंतो चेव । १४०८. पढमसमयवेदमप्पट्टुडि जाव तिस्से किट्ठीए चरिमसमयवेदगो त्ति ताव एदं किट्ठिं वेदंतो खवेदि । १४०९. एवमेदं पि पढम-किट्ठिं दोहिं पयारेहिं खवेदि किंचि कालं वेदंतो, किंचि कालमवेदंतो संछुहंतो । १४१०. जहा पढमकिट्ठिं खवेदि तथा विदियं तदियं चउत्थं जाव एकारसमि त्ति ।

१४११. वारसमीए वादरसांपराइयकिट्ठीए अच्यवहारो । १४१२. चरिमं वेदे-माणो त्ति अहिप्पायो-जा सुहुमसांपराइयकिट्ठी सा चरिमा, तदो तं चरिमकिट्ठिं वेदे-तो खवेदि, ण संछुहंतो । १४१३. सेसाणं दो दो आवलियबंधे दुसमयूणे चरिमं संछु-हंतो चेव खवेदि, ण वेदंतो । १४१४. चरिमकिट्ठिं वज्ज दो आवलिय-दुसमयूणबंधे च

क्रोधकी प्रथम कृष्टि, द्वितीय कृष्टि और तृतीय कृष्टिको वेदन करता हुआ और संक्रमण करता हुआ भी क्षय करता है । चरम अर्थात् अन्तिम वारहवीं सूक्ष्म-साम्परायिक कृष्टिको वेदन करता हुआ ही क्षय करता है । शेष कृष्टियोंको दोनों प्रकारसे क्षय करता है ॥२१५॥

चूर्णिसू०—उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा इस प्रकार है—क्रोधकी प्रथम कृष्टिको वेदन करता हुआ भी क्षय करता है, अथवा अवेदन करता हुआ भी क्षय करता है, अथवा संक्रमण करता हुआ भी क्षय करता है । जो दो समय कम दो आवलि-वद्ध (नवक-वद्ध) कृष्टियाँ हैं, उन्हे वेदन न करके केवल संक्रमण करता हुआ ही क्षय करता है । क्रोधकी प्रथमकृष्टिके वेदन करनेके प्रथम समयसे लेकर जबतक उस कृष्टिका चरमसमयवर्ती वेदक रहता है, तब तक इस कृष्टिको वेदन करता हुआ ही क्षय करता है । इस प्रकार इस प्रथम कृष्टिको दोनों प्रकारसे क्षय करता है, कुछ काल तक वेदन करते हुए, और कुछ काल तक वेदन न कर संक्रमण करते हुए क्षय करता है । जिस प्रकार प्रथम कृष्टिका क्षय करता है, उसी प्रकार द्वितीय, तृतीय, चतुर्थको आदि लेकर ग्यारहवीं कृष्टि तक सब कृष्टियोंका दोनों विधियोंसे क्षय करता है ॥१४०४-१४१०॥

चूर्णिसू०—वारहवीं वादरसाम्परायिक कृष्टिमें उक्त व्यवहार नहीं है । (क्योंकि, सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिरूपसे परिणत होकरके ही उसका क्षय देखा जाता है । 'चरम कृष्टिको वेदन करता हुआ क्षय करता है' इस पदका अभिप्राय यह है कि जो सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टि है वह चरमकृष्टि कहलाती है, अतएव उस चरम कृष्टिको वेदन करता हुआ क्षय करता है, संक्रमण करता हुआ नहीं । शेष कृष्टियोंके दो समय-कम दो आवलीमात्र नवकवद्ध कृष्टियों-को चरम कृष्टिमें संक्रमण करता हुआ ही क्षय करता है, वेदन करता हुआ नहीं । इस प्रकार

वज्जं जं सेसकिट्ठीणं तमुभएण खवेदि । १४१५. किं उभएणेत्ति ? १४१६. वेदंतो च संछुहंतो च एदमुभयं ।

१४१७. एत्तो विदियमूलगाहा ।

(१६३) जं वेदंतो किट्ठिं खवेदि किं चावि बंधगो तिस्से ।

जं चावि संछुहंतो तिस्से किं बंधगो होदि ॥२१६॥

१४१८. एदिस्से गाहाए एका भासगाहा । १४१९. जहा ।

(१६४) जं चावि संछुहंतो खवेदि किट्ठिं अबंधगो तिस्से ।

सुहुमग्धि संपराए अबंधगो बंधगिदरासिं ॥२१७॥

१४२०. विहासा । १४२१. जं जं खवेदि किट्ठिं णियमा तिस्से बंधगो, मोत्तूण दो दो आवलियबंधे दुसमयूणे सुहुमसांपराइयकिट्ठीओ च ।

१४२२. एत्तो तदिया मूलगाहा । १४२३. तं जहा ।

अन्तिम सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिको छोड़कर, तथा दो समय-कम दो आवली-वद्ध कृष्टियोंको छोड़कर शेष कृष्टियोंको उभय प्रकारसे क्षय करता है ॥१४११-१४१४॥

शंका—‘उभय प्रकारसे’ इसका क्या अर्थ है ? ॥१४१५॥

समाधान—वेदन करता हुआ और संक्रमण करता हुआ क्षय करता है, यह ‘उभय प्रकारसे’, इस पदका अर्थ है ॥१४१६॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे क्षपणासम्बन्धी दूसरी मूलगाथाकी समुत्कीर्तना की जाती है ॥१४१७॥

कृष्टिवेदक क्षपक जिस कृष्टिको वेदन करता हुआ क्षय करता है, क्या उसका बन्धक भी होता है ? तथा जिस कृष्टिका संक्रमण करता हुआ क्षय करता है, उसका भी वह क्या बन्ध करता है ? ॥२१६॥

चूर्णिसू०—इस मूलगाथाके अर्थका व्याख्यान करनेवाली एक भाष्यगाथा है । वह इस प्रकार है ॥१४१८-१४१९॥

जिस कृष्टिको भी संक्रमण करता हुआ क्षय करता है, उसका वह बन्ध नहीं करता है । सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिके वेदनकालमें वह उसका अबन्धक रहता है । किन्तु इतर कृष्टियोंके वेदन या क्षपणकालमें वह उनका बन्धक रहता है ॥२१७॥

चूर्णिसू०—इस भाष्यगाथाकी विभाषा इस प्रकार है—जिस जिस कृष्टिका क्षय करता है, नियमसे उसका बन्ध करता है । केवल दो समय-कम दो-दो आवलि-वद्ध कृष्टियोंको और सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिको छोड़कर । अर्थात् इनके क्षपण-कालमें उनका बन्ध नहीं करता है ॥१४२०-१४२१॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे तीसरी मूलगाथाकी समुत्कीर्तना की जाती है । वह इस प्रकार है ॥१४२२-१४२३॥

(१६५) जं जं खवेदि किट्ठिं द्विदि-अणुभागेषु केसुदीरेदि ।

संछुहदि अण्णकिट्ठिं से काले तासु अण्णासु ॥२१८॥

१४२४. एदिस्से दस भासगाहाओ । १४२५. तत्थ पढ्माए भासगाहाए समुक्कित्तणा ।

(१६६) बंधो व संकमो वा णियमा सव्वेषु द्विदिविसेसेसु ।

सव्वेषु चाणुभागेषु संकमो मज्झिमो उदओ ॥२१९॥

१४२६. 'बंधो व संकमो वा णियमा सव्वेषु द्विदिविसेसेसु त्ति एदं णज्जदि वागरणसुत्तं' त्ति एदं पुण पुच्छासुत्तं ? १४२७. तं जहा । १४२८. बंधो व संकमो वा णियमा सव्वेषु द्विदिविसेसेसु त्ति एदं णव्वदि णिदिट्ठं त्ति । एदं पुण पुच्छिदं किं सव्वेषु द्विदिविसेसेसु, आहो ण सव्वेषु ? १४२९. तदो वत्तव्वं ण सव्वेषु त्ति । १४३०. किट्ठीवेदगे पगदं त्ति चत्तारि मासा एत्तिगाओ द्विदीओ वज्झंति आवलिय-

जिस-जिस कृष्टिका क्षय करता है, उस-उस कृष्टिको किस-किस प्रकारके स्थिति और अनुभागोंमें उदीरणा करता है ? विवक्षित कृष्टिको अन्य कृष्टिमें संक्रमण करता हुआ किस-किस प्रकारके स्थिति और अनुभागोंसे युक्त कृष्टिमें संक्रमण करता है ? तथा विवक्षित समयमें जिस स्थिति और अनुभागयुक्त कृष्टियोंमें उदीरणा, संक्रमणादि किये हैं, अनन्तर समयमें क्या उन्हीं कृष्टियोंमें उदीरणा-संक्रमणादि करता है, अथवा अन्य कृष्टियोंमें करता है ? ॥२१८॥

चूर्णिसू०—इस मूलगाथाके अर्थका व्याख्यान करनेवाली दश भाष्यगाथाएँ हैं । उनमेंसे प्रथम भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना की जाती है ॥१४२४-१४२५॥

विवक्षित कृष्टिका बन्ध अथवा संक्रमण नियमसे क्या सभी स्थितिविशेषोंमें होता है ? विवक्षित कृष्टिका जिस कृष्टिमें संक्रमण किया जाता है, उसके सर्व अनुभागविशेषोंमें संक्रमण होता है । किन्तु उदय मध्यम कृष्टिरूपसे जानना चाहिए ॥२१९॥

चूर्णिसू०—'बंधो व संकमो वा' इत्यादि यह गाथाका पूर्वार्ध व्याकरणसूत्र नहीं है, किन्तु यह पृच्छासूत्र है । वह इस प्रकार है—'बन्ध और संक्रमण नियमसे सर्व स्थितिविशेषोंमें होते हैं, इस वाक्यके द्वारा यह निर्दिष्ट किया गया है, अर्थात् यह पूछा गया है कि क्या बन्ध और संक्रमण सर्व स्थितिविशेषोंमें होता है, अथवा सर्व स्थितिविशेषोंमें नहीं होता है ? अतएव इस प्रकारकी पृच्छा होनेपर यह उत्तर कहना चाहिए कि बन्ध और संक्रमण सर्व स्थितिविशेषोंमें नहीं होता है । इसका कारण यह है कि यहाँपर कृष्टिवेदकका प्रकरण है और उसके 'चार मास' इतने काल प्रमाणवाली ही संज्वलनकषायकी स्थितियाँ बंधती हैं और उदयावली-प्रविष्ट स्थितियोंको छोड़कर शेष स्थितियाँ संक्रमणको प्राप्त होती हैं ।

१ वागरणसुत्त त्ति व्याख्यानसूत्रमिति व्याक्रियतेऽनेनेति व्याकरण प्रतिवचनमित्यर्थः । जयध०

पविट्टाओ मोत्तूण सेसाओ संकामिज्जन्ति । १४३१. सव्वेसु चाणुभागेसु संक्रमो मज्झिमो उदयो चि एदं सव्वं वागरणसुत्तं । १४३२ सव्वाओ किट्ठीओ संकमन्ति । १४३३. जं किट्ठि वेदयदि तिस्से मज्झिमकिट्ठीओ उदिण्णाओ ।

१४३४. एत्तो विदियाए भासगाहाए समुक्कित्तणा १४३५ जहा ।

(१६७) संकामेदि उदीरेदि चावि सव्वेहिं ट्ठिदिविसेसेहिं ।

किट्ठीए अणुभागे वेदंतो मज्झिमो णियमा ॥२२०॥

१४३६. विहासा । १४३७. एसा वि गाहा पुच्छायुत्तं । १४३८. किं सव्वे ट्ठिदिविसेसे संकामेदि उदीरेदि वा, आहो ण ? वत्तव्वं । १४३९. आवलियपविट्ठं मोत्तूण सेसाओ सव्वाओ ट्ठिदीओ संकामेदि उदीरेदि च । १४४०. जं किट्ठि वेदेदि तिस्से मज्झिमकिट्ठीओ उदीरेदि ।

१४४१. एत्तो तदियाए भासगाहाए समुक्कित्तणा । १४४२. जहा ।

(१६८) ओकड्ढिदे जे अंसे से काले किण्णु ते पवेसेदि ।

ओकड्ढिदे च पुव्वं सरिसमसरिसे पवेसेदि ॥२२१॥

‘सव्वेसु चाणुभागेसु’ इत्यादि यह सर्व गाथाका उत्तरार्ध व्याकरणसूत्र है, अतएव यह अर्थ करना चाहिए कि वेद्यमान और अवेद्यमान सभी कृष्टियों संक्रमणको प्राप्त होती हैं । तथा जिस कृष्टिको वेदन करता है, उसकी मध्यम कृष्टियाँ उदीर्ण होती हैं । (इसका कारण यह है कि वेद्यमान संग्रह कृष्टिके नीचे और ऊपरकी कितनी ही कृष्टियोंको छोड़ करके मध्यवर्ती कृष्टियाँ ही उदय या उदीरणा रूपसे प्रवृत्त होती हैं ॥१४२६-१४३३॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे दूसरी भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना की जाती है । वह इस प्रकार है ॥१४३४-१४३५॥

सर्व स्थितिविशेषोंके द्वारा क्या यह क्षपक संक्रमण और उदीरणा करता है ? कृष्टिके अनुभागोंको वेदन करता हुआ नियमसे मध्यम अर्थात् मध्यवर्ती अनुभागोंको ही वेदन करता है ॥२२०॥

चूर्णिसू०—उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा इस प्रकार है—यह गाथा भी पृच्छासूत्ररूप है । क्या यह कृष्टिवेदक क्षपक सर्व स्थितिविशेषोमे संक्रमण और उदीरणा करता है, अथवा नहीं ? इस प्रश्नका उत्तर कहना चाहिए ? उदयावलीमे प्रविष्ट स्थितिको छोड़कर शेष सर्व स्थितियाँ संक्रमणको भी प्राप्त होती हैं और उदीरणाको भी प्राप्त होती हैं । तथा जिस कृष्टिको वेदन करता है, उसकी मध्यमकृष्टियोंकी उदीरणा करता है ॥१४३६-१४४०॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे तीसरी भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना की जाती है । वह इस प्रकार है ॥१४४१-१४४२॥

जिन कर्मांशोंका अपकर्षण करता है उनका अनन्तर समयमें क्या उदीरणामें प्रवेश करता है ? पूर्व समयमें अपकर्षण किये गये कर्मांश अनन्तर समयमें उदीरणा करता हुआ सदृशको प्रविष्ट करता है, अथवा असदृशको प्रविष्ट करता है ? ॥२२१॥

१४४३. विहासा । १४४४. एसा वि गाहा पुच्छासुत्तं । १४४५. ओकडुदि जे अंसे से काले किण्णु ते पवेसेदि, आहो ण ? वत्तच्चं । १४४६. पवेसेदि ओकडुदि च पुव्वमणंतरपुव्वगेण । १४४७. सरिसमसरिसे त्ति णाम का सण्णा ? १४४८. जदि जे अणुभागे उदीरेदि एक्किस्से वग्गणाए सव्वे ते सरिसा णाम । अध जे उदीरेदि अणेगासु वग्गणासु, ते असरिसा णाम । १४४९. एदीए सण्णाए से काले जे पवेसेदि ते असरिसे पवेसेदि ।

१४५०. एत्तो चउत्थीए भासगाहाए समुक्कित्तणा । १४५१. तं जहा ।

(१६९) उक्कडुदि जे अंसे से काले किण्णु ते पवेसेदि ।

उक्कडुदि च पुव्वं सरिसमसरिसे पवेसेदि ॥२२२॥

चूर्णिसू०—उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा की जाती है—यह गाथा भी पृच्छासूत्ररूप है । जिन अंशोको अपकर्षण करता है, अनन्तर समयमें क्या उन्हें उदीरणामे प्रविष्ट करता है, अथवा नहीं ? उत्तर कहना चाहिए ? पूर्वमें अर्थात् अनन्तर पूर्ववर्ती समयमें अपकर्षण किये गये कर्म-प्रदेश तदनन्तर समयमें उदीरणामे भीतर प्रवेश करनेके योग्य हैं ॥ १४४३-१४४६ ॥

शंका—सदृश और असदृश इस नामकी संज्ञाका क्या अर्थ है ? ॥ १४४७ ॥

समाधान—जितने अनुभागोको एक वर्गणाके रूपसे उदीर्ण करता है, उन सब अनुभागोकी सदृशसंज्ञा है । और जिन अनुभागोको अनेक वर्गणाओके रूपमें उदीर्ण करता है, उनकी असदृशसंज्ञा है ॥ १४४८ ॥

भावार्थ—उदयमें आनेवाली यदि सभी कृष्टियाँ एक कृष्टिस्वरूपसे परिणत होकर उदयमें आती है, तो उनकी सदृशसंज्ञा होती है और यदि उदयमें आनेवाली कृष्टियाँ अनेक वर्गणाओ या कृष्टियोके स्वरूपसे परिणमित होकर उदयमें आती हैं तो वे असदृश संज्ञासे कही जाती है ।

चूर्णिसू०—इस प्रकारकी संज्ञाकी अपेक्षा अनन्तर समयमें जिन अनुभागोको उदयमें प्रविष्ट करता है, उन्हें असदृश ही प्रविष्ट करता है । अर्थात् उदयमें आनेवाली कृष्टियाँ अनेक वर्गणाओके रूपसे परिणमित हो करके ही उदयमें आती है ॥ १४४९ ॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे चौथी भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना की जाती है । वह इस प्रकार है ॥ १४५०-१४५१ ॥

जिन कर्मांशोका उत्कर्षण करता है, उनको अनन्तर समयमें क्या उदीरणामें प्रवेश करता है ? पूर्व समयमें उत्कर्षण किये गये कर्मांश अनन्तर समयमें उदीर्णा करता हुआ सदृशरूपसे प्रविष्ट करता है, अथवा असदृशरूपसे प्रविष्ट करता है ॥ २२२ ॥

१४५२. एदं पुच्छासुत्तं । १४५३. एदिस्से गाहाए किट्टीकारगणपहुडि णत्थि अत्थो । १४५४. हंदि किट्टीकारगो किट्टीवेदगो वा ठिदि-अणुभागे ण उक्कडुदि त्ति । १४५५ जां किट्टीकम्मंसिगवदिरित्तो जीवो तस्स एसो अत्थो पुच्चपरूविदो ।

१४५६. एत्तो पंचमी भासगाहा ।

(१७०) वंधो व संकमो वा उदयो वा तह पदेस-अणुभागे ।

बहुगत्ते थोवत्ते जहेव पुव्वं तहेवेण्हि ॥२२३॥

१४५७ विहासा । १४५८ तंजहा । १४५९. संकामगे च चत्तारि मूल-गाहाओ, तत्थ जा चउत्थी मूलगाहा तिस्से तिण्णि भासगाहाओ । तासिं जो अत्थो सो इमिस्से विं पंचमीए गाहाए अत्थो कायव्यो ।

१४६०. एत्तो छट्ठी भासगाहा ।

(१७१) जो कम्मंसो पविसदि पओगसा तेण गियमसा अहिओ ।

पविसदि ठिदिक्खएण दु गुणेण गणणादियंतेण ॥२२४॥

चूर्णिसू०—यह सम्पूर्णगाथा पृच्छासूत्ररूप है । इस गाथाका कृष्टिकारकसे लेकर आगे अर्थका कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि कृष्टिकारक या कृष्टिवेदक क्षपक कृष्टिगत स्थिति और अनुभागका उत्कर्षण नहीं करता है । (केवल अपकर्षण कर उन्नीरणा करता हुआ ही चला जाता है ।) किन्तु जो कृष्टि-कर्मांशिक-व्यतिरिक्त जीव है, अर्थात् कृष्टिकरणरूप क्रियासे रहित क्षपक है, उसके विषयमें यह अर्थ पूर्वमे ही अपवर्तना-प्रकरणमें प्ररूपण किया जा चुका है ॥१४५२-१४५५॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे पाँचवीं भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना की जाती है ॥१४५६॥

कृष्टिकारकके प्रदेश और अनुभाग-विषयक बन्ध, संक्रमण और उदय (किस प्रकार प्रवृत्त होते हैं ? इस विषयका) बहुत्व या स्तोक्तत्वकी अपेक्षा जिस प्रकार पहले निर्णय किया गया है, उसी प्रकार यहाँपर भी निर्णय करना चाहिए ॥२२३॥

चूर्णिसू०—उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा की जाती है । वह इस प्रकार है—संक्रामकके विषयमे पहले चार मूलगाथाएँ कही गई हैं । उनमे जो चौथी मूलगाथा है, उसकी तीन भाष्यगाथाएँ हैं । उनका जो अर्थ वहाँ पर किया गया है, वही अर्थ इस पाँचवीं भाष्यगाथाका भी करना चाहिए ॥१४५७-१४५९॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे छठी भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना की जाती है ॥१४६०॥

जो कर्मांश प्रयोगके द्वारा उदयावलीमें प्रविष्ट किया जाता है, उसकी अपेक्षा स्थितिक्षयसे जो कर्मांश उदयावलीमें प्रविष्ट होता है, वह नियमसे गणनातीत गुणसे अर्थात् असंख्यातगुणितरूपसे अधिक होता है ॥२२४॥

१४६१. विहासा । १४६२. जत्तो पाए असंखेज्जाणं समयप्रवद्धानमुदीरगो
तत्तो पाए जमुदीरिज्जदि पदेसग्गं तं थोवं । १४६३ जमधट्ठिदिगं पविसदि तमसंखेज्जगुणं ।
१४६४. असंखेज्जलोगभागे उदीरणा अणुत्तसिद्धी ।

१४६५ एत्तो सत्तमी भासगाहा । १४६६. तं जहा ।

(१७२) आवलियं च पविट्टं पओगसा णियमसा च उदयादी ।
उदयादिपदेसग्गं गुणेण गणणादियंतेण ॥२२५॥

१४६७ विहासा । १४६८. तं जहा । १४६९. जमावलियपविट्टं पदेसग्गं
तमुदए थोवं । विदियट्ठिदीए असंखेज्जगुणं । एवमसंखेज्जगुणाए सेठीए जाव सच्चिस्से
आवलिगाए ।

१४७०. एत्तो अट्ठमी भासगाहा । १४७१. तं जहा ।

(१७३) जा वग्गणा उदीरेदि अणंता तासु संकमदि एका ।
पुव्वपविट्ठा णियमा एक्किस्से होंति च अणंता ॥२२६॥

चूर्णिसू०—इस भाष्यगाथाकी विभाषा इस प्रकार है—जिस पाये (स्थल) पर
असंख्यात समयप्रवद्धोंकी उदीरणा करता है, उस पाये पर जो प्रदेशाग्र उदीरित करता है, वह
अल्प है । जो अधःस्थितिगलनकी अपेक्षा प्रदेशाग्र उदयावलीमें प्रविष्ट करता है, वह असं-
ख्यातगुणित होता है । इससे आगे अधस्तन भागमें सर्वत्र असंख्यात लोकप्रतिभागकी
अपेक्षा उदीरणा अनुक्त-सिद्ध है । अर्थात् आगे आगेके समयमें उदीर्यमाण द्रव्यकी अपेक्षा
कर्मोदयसे प्रविश्यमान द्रव्य असंख्यातगुणित अविक होता है और उदीर्यमाण द्रव्य उसके
असंख्यातवे भाग होता है ॥१४६१-१४६४॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे सातवीं भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना की जाती है ।
वह इस प्रकार है ॥१४६५-१४६६॥

कृष्टिवेदक क्षपकके प्रयोगके द्वारा उदय है आदिमें जिसके ऐसी आवलीमें
अर्थात् उदयावलीमें प्रविष्ट प्रदेशाग्र नियमसे उदयसे लगाकर आगे आवलीकाल-पर्यन्त
असंख्यातगुणित श्रेणीरूपसे पाया जाता है ॥२२५॥

चूर्णिसू०—उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा इस प्रकार है—कृष्टिवेदक क्षपकके उदयावली-
में प्रविष्ट जो प्रदेशाग्र पाया जाता है, वह उदयमें अर्थात् उदयकालके प्रथम समयमें सबसे
कम पाया जाता है । द्वितीय स्थितिमें असंख्यातगुणित पाया जाता है । इस प्रकार सम्पूर्ण
आवलीके अन्तिम समय तक असंख्यातगुणितश्रेणीरूपसे वृद्धिगत प्रदेशाग्र पाये जाते
हैं ॥१४६७-१४६९॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे आठवीं भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना की जाती है । वह
इस प्रकार है ॥१४७०-१४७१॥

जिन अनन्त वर्गणाओंको उदीर्ण करता है, उनमें एक-एक अनुदीर्यमाण
कृष्टि संक्रमण करती है । तथा जो पूर्व-प्रविष्ट अर्थात् उदयावलीमें प्रविष्ट अनन्त

१४७२. विहासा । १४७३. तं जहा । १४७४. जा संगहकृष्टी उदिष्णा
तिस्से उवरि असंखेज्जदिभागो, हेड्डा वि असंखेज्जदिभागो क्किट्टीणमणुदिष्णो । १४७५.
मज्झागारे असंखेज्जा भागा क्किट्टीणमुदिष्णा । १४७६. तस्य जाओ अणुदिष्णाओ
क्किट्टीओ तदो एक्केका क्किट्टी सव्वासु उदिष्णासु क्किट्टीसु संकमेदि । १४७७. एदेण
कारणेण जा वग्गणा उदीरेदि अणंता तासु संकमदि एका त्ति भण्णदि ।

१४७८. एकस्से वि उदिष्णाए क्किट्टीए केत्तियाओ क्किट्टीओ संकमंति ?
१४७९. जाओ आवलिय-पुव्वपविट्ठाओ उदएण अधट्ठिदिगं विपचंति ताओ सव्वाओ
एकस्से उदिष्णाए क्किट्टीए संकमंति । १४८०. एदेण कारणेण पुव्वपविट्ठा एकस्से
अणंता त्ति भण्णंति ।

१४८१. एत्तो णवमी भासगाहा ।

(१७४) जे चावि य अणुभागा उदीरिदा णियमसा पओगेण ।

तेयणा अणुभागा पुव्वपविट्ठा परिणमंति ॥२२७॥

अवेद्यमान वर्गणाएँ (कृष्टियाँ) हैं, वे एक-एक वेद्यमान मध्यम कृष्टिके स्वरूपसे
नियमतः परिणत होती हैं ॥२२६॥

चूर्णिसू०—उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा इस प्रकार है—जो संग्रहकृष्टि उदीर्ण हुई है,
उसके ऊपर भी कृष्टियोंका असंख्यातवाँ भाग और नीचे भी कृष्टियोंका असंख्यातवाँ भाग
अनुदीर्ण रहता है । अर्थात् विवक्षित वेद्यमान संग्रहकृष्टिके उपरितन-अधस्तन असंख्यात-
भाग कृष्टियाँ अपने रूपसे सर्वत्र उदयमे प्रवेश नहीं करती है । मध्य आकारमे अर्थात् विव-
क्षित संग्रहकृष्टिके मध्यम भागमे कृष्टियोंका असंख्यात बहुभाग उदीर्ण होता है, अर्थात्
अपने रूपसे ही उदयमे प्रवेश करता है । उनमे जो अनुदीर्ण कृष्टियाँ हैं, उनमेसे एक-एक
कृष्टि सर्व उदीर्ण कृष्टियोंपर संक्रमण करती है । इस कारणसे गाथाके पूर्वार्धमे ऐसा कहा
गया है कि 'जिन अनन्त वर्गणाओको उदीर्ण करता है, उनपर एक-एक वर्गणा संक्रमण
करती है - १४७२-१४७७॥

शंका—एक-एक भी उदीर्ण कृष्टिपर कितनी कृष्टियाँ संक्रमण करती हैं ? ॥१४७८॥

समाधान—जितनी कृष्टियाँ उदयावलीमे प्रविष्ट होकर उदयसे अधःस्थिति-गलनरूप
विपाकको प्राप्त होती है, वे सब एक-एक उदीर्ण कृष्टिपर संक्रमण करती है । इस कारणसे
गाथाके उत्तरार्धमें ऐसा कहा गया है कि 'उदयावलीमे प्रविष्ट अनन्त वर्गणाएँ एक एक
कृष्टिपर संक्रमण करती है' ॥१४७९-१४८०॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे नवमी भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना की जाती
है ॥१४८१॥

जितनी भी अनुभागकृष्टियाँ प्रयोगकी अपेक्षा नियमसे उदीर्ण की जाती हैं,
उतनी ही पूर्व-प्रविष्ट अर्थात् उदयावली-प्रविष्ट अनुभागकृष्टियाँ परिणत होती हैं ॥२२७॥

१४८२. विहासा । १४८३. जाओ किङ्कीओ उदिण्णाओ ताओ पडुच्च अणुदी-
रिज्जमाणिगाओ वि किङ्कीओ जाओ अधड्ढिदिगमुदयं पविसंति ताओ उदीरिज्जमाणि-
याणं किङ्कीणं सरिसाओ भवंति ।

१४८४. एत्तो दसमी भासगाहा ।

(१७५) पच्छिम-आवलियाए समयूणाए दु जे य अणुभागा ।

उक्कस्स-हेट्ठिमा मज्झिमासु णियमा परिणमंति ॥२२८॥

१४८५. विहासा । १४८६. पच्छिम-आवलिया त्ति का सण्णा ? १४८७.
जा उदयावलिया सा पच्छिमावलिया । १४८८. तदो तिस्से उदयावलियाए उदय-
समयं मोत्तूण सेसेसु समएसु जा संगहकिङ्की वेदिज्जमाणिगा, तिस्से अंतरकिङ्कीओ
सव्वाओ ताव धरिज्जंति जाव ण उदयं पविट्ठाओ त्ति । १४८९. उदयं जाये पवि-
ट्ठाओ ताये चेव तिस्से संगहकिङ्कीए अग्गकिङ्कीमादिं कादूण उवरि असंखेज्जदिभागो
जहणियं किङ्कीमादिं कादूण हेट्ठा असंखेज्जदिभागो च मज्झिमकिङ्कीसु परिणमदि ।

१४९०. खवणाए चउत्थीए मूलगाहाए समुक्कित्तणा ।

चूणिंसू०—अव उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा की जाती है—जो कृष्टियाँ उदीर्ण हुई
हैं, उनकी अपेक्षा अनुदीर्यमाण भी कृष्टियाँ जो अधःस्थितिगलनरूपसे उदयमें प्रवेश करती
है, वे उदीर्यमाण कृष्टियोंके सदृश होती है ॥१४८२-१४८३॥

चूणिंसू०—अव इससे आगे दशमी भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना की जाती
है ॥१४८४॥

एक समय कम पश्चिम आवलीमें जो उत्कृष्ट और जघन्य अनुभाग-स्वरूप
कृष्टियाँ हैं, वे मध्यवर्ती बहुभाग कृष्टियोंमें नियमसे परिणमित होती हैं ॥२२८॥

चूणिंसू०—अव उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा की जाती है ॥१४८५॥

शंका—पश्चिम-आवली इस संज्ञाका क्या अर्थ है ? ॥१४८६॥

समाधान—जो उदयावली है, उसे ही पश्चिम-आवली कहते हैं ॥१४८७॥

चूणिंसू०—इसलिए उस उदयावलीमें उदयरूप समयको छोड़कर शेष समयोमे जो
वेद्यमान संग्रहकृष्टि है, उसकी सर्व अन्तरकृष्टियाँ तब तक वारण की जाती हैं, जब तक
कि वे उदयमें प्रविष्ट नहीं हो जाती है । जिस समय वे उदयमें प्रविष्ट होती हैं, उस समयमें
ही उस संग्रहकृष्टिकी अग्रकृष्टिको आदि करके उपरितन असंख्यातवाँ भाग और जघन्य-
कृष्टिको आदि करके अधस्तन असंख्यातवाँ भाग मध्यम कृष्टियोमे परिणमित होता
है ॥१४८८-१४८९॥

चूणिंसू०—अव क्षपणा-सम्बन्धी चौथी मूलगाथाकी समुत्कीर्तना की जाती
है ॥१४९०॥

(१७६) किट्टीदो किट्टिं पुण संक्रमदि खण्ण किं पयोगेण ।

किं सेसगम्हि किट्टीय संक्रमो होदि अण्णिस्से ॥२२९॥

१४९१. एदिस्से वे भासगाहाथो ।

(१७७) किट्टीदो किट्टिं पुण संक्रमदे णियमसा पओगेण ।

किट्टीए सेसगं पुण दो आवलियासु जं वद्धं ॥२३०॥

१४९२. विहासा । १४९३. जं संगहकिट्टिं वेदेदूण तदो से काले अण्णं संगह-

किट्टिं पवेदयदि, तदो तिस्से पुव्वसमयवेदिदाए संगहकिट्टीए जे दो आवलियवंधा दुसमयूणा आवलियपविट्ठा च अस्सि समए वेदिज्जमाणिगाए संगहकिट्टीए पओगसा संक्रमति । १४९४. एसो पढमभासगाहाए अत्थो ।

१४९५. एत्तो विदियभासगाहाए समुक्कित्तणा ।

(१७८) समयूणा च पविट्ठा आवलिया होदि पढमकिट्टीए ।

पुण्णा जं वेदयदे एवं दो संक्रमे होति ॥२३१॥

एक कृष्टिसे दूसरी कृष्टिको वेदन करता हुआ क्षपक पूर्व-वेदित कृष्टिके शेष अंशको क्या क्षय अर्थात् उदयसे संक्रमण करता है, अथवा प्रयोगसे संक्रमण करता है ? तथा पूर्ववेदित कृष्टिके कितने अंशके शेष रहनेपर अन्य कृष्टिमें संक्रमण होता है ? ॥२२९॥

चूर्णिसू०—इस मूलगाथाके अर्थका व्याख्यान करनेवाली दो भाष्यगाथाएँ हैं ।

उनमे यह प्रथम भाष्यगाथा है ॥१४९१॥

एक कृष्टिके वेदित-शेष प्रदेशाग्रको अन्य कृष्टिमें संक्रमण करता हुआ नियम-से प्रयोगके द्वारा संक्रमण (क्षय) करता है । दो समय कम दो आवलियोंमें बंधा हुआ जो द्रव्य है, वह कृष्टिके वेदित-शेष प्रदेशाग्रका प्रमाण है ॥२३०॥

चूर्णिसू०—उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा इस प्रकार है—जिस संग्रहकृष्टिको वेदन करके उससे अनन्तर समयमें अन्य संग्रहकृष्टिको प्रवेदन करता है, तब उस पूर्व समयमें वेदित संग्रहकृष्टिके जो दो समय कम दो आवली-वद्ध नवक समयप्रवद्ध हैं वे और उदयावली-प्रविष्ट जो प्रदेशाग्र हैं, वे इस वर्तमान समयमें वेदन की जानेवाली संग्रहकृष्टिमें प्रयोगसे संक्रमित होते हैं । यह प्रथम भाष्यगाथाका अर्थ है ॥१४९२-१४९४॥

चूर्णिसू०—अब इससे आगे दूसरी भाष्यगाथाकी समुत्कीर्तना की जाती है ॥१४९५॥

एक समय कम आवली उदयावलीके भीतर प्रविष्ट होती है और जिस संग्रह-कृष्टिका अपकर्षणकर इस समय वेदन करता है, उस प्रथम कृष्टिकी सम्पूर्ण आवली प्रविष्ट होती है, इस प्रकार दो आवलियाँ संक्रमणमें होती हैं ॥२३१॥

१४९६. विहासा । १४९७. तं जहा । १४९८. अण्णं किट्ठिं संक्रममाणस्स पुव्ववेदिदाए समयूणा उदयावलिया वेदिज्जमाणिगाए किट्ठीए पडिवृण्णा उदयावलिया एवं किट्ठीवेदगस्स उक्कस्सेण दो आवलियाओ । १४९९. ताओ वि किट्ठीदो किट्ठिं संक्रममाणस्स से काले एक्का उदयावलिया भवदि ।

१५००. चउत्थी मूलगाहा खवणाए समत्ता ।

१५०१. एसा परूवणा पुरिसवेदगस्स कोहेण उवट्ठिदस्स । १५०२. पुरिसवेदयस्स चेव माणेण उवट्ठिदस्स णाणत्तं वत्तइस्सामो । १५०३. तं जहा । १५०४. अंतरे अकदे णत्थि णाणत्तं । १५०५. अंतरे कदे णाणत्तं । १५०६. अंतरे कदे कोहस्स पढमट्ठिदी णत्थि, माणस्स अत्थि ।

१५०७. सा केम्महंती ? १५०८. जदेही कोहेण उवट्ठिदस्स कोहस्स पढमट्ठिदी कोहस्स चेव खवणद्धा तदेही चेव एम्महंती माणेण उवट्ठिदस्स माणस्स पढमट्ठिदी ।

चूर्णिसू०—उक्त भाष्यगाथाकी विभाषा की जाती है, वह इस प्रकार है—अन्य कृष्टिको संक्रमण करनेवाले क्षपकके पूर्व वेदित कृष्टिकी एक समय कम उदयावली और वेद्यमान कृष्टिकी परिपूर्ण उदयावली इस प्रकार कृष्टिवेदकके उत्कर्षसे दो आवलियाँ पाई जाती है । वे दोनों आवलियाँ भी एक कृष्टिसे दूसरी कृष्टिको संक्रमण करनेवाले क्षपकके तदनन्तर समयमे एक उदयावलीरूप रह जाती है । (क्योंकि एक समय कम आवलीमात्र गोपुच्छाओके स्तिवुकसंक्रमणसे वेद्यमान कृष्टिके ऊपर संक्रमित करनेपर तदनन्तर समयमे एक उदयावली ही पाई जाती है ।) ॥१४९६-१४९९॥

चूर्णिसू०—इस प्रकार क्षपणामे प्रतिबद्ध चौथी मूलगाथाकी भाष्यगाथाओका अर्थ समाप्त हुआ ॥१५००॥

चूर्णिसू०—यह सब उपर्युक्त प्ररूपणा क्रोधके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए पुरुषवेदी क्षपककी जानना चाहिए । अब मानके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़नेवाले पुरुषवेदी क्षपकके जो विभिन्नता है, उसे कहेंगे । वह इस प्रकार है—अन्तरकरणके नहीं करने तक कोई विभिन्नता नहीं है । अन्तरकरणके करनेपर विभिन्नता है । (उसे कहते हैं) अन्तरकरणके करनेपर क्रोधकी प्रथम स्थिति नहीं होती है, किन्तु मानकी होती है ॥१५०१-१५०६॥

शंका—वह मानकी प्रथमस्थिति कितनी बड़ी है ? ॥१५०७॥

समाधान—क्रोधके उदयसे श्रेणीपर चढ़े हुए जीवके जितनी बड़ी क्रोधकी प्रथमस्थिति है और जितना बड़ा क्रोधका ही क्षपणाकाल है, उतनी ही बड़ी मानके उदयसे श्रेणीपर चढ़नेवाले जीवके मानकी प्रथम स्थिति है ॥१५०८॥

१ कियन्महती किंप्रमाणेति प्रश्नः कृतो भवति । जयध०

१५०९. जम्हि कोहेण उवट्टिदो अस्सकण्णकरणं करेदि, माणेण उवट्टिदो तम्हि काले कोहं खवेदि । १५१०. कोहेण उवट्टिदस्स जा किट्ठीकरणद्वा माणेण उवट्टिदस्स तम्हि काले अस्सकण्णकरणद्वा । १५११. कोहेण उवट्टिदस्स जा कोहस्स खवणद्वा माणेण उवट्टिदस्स तम्हि काले किट्ठीकरणद्वा । १५१२. कोहेण उवट्टिदस्स जा माणस्स खवणद्वा, माणेण उवट्टिदस्स तम्हि चेव काले माणस्स खवणद्वा । १५१३. एत्तो पाए जहा कोहेण उवट्टिदस्स विही, तथा माणेण उवट्टिदस्स ।

१५१४. पुरिसवेदस्स मायाए उवट्टिदस्स णाणत्तं वत्तइस्सामो । १५१५. तं जहा । १५१६. कोहेण उवट्टिदस्स जम्महंती कोहस्स पढमट्टिदी कोहस्स चेव खवणद्वा माणस्स च खवणद्वा मायाए उवट्टिदस्स एम्महंती मायाए पढमट्टिदी । १५१७. कोहेण उवट्टिदो जम्हि अस्सकण्णकरणं करेदि, मायाए उवट्टिदो तम्हि कोहं खवेदि । १५१८. कोहेण उवट्टिदो जम्हि किट्ठीओ करेदि, मायाए उवट्टिदो तम्हि माणं खवेदि । १५१९. कोहेण उवट्टिदो जम्हि कोधं खवेदि, मायाए उवट्टिदो तम्हि अस्सकण्णकरणं करेदि । १५२०. कोहेण उवट्टिदो जम्हि माणं खवेदि, मायाए उवट्टिदो तम्हि किट्ठीओ करेदि । १५२१. कोहेण उवट्टिदो जम्हि मायं खवेदि, तम्हि चेव मायाए उवट्टिदो

चूर्णिसू०—जिस समयमें क्रोधके साथ श्रेणी चढ़नेवाला क्षपक अश्वकर्णकरणको करता है, उस समयमें मानके साथ श्रेणी चढ़नेवाला क्षपक क्रोधका क्षय करता है । क्रोधके साथ चढ़े हुए जीवका जो कृष्टिकरण काल है, मानके साथ चढ़े हुए जीवका उस समयमें अश्वकर्ण करणकाल होता है । क्रोधके साथ चढ़े हुए जीवके जो क्रोधका क्षपणकाल है, मानके साथ चढ़े हुए जीवका उस समयमें कृष्टिकरणकाल होता है । क्रोधके साथ श्रेणीपर चढ़नेवाले जीवके मानका जो क्षपणकाल है, मानके साथ चढ़नेवाले जीवके उसी समयमें मानका क्षपणकाल होता है । इस स्थलसे लेकर आगे जैसी क्रोधके उदयसे श्रेणी चढ़नेवाले जीवके क्षपणाविधि कही गई है, वैसी ही विधि मानके उदयसे श्रेणी चढ़नेवाले जीवकी जानना चाहिए ॥ १५०९-१५१३ ॥

चूर्णिसू०—अब मायाके उदयके साथ श्रेणी चढ़नेवाले पुरुषवेदीकी विभिन्नताको कहेंगे । वह इस प्रकार है—क्रोधके उदयके साथ श्रेणी चढ़े हुए क्षपककी जितनी बड़ी क्रोधकी प्रथम स्थिति, क्रोधका ही क्षपणकाल और मायाका क्षपणकाल है, उतनी बड़ी मायाके साथ श्रेणी चढ़नेवाले क्षपकके मायाकी प्रथम स्थिति है । क्रोधसे उपस्थित हुआ जिस समयमें अश्वकर्णकरण करता है, मायासे उपस्थित हुआ उस समयमें क्रोधका क्षय करता है । क्रोधसे उपस्थित हुआ जिस समयमें कृष्टियोंको करता है, मायासे उपस्थित हुआ उस समयमें मानका क्षय करता है । क्रोधसे उपस्थित हुआ जिस समयमें क्रोधका क्षय करता है, मायासे उपस्थित हुआ उस समयमें अश्वकर्णकरण करता है । क्रोधसे उपस्थित हुआ जिस समयमें मानका क्षय करता है, मायासे उपस्थित हुआ उस समयमें कृष्टियोंको करता है । क्रोधसे उपस्थित हुआ जिस समयमें मायाका क्षय करता है, मायासे उपस्थित

मायं खवेदि । १५२२. एत्तो पाए लोभं खवेमाणस्स णत्थि णाणत्तं ।

१५२३. पुरिसवेदयस्स लोभेण उवट्ठिदस्स णाणत्तं वत्तइस्सामो । १५२४. जाव अंतरं ण करेदि, ताव णत्थि णाणत्तं । १५२५. अंतरं करेमाणो लोभस्स पढमट्ठिदिं ठवेदि । १५२६. सा केम्महंती ? १५२७. जदेही कोहेण उवट्ठिदस्स कोहस्स पढमट्ठिदी कोहरस माणस्स मायाए च खवणद्धा तदेही लोभेण उवट्ठिदस्स पढमट्ठिदी । १५२८. कोहेण उवट्ठिदो जम्हि अस्सकण्णकरणं करेदि, लोभेण उवट्ठिदो तम्हि कोहं खवेदि । १५२९. कोहेण उवट्ठिदो जम्हि किट्ठीओ करेदि, लोभेण उवट्ठिदो तम्हि माणं खवेदि । १५३०. कोहेण उवट्ठिदो जम्हि कोहं खवेदि, लोभेण उवट्ठिदो तम्हि माणं खवेदि । १५३१. कोहेण उवट्ठिदो जम्हि माणं खवेदि, लोभेण उवट्ठिदो तम्हि अस्सकण्णकरणं करेदि । १५३२. कोहेण उवट्ठिदो जम्हि मायं खवेदि, लोभेण उवट्ठिदो तम्हि किट्ठीओ करेदि । १५३३. कोहेण उवट्ठिदो जम्हि लोभं खवेदि, तम्हि चेव लोभेण उवट्ठिदो लोभं खवेदि । १५३४. एसा सच्चा सण्णिकासणा पुरिसवेदेण उवट्ठिदस्स ।

हुआ उस ही समयमे मायाका क्षय करता है । इस स्थल पर लोभको क्षपण करनेवाले जीवके कोई विभिन्नता नहीं है ॥१५१४-१५२२॥

चूर्णिसू०—अव लोभकपायके साथ श्रेणी चढ़नेवाले पुरुषवेदीकी विभिन्नताको कहेंगे । जब तक अन्तर नहीं करता है, तब तक कोई विशेषता नहीं है । अन्तरको करता हुआ वह लोभकी प्रथम स्थितिको स्थापित करता है ॥१५२३-१५२४॥

शंका—वह लोभकी प्रथम स्थिति कितनी बड़ी है ? ॥१५२६॥

समाधान—क्रोधके उदयसे चढ़े हुए क्षपककी जितनी क्रोधकी प्रथम स्थिति है, तथा क्रोध, मान और मायाका क्षपणकाल है, उतनी बड़ी लोभके साथ उपस्थित क्षपकके लोभकी प्रथम स्थिति है ॥१५२७॥

चूर्णिसू०—क्रोधसे उपस्थित हुआ जिस समयमे अश्वकर्णकरणको करता है, लोभसे उपस्थित हुआ उस समयमे क्रोधका क्षय करता है । क्रोधसे उपस्थित हुआ जिस समयमे कृष्टियोको करता है, लोभसे उपस्थित हुआ उस समयमे मानका क्षय करता है । क्रोधसे उपस्थित हुआ जिस समयमे क्रोधका क्षय करता है, लोभसे उपस्थित हुआ उस समयमे मायाका क्षय करता है । क्रोधसे उपस्थित हुआ जिस समयमे मानका क्षय करता है, लोभसे उपस्थित हुआ उस समयमे अश्वकर्णकरण करता है । क्रोधसे उपस्थित हुआ जिस समयमे मायाका क्षय करता है, लोभसे उपस्थित हुआ उस समयमे कृष्टियोको करता है । क्रोधसे उपस्थित हुआ जिस समयमे लोभका क्षय करता है, लोभसे उपस्थित हुआ उस ही समयमे लोभका क्षय करता है । यह सब सन्निकर्षपरूपणा पुरुषवेदसे उपस्थित क्षपककी कही गई है ॥१५२८-१५३४॥

१५३५. इत्थिवेदेण उवट्टिदस्स खवणस्स णाणत्तं वत्तइस्सामो । १५३६. तं जहा । १५३७. जाव अंतरं ण करेदि ताव णत्थि णाणत्तं । १५३८. अंतरं करेमाणो इत्थिवेदस्स पढमट्टिदिं ठवेदि । १५३९. जदेही पुरिसवेदेण उवट्टिदस्स इत्थिवेदस्स खवणद्धा तदेही इत्थिवेदेण उवट्टिदस्स इत्थिवेदस्स पढमट्टिदी । १५४०. णवुंसयवेदं खवेमाणस्स णत्थि णाणत्तं । १५४१. णवुंसयवेदे खीणे इत्थिवेदं खवेइ । १५४२. जम्महंती पुरिसवेदेण उवट्टिदस्स इत्थिवेदखवणद्धा तम्महंती इत्थिवेदेण उवट्टिदस्स इत्थिवेदस्स खवणद्धा । १५४३. तदो अवगदवेदो सत्त कम्मसे खवेदि । १५४४. सत्तण्हं पि कम्मणं तुल्ला खवणद्धा । १५४५. सेसेसु पदेसु णत्थि णाणत्तं ।

१५४६. एत्तो णवुंसयवेदेण उवट्टिदस्स खवणस्स णाणत्तं वत्तइस्सामो । १५४७. जाव अंतरं ण करेदि ताव णत्थि णाणत्तं । १५४८. अंतरं करेमाणो णवुंसयवेदस्स पढमट्टिदिं ठवेदि । १५४९ जम्महंती इत्थिवेदेण उवट्टिदस्स इत्थिवेदस्स पढमट्टिदी तम्महंती णवुंसयवेदेण उवट्टिदस्स णवुंसयवेदस्स पढमट्टिदी । १५५०. तदो अंतरदुसमयकदे णवुंसयवेदं खवेदुमाढत्तो । १५५१. जदेही पुरिसवेदेण उवट्टिदस्स णवुंसयवेदस्स खवणद्धा तदेही णवुंसयवेदेण उवट्टिदस्स णवुंसयवेदस्स खवणद्धा गदा

चूर्णिसू०—अत्र स्त्रीवेदसे उपस्थित क्षपककी विभिन्नताको कहेंगे । वह इस प्रकार है—जब तक अन्तर नहीं करता है, तब तक कोई विभिन्नता नहीं है । अन्तरको करता हुआ क्षपक स्त्रीवेदकी प्रथमस्थितिको स्थापित करता है । पुरुषवेदसे उपस्थित क्षपकके जितना स्त्रीवेदके क्षपणका काल है, उतनी ही स्त्रीवेदसे उपस्थित क्षपकके स्त्रीवेदकी प्रथमस्थिति है । नपुंसकवेदका क्षय करनेवाले क्षपककी प्ररूपणामे कोई विभिन्नता नहीं है । नपुंसकवेदके क्षय करने पर स्त्रीवेदका क्षय करता है । पुरुषवेदसे उपस्थित क्षपकके जितना बड़ा स्त्रीवेदका क्षपणकाल है, उतना ही बड़ा स्त्रीवेदसे उपस्थित क्षपकके स्त्रीवेदका क्षपणकाल है । तत्पश्चात् अर्थात् स्त्रीवेदकी प्रथम स्थितिके क्षीण होनेपर अपगतवेदी होकर हास्यादि छह नोकपाय और पुरुषवेद इन सात कर्मप्रकृतियोंका क्षय करता है । सातों ही कर्मोंका क्षपणकाल तुल्य है । शेष पदोंमें कोई विभिन्नता नहीं है ॥ १५३५-१५४५ ॥

चूर्णिसू०—अत्र इससे आगे नपुंसकवेदसे उपस्थित क्षपककी विभिन्नता कहेंगे । जब तक अन्तरको नहीं करता है, तब तक कोई विभिन्नता नहीं है । अन्तरको करता हुआ नपुंसकवेदकी प्रथमस्थितिको स्थापित करता है । स्त्रीवेदसे उपस्थित क्षपकसे जितनी बड़ी स्त्रीवेदकी प्रथम स्थिति है, उतनी ही बड़ी नपुंसकवेदसे उपस्थित क्षपकके नपुंसकवेदकी प्रथमस्थिति है । पुनः अन्तर करनेके दूसरे समयमें नपुंसकवेदका क्षय करना प्रारम्भ करता है । पुरुषवेदसे उपस्थित क्षपकके जितना नपुंसकवेदका क्षपणकाल है, उतना नपुंसकवेदसे उपस्थित क्षपकके नपुंसकवेदका क्षपणकाल बीत जाता है, तो भी तब तक नपुंस-

ण ताव णवुंसयवेदो खीयदि । १५५२. तदो से काले इत्थीवेदं खवेदुमाहत्तो णवुंसयवेदं पि खवेदि । १५५३. पुरिसवेदेण उवट्टिदस्स जम्हि इत्थिवेदो खीणो तम्हि चेव णवुंसयवेदेण उवट्टिदस्स इत्थिवेद-णवुंसयवेदा च दो वि सह खिज्जंति । १५५४ तदो अवगदवेदो सत्त कम्मसे खवेदि । १५५५. सत्तण्हं कम्माणं तुल्ला खवणद्धा । १५५६. सेसेसु पदेसु जधा पुरिसवेदेण उवट्टिदस्स अहीणमदिरित्तं तत्थ णाणत्तं ।

१५५७. जाधे चरिमसमयसुहुमसांपराइयो जादो ताधे णामा-गोदाणं ट्टिदिवंधो अट्ट सुहुत्ता । १५५८. वेदणीयस्स ट्टिदिवंधो वारस सुहुत्ता । १५५९. तिण्हं घादिकम्माणं ट्टिदिवंधो अंतोमुहुत्तं । तिण्हं घादिकम्माणं ट्टिदिसंतकम्मं अंतोमुहुत्तं । १५६०. णामा-गोद-वेदणीयाणं ट्टिदिसंतकम्ममसंखेज्जाणि वस्साणि । १५६१. मोहणीयस्स ट्टिदिसंतकम्मं णस्सदि ।

१५६२. तदो से काले पढमसमयखीणकसायो जादो । १५६३. ताधे चेव ट्टिदि-अणुभाग-पदेसस्स अवंधगो । १५६४. एवं जाव चरिमसमयाहियावलयिच्छदुमत्थो ताव तिण्हं घादिकम्माणमुदीरगो । १५६५. तदो दुचरिमसमये णिदा-पयलाणमुदयसंतवोच्छेदो । १५६६. तदो णाणावरण-दंसणावरण-अंतराहयाणमेगसमएण संतोदयवोच्छेदो ।

सकवेद क्षीण नहीं होता है । पश्चात् अनन्तर समयमें खीवेदका क्षपण प्रारम्भ करता हुआ नपुंसकवेदका भी क्षय करता है । पुरुषवेदसे उपस्थित क्षपकका जिस समयमें खीवेद क्षीण होता है उस ही समयमें नपुंसकवेदसे उपस्थित क्षपकके खीवेद और नपुंसकवेद दोनों ही एक साथ क्षयको प्राप्त होते हैं । पुनः अपगतवेदी होकर सात नोकपायरूप कर्माशोका क्षय करता है । सातो ही नोकपायोका क्षपणाकाल समान है । शेष पदोमें जैसी विधि पुरुषवेदसे उपस्थित क्षपककी कही गई है, वैसी ही विधि हीनता और अधिकतासे रहित यहाँ भी कहना चाहिए ॥ १५४६-१५५६ ॥

चूर्णिसू०—जिस कालमें चरम समयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिक होता है, उस कालमें नाम और गोत्रकर्मका स्थितिवन्ध आठ सुहूर्त-प्रमाण है । वेदनीयकर्मका स्थितिवन्ध वारह सुहूर्तप्रमाण है । शेष तीनों घातिया कर्मोंका स्थितिवन्ध अन्तर्मुहूर्तप्रमाण है । तीनों घातिया कर्मोंका स्थितिसत्त्व अन्तर्मुहूर्तप्रमाण है । नाम, गोत्र और वेदनीयकर्मका स्थितिसत्त्व असंख्यात वर्ष है । यहाँपर मोहनीय कर्मका स्थितिसत्त्व नाशको प्राप्त हो जाता है ॥ १५५७-१५६१ ॥

चूर्णिसू०—तदनन्तर कालमें वह प्रथमसमयवर्ती क्षीणकषाय हो जाता है । उस ही समयमें वह सब कर्मोंकी स्थिति, अनुभाग और प्रदेशका अवन्वक हो जाता है । इस प्रकार वह एक समय अधिक आवलीमात्र छद्मस्थकालके शेष रहने तक तीनों घातिया कर्मोंकी उदीरणा करता रहता है । तत्पश्चात् क्षीणकषायके द्विचरम समयमें निद्रा और प्रचलाके उदय और सत्त्वका एक साथ व्युच्छेद हो जाता है । तदनन्तर एक समयमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीनों घातिया कर्मोंके उदय तथा सत्त्वका एक साथ व्युच्छेद हो जाता है ॥ १५६२-१५६६ ॥

१५६७. [एत्थुद्देसे खीणमोहद्वाए पडिवद्वा एक्का मूलगाहा ।] १५६८. तिस्से समुक्कित्तणा ।

(१७९) खीणेषु कसाएसु य सेसाणं के व होंति वीचारा ।

खवणा व अखवणा वा वंधोदयणिज्जरा वापि ॥२३२॥

१५६९. [संपहि एत्थेबुद्देसे एक्का संगहमूलगाहां विहासियव्वा ।] १५७०. तिस्से समुक्कित्तणा ।

(१८०) संकामणमोवट्टण-किट्ठीखवणाए खीणमोहंते ।

खवणा य आणुपुव्वी वोद्धव्वा मोहणीयस्स ॥२३३॥

अब क्षीणमोह-कालसे प्रतिवद्र जो एक मूलगाथा है, उसकी समुत्कीर्तना की जाती है ॥१५६७-१५६८॥

कपायोंके क्षीण हो जानेपर शेष ज्ञानावरणादि कर्मोंके कौन-कौन क्रिया विशेषरूप वीचार होते हैं ? तथा क्षपणा, अक्षपणा, वन्ध उदय और निर्जरा किन-किन कर्मोंकी कैसी होती है ? ॥२३२॥

विशेषार्थ—इस मूलगाथाका अर्थ कृष्टि-सम्बन्धी ग्यारह गाथाओंके समान ही जानना चाहिए । केवल यहाँपर १ स्थितिघात, २ स्थितिसन्ध, ३ उदय, ४ उदीरणा, ५ स्थितिकांडकघात और ६ अनुभागकांडकघात ये छह क्रियाविशेष ही कहना चाहिए । क्षपणा-पद कपायोंके क्षीण हो जानेपर शेष तीन घातिया कर्मोंकी क्षपणाविधिका निर्देश करता है । अक्षपणापद चारहवें गुणस्थानमें चारों अघातिया कर्मोंके क्षयके अभावको सूचित करता है । वन्धपद कर्मोंके स्थितिवन्ध, अनुभागवन्ध और प्रदेशवन्धके अभावको सूचित करता है । उदयपद प्रकृतिवन्धके उदय और उदीरणाकी सूचना करता है । निर्जरापद क्षीणकषाय-वीतरागके गुणश्रेणी निर्जराका विधान करता है । इस प्रकार इस मूलगाथामे इतने अर्थोंका विचार करना चाहिए ।

अब क्षपणासम्बन्धी अट्ठाईसवीं जो एक संग्रहणी मूलगाथा है, वह विभाषा करनेके योग्य है । उसकी समुत्कीर्तना की जाती है ॥१५६९-१५७०॥

इस प्रकार मोहनीय कर्मके सर्वथा क्षीण होने तक संक्रमणाविधि, अपवर्तना-विधि और कृष्टिक्षपणाविधि इतनी ये क्षपणाविधियाँ मोहनीय कर्मकी आनुपूर्वीसे जानना चाहिए ॥२३३॥

विशेषार्थ—इस संग्रहणी-गाथाके द्वारा चारित्रमोहनीयकर्मकी प्रकृतियोंके क्षपणाका विधान क्रमशः आनुपूर्वीसे किया गया है, अतएव इसे संग्रहणी-गाथा कहा गया है ।

१ को संगहो णाम ? चरित्तमोहणीयस्स वित्थरेण पुव्वं परूविदखवणाए दव्वट्ठियसिस्सजणाणुग्गहट्ठ सखेवेण परूवणा संगहो णाम । तदो पुव्वुत्तासेसत्थोवसहारमूलगाहा संगहणमूलगाहा त्ति भण्णदे । जयध०

१५७१. तदो अणंतकेवलणाण-दंसण-वीरियजुत्तो जिणो केवली सव्वण्हू सव्व-
दरिसी भवदि सजोगिजिणो त्ति भण्णइ । १५७२. असंखेज्जगुणाए सेठीए पदेसग्गं
णिज्जरेमाणो विहरदि त्ति ।

चरित्तमोहवखणणा-अत्थाहियारो समत्तो ।

अन्तरकरणको करके जब तक छह नोकपायोका क्षय करता है, तब तक उस अवस्थाकी संक्रमण संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पर नपुंसकवेदादि नोकपायोंका संक्रमण देखा जाता है। अपवर्तनापदसे अश्वकर्णकरणकाल और कृष्टिकरणकालका ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि, यहाँपर संज्वलन कपायोंकी अश्वकर्णके आकारसे ही अपवर्तना देखी जाती है। कृष्टिक्षपण-पदसे कृष्टिवेदनकालका ग्रहण करना चाहिए। इसके भीतर दशवें गुणस्थानके अन्तिम समय तककी सर्व प्ररूपणा आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर ही सूक्ष्म लोभकृष्टिका क्षय होता है। 'क्षीणमोहान्त' इस पदके द्वारा सूत्रकारने यह भाव व्यक्त किया है कि क्षीण-कपाय गुणस्थानके नीचे ही चारित्रमोहनीयकी क्षपणा होती है, इसके ऊपर नहीं होती। इस प्रकार उक्त क्रिया-विशेषोंकी आनुपूर्वी मोहनीयकर्मकी क्षपणामे जानना चाहिए।

चूर्णिसू०—तदनन्तर समयमे अनन्त केवलज्ञान, केवलदर्शन और अनन्तवीर्यसे युक्त होकर वह क्षपक जिन, केवली, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो जाता है। तभी वह सयोगी जिन कहलाता है। वे सयोगिकेवली जिन प्रतिसमय असंख्यातगुणित श्रेणीसे कर्म-प्रदेशाग्रकी निर्जरा करते हुए (धर्मरूप तीर्थप्रवर्तनके लिए यथोचित धर्मक्षेत्रमे महाविभूतिके साथ) विहार करते हैं ॥१५७१-१५७२॥

इस प्रकार चारित्रमोहक्षपणा नामक पन्द्रहवाँ अर्थाधिकार समाप्त हुआ ।

खवणाहियार-चूलिया

अण मिच्छ मिस्स सम्मं अट्ट णचुंसिथिवेदछकं च ।
 पुवेदं च खवेदि हु कोहादीए च संजलणे ॥ १ ॥
 अध थीणगिद्धिकम्मं णिहाणिहा य पयलपयला य ।
 अध णिरय-तिरियणामा झीणा संछोहणादीसु' ॥ २ ॥
 सव्वस्स मोहणीयस्स आणुपुव्वीय संकमो होई ।
 लोभकसाए णियमा असंकमो होइ वोद्धव्वो' ॥ ३ ॥

क्षपणाधिकार-चूलिका

अत्र क्षपणाधिकारकी चूलिकाके प्ररूपण करनेके लिए ये वक्ष्यमाण सूत्र-गाथाएँ ज्ञातव्य हैं—

अनन्तानुबन्धी-चतुष्क, मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति, इन सात प्रकृतियोंको क्षपकश्रेणी चढ़नेसे पूर्व ही क्षपण करता है । पुनः क्षपकश्रेणी चढ़ते हुए अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमे अन्तरकरणसे पूर्व ही आठ मध्यम कषायोंका क्षय करता है । पुनः नपुंसकवेद, स्त्रीवेद, हास्यादि छह नोकषाय और पुरुषवेदका क्षय करता है । तदनन्तर संज्वलनक्रोध आदिका क्षय करता है ॥१॥

मध्यम आठ कषायोंके क्षय करनेके अनन्तर स्त्यानशुद्धि कर्म, निद्रानिद्रा और प्रचलाप्रचला इन तीन दर्शनावरणीय प्रकृतियोंको, तथा नरकगति और तिर्यग्गति-सम्बन्धी नामकर्मकी तेरह प्रकृतियोंको संक्रमण आदि करते समय क्षीण करता है ॥२॥

विशेषार्थ—वे तेरह प्रकृतियाँ ये हैं—१ नरकगति, २ नरकगत्यानुपूर्वी, ३ तिर्यग्गति, ४ तिर्यग्गत्यानुपूर्वी, ५ द्वीन्द्रियजाति, ६ त्रीन्द्रियजाति, ७ चतुरिन्द्रियजाति, ८ उद्योत, ९ आतप, १० एकेन्द्रियजाति, ११ साधारण, १२ सूक्ष्म और १३ स्थावर-नामकर्म । भूतबलि-पुष्पदन्त आचार्यके मतानुसार पहले इन उपर्युक्त सोलह प्रकृतियोंका क्षय करके पीछे आठ मध्यम कषायोंका क्षय करता है । किन्तु गुणधर और यतिवृषभ आचार्यके मतानुसार पहले आठ मध्यम कषायोंका क्षय करके पुनः सोलह प्रकृतियोंका क्षय करता है, ऐसा सिद्धान्त-भेद जानना चाहिए ।

मोहनीयकर्मकी सम्पूर्ण प्रकृतियोंका आनुपूर्वीसे संक्रमण होता है । किन्तु लोभकषायका संक्रमण नहीं होता है, ऐसा नियमसे जानना चाहिए ॥३॥

संखुहदि पुरिसवेदे इत्थीवेदं णवुसयं चैव ।
 सत्तेव णोकसाए णियमा कोधमिह संखुहदि ॥ ४ ॥
 कोहं च खुहइ माणे माणं मायाए णियमसा खुहइ ।
 मायं च खुहइ लोहे पडिलोमो संकमो णत्थि ॥ ५ ॥
 जो जमिह संखुहंतो णियमा बंधमिह होइ संखुहणा ।
 वंधेण हीणदरगे अहिए वा संकमो णत्थि ॥ ६ ॥
 वंधेण होइ उदयो अहिओ उदएण संकमो अहिओ ।
 गुणसेटि अणंतगुणा बोद्धवा होइ अनुभागो ॥ ७ ॥
 वंधेण होइ उदओ अहिओ उदएण संकमो अहिओ ।
 गुणसेटि असंखेज्जा च पदेसग्गेण बोद्धवा ॥ ८ ॥

स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका पुरुषवेदमे संक्रमण करता है। पुरुषवेद तथा हास्यादि छह इन सात नोकपायांका नियमसे संज्वलनक्रोधमें संक्रमण करता है ॥४॥

संज्वलनक्रोधको संज्वलनमानमें, संज्वलनमानको संज्वलनमायामें, संज्वलनमायाको संज्वलन लोभमें नियमसे संक्रमण करता है। इस प्रकार इन सब मोह-प्रकृतियोंका अनुलोम ही संक्रमण होता है, प्रतिलोम संक्रमण नहीं होता ॥५॥

जो जीव जिस बंधनेवाली प्रकृतियें संक्रमण करता है वह नियमसे बन्ध-सदृश ही प्रकृतिमें संक्रमण करता है; अथवा बन्धकी अपेक्षा हीनतर स्थितिवाली प्रकृतिमें संक्रमण करता है। किन्तु बन्धसे अधिक स्थितिवाली प्रकृतिमें संक्रमण नहीं होता। ॥६॥

बन्धसे उदय अधिक होता है और उदयसे संक्रमण अधिक होता है। इस प्रकार अनुभागके विषयमें गुणश्रेणी अनन्तगुणी जानना चाहिए ॥७॥

भावार्थ—विवक्षित एक समयसे अनुभागके बन्धकी अपेक्षा अनुभागका उदय अनन्त-गुणा होता है और अनुभागके उदयसे अनुभागका संक्रमण अनन्तगुणा होता है।

बन्धसे उदय अधिक होता है और उदयसे संक्रमण अधिक होता है। इस प्रकार प्रदेशाग्रकी अपेक्षा गुणश्रेणी असंख्यातगुणी जानना चाहिए ॥८॥

भावार्थ—विवक्षित एक समयसे किसी एक विवक्षित प्रकृतिके प्रदेशबन्धसे उसके प्रदेशोका उदय असंख्यातगुणा अधिक होता है और प्रदेशोके उदयकी अपेक्षा प्रदेशोका संक्रमण और भी असंख्यातगुणा अधिक होता है।

१ कसाय० गा० १३८ । २ कसाय० गा० १३९ ।

३ कसाय० गा० १४० । ४ कसाय० गा० १४३ । ५ कसाय० गा० १४४ ।

उदयो च अणंतगुणो संपहि-बंधेण होइ अणुभागे ।
 से काले उद्यादो संपहि-बंधो अणंतगुणो ॥ ९ ॥
 चरिमे वादररागे णामा-गोदाणि वेदणीयं च ।
 वस्सस्संतो बंधदि दिवस्संतो य जं सेसं ॥१०॥
 जं चावि संछुहंतो खवेइ किट्ठिं अबंधगो तिस्से ।
 सुहुमहि संपराए अबंधगो बंधगियराणं ॥११॥
 जाव ण छदुमत्थादो तिण्हं घादीण वेदगो होइ ।
 अधऽणंतरेण खइया सव्वण्हू सव्वदरिसी य ॥१२॥

चरित्तमोहद्वखणणा त्ति समत्ता ।

एवं कसायपाहुडसुत्ताणि सपरिभासाणि समत्ताणि सव्वसमासेण वेसद-तेत्तीसाणि ।

एवं कसायपाहुडं समत्तं ।

अनुभागकी अपेक्षा साम्प्रतिक-बन्धसे साम्प्रतिक-उदय अनन्तगुणा होता है । इसके अनन्तरकालमें होनेवाले उदयसे साम्प्रतिक-बन्ध अनन्तगुणा होता है ॥९॥

चरमसमयवर्ती वादरसाम्परायिक क्षपक नाम, गोत्र और वेदनीय कर्मको वर्षके अन्तर्गत बांधता है । तथा शेष जो तीन घातिया कर्म हैं उन्हें एक दिवसके अन्तर्गत बांधता है ॥१०॥

जिस कृष्टिको भी संक्रमण करता हुआ क्षय करता है, उसका वह बन्ध नहीं करता । सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिके वेदनकालमें वह उसका अबन्धक रहता है । किन्तु इतर कृष्टियोंके वेदन वा क्षपणकालमें वह उनका बन्ध करता है ॥११॥

जब तक वह क्षीणकषायवीतरागसंयत छद्मस्थं अवस्थासे नहीं निकलता है, तब तक ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीनों घातिया कर्मोंका वेदक रहता है । इसके पश्चात् अनन्तर समयमें तीनों घातिया कर्मोंका क्षय करके सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बन जाता है ॥१२॥

इस प्रकार चारित्रमोहक्षपणाधिकारकी चूलिका समाप्त हुई ।

इस प्रकार परिभाषा-सहित दो सौ तेतीस गाथासूत्रात्मक

कसायपाहुड समाप्त हुआ ।

पच्छिमस्कन्धो अथाहियारो

१. पच्छिमस्कन्धे चि अणियोगदारे तस्मि इमा मग्गणा । २. अंतोमुहुत्ते आउगे सेसे तदो आवज्जिदकरणे क्खे तदो केवलिसमुग्घादं करेदि । ३. पढमसमये दंडं करेदि ।

पश्चिमस्कन्ध-अर्थाधिकार

चूर्णिसू०—अब इस पश्चिमस्कन्ध नामक अनुयोगद्वारमें यह वक्ष्यमाण प्ररूपणा मार्गणा करनेके योग्य है ॥१॥

विशेषार्थ—चूर्णिकारने इस अविचारका नाम पश्चिमस्कन्ध कहा है । इसे जयधवलाकारने समस्त श्रुतस्कन्धकी चूलिका कहा है । इस कसायपाहुडकी समाप्ति होनेपर जो कथन अवशेष रहा है, वह चूर्णिकारने चूलिकारूपसे इसमें निचद्ध किया है । महाकम्मपयडिपाहुडके चौबीस अनुयोगद्वारोंमें भी पश्चिमस्कन्ध नामका अन्तिम अनुयोगद्वार है और वहाँपर भी वही अर्थ कहा गया है, जो कि यहाँपर चूर्णिकारने कहा है । दोनों सिद्धान्त-ग्रन्थोंकी एकरूपता या एक-उद्देश्यता बताना ही संभवतः चूर्णिकारको अभीष्ट रहा है । घातिया कर्मोंके क्षय हो जानेपर सयोगिकेवली भगवान्के जो अन्तम अघातिया कर्मोंका स्कन्धरूप कर्म-समुदाय पाया जाता है, उसे पश्चिमस्कन्ध कहते हैं । अथवा पश्चिम अर्थात् अन्तिम औदारिकशरीरके, तैजस और कर्मणशरीररूप नोकर्मस्कन्धयुक्त जो कर्मस्कन्ध है, उसे पश्चिमस्कन्ध जानना चाहिए । क्योंकि इस अधिकारमें केवलीकी समुद्घात-गत क्रियाओंका वर्णन करते हुए औदारिकशरीरसम्बन्धी मन, वचन, कायरूप योगनिरोध आदिका विस्तारसे वर्णन किया गया है । पन्द्रह महाधिकारोंके द्वारा कसायपाहुडका वर्णन कर देनेके पश्चात् भी इस अविचारके निरूपण करनेकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि चारित्रमोह-क्षपणाके पश्चात् यद्यपि शेष तीन घातिया कर्मोंके अभावका वर्णन कर दिया गया है, तथापि अभी अघातिया कर्म सयोगी जिनके अवशिष्ट हैं, उनके क्षपणका वर्णन किये बिना प्रतिपाद्य विषयकी अपूर्णता रह जाती है, उसकी पूर्तिके लिए ही इस अधिकारका निरूपण चूर्णिकारने युक्ति-युक्त समझा और परिशिष्टरूप इस निरूपणको पश्चिमस्कन्ध संज्ञा दी ।

चूर्णिसू०—सयोगि-जिन आयुर्कर्मके अन्तर्मुहूर्तमात्र शेष रह जानेपर पहले आवर्जितकरण करते हैं और तदनन्तर केवलिसमुद्घात करते हैं ॥२॥

विशेषार्थ—केवलिसमुद्घातके अभिमुख होनेको आवर्जितकरण कहते हैं, अर्थात् केवलिसमुद्घात करनेके लिए जो आवश्यक तैयारी की जाती है, उसे शास्त्रकारोंने 'आवर्जितकरण' संज्ञा दी है । इसके किये बिना केवलिसमुद्घातका होना संभव नहीं है, अतः पहले अन्तर्मुहूर्त तक केवली आवर्जितकरण करते हैं । आवर्जितकरण करनेके पश्चात् केवली भगवान्

४. तस्मिन् द्विदीए असंखेज्जे भागे हणइ । ५. सेसस्स च अणुभागस्स अप्पसत्थाणमणंता भागे हणदि । ६. तदो विदियसमए क्वाडं करेदि । ७. तस्मिन् सेसिगाए द्विदीए असंखेज्जे भागे हणइ । ८. सेसस्स च अणुभागस्स अप्पसत्थाणमणंते भागे हणइ ।

अघातिया कर्मोंकी हीनाधिक स्थितिके समीकरणके लिए जो समुद्धात करते हैं अर्थात् अपने आत्मप्रदेशोको ऊपर, नीचे और तिर्यक् रूपसे विस्तृत करते हैं, उसे केवलिसमुद्धात कहते हैं । इस समुद्धातकी दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण-रूप चार अवस्थाएँ होती हैं । इनका वर्णन आगे चूर्णिकार स्वयं कर रहे हैं ।

चूर्णिसू०—सयोगिकेवली जिन प्रथम समयमें दंडसमुद्धात करते हैं । उसमें कर्मोंकी स्थितिके असंख्यात बहुभागोका घात करते हैं । कर्मोंके अवशिष्ट अनुभागके अप्रशस्त अनुभाग-सम्बन्धी अनन्त बहुभागोका घात करते हैं ॥३-५॥

विशेषार्थ—सयोगिकेवली जिन पद्मासन या खज्जासन दोनो ही आसनोसे पूर्वाभिमुख या उत्तरदिशाभिमुख होकरके समुद्धात करते हैं । इनमेसे केवलीके खज्जासनसे दंडसमुद्धात करनेपर आत्मप्रदेश मूलशरीर-प्रमाण विस्तृत और वातवलयसे कम चौदह राजुप्रमाण आयत दंडके आकाररूप फैलते हैं, इसलिए इसे दंडसमुद्धात कहते हैं । यदि सयोगी जिन पद्मासनसे समुद्धात करते हैं, तो दंडाकार प्रदेशोका वाहुल्य मूलशरीरके वाहुल्यसे तिगुना रहता है । दंडसमुद्धातमें पूर्व या उत्तर दिशाकी ओर मुख करनेकी अपेक्षा कोई अन्तर नहीं पड़ता है । हाँ, आगेके समुद्धातमें अवश्य भेद होता है, सो वह आगे बताया जायगा । इस दंड-समुद्धातमें अघातिया कर्मोंकी जो पर्योपमके असंख्यातवें भाग स्थिति थी, उसके बहुभागोका घात करता है । तथा चारहवें गुणस्थानके अन्तमें घात करनेसे जो अनुभाग वचा था, उसमेसे अप्रशस्त अनुभागके भी बहुभागका घात करता है । इस प्रकार इतने कार्य दंडसमुद्धातमें होते हैं । इस समुद्धातमें औदारिककाययोग ही होता है ।

चूर्णिसू०—तदनन्तर द्वितीय समयमें कपाटसमुद्धात करते हैं । उसमें अघातिया कर्मोंकी शेष स्थितिके भी असंख्यात बहुभागोका घात करते हैं और अवशिष्ट अनुभागसम्बन्धी अप्रशस्त अनुभागके अनन्त बहुभागोका घात करते हैं ॥६-८॥

विशेषार्थ—जिस प्रकार कपाट (किवाड़) वाहुल्यकी अपेक्षा अल्प परिमाण ही रहता है, परन्तु विष्कम्भ और आयामकी अपेक्षा विस्तृत होता है, इसी प्रकार कपाटसमुद्धातमें केवली जिनके आत्मप्रदेश वातवलयसे कम चौदह राजु लम्बे और सात राजु चौड़े हो जाते हैं । वाहुल्य खज्जासन केवलीके मूल शरीरप्रमाण और पद्मासनके उससे तिगुना जानना चाहिए । इस समुद्धातमें पूर्व या उत्तरदिशाकी ओर मुख करनेसे विस्तारमें अन्तर पड़ जाता है । अर्थात् जिनका मुख पूर्वकी ओर होता है, उनका विस्तार उत्तर और दक्षिण दिशामें सात राजु रहता है । किन्तु जिनका मुख समुद्धात करते समय उत्तर दिशाकी ओर रहता है, उनका विस्तार पूर्व और पश्चिम दिशामें लोकके विस्तारके समान हीनाधिक रहता है । इस समुद्धातमें केवली भगवान्के औदारिकमिश्रकाययोग होता है ।

९. तदो तदियसप्रये मंथं करेदि । १०. द्विदि-अणुभागे तहेव णिज्जरयदि । १९. तदो चउत्थसप्रये लोमं पूरेदि । १२. लोमे पुण्णे एक्का वर्गणा जोगस्स त्ति समजोगो त्ति णायव्वो । १३. लोमे पुण्णे अंतोमुहुत्तं द्विदिं ठवेदि । १४. संखेज्जगुणमाउआदो ।

चूर्णिसू०—तत्पश्चात् तृतीय समयमें मन्थसमुद्धात करते हैं । इसमें अघातिया कर्मोंकी स्थिति और अनुभागकी कपाटसमुद्धातके समान ही निर्जरा करते हैं ॥९-१०॥

विशेषार्थ—जिस अवस्था-विशेषके द्वारा अघातिया कर्मोंकी स्थिति और अनुभागका मन्थन किया जाय, उसे मन्थसमुद्धात कहते हैं । इसे प्रतरसमुद्धात और रुजकसमुद्धात भी कहते हैं । इस समुद्धातमें आत्मप्रदेश प्रतराकारसे चारों ही ओर फैल जाते हैं अर्थात् वातवलय-रुद्ध क्षेत्रको छोड़कर समस्त लोकमें विस्तृत हो जाते हैं । इस समुद्धातमें पूर्व या उत्तर मुख होनेकी अपेक्षा कोई भेद नहीं पड़ता है । इस अवस्थामें सयोगी जिन कर्मणकाय-योगी और अनाहारी हो जाते हैं, अर्थात् मूल शरीरके अवष्टम्भके निमित्तसे आत्मप्रदेशोंके परिस्पन्दका अभाव हो जाता है और औदारिकशरीरकी स्थितिके योग्य नोकर्म-पुद्गलपिडका भी ग्रहण नहीं होता है ।

चूर्णिसू०—तदनन्तर चतुर्थ समयमें लोकको पूरित करते हैं । लोकके आत्म-प्रदेशोंसे पूरित करनेपर योगकी एक वर्गणा हो जाती है । इस अवस्थाको ही 'समयोग' जानना चाहिए ॥११-१२॥

विशेषार्थ—चौथे समयमें केवली भगवान्के आत्मप्रदेश वातवलयरुद्ध क्षेत्रमें भी व्याप्त हो जाते हैं, अतएव इसे लोकपूरणसमुद्धात कहते हैं । इस समुद्धातकी अपेक्षा ही जीवके प्रदेशोंका परिमाण लोकाकाशके प्रदेशोंके समान कहा गया है । इस अवस्थामें जीवके नाभिके नीचेके आठ मध्यम प्रदेश सुमेरुके मूलगत आठ मध्यम प्रदेशोंके साथ एकत्र होकर अवस्थित रहते हैं । इसी अवस्थामें केवली भगवान् सर्वगत या सर्वव्यापी कहे जाते हैं । इस समुद्धातमें भी कर्मणकाययोग होता है और अनाहारक दशा रहती है । इस अवस्थामें वर्तमान केवलीके समस्त जीवप्रदेश योगसम्बन्धी अविभाग-प्रतिच्छेदोंकी वृद्धि-हान्तिसे रहित होकर सत्श हो जाते हैं, अतएव सर्व जीव-प्रदेशोंके परस्परमें सत्श योग हो जानेसे उन्हें 'समयोग' कहा जाता है और इसी कारण उनकी एक वर्गणा कही जाती है । यह समयोगपरिणाम सूक्ष्मनिगोदिया जीवकी जघन्य वर्गणासे असंख्यातगुणित तत्प्रायोग्य मध्यमवर्गणा-स्वरूप जानना चाहिए ।

चूर्णिसू०—लोकके पूर्ण होनेपर अर्थात् लोकपूरण-समुद्धात करनेपर अघातिया कर्मोंकी अन्तर्मुहूर्तप्रमाण स्थितिको स्थापित करता है । यह अन्तर्मुहूर्तप्रमित स्थिति आयुर्कर्मकी स्थितिसे संख्यातगुणी है ॥१३-१४॥

विशेषार्थ—लोकपूरणसमुद्धातके करनेपर यद्यपि अघातिया कर्मोंकी स्थिति अन्तर्मु-

१५. एदेसु चदुसु समएसु अप्पसत्थकम्मसाणमणुभागस्स अणुसमयओवट्टणा ।
 १६. एगसमइओ द्विदिखंडयस्स घादो । १७. एत्तो सेसिगाए द्विदीए संखेज्जे भागे
 हणइ । १८. सेसस्स च अणुभागस्स अणंते भागे हणइ । १९. एत्तो पाए द्विदिखंडयस्स
 अणुभागखंडयस्स च अंतोमुहुत्तिया उक्कीरणद्धा ।

हूर्त प्रमाण हो जाती है, पर वह सयोगी जिनके आयुकर्मकी स्थितिसे संख्यातगुणी अधिक होती है, ऐसा चूर्णिकारका मत है, क्योंकि उसके संख्यातगुणित अधिक हुए विना आगे जो योग-निरोध-सस्वन्धी कार्य-विशेष वतलाये गये हैं, उनका होना अशक्य है । पर कुछ आचार्य कहते हैं कि इस विषयमें दो उपदेश पाये जाते हैं—महावाचक आर्यमंक्षुक्षपणके उपदेशानुसार तो लोकपूरणसमुद्धातके होनेपर आयुकर्मके समान ही शेष सब कर्मोंकी स्थिति हो जाती है । किन्तु महावाचक नागहस्तिक्षपणके उपदेशानुसार शेष कर्मोंकी स्थिति अन्त-मुहूर्त-प्रमित होते हुए भी आयुकर्मकी स्थितिसे संख्यातगुणित अधिक होती है । चूर्णिकारने इसी दूसरे मतका अनुसरण किया है ।

चूर्णिसू०—केवलिसमुद्धातके समयमें अप्रशस्त कर्मांशोके अनुभागकी प्रतिसमय अपवर्तना होती है । एक समयवाले स्थितिकांडकका घात होता है, अर्थात् एक-एक स्थितिकांडकका घात करता है । इससे आगे अर्थात् लोकपूरणसमुद्धातके पश्चात् आत्मप्रदेश संकोचनेके प्रथम समयसे लेकर आगेके समयमें शेष रही हुई अन्तर्मुहूर्तप्रमित स्थितिके संख्यात भागोंका घात करता है । तथा शेष रहे अनुभागके अनन्त बहुभाग अनुभागका भी नाश करता है । इस स्थलपर स्थितिकांडक और अनुभागकांडकका उत्कीरणकाल अन्तर्मुहूर्त-प्रमाण है ॥१५-१९॥

विशेषार्थ—ऊपर चार समयमें क्रमशः दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण अवस्थाका वर्णन किया जा चुका है । पाँचवें समयमें सयोगीजिन आत्मप्रदेशोंका संकोच करते हुए प्रतर-अवस्थाको प्राप्त होते हैं । इस समयमें समयोगपना नष्ट हो जाता है और सभी पूर्व-स्पर्धक उधड़ आते हैं । छठे समयमें प्रदेशोका और भी संकोच होकर कपाट-दशा प्रगट होती है । तीसरे, चौथे और पाँचवें समयमें कर्मणकाययोग रहता है । परन्तु छठे समयमें औदारिकमिश्रकाययोग हो जाता है । सातवें समयमें कपाटरूप अवस्थाका भी संकोच होकर दंडसमुद्धातरूप अवस्था होती है । इसमें औदारिककाययोग प्रगट हो जाता है । तदनन्तर समयमें दंड-अवस्थाका संकोच हो जाता है और केवली भगवान् स्वस्थानभावसे अवस्थित हो जाते हैं । कितने ही आचार्य इस अन्तिम समयको नहीं गिनकर समुद्धात-संकोचके तीन ही समय कहते हैं और कितने ही आचार्य उसे गिनकर चार समय ही लोकपूरणसमुद्धातके संकोचके मानते हैं । उनके अभिप्रायसे जिस समयमें अवस्थित होकर दंडका उपसंहार करते हैं वह समय भी समुद्धात-दशाके ही अन्तर्गत है । समुद्धात-संकोचके इन चार समयोंमें प्रति-समय कर्मोंकी स्थितिका घात होता है और अप्रशस्त अनुभागका भी घात होता है । किन्तु

२०. एत्तो अंतोमुहुत्तं गंतूण वादरकायजोगेण वादरमणजोगं गिरुंभइ । २१. तदो अंतोमुहुत्तेण वादरकायजोगेण वादरवचिजोगं गिरुंभइ । २२. तदो अंतोमुहुत्तेण वादरकायजोगेण वादर-उस्सास-णिस्सासं गिरुंभइ । २३. तदो अंतोमुहुत्तेण वादरकाय-जोगेण तमेव वादरकायजोगं गिरुंभइ । २४. तदो अंतोमुहुत्तं गंतूण सुहुमकायजोगेण सुहुममणजोगं गिरुंभइ । २५. तदो अंतोमुहुत्तेण सुहुमकायजोगेण सुहुमवचिजोगं गिरुंभइ । २६. तदो अंतोमुहुत्तेण सुहुमकायजोगेण सुहुमउस्सासं गिरुंभइ ।

२७. तदो अंतोमुहुत्तं गंतूण सुहुमकायजोगेण सुहुमकायजोगं गिरुंभमाणो इमाणि करणाणि करेदि । २८. पहमसमये अपुव्वफ्फदयाणि करेदि पुव्वफ्फदयाणं हेट्ठदो । २९. आदिवग्गणाए अविभागपडिच्छेदाणमसंखेज्जदि भागमोक्कड्ढदि । ३०. जीवपदेसाणं च असंखेज्जदि भागमोक्कड्ढदि । ३१. एवमंतोमुहुत्तमपुव्वफ्फदयाणि करेदि । ३२. असंखेज्जगुणहीणाए सेहीए जीवपदेसाणं च असंखेज्जगुणाए सेहीए । ३३. अपुव्व-

समुद्घात-क्रियाके समाप्त हो जानेपर प्रतिसमय स्थिति और अनुभागका घात नहीं होता, केवल अन्तर्मुहूर्तकाल तक स्थितिकांडक और अनुभागकांडकका उत्कीरणकाल प्रवर्तमान रहता है । केवलीके स्वस्थान-समवस्थित हो जानेपर वे अन्तर्मुहूर्त तक योग-निरोधकी तैयारी करते हैं । इस समय अनेक स्थितिकांडक-घात और अनुभागकांडक-घात व्यतीत होते हैं । योग-निरोधमे क्या-क्या कार्य किस क्रमसे होते हैं, यह चूर्णिकार आगे स्वयं बतायेगे ।

चूर्णिसू०—इससे अन्तर्मुहूर्त आगे जाकर अर्थात् समुद्घातदशाके उपसंहारके अन्तर्मुहूर्त पश्चात् वे सयोगिजिन वादरकाययोगके द्वारा वादरमनोयोगका निरोध करते हैं । तत्पश्चात् एक अन्तर्मुहूर्तके द्वारा वादरकाययोगसे वादरवचनयोगका निरोध करते हैं । पुनः एक अन्तर्मुहूर्तके द्वारा वादरकाययोगसे वादर उच्छ्वास-निःश्वासका निरोध करते हैं । पुनः एक अन्तर्मुहूर्तके द्वारा वादरकाययोगसे उसी वादरकाययोगका निरोध करते हैं । पुनः एक अन्तर्मुहूर्तके पश्चात् सूक्ष्मकाययोगसे सूक्ष्ममनोयोगका निरोध करते हैं । पुनः एक अन्तर्मुहूर्तके द्वारा सूक्ष्मवचनयोगका निरोध करते हैं । पुनः एक अन्तर्मुहूर्तके द्वारा सूक्ष्मकाययोगसे सूक्ष्म उच्छ्वास-निःश्वासका निरोध करते हैं ॥ २०-२६ ॥

चूर्णिसू०—पुनः एक अन्तर्मुहूर्त आगे जाकर सूक्ष्मकाययोगसे सूक्ष्मकाययोगका निरोध करते हुए इन करणोको करते हैं—प्रथम समयमे पूर्वस्पर्धकोके नीचे अपूर्वस्पर्धकोको करते हैं । पूर्वस्पर्धकोसे जीवप्रदेशोका अपकर्षण करके अपूर्वस्पर्धकोको करते हुए पूर्वस्पर्धकोकी प्रथम वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेदोके असंख्यातवे भागका अपकर्षण करते हैं । जीवप्रदेशोके भी असंख्यातवे भागका अपकर्षण करते हैं । इस प्रकार अन्तर्मुहूर्तकाल तक अपूर्वस्पर्धकोकी रचना करते हैं । इन अपूर्वस्पर्धकोको प्रतिसमय असंख्यातगुणित हीन श्रेणीके क्रमसे निर्वृत्त करते हैं । किन्तु जीव-प्रदेशोका अपकर्षण असंख्यातगुणित वृद्धि रूप श्रेणीके क्रमसे करते हैं । ये सब अपूर्वस्पर्धक जगच्छ्रेणीके असंख्यातवे भाग हैं ।

फद्दयाणि सेढीए असंखेज्जदिभागो । ३४. सेढिवग्गमूलस्स वि असंखेज्जदिभागो ।
३५. पुव्वफद्दयाणं पि असंखेज्जदिभागो सव्वाणि अपुव्वफद्दयाणि ।

३६. एत्तो अंतोमुहुत्तं किट्ठीओ करेदि । ३७. अपुव्वफद्दयाणमादिवग्गणाए
अविभागपडिच्छेदाणमसंखेज्जदिभागभोकड्ढदि । ३८. जीवपदेसाणमसंखेज्जदिभाग-
भोकड्ढदि । ३९. एत्थ अंतोमुहुत्तं करेदि किट्ठीओ असंखेज्जगु[णही]णाए सेढीए ।
४०. जीवपदेसाणमसंखेज्जगुणाए सेढीए । ४१. किट्ठीगुणमारो पलिदोव्वनस्स असंखे-
ज्जदिभागो । ४२. किट्ठीओ सेढीए असंखेज्जदिभागो । ४३. अपुव्वफद्दयाणं पि
असंखेज्जदिभागो । ४४. किट्ठीकणद्वे णिट्ठिदे से काले पुव्वफद्दयाणि अपुव्वफद्दयाणि
च णासेदि । ४५ अंतोमुहुत्तं किट्ठीगदजोगो होदि ।

४६. सुहमक्किरिय[म]पडिवादिज्ञाणं ज्ञायदि । ४७. किट्ठीणं चरिमसमये अरां-
खेज्जे भागे णासेदि । ४८. जोगमिह णिरुद्धमिह आउअसमाणि कम्प्राणि होंति । ४९.
तदो अंतोमुहुत्तं सेलेसिं य पडिवज्जदि ।

जगच्छ्रेणीके वर्गमूलके भी असंख्यातवे भाग है और पूर्वस्पर्धकोके भी असंख्यातवे भाग
हैं ॥२७-३५॥

चूर्णिसू०—इससे आगे अर्थात् अपूर्वस्पर्धकोकी रचना करनेके पश्चात् अन्तर्मुहूर्त
तक कृष्टियोंको करते है । अपूर्वस्पर्धकोकी आदिवर्गणासम्बन्धी अविभाग-प्रतिच्छेदोके असं-
ख्यातवें भागका अपकर्षण करते है । तथा जीवप्रदेशोके असंख्यातवे भागका अपकर्षण करते
हैं । यहाँ पर अन्तर्मुहूर्त तक असंख्यातगुणित हीन श्रेणीके द्वारा कृष्टियोंको करते है ।
जीवप्रदेशोका अपकर्षण असंख्यातगुणित श्रेणीसे करते हैं । यहाँ पर कृष्टियोंका गुणकार
पल्योपमका असंख्यातवाँ भाग है । ये कृष्टियाँ जगच्छ्रेणीके असंख्यातवे भाग है और
अपूर्वस्पर्धकोके भी असंख्यातवें भाग है । कृष्टिकरणके निष्पन्न होने पर उसके अनन्तर
समयमे पूर्व-स्पर्धको और अपूर्व-स्पर्धकोका नाश करते है । उस समय सयोगिकेवली जिन
अन्तर्मुहूर्त काल तक कृष्टिगतयोगवाले होते है ॥३६-४५॥

चूर्णिसू०—उसी समय सयोगिकेवली जिन सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति नामक तृतीय शुद्ध-
ध्यानको ध्याते है और तेरहवे गुणस्थानके अन्तिम समयमे कृष्टियोंके असंख्यात बहुभागका
नाश करते है । इस प्रकार योगका निरोध हो जानेपर आयुकी स्थितिके समान स्थितिवाले
तीनो अवातिया कर्म हो जाते है । तत्पश्चात् वे भगवान् अयोगिकेवली बनकर अन्तर्मुहूर्त-
काल तक शैलेश्य अवस्थाको प्राप्त होते है ॥४६-४९॥

विशेषार्थ—योगनिरोध करनेके अनन्तर वे सयोगिकेवली भगवान् शैलेशी अवस्थाको

१ कि पुनरिदं शैलेश्य नाम ? शीलानामीशः शैलेशः, तस्य भावः शैलेश्य, सकलगुणशीलानामेका-
विपत्यप्रतिलम्भनमित्यर्थः । शैलेशः सर्वसवरूपचरणप्रमुस्तस्येयमवस्था । शैलेशो वा मेरुस्तस्येव याऽवस्था
स्थिरतासाधर्म्यात् सा शैलेशी । सा च सर्वथा योगनिरोधे पचहस्वाशरोचारकालमाना । व्याख्याप्रवृत्तिः
१,८,७२ अभयदेवीया वृत्तिः ।

५०. समुच्छिण्णकिरियमणियट्टिसुकज्झाणं शायदि । ५१. सेलेसिं अद्वाए
झीणाए सव्वकम्मविप्पमुक्को एगसमएण सिद्धिं गच्छइ' । ५२. खवणदंडओ समत्तो ।

पच्छिमक्खंधो अत्थाहियारो समत्तो ।

प्राप्त होते हैं, अर्थात् चौदहवें अयोगिकेवली गुणस्थानमें प्रवेश करते हैं । उस समय उनके अठारह हजार शीलके भेद और चौरासी लाख उत्तर गुण परिपूर्णताको प्राप्त हो जाते हैं । यद्यपि उक्त शील और उत्तर गुणोंकी पूर्णता सयोगिजिनके भी मानी जाती है, पर योगके सान्निध्यसे वहाँ पूर्ण संवर नहीं है, अतः परमोपेक्षालक्षण यथाख्यात-विहारशुद्धि संयमकी चरम सीमा योगनिरोध होनेपर ही संभव है । 'सेलेसि' इस प्राकृतपदका 'शैलेशी' ऐसा संस्कृतरूप मानकर कुछ आचार्य इसका यह भी अर्थ करते हैं कि शैल अर्थात् पर्वतोंका ईश सुमेरु जैसे सर्वदा अचल, अकंप रहता है, उसी प्रकार योगका अभाव हो जानेसे अयोगि-जिनकी अवस्था एकदम शान्त, स्थिर और अकंप हो जाती है । इस शैलेशी अवस्थाका काल पंच ह्रस्व अक्षरोंके उच्चारणकाल-प्रमाण है ।

चूर्णिसू०—उस समय शैलेश्य अवस्थाको प्राप्त अयोगिकेवली जिन समुच्छिन्नक्रिया-निवृत्ति नामक चतुर्थं शुक्लध्यानको ध्याते है । शैलेश्यकालके क्षीण हो जाने पर सर्व कर्मोंसे विप्रमुक्त होकर एक समयमें सिद्धिको प्राप्त हो जाते हैं ॥५०-५१॥

चूर्णिसू०—इस प्रकार क्षपणाधिकारके चूलिकास्वरूप इस पश्चिमस्कन्धमें अघातिया कर्मोंके क्षपणका विधान करनेवाला यह क्षपण-दण्डक समाप्त हुआ ॥५२॥

इस प्रकार पश्चिमस्कन्ध नामक अर्थाधिकार समाप्त हुआ

१ अयोगिकेवलिगुणावस्थानकालः शैलेश्यद्धा नाम । सा पुनः पंचह्रस्वाक्षरोच्चारणकालावच्छिन्न-परिमाणेत्यागमविदा निश्चयः । तस्या यथाक्रममधःस्थितिगलनेन क्षीणाया सर्वमलकलकविप्रमुक्तः स्वात्मोप-लब्धिर्लक्षणां सिद्धिं सकलपुरुषार्थसिद्धेः परमकाष्ठानिष्टमेकसमयेनैवोपगच्छति, कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षानन्तरमेव मोक्षपर्यायाविर्भावोपपत्तेः । जयध०

परिशिष्ट

१ कसायपाहुड-सुत्तगाहा

पुव्वम्मि पंचमम्मि दु दसमे वत्थुम्मि पाहुडे तदिए ।
पेज्जं ति पाहुडम्मि दु हवदि कसायाण पाहुडं णाम ॥ १ ॥
गाहासदे असीदे अत्थे पण्णरसधा विहत्तम्मि ।
वोच्छामि सुत्तगाहा जयि गाहा जम्मि अत्थम्मि ॥ २ ॥
पेज्ज-दोराविहत्ती द्विदि अणुभागे च बंधगे चेव ।
तिण्णेदा गाहाओ पंचसु अत्थेसु णादव्वा ॥ ३ ॥
चत्तारि वेदयम्मि दु उवजोगे सत्त होंति गाहाओ ।
सोलय य चउट्ठाणे विर्यंजणे पंच गाहाओ ॥ ४ ॥
दंसणमोहस्सुवसामणाए पण्णारस होति गाहाओ ।
पंचेव सुत्तगाहा दंसणमोहस्स खवणाए ॥ ५ ॥
लद्धी य संजमासंजमस्स लद्धी तहा चरित्तस्स ।
दोसु वि एका गाहा अट्ठेयुवसामणद्धम्मि ॥ ६ ॥
चत्तारि य पट्ठवए गाहा संकामए वि चत्तारि ।
ओवट्ठणाए तिण्णि दु एकारस होंति किट्ठीए ॥ ७ ॥
चत्तारि य खवणाए एका पुण होदि खीणमोहस्स ।
एका संगहणीए अट्ठावीसं समासेण ॥ ८ ॥
किट्ठी क्खवीचारे संगहणी खीणमोहपट्ठवए ।
सत्तेदा गाहाओ अण्णाओ सभासगाहाओ ॥ ९ ॥
संकायण ओवट्ठण किट्ठी खवणाए एकवीसं तु ।
एदाओ सुत्तगाहाओ सुण अण्णा भासगाहाओ ॥ १० ॥
पंच य तिण्णि य दो छक्क चउक्क तिण्णि तिण्णि एका य ।
चत्तारि य तिण्णि उभे पंच य एकं तह य छक्कं ॥ ११ ॥
तिण्णि य चउरो तह दुग चत्तारि य होंति तह चउक्कं च ।
दो पंचेव य एका अण्णा एका य दस दो य ॥ १२ ॥

(१) पेज्ज दोस विहत्ती द्विदि अणुभागे च बंधगे चेय ।

वेदग्ग उवजोगे वि य चउट्ठाण विर्यंजणे चेय ॥ १३ ॥

(२) सम्भत्त देस विरयी संजम उवसामणा च खवणा च ।

दंसण-चरित्त मोहे अट्ठापरिमाणणिदेसो ॥ १४ ॥

आवलिय अणायारे चक्खिदिय-सोद-वाण-जिब्भाए ।
 यण-वयण-काय पासे अवाय-ईहा सुदुस्सासे ॥ १५ ॥
 केवलदंसण-गाणे कसाय सुक्केकए पुधत्ते य ।
 पडिवाहुवसापंतय खवंतए संपराए य ॥ १६ ॥
 माणद्धा क्कोहद्धा मायद्धा तहय चेत्र लोहद्धा ।
 खुद्धभवग्गहणं पुण किट्ठीकरणं च बोद्धव्वा ॥ १७ ॥
 संकामग-ओवट्टण-उवसंत कसाय-खीणमोहद्धा ।
 उवसापंतय-अद्धा खवंत-अद्धा य बोद्धव्वा ॥ १८ ॥
 णिव्वाघादेणेदा होति जहण्णाओ आपुपुव्वीए ।
 एत्तो अणायुपुव्वी उक्करसा होंति भजियव्वा ॥ १९ ॥
 चक्खु सुदं पुधत्तं माणोवाओ तहेव उवसंते ।
 उवसापंतय-अद्धा दुग्गुणा सेसा ह्नु सविरोसा ॥ २० ॥

१-३ पेज्ज-दोस-विहत्ति-अत्थाहियारा

- (३) पेज्जं वा दोसो वा क्कम्म कसायम्मि कस्स व णयस्स ।
 दुट्ठो व कम्मि दव्वे पिपायदे लो कहिं वा वि ॥ २१ ॥
- (४) पयडीए मोहणिज्जा विहत्ती तह ट्ठिदीए अणुभागे ।
 उक्कस्समणुक्कस्सं शीणमशीणं च ठिदियं वा ॥ २२ ॥

४-५ बंध-संकम-अत्थाहियारा

- (५) कदि पयडीओ बंधदि ट्ठिदि-अणुभागे जहण्णमुक्कस्सं ।
 संकामेइ कदिं वा गुणहीणं वा गुणविसिद्धं ॥ २३ ॥
 संकम उवक्कमविही पंचविहो चउव्विहो य णिक्खेणो ।
 णयविहिपयदं पयदे च णिग्गमो होइ अट्ठविहो ॥ २४ ॥
 एक्केक्काए संकमो दुविहो संकमविही य पयडीए ।
 संकमपडिग्गहविही पडिग्गहो उत्तम-जहण्णो ॥ २५ ॥
 पयडि-पयडिहाणेसु संकमो असंकमो तहा दुविहो ।
 दुविहो पडिग्गहविही दुविहो अपडिग्गहविही य ॥ २६ ॥
 अट्ठावीस चउवीस सत्तरस सोलसेव पण्णरसा ।
 एदे खलु मोत्तूणं सेसाणं संकमो होइ ॥ २७ ॥
 सोलसम वारसट्ठम वीसं वीसं तिगादिगधिगा य ।
 एदे खलु मोत्तूणं सेसाणि पडिग्गहा होंति ॥ २८ ॥

छव्वीस सत्तवीसा य संक्रमो णियम चहुसु ड्वाणेसु ।
वावीस पण्णरसगे एक्कारस ऊणवीसाए ॥ २९ ॥
सत्तारसेगवीसासु संक्रमो णियम पंचवीसाए ।
णियमा चहुसु जदीसु य णियमा दिट्ठीगए तिविहे ॥ ३० ॥
वावीस पण्णरसगे सत्तम एक्कारसूणवीसाए ।
तेवीस संक्रमो पुण पंचसु पंचिदिएसु ह्वे ॥ ३१ ॥
चोदसग दसग सत्तम अट्ठारसगे च णियम वावीसा ।
णियमा मणुसगइए विरदे मिस्से अत्रिदे य ॥ ३२ ॥
तेरसय णवय सत्तय सत्तारस पणय एकवीसाए ।
एगाधिगाए वीसाए संक्रमो छणि सम्मत्ते ॥ ३३ ॥
एत्तो अवसेसा संजमग्धि उवसामगे च खवगे च ।
वीसा य संक्रम दुगे छक्के पणगे च वोद्धव्वा ॥ ३४ ॥
पंचसु च उणवीसा अट्ठारस चहुसु होंति वोद्धव्वा ।
चोदस छसु पयडीसु य तेरसय छक्क-पणगरिह ॥ ३५ ॥
पंच चउक्के वारस एक्कारस पंचगे तिग चउक्के ।
दसगं चउक्क-पणगे णवगं च तिगग्धि वोद्धव्वा ॥ ३६ ॥
अट्ठ दुग तिग चहुक्के सत्त चहुक्के तिगे च वोद्धव्वा ।
छक्कं दुगग्धि णियमा पंच तिगे एक्कग दुगे वा ॥ ३७ ॥
चत्तारि तिग चहुक्के तिण्णि तिगे एक्कगे च वोद्धव्वा ।
दो दुसु एगाए वा एगा एगाए वोद्धव्वा ॥ ३८ ॥
अणुपुव्वमणुपुव्वं झीणमझीणं च दंमणे योहे ।
उवसामगे च खवगे च संक्रमे मग्गणोवाया ॥ ३९ ॥
एक्कक्कग्धि य ड्वाणे पडिग्गहे संक्रमे तदुभए च ।
भविया वाऽभविया वा जीवा वा केसु ठाणेसु ॥ ४० ॥
कदि कग्धि होंति ठाणा पंचविहे भावविधिचिसेसग्धि ।
संक्रमपडिग्गहो वा समाणणा वाऽध केवचिरं ॥ ४१ ॥
णिरयगइ-अमर-पंचिदिएसु पंचेव संक्रमड्वाणा ।
सव्वे मणुसगइए सेसेसु तिगं असण्णीसु ॥ ४२ ॥
चदुर दुगं तेवीसा मिच्छत्ते मिस्सगे य सम्मत्ते ।
वावीस पणय छक्कं विरदे मिस्से अत्रिदे य ॥ ४३ ॥
तेवीस सुक्कलेस्से छक्कं पुण तेड पम्मलेस्तासु ।
पणयं पुण काऊए णीलाए किण्हलेस्साए ॥ ४४ ॥

अवगयवेद-णवुंसय-इत्थी-पुरिसेसु चाणुपुव्वीए ।
 अट्टारसयं णवयं एक्कारसयं च तेरसया ॥ ४५ ॥
 कोहादी उवजोगे चदुसु कसाएसु चाणुपुव्वीए ।
 सोलस य ऊणवीसा तेवीसा चेव तेवीसा ॥ ४६ ॥
 णाणाग्ग्हि य तेवीसा तिविहे एक्कग्ग्हि एक्कवीसा य ।
 अण्णाणग्ग्हि य तिविहे पंचेव य संकमट्टाणा ॥ ४७ ॥
 आहारय-भविएसु य तेवीसं होंति संकमट्टाणा ।
 अणाहारएसु पंच य एक्कं ट्टाणं अभविएसु ॥ ४८ ॥
 छुव्वीस सत्तवीसा तेवीसा पंचवीस चार्वीसा ।
 एदे सुण्णट्टाणा अवगदवेदस्स जीवस्स ॥ ४९ ॥
 उगुवीसट्टारसयं चोदस एक्कारसादिया सेसा ।
 एदे सुण्णट्टाणा णवुंसए चोदसा होंति ॥ ५० ॥
 अट्टारस चोदसयं ट्टाणा सेसा य दसगमादीया ।
 एदे सुण्णट्टाणा वारस इत्थीसु बोद्धव्वा ॥ ५१ ॥
 चोदसगणवगमादी हवंति उवसामगे च खवगे च ।
 एदे सुण्णट्टाणा दस वि य पुरिसेसु बोद्धव्वा ॥ ५२ ॥
 णव अट्ट सत्त छक्कं पणग दुगं एक्कयं च बोद्धव्वा ।
 एदे सुण्णट्टाणा पढमकसायोवजुत्तेसु ॥ ५३ ॥
 सत्त य छक्कं पणगं च एक्कयं चेव आणुपुव्वीए ।
 एदे सुण्णट्टाणा विदियकसाओवजुत्तेसु ॥ ५४ ॥
 दिट्ठे सुण्णासुण्णे वेद-कसाएसु चेव ट्टाणेसु ।
 मग्गणगणेषणाए दु संकमो आणुपुव्वीए ॥ ५५ ॥
 कम्मंसियट्टाणेसु य वंधट्टाणेसु संकमट्टाणे ।
 एक्केकेण समाणय वंधेण य संकमट्टाणे ॥ ५६ ॥
 सादि य जहण्ण संकम क्कदिखुत्तो होइ ताव एक्केके ।
 अविरहिद् सांतरं केवचिरं क्कदिभाग परिमाणं ॥ ५७ ॥
 एवं दव्वे खेत्ते काले भावे य सण्णिवादे य ।
 संकमणयं णयविद्दू णेया सुददेसिदमुदारं ॥ ५८ ॥

६ वेदग-अत्थाहियारो

- (६) कदि आवलियं पवेसेइ क्कदि च पविस्संति कस्स आवलियं ।
 खेत्त-भव काल पोग्गल-ट्टिदिविवागोदयखयो दु ॥ ५९ ॥

- (७) को कदमाए द्विदीए पवेसगो को व के य अणुभागे ।
सांतर गिरंतरं वा कदि वा समया दु बोद्धव्वा ॥ ६० ॥
- (८) बहुगदरं बहुगदरं से काले को णु थोवदरगं वा ।
अणुसमयमुदीरेतो कदि वा समयं उदीरेदि ॥ ६१ ॥
- (९) जो जं संकामेदि य जं बंधदि जं च जो उदीरेदि ।
तं केण होइ अहियं द्विदि अणुभागे पदेसग्गे (४) ॥ ६२ ॥

७ उवजोग-अत्थाहियारो

- (१०) केवचिरं उवजोगे कम्मि कसायम्मि को व केणहियो ।
को वा कम्मि कसाए अभिक्खमुवजोगमुवजुत्तो ॥ ६३ ॥
- (११) एकम्मि भवग्गहणे एककसायम्मि कदि च उवजोगा ।
एकम्मि य उवजोगे एककसाए कदि भवा च ॥ ६४ ॥
- (१२) उवजोगवग्गणाओ कम्मि कसायम्मि केत्तिया होंति ।
कदरिस्से च गदीए केवडिया वग्गणा होंति ॥ ६५ ॥
- (१३) एकम्मि य अणुभागे एककसायम्मि एककालेण ।
उवजुत्ता का च गदी विसरिसमुवजुज्जदे का च ॥ ६६ ॥
- (१४) केवडिया उवजुत्ता सरिसीसु च वग्गणा-कसाएसु ।
केवडिया च कसाए के के च विसिस्सदे केण ॥ ६७ ॥
- (१५) जे जे जम्मि कसाए उवजुत्ता किण्णु भूदपुव्वा ते ।
होंहिंति च उवजुत्ता एवं सव्वत्थ बोद्धव्वा ॥ ६८ ॥
- (१६) उवजोगवग्गणाहि च अविरहिदं काहि विरहिदं चावि ।
पढमसमयोवजुत्तेहिं चरिमसमए च बोद्धव्वा (७) ॥ ६९ ॥

८ चउट्ठाण-अत्थाहियारो

- (१७) कोहो चउव्विहो वुत्तो माणो वि चउव्विहो भवे ।
माया चउव्विहा वुत्ता लोहो विय चउव्विहो ॥७०॥
- (१८) णग-गुडवि-वालुगोदयरईसरिसो चउव्विहो कोहो ।
सेलवण-अट्टि-दारुअ-लदासमाणो हवदि माणो ॥७१॥
- (१९) वंसीजण्हुगसरिसी म्ढविसाणसरिसी य गोमुत्ती ।
अवलेहिणीसमाणा माया वि चउव्विहा भणिदा ॥७२॥
- (२०) किमिरागरत्तसमगो अक्खमलसमो य पंसुलेवसमो ।
हालिद्वत्थसमगो लोभो वि चउव्विहो भणिदो ॥७३॥

- (२१) एदेसिं ट्ठाणाणं चदुसु कसाणसु सोलसण्हं पि ।
कं केण होइ अहियं ट्ठिदि-अणुभागे पदेसग्गे ॥७४॥
- (२२) माणे लदासमाणे उक्कस्ता वग्गणा जहण्णादां ।
हीणा च पदेसग्गे गुणेण णियमा अणतिण ॥७५॥
- (२३) णियमा लदासमादां दारुसमाणो अणंतगुणदीणो ।
सेसा कमेण हीणा गुणेण णियमा अणतिण ॥७६॥
- (२४) णियमा लदासमादां अणुभाग्गेण वग्गणग्गेण ।
सेसा कमेण अहिया गुणेण णियमा अणतिण ॥७७॥
- (२५) संधीदो संधी पुण अहिया णियमा च होइ अणुभागे ।
हीणा च पदेसग्गे दां वि च णियमा त्रिसेमेण ॥७८॥
- (२६) सच्चावरणीयं पुण उक्कस्तं होइ दारुअसमाणं ।
हेट्ठा देसावरणं सच्चावरणं च उवरिल्लं ॥७९॥
- (२७) एसो कपो च माणे मायाए णियमत्ता द्दु लोभे वि ।
सव्वं च कोहकम्मं चदुसु ट्ठाणेषु बोद्धव्वं ॥८०॥
- (२८) एदेसिं ट्ठाणाणं कदमं ठाणं गदीए कदमिस्से ।
वद्धं च वज्जमाणं उवरांतं ना उदिण्णं वा ॥८१॥
- (२९) सण्णीसु असण्णीसु य पज्जते वा तहा अपज्जत्ते ।
सम्मत्ते मिच्छत्ते य मिस्सये चेय बोद्धव्वा ॥८२॥
- (३०) विरदीय अवरिदीए विरदाविरदे तहा अणागारे ।
सागारे जोगग्ग्हि य लेस्साए चेव बोद्धव्वा ॥८३॥
- (३१) कं ठाणं वेदंतो कस्स व ट्ठाणस्स वंधगो होइ ।
कं ठाणं वेदंतो अवंधगो कस्स ट्ठाणस्स ॥८४॥
- (३२) असण्णी खलु वंधइ लदासमाणं च दारुयसमग्गं च ।
सण्णी चदुसु विभज्जो एवं सव्वत्थ कायव्वं (१६) ॥८५॥

९ वंजण-अत्थाहियारो

- (३३) कोहो य कोव रोसो य अदखम संजलण-कलह वड्डी य ।
झंझा दोस विवादो दस कोहेयट्ठिया हंति ॥८६॥
- (३४) माण मद दप्प थंभो उक्कास पगास त्थसमुक्कस्सो ।
अत्तुकरिसो परिभव उस्सिद दसलदखणो माणो ॥८७॥
- (३५) माया य सादिजोगे णियदी विय वंचणा अणुज्जुगदा ।
गहणं मणुणमग्गण कक कुहक गूहणच्छण्णो ॥८८॥

- (३६) कामो राग णिदाणो छंदो य सुदो य पेज्ज दोसो य ।
णेहाणुराग आसा इच्छा मुच्छा य गिद्धी य ॥८९॥
- (३७) सासद पत्थण लालस अविरदि तण्हा य विज्ज जिम्भा ।
लोभस्स णामधेज्जा वीसं एगद्धिया भणिदा (५) ॥९०॥

१० सम्भत्त-अत्थाहियारो

- (३८) दंसणमोह-उवसामगस्स परिणामो केरिसो भवे ।
जोगे कसाय उवजोगे लेस्सा वेदो य को भवे ॥९१॥
- (३९) काणि वा पुव्ववद्दाणि के वा अंसे णिवंधदि ।
कदि आवलियं पविसंति कदिण्हं वा पवेसगो ॥९२॥
- (४०) के अंसे झीयदे पुव्वं वंधेण उदएण वा ।
अंतरं वा कहिं किच्चा के के उवसामगो कहिं ॥९३॥
- (४१) किद्धिदियाणि कम्मणि अणुभागेषु केसु वा ।
ओवट्टेदूण सेसाणि कं ठाणं पडिवज्जदि ॥९४॥
- (४२) दंसणमोहस्सुवसामगो दु चदुसु वि गदीसु वोद्धव्वो ।
पंचिदिओ य सण्णी णियमा सो होइ पज्जत्तो ॥९५॥
- (४३) सच्चणिरय-भवणेषु दीव-समुदे गुह-जोदिसि-विमाणे ।
अभिजोग्ग-अणभिजोग्गे उवसामो होइ वोद्धव्वो ॥९६॥
- (४४) उवसामगो च सच्चो णिव्वाघादो तहा णिरासाणो ।
उवसंते भजियव्वो णीरासाणो य खीणम्मि ॥९७॥
- (४५) सागारे पडुव्वगो णिडुव्वगो मड्डिम्मो य भजियव्वो ।
जोगे अण्णदरम्मिह य जहण्णगो तेउलेस्साए ॥९८॥
- (४६) मिच्छत्तवेदणीयं कम्मं उवसामगस्स वोद्धव्वं ।
उवसंते आसाणे तेण परं होइ भजियव्वो ॥९९॥
- (४७) सच्चेहिं द्विदिविसेसेहिं उवसंता होंति तिण्णिण कम्मंसा ।
एक्कम्मिह य अणुभागे णियमा सच्चे द्विदिविसेसा ॥१००॥
- (४८) मिच्छत्तपच्चयो खलु वंधो उवसामगस्स वोद्धव्वो ।
उवसंते आसाणे तेण परं होइ भजियव्वो ॥१०१॥
- (४९) सम्मामिच्छाइद्धी दंसणमोहस्सअंधगो होइ ।
वेदयसम्माइद्धी खीणो वि अंधगो होइ ॥१०२॥
- (५०) अंतोमुहुत्तमद्धं सच्चोवसमेण होइ उवसंतो ।
तत्तो परमुदयो खलु तिण्णेकदरस्स कम्मस्स ॥१०३॥

- (५१) सम्मत्तपढमलंभो सव्वोनसमेण तह वियट्ठेण ।
भजियच्चो य अभिक्खं सव्वोवसमेण देसेण ॥१०४॥
- (५२) सम्मत्तपढमलंभस्सऽणंतरं पच्छदो य मिच्छत्तं ।
लंभस्स अपढमस्स दु भजियच्चो पच्छदो होदि ॥१०५॥
- (५३) कम्माणि जस्स तिण्णिण दु णियमा सो संक्रमेण भजियच्चो ।
एयं जस्स दु कम्मं संक्रमणे सो ण भजियच्चो ॥१०६॥
- (५४) सम्माइट्ठी सदहदि पवयणं णियमसा दु उवइट्ठं ।
सदहदि असव्भावं अजाणमाणो गुरुणिओगा ॥१०७॥
- (५५) मिच्छाइट्ठी णियमा उवइट्ठं पवयणं ण सदहदि ।
सदहदि असव्भावं उवइट्ठं वा अणुवइट्ठं ॥१०८॥
- (५६) सम्मामिच्छाइट्ठी सागारो वा तहा अणागारो ।
अथ वंजणोग्गहम्मि दु सागारो होइ वोद्धव्वो (१५) ॥१०९॥

११ दंसणमोहवखवणा-अत्थाहियारो

- (५७) दंसणमोहवखवणापट्टवगो कम्मभूमिजादो दु ।
णियमा मणुसगदीए णिट्टवगो चावि सव्वत्थ ॥११०॥
- (५८) मिच्छत्तवेदणीए कम्मे ओवट्ठिदम्मि सम्मत्ते ।
खवणाए पट्टवगो जहण्णगो तेउलेस्साए ॥१११॥
- (५९) अंतोमुहुत्तमद्धं दंसणमोहस्स णियमसा खवगो ।
खीणे देव-मणुस्से सिया वि णामाउगो वंधो ॥११२॥
- (६०) खवणाए पट्टवगो जम्मि भवे णियमसा तदो अण्णो ।
णाधिच्छदि तिण्णिण भवे दंसणमोहम्मि खीणम्मि ॥११३॥
- (६१) संखेज्जा च मणुस्सेसु खीणमोहा सहस्ससो णियमा ।
सेसासु खीणमोहा गदीसु णियमा असंखेज्जा (५) ॥११४॥

१२-१३ संजमासंजमलद्धि-संजमलद्धि-अत्थाहियारो

- (६२) लद्धी य संजमासंजमस्स लद्धी तहा चरित्तस्स ।
वड्ढावड्ढी उवसामणा य तह पुव्ववट्ठाणं ॥११५॥

१४ चरित्तमोहोवसामणा-अत्थाहियारो

- (६३) उवसामणा कदिविधा उवसामो कस्स कस्स कम्मस्स ।
कं कम्मं उवसंतं अणउवसंतं च कं कम्मं ॥११६॥

- (६४) कदिभागुवसाभिज्जदि संक्रमणमुदीरणा च कदिभागो ।
कदिभागं वा वंधदि द्विदि-अणुभागे पदेसग्गे ॥११७॥
- (६५) केच्चिरमुवसाभिज्जदि संक्रमणमुदीरणा च केच्चिरं ।
केच्चिरं उवसंतं अणउवसंतं च केच्चिरं ॥११८॥
- (६६) कं करणं वोच्छिउज्जदि अव्वोच्छिण्णं च होइ कं करणं ।
कं करणं उवसंतं अणउवसंतं च कं करणं ॥११९॥
- (६७) पडिवादो च कदिविधो कम्मिह कसायम्मिह होइ पडिवदिदो ।
केसिं कम्मंसाणं पडिवदिदो वंधगो होइ ॥१२०॥
- (६८) दुविहो खलु पडिवादो भवक्खयादुवसमक्खयादो दु ।
सुहुमे च संपराए वादररागे च बोद्धव्वा ॥१२१॥
- (६९) उवसायणाखएण दु पडिवदिदो होइ सुहुमरागम्मिह ।
वादररागे णियमा भवक्खया होइ परिवदिदो ॥१२२॥
- (७०) उवसामणाक्खएण दु अंसे वंधदि जहाणुपुव्वीए ।
एमेव य वेदयदे जहाणुपुव्वीय कम्मंसे (८) ॥१२३॥

१५ चरित्तमोहक्खवणा-अत्थाहियारो

१ झूलगाहा-

- (७१) संकामयपट्टवगस्स किंठ्ठिदियाणि पुव्ववद्धाणि ।
केसु व अणुभागेषु य संकंतं वा असंकंतं ॥१२४॥

भासगाहा-

- (७२) १. संकामयपट्टवगस्स मोहणीयस्स दो पुण ठ्ठिदीओ ।
किंचूणियं मुहुत्तं णियमा से अंतरं होइ ॥१२५॥
- (७३) २. झीणठ्ठिदिकम्मंसे जे वेदयदे दु दोसु वि ठ्ठिदीसु ।
जे चावि ण वेदयदे विदियाए ते दु बोद्धव्वा ॥१२६॥
- (७४) ३. संकामयपट्टवगस्स पुव्ववद्धाणि मच्चिहमठ्ठिदीसु ।
साद-सुहणाम-गोदा तथाणुभागेषुदुक्कस्सा ॥१२७॥
- (७५) ४. अथ थोणगिठ्ठिकम्मं णिहाणिहा य पयलपयला य ।
तह णिरय-तिरियणाभा झीणा संछोहणादीसु ॥१२८॥
- (७६) ५. संकंतम्मिह य णियमा णामा-गोदाणि वेयणीयं च ।
वस्सेसु असंखेज्जेसु सेसगा होंति संखेज्जे ॥१२९॥

२ मूलगाहा-

- (७७) संक्रामग-पट्टवगो के बंधदि के व वेदयदि अंसे ।
संक्रामेदि व के के केसु असंक्रामगो होइ ॥१३०॥

भास्वगाहा-

- (७८) १. वस्ससदसहस्साइं द्विदिसंखाए दु मोहणीयं तु ।
बंधदि च सदसहस्सेसु असंखेज्जेसु सेसाणि ॥१३१॥
- (७९) २. भयसोगमरदिरदिगं हस्स दुगुंछा णवुंसगित्थी अ ।
असादं णीचागोदं अजसं सारीरगं णाम ॥१३२॥
- (८०) ३. सव्वावरणीयाणं जेसिं ओवट्टणा दु णिदाए ।
पयलायुगस्स अ तथा अवंधगो बंधगो सेसे ॥१३३॥
- (८१) १. णिदा च णीचगोदं पचला णियमा अगि त्ति णामं च ।
छचेय णोकसाया अंसेसु अवेदगो होदि ॥१३४॥
- (८२) २. वेदे च वेदणीए सव्वावरणे तथा कसाए च ।
भयणिज्जो वेदंतो अभज्जगो सेसगो होदि ॥१३५॥
- (८३) १. सव्वस्स मोहणीयस्स आणुपुव्वीय संक्रमो होदि ।
लोभकसाये णियमा असंक्रमो होइ णायव्वो ॥१३६॥
- (८४) २. संक्रामगो च कोथं माणं मायं तहेव लोभं च ।
सव्वं जहाणुपुव्वी वेदादी संछुहदि कम्मं ॥१३७॥
- (८५) ३. संछुहदि पुरिसवेदे इत्थीवेदं णवुंसयं चव ।
सत्तेव णोकसाए णियमा क्रोहम्मिह संछुहदि ॥१३८॥
- (८६) ४. कोहं च छुहइ माणे माणं मायाए णियमसा छुहइ ।
मायं च छुहह लोहे पडिलोमो संक्रमो णत्थि ॥१३९॥
- (८७) ५. जो जम्मिह संछुहंतो णियमा बंधसरिसम्मिह संछुहइ ।
बंधेण हीणदरगे अहिए वा संक्रमो णत्थि ॥१४०॥
- (८८) ६. संक्रामगपट्टवगो माणकसायस्स वेदगो कोथं ।
संछुहदि अवेदंतो माणकसाये क्रमो सेसे ॥१४१॥

३ मूलगाहा-

- (८९) बंधो व संक्रमो वा उदयो वा तह पदेस-अणुभागे ।
अधिगो समो व हीणो गुणेण किं वा विसेसेण ॥१४२॥

भासगाहा-

- (९०) १. बंधेण होइ उदओ अहिओ उदएण संकमो अहिओ ।
गुणसेहि अणंतगुणा बोद्धव्वा होइ अणुभागे ॥१४३॥
- (९१) २. बंधेण होइ उदओ अहिओ उदएण संकमो अहिओ ।
गुणसेहि असंखेज्जा च पदेसग्गेण बोद्धव्वा ॥१४४॥
- (९२) ३. उदओ च अणंतगुणो संपहि-बंधेण होइ अणुभागे ।
से काले उदयादो संपहिवंधो अणंतगुणो ॥१४५॥
- (९३) ४. गुणसेहिअणंतगुणेणूणाए वेदगो दु अणुभागे ।
गणणादियंत सेही पदेस-अग्गेण बोद्धव्वा ॥१४६॥

४ मूलगाहा-

- (९४) बंधो व संकमो वा उदओ वा किं सगे सगे ट्वाणे ।
से काले से काले अधिओ हीणो समो वा पि ॥१४७॥

भासगाहा-

- (९५) १. बंधोदएहिं णियमा अणुभागे होदि णंतगुणहीणो ।
से काले से काले भज्जो पुण संकमो होदि ॥१४८॥
- (९६) २. गुणसेहि असंखेज्जा च पदेसग्गेण संकमो उदओ ।
से काले से काले भज्जो बंधो पदेसग्गे ॥१४९॥
- (९७) ३. गुणदो अणंतगुणहीणं वेदयदि णियमसा दु अणुभागे ।
अहिया च पदेसग्गे गुणेण गणणादियंतेण ॥१५०॥

५ मूलगाहा-

- (९८) किं अंतरं करंतो वड्ढुदि हायदि ट्ठिदी य अणुभागे ।
णिरुवकमा च वड्ढी हाणी वा केचिरं कालं ॥१५१॥

भासगाहा-

- (९९) १. ओवट्टणा जहण्णा आवलिया ऊणिया तिभागेण ।
एसा ट्ठिदीसु जहण्णा तहाणुभागे सणंतेसु ॥१५२॥
- (१००) २. संकामेदुक्कडुदि जे अंसे ते अवट्ठिदा होति ।
आवलियं से काले तेण परं होंति भजिदव्वा ॥१५३॥
- (१०१) ३. ओक्कडुदि जे अंसे से काले ते च होंति भजियव्वा ।
वड्ढीए अवट्टाणे हाणीए संकमे उदए ॥१५४॥

६ सूलगाहा-

- (१०२) एकं च द्विदिविसेसं तु द्विदिविसेसेसु कदिसु वड्ढेदि ।
हरसेदि कदिसु एगं तहाणुभागेसु वोद्धव्वं ॥१५५॥

आसगाहा-

- (१०३) १. एकं च द्विदिविसेसं तु असंखेज्जेसु द्विदिविसेसेसु ।
वड्ढेदि हरस्सेदि च तहाणुभागे अणंतेसु ॥१५६॥

७ सूलगाहा-

- (१०४) द्विदि-अणुभागे अंसे के के वड्ढेदि के व हरस्सेदि ।
केसु अवड्ढाणं वा गुणेण किं वा विसेसेण ॥१५७॥

आसगाहा-

- (१०५) १. ओवड्ढेदि द्विदि पुण अधिगं हीणं च बंधसमं वा ।
उकड्ढेदि बंधसमं हीणं अधिगं ण वड्ढेदि ॥१५८॥
- (१०६) २. सव्वे वि य अणुभागे ओकड्ढेदि जे ण आवलियपविड्ढे ।
उकड्ढेदि बंधसमं णिरुवक्कम होदि आवलिया ॥१५९॥
- (१०७) ३. वड्ढीदु होदि हाणी अधिगा हाणीदु तह अवड्ढाणं ।
गुणसेहि असंखेज्जा च पदेसग्गेण वोद्धव्वा ॥१६०॥
- (१०८) ४. ओवड्ढणमुव्वड्ढण किड्ढीवज्जेसु होदि कम्मसेसु ।
ओवड्ढणा च णियमा किड्ढीकरणमिह वोद्धव्वा ॥१६१॥

१ सूलगाहा-

- (१०९) केवदिया किड्ढीओ कम्मिह कसायमिह कदि च किड्ढीओ ।
किड्ढीए किं करणं लक्खणमध किं च किड्ढीए ॥१६२॥

आसगाहा-

- (११०) १. वारस णव छ तिण्णि य किड्ढीओ होंसि अध व अणंताओ ।
एकेकम्मिह कसाये तिग तिग अधवा अणंताओ ॥१६३॥
- (१११) २. किड्ढी करेदि णियमा ओवड्ढंतो ठिदी य अणुभागे ।
वड्ढंतो किड्ढीए अकारगो होदि वोद्धव्वो ॥१६४॥
- (११२) ३. गुणसेहि अणंतगुणा लोभादी कोध पच्छिमपदादो ।
कम्मस्स य अणुभागे किड्ढीए लक्खणं एदं ॥१६५॥

२ मूलगाहा-

(११३) कदियु च अणुभागेसु च द्विदीसु वा केत्तियासु का किट्ठी ।
सव्वासु वा द्विदीसु च आहो सव्वासु पत्तेयं ॥१६६॥

भासगाहा-

(११४) १. किट्ठी च द्विदिविसेसेसु असंखेज्जेसु णियमसा होदि ।
णियमा अणुभागेसु च होदि हु किट्ठी अणंतेसु ॥१६७॥
(११५) २. सव्वाओ किट्ठीओ विदियद्विदीए दु होंति सव्विस्से ।
जं किट्ठिं वेदयदे तिस्से अंसो च पढमाए ॥१६८॥

३ मूलगाहा-

(११६) किट्ठी च पदेसग्गेणणुभागग्गेण का च कालेण ।
अधिगा समा व हीणा गुणेण किं वा विसेसेण ॥१६९॥

भासगाहा-

(११७) १. विदियादो पुण पढमा संखेज्जगुणा भवे पदेसग्गे ।
विदियादो पुण तदिया क्रमेण सेसा विसेसहिया ॥१७०॥
(११८) २. विदियादो पुण पढमा संखेज्जगुणा दु वग्गणग्गेण ।
विदियादो पुण तदिया क्रमेण सेसा विसेसहिया ॥१७१॥
(११९) ३. जा हीणा अणुभागेणहिया सा वग्गणा पदेसग्गे ।
भागेणऽणंतिमेण दु अधिगा हीणा च वोद्धव्वा ॥१७२॥
(१२०) ४. कोधादिवग्गणादो सुद्धं कोधस्स उत्तरपदं तु ।
सेसो अणंतभागो णियमा तिस्से पदेसग्गे ॥१७३॥
(१२१) ५. एसो कमो च कोधे माणे णियमा च होदि मायाए ।
लोभमिह च किट्ठीए पत्तेयं होदि वोद्धव्वो ॥१७४॥
(१२२) १. पढमा च अणंतगुणा विदियादो णियमसा दु अणुभागो ।
तदियादो पुण विदिया क्रमेण सेसा गुणेणऽहिया ॥१७५॥
(१२३) १. पढमसमयकिट्ठीणं कालो वस्सं व दो व चत्तारि ।
अट्ठ च वस्साणि द्विदी विदियद्विदीए समा होदि ॥१७६॥
(१२४) २. जं किट्ठिं वेदयदे जवमज्झं सांतरं दुसु द्विदीसु ।
पढमा जं गुणसेही उत्तरसेही य विदिया दु ॥१७७॥
(१२५) ३. विदियद्विदि आदिपदा सुद्धं पुण होदि उत्तरपदं तु ।
सेसो असंखेज्जदिमो भागो तिस्से पदेसग्गे ॥१७८॥

- (१२६) ४. उदयादि या द्विदीओ णिरंतरं तासु होइ गुणसेही ।
उदयादि पदेसग्गं गुणेण गणणादियंतेण ॥१७९॥
- (१२७) ५. उदयादिसु द्विदीसु य जं कम्मं णियमसा दु तं हरस्सं ।
पविसदि द्विदिक्खएण दु गुणेण गणणादियंतेण ॥१८०॥
- (१२८) ६. वेदगकालो किट्ठीय पच्छिमाए दु णियमसा हरस्सो ।
संखेज्जदिभागेण दु सेसग्गाणं कम्मणऽधिगो ॥१८१॥

४ मूलगाहा-

- (१२९) कदिसु गदीसु भवेसु य द्विदि-अणुभागेसु वा कसाएसु ।
कम्माणि पुव्ववद्दाणि कदीसु किट्ठीसु च द्विदीसु ॥१८२॥

भासगाहा-

- (१३०) १. दोसु गदीसु अभज्जाणि दोसु भज्जाणि पुव्ववद्दाणि ।
एइंदिय कायेसु च पंचसु भज्जा ण च तसेसु ॥१८३॥
- (१३१) २. एइंदियभवग्गहणेहिं असंखेज्जेहिं णियमसा वद्धं ।
एगादेगुत्तरियं संखेज्जेहिं य तसभवेहिं ॥१८४॥
- (१३२) ३. उक्कस्सय अणुभागे द्विदि उक्कस्साणि पुव्ववद्दाणि ।
भजियव्वाणि अभज्जाणि हांति णियमा कसाएसु ॥१८५॥

५ मूलगाहा-

- (१३३) पज्जत्तापज्जत्तेण तथा त्थी पुण्णवुंसयमिस्सेण ।
सम्मत्ते मिच्छत्ते केण व जोगोवजोगेण ॥१८६॥

भासगाहा-

- (१३४) १. पज्जत्तापज्जत्ते मिच्छत्त णवुंसए च सम्मत्ते ।
कम्माणि अभज्जाणि दु त्थी-पुरिसे मिस्सगे भज्जा ॥१८७॥
- (१३५) २. ओरालिए सरीरे ओरालियमिस्सए च जोगे दु ।
चट्ठविधमण-वचिजोगे च अभज्जा सेसगे भज्जा ॥१८८॥
- (१३६) ३. अध सुद-मदि उवजोगे हांति अभज्जाणि पुव्ववद्दाणि ।
भज्जाणि च पच्चक्खेसु दोसु छट्ठमत्थणाणेसु ॥१८९॥
- (१३७) ४. कम्माणि अभज्जाणि दु अणगार-अचक्खुदंसणुवजोगे ।
अध ओहिदंसणे पुण उवजोगे हांति भज्जाणि ॥१९०॥

६ मूलगाहा-

- (१३८) किलेस्साए वद्दाणि केसु कम्पेसु वट्टमाणेण ।
सादेण असादेण च लिंगेण च कम्हि खेत्तम्मि ॥१९१॥

भासगाहा-

- (१३९) १. लेस्सा साद असादे च अभज्जा कम्म-सिप्प-लिंगे च ।
खेत्तम्मि च भज्जाणि दु समाविभागे अभज्जाणि ॥१९२॥
(१४०) २. एदाणि पुव्ववद्दाणि होंति सव्वेसु द्विदिविसेसेसु ।
सव्वेसु चाणुभागेसु णियमसा सव्वकिट्ठीसु ॥१९३॥

७ मूलगाहा-

- (१४१) एगसमयपवद्दा पुण अच्छुत्ता केत्तिगा कहिं द्विदीसु ।
भववद्दा अच्छुत्ता द्विदीसु कहिं केत्तिया होंति ॥१९४॥

भासगाहा-

- (१४२) १. छण्हं आवलियाणं अच्छुत्ता णियमसा समयपवद्दा ।
सव्वेसु द्विदिविसेसाणुभागेसु च चउण्हं पि ॥१९५॥
(१४३) २. जा चावि वज्झमाणी आवलिया होदि पढमकिट्ठीए ।
पुव्वावलिया णियमा अणंतरा चदुसु किट्ठीसु ॥१९६॥
(१४४) ३. तदिया सत्तसु किट्ठीसु चउत्थी दससु होइ किट्ठीसु ।
तेण परं सेसाओ भवंति सव्वासु किट्ठीसु ॥१९७॥
(१४५) ४. एदे समयपवद्दा अच्छुत्ता णियमसा इह भवम्मि ।
सेसा भववद्दा खलु संछुद्धा होति वोद्धव्वा ॥१९८॥

८ मूलगाहा-

- (१४६) एगसमयपवद्दाणं सेसाणि च कदिसु द्विदिविसेसेसु ।
भवसेसगाणि कदिसु च कदि कदि वा एगसमएण ॥१९९॥

भासगाहा-

- (१४७) १. एकम्मि द्विदिविसेसे भवसेसग-समयपवद्दसेसाणि ।
णियमा अणुभागेसु य भवंति सेसा अणंतेसु ॥२००॥
(१४८) २. द्विदिउत्तरसेठीए भवसेस-समयपवद्दसेसाणि ।
एगुत्तरमेगादी उत्तरसेठी असंखेज्जा ॥२०१॥

- (१४९) ३. एकम्मि द्विदिविसेसे सेसाणि ण जत्थ होंति सामण्णा ।
आवलिगा संखेज्जदिभागो तहिं तारिसो समयो ॥२०२॥
- (१५०) ४. एदेण अंतरेण दु अपच्छिमाए दु पच्छिमे समए ।
भव-समयसेसगाणि तु णियमा तम्मिह उत्तरपदाणि ॥२०३॥

९ मूलगाहा-

- (१५१) किट्ठीकदम्मि कम्मे द्विदि-अणुभागेषु केषु सेसाणि ।
कम्माणि पुव्ववद्दाणि वज्जमाणाणुदिण्णाणि ॥२०४॥

भासगाहा-

- (१५२) १. किट्ठीकदम्मि कम्मे णामा-गोदाणि वेदणीयं च ।
वस्सेसु असंखेज्जेसु सेसगा होंति संखेज्जा ॥२०५॥
- (१५३) २. किट्ठीकदम्मि कम्मे सादं सुहणाममुच्चगोदं च ।
बंधदि च सदसहस्से द्विदिमणुभागेषुदुक्कस्सं ॥२०६॥

१० मूलगाहा-

- (१५४) किट्ठीकदम्मि कम्मे के बंधदि के व वेदयदि अंसे ।
संकामेदि च के के केषु असंकामगो होदि ॥२०७॥

भासगाहा-

- (१५५) १. दससु च वस्सस्संतो बंधदि णियमा दु सेसगे अंसे ।
देसावरणीयाइं जेसिं ओवट्टणा अत्थि ॥२०८॥
- (१५६) २. चरिमो वादररागो णामा-गोदाणि वेदणीयं च ।
वस्सस्संतो बंधदि दिवसस्संतो य जं सेसं ॥२०९॥
- (१५७) ३. चरिमो य सुहुमरागो णामा-गोदाणि वेदणीयं च ।
दिवस्संतो बंधदि भिण्णमुहुत्तं तु जं सेसं ॥२१०॥
- (१५८) ४. अध सुद-मदिआवरणे च अंतराइए च देसमावरणं ।
लद्धी यं वेदयदे सव्वावरणं अलद्धी य ॥२११॥
- (१५९) ५. जसणाममुच्चगोदं वेदयदि णियमसा अणंतगुणं ।
गुणहीणमंतरायं से काले सेसगा भज्जा ॥२१२॥

११ मूलगाहा-

- (१६०) किट्ठीकदम्मि कम्मे के वीचारो दु मोहणीयस्स ।
सेसाणं कम्माणं तहेव के के दु वीचारा ॥२१३॥

१ मूलगाहा-

- (१६१) किं वेदंतो किट्टि खवेदि किं चावि संछुहंतो वा ।
संछोहणमुदएण च अणुपुव्वमणणुपुव्वं वा ॥२१४॥

भासगाहा-

- (१६२) १. पढमं विदियं तदियं वेदंतो वा वि संछुहंतो वा ।
चरिमं वेदयमाणो खवेदि उभएण सेसाओ ॥२१५॥

२ मूलगाहा-

- (१६३) जं वेदंतो किट्टि खवेदि किं चावि वंधगो तिस्से ।
जं चावि संछुहंतो तिस्से किं वंधगो होदि ॥२१६॥

भासगाहा-

- (१६४) १. जं चावि संछुहंतो खवेदि किट्टि अवंधगो तिस्से ।
सुहुमम्हि संपराए अवंधगो वंधगिदरासिं ॥२१७॥

३ मूलगाहा-

- (१६५) जं जं खवेदि किट्टि ट्टिदि-अणुभागेषु केसुदीरेदि ।
संछुहदि अण्णकिट्टिं से काले तासु अण्णासु ॥२१८॥

भासगाहा-

- (१६६) १. वंधो व संकमो वा णियमा सव्वेषु ट्टिदिविसेसेसु ।
सव्वेषु चाणुभागेषु संकमो मज्झिमो उदओ ॥२१९॥
- (१६७) २. संकामेदि उदीरेदि चावि सव्वेहिं ट्टिदिविसेसेहिं ।
क्किट्टीए अणुभागे वेदंतो मज्झिमो णियमो ॥२२०॥
- (१६८) ३. ओकड्ढिदे जे अंसे से काले किण्णु ते पवेसेदि ।
ओकड्ढिदे च पुव्वं सरिसमसरिसे पवेसेदि ॥२२१॥
- (१६९) ४. उकड्ढिदे जे अंसे से काले किण्णु ते पवेसेदि ।
उकड्ढिदे च पुव्वं सरिसमसरिसे पवेसेदि ॥२२२॥
- (१७०) ५. वंधो व संकमो वा उदयो वा तह पदेस-अणुभागे ।
वहुगत्ते थोवत्ते जहेव पुव्वं तहेवेहिं ॥२२३॥
- (१७१) ६. जो कम्मंसो पविसदि पओगसा तेण णियमसा अहिओ ।
पविसदि ट्टिदिक्खएण दु गुणेण गणणादियंतेण ॥२२४॥

- (१७२) ७. आवलियं च पविट्टं पयोगसा णियमसा च उदयादी ।
उदयादि पदेसग्गं गुणेण गणणादियंतेण ॥२२५॥
- (१७३) ८. जा वग्गणा उदीरेदि अणंता तासु संक्रमदि एक्का ।
पुव्वपविट्टा णियमा एकस्से होंति च अणंता ॥२२६॥
- (१७४) ९. जे चावि य अणुभागा उदीरिदा णियमसा पओगेण ।
तेयप्पा अणुभागा पुव्वपविट्टा परिणमंति ॥२२७॥
- (१७५) १०. पच्छिम-आवलियाए समयूणाए दु जे य अणुभागा ।
उक्कस्स हेट्ठिमा मज्झिमासु णियमा परिणमंति ॥२२८॥

४ मूलगाहा-

- (१७६) किट्ठीदो किट्ठिं पुण संक्रमदि खएण किं पयोगेण ।
किं सेसग्ग्हि किट्ठी य संक्रमो होदि अणिस्से ॥२२९॥

आसगाहा-

- (१७७) १. किट्ठीदो किट्ठिं पुण संक्रमदे णियमसा पओगेण ।
किट्ठीए सेसग्गं पुण दो आवलियासु जं वट्ठं ॥२३०॥
- (१७८) २. समयूणा च पविट्टा आवलिया होदि पढमकिट्ठीए ।
पुण्णा जं वेदयदे एवं दो संक्रमे होंति ॥२३१॥

१ खीणमोहपडिवट्ठा मूलगाहा-

- (१७९) खीणेषु कसाएसु य सेसाणं के व होंति वीचारा ।
खवणा व अखवणा वा वंधोदयणिज्जरा वापि ॥२३२॥

१ संगहणी मूलगाहा-

- (१८०) संक्रामणमोवट्ठण किट्ठीखवणाए खीणमोहंते ।
खवणा य आपुपुव्वी वोद्धव्वा मोहणीयस्स ॥२३३॥

एवं कसायपाहुडं समत्तं

खवणाहियार-चूलिया

अणमिच्छ मिस्रस सम्मं अद्दु णवुंसित्थिवेदछकं च ।
 पुवेदं च खवेदि हु कोहादीए च संजलणे ॥ १ ॥
 अथ थीणगिद्धिकम्मं णिदाणिदा य पयल-पयला य ।
 अथ णिरय-तिरियणामा झीणा संछोहणादीसु ॥ २ ॥
 सव्वस्स मोहणीयस्स आणुपुव्वी य संक्रमो होइ ।
 लोभकसाए णियमा असंक्रमो होइ वोद्धव्वो ॥ ३ ॥
 संछुहदि पुरिसवेदे इत्थीवेदं णवुंसयं चव ।
 सत्तेव णोकसाए णियमा क्रोधम्मिह संछुहदि ॥ ४ ॥
 कोहं च छुहइ माणे माणं मायाए णियमसा छुहइ ।
 मायं च छुहइ लोहे पडिलोमो संक्रमो णत्थि ॥ ५ ॥
 जो जम्मिह संछुहंतो णियमा वंधम्मिह होइ संछुहणा ।
 वंधेण हीणदरगे अहिए वा संक्रमो णत्थि ॥ ६ ॥
 वंधेण होइ उदओ अहिओ उदएण संक्रमो अहिओ ।
 गुणसेट्ठि अणंतगुणा वोद्धव्वा होइ अणुभागे ॥ ७ ॥
 वंधेण होइ उदओ अहिओ उदएण संक्रमो अहिओ ।
 गुणसेट्ठि असंखेज्जा च पदेसग्गेण वोद्धव्वा ॥ ८ ॥
 उदयो च अणंतगुणो संपहिवंधेण होइ अणुभागे ।
 से काले उदयादो संपहिवंधो अणंतगुणो ॥ ९ ॥
 चरिमे वादररागे णामा-गोद्दाणि वेदणीयं च ।
 वस्सस्संतो वंधदि दिवसस्संतो य जं सेसं ॥१०॥
 जं चावि संछुहंतो खवेइ किट्ठि अवंधगो तिस्से ।
 सुहुमम्मिह संपराए अवंधगो वंधगियराणं ॥११॥
 जाव ण छुदुमत्थादो तिण्हं वादीण वेदगो होइ ।
 अधऽणंतरेण खइया सव्वण्हू सव्वदरिसी य ॥१२॥

सचूलियं कसायपाहुडं समत्तं

२ गाथानुक्रमणिका

गाथा-चरण	गाथाङ्क	पृष्ठ	गाथा-चरण	गाथाङ्क	पृष्ठ
अट्ट दुग तिग चटुक्के	३७	२६८	एक्कम्हि य अणुभागे	६६	५५८
अट्टारस चोदसयं	५१	२७८	एक्केक्कम्हि य ट्टाणे	४०	२७२
अट्टावीस चउवीस	२७	२६०	एक्कम्हि भवग्गहणे	६४	५५७
अण मिच्छ मिस्स सम्मं	१	८९७	एक्केक्काए संकमो	२५	२५२
अणुपुव्वमणणुपुव्वं	३९	२७१	एगसमयपवव्जाणं	१९९	८३२
अथ थीणगिद्धि कम्मं	१२८	७५९	एगसमयपवव्जा	१९४	८२९
अथ थीणगिद्धि कम्मं	२	८९७	एत्तो अवसेसा संजमम्हि	३४	२६६
अथ सुदमदि-आवरणे	२११	८७५	एदाणि पुव्ववद्दाणि	१९३	८२८
अथ सुदमदि उवजोगे	१८९	८२६	एदेण अंतरेण दु	२०३	८३६
अवगयवेद णवुंसय	४५	२७४	एदे समयपवव्जा	१९८	८३२
असण्णी खलु वंधइ	८५	६०५	एदेसिं ट्टाणाणं कदमं	८१	६०४
आवलिय अणायारे	१५	२९	एदेसिं ट्टाणाणं चटुसु	७४	६००
आवलियं च पविट्ठं	२२५	८८६	एवं ढव्वे खेत्ते काले	५८	२८७
आहारय भविएसु य	४८	२७७	एसो कमो च कोधे	१७४	८१५
उक्कडुदि जे अंसे	२२२	८८४	एसो कमो च माणे	८०	६०३
उक्कस्सय अणुभागे	१८५	८२४	ओक्कडुदि जे अंसे	१५४	७७७
उगुवीसट्टारसयं	५०	२७८	ओक्कडुदि जे अंसे	२२१	८८३
उदओ च अणंतगुणो	१४५	{ ७७० ८९९	ओरालिए सरारे	१८८	८२५
उदयादि या ट्टिदीओ	१७९	८१८	ओवट्टणमुव्वट्टण	१६१	७८७
उदयादिसु ट्टिदीसु य	१८०	८१९	ओवट्टणा जहणणा	१५२	७७४
उवजोगवग्गणाओ	६५	५५७	ओवट्टेदि ट्टिदिं ट्टिदि	१५८	७८२
उवजोगवग्गणाहि च	६९	५५९	अंतोमुहुत्तमद्धं	१०३	६३४
उवसामगो च सव्वो	९७	६३१	अंतोमुहुत्तमद्धं दंसण-	११२	६४०
उवसामणा कदिविधा	११६	६७६	कदि आवलियं पवेसेइ	५९	४६३
उवसामणाखणण दु	१२२	६७७	कदि कम्हि हांति ठाणा	४१	२५२
उवसामणाक्खणण दु	१२३	६७७	कदि भागुवसामिज्जदि	११७	६७६
एइंदियभवग्गहणेहिं	१८४	८२३	कदि पयडीयो वंधदि	२३	२४८
एक्कं च ट्टिदिविसेसं	१५५	७७८	कदिसु च अणुभागेसु	१६६	८०८
एक्कं च ट्टिदिविसेसं तु	१५६	७७८	कम्मंसियट्टाणेसु य	५६	२८०
एक्कम्मि ट्टिदिविसेसे	२००	८३३	कम्माणि अभज्जाणि दु	१९०	८२६
एक्कम्मि ट्टिदिविसेसे	२०२	८३४	कम्माणि जस्स तिणिण दु	१०६	६३६
			काणि वा पुव्ववद्दाणि	९२	६१४
			कामो राग णिदाणो	८९	६१२

गाथा-चरण	गाथाङ्क	पृष्ठ	गाथा-चरण	गाथाङ्क	पृष्ठ
किं अंतरं करंतो	१५१	७७३	चत्तारि तिग चडुक्के	३८	२६९
किंट्टिदियाणि कम्माणि	९४	६१५	चत्तारि य खवणाए पक्का	८	९
किंलेस्साए वज्जाणि	१९१	८२७	चत्तारि य पट्टवण	७	८
किं वेदेतो किंट्टि	२१४	८७९	चत्तारि वेदयम्मि डु	४	६
किट्टीकदम्मि कम्मे	२०४	८४८	चट्टुर दुगं तेवीसा	४३	२७३
किट्टीकदम्मि कम्मे	२०५	८४९	चरिमो वादररागो	२४४	८९९
किट्टीकदम्मि कम्मे	२०६	८५०	चरिमो वादररागो	२०९	८७४
किट्टीकदम्मि कम्मे	२०७	८७३	चरिमो य सुहुमरागो	२१०	८७५
किट्टीकदम्मि कम्मे	२१३	८७८	चोहसग णवगमादी	५२	२७८
किट्टीकयवीचारे	९	१०	चोहसग दसग सत्तग	३२	२६५
किट्टी करेदि णियमा	१६४	८०७	छण्हं आवलियाणं	१९५	८२९
किट्टी च ट्टिदिवसेसेसु	१६७	८०९	छञ्चीस सत्तवीसा य	२९	२६३
किट्टी च पदेसग्गेण	१६९	८११	छञ्चीस सत्तवीसा तेवीसा	४९	२७७
किट्टीदो किंट्टि पुण	२२९	८८९	जसणाममुच्चगोदं	२१२	८७७
किट्टीदो किंट्टि पुण	२३०	८९०	जा चावि वज्जमाणी	११६	८३१
किमिरागरत्तसमगो	७३	५९९	जा वग्गणा उदीरेदि	२२६	८८६
के अंसे झीयदे पुच्चं	९३	६१५	जाव ण छट्टुमत्थादा	१२	८९९
केच्चिरमुवसामिज्जदि	११८	६७६	जा हीणा अणुभागेण	१७२	८१४
केवचिरं उवजोगो	६३	५५६	जे चावि य अणुभागा	२२७	८८७
केवडिया उवजुत्ता	६७	५५८	जे जे जम्मिह कसाए	६८	५५९
केवदिया किट्टीओ	१६२	८०५	जो कम्मंसां पविसदि	२२४	८८५
केवलदंसण-णाणे	१६	३०	जो जम्मिह संछुहंतो	१४०	{ ७६५ ८९८
को कदमाए ट्टिदीए	६०	४६६	जो जं संकामेदि य	६२	४६६
कोधादिवग्गणादो	१७३	८१४	जं किंट्टि वेदयदे	१७७	८१७
कोहादी उवजोगो	६४	२७६	जं चावि संछुहंतो	२१७	८९९
कोहो चउत्थिव्हो वुत्तो	७०	५९७	ज चावि संछुहंतो	२१७	{ ८८१ ८९९
कोहो य कोव रोसो य	८६	६११	जं जं खवेदि किंट्टि	२१८	८८२
कोहं च छुहइ माणे	१३९	{ ७६५ ८९८	जं वेदेतो किंट्टि	२१६	७८१
कं करणं वोच्चिज्जदि	११९	६७६	झीणाट्टिदिकम्मंसे	१२६	७५७
कं टाणं वेदेतो	८४	६०५	ट्टिदि-अणुभागे अंसे	१५७	७८२
खवणाए पट्टवगो जम्मिह	११३	६४१	ट्टिदि उत्तरसेहीए	२०१	८३४
खीणेषु कसाएसु य	२३२	८९५	णग-पुढवि-चालुगोदय	७१	५९७
गाहासदे असीदे	२	४	णव अट्ठ सत्त छक्कं	५३	२७८
गुणदो अणंतगुणहीणं	१५०	७७३	णाणम्मिह य तेवीसा	४७	२७७
गुणसेहि अणंतगुणा	१६५	८०७	णिहा य णीचगोदं	१३४	७६२
गुणसेहि अणंतगुणे-	१४६	७७०	णियमा लदासमादो	७६	६०१
गुणसेहि असंखेज्जा च	१४९	७७२	णियमा लदासमादो	७६	६०२
चक्खु सुदं पुधत्तं	२०	३२			

गाथा-चरण	गाथाङ्क	पृष्ठ	गाथा-चरण	गाथाङ्क	पृष्ठ
णिरयगङ्ग-अमर-पंचिदिपसु	४२	२७३	बंधो व संकमो वा	२२३	८८५
णिन्वावादेणेद्रा हांति	१९	३२	भय सोगमरदि-रदिगं	१३१	७६०
तदिया सत्तसु किट्टीसु	१९७	८३२	माणद्धा कोहद्धा	१७	३१
तिणिण य चउरो तह दुग	१२	१०	माण मद द्वाप थंभो	८७	६११
तेरसय णव य सत्त य	३३	२६५	माणे लदासमाणे	७५	६०१
तेवीस सुक्कलेस्से छकं	४४	२७४	माया य सादिजोगो	८८	६१२
दससु च वस्सस्संतो	२०८	८७३	मिच्छत्तपच्चयो रल्लु	१०१	६३३
दिट्ठे सुण्णासुण्णे	५५	२७९	मिच्छत्त वेदणीयं कम्मं	९९	६३२
हुविहो खलु पडिवादो	१२१	६७७	मिच्छत्तवेदणीये कम्मं	१११	६४०
दोसु गदीसु अन्नजाणि	१८३	८२१	मिच्छाइट्ठी णियमा	१०८	६३७
दंसणमोहउवसामगरस्स	९१	६१४	लद्धी य संजमासंजमस्स	६	८
दंसणमोहक्खवणापड्डवगो	११०	६३९	लद्धी य संजमासंजमस्स	११५	६५८
दंसणमोहस्सुवसामणाए	५	७	लेस्सा साद असादे च	१२२	८२७
दंसणमोहस्सुवसामगो	९५	६३०	वहीदु होदि हाणी	१६०	७८५
पच्छिम-आवलियाए	२२८	८८८	वस्ससदसहस्सादं	१३१	७६०
पज्जत्तापज्जत्तेण	१८६	८२५	वावीस पण्णरसगे	३१	२६४
पज्जत्तापज्जत्ते मिच्छत्त	१८७	८२५	विदियट्ठिट्ठि आदिपदा	१७८	८१८
पडिवादो च कदिवियो	१०२	६७७	विदियादो पुण पढमा	१७०	८११
पढमसमयकिट्ठीणं	१७६	८१६	विदियादो पुण पढमा	१७१	८१३
पढमा च अणंतगुणा	१८५	८१६	विरदीय अविस्दीए	८३	६०४
पढमं विदियं तदियं	२१५	८८०	वेद्गकालो किट्ठीय	१८१	८१९
पयडि-पयडिट्ठाणेसु	२६	२५२	वेदे च वेदणीए सव्वावरणे	१३५	७६३
पयडीए मोहणिज्जा	२२	४८	वंसी जण्हुगसरिसी	७२	५८९
पुव्वम्मि पंचम्मि दु	१	१	सणीसु असणीसु य	८२	६०४
पेज्ज-दोसविहत्ती	३	५	सत्त य छकं पणनं	५४	२७८
पेज्ज-दोसविहत्ती	१३	१३	सत्तारस्सेगवीसासु संकामो	३०	२६३
पेज्जं वा दोसो वा	२१	३४	समयूणा च पविट्ठा	२३१	८८९
पंच चउक्के वारस	३६	२६७	सम्मत्त देसविरथी संजम	१४	१३
पंच य तिणिण य दो	११	१०	सम्मत्तपढमलंभो	१०४	६३५
पंचसु च ऊणवीसा	३५	२६७	सम्मत्तपढमलंभस्सऽणंतरं	१०५	६३५
वहुगदरं बहुगदरं से काले	६१	४६६	सम्मामिच्छाइट्ठी	१०२	६३४
वारस णव छ तिणिण य	१६३	८०६	सम्मामिच्छाइट्ठी	१०७	६३७
बंधेण होइ उदओ	१४३	७६९	सम्मामिच्छाइट्ठी	१०९	६३८
बंधेण होइ उदओ	१४४	{ ७६९ ८९८	सव्वणिरय-भवणेसु य	९६	६३०
बंधोदरहिं णियमा	१४८	७७२	सव्वस्स मोहणीयस्स	१३६	७६४
बंधो व संकमो वा	१४२	७६८	सव्वस्स मोहणीयस्स	३	८९७
बंधो व संकमो वा	१४७	७७१	सव्वाओ किट्ठीओ	१६८	८१०
बंधो व संकमो वा	२१९	८८२	सव्वावरणीयं पुण	७९	६०३
			सव्वावरणीयाणं जेसिं	१३३	७६१

गाथा-चरण	गाथाङ्क	पृष्ठ	गाथा-चरण	गाथाङ्क	पृष्ठ
सर्व्वे चि य अणुभागं	१५९	७८३	संकामण ओवट्टण	१०	१०
सर्व्वेहि द्विदिविसेसेहि	१००	६३३	संकामण ओवट्टण	१८	३१
सागारं पट्टवगो णिट्टवगो	९८	६३२	संकामणमोवट्टण	२३३	८९५
सादि जहणसंकम	५७	२८७	संकामयपट्टवगस्स	१२४	७५६
सासद् पत्थण लालस	९०	६१२	संकामेदि उदीरेदि	२२०	८८३
सोलसग वारसट्टग वीसं	२८	२६१	संकामेदुक्कट्टदि जे अंसे	१५३	७७७
संकम उवक्कमविही	२४	२५२	संकंतमिह य णियमा	१२९	७५९
संकामणपट्टवगस्स	१२५	७६७	संखेज्जा च मणुस्सेसु	११४	६४१
संकाप्रगपट्टवगस्स	१२७	७५८	संखुहदि पुरिसवेदे	१३८	{ ७६५ ८९८
संकामणपट्टवगो	१४१	७६७	संधीदो संधी पुण	७८	६०३
संकाप्रगपट्टवगो कं	१३०	७६०			
सकामगो च कोथं माणं	१३७	७६४			

३ चूर्णि-उद्धृत-गाथा-सूची

एकग छक्केकारस
पंचादि-अट्टणिट्टणा
सत्तादि-दसुक्कस्सा

४७३
,,
,,

कर्मप्रवाद
कर्मप्रकृति

७०८
७०८

४ ग्रन्थनामोल्लेख

५ विशिष्ट-प्रकरण-उल्लेख

- (१) पृ० १०३, सू० ६२-सेसं जहा उदीरणाए तथा कायव्वं ।
- (२) पृ० १११, सू० १४०-सेसाणि जहा उदीरणा तथा णेदव्वाणि ।
- (३) पृ० १७१, सू० १४८-अण्णावहुअमुक्कस्सयं जहा उक्कस्सवंधे तथा ।
- (४) पृ० १७४, सू० १८४-सेसाणि जधा सम्मादिट्टीए वंधे तथा णेदव्वाणि ।
- (५) पृ० २४९, सू० ११-सो पुण पयडि-द्विदि-अणुभाग-पदेसवंधो बहुसो परुविदो ।
- (६) पृ० ३१८, सू० ४१ -एत्तो अट्टाछेदो । जहा उक्कस्सियाए द्विदीए उदीरणा तथा उक्कस्सओ द्विदिसंकमो ।
- (७) पृ० ३१९, सू० ५२-उक्कस्सट्टिदिसंकामयस्स सामित्तं जहा उक्कस्सियाए द्विदीए उदीरणा तथा णेदव्वं ।
- (८) पृ० ३२२, सू० ७६-जहा उक्कस्सिया द्विदि-उदीरणा तथा उक्कस्सओ द्विदिसंकमो ।
- (९) पृ० ३२३, सू० ८९-तेसिमट्टपदं काऊण उक्कस्सओ जहा उक्कस्सट्टिदि-उदीरणा तथा कायव्वा ।
- (१०) पृ० ३६८, सू० २२८-जहा उक्कस्साणुभागविहत्ती तथा उक्कस्साणुभागसंकमो ।
- (११) पृ० ३७३, सू० २९०-सेसाणं जहा सम्माइट्टिवंधे तथा कायव्वो ।
- (१२) पृ० ३९४, सू० ५४०-अण्णावहुअं जहा सम्माइट्टिगे वंधे तथा ।

६ विशिष्ट-समर्पण-सूत्र-सूची

(जिनके आधार पर अधिकांश उच्चारणा-वृत्तिका निर्माण हुआ है ।)

(१) पृ० २६, सू० ७२-७८-एतथ छ अणियोगद्वाराणि । किं कसाओ ? कस्स कसाओ ? केण कसाओ ? कम्हि कसाओ ? केवचिरं कसाओ ? कइविहो कसाओ ?

(२) पृ० ४१, सू० ११२-एवं सञ्वाणियोगद्वाराणि अणुगंतञ्वाणि ।

(३) पृ० ५०, सू० ३४-३५-मूलपयडिविहत्तीए इमाणि अट्ट अणियोगद्वाराणि । तं जहा-सामित्तं कालो अंतरं णाणाजीवेहि भंगविचओ कालो अंतरं भागाभागो अप्पावहुणे त्ति । एदेसु अणियोगद्वारेसु परूविदेसु मूलपयडिविहत्ती समत्ता होदि ।

(४) पृ० ५१, सू० ३७-३८-तदो उत्तरपयडिविहत्ती दुविहा-एगेगउत्तरपयडिविहत्ती चेव पयडिद्वानउत्तरपयडिविहत्ती चेव । तत्थ एगेगउत्तरपयडिविहत्तीए इमाणि अणियोगद्वाराणि । तं जहा-एगजीवेण सामित्तं कालो अंतरं णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमो परिमाणुगमो खेत्ताणुगमो पोसणाणुगमो कालाणुगमो अंतराणुगमो सण्णियासो अप्पावहुए त्ति । एदेसु अणियोगद्वारेसु परूविदेसु तदो एगेगउत्तरपयडिविहत्ती समत्ता ।

(५) पृ० ७९, सू० १२९. एवं सञ्वाणि अणियोगद्वाराणि णेदव्वाणि । १३०. पदणिक्खेवो वट्ठीए च अणुमग्गिदाए समत्ता पयडिविहत्ती ।

(६) पृ० ९१, सू० ५. एदाणि चेव उत्तरपयडिद्विदिविहत्तीए कादव्वाणि ।

(७) पृ० १४७, सू० २. एत्तो मूलपयडिअणुभागविहत्ती भाणिदव्वा ।

(८) पृ० १७७, सू० २. तत्थ मूलपयडिपदेसविहत्तीए गदाए ।

(९) पृ० १९९, सू० ११०. एवं सेसाणं कम्माणं णेदव्वं । ११२. अंतरं जहण्णयं जाणिदूण णेदव्वं । ११३. णाणाजीवेहि भंगविचयो दुविहो जहण्णुक्कस्सभेदेहि । अट्टपदं कादूण सव्वकम्माणं णेदव्वो । ११४. सव्वकम्माणं णाणाजीवेहि कालो कायव्वो ।

(१०) पृ० २११, सू० २९१. एत्तो भुजगारं पदणिक्खेव-वट्ठीओ च कायव्वाओ ।

(११) पृ० ३४८, सू० २९. एदेण अट्टपदेण मूलपयडिअणुभागसंकमो । ३०. तत्थ च तेवीसमणियोगद्वाराणि सण्णा जाव अप्पावहुए त्ति । ३१. भुजगारो पदणिक्खेवो वट्ठी त्ति भाणिदव्वो ।

(१२) पृ० ३६१, सू० १५२. एवं सेसाणं कम्माणं णादूण णेदव्वं ।

(१३) पृ० ३६४. सू० १७३. एवं सेसाणं कम्माणं । १७४. णवरि सम्मत्त-सम्मा-मिच्चत्ताणं संकामगा-पुव्वं त्ति भाणिदव्वं ।

(१४) पृ० ४११, सू० ७७. सेसाणं कम्माणं जाणिदूण णेदव्वं ।

(१५) पृ० ४३२, सू० ३६५. एवं चदुसु गदीसु ओघेण साधेदूण णेदव्वो ।

(१६) पृ० ४३८, सू० ४४२. गदीसु च साहेयव्वं ।

(१७) पृ० ४४०, सू० ४६६. णाणाजीवेहि कालो एदाणुमाणिय णेदव्वो ।

(१८) पृ० ४५६, सू० ६३२. सामित्ते अप्पावहुए च विहासिदे वट्ठी समत्ता भवदि ।

(१९) पृ० ४६७, सू० ९. एदाणि वेवि पत्तेगं चउवीसमणियोगद्वारेहि मग्गिऊण । १०. तदो पयडिद्वानउदीरणा कायव्वा ।

(२०) पृ० ४८२, सू० १०८. णाणाजीवेहि भंगविचयादि-अणियोगद्वाराणि अप्पा-वहुअवज्जाणि कायव्वाणि । ११४. पदणिक्खेव-वट्ठीओ कादव्वाओ ।

(२१) पृ० ४९१, सू० १६३. एवमणुमाणिय सामित्तं णेदव्वं ।

(२२) पृ० ४९५, सू० १९२. अंतरमणुचिंतिरुण णेद्वं ।

(२३) पृ० ४९६, सू० १९६. णाणाजीवेहि कालो अंतरं च अणुचिंतिरुण णेद्वं ।

(२४) पृ० ४९८, सू० २१६. भुजगारो कायव्वो । २१७. पदणिकखेवो कायव्वो ।

२१८. वट्ठी वि कायव्वा ।

(२५) पृ० ५००, सू० २३४. एत्थ मूलपयडि-अणुभागउदीरणा भाणियव्वा ।

(२६) पृ० ५१२, सू० ३२८. णाणाजीवेहि भंगविचओ भागाभागो परिमाणं खेत्तं फोसणं कालो अंतरं सण्णियासो च पदाणि कादव्वाणि ।

(२७) पृ० ५१९, सू० ३८४. मूलपयडिपदेसुदीरणं मग्गियूण । ३८५. तदो उत्तर पयडिपदेसुदीरणा च समुक्कित्तादिअप्पावहुअंतेहि अणिओगद्वारेहि मग्गियव्वा ।

(२८) पृ० ५२४, सू० ४४०. एवं सेसासु गदीसु उदीरगो साहेयव्वो ।

(२९) पृ० ५२६, सू० ४५५. सेसेहि कम्मेहि अणुमग्गियूण णेद्वं । ४५६. णाणाजीवेहि भंगविचयो भागाभागो परिमाणं खेत्तं पोसणं कालो अंतरं च पदाणि भाणिदव्वाणि ।

(३०) पृ० ५५३, सू० ६५७. एवं भाण-भायासंजलण-पुरिसवेदाणं वंजणदो च अत्थदो च कायव्वं ।

(३१) पृ० ५८३, सू० २२३. एत्तो छत्तीसपदेहि अप्पावहुअं कायव्वं ।

(३२) पृ० ५८५, सू० २३५. सेसाणि सूचणाणुमाणेण कायव्वाणि ।

(३३) पृ० ५८६, सू० २३६. कसायोवजुत्ते अट्ठहि अणिओगद्वारेहि गदि-इंदिय-काय-जोग-वेद-णाण-संजम-दंसण-लेस्स-भविथ-सम्मत्त-सण्णि-आहारा त्ति एदेसु तेरससु अणुगमेसु मग्गियूण । २३७. महादंडयं च काट्टूण समत्ता पंचमी गाहा ।

(३४) पृ० ५९०, सू० २७२. एत्तो वादालीसपदप्पावहुअं कायव्वं ।

(३५) पृ० ६१०, सू० २४. एदाणुमाणियं सेसाणं पि कसायाणं कायव्वं ।

(३६) पृ० ६१६, सू० २१. एत्थ पयडिसंतकम्मं द्विदिसंतकम्मणुभागसंतकम्मं पदेससंतकम्मं च मग्गियव्वं ।

(३७) पृ० ६१६, सू० २३. एत्थ पयडिवंधो द्विदिवंधो अणुभागबंधो पदेसबंधो च मग्गियव्वो ।

(३८) पृ० ६३८, सू० १३९. तदो उवसमसम्माइट्ठि-वेदय-सम्माइट्ठि-सम्मामिच्छाइट्ठिहि एयजीवेण सामित्तं कालो अंतरं णाणाजीवेहि भंगविचओ कालो अंतरं अप्पावहुअं चेदि ।

१४० एदेसु अणियोगद्वारेसु वण्णिदेसु दंसणमोहउवसामणे त्ति समत्तमणियोगद्वारं ।

(३९) पृ० ६४२, सू० ८. एदाणि ओट्टेदूण अधापवत्तकरणस्स लक्खणं भाणियव्वं ।

(४०) पृ० ६५७, सू० १२६. एदम्हि दंडय समत्ते सुत्तगाहाओ अणुसंवण्णेदव्वाओ ।

(४१) पृ० ६५७, सू० १२७ संखेज्जा च मणुस्सेसु खीणमोहा सहस्ससो णियमा त्ति एदिस्से गाहाए अट्ट अणियोगद्वाराणि । तं जहा-संतपरुवणा दव्वपमाणं खेत्तं फोसणं कालो अंतरं भागाभागो अप्पावहुअं च । १२८. एदेसु अणिओगद्वारेसु वण्णिदेसु दंसणमोहक्खवणा त्ति समत्तमणियोगद्वारं ।

(४२) पृ० ६६५, सू० ५३. संजदासंजदाणमट्ट अणिओगद्वाराणि । तं जहा-संतपरुवणा दव्वपमाणं खेत्तं फोसणं कालो अंतरं भागाभागो अप्पावहुअं च । ५४ एदेसु अणिओगद्वारेसु समत्तेसु तिब्बमंददाए सामित्तमप्पावहुअं च कायव्वं ।

(४३) पृ० ६३२, सू० ३९. एत्तो चरित्तलद्धिगाणं जीवाणं अट्ट अणिओगद्वाराणि । ४०. तं जहा संतपरुवणा दव्वं खेत्तं पोसणं कालो अंतरं भागाभागो अप्पावहुअं च अणुगंतव्वं ।

(४४) पृ० ६७८, सू० १५. तदो दंसणमोहणीममुवसामेतंस्स जाणि करणाणि पुव्व-
परुविदाणि ताणि सञ्चाणि इमस्स वि परुवेयञ्चाणि ।

(४५) पृ० ७११, सू० ३५२. इत्थिवेदस्स वि णिरवयवमेदमप्पावहुअमणुअंतव्वं । ३५३.
अट्टकसाय-लुण्णोकसायाणमुदयमुदीरणं च मोत्तूण एवं चेव वत्तव्वं । ३५४. पुरिसवेद-चहु-
संजलणानं च जाणिदूण णेदव्वं । ३५५. णवरि वंधपदस्स तथ्य सव्वत्थोवत्तं दट्टव्वं ।

(४६) पृ० ७१३, सू० ३६८. केच्चिरमुवसामिज्जदि संकमणमुदीरणा च केवच्चिरं ति
एदग्धि सुत्ते विहासिज्जमाणे एदाणि चेव अट्टकरणाणि उत्तरपयडीणं पुव पुध विहा-
सियञ्चाणि ।

(४७) पृ० ७३९, सू० २३. एत्थ (चरित्तमोहकखवणापट्टवगविसये) पयडिसंतकम्मां
द्विदिसंतकम्मणुभागसंतकम्मं पदेससंतकम्मं च मग्गियव्वं । २५. एत्थ पयडिवंधो द्विदिवंधो
अणुभागवंधो पदेसवंधो च मग्गियव्वो ।

(४८) पृ० ८२३, सू० ८५९. एत्तो एक्केकाए गदीए काएहिं च समज्जिदल्लभगस्स
पदेसग्गस्स पमाणाणुगमो च अप्पावहुअं च कायव्वं ।

७ पवाइज्जंत-अपवाइज्जंत-उपदेशोल्लेख

(१) पृ० ५६२, सू० १९. पवाइज्जंतं उवदेसेण अद्धाणं विसेसो अंतोमुहुत्तं । २०.
तेणेव उवदेसेण चउगइसमासेण अप्पावहुअं भणिहिदि ।

(२) पृ० ५६४, सू० ४५. तेसिं जेव उवदेसेण चोदसजीवसमासेहिं दंडगो भणिहिदि ।

(३) पृ० ५८०, सू० १८५. एत्थ विहासाए दोणिण उवएसा । १८६. एक्केण उवएसेण
जो कससो सो अणुभागो ।

(४) पृ० ५८१, सू० १९८. एक्केण उवएसेण चउत्थीए गाहाए विहासा समत्ता
भवदि । १९९. पवाइज्जंतं उवएसेण चउत्थीए गाहाए विहासा ।

(५) पृ० ५९६, सू० ३२०. एसो विसेसो एक्केण उवदेसेण पलिदोवमस्स असंखे-
ज्जदिभागपडिभागो । ३२१. पवाइज्जंतं उवदेसेण आवलियाए असंखेज्जदिभागो ।

(६) पृ० ६४९, सू० ५८. ताथे सम्मत्तस्स दोणिण उवदेसा । के वि भणंति संखेज्जाणि
वस्ससहस्साणि द्विदाणि त्ति । पवाइज्जंतं उवदेसेण अट्टवस्साणि सम्मत्तस्स सेसाणि ।
X X X ६०. अट्टवस्सउवदेसेण परुविज्जिहिदि ।

(७) पृ० ७३९, सू० १५. एक्को उवएसो णियमा सुदोवजुत्तो होदूण खवगसेहिं चढदि
त्ति । १६. एक्को उवदेसो सुदेण वा, मदीए वा, चक्खुदंसणेण वा अचक्खुदंसणेण वा ।

(८) पृ० ८३८, सू० ९६५. एत्थ दुविहो उवएसो । ९६६. एक्केण उवदेसेण कम्मट्टि-
दीए असंखेज्जा भागा णिल्लेवणट्टाणाणि । ९६७. एक्केण उवएसेण पलिदोवमस्स असंखे-
ज्जदिभागो । ९६८. जो पवाइज्ज उवएसो तेण उवदेसेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो,
असंखेज्जाणि वग्गमूलाणि णिल्लेवणट्टाणाणि ।

